

जैनाचार्य-जैनधर्मद्विवाकर-पूज्यश्री-घासीलालजी-महाराज-
विरचितया प्रमेयवांगिन्याख्यया व्याख्यया समलङ्कृत
हिन्दी-गुर्जर-भाषाऽनुवादसहितम्

॥ श्री-प्रज्ञापनासूत्रम् ॥

(द्वितीयो भागः)

नियोजक

संस्कृत-प्राकृतज्ञ-जैनागमनिष्णात-प्रियव्याख्यानि
पण्डितमुनि-श्रीकन्हैयालालजी-महाराजः

प्रकाशक

वढवाणशहेरनिवासि-श्रेष्ठिश्रीमणीलाल पोपटलाल बोरा
प्रदत्त-द्रव्यसाहाय्येन
अ० भा० श्वे० स्था० जैनशास्त्रोद्धारसमितिप्रमुखः
श्रेष्ठि-श्रीशान्तिलाल मङ्गलदासभाई-महोदयः
मु० राजकोट

प्रथम-आवृत्ति
प्रति १२००

द्वितीय-संवत्
२५००

तृतीय-संवत्
२०३२

चतुर्थ-संवत्
१९७५

मूल्यम्-रु० ४०-००

भगवानुं ठेकाळुं :
श्री अ. सा. स्वे. स्थानकेवारी
नैनशास्त्रोद्धार समिति,
ठे. गरेडिया कुवा रोड,
राजकोट, (सौराष्ट्र)

Published by :
Shri Akhil Bharat S S.
Jain Shastroddhara Samiti,
Garedia Kuva Road, RAJKOT,
(Saurashtra), W Ry, India.

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां,
जानन्ति ते किमपि तान् प्रति नैष यत्नः ।
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा,
कालोद्धार्यं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ॥ १ ॥

हरिगीतच्छन्दः

करते अवज्ञा जो हमारी यत्न ना उनके लिये ।
जो जानते है तत्त्व कुछ फिर यत्न ना उनके लिये ॥
जनमेगा मुझसा व्यक्ति कोई तत्त्व इससे पायगा ।
है काल निरवधि विपुलपृथ्वी ध्यान में यह लायगा ॥ १ ॥

मूल्या ३, ४०-००

प्रथम आवृत्ति प्रत १२००
वीर संवत् २५००
विक्रम संवत् २०३२
धनवीसनू १९७५

• मुद्रक :
भण्डुलाल छगनदास शाह
नवप्रभात प्रिन्टींग प्रेस,
धीरठाटा रोड, अमदावाड,

શ્રીયુત્ મણીલાલ પોપટલાલ વોરાનો સંક્ષિપ્ત પરિચય

વઠવાણ શહેરમા શ્રાવક ધર્મપરાયણ પોપટલાલ જેઠાંભાઈ નામના એક સુશ્રાવક વણિક ગૃહસ્થ રહેતા હતા જેઓ સદા જૈનધર્મમાં અટલ શ્રદ્ધા યુક્ત બની વણિકવૃત્તિથી (આપારથી) પોતાના કુટુંબની આજીવિકા ચલાવતા હતા. તેમના ધર્મપતિને સવત ૧૯૬૧ ના જેઠ સુદ ૮ ના દિવસે એક પુત્રરત્નને જન્મ આપ્યો જેમનું નામ મણીલાલ રાખવામા આવ્યું પોપટલાલ-ભાઈનો આ પુત્ર તેમનું ચોથું સત્તાન અને ખીલ પુત્ર હતા

મણીલાલભાઈના પિતાશ્રીએ તેમને નાનપણથી જ જૈનધર્મમા શ્રદ્ધાવાન બનવાની પ્રેરણા આપી તેમને ખી. એ. મુર્ધા અભ્યાસ કરાવી મુરોચ્ય બનાવ્યા.

યોગ્ય ઉમરે પહોચતા સવત ૧૯૭૭ ના મહા માસમા બોટાદના ગોપાણી કુળભૂષણ ડાકરશીભાઈની મુપુત્રિ રલાબહેન સાથે તેમના લગ્ન કરવામા આવ્યા.

મણીલાલભાઈનામા પોતાના માતૃપિતાના ઉચ્ચ ધાર્મિક સંસ્કાર બાળ-વયથી જ એતપ્રોત થયેલા તેથી તેઓ સાધુ સાધ્વી મુનિરાજે પાસેથી વ્યાજ્ઞાન વાણી સાભળતા અને આ ઉત્તમ સત્સંગના પ્રતાપથી તેઓ નિસતાન હોવા છતા કેવળ અડતાલીસ વર્ષની વયમા જ તેઓએ શ્રાવકના મતોમા ઉત્તમ એવું ચોથું મત (બ્રહ્મચર્ય મત)નો અગીકાર કરી કાળજીપૂર્વક તે મતના પાલનપા તત્પર રહે છે.

તેઓએ ધાર્મિક અભ્યાસમા પણ પોતાને અભ્યાસ આગળ વધારી શ્રી દશવૈકલિકસૂત્ર તથા ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર ઠંઠસ્થ કરેલા છે. અને પ્રતિદિન પરોઢિએ તેની સજ્જય કરે છે આ ઉત્તમ વાચન તથા ધર્મારાધનના પ્રતાપે તેઓશ્રીને પદરેઠ વર્ષ પહેલા મુનિદીક્ષા ધારણ કરવાના ઉત્કેટ ભાવ થયેલા પરતુ કેટલાક કૌટુંબિક કારણોસર તેમ થઈ શકેલ નથી. તો પણ તેઓએ મતો અગીકાર કરેલા જ છે. તેમજ દરરોજ ચાર કે પાચ સામાયિક અવિચ્છિન્ન પણુ કરે છે.

તેમની આ પ્રવૃત્તિમા તેમના ધર્મપરાયણ પતિન તરફથી પણ પ્રોત્સાહન તથા સાથ મળતા રહેવાથી તેમની ધર્મ પરાયણતા વિશેષ રીતે દીપી ઉઠે છે.

તેમના ધર્મપતિન રલાબહેન પણુ દરરોજ ૬-૭ સામાયિકો કરે છે. તેઓએ દશવૈકલિક તથા ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રોના કેટલાક અધ્યયનો ઠંઠસ્થ પણુ કરેલા છે. તેઓ પણુ દીક્ષા સ્વીકારવાના ભાવ સાથે તત્પર થયેલા પરતુ મણિભાઈના રોકાણથી તેમને પણુ તે માટે થલી જવુ પડ્યું.

મણીભાઈ છેલ્લા પિસ્તાળીસ વર્ષથી અમદાવાદમાં જ રહે છે. હાલ તેઓ નિવૃત્તિ પરાયણ જીવન ગુજારે છે.

શાસ્ત્રોદ્ધારક પૂ. પા. આચાર્ય મહારાજશ્રી ધાત્રીલાલજી મ. સા ના સમાગમમાં પણ તેઓ અનેકવાર આવેલ અને તેમના સદુપદેશનો લાભ મેળવેલ જેથી તેઓના તરફ તેમની ઘણી શ્રદ્ધાલક્ષિત્તા હતી અને છે

તેઓશ્રીના આ શાસ્ત્રોદ્ધારના કાર્યને પોતે વર્ષોથી તેમના પ્રકાશનો જીએ છે અને તેનો લાભ લે છે. જેથી કરીને તેમના પ્રકાશનો પ્રત્યે ઉત્કટલાવના પેદા થઈ કે આ સમાજના રક્ષણ માટે આ સાર્વજનિક અનુપમ અને આદરણીય છે. આચાર્યશ્રી આવી અતિવૃદ્ધ અવસ્થામાં હોવા છતાં પણ જીવનપર્યન્ત આવી અવિરત શ્રમ લીધેલ છે તે માટે આપણે પણ આ કાર્યમાં સહાયક બનવું જ જોઈએ. કારણ મોક્ષમાર્ગનું આ એક દિવ્ય સાધન છે, આમ વિચારી તેઓએ સમિતિને વળતોવખત મદદ કરી છે, અને આ સૂત્રના પ્રકાશન માટે તેઓશ્રીએ રૂ. ૫૦૦૧) પાચ હજાર એકની ઊદારતાભરી સહાય કરેલ છે. અને ભવિષ્યમાં પણ આ કાર્યને પાંચ ઊતારવા તેમની સહાયતાનો પ્રવાહ ચાલુ રાખશે. એજ આશા.

સત્રીઓ,

શ્રી અ. ભા. સ્થા. જૈન શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિ.



श्रीमान शेठ श्री मण्डीलाल पोपटलालभाई वारा
अमदावाड


આદ્યમુરખીશ્રીઓ




શ્રી શાંતિલાલ મગળદાસલાલ
અમદાવાદ



(સ્વ) ગોપાલભાઈ વેલટભાઈ
વીરાણી-રાજકોટ



શ્રી ચોપરલાલ ભાવજીભાઈ-મહેતા



(સ્વ) શ્રી છાગનલાલ મગળદાસ
લાવસાર-અમદાવાદ.




શ્રી રામજીભાઈ શામજીભાઈ
વીરાણી-રાજકોટ.



વચ્ચે વેટેલ-લાલાજી કિશનચંદજી સા જોહરી
હમેલા-સુપુત્ર ચિ. મહેતાવચંદજી સા
નાના-અનિલકુમાર જૈન દોયતા દિવ્હી

આદ્યમુરખીશ્રીઓ




પાલનપુરવાલા
કેઠારી અમુલખયદ મલુકયદ



ભાતુભાઈ કેશવલાલ લણસાની
પાલનપુર-સુખઈ



શેઠ શ્રી મેહુદાનજી અગરચંદજી
શેઠિયા વીકાનેર



લોગીલાલ છાનલાલ ભાવસાર
સરસપુર-અમદાવાદ





શ્રીમાન લાલાજી હજારીલાલજી
સવેરી-દેહલી



શેઠ શ્રી લક્ષ્મીચંદ જસકરણ અવેરી
પાલનપુર

આધ્યમુરખીશ્રીઓ




(સ્વ) શેઠશ્રી ડેરખચય કાલીદાસ વારિયા સ્વ શેઠશ્રી જીવરાજલાલ મૂલચંદલાલ
લાણવડ ધાંગધા



(સ્વ) શેઠશ્રી દિનેશલાલ કાંતિલાલ શાહ
અમદાવાદ.

(સ્વ) શેઠ રંગજીલાલ મોહનલાલ શાહ
અમદાવાદ




શેઠશ્રી કેશિંગલાલ પાચાલાલભાઈ
અમદાવાદ

સ્વ. શેઠશ્રી આ.મારામ માણેકલાલ
અમદાવાદ

आद्यमुखीश्रीजो



पन्नालालजी छोगमलजी पारख
अमलनेर नगरपालिकाध्यक्ष



श्रीमान् शेठ लालाजी कपूरचन्दजी
नाहटा, मु. देहली



श्री प्रकाश दुलललालजी पारख
राजकोट.



श्रीश्री केशरी दुर्गाविन्द ज्योति लालजी
राजकोट.




श्रीश्री महीलाल जेठुलाल
भालनपुरवाणा




श्रीमान् लालाल 'पन्नालाल' नाहटा
सपरिवार दिल्ली

આધ્યમુરખીશ્રીઓ



પટેલ ડાસાભાઈ ગોપાલદાસ
મુ સાણંદ (જી. અમદાવાદ)



૧ અમીચ દલાઈ તથા
૨ ગીરજસાઈ વાંટવિયા મુ બે ગણેર



શાહજી શ્રી મોહીલાલજી ગલુન્ડિયા
મુ: ઉદયપુર



મદ્રાસવાલા સ્વગંસ્થ ન્યાયમૂર્તિ
સ્તીલાલભાઈ ભાથવંદલાઈ મહેતા





સ્વ. શેઠ ભાણેશ્વર નેમચંદ
મુ માંગરોલ



અમલનેર

પારખ હોગમલજી મુલતાનમલજી
શેઠ રઘુનાથમલજી, શેઠ વાલુલાલજી
,, પન્નાલાલજી, શેઠ સુગનચંદજી


आद्यमुखाश्रीओ



श्रीमान् शेठ कानुंगा धिंगडमलजी अमदावाद
श्रीमान् शेठ धनराजजी पन्नालालजी जांगडा, मु. जालना (महाराष्ट्र)




शेठ श्री मिश्रीलालजी लालचंदजी सा लुणिया शेठ प्रभुदासभाई भूलालभाई दोशी
तथा शेठश्री जेवंतराजजी अमदावाद राभडे



अवेरी रसीकदास भणोलाल भड्डेता
भद्रस

स्व. श्रीमान् शेठश्री मुकनचंदजी सा
वालिया पाली मारवाड

आचमुरणीश्रीया




स्व. शेठश्री हरिदास अनोपयंठ शाळ
अशात.



स्व. शेठ श्री ताराचंदजी साहेब गेलडा
मद्रास.



शेठश्री सीमनलालजी ऋषभचंदजी
अजीतवाले (सपरिवार)




शेठ श्री कीशनलालजी फुलचंदजी लुणिया
बेंगलोरवाले



बच्चे वेठेला-मोटाभाइ श्रीमान् मूलचंदजी
जवाहीरलालजी वरडिया
बाजुमा वेठेला-भाई मिश्रीलालजी वरडिया
उमेल-भाई पूनमचंदजी वरडिया

श्रीमान् शेठश्री
खींवराजजी सा. चोरडिया
मु० मद्रास

આચાર્યશ્રીઓ



(સ્વ.) શ્રી ધારશીલાલ જીવજીલાલ

શ્રીમાન શ્રી જગજીવનલાલ રતનસીલાલ

બારસી

અગડિયા, મુ. દામનગર



માનવતા આદ્ય
સુરજી શ્રી
માણેકલાલાલ
અમુલખલાલ મહેતા
વાટકોપર-મુ. અઈ

શ્રી વીનોદકુમાર
વિરાણી
રાજકોટ



શ્રી ડેખરજીલાલ દેસાઈલાલલાલ
વલાણી-મુરત

સ્વ. મુધીરલાલ જયજીલાલ જીવજી
મુ. અઈ.

प्रज्ञापनासूत्र भाग दूसरे की विषयानुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठांक
	तीसरा पद—	
१	दिशाकेअनुपात से अल्पवहुत्व का कथन	१-८
२	विशेष प्रकार के जीवों का अल्पवहुत्वकथन	८-४७
३	गतिद्वारको लेकर अल्प बहुत्वका कथन	४७-५३
४	सेन्द्रियजीवों का निरूपण	५३-७१
५	कायद्वार का निरूपण	७१-९२
६	सूक्ष्म एवं वादरकायका निरूपण	९२-११५
७	वादर जीवों के अल्प बहुत्व का कथन	११६-१४७
८	सूक्ष्म एवं वादर जीवों के अल्पवहुत्व कथन	१४७-१६९
९	सूक्ष्मवादर पृथ्विकायिकादिजीवों के अल्प बहुत्व का कथन	१६९-१९०
१०	लेइयावाले एवं विनालेइयावाले जीवों के अल्पवहुत्व का कथन	१९१-२०४
११	सम्यग्दृष्टि एवं मिथ्यादृष्टिवाले जीवों के अल्पवहुत्व का कथन	२०४-२०६
१२	ज्ञानी एवं अज्ञानी जीवों के अण्ण्यवहुत्व का कथन	२०६-२१४
१३	संयत एवं असंयतजीवों के अल्पवहुत्व का कथन	२१४-२२०
१४	उपयोगवाले जीवों के अल्पवहुत्व का कथन	२२०-२२१
१५	आहारक अनाहारक जीवों के अल्पवहुत्व का कथन	२२१-२२३
१६	भाषक, अभाषक एवं परीतापरीत जीवों के अल्प बहुत्व का कथन	२२३-२३१
१७	सूक्ष्म एवं वादरादि एवं संज्ञी असंज्ञी जीवों का अल्पवहुत्व	२३१-२३३
१८	भन्याभन्यादि का स्वरूप	२३३-२३५
१९	धर्माधर्मास्तिकाय जीवों के अल्प बहुत्वका निरूपण	२३५-२५८
२०	जीव एवं पुद्गल के अल्प बहुत्व का कथन	२५८-२६३
२१	क्षेत्रानुसार जीव पुद्गलों का निरूपण	२६३-२६६
२२	क्षेत्रानुसार नैरयिकों के अल्पवहुत्व का विचार	२६७-२८५
२३	भवनपति देवों के अल्प बहुत्व का निरूपण	२८६-३०९
२४	क्षेत्रानुसार द्वीन्द्रियादिका अल्पवहुत्व	३०९-३२५

२५	क्षेत्रानुसार पंचेन्द्रियादिका अल्पबहुत्व	३२५-३३२
२६	क्षेत्रानुसार पृथ्विकायादिका अल्पबहुत्व	३३३-३५४
२७	” त्रसकायिकादिका अल्पबहुत्व	३५४-३५९
२८	बन्धद्वारानुसार अल्पबहुत्वका कथन	३६९-३६९
२९	पुद्गलद्वारानुसार अल्पबहुत्वका कथन	३६९-३८०
३०	परमाणुपुद्गलों के अल्पबहुत्वका कथन	३८१-४०२
३१	महादण्डकानुसार सर्वजीवों के अल्प बहुत्वका कथन	४०२-४३७

चतुर्थ पद

३२	नैरयिकों की स्थिति का निरूपण	४३८-४४८
३३	देव देवियों की स्थितिका निरूपण	४४९-४६१
३४	पृथ्विकाय आदि की स्थितिका निरूपण	४६२-४७६
३५	पंचेन्द्रियतिर्यग्योनिकों की स्थितिका निरूपण	४७६-४९२
३६	मनुष्यों की स्थितिका निरूपण	४९२-४९४
३७	वानव्यन्तर ज्योतिष्कदेवों की स्थितिका निरूपण	४९५-४९६
३८	ज्योतिष्कदेवों की स्थिति का कथन	४९६-५०८
३९	वैमानिक देवों की स्थिति का निरूपण	५०८-५२६
४०	त्रैवेयकदेवों की स्थिति का निरूपण	५२७-५३७

पांचवां पर्यायपद

४१	पर्यायके भेदों का निरूपण	५३९-५४६
४२	नैरयिकादिकों के पर्यायका निरूपण	५७२-५८१
४३	यसुरकुमारों के पर्यायका निरूपण	५७२-५८१
४४	पृथ्वीकायिकों के पर्यायका निरूपण	५८१-६०२
४५	द्वीन्द्रियादिकों के पर्यायका निरूपण	६०२-६१६
४६	जघन्य अवगाहनावाले नैरयिकों के पर्यायका निरूपण	६१६-६६०
४७	जघन्य नवगाहनावाले यसुरकुमारों के पर्यायका निरूपण	६६०-६६७
४८	जघन्य अवगाहनावाले पृथ्विकायादिके	

पर्याय का निरूपण ६६७-६८८

४९	जघन्य अवगाहनावाले द्वीन्द्रिय के पर्याय का निरूपण	६८८-७०८
----	---	---------

५०	जघन्य अवगाहनावाले पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिकों के	
----	--	--

पर्यायका निरूपण ७०९-७३८

५१	जघन्य अवगाहनावाले मनुष्यों के पर्यायका निरूपण	७३८-७७३
----	---	---------

६२	अजीवों के पर्यायका निरूपण	७७४-७८१
६३	परमाणु पुद्गलके पर्यायका निरूपण	७८१-८२२
६४	द्वि प्रदेशी पुद्गलके पर्यायका निरूपण	८२३-८६३
६५	जघग्यगुणकालादि पुद्गलके पर्यायका निरूपण	८६३-९०६
६६	सामान्य स्कंधके पर्यायका निरूपण	९०६-९२८

छद्मापद

५७	अधिकार विषयको दिखा देनेवाली संग्रहणी गाथा	९२९-९३१
५८	उपपात एवं उद्धर्तना का निरूपण	९३१-९४१
५९	विषेप उपपातका निरूपण	९४१-९६८
६०	विषेप उद्धर्तना का कथन	९६८-९७०
६१	सान्तर निरन्तर उपपात द्वारका निरूपण	९७१-९८४
६२	नैरयिकादिकों के एकसमय से उपपातका निरूपण	९८५-१०१६
६३	उरपरिसर्पादि के एकसमय से उपपातका निरूपण	१०१७-१०५२
६४	असुरकुमारों के उपपातका निरूपण	१०५२-१०७५
६५	पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिकादिकों के उपपातका निरूपण	१०७५-१०८९
६६	वैमानिक देवों के उपपातका निरूपण	१०८९-११०६
६७	नैरयिकोंके उद्धर्तनाका निरूपण	११०६-११११
६८	असुरकुमारादि के उद्धर्तना का निरूपण	११११-११२२
६९	तिर्यग्योनिकादि के उद्धर्तना का निरूपण	११२२-११३६
७०	नैरयिकों के परभक्तिकायुध्यका निरूपण	११३६-११४८
७१	आयुवन्धका निरूपण	११४८-११६२

॥ समाप्त ॥

॥ श्री वीतरागाय नमः ॥

श्री जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्रीघासीलालव्रतिविरचितया
प्रमेयबोधिन्धारण्यया व्याख्यया समलङ्कृतम्
हिन्दीगुर्जरभाषानुवादसहितम्

॥ श्री-प्रज्ञ पनासूत्रम् ॥

द्वितीयो भागः

तृतीयमल्पबहुत्वपदम्-

मूलम्-द्वारसंग्रहगाथाद्वयम्-दिसिं गइं, इंदियं, काए, जोए,
वेए, कसायं, लेस्सा य । सम्मत्तं नाणंदंसणं संजय उवओग
आहारे । भासंग परित्तं पज्जत्तं सुहुमं सन्नी भवअत्थिए चरिमे ।
जीवे यं खित्तं वंधे पुगलं महदंडे चव ॥

छाया-दिक् १, गतिः २, इन्द्रियाणि ३, कायः ४, योगः ५, वेद ६, कषायः ७,
लेश्या च ८ । सम्यक्त्वम् ९, ज्ञानम् १०, दर्शनम् ११, संयतः १२, उपयोगः १३,
आहारः १४, भाषकः १५, परीताः १६, पर्याप्तः १७, सूक्ष्माः १८, संज्ञिनः १९,
भवः २०, अस्तिकम् २१, चरमः २२, जीवश्च २३, क्षेत्रम् २४, बन्धः २५, पुद्-
गलः २६, महादण्डकः २७ ॥

तीसरा पद-अल्पबहुत्व

शब्दार्थ-(दिसि) दिक् (गइ) गति (इंदिय) इन्द्रिय (काए) काय
(जोए) योग (वेए) वेद (कसाय) कषाय (लेस्सा) लेश्या (य) और
(सम्मत्तं) सम्यक्त्व (नाण) ज्ञान (दंसणं) दर्शन (संजय) संयत (उव-
ओग) उपयोग (आहारे) आहार ॥१७१॥

(भासंग) भाषक (परित्त) परीत (पज्जत्त) पर्याप्त (सुहुम) सूक्ष्म
(सन्नी) संज्ञी (भव) भव (अत्थिए) अस्तिक (चरिमे) चरम (जीवे)

तीसरा पद-अल्प बहुत्व

शब्दार्थ-(दिसि) दिशा (गइ) गति (इंदिय) इन्द्रिय (काए) काया (जोए)
योग (वेए) वेद (कसाय) कषाय (लेस्सा) लेश्या (य) अने (सम्मत्तं) सम्यक्त्व
(नाणं) ज्ञान (दंसणं) दर्शन (संजय) संयत (उवओग) उपयोग (आहारे)
आहार ॥ १७१ ॥

(भासंग) भाषक (परित्त) परीत (पज्जत्त) पर्याप्त (सुहुम) सूक्ष्म (सन्नी)
प्र० १

टीका-प्रथमे पदे पृथिवीकायिकादयः प्ररूपिताः, द्वितीये पदे च तएव पृथिवीकायिकादयः स्मस्थानादिना प्ररूपिताः अथ तृतीये पदे तेषामेव पृथिवीकायिकादि जीवाना मल्पहुत्वादिकम् प्ररूपयितुं सप्तविंशतिद्वारसंग्राहकगाथाद्वयमाह-‘दिसि’ प्रथमं द्विगद्वारम्१, ‘गड’ द्वितीयं गतिद्वारम्२, ‘इंदिय’ तृतीयम् इन्द्रियद्वारम्३, ‘काए’ चतुर्थं कायद्वारम्४, ‘जोए’ पञ्चमम् योगद्वारम्५, ‘वेए’ षष्ठं वेदद्वारम्६, ‘कसाय’ सप्तमं कषायद्वारम्७, ‘लेस्सा य’ अष्टमं लेश्याद्वारम्८, ‘सम्मत्तं’ नवमं सम्यक्त्वद्वारम्९, ‘नाण’ दशमं ज्ञानद्वारम्१०, ‘दंसण’ एकादशं दर्शनद्वारम्११, ‘संजय’ द्वादशं संयतद्वारम्१२, ‘उवओग’ त्रयोदशम् उपयोगद्वारम्१३, ‘आहारे’ चतुर्दशम् आहारद्वारम्१४, ‘भासग’ पञ्चदशं भाषकद्वारम्१५- परिता’ षोडशं परीतद्वारम्१६, परीता प्रत्येकशरीरिणः शुक्लपाक्षिकाश्च तद् द्वारम् ‘पज्जत्त’ सप्तदशं पर्याप्तद्वारम्१७, ‘सुहुम’ अष्टादशं सूक्ष्मद्वारम्१८, ‘सन्ती’ एकोनविंशं संज्ञिद्वारम्१९, ‘भव’ विंशं भवसिद्धिकजीव (य) तथा (खित्त) क्षेत्र (बंधे) बन्ध (पुगल) पुद्गल (महादंडए) महादण्डक (चेव) और

टीकार्थ-प्रथम पद में पृथिवीकाय आदि जीवों की तथा द्वितीय पद में उनके स्थानों की निरूपणा की गई। प्रस्तुत तीसरे पद में उन्हीं पृथिवीकाय आदि जीवों के अल्पबहुत्व की प्ररूपणा करने के लिए दो गाथाओं में सत्ताईस द्वारों का नाम निर्देश करते हैं-वे द्वार इस प्रकार हैं-(१) दिग्द्वार (२) गतिद्वार (३) इन्द्रियद्वार (४) कायद्वार (५) योगद्वार (६) वेदद्वार (७) कषायद्वार (८) लेश्याद्वार (९) सम्यक्त्वद्वार (१०) ज्ञानद्वार (११) दर्शनद्वार (१२) संयतद्वार (१३) उपयोगद्वार (१४) आहारद्वार (१५) भाषद्वार (१६) परीत अर्थात् प्रत्येक शरीर और शुक्लपाक्षिकद्वार (१७) पर्याप्तद्वार (१८) सूक्ष्मद्वार (१९)

स जी (भव) लव (अस्थिण) अस्तिक (चरिमे) यरभ (जीवे) लव (य) तथा (खित्त) क्षेत्र (बन्धे) बन्ध (पुगल) पुद्गल (महादंडए) महादंडक (चेव) अने

टीकार्थ-पडेली पहमा पृथ्वीकाय आदि लुयेनी तथा जीव पहमा अनेक स्थानेनी निरूपणा करीअ प्रस्तुत जीव पहमा तेज पृथ्वीकाय आदि लुयेनी अल्प बहुत्वनी प्ररूपणा करवाने माटे जे गाथाओमा सत्यावीस द्वारे ना नाम निर्देश करे छे ते द्वारे आ रीते छे

(१) दिग्द्वार (२) गतिद्वार (३) इन्द्रियद्वार (४) कायद्वार (५) योगद्वार (६) वेदद्वार (७) कषायद्वार (८) लेश्याद्वार (९) सम्यक्त्वद्वार (१०) दर्शनद्वार (११) संयतद्वार (१२) उपयोगद्वार (१३) आहारद्वार (१४) भाषकद्वार (१५)

द्वादशम् २०, 'अथिण' एकविंशम् अस्तिकायद्वारम् २१, 'चरिमे' द्वाविंशम् चरम-
द्वारम् २२, जीवे य' त्रयोविंशम् जीवद्वारम् २३, 'पित्त' चतुर्विंशम् क्षेत्रद्वारम् २४,
'वन्धे' पञ्चविंशम् बन्धद्वारम् २५, 'पुगल' षट्त्रिंशम् पुद्गलद्वारम् २६, 'मह-
दंडे' सप्तविंशम् महादण्डकद्वारम् चैव २७ अधित्य पृथिवीकायिकादीना
मल्पबहुत्वादिकं प्ररूपयिष्यते इत्याशयः ।

दिगनुपातेनाल्पबहुत्ववक्तव्यता-

सूत्रम्-दिसानुवाएणं सन्वत्थोवा जीवा पच्छिमेणं विसे-
साहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं त्रिसेसाहिया ॥सू० १॥

छाया-दिगनुपातेन सर्वस्तोका जीवा पश्चिमेन, पौरस्त्येन विशेषाधिकाः
दक्षिणेन विशेषाधिकाः, उत्तरेण विशेषाधिकाः ॥सू० १॥

टीका-प्रथमे आचाराङ्गे दिशामनेकप्रकारेण वर्णनं कृतम्, तत्र प्रकृते क्षेत्र
दिशां नियतत्वात्, अन्यासाञ्च प्रायोऽनवस्थितत्वात् अनुपयुक्तत्वाच्च तासामेव

संज्ञीद्वार (२०) भवसिद्धिकद्वार (२१) अस्तिकायद्वार (२२) चरम-
द्वार (२३) जीवद्वार (२४) क्षेत्रद्वार (२५) बन्धद्वार (२६) पुद्गल
और (२७) महादण्डक द्वार । इन सत्ताईस द्वारों के आधार से पृथिवी-
काय आदि के अल्पबहुत्व की प्ररूपणा की जाएगी ।

दिशा के अनुपात से अल्पबहुत्व

शब्दार्थ-(दिसानुवाएणं) दिशा की अपेक्षा से (सन्वत्थोवा) सब
से कम (जीवा) जीव (पच्छिमेणं) पश्चिम दिशा में हैं (पुरच्छिमेणं)
पूर्व दिशा में (विसेसाहिया) विशेषाधिक हैं (दाहिणेणं) दक्षिण में
(विसेसाहिया) विशेषाधिक हैं (उत्तरेणं) उत्तर में (विसेसाहिया)
विशेषाधिक हैं ।

परंतु अर्थात् प्रत्येक शरीर अने शुक्ल पाक्षिकद्वार (१७) पथ्यासद्वार (१८) सूक्ष्म
द्वार (१९) सज्ञीद्वार (२०) भवसिद्धिकद्वार (२१) अस्तिकायद्वार (२२) चरम
द्वार (२३) जीवद्वार (२४) क्षेत्रद्वार (२५) बन्धद्वार (२६) पुद्गलद्वार अने
(२७) महादण्डकद्वार. आ सत्यावीस द्वारेना आधारे पृथ्वीकाय आदिना अल्प
बहुत्वनी प्ररूपणा कराशे.

दिशाना अनुपातथी अल्प बहुत्व

शब्दार्थ-(दिसानुवाएणं) दिशानी अपेक्षासे (सन्वत्थोवा) अधाथी ओऽथ
(जीवा) जीव (पच्छिमेणं) पश्चिम दिशाभा छे (पुरच्छिमेणं) पूर्वदिशाभा (विसे
साहिया विशेषाधिक छे (दाहिणेणं) दक्षिणभा (विसेसाहिया) विशेषाधिक छे
(उत्तरेणं) उत्तरभां (विसेसाहिया) विशेषाधिक छे

वर्णनं प्रस्तुतं वर्तते, क्षेत्रदिशाञ्चोत्पत्ति स्तिर्यग्लोकमध्यगता दृष्टप्रदेशकाद् रुच-
काद् भवति, तथाचोक्तम्—‘अदृष्टपएसो रुयगो तिरियल्योयस्स मज्झयारम्मि ।
एस पभवो दिसाणं एसेव भवे अणुदिसाणं ॥१॥ अष्टप्रदेशोरुचक स्तिर्यग्लोकस्य
मध्ये । एष प्रभवो दिशामेप एव भवेद् विदिशाम् ॥१॥ इति, तत्र ‘दिसाणु-
वाएणं सव्वत्थोवा जीवा पच्छिमेणं’ दिगनुपातेन दिशामनुपातो दिगनुपातस्तेन
दिगनुपातेन दिगनुसरणेन क्षेत्रदिगपेक्षयेत्यर्थः, सर्वस्तोकाः जीवाः पश्चिमेन,
पश्चिमायां दिशि भवन्ति, तत्र निदानन्तु—प्रकृते वादरजीवापेक्षयैवेदमल्पबहुत्वम
वसेयम्, न सूक्ष्मापेक्षया सूक्ष्माणां सर्वलोकापन्नाना जीवानां प्रायः सर्वत्रापि
समानत्वात्, वादराणामपि मध्ये सर्वापेक्षया अधिका वनस्पतिकायिका भवन्ति

टीकार्थ—प्रथम आचारांग में दिशाओं का अनेक प्रकार से वर्णन
किया गया है, किन्तु यहाँ उनमें से क्षेत्रदिशा का ही ग्रहण किया
गया है । अन्य दिशाएं प्रायः अनियत है और प्रस्तुत प्रसंग में उप-
योगी भी नहीं हैं । क्षेत्र दिशाओं की उत्पत्ति मध्य लोक के मध्य में
स्थित आठ रुचक प्रदेशों से होती है । कहा भी है—आठ प्रदेशों वाला
रुचक तिष्ठे लोक के मध्य में स्थित है । वही दिशाओं और विदि-
शाओं का प्रभव अर्थात् उत्पत्ति स्थान है ॥१॥

दिशाओं की अपेक्षा से अर्थात् क्षेत्र दिशा के अनुसरण से विचार
किया जाय तो पश्चिम दिशा में सब से कम जीव हैं । इसका कारण
यह है—यहाँ वादर जीवों की अपेक्षा से ही अल्पबहुत्व का विचार
किया जा रहा है, सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा से नहीं, क्योंकि सूक्ष्मजीव
समग्र लोक में व्याप्त है अतएव सूक्ष्मजीव प्रायः सर्वत्र समान

टीकार्थ—प्रथम आचारांगमा दिशाञ्चोनु अनेक प्रकारे वर्णनं कथुं छे,
पणु अडि तेमाथी क्षेत्रदिशाञ्चोनु न् अडणु करायेलु छे. आकीनी दिशाञ्चो प्राय -
अनियत छे अने प्रस्तुत प्रसंगमा उपयोगी पणु नथी क्षेत्र दिशाञ्चोनी उत्पत्ति
मध्यलोकना मध्यमा रहल्ला आठ इत्यक प्रदेशोथी न् थाय छे. कथुं पणु छे.
आठ प्रदेशवाणा इत्यक तिरच्छालोकना मध्यमा रहल छे तेन दिशाञ्चो
तेमन विदिशाञ्चोना प्रभव अर्थात् उत्पत्ति स्थान छे ॥ १ ॥

दिशाञ्चोनी अपेक्षाञ्चे अर्थात् क्षेत्रदिशाना अनुसरणथी विचार कराय तो
पश्चिम दिशामा अधाथी ओछा लव छे तेनु कारण आ छे—अडि आदर
लवोनी अपेक्षाथी न् अल्प बहुत्वना विचार कराय छे, सूक्ष्म लवोनी अपेक्षाथी
नडि. केभके सूक्ष्म लव समग्र लोकमा व्याप्त छे. तेथी न् सूक्ष्म लव प्राय. सर्वत्र
समानन छे. आदर लवोमा पणु अधाथी वधारे वनस्पति कायिक लव छे.

तेषाम् अनन्तसंख्याकतया समुपलभ्यमानत्वात्, तस्मात् यत्र बहवो वनस्पतयः सन्ति तत्र बहवो जीवाः, यत्र तु अल्पा वनस्पतयस्तत्राल्पा जीवाः, यत्र प्रचुराणि जलानि तत्र बहवो वनस्पतयो भवन्ति, तथाचोक्तम्—‘जत्थ जलं तत्थ वणं’ इति, तत्र जलस्थाने पनरुशैवालादीनामवश्यं सद्भावात्, तेषाञ्च पनरुशैवालादीनां वादरनामकर्मोदये विद्यमानत्वेऽपि अत्यन्तसूक्ष्मावगाहनत्वात् अत्यधिकपिण्डीभावाच्च सर्वत्र सत्त्वेऽपि न चक्षुषाग्राह्यत्वं, तथाचोक्तम्—‘ते णं वालगगा सुहुमपणग जीवस्स सरीरोगाहणाहितो असंखेज्जगुणा’ इति अनुयोगद्वारेषु ते वालाग्राः सूक्ष्मपनकजीवस्य शरीरावगाहनाभ्योऽसंख्येयगुणाः इति, तस्मात् यत्रापि न वनस्पतिकायिका दरीदृश्यन्ते तत्रापि ते सन्तीति अवसेयम्, वन-

ही है। वादर जीवों में भी सब से अधिक वनस्पतिक्रायिक जीव हैं, क्यों कि वे अनन्त हैं। ऐसी स्थिति में जहां अधिक वनस्पति है वहां बहुत जीव होंगे जहां वनस्पति की अल्पता है वहां जीवों की भी अल्पता होगी। वनस्पति वहीं अधिक होती है जहां जल की अधिकता होती है। कहा भी है—‘जत्थ जलं तत्थ वणं’ अर्थात् जहां जल है वहां वन अर्थात् वनस्पति है। जहां जल होना है वहां पनक शैवाल आदि का सद्भाव अवश्य होता है पनक शैवाल आदि के यद्यपि वादरनामकर्म उदय है अतएव उनकी गणना वादर वनस्पतिक्राय में है, तथापि उनकी अवगाहना अत्यन्त सूक्ष्म होती है और वे पिण्डीभूत होकर रहते हैं, इस कारण सब जगह विद्यमान रहने पर भी नेत्रों से दिखाई नहीं देते। अनुयोगद्वार सूत्र में कहा भी है—सूक्ष्म पनक जीव की अवगाहना से वालाग्र असंख्यात गुणी अवगाहना

केमके ते अनन्तं छे अेवी स्थितिमा न्था अधिक वनस्पति छे त्यां धणु लुव
 दुशे न्था वनस्पतिनी अल्पता छे त्या लुवो पणु थोडा दुशे वनस्पति त्या
 पधारे डोय छे न्था नलनी विपुलता डोय छे. कल्लु पणु छे ‘जत्थ जलं तत्थ
 वणं’ न्था नण छे त्या वन अर्थात् वनस्पति छे. न्था पाणी डोय छे त्यां
 पनक शैवाल आदिना सूक्ष्माव अवश्य डोय छे पनक शैवाल आदिने ने के
 भादर नाम कर्मना उदय छे. तेथी तेमनी गणुना भादर वनस्पति कायमां छे.
 तथापि तेमनी अवगाहना अत्यन्त सूक्ष्म डोय छे अने अेकत्र थधने रडे छे,
 अे कारणे अधी न्थ्याअे विद्यमान डोया छता आणोधी देणाअ नथी शकतां
 अनुयोग द्वार सूत्रमा कल्लु पणु छे—सूक्ष्म पनक लुवनी अवगाहनाथी वालाग्र
 असंख्यात गणी अवगाहना पाणा डोय छे. तेथी न्था नणमा वनस्पति
 कायिक लुव देणा नथी देता, त्या पणु तेमनु’ अस्तित्व समलु देवु’ नेधंअे.

स्पतिकायिकानां बहुत्वञ्च—‘जत्थ आउकाओ तत्थ नियमा वणस्सइकाइया’ यत्रापकायस्तत्र नियमाद् वनस्पतिकायिका इति ‘पणगसेवालहढाई वायरावि होंति सुहुमा आणागेज्झा न चक्खुणा’ इति, पनकशैवालहढादयो वादरा अपि भवन्ति, सूक्ष्मा आज्ञा ग्राह्या न चक्षुषा, समुद्रादिषु च प्रचुरं जलं भवति, समुद्राणाम् द्वीपापेक्षया द्विगुणविष्कम्भत्वात्, तेष्वपि समुद्रेषु प्रत्येकं पूर्वपश्चिमयोर्दिशोर्यथाक्रमं चन्द्रसूर्यद्वीपाः सन्ति, यावत्सु प्रदेशेषु चन्द्रसूर्यद्वीपाः समवगाढास्तावत्सु जलाभावो जलाभावाच्च वनस्पतिकायिकाभावो भवति, तत्रापि केवलं प्रतीच्यां दिशि लवणसमुद्राधिपसुस्थितनामदेवावासभूतो गौतमद्वीपो वाले होते हैं। अतएव जहां जल में वनस्पतिकायिक जीव दिखाई नहीं देते, वहां भी उनका अस्तित्व समझ लेना चाहिए।

वनस्पतिकायिक जीवों का बहुत्व ‘जत्थ आउकाओ तत्थ नियमा वणस्सइकाइया’ अर्थात् जहां अपकाय है वहां नियम से वनस्पतिकायिक जीव होते हैं, तथा ‘पणगसेवालहढाई वायरा वि होंति सुहुमा आणागेज्झा न चक्खुणा’ अर्थात् पनक, सेवार, हढ आदि वादर भी होते हैं, सूक्ष्म केवल जिनाज्ञा ग्राह्य हैं, वे चक्षु द्वारा ग्राह्य नहीं हैं, इन उक्तियों से सिद्ध होता है।

समुद्र आदि में प्रचुर जल होता है और समुद्र, द्वीपों की अपेक्षा दुगुने विस्तार वाले हैं। उन समुद्रों में भी प्रत्येक में पूर्व और पश्चिम दिशा में क्रम से चन्द्र और सूर्य द्वीप स्थित हैं और जितने स्थान में चन्द्र-सूर्य द्वीप है उतने में जल का अभाव है और जल का अभाव होने से वनस्पतिकायिकों का भी अभाव है। इसमें भी पश्चिम दिशा में लवण समुद्र के अधिपति सुस्थित नामक देव का निवास रूप

वनस्पति कायिक लवेणु अहुत्थ ‘जत्थ आउकाओ तत्थ नियमा वणस्सइकाइया, अर्थात् तथा अपकाय छे त्या नकिडपण्णे वनस्पति कायिक लव डोय छे तथा ‘पणग सेवाल हढाईवायरा वि होति सुहुमा आणागेज्झा न चक्खुणा’ अर्थात् पनक, सेवार, हढ आदि वादर पणु डोय छे. सूक्ष्म डेवण जिनाज्ञा ग्राह्य छे. ये चक्षुद्वारा ग्राह्य नहीं, आ युक्तिआधी सिद्ध थाय छे

समुद्र आदिमा प्रचुर लवण डोय छे अने समुद्रो द्वीपोनी अपेक्षाये अमण्णा विस्तार वाणा छे. ते समुद्रोमा पणु प्रत्येकमा पूर्व अने पश्चिम दिशाया कभथी चन्द्र अने सूर्य द्वीप स्थित छे अने जेटला स्थानोमा चन्द्र सूर्य द्वीप छे तेटलाया लणने अभाव छे अने लणने अभाव डोवाधी वनस्पति कायिकोना पणु अभाव छे. तेमा पणु पश्चिम दिशाया लवणु समुद्रना

लवणसमुद्रेऽभ्यधिको भवति, तत्र च जलाभावात् वनस्पतिकायिका नामभावेन पश्चिमायां दिशि सर्वस्तोकाः जीवा भवन्ति इत्याशयः, 'पुरच्छिमेणं विसेसाहिया' पौरस्त्येन-पूर्वस्यां दिशि, तेभ्यो पश्चिमदिग्वर्तिजीवेभ्यो विशेषाधिकाः भवन्ति, यतः पूर्वस्यां दिशि गौतमद्वीपाभावेन तावता विशेषेण जीवानामतिरेकात् 'दाहिणेणं विसेसाहिया' तेभ्योऽपि दक्षिणेन-दक्षिणस्यां दिशि जीवा विशेषाधिका भवन्ति, तत्र चन्द्रसूर्यद्वीपानामभावेन प्रचुरजलमद्भावात् प्रचुरा वनस्पतिकायिका भवन्ति इत्याशयः 'उत्तरेणं विसेसाहिया' तेभ्योऽपि उत्तरेण-उत्तरस्यां दिशि जीवाः विशेषाधिका भवन्ति, तस्यां दिशि संख्येययोजनानां

गौतम नामक द्वीप लवण समुद्र में अधिक है। वहाँ भी जल का अभाव होने से वनस्पतिकायिकों का अभाव है। यही कारण है कि पश्चिम दिशा में सब से कम जीव पाये जाते हैं।

पश्चिम दिशा के जीवों की अपेक्षा पूर्व दिशा में विशेषाधिक जीव हैं, क्योंकि पूर्वदिशा में गौतम द्वीप नहीं है, अतएव वहाँ उतने जीव ज्यादा है।

दक्षिण दिशा में पूर्व की अपेक्षा भी विशेषाधिक जीव हैं, क्यों कि दक्षिणदिशा में चन्द्र-सूर्य द्वीपों का अभाव होने से प्रचुर जल का सद्भाव है और जल की प्रचुरता के कारण वनस्पतिकायिकों की भी बहुलता है।

उत्तर दिशा में दक्षिण की अपेक्षा भी विशेषाधिक जीव हैं, क्योंकि उत्तर दिशा में संख्यात योजन वाले द्वीपों में से एक द्वीप में लम्बाई-चौड़ाई में संख्यात करोड़ योजन प्रमाण एक मानस सरोवर

अधिपति सुस्थित नामना देवना निवास इप गौतम नामक द्वीप लवण समुद्रमा अधिक छे त्या पणु जणनो अलाव डोवाथी वनस्पति आयिकेनो अलाव छे. ते कारणुथी पश्चिम दिशामां सौथी ओछा एव भणी आवे छे

पश्चिम दिशाना एवेनी अपेक्षाये पूर्वदिशामा विशेषाधिक एव छे केमके दक्षिण दिशामा चन्द्र-सूर्य द्वीपानो अलाव डोवाथी प्रचुर जणनो सहलाव छे अने जणनी प्रचुरताना कारणे वनस्पति आयिकेनी पणु बहुलता छे.

दक्षिण दिशामा पडैला करता पणु विशेषाधिक एवे छे केमके दक्षिण दिशामां चन्द्र, सूर्य द्वीपानो अलाव डोवाथी घणु जणनो सहलाव छे अने जणना अधिकपणुने कारणे वनस्पतिकायिकेनी पणु अधिकता छे.

उत्तर दिशामा दक्षिणनी अपेक्षाये पणु विशेषाधिक एव छे. केमके उत्तर दिशामा संख्यात योजन वाणा द्वीपमाथी एक द्वीपमा लणार्थ पडै-

દ્વીપાનાં મધ્યે એકસ્મિન્ દ્વીપે આયામવિષ્કમ્ભાભ્યાં સંસ્થેયયોજનકોટિપ્રમાણે માનસે સરસિ દક્ષિણદિગપેક્ષયા પ્રભૂતજલસદ્ભાવેન પ્રચુરાઃ વનસ્પતયઃ પ્રચુરા દ્વીન્દ્રિયાઃ શદ્વાદયઃ, પ્રચુરાસ્તીરલગ્નશદ્વાદિ શરીરાશ્રિતા સ્ત્રીન્દ્રિયાઃ પિપીલિકાદયઃ, પ્રચુરાઃ પદ્માદિષુ ચતુરિન્દ્રિયા મધુકરાદયઃ, પ્રચુરાઃ પદ્મેન્દ્રિયાઃ મત્સ્ય-કૂર્માદયો ભવન્તિ इति विशेषाधिका जीवा इति भावः, इत्येवं सामान्यतो दिग्-नुपातेन जीवानामल्पबहुत्वं प्रतिपादितम् ॥सू० १॥

વિશેષતો જીવાલ્પવહુત્વવક્તવ્યતા-

મૂલ્ય-દિસાણુવાણ સઠ્વત્થોવા પુઢવિક્કાઙ્ગયા ઢાહિણેણં ઉત્તરેણં વિસેસાહિયા, પુરચ્છિમેણં વિસેસાહિયા, પચ્છિમેણં વિસેસાહિયા, દિસાણુવાણ ણં સઠ્વત્થોવા આઠ્કાઙ્ગયા પચ્છિમેણં, પુરચ્છિમેણં વિસેસાહિયા, ઢાહિણેણં વિસેસાહિયા ઉત્તરેણં વિસેસાહિયા, દિસાણુવાણ ણં સઠ્વત્થોવા તેઠ્કાઙ્ગયા ઢાહિણુત્તરેણં, પુરચ્છિમેણં સંસ્થેજ્જગુણા, પચ્છિમેણં વિસેસાહિયા, દિસાણુવાણં સઠ્વત્થોવા વાઠ્કાઙ્ગયા પુરચ્છિમેણં, પચ્છિમેણં વિસેસાહિયા. ઉત્તરેણં વિસેસાહિયા, ઢાહિણેણં વિસેસાહિયા, દિસાણુવાણં સઠ્વત્થો વા વણસ્સઙ્કાઙ્ગયા પચ્છિમેણં

है और उसमें जल की प्रचुरता होने के कारण वनस्पतिकायिक जीवों की बहुलता है और इसी से उत्तर दिशा में दक्षिण की अपेक्षा विशेषाधिक जीव बतलाए गए हैं। वहां शंख आदि द्विन्द्रिय, तीर पर रहे हुए शंख आदि के आश्रित पिपीलिका आदि त्रीन्द्रिय, कमलों आदि में भ्रमर आदि चतुरिन्द्रिय तथा मत्स्य कूर्म आदि पंचेन्द्रिय जीव भी विशेषाधिक हैं। यह सामान्य रूप से दिशाओं की अपेक्षा जीवों का अल्पबहुत्व निरूपण किया गया है ॥१॥

જાઠ્ઠમા સ પ્થ્યાત કરેઠ યોજન પ્રમાણુ એક માન સજેવર છે અને તેમા જળની પ્રચુરતા હોવાને કારણે વનસ્પતિકાયિક જીવોની બહુલતા છે અને તેથી જ ઉત્તર દિશામા દક્ષિણની અપેક્ષાએ વિશેષાધિક જીવ બતાડેલા છે ત્યા શ ખ આદિ દ્વીન્દ્રિય કાઠા ઉપર રહેલા શ ખ આદિના આશ્રિતપિપીલિકા (કીડી) આદિ ત્રીન્દ્રિય, કમળ વિગેરેમા ભ્રમરા વિગેરે ચતુરિન્દ્રિય તથા મત્સ્ય કૂર્મ આદિ પચ્ચેન્દ્રિય જીવ પણ વિશેષાધિક છે. આ સામાન્ય રૂપે દિશાઓની અપેક્ષાએ જીવોનુ અલ્પ બહુત્વ નિરૂપણુ કર્યું છે ॥ ૧ ॥

पुरच्छिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसे-
साहिया, दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा वेइंदिया पच्छिमेणं पुर-
च्छिमेणं विसेसाहिया, दक्खिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसे-
साहिया दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा तेइंदिया पच्चत्थिमेणं,
पुरच्छिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया उत्तरेणं विसे-
साहिया दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा चउरिदिया पच्चत्थिमेणं,
पुरच्छिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं
विसेसाहिया, दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा नेरइया पुरच्छिम
पच्चत्थिमउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा, दिसाणुवाएणं,
सव्वत्थोवा रयणप्पभापुढवी नेरइया पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्त-
रेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा, दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा
सकरप्पभा पुढवी नेरइया, पुरच्छिमपच्चत्थिमउत्तरेणं, दाहि-
णेणं असंखेज्जगुणा, दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा वालुयप्पभा
पुढवी नेरइया पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेणं दाहिणेणं असंखेज्ज-
गुणा, दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा पंक्कप्पभा पुढवी नेरइया
पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा दिसाणु-
वाएणं सव्वत्थोवा धूमप्पभा पुढवी नेरइया पुरच्छिमपच्चत्थिम
उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा, दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा
तमप्पभा पुढवी नेरइया पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेणं, दाहिणेणं
असंखेज्जगुणा, दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा अहे सत्ताा पुढवी
नेरइया पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा,
दाहिणेहिंतो अहे सत्तमा पुढवी नेरइएहिंतो छ्ठ्ठाए तमाए
पुढवीए नेरइया पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेणं असंखेज्जगुणा,
दाहिणेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणिस्सेहिंतो तमाए पुढवी नेर-
इएहिंतो पंचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरच्छिमपच्च-

त्थिम उत्तरेण असंखेज्जगुणा दाहिणेण असंखेज्जगुणा दाहि-
 णिल्लेहिंतो, धूमप्पभापुढवी नेरइएहिंतो चउत्थीए पंकप्पभाए
 पुढवीए नेरइया पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेण असंखेज्जगुणा,
 दाहिणेण असंखेज्जगुणा, दाहिणिल्लेहिंतो पंकप्पभा पुढवी
 नेरइएहिंतो तइयाए वालुयप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरच्छिम-
 पच्चत्थिम उत्तरेण असंखेज्जगुणा, दाहिणेण असंखेज्जगुणा,
 दाहिणिल्लेहिंतो वालुयप्पभा पुढवी नेरइएहिंतो दुइयाए सक्क-
 रप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेण असंखे-
 ज्जगुणा, दाहिणेण असंखेज्जगुणा दाहिणिल्लेहिंतो सक्करप्पभा
 पुढवी नेरइएहिंतो इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए नेरइया पुर-
 च्छिमपच्चत्थिम उत्तरेण असंखेज्जगुणा, दाहिणेण असंखेज्ज-
 गुणा, दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा पंचिंदिया तिरिक्खजोणिया
 पच्छिमेणं, पुरच्छिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया,
 उत्तरेणं विसेसाहिया, दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा मणुस्सा
 दाहिण उत्तरेणं पुरच्छिमेणं संखेज्जगुणा पच्चत्थिमेणं विसेसा-
 हिया, दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा भवणवासीदेवा पुरच्छिमेणं
 पच्चत्थिमेणं, उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा,
 दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा वाणमंतरा देवा पुरच्छिमेणं, पच्च-
 त्थिमेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसे-
 साहिया, दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा जोइसिया देवा पुरच्छि-
 मपच्चत्थिमेणं, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया,
 दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा देवा सोहम्ममे कप्पे पुरच्छिमपच्च-
 त्थिमेणं, उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं विसेसाहिया,
 दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा देवा ईसाणे कप्पे पुरच्छिमपच्चत्थि-
 मेणं, उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं विसेसाहिया, दिसाणु-

वाएणं सव्वत्थोवा देवा सणंकुमारे कप्पे पुरच्छिमपच्चत्थि-
मेणं, उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं विसेसाहिया, दिसाणु-
वाएणं सव्वत्थोवा देवा माहिंदे कप्पे पुरच्छिमपच्चत्थिमेणं,
उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं विसेसाहिया, दिसाणुवाएणं
सव्वत्थो वा देवा वंभलोए कप्पे पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेणं,
दाहिणेणं असंखेज्जगुणा, दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा देवा लंतए
कप्पे, पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा,
दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा देवा महासुक्के कप्पे पुरच्छिम-
पच्चत्थिम उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा, दिसाणुवाएणं
सव्वत्थोवा देवा सहस्सारे कप्पे पुरच्छिम उत्तरेणं दाहिणेणं
असंखेज्जगुणा, तेण परं समोववन्नगा समगाउसो ! दिसाणु-
वाएणं सव्वत्थोवा सिद्धा दाहिणेणं उत्तरेणं, पुरच्छिमेणं
संखेज्जगुणा पच्चत्थिमेणं विसेसाहिया दारं ॥सू० २॥

छाया-दिगनुपातेन सर्वस्तोकाः पृथिवीकायिकाः दक्षिणेन उत्तरेण विज्ञो-
पाधिकाः, पौरस्त्येन विशेषाधिकाः, पश्चिमेन विशेषाधिकाः, दिगनुपातेन सर्व-

जीवों का विशेष अल्प-ग्रहत्व

शब्दार्थ-(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा से (सव्वत्थोवा)
सब से कम (पुढविकाइया) पृथिवी कायिक जीव (दाहिणेणं) दक्षिण
दिशा में हैं (उत्तरेणं विसेसाहिया) उत्तर में विशेषाधिक हैं (पुर-
च्छिमेणं विसेसाहिया) पूर्व में विशेषाधिक हैं (पच्छिमेणं विसेसा-
हिया) पश्चिम में विशेषाधिक हैं ।

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा से (सव्वत्थोवा आउक्काइया

अपोनुं विशेष अल्प-ग्रहत्व

शब्दार्थ-(दिसाणुवाएण) दिशाओंकी अपेक्षाथी (सव्वत्थोवा) अधाधी ओछा
(पुढविकाइया) पृथिवीकायिक ओव (दाहिणेणं) दक्षिण दिशाभा (उत्तरेणं विसेसाहि
या) उत्तरभा विशेषाधिक छे (पुरच्छिमेणं विसेसाहिया) पूर्वभा विशेषाधिक छे
(पच्छिमेण विसेसाहिया पश्चिमभा विशेषाधिक छे

(दिसाणुवाएणं) दिशाओंकी अपेक्षा (सव्वत्थो वा आउक्कापया पच्छिमेणं)

पश्चिमोत्तरेण, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोकाः रत्नप्रभापृथिवी
 नैरयिकाः पौरस्त्य पश्चिमोत्तरेण, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः, दिगनुपातेन सर्व-
 स्तोका शर्कराप्रभापृथिवीनैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण, दक्षिणेन असंख्येय-
 गुणाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोका बालुकाप्रभा पृथिवीनैरयिका पौरस्त्यपश्चिमोत्त-
 रेण, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोकाः पङ्कप्रभापृथिवीनैर-

(दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा नेरइया) दिशाओं की अपेक्षा सब
 से कम नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम और उत्तर
 में हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा (दिस -
 वाएणं सव्वत्थोवा रयणप्पभा पुढवीनेरइया) दिशाओं की अपेक्षा
 सब से कम रत्नप्रभा पृथिवी के नारक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं)
 पूर्व पश्चिम उत्तर में है (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात
 गुणित हैं (दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा सक्करप्पभा पुढवीनेरइया)
 दिशाओ की अपेक्षा सब से कम शर्कराप्रभा पृथ्वी के नैरयिक (पुर-
 च्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम, उत्तर में हैं (दाहिणेणं असं-
 खेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा हैं । (दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा
 बालुयप्पभा पुढवीनेरइया) दिशाओं की अपेक्षा सब से कम बालुका-
 प्रभा के नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व पश्चिम उत्तर में
 है (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा हैं (दिसाणु-
 वाएणं सव्वत्थोवा पंकप्पभा पुढवीनेरइया) दिशाओं की अपेक्षा सब

(दिसाणुवाएण सव्वत्थोवा नेरइया) दिशाओनी अपेक्षाओ अधाथी ओछा
 नैरयिक (पुरच्छिमपच्छिमउत्तरेण) पूर्व पश्चिम अने उत्तरमा छे (दाहिणेण
 असंखेज्जगुणा) दक्षिणमा असंख्यात गुणा (दिसाणुवाएण सव्वत्थोवा रयणप्पभा
 पुढवी नेरइया) दिशाओनी अपेक्षाओ अधाथी ओछा रत्नप्रभा पृथ्वीना नारक
 (पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेण) पूर्व, पश्चिम अने उत्तरमा छे (दाहिणेण
 असंखेज्जगुणा) दक्षिणमा असंख्यात गुणा छे (दिसाणुवाएण सव्वत्थोवा
 सक्करप्पभा पुढवी नेरइया) दिशाओनी अपेक्षाओ अधाथी ओछा शर्कराप्रभा
 पृथ्वीना नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेण) पूर्व, पश्चिम अने उत्तरमा छे
 (दाहिणेण असंखेज्ज गुणा) दक्षिणमा असंख्यात गुणा छे (दिसाणुवाएणं सव्व-
 त्थोवा बालुयप्पभा पुढवी नेरइया) दिशाओनी अपेक्षाओ अधाथी ओछा बालु-
 काप्रभाना नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेण) पूर्व, पश्चिम, उत्तरमा छे
 (दाहिणेण असंखेज्जगुणा) दक्षिणमा असंख्यातगुणा छे (दिसाणुवाएण सव्वत्थो
 वा पंकप्पभा पुढवी नेरइया) दिशाओनी अपेक्षाओ अधाथी ओछा पंकप्रभा

यिकाः पौरस्त्य-पश्चिमोत्तरेण, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः दिगनुपातेन सर्वास्तोक्ताः धूमप्रभापृथिवी नैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोकास्तमप्रभापृथिवीनैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः दिगनुपातेन सर्वस्तोकाः अधः सप्तमपृथिवीनैरयिकाः पौरस्त्य-पश्चिमोत्तरेण, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः, दक्षिणेभ्यः अधः सप्तमपृथिवीनैरयिकेभ्यः षष्ठ्यास्तमायाः पृथिव्याः नैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण असंख्येयगुणाः,

से पंकप्रभा पृथ्वी के नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व पश्चिम उत्तर में हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा हैं (दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा धूमप्पभा पुढवीनेरइया) दिशाओं की अपेक्षा सब से कम धूमप्रभा के नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम, उत्तर में हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा हैं (दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा तमप्पभा पुढवीनेरइया) दिशाओं की अपेक्षा सब से कम तमःप्रभा पृथ्वी के नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थि उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम, उत्तर में हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) (दक्षिण में असंख्यातगुणा हैं (दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा अहेसत्तमा पुढवीनेरइया) दिशाओं की अपेक्षा तमस्तमःप्रभा पृथिवी के नैरयिक) पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम, उत्तर में हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा हैं ।

(दाहिणेहिंतो अहेसत्तमा पुढवीनेरइएहिंतो) दक्षिण दिशा के सातवीं पृथ्वी के नारकों से (छट्ठाए) छठी (तमाए पुढवीए) तमःप्रभा

पृथ्वीना नैरयिक छे (पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम, उत्तरमां छे (दाहिणेणं असंखेज्ज गुणा) दक्षिणमा असंख्यात गण्णा छे (दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा धूमप्पभा पुढवी नेरइया) दिशाओनी अपेक्षाओ अधाधी ओछा धूमप्रभा ना नैरयिक (पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम उत्तरमा छे (दाहिणेण असंखेज्जगुणा) दक्षिणमा असंख्यात गण्णा छे (दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा तमप्पभा पुढवी नेरइया) दिशाओनी अपेक्षाओ अधाधी ओछा तमःप्रभा पृथ्वीना नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम उत्तरमा छे (दाहिणेण असंखेज्ज गुणा) दक्षिणमा असंख्यात गण्णा छे (दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा अहेसत्तमा पुढवी नेरइया) दिशाओनी अपेक्षाओ तमस्तम प्रभा पृथ्वीना नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम, उत्तरमा छे (दाहिणेणं असंखेज्ज गुणा) दक्षिणमा असंख्यात गुण्णा छे -

(दाहिणेहिंता अहेसत्तमा पुढवी नेरइएहिंतो) दक्षिण दिशाना सातमी

स्तोका अष्कायिकाः पश्चिमेन, पौरस्त्येन विशेषाधिकाः, दक्षिणेन विशेषाधिकाः, उत्तरेण विशेषाधिकाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोकाः तेजस्कायिकाः दक्षिणोत्तरेण, पौरस्त्येन संख्येयगुणाः, पश्चिमेन विशेषाधिकाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोकाः वायुकायिकाः पौरस्त्येन, पश्चिमेन विशेषाधिकाः, उत्तरेण विशेषाधिकाः, दक्षिणेन विशेषाधिकाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोकाः वनस्पतिकायिकाः पश्चिमेन पौरस्त्येन विशेषाधिकाः, दक्षिणेन विशेषाधिकाः, उत्तरेण विशेषाधिकाः, दिगनुपातेन

पच्छिमेण) सब से कम अष्कायिक पश्चिम में हैं (पुरच्छिमेण विसेसाहिया) पूर्व में विशेषाधिक है (दाहिणेण विसेसाहिया) दक्षिण में विशेषाधिक हैं (उत्तरेण विसेसाहिया) उत्तर में विशेषाधिक हैं ।

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा तेउकाइया) सब से कम तेजस्कायिक (दाहिणुत्तरेणं) दक्षिण-उत्तर में हैं (पुरच्छिमेणं संखेज्जगुणा) पूर्व में संख्यात गुणित ज्यादा (पश्चिमेणं विसेसाहिया) पश्चिम में विशेषाधिक हैं ।

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा वाउकाइया पुरच्छिमेणं) सब से कम वायुकायिक पूर्व में (पच्छिमेणं विसेसाहिया) पश्चिम में विशेषाधिक (उत्तरेणं विसेसाहिया) उत्तर में विशेषाधिक (दाहिणेणं विसेसाहिया) दक्षिण में विशेषाधिक ।

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया पच्छिमेणं) सब से कम वनस्पतिकायिक पश्चिम में हैं (पुरच्छिमेणं विसेसाहिया) पूर्व में विशेषाधिक (दाहिणेणं विसेसाहिया) दक्षिण में

अधार्थी ओछा अष्कायिक पश्चिममा छे (पुरच्छिमेण विसेसाहिया) पूर्वमा विशेषाधिक छे (दाहिणेणं विसेसाहिया) दक्षिणमा विशेषाधिक छे (उत्तरेणं विसेसाहिया) उत्तरमा विशेषाधिक छे

(दिसाणुवाएणं) दिशाओनी अपेक्षाओ (सव्वत्थोवा तेउकाइया) अधार्थी ओछा तेजस्कायिक (दाहिणुत्तरेणं) दक्षिण उत्तरमा छे (पुरच्छिमेणं संखेज्जगुणा) पूर्वमा संख्यात शुषित वधारे (पच्छिमेण विसेसाहिया) पश्चिममा विशेषाधिक छे

(दिसाणुवाएणं) दिशाओनी अपेक्षाओ (सव्वत्थोवा वाउकाइया पुरच्छिमेणं) अधार्थी ओछा वायुकायिक पूर्वमा (पच्छिमेणं विसेसाहिया) पश्चिममा विशेषाधिक (उत्तरेणं विसेसाहिया) उत्तरमा विशेषाधिक (दाहिणेणं विसेसाहिया) दक्षिणमा विशेषाधिक.

(दिसाणुवाएणं) दिशाओनी अपेक्षाओ (सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया पच्छिमेणं) अधार्थी ओछा वनस्पतिकायिक पश्चिममा छे (पुरच्छिमेण विसेसाहिया)

सर्वस्तोका द्वीन्द्रियाः पश्चिमेन पौरस्त्येन विशेषाधिकः; दक्षिणेन विशेषाधिकः, उत्तरेण विशेषाधिकः; दिगनुपातेन सर्वस्तोका त्रीन्द्रियाः पश्चिमेन, पौरस्त्येन विशेषाधिकः; दक्षिणेन विशेषाधिकः; उत्तरेण विशेषाधिकः; दिगनुपातेन सर्वस्तोकाश्चतुरिन्द्रियाः पश्चिमेन, पौरस्त्येन विशेषाधिकः; दक्षिणेन विशेषाधिकः; उत्तरेण विशेषाधिकः; दिगनुपातेन सर्वस्तोका नैगविकाः पौरस्त्येन विशेषाधिक (उत्तरेण विशेषाहिया) उत्तर में विशेषाधिक हं ।

(दिसानुवाएणं सव्वत्थोवा वेइंदिया पच्छिमेणं) दिशाओं की अपेक्षा सब से कम द्वीन्द्रिय पश्चिम में हं (पुरच्छिमेणं विशेषाहिया) पूर्व में विशेषाधिक हं (दक्खिणेणं विशेषाहिया) दक्षिण में विशेषाधिक हं (उत्तरेणं विशेषाहिया) उत्तर में विशेषाधिक हं ।

(दिसानुवाएणं सव्वत्थोवा तेइंदिया) दिशाओं की अपेक्षा सब से कम तेइन्द्रिय जीव पश्चिम में हं (पुरच्छिमेणं विशेषाहिया) पूर्व में विशेषाधिक हं (दाहिणेणं विशेषाहिया) दक्षिण में विशेषाधिक हं (उत्तरेणं विशेषाहिया) उत्तर में विशेषाधिक हं ।

(दिसानुवाएणं सव्वत्थोवा चउरिंदिया) दिशाओं की अपेक्षा सबसे कम चौइन्द्रिय जीव (पच्छत्थिमेणं) पश्चिम में हं (पुरच्छिमेणं विशेषाहिया) पूर्व में विशेषाधिक है (दाहिणेणं विशेषाहिया) दक्षिण में विशेषाधिक हं (उत्तरेणं विशेषाहिया) उत्तर में विशेषाधिक हं ।

पूर्वमा विशेषाधिक छे, (दाहिणेणं विशेषाहिया) दक्षिणमा विशेषाधिक छे (उत्तरेण विशेषाहिया) उत्तरमा विशेषाधिक छे

(दिसानुवाएणं सव्वत्थोवा वेइंदिया पच्छिमेणं) दिशाओंकी अपेक्षाओे षड्धाथी ओाछा द्वीन्द्रिय पश्चिममा छे (पुरच्छिमेणं विशेषाहिया) पूर्वमा विशेषाधिक छे (दक्खिणेणं विशेषाहिया) दक्षिणमा विशेषाधिक छे (उत्तरेणं विशेषाहिया) उत्तरमा विशेषाधिक छे

(दिसानुवाएणं सव्वत्थोवा तेइंदिया) दिशाओंकी अपेक्षाओे षड्धाथी ओाछा त्रयु धन्द्रिय एव पश्चिममा छे (पुरच्छिमेणं विशेषाहिया) पूर्वमा विशेषाधिक छे (दाहिणेणं विशेषाहिया) दक्षिणमा विशेषाधिक छे (उत्तरेणं विशेषाहिया) उत्तरमा विशेषाधिक छे

(दिसानुवाएणं सव्वत्थोवा चउरिंदिया) दिशाओंकी अपेक्षाओे षड्धाथी ओाछा चार धन्द्रियो वाणा एव छे (पच्छिमेणं) पश्चिममा (पुरच्छिमेणं विशेषाहिया) पूर्वमा विशेषाधिक छे (दाहिणेणं विशेषाहिया) दक्षिणमा विशेषाधिक छे (उत्तरेणं विशेषाहिया) उत्तरमा विशेषाधिक छे

पश्चिमोत्तरेण, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोकाः रत्नप्रभापृथिवी नैरयिकाः पौरस्त्य पश्चिमोत्तरेण, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोका शर्कराप्रभापृथिवीनैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोका वालुकाप्रभा पृथिवीनैरयिका पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोकाः पङ्कप्रभापृथिवीनैर-

(दिसाणुवाएणं सञ्चत्थोवा नेरइया) दिशाओं की अपेक्षा सब से कम नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम और उत्तर में हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा (दिसाणुवाएणं सञ्चत्थोवा रयणप्पभा पुढवीनेरइया) दिशाओं की अपेक्षा सब से कम रत्नप्रभा पृथिवी के नारक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व पश्चिम उत्तर में हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणित हैं (दिसाणुवाएणं सञ्चत्थोवा सक्करप्पभा पुढवीनेरइया) दिशाओं की अपेक्षा सब से कम शर्कराप्रभा पृथिवी के नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम, उत्तर में हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा हैं । (दिसाणुवाएणं सञ्चत्थोवा वालुयप्पभा पुढवीनेरइया) दिशाओं की अपेक्षा सब से कम वालुकाप्रभा के नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व पश्चिम उत्तर में हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा हैं (दिसाणुवाएणं सञ्चत्थोवा पङ्कप्पभा पुढवीनेरइया) दिशाओं की अपेक्षा सब

(दिसाणुवाएण सञ्चत्थोवा नेरइया) दिशाओं की अपेक्षाओं अधार्थी ओछा नैरयिक (पुरच्छिमपच्चत्थिमउत्तरेणं) पूर्व पश्चिम અને उत्तरभा छे (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिणभा असंख्यात गुणा (दिसाणुवाएण सञ्चत्थोवा रयणप्पभा पुढवी नेरइया) दिशाओं की अपेक्षाओं अधार्थी ओछा रत्नप्रभा पृथिवीना नारक (पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेण) पूर्व, पश्चिम અને उत्तरभा छे (दाहिणेण असंखेज्जगुणा) दक्षिणभा असंख्यात गुणा छे (दिसाणुवाएण सञ्चत्थोवा सक्करप्पभा पुढवी नेरइया) दिशाओं की अपेक्षाओं अधार्थी ओछा शर्कराप्रभा पृथिवीना नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेण) पूर्व, पश्चिम અને उत्तरभा छे (दाहिणेण असंखेज्जगुणा) दक्षिणभा असंख्यात गुणा छे (दिसाणुवाएणं सञ्चत्थोवा वालुयप्पभा पुढवी नेरइया) दिशाओं की अपेक्षाओं अधार्थी ओछा वालुकाप्रभाना नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेण) पूर्व, पश्चिम, उत्तरभा छे (दाहिणेण असंखेज्जगुणा) दक्षिणभा असंख्यातगुणा छे (दिसाणुवाएण सञ्चत्थोवा पङ्कप्पभा पुढवी नेरइया) दिशाओं की अपेक्षाओं अधार्थी ओछा पङ्कप्रभा

यिकाः पौरस्त्य-पश्चिमोत्तरेण, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः दिगनुपातेन सर्वस्तोकाः धूमप्रभापृथिवी नैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोकास्तमप्रभापृथिवीनैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः दिगनुपातेन सर्वस्तोकाः अधः सप्तमपृथिवीनैरयिकाः पौरस्त्य-पश्चिमोत्तरेण, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः, दक्षिणेभ्यः अधः सप्तमपृथिवीनैरयिकेभ्यः षष्ठ्यास्तमायाः पृथिव्याः नैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण असंख्येयगुणाः,

से पंकप्रभा पृथ्वी के नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व पश्चिम उत्तर में हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा हैं (दिसाणुवाएणं सच्चत्थोवा धूमप्पभा पुढवीनेरइया) दिशाओं की अपेक्षा सब से कम धूमप्रभा के नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम, उत्तर में हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा हैं (दिसाणुवाएणं सच्चत्थोवा तमप्पभा पुढवीनेरइया) दिशाओं की अपेक्षा सब से कम तमःप्रभा पृथ्वी के नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम, उत्तर में हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) (दक्षिण में असंख्यातगुणा हैं (दिसाणुवाएणं सच्चत्थोवा अहेसत्तमा पुढवीनेरइया) दिशाओं की अपेक्षा तमस्तमःप्रभा पृथिवी के नैरयिक) पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम, उत्तर में हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा हैं ।

(दाहिणेहितो अहेसत्तमा पुढवीनेरइएहितो) दक्षिण दिशा के तवीं पृथ्वी के नारकों से (छट्टाए) छठी (तमाए पुढवीए) तमःप्रभा

पृथ्वीना नैरयिक छे (पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम, उत्तरमां छे (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिणमा असंख्यात गणु छे (दिसाणुवाएणं सच्चत्थोवा धूमप्पभा पुढवी नेरइया) दिशाओनी अपेक्षाओ अधाधी ओएण धूमप्रभा ना नैरयिक (पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम उत्तरमा छे (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिणमा असंख्यात गणु छे (दिसाणुवाएण सच्चत्थोवा तमप्पभा पुढवी नेरइया) दिशाओनी अपेक्षाओ अधाधी ओएण तमःप्रभा पृथ्वीना नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेण) पूर्व, पश्चिम उत्तरमां छे (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिणमा असंख्यात गणु छे (दिसाणुवाएण सच्चत्थोवा अहेसत्तमा पुढवी नेरइया) दिशाओनी अपेक्षाओ तमस्तम प्रभा पृथ्वीना नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेण) पूर्व, पश्चिम, उत्तरमा छे (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिणमा असंख्यात गणु छे -

(दाहिणेहितो अहेसत्तमा पुढवी नेरइएहितो) दक्षिण दिशाना सातमी

दक्षिणेन असंख्येयगुणाः, दक्षिणेभ्यस्तमायाः पृथिव्या नैरयिकेभ्य पञ्चम्याः धूमप्रभायाः पृथिव्याः नैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण असंख्येयगुणाः, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः, दाक्षिणात्येभ्यो धूमप्रभापृथिवीनैरयिकेभ्य श्रुतुर्थ्याः पङ्कप्रभायाः पृथिव्याः नैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण असंख्येयगुणाः, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः, दाक्षिणात्येभ्यः पङ्कप्रभापृथिवीनैरयिकेभ्य स्तृतीयायाः वालुकाप्रभायाः पृथिव्याः नैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण असंख्येयगुणाः दक्षिणेन

पृथ्वी के (नेरइया) नैरयिक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम उत्तर में (असंखेज्जगुणा) असंख्यात गुणा हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में उनसे भी असंख्यात गुणा हैं (दाहिणिल्लेहितो तमाए पुढवीनेरइएहितो) दक्षिण दिशा के तमःप्रभा पृथ्वी के नारकों की अपेक्षा (पंचमाए धूमप्पभाए पुढवीए) पांचवीं धूमप्रभा पृथिवी के (नेरइया) नारक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम उत्तर में (असंखेज्जगुणा) असंख्यात गुणा हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा हैं (दाहिणिल्लेहितो धूमप्पभा पुढवीनेरइए हितो) दक्षिण के धूमप्रभा पृथिवी के नारकों से (चउत्थीए पंकप्पभाए पुढवीए) चौथी पंकप्रभा पृथिवी के (नेरइया) नारक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं असंखेज्जगुणा) पूर्व, पश्चिम, उत्तर में असंख्यात गुणा हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में उससे भी असंख्यात गुणा हैं (दाहिणिल्लेहितो पंकप्पभा पुढवीनेरइए हितो) दक्षिण के पंकप्रभा पृथिवी के नारकों से (तइयाए वालुयप्पभाए पुढवीए) तीसरी वालु-

पृथ्वीना नारकेथी (छट्टीए) छट्टी (तमाए पुढवीए) तम प्रभा पृथ्वीना (नेरइया) नैरयिके (पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेण) पूर्व, पश्चिम, उत्तरभा (असंखेज्ज गुणा) असंख्यात गुणा छे (दाहिणिल्लेहितो तमाए पुढवी नेरइएहितो) दक्षिण दिशाना तमःप्रभा पृथ्वीना नारकेथी अपेक्षाये (पंचमाए धूमप्पभा पुढवीए) पाचवीं धूमप्रभा पृथ्वीना (नेरइया) नारक (पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेण) पूर्व, पश्चिम उत्तरभा (असंखेज्जगुणा) असंख्यात गुणा छे (दाहिणेण अरखेज्जगुणा) दक्षिणभा असंख्यात गुणा छे (दाहिणिल्लेहितो धूमप्पभा पुढवी नेरइएहितो) दक्षिणभा धूमप्रभा पृथ्वीना नारकेथी (चउत्थीए पंकप्पभाए पुढवीए) चौथी पंकप्रभा पृथ्वीना (नेरइया) नारक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेण असंखेज्ज गुणा) पूर्व, पश्चिम, उत्तरभा असंख्यात गुणा छे (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिणभा तेनाथी पणु असंख्यात गुणा छे (दाहिणिल्लेहितो पंकप्पभा पुढवी नेरइएहितो) दक्षिणभा पंकप्रभा पृथ्वीना नारकेथी (तइयाए वालुयप्पभाए पुढवीए) तीसरी

असंख्येयगुणाः, दाक्षिणात्येभ्यो बालुकाप्रभापृथिवी नैरयिकेभ्यो द्वितीयायाः शर्कराप्रभायाः पृथिव्याः नैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण असंख्येयगुणाः, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः, दाक्षिणात्येभ्यः शर्कराप्रभापृथिवी नैरयिकेभ्यः अस्या रत्नप्रभायाः पृथिव्याः नैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण असंख्येयगुणाः, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः, दिग्गुणपातेन सर्वस्तोकाः पञ्चेन्द्रियाः तिर्यग्योनिकाः पश्चिमेन

काप्रभा पृथिवी के (नेरइया) नारक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम, उत्तर में (असंखेज्जगुणा) असंख्यात गुणा हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा हैं (दाहिणिल्लेहिंतो बालु-यप्पभा पुढवीनेरइएहिंतो) दक्षिण के बालुकाप्रभा पृथिवी के नारकों से (दुइयाए सक्करप्पभाए पुढवीए) दूसरी शर्कराप्रभा पृथिवी के (नेरइया) नारक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम और उत्तर में (असंखेज्जगुणा) असंख्यात गुणा हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में उनसे भी असंख्यात गुणा हैं (दाहिणिल्लेहिंतो सक्करप्पभा पुढवीनेरइए हिंतो) दक्षिण दिशा के शर्कराप्रभा पृथिवी के नारकों से (इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए) इस रत्नप्रभा पृथिवी के (नेरइया) नारक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम उत्तर में (असंखेज्जगुणा) असंख्यात गुणा हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में उनसे भी असंख्यात गुणा हैं ।

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा (सञ्चत्थोवा पंचिंदिया) सब से कम पंचेन्द्रिय (तिरिक्खजोणिया) तिर्यक् योनिक जीव (पच्छिमेणं)

बालुकाप्रभा पृथिवीना (नेरइया) नारक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेण) पूर्व, पश्चिम उत्तरमा (असंखेज्जगुणा) असंख्यात गुणा छे (दाहिणेण असंखेज्जगुणा) दक्षिणमा असंख्यात गुणा छे (दाहिणिल्लेहिंतो बालुयप्पभा पुढवी नेरइएहिंतो) दक्षिणमा बालुकाप्रभा पृथिवीना नारकेथी (दुइयाए सक्करप्पभाए पुढवीए) भीए शर्कराप्रभा पृथिवीना (नेरइया) नारक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेण) पूर्व, पश्चिम अने उत्तरमा (असंखेज्जगुणा) असंख्यात गुणा छे (दाहिणेण असंखेज्जगुणा) दक्षिणमा पण तेमनाथी पण अधिक असंख्यात गुणा छे (दाहिणिल्लेहिंतो सक्करप्पभा पुढवी नेरइएहिंतो) दक्षिण दिशाना शर्कराप्रभा पृथिवीना नारकेथी (इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए) आ रत्नप्रभा पृथिवीना (नेरइया) नारक (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेण) पूर्व, पश्चिम, उत्तरमा (असंखेज्जगुणा) असंख्यात गुणा छे (दाहिणेण असंखेज्जगुणा) दक्षिणमा तेमनाथी पण असंख्यात गुणा छे

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा (सञ्चत्थोवा पंचिंदिया) अधाथी ओछा

पौरस्त्येन विशेषाधिकाः, दक्षिणेन विशेषाधिकाः उत्तरेण विशेषाधिकाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोका मनुष्याः दक्षिणोत्तरेण, पौरस्त्येन संख्येयगुणाः पश्चिमेन विशेषाधिकाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोका भवनवासिनो देवाः पौरस्त्येन पश्चिमेन उत्तरेण असंख्येयगुणाः, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोकाः वानव्यन्तराः देवाः पौरस्त्येन पश्चिमेन विशेषाधिकाः, उत्तरेण विशेषाधिकाः,

पश्चिम में हैं (पुरच्छिमेणं विसेसाहिया) पूर्व में उनसे विशेषाधिक हैं (दाहिणेणं विसेसाहिया) दक्षिण में उनसे विशेषाधिक हैं (उत्तरेणं विसेसाहिया) उत्तर में उनसे भी विशेषाधिक हैं ।

(दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा मणुस्सा दाहिणउत्तरेणं) दिशाओं की अपेक्षा सबसे कम मनुष्य दक्षिण-और उत्तर में हैं (पुरच्छिमेणं संखेज्जगुणा) (पूर्व में संख्यात गुणा अधिक हैं (पच्चत्थिमेणं विसेसाहिया) पश्चिम में विशेषाधिक हैं ।

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा भवणावासी देवा) सब से कम भवनवासी देव (पुरच्छिमेणं पच्चत्थिमेणं) पूर्व और पश्चिम में हैं (उत्तरेणं असंखेज्जगुणा) उत्तर में असंख्यात गुणा (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा हैं ।

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा वाणमंतरा देवा) सबसे कम वानव्यन्तर देव (पुरच्छिमेणं) पूर्व में हैं (पच्चत्थिमेणं

पश्चिमेणं विसेसाहिया) (तिरिक्खजोणिया) तिर्य्थोनिक्क एव (पच्छिमेणं) पश्चिममा (पुरच्छिमेणं विसेसाहिया) पूर्वमा तेनाथी विशेषाधिकं छे (दाहिणेणं विसेसाहिया) दक्षिणमा पणु तेथी विशेषाधिकं छे (उत्तरेणं विसेसाहिया) उत्तरमा तेमनाथी पणु विशेषाधिकं छे.

(दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा मणुस्सा दाहिणउत्तरेणं) दिशाओं की अपेक्षाओं को अध्यायी ओछा मनुष्य दक्षिण और उत्तरमा छे (पुरच्छिमेणं संखेज्जगुणा) पूर्वमा संख्यात गुणा अधिकं छे (पच्चत्थिमेणं विसेसाहिया) पश्चिममा विशेषाधिकं छे

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा भवणावासी देवा) अध्यायी ओछा भवनवासी देव (पुरच्छिमेणं पच्चत्थिमेणं) पूर्व और पश्चिममा छे (उत्तरेणं असंखेज्जगुणा) उत्तरमा असंख्यात गुणा छे (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिणमा असंख्यात गुणा छे (दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षाओं (सव्वत्थोवा वाणमंतरा देवा) अध्यायी ओछा वानव्यन्तर देव (पुरच्छिमेणं पूर्वमा छे (पच्चत्थिमेणं विसेसाहिया) पश्चिममा विशेषाधिकं छे (उत्तरेणं विसे-

दक्षिणेन विशेषाधिकः, दिग्नुपातेन सर्वस्तोकाः ज्योतिष्कादेवाः पौरस्त्य पश्चिमेन दक्षिणेन विशेषाधिकः, उत्तरेण त्रिजोपाधिकाः, दिग्नुपातेन सर्वस्तोका देवाः सौधर्म कल्पे पौरस्त्यपश्चिमेन उत्तरेण असंख्येयगुणाः, दक्षिणेन विशेषाधिकः, दिग्नुपातेन सर्वस्तोका देवा ईशाने कल्पे पौरस्त्यपश्चिमेन उत्तरेण असंख्येयगुणाः, दक्षिणेन विशेषाधिकः, दिग्नुपातेन सर्वस्तोकाः देवाः सनत्कु-

विसेसाहिया) पश्चिम में विशेषाधिक हैं (उत्तरेण विसेसाहिया) उत्तर में विशेषाधिक हैं (दाहिणेण विसेसाहिया) दक्षिण में विशेषाधिक हैं।

(दिसाणुवाण्णं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा जोइसिया देवा) सब से कम ज्योतिष्क देव (पुरच्छिम पच्चत्थिमेणं) पूर्व और पश्चिम में हैं (दाहिणेण विसेसाहिया) दक्षिण में विशेषाधिक हैं (उत्तरेण विसेसाहिया) उत्तर में विशेषाधिक हैं।

(दिसाणुवाण्णं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा देवा) सब से कम देव (सोहम्मै कप्पे) सौधर्म कल्प में (पुरच्छिम पच्चत्थिमेणं) पूर्व पश्चिम दिशा में हैं (उत्तरेण असंखेज्जगुणा) उत्तर में असंख्यातगुणा हैं (दाहिणेण विसेसाहिया) दक्षिण में विशेषाधिक हैं।

(दिसाणुवाण्णं सव्वत्थोवा देवा ईसाणे कप्पे पुरच्छिम पच्चत्थिमेणं) दिशाओं की अपेक्षा सब से कम देव ईशानकल्प में पूर्व-पश्चिम में हैं (उत्तरेण असंखेज्जगुणा) उत्तर में असंख्यात गुणा हैं (दाहिणेणं

सहिया) उत्तरमा विशेषाधिक छे (दाहिणेण विसेसाहिया) दक्षिणमा विशेषाधिक छे

(दिसाणुवाण्णं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा जोइसिया देवा) अधाथी ओछा ज्योतिष्क देव (पुरच्छिमपच्चत्थिमेणं) पूर्व अने पश्चिममा छे (दाहिणेण विसेसाहिया) दक्षिणमा विशेषाधिक छे (उत्तरेण विसेसाहिया) उत्तरमा विशेषाधिक छे

(दिसाणुवाण्णं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा देवा) सौथी ओछा (लंतककप्पे) दान्तक कल्पमा (पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेण) पूर्वपश्चिम अने उत्तरमा छे (दाहिणेणं असंखिज्जगुणा) दक्षिणमा असंख्यातगुणा छे

(दिसाणुवाण्णं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा देवा) अधाथी ओछा देव (सोहम्मै कप्पे) सौधर्म कल्पमा (पुरच्छिमपच्चत्थिमेणं) पूर्व पश्चिम दिशामा छे (उत्तरेण असंखेज्जगुणा) उत्तरमा असंख्यात गुणा छे (दाहिणेणं विसेसाहिया) दक्षिणमा विशेषाधिक छे

(दिसाणुवाण्णं सव्वत्थोवा देवा ईसाणे कप्पे पुरच्छिमपच्चत्थिमेणं) दिशाओं की अपेक्षा अधाथी ओछा देव ईशानकल्पमा पूर्व पश्चिममा छे (उत्तरेणं

मारे कल्पे पौरस्त्यपश्चिमेन उत्तरेण असंख्येयगुणाः, दक्षिणेन विशेषाधिकाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोका देवाः माहेन्द्रे कल्पे पौरपस्त्यपश्चिमेन उत्तरेण असंख्येय-गुणाः, दक्षिणेन विशेषाधिकाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोकाः देवाः ब्रह्मलोके कल्पे पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोका देवाः

विसेसाहिया) दक्षिण में विशेषाधिक हैं ।

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा देवा) सब से कम देव (सणकुमारे कप्पे) सनत्कुमार कल्प में (पुरच्छिम पच्चत्थिमेणं) (पूर्व और पश्चिम में हैं (उत्तरेणं असंखेज्जगुणा) उत्तर में असंख्यात गुणा हैं (दाहिणेणं विसेसाहिया) दक्षिण में विशेषाधिक हैं ।

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा देवा) सब से कम देव (माहिंदे कप्पे) माहेन्द्र कल्प में (पुरच्छिम पच्चत्थिमेणं) पूर्व और पश्चिम में हैं (उत्तरेणं असंखेज्जगुणा) उत्तर में असंख्यात गुणा हैं (दाहिणेणं विसेसाहिया) दक्षिण में विशेषाधिक हैं ।

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा देवा) सब से कम देव (वंभलोए कप्पे) ब्रह्मलोक कल्प में (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम और उत्तर में हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा हैं ।

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा देवा) सब से कम देव (लंतए कप्पे) लान्तक कल्प में (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं)

असंखेज्जगुणा) उत्तरमा अस भ्यात शुष्सा छे (दाहिणेण विसेसाहिया) दक्षिणमा विशेषाधिक छे

(दिसाणुवाएण) दिशाओंकी अपेक्षा (सव्वत्थोवा देवा) अधार्थी ओछा देव (सणकुमारे कप्पे) सनत्कुमार कल्पमा (पुरच्छिम पच्चत्थिमेण) पूर्व, पश्चिममा छे (उत्तरेण असंखेज्जगुणा) उत्तरमा अस भ्यात शुष्सा छे (दाहिणेण विसेसाहिया) दक्षिणमा विशेषाधिक छे

(दिसाणुवाएण) दिशाओंकी अपेक्षा (सव्वत्थोवा देवा) अधार्थी ओछा देव (माहिंदे कप्पे) माहेन्द्र कल्पमा (पुरच्छिम पच्चत्थिमेण) पूर्व अने पश्चिममां छे (उत्तरेण असंखेज्जगुणा) उत्तरमा अस भ्यात शुष्सा छे (दाहिणेण विसेसाहिया) दक्षिणमा विशेषाधिक छे

(दिसाणुवाएण) दिशाओंकी अपेक्षा (सव्वत्थोवा देवा) अधार्थी ओछा देव (वंभलोए कप्पे) ब्रह्मलोक देव कल्पमा (पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेण) पूर्व, पश्चिम अने उत्तरमा छे (दाहिणेण असंखेज्जगुणा) दक्षिणमा अस भ्यात शुष्सा छे

लान्तके कल्पे पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोकाः देवाः महाशुक्ले कल्पे पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण, दक्षिणेन असंख्येय-गुणाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोका देवाः सहस्रारे कल्पे पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण, दक्षिणेन असंख्येयगुणाः । तेन परं बहुसमोपपन्नाः श्रमणायुष्मन् ! दिगनुपातेन सर्वस्तोकाः सिद्धाः दक्षिणेन उत्तरेण, पौरस्त्येन संख्येयगुणाः, पश्चिमेन विशेषाधिकाः, द्वारम् ॥ सू० २ ॥

पूर्व, पश्चिम और उत्तर में हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा हैं ।

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा देवा) सब से कम देव (महाशुक्ले कल्पे) महा शुक्ल कल्प में (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) (पूर्व, पश्चिम और उत्तर में है (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा है ।

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा देवा) सब से कम देव (सहस्रारे कल्पे) सहस्रार कल्प में (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व, पश्चिम, उत्तर में हैं (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा है (तेण परं) उससे आगे (बहुसमोवन्नगा) बिल्कुल समान उत्पन्न होने वाले हैं (समणाजसो) है आयुष्मन् श्रमणो !

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा सिद्धा) सब से कम सिद्ध (दाहिणेणं उत्तरेणं) दक्षिण में और उत्तर दिशा में (पुर-

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा देवा) अधार्थी ओछा देव (महाशुक्ले कल्पे) महाशुक्ल कल्प में (पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व पश्चिम और उत्तर में है (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा है

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा देवा) अधार्थी ओछा देव (सहस्रारे कल्पे) सहस्रार कल्प में (पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं) पूर्व पश्चिम और उत्तर में है (दाहिणेणं असंखेज्जगुणा) दक्षिण में असंख्यात गुणा है (तेण परं) तेनाथी आगे (बहुसमोवन्नगा) बिल्कुल समान उत्पन्न थाना (समणाजसो) है आयुष्मन् श्रमणो !

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं की अपेक्षा (सव्वत्थोवा सिद्धा) अधार्थी ओछा सिद्ध (दाहिणेणं उत्तरेणं) दक्षिण और उत्तर दिशा में (पुरच्छिमेणं असंखेज्जगुणा) पूर्व में असंख्यात गुणा अधिक है (पच्चत्थिमेणं विसेसाहिया) पश्चिम में विशेषाधिक है ॥ २ ॥

टीका—अथ विशेषरूपेण दिग्गनुपातेन जीवानामल्पवहुत्वं प्ररूपियतुमाह—
 'दिसाणुवाएणं सव्वत्थोचा पुढविकाइया दादिणेणं' दिग्गनुपातेन दिशोऽनुसृत्य,
 दिग्गपेक्षयेत्यर्थः, सर्वस्तोकाः—सर्गेभ्योऽल्पाः, पृथिवीकायिकाः प्ररूप्यमाणा
 दक्षिणेन—दक्षिणस्यां दिशि भवन्ति तत्र कारणन्तु—यत्र धनं स्थानं तत्र बहवः
 पृथिवीकायिकाः, यत्र तु रन्ध्रं तत्र अल्पाः भवन्ति, दक्षिणस्यां दिशि बहूनां
 भवनपतिभवनानां, बहूनाञ्च नरकावासानां सत्त्वेन रन्ध्रवाहुल्यसंभवात् दक्षिणस्या
 दिशि पृथिवीकायिकाः सर्वस्तोका भवन्तीत्याशयः, 'उत्तरेणं विसेसाहिया'
 दक्षिणदिग्गपेक्षया उत्तरेण उत्तरस्यां दिशि विशेषाधिकाः भवन्ति, उत्तरस्यां
 दिशि दक्षिणदिग्गपेक्षया अल्पानामेव भवनपतिभवनानां स्तोकानामेव नरका-
 वासानां सत्त्वेन धनस्थानवाहुल्यसंभवेन बहवः पृथिवीकायिका भवन्ति इति

च्छिमेणं संखेज्जगुणा) पूर्व में संख्यात गुणा हैं (पच्चत्थिमेणं विसे-
 साहिया) पश्चिम में विशेषाधिक हैं ।

टीकार्थ—अथ विशेष रूप से दिशाओं की अपेक्षा से जीवों के
 अल्पवहुत्व की प्ररूपणा की जाती है—

दिशाओं की अपेक्षा विचार करने पर दक्षिण दिशा में सब से
 कम पृथिवीकायिक जीव हैं । इसका कारण यह है कि जहां ठोस
 स्थान होता है वहां पृथिवीकायिक जीव बहुत होते हैं और जहां
 छिद्र या पोल होती है वहां थोड़े होते हैं । दक्षिण दिशा में बहुत-से
 भवनपतियों के भवन और नारकावास होने के कारण रंध्रों की बहु-
 लता है । इस कारण दक्षिण दिशा की अपेक्षा उत्तर दिशा में पृथिवी-
 कायिक विशेषाधिक हैं, क्यों कि उत्तर में दक्षिण दिशा की अपेक्षा
 भवनपतियों के भवन और नारकावास कम हैं । अतएव वहां सघन

टीकार्थ—हुवे विशेषे इपे दिशाओनी अपेक्षाधी लोवोना अल्पवहुत्वनी
 प्ररूपणा कराय छे.

दिशाओनी अपेक्षाओ विचार करवाथी दक्षिण दिशाभा अधाधी ओछा
 पृथिवीकायिक लव छे. तेतु कारणु ओ छे के न्या नकरर स्थान होय छे त्या
 पृथिवीकायिक लव धणु होय छे अने न्या छिद्र के पोल होय छे त्या थोडा
 होय छे दक्षिण दिशाभा धणु भवनपतियोना भवन अने नारकावास होवाना
 कारणु रंध्रोनी विपुलता छे. ते कारणु दक्षिण दिशाभा पृथिवीकायिक अधाधी
 ओछा छे दक्षिण दिशानी अपेक्षाओ उत्तर दिशाभा पृथिवीकायिक विशेषाधिक
 छे. केभके उत्तरभा दक्षिण दिशानी अपेक्षाओ भवनपतियोना भवन अने नारका

विशेषाधिकाः, 'पुरच्छिमेण विसेसाहिया' पौरुषेन-तेभ्योऽपि पूर्वस्यां दिशि पृथिवीकायिकाः विशेषाधिका भवन्ति, चन्द्रसूर्यद्वीपानां पूर्वस्यां दिशि सत्त्वेन पृथिवीकायिकानां तत्र बाहुल्यसंभवात्, तेभ्योऽपि 'पच्छिमेण विसेसाहिया' पश्चिमेन-पश्चिमायां दिशि पृथिवीकायिकाः विशेषाधिका भवन्ति, यावता चन्द्रसूर्यद्वीपानां पूर्वस्यां दिशि सत्त्वं तावतां पश्चिमायां दिशि सत्त्वेऽपि न तावता साम्यं भवति अपितु लवणसमुद्रे गौतमनामद्वीपस्य अधिरम्यापि सत्त्वेन विशेषाधिकं सिद्धम्, इत्येवं दिगनुपातेन पृथिवीकायिकानां मल्पबहुत्वं प्रस्य सम्प्रति अप्कायिकानां मल्पबहुत्वं प्ररूपयितुमाह- 'दिसाणुवाएणं सन्वत्थोवा आरुक्का-इया पच्छिमेण' दिगनुपातेन दिगनुसारेण, दिग्पेक्षयेत्यर्थः, सर्पस्तोकाः-सर्वेऽभ्योऽल्पाः, अप्कायिकाः पश्चिमेन-पश्चिमाया दिशि वर्तन्ते तत्र गौतमद्वीपस्य सत्त्वेन तत्रोदका भावेनाप्कायिकाभावात् तदपेक्षया 'पुरच्छिमेण विसेसाहिया'

स्थान अधिक है। पूर्व दिशा में उत्तर की अपेक्षा भी पृथिवीकायिक विशेषाधिक हैं, क्यों कि पूर्व में चन्द्र-सूर्य द्वीप होने से पृथिवीकायिकों का बाहुल्य है। पूर्व दिशा की अपेक्षा भी पश्चिम में विशेषाधिक हैं क्योंकि जितने चन्द्र-सूर्य द्वीप पूर्व में हैं उतने तो पश्चिम में हैं ही, मगर लवणसमुद्र में गौतम नामक द्वीप पश्चिम में अधिक है, अतएव पृथिवीकायिक भी अधिक हैं।

पृथिवीकायिकों के अल्पबहुत्व की प्ररूपणा करके अब दिशाओं की अपेक्षा अप्कायिकों के अल्पबहुत्व की प्ररूपणा की जाती है-

दिशाओं की अपेक्षा सबसे कम अप्कायिक पश्चिम दिशा में हैं क्यों कि पश्चिम दिशा में गौतम द्वीप होने के कारण वहाँ जल कम है। उनकी अपेक्षा पूर्व दिशा में अप्कायिक विशेषाधिक हैं; क्योंकि

वास ओछा छे, तेथीन् त्या सधन स्थान अधिक छे, केमके पूर्वमा चन्द्र, सूर्य द्वीप होवाथी पृथ्वीकायिकेणु बाहुल्य छे पूर्व दिशानी अपेक्षाये पणु पश्चिममा विशेषाधिक छे केमके नेटला चन्द्र सूर्य द्वीप पूर्वमा छे तेटला तो पश्चिममा पणु छे न परन्तु लवण समुद्रमा गौतम नामक द्वीप पश्चिममा अधिक छे, तेथीन् पृथ्वीकायिक पणु अधिक छे.

पृथ्वीकायिकेणा अल्प बहुत्वनी प्ररूपणा करीने डवे दिशाओनी अपेक्षाये अप्कायिकेणा अल्पबहुत्वनी प्ररूपणा कराय छे

दिशाओनी अपेक्षाये अधाथी ओछा अप्कायिक पश्चिम दिशामा छे, केमके पश्चिम दिशामा गौतमद्वीप होवाना कारणे त्या नण ओछु छे-तेनी

पैरिस्त्येन-पूर्वस्यां दिशि अष्कायिकाः विशेषाधिका भवन्ति, तरयां गौतमद्वीपा भावेनाष्कायिक सद्भावात्, तेभ्योऽपि-‘दाहिणेणं विसेसाहिया’ दक्षिणेन-दक्षिणस्यां दिशि अष्कायिका विशेषाधिका भवन्ति तस्यां दिशि चन्द्रसूर्यद्वीपा भावेनाष्कायिकवाहुल्य संभवात्, तेभ्योऽपि ‘उत्तरेण विसेसाहिया’ उत्तरेण-उत्तरस्यां दिशि अष्कायिकाः विशेषाधिका भवन्ति, तत्र मानससरसः सद्भावेन अष्कायिक वाहुल्यसंभवात्, अथ दिगनुपातेन तेजरकायिकाल्पवहुत्वं प्रस्पयति -‘दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा तेउक्काइया दाहिणुत्तरेणं’ दिगनुपातेन-दिगपेक्षया, सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पास्तेजस्कायिकाः दक्षिणोत्तरेण-दक्षिणस्याम् उत्तरस्यां च दिशि भवन्ति तत्र कारणन्तु-मनुष्यक्षेत्रे एव वादरतेजस्कायिकानां सत्त्वेन अप्यत्रासत्त्वात्, तत्रापि मनुष्यवाहुल्यस्थाने एव वाहुल्येन पाकारम्भसंभवेन तेजस्कायिकानां वाहुल्यसंभयः दक्षिणस्यां दिशि पञ्चसु भगतेषु उत्तरस्यां दिशि पञ्चसु एष्वतेषु क्षेत्रस्याल्पत्वात् मनुष्याणां स्तोत्रत्वेन तेजस्कायिकानामपि

पूर्व में गौतम द्वीप नहीं है और उसके चटले जल है । पूर्व की अपेक्षा दक्षिण में अष्कायिक विशेषाधिक हैं, क्योंकि वहाँ चन्द्र सूर्य के द्वीपों का अभाव है और दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में विशेषाधिक हैं, क्यों कि वहाँ मानस सरोवर होने के कारण अष्कायिकों की बहुलता है ।

दिशाओं की दृष्टि से सब से कम तेजस्कायिक दक्षिण और उत्तर दिशा में हैं । इसका कारण यह है-मनुष्य क्षेत्र में ही वादर तेजस्कायिक जीवों का अस्तित्व होता है, अन्यत्र नहीं । उसमें भी जहाँ मनुष्यों की अधिकता होती है वहाँ पचन-पाचन की प्रवृत्ति अधिक होती है और इस कारण तेजस्कायिकों की बहुलता होती है । दक्षिण दिशा में पांच भरत क्षेत्रों और उत्तर दिशा में पांच ऐरवत क्षेत्रों

अपेक्षाये पूर्व दिशाया अष्कायिक विशेषाधिक छे, केभके पूर्वमा गौतमद्वीप नथी अने तेने चटले पाणी छे पूर्वनी अपेक्षाये दक्षिणमा अष्कायिक विशेषाधिक छे, केभके त्या चन्द्र, सूर्यना द्वीपानो अलाप छे अने दक्षिणनी अपेक्षाये उत्तरमा विशेषाधिक छे केभके त्या मानसरोवर टोयाना कारणे अष्कायिकेनी बहुलता छे ।

दिशाओंनी अपेक्षाथी सौथी आछा तेजस्कायिके छे दक्षिण अने उत्तर दिशाया छे तेनु कारणे ये छे के मनुष्यक्षेत्रमात्र वादर तेजस्कायिक जीवोनु विद्यमान पणु डाय छे जीने नही तेमा पणु तथा मनुष्योनु अधिकपणु डाय छे, त्या पचन, पाचननी प्रवृत्ति विशेष डाय छे अने ते कारणे तेजस्कायिकेनी प्रचुरता डाय छे दक्षिण दिशाया पाच भरतक्षेत्रमा अने उत्तर

स्तोक्तत्वं भवति अल्पपाकारम्भसंभवात् तस्मात् दक्षिणोत्तरयोः सर्वस्तोकास्तैजस्कायिका भवन्ति, स्वस्थानेषु प्रायः समानाएवेति. तेभ्योऽपि 'पुरन्च्छिमेण संखेज्जगुणा' पौरस्त्येन पूर्वस्यां दिशि, तेजस्कायिकाः संख्येयगुणाः भवन्ति, तत्र क्षेत्रस्य संख्येयगुणत्वात्, तेभ्योऽपि 'पच्छिमेण विसेसाहिया' पश्चिमेन-पश्चिमायां दिशि तेजस्कायिकाः विशेषाधिका भवन्ति, अधोलौकिकग्रामेषु मनुष्य-बाहल्यसद्भावात्. अथ दिगनुपातेन वायुकायिकानामल्पसद्भुत्वं प्ररूपयति- 'दिसाणुवाएणं सक्खथोवा वाउक्काडया पुरन्च्छिमेणं' दिगनुपातेन दिगपेक्षया, सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः, वायुकायिकाः पौरस्त्येन-पूर्वस्यां दिशि भवन्ति, पूर्वस्यां दिशि प्रभूतघनस्थानसत्त्वेन सुपिराभावात् स्तोका एव वायवो भवन्ति, घनस्थाने वायुनां संचाराभावात् इत्याशयः तेभ्यः 'पच्छिमेणं विसेसाहिया' पश्चिमेन-पश्चिमायां दिशि, विशेषाधिका वायुकायिका भवन्ति, तत्र अधोलौकिकग्राम-सद्भावात्, तेभ्यः 'उत्तरेणं विसेसाहिया' उत्तरेण-उत्तरस्यां दिशि वायुकायिका

में क्षेत्र की अल्पता होने से मनुष्य कम हैं, अतएव तेजस्कायिक भी कम हैं। स्वस्थान में प्रायः समान हैं। इन दोनों दिशाओं की अपेक्षा पूर्व में संख्यात गुणा अधिक हैं, क्योंकि वहां क्षेत्र संख्यात गुणा है। उनसे भी पश्चिम दिशा में तेजस्कायिक विशेषाधिक हैं, क्योंकि अधोलौकिक ग्रामों में मनुष्यों की बहुलता होती है।

दिशाओं की अपेक्षा से सबसे कम वायुकायिक पूर्व में हैं, क्योंकि पूर्व में सघन स्थान अधिक होने से पोल कम है, अतएव वायु की कमी है। सघन स्थान में वायु का संचार नहीं होता। पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में वायुकायिक विशेषाधिक हैं, क्योंकि वहां अधोलौकिक ग्राम होते हैं। उत्तर में उससे भी विशेषाधिक हैं, क्योंकि

दिशाभा प्रायः ऋरवतक्षेत्रेभा क्षेत्रानु अल्प पण्डु डोवाथी मनुष्ये ओछा डोय छे स्वस्थानभा प्राय सरभा डोय छे. अने उत्तर दिशाओनी अपेक्षाथी पूर्वभा स ज्यात गणुा वधारे छे. डेभके त्या क्षेत्र स ज्यात गणुा छे, तनाथी पण्डु पश्चिम दिशाभा तेजस्कायिके विशेषाधिक छे. डेभके अधोलौकिक ग्रामेभा मनुष्येनु अधिक पण्डु डोय छे

दिशाओनी अपेक्षाओ अधाथी ओछा वायुकायिक पूर्वभा छे डेभ के पूर्वभा सघन स्थान डोवाथी पोलाणु ओछु छे, तेथी वायुनी कमी छे सघन स्थानेभा वायुने स चार नथी थते। पूर्वनी अपेक्षाओ पश्चिमभा वायुकायिक विशेषाधिक छे डेभके त्या अधोलौकिक ग्राम डोय छे. उत्तरभा तेनाथी पण्डु ओछा विशेषाधिक छे. डेभके त्या नारकावासेनी बहुलता डोवाथी रन्ध्र अधिक

विशेषाधिका भवन्ति, तत्र भवन नैरयिकावासवाहुल्येन प्रभूतरन्ध्रसंभवात्, तेभ्योऽपि 'दाहिणेणं सिसेसाहिया' दक्षिणेन—दक्षिणस्यां दिशि वायुकायिकाः विशेषाधिकाः भवन्ति, उत्तरदिगपेक्षया दक्षिणस्यां दिशि भवननरकावासानाम-तिप्राचुर्यात् इत्याशयः, अथ दिगनुपातेन वनस्पतिकायिकानामल्पबहुत्वं प्ररूपयितुमाह—'दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया पञ्चत्थिमेणं' दिगनुपातेन—दिगपेक्षया, सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः वनस्पतिकायिकाः पश्चिमेन—पश्चिमायां दिशि, तत्र गौतमद्वीपसत्त्वेन तस्मिन् जलाभावेन वनस्पतिकायिका-भावः, तेभ्यः 'पुरच्छिमेणं विसेसाहिया' पौरस्त्येन—पूर्वस्यां दिशि वनस्पतिकायिका विशेषाधिका भवन्ति, तत्र गौतमद्वीपाभावेन प्रभूतोदक सम्भात् तेभ्योऽपि 'दाहिणेणं विसेसाहिया' दक्षिणेन—दक्षिणस्यां दिशि वनस्पतिकायिका विशेषाधिका भवन्ति, तत्र चन्द्रसूर्यद्वीपाभावेन प्रचुरजलसद्भावात् वनस्पतिकायिकवाहुल्यसम्भवः, तेभ्योऽपि 'उत्तरेण निसेसाहिया' उत्तरेण—उत्तरस्यां दिशि वनस्पतिकायिका विशेषाधिका भवन्ति, तत्र मानससरः सद्भावेन प्रभू-वर्हा नारकावासों की बहुलता होने से रन्ध्र अधिक हैं। दक्षिण में उत्तर की अपेक्षा भी वायुकायिक विशेषाधिक हैं, क्योंकि दक्षिण में भवनों और नरकावासों की अत्यन्त प्रचुरता है।

दिशाओं की अपेक्षा सब से कम वनस्पतिकायिक पश्चिम दिशा में हैं, क्योंकि वहाँ गौतम द्वीप होने से जल की कमी है और जल कम होने से वनस्पतिकायिक जीव भी कम हैं। पश्चिम की अपेक्षा पूर्व दिशा में वनस्पतिकायिक विशेषाधिक हैं, क्योंकि गौतमद्वीप न होने से वहाँ जल अधिक है। दक्षिण में वनस्पतिकायिक उनसे भी विशेषाधिक हैं, क्योंकि चन्द्रद्वीप एवं सूर्यद्वीप का अभाव होने से वहाँ जल की प्रचुरता है और इस कारण वनस्पतिकायिकों की बहुलता है। उत्तर दिशा में दक्षिण की अपेक्षा भी विशेषाधिक

छे दक्षिणमा उत्तरनी अपेक्षाये पणु वायुकायिक विशेषाधिक छे, केमके दक्षिणमा लवनो अने नारकावासोनी अत्यन्त प्रचुरता छे.

दिशायेनी अपेक्षाये अधाथी योछा वनस्पतिकायिक पश्चिमदिशामा छे, केमके त्या गौतमद्वीप डोवाथी पाणीनी तगी छे तेथी वनस्पतिकायिक एव पणु योछा छे. पश्चिमनी अपेक्षाये पूर्वदिशामा वनस्पतिकायिक विशेषाधिक छे केमके गौतम द्वीप न डोवाथी त्या जल अधिक छे दक्षिणमा वनस्पतिकायिक तेमनाथी विशेषाधिक केमके चन्द्र द्वीप तेमज सूर्यद्वीपने अभाव डोवाथी त्या जणनी प्रचुरता छे अने या डारणे वनस्पतिकायिकोनी अहुलता छे. उत्तर दिशामा दक्षिणनी अपेक्षाये पणु विशेषाधिक छे. केमके त्या मान

तोदकसंभवेन वनस्पतिरूपायिकवाहुल्यसद्भावा दित्याशयः, अथ दिगनुपातेन द्वीन्द्रिषाणामल्पवहुत्ववक्तव्यतां प्ररूपयति—‘दिशाणुवागणं सग्नन्थोया वेदंद्रिया पच्छिमेणं’ दिगनुवातेन—दिगनुसारेण सर्वस्तोका द्वीन्द्रियाः पश्चिमेन पश्चिमायां दिशि भवन्ति, तत्र गौतमद्वीपसत्त्वेन तस्मिन् जन्मानानात् द्वीन्द्रियाणाम् खद्गादीनामभावात् स्तोका एव द्वीन्द्रिया भवन्ति, तेभ्यः ‘पुरच्छिमेणं विसेसाहिया’ पौरस्त्येन—पूर्वस्यां दिशि द्वीन्द्रियाः विशेषाधिकाः भवन्ति, तत्र गौतमद्वीपभावेन प्रभूतोदक सम्भवात् प्रभूतद्वीन्द्रिय शब्दादिसंभवः, तेभ्योऽपि ‘दक्षिणेणं विसेसाहिया’ दक्षिणेन—दक्षिणस्या दिशि द्वीन्द्रियाः शब्दादयो विशेषाधिका भवन्ति, तत्र चन्द्रसूर्यद्वीपभावेन प्रभूतोदकसंभवेन द्वीन्द्रिय शब्दादिवहुल्य संभवः, इत्याशयः तेभ्योऽपि ‘उत्तरेण विसेसाहिया’ उत्तरेण—उत्तरस्यां दिशि द्वीन्द्रियाः शब्दादयो विशेषाधिका भवन्ति, तत्र मानससरः सद्भावेन प्रचुरजल-

हैं, क्योंकि वहाँ मानस सरोवर होने से जल की अधिकता है और जल की अधिकता के कारण वनस्पतिकारिकों की भी अधिकता है ॥

अब दिशाओं की अपेक्षा द्वीन्द्रिय जीवों का अल्पवहुत्व बतलाते हैं—दिशाओं की दृष्टि से सब से कम द्वीन्द्रिय जीव पश्चिम दिशा में हैं, क्योंकि वहाँ गौतमद्वीप होने से जल कम है और जल कम होने से शंख आदि द्वीन्द्रिय जीव कम हैं। पश्चिम की अपेक्षा पूर्व दिशा में विशेषाधिक हैं, क्यों कि गौतमद्वीप का अभाव होने से वहाँ जल का आधिक्य है, इस कारण शंख आदि द्वीन्द्रिय जीवों की अधिकता है। दक्षिण में विशेषाधिक हैं, क्यों कि वहाँ चन्द्र-सूर्यद्वीप नहीं होने से जल अधिक है और इस कारण शंख आदि भी अधिक हैं। उत्तर में द्वीन्द्रिय उनसे भी विशेषाधिक हैं, क्योंकि वहाँ मानस-

सरोवर होवाथी जगनी अधिकता छे अने जगनी अधिकताने कारणे वनस्पतिकारिकानी अधिकता छे

इवे दिशाओनी अपेक्षाओ द्वीन्द्रिय जिवोना अल्पवहुत्व बतलावे छे. दिशाओनी दृष्टिओ अधाथी ओछा द्वीन्द्रिय जिव पश्चिम दिशाभा छे केमके त्या गौतमद्वीप होवाथी पाण्डी ओछु अने पाण्डी ओछु होवाथी शंख आदि द्वीन्द्रिय जिव पण्डी ओछा छे पश्चिमनी अपेक्षाओ पूर्व दिशाभा विशेषाधिक छे केमके गौतमद्वीपना अभाव होवाथी त्या जलनु आधिक्य छे ओथी शंख आदि द्वीन्द्रिय जिवोनी अधिकता छे दक्षिणभा विशेषाधिक छे, केमके त्या चन्द्र सूर्यद्वीप न होवाथी जग अधिक छे अने ओ कारणे शंख आदि पण्डी अधिक छे उत्तरभा द्वीन्द्रिय तेनाथी विशेषाधिक छे. केमके त्या मानससरोवर

संभवात् बहुलद्वीन्द्रियसंभवः इत्याशयः अथ त्रीन्द्रियाणां दिगनुपातेनाल्पबहुत्वं प्ररूपयितुमाह—‘दिसाणुवाएणं सन्वत्थोवा तेइंदिया पच्चत्थिमेणं’ दिगनुपातेन—दिगपेक्षया सर्वस्तोकाः सर्वेभ्योऽल्पाः, त्रीन्द्रियाः कुन्श्वादयः पिपीलिकादयश्च पश्चिमेन—पश्चिमायां दिशि भवन्ति, तत्र गौतमद्वीप सद्भावेन प्रभूतोदकाभावात् द्वीन्द्रिय शब्दादिकलेवराश्रित पिपीलिकादि त्रीन्द्रियासंभवः, तेभ्योऽपि ‘पुरच्छिमेणं विसेसाहिया’ पौरस्त्येन—पूर्वस्यां दिशि द्वीन्द्रियाश्रितत्रीन्द्रियाः विशेषाधिकाः भवन्ति, तत्र गौतमद्वीपाभावेन प्रभूतजलसद्भावात् बहुलत्रीन्द्रियसम्भवः, तेभ्योऽपि ‘दाह्णिणेणं विसेसाहिया’ दक्षिणेन—दक्षिणस्यां दिशि, त्रीन्द्रियाः विशेषाधिकाः भवन्ति, तत्र चन्द्रसूर्यद्वीपाभावेन प्रभूतजलसद्भावात् प्रचुरत्रीन्द्रियसद्भावः, तेभ्योऽपि ‘उत्तरेणं विसेसाहिया’ उत्तरेण उत्तरस्यां दिशि त्रीन्द्रियाः विशेषाधिकाः भवन्ति, तत्र मानससरः सद्भावेन प्रभूतजलसंभवात् बहु-

सरोवर होने से जल की प्रचुरता है, इस से शंखादि द्वीन्द्रिय जीवों की भी अधिकता है ।

त्रीन्द्रिय जीवों का अल्पबहुत्व—सब से कम त्रीन्द्रिय जीव अर्थात् कुंथु पिपीलिका आदि पश्चिम दिशा में हैं, क्यों कि वहाँ गौतमद्वीप होने से अधिक जल नहीं है और इस कारण द्वीन्द्रिय शंख आदि के कलेवरों के आश्रय में रहने वाले पिपीलिका आदि त्रीन्द्रिय जीव नहीं हैं । पूर्व दिशा में वे विशेषाधिक हैं, क्योंकि वहाँ गौतमद्वीप न होने से अधिक जल है और जल होने से त्रीन्द्रिय जीवों की भी अधिकता है । दक्षिण में उनसे भी विशेषाधिक हैं, क्योंकि वहाँ चन्द्र-सूर्य द्वीप का अभाव होने से प्रभूत जल है और इस कारण त्रीन्द्रिय जीव ज्यादा हैं । उत्तर दिशा में दक्षिण की अपेक्षा भी विशेषाधिक हैं, क्योंकि वहाँ मानस सरोवर होने से जल की अधिकता है ।

डोवाथी जणनी प्रचुरता छे, तेथी श भादि द्वीन्द्रिय जिवोनी पणु अधिकता छे.

त्रीन्द्रिय जिवोतु अल्प गहुत्व—अधाथी ओछा त्रीन्द्रिय जिव अर्थात् कुंथु कीडी आदि पश्चिम दिशामां छे, केमके त्या गौतमद्वीप डोवाथी अधिक जण नथी अने तेथी श भ आदि द्वीन्द्रियना कडेवरेना आश्रयमा रहेनारा कीडी विगेरे त्रीन्द्रिय जिव नथी डोता पूर्व दिशामा तेओ विशेषाधिक छे, केमके त्या गौतम द्वीप न डोवाथी अधिक जण अने अधिकजण डोवाथी त्रीन्द्रिय जिवोनी पणु अधिकता छे दक्षिणमा तेमनाथी पणु विशेषाधिक छे केमके त्या चन्द्र सूर्य द्वीपना अभाव छे तेथी धणु पाणी छे अने ओ कारणे त्रीन्द्रिय विगेरे छे उत्तर दिशामा दक्षिणनी अपेक्षाओ पणु विशेषाधिक छे. केमके त्या मानस सरोवर डोवाथी जलनी अधिकता छे

लत्रीन्द्रियसंभवः अथ दिगनुपातेन चतुरिन्द्रियाणामल्पवहुत्वं प्ररूपयति-दिसाणु-
वाएणं सव्वत्थोवा चउरिंदिया पच्चत्थिमेणं' दिगनुपातेन दिगनुसारेण, सर्व-
स्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः, चतुरिदियाः पद्माश्रिताः भ्रमरादयो भवन्ति, तत्र
गौतमद्वीपसत्त्वेन तस्मिन्नुदकाभावात्, तेभ्यः 'पुरच्छिमेणं विसेसाहिया'
पौरस्त्वेन-पूर्वस्यां दिशि चतुरिन्द्रिया भ्रमरादयो विशेषाधिका भवन्ति, तत्र गौतम
द्वीपाभावेन प्रचुरजलसद्भावात् तद्वर्ति पद्माश्रित प्रचुर चतुरिन्द्रियसंभवः,
तेभ्योऽपि 'दाहिणेणं विसेसाहिया' दक्षिणेन-दक्षिणस्यां दिशि चतुरिन्द्रिय
विशेषाधिका भवन्ति, तत्र चन्द्रसूर्यद्वीपाभावेन प्रभूतोदकसद्भावेन तदाश्रित
बहुलचतुरिन्द्रियसंभवः, तेभ्योऽपि 'उत्तरेण विसेसाहिया' उत्तरेण-उत्तरस्यां
दिशि चतुरिन्द्रियाः विशेषाधिका भवन्ति, तत्र मानससरः सद्भावेन प्रभूतजल-
संभवात् तदाश्रित चतुरिन्द्रिय बाहुल्यसंभवः,

चतुरिन्द्रिय जीवों का अल्पवहुत्व-दिशाओं की अपेक्षा से सब
से कम चतुरिन्द्रिय जीव पश्चिम दिशा में हैं, क्यों कि पश्चिम में
गौतम द्वीप होने से जल की कमी है और जल की कमी होने से जल
जन्य कमल आदि का अभाव है और कमल आदि के अभाव में
तदाश्रित भ्रमर आदि का अभाव है । पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में चौड-
न्द्रिय जीव विशेषाधिक हैं, क्यों कि वहां गौतम द्वीप न होने से जल
अधिक है, इस कारण कमल आदि के आश्रित अधिक चतुरिन्द्रिय
जीव हैं । पूर्व की अपेक्षा भी दक्षिण में विशेषाधिक हैं, क्यों कि
दक्षिण में चन्द्रद्वीप सूर्यद्वीप का भी अभाव होने से जल की अधि-
कता है और इस कारण चतुरिन्द्रिय जीवों की भी विशेषाधिकता है
दक्षिण की अपेक्षा भी उत्तर में विशेषाधिक हैं, क्यों कि उत्तर में

चतुरिन्द्रिय जीवों का अल्प-बहुत्व-दिशाओं की अपेक्षा से गणना की जाती है।
चतुरिन्द्रिय जीव पश्चिम दिशा में हैं, केमके पश्चिम में गौतम द्वीप होने से
जल की कमी है और जल की कमी होने से जल जन्य कमल आदि का अभाव है
और कमल आदि के अभाव में तदाश्रित भ्रमर आदि का अभाव है। पश्चिम
की अपेक्षा पूर्व में चौडन्द्रिय जीव विशेषाधिक हैं, क्यों कि वहां गौतम
द्वीप न होने से जल अधिक है, इस कारण कमल आदि के आश्रित अधिक
चतुरिन्द्रिय जीव हैं। पूर्व की अपेक्षा भी दक्षिण में विशेषाधिक हैं, क्यों कि
दक्षिण में चन्द्रद्वीप सूर्यद्वीप का भी अभाव होने से जल की अधिकता है
और इस कारण चतुरिन्द्रिय जीवों की भी विशेषाधिकता है। दक्षिण की
अपेक्षा भी उत्तर में विशेषाधिक हैं, क्यों कि उत्तर में मानससर के
जल के प्रभूत होने से जल की अधिकता है और इस कारण चतुरिन्द्रिय जीवों की
भी विशेषाधिकता है।

अथ दिगनुपातेन नैरयिकाणामल्पबहुत्वं प्ररूपयति—‘दिसाणुवाएणं सव्व-
त्थोवा नेरइया पुरच्छिमपच्चत्थिमउत्तरेणं’ दिगनुपातेन—दिगनुसारेण सर्व-
स्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः नैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण पूर्वस्यां पश्चिमा-
याम् उत्तरस्यां च भवन्ति ताम् पुष्पावकीर्णनरकावासानां स्तोक्तत्वात्
बहूनां प्रायः संख्येययोजनविस्ताराच्च, तेभ्यो—‘दाहिणेणं असंखेज्जगुणा’
एणेन—दक्षिणस्यां दिशि नैरयिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तत्र पुष्पा-
वकीर्णनरकावासानां बाहुल्यात् तेषाञ्च प्रायोऽसंख्येययोजनविस्तारात्, कृष्ण-
पाक्षिकाणां दक्षिणस्यां दिशि बाहुल्येनोत्पादाच्च, अत्रेदं बोध्यम्—द्विविधाः
प्राणिनो भवन्ति शुक्लपाक्षिकाः, कृष्णपाक्षिकाश्च तत्र किञ्चिद्गुणपुद्गलपरावर्त्त-
नमात्रसंसारः शुक्लपाक्षिका व्यपदिश्यन्ते, तदपेक्षया अधिकतर संसारभाजिनस्तु
कृष्णपाक्षिका उच्यन्ते, तथाचोक्तम्—‘जेसि मवड्ढो पुग्गल परियट्ठो सेसओ य
मानस सरोवर होने से जल की प्रचुरता है।

नारकों का अल्पबहुत्व-दिशाओं की अपेक्षा पूर्व पश्चिम और
उत्तर में सब से कम नारक हैं; क्यों कि इन दिशाओं में पुष्पावकीर्ण
नारकावास थोड़े हैं और वे प्रायः संख्यात योजन विस्तार वाले हैं।
इन दिशाओं की अपेक्षा दक्षिण दिशा में असंख्यातगुणा नारक हैं,
क्योंकि दक्षिण में पुष्पावकीर्ण नारकावासों की बहुलता है और वे
प्रायः असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। इस के अतिरिक्त कृष्ण-
पाक्षिक दक्षिण दिशा में बहुलता से उत्पन्न होते हैं। यहाँ इतना
समझ लेना चाहिए—प्राणी दो प्रकार के हैं—शुक्लपाक्षिक और कृष्ण-
पाक्षिक। जिसका विस्तार कुछ कम अर्द्ध पुद्गल परावर्त्तन मात्र शेष
है, उसके पास जो सुक्ति प्राप्त कर लेगे। वे शुक्लपाक्षिक कहलाते
हैं और जिनका संसार-काल इस से अधिक है वे कृष्णपाक्षिक कहे

नारकोऽनु अल्प बहुत्व-दिशाभ्यां अपेक्षायां पूर्व पश्चिम च उत्तरमा
प्राधान्यं आधा नारकं च, केभके च दिशाभ्यां पुष्पावकीर्णं नारकावासं थोडा
च अने ते प्रायः संख्यात योजन विस्तार वाणां च दिशाभ्यां अपेक्षायां
दक्षिण दिशायां असंख्यात गुणा नारकं च, केभके दक्षिणमा पुष्पावकीर्णं
नारकावासेनी बहुलता च, अने तेभ्यो धणा भागे असंख्यात योजन विस्तार
वाणां च तद्गुणान्तं कृष्णपाक्षिकं दक्षिण दिशायां बहुलतायां उत्पन्नं प्रायं च
अर्द्धं अट्ठुं समलं लेपुं जेधं च—प्राणी, ये प्रकारनां च—शुक्लपाक्षिकं अने
कृष्णपाक्षिकं जेनां सारं कथं कथं अर्द्धं पुद्गल परावर्त्तनं मात्रं शेषं च, तेनां पछी
जे सुक्तिं प्राप्तं करीं देखे, ते शुक्लपाक्षिकं कहेवायं च अने जेनां सारं काल
अनाधीं अधिकं च तेभ्यो कृष्णपाक्षिकं कहेवायं च कहुं पणं च—जेनां सारं

संसारो । ते मुक्कपत्रिखया खलु अहिण पुणकण्हपक्खी उ ॥१॥ येषामपार्थपुद्-
गलपरावर्तः, शेषकश्च संसारः । ते शुक्लपाक्षि हाः खलु अधिके पुनः कृष्णपक्षास्तु
॥१॥ अत अल्पा एव शुक्लपाक्षिकाः भवन्ति अल्पसंसारिणाम् तेषाम् अल्पत्वात्,
कृष्णपक्षिकास्तु बहवो भवन्ति प्रचुरसंसारिणां तेषामिति प्रभूतत्वात्, ते च कृष्ण-
पाक्षिकाः बाहुल्येन दक्षिणस्यां दिशि जायन्ते नेतरासु दिक्षु तथा स्वाभाव्यात्
कृष्णपक्षिकाणां बहुपापोदयाद् दीर्घतरसंसारभजितया क्रूरकर्मतया च दक्षिणस्यां
दिशि समुत्पादाच्च नेतरासु दिक्षु, तथाचोक्तम्—‘प्रायमिह क्रूरकम्मा भवसिद्धियावि
दाहिणिल्लेसुं । नेरइयतिरियमणुयासु रायठाणेसु गच्छंति ॥१॥ प्राय इह क्रूर-
कर्माणो भवसिद्धिका अपि दाक्षिणात्तदेषु । नैरयिकतिर्यग्मतुण्यासुरादिस्थानेषु

गए हैं । कहा भी है—‘जिनका संसार (भवभ्रमण) अपार्थ पुद्गल
परावर्तन ही शेष है, वे शुक्लपाक्षिक और जिनका भवभ्रमण काल
इससे अधिक है, उन्हें कृष्णपाक्षिक समझना चाहिए ॥१॥

शुक्लपाक्षिक जीव कम होते हैं, क्यों कि परिमित संसारी जीव
अल्प ही होते हैं । कृष्णपाक्षिक जीव बहुत हैं, क्योंकि
भवभ्रमण वाले जीवों की अत्यधिकता है । कृष्णपाक्षिक जीव
दक्षि दिशा में उत्पन्न होते हैं, अन्य दिशाओं में नहीं, क्योंकि
उनका ऐसा ही स्वभाव है । उनके बहुत पाप का उदय होता है । वे
दीर्घतर भवभ्रमण करने वाले और क्रूरकर्मा होते हैं ।

उ नी उत्पत्ति दक्षिण दिशा में होती है । भवसिद्धिक भी दक्षिण
दिशा में उत्पन्न होते हैं, अन्य दिशाओं में नहीं । कहा भी है—
‘प्रायः क्रूरकर्मा भवसिद्धिक जीव भी दक्षिण दिशा में स्थित नैरयिको
तिर्यचो, मनुष्यों और असुरों आदि के स्थानों में उत्पन्न होते हैं ।

(अवधमणु) अपार्थपुद्गल परावर्तन न शेष छे, ते शुक्लपाक्षिक अनि तेमो
अवधमणु काल तेनाथी अधिक छे तेमो कृष्णपाक्षिक समजवा लोछे ॥१॥

शुक्ल पाक्षिक एव आछा होय छे, केमके परिमित संसारी एव आछा
न होय छे कृष्ण पाक्षिक एव घण्टा छे, केमके अपरिमित अवधमणु
एवोनी अत्यधिकता छे कृष्ण पाक्षिक एव प्राय दक्षिण दिशाभा उत्पन्न
थाय छे नील दिशाओमा नहि केमके तेमो तेवो न स्वभाव छे तेमो
घण्टा पापनो उदय थाय छे तेमो दीर्घतर अवधमणु करवा वाणा, अने क्रूर
कर्मा होय छे तेथी तेमनी उत्पत्ति दक्षिण दिशाभा होय छे अवसिद्धिक पणु
दक्षिण दिशाभा उत्पन्न थाय छे, अन्य दिशाओमा नहि कहु पणु छे प्रायः
क्रूर कर्मा अवसिद्धिक एव पणु दक्षिण दिशाभा स्थित नैरयिको, तिर्यचो

गच्छन्ति ॥१॥ तस्मात् दक्षिणस्यां दिशि बहूनां कृष्णपक्षिकाणामुत्पाद संभवात् पूर्वोत्तर पश्चिमदिग्भागभाविभ्यो नैरयिकेभ्यो दक्षिणात्या नैरयिका असंख्येयगुणा भवन्ति इत्याशयः इत्येवं सामान्यतो नैरयिकाणा मल्पबहुत्वं प्रतिपाद्य सम्प्रति विशेषतो दिगनुपातेन रत्नप्रभा पृथिव्यादि नैरयिकाणा मल्पबहुत्वादिकं प्ररूपयति—‘दिमाणुवाएणं सव्वत्थोवा रयणप्पभा पुढवीनेरइया पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेणं’ दिगनुपातेन—दिगनुसारेण सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः रत्नप्रभा पृथिवी नैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण—पूर्वस्यां पश्चिमायामुत्तरस्यां च भवन्ति, तेभ्यः ‘दाहिणेणं असंखेज्जगुणा’ दक्षिणेन दक्षिणस्यां दिशि रत्नप्रभा पृथिवी नैरयिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, युक्ते रक्तत्वात् अथ शर्कराप्रभापृथिवी नैरयिकाणामल्पबहुत्वं प्ररूपयति—‘दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा सक्करप्पभा पुढवीनेरइया पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेणं’ दिगनुपातेन—दिगपेक्षया सर्वस्तोकाः सर्वेभ्योऽल्पाः, शर्कराप्रभा पृथिवी नैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण—पूर्वस्यां पश्चिमायामुत्तरस्याम् च दिशि भवन्ति, तेभ्यः ‘दाहिणेणं असंखेज्जगुणा’ दक्षिणेन—

इस प्रकार दक्षिण दिशा में बहुत कृष्णपक्षिकों की उत्पत्ति संभव होने से पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर दिशा के नारकों की अपेक्षा दक्षिण दिशा के नारक असंख्यातगुणा हैं ।

इस प्रकार सामान्य रूप से नारकों के अल्पबहुत्व का प्रतिपादन करके अब विशेष रूप से रत्नप्रभा आदि पृथिवियों के नारकों का अल्पबहुत्व प्रदर्शित करते हैं—दिशाओं की अपेक्षा रत्नप्रभा के नारक पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में सब से कम हैं, उनसे दक्षिण दिशा में असंख्यातगुणा अधिक हैं । इसका कारण पहले बतलाया जा चुका है । शर्कराप्रभा पृथिवी के नारक पूर्व, पश्चिम और उत्तर में सब से कम हैं, उनसे दक्षिण दिशा में असंख्यातगुणा हैं । इसका कारण

मनुष्यो अने असुरो आदिना स्थानोभा उत्पन्न थाय छे ॥ १ ॥

आ रीते दक्षिण दिशाभा धरुा कृष्ण पक्षिकोनी उत्पत्ति सलपित होवाथी पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर दिशाना नारकोनी अपेक्षा दक्षिण दिशाना नारक संख्यात गुणा छे

आ रीते सामान्य रूपे नारकोना अल्प बहुत्वतु प्रतिपादन करीने हुवे विशेष रूपे रत्नप्रभा आदि पृथिवीना नारकोतु अल्प बहुत्व प्रदर्शित करे छे—दिशाओनी अपेक्षाओ रत्नप्रभा नारक पूर्व पश्चिम अने उत्तर दिशाभा अधाथी ओछा छे, तेनाथी दक्षिण दिशाभा असंख्यात गुणा अधिक छे तेतु कारण आगण गतावी दिधु छे. शर्कराप्रभा पृथिवीना नारक पूर्व पश्चिम

दक्षिणस्यां दिशि शर्कराप्रमापृथिवी नैरयिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति उक्तयुक्तेः,
 'दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा वालुयप्पभा पुढवी नेरइया पुरच्छिमपच्चत्थिमउत्तरेणं'
 दिगनुपातेन-दिगपेक्षया सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः, वालुका प्रमापृथिवी नैर-
 यिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेऽ-पूर्वस्यां पश्चिमायाम् उत्तरस्याश्च दिशि भवन्ति,
 तेभ्यः, 'दाहिणेणं असंखेज्जगुणा' दक्षिणेन-दक्षिणस्यां दिशि वालुका प्रभा
 पृथिवीनैरयिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति 'दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा पंक्कप्पभा
 पुढवीनेरइया पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेणं' दिगनुपातेन-दिगनुसारेण सर्वस्तोकाः
 सर्वेभ्योऽल्पाः पङ्कप्रभा पृथिवी नैरयिकाः पौरस्त्य पश्चिमोत्तरेण-पूर्वस्यां पश्चि-
 मायाम् उत्तरस्याश्च दिशि भवन्ति, तेभ्यो 'दाहिणेणं असंखेज्जगुणा' दक्षिणेन
 -दक्षिणस्यां दिशि पङ्कप्रभापृथिवी नैरयिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति उक्तयुक्तेः
 'दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा धूमप्पभा पुढवी नेरइया पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्त-
 रेणं' दिगनुपातेन-दिगनुसारेण सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः, धूमप्रभापृथिवी
 नैरयिकाः पौरस्त्य, पश्चिमोत्तरेण-पूर्वस्यां पश्चिमायाम् उत्तरस्याश्च दिशि भवन्ति,
 तेभ्यो 'दाहिणिल्ले णं असंखेज्जगुणा' दक्षिणेन-दक्षिणस्यां दिशि धूमप्रभा पृथिवी
 नैरयिकाः-असंख्येयगुणाः भवन्ति, 'दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा तमप्पभापुढवी
 नेरइया पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेणं' दिगनुपातेन-दिगनुसारेण, सर्वस्तोकाः-
 सर्वेभ्योऽल्पाः तमःप्रभापृथिवी नैरयिकाः पौरस्त्य पश्चिमोत्तरेण-पूर्वस्यां पश्चिमा-
 याम् उत्तरस्याश्च दिशि भवन्ति तेभ्यो 'दाहिणेणं असंखेज्जगुणा' दक्षिणेन-
 दक्षिणस्यां दिशि तमःप्रभापृथिवी नैरयिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, युक्तेरुक्तत्वात्
 'दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा अहे सत्तमा पुढवी नेरइया पुरच्छिम पच्चत्थिम
 उत्तरेणं' दिगनुपातेन-दिगपेक्षया, सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः, अधः सप्तमपृथिवी
 नैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण-पूर्वस्यां पश्चिमायाम् उत्तरस्याश्च दिशि भवन्ति,

भी पहले के समान ही समझ लेना चाहिए । वालुकाप्रभा पृथिवी के नारक पूर्व, पश्चिम और उत्तर में सबसे कम हैं, दक्षिण दिशा में उनसे असंख्यातगुणित हैं । इसी प्रकार पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा और तमस्तमःप्रभा पृथिवियों के नारक पूर्व, पश्चिम और उत्तरदिशाओं में सबसे और दक्षिण दिशा में उनसे असंख्यातगुणा अधिक

अने उत्तरभा अधाथी ओछा छे, तेमनाथी दक्षिण दिशामा अस भ्यात गुणा छे. तेनु कारणु पणु पडेलाना समानज समल लेनु जेधअे वालुकाप्रभा पृथिवीना नारक पूर्व, पश्चिम अने उत्तरभा अधाथी ओछा छे, दक्षिण दिशामा तेमनाथी अस भ्यात गुणा छे. जेज प्रकारे पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा, अने तमस्तम प्रभा पृथिवीना नारक पूर्व पश्चिम अने उत्तर दिशाओमा अधाथी ओछा अने दक्षिण दिशामा तेमनाथी अस भ्यात गुणा अधिक छे. जेनु कारणु

તેમ્બો 'દાહિણેણં અસંખેજ્જગુણા' દક્ષિણેન-દક્ષિણેણં દિશિ અસંખયેયગુણાઃ
 અધઃ-સપ્તમપૃથિવી નૈરયિકા ભવન્તિ, इत्येवं रीत्या प्रति पृथिव्यपि दिग्भेदे-
 नाल्पबहुत्वमभिधाय सम्प्रति सप्तापि पृथिवीरधिकृत्य दिग्भेदेनाल्पबहुत्वामाह-
 'दाहिणेर्हितो अहे सत्तमा पुढवी नेरदएर्हितो दृष्टाए तमाए पुढवीए नेर-
 इया पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेणं असंखेज्जगुणा' दाक्षिणात्येभ्योऽधःसप्तम-
 पृथिवी नैरयिकैःभ्यः पठ्यास्तमायाः पृथिव्याः नैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमो-
 त्तरेण-पूर्वस्यां पश्चिमायाम् उत्तरस्याश्च दिशि असंख्येयगुणा भवन्ति, तत्र कार-
 णन्तु-सर्वोत्कृष्टपापकारिणां संज्ञिपश्चेन्द्रियतिर्यग्मनुष्याणामधः सप्तमनरक पृथि-
 व्यामुत्पादेन, तदपेक्षया किञ्चिद्धीन हीनतरादि पापकर्मकारिणां पठ्यादिषु
 पृथिवीषु समुत्पादेन सर्वोत्कृष्टपापकर्मकारिणाश्च सर्वरतोक्त्वात्, ततः किञ्चिद्धीन
 हीनतरादि पापकर्मकारिणाश्च यथोत्तरं बहुत्वात् अधः सप्तमपृथिवी दाक्षिणात्य
 नैरयिकापेक्षया पठ पृथिव्याः पूर्वोत्तरपश्चिम नैरयिकाणामसंख्येयगुणत्वं युक्त-
 मेवेति, एवमेवाधः सप्तमपृथिव्या एव दाक्षिणात्या नैरयिका असंख्येयगुणा अव-

हैं। इसका कारण वही है जो पहले कहा जा चुका है।

एक-एक पृथिवी का अल्पबहुत्व बतलाकर सूत्रकार अब सातों
 पृथिवियों का दिशाओं की अपेक्षा से अल्पबहुत्व प्रतिपादन करते हैं
 -सातवीं पृथिवी के दक्षिण दिशा के नारकों की अपेक्षा छठी तमः-
 प्रभा पृथिवी के पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर दिशा के नारक असंख्यात-
 गुणा हैं इस कारण यह है कि सातवीं पृथिवी में सर्वोत्कृष्ट पाप
 करने वाले संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच और मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं।
 उनकी अपेक्षा कुछ कम पाप करने वाले छठी पृथिवी में उत्पन्न होते
 हैं। और ऐसे जीव अधिक होते हैं, अतएव सप्तम पृथिवी के दक्षिण
 दिशा के नारकों की अपेक्षा षष्ठी पृथिवी के पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर

તેજ છે કે જે પહેલા કહેવાયેલ છે

પ્રત્યેક પૃથ્વીનું અલગ અલગ અદ્ય બહુત્વ બતાવીને સૂત્રકાર હવે
 સાત પૃથ્વીઓની દિશાઓની અપેક્ષાએ અદ્ય બહુત્વનું પ્રતિપાદન કરે છે-
 સાતમી પૃથ્વીની દક્ષિણ દિશાના નારકોની અપેક્ષાએ છઠ્ઠી તમઃપ્રભાપૃથ્વીના
 પૂર્વ પશ્ચિમ તેમજ ઉત્તર દિશાના નારક અસંખ્યાત ગુણા છે તેનું કારણ
 આ છે કે સાતમી પૃથ્વીમાં સર્વોત્કૃષ્ટ પાપ કરવા વાળા સંજ્ઞી પચેન્દ્રિય
 તિર્યચ અને મનુષ્ય જ ઉત્પન્ન થાય છે તેમની અપેક્ષાએ કાંઈક ઓછું
 પાપ કરનાર છઠ્ઠી પૃથ્વીમાં ઉત્પન્ન થાય છે. અને આવા જીવ અધિક હોય
 છે, તેથીજ સાતમી પૃથ્વીની દક્ષિણ દિશાના નારકોની અપેક્ષાએ છઠ્ઠી
 પૃથ્વીના પૂર્વ, પશ્ચિમ તેમજ ઉત્તર દિશાના નારક અસંખ્યાત ગુણા કહેલા છે.

सेयाः, एव मुत्तरोत्तर पृथिवीरपि अधिकृत्य त्रिचारणीयम् तेभ्योऽपि पट्टपृथिवी पूर्वोत्तरपश्चिमदिग्भाविभ्यो नैरयिकेभ्यः 'दाहिणेण असंखेज्जगुणा' दक्षिणेन-दक्षिणस्यां दिशि पट्टया एव पृथिव्याः नैरयिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्त-युक्तेः, 'दाहिणिल्लेह्हितो तमाए पुढवीए नेरइएह्हितो पंचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेण असंखेज्जगुणा' दाक्षिणात्येभ्यस्तमायाः पृथिव्या नैरयिकेभ्यः पञ्चम्याः धूमप्रभायाः पृथिव्या नैरयिकाः पौरस्त्यपश्चि-मोत्तरेण-पूर्वस्यां पश्चिमायाम् उत्तरस्याञ्च असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि तरया एव पञ्चमधूमप्रभायाः पृथिव्याः 'दाहिणेण असंखेज्जगुणा' दक्षिणेन-दक्षिणस्यां दिशि दाक्षिणात्या नैरयिका असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, 'दाहिणिल्लेह्हितो धूमप्पभा पुढवी नेरइएह्हितो चउत्थीए पङ्कप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेण असंखेज्जगुणा' दाक्षिणात्येभ्यो धूमप्रभा पृथिवी नैरयिकेभ्यश्चतुर्थ्याः पङ्कप्रभाया पृथिव्याः नैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण पूर्वस्यां पश्चिमायाम् उत्तरस्याञ्च दिशि असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि तस्या एव चतुर्थ पङ्कप्रभायाः पृथिव्याः नैरयिका 'दाहिणेण असंखेज्जगुणा' दक्षिणेन-दक्षिणस्यां दिशि दाक्षिणात्या इत्यर्थः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः,

दिशा के नारक असंख्यातगुणे कहे गए हैं ।

षष्ठी पृथिवी के पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर दिशा के नारकों की अपेक्षा दक्षिण के नारक असंख्यातगुणा हैं । छठी तमा पृथिवी के दक्षिण के नारकों की अपेक्षा पाँचवीं धूमप्रभा पृथिवी के पूर्व, पश्चिम उत्तर के नारक असंख्यातगुणा हैं । और धूमप्रभा के दक्षिण दिशा के नारक इन से भी असंख्यातगुणा हैं । दक्षिण दिशा के धूमप्रभा पृथिवी के नारकों की अपेक्षा चौथी पंकप्रभा पृथिवी के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा के नारक असंख्यातगुणा हैं । दक्षिण दिशा में धूमप्रभा पृथिवी के नारकों की अपेक्षा पंकप्रभा पृथिवी के पूर्व, पश्चिम और उत्तरदिशा के नारक असंख्यातगुणा हैं और इसी पंकप्रभा के दक्षिण दिशा के

छठी पृथ्वीना पूर्व पश्चिम तेमए उत्तर दिशाना नारकेनी अपेक्षाओ दक्षिणुना नारक असंख्यात गुणु छे छठी तमापृथ्वीना दक्षिणुना नारकेनी अपेक्षाओ पाचमी धूमप्रभा पृथ्वीना पूर्व, पश्चिम उत्तरमा नारक असंख्यात गुणु छे अने धूमप्रभानी दक्षिणु दिशाना नारक तेनाथी पणु असंख्यात गुणु छे. दक्षिणु दिशाना धूमप्रभा पृथ्वीना नारकेनी अपेक्षाओ चौथी पंकप्रभा पृथ्वीना पूर्व पश्चिम अने उत्तर दिशाना नारक असंख्यात गुणु छे दक्षिणु दिशाना धूमप्रभा पृथ्वीना नारकेनी अपेक्षाओ पंकप्रभा पृथ्वीना पूर्व, पश्चिम अने उत्तर दिशाना नारक असंख्यात गुणु छे अने तेम पंकप्रभानी दक्षिणु

‘दाहिणिल्लेहिंतो पंकप्पभा पुढवी नेरइएहिंतो तइयाए वालुयप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरच्छिम पच्चत्थिम उत्तरेण असंखेज्जगुणा’ दाक्षिणात्येभ्यः पङ्कप्रभा पृथिवी नैरयिकेभ्यस्तृतीयस्याः वालुकाप्रभायाः पृथिव्याः नैरयिकाः पौरस्त्य-पश्चिमोत्तरेण—पूर्वस्यां पश्चिमायाम् उत्तरस्याञ्च दिशि असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि तस्या एव तृतीयस्या वालुकाप्रभायाः पृथिव्याः नैरयिकाः, ‘दाहिणेणं असंखेज्जगुणा’ दक्षिणेन—दक्षिणस्यां दिशि, असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्त-युक्तेः, ‘दाहिणिल्लेहिंतो वालुयप्पभा पुढवीनेरइएहिंतो दुइयाए सकरप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेण असंखेज्जगुणा’ दक्षिणात्येभ्यो वालुकाप्रभापृथिवी नैरयिकेभ्यो द्वितीयस्याः शर्कराप्रभायाः पृथिव्याः नैरयिकाः पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण—पूर्वस्यां पश्चिमायाम् उत्तरस्याञ्च दिशि असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि तस्या एव शर्कराप्रभायाः पृथिव्याः नैरयिकाः ‘दाहिणेणं असंखेज्जगुणा’ दक्षिणेन—दक्षिणस्यां दिशि—दक्षिणात्या इत्यर्थः, असंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः, ‘दाहिणिल्लेहिंतो सकरप्पभा पुढवी नेरइएहिंतो इमीसे

नारक इनसे भी असंख्यातगुणा हैं। दक्षिण के दक्षिण दिशा के पंक-प्रभा के नारकों से तीसरी वालुकाप्रभा के नारक पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा से असंख्यातगुणा हैं, इनसे वालुकाप्रभा के दक्षिणदिशा के नारक असंख्यातगुणा हैं। दक्षिण दिशा के वालुकाप्रभा पृथिवी के नारकों की अपेक्षा द्वितीय शर्कराप्रभा पृथिवी के नारक पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर दिशा में असंख्यातगुणा हैं। इसी शर्कराप्रभा पृथिवी के नारक दक्षिण दिशा में असंख्यातगुणा हैं। दक्षिण दिशा के शर्करा-प्रभा पृथिवी के नारकों से इस रत्नप्रभा पृथिवी के नारक पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में असंख्यात गुणा हैं और दक्षिण दिशा में इनसे भी असंख्यात गुणा हैं।

दिशाना नारको तेनाथी पणु असंख्यात गुणा छे दक्षिण दिशाना पंकप्रभाना नारकोथी त्रीण वालुकाप्रभाना नारक पूर्व पश्चिम अने उत्तर दिशामा असं-ख्यात गुणा छे तेनाथी वालुकाप्रभानी दक्षिण दिशाना नारक असंख्यात गुणा छे. दक्षिण दिशाना वालुकाप्रभा पृथ्वीना नारकोनी अपेक्षाये द्वितीय शर्करा प्रभा पृथ्वीना नारक पूर्व पश्चिम अने उत्तर दिशामा असंख्यात गुणा छे. आ शर्कराप्रभा पृथ्वीना नारक दक्षिण दिशामा असंख्यात गुणा छे दक्षिण दिशाना शर्कराप्रभा पृथ्वीना नारकोथी आ रत्नप्रभा पृथ्वीना नारक पूर्व पश्चिम अने उत्तर दिशामा असंख्यात गुणा छे अने दक्षिण दिशामा तेनाथी पणु असंख्यात गुणा छे.

रयणप्पभाए पुढवीए नेरदया पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेण असंखेज्जगुणा' दक्षिणा-
त्येभ्यः शर्कराप्रभा पृथिवीनैरयिकेभ्यः अस्याः रत्नप्रभायाः पृथिव्याः नैरयिकाः
पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण-पूर्वस्यां पश्चिमायाम् उत्तररयाञ्चदिशि असंख्येयगुणा भव-
न्ति, तेभ्योऽपि तस्या एव रत्नप्रभायाः पृथिव्याः नैरयिकाः 'दाहिणेणं असंखेज्ज-
गुणा' दक्षिणेन-दक्षिणस्यां दिशि असंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेरित्याशयः,

अथ दिगनुपातेन तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियाणामल्पबहुत्वं प्ररूपयितुमाह-
'दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा पंचिंदिया तिरिक्खज्जोणिया पश्चिमेणं' दिगनुपातेन-
दिगनुसारेण, सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः, पञ्चेन्द्रियास्तिर्यग्योनिकाः पश्चिमेन-
पश्चिमायां दिशि भवन्ति गौतम द्वीपसद्भावात् तेभ्यः 'पुरच्छिमेणं विसेसा-
हिया' पौरस्त्येन-पूर्वस्यां दिशि पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः विशेषाधिका भवन्ति
प्रागुक्तयुक्तेः तत्र गौतम द्वीपाभावात् तेभ्योऽपि 'दाहिणेणं विसेसाहिया' दक्षि-
णेन-दक्षिणस्यां दिशि पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः विशेषाधिका भवन्ति, तत्र चन्द्र-
सूर्यद्वीपाभावात्, तेभ्योऽपि 'उत्तरेणं विसेसाहिया' उत्तरेण-उत्तरस्यां दिशि,
पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः विशेषाधिका भवन्ति तत्र मानससरः सद्भावेन प्रभूत-
जलसंभवात् अप्कायिकोक्तयुक्त्या प्रभूत पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक संभवादित्याशयः,

दिशा की अपेक्षा तिर्यच पंचेन्द्रियों का अल्पबहुत्व-दिशा की
अपेक्षा सब से कम पंचेन्द्रिय तिर्यच पश्चिम दिशा में हैं, क्यों कि
पश्चिम में गौतम द्वीप है। उनकी अपेक्षा पूर्व में विशेषाधिक हैं, क्यों
कि पूर्व में गौतम द्वीप नहीं हैं। दक्षिण दिशा में इनसे भी विशेषा-
धिक हैं, क्योंकि वहां चन्द्र-सूर्यद्वीप का अभाव है। उत्तर दिशा में
इनसे भी विशेषाधिक हैं, क्यों कि वहां मानस सरोवर होने से प्रचुर
जल है और पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार जल में बहुत पंचेन्द्रिय तिर्यच
(जलचर) विद्यमान हैं।

मनुष्यों का अल्पबहुत्व-दिशा की अपेक्षा सब से कम मनुष्य

दिशानी अपेक्षा तिर्यच पंचेन्द्रियोनु अल्प बहुत्व-दिशानी अपेक्षाये
अध्यायी ओछा पंचेन्द्रिय तिर्यच पश्चिम दिशाभा छे, केभके पश्चिमभां
गौतमद्वीप छे तेनी अपेक्षाये पूर्वभा विशेषाधिक छे केभके पूर्वभा गौतम
द्वीप नथी. दक्षिण दिशाभा येनाथी पणु विशेषाधिक छे केभके त्या चन्द्र
सूर्य द्वीपेना अभाव छे. उत्तर दिशाभा तेनाथी पणु विशेषाधिक छे, केभके
त्या मानस सरोवर होवाथी धलु नण छे अने पूर्वोक्त युक्तिना अनुसार
नणभा धलु पंचेन्द्रिय तिर्यच (जलचर) विद्यमान छे.

मनुष्यनु अल्पबहुत्व दिशायेनी अपेक्षाये अध्यायी ओछा मनुष्य दक्षिण

अथ दिगनुपातेन मनुष्याणामल्पबहुत्वं प्ररूपयति—‘दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा मणुस्सा दाहिणउत्तरेणं’ दिगनुपातेन—दिगनुसारेण, सर्वस्तोकाः सर्वेभ्योऽल्पाः, मनुष्याः दक्षिणोत्तरेण—दक्षिणस्याम् उत्तरस्याश्च दिशि भवन्ति तयोर्दिशोः पश्चानां भरतक्षेत्राणां पश्चानामैरावत क्षेत्राणाश्च स्तोक्तत्वात् तेभ्यः ‘पुरच्छिमेणं संखेज्जगुणा’ पौरस्त्येन—पूर्वस्यां दिशि मनुष्याः संखेयगुणा भवन्ति, तत्र क्षेत्रस्य संखेयगुणत्वात्, तेभ्योऽपि ‘पच्चत्थिमेणं विसेसाहिया’ पश्चिमेन—पश्चिमायां दिशि मनुष्या विशेषाधिका भवन्ति, अधोलौकिकग्रामेषु निसर्गत एव मनुष्यवाहुल्यसद्भावात्,

अथ दिगनुपातेन भवनवासि देवानामल्पबहुत्वं प्ररूपयितुमाह—‘दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा भवणवासी देवा पुरच्छिमेणं पच्चत्थिमेणं’ दिगनुपातेन—दिगनुसारेण सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः भवनवासिनो देवाः पौरस्त्येन—पूर्वस्यां पश्चिमेन पश्चिमायां च दिशि भवन्ति, तयोर्दिशो भवनानां स्तोक्तत्वात् तेभ्यः ‘उत्तरेण असंखेज्जगुणा’ उत्तरेण—उत्तरस्यां दिशि; उत्तरदिग्भाविनो भवनवासिनो देवा असंखेयगुणा भवन्ति, तत्र स्वस्थानतया भवनानां प्रभूतत्वात्, तेभ्योऽपि ‘दाहिणेणं असंखेज्जगुणा—दक्षिणेन दक्षिणस्यां दिशि

दक्षिण और उत्तर दिशा में हैं, क्योंकि इन दिशाओं में पांच भरत और पांच ऐरवत क्षेत्र थोड़े ही हैं। इनकी अपेक्षा पूर्व दिशा में संख्यातगुणा अधिक हैं। क्योंकि वहाँ क्षेत्र संख्यातगुणा अधिक हैं इनकी अपेक्षा भी पश्चिम में विशेषाधिक हैं, क्योंकि अधोलौकिक ग्रामों में स्वभाव से ही मनुष्यों की बहुलता है।

दिशा की अपेक्षा भवनवासियों का अल्पबहुत्व—दिशाओं की अपेक्षा से सब से कम भवनवासी देव पूर्व और पश्चिम दिशा में हैं, क्योंकि इन दोनों दिशाओं में उनके भवन थोड़े हैं। इनकी अपेक्षा उत्तर में असंख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि स्वस्थान होने से वहाँ भवन बहुत अधिक हैं। दक्षिण दिशा में इनसे भी असंख्यातगुणा

अने उत्तर दिशा में छे केमके आ दिशाओं में पांच भरत अने पांच ऐरवत क्षेत्र थोड़ा न छे तेमनी अपेक्षा में पूर्व दिशा में असंख्यातगुणा अधिक छे केमके त्या क्षेत्र संख्यात गुणा अधिक छे, तेमनी अपेक्षा में पश्चिम में विशेषाधिक छे केमके अधोलौकिक ग्रामों में स्वभाव से ही मनुष्यों की बहुलता छे

दिशानि अपेक्षा में भवनवासियों अल्प—बहुत्व, दिशाओं की अपेक्षा में अधोर्दिशि अल्प भवनवासी देव पूर्व अने पश्चिम में छे केमके, आ अने दिशाओं में तेमनी भवन थोड़ा छे तेमनी अपेक्षा में उत्तर में असंख्यात गुणा अधिक छे केमके स्वस्थान होवाधी त्यां भवन पश्चिम में अधिक छे दक्षिण दिशा में तेनाधी पश्चिम असंख्यात गुणा छे केमके त्या प्रत्येक त्रिदशाना अने

भवनवासिनो देवा असंख्येयगुणा भवन्ति तत्र निकाये निकाये चतुर्णां भवनशत-
सहस्राणामतिरेकात् बहूनां कृष्णपाक्षिगानां तत्रोत्पादाच्च भवनानामतीव बाहुल्येन
असंख्येयगुणा भवनवासिन इत्याशयः,

अथ दिगनुपातेन वानव्यन्तराणामल्पवहुत्वमाह—‘दिसानुवाएणं सव्वत्थोवा
वाणमंतरा देवा पुरच्छिमेणं’ दिगनुपातेन—दिगनुसरणेन सर्वस्तोकाः—सर्वे-
भ्योऽस्याः वानव्यन्तरा देवाः पौरस्त्येन—पूर्वस्यां दिशि भवन्ति, सुपिरस्थाने
एव वानव्यन्तराणां संचारेण धनस्थाने तेषां संचाराभावेन पूर्वस्यां दिशि
धनस्थानत्वेन संचाराभावात् स्तोका एव वानव्यन्तरा भवन्ति इत्याशयः,
तेभ्यः ‘पञ्चत्थिमेणं विसेसाहिया’ पश्चिमेन पश्चिमायां दिशि, वानव्य-
न्तरा विशेषाधिका भवन्ति, तत्राधोलौकिकग्रामेषु रन्ध्रसंभवात्, तेभ्यः
‘उत्तरेणं विसेसाहिया’ उत्तरेण—उत्तरस्यां दिशि वानव्यन्तरा देवा विशेषाधिका
भवन्ति तत्र तेषां स्वस्थानतया नगरावासबाहुल्यसद्भावात्, तेभ्योऽपि ‘दाहि-
हैं, क्योंकि कि वहाँ प्रत्येक निकाय के चार-चार लाख भवन अधिक हैं
और बहुत-से कृष्णपाक्षिक इसी दिशा में उत्पन्न होते हैं, अतएव
वे असंख्यातगुणा अधिक हैं ।

दिशा की अपेक्षा वानव्यन्तरों का अल्पवहुत्व—दिशा की दृष्टि
से विचार किया जाय तो सब से कम वानव्यन्तर देव पूर्व दिशा में
हैं, क्योंकि पोले स्थानों में ही वानव्यन्तरो का संचार होता है, ठोस
जगह में नहीं और पूर्व में ठोस स्थान अधिक हैं । इस कारण वहाँ
वानव्यन्तर थोड़े ही होते हैं । पूर्व की अपेक्षा पश्चिम दिशा में विशेष-
षाधिक हैं, क्योंकि वहाँ अधोलौकिक ग्रामों में रन्ध्र हैं । पश्चिम की
अपेक्षा उत्तर दिशा में विशेषाधिक हैं, क्योंकि वहाँ उनके स्वस्थान
होने से नगरावासों की बहुलता है । उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में विशेष-
षाधिक हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा में उनके नगरावास अत्यधिक हैं ।

आर दाभ भवन अधिक छे अने धणा कृष्ण पाक्षिक आ दिशाभा उत्पन्न
थाय छे, तेथी न तेओ अस गयात गुणा अधिक छे.

दिशाओनी अपेक्षाओ वानव्यन्तरोनु अल्प अहुत्व—दिशानी दृष्टिथी
विचार करायतो अधाथी ओछा वानव्यन्तर देव पूर्व दिशाभा छे केभके पोला
स्थानोभा न वानव्यन्तरोना स आर थाय छे. धन नग्याभा (नक्षर नग्या)
नथी थतो अने पूर्वभा नक्षर स्थान अधिक छे ओ कारणे त्या वानव्यन्तर
थोडा न डोय छे पूर्वनी अपेक्षाओ पश्चिम दिशाभा विशेषाधिक छे, केभके
त्या अधोलौकिक ग्रामोभा रन्ध्र छे पश्चिमनी अपेक्षाओ उत्तर दिशाभा
विशेषाधिक छे. केभके त्या तेभना स्थान डोवाथी नगरावासोनी अहुलता छे.

નેળે વિસેસાહિયા, દક્ષિણેન-દક્ષિણસ્થાં દિશિ વિશેષાધિકા વાનવ્યન્ટરા દેવા ભવન્તિ, તત્ર તેષામતીવાધિક નગરાવાસસત્વાત્, અથદિગનુપાતેન જ્યોતિષ્કાણાં દેવાનામલ્પવહુત્વં પ્રરૂપયતિ-‘દિસાણુવાણં સવ્વત્થોવા જોહસિયા દેવા પુરંચ્છમ-પચ્ચત્થિમેણં દિગનુપાતેન-દિગપેક્ષયા સર્વસ્તોકાઃ સર્વેભ્યોહ્લપાજ્યોતિષ્કાં દેવાઃ પૌરસ્ત્યપશ્ચિમાયાશ્ચ ભવન્તિ તયોર્દિશોઃ ચન્દ્રસૂર્યદ્વીપેષુ ઉદ્યાનપ્રાયેષુ અલ્પાનામેવ જ્યોતિષ્કાણાં સદ્ ભાવાત્ તેભ્યો-‘દાહિણેણં વિસેસાહિયા’ દક્ષિણેન દક્ષિણસ્થાં દિશિ જ્યોતિષ્કા દેવાઃ વિશેષાધિકા ભવન્તિ તત્ર વિમાનાનાં પ્રભૂતત્વાત્ કૃષ્ણ-પાક્ષિકાણાં દક્ષિણદિગ્વર્તિત્વાચ્ચેત્યાશયઃ, તેભ્યોહ્પિ ‘ઉત્તરેણં વિસેસાહિયા’ ઉત્તરેણ-ઉત્તરસ્થાં દિશિ વિશેષાધિકા ભવન્તિ, તત્ર માનસસરસિ વહૂનાં જ્યોતિ-ષ્કાણાં ક્રીડાસ્થાનસત્ત્વેન ક્રીડાવ્યાપૃતાના તેષાં નિત્યસંદ્ભાવાત્, માનસ-રોવર્તિનાં મત્સ્યાદિજલચરાણામ્ સન્નિહિતવિમાનદર્શનેન જાતિસ્મરણાત્ કિશ્ચિદ્-વ્રતે સ્વીકૃત્ય અશનાદિવર્જનંચ કૃત્વા કૃતનિદાનાનાં તત્રોત્પાદાત્ ઉત્તરદિગ્વર્તિનો

દિશાઓં કી અપેક્ષા જ્યોતિષ્ક દેવોં કા અલ્પવહુત્વ-દિશા કી અપેક્ષા સબ સે કમ જ્યોતિષ્ક દેવ પૂર્વ ઓર પશ્ચિમ દિશાઓં મેં હૈં, ક્યોંકિ હન દિશાઓં મેં ચન્દ્ર-સૂર્યદ્વીપોં મે, જો કિ ઉદ્યાનપ્રધાન હૈં, અલ્પ જ્યોતિષ્ક દેવ હી હોતે હૈં, । દક્ષિણ દિશા મેં ઉનકી અપેક્ષા વિશેષાધિક હૈં, ક્યોં કિ દક્ષિણ મેં ઉનકે વિમાન અધિક હૈં ઓર કૃષ્ણપાક્ષિક દક્ષિણ મેં હી રહતે હૈં । ઉત્તર દિશા મેં ઉનસે મી વિશે પાધિક હૈં, ક્યોંકિ ઉત્તર મેં માનસ સરોવર મેં જ્યોતિષ્ક દેવોં કે ક્રીડાસ્થલ વહુત હૈં ઓર ક્રીડા મેં નિરત હોને કે કારણ વહાં જ્યો-તિષ્ક દેવ સદેવ રહતે હૈં । માનસ સરોવર કે મત્સ્ય આદિ જલચર અપને નિકટવર્તી વિમાનોં કો દેખકર જાતિરમરણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર

ઉત્તરની અપેક્ષાએ દક્ષિણમા વિશેષાધિક છે, કેમકે દક્ષિણ દિશામા તેમના નગરાવાસ અત્યધિક છે

દિશાની અપેક્ષાએ જ્યોતિષ્ક દેવોનુ અલ્પ વહુત્વ-દિશાઓની અપેક્ષાએ બધાથી ઓછા જ્યોતિષ્ક દેવ પૂર્વ અને પશ્ચિમ દિશાઓમા છે. કેમકે એ દિશાઓમા ચન્દ્ર સૂર્ય દ્વીપોમા કે જે ઉદ્યાન પ્રધાન છે અલ્પ જ્યોતિષ્ક દેવ હોય છે. દક્ષિણ દિશામા તેમની અપેક્ષાએ વિશેષાધિક છે, કેમકે દક્ષિણમા તેમના વિમાન અધિક છે અને કૃષ્ણ પાક્ષિક દક્ષિણમા જ રહે છે ઉત્તર દિશામા તેમનાથી પણ વિશેષાધિક છે કેમકે ઉત્તરમા માનસ સરોવરમા જ્યોતિષ્ક દેવોના ક્રીડા સ્થાન ઘણા છે અને ક્રીડામા નિરત રહેવાના કારણે ત્યાં જ્યોતિષ્ક દેવ સદેવ રહે છે. માનસ સરોવરના મત્સ્ય આદિ જલચર પોતાના નહુકના વિમાનોને બેઠને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે છે અને

ज्योतिष्काः दक्षिणात्येभ्यो विशेषाधिकाः भवन्तीत्याशयः, अथ दिगनुपातेन सौधर्मादिदेवानामल्पबहुत्वं प्ररूपयितुमाह-‘दिसाणुवाएणं सन्वन्थोवा देवा सौधर्मे कप्पे पुरच्छिम पच्चत्थिमेणं’ दिगनुपातेन-दिगनुसरणेन सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्यो-ऽल्पाः वैमानिकाः देवाः सौधर्मे कल्पे पौरस्त्यपश्चिमेन-पूर्वस्यां पश्चिमायाञ्च भवन्ति आवलिका प्रविष्टानां विमानानां चतमृष्वपि दिक्षु समानत्वेन पुष्पावकीर्णानाञ्च प्रभूतानामसंख्येययोजनविस्ताराणां दक्षिणस्यागुत्तरस्यामेव दिशि सत्त्वेन अन्यत्राभावात् सर्वस्तोका वैमानिकदेवाः पूर्वस्यां पश्चिमायाञ्च भवन्ति इत्याशयः

लेते हैं और फिर किञ्चित् व्रत को स्वीकार करके तथा अज्ञान आदि का त्याग करके निदान के कारण वहां उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि उत्तर दिशा में दक्षिण की अपेक्षा ज्योतिष्क देव विशेषाधिक पाये जाते हैं।

दिशाओं की अपेक्षा सौधर्म आदि देवों का अल्पबहुत्व-दिशाओं की अपेक्षा सबसे कम वैमानिक देव सौधर्मकल्प में पूर्व और पश्चिम दिशाओं में हैं। इसका कारण यह है कि आवलिका प्रविष्ट विमान तो चारों दिशाओं में बराबर हैं मगर बहुसंख्यक और असंख्यात योजन विस्तार वाले पुष्पावकीर्ण विमान दक्षिण और उत्तर में ही होते हैं. पूर्व और पश्चिम में नहीं होते। इस कारण पूर्व और पश्चिम में सब से कम वैमानिक देव हैं। इनकी अपेक्षा उत्तर में वैमानिक देव असंख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि वहां पुष्पावकीर्ण विमान बहुत हैं और वे असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। दक्षिण में उनसे भी विशेषाधिक हैं, क्यों कि दक्षिण दिशा में कृष्णपाक्षिकों का

पक्षी काष्ठक मतने स्वीकारिने तथा अशन आदिने त्याग करीने निदानना कारणे त्या उत्पन्न थाय छे आ न कारण छे के उत्तर दिशाभा दक्षिणनी अपेक्षाये ज्योतिष्क देव विशेषाधिक भणे छे

दिशाओंकी अपेक्षाये सौधर्म आदि देवोतु अल्प बहुत्व दिशाओंकी अपेक्षाये अधाथी ओछा वैमानिक देव सौधर्म कल्पमा पूर्व अने पश्चिम दिशाओंमा छे ओतु कारणे ये छे के आवलिका प्रविष्ट विमानो तो यारे दिशाओंमा बराबर छे, परन्तु बहुसंख्यक अने असंख्यात योजन विस्तार वाणा पुष्पावकीर्ण विमान दक्षिण अने उत्तरमा न होय छे पूर्व पश्चिममा नथी होता ते कारणे पूर्व अने पश्चिममा अधाथी ओछा वैमानिक देव छे. तेमनी अपेक्षाये उत्तरमा वैमानिक देव असंख्यात गणा अधिक छे केभके त्या पुष्पावकीर्ण विमान वाणा छे अने तेओ असंख्यात योजन विस्तार

તેમ્બ્યઃ-ઉત્તરેણં અસંસ્વેજ્જગુણા' ઉત્તરેણ-ઉત્તરસ્યાંં દિશિ વૈમાનિકા દેવાઃ અસંસ્વેય-યગુણા ભવન્તિ, તત્ર પુષ્પાવકીર્ણક દિમાનાનાંં વાહલ્યાત્ અસંસ્વેયયોજનવિસ્તારાચ્ચેત્યાશયઃ, તેમ્બ્યોડપિ 'દાહિણેણંં વિસેસાહિયા' દાક્ષિણેન-દક્ષિણસ્યાંં દિશિ વિશેષાધિકા વૈમાનિકદેવાઃ ભવન્તિ, તત્ર કૃષ્ણપાક્ષિકાણાંં વાહુલ્યેન ગમનાત્,

અથ દિગ્નુપાતેન ઈશાનવૈમાનિકદેવાનામલ્પવહુત્વં પ્રરૂપયતિ-'દિસાણુ-વાણં સવ્વત્થોવા દેવા ઈસાણે કલ્પે પુરચ્છિમપચ્ચત્થિમેણં' દિગ્નુપાતેન-દિગ્-પેક્ષયા સર્વસ્તોકાઃ-સર્વેમ્બ્યોડલ્પાઃ વૈમાનિકા દેવા ઈશાને કલ્પે પૌસ્ત્યપશ્ચિમેન-પૂર્વસ્યાંં પશ્ચિમાયાચ્ચ ભવન્તિ, તેમ્બ્યઃ-'ઉત્તરેણં અસંસ્વેજ્જગુણા' ઉત્તરેણ-ઉત્તરસ્યાંં દિશિ ઈશાને કલ્પે વૈમાનિકા દેવા અસંસ્વેયયગુણા ભવન્તિ, પ્રાગુક્તયુક્તેઃ તેમ્બ્યો-ડપિ-'દાહિણેણંં વિસેસાહિયા' દક્ષિણેન-દક્ષિણસ્યાંં દિશિ ઈશાને કલ્પે વૈમાનિક દેવા વિશેષાધિકા ભવન્તિ, તત્ર કૃષ્ણપાક્ષિકાનાંં પ્રાચુર્યેણ ગમનાત્,

અથ દિગ્નુપાતેન સનત્કુમારકલ્પ વૈમાનિકદેવાનામલ્પવહુત્વમાહ-'દિસા-ણુવાણં સવ્વત્થોવા દેવા સણંકુમારે કલ્પે પુરચ્છિમપચ્ચત્થિમેણં' દિગ્નુપાતેન-દિગ્નુસરણેન, સર્વસ્તોકાઃ-સર્વેમ્બ્યોડલ્પાઃ વૈમાનિકા દેવાઃ સનત્કુમારે કલ્પે પૌસ્ત્યપશ્ચિમેન-પૂર્વસ્યાંં પશ્ચિમાયાચ્ચ દિશિ ભવન્તિ, તેમ્બ્યઃ-'ઉત્તરેણં અસં-સ્વેજ્જગુણા' ઉત્તરેણ-ઉત્તરસ્યાંં દિશિ સનત્કુમારવૈમાનિકદેવા અસંસ્વેયયગુણા

અધિકતા સે ગમન હોતા હૈ ।

ઈશાનકલ્પ કે વૈમાનિક દેવોંં કા અલ્પવહુત્વ-દિશાઓંં કી અપેક્ષા સવસે કમ દેવ ઈશાનકલ્પ મેં પૂર્વ ઓર પશ્ચિમ દિશા મેં હૈં, ઉત્તર મેં ંનસે અસંસ્વ્યાત ગુણિત હૈ, ઈસકા કારણ પહલે બતલાયા હૈ વહી સ ના ચાહિે । દક્ષિણ મેં ંનસે ંી વિશેષાધિક હૈં, ક્યોંં કિ વહાંં કૃષ્ણપાક્ષિકોંં કા પ્રચુરતા સે ગમન હોતા હૈ ।

સનત્કુમાર કલ્પ કે દેવોંં કા અલ્પવહુત્વ-સવ સે કમ દેવ સનત્કુ-માર કલ્પ મેં પૂર્વ ઓર પશ્ચિમ દિશા મેં હૈં, ઉત્તર મેં ંનસે અસંસ્વ્યાત

વાળા છે દક્ષિણમા તેમનાથી પણ વિશેષાધિક છે. કેમકે દક્ષિણ દિશામા કૃષ્ણ પાક્ષિકોનુ અધિકતાથી ગમન થાય છે.

ઈશાન કલ્પના વૈમાનિક દેવોનુ અલ્પ-બહુત્વ-દિશાઓની અપેક્ષાએ બધાથી ઓછા દેવ ઈશાન કલ્પમા પૂર્વ અને પશ્ચિમ દિશામા છે, ઉત્તરમા ઓનાથી અસખ્યાત ગુણિત છે, તેનુ કારણ પહેલા બે બતાવ્યુ છે તેજ સમ-બધુ બેઇએ દક્ષિણમા તેમનાથી પણ વિશેષાધિક છે કેમકે ત્યા કૃષ્ણપાક્ષિકોની પ્રચુરતાથી ગમન થાય છે

સનત્કુમાર કલ્પના દેવોનુ અલ્પ બહુત્વ-બધાથી ઓછા દેવ સનત્કુમાર કલ્પમા પૂર્વ અને પશ્ચિમ દિશામા છે, ઉત્તરમા તેમનાથી અસખ્યાત ગણા

भवन्ति, तेभ्योऽपि 'दाहिणेणं विसेसाहिया' दक्षिणेन-दक्षिणस्यां दिशि सन-
त्कुमारवैमानिक देवा विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तः,

अथ दिगनुपातेन माहेन्द्रवैमानिकदेवानामल्पबहुत्वमाह-'दिसाणुवाएणं
सव्वत्थोवा देवा माहिंदे कप्पे पुरच्छिमपच्चत्थिमेणं' दिगनुपातेन-दिगपेक्षया,
सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः वैमानिका देवाः माहेन्द्रे कल्पे पौरस्त्यपश्चिमेन-
पूर्वस्या पश्चिमायाश्च दिशि भवन्ति, तेभ्यः-'उत्तरेणं असंखेज्जगुणा' उत्तरेण-
उत्तरस्यां दिशि माहेन्द्रवैमानिका देवाः, असंखेयगुणा गवन्ति, तेभ्योऽपि-
'दाहिणेणं विसेसाहिया' दक्षिणेन-दक्षिणस्यां दिशि माहेन्द्रवैमानिकदेवा
विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तः कृष्णपाक्षिकाणा तत्र बाहुल्येन गमनात्,

अथ दिगनुपातेन ब्रह्मलोक वैमानिकदेवानामल्पबहुत्वं प्ररूपयति-'दिसा-
णुवाएणं सव्वत्थोवा देवा वंभलोए कप्पे पुरच्छिमपच्चत्थिमउत्तरेणं' दिगनुपा-
तेन-दिगपेक्षया, सर्वस्तोकाः सर्वेभ्योऽल्पा वैमानिका देवाः ब्रह्मलोके कल्पे पौर-
स्त्यपश्चिमोत्तरेण-पूर्वस्यां पश्चिमायाम् उत्तरस्याश्च दिशि भवन्ति, बहूनां कृष्ण-
गुणित हैं और दक्षिण में उनसे भी विशेषाधिक हैं । इसका कारण
पूर्ववत् ही समझ लेना चाहिए ।

माहेन्द्र कल्प के देवों का अल्पबहुत्व-माहेन्द्र कल्प में सब से कम
देव पूर्व और पश्चिम में हैं, उनकी अपेक्षा उत्तर में असंख्यात गुणा
और उत्तर की अपेक्षा दक्षिण दिशा में विशेषाधिक हैं । इसका कारण
भी पूर्ववत् ही समझना चाहिए ।

ब्रह्मलोक कल्प के देवों का अल्पबहुत्व-सब से कम देव ब्रह्मलोक
कल्प में पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा में हैं क्योंकि बहुसंख्यक कृष्ण-
पाक्षिक तिर्य्यच दक्षिण दिशा में उत्पन्न होते हैं और शुक्लपाक्षिक
थोड़े ही होते हैं । इस कारण ब्रह्मलोक में पूर्व पश्चिम और उत्तर

छे अने दक्षिणमा तेमनाथी पणु विशेषाधिक छे तेनु कारणु पूर्ववत् समणु
लेवु लोध्थे

माहेन्द्र कल्पना हेवेतु अल्प बहुत्व-माहेन्द्र कल्पमा अधाथी ओछा
हेव पूर्व पश्चिममा छे, तेमनी अपेक्षाये उत्तरमा असंख्यात गुणु अने
उत्तरनी अपेक्षाये दक्षिणु दिशामा विशेषाधिक छे तेनु कारणु पणु पूर्वनी
नेम समणु लेवु लोध्थे

ब्रह्मलोक कल्पना हेवेतु अल्प बहुत्व-अधाथी ओछा हेव ब्रह्मलोकमा
पूर्व पश्चिम अने उत्तर दिशामा छे, केमके बहुसंख्यक कृष्णपाक्षिक तिर्य्यच
दक्षिणु दिशामा उत्पन्न थाय छे अने शुक्लपाक्षिक थोडाजु होय छे ते कारणु

पाक्षिरु तिर्यग्योनिऋतानां दक्षिणस्यां दिशि समुत्पादेन शुक्रपाक्षिकाणाञ्च स्तोका-
नामति पूर्वोत्तरपश्चिमदिग्भाविनो ब्रह्मलोकवैमानिकदेवाः सर्वस्तोका भवन्तीति
भावः तेभ्यः 'दाहिणेणं असंखेज्जगुणा' दक्षिणेन-दक्षिणस्यां दिशि ब्रह्मलोक
वैमानिकदेवा असंखेयगुणा भवन्ति, तत्र बहूनामेव कृष्णपाक्षिकाणां समुत्पादात्,

अथ दिगनुपातेन लान्तरुवैमानिकदेवानामल्पबहुत्वं प्ररूपयति-'दिसाणु-
वाएणं सव्वत्थोवा देवा लंतए कप्पे पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेण' दिगनुपातेन
-दिगपेक्षया सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः वैमानिका देवाः लान्तके कल्पे पौरस्त्य
पश्चिमोत्तरेण-पूर्वस्यां पश्चिमायामुत्तरस्याञ्च दिशि भवन्ति, तेभ्यो 'दाहिणेणं
असंखेज्जगुणा' दक्षिणेन-दक्षिणस्या दिशि लान्तरुवैमानिक देवा असंखेय-
गुणा भवन्ति, तत्र बहूनां कृष्णपाक्षिकाणां समुत्पादात्,

अथ दिगनुपातेन महाशुक्रवैमानिकदेवानामल्पबहुत्वं प्ररूपयति-'दिसा-
णुवाएणं सव्वत्थोवा देवा महासुक्के कप्पे पुरच्छिमपच्चत्थिम उत्तरेण' दिगनु-
पातेन-दिगनुसरणेन, सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः वैमानिका देवाः महाशुके
कल्पे पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण पूर्वस्या पश्चिमायाम् उत्तरस्याञ्च दिशि भवन्ति, तेभ्यो

दिशा में सब से कम देव हैं तथा दक्षिण दिशा में उनकी अपेक्षा
असंख्यात गुणा देव हैं, क्योंकि वहाँ बहुत कृष्णपाक्षिक उत्पन्न होते हैं।

लान्तक कल्प के देवों का अल्पबहुत्व-लान्तक कल्प में पूर्व,
पश्चिम और उत्तर दिशा में सबसे कम देव हैं तथा दक्षिण में उनसे
असंख्यातगुणा हैं। इसका कारण पूर्ववत् ही समझ लेना चाहिए।

महाशुक्र कल्प के देवों का अल्पबहुत्व-महाशुक्र नामक कल्प में
पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में सब से कम देव हैं तथा दक्षिण
में उनसे असंख्यात गुणा हैं, क्यों कि दक्षिण दिशा में बहुसंख्यक

प्रक्षलोडभा पूर्व पश्चिम अने उत्तर दिशाभा अधाधी ओछा देव छे तथा
दक्षिण दिशाभा तेमनी अपेक्षाअे असंख्यात गुणा छे, केमके त्या घण्टा कृष्ण
पाक्षिक उत्पन्न थाय छे.

लान्तके देवानु अल्प बहुत्व-लान्तके कल्पभा पूर्व पश्चिम अने उत्तर
दिशाभा अधाधी ओछा देव छे तथा दक्षिणभा तेनाधी असंख्यात गुणा छे
तेनुं कारण पूर्ववत् समझ लेवु न्नेछे.

महाशुके कल्पना देवानु अल्पबहुत्व-महाशुके नामक कल्पभा पूर्व पश्चिम
अने उत्तर दिशाओभा अधाधी ओछा देव छे तथा दक्षिणभा तेनाधी असंख्यात
गुणा छे, केमके दक्षिण दिशाभा बहुसंख्यक कृष्ण पाक्षिक उत्पन्न थाय छे,

‘दाहिणेणं असंखेज्जगुणा’ दक्षिणेन-दक्षिणस्यां दिशि महाशुक्र वैमानिक देवा असंख्येयगुणा भवन्ति, बहूनां कृष्णपाक्षिकाणा तत्र समुत्पादात्,

अथ दिगनुपातेन सहस्रार वैमानिकदेवानामल्पबहुत्वं प्ररूपयति-‘दिसा-
णुवाएणं सव्वत्थोवा देवा सहस्रारे कप्पे पुरत्थिमपच्चत्थिम उत्तरेणं’ दिगनु-
पातेन-दिगपेक्षया सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः वैमानिकदेवाः सहस्रारे कल्पे
पौरस्त्यपश्चिमोत्तरेण-पूर्वस्यां पश्चिमायाम् उत्तरस्याञ्च दिशि भवन्ति, तेभ्यो-
‘दाहिणेणं असंखेज्जगुणा’ दक्षिणेन-दक्षिणस्यां दिशि सहस्रारवैमानिकदेवा
असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रगुक्तयुक्तेः, अथ आनतप्राणतादिषु बहुतुल्यत्वमति-
दिशन्नाह-‘ते णं परं बहुसमोववन्नगा समणाउसो!’ तेन परम् तदन्तरम्-सहस्रार-
पर्यन्तानन्तरि मित्यर्थः, भो श्रमण ! आयुष्मन् ! बहुसमोपपन्नका अवसेयाः,
तथा चानतादिषु मनुष्याणागेवोत्पादेन प्रतिकल्पं प्रतिग्रैनेयकं प्रत्यनुत्तरविमानं
चतसृषु अपि दिक्षु प्रायो बहुतुल्या एव विज्ञेयाः,

कृष्णपाक्षिक उत्पन्न होते है ।

सहस्रार कल्प के देवों का अल्पबहुत्व-सहस्रार कल्प में पूर्व,
पश्चिम और उत्तर दिशा में सब से कम देव है तथा दक्षिण में उनसे
असंख्यातगुणित अधिक हैं । इसका कारण भी पूर्वोक्त ही सम-
झना चाहिए ।

आनत प्राणत आदि कल्पों में देवों का अल्पबहुत्व-हे आयुष्मन्
श्रमण ! सहस्रार कल्प के बाद ऊपर के कल्पों के तथा ग्रैवेयक एवं
अनुत्तर विमानों के देव चारों दिशाओं में समान-वरावर हैं, क्योंकि
वहाँ मनुष्यों की ही उत्पत्ति होती है ।

सिद्धों का अल्पबहुत्व-दिशाओं की अपेक्षा से सब से कम सिद्ध
दक्षिण और उत्तर दिशा में हैं । इसका कारण यह है कि सिद्धि

सहस्रार कल्पना हेतु अल्प बहुत्व-सहस्रार कल्पमा पूर्व पश्चिम
अने उत्तर दिशाभा अधाथी ओछा देव छे तथा दक्षिणभा तेमनाथी असंख्यात
गुणित अधिक छे अतु कारण पणु पूर्वोक्त समजवु जेधये

आनत-प्राणत आदि कल्पोभां हेतु अल्प बहुत्व-हे आयुष्मन् !
श्रमण ! सहस्रार कल्प पछी उपरना कल्पोना तथा ग्रैवेयक तेमज अनुत्तर
विमानोना देव आरे दिशाओभां समान-वरावर छे, केभके त्यां मनुष्योनीज
उत्पत्ति थाय छे

सिद्धोनु अल्पबहुत्व-दिशाओनी अपेक्षाये अधाथी ओछा सिद्ध दक्षिण
अने उत्तर दिशाभा छे तेनु कारण ये छे के सिद्ध मनुष्योने ज प्राप्त थाय

અવ દિગ્ગનુપાતેન મિદ્ધાનામલ્પવહુત્વં પ્રરુપયતિ—‘દિમાણુવાણં સવ્વત્થોવા સિદ્ધા દાદિણેણં ઉત્તરેણં’ દિગ્ગનુપાતેન દિગ્ગપેક્ષયા, સર્વસ્તોકાઃ—સર્વેભ્યોડ્લ્યાઃ સિદ્ધાઃ, દક્ષિણેન—દક્ષિણસ્યામ્ ઉત્તરેણ—ઉત્તરભ્યાં દિગ્ગિ ભવન્તિ, મનુષ્યા એવ સિદ્ધયન્તિ, નેતરે સિદ્ધયન્તિ, સિદ્ધયન્તો મનુષ્યા અપિ યેષુ આકાશપ્રદેશેષુ ચરમસમયેડગ્ગાદા ભવન્તિ તેષ્વેવાગ્ગાગ્રપ્રદેશેષુ ડર્ધ્વમપિ ગચ્છન્તિ, તેષ્વેવ ઉપર્યવતિગ્ગન્તે ન ક્ષિન્નિદપિ વક્રં ગચ્છન્તિ, તત્ર દક્ષિણસ્યાં દિગ્ગિ પશ્ચમુ ભરતેષુ, ઉત્તરસ્યા ડિગ્ગિ પશ્ચમુ ંરવતેષુ રતોકાઃ એવ મનુષ્યાઃ સિદ્ધયન્તિ, સિદ્ધિ-ક્ષેત્રસ્યાલ્પત્તાત્, સુપમનુપમાદો ચ સિદ્ધથભાવાત્ ઇતિ દક્ષિણોત્તરક્ષેત્રસિદ્ધાઃ સર્વસ્તોકા ભવન્તિ ડત્યાગ્ગયઃ, તેભ્યઃ ‘પુરચ્છિમેણં સંખેજ્જગુણા’ પૌરસ્ત્યેન—પૂર્વસ્યા ડિગ્ગિ સંખેયગુણાઃ મિદ્ધા ભવન્તિ, ભરતૈરવતક્ષેત્રેભ્યઃ પૂર્વવિદેહાનામ્ સંખેયગુણતયા તદવર્તિમનુષ્યાણામપિ સંખેયગુણત્તાત્, તેપાશ્ચ સર્વકાલં સિદ્ધિ-

મનુષ્યોં કો હી પ્રાત્ હોતી હૈ, અન્ય કિસી જીવ કો નહીં । સિદ્ધિ હોને વાલે મનુષ્ય ચરમ સમય મેં જહાં મિથત હોતે હૈ, ડસી સીધ મેં વે ડપર જાતે હૈ ડઠીર ડસી સીધ મેં (ડસી દિશા મેં) જાકર લોકાગ્ર પર પ્રતિષ્ઠિત હોતે હૈ, તનિક ભી ડધર—ઉધર નહીં હોતે । દક્ષિણદિશા મેં પાંચ ભરત ક્ષેત્રોં મે તથા ઉત્તર દિશા મે પાંચ ંરવત ક્ષેત્રોં મે થોડે હી મનુષ્ય સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરતે હૈ, ક્યોં કિ સિદ્ધિ ક્ષેત્ર થોડા હૈ ડઠીર ફિર સુપમાસુપમા આદિ આરોં મે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત નહીં હોતી । ડસ કારણ દક્ષિણ ડઠીર ઉત્તર મે સિદ્ધિ સવ સે કમ હૈ । પૂર્વ દિશા મે ડનરો ડસખ્યાતગુણા હૈ, ક્યોંકિ ભરત એવ ંરવત ક્ષેત્ર કી અપેક્ષા પૂર્વ વિદેહ સંખ્યાતગુણિત હૈ, અતએવ વહાં મનુષ્ય ભી સંખ્યાત ગુણિત હૈ ડઠીર વહાં સે સર્વ કાલ મે સિદ્ધિ હોતી રહતી હૈ (વહાં

એ અન્ય કોઈ જીવને નહિ, મિદ્ધ થનારા મનુષ્ય ચરમ સમયમા જ્યા સ્થિત હોય છે, ત્યાથી સિધા તેજો ડપર જાય છે અને તેજ સીધમા (એજ દિશામા) જઈને લોકાગ્ર પર પ્રતિષ્ઠિત થાય છે, જરાપણ આમ તેમ નથી થતા દક્ષિણ દિશામા પાચ ભરત ક્ષેત્રોમા તથા ઉત્તર દિશામા પાચ ંરવત ક્ષેત્રોમા થોડાજ મનુષ્ય સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે, કેમકે સિદ્ધ ક્ષેત્ર ઓછા છે અને વળી સુપમા આદિ આરાઓમા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત નથી થતી એ કારણથી દક્ષિણ અને ઉત્તરમા સિદ્ધિ બધાથી ઓછા છે પૂર્વ દિશામા તેમનાથી વ્વસ ખ્યાત ગુણા છે, કેમકે ભરત તેમજ ંરવત ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ પૂર્વ વિદેહ સખ્યાત ગુણિત છે તેથીજ ત્યા મનુષ્ય પણ સખ્યાત ગુણિત છે અને ત્યાથી સર્વ કાળમા સિદ્ધિ થતી રહે છે (ત્યા આરાના વિભાગ નથી—સદા એથા આરાની

भावात्, तेभ्यः 'पञ्चत्थमेण विसेसाहिया' पश्चिमेन-पश्चिमायां दिशि सिद्धाः विशेषाधिका भवन्ति, अधोलौकिकग्रामेषु मनुष्याणां प्राचुर्यात्, इति 'दारं' दिग्द्वारं १ प्रथमम् समाप्तम् ॥सू० २॥

गतिद्वार वक्तव्यता—

मूलम्-एएसि णं भंते ! नेरइयाणं तिरिक्खजोणियाणं देवाणं सिद्धाण य पंचगइ अणुवाएणं समासेणं कतरे कतरे-हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुह्हा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा मणुस्सा नेरइया असंखेज्जगुणा, देवा असंखेज्जगुणा, सिद्धा अणंतगुणा, तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा, एएसि णं भंते ! नेरइयाणं तिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणीण, मणु-स्साणं मणुस्सीणं देवाणं देवीणं सिद्धाण य अट्टगइ अणुवा-एणं समोसेणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुह्हा वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवाओ, मणुस्सीओ मणुस्सा असंखेज्जगुणा, नेरइया असंखेज्जगुणा, तिरिक्ख जोणिणीओ असंखेज्जगुणाओ, देवा असंखेज्जगुणा, देवीओ संखेज्जगुणाओ, सिद्धा अणंतगुणा, तिरिक्खजोणिया अणंत-गुणा । दारं २ ॥सू० ३॥

आरों का विभाग नहीं है—सदा चतुर्थ आरे की सी स्थित रहती है) पश्चिम दिशा मे उनसे भी विशेषाधिक हैं, क्योंकि अधोलौकिक ग्रामों मे मनुष्यों की अधिकता होती है ॥२॥

प्रथम दिग्द्वार समाप्त

(२) गतिद्वार

शब्दार्थ—(एएसि णं भंते ! नेरइयाणं तिरिक्ख जोणियाणं मणु-

स्थिति रहे छे) पश्चिम दिशाभा तेमनाथी पणु विशेषाधिक छे, डेभके अधी-
दोकिङ्क गाभोभा मनुष्योनी अधिकता होय छे ॥ २ ॥

प्रथम दिग्द्वार समाप्त

(२) गति द्वार

शब्दार्थ—(एएसि णं भंते । नेरइयाणं तिरिक्खजोणियाणं मणुस्साणं देवाणं

છાયા—એતેપાં સ્વલુ મદન્ત ! નૈરયિકાણામ્ તિર્યગ્યોનિકાનામ્ મનુષ્યાણાં
 દેવાનાં સિદ્ધાનાશ્ચ પશ્ચાનાં ગત્યનુપાતેન સમાસેન કતરે કતરેભ્યઃ અલ્પા વા,
 વહુકા વા, તુલ્યા વા, વિશેષાધિકા વા ? ગૌતમ ! સર્વસ્તોકાઃ મનુષ્યાઃ નૈર-
 યિકા અસંખ્યેયગુણાઃ, દેવાઃ અસંખ્યેયગુણાઃ, સિદ્ધાઃ અનન્તગુણાઃ, તિર્યગ્યો-
 નિકાઃ અનન્તગુણાઃ, એતેપાં સ્વલુ મદન્ત ! નૈરયિકાણામ્ તિર્યગ્યોનિકાનામ્

સ્સાણં દેવાણં સિદ્ધાણ ચ) હે ભગવન્ ! ઇન નારકોં, તિર્યચોં, મનુષ્યોં
 દેવોં ઓર સિદ્ધોં કી (પંચગતિ અણુવાણં) પાંચ ગતિઓં કી અપેક્ષા
 સે (સમાસેણં) સંક્ષેપ સે (કચરે કચરેહિંતો) કૌન કિસસે (અપ્પા વા)
 અલ્પ હૈ (વહુયા વા) યા વહુત હૈ (તુલ્લા વા) યા તુલ્ય હૈ (વિસેસા-
 હિયા વા) યા વિશેષાધિક હૈ ? (ગોયમા) હૈ ગૌતમ ! (સન્વત્થોવા)
 સ્વ સે કમ (મણુસ્સા) મનુષ્ય હૈં (નેરહયા અસંલેજ્જગુણા) નૈરયિક
 અસંખ્યાતગુણા હૈં (સિદ્ધા) સિદ્ધ (અણંતગુણા) અનન્તગુણા હૈં (તિરિ-
 ક્વજોણિયા અણંતગુણા) તિર્યચ અનન્ત ગુણા હૈં ।

(एएसि णं भंते ! नेरइयाणं तिरिक्खजोणियाणं, तिरिक्खजोणि-
 णीणं, मणुस्साणं, मणुस्सीणं, देवाणं देवीणं सिद्धाण च) हे भगवन् !
 इन नारकों, तिर्यचों, तिर्यचनियों, मनुष्यों, मनुष्यनिकों, देवों,
 देवियों और सिद्धों की (अट्टगति अणुवाएणं) आठ गतियों की अपेक्षा
 से (समासेणं) संक्षेप से (कचरे कचरेहितो) कौन किससे (अप्पा वा)
 अल्प है (वहुया वा) या बहुत है (तुल्ला वा) या तुल्य है (विसेसा-

सिद्धाण च) हे भगवन् । आ नारको, तिर्यचो, मनुष्यो, देवो अने सिद्धोनी
 (पंचगति अणुवाएण) पाच गतियोनी अपेक्षाओ (समासेण) स क्षेपथी (कचरे
 कचरेहितो) कोओ कोनाथी (अप्पा वा) अल्प छे (वहुया वा) अजर धणु छे
 (तुल्ला वा) अजर तुल्य छे (विसेसाहिया वा) अजर विशेषाधिक छे ? (गोयमा
 हे गौतम (सन्वत्थोमा) अधाथी ओओ (मणुस्सा) मनुष्य छे (नेरइया असले-
 ज्ज गुणा) नैरयिक असख्यात शुशित छे (देवा) देव (असलेज्ज गुणा) असख्यात
 शुशु छे (सिद्धा) सिद्ध (अणत्तगुणा) अनन्त शुशु छे (तिरिक्ख जोणिया अनन्त
 गुणा) तिर्यच अनन्त शुशु छे

(एएसिण भंते नेरइयाण तिरिक्खजोणियाण, तिरिक्खजोणिणीण, मणु-
 स्साण, मणुस्सीण, देवाण, देवीण, सिद्धाणं च) भगवन् ! आ नारको, तिर्यचो,
 तिर्यचनियो, मनुष्यो, मनुष्यस्त्रियो, देवो, देवियो, अने सिद्धोनी (अट्टगति
 अणुवाएणं) आठ गतियोनी अपेक्षाओ (समासेण) स क्षेपथी (कचरे कचरेहितो)
 कोओ कोनाथी (अप्पा वा) अल्प छे (वहुया वा) अजर वधारे छे (तुल्ला वा)

तिर्यग्योनिकीनाम् मनुष्याणां मानुषीणाम्, देवानां देवीनां सिद्धानां च अष्टानाम् गत्यनुपातेन समासेन कतरे कतरेभ्यः अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः मानुष्यः, मनुष्याः असंख्येयगुणाः, नैरयिकाः असंख्येयगुणाः; तिर्यग्योनिन्यः असंख्येयगुणाः, देवाः असंख्येयगुणाः, देव्यः संख्येयगुणाः, सिद्धा अनन्तगुणाः, तिर्यग्योनिका अनन्तगुणाः। द्वारम् ॥६० ॥

टीका—दिग्द्वारं प्रथमं प्ररूप्य अथ उत्पत्तिरूपगतिद्वारमाह—‘एएसि णं भंते ! नेरइयाणं’ गौतम ! पृच्छति—हे भदन्त ! एतेषां खलु पूर्वप्रतिपादितानां नैरयिकानां ‘तिरिक्खजोणियाणं’ तिर्यग्योनिकानाम्, ‘मणुस्साणं’ मनुष्याणाम् ‘देवाणं’ देवानाम् ‘सिद्धाण य पंच’ सिद्धानाञ्चेति पञ्चानाम् ‘गइ अणुवाएणं’ गत्यनुपातेन—उत्पत्त्यनुसारेण उत्पत्त्यपेक्षयेत्यर्थः, ‘समासेणं’ समासेन—संक्षेपेण ‘कयरे कयरेहिंतो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा बहुया वा. तुल्ला वा, विसेसाहिया वा’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् हिया वा) या विशेषा धिका हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सञ्चत्वोवाओ) सब से कम (मणुस्सीओ) मनुष्यनी हैं (मणुस्सा असंखेज्जगुणा) मनुष्य असंख्यातगुणा हैं (नेरइया असंखेज्जगुणा) नैरयिक असंख्यातगुणा हैं (तिरिक्खजोणिणीओ) तिर्यचनियां (असंखेज्जगुणाओ) असंख्यात गुणी हैं (देवा असंखेज्जगुणा) देव असंख्यातगुणा हैं (देवीओ संखेज्जगुणाओ) देवियां संख्यातगुणी हैं (सिद्धा अणांतगुणा) सिद्ध अनन्त गुणा हैं (तिरिक्खजोणिया) तिर्यग्योनिक (अणांतगुणा) अनन्तगुणा हैं (द्वारं २) दूसरा गतिद्वार समाप्त ।

टीकार्थ—प्रथम दिशाद्वार की प्ररूपणा करने के अनन्तर अब गति रूप द्वार की प्ररूपणा की जाती है—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन पूर्व कथित

अथवा तुल्ये छे (निसेसाहिया वा) अगर विशेषाधिक छे ? (गोयमा) हे गौतम (सञ्चत्वोवाओ) अधाधी अल्प (मणुस्सीओ) मानुषियो छे (मणुस्सा असंखेज्ज गुणा) मनुष्य असंख्यात गुणा छे (नेरइया असंखेज्ज गुणा) नैरयिक असंख्यात गुणा छे (तिरिक्खजोणिणीओ) तिर्यचनियो (असंखेज्ज गुणाओ) असंख्यात गुणा छे (देवा असंखेज्जगुणा) देव असंख्यात गुणा छे (देवीओ संखेज्ज गुणाओ) देवियो संख्यात गुणा छे (सिद्धा आणतगुणा) सिद्ध अनन्त गुणा छे (द्वार) तीनु गति द्वार समाप्त

टीकार्थ—प्रथम दिशा द्वारनी प्ररूपणा कर्या पछी छेवे भील गति रूप द्वारनी प्ररूपणा कराय छे

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! आ पूर्व कथित नारके,

उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सञ्चत्थोवा मणुस्सा’ सर्वस्तोकाः- सर्वेभ्यो-
ज्ज्वाः, मनुष्या भवन्ति, उत्पद्यन्ते इत्यर्थः, तेभ्यो—‘नैरइया असंखेज्जगुणा’
नैरयिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘देवा असंखेज्जगुणा’ देवाः असं-
ख्येयगुणा भवन्ति. तेभ्योऽपि ‘सिद्धा अणंतगुणा’ सिद्धा अनन्तगुणा भवन्ति,
तेभ्यः ‘तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा’ तिर्यग्योनिका अनन्तगुणा भवन्ति, अत्रेदं
बोध्यम्—पणवतिच्छेदनकच्छेचराशि प्रमाणत्वात् सर्वस्तोकत्वं मनुष्याणां बोध्यम्,
तेभ्यो नैरयिकाणाम् संख्येयगुणत्वं विज्ञेयम् अङ्गुलमात्रक्षेत्रप्रदेशराशेः प्रथम
वर्गमूलस्य द्वितीयवर्गमूलेन गुणितस्य यावन् प्रदेशराशि भवति तावत्प्रमाणासु
घनीकृतस्य, लोकस्यैकप्रादेशिकीषु श्रेणिषु यावन्तो नभःप्रदेशा भवन्ति ताव-
त्प्रमाणत्वात्, तेभ्यो देवानामसंख्येयगुणत्वम्, व्यन्तराणां ज्योतिष्काणाञ्च

नारकों, तिर्यंचों, मनुष्यों, देवों और सिद्धों की पांच गतियों की
अपेक्षा से अर्थात् उत्पत्ति की अपेक्षा से, संक्षेप से, कौन किससे
अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् ने उत्तर दिया—हे गौतम ! सब से कम मनुष्य हैं,
मनुष्यों की अपेक्षा नैरयिक असंख्यात गुणा हैं, नैरयिकों की अपेक्षा
देव असंख्यातगुणा हैं, देवों की अपेक्षा सिद्ध अनन्तगुणा हैं, और
सिद्धों की अपेक्षा तिर्यंच अनन्तगुणा हैं । नारक उनसे असंख्यातगुणा
हैं । क्योंकि वे अंगुल प्रमाण क्षेत्र के प्रदेशों की राशि के प्रथम वर्ग-
मूल से गुणाकार करने पर जो प्रदेश राशि निष्पन्न होती है, उतनी
ही घनीकृत लोक की एक प्रदेश वाली श्रेणियों में जितने आकाश
प्रदेश होते हैं, उतना ही नारकों का प्रमाण है । नारकों की अपेक्षा
देव असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि व्यन्तर और ज्योतिष्क प्रतर असं-

तिर्यंचो, मनुष्यो, देवो अने सिद्धोनी पाच गतियोनी अपेक्षाओ अर्थात्
उत्पत्तिनी अपेक्षाओ, संक्षेपथी केषु केनाथी ओछा वधारे, सरणा के
विशेषाधिक छे ?

श्री भगवाने उत्तर आप्यो—हे गौतम अधाथी ओछा मनुष्य छे
मनुष्योनी अपेक्षाओ नैरयिक असंख्यात गुणा छे, नैरयिकोनी अपेक्षाओ देव
असंख्यात गुणा छे देवोनी अपेक्षाओ सिद्ध अनन्त गुणा छे अने सिद्धोनी
अपेक्षाओ तिर्यंच अनन्त गुणा छे नारक तेमनाथी असंख्यात गुणा छे केमके
तेओ ओक अंगुल प्रमाण क्षेत्राना प्रदेशोनी राशिना प्रथम वर्गमूलेने ओन
वर्गमूलथी गुणाकार करवाथी ओ प्रदेश राशि निष्पन्न थाय छे, तेटलीव घनकृत
लोकोनी ओक प्रदेशवाणी श्रेणियोमा तेटलो आकाश प्रदेश थाय छे, तेटला व
नारकोनु प्रमाण छे नारकोनी अपेक्षाओ देव असंख्यात गुणित छे, केमके

प्रत्येकं प्रतरासंख्येयभागवतिश्रेणिगताकाशप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्, तेभ्यः सिद्धानामनन्तत्वम् अभव्येभ्योऽनन्तगुणत्वात्, तेभ्यस्तिर्यग्योनिज्ञानामनन्तगुणत्वं वनस्पतिकायिकानां सिद्धेभ्योऽपि अनन्तगुणत्वात्, इत्येवं मनुष्यनैरयिक तिर्यग्योनिकदेव सिद्धरूपाणां पञ्चानामल्पबहुत्वं प्रतिपाद्य सम्प्रति नैरयिक तिर्यग्योनिक तैर्यग्योनिज्ञानी मनुष्यमानुषी देव देवीसिद्धरूपाणामष्टानामल्पबहुत्वमाह—
 'एषसि णं गंते ! नेरदयाण' हे भदन्त ! एतेषा खलु पूर्वोक्तानां नैरयिकाणाम्
 'तिरिक्खजोणियाणं' तिर्यग्योनिज्ञानाम् 'तिरिक्ख नोणीणीण' तैर्यग्योनिज्ञानाम्,
 'मणुस्पाणं' मनुष्याणाम्, 'मणुस्पोणं' मानुषीणाम् 'देवाणं देवीणं' देवानां देवी-
 नाम् 'सिद्धाण य अट्ठ' सिद्धानाञ्चेति अष्टानाम् 'गइ अणुवाएण' गत्यनुपातेन—
 उत्पत्यनुसारेण, 'समासेण' समासेन—संक्षेपेण 'कयरे कयरेहिंतो' कतरे कतरे-
 भ्यो जीवेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेत्ताहिया वा' अल्पा वा,

ख्यात भागवतीं श्रेणियों के आकाश प्रदेशों की राशि के बराबर हैं। सिद्ध उनसे भी अनन्तगुणा हैं, क्योंकि वे अभव्यों से अनन्तगुणा हैं। सिद्धों की अपेक्षा तिर्यच अनन्तगुणित है, क्योंकि अकेले वनस्पतिकायिक ही सिद्धों से अनन्तगुणा है। यह मनुष्यों, नारकों, तिर्यचों, देवों और सिद्धों का अल्पबहुत्व बतलाया गया है।

अब नारक, तिर्यच, तिर्यचनी, मनुष्य, मनुष्यनी, देव, देवी और सिद्ध, इन आठ का अल्पबहुत्व कहते हैं—

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन नारकों तिर्यचों, तिर्यचनियों, मनुष्यों, मनुष्यनियों, देवों, देवियों और सिद्धों इन आठ गतियों की अपेक्षा से, संक्षेप से, कौन किसकी अपेक्षा अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक है ?

अन्तर अने न्योतिष्ठ प्रतरनी अस पथात भागवतीं श्रेणियोना आकाश प्रदेशोनी राशिना भराभर छे सिद्ध तेमनाथी पथु अनन्त गुणु छे, केभके तेयो अलव्येथी अनन्त गुणु छे सिद्धोनी अपेक्षाये तिर्यच अनन्त गुणित छे, केभके अेकदा वनस्पति कायिक न सिद्धोभां अनन्त गुणु छे आ मनुष्यो नारको, तिर्यचो, देवो अने सिद्धोनु अल्पत्व बहुत्व अताव्यु छे.

इवे नारक, तिर्यच, तिर्यचनी, मनुष्य, मनुष्य स्त्री, देव, देवी, अने सिद्ध आ आठनु अल्प बहुत्व कहे छे

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—भगवन् ? आ नारको, तिर्यचो, तिर्यचनीयो, मनुष्यो, मनुष्यस्त्रियो, देवो, देवियो अने सिद्धो आ आठ गतियोनी अपेक्षाये स भेपथो कोषु केनी अपेक्षाये अल्प बहुत्व अथवा विशेषाधिक छे ?

बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिह्वा वा भवन्ति, भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘संख्येयवाओ मणुस्सीओ’ सर्वस्तोकाः सर्वेभ्योऽल्पाः मानुष्यः—मनुष्यस्त्रियो भवन्ति तासां संख्येयकोटिकोटिप्रमाणत्वात्, ताभ्यः—‘मणुस्सा असंखेज्जगुणा’ मनुष्याः असंख्येयगुणा भवन्ति, अत्र मनुष्येषु संमूर्च्छजानामपि ग्रहणं भवति वेदस्याविवक्षितत्वात्, तेषाञ्च संमूर्च्छजानां वान्तादिषु नगरनिर्द्धमनान्तेषु उत्पद्यमानतया असंख्येयं भवति, तेभ्योऽपि ‘नेरइया असंखेज्जगुणा’ नैरयिका असंख्येयगुणा भवन्ति, उत्कृष्टेनापि श्रेण्यसंख्येयभागवतिप्रदेशराशिप्रमाणतयोपलभ्यमानमनुष्यापेक्षया अङ्गुलमात्र क्षेत्रप्रदेशराशिवर्ति तृतीयवर्गमूलगुणितप्रथमवर्गमूलप्रमाण श्रेणिगताकाशप्रदेशराशिप्रमाणनैरयिकाणामसंख्येयगुणत्वमप्रसेयम्, तेभ्योऽपि ‘तिरिक्खज्जोणिणीओ असंखेज्जगुणाओ’ तैर्यग्योनिक्ख्यः तैर्यग्योनिक्खियः असंख्येयगुणाः भवन्ति तासां प्रतरासंख्येयभागगता

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सबसे कम मनुष्य—स्त्रियाँ हैं, क्योंकि उनकी संख्या संख्यात कोडाकोडी प्रमाण है। उनकी अपेक्षा मनुष्य असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि इनमें वेद की विवक्षा न करने से संमूर्छिम मनुष्य भी सम्मिलित हैं। संमूर्छिम मनुष्य की उच्चार आदि से लेकर नगर की मोरियों आदि में उत्पत्ति होती है, अतएव वे असंख्यात हैं। मनुष्यों की अपेक्षा नारक असंख्यातगुणा हैं। मनुष्य उत्कृष्ट संख्या में पाये जाएं तो भी श्रेणी के असंख्यातवें भागवर्ती प्रदेशों की राशि के बराबर उपलब्ध होते हैं, इनकी अपेक्षा अंगुल मात्र क्षेत्र के प्रदेशों की राशिवर्ती तीसरे वर्गमूल से गुणित प्रथम वर्गमूल प्रमाण श्रेणीगत प्रदेशों की राशि के बराबर नारक असंख्यात गुणा हैं। नारकों की अपेक्षा तैर्यचनी असंख्यातगुणी हैं,

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! अधाथी ओधी मनुष्य—स्त्रियो छे, केमके तेमनी स ज्ज्या स ज्ज्यात कोडाकोडी प्रमाण छे, तेमनी अपेक्षाओ मनुष्य अस ज्ज्यात गुणा छे, केमके तेओमा वेदनी विवक्षा करवाथी संमूर्छिम मनुष्य पणु सम्मिलित छे संमूर्छिम मनुष्यनी उच्चार आदिथी लधने नगरनी मोरीथो विगेरेमा उत्पत्ति थाय छे तेथीज्ज तेओमा अस ज्ज्यात छे मनुष्यनी अपेक्षाओ नारक अस ज्ज्यात गुणा छे मनुष्य जे उत्कृष्ट स ज्ज्यामा भणे तो पणु श्रेणिना अस ज्ज्यातमा भागवती प्रदेशोनी राशिना भराभर उपलब्ध थाय छे, तेमनी अपेक्षाओ अङ्गुलमात्र प्रदेशना क्षेत्रनी राशिवती त्रीज्ज वर्ग मूलथी गुणेल प्रथम वर्गमूल प्रमाण श्रेणिगत प्रदेशोनी राशिना भराभर नारक अस ज्ज्यात गुणा छे नारकोनी अपेक्षाओ तैर्यचनी अस ज्ज्यात गुणी

संख्येयश्रेणिनमःप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्, ताभ्योऽपि—‘देवा असंखेज्जगुणा’ देवाः असंख्येयगुणा’ भवन्ति, तेषाम् असंख्येयगुणप्रतरासंख्येयभागात्ता संख्येयश्रेणिवर्तिप्रदेशराशिप्रमाणत्वात् तेभ्योऽपि ‘देवीओ संखेज्जगुणाओ’ देव्यः संख्येयगुणा भवन्ति तासां द्वात्रिंशद्गुणत्वात्, ताभ्योऽपि ‘सिद्धा अणंतगुणा’ सिद्धाः अनन्तगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा’ तिर्यग्योनिकाः अनन्तगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेरित्याशयः ‘दारं’ द्वितीयं गतिद्वारं समाप्तम् । सू० ३॥

मूलम्—एएसि णं भंते ! सइंदियाणं एगिदियाणं वेइदि-
याणं तेइंदियाणं चउरिंदियाणं पंचिंदियाणं अणिंदियाणं
कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया
वा ? गोयमा । सव्वत्थोवा पंचिंदिया चउरिंदिया विसेसाहिया,
तेइंदिया विसेसाहिया, वेइंदिया विसेसाहिया, अणिंदिया
अणंतगुणा, एगिंदिया अणंतगुणा, सइंदिया विसेसाहिया,
एएसि णं भंते ! सइंदियाणं एगिंदियाणं वेइंदियाणं तेइदि-
याणं चउरिंदियाणं पंचिंदियाणं अपज्जत्तगाणं कयरे कयरेहिंतो

क्योंकि वे प्रतरासंख्येय भाग में रहे हुए असंख्येय श्रेणियों के आकाश प्रदेशों के बराबर हैं । देव इन से भी असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि वे असंख्यात गुण प्रतर के असंख्यात भागवर्ती असंख्य श्रेणियों के प्रदेशों की राशि के बराबर हैं । देवों की अपेक्षा देवियां संख्यातगुणी अधिक हैं, क्योंकि वे उनसे बत्तीस गुणी हैं । देवियों की अपेक्षा सिद्ध अनन्तगुणित हैं और सिद्धों की अपेक्षा तिर्यच अनन्तगुणा हैं । इनकी अधिकता का कारण पहले कहा जा चुका है ॥३॥

गतिद्वार समाप्त

छे केमके ते प्रतरा स ञ्जेथ लागमा रहिने अस ञ्जेथ श्रेणियोना आकाश प्रदेशोना भराभर छे देव तेमनाथी पणु अस ञ्जात गुण्णा छे, केमके तेज्जो अस ञ्जात गण्णाप्रतरना अस ञ्जात भागवती अस ञ्ज श्रेणियोना प्रदेशोनी राशिना भराभर छे, देवोनी अपेक्षाज्जे देवियो अस ञ्जात गण्णी अधिक छे, केमके ते तेज्जोथी भरीस गण्णी छे. देवियोनी अपेक्षाज्जे सिद्ध अनन्त गुणित छे अने सिद्धोनी अपेक्षाज्जे तिर्यथ अनन्तगण्णा छे तेज्जोनी अधिकताहुं कारण पडेवा कडि दिधेहु छे ॥ ३ ॥

अप्या वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा सब
 त्थोवा पंचिदिया अपज्जत्तगा, चउरिंदिया अपज्जत्तगा विसे-
 साहिया, तेइंदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया वेइंदिया अपज्ज-
 त्तगा विसेसाहिया, एगिंदिया अपज्जत्तगा अणंतगुणा, सइं-
 दिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया, एएसि णं भंते ! सइंदियाणं
 एगिंदियाणं वेइंदियाणं तेइंदियाणं चउरिंदियाणं पंचिंदियाणं
 पज्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्या वा, बहुया वा, तुल्ला वा,
 विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा चउरिंदिया पज्जत्तगा,
 पंचिंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया, वेइंदिया पज्जत्तगा विसे-
 साहिया, तेइंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया, एगिंदिया पज्ज-
 त्तगा अणंतगुणा, सइंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया, एएसि णं
 भंते ! सइंदियाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्या
 वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्ब-
 त्थोवा सइंदिया अपज्जत्तगा, सइंदिया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा,
 एएसि णं भंते ! एगिंदियाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरे-
 हिंतो अप्या वा बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?
 गोयमा ! सब्बत्थोवा एगिंदिया अपज्जत्तगा एगिंदिया पज्ज-
 त्तगा संखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! वेइंदियाणं पज्जत्तापज्ज-
 त्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्या वा, बहुया वा, तुल्ला वा,
 विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा वेइंदिया पज्जत्तगा,
 वेइंदिया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! तेइं-
 दियाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्या वा बहुया वा,
 तुल्ला वा, विसेसाहिया वा, गोयमा ! सब्बत्थोवा तेइंदिया-
 पज्जत्तगा, तेइंदिया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, एएसि णं
 भंते ! चउरिंदियाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्या

वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्व-
 त्थोवा चउरिंदिया पज्जत्तगा, चउरिंदिया अपज्जत्तगा असं-
 खेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! पंचिंदियाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं
 कयरे कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया
 वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा पंचिंदिया पज्जत्तगा, पंचिंदिया
 अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! सइंदियाणं एगिं-
 दियाणं बेइंदियाणं तेइंदियाणं चउरिंदियाणं पंचिंदियाणं पज्ज-
 त्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहितो अप्पा वा. बहुया वा तुल्ला वा,
 विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा चउरिंदिया पज्जत्तगा,
 पंचिंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया, पंचिंदिया अपज्जत्तगा
 असंखेज्जगुणा, चउरिंदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया, तेइंदिया
 अपज्जत्तगा विसेसाहिया, बेइंदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया
 एगिंदिया अपज्जत्तगा अणंतगुणा सइंदिया अपज्जत्तगा विसे-
 साहिया, एगिंदिया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा सइंदिया पज्जत्तगा
 विसेसाहिया, सइंदिया विसेसाहिया ।दारं ३॥सू० ४॥

छाया—एतेषां खलु भदन्त ! एकेन्द्रियाणां द्वीन्द्रियाणां त्रीन्द्रियाणां चतु-
 रिन्द्रियाणां पञ्चेन्द्रियाणाम् अनिन्द्रियाणाम् कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा,

सेन्द्रियद्वार

शब्दार्थ—(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सइंदियाणं) इन्द्रिय
 युक्त (एगिंदियाणं बेइंदियाणं तेइंदियाणं चउरिंदियाणं पंचिंदियाणं
 अणिंदियाणं) एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय और
 अनिन्द्रियों में (कयरे कयरेहितो) कौन किससे (अप्पा वा) अल्प हैं (बहुया

सेन्द्रिय द्वार

शब्दार्थ—(एएसिणं भंते !) हे भगवन् ! आ (सइंदियाणं) इन्द्रिय युक्त
 (एगिंदियाणं, बेइंदियाणं, तेइंदियाणं, चउरिंदियाणं, पंचिंदियाणं, अणिंदियाणं)
 एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अने अनिन्द्रियोभा (कयरे
 कयरेहितो) केषु केनाथी (अप्पा वा) अल्पे छे (बहुया वा) धण्णु छे (तुल्ला वा)
 तुल्ये छे, (विसेसाहिया वा) विशेषाधिके छे, (गोयमा) हे गौतम (सव्वत्थोवा)

तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः पञ्चेन्द्रियाः, चतुरिन्द्रिया विशेषाधिकाः, त्रीन्द्रिया विशेषाधिकाः द्वीन्द्रिया विशेषाधिकाः, अनिन्द्रिया अनन्तगुणाः, एकेन्द्रिया अनन्तगुणाः, सेन्द्रियाः विशेषाधिकाः, एतेषां सल्ल भदन्त ! सेन्द्रियाणाम् एकेन्द्रियाणाम् द्वीन्द्रियाणाम्, त्रीन्द्रियाणाम् चतुरिन्द्रियाणाम् पञ्चेन्द्रियाणाम् अपर्याप्तानाम् कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः पञ्चेन्द्रियाः अपर्याप्तकाः चतुरिन्द्रिया अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः त्रीन्द्रिया अपर्याप्तका विशेषाधिकाः, द्वीन्द्रिया अपर्या-

वा) बहुत हैं (तुल्ला वा) या बराबर हैं (विसेसाहिया वा) या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सन्वत्थोवा) सब से कम (पंचिदिया) पंचेन्द्रिय हैं (चउरिंदिया विसेसाहिया) चौद्विन्द्रिय विशेषाधिक हैं (तेइंदिया) त्रीन्द्रिय (विसेसाहिया) विशेषाधिक हैं (वेइंदिया विसेसाहिया) द्वीन्द्रिय विशेषाधिक है (अणिंदिया अणंतगुणा) अनिन्द्रिय अनन्तगुणा हैं (एगिंदिया अणंतगुणा) एकेन्द्रिय अनन्तगुणा हैं (सइंदिया) इन्द्रिय युक्त (विसेसाहिया) विशेषाधिक है ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सइंदियाणं) इन्द्रिय युक्त (एगिंदियाणं) एकेन्द्रिय (वेइंदियाणं) द्वीन्द्रिय (तेइंदियाणं) त्रीन्द्रिय (चउरिंदियाणं) चतुरिन्द्रिय (पंचिदियाणं) पंचेन्द्रिय (अपज्जत्ताणं) अपर्याप्त में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?) अल्प, दहुत, तुल्य, अथवा विशेषाधिक हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (सन्वत्थोवा पंचिदिया अपज्जत्तागा) सब से कम पंचेन्द्रिय अपर्याप्त हैं (चउरिंदिया अपज्जत्तागा विसेसाहिया)

अधार्थी ओछा (पंचेदिया) पंचेन्द्रिय छे (चउरिंदिया विसेसाहिया) चतुरिन्द्रिय विशेषाधिक छे (तेइंदिया) त्रयु धन्द्रिय (विसेसाहिया) विशेषाधिक छे (वेइंदिया विसेसाहिया) द्वे धन्द्रिय विशेषाधिक छे (अणिंदिया अणंतगुणा) अनिन्द्रिये अनन्तगुणा छे (एगिंदिया अणंतगुणा) एकेन्द्रिय अनन्तगुणा छे (सइंदिया) इन्द्रिय युक्त (विसेसाहिया) विशेषाधिक छे

(एएसिण भंते !) छे भगवन् ! आ (सइंदियाणं) इन्द्रिय युक्त (एगिंदियाणं) एकेन्द्रिय (वेइंदियाणं) द्वे धन्द्रिय (तेइंदियाणं) त्रयु धन्द्रिय (चउरिंदियाणं) चार धन्द्रिय (पंचिदियाणं) पाच धन्द्रिय (अपज्जत्ताणं) अपर्याप्तमा (कयरे कयरेहिंतो) डोणु डेनार्थी (अप्पा वा) अल्प छे (बहुया वा, तुल्लाया, विसेसाहिया वा) धणु, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे (गोयमा !) छे गौतम ? (सन्वत्थोवा पंचिदिया अपज्जत्तागा) अधार्थी ओछा पंचेन्द्रिय अपर्याप्त छे (चउरिंदिया अपज्जत्तागा विसेसाहिया)

प्रकाः विशेषाधिकाः, एकेन्द्रियाः अपर्याप्तकाः अनन्तगुणाः सेन्द्रिया विशेषाधिकाः, एतेषां खलु भदन्त ! सेन्द्रियाणाम् एकेन्द्रियाणाम् द्वीन्द्रियाणाम्, त्रीन्द्रियाणाम्, चतुरिन्द्रियाणाम्, पञ्चेन्द्रियाणाम् पर्याप्तकानाम् कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाश्चतुरिन्द्रिाः पर्याप्ताः, पञ्चेन्द्रियाः पर्याप्तकाः, विशेषाधिकाः, द्वीन्द्रियाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, त्रीन्द्रियाः

चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (तेइंदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) त्रीन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (वेइंदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) द्वीन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (एगिंदिया अपज्जत्तगा अणत्तगुणा) एकेन्द्रिय अपर्याप्त अनन्तगुणा हैं (सइंदिया अपज्जत्तगा) सेन्द्रिय-इन्द्रियवान् अपर्याप्त (विसेसाहिया) विशेषाधिक हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सइंदियाणं) सेन्द्रिय (एगिंदियाणं) एकेन्द्रिय (वेइंदियाणं) द्वीन्द्रिय (तेइंदियाणं) त्रीन्द्रिय (चउरिंदियाणं) चौइन्द्रिय (पंचिंदियाणं) पंचेन्द्रिय (पज्जत्ताणं) पर्याप्त में (कयरे कयरेहितो) कौन किससे (अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा चउरिंदिया पज्जत्तगा) सब से कम चौइन्द्रिय पर्याप्त हैं (पंचिंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया) पंचेन्द्रिय पर्याप्त विशेषाधिक हैं (वेइंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया) द्वीन्द्रिय

चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक छे (तेइंदिय अपज्जत्तगा विसेसाहिया) त्रयु इन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक छे (वेइंदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) जे इन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक छे (एगिंदिया अपज्जत्तगा अणत्तगुणा) ओकेन्द्रिय अपर्याप्त अनन्त गुणा छे (सइंदिया अपज्जत्तगा) सेन्द्रिय इन्द्रियवान् अपर्याप्त (विसेसाहिया) विशेषाधिक छे

(एएसिणं भंते !) हे भगवन् ! आ (सइंदियाणं) सइन्द्रिय (एगिंदियाणं) ओकेन्द्रिय (वेइंदियाणं) जे इन्द्रिय (तेइंदियाणं) त्रयु इन्द्रिय (चउरिंदियाणं) चार इन्द्रिय (पंचिंदियाणं) पंचेन्द्रिय (पज्जत्ताणं) पर्याप्तमा (कयरे कयरेहितो) केणु केनाथी (अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प धणुा तुदथ, अथवा विशेषाधिक छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा चउरिंदिया पज्जत्तगा) षड्धाथी ओछा चार इन्द्रिय पर्याप्त छे (पंचिंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया) पंचेन्द्रिय पर्याप्त विशेषाधिक छे (वेइंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया) द्वीन्द्रिय पर्याप्त विशेषाधिक छे (तेइंदिया पज्जत्तगा) त्रयु इन्द्रिय पर्याप्त (विसेसाहिया)

पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, एकेन्द्रियाः पर्याप्तकाः, अनन्तगुणा, सेन्द्रियाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, एतेषां खलु भदन्त ! सेन्द्रियाणाम् पर्याप्तापर्याप्तानां कतरे कतरेभ्योऽत्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः सेन्द्रियाः अपर्याप्तका, सेन्द्रियाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! एकेन्द्रियाणाम् पर्याप्तापर्याप्तानाम् कतरे कतरेभ्योऽत्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः एकेन्द्रियाः अपर्याप्तकाः एकेन्द्रियाः पर्याप्ताः संख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! द्वीन्द्रियाणाम् पर्याप्तापर्याप्तानां पर्याप्त विशेषाधिक हैं (तेइंदिया पज्जत्तया) त्रीन्द्रिय पर्याप्त (विसेसाहिया) विशेषाधिक हैं (एगिंदिया पज्जत्ता अणंतगुणा) एकेन्द्रिय पर्याप्त अनन्तगुणा हैं (सइंदिया पज्जत्तगा) सेन्द्रिय-इन्द्रियवान् पर्याप्त (विसेसाहिया) विशेषाधिक हैं ।

(एएसि णं भंते ! सइंदियाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) हे भगवन् ! इन सेन्द्रिय पर्याप्तो और अपर्याप्तों में (कयरे कयरेहितो) कौन किस से (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा सइंदिया अपज्जत्तगा) सब से कम सेन्द्रिय अपर्याप्त हैं (सइंदिया पज्जत्तगा) सेन्द्रिय पर्याप्त (संखेज्जगुणा) संख्यातगुणा हैं । (एएसि णं भंते ! एगिंदियाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहितो) हे भगवन् ! इन पर्याप्त और अपर्याप्त एकेन्द्रियों में कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा) सबसे कम (एगिंदिया) एकेन्द्रिय

विशेषाधिक छे (एगिंदिया पज्जत्तगा अणतगुणा) ओकेन्द्रिय पर्याप्त अनन्तगुणा छे (सइंदिया पज्जत्तगा) सेइन्द्रिय छेन्द्रियणा पर्याप्त (विसेसाहिया) विशेषाधिक छे

(एएसिण भंते ! सइंदियाण पज्जत्तापज्जत्ताणं) हे भगवन् ! आ सेन्द्रिय पर्याप्तो अने अपर्याप्तोमा (कयरे कयरेहितो) केणु केनाथी (अप्पा वा, बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धणु, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा सइंदिया अपज्जत्तगा) अधाथी ओछा सेन्द्रिय अपर्याप्त छे (सइंदिया पज्जत्तगा) सेन्द्रिय पर्याप्त (संखेज्जगुणा) सभ्यात गुणा छे (एएसिण भंते एगिंदियाण पज्जत्तापज्जत्ताण कयरे कयरेहितो) भगवन् ! आ पर्याप्त अने अपर्याप्त ओकेन्द्रियोमा केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्लाया वा विसेसाहिया वा) अल्प, धणु, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ? (गोयमा) हे गौतम (सव्वत्थोवा) अधाथी ओछा (एगिंदिया) ओकेन्द्रिय (अपज्जत्ता)

कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुला वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः त्रीन्द्रियाः पर्याप्तकाः, त्रीन्द्रिया अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! त्रीन्द्रियाणाम् पर्याप्तापर्याप्तानाम् कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुला वा, तुल्या वा विशेषाधिका वा गौतम ! सर्वस्तोका स्त्रीन्द्रियाः पर्याप्तकाः त्रीन्द्रियाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! चतुरिन्द्रियाणाम् पर्याप्तापर्याप्तानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुला वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ?

(अपञ्जत्ता) अपर्याप्त हैं (एगिंदिया) एकेन्द्रिय (पञ्जत्तगा संखेज्जगुणा) पर्याप्त संख्यातगुणा हैं । (एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (वेइंदियाणं पञ्जत्तापञ्जत्ताणं) त्रीन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्त में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वेइंदिया पञ्जत्तगा) सब से कम त्रीन्द्रिय पर्याप्त हैं (वेइंदिया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा) त्रीन्द्रिय अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं । (एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (तेइंदियाणं पञ्जत्तापञ्जत्ताणं) त्रीन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्त में से (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा तेइंदिया पञ्जत्तगा) सब से कम त्रीन्द्रिय पर्याप्त हैं (तेइंदिया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा) त्रीन्द्रिय अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं । (एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (चउरिंदियाणं पञ्जत्तापञ्जत्ताणं) चोइन्द्रिय

अपर्याप्त छे (एगिंदिया) अकेन्द्रिय (पञ्जत्तगा संखेज्जगुणा) पर्याप्त संख्यात गुणा छे (एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! आ (वेइंदियाणं पञ्जत्तापञ्जत्ताणं) त्रीन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्तमा (कयरे कयरेहिंतो) केण केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, बहु, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे (गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वेइंदिया पञ्जत्तगा) अधाथी आछा ते त्रीन्द्रिय पर्याप्त छे (वेइंदिया अपञ्जत्तगा असंखेज्ज गुणा) ते त्रीन्द्रिय अपर्याप्त असंख्यात गुणा छे (एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! आ (तेइंदियाणं पञ्जत्तापञ्जत्ताणं) त्रय त्रीन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्तमाथी (कयरे कयरेहिंतो) केण केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया ?) अल्प, धणु, तुल्य, अथवा विशेषाधिक छे ? (गोयमा !) हे गौतम (सव्वत्थोवा तेइंदिया पञ्जत्तगा) अधाथी आछा त्रय त्रीन्द्रिय पर्याप्त छे (तेइंदिया अपञ्जत्तगा असंखेज्ज गुणा) त्रय त्रीन्द्रिय अपर्याप्त असंख्यात गुणा छे

गौतम ! सर्वस्तोकाश्चतुरिन्द्रियाः पर्याप्तकाः चतुरिन्द्रियाः अपर्याप्तकाः असंख्येय-
गुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! पञ्चेन्द्रियाणाम् पर्याप्तापर्याप्तकानाम् कतरे कतरे-
भ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः
पञ्चेन्द्रियाः पर्याप्तकाः, पञ्चेन्द्रियाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः एतेषां खलु
भदन्त सेन्द्रियाणाम् एकेन्द्रियाणाम्, द्वीन्द्रियाणाम्, त्रीन्द्रियाणाम्, चतुरिन्द्रिया-
णाम्, पञ्चेन्द्रियाणाम् पर्याप्तापर्याप्तानाम् कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा,
पर्याप्त और अपर्याप्त में से (कयरे कयरेहितो) कौन किससे (अप्पा
वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या
विशेषाधिक है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा चउरिंदिया पज्ज-
त्तगा) सब से कम चौइन्द्रिय पर्याप्त है (चउरिंदिया अपज्जत्तगा
असंखेज्जगुणा) चौइन्द्रिय अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं। (एएसि णं
भंते !) हे भगवन् ! इन (पंचिंदियाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) पंचेन्द्रिय
पर्याप्त और अपर्याप्त में से (कयरे कयरेहितो) कौन किससे (अप्पा
वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, बहुत, तुल्य या
विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा पंचिंदिया पज्ज-
त्तगा) सब से कम पंचेन्द्रिय पर्याप्त हैं (पंचिंदिया अपज्जत्तगा असंखे-
ज्जगुणा) पंचेन्द्रिय अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सइंदियाणं एगिंदियाणं वेइं-
दियाणं तेइंदियाणं चउरिंदियाणं पंचिंदियाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं)
सेन्द्रिय, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय के पर्याप्त

(एएसिण भंते !) हे भगवन् ! आ (चउरिंदियाण पज्जत्ता पज्जत्ताण) चार इन्द्रिय
पर्याप्त अने अपर्याप्तभाथी (कयरे कयरेहितो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया
या तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य अगर विशेषाधिक छे
(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा चउरिंदिया पज्जत्तगा) अधाथी ओछा चतु-
रिद्रिय पर्याप्त छे (एएसिण भंते !) भगवन् ! आ (पंचेदियाण पज्जत्तापज्जत्ताण)
पर्याप्त अने अपर्याप्त पंचेन्द्रियभाथी (कयरे कयरेहितो) केणु केनाथी (अप्पा
वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, बहुत, तुल्य, अगर विशेषा-
धिक छे (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थो वा पंचिंदिया पज्जत्तगा) अधाथी ओछा
पंचेन्द्रिय पर्याप्त छे (पंचिंदिया अपज्जत्तगा असंखेज्ज गुणा) पंचेन्द्रिय अप-
र्याप्त असंख्यात गुणा छे

(एएसिणं भंते !) भगवन् ! आ (सइंदियाणं एगिंदियाणं वेइंदियाणं ते
इंदियाणं चउरिंदियाणं पंचिंदियाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) सेन्द्रिय, एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रियना पर्याप्त अने अपर्याप्तभाथी (कयरे कयरे

तुल्या वा, विशेषाधिकावा गौतम ! सर्वस्तोकाश्चतुरिन्द्रियाः पर्याप्तकाः, पञ्चेन्द्रियाः पर्याप्तका विशेषाधिकाः द्वीन्द्रियाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, त्रिन्द्रियाः पर्याप्ताः विशेषाधिकाः, पञ्चेन्द्रियाः अपर्याप्तका असंख्येयगुणाः चतुरिन्द्रियाः अपर्याप्तका विशेषाधिकाः, त्रीन्द्रियाः अपर्याप्तका विशेषाधिका द्वीन्द्रिया अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, एकेन्द्रियाः अपर्याप्तकाः अनन्तगुणाः सेन्द्रियाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, एकेन्द्रियाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः सेन्द्रियाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकः, सेन्द्रियाः विशेषाधिकाः । डारम् ३ ॥ सू० ४ ॥

और अपर्याप्त में से (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा चउरिंदिया पज्जत्तगा) सब से कम चौइन्द्रिय पर्याप्त है (पंचिंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया) पंचेन्द्रिय पर्याप्त विशेषाधिक है (वेइ दिया पज्जत्तगा विसेसाहिया) द्वीन्द्रिय पर्याप्त विशेषाधिक हैं (तेइ दिया पज्जत्तगा विसेसाहिया) त्रीन्द्रिय पर्याप्त विशेषाधिक हैं (पंचिंदिया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) पंचेन्द्रिय अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (चउरिंदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) चौन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (तेइ दिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) त्रीन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (वेइ दिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) द्वीन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक है (एगिंदिया अपज्जत्तगा अणंतगुणा) एकेन्द्रिय अपर्याप्त अनंतगुणा है (सइ दिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) सेन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (एगिंदिया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा) एकेन्द्रिय पर्याप्त संख्यातगुणा हैं (सइ दिया

हिन्तो) डेणु डेनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धुष्ठा, तुल्य या विशेषाधिक छे (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा चउरिंदिया पज्जत्तगा) अध्याथी ओएण थार धन्द्रिय पर्याप्त छे (पंचिंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया) पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त विशेषाधिक छे (वेइ दिया पज्जत्तगा विसेसाहिया) जे धन्द्रिय पर्याप्त विशेषाधिक छे (तेइ दिया पज्जत्तगा विसेसाहिया) तथु धन्द्रिय पर्याप्त विशेषाधिक छे (पंचिंदिया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त असंख्यात गुष्ठा छे (चउरिंदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) थार धन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक छे (तेइ दिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) तथु धन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक छे (एगिंदिया अपज्जत्तगा अणंत गुणा) ओकेन्द्रिय अपर्याप्त अनन्त गुष्ठा छे (सइ दिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) सेन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक छे (एगिंदिया पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) ओकेन्द्रिय पर्याप्त असंख्यात

टीका—अथ इन्द्रियद्वारमधिकृत्य प्ररूपयितुमाह—‘एएसि णं भंते ! सइं-
दियाणं’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतेषां खलु पूर्वोक्तानाम् सेन्द्रियाणाम्
सामान्यजीवानाम् ‘एगिंदियाणं’ एकेन्द्रियाणाम् पृथिवीकायिकादीनाम् ‘वेइं-
दियाणं’ द्वीन्द्रियाणाम् शङ्खप्रभृतीनाम् ‘तेइंदियाणं’ त्रीन्द्रियाणाम्—पिपीलिका
दीनाम् ‘चउरिंदियाणं’ चतुरिन्द्रियाणाम् भ्रमरादीनाम् ‘पंचिंदियाणं’ पञ्चेन्द्रि-
याणाम् तिर्यगादीनाम् ‘अणिंदियाणं’ अनिन्द्रियाणाम् सिद्धादीनाम् मध्ये ‘कयरे
कयरेहिंतो’ कतरे कतरेभ्यो ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया
वा ?’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान्
उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सव्वत्थोवा पंचिंदिया’ सर्वस्तोकाः सर्वेभ्यो-
ऽल्पाः, पञ्चेन्द्रियाः भवन्ति, संख्येययोजनकोटिकोटिप्रमाणविष्कम्भसूचीप्रमित-

पञ्जत्तगा विसेसाहिया) सेन्द्रिय पर्याप्त विशेषाधिक हैं (सइंदिया
विसेसाहिया) सेन्द्रिय—इन्द्रियवान् विशेषाधिक हैं । द्वार ३ ॥सूत्र ३॥

टीकार्थ—अब इन्द्रियद्वार की अपेक्षा से प्ररूपणा की जाती है—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! ये जो सेन्द्रिय
अर्थात् इन्द्रिय वाले सामान्य जीव हैं, पृथिवीकाय आदि एकेन्द्रिय हैं,
शंख आदि द्वीन्द्रिय हैं, चिउंटी आदि त्रीन्द्रिय हैं भ्रमर आदि चौइन्द्रिय
हैं, तिर्यच आदि पंचेन्द्रिय हैं और अनिन्द्रिय अर्थात् सिद्ध हैं, इन में
से कौन—से जीव किससे अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ?

भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सबसे कम पंचेन्द्रिय जीव हैं,
क्योंकि वे संख्यात कोडाकोडी योजन प्रमाण विष्कम्भ सूची से प्रमित
प्रतर के असंख्येय भाग गत असंख्यात श्रेणियों में रहे हुए आकाश

शुष्ठा छे (सइंदिया पञ्जत्तगा विसेसाहिया) सेन्द्रिय पर्याप्त विशेषाधिक छे (स
इंदिया विसेसाहिया) सेधन्द्रिय—धन्द्रियवान् विशेषाधिक छे ॥ सूत्र ४ ॥

टीकार्थ—इधे धन्द्रिय द्वारणी अपेक्षाअे प्रप्रपष्ठा कराय छे—श्री गौतम
स्वामी प्रश्न करे छे—भगवन् ! आ सेन्द्रिय अर्थात् धन्द्रियवाणा सामान्य एव
पृथ्वीकाय आदि ओकेन्द्रिय छे धयण शय आदि जे धन्द्रिय छे कीडीमडेडी
आदि त्रयु धन्द्रिय छे भ्रमर विगेरे आर धन्द्रिय छे तिर्यच विगेरे पञ्चेन्द्रिय
छे अने अनिन्द्रिय अर्थात् सिद्ध छे, तेआमाथी कयो एव डेनाथी अल्प,
वधारे, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! यथाथी ओछा पञ्चेन्द्रिय एव
छे केमके तेआ सख्यात कोडाकोडी योजन प्रमाण विष्कम्भ सूचीथी प्रमित
प्रतरना असंख्येय भागगत असंख्यात श्रेणियोंमा रहेवा आकाशना प्रदेशीनी

प्रतरासंख्येयश्रेणिवर्त्याकाशप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्, तेभ्यः 'चतुरिन्द्रिया विसेसा-
हिया' चतुरिन्द्रियाः विशेषाधिका भवन्ति, दिक्कम्भसूच्या स्तेषां प्रचुरसंख्येय-
योजनकोटिकोटिप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि 'तेदंदिद्या विसेसाहिया' त्रीन्द्रिया
विशेषाधिका भवन्ति तेषां विष्कम्भसूच्याः प्रचुरतरसंख्येययोजनकोटिकोटि-
प्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि 'वेदंदिद्या विसेसाहिया' द्वीन्द्रियाः विशेषाधिका भवन्ति,
तेषां विष्कम्भसूच्या बहुलतमसंख्येययोजनकोटिकोटिप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि
'अणिन्द्रिया अणंतगुणा' अनिन्द्रियाः सिद्धाः अनन्तगुणा भवन्ति तेषामनन्तत्वात्,
तेभ्योऽपि 'एगिन्द्रिया अणंतगुणा' एकेन्द्रियाः अनन्तगुणा भवन्ति एकेन्द्रियाणां
वनस्पतिकायिकानां सिद्धेभ्योऽपि अनन्तगुणत्वात् तेभ्योऽपि 'सदंदिद्या विसेसा-
हिया' सेन्द्रियाः विशेषाधिका भवन्ति, सेन्द्रियेषु द्वीन्द्रियादीनामपि समावेशात्
इत्येवं रीत्या समुच्चयजीवानामल्पबहुत्वं प्रतिपाद्य तेषामेव समुच्चय जीवानाम-
प्रदेशों की राशि बराबर हैं। चौइन्द्रिय जीव उनसे विशेषाधिक हैं,
क्योंकि वे विष्कंभ सूची से प्रचुर संख्यात कोडाकोडी योजन प्रमाण
हैं। त्रीन्द्रिय जीव उनसे भी विशेषाधिक हैं। क्योंकि वे विष्कंभसूची
से प्रचुरतर संख्यात कोडाकोडी योजन प्रमाण हैं। द्वीन्द्रिय जीव उन
की अपेक्षा भी विशेषाधिक हैं, क्योंकि वे विष्कंभसूची के प्रचुरतम
संख्यात कोडाकोडी योजन प्रमाण हैं। सिद्ध जीव द्वीन्द्रियों से भी
अनन्तगुणा हैं, क्योंकि वे अनन्त हैं। अनिन्द्रियों से एकेन्द्रिय जीव
अनन्तगुणा हैं। क्यों कि एकेन्द्रिय वनस्पतिकायिक जीव सिद्धों से
भी अनन्तगुणित हैं। सेन्द्रिय अर्थात् सभी इन्द्रियों वाले जीव एके-
न्द्रियो से विशेषाधिक हैं, क्योंकि सेन्द्रिय जीवों में द्वीन्द्रिय आदि
का भी समावेश होता है। यह समुच्चय जीवों का अल्पबहुत्वं है।

राशिना बराबर छे चतुरिन्द्रिय एव तेमनाथी विशेषाधिक छे, केमके तेओ
विष्कंभ सूचीथी प्रचुर संख्यात कोडाकोडी योजन प्रमाण छे त्रीन्द्रिय एव
तेमनाथी पणु विशेषाधिक छे, केमके तेओ विष्कंभ सूचीथी प्रचुरतर असंख्यात
कोडाकोडी योजन प्रमाण छे जे छिन्द्रिय एव तेमनी अपेक्षाओ पणु विशेषा-
धिक छे, केमके तेओ विष्कंभ सूचीना प्रचुरतम असंख्यात कोडाकोडी योजन
प्रमाण छे सिद्ध एव द्वीन्द्रियोथी अनन्त गुणु छे, केमके तेओ अनन्त छे
अनिन्द्रियोथी एकेन्द्रिय एव अनन्त गुणु छे, केमके एकेन्द्रिय वनस्पति
कायिक एव सिद्धोथी पणु अनन्त गुणु छे सेन्द्रिय अर्थात् सभी छिन्द्रियो
वाणा एव एकेन्द्रियोथी विशेषाधिक छे केमके सेन्द्रिय एयोभा द्वीन्द्रिय आदिना
पणु समावेश थाय छे. आ समुच्चय एवोनु अल्प बहुत्वं कहु छे.

पर्याप्तानामल्पबहुत्वमाह—‘एएसि णं भंते ! राइंदियाणं’ हे भदन्त ! एतेषां सख्खु सेन्द्रियाणाम् ‘एगिंदियाणं’ एकेन्द्रियाणाम् ‘वेइंदियाणं’ द्वीन्द्रियाणाम्, ‘तेइंदियाणं’ त्रीन्द्रियाणाम् ‘चउरिंदियाणं’ चतुरिन्द्रियाणाम् ‘पंचिंदियाणं’ पञ्चेन्द्रियाणाम् ‘अपज्जत्तगाणं’ अपर्याप्तकानाम्, ‘कयरे कयरेहिंतो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सव्वत्थोवा पंचिंदिया अपज्जत्तगा’ सर्वस्तोकाः सर्वेभ्योऽल्पाः अपर्याप्तकाः पञ्चेन्द्रियाः भवन्ति, एकप्रतरे यावन्ति अङ्गुलासंख्येयभागमात्राणि खण्डानि भवन्ति तेषां तावत्प्रमाणत्वात्, तेभ्यः ‘चउरिंदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया’ चतुरिन्द्रिया अपर्याप्तका विशेषाधिका भवन्ति, तेषां प्रभूताङ्गुलासंख्येयभाग खण्डप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि ‘तेइंदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया’ त्रीन्द्रियाः

अपर्याप्त समुच्चय जीवो का अल्पबहुत्व—हे भगवन् ! इन सेन्द्रिय, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एवं पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जीवो में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक होते हैं ?

भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! अपर्याप्त पंचेन्द्रिय जीव सब से कम हैं, क्योंकि वे उतने ही हैं जितने एक प्रतर में अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र खंड होते हैं । उनकी अपेक्षा चौइन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक हैं, क्योंकि वे प्रचुर अंगुल के असंख्यातवें भाग खण्ड प्रमाण हैं । उनकी अपेक्षा त्रीन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक हैं, क्योंकि वे प्रचुरतर प्रतरांगुल के असंख्येय भाग खण्ड प्रमाण हैं । द्वीन्द्रिय अपर्याप्त उनसे भी विशेषाधिक हैं, क्योंकि वे प्रचुरतम प्रतरांगुल

अपर्याप्त समुच्चय लोपो अल्प बहुत्व—हे भगवन् ! आ सेन्द्रिय, ओकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, तेमज्ज पंचेन्द्रिय अपर्याप्त लोपोभा ओणु ओनाथी अल्प, वधु तुल्य अथवा विशेषाधिक थाय छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम अपर्याप्त पंचेन्द्रिय लोपोभा ओणु छे केमके ते ओटलाज्ज छे ओटला ओक प्रतरमा अंगुलना असंख्यातभा भाग मात्र अउ होय छे तेमनी अपेक्षाओे चार इन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक छे, केमके तेओे प्रचुर अंगुलना असंख्यातभा भाग अउ प्रमाणु छे तेमनी अपेक्षाओे त्रिइन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक छे, केमके तेओे प्रचुरतर प्रतरांगुलना असंख्येय भाग अउ प्रमाणु छे, द्विइन्द्रिय अपर्याप्त तेमनाथी पणु विगेणाधिक छे, केमके तेओे प्रचुरतम प्रतरांगुलना असंख्येय भाग अउ प्रमाणु छे, ओकेन्द्रिय अपर्याप्त तेमनाथी अनन्तशुषित छे, केमके अपर्याप्त

अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः भवन्ति प्रचुरतरप्रतराङ्गुलासंख्येयभागखण्डप्रमाण-
त्वात् 'वेइंदिया अपञ्जत्तगा विसेसाहिया' द्वीन्द्रियाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका
भवन्ति, तेषां प्रचुरतमप्रतराङ्गुलासंख्येयभागखण्डप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि
'एगिंदिया अपञ्जत्तगा अणंतगुणा' एकेन्द्रियाः पृथिव्यप्कायादयः अपर्या-
प्तकाः अनन्तगुणा भवन्ति, एकेन्द्रियाणां वनस्पतिकायिकानामपर्याप्तानामनन्ततया
नित्यं समुपलभ्यमानत्वात्, तेभ्योऽपि 'सइंदिया अपञ्जत्तगा विसेसाहिया'
सेन्द्रियाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति द्वीन्द्रियाद्यपर्याप्तानामपि सेन्द्रिया-
पर्याप्तकेषु समापातात् इत्येवं रीत्या अपर्याप्तकौधिकानामल्पबहुत्वं प्रतिपाद्य
सम्प्रति तेषामेव पर्याप्तानामल्पबहुत्वं प्रतिपादयति—'एएसि णं भंते ! सइंदियाणं'
हे भदन्त ! एतेषां खलु सेन्द्रियाणाम् 'एगिंदियाणं' एकेन्द्रियाणाम् 'वेइंदियाणं'
द्वीन्द्रियाणाम्, 'तेइंदियाणं' त्रीन्द्रियाणाम्, 'चउरिंदियाणं' चतुरिन्द्रियाणाम्,
'पंचिंदियाणं' पञ्चेन्द्रियाणाम् 'पञ्जत्तगाणं' पर्याप्तानाम् 'कयरे कयरेहितो' कतरे
कतरेभ्यो 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा,
बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !'
हे गौतम ! 'सव्वत्थोवा चउरिंदिया पञ्जत्तगा' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाश्चतुरि-

के असंख्येयभाग खण्ड प्रमाण हैं । एकेन्द्रिय अपर्याप्त उनसे अनन्त-
गुणित हैं, क्योंकि अपर्याप्त वनस्पतिकायिक सदैव अनन्त पाये जाते
हैं । स-इन्द्रिय अपर्याप्त जीव इन से भी विशेषाधिक हैं, क्योंकि
स-इन्द्रिय सामान्य जीवों में एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि सभी सम्मि-
लित हैं । यह अपर्याप्तक जीवों का अल्पबहुत्व हुआ ।

पर्याप्तक जीवों का अल्पबहुत्व—श्री गौतमस्वामी प्रश्न करते हैं—
भगवन् ! इन स-इन्द्रिय, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय
और पंचेन्द्रिय के पर्याप्त जीवों में से कौन किसकी अपेक्षा अल्प,
बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम !

वनस्पतिकायिक सदैव अनन्त भणी आवे छे सधन्द्रिय अपर्याप्त एव
तेमनाथी पणु विशेषाधिक छे, डेभके सधन्द्रिय सामान्य एवेमा अकेन्द्रिय,
द्वीन्द्रिय, आदि गधा समिलित छे आ अपर्याप्तक एवेनु अल्प बहुत्व थयु .

पर्याप्त एवेनु अल्पबहुत्व—श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! आ
सधन्द्रिय, अकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय अने पंचेन्द्रिय पर्याप्त
एवेमांथी डेषु डेनी अपेक्षाअे अल्प, धणु; तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! आर धन्द्रिय पर्याप्त एव अथा

न्द्रियाः पर्याप्तका भवन्ति, चतुरिन्द्रियाणामल्पायुष्कत्वेन प्रचुरकालावस्थाना-
भावेन पृच्छा समये अल्पत्वोपलब्धेः, तेभ्यः—‘पंचिन्द्रिया पञ्जत्तगा विसे-
साहिया’ पञ्चेन्द्रियाः पर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति तेषां प्रभूतप्रतराङ्गुल
संख्येयभागखण्डप्रमाणत्वात् तेभ्योऽपि ‘वेइन्द्रिया पञ्जत्तगा विसेसाहिया’ द्वीन्द्रि-
याः पर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति तेषां प्रभूततरप्रतराङ्गुलसंख्येयभागखण्डप्र-
माणत्वात्, तेभ्योऽपि ‘तेइन्द्रिया पञ्जत्तगा विसेसाहिया’ त्रीन्द्रिकाः पर्याप्तकाः
विशेषाधिका भवन्ति, तेषां प्रचुरतमप्रतराङ्गुलसंख्येयभागखण्डप्रमाणत्वं य-
नैसर्गिकत्वात् तेभ्योऽपि ‘एगिन्द्रिया पञ्जत्तगा अणंतगुणा’ एकेन्द्रियाः पर्याप्तकाः
अनन्तगुणा भवन्ति, पर्याप्तानां वनस्पतिकायिकानामनन्तप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि
‘सइन्द्रिया पञ्जत्तगा विसेसाहिया’ सेन्द्रियाः पर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति,
पर्याप्तकानां द्वीन्द्रियादीनामपि तत्र समावेशात्, इत्येवमल्पवहुत्वं प्रतिपाद्य तेषामेव

चौन्द्रिय पर्याप्त जीव सब से कम हैं, क्योंकि चौइन्द्रियों की आयु
अल्प होती है, इस कारण अधिक काल तक न रहने से प्रश्न के
समय वे थोड़े ही पाये जाते हैं। पंचेन्द्रिय पर्याप्त उनकी अपेक्षा
विशेषाधिक हैं, क्योंकि वे प्रचुर प्रतरांगुल के संख्यात खण्डों के
बराबर हैं। द्वीन्द्रिय पर्याप्त उनकी अपेक्षा विशेषाधिक हैं, क्योंकि
वे प्रचुरतर प्रतरांगुल के संख्यात भाग प्रमाण खण्डों के बराबर हैं।
त्रीन्द्रिय पर्याप्त उनसे भी विशेषाधिक हैं, क्योंकि वे प्रचुरतम प्रत-
रांगुल के संख्यात भाग प्रमाण खण्डों के बराबर हैं। एकेन्द्रिय पर्याप्त
उनकी अपेक्षा अनन्तगुणित हैं, क्योंकि वनस्पतिकायिक पर्याप्त
अनन्त होते हैं। स-इन्द्रिय पर्याप्त उनसे भी विशेषाधिक हैं, क्योंकि
उनमें द्वीन्द्रिय आदि के पर्याप्त भी सम्मिलित हैं।

थी ओछा छे, केमके थार छिन्द्रियनु आयुष्य अल्प होय छे, तेथी अधिक
क्षण मुधि न रहेवाथी प्रश्नना समये तेओ शोडाज मणी आवे तेम छे.
पंचेन्द्रिय पर्याप्त तेमनी अपेक्षाओ विशेषाधिक छे केमके तेओ प्रचुर प्रतरा
गुलना अस थ्यात थ डोना गरागर छे द्विन्द्रिय पर्याप्त तेमनी अपेक्षाओ विशे-
षाधिक छे. केमके तेओ प्रचुरतर प्रतरागुलना अस थ्यात लाग प्रमाण थ डोना
गरागर छे त्रीन्द्रिय पर्याप्त तेमनाथी पणु विशेषाधिक छे, केमके तेओ
प्रचुरतम प्रतरागुलना अस थ्यात लाग प्रमाण थ डोना गरागर छे
ओकेन्द्रिय पर्याप्त तेमनी अपेक्षाओ अनन्त गुणित छे केमके वनस्पतिकायिक
पर्याप्त अनन्त होय छे स-इन्द्रिय पर्याप्त तेमनाथी पणु विशेषाधिक छे,
केमके तेओमा द्वीन्द्रिय आदिना पर्याप्त पणु सम्मिलित छे

सेन्द्रियादीनां पर्याप्तपर्याप्तगताल्पबहुत्वमाह—‘एएसिणं भंते ! सइंदियाणं’ हे भदन्त ! एतेषां सखु सेन्द्रियाणाम् ‘पज्जत्तापज्जत्ताणं’ पर्याप्तापर्याप्तानां मध्ये ‘कयरे कयरेहितो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पावा, बहुया वा, तुल्लावा, विसेसा हिया वा, अल्पा वा’ बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिकाना भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सव्वत्थोवा सइंदिया अपज्जत्तगा’ सर्वस्तोकाः सर्वेभ्योऽल्पाः सेन्द्रियाः अपर्याप्तकाः भवन्ति, अत्र सेन्द्रियाणां मध्ये एकेन्द्रियाः सूक्ष्मा एव सर्वलोकापन्नतया बहवो भवन्ति तेषाञ्चापर्याप्तानां सर्वस्तोक्तत्वात्, तेभ्यः ‘सइंदिया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा’ सेन्द्रियाः पर्याप्ताः संख्येयगुणा भवन्ति, ‘एएसिणं भंते ! एगिदियाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं’ हे भदन्त ! एतेषां सखु एकेन्द्रियाणां पर्याप्तापर्याप्तानां ‘कयरे कयरेहितो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा’ अल्पावा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषा-

इस प्रकार पर्याप्तक जीवों का अल्पबहुत्व दिखलाकर अब पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों का अल्पबहुत्व का निरूपण किया जाता है—

गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन स-इन्द्रिय के पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सब से कम अपर्याप्त स-इन्द्रिय हैं । स-इन्द्रियों में सूक्ष्म एकेन्द्रिय ही सर्व लोक में व्याप्त होने के कारण बहुत हैं और उनमें अपर्याप्त सबसे कम होते हैं । स-इन्द्रिय पर्याप्त उनकी अपेक्षा संख्यातगुणा अधिक हैं ।

गौतम प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! एकेन्द्रिय पर्याप्तों और अपर्याप्तों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? श्री

आ प्रकारे पर्याप्तक लोवोत्तु अल्प बहुत्व देणाडीने हवे पर्याप्त अने अपर्याप्त लोवोना अल्प बहुत्वत्तु निरूपणु कराय छे

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—भगवन् ! आ सधन्द्रियना पर्याप्त अने अपर्याप्त लोवोमा केषु कोनाथी अल्प, धणुा तुल्य अने विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! अधाथी ओछा अपर्याप्त सधन्द्रिय छे, सधन्द्रियमां सूक्ष्म ओकेन्द्रिय व सर्व लोकमा व्याप्त होवाने कारणे धणुा छे अने तेओमा अपर्याप्त अधाथी ओछा होय छे. सधन्द्रिय पर्याप्त तेओनी अपेक्षाओ संख्यात गणुा अधिक छे.

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे हे भगवन् ! ओकेन्द्रिय पर्याप्तो अने अपर्याप्तोमां केषु कोनाथी अल्प, धणुा, तुल्य, अगार विशेषाधिक छे

धिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा ! ’ हे गौतम ! ‘सव्वत्थोवा एग्गिदिया अपज्जत्तगा’ सर्वस्तोकाः एकेन्द्रियाः अपर्याप्तकाः भवन्ति ‘एग्गिदिया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा’ एकेन्द्रियाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, ‘एएसिणं भंते ! वेइंदियाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं’ हे भदन्त ! एतेषां खलु द्वीन्द्रियाणां पर्याप्तापर्याप्तानां मध्ये ‘कयरे कयरेहिंतो अप्पावा बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?’ कतरे कतरेभ्यः, अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिकावा भवन्ति ! भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा ! ’ हे गौतम ! ‘सव्वत्थोवा वेइंदिया पज्जत्तगा’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः द्वीन्द्रियाः पर्याप्तका भवन्ति प्रतरेऽङ्गुलस्य यावन्ति संख्येयभागमात्राणि खण्डानि भवन्ति तेषां तावत्प्रमाणत्वात् तेभ्यो ‘वेइंदिया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा’ द्वीन्द्रियाः अपर्याप्तका असंख्येयगुणा भवन्ति तेषां प्रतरवर्त्यङ्गुलासंख्येयभागखण्डप्रमाणत्वात् ‘एएसि णं भंते ! तेइ दियाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं’ हे भदन्त ! एतेषां खलु त्रीन्द्रियाणां पर्याप्तापर्याप्तानां मध्ये ‘कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?

भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सबसे कम अपर्याप्त एकेन्द्रिय हैं और पर्याप्त एकेन्द्रिय उनसे संख्यातगुणा अधिक हैं ।

गौतम पुनः प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! द्वीन्द्रिय पर्याप्तो और अपर्याप्तो में कौन किससे अल्प, बहुत तुल्य या विशेषाधिक है ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! द्वीन्द्रिय पर्याप्त सब से कम हैं, द्वीन्द्रिय अपर्याप्त उनसे असंख्यात गुणा हैं, क्योंकि द्वीन्द्रिय पर्याप्त प्रतरांगुल के जितने संख्यात मात्र खंड हैं, वे उन्हीं के बराबर हैं जब कि द्वीन्द्रिय अपर्याप्त प्रतरवर्ती अंगुल के असंख्येय भाग खंड प्रमाण होते हैं ।

गौतम ने प्रश्न किया—हे भगवन् ! पर्याप्त और अपर्याप्त त्रीन्द्रियो में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान्

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! अधाधी ओछा अपर्याप्त एकेन्द्रिय छे अने पर्याप्त एकेन्द्रिय तेमनाधी स ज्ज्यात गण्ठा अधिक छे.

श्री गौतमस्वामी पुनःप्रश्न करे छे—भगवन् ! द्विन्द्रिय पर्याप्तो अने अपर्याप्तोमा केणु केनाधी अल्प, धण्णा, तुल्य अजर विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! द्वीन्द्रिय पर्याप्त अधाधी ओछा छे, द्वीन्द्रिय अपर्याप्त तेमनाधी अस ज्ज्यात गण्ठा छे, केभके द्वीन्द्रिय पर्याप्त प्रतरांगुलना नेटला स ज्ज्यात मात्र अउ छे, तेओ तेमना जाराअर छे, न्थादे द्वीन्द्रिय अपर्याप्त प्रतरवर्ती अस ज्जेय लाग अउ प्रमाणु होय छे.

श्री गौतम स्वामीओ प्रश्न करे—भगवन् ! पर्याप्त अने अपर्याप्त त्रीन्द्रियोमा केणु केनाधी अल्प, धण्णा, तुल्य, अजर विशेषाधिक छे ?

कतरे कतरेभ्यः अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सव्वत्थोवा तेइंदिआ पज्जत्तगा’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, त्रीन्द्रियाः पर्याप्तयाः भवन्ति, ‘तेइंदिआ अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा’ त्रीन्द्रियाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः, गौतमः पृच्छति—‘एएसिण भंते ! चउरिंदियाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं’ हे भदन्त ! एतेषां खलु चतुरिन्द्रियाणां पर्याप्तापर्याप्तानां मध्ये ‘कयरे कयरेहिंते अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? कतरे कतरेभ्यः, अल्पा वा, बहुका, वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सव्वत्थोवा चउरिंदिया पज्जत्तगा’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाश्चतुरिन्द्रियाः पर्याप्तका भवन्ति, ‘चउरिंदिया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा’ चतुरिन्द्रिया अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, गौतमः पृच्छति—‘एएसिणं भंते ! पंचिंदियाणं’ हे भदन्त ! एतेषां खलु पञ्चेन्द्रियाणं मध्ये पर्याप्तापर्याप्तानां कयरे कयरेहिंते कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?’ अल्पाः वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तर-

उत्तर देते हैं—हे गौतम ! त्रीन्द्रिय पर्याप्त जीव सय से कम हैं और त्रीन्द्रिय अपर्याप्त उनसे असंख्यातगुणा हैं। इसका कारण पूर्ववत् ही है।

गौतम ने प्रश्न किया—हे भगवन् ! चौइन्द्रियो के पर्याप्तों और अपर्याप्तों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधि हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! चौइन्द्रिय पर्याप्त जीव से कम हैं, अपर्याप्त उनसे असंख्यातगुणा हैं।

श्रीगौतम स्वामी पुनः प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन पर्याप्त और अपर्याप्त पंचेन्द्रिय जीवों में कौन किससे अल्प, बहुत तुल्य या विशेषाधिक है ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! पंचेन्द्रिय पर्याप्त

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! त्रीन्द्रिय पर्याप्त एव पधाधी ओछा छे अने त्रीन्द्रिक अपर्याप्त तेमनाधी अस प्यात गण्ठा छे तेनुं कारण्य पूर्णनी जेमळ छे.

श्री गौतमस्वामीओ प्रश्न कर्यो भगवन् ! यार छन्द्रियना पर्याप्त अने अपर्याप्तोमा कोण कोनाधी अल्प, धण्ठा, तुल्य अने विशेषाधिक छे

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! यार छन्द्रिय पर्याप्त एव पधाधी ओछा छे, अपर्याप्त तेमनाधी. अस प्यात गण्ठा छे

श्री गौतमस्वामी पुन प्रश्न करे छे—भगवन् ! आ पर्याप्त अने अपर्याप्त पंचेन्द्रिय एवोमा कोण कोनाधी अल्प, धण्ठा, तुल्य अगार विशेषाधिक छे ?

યતિ—‘ગોયમા’ હે ગૌતમ ! ‘સવ્વત્થોવા પંચિંદ્રિયા પજ્જતગા’ સર્વસ્તોકાઃ પચ્ચેન્દ્રિકાઃ પર્યાપ્તઃ કા ભવન્તિ, ‘પંચેન્દ્રિયા અપજ્જતગા અસંખેજ્જગુણા’ પચ્ચેન્દ્રિયા અપર્યાપ્તઃ અસંખયેયગુણા ભવન્તિ, દત્ત્યેવંરીત્યા પળ્ણામલ્પહુત્વરૂપં ચતુર્થમલ્પવહુત્વં પ્રતિપાઘ સમ્પ્રતિ એતેપાં સેન્દ્રિયાણા સમુદિતાનાં પર્યાપ્તાપર્યાપ્તાનામલ્પવહુત્વં પ્રતિપાદયતિ—‘એસિણં મંતે ! સદ્દિયાણં’ હે મદન્ત ! એતેપાં સલ્લ સેન્દ્રિયાણામ્ ‘એગિદિયાણં’ એકેન્દ્રિયાણામ્, ‘વેદ્દિયાણં’ દ્વીન્દ્રિયાણામ્ ‘તેદ્દિયાણં’ ત્રીન્દ્રિયાણાં ‘ચરુરિદિયાણં’ ચતુરિન્દ્રિયાણામ્, પંચિંદ્રિયાણં’ પચ્ચેન્દ્રિયાણામ્ ‘પજ્જત્તાપજ્જત્તાણં’ પર્યાપ્તાપર્યાપ્તાનામ્ મલ્લ્યે ‘કયરે કયરેહિંતો’ કતરે કતરેભ્યઃ, અપ્પા વા, વહુયા વા, તુલ્લા વા, વિસેસાહિયા વા ? ’ અલ્પા વા, વહુકા વા, તુલ્યા વા, વિશેષાધિકા વા ભવન્તિ, મગવાન્ ઉત્તરયતિ—‘ગોયમા ! ’ હે ગૌતમ ! ‘સવ્વત્થોવા ચરુરિદિયા પજ્જતગા’ સર્વસ્તોકાઃ સર્વેભ્યોડલ્પાશ્ચતુરિન્દ્રિયાઃ પર્યાપ્તકા ભવન્તિ, તેભ્યઃ ‘પંચિંદ્રિયા પજ્જતગા વિસેસાહિયા’ પચ્ચેન્દ્રિયાઃ પર્યાપ્તકાઃ વિશેષાધિકા ભવન્તિ, તેભ્યોડપિ—‘વેદ્દિયા પજ્જતગા વિસેસાહિયા’ દ્વીન્દ્રિયાઃ પર્યાપ્તકાઃ

સબસે કમ હૈં ઓર અપર્યાપ્ત ડનસે અસંખ્યાતગુણા અધિક હૈં । ઇસ પ્રકાર છહ કા અલ્પવહુત્વ રૂપ ચૌથા અલ્પવહુત્વ વતલાકર અવ સેન્દ્રિય આદિ સમુદિત પર્યાપ્ત ઓર અપર્યાપ્ત જીવોં કે અલ્પવહુત્વ કી પ્રલ્પણા કી જાતી હૈ—

ગૌતમ પ્રશ્ન કરતે હૈં—હે મગવન્ ! ઇન સ—ઇન્દ્રિયોં કે, એકેન્દ્રિયોં કે, દ્વીન્દ્રિયોં કે, ત્રીન્દ્રિયોં કે, ચતુરિન્દ્રિયોં કે ઓર પંચેન્દ્રિયોં કે પર્યાપ્ત ઓર અપર્યાપ્ત જીવોં મેં સે કૌન કિસસે અલ્પ, વહુત, તુલ્ય અથવા વિશેષાધિક હૈં ? મગવાન્ ઉત્તર દેતે હૈં—હે ગૌતમ ! ચૌહન્દ્રિય પર્યાપ્તક સવ સે કમ હૈં, પંચેન્દ્રિય પર્યાપ્ત ડનકી અપેક્ષા વિશેષાધિક હૈં, દ્વીન્દ્રિય પર્યાપ્તક ડનસે મી વિશેષાધિક હૈં, ત્રીન્દ્રિય પર્યા-

શ્રી ભગવાન્ ઉત્તર આપે છે—હે ગૌતમ ! પચ્ચેન્દ્રિય પર્યાપ્તક સૌથી ઓછા છે અને અપર્યાપ્ત તેમનાથી અસંખ્યાત ગણા અધિક છે. એ પ્રકારે છ તુ અલ્પ બહુત્વ રૂપ થોયુ, અલ્પ બહુત્વ બતાવીને હવે સેન્દ્રિય આદિ સમુદિત પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત જીવોના અલ્પ બહુત્વની પ્રશ્નગણા કરાય છે

શ્રી ગૌતમસ્વામી પ્રશ્ન કરે છે.—હે ભગવન્ ! આ ઇન્દ્રિયોના, એકેન્દ્રિયના, દ્વીન્દ્રિયના, ત્રીન્દ્રિયના ચાર ઇન્દ્રિયોના અને પચ્ચેન્દ્રિયના, પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત જીવોનાથી કોણકોનાથી અલ્પ, ઘણા, તુલ્ય અથવા વિશેષાધિક છે ?

શ્રી ભગવન્ ઉત્તર આપે છે—હે ગૌતમ ! ચાર ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તક ‘અધાથી’ ઓછા છે પચ્ચેન્દ્રિય પર્યાપ્તક તેઓની અપેક્ષાએ વિશેષાધિક છે, દ્વીન્દ્રિયોના, પર્યાપ્તક તેમનાથી પણ વિશેષાધિક છે, ત્રીન્દ્રિય પર્યાપ્તક તેઓનાથી પણ

विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्योऽपि 'तेइंदिया पञ्जत्तगा विसेसाहिया' त्रीन्द्रियाः पर्या 1; विशेषाधिका भवन्ति तेभ्योऽपि 'पंचिंदिया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा' पञ्चेन्द्रिया अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'चउरिंदिया अपञ्जत्तगा विसेसाहिया' चतुरिन्द्रियाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्योऽपि -तेइंदिया अपञ्जत्तगा विसेसाहिया' त्रीन्द्रिया अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्योऽपि 'त्रेइ दिया अपञ्जत्तगा विसेसाहिया' द्वीन्द्रियाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः भवन्ति, तेभ्योऽपि 'एगिंदिया अपञ्जत्तगा अणंतगुणा' एकेन्द्रिया अपर्याप्तकाः अनन्तगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि- 'सइ दिया अपञ्जत्तगा विसेसाहिया' सेन्द्रियाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति 'एगिंदिया पञ्जत्तगा संखेज्जगुणा' तेभ्योऽपि एकेन्द्रियाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति तेभ्योऽपि 'सइंदिया पञ्जत्तगा विसेसाहिया' सेन्द्रियाः पर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति तेभ्योऽपि 'सइंदिया विसेसाहिया' सेन्द्रियाः विशेषाधिका भवन्ति 'दारं ३' तृतीयम् इन्द्रिद्वारं समाप्तम् ॥ सू० ४ ॥

कायद्वारवक्तव्यता-

मूलम्-एएसि णं भंते ! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं तेउकाइयाणं वणस्सइकाइयाणं तसकाइयाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?

प्तक उनसे भी विशेषाधिक हैं, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त उनसे असंख्यात गुणा हैं, चौइन्द्रिय अपर्याप्त उनसे विशेषाधिक हैं, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त उनसे भी विशेषाधिक हैं, द्वीन्द्रिय अपर्याप्तक उनसे भी विशेषाधिक हैं, एकेन्द्रिय अपर्याप्त उनसे अनन्तगुणा हैं, सइन्द्रिय अपर्याप्त उनसे भी विशेषाधिक हैं । एकेन्द्रिय पर्याप्त उनसे संख्यातगुणा अधिक हैं, स-इन्द्रिय पर्याप्त उनसे विशेषाधिक हैं और स-इन्द्रिय उनकी अपेक्षा भी विशेषाधिक हैं । इन्द्रियद्वार समाप्त ॥सू० ४॥

विशेषाधिक छे, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त तेमनाथी अस भ्यात गण्ठा छे आरधन्द्रिय अपर्याप्त तेमनाथी विशेषाधिक छे, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त तेमनाथी पण्ठ विशेषाधिक छे द्वीन्द्रिय अपर्याप्त तेनाथी पण्ठ विशेषाधिक छे ऐकेन्द्रियना अपर्याप्त तेमनाथी अनन्त गण्ठा छे, सइन्द्रिय अपर्याप्त तेमनाथी विशेषाधिक छे ऐडेन्द्रिय पर्याप्त तेमनाथी स भ्यात गण्ठा अधिक छे. सइन्द्रिय पर्याप्त तेमनाथी विशेषाधिक छे

॥ इन्द्रिय द्वार समाप्त ॥ (सूत्र ४)

गोयमा ! सव्वत्थोवा तसकाइया, तेउकाइया असंखेज्जगुणा
 पुढविकाइया विसेसाहिया, आउकाइया विसेसाहिया, वाउ-
 काइया विसेसाहिया, अकाइया अणंतगुणा, वणस्सइकाइया
 अणंतगुणा, सकाइया विसेसाहिया, एएसि णं भंते ! सकाइ-
 याणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं तेउकाइयाणं, वाउकाइ-
 याणं, वणस्सइकाइयाणं, तसकाइयाणं, अपज्जत्तगाणं कयरे
 कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?
 गोयमा सव्वत्थोवा तसकाइया अपज्जत्तगा, तेउकाइया अपज्ज-
 त्तगा असंखेज्जगुणा, पुढविकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया,
 आउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया, वाउकाइया अपज्जत्तगा
 विसेसाहिया, वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा अणंतगुणा, सका-
 इया अपज्जत्तगा विसेसाहिया, एएसि णं भंते ! सकाइयाणं
 पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वण-
 स्सइकाइयाणं तसकाइयाणं पज्जत्तगाणं कयरे कयरेहितो अप्पा
 वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्व-
 त्थोवा तसकाइया पज्जत्तगा, तेउकाइया पज्जत्तगा असंखेज्ज-
 गुणा, पुढविकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया, आउकाइया पज्ज
 त्तगा विसेसाहिया, वणस्सइकाइया पज्जत्तगा अणंतगुणा,
 सकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया, एएसि णं भंते ! सकाइयाणं
 पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा,
 तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सकाइया
 अपज्जत्तगा, सकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा, एएसि णं भंते !
 पुढविकाइया पज्जत्तापज्जत्तगाणं कयरे कयरेहितो अप्पा वा,
 बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा
 पुढवीकाइयाणं अपज्जत्तगा, पुढवीकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा,

एएसि णं भंते ! आउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरे-
हिंतो प्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?
गोयमा ! सव्वत्थोवा आउकाइया अपज्जत्तगा, आउकाइया
पज्जत्तगा संखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! तेउकाइयाणं पज्ज-
पज्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा,
विसे हिया वा, गोयमा ! सव्वत्थोवा तेउकाइया अपज्जत्तगा,
तेउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! वाउकाइया-
णं त्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला
वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वाउकाइया अप-
ज्जत्तगा, वाउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा, एएसि णं भंते !
वणस्सइकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा,
बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा
वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा, वणस्सइकाइया पज्जत्तगा संखे-
ज्जगुणा, एएसि णं भंते ! तसकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे
कयरेहिंतो अप्पा वा. बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?
गोयमा ! सव्वत्थोवा तसकाइया पज्जत्तगा, अपज्जत्तगा असं-
खेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउ-
काइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सइकाइयाणं य पज्जत्तापज्जत्ताणं
कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया
वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा तसकाइया पज्जत्तगा, तसकाइया
अपज्जत्तगा संखेज्जगुणा तेउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा,
पुढविकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया, आउकाइया अपज्ज-
त्तगा विसेसाहिया, वाउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया, तेउ-
काइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा, पुढविकाइया पज्जत्ता विसेसा-
हिया, आउकाइया पज्जत्ता विसेसाहिया, वाउकाइया पज्जत्ता

विसेसाहिया, वणस्सइकाइया अपज्जत्ता अणंतगुणा सकाइया
अपज्जत्तगा विसेसाहिया, वणस्सइकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा,
सकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया, सकाइया विसेसाहिया ॥सू. ५।

छाया-एतेपां खल्ल भदन्त ! सकायिकानां पृथिवीकायिकानाम्, अप्कायिका-
नाम्, तेजस्कायिकानाम्, वायुकायिकानाम्, वनस्पतिकायिकानाम्, त्रसकायिका-
नाम् अकायिकानाम् मध्ये कतरे कतरेभ्यः, अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा,
विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकास्त्रसकायिकाः, तेजस्कायिकाः, असंख्येय-
गुणाः, पृथिवीकायिका विशेषाधिकाः, अप्कायिका विशेषाधिकाः, वायुका-
यिकाः विशेषाधिकाः, अकायिकाः अनन्तगुणाः, वनस्पतिकायिका अनन्त-

कायद्वार

शब्दार्थ-(एएस्सि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सकाइयाणं पुढ-
विकाइयाणं आउकाइयाणं तेउकाइयाणं वणस्सइकाइयाणं तसकाइ-
याणं अकाइयाणं) सकाय, पृथिवीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय,
वनस्पतिकाय, त्रसकाय और अकायिक जीवों में से (कयरे कयरेहिंतो)
कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?)
अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्व-
त्थोवा तसकाइया) सब से कम त्रसकायिक हैं (तेउकाइया असंखेज्ज-
गुणां) तेजस्कायिक असंख्यातगुणा हैं (पुढविकाइया विसेसाहिया)
पृथिवीकायिक विशेषाधिक हैं (आउकाइया विसेसाहिया) अप्कायिक
विशेषाधिक हैं (वाउकाइया विसेसाहिया) वायुकायिक विशेषाधिक
हैं (अकाइया अणंतगुणा) अकायिक अर्थात् सिद्ध अनन्तगुणा हैं

काय द्वार

शब्दार्थ-(एएस्सि ण भंते) भगवन् ! आ (सकाइयाणं पुढविकाइयाण आउ-
काइयाणं, तेउकाइयाणं, वाउकाइयाणं, वणस्सइकाइयाणं, तसकाइयाणं अकाइयाणं)
सकाय, पृथ्वीकाय, वणकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय अने
अकायिक जिवोभाथी (कयरे कयरेहिंतो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा,
तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, धण्णा, तुल्य, अजर विशेषाधिक छे ?

(गोयमा ।) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा तसकाइया) अधाथी ओछा त्रस-
कायिक छे (तेउकाइया असंखेज्जगुणा) तेजस्कायिक असंख्यात गुणा छे (पुढवी-
काइया विसेसाहिय) पृथ्वीकायिक विशेषाधिक छे (आउकाइया विसेसाहिया) वण-
कायिक विशेषाधिक छे (वाउकाइया विसेसाहिया) वायुकायिक विशेषाधिक छे (अकाइया

गुणाः, सकायिकाः विशेषाधिकाः, एतेषां खलु भदन्त ! सकायिकानां पृथिवी-
कायिकानाम् अप्कायिकानाम्, तेजस्कायिकानाम् वायुकायिकानाम् वनस्पतिका-
यिकानाम् त्रसकायिकानाम् अपर्याप्तानाम् कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा,
तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकास्त्रसकायिकाः अपर्याप्तकाः तेज-
स्कायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तका विशेष-
पाधिकाः, अप्कायिकाः अपर्याप्तका विशेषाधिकाः, वायुकायिका अपर्याप्तका

(वणस्सइकाइया अणंतगुणा) वनस्पतिकायिक अनन्तगुणा हैं (सका-
इया विसेसाहिया) सकायिक विशेषाधिक हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सकाइयाणं पुढविकाइयाणं
आउकाइयाणं तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सइकाइयाणं तसकाइ-
याणं अपज्जत्तगाणं) सकायिक, पृथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजस्का-
यिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, त्रसकायिक और अकायिक
जीवों के अपर्याप्तों में से (कपरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा
बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या
विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा तसकाइया अप-
ज्जत्तगा) त्रसकायिक अपर्याप्त सब से कम है (तेउकाइया अपज्जत्तगा
असंखेज्जगुणा) तेजस्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (पुढविकाइया
अपज्जत्तगा विसेसाहिया) पृथिवीकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं
(आउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) अप्कायिक अपर्याप्त विशेषा-
धिक हैं (वाउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) वायुकायिक अपर्याप्त

अणंतगुणा) अकायिक अर्थात् सिद्ध अनन्त गुणा छे (वणस्सइकाइया अणंतगुणा)
वनस्पतिकायिक अनन्तगुणा छे (सकाइया विसेसाहिया) सकायिक विशेषाधिक छे

(एएसिणं भंते !) हे भगवन् ! आ (सकाइयाणं, पुढविकाइयाणं, तेउकाइयाणं
वाउकाइयाणं, वणस्सइकाइयाणं, तसकाइयाणं, अपज्जत्तगाणं) सकायिक, पृथिवीकायिक,
त्रसकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, त्रसकायिक, अने अकायिक
जीवोना अपर्याप्तमाथी (कपरे कयरेहिंतो) कोथु कोनाथी (अप्पा वा बहुया वा
तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धणा, तुल्य अगरे विशेषाधिक छे ? (गोयमा)
हे गौतम (सव्वत्थोवा तसकाइया अपज्जत्तगा) त्रसकायिक अपर्याप्त माथी
आछा छे (तेउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्ज गुणा) तेजस्कायिक अपर्याप्त अस-
ख्यात गुणा छे (पुढविकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) पृथिवीकायिक अपर्याप्त
विशेषाधिक छे (आउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) त्रसकायिक अपर्याप्त विशेष-
पाधिक छे (वाउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) वायुकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे

विशेषाधिकाः, वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः अनन्तगुणाः, सकायिका अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, एतेषां खलु भदन्त ! सकायिकानाम् पृथिवीकायिकानाम् अप्कायिकानाम् तेजस्कायिकानाम् वायुकायिकानाम् वनस्पतिकायिकानाम् त्रसकायिकानाम् पर्याप्तकानाम् कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा बहुका वा, तुल्या वा विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकास्त्रसकायिकाः पर्याप्तकाः, तेजस्कायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः पृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, अप्कायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, वायुकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, वनस्पति-

विशेषाधिक हैं (वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा अणंतगुणा) वनस्पतिकायिक अपर्याप्त अनन्तगुणा हैं (सकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) सकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सकाइयाणं पुढविकाइया आउकाइयाणं तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सइकाइयाणं तसकाइयाणं पज्जत्तगाणं) सकायिक, पृथिवीकायिक, अप्कायिक, तेस्कायिक वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, तथा त्रसकायिक के पर्याप्तकों में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा तसकाइया पज्जत्तगा) सब से कम त्रसकायिक पर्याप्त हैं (तेउकाइया पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) तेजस्कायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (पुढविकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया) पृथिवीकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं (आउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया) अप्कायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं (वाउकाइया पज्जत्तगा विसेसा-

(वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा अणंत गुणा) वनस्पतिकायिक अपर्याप्त अनन्त शुष्ण छे (सकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) सकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे

(एएसि णं भंते ! भगवन् ! आ (सकाइयाणं, पुढविकाइयाणं, आउकाइयाणं, तेउकाइयाणं, वाउकाइयाणं, वणस्सइकाइयाणं, तसकाइयाणं, पज्जत्तगाणं) सकायिक, पृथिवीकायिक, ञ्णकायिक, तेज्जकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, तथा त्रसकायिकना पर्याप्तमा (कयरे कयरेहिंतो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, अधिक, तुल्य अगर विशेषाधिक छे (गोयमा) हे गौतम (सव्वत्थोवा तसकाइया पज्जत्तगा) अथाथी आधा त्रसकायिक पर्याप्त छे (तेउकाइया पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) तेज्जकायिक पर्याप्त असंख्यात शुष्ण छे (पुढविकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया) पृथिवीकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे (आउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया) ञ्णकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे (वाउ-

कायिकाः पर्याप्तकाः अनन्तगुणा सकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, एतेषां खलु भदन्त ! सकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तकानाम् कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः सकायिकाः अपर्याप्तकाः, सकायिका पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! पृथिवीकायिकानाम् पर्याप्तापर्याप्तानाम् कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः, पृथिवीका-

हिया) वायुकायिकपर्याप्त विशेषाधिक हैं (वणस्सइकाइया पज्जत्तगा अणंतगुणा) वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनन्तगुणा हैं (सकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया) सकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्तगाणं) पर्याप्त और अपर्याप्त सकायिकों में से (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा सकाइया अपज्जत्तगा) सब से कम सकायिक अपर्याप्त है (सकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा) सकायिक पर्याप्त संख्यातगुणा हैं । (एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (पुढविकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्तगाणं) पृथिवीकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त में से (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा पुढविकाइया अपज्जत्तगा) सबसे कम पृथिवीकायिक अपर्याप्त हैं (पुढविकाइया पज्ज-

काइया पज्जत्तगा विसेसाहिया) वायुकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे (वणस्सइ काइया पज्जत्तगा अणंतगुणा) वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनन्तगुणा छे (सकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया) सकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे

(एएसिणं भंते !) भगवन् ! आ (सकाइयाण पज्जत्ता पज्जत्तगाणं) पर्याप्त अने अपर्याप्त सकायिकोभाथी (कयरे कयरेहिंतो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, अधिक, तुल्य अगर विशेषाधिक छे डे (गोयमा) गौतम ! (सव्वत्थोवा सकाइया अपज्जत्तगा) अधाथी ओएण सकायिक अपर्याप्त छे (सकाइया पज्जत्तगा संखेज्जत्तगा) सकायिक पर्याप्त संख्यात गुणा छे (एएसिणं भंते !) भगवन् ! आ (पुढविकाइयाण पज्जत्तापज्जत्तगाणं) पृथ्वीकायिक पर्याप्त अने अपर्याप्तभाथी (कयरे कयरेहिंतो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहियो वा) अल्प, अधिक, तुल्य अगर विशेषाधिक छे (गोयमा !) डे गौतम ! (सव्वत्थोवा पुढविकाइया अप-

यिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! अप्कायिकानाम् पर्याप्ता-
पर्याप्तकानाम् कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा,
गौतम ! सर्वस्तोकाः अप्कायिकाः अपर्याप्तकाः, अप्कायिकाः पर्याप्तकाः संख्ये-
यगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! तेजस्कायिकानाम् पर्याप्तापर्याप्तकानां कतरे कत-
रेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः
तेजस्कायिकाः अपर्याप्तकाः, तेजस्कायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, एतेषां
खलु भदन्त ! वायुकायिकानाम् पर्याप्तापर्याप्तकानाम् कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा,

त्तगा संखेज्जगुणा) पृथिवीकायिक पर्याप्त संख्यातगुणा हैं । (एएसि
णं भंते !) हे भगवन् ! इन (आउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) अप्काय
के पर्याप्त और अपर्याप्त में से (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे
(अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, बहुत, तुल्य
या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा आउकाइया
अपज्जत्ता) सब से कम अप्कायिक अपर्याप्तक हैं (आउकाइया पज्ज-
त्तगा संखेज्जगुणा) अप्कायिक पर्याप्त संख्यात गुणा हैं । (एएसि णं
भंते !) हे भगवन् ! इन (तेउकाइयाणं (पज्जत्तापज्जत्ताणं) तेजस्का-
यिक पर्याप्तों और अपर्याप्तों में से (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे
(अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, बहुत, तुल्य
या विशेषाधिक हैं । (गो १) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा तेउकाइया)
सब से तेजस्कायिक (अपज्जत्तगा) अपर्याप्त हैं (तेउकाइया पज्ज-
त्तगा संखेज्जगुणा) तेजस्कायिक पर्याप्त संख्यातगुणा हैं । (एएसि
णं भंते !) हे भगवन् ! इन (वाउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) वायुकाय

ज्जत्तगा अधाथी ओछा पृथ्वीकायिक अपर्याप्त छे (पुढविकाइया पज्जत्तगा असं-
खेज्ज गुणा) पृथिवीकायिक पर्याप्त असंख्यात गणु छे (एएसिण भंते !)
हे भगवन् ! आ (आउकाइयाण पज्जत्तापज्जत्ताण) जणकाथेना पर्याप्त अने अप-
र्याप्तभाथी (कयरे कयरेहिंतो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा
विसेसाहिया वा) थेडा, धणु, तुल्य अगरे विशेषाधिक छे (गोयमा) हे गौतम
(सव्वत्थोवा आउकाइया अपज्जत्तगा) अधाथी ओछा जणकायिक अपर्याप्त छे
(आउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जत्तगुणा) जणकायिक पर्याप्त संख्यातगणु छे
(एएसिण भंते !) भगवन् ! आ (तेउकाइयाण पज्जत्तापज्जत्ताण) तेजस्कायिक
पर्याप्तो अने अपर्याप्तोभाथी (कयरे कयरेहिंतो) केणु केनाथी अप्पा वा
बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) थेडा, पधारे, तुल्य अगरे विशेषाधिक छे ?
(गोयमा) हे गौतम (सव्वत्थोवा तेउकाइया) अधाथी ओछा तेजस्कायिक (अप-
ज्जत्तगा) अपर्याप्त छे (तेउकाइया पज्जत्तगा संखेज्ज गुणा) तेजस्कायिक पर्याप्त

बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः वायुकायिकाः अपर्याप्तकाः, वायुकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! वनस्पतिकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः, वनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! त्रसकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा बहुका वा, तुल्या वा,

के पर्याप्त और अपर्याप्त में से (कयरे कयरेहितो) कौन किस से (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वाउकाइया अपज गा) सब से कम वायुकायिक अपर्याप्त हैं (वाउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा) वायुकायिक पर्याप्त संख्यातगुणा हैं । (एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (वणस्सइकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) वनस्पतिकाय के पर्याप्त और अपर्याप्त में से (कयरे कयरेहितो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, बहुत तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा) सब से कम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त हैं (वणस्सइकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा) वनस्पतिकायिक पर्याप्त संख्यातगुणा हैं । (एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (तसकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) त्रसकाय के पर्याप्त और अपर्याप्त में से (कयरे कयरेहितो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया

स प्यात शुष्ठा छे (एएसिण भंते !) भगवन् ! आ (वाउकाइयाण पज्जत्ता पज्जत्ताण) वायुकायिक पर्याप्त अने अपर्याप्तभाथी (कयरे कयरेहितो) केष्णु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, अधिक, तुल्य अगरे विशेषाधिक छे ? (गोयमा) हे गौतम (सव्वत्थोवा वाउकाइया अपज्जत्तगा) अधाथी ओएण वायुकायिक अपर्याप्त छे (वाउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा) वायुकायिक पर्याप्त स प्यात शुष्ठा छे (एएसिण भंते !) भगवन् ! आ (वणस्सइकाइयाण पज्जत्ता पज्जत्ताण) वनस्पति कायना पर्याप्त अने अपर्याप्त (कयरे कयरे हितो) केष्णु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) थोडा, धुष्ठा, तुल्य अगरे विशेषाधिक छे ? (गोयमा) हे गौतम (सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा) सौथी ओएण वनस्पतिकायिक अपर्याप्त छे (वणस्सइकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा) वनस्पतिकायिक पर्याप्त स प्यातगुष्ठा छे (एएसिण भंते !) भगवन् ! आ (तसकायियाण पज्जत्तापज्जत्ताण) त्रसकायिकना पर्याप्त अने

विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः त्रसकायिकाः पर्याप्तकाः, अपर्याप्तकाः, असंख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! सकायिकानां पृथिवीकायिकानाम् अप्कायिकानाम् तेजस्कायिकानाम् वायुकायिकानाम् वनस्पतिकायिकानाम्, त्रसकायिकानाम् पर्याप्तापर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकान्त्रसकायिकाः पर्याप्तकाः त्रसकायिकाः अपर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, तेजस्कायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः,

वा, ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा तसकाइया पज्जत्तगा) सबसे कम त्रसकाय के पर्याप्त हैं (अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सइकाइयाणं तसकाइयाणं (य पज्जत्तापज्जत्ताणं) सकायिक, पृथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक; वनस्पतिकायिक और त्रसकायिक जीवों के पर्याप्त एवं अपर्याप्त में से (कयरे कयरेहिंतो) कौन किस से (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा तसकाइया पज्जत्तगा) सब से त्रसकायिक पर्याप्त हैं (तसकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) त्रसकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (तेउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) तेजस्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (पुढविकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) पृथिवीकायिक अप-

अपर्याप्तभाथी (कयरे कयरेहिंतो) डोण्णु डोनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) धण्णु, थोडा, तुल्य के विशेषाधिक छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा तसकाइया पज्जत्तगा) अधाथी ओछा त्रसकायिकता पर्याप्त छे (अपज्जत्तगा, असंखेज्जगुणा) अपर्याप्त असंख्यात गुण्णु छे

(एएसिण भंते !) भगवन् ! आ (सकाइयाण पुढविकाइयाण आउकाइयाण तेउकाइयाण वाउकाइयाण वणस्सइकाइयाण तसकाइयाण य पज्जत्तापज्जत्ताण) सकायिक, पृथिवीकायिक अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक अने त्रसकायिक एवेना पर्याप्त तेमन् अपर्याप्तभाथी (कयरे कयरेहिंतो) डोण्णु डोनाथी (अप्पा वा बहुयावा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) थोडा धण्णु तुल्य अगर विशेषाधिक छे (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा तसकाइया पज्जत्तगा) अधाथी ओछा त्रसकायिक पर्याप्त छे (तसकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) त्रसकायिक अपर्याप्त असंख्यात गुण्णु छे (तेउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) तेजस्कायिक अप-

पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, अप्कायिकाः अपर्याप्तका विशेषा-
धिकाः, वायुकायिकाः अपर्याप्तका विशेषाधिकाः, तेजस्कायिकाः पर्याप्तकाः
संख्येयगुणाः, पृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, अप्कायिकाः पर्या-
प्तकाः विशेषाधिकाः, तेजस्कायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, पृथिवीकायिकाः
पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, अप्कायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, वायुका-
यिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः अनन्तगुणाः,
सकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, वनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येय-
गुणाः सकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, सकायिकाः विशेषाधिकाः ॥ सू. ५ ॥

पर्याप्त विशेषाधिक हैं (आउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) अप्का
यिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (वाउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया)
वायुकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (तेउकाइया पज्जत्तगा संखेज्ज-
गुणा) तेजस्कायिक पर्याप्त संख्यातगुणा हैं (पुढविकाइया पज्जत्ता
विसेसाहिया) पृथिवीकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं (आउकाइया
पज्जत्ता विसेसाहिया) अप्कायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं (वाउका-
इया पज्जत्ता विसेसाहिया) वायुकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं
(वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा अणतगुणा) वनस्पतिकायिक अपर्याप्त
अनन्तगुणा हैं (सकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) सकायिक
अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (वणस्सइकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा)
वनस्पतिकायिक पर्याप्त संख्यातगुणा हैं (सकाइया पज्जत्तगा विसे-
साहिया) सकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं (सकाइया विसेसाहिया)
सकायिक विशेषाधिक हैं ॥ ५ ॥

यास्त अस्स भ्यात शुष्ठा छे (पुढविकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) पृथ्वीकायिक
अपर्याप्त विशेषाधिक छे (आउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) वणकायिक
अपर्याप्त विशेषाधिक छे (वाउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) वायुकायिक अप-
र्याप्त विशेषाधिक छे (तेउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा) तेज्कायिक पर्याप्त
स भ्यात शुष्ठा छे (पुढविकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया) पृथ्वीकायिक पर्याप्त
विशेषाधिक छे (आउकाइया पज्जत्ता विसेसाहिया) वणकायिक पर्याप्त विशेषा-
धिक छे (वाउकाइया पज्जत्ता विसेसाहिया) वायुकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे
(वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा अणतगुणा) वनस्पतिकायिक अपर्याप्त अनन्त शुष्ठा
छे (सकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया) सकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे (वण-
स्सइकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा) वनस्पतिकायिक पर्याप्त संख्यात शुष्ठा छे
(सकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया) सकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे (सकाइया
विसेसाहिया) सकायिक विशेषाधिक छे ॥ ५ ॥

ટીકા—અથ ચતુર્થ કાયદ્વારમધિકૃત્યાલ્પવહૃત્વં પ્રરૂપયિતુમાહ—‘એપસિ ણં મંતે ! સકાદ્યાણં’ હે મદન્ત ! એતેપાં યલ્લ સકાયિકાનામ્ ‘પુઠ્ઠવિકાદ્યાણં’ પૃથિવીકાયિકાનામ્ ‘આઝકાદ્યાણં’ અપ્કાયિકાનામ્ ‘તેઝકાદ્યાણં’ તેજસ્કાયિકાનાં ‘વાઝકાદ્યાણં’ વાયુકાયિકાનામ્, ‘વણસ્સઙ્કાદ્યાણં’ વનસ્પતિયાયિકાનામ્ ‘તસકાદ્યાણં’ ત્રસકાયિકાનામ્ ‘અકાદ્યાણં’ અકાયિકાનામ્ મધ્યે ‘કયરે કયરેહિંતો’ કતરે કતરેભ્યઃ ‘અપ્પા વા, વહુયા વા, તુલ્લા વા વિસેસાહિયા વા’ અલ્પા વા, વહુકા વા, તુલ્યા વા, વિશેષાધિકા વા ભવન્તિ ? મગવાન્ ઉત્તરયતિ—‘ગૌયમા’ હે ગૌતમ ! ‘સન્વત્થોવા તસકાદ્યા’ સર્વસ્તોકાઃ—સર્વેભ્યોઽલ્પાઃ—ત્રસકાયિકાઃ—દ્વીન્દ્રિયાદયો ભવન્તિ, દ્વીન્દ્રિયાદીનામેવ ત્રસકાયિકત્વાત્, તેષાં અન્યકાયાપેક્ષયા અલ્પત્વાત્, ‘તેઝકાદ્યા અસંખ્યેજ્જગુણા’ તદપેક્ષયા તેજસ્કાયિકા અસંખ્યેયગુણા ભવન્તિ તેપામ્ અસંખ્યેયલોકાકાશપ્રદેશપ્રમાણત્વાત્, તેભ્યોઽપિ ‘પુઠ્ઠવિકાદ્યા વિસેસાહિયા’ પૃથિવીકાયિકા વિશેષાધિકા ભવન્તિ, તેપાં

ટીકાર્થ—અથ ચૌથે કાયદ્વાર કી અપેક્ષા અલ્પવહૃત્વ કી પ્રરૂપણા કી જાતી હૈ—

ગૌતમ સ્વામી પ્રશ્ન કરતે હૈ—હે મગવન્ ! યે જો સકાયિક અર્થાત્ કાય વાલે સામાન્ય સંસારી જીવ હૈ, તથા પૃથિવીકાયિક, અપ્કાયિક, તેજસ્કાયિક, વાયુકાયિક, વનસ્પતિકાયિક, ત્રસકાયિક ઓર અકાયિક અર્થાત્ કાયા સે રહિત સિદ્ધ જીવ હૈ, ઝનમેં મે કૌન કિસ સે અલ્પ, વહુત, તુલ્ય અથવા વિશેષાધિક હૈ ?

શ્રી મગવાન્ ઉત્તર દેતે હૈ—હે ગૌતમ ! સબ સે કમ ત્રસકાયિક અર્થાત્ દ્વીન્દ્રિયાદિ જીવ હૈ, કયોંકિ દ્વીન્દ્રિયાદિ હી ત્રસકાયિક હૈ ઓર વે અન્ય કાયોં કી અપેક્ષા કમ હોતે હૈ । ઝનકી અપેક્ષા તેજસ્કાયિક અસંખ્યાતગુણા હૈ, કયોંકિ વે અસંખ્યાત લોકાકાશ કે

ટીકાર્થ—હવે ચોથા કાયદ્વારની અપેક્ષાએ અલ્પવહૃત્વની પ્રરૂપણા કરાય છે શ્રી ગૌતમસ્વામી પ્રશ્ન કરે છે—લગવન્ ! જે આ સકાયિક અર્થાત્ કાયવાણા સામાન્ય સંસારી જીવ છે, તથા પૃથ્વીકાયિક, અપ્કાયિક, તેજકાયિક, વાયુકાયિક, વનસ્પતિકાયિક, ત્રસકાયિક, અને અકાયિક અર્થાત્ કાયા રહિત સિદ્ધ જીવ છે તેઓમાથી કોણ કોનાથી, ઘણા થોડા સરખા અગર વિશેષાધિક છે

શ્રી લગવાન્ ઉત્તર આપે છે—હે ગૌતમ ! અર્થાથી ચોછા ત્રસકાયિક અર્થાત્ દ્વીન્દ્રિયાદિ જીવ છે, કેમકે દ્વીન્દ્રિયાદિ ત્રસકાયિક છે અને તેઓ અન્ય કાયિકોની અપેક્ષાએ ચોછા હોય છે તેમની અપેક્ષાએ તેજસ્કાયિક અસંખ્યાત ગુણા છે, કેમકે તેઓ અસંખ્યાત લોકાકાશના પ્રદેશોની અપેક્ષા છે, પૃથિવ-

प्रचुरासंख्येय लोकाकाशप्रदेशप्रमाणत्वात् तेभ्यः 'आउकाइया विसेसाहिया' अक्कायिकाः विशेषाधिका भवन्ति तेषां प्रचुरतरासंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणत्वात् तेभ्यो 'वाउकाइया विसेसाहिया' वायुकायिका विशेषाधिका भवन्ति, तेषां बहुलतमासंख्येयलोकाकाशप्रमाणत्वात्, तेभ्यः 'अकाइया अणंतगुणा' अक्कायिकाः सिद्धाः अनन्तगुणा भवन्ति, सिद्धानामनन्तत्वात्, तेभ्यः 'वणस्सइकाइया अणंतगुणा' वनस्पतिकायिका अनन्तगुणा भवन्ति तेषामनन्तलोकाकाशप्रदेशप्रमाणत्वात्, तेभ्यः 'सकाइया विसेसाहिया' सकायिका विशेषाधिका भवन्ति, पृथिवीकायिकादीनामपि तत्र समावेशात् इत्येवं रीत्या समुच्चयजीवानामल्पबहुत्वं प्रतिपाद्य सम्प्रति तेषामेव समुच्चयजीवानामपर्याप्तानामल्पबहुत्वं प्ररु-
 प्रदेशों के बराबर हैं पृथिवीकायिक जीव विशेषाधिक हैं, क्योंकि वे प्रचुर असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों के बराबर हैं। अक्कायिक जीव उनसे भी विशेषाधिक हैं, क्योंकि वे प्रचुरतर असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों के बराबर हैं। वायुकाय के जीव उनसे भी विशेषाधिक हैं, क्योंकि वे प्रचुरतम असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों के बराबर हैं। अकायिक अर्थात् काय रहित सिद्ध जीव उनसे भी अनन्तगुणा हैं, क्योंकि सिद्ध अनन्त हैं। सिद्धों की अपेक्षा वनस्पतिकायिक अनन्तगुणा हैं, क्योंकि वे अनन्त लोकाकाशों के प्रदेशों के बराबर हैं और सकायिक जीव उनसे भी विशेषाधिक हैं, क्योंकि सकायिक जीवों में वनस्पतिकायिक भी सम्मिलित हैं तथा अन्य सब कार्यों के जीवों का भी समावेश हो जाता है। यह समुच्चय जीवों का अल्पबहुत्व है।

अब इन्हीं के अपर्याप्तकों का अल्पबहुत्व-दिखलाते हैं-

। कायिक एव विशेषाधिक छे, केमके तेओ प्रचुर असंख्यात लोकाकाशाना प्रदेशानी
 । अराअर छे अणकायिक एव तेमनाथी पणु विशेषाधिक छे, केमके तेओ प्रचुरतर असंख्यात लोकाकाशाना प्रदेशाना अराअर छे. वायुकायना एव तेमनाथी पणु विशेषाधिक छे केमके तेओ. प्रचुरतम असंख्यात लोकाकाशाना प्रदेशाना अराअर छे अक्कायिक अर्थात् कायाथी रहित सिद्धएव तेमनाथी पणु अनन्तगुणा छे, केमके सिद्ध अनन्त छे. सिद्धोनी अपेक्षाओ वनस्पतिकायिक अनन्तगुणा छे, केमके तेओ अनन्त लोकाकाशाना प्रदेशाना अराअर छे अने सकायिक एव तेमनाथी पणु विशेषाधिक छे, केमके सकायिक एवोना वनस्पतिकायिक पणु सम्मिलित छे तथा अन्य अथी कायाओना एवोना पणु तेमा समावेश, यथं नय छे. आ समुच्चय एवोनु अल्पबहुत्व छे.

इवे तेमना अपर्याप्तोनु अल्पबहुत्व अतावे छे.

पयितुमाह—‘एएसि णं भंते ! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं’ हे भदन्त ! एतेषां खलु सकायिकानां पृथिवीकायिकानाम् ‘आउकाइयाणं’ अप्कायिकानाम्, ‘तेउकाइयाणं’ तेजस्कायिकानाम् ‘वाउकाइयाणं’ वायुकायिकानाम् ‘वणस्सइकाइयाणं’ वनस्पतिकायिकानाम्, तसकाइयाणं त्रसकायिकानाम् द्वीन्द्रियानाम् ‘अपज्जत्ताणं’ अपर्याप्तानाम् मध्ये ‘कयरे कयरेहितो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, वहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा, भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा’ हे गौतम ! सन्वत्थोवा तसकाइया अपज्जत्तागा’ सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः, त्रसकायिकाः अपर्याप्तकाः भवन्ति तेषां पूर्ववत् अन्यकायापेक्षया अल्पत्वात् ‘तेउकाइया अपज्जत्तागा असंखेज्जगुणा’ तेजस्कायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः तेषामसंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणत्वात्, तेभ्यः ‘पुढविकाइया अपज्जत्तागा विसेसाहिया’ पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः,

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन सकायिकों, पृथिवीकायिकों, अप्कायिकों, तेजस्कायिकों, वायुकायिकों, वनस्पतिकायिकों तथा त्रसकायिकों के अपर्याप्त जीवों में से कौन किससे अल्प हैं ? कौन किससे बहुत हैं कौन किससे तुल्य हैं ? कौन किससे विशेषाधिक हैं ?

। श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौ ! त्रसकायिक अपर्याप्त सब से कम हैं, क्योंकि अन्य काय के जीवों की अपेक्षा उनकी संख्या अल्प ही होती है। उनकी अपेक्षा तेजस्काय के अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं, इसके लिए युक्ति पहले ही कही जा चुकी है, अर्थात् वे असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों की राशि के बराबर हैं। उनकी अपेक्षा पृथिवीकाय के अपर्याप्त विशेषाधिक हैं, इसका कारण पहले बतलाया

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे थे—भगवन् ! आ सकायिको, पृथ्वीकायिको, वणकायिको, वायुकायिको, वनस्पतिकायिको, तथा त्रसकायिकोना अपर्याप्त एवो भाथी कोण कोनाथी अल्प एवो कोण कोनाथी धणु, कोण कोनाथी तुल्य, कोण कोनाथी विशेषाधिके ?

श्री भगवान् उत्तर आपे थे—हे गौतम ! त्रसकायिक अपर्याप्त जथाथी एवो ए, हेमके अन्यकायना एवोनी अपेक्षाए तेमनी सज्जा अल्प होय ए तेमनी अपेक्षाए तेजस्कायना अपर्याप्त असंख्यात गुणा ए, ते भांटे युक्ति आगणव कडिहीधि ए अर्थात् तेजो जथा असंख्यात लोकाकाशना प्रदेशोनी राशिना बराबर ए. तेजोनी अपेक्षाए पृथ्वीकायना अपर्याप्त विशेष-

तेभ्यः 'आउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया' अप्कायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्यो 'वाउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया' वायुकायिकाः अपर्याप्तका विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्यो 'वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा अणंतगुणा' वनस्पतिकायिका अपर्याप्तका अनन्तगुणा भवन्ति तेपामनन्तगुणत्वात् 'सकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया' सकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः भवन्ति प्रागुक्त-युक्तेः पृथिवीकायिकादीनामपि तत्र समावेशात्, अथ समुच्चयजीवानामेव पर्याप्तकानामल्पबहुत्वं प्ररूपयति—'एएसि णं भंते ! सकाइयाणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु सकायिकानाम् 'पुढविकाइयाणं' पृथिवीकायिकानाम् 'आउकाइयाणं' अप्कायिकानाम् 'तेउकाइयाणं' तेजस्कायिकानाम् 'वाउकाइयाणं' वायुकायिकानाम्, 'वणस्सइकाइयाणं' वनस्पतिकायिकानाम् 'तसकाइयाणं' त्रसकायिकानाम् द्वीन्द्रियादीनाम् 'पज्जत्तगाणं' पर्याप्तकानाम् 'कयरे कयरेहिंतो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया व, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा ! हे

जा चुका है । उनकी अपेक्षा अप्काय के अपर्याप्त विशेषाधिक हैं । उनसे वायुकाय के अपर्याप्त विशेषाधिक हैं । उनसे वनस्पतिकाय के अपर्याप्त अनन्तगुणा हैं, क्योंकि वनस्पतिकायिक जीव अनन्तगुणा हैं, और उनकी अपेक्षा सकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं, क्योंकि सकायिकों में वनस्पतिकायिक अगदि सभी का समावेश हो जाता है ।

अथ समुच्चय पर्याप्तक जीवों का अल्पबहुत्व प्रदर्शित किया जाता है । श्री गौतम स्वामी ने प्रश्न किया—हे भगवन् ! इन सकायिक, पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवों में से कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ? श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे

धिक छे तेतु कारणु आगण गतावी दिधेस छे. तेमनी अपेक्षाये अप्कायना अपर्याप्त विशेषाधिक छे. तेमनाथी वायुकायना अपर्याप्त विशेषाधिक छे तेमनाथी वनस्पतिकायिक अपर्याप्त अनन्त गुणा छे, केमके वनस्पतिकायिक एव अनन्त गुणा छे, अने तेमनी अपेक्षाये सकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे केमके सकायिकोभा वनस्पतिकायिक आदि अधानो समावेश थध नथ छे

हुवे समुच्चय पर्याप्तक एवोतु अल्प बहुपक्षु प्रदर्शित कराय छे

श्री गौतमस्वामीये प्रश्न कथो—हे भगवन् ! आ सकायिक, पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक अने त्रसकायिक पर्याप्त एवोभाथी केणु केनाथी अल्प, अधिक, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

गौतम ! 'सन्वत्थोवा तसकाइया पज्जत्तगा' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः त्रसकायिकाः द्वीन्द्रियादयः पर्याप्तका भवन्ति, तत्र वनस्पतिकायिकादीनामसमावेशात्, तेभ्यः तेउकाइया पज्जत्तगा' तेजस्कायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति तेषामसंख्यातलोकाकाशप्रदेशप्रमाणत्वात्, तेभ्यः 'पुढ्विकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया' पृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः बहुत्र तेषां सद्भावात् तेभ्यः 'आउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया' अप्कायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति तेषां दक्षिणोत्तरादिष्वपि सद्भावात् तेभ्यो 'वाउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया' वायुकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः तेभ्यो—'वणस्तदकाइया पज्जत्तगा अणंतगुणा' वनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः अनन्तगुणा भवन्ति, तेभ्यः 'सकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया' सकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति तत्र पृथिवीकायिकादीनामपि सत्त्वात्, अथैतेषामेव सकायिकादीनाम् पर्याप्तापर्याप्ततकाना मल्पबहुत्वादिकं प्ररूपयि-

गौतम ! त्रसकायिक पर्याप्त सब से कम हैं, क्योंकि इनमें वनस्पतिकायिक आदिका समावेश नहीं होता—केवल द्वीन्द्रिय आदि जीवों का ही समावेश होता है। इनकी अपेक्षा तेजस्कायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि वे असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों की राशि के बराबर हैं इन की अपेक्षा पृथिवीकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं, इसका कारण पूर्ववत् समझ लेना चाहिए। इनकी अपेक्षा अप्काय के पर्याप्त विशेषाधिक हैं, क्योंकि वे दक्षिण उत्तर आदि दिशाओं में विद्यमान हैं। इनकी अपेक्षा वायुकाय के पर्याप्त विशेषाधिक हैं, इसका कारण पहले कहा जा चुका है। इनकी अपेक्षा वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनन्तगुणा हैं और इनकी अपेक्षा सकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं, क्योंकि इनमें पृथ्वीकाय आदि सभी सम्मिलित है।

श्री लगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! त्रसकायिक पर्याप्त अधाधी
 "जोछा छे, केभके तेमा वनस्पतिकायिक आदिना समावेश नहीं थतो केवल
 "द्वीन्द्रिय आदि लोकोना समावेश थाय छे. तेमनी अपेक्षाये तेजस्कायिक
 "पर्याप्त असंख्यात गुणा छे, केभके तेयो असंख्यात लोकाकाशना प्रदेशनी
 "राशिना बराबर छे तेमनी अपेक्षाये पृथ्वीकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे तेनु
 "कारण पूर्ववत् लक्षण लेनु लक्ष्ये तेनी अपेक्षाये अप्कायिकना अपर्याप्तवि-
 "शेषाधिक छे केभके तेयो दक्षिण उत्तर आदि दिशाओमा विद्यमान छे तेमनी
 "अपेक्षाये वायुकायना पर्याप्त विशेषाधिक छे तेनु कारण पहले कहा देवायु
 "छे. तेयोनी अपेक्षाये सकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे केभके तेयोमा पृथ्वी
 "काय आदि अधा सम्मिलित छे

तुमाह—‘एएसि णं भंते ! सयाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं’ हे भदन्त ! एतेषां खलु सकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तानाम् मध्ये ‘कयरे कयरेहितो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सव्वत्थोवा सकाइया अपज्जत्तागा’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, सकायिकाः अपर्याप्तकाः भवन्ति, ‘सकाइया पज्जत्तागा संखेज्जगुणा’ सकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः भवन्ति, ‘एएसि णं भंते ! पुढविकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं’ हे भदन्त ! एतेषां खलु पृथिवीकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तानां मध्ये ‘कयरे कयरेहितो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सव्वत्थोवा पुढविकाइया अपज्जत्तागा’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तका भवन्ति, तेभ्यः ‘पुढविकाइया पज्जत्तागा संखेज्जगुणा’ पृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, ‘एएसि णं भंते ! आउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं’ हे भदन्त ! एतेषां खलु अप्कायिकानां पर्याप्तापर्याप्तानां

सकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त का अल्पबहुत—हे भगवन् ! इन सकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों में से कौन किससे अल्प, बहुत तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सब से कम सकायिक अपर्याप्त हैं । इनकी अपेक्षा सकायिक पर्याप्त संख्यातगुणा हैं ।

हे भगवन् ! पृथिवीकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों में से कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सब से कम पृथिवीकायिक अपर्याप्त हैं, उनकी अपेक्षा पृथिवीकायिक पर्याप्त संख्यातगुणा हैं ।

भगवन् ! अप्कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त में से कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे

सकायिक पर्याप्त अने अपर्याप्तनु अल्प बहुत्व—भगवन् ! आ सकायिक पर्याप्त अने अपर्याप्त एवोमाथी कोणु कोनाथी अल्प, वधु, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! सौथी ओछा सकायिक अपर्याप्त छे, तेना करता सकायिक पर्याप्तक सञ्चात गणु छे

हे भगवन् ! पृथ्वीकायिक पर्याप्त अने अपर्याप्त एवोमाथी कोणु कोनाथी अल्प, धणु, तुल्य अजर विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! जथाथी ओछा पृथ्वीकायिक अपर्याप्त छे तेमनी अपेक्षाओ पृथ्वीकायिक पर्याप्त सञ्चात गणु छे.

મધ્યે 'કચરે કચરેહિતો' કતરે કતરેભ્યઃ, 'અપા વા, વહુયા વા, તુલ્યા વા, વિસેસાહિયા વા ?' અલપા વા, વહુકા વા, તુલ્યા વા, વિશેષાધિકા વા ભવન્તિ ? ભગવાન્ ઉત્તરયતિ—'ગોયમા ! સવ્વત્થોવા આઠકાઠ્યા અપજ્જત્તગા' હે ગૌતમ ! સર્વસ્તોકાઃ અપ્કાયિકાઃ અપર્યાપ્તકા ભવન્તિ તેપાં પર્યાપ્તકનિશ્રયા ઉત્પાદાત્ ; તેભ્યઃ 'આઠકાઠ્યા પજ્જત્તગા સંખેજ્જગુણા' અપ્કાયિકાઃ પર્યાપ્તકાઃ સંખ્યેયગુણા ભવન્તિ તેપામ પર્યાપ્તકાશ્રયત્વાત્, 'एएसि णं भंते ! तेउकाइयाणं पर्ज्जत्तापज्जत्ताणं' હે ભદન્ત ! एतेषां खलु तेजस्कायिकानां पर्याप्तपर्याप्तानां मध्ये 'कचरे कचरेहितो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्या वा, वहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा. वहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् ! उत्तरयति—'गोयमा ! सव्वत्थोवा तेउकाइया अपज्जत्तगा' हे गौतम ! सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः तेजस्कायिका अपर्याप्तका भवन्ति पूर्वोक्तरीत्याऽपर्याप्तानां पर्याप्तनिश्रयोत्पादात् तेभ्यः 'तेउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा' तेजस्कायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः भवन्ति प्रागुक्तयुक्ते तेपामपर्याप्तका-

ગૌતમ ! અપ્કાયિક અપર્યાપ્ત સવમે થોડે હૈં, ક્યૌંકિ વે પર્યાપ્તકોં કે આશ્રય સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં । અપ્કાયિક પર્યાપ્ત ડનસે સંખ્યાતગુણા અધિક હૈં, ક્યૌંકિ વે અપર્યાપ્તોં કે આધાર હૈં । ભગવન્ ! તેજસ્કા- િ પર્યાપ્ત ઓર અપર્યાપ્ત જીવોં મેં સે કૌન કિસસે અલ્પ, વહુત, તુલ્ય યા વિશેષાધિક હૈં ? ભગવાન ઉત્તર દેતે હૈં—હે ગૌતમ ! તેજસ્કા- યિક અપર્યાપ્તક સબ સે કમ હૈં, ક્યૌંકિ પર્યાપ્તકોં કે આશ્રય સે હી અપર્યાપ્તકોં કા ઉત્પાદ હોતા હૈ । ડનકી અપેક્ષા તેજસ્કાયિક પર્યાપ્ત સંખ્યાતગુણા હૈં, ક્યૌંકિ પહેલે કહે અનુસાર વે અપર્યાપ્તકોં કે આશ્રય ભૂત હૈં ।

હે ભગવન્ અપ્કાયિક પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્તોમાથી કોણ કોનાથી અલ્પ થણા, તુલ્ય અગર વિશેષાધિક છે ?

શ્રી ભગવાન્ ઉત્તર આપે છે :—હે ગૌતમ ! અપ્કાયિક અપર્યાપ્ત બધાથી થોડા છે, કેમકે તેઓ પર્યાપ્તોના આશ્રયથી ઉત્પન્ન થાય છે અપ્કાયિક પર્યાપ્ત તેમનાથી સંખ્યાત ગણા અધિક છે, કેમકે તેઓ અપર્યાપ્તોના આધાર છે

હે ભગવન્ ! તેજસ્કાયિક પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત જીવોમાથી કોણ કોનાથી અલ્પ, અધિક, તુલ્ય અગર વિશેષાધિક છે ?

શ્રી ભગવન્ ઉત્તર આપે છે—હે ગૌતમ ! તેજસ્કાયિક અપર્યાપ્ત બધાથી ઓછા છે, કેમકે પર્યાપ્તોના આશ્રયથીજ અપર્યાપ્તોની ઉત્પત્તિ થાય છે તેમની અપેક્ષાએ તેજસ્કાયિક પર્યાપ્ત સંખ્યાત ગણા છે કેમકે આગળ કહ્યાં પ્રમાણે તેઓ અપર્યાપ્તોના આશ્રય ભૂત છે,

धारत्वात् 'एएसि णं वाउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु वायुकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तानां मध्ये 'कयरे कयरेहितो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्वत्थोवा वाउकाइया अपज्जत्तगा' सर्वस्तोकाः वायुकायिकाः अपर्याप्तका भवन्ति अत्रापि सैत्र युक्तिरवसेया तेभ्यः 'वाउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा' वायुकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, 'एएसि णं भंते ! वणस्सइकाइयाणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु वनस्पतिकायिकानाम् 'पज्जत्तापज्जत्ताणं' पर्याप्तापर्याप्तानां मध्ये 'कयरे कयरेहितो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा ! सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा ?' हे गौतम ! सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तका भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः तेभ्यो—'वणस्सइकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा' वनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति 'एएसि णं भंते तसकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु त्रसकायिकानाम् द्वीन्द्रियादीनाम् पर्याप्तापर्याप्तानां मध्ये 'कयरे कयरेहितो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा तुल्ला

हे भगवन् ! इन वायुकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों में से कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् ! उत्तर देते हैं—हे गौतम ! अपर्याप्त वायुकायिक सब से कम हैं, पर्याप्त वायुकायिक उनसे संख्यातगुणा अधिक हैं ।

भगवन् ! इन वनस्पतिकायिक पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवों में से कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! अपर्याप्त वनस्पतिकायिक सब से कम हैं, पर्याप्तक वनस्पतिकायिक उनसे संख्यातगुणा अधिक हैं ।

हे भगवन् ! आ वायुकायिक पर्याप्त अने अपर्याप्त लोभात्थी कोषु कोनात्थी अल्प, धणा, तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! अपर्याप्त वायुकायिक अधात्थी ओछा छे पर्याप्त वायुकायिक तेमनात्थी स च्यात गणा अधिक छे.

हे भगवन् आ वनस्पतिकायिक पर्याप्तक अने अपर्याप्तक लोभात्थी कोषु कोनात्थी अल्प, धणा, तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

श्री भगवन् ! उत्तर आपे छे—हे गौतम ! अपर्याप्तक वनस्पतिकायिक अधात्थी ओछा छे, पर्याप्तक वनस्पतिकायिक तेमनात्थी अस च्यात गुणा अधिक छे.

મધ્યે 'કયરે કયરેહિતો' કતરે કતરેભ્યઃ, 'અપ્પા વા, વહુયા વા, તુલ્લા વા, વિસેસાહિયા વા ?' અલ્પા વા, વહુકા વા, તુલ્યા વા, વિશેષાધિકા વા ભવન્તિ ? ભગવાન્ ઉત્તરયતિ—'ગોયમા ! સન્વત્થોવા આઠકાઈયા અપજ્જત્તગા' હે ગૌતમ ! સર્વસ્તોકાઃ અપ્કાયિકાઃ અપર્યાપ્તકા ભવન્તિ તેષાં પર્યાપ્તકનિશ્રયા ઉત્પાદાત્ ; તેભ્યઃ 'આઠકાઈયા પજ્જત્તગા સંઁલેજ્જગુણા' અપ્કાયિકાઃ પર્યાપ્તકાઃ સંઁલ્યેયગુણા ભવન્તિ તેષામ પર્યાપ્તકાશ્રયત્વાત્, 'એસિ ણં મંતે ! તેઠકાઈયાણં પજ્જંત્તાપજ્જંત્તાણં' હે મદન્ત ! એતેષાં સ્વલ્લ તેજસ્કાયિકાનાં પર્યાપ્તાપર્યાપ્તાનાં મધ્યે 'કયરે કયરેહિતો' કતરે કતરેભ્યઃ 'અપ્પા વા, વહુયા વા, તુલ્લા વા, વિસેસાહિયા વા ?' અલ્પા વા, વહુકા વા, તુલ્યા વા, વિશેષાધિકા વા ભવન્તિ ? ભગવાન્ ! ઉત્તરયતિ—'ગોયમા ! સન્વત્થોવા તેઠકાઈયા અપજ્જત્તગા' હે ગૌતમ ! સર્વસ્તોકાઃ—સર્વેભ્યોઽલ્પાઃ તેજસ્કાયિકા અપર્યાપ્તકા ભવન્તિ પૂર્વોક્તરીત્યાઽપર્યાપ્તાનાં પર્યાપ્તનિશ્રયોત્પાદાત્ તેભ્યઃ 'તેઠકાઈયા પજ્જત્તગા સંઁલેજ્જગુણા' તેજસ્કાયિકાઃ પર્યાપ્તકાઃ સંઁલ્યેયગુણાઃ ભવન્તિ પ્રાગુક્તયુક્તે તેષામપર્યાપ્તકાગૌતમ ! અપ્કાયિક અપર્યાપ્ત સવમે થોડે હૈં, ક્યોંકિ વે પર્યાપ્તકોં કે આશ્રય સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં । અપ્કાયિક પર્યાપ્ત ડનસે સંઁલ્યાત્તગુણા અધિક હૈં, ક્યોંકિ વે અપર્યાપ્તોં કે આધાર હૈં । ભગવન્ ! તેજસ્કાયિક પર્યાપ્ત ઓર અપર્યાપ્ત જીવોં મેં સે કોંન કિસસે અલ્પ, વહુત, તુલ્ય યા વિશેષાધિક હૈં ? ભગવાન ઉત્તર દેતે હૈં—હે ગૌતમ ! તેજસ્કાયિક અપર્યાપ્તક સબ સે કમ હૈં; ક્યોંકિ પર્યાપ્તકોં કે આશ્રય સે હી અપર્યાપ્તકોં કા ઉત્પાદ હોતા હૈં । ડનકી અપેક્ષા તેજસ્કાયિક પર્યાપ્ત સંઁલ્યાત્તગુણા હૈં, ક્યોંકિ પહલે કહે અનુસાર વે અપર્યાપ્તકોં કે આશ્રય સ્મૃત હૈં ।

હે ભગવન્ અપ્કાયિક પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્તોમાથી કોણ કોનાથી અલ્પ ઘણા, તુલ્ય અગર વિશેષાધિક છે ?

શ્રી ભગવાન્ ઉત્તર આપે છે :—હે ગૌતમ ! અપ્કાયિક અપર્યાપ્ત બધાથી થોડા છે, કેમકે તેઓ પર્યાપ્તોના આશ્રયથી ઉત્પન્ન થાય છે અપ્કાયિક પર્યાપ્ત તેમનાથી સંખ્યાત ગણા અધિક છે, કેમકે તેઓ અપર્યાપ્તોના આધાર છે

હે ભગવન્ ! તેજસ્કાયિક પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત બધોમાથી કોણ કોનાથી અલ્પ, અધિક, તુલ્ય અગર વિશેષાધિક છે ?

શ્રી ભગવન્ ઉત્તર આપે છે—હે ગૌતમ ! તેજસ્કાયિક અપર્યાપ્ત બધાથી ઓછા છે, કેમકે પર્યાપ્તોના આશ્રયથીજ અપર્યાપ્તોની ઉત્પત્તિ થાય છે તેમની અપેક્ષાએ તેજસ્કાયિક પર્યાપ્ત સંખ્યાત ગણા છે કેમકે આગળ કહ્યા પ્રમાણે તેઓ અપર્યાપ્તોના આશ્રય ભૂત છે,

धारत्वात् 'एएसि णं वाउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु वायुकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तानां मध्ये 'कयरे कयरेहिंतो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्वत्थोवा वाउकाइया अपज्जत्तगा' सर्वस्तोकाः वायुकायिकाः अपर्याप्तका भवन्ति अत्रापि सैव युक्तिरवसेया तेभ्यः 'वाउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा' वायुकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, 'एएसि णं भंते ! वणस्सइकाइयाणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु वनस्पतिकायिकानाम् 'पज्जत्तापज्जत्ताणं' पर्याप्तापर्याप्तानां मध्ये 'कयरे कयरेहिंतो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा ! सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा ?' हे गौतम ! सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तका भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः तेभ्यो—'वणस्सइकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा' वनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति 'एएसि णं भंते तसकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु त्रसकायिकानाम् द्वीन्द्रियादीनाम् पर्याप्तापर्याप्तानां मध्ये 'कयरे कयरेहिंतो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा तुल्ला

हे भगवन् ! इन वायुकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों में से कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! अपर्याप्त वायुकायिक सब से कम हैं, पर्याप्त वायुकायिक उनसे संख्यातगुणा अधिक हैं ।

भगवन् ! इन वनस्पतिकायिक पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवों में से कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! अपर्याप्त वनस्पतिकायिक सब से कम हैं, पर्याप्तक वनस्पतिकायिक उनसे संख्यातगुणा अधिक हैं ।

हे भगवन् ! आ वायुकायिक पर्याप्त अने अपर्याप्त लोभाभाथी कोष्ण कोनाथी अल्प, धष्ठा, तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! अपर्याप्त वायुकायिक गधाथी ओछा छे पर्याप्त वायुकायिक तेमनाथी स प्यात गष्ठा अधिक छे

हे भगवन् आ वनस्पतिकायिक पर्याप्तक अने अपर्याप्तक लोभाभाथी कोष्ण कोनाथी अल्प, धष्ठा, तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

श्री भगवन् ! उत्तर आपे छे—हे गौतम ! अपर्याप्तक वनस्पतिकायिक गधाथी ओछा छे, पर्याप्तक वनस्पतिकायिक तेमनाथी अस प्यात शुष्ठा अधिक छे.

वा, विसेसाहिया वा' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्यत्थोवा तसकाइया पज्जत्तगा' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः त्रसकायिकाः द्वीन्द्रियादयः पर्याप्तका भवन्ति तेषां तथा स्वाभावत्वात् तेभ्यः 'अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा' अपर्याप्तकास्त्रसकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, गौतम पृच्छति—'एएसि णं भंते ! सकाइयाणं पुढवि-काइयाणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु सकायिकानां पृथिवीकायिकानाम् 'आउकाइ-याणं' अप्कायिकानाम्, 'तेउकाइयाणं' तेजस्कायिकानाम्, 'वाउकाइयाणं' वायुकायिकानाम् 'वणस्सट्ठकाइयाणं' वनस्पतिकायिकानाम् 'तसकाइयाण य' त्रसकायिकानाञ्च द्वीन्द्रियादीनाम्, 'पज्जत्तापज्जत्ताणं' पर्याप्तापर्याप्तानां मध्ये 'कयरे कयरेहिंतो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसा-हिया वा' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्यत्थोवा तसकाइया पज्जत्तगा' सर्वस्तोकाः

हे भगवन् ! त्रसकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों में कौन किस से अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सबसे अल्प पर्याप्तक त्रसकायिक हैं, क्योंकि उनका ऐसा ही स्वभाव है, उनकी अपेक्षा अपर्याप्तक त्रसकायिक असंख्यात गुणा अधिक हैं ।

गौतमस्वामी ! पुनः प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन सकायिक, पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, और द्वीन्द्रियादि त्रसकायिक जीवों के पर्याप्तों और अपर्याप्तों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ? भगवान् उत्तर देते हैं—गौतम ! त्रसकायिक पर्याप्त सब से कम हैं, उनकी अपेक्षा त्रसकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि अपर्याप्त द्वीन्द्रि-

हे भगवन् ! त्रसकायिक पर्याप्त અને અપર્યાપ્ત જીવોમાં કોણ કોનાથી અલ્પ વધુ, તુલ્ય અગર વિશેષાધિક છે ?

શ્રી ભગવાન્ ઉત્તર આપે છે—હૈ ગૌતમ ! અધાર્થી જોણ પર્યાપ્ત ત્રસ કાયિક છે, કેમકે તેમને તેવોજ સ્વભાવ છે, તેમની અપેક્ષાએ અપર્યાપ્તક ત્રસકાયિક અસ ખ્યાત ગણા અધિક છે

શ્રી ગૌતમસ્વામી ફરી પ્રશ્ન કરે છે—ભગવન્ આ સકાયિક, પૃથ્વીકાયિક, અપ્કાયિક, તેજસ્કાયિક, વાયુકાયિક, વનસ્પતિકાયિક અને યે ઈન્દ્રિયાદિ ત્રસ કાયિક જીવોના પર્યાપ્તો અને અપર્યાપ્તોમાં કોણ કોનાથી અધિક, અલ્પ તુલ્ય અગરતો વિશેષાધિક છે ?

—सर्वेभ्योऽल्पास्त्रसकायिकाः पर्याप्तका भवन्ति निगोदस्यानन्तत्वात् तेभ्यः 'तस-
काइया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा' त्रसकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा
भवन्ति द्वीन्द्रियादीनाम पर्याप्तानां पर्याप्त द्वीन्द्रियादिभ्योऽसंख्येयगुणत्वात् तेभ्यः
'तेउकाइया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा' तेजस्कायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येय-
गुणा भवन्ति असंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणत्वात् तेभ्यः 'पुढविकाइया अप-
ज्जत्तगा विसेसाहिया' पृथिवीकायिका अपर्याप्तका विशेषाधिका भवन्ति तेषां
प्रचुराधिकत्वात् तेभ्यः 'आउकाइया अपञ्जत्तगा विसेसाहिया' अप्कायिकाः
अपर्याप्तका विशेषाधिका भवन्ति तेषां प्रचुरतराधिकत्वात् तेभ्यो 'वाउकाइया
अपञ्जत्तगा विसेसाहिया' वायुकायिकाः अपर्याप्तका विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्यः
'तेउकाइया पञ्जत्तगा संखेज्जगुणा' तेजस्कायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा
भवन्ति सूक्ष्मेषु अपर्याप्तेभ्यः पर्याप्तानां संख्येयगुणत्वात् तेभ्यः 'पुढविकाइया
पञ्जत्तगा विसेसाहिया' पृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः भवन्ति अप-
र्याप्तेभ्यः पर्याप्तानां विशेषाधिकत्वात् तेभ्यः 'आउकाइया पञ्जत्तगा विसेसा-

यादि पर्याप्त द्वीन्द्रिय आदि से असंख्यातगुणा हैं । तेजस्काय के अप-
र्याप्त उनसे भी असंख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि वे असंख्य लोका-
काशों के प्रदेशों के बराबर हैं । पृथिवीकाय के अपर्याप्त उनसे भी
विशेषाधिक हैं, क्योंकि उनकी आयु अधिक होती है । पृथ्वीकाय
के अपर्याप्तकों की अपेक्षा अप्काय के अपर्याप्त विशेषाधिक हैं,
क्योंकि वे बहुत अधिक होते हैं । वायुकाय के अपर्याप्तक उनसे
विशेषाधिक हैं, तेजस्काय के पर्याप्त उनसे संख्यातगुणित हैं । क्यों-
कि सूक्ष्म जीवों में अपर्याप्तों की अपेक्षा पर्याप्त संख्यातगुणा हैं ।
पृथ्वीकाय के पर्याप्त उनसे भी विशेषाधिक हैं, क्योंकि अपर्याप्तों
की अपेक्षा पर्याप्त विशेषाधिक हैं । अप्काय के पर्याप्त उनसे भी

श्री लगवान् उत्तर आपे छे—गौतम । त्रसकायिक पर्याप्त अधाधी ज्योछा
छे, तेमनी अपेक्षाये त्रसकायिक अपर्याप्त असंख्यात गणु छे, केमके अप-
प्त द्वीन्द्रियादि पर्याप्त द्वीन्द्रिय आदिथी असंख्यात गणु छे, तेजस्कायना
अपर्याप्त तेमनाथी पणु असंख्यात गणु अधिक छे, केमके तेज्यो असंख्यात
लोकाकाशना प्रदेशोनी परापर छे पृथ्वीकायना अपर्याप्तक तेमनाथी पणु
विशेषाधिक छे, केमके तेमनु आयुष्य अधिक डाय छे. पृथ्वीकायना अप-
र्याप्तोनी अपेक्षाये जणकायना अपर्याप्त विशेषाधिक छे, केमके तेज्यो धणु
वधारे थाय छे. वायुकायना अपर्याप्तक तेमनाथी विशेषाधिक छे तेजस्कायना
पर्याप्त तेमनाथी संख्यात गणुित छे. केमके सूक्ष्म ज्योमां अपर्याप्तनी

દિયા' અપ્કાયિકાઃ પર્યાપ્તકાઃ વિશેષાધિકા ભવન્તિ પ્રાગુક્તયુક્તેઃ, તેભ્યઃ 'વાઝ-
કાઙ્યા પઙ્ગત્તા વિસેસાહિયા' વાયુકાયિકાઃ પર્યાપ્તકાઃ વિશેષાધિકા ભવન્તિ
તેભ્યો- 'વળસ્સઙ્કાઙ્યા અપઙ્ગત્તા અણંતગુણા' વનસ્પતિકાયિકા અપર્યાપ્તકા
અનન્તગુણા ભવન્તિ તેપામનન્તગુણત્વાત્ તેભ્યઃ 'સકાઙ્યા અપઙ્ગત્તગા વિસેસા-
હિયા' સકાયિકાઃ અપર્યાપ્તકા વિશેષાધિકા ભવન્તિ તત્ર દ્વીન્દ્રિયાદીનાં સત્ત્વાત્,
તેભ્યો 'વળસ્સઙ્કાઙ્યા પઙ્ગત્તગા સંખેજ્જગુણા' વનસ્પતિકાયિકાઃ પર્યાપ્તકાઃ
સંખ્યેયગુણા ભવન્તિ તેભ્યઃ 'સકાઙ્યા પઙ્ગત્તગા વિસેસાહિયા' સકાયિકાઃ
પર્યાપ્તકાઃ વિશેષાધિકા ભવન્તિ, તેભ્યઃ 'સકાઙ્યા વિસેસાહિયા' સકાયિકા
વિશેષાધિકા ભવન્તિ, પ્રાગુક્તયુક્તેરિત્યાશયઃ ॥ સૂ. ૦ ૫ ॥

સૂક્ષ્મવાદરકાયદારવત્કવ્યતા—

મૂલમ-एएसि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढविकाइयाणं
सुहुम आउकाइयाणं सुहुमतेउकाइयाणं, सुहुमवाउकाइयाणं,
सुहुमवणस्सइकाइयाणं, सुहुमनिओयाणं क्यरे क्यरेहितो
अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा !
सबत्थोवा सुहुम तेउकाइया, सुहुमपुढविकाइया विसेसाहिया,
सुहुमआउकाइया विसेसाहिया, सुहुमवाउकाइया विसेसाहिया,
विशेषाधिक हैं, इसका कारण पहले कहा जा चुका है । वायुकाय के
पर्याप्त उनसे भी विशेषाधिक हैं । वनस्पतिकाय के अपर्याप्त उनकी
अपेक्षा अनन्तगुणा हैं । सकायिक अपर्याप्त उनसे भी विशेषाधिक
हैं, क्योंकि सकायिकों में द्वीन्द्रिय आदि सबका समावेश होता है ।
वनस्पतिकाय के पर्याप्त उनसे भी संख्यातगुणा अधिक हैं । पर्याप्त
सकायिक उनसे विशेषाधिक हैं । सकायिक जीव उनसे भी विशेषा-
धिक है, इसका कारण पूर्ववत् समझ लेना चाहिए ।

અપેક્ષાએ પર્યાપ્ત સખ્યાત ગણા છે. પૃથ્વીકાયના પર્યાપ્ત તેમનાથી પણ
વિશેષાધિક છે, કેમકે અપર્યાપ્તોની અપેક્ષાએ પર્યાપ્ત વિશેષાધિક છે. જળકાયના
પર્યાપ્ત તેમનાથી વિશેષાધિક છે તેનું કારણ આગળ કહેવાઈ ગયેલું છે.
વાયુકાયના પર્યાપ્ત તેમનાથી વિશેષાધિક છે વનસ્પતિકાયના અપર્યાપ્ત તેમની
અપેક્ષાએ અનન્ન ગણા છે સકાયિક અપર્યાપ્ત તેમનાથી પણ વિશેષાધિક છે
કેમકે સકાયિકોમા દ્વીન્દ્રિય આદિ અધાનોય સમાવેશ થાય છે વનસ્પતિકાયના
પર્યાપ્ત તેમનાથી પણ અસખ્યાત ગણા અધિક છે. પર્યાપ્ત સકાયિક ૮૪
તેમનાથી પણ વિશેષાધિક છે તેનું કારણ પૂર્વવત્ સમજી લેવું જોઈએ ॥ ૫ ॥

सुहुमनिगोदा असंखेज्जगुणा, सुहुमवणस्सइकाइया अणंतगुणा,
सुहुमा विसेसाहिया । एएसि णं भंते ! अपज्जत्तगाणं सुहुम-
पुढवि अपज्जत्तगाणं सुहुमआउअपज्जत्तगाणं सुहुमतेउअपज्ज-
त्तगाणं सुहुमवाउअपज्जत्तगाणं सुहुमवणस्सइअपज्जत्तगाणं
सुहुमनिगोदा अपज्जत्ताण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा,
बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा
सुहुमतेउअपज्जत्तया सुहुमपुढवि अपज्जत्तया विसेसाहिया, ;
सुहुमआउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया, सुहुमवाउ-
काइया अपज्जत्तया विसेसाहिया, सुहुमनिगोदा अपज्ज-
त्तया असंखेज्जगुणा, सुहुमवणस्सइकाइया अपज्जत्तया अणंत-
गुणा, सुहुमा अपज्जत्तया विसेसाहिया, एएसि णं भंते ! सुहुम-
पज्जत्तयाणं सुहुमपुढविकाइया पज्जत्तयाणं सुहुमआउकाइया
पज्जत्तयाणं सुहुमतेउकाइया पज्जत्तयाणं सुहुमवाउकाइय-
पज्जत्तयाणं सुहुमवणस्सइकाइय पज्जत्तयाणं सुहुमनिगोद पज्ज-
त्तयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा,
विसेसाहिया वा ? गोयमा सव्वत्थोवा सुहुमतेउकाइया
पज्जत्तया, सुहुमपुढविकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया,
सुहुमआउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया, सुहुमवाउकाइया
पज्जत्तया विसेसाहिया सुहुमनिगोया पज्जत्तया, असंखे-
ज्जगुणा, सुहुमवणस्सइकाइया पज्जत्तया अणंतगुणा, सुहुम-
पज्जत्तगा विसेसाहिया, एएसि णं भंते ! सुहुमाणं पज्जत्ता-
पज्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला
वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सुहुमअपज्जत्ता-
सुहुमपज्जत्तगा संखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! सुहुमपुढविकाइ-
याणं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा. बहुया वा,

तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सुहुमपुढविकाइया अपज्जत्तया सुहुमपुढविकाइया पज्जत्तया संखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! सुहुमआउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सुहुम आउकाइया अपज्जत्तगा, सुहुमा आउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! सुहुमतेउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सुहुमतेउकाइया अपज्जत्तया सुहुमतेउकाइया पज्जत्तगा, संखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! सुहुमवाउकाइयाणं अपज्जत्तापज्जत्तगाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सुहुमवाउकाइया अपज्जत्तया, वाउकाइया पज्जत्तया संखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! सुहुमवणस्सइकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सुहुमवणस्सइकाइया अपज्जत्तया, सुहुमवणस्सइकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! सुहुमनिगोयाणं पज्जत्तअपज्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सुहुमनिगोया अपज्जत्तगा, सुहुमनिगोया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढविकाइयाणं सुहुमआउकाइयाणं सुहुमतेउकाइयाणं, सुहुमवाउकाइयाणं सुहुमवणस्सइकाइयाणं सुहुमनिगोदाण य पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सुहुमतेउकाइया अपज्जत्तगा सुहुमपुढविकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया, सुहुमआउकाइया अपज्जत्तया विसे-

साहिया, सुहुमवाउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया, सुहुम-
तेउकाइया अपज्जत्तया संखेज्जगुणा, सुहुमपुढविकाइया पज्जत्तया
विसेसाहिया सुहुमआउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया, सुहुम-
वाउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया, सुहुमनिगोदा अपज्जत्तगा
असंखेज्जगुणा, सुहुमनिगोदा पज्जत्तया संखेज्जगुणा, सुहुम-
वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा अणंतगुणा, सुहुमअपज्जत्तया
विसेसाहिया, सुहुमवणस्सइकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा,
सुहुमपज्जत्तगा विसेसाहिया, सुहुमा विसेसाहिया ॥सू. ६।

छाया-एतेषां खलु भदन्त ! सूक्ष्माणां, सूक्ष्मपृथिवीकायिकानाम्, सूक्ष्मा-
प्कायिकानाम्, सूक्ष्मतेजस्कायिकानाम्, सूक्ष्मवायुकायिकानाम्, सूक्ष्मवन-
स्पतिकायिकानाम्, सूक्ष्मनिगोदानाम् कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा,
तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः सूक्ष्मतेजस्कायिकाः, सूक्ष्म-
पृथिवीकायिका विशेषाधिकाः, सूक्ष्माप्कायिका विशेषाधिकाः, सूक्ष्मवायुका-

सूक्ष्मवादरकायद्वार

शब्दार्थ-(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सुहुमाणं) सूक्ष्म
(सुहुम पुढविकाइयाणं) सूक्ष्म पृथिवीकायिक (सुहुम आउकाइयाणं)
सूक्ष्म अप्कायिक (सुहुम तेउकाइयाणं) सूक्ष्म तेजस्कायिक (सुहुम
वाउकाइयाणं) सूक्ष्म वायुकायिक (सुहुम वणस्सइकाइयाणं) सूक्ष्म
वनस्पतिकायिक (सुहुम निओयाणं) सूक्ष्म निगोदां में से (कयरे कय-
रेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया
वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे
गौतम (सन्वत्थोवा सुहुम तेउकाइया) सब से कम सूक्ष्म तेजस्का-

सूक्ष्म भादर कायद्वार

शब्दार्थ-(एएसिणं भंते !) भगवन् ! आ (सुहुमाणं) सूक्ष्म (सुहुमपुढवि-
काइयाणं) सूक्ष्म पृथ्वीकायिक (सुहुम आउकाइयाणं) सूक्ष्म अप्कायिक (सुहुम तेउ
काइयाणं) सूक्ष्म तेजस्कायिक (सुहुम वाउकाइयाणं) सूक्ष्म वायुकायिक (सुहुम वण-
स्सइ काइयाणं) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक (सुहुम निओयाणं) सूक्ष्म निगोदाभाथी
(कयरे कयरेहिंतो) कायु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?)
अल्प, धृष्टा, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ? (गोयमा !) छे गौतम ! (सन्व
त्थोवा सुहुम तेउकाइया) भाथी भाथी सूक्ष्म तेजस्कायिक छे (सुहुम पुढवि

यिकाः विशेषाधिकाः, सूक्ष्मनिगोदा असंख्येयगुणाः, सूक्ष्मवनस्पतिकायिका अनन्तगुणा, सूक्ष्मा विशेषाधिकाः, एतेषां खलु मदन्त ! सूक्ष्मापर्याप्तकानां सूक्ष्मपृथिवीकायिकाऽपर्याप्तकानां, सूक्ष्माष्कायिकाऽपर्याप्तकानां, सूक्ष्मतेजस्कायिकाऽपर्याप्तकानां, सूक्ष्मवायुकायिकापर्याप्तकानां, सूक्ष्मवनस्पतिकायिकाऽपर्याप्तकानां, सूक्ष्मनिगोदाऽपर्याप्तकानां च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः सूक्ष्मतेजस्कायिकाऽपर्या-

यिक हैं (सुहुम पुढविकाइया विसेसाहिया) सूक्ष्म पृथिवीकायिक विशेषाधिक हैं (सुहुम आउकाइया विसेसाहिया) सूक्ष्म अष्कायिक विशेषाधिक हैं (सुहुम वाउकाइया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुकायिक विशेषाधिक हैं (सुहुम निगोदा असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म निगोद असंख्यात गुणा हैं (सुहुम वणसइकाइया अणंतगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अनन्तगुणा हैं (सुहुमा विसेसाहिया) सूक्ष्म जीव विशेषाधिक हैं ।

(एएसि णं भंते ! सुहुम अपज्जत्ताणं) हे भगवन ! इन सूक्ष्म अपर्याप्त (सुहुम पुढविकाइया अपज्जत्ताणं) सूक्ष्म पृथिवीकाय के अपर्याप्त (सुहुम आउकाइय अपज्जत्ताणं) सूक्ष्म अष्काय के अपर्याप्त (सुहुम तेउकाइय अपज्जत्ताणं) सूक्ष्म तेजस्कायिक के अपर्याप्त (सुहुम वाउकाइय अपज्जत्ताणं) सूक्ष्म वायुकाय के अपर्याप्त (सुहुम वणसइकाइय अपज्जत्ताणं) (सूक्ष्म वनस्पतिकाय के अपर्याप्त (सुहुम निगोदा पज्जत्ताण य) और सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्तों में (कयरे) कौन (कयरेहितो) किससे (अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा विसेसाहिया वा?)

काइया विसेसाहिया) सूक्ष्म पृथ्वीकायिक विशेषाधिक छे (सुहुम आउकाइया विसेसाहिया) सूक्ष्म अष्कायिक विशेषाधिक छे (सुहुमवाउकाइया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुकायिक विशेषाधिक छे (सुहुम निगोदा असंखेज्ज गुणा) सूक्ष्म निगोद अनख्यात गण्ठा छे (सुहुम वणसइकाइया अणतगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अनन्त गण्ठा छे (सुहुमा विसेसाहिया) सूक्ष्म जीव विशेषाधिक छे

(एएसिणं भंते ! सुहुम अपज्जत्ताणं) हे भगवन ! आ सूक्ष्म अपर्याप्त (सुहुम पुढविकाइय अपज्जत्ताणं) सूक्ष्म पृथ्वीकायना अपर्याप्त (सुहुम आउकाइय अपज्जत्ताणं) सूक्ष्म अष्कायना अपर्याप्त (सुहुम तेउकाइय अपज्जत्ताणं) सूक्ष्म तेजस्कायना अपर्याप्त (सुहुम वाउकाइय अपज्जत्ताणं) सूक्ष्म वायुकायना अपर्याप्त (सुहुम वणसइकाइय अपज्जत्ताणं) सूक्ष्म वनस्पतिना अपर्याप्त (सुहुम निगोदा पज्जत्ताणं य) सूक्ष्म निगोदना अपर्याप्तोभायी (कयरे कयरेहितो) केषु कानाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धण्ण, तुल्य अगार

प्तकाः, सूक्ष्मपृथिवीकायिकाऽपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, सूक्ष्मापकायिकाऽपर्याप्तका विशेषाधिकाः, सूक्ष्मवायुकायिकाऽपर्याप्तका विशेषाधिकाः, सूक्ष्मनिगोदाऽपर्याप्तका असंख्येयगुणाः, सूक्ष्मवनस्पतिकायिकाऽपर्याप्तका अनन्तगुणाः, सूक्ष्माः अपर्याप्तका विशेषाधिकाः, एतेषां खलु भदन्त ! सूक्ष्मपर्याप्तकानां, सूक्ष्मपृथिवीकायिकानां पर्याप्तकानाम्, सूक्ष्मापकायिकानां पर्याप्तकानां, सूक्ष्मतेजस्कायिकानां पर्याप्तकानाम्, सूक्ष्मवायुकायिकानां पर्याप्तकानां, सूक्ष्मवनस्पतिकायिकानां पर्याप्तकानां, सूक्ष्मनिगोदपर्याप्तकानाञ्च कतरे कतरेभ्योऽल्पा

अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं? (गोयमा) हे गौतम (सव्वत्थोवा सुहुम तेउकाइय अपज्जत्तया) सब से अल्प सूक्ष्म तेजस्कायिक के अपर्याप्त हैं (सुहुम पुढविकाइय अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पृथिवीकाय के अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहुम आउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अपकाय के अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहुम वाउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहुम निगोदा अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं (सुहुम वणस्सइकाइया अपज्जत्तया अणंतगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त अनन्त गुणा हैं (सुहुमा अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अपर्याप्त विशेषाधिक हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सुहुम पज्जत्तयाणं) सूक्ष्म पर्याप्त (सुहुम पुढविकाइयाणं पज्जत्ताणं) सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त (सुहुम आउकाइयाणं पज्जत्ताणं) सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त (सुहुम तेउकाइयाणं पज्जत्ताणं) सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त (सुहुम वाउका-

विशेषाधिक छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! सव्वत्थोवा सुहुम तेउकाइया अपज्जत्तया) सौथी ओछा सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्त छे (सुहुम पुढविकाइय अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे (सुहुम आउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे (सुहुम वाउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म निगोदा अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म निगोदा अपर्याप्त अनन्त गुणा छे (सुहुम वणस्सइकाइया अपज्जत्तया अणंतगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त अनन्त गुणा छे (सुहुमा अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अपर्याप्त विशेषाधिक छे (एएसि णं भंते) हे भगवन् ! आ (सुहुम पज्जत्तयाणं) सूक्ष्म पर्याप्त (सुहुम पुढविकाइयाणं पज्जत्ताणं) सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त (सुहुम आउकाइयाणं पज्जत्ताणं) सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त (सुहुम तेउकाइयाणं पज्जत्ताणं) सूक्ष्म तेजस्कायिक

यिकाः विशेषाधिकाः, सूक्ष्मनिगोदा असंख्येयगुणाः, सूक्ष्मवनस्पतिक्रायिका अनन्तगुणा, सूक्ष्मा विशेषाधिकाः, पतेपां यत्तु मदन ! सूक्ष्मापर्याप्तकानां सूक्ष्मपृथिवीक्रायिकाऽपर्याप्तकानां, सूक्ष्माक्रायिकाऽपर्याप्तकानां, सूक्ष्मतेजस्क्रायिकाऽपर्याप्तकानां, सूक्ष्मवायुक्रायिकापर्याप्तकानां, सूक्ष्मवनस्पतिक्रायिकाऽपर्याप्तकानां, सूक्ष्मनिगोदाऽपर्याप्तकानां च क्रतुरे क्रतुरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः सूक्ष्मनेजरक्रायिकाऽपर्या-

यिक हैं (सुहुम पुढविकाइया विसेसाहिया) सूक्ष्म पृथिवीक्रायिक विशेषाधिक हैं (सुहुम आउकाइया विसेसाहिया) सूक्ष्म अक्रायिक विशेषाधिक है (सुहुम वाउकाइया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुक्रायिक विशेषाधिक हैं (सुहुम निगोदा असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म निगोद असंख्यात गुणा हैं (सुहुम वणस्सइकाइया अणतगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिक्रायिक अनन्तगुणा हैं (सुहुमा विसेसाहिया) सूक्ष्म जीव विशेषाधिक हैं ।

(एएसि णं भंते ! सुहुम अपज्जत्ताणं) हे भगवन ! इन सूक्ष्म अपर्याप्त (सुहुम पुढविकाइया अपज्जत्ताणं) सूक्ष्म पृथिवीक्राय के अपर्याप्त (सुहुम आउकाइय अपज्जत्ताणं) सूक्ष्म अक्राय के अपर्याप्त (सुहुम तेउकाइय अपज्जत्ताणं) सूक्ष्म तेजस्क्रायिक के अपर्याप्त (सुहुम वाउकाइय अपज्जत्ताणं) सूक्ष्म वायुक्राय के अपर्याप्त (सुहुम वणस्सइकाइय अपज्जत्ताणं) (सूक्ष्म वनस्पतिक्राय के अपर्याप्त (सुहुम निगोदा पज्जत्ताण य) और सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्तों में (कयरे) कौन (कयरेहिंतो) कित्से (अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?)

काइया विसेसाहिया) सूक्ष्म पृथ्वीक्रायिक विशेषाधिक छे (सुहुम आउकाइया विसेसाहिया) सूक्ष्म अक्रायिक विशेषाधिक छे (सुहुमवाउकाइया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुक्रायिक विशेषाधिक छे (सुहुम निगोदा असंखेज्ज गुणा) सूक्ष्म निगोद अनन्त्यात गण्ठा छे (सुहुम वणस्सइकाइया अणतगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिक्रायिक अनन्त गण्ठा छे (सुहुमा विसेसाहिया) सूक्ष्म जीव विशेषाधिक छे

(एएसिणं भंते ! सुहुम अपज्जत्ताणं) हे भगवन ! आ सूक्ष्म अपर्याप्त (सुहुम पुढविकाइय अपज्जत्ताण) सूक्ष्म पृथ्वीक्रायना अपर्याप्त (सुहुम आउकाइय अपज्जत्ताण) सूक्ष्म अक्रायना अपर्याप्त (सुहुम तेउकाइय अपज्जत्ताण) सूक्ष्म तेजस्क्रायना अपर्याप्त (सुहुम वाउकाइय अपज्जत्ताणं) सूक्ष्म वायुक्रायना अपर्याप्त (सुहुम वणस्सइकाइय अपज्जत्ताण) सूक्ष्म वनस्पतिना अपर्याप्त (सुहुम निगोदा पज्जत्ताणं य) सूक्ष्म निगोदना अपर्याप्तोभाधी (कयरे कयरेहिंतो) केषु केनाधी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धण्ठा, तुल्य अणर

प्तकाः, सूक्ष्मपृथिवीकायिकाऽपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, सूक्ष्माप्कायिकाऽपर्याप्तका विशेषाधिकाः, सूक्ष्मवायुकायिकाऽपर्याप्तका विशेषाधिकाः, सूक्ष्मनिगोदाऽपर्याप्तका असंख्येयगुणाः, सूक्ष्मवनस्पतिकायिकाऽपर्याप्तका अनन्तगुणाः, सूक्ष्माः अपर्याप्तका विशेषाधिकाः, एतेषां सल्लु मदन्त ! सूक्ष्मपर्याप्तकानां, सूक्ष्मपृथिवीकायिकानां पर्याप्तकानाम्, सूक्ष्माप्कायिकानां पर्याप्तकानां, सूक्ष्मतेजस्कायिकानां पर्याप्तकानाम्, सूक्ष्मवायुकायिकानां पर्याप्तकानां, सूक्ष्मवनस्पतिकायिकानां पर्याप्तकानां, सूक्ष्मनिगोदपर्याप्तकानाञ्च क्रतरे क्रतरेभ्योऽप्या

अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम (सर्व्वत्थोवा सुहुम तेउकाइय अपज्जत्तया) सब से अल्प सूक्ष्म तेजस्कायिक के अपर्याप्त हैं (सुहुम पुढविकाइय अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पृथिवीकाय के अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहुम आउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अप्काय के अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहुम वाउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहुम निगोदा अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं (सुहुम वणस्सइकाइया अपज्जत्तया अणंतगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त अनन्त गुणा हैं (सुहुमा अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अपर्याप्त विशेषाधिक हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सुहुम पज्जत्तयाणं) सूक्ष्म पर्याप्त (सुहुम पुढविकाइयाणं पज्जत्ताणं) सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त (सुहुम आउकाइयाणं पज्जत्ताणं) सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त (सुहुम तेउकाइयाणं पज्जत्ताणं) सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त (सुहुम वाउका-

विशेषाधिक छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! सर्व्वत्थोवा सुहुम तेउकाइया अपज्जत्तया) सौथी गो।छ। सूक्ष्म तेजस्कायिका अपर्याप्त छे (सुहुम पुढविकाइय अपज्जया विसेसाहिया) सूक्ष्म पृथ्वीकायिका अपर्याप्त विशेषाधिक छे (सुहुम आउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुकायिका अपर्याप्त विशेषाधिक छे (सुहुम वाउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म निगोदा अपर्याप्त असंख्येयगुणा) सूक्ष्म निगोदाना अपर्याप्त अनन्त गुणा छे (सुहुम वणस्सइकाइया अपज्जत्तया अणंतगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त अनन्त गुणा छे (सुहुमा अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अपर्याप्त विशेषाधिक छे

(एएसिणं भंते) हे भगवन् ! आ (सुहुम पज्जत्तयाणं) सूक्ष्म पर्याप्त (सुहुम पुढविकाइयाणं पज्जत्ताणं) सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्त (सुहुम आउकाइयाणं पज्जत्ताणं) सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त (सुहुम तेउकाइयाणं पज्जत्ताणं) सूक्ष्म तेजस्कायिक

धा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः सूक्ष्मतेज-
स्कायिकाः पर्याप्तकाः, सूक्ष्मपृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, सूक्ष्मा-
प्कायिकाः पर्याप्तका विशेषाधिकाः, सूक्ष्मवायुकायिकाः पर्याप्तका विशेषा-
धिकाः, सूक्ष्मनिगोदाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, सूक्ष्मवनस्पतिकायिकाः
पर्याप्तकाः अनन्तगुणा, सूक्ष्मपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, एतेषां खलु भदन्त !
सूक्ष्माणां पर्याप्तापर्याप्तानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा,

इय पञ्जत्तयाणं) सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त (सुहृम वणस्सइकाइय
पञ्जत्तयाणं) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त (सुहृम निगोद पञ्जत्तयाणं)
सूक्ष्म निगोद के पर्याप्तों में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा
वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या
विशेषाधिक है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा सुहृम तेउका-
इया पञ्जत्तया) सब से कम सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त हैं (सुहृम
पुढविकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त
विशेषाधिक हैं (सुहृम आउकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म
अप्कायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहृम वाउकाइया पञ्जत्तया विसे-
साहिया) सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहृम निगोद
पञ्जत्तया) सूक्ष्म निगोद के पर्याप्त (असंखेज्जगुणा) असंख्यातगुणा
हैं (सुहृम वणस्सइकाइय पञ्जत्तया) सूक्ष्म वनस्पतिकाय के पर्याप्त
(अनंतगुणा) अनन्तगुणा हैं (सुहृमपञ्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म
पर्याप्तक विशेषाधिक हैं ।

पर्याप्त (सुहृम वाउकाइयाण पञ्जत्तयाण) सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त (सुहृम वणस्सइ
काइय पञ्जत्तयाणं) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त (सुहृम निगोद पञ्जत्तयाण) सूक्ष्म
निगोदना पर्याप्तोभा (कयरे कयरेहिंतो) केषु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा
तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धृष्टा, तुल्य अगर विशेषाधिक है ? (गोयमा)
हे गौतम ! (सव्वत्थोवा सुहृम तेउकाइया पञ्जत्तया) अधाथी ओछा सूक्ष्म
तेजस्कायिक पर्याप्त है (सुहृम पुढविकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पृथिवी
कायिक पर्याप्त विशेषाधिक है (सुहृम आउकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म
अप्कायिक पर्याप्त विशेषाधिक है (सुहृम वाउकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म
वायुकायिक पर्याप्त विशेषाधिक है (सुहृम निगोद पञ्जत्तया) सूक्ष्म निगोदना
पर्याप्त (असंखेज्जगुणा) असंख्यात गणना है (सुहृम वणस्सइकाइय पञ्जत्तया)
सूक्ष्म वनस्पतिकायना पर्याप्त (अनन्त गुणा) अनन्त गणना है (सुहृम पञ्ज-
त्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पर्याप्त विशेषाधिक है.

विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः सूक्ष्मपर्याप्तकाः, सूक्ष्मपर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! सूक्ष्मपृथिवीकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः सूक्ष्मपृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः, सूक्ष्मपृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! सूक्ष्मपृथिवीकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः

(एणसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सुहुमां पञ्जत्तापञ्जत्ताणं) सूक्ष्म पर्याप्तक अपर्याप्तकों मे (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा सुहुम अपञ्जत्ताणा) सब से थोड़े सूक्ष्म अपर्याप्तक हैं (सुहुम पञ्जत्ताणा संखेज्जगुणा) सूक्ष्म पर्याप्तक संख्यातगुणा हैं । (एणसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सुहुम पुढविकाइयाणं) सूक्ष्म पृथिवीकायिक (पञ्जत्तापञ्जत्ताणं) पर्याप्त और अपर्याप्त में कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! सव्वत्थोवा सुहुम पुढविकाइया अपञ्जत्तया) सब से कम सूक्ष्म पृथिवीकाय के अपर्याप्त हैं (सुहुम पुढविकाइया पञ्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म पृथिवीकाय के पर्याप्त संख्यात गुणा हैं । (एणसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सुहुम आडकाइयाणं) सूक्ष्म अक्काय के (पञ्जत्तापञ्जत्ताणं) पर्याप्तों और अपर्याप्तों

(एणसिण भते !) हे भगवन् ! आ (सुहुमाण पञ्जत्तापञ्जत्ताणा) सूक्ष्म पर्याप्तक अपर्याप्तकोमा (कयरे कयरेहिंतो) कोणु कोनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धणु, तुल्य, अगर विशेषाधिक छे ? (गोयमा) हे गौतम (सव्वत्थोवा सुहुम अपञ्जत्ताणा) अधाथी ओछा सूक्ष्म अपर्याप्त छे (सुहुम पञ्जत्ताणा संखेज्जगुणा) सूक्ष्म पर्याप्तक संख्यात गणु छे

(एणसिण भते !) हे भगवन् ! आ (सुहुम पुढविकाइयाणा) सूक्ष्म पृथिवीकायिक (पञ्जत्तापञ्जत्ताणा) पर्याप्त अने अपर्याप्तकोमा (कयरे कयरेहिंतो) कोणु कोनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धणु, तुल्य वा विशेषाधिक छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा सुहुम पुढविकाइया अपञ्जत्तया) अधाथी ओछा सूक्ष्म पृथिवीकायना अपर्याप्त छे (सुहुम पुढविकाइया पञ्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म पृथिवीकायना पर्याप्त संख्यात गणु छे

(एणसिण भते !) हे भगवन् ! आ (सुहुम आडकाइयाणा) सूक्ष्म अक्कायना पञ्जत्ता पञ्जत्ताणं पर्याप्तो अने अपर्याप्तोमां (कयरे कयरेहिंतो) कोणु कोनाथी

सूक्ष्मापकायिकाः अपर्याप्तकाः, सूक्ष्मापकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, एतेषां
 सल्लु भदन्त ! सूक्ष्मतेजस्कायिकानां पर्याप्तापर्याप्तानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा
 वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः सूक्ष्म तेज-
 स्कायिकाः अपर्याप्तकाः, सूक्ष्म तेजस्कायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः एतेषां
 सल्लु भदन्त ! सूक्ष्मवायुकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा,
 बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः सूक्ष्म वायुका-
 यिके (कयरे कयरेहितो) कौन किससे (अप्या वा बहुया वा तुल्ला वा
 विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिका हैं ? (गोयमा)
 हे गौतम ! (सव्वत्थोवा सुहुम आउकाइया अपज्जत्तागा) सब से कम
 सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्त हैं (सुहुमा आउकाइया पज्जत्तागा संखेज्जगुणा)
 सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त संख्यातगुणा हैं । (एएसि णं भंते !) भगवन् !
 इन (सुहुम तेउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) सूक्ष्म तेजस्कायिक के
 पर्याप्तों और अपर्याप्तों में से (कयरे कयरेहितो) कौन किससे (अप्या
 वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, बहुत, तुल्य या
 विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा सुहुम तेउकाइया
 अपज्जत्ताया) सब से कम तेजस्काय के अपर्याप्त हैं (सुहुम तेउकाइया
 पज्जत्ताया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त संख्यातगुणा हैं ।
 (एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सुहुम वाउकाइयाणं पज्जत्ताप-
 ज्जत्ताणं) सूक्ष्म वायुकायिक के पर्याप्तों और अपर्याप्तों में (कयरे कय-
 रेहितो) कौन किससे (अप्या वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया

(अप्या वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धल्ला तुल्य अथवा
 विशेषाधिक छे (गोयमा) हे गौतम (सव्वत्थोवा सुहुम आउकाइया अपज्जत्तागा)
 अथाथी ओछा सूक्ष्म अणुकायिक अपर्याप्त छे (सुहुमा आउकाइया पज्जत्तागा
 संखेज्जगुणा) सूक्ष्म अणुकायिक पर्याप्त संख्यात गणु छे

(एएसिणं भंते !) हे भगवन् ! आ (सुहुम तेउकाइया पज्जत्तापज्जत्ताणं) सूक्ष्म
 तेजस्कायिक पर्याप्तके अने अपर्याप्तकेअथाथी (कयरे कयरेहितो) केणु केनाथी
 अप्या वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धल्ला तुल्य अने विशेषा-
 धिक छे ? (गोयमा) हे गौतम (सव्वत्थोवा सुहुम तेउकाइया अपज्जत्ताया सौथी
 ओछा सूक्ष्म तेजस्कायना अपर्याप्त छे, (सुहुम तेउकाइया पज्जत्ताया संखेज्जगुणा)
 सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त संख्यातगणु छे (सुहुमवाउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं)
 सूक्ष्म वायुकायना पर्याप्तो अने अपर्याप्तोभा (कयरे कयरेहितो) केणु केनाथी
 (अप्या वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, धल्ला, तुल्य अथवा

यिकाः अपर्याप्तकाः, वायुकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः एतेषां स्रुतु भदन्त ! सूक्ष्म वनस्पतिकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः सूक्ष्म वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः, सूक्ष्म वनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, एतेषां स्रुतु भदन्त ! सूक्ष्म निगोदानां पर्याप्तापर्याप्तानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः सूक्ष्म निगोदाः अपर्याप्तकाः, सूक्ष्म

वा ?) अल्प बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं (गोयमा) हे गौतम ! (सञ्चत्वोवा सुहुम वाउकाइया अपज्जत्तागा) सबसे कम सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त हैं (सुहुम वाउकाइया पज्जत्ताया) सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त (संखेज्जगुणा) संख्यातगुणा हैं । (एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सुहुम वणस्सइकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) सूक्ष्म वनस्पतिकाय के पर्याप्त और अपर्याप्त में (कयरे कयरेहितो) कौन किस से (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सञ्चत्वोवा सुहुम वणस्सइकाइया अपज्जत्ताया) सबसे कम सूक्ष्म वनस्पतिकाय के अपर्याप्त हैं (सुहुम वणस्सइकाइया पज्जत्तागा संखेज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकाय के पर्याप्त संख्यातगुणा हैं । (एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सुहुम निगोयाणं) सूक्ष्म निगोद के (पज्जत्तापज्जत्ताणं) पर्याप्त और अपर्याप्त में (कयरे कयरेहितो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सञ्चत्वोवा सुहुम निगोदा अपज्जत्तागा)

विशेषाधिक छे ? (गोयमा) हे गौतम (सञ्चत्वोवा सुहुम वाउकाइया अपज्जत्तागा) अधाथी ओछा सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त छे (सुहुम वाउकाइया पज्जत्ताया) सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त (संखेज्जगुणा) संख्यात गुणु छे

(एएसिण भते !) हे भगवन् ! आ (सुहुम वणस्सइकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) सूक्ष्म वनस्पतिकायना पर्याप्त अने अपर्याप्तमा (कयरे कयरेहितो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला विसेसाहिया वा) अल्प, धणु, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (सञ्चत्वोवा सुहुम वणस्सइकाइया अपज्जत्तागा) सौथी ओछा सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्तक छे, (सुहुमवणस्सइकाइया पज्जत्तागा संखेज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायना पर्याप्तके संख्यातगुणु छे.

(एएसि ण भंते ! भगवन् ! आ (सुहुमनिगोयाणं) सूक्ष्म निगोदाना पज्जत्तापज्जत्ताणं) पर्याप्त अने अपर्याप्तकेमां (कयरे कयरेहितो) केणु केनाथी

निगोदा पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, एतेषां सखु भदन्त ! सूक्ष्माणां, सूक्ष्मपृथिवी-
कायिकानां सूक्ष्माष्कायिकानाम्, सूक्ष्म तेजस्कायिकानां, सूक्ष्मवायुकायिकानां,
सूक्ष्मवनस्पतिकायिकानां सूक्ष्मनिगोदानाञ्च पर्याप्तापर्याप्तानां कतरे कतरेभ्यो-
ऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः सूक्ष्म
तेजस्कायिकाः अपर्याप्तकाः सूक्ष्मपृथिवीकायिका अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः,
सूक्ष्माष्कायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, सूक्ष्मवायुकायिकाः अपर्याप्तकाः

सबसे कम सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त है (सुहुम निगोया पञ्जत्तगा संखे-
ज्जगुणा) सूक्ष्म निगोद के पर्याप्त संख्यात गुणा हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सुहुमाणं) सूक्ष्म (सुहुम पुढ-
विकाइयाणं) सूक्ष्म पृथिवीकायिक (सुहुम आउकाइयाणं) सूक्ष्म अष्का-
यिक (सुहुम तेउकाइयाणं) सूक्ष्म तेजस्कायिक (सुहुम वाउकाइयाणं)
सूक्ष्म वायुकायिक (सुहुम वणस्सइकाइयाणं) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक
(सुहुम निगोदाण य) और सूक्ष्म निगोद के (पञ्जत्तापञ्जत्ताणं)
पर्याप्तों तथा अपर्याप्तों में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा
बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषा-
धिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सच्चत्थोवा सुहुम तेउकाइया
अपञ्जत्तगा) सब से कम सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्त हैं (सुहुम पुढ-
विकाइया अपञ्जत्तगा विसेसाहिया) सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्त
विशेषाधिक है (सुहुम आउकाइया अपञ्जत्तगा विसेसाहिया) सूक्ष्म
अष्कायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहुम वाउकाइया अपञ्जत्तगा

(अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, धृषु, तुल्य अथवा
विशेषाधिक छे (गोयमा) हे गौतम ! (सच्चत्थोवा सुहुम निगोया अपञ्जत्तगा)
अधार्थी ओछा सूक्ष्म निगोदना अपर्याप्त छे (सुहुम निगोया पञ्जत्तगा संखेज्ज-
गुणा) सूक्ष्म निगोदना पर्याप्त संख्यात गुणा छे

(एएसिण भंते !) हे भगवन् ! आ (सुहुमाणं) सूक्ष्म (सुहुम पुढविकाइयाणं)
सूक्ष्म पृथिवीकायिक (सुहुम आउकाइयाणं) सूक्ष्म अष्कायिक (सुहुम तेउकाइयाणं)
सूक्ष्म तेजस्कायिक (सुहुम वाउकाइयाणं) सूक्ष्म वायुकायिक (सुहुम वणस्सइकाइयाणं)
सूक्ष्म वनस्पतिकायिक (सुहुम निगोदाणय) अने सूक्ष्म निगोदना (पञ्जत्तापञ्ज-
त्ताणं) पर्याप्तों तथा अपर्याप्तोंमा (कतरे कयरेहिंतो) केषु केनाथी (अप्पा वा
बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धृषु, तुल्य अगरे विशेषाधिक
छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (सच्चत्थोवा सुहुम तेउकाइया अपञ्जत्तगा) अधार्थी
ओछा सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्त छे (सुहुम पुढविकाइया अपञ्जत्तगा विसेसा-
हिया) सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे (सुहुम आउकाइया अपञ्ज-

विशेषाधिकाः, सूक्ष्मतेजस्कायिका अपर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, सूक्ष्मपृथिवी-
कायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, सूक्ष्मापकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः
सूक्ष्म वायुकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, सूक्ष्मनिगोदाः अपर्याप्तकाः
संख्येयगुणाः, सूक्ष्मनिगोदाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, सूक्ष्म वनस्पति-
कायिकाः अपर्याप्तकाः अनन्तगुणाः, सूक्ष्माः, अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः,
सूक्ष्मवनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, सूक्ष्माः पर्याप्तकाः विशेष-
पाधिकाः, सूक्ष्माः विशेषाधिकाः ॥ सू. ० ६ ॥

विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहृम
तेजसाहिया पञ्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म तेजसायिक पर्याप्त संख्या-
तगुणा हैं (सुहृम पुढविकाइय पञ्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पृथिवी-
कायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहृम आउकाइया पञ्जत्तया विसेसा-
हिया) सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहृम वाउकाइया
पञ्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं ।
(सुहृम निगोदा अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त
असंख्यातगुणा हैं (सुहृम निगोदा पञ्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म
निगोद पर्याप्त संख्यातगुणा हैं (सुहृम वणस्सइकाइया अपञ्जत्तया
अणतगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकाइक अपर्याप्त अनन्तगुणा हैं (सुहृम
अपञ्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहृम
वणस्सइकाइया पञ्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त
संख्यातगुणा हैं (सुहृम पञ्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पर्याप्तक विशेष-

त्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अणुकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे (सुहृम वाउकाइ-
यां अपञ्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे (सुहृम
तेजसाहिया पञ्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म तेजसायिक पर्याप्त संख्यातगुणा छे
(सुहृम पुढविकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्तक विशेष-
पाधिक छे (सुहृम आउकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्तक
विशेषाधिक छे (सुहृम वाउकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्तक
विशेषाधिक छे (सुहृम निगोदा अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त
असंख्यातगुणा छे (सुहृम निगोदा पञ्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म निगोद पर्याप्त
संख्यातगुणा छे (सुहृम वणस्सइकाइया अपञ्जत्तया अणतगुणा) सूक्ष्म वनस्पति-
कायिक अपर्याप्त अनन्तगुणा छे (सुहृम अपञ्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अपर्याप्त
विशेषाधिक छे (सुहृम वणस्सइकाइया पञ्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पति-
कायिक पर्याप्त संख्यातगुणा छे (सुहृम पञ्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पर्याप्त

टीका—अथ कायद्वारमधिकृत्यैव सूक्ष्मवादरादिना मल्पबहुत्वादिकं प्ररूपयितुमाह—‘एएसि णं भंते ! सुहुमाणं’ हे मदन्त ! एतेषां खलु सूक्ष्माणां, ‘सुहुम पुढविकाइयाणं’ सूक्ष्म पृथिवीकायिकानां ‘सुहुम आउकाइयाणं’ सूक्ष्माप्लाविकायिकानाम् ‘सुहुम तेउकाइयाणं’ सूक्ष्म तेजस्कायिकानां ‘सुहुम वाउकाइयाणं’ सूक्ष्म वायुकायिकानां ‘सुहुम वणस्सइकाइयाणं’ सूक्ष्म वनस्पतिकायिकानां ‘सुहुण निओयाणं’ सूक्ष्म निगोदानां मध्ये ‘कयरे कयरेहितो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सच्चत्थोवा’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः ‘सुहुम तेउकाइया’ सूक्ष्म तेजःकायिका भवन्ति तेषामसंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणत्वात् तेभ्यः ‘सुहुम पुढविकाइया विसेसाहिया’ सूक्ष्मपृथिवीकायिका विशेषाधिका भवन्ति तेषां षाधिक हैं (सुहुमा विसेसाहिया) सूक्ष्म जीव विशेषाधिक हैं ।

टीकार्थ—कायद्वार के आधार से ही सूक्ष्म-वादर आदि के अल्प-बहुत्व की प्ररूपणा की जाती है—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन सूक्ष्म, सूक्ष्म पृथ्वीकायिक, सूक्ष्म अप्लाविक, सूक्ष्म तेजस्कायिक, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक और सूक्ष्म निगोद के जीवों में से कौन किससे कम हैं, कौन किससे बहुत हैं, कौन किससे तुल्य हैं या कौन किससे विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते देते हैं—हे गौतम ! सूक्ष्म तेजस्कायिक जीव इन सब में अल्प हैं, क्योंकि वे असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों के बराबर हैं । उनकी अपेक्षा सूक्ष्म पृथिवीकायिक, विशेषाधिक हैं,

विशेषाधिक छे (सुहुमा विसेसाहिया) सूक्ष्म एव विशेषाधिक छे ॥ ६ ॥

टीकार्थ—काय द्वारना आधारधीन सूक्ष्म आदर-आदिकना अल्प बहुत्वनी प्ररूपणा कराय छे

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—भगवन् ! आ सूक्ष्म, सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म ज्वालायिक, सूक्ष्म तेलस्कायिक, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, अने सूक्ष्म निगोदना एवोमाथी कोषुकोनाथी ओछा छे, कोषुकोनाथी घण्टा छे, कोषुकोनाथी तुल्य छे अजर कोषुकोनाथी विशेषाधिक छे ?

श्री भगवन् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! सूक्ष्म तेलस्कायिक एव आ अधामा अल्प छे, केमके तेओ अत्र ज्यात लोकाकाशोना प्रदेशोनी जराअर छे तेमनी अपेक्षाओ सूक्ष्म पृथ्वीकायिक विशेषाधिक छे, केमके तेओ प्रभूत अस-

प्रभूतासंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणत्वात् 'सुहुम वाउकाड्या विसेसाहिया' सूक्ष्माप्यायिकाः विशेषाधिका भवन्ति तेषां प्रभूततरासंख्येयलोकाकाशप्रदेश-
प्रमाणत्वात्, तेभ्यः 'सुहुम वाउकाड्या विसेसाहिया' सूक्ष्म वायुकायिका विशेष-
षाधिका भवन्ति, तेषां प्रभूततरासंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणत्वात्, तेभ्यः
'सुहुम निगोदा असंखेज्जगुणा' सूक्ष्मनिगोदाः, निगोदः—अनन्तजीवाश्रयक-
शरीरम् असंख्येयगुणा भवन्ति सूक्ष्मनिगोदानां सर्वगोकापघ्नतया प्रतिगोल-
कसंख्येयप्रमाणत्वात् तेभ्यः 'सुहुम वणस्सकाड्या अणंतगुणा' सूक्ष्म वन-
स्पतिकायिकाः अनन्तगुणा भवन्ति, प्रतिनिगोदमनन्तानां जीवानां सद्भावात्
तेभ्योऽपि 'सुहुमा विसेसाहिया' सूक्ष्माः समुच्चयजीवाः विशेषाधिका भवन्ति ।
सूक्ष्म पृथिवीकायिकादीनामपि तत्र समावेशात्, अथ समुच्चयजीवादीनामेवा-

क्योंकि वे प्रभूत असंख्यात लोकाकाश प्रदेशो के बराबर हैं । उनकी
अपेक्षा सूक्ष्म अप्यायिक विशेषाधिक हैं, क्योंकि वे प्रभूततर (और
अधिक) असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों के बराबर हैं । उनकी
अपेक्षा सूक्ष्म वायुकायिक विशेषाधिक हैं, क्योंकि वे प्रभूततर
असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों के बराबर हैं । उनकी अपेक्षा सूक्ष्म
निगोद असंख्यात गुणा हैं । जो अनन्त जीव एक शरीर के आश्रय
में रहते हैं, वे निगोद जीव कहलाते हैं । सूक्ष्म निगोद के जीव
समस्त लोक में व्याप्त हैं और एक-एक गोलक में असंख्यात-असं-
ख्यात होते हैं । उनकी अपेक्षा सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अनन्तगुणा
हैं, क्योंकि प्रत्येक निगोद में अनन्त जीव होते हैं । समुच्चय सूक्ष्म
जीव उनकी अपेक्षा भी विशेषाधिक हैं, क्योंकि सूक्ष्म पृथिवीकायिक
आदि का भी उनमें समावेश हो जाता है ।

ख्यात लोकाकाश प्रदेशानां बराबर छे. तेमनी अपेक्षाये वणकाय विशेषाधिक
छे केमके तेयो अति घण्टा छे असंख्यात लोकाकाशानां प्रदेशानां बराबर छे.
तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्मवायुकायिक विशेषाधिक छे, केमके तेयो प्रभूततर असं.
ख्यात लोकाकाशानां प्रदेशानां बराबर छे. तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म निगोद
असंख्यात गण्टा छे जे अनन्त एव एक शरीरना आश्रयथी रहि छे, ते
निगोद एव कडेवाय छे सूक्ष्म निगोदना एव समस्त लोकमा व्याप्त छे अने
एक एक गोलकमा असंख्यात-असंख्यात होय छे. तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म
वनस्पतिकायिक अनन्तगण्टा छे, केमके प्रत्येक निगोदमा अनन्त एव होय छे.
समुच्चय सूक्ष्म एव तेमनी अपेक्षाये पण्डु विशेषाधिक छे, केमके सूक्ष्मपृथ्वी-
कायिक आदिना पण्डु तेमा समावेश थय जय छे.

पर्याप्तानामल्पबहुत्वादिकं प्ररूपयति—‘एएसि णं मंते ! सुहुम अपज्जत्तगाणं’
 गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतेषां खलु सूक्ष्मापर्याप्तकानां ‘सुहुम पुढविकाइ-
 याणं अपज्जत्तगाणं’ सूक्ष्म पृथिवीकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम् ‘सुहुम आउ-
 काइयाणं अपज्जत्तयाणं’ सूक्ष्माष्कायिकानाम् अपर्याप्तकानाम् ‘सुहुम तेउकाइ-
 याणं अपज्जत्तगाणं’ सूक्ष्म तेजःकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम् ‘सुहुम वाउकाइ-
 याणं अपज्जत्तयाणं’ सूक्ष्म वायुकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम्, ‘सुहुम वणस्सइ-
 काइयाणं अपज्जत्तगाणं’ सूक्ष्म वनस्पतिकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम् ‘सुहुम
 निगोयाणं अपज्जत्तयाण य’ सूक्ष्मनिगोदानाम् अपर्याप्तकानाम् मध्ये ‘कयरे
 कयरेहिंतो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा’
 अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति
 —‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सव्वत्थोवा सुहुम तेउकाइया अपज्जया’ सर्वस्तोकाः
 —सर्वेभ्योऽल्पाः सूक्ष्मतेजःकायिकाः अपर्याप्तकाः भवन्ति, तेषामसंख्येय-
 लोकाकाशप्रदेशप्रमाणत्वात्, तेभ्यः ‘सुहुमपुढविकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया’

अब अपर्याप्त सूक्ष्म आदि जीवों के अल्पबहुत्वका प्ररूपण करते हैं—
 श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! सूक्ष्म अपर्याप्तक,
 सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्तक, सूक्ष्म अष्कायिक अपर्याप्तक, सूक्ष्म
 तेजस्कायिक अपर्याप्तक, सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्तक, सूक्ष्म वन-
 स्पतिकायिक अपर्याप्तक और सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्तक जीवों में
 कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सब से कम सूक्ष्म तेजः-
 कायिक अपर्याप्तक हैं, क्योंकि वे असंख्यात लोकाकाश प्रदेशों के
 बराबर हैं । उनकी अपेक्षा सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक
 हैं । उनकी अपेक्षा सूक्ष्म अष्कायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं । उनसे
 सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं । सूक्ष्म वायुकायिक अप-

हुवे अपर्याप्त सूक्ष्म आदि लोकोना अल्प बहुत्वानु प्ररूपण करे छे

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे—भगवन् । सूक्ष्म अपर्याप्तक, सूक्ष्मपृथिवीकायिक
 अपर्याप्तक, सूक्ष्म अष्कायिक अपर्याप्तक, सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्तक, सूक्ष्म
 वायुकायिक अपर्याप्तक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्तक अने सूक्ष्म निगोदाना
 अपर्याप्तक लोकोना कोषु कोनार्थी अल्प, धणा, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम, अधार्थी कोषा सूक्ष्म तेजस्कायिक
 अपर्याप्तक छे, कमके तेको असंख्यात लोकाकाश प्रदेशोना बराबर छे. तेमनी
 अपेक्षाको सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्तक विशेषाधिक छे तेमनी अपेक्षाको सूक्ष्म
 अष्कायिक अपर्याप्तक विशेषाधिक छे तेमनार्थी सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्तक विशेष-

सूक्ष्म पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि 'सुहुम आउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया' सूक्ष्माप्कायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्योऽपि—'सुहुम वाउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया' सूक्ष्मवायुकायिकाः अपर्याप्तका विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्योऽपि 'सुहुम निगोदा अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा' सूक्ष्म निगोदाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, सूक्ष्मनिगोदानाम् अपर्याप्तकानाम् सर्वलोकपन्नतया असंख्येयप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि 'सुहुम वणस्सइकाइया अपज्जत्तया अणंतगुणा' सूक्ष्म वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः अनन्तगुणा भवन्ति, प्रतिनिगोदमनन्तानां जीवानां सद्भावात् तेभ्योऽपि—'सुहुमा अपज्जत्तया विसेसाहिया' समुच्चयजीवाः सूक्ष्माः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्त सूक्ष्मपृथिवीकायिकादीनामपि तत्र समावेशात्, अथ समुच्चयजीवादीनामेव पर्याप्तकानामल्पबहुत्वं प्ररूपयति—'एएसि णं भंते ! सुहुम पज्जत्तगाणं' गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतेषामेव खलु सूक्ष्मपर्याप्तकानाम् 'सुहुम पुढविकाइयाणं पज्जत्तयाणं' सूक्ष्म पृथिवीकायिकानाम् पर्याप्तकानाम् 'सुहुम आउकाइयाणं पज्जत्तगाणं' सूक्ष्मा-

र्याप्तको से सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि सूक्ष्म निगोदिया जीव सम्पूर्ण लोक में व्याप्त होने के कारण असंख्यात प्रमाण वाले हैं। उनकी अपेक्षा सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त अनन्तगुणित हैं, क्योंकि एक-एक निगोद में अनन्त-अनन्त जीव होते हैं। उनकी अपेक्षा सूक्ष्म अपर्याप्तक समुच्चय जीव विशेषाधिक हैं, क्योंकि इनमें सूक्ष्म पृथ्वीकायिक आदि का भी समावेश हो जाता है।

अब सूक्ष्म पर्याप्तक जीवों का अल्पबहुत्व प्रतिपादित करते हैं—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन सूक्ष्म पर्याप्तक सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्तक, सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्तक, सूक्ष्म तेज-

षाधिक छे सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्तिकी सूक्ष्म निगोदना अपर्याप्तिक असंख्यात गण्ठा छे, केमके निगोदीयां एव संपूर्ण लोकमां व्याप्त होवाना कारणे असंख्यात प्रमाण वाणा छे. तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त अनन्त गण्ठा छे. केमके ओक ओक निगोदमां अनन्त-अनन्त एव होय छे तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म अपर्याप्तिक समुच्चय एव विशेषाधिक छे, केमके तेयोमा सूक्ष्म पृथ्वीकायिक आदिना पण समावेश थय नय छे.

इवे सूक्ष्म पर्याप्तिक एवोना अल्पबहुत्व प्रतिपादन करे छे—

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! आ सूक्ष्म पर्याप्तिक सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्तिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्तिक, सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्तिक,

स्कायिकानां पर्याप्तकानाम् 'सुहुम तेउकाइयाणं पज्जत्तगाणं' सूक्ष्म तेजःकायिकानां पर्याप्तानां 'सुहुम वाउकाइयाणं पज्जत्तगाणं' सूक्ष्मवायुकायिकानां पर्याप्तकानाम् 'सुहुम वणस्सइकाइयाणं पज्जत्तयाणं' सूक्ष्म वनस्पतिकायिकानां पर्याप्तकानाम् 'सुहुम निगोयाणं पज्जत्तगाणं य' सूक्ष्म निगोदानां पर्याप्तकानाञ्च मध्ये 'कयरे कयरेहिंती' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधका वा भवन्ति, भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'सच्चत्थोवा सुहुम तेउकाइया पज्जत्तगा' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः सूक्ष्मतेजःकायिकाः पर्याप्तकाः भवन्ति, तेषामसंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणत्वात्, तेभ्यः 'सुहुम पुढविकाइया पज्जत्तगा' विसेसाहिया' सूक्ष्म पृथ्वीकायिकाः पर्याप्तका विशेषाधिका भवन्ति, तेषाम् प्रभूतासंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि 'सुहुम आउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया' सूक्ष्मापकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति तेषां प्रभूततरासंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि 'सुहुम वाउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया' सूक्ष्म वायुकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, तेषां बहुलस्कायिक पर्याप्तक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्तक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्तक और सूक्ष्म निगोद पर्याप्तक जीवों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सब से कम सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्तक हैं, क्योंकि वे असंख्यात लोकाकाश-प्रदेशों के बराबर हैं । उनकी अपेक्षा सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्तक विशेषाधिक हैं, क्योंकि वे प्रभूत असंख्यात लोकाकाश प्रदेशों के बराबर हैं । उनकी अपेक्षा सूक्ष्म अपकाय के पर्याप्तक विशेषाधिक हैं, क्योंकि वे प्रभूततर असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों के बराबर हैं । उनकी अपेक्षा वायुकाय के पर्याप्त विशेषाधिक हैं, क्योंकि वे प्रभूततम असं-

सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्तक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्तक अने सूक्ष्म निगोद पर्याप्तक एवेमा कोणु केनाथी अट्प, धणु, तुत्थ अगार विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर दे छे—हे गौतम ! अधाथी ओछा सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्तक छे, केमके तेओ अस् अयात् लोकाकाश प्रदेशोना अराअर छे, तेमनी अपेक्षाओ सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्तक विशेषाधिक छे, केमके तेओ प्रभूत अस् अयात् लोकाकाश प्रदेशोना अराअर छे, तेमनी अपेक्षाओ सूक्ष्म वनस्पतिकायिकना पर्याप्तक विशेषाधिक छे, केमके तेओ प्रभूततर अस् अयात् लोकाकाशना प्रदेशोना अराअर छे, तेमनी अपेक्षाओ वायुकायना पर्याप्त विशेषाधिक

त्तमासंख्येयलोकाकाशप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि 'गृह्णुम निगोया पञ्ज-
त्तगा असंखेज्जगुणा' सूक्ष्म निगोदाः पर्याप्तका असंख्येयगुणा भवन्ति, तेषां
सर्वलोकापन्नतया प्रतिगोलकमसंख्येयप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि-गृह्णुम वणस्सइ-
काइया पञ्जत्तगा अणंतगुणा' सूक्ष्मवनस्पतिक्रायिकाः पर्याप्तकाः अनन्तगुणा
भवन्ति, प्रतिनिगोदमनन्तानां जीवाना सद्भावात्, तेभ्योऽपि 'गृह्णुम पञ्जत्तगा
विसेसाहिया' सूक्ष्म पर्याप्तका विशेषाधिकाः भवन्ति पृथिवीऽयिकादीनां सर्वेषां
तत् समावेशात्, अथैतेषामेव सूक्ष्मादीनां प्रत्येकं पर्याप्तापर्याप्तानामल्पवहुत्वमाह
- 'एएसि णं भंत ! सुहुमाणं पञ्जत्तापञ्जत्तगाणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु
सूक्ष्माणां पर्याप्तापर्याप्तानां मध्ये 'कयरे कयरेदित्तो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा,
बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा,
विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति- 'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्व-
त्थोवा सुहुम अपञ्जत्तगा' सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः, सूक्ष्माः अपर्याप्तकाः

ख्यात लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर हैं। उनकी अपेक्षा सूक्ष्मनिगोद के
पर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि वे समस्त लोक में व्याप्त हैं और
एक-एक गोलक में असंख्यात २ होते हैं। उनकी अपेक्षा सूक्ष्मवनस्प-
तिकाय के पर्याप्त अनन्तगुणा हैं, क्योंकि एक-एक निगोद में अनन्त-
अनन्त जीव होते हैं। इनकी अपेक्षा भी सूक्ष्म पर्याप्त विशेषाधिक हैं,
क्योंकि इनमें सूक्ष्म पृथिवीकायिक आदि पर्याप्त भी सम्मिलित हैं।

अब इन्हीं के पर्याप्त और अपर्याप्त का अल्पवहुत्व कहते हैं-हे
भगवन् ! इन सूक्ष्म जीवों के पर्याप्तक और अपर्याप्तक में से कौन
किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं

छे, केमके तेज्जे प्रलूनतम अस ज्ज्यात लोकाकाशना प्रदेशोनी षराणरं छे,
तेमनी अपेक्षाजे सूक्ष्म निगोदना पर्याप्तक अस ज्ज्यातगण्णा छे, केमके तेज्जे
समस्त लोकाभा व्याप्त छे अने जेक-जेक गोलकभा अस ज्ज्यात अस ज्ज्यात
थाय छे, तेमनी अपेक्षाजे सूक्ष्म वनस्पतिकायना पर्याप्तक अनन्तगण्णा छे,
केमके जेक-जेक निगोदभा अनन्त अनन्त एव थाय छे, जेमनी अपेक्षाजे
पणु सूक्ष्म पर्याप्तक विशेषाधिक छे, केमके तेज्जेभा सूक्ष्म पृथ्वीकायिक
आदि पर्याप्त पणु सम्मिलित छे

। - हुवे तेमना पर्याप्त अने अपर्याप्ततुं अल्प बहुत्व कडे छे-हे लगवन् !
आ सूक्ष्म एवेना पर्याप्तक अने अपर्याप्तकमाथी केषु केनाथी अल्प, धणु
तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

श्री लगवान् उत्तर आपे छे-हे गौतम ! षधाथी जेछा सूक्ष्म अप-
र्याप्तक छे अने सूक्ष्म पर्याप्तक तेमनाथी स ज्ज्यातगण्णा अधिक छे, अदि जे

भवन्ति तेभ्यः—‘सुहुम पञ्जत्तगा संखेज्जगुणा’ सूक्ष्मपर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, अत्रेदमत्रसेयम्—गदरेषु पर्याप्तापेक्षया अपर्याप्तका असंख्येयगुणा भवन्ति, एकैकपर्याप्तवादरनिश्रयाऽसंख्येयानामपर्याप्तवादराणामुत्पादात्, सूक्ष्मेषु तु नायं नियमो वर्तते अपर्याप्तापेक्षया पर्याप्तानां चिरकालावस्थायितया सर्वदैव तेषां बहु-नामुपलम्भात् इत्यभिप्रायेण सर्वस्तोकत्वं सूक्ष्माणामपर्याप्तकानां, तेभ्यः सूक्ष्माणाम् पर्याप्तकानां संख्येयगुणत्वञ्चोक्तम्, गौतमः पृच्छति—‘एएसि ण भंते ! सुहुम पुढविकाइयाणं पञ्जत्तापञ्जत्ताणं’ हे भदन्त ! एतेषां खलु सूक्ष्म पृथिवीकारि-कानां पर्याप्तापर्याप्तकानां मध्ये ‘कयरे कयरेहितो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषा-धिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सव्वत्थोवा सुहुम पुढविकाइया अपञ्जत्तया’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, सूक्ष्म पृथिवीका-रिकाः अपर्याप्तका भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्यः एव—‘सुहुम पुढविकाइया

—हे गौतम ! सब से कम सूक्ष्म अपर्याप्तक है और सूक्ष्म पर्याप्तक उनसे संख्यातगुणा अधिक हैं । यहां यह बात समझ लेनी चाहिए कि बादर जीवों में पर्याप्तों की अपेक्षा अपर्याप्त असंख्यातगुणा होते हैं । क्योंकि एक-एक पर्याप्त बादर के आश्रय से असंख्यात अपर्याप्त बादरों की उत्पत्ति होती है, मगर सूक्ष्म जीवों के विषय में ऐसा नियम नहीं है । अपर्याप्त जीवों की अपेक्षा पर्याप्त जीव चिरकाल तक रहते हैं, अतएव वे सर्वदा ही अधिक पाये जाते हैं । इस कारण सूक्ष्म अपर्याप्त जीव सब से कम कहे हैं और सूक्ष्म पर्याप्तक उनसे संख्यातगुणा बतलाए गए हैं ।

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करते हैं—सूक्ष्म पृथिवीकारि णों के पर्याप्तों और अपर्याप्तों में कौन किससे , बहुत; तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

વાત સમજી લેવી જોઈએ કે બાદર જીવોમાં પર્યાપ્તોની અપેક્ષાએ અપર્યાપ્ત અસંખ્યાત ગણા હોય છે, કેમકે એક-એક પર્યાપ્ત બાદરના આશ્રયથી અસંખ્યાત અપર્યાપ્ત બાદરોની ઉત્પત્તિ થાય છે, પરંતુ સૂક્ષ્મ જીવોના વિષયમાં એવો નિયમ નથી અપર્યાપ્ત જીવોની અપેક્ષાએ પર્યાપ્ત જીવ ચિરકાળ સુધી રહે છે, તેથી જ તેઓ સર્વદા અધિક જોવામાં આવે છે, એ કારણે સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્ત જીવ બધાથી ઓછા કહેલા છે, અને સૂક્ષ્મ પર્યાપ્તક તેઓથી સંખ્યાત ગણા બતાવેલા છે.

શ્રી ગૌતમ સ્વામી પ્રશ્ન કરે છે—સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકારિકોના પર્યાપ્તો અને અપર્યાપ્તોમાં કેણુ કોનાથી ઓછા, ઘણા, તુલ્ય અગર વિશેષાધિક છે ?

શ્રી ભગવાન્ ઉત્તર આપે છે—હૈ ગૌતમ ! સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકારિક અપર્યાપ્ત

पञ्चतया संखेज्जगुणा' सूक्ष्म पृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, गौतमः पृच्छति—'एएसि णं भंते ! सुहुम आउकाइयाणं पञ्चत्ता-पञ्चत्तगाणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु सूक्ष्माप्यायिकानां पर्याप्तापर्याप्तकानां मध्ये 'कयरे कयरेहितो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा विसेसाहिया वा' अल्पा वा, बहुक्ता वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्वत्थोवा सुहुमआउ-काइया अपज्जत्तगा' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः सूक्ष्माप्यायिकाः अपर्याप्तकाः भवन्ति, तेभ्योऽपि—'सुहुमा आउकाइया पञ्चत्तापञ्चत्ताणं' सूक्ष्मा अप्यायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, गौतमः पृच्छति—'एएसि णं भंते ! सुहुम तेउकाइयाणं पञ्चत्तापञ्चत्ताणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु सूक्ष्म तेजःकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तकानां मध्ये 'कयरे कयरेहितो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया ?' अल्पा वा, बहुक्ता वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्व-त्थोवा सुहुम तेउकाइया अपज्जत्तया' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः सूक्ष्म तेजः-

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्त सबसे कम हैं, सूक्ष्मपृथिवीकायिक पर्याप्त उनकी अपेक्षा संख्यातगुणा हैं श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! सूक्ष्म अप्कार्यों के पर्याप्तों और अपर्याप्तों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—अपर्याप्त सूक्ष्मअप्यायिक सबसे कम हैं, पर्याप्त सूक्ष्म अप्यायिक उनकी अपेक्षा संख्यातगुणा अधिक हैं ।

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! सूक्ष्म तेजस्काय के

अध्यायी ओछा छे, सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्त तेमनी अपेक्षाये स भ्यातगण्ठा छे.

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! सूक्ष्म अणुकायिकाना पर्याप्तो अने अपर्याप्तोमा केणु केनाथी अल्प, धण्ठा, तुल्य अगरतो विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्त अध्यायी ओछा छे, सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्त तेमनी अपेक्षाये स भ्यात गण्ठा छे.

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! सूक्ष्म तेजस्कायिकाना पर्याप्तो अने अपर्याप्तोमा केणु केनाथी अल्प, धण्ठा, तुल्य अने विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—अपर्याप्त सूक्ष्म अणुकायिक अध्यायी ओछा छे, पर्याप्त सूक्ष्म अणुकायिक तेमनी अपेक्षाये स भ्यातगण्ठा अधिक छे.

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! सूक्ष्म तेजस्कायिकाना पर्याप्तो अने अपर्याप्तोमा केणु केनाथी अधिक, अल्प तुल्य अगरतो विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! अपर्याप्त सूक्ष्म तेजस्कायिक

कायिकाः अपर्याप्तकाः भवन्ति, तदपेक्षया 'सुहुम तेउकाइया पज्जत्ता संखेज्जगुणा' सूक्ष्म तेजःकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्ता, गौतमः पृच्छति—'एएसि णं भंते ! सुहुम वाउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्तगाणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु सूक्ष्म वायुकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तानां मध्ये 'कयरे कयरेहिंतो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा ! सन्नत्थोवा सुहुम वाउकाइया अपज्जत्तगा' हे गौतम ! सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः सूक्ष्मवायुकायिकाः अपर्याप्तकाः भवन्ति, तेभ्यः 'वाउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा' वायुकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, गौतमः पृच्छति—'एएसि णं भंते ! सुहुम वणस्सइकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्तगाणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु सूक्ष्म वनस्पतिकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तानां मध्ये 'कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा' कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'सन्नत्थोवा सुहुम वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, सूक्ष्म वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः

पर्याप्तों और अपर्याप्तों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! अपर्याप्त सूक्ष्मतेजस्कायिक सबसे हैं, पर्याप्त सूक्ष्म तेजस्कायिक उनसे असंख्यातगुणा अधिक हैं

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! सूक्ष्म वायुकायिकों के पर्याप्तों और अपर्याप्तों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—सूक्ष्म वायुकायिक के अपर्याप्त सब से कम हैं, पर्याप्त उनसे संख्यातगुणा अधिक हैं ।

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! सूक्ष्म वनस्पतिकायिकों और अपर्याप्तकों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सूक्ष्म वनस्पति-

अथाथी ओछा छे, पर्याप्त सूक्ष्म तेजस्कायिक तेमनाथी स भ्यातगण्ठा अधिक छे.

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! सूक्ष्म वायुकायिकाना पर्याप्तो अने अपर्याप्तोमा कोण कोनाथी अल्प, धण्ठा, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आये छे—सूक्ष्म वायुकायिकाना अपर्याप्तों अथाथी ओछा छे, पर्याप्त तेमनाथी स भ्यातगण्ठा अधिक छे

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्तको अने अपर्याप्तकोमा कोण कोनाथी अल्प धण्ठा, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

भवन्ति, तेभ्यः 'सुहुम वणस्सइकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा' सूक्ष्म वनस्पति-
कायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, गौतमः पृच्छति—
'एएसि णं भंते ! सुहुम निगोयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु
सूक्ष्म निगोदानां पर्याप्तापर्याप्तानां मध्ये 'कयरे कयरेहितो' कतरे कतरेभ्यः
'अप्पा वा, वहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा,
तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम !
'सव्वत्थोवा सुहुम निगोया अपज्जत्ता' सर्वस्तोकाः सूक्ष्मनिगोदाः अपर्याप्तका
भवन्ति, तेभ्यः 'सुहुम निगोया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा' सूक्ष्म निगोदाः
पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः, अथ सर्वेषां समुदितानां पर्याप्ता-
पर्याप्त मल्पबहुत्वं गौतमः पृच्छति—'एएसि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुम पुढ-
विकाइयाणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु सूक्ष्माणाम्, सूक्ष्म पृथिवीकायिकानाम्
'सुहुम आउकाइयाणं' सूक्ष्माप्कायिकानाम् 'सुहुम तेउकाइयाणं' सूक्ष्म तेजः-
कायिकानाम् 'सुहुम वाउकाइयाणं' सूक्ष्म वायुकायिकानाम् 'सुहुम वणस्सइ-
काइयाणं' सूक्ष्म वनस्पतिकायिकानाम् 'सुहुम निगोदाण य पज्जत्तापज्जत्ताणं'
सूक्ष्म निगोदानाञ्च पर्याप्तापर्याप्तानां मध्ये 'कयरे कयरेहितो' कतरे कतरेभ्यः

कायिक अपर्याप्त सबसे — हैं और सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त
उनसे संख्यातगुणा अधिक हैं ।

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! सूक्ष्म निगोद के पर्या-
प्तको और अपर्याप्तको में कौन किस से अल्प, बहुत, तुल्य अथवा
विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सब से
सूक्ष्मनिगोद के अपर्याप्तक हैं, सूक्ष्म निगोद के पर्याप्तक उनसे
संख्यातगुणा अधिक हैं ।

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन सूक्ष्म, सूक्ष्मपृथिवी-
कायिक, सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्मतेजस्कायिक, सूक्ष्मवायुकायिक सूक्ष्म

श्री भगवान् उत्तर आये छे—हे गौतम ! सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त
पधाथी ओछा छे अने सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्तक तेओथी स भ्यातगण्ण
अधिक छे

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! सूक्ष्म निगोदना पर्याप्तक
अने अपर्याप्तकओमा केण्ण डेनाथी अल्प, धण्ण, तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आये छे—हे गौतम ! पधाथी ओछा निगोदना
अपर्याप्तक छे, सूक्ष्म निगोदना पर्याप्तक तेमनाथी स भ्यातगण्ण अधिक छे.

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! आ सूक्ष्म सूक्ष्म पृथ्वी-
कायिक, सूक्ष्म ज्वालाधिक, सूक्ष्म तेजस्कायिक, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वन-

'अप्या वा, बहुया वा, तुल्ला वा' विसेसाहिया वा' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? 'भगवान् उत्तरयति—'गौतम ! 'सर्व-
 त्थोवा' सुहुम तेउकाइया अपज्जत्तगा' 'सर्वरंतोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः सूक्ष्मतेज-
 कायिकाः अपर्याप्तकाः भवन्ति, तेभ्योऽपि 'सुहुम' पुढविकाइया' अपज्जत्तगा
 विसेसाहिया' 'सूक्ष्म पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्यो-
 ऽपि 'सुहुम' आउकाइया' अपज्जत्तगा' 'विसेसाहिया' 'सूक्ष्मापकायिकाः', अपर्या-
 प्तका विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्योऽपि 'सुहुम' वाउकाइया' अपज्जत्तगा' 'विसे-
 साहिया' सूक्ष्म वायुकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः किञ्चिदधिका भवन्ति,
 तेभ्योऽपि 'सुहुम' तेउकाइया' अपज्जत्तगा' 'संखेज्जगुणा' 'सूक्ष्म तेजःकायिकाः
 अपर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'सुहुम' 'पुढविकाइया' 'पज्जत्तगा
 विसेसाहिया' सूक्ष्म पृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्यो-
 ऽपि 'सुहुम' आउकाइया' पज्जत्तगा' 'विसेसाहिया' 'सूक्ष्मापकायिकाः' पर्याप्तका
 विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्यः 'सुहुम' वाउकाइया' पज्जत्तगा' 'विसेसाहिया' 'सूक्ष्म
 वायुकायिकाः पर्याप्तका विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्योऽपि 'सुहुम' निगोदा अप-

खनस्पतिकायिक औरः सूक्ष्म निगोद के पर्याप्तको औरः अपर्याप्तको
 में कौन किस से अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान्
 उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सब से कम तेजस्कायिक अपर्याप्त हैं,
 उन की अपेक्षा सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं; उनकी
 अपेक्षा सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म
 वायुका अपर्याप्त विशेषाधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म तेजस्का-
 यिक पर्याप्त संख्यातगुणा अधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म पृथिवीकायिक
 पर्याप्त विशेषाधिक हैं, उनसे सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं,
 उनसे सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म

स्पतिकायिक अने सूक्ष्म निगोदना पर्याप्तको अने अपर्याप्तकोमां के
 केनाथी अल्प, धणा, तुल्य अने विशेषाधिक छे ?

॥ श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! जथाथी ज्येष्ठा तेजस्कायिक
 अपर्याप्त छे, तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे,
 तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म जलकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे, तेमनी अपे-
 क्षाये सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे, तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म
 तेजस्कायिक पर्याप्त सख्यातगुणा अधिक छे, तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म पृथ्वी-
 कायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे, तेमनाथी सूक्ष्म अग्निकायिक पर्याप्त विशेषा-
 धिक छे, तेमनाथी सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे, तेमनी अपेक्षाये
 सूक्ष्म निगोदना अपर्याप्तके सख्यातगुणा अधिक छे, तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म

उज्जत्तगा असंखेज्जगुणा' सूक्ष्मनिगोदा अपर्याप्तका असंखेयगुणा भवन्ति, तेभ्यो-
 ऽपि 'सुहुम निगोदा पज्जत्तगा संखेज्जगुणा' सूक्ष्म निगोदाः पर्याप्तकाः संखे-
 यगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'सुहुम वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा अणंतगुणा'
 सूक्ष्मा वनस्पतिकायिका अपर्याप्तका अनन्तगुणा भवन्ति, प्रतिनिगोदमनन्तानां
 वनस्पतिकायिकानां सद्भावात् तेभ्योऽपि 'सुहुम अपज्जत्तगा विसेसाहिया'
 सूक्ष्मा अपर्याप्तका विशेषाधिका भवन्ति सूक्ष्म पृथिवीकायिकादीनामपि तत्र
 निवेशात् तेभ्योऽपि 'सुहुम वणस्सइकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा' सूक्ष्म वन-
 स्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः संखेयगुणा भवन्ति, सूक्ष्मेषु अपर्याप्तैभ्यः पर्याप्तकानां
 संखेयगुणत्वात्, तेभ्यः 'सुहुम पज्जत्तगा विसेसाहिया' सूक्ष्म पर्याप्तकां विशे-
 षाधिका भवन्ति सूक्ष्म पृथिवीकायिकादीनामपि तत्र समावेशात्, तेभ्यः
 'सुहुमा विसेसाहिया' सूक्ष्माः विशेषाधिका भवन्ति, अपर्याप्तानामपि तत्र
 समावेशात् इत्याशयः ॥ सू० ६ ॥

निगोद के अपर्याप्तक असंख्यगुणा अधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म
 निगोद के पर्याप्तक संख्यातगुणा अधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म
 वनस्पतिकाय के अपर्याप्त अनन्तगुणा अधिक हैं, क्योंकि प्रत्येक
 निगोद में अनन्त वनस्पतिकायिक होते हैं। उनकी अपेक्षा भी सूक्ष्म
 अपर्याप्त जीव विशेषाधिक हैं, क्योंकि उनमें सूक्ष्म पृथ्वीकायिक
 आदि भी सम्मिलित हैं। उनकी अपेक्षा भी सूक्ष्म वनस्पतिकाय के
 पर्याप्तक संख्यातगुणा हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीवों में अपर्याप्तकों से
 पर्याप्तक संख्यातगुणा अधिक होते हैं। उनकी अपेक्षा भी सूक्ष्म
 पर्याप्तक समुच्चय जीव विशेषाधिक हैं, क्योंकि उनमें सूक्ष्म पृथ्वी-
 कायिक आदि का भी समावेश है और सूक्ष्म जीव उनसे भी कुछ
 अधिक हैं, क्योंकि उनमें अपर्याप्तकों का भी समावेश है ॥५॥

निगोदानी पर्याप्तक संख्यातगुणा अधिक छे, तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म वन-
 स्पतिकायिनी अपर्याप्त अनन्तगुणा अधिक छे, केमके प्रत्येक निगोदमा अनन्त
 वनस्पतिकायिक छाय छे, तेमनी अपेक्षाये पणु सूक्ष्म अपर्याप्तक एव
 विशेषाधिक छे, केमके तेमोमां सूक्ष्म पृथ्वीकायिक आदि पणु सम्मिलित छे,
 तेमनी अपेक्षाये पणु सूक्ष्म वनस्पतिकाय पर्याप्तक संख्यातगुणा छे, केमके
 सूक्ष्म एवोमा अपर्याप्तकेथी पर्याप्तक संख्यातगुणा अधिक छाय छे तेमनी
 अपेक्षाये पणु सूक्ष्म पर्याप्तक समुच्चय एव विशेषाधिक छे, केमके तेमोमां
 सूक्ष्म पृथ्वीकायिक आदिना पणु समावेश छे अने सूक्ष्म एव तेमनाथी कथक
 अधिक छे, केमके तेमोमां अपर्याप्तकेथी पणु समावेश छे ॥ सू० ६ ॥

'अप्या' वा, 'बहुया वा,' तुल्या वा 'विसेसाहिया वा' अल्पा वा, 'बहुका वा,' तुल्या वा, 'विशेषाधिका वा' भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गौयमा' हे गौतम ! 'संख ल्योवा' सुहुम तेउकाइया 'अपज्जत्तगा' 'सर्वरंतोकाः' 'सर्वेभ्योऽपि' 'सूक्ष्मेतेजः कायिकाः अपर्याप्तकाः भवन्ति,' 'तेभ्योऽपि' 'सुहुम' पुढेविकाइया 'अपज्जत्तगा' 'विसेसाहिया' 'सूक्ष्म पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका' भवन्ति, 'तेभ्योऽपि' 'सुहुम' आउकाइया 'अपज्जत्तगा' 'विसेसाहिया' 'सूक्ष्माकायिकाः' 'अपर्याप्तका' विशेषाधिका भवन्ति, 'तेभ्योऽपि' 'सुहुम' वाउकाइया 'अपज्जत्तगा' 'विसेसाहिया' 'सूक्ष्म वायुकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः' 'किञ्चिदधिका' भवन्ति, 'तेभ्योऽपि' 'सुहुम' तेउकाइया 'अपज्जत्तगा' 'संखेज्जगुणा' 'सूक्ष्मे तेजःकायिकाः अपर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति,' 'तेभ्योऽपि' 'सुहुम' पुढेविकाइया 'अपज्जत्तगा' 'विसेसाहिया' 'सूक्ष्म पृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, 'तेभ्योऽपि' 'सुहुम' आउकाइया 'अपज्जत्तगा' 'विसेसाहिया' 'सूक्ष्माकायिकाः' 'पर्याप्तका' विशेषाधिका भवन्ति, 'तेभ्यः' 'सुहुम' वाउकाइया 'अपज्जत्तगा' 'विसेसाहिया' 'सूक्ष्म वायुकायिकाः पर्याप्तका' विशेषाधिका भवन्ति, 'तेभ्योऽपि' 'सुहुम' निगोदा 'अपखनस्पतिकायिक' और 'सूक्ष्म निगोद के पर्याप्तको' और 'अपर्याप्तको' में कौन किस से अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सब से क्रम तेजस्कायिक, अपर्याप्त हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं; उनकी अपेक्षा सूक्ष्म अकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त संख्यातगुणा अधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं, उनसे सूक्ष्म अकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं, उनसे सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म

'स्पतिकायिक' અને 'સૂક્ષ્મ નિગોદના પર્યાપ્તકો' અને 'અપર્યાપ્તકોમાં' 'કોણ' 'કોનાથી' અल्प, ઘણા, તુલ્ય અને વિશેષાધિક છે ?

॥ श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! अधाथी आछा तेजस्कायिक अपर्याप्त छे, तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे, तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म अकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे, तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे, तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त संख्यातगुणा अधिक छे, तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे, तेमनाथी सूक्ष्म अकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे, तेमनाथी सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे, तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म निगोदना अपर्याप्त संख्यातगुणा अधिक छे, तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म

ज्जत्तगा असंखेज्जगुणा' सूक्ष्मनिगोदा अपर्याप्तका असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'सुहुम निगोदा पज्जत्तगा संखेज्जगुणा' सूक्ष्म निगोदाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'सुहुम वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा अणंतगुणा' सूक्ष्मा वनस्पतिकायिका अपर्याप्तका अनन्तगुणा भवन्ति, प्रतिनिगोदमनन्तानां वनस्पतिकायिकानां सद्भावात् तेभ्योऽपि 'सुहुम अपज्जत्तगा विसेसाहिया' सूक्ष्मा अपर्याप्तका विशेषाधिका भवन्ति सूक्ष्म पृथिवीकायिकादीनामपि तत्र निवेशात् तेभ्योऽपि 'सुहुम वणस्सइकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा' सूक्ष्म वनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, सूक्ष्मेषु अपर्याप्तेभ्यः पर्याप्तकानां संख्येयगुणत्वात्, तेभ्यः 'सुहुम पज्जत्तगा विसेसाहिया' सूक्ष्म पर्याप्तका विशेषाधिका भवन्ति सूक्ष्म, पृथिवीकायिकादीनामपि तत्र समावेशात्, तेभ्यः 'सुहुमा विसेसाहिया' सूक्ष्माः विशेषाधिका भवन्ति, अपर्याप्तानामपि तत्र समावेशात् इत्याशयः ॥ सू० ६ ॥

निगोद के अपर्याप्तक असंख्यगुणा अधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म निगोद के पर्याप्तक संख्यातगुणा अधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म वनस्पतिकाय के अपर्याप्त अनन्तगुणा अधिक हैं, क्योंकि प्रत्येक निगोद में अनन्त वनस्पतिकायिक होते हैं। उनकी अपेक्षा भी सूक्ष्म अपर्याप्तक जीव विशेषाधिक हैं, क्योंकि उनमें सूक्ष्म पृथ्वीकायिक आदि भी सम्मिलित हैं। उनकी अपेक्षा भी सूक्ष्म वनस्पतिकाय के पर्याप्तक संख्यातगुणा हैं, क्योंकि 'सूक्ष्म जीवों में अपर्याप्तकों से पर्याप्तक संख्यातगुणा अधिक होते हैं। उनकी अपेक्षा भी सूक्ष्म पर्याप्तक समुच्चय जीव विशेषाधिक हैं, क्योंकि उनमें सूक्ष्म पृथ्वीकायिक आदि का भी समावेश है और सूक्ष्म जीव उनसे भी कुछ अधिक हैं, क्योंकि उनमें अपर्याप्तकों का भी समावेश है ॥५॥

'निगोदना पर्याप्तक' स भ्यातगण्णा अधिक छे, 'तेमनी अपेक्षाञ्चि' सूक्ष्म वनस्पतिकायिना अपर्याप्तक अनन्तगण्णा अधिक छे, केमके प्रत्येक निगोदमां अनन्त वनस्पतिकायिक डाय छे, तेमनी अपेक्षाञ्चि पणु सूक्ष्म अपर्याप्तक, एवं विशेषाधिक छे, केमके तेज्जोमां सूक्ष्म पृथ्वीकायिक आदि पणु सम्मिलित छे, तेमनी अपेक्षाञ्चि पणु सूक्ष्म वनस्पतिकाय पर्याप्तक, स भ्यातगण्णा छे, केमके सूक्ष्म, एतेमां अपर्याप्तकित्थी पर्याप्तक, स भ्यातगण्णा अधिक डाय छे, तेमनी अपेक्षाञ्चि पणु सूक्ष्म पर्याप्तक समुच्चय एवं विशेषाधिक छे, केमके तेज्जोमां सूक्ष्म पृथ्वीकायिक आदिना पणु समावेश छे, एवं सूक्ष्म एवं तेमनाथी क' ध' क' अधिक छे, केमके तेज्जोमां अपर्याप्तकित्थी पणु समावेश छे ॥ सू० ६ ॥

वादराल्पबहुत्ववक्तव्यता-

मूलम्-एएसि णं भंते ! बादराणं बादरपुढविकाइयाणं बादर
 आउकाइयाणं, बादरतेउकाइयाणं, बादरवाउकाइयाणं, बादर-
 वणस्सइकाइयाणं, पत्तेयसरीरबादरवणस्सइकाइयाणं, बादर-
 निगोदाणं, बादरतसकाइयाणं, कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया
 वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा बादरतस-
 काइया, बादरतेउकाइया असंखेज्जगुणा, पत्तेयसरीरबादरवण-
 स्सइकाइया असंखेज्जगुणा, बादरनिगोदा असंखेज्जगुणा, बादरा-
 पुढविकाइया असंखेज्जगुणा, बादरा आउकाइया असंखेज्जगुणा,
 दरा वाउकाइया असंखेज्जगुणा, बादरा वणस्सइकाइया
 अणंतगुणा, बादरा विसेसाहिया, एएसि णं भंते ! बादरपुढवि-
 काइय अपज्जत्तगाणं वादरआउकाइय अपज्जत्तगाणं वादर-
 तेउकाइय अपज्जत्तगाणं, बादरवाउकाइय अपज्जत्तगाणं य
 सरीर बादरवणस्सइअपज्जत्तगाणं बादरनिगोद अपज्जत्तगाणं
 वादरत इय अपज्जत्तगाणं य कयरे कयरेहिंतो अप्पा ,
 बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोय ! सब्वत्थो
 दरतसकाइया अपज्जत्तगा, दर तेउकाइया अपज्जत्त
 असंखेज्जगुणा, पत्तेयसरीर बादरवणस्सइकाइया अपज्जत्तगा
 बादरनिगोदा अपज्जत्तगा असंखेगुणा, बादरपुढविकाइया
 अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, बायर उकाइया अपज्जत्तगा
 असंखेज्जगुणा, बायरवाउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्ज-
 गुणा, दरवणस्सइकाइया अपज्जत्तगा अणंतगु , वा -
 पज्जत्तगा विसेसाहिया, एएसि णं भंते ! बायरपज्जत्तयाणं
 बायरपुढविकाइयाणं पज्जत्तयाणं बायरआउकाइयाणं पज्जत्तयाणं
 बायरतेउकाइयाणं पज्जत्तयाणं बायरवाउकाइयाणं पज्जत्तयाणं

पत्तेय रीर वायरवणस्सइकाइयाणं पज्जत्तयाणं वायरनिगोद
 पज्जत्तयाणं वायरत्तसकाइय पज्जत्तगाण य कयरे कयरेहितो
 प्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा !
 सब्वत्थोवा वायरत्तेउकाइया पज्जत्तया, वायरत्तसकाइया पज्ज-
 त्तया असंखेज्जगुणा, पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया
 असंखेज्जगुणा, वायरनिगोदा पज्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायर-
 पुढवीकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायरआउकाइया पज्ज-
 त्तया असंखेज्जगुणा, वायरवाउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा,
 वायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया अणंतगुणा, वायरपज्जत्तया विसे-
 साहिया, एएसि णं भंते ! वायराणं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरे-
 हितो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?
 गोयमा ! सब्वत्थोवा वायरपज्जत्तया वायरअपज्जत्तया असंखे-
 ज्जगुणा, एएसि णं भंते ! वायरपुढविकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं
 कयरे कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया
 वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा वायरपुढविकाइया पज्जत्तया, वायर
 पुढविकाइया अपज्जत्तया, असंखेज्जगुणा, एएसि णं भंते !
 यरआउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहितो अप्पा वा,
 बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया ? गोयमा ! सब्वत्थोवा वायर-
 आउकाइया पज्जत्तया, वायरआउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्ज-
 गुणा, एएसि णं भंते ! वायरत्तेउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं
 कयरे कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया
 वा ? गोयमा ! सब्वत्थो , वायरत्तेउकाइया पज्जत्तया अपज्ज-
 त्तया, असंखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! वायर उ इयाणं पज्ज-
 त्तापज्जत्तगाणं कयरे कयरेहितो अप्पा , बहुया ,
 विसेसाहिया वा ? गो ! ! सब्वत्थोवा, वायरत्तेउकाइया

पज्जत्तया, अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा, एएसि णं भंते । बायर-
वाउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहितो अप्पा वा,
बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा
बायरवाउकाइया पज्जत्तया बायरवाउकाइया अपज्जत्तया,
असंखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! बायरवणस्सइकाइयाणं पज्ज-
त्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा,
विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा बायरवणस्सइकाइया
पज्जत्तया बायरवणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा,
एएसि णं भंते ! पत्तेयसरीर बायरवणस्सइकाइयाणं पज्जत्ता-
पज्जत्ताणं कयरे कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला
वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा पत्तेयसरीर
बायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया, पत्तेयसरीर बायरवणस्सइ-
काइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा, एएसि णं भंते !
बायरनिगोदाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहितो अप्पा
वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा !
सब्बत्थोवा बायरनिगोदा पज्जत्तया, बायरनिगोया अत्तया
असंखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! बायरतसकाइयाणं पज्जत्ता-
पज्जत्ताणं कयरे कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा,
विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा बायरतसकाइया पज्जत्ता-
त्तापज्जत्ताणं कयरे कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा,
विसेसाहिया वा ? गोयमा ! असंखेज्जगुणा, एएसि णं भंते !
बायरिणं बायरपुढवि इयाणं बायरआउ इयाणं बायरतेउ-
काइयाणं बायरवाउकाइयाणं कयरे कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा,
तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा बायर-
वाउकाइया पज्जत्तया, बायरतसकाइया पज्जत्तया असंखेज्ज-

गुणां, वायरतसकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, पत्तेयसरीर
 वायरवणस्सइकाइया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायरनिगोया
 पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायरपुढवीकाइया पञ्जत्तया असंखे-
 ज्जगुणा, वायरआउकाइया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायर-
 वाउकाइया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायरतेउकाइया अपञ्ज-
 त्तया असंखेज्जगुणा पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइया अपञ्ज-
 त्तया असंखेज्जगुणा वायरनिगोया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा,
 वायरपुढवीकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायरआउ-
 काइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायरवाउकाइया अपञ्ज-
 त्तया असंखेज्जगुणा, वायरवणस्सइकाइया पञ्जत्तया अणंत-
 गुणां, वायरवणस्सइकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायर-
 अपञ्जत्तया विसेसाहिया, वायरा विसेसाहिया ॥सू. ७।

छाया-एतेषां खलु भदन्त ! वादराणां वादरपृथिवीकायिकानां वादरा-
 ष्कायिकानां वादरतेजःकायिकानां वादरवायुकायिकानाम् वादरवनस्पतिकायि-
 कानां प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकानां वादरनिगोदानां वादरत्रसकायि-

वादर जीवों का अल्पबहुत्व

शब्दार्थ-(एएसि णं भंते !), हे भगवन् ! इन (वादराणं) वादर
 जीवों (वादरपुढविकाइयाणं) वादर पृथिवीकायिकों (वादरआउकाइ-
 याणं) वादर अप्कायिकों (वादरतेउकाइयाणं) वादर तेजस्कायिकों
 (वादरवाउकाइयाणं) वादर वायुकायिकों (वादरवणस्सइकाइयाणं)
 वादर वनस्पतिकायिकों (पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइयाणं) प्रत्येक
 शरीर वादरवनस्पतिकायिकों (वायरनिगोदाणं) वादर निगोदों (वादर-

आहर एवेतु अल्पबहुत्व ॥

शब्दार्थ-(एएसिणं भंते !) भगवान् ! आ (वादराणं) आहर एवेतु (वादर-
 पुढविकाइयाणं) आहर, पृथ्वीकायिके। (वादर आउकाइयाणं) आहर ॥ ७ ॥ कायिके।
 (वादरतेउकाइयाणं) आहर तेजस्कायिके। (वादरवाउकाइयाणं) आहरवायुकायिके। (वादर-
 वणस्सइकाइयाणं) आहरवनस्पतिकायिके। (पत्तेयसरीर वादरवणस्सइकाइयाणं) प्रत्येक
 शरीर आहरवनस्पतिकायिके। (वादर निगोदाणं) आहर निगोदो। (वादरतसकाइयाणं)
 आहरत्रसकायिके। (कयरे कयरेहितो) के। ७ के। नार्थी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा

कानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः वादरत्रसकायिकाः वादरतेजःकायिकाः ख्येयगुणाः प्रत्येक-शरीरवादरवनस्पतिकायिका असंख्येयगुणा वादरनिगोदाः असंख्येयगुणाः, वादराः पृथिवीकायिकाः असंख्येयगुणाः, वादराः अप्कायिकाः असंख्येयगुणाः, वादराः वायुकायिकाः असंख्येयगुणाः, वादरा वनस्पतिकायिकाः अनन्तगुणाः, वादरा विशेषाधिकाः, एतेषां खलु भदन्त ! वादरपृथिवीकायिकापर्याप्तकानां

तसकाह्याणं) वादर त्रसकायिकों में (कयरे = रेहितो) कौन किससे (अप्या वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (सन्वत्थोवा वादरतसकाह्या) सब से कम वादर त्रसकायिक हैं (वादरतेजकाह्या असंखेज्जगुणा) वादर तेजस्कायिक असंख्यातगुणा हैं (पत्तेयसरीर वादरवणस्सइकाह्या) प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक (असंखेज्जगुणा) असंख्यातगुणा हैं (वादरनिगोदा असंखेज्जगुणा) वादर निगोद असंख्यातगुणा हैं (वादरपुढविकाह्या असंखेज्जगुणा) वादर पृथिवीकायिक असंख्यातगुणा हैं (वादरा आउकाह्या असंखेज्जगुणा) वादर अप्कायि असंख्यातगुणा हैं (वादरा वाउकाह्या असंखेज्जगुणा) वादर वायुकायिक असंख्यात गुणा हैं (वादरा वणस्सइकाह्या अणंतगुणा) वादर वनस्पतिकायिक अनन्तगुणा हैं (वादरा विसेसाहिया) वादर जीव विशेषाधिक हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (वादरपुढविकाह्य अपज्जत्त-

विसेसाहिया वा) अल्प धया तुल्य अगर विशेषाधिक छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! सन्वत्थोवा वादरतसकाह्या) अधाथी ज्येथा वादर त्रसकायिक छे (वादर तेजकाह्या असंखेज्जगुण) वादर तेजस्कायिक असंख्यात गुण छे (पत्तेयसरीरवादर वणस्सइकाह्या) प्रत्येकशरीर, वादर वनस्पतिकायिक (असंखेज्जगुणा) असंख्यात गण छे (वादरनिगोदा असंखेज्जगुणा) वादर निगोद असंख्यातगण छे (वादर पुढविकाह्या असंखेज्जगुणा) वादर पृथिवकायिक असंख्यात गुण (वादर आउकाह्या असंखेज्जगुणा) वादर वायुकायिक असंख्यातगुण छे (वादरा वाउकाह्या असंखेज्जगुणा) वादर वायुकायिक असंख्यातगुण छे (वादरा वणस्सइकाह्या अणंतगुणा) वादर वनस्पतिकायिक अनन्त गुण छे (वादरा विसेसाहिया) वादर एव विशेषाधिक छे

(एएसि णं भंते !) भगवन् ! आ (वादरपुढविकाह्य अपज्जत्तगण) वादर

वादराष्कायिकापर्याप्तकानां वादरतेजःकायिकापर्याप्तकानां वादरवायुकायिका-
पर्याप्तकानां वादरवनस्पतिकायिकापर्याप्तकानां प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिका-
पर्याप्तकानां वादरनिगोदापर्याप्तकानां वादरत्रसकायिकापर्याप्तकानां च कतरे
कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा गौतम !
सर्वस्तोकाः वादरत्रसकायिकाः अपर्याप्तकाः, वादरतेजःकायिका अपर्याप्तकाः
असंख्येयगुणाः, प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिका अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः

गाणं) वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्तको (वादरआउकाइय अपज्जत्त-
गाणं) वादर अष्कायिक अपर्याप्तको (वादरतेउकाइय अपज्जत्तगाणं)
वादर तेजस्कायिक अपर्याप्तो (वादरवाउकाइय अपज्जत्तगाणं) वादर
वायुकायिक अपर्याप्तो (वादरवणस्सइकाइय अपज्जत्तगाणं) वादर
वनस्पतिकायिक अपर्याप्तो (पत्तेयसरीर वादरवणस्सइकाइय अपज्ज-
त्तगाणं) प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्तको (वादर-
निगोद अपज्जत्तगाणं) वादर निगोद अपर्याप्तको (वादरतसकाइय
अपज्जत्तगाण य) और वादर त्रसकायिक अपर्याप्तको में (कयरे कयरे-
हितो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?)
अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सञ्चत्योवा वादरतसकाइया अपज्जत्तया)
वादर त्रसकायिक अपर्याप्त सब से कम हैं (वादरतेउकाइया अपज्ज-
त्तगा असंखेज्जगुणा) वादर तेजस्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं
(पत्तेयसरीर वादर वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) प्रत्येक

पृथ्वीकायिक अपर्याप्तके (वादर आउकाइय अपज्जत्तगाण) आदर ञणकायिक
अपर्याप्तके (वादरतेउकाइय अपज्जत्तगाण) आदर तेजस्कायिक अपर्याप्तके (वादर
वाउकाइय अपज्जत्तगाण) आदर वायुकायिक अपर्याप्तके (वादरवणस्सइकाइय अप-
ज्जत्तगाणं) आदर वनस्पतिकायिक अपर्याप्तके (पत्तेयसरीर वादरवणस्सइकाइय
अपज्जत्तगाण) प्रत्येक शरीर आदर वनस्पतिकायिक अपर्याप्तके (वादर निगोद अप-
ज्जत्तगाणं) आदर निगोद अपर्याप्तके (वादर तसकाइय अपज्जत्तगाणं य) अने
आदर त्रसकायिक अपर्याप्तकेमा (कयरे कयरेहितो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया
वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धणु, तुल्य अगर तो विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सञ्चत्योवा वादर तसकाइया अपज्जत्तया) आदर
त्रसकायिक अपर्याप्त अधाथी अधा छे (वादर तेउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्ज-
गुणा) आदर तेजस्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगणु छे (पत्तेयसरीरवादर
वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) प्रत्येक शरीर आदर वनस्पतिकायिक

वाद्रनिगोदाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, वाद्रपृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, वाद्राष्कायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, वाद्रवायुकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, वाद्रवनरपत्तिकायिकाः अपर्याप्तकाः अनन्तगुणाः, वाद्रापर्याप्तका विशेषाधिकाः एतेषां रूढ भदःत ! वाद्रपर्याप्तकानां वाद्रपृथिवीकायिकानां पर्याप्तकानां वाद्राष्कायिकानां पर्याप्तकानां वाद्रतेजःकायिकानां पर्याप्तकानां वाद्रवायुकायिकानां पर्याप्तकानां प्रत्येकशरीर

शरीर वाद्र वनरपत्तिकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (वाद्रनिगोदा अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) वाद्र निगोद के अपर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं (वाद्रपुढविकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) वाद्र पृथिवीकाय के अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (वाद्रआउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) वाद्र अष्काय के अपर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं (वाद्रवाउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) वाद्र वायुकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा है (वाद्रवणस्सइकाइया अपज्जत्तगा अणंतगुणा) वाद्र वनरपत्तिकाय के अपर्याप्त अनन्तगुणा हैं (वाद्रअपज्जत्तगा विसेसाहिया) वाद्र अपर्याप्त विशेषाधिक हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (वायरपज्जत्तयाणं) वाद्र पर्याप्तक जीवों (वाद्रपुढविकाइयाणं पज्जत्तयाणं) वाद्र पृथिवीकाय के पर्याप्तकों (वायरआउकाइयाणं पज्जत्तयाणं) वाद्र अष्काय के पर्याप्तकों (वायरतेउकाइयाणं पज्जत्तयाणं) वाद्र तेजस्कायिक पर्याप्तकों (वायरवाउकाइयाणं पज्जत्तयाणं) वाद्र वायुकायिक पर्याप्तकों

अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे (वाद्र निगोदा अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) (वाद्र निगोदनां अपर्याप्तक असंख्यातगुणा छे (वाद्र पुढविकाइयां अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) वाद्र पृथिवीकायिक अपर्याप्तक असंख्यातगुणा छे (वाद्र आउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) वाद्र अष्कायिक अपर्याप्तक असंख्यातगुणा छे (वाद्रवाउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) वाद्र वायुकायिक अपर्याप्तक असंख्यातगुणा छे (वाद्र वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा अणंतगुणा) वाद्र वनरपत्तिकायना अपर्याप्त अनन्तगुणा छे (वाद्र अपज्जत्तगा विसेसाहिया) वाद्र अपर्याप्त विशेषाधिक छे

(एएसि णं भंते !) लोपान् आ (वाद्र पज्जत्तयाणं) वाद्र पर्याप्तकल्लो (वाद्र पुढविकाइयाणं पज्जत्तयाणं) वाद्र पृथिवीकायना पर्याप्तके (वाद्र आउकाइयाणं पज्जत्तयाणं) वाद्र अष्काय पर्याप्तके (वाद्र तेउकाइयाणं पज्जत्तयाणं) वाद्र वायुकायिक पर्याप्तके (वाद्र वाउकाइयाणं पज्जत्तयाणं) वाद्र वायुकायिक

वादरवनस्पतिकायिकानां पर्याप्तकानां वादरनिगोद पर्याप्तकानां वादरत्रसकायिक पर्याप्तकानां च कथरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोका वादरतेजःकायिकाः पर्याप्तकाः वादरत्रसकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिका पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः वादरनिगोदाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः वादरपृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, वादराप्तकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, वादरवायुकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, वादरग्नस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः

(पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइयाणं पज्जत्तयाणं) प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकाय के पर्याप्तको (वायरनिगोद पज्जत्तयाणं) वादर निगोद के पर्याप्तको (वायरतसकाइय पज्जत्तयाण य) और वादर त्रसकायिक पर्याप्तको में (कथरे कथरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सन्वत्थोवा वादरतेउकाइया पज्जत्तया) सब से कम वादर तेजस्काय के पर्याप्त हैं (वायरतसकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर त्रसकायिक पर्याप्त असंख्यात गुणा हैं (पत्तेय सरीरवायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त असंख्यात गुणा हैं (वादरनिगोदा अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर निगोद पर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं (वादरपुढविकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (वायरआउकाइया पज्जत्तया असंखेज्ज-

पर्याप्तके।मा (पत्तेयसरीरवणस्सइकाइयाण पज्जत्तयाण) प्रत्येक शरीर वादरवनस्पतिकायना पर्याप्तके (वायर निगोद पज्जत्तयाणं) वायर निगोदना पर्याप्तके (वायर तसकाइय पज्जत्तयाण य) अने वादर त्रसकायिक पर्याप्तके।मा (कथरे कथरेहिंतो) के।णु के।नाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? (अल्प, धणु तुल्य अगर् विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सन्वत्थोवा वादरतेउकाइया पज्जत्तया) 'अथाथी ओ।छा वादर तेजस्कायना पर्याप्त छे (वायर तसकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादरत्रसकायिक पर्याप्त असंख्यातगणु छे (पत्तेय सरीरवणस्सइकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) प्रत्येक शरीर वादरवनस्पतिकायिक पर्याप्त असंख्यातगणु छे (वायर निगोदा पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर निगोद पर्याप्तक असंख्यातगणु छे (वायर पुढविकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त असंख्यातगणु छे (वायर आउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर गणु-

अनन्तगुणाः वादरपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, एतेषां खलु भदन्त ! वादराणाम् पर्याप्तापर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः वादरपर्याप्तकाः, वादरापर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! वादरपृथिवीकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः

गुणा) वादर अप्कायिक पर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं (बायरवा इया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर वायुकायिक पर्याप्त असंख्यात गुणा हैं (बायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया अणंतगुणा) वादर वनस्पति-कायिक पर्याप्त अनन्तगुणा हैं (बायरपज्जत्तया विसेसाहिया) वादर पर्याप्तक विशेषाधिक हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (वादराणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) वादर पर्याप्तों और अपर्याप्तों में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा बायरपज्जत्तया) सब से कम वादर पर्याप्त हैं (बायर अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं । (एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (बायरपुढ-विकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) वादर पृथ्वीकाय के पर्याप्तों और अपर्याप्तों में से (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया

कायिक पर्याप्तक असंख्यातगुणा) है (बायर वाउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर वायुकायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा) है (बायर वणस्सइकाइया पज्जत्तया अणंतगुणा) वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनंतगुणा) है (बायर पज्जत्तया विसेसाहिया) वादर पर्याप्तक विशेषाधिक है

(एएसि णं भंते !) भगवन् ! आ (बायराण पज्जत्ता पज्जत्ताण) वादरपर्याप्तो अपर्याप्तोभा (कयरे कयरेहिंतो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा, तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, धणा, तुल्य अगर विशेषाधिक है ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा बायरपज्जत्तया) अध्यायी ओइहा वादर पर्याप्त है (बायर अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर अपर्याप्त असंख्यातगुणा) है.

(एएसि णं भंते !) भगवन् ! आ (बायर पुढविकाइयाण पज्जत्तापज्जत्ताणं) वादर पृथ्वीकायना पर्याप्तो अने अपर्याप्तोभाथी (कयरे कयरेहिंतो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धणा, तुल्य अथवा विशेषाधिक है.

वादरपृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः वादरपृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः एतेषां खलु भदन्त ! वादराष्कायिकानां पर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः वादराष्कायिकाः पर्याप्तकाः, वादराष्कायिकाः अपर्याप्तकाः, असंख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! वादरतेजःकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः

वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सन्वत्थोवा वादरपुढविकाइया पज्जत्तया) सब से कम वादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त हे (वादरपुढविकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं । (एएसि णं भंते !) हे भगवन् इन (वायरआउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) वादर अप्काय के पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों में से (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सन्वत्थोवा वायरआउकाइया पज्जत्तया) सब से कम वादर अप्काय के पर्याप्त हैं (वायरआउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर अप्काय के अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (वायरतेउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) वादर तेजस्काय के पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों में से (कयरे कयरेहिंतो)

(गोयमा !) हे गौतम ! (सन्वत्थोवा वायरपुढविकाइया पज्जत्तया) अधाथी ओछा वादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त छे (वायरपुढविकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्तक असंख्यात गणुा छे.

(एएसि णं भंते !) भगवन् ! आ (वायरआउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) वादर अप्कायना पर्याप्तकेअने अपर्याप्तकेभाथी (कयरे कयरेहिंतो) केअु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धुआ, तुल्य अगरेतो विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सन्वत्थो वा वायरआउकाइया पज्जत्तया) अधाथी ओछा वादर अप्कायना पर्याप्त छे (वायरआउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर अप्कायना अपर्याप्तक असंख्यातगणुा छे

(एएसि णं भंते !) भगवन् ! आ (वायर तेउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) वादर तेजस्कायना पर्याप्तकेअने अपर्याप्तकेभाथी (कयरे कयरेहिंतो) केअु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा, तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प तुल्य अगरे विशेषाधिक छे ?

वादरतेजःकायिकाः पर्याप्तकाः, अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! वादरवायुकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः वादरवायुकायिकाः पर्याप्तकाः, वादरवायुकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! वादरवनस्पतिकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः वादरवनस्पति-

कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं (गोयमा) हे गौतम ? (सव्वत्थोवा वायरतेउकाइया पज्जत्तया) सब से कम बादर तेजस्काय के पर्याप्त हैं (अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) अपर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं (एएसि णं भंते !) हे भगवन् इन (वायरवाउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) वादर वायुकाय के पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों में (कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायरवाउकाइया पज्जत्तया) सब से कम बादर वायुकाय के पर्याप्त हैं (वायरवाउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर वायुकाय के अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं । (एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (वायरवणस्सइकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) वादर वनस्पतिकाय के पर्याप्तको और अपर्याप्तकों में से (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायर वाउकाइया पज्जत्तया) अधाथी ओछा भादर तेजस्कायना पर्याप्त छे (अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) अपर्याप्तक असंख्यातगुणा छे.

1) (एएसि णं भंते !) भगवन् ! आ (वायर वाउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) भादर वायुकायना पर्याप्तको अने अपर्याप्तकोभाथी (कयरे कयरेहिंतो) केओ केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य अगर तो विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायर वाउकाइया) सौथी ओछा भादर वायुकायिक पर्याप्तको छे, (वायरवाउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) भादर वायुकाय अपर्याप्तक असंख्यातगुणा छे, (एएसि णं भंते !) हे भगवन् आ (वायरवणस्सइकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) भादर वनस्पतिकायना पर्याप्तक अने अपर्याप्तकोभा (कयरे कयरेहिंतो) केओ केनाथी (अप्पा वा बहुया वा, तुल्ला

कायिकाः पर्याप्तकाः, वादरवनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! प्रत्येकशरीर वादरवनस्पतिकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः प्रत्येक शरीर वादरवनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! वादरनिगोदानां पर्याप्तापर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा,

वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया) सद्य से कम वादर वनस्पतिकाय के पर्याप्तक हैं (वायरवणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर वनस्पतिकाय के अपर्याप्तक असंख्यातगुणे हैं (वायरनिगोया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर निगोद के अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं। (एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिकों के पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों में से (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया) सबसे कम वादर वनस्पतिकाय के पर्याप्त हैं (पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त

विसेसाहिया वा) डोण्णु डेनाथी अल्प छे ? डोण्णु डेनाथी वधारे छे अने डोण्णु डेनी भरोअर छे तथा डोण्णु डेनाथी विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया) अधाथी ओआ धादर वनस्पतिकायना पर्याप्तक छे (वायर वणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) धादर वनस्पतिकायना अपर्याप्तक अम अथातगण्णु छे

(एएसि णं भंते !) भगवन् ! आ (पत्तेयसरीरवायर वणस्सइकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) प्रत्येक शरीर धादर वनस्पतिकायिकोना पर्याप्तको अने अपर्याप्तकोमा (कयरे कयरेहिंतो) डोण्णु डेनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, धण्णु, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) (सव्वत्थोवा पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया) अधाथी ओआ धादर वनस्पतिकायना पर्याप्त छे (पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइया अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा) प्रत्येकशरीर धादर वनस्पति कायिक अपर्याप्त असंख्यातगण्णु छे,

वादरतेजःकायिकाः पर्याप्तकाः, अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! वादरवायुकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः वादरवायुकायिकाः पर्याप्तकाः, वादरवायुकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! वादरवनस्पतिकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः वादरवनस्पति-

कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं (गोयमा) हे गौतम ? (सव्वत्थोवा वायरवाउकाइया पज्जत्तया) सब से कम बादर तेजस्काय के पर्याप्त हैं (अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) अपर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं (एएसि णं भंते !) हे भगवन् इन (वायरवाउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) वादर वायुकाय के पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायरवाउकाइया पज्जत्तया) सब से कम बादर वायुकाय के पर्याप्त हैं (वायरवाउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर वायुकाय के अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं । (एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (वायरवणस्सइकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) वादर वनस्पतिकाय के पर्याप्तको और अपर्याप्तकों में से (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वा वायर वाउकाइया पज्जत्तया) अधाथी ओछा बादर तेजस्कायना पर्याप्त छे (अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) अपर्याप्तक असंख्यातगुणा छे.

1) (एएसि णं भंते !) लगवन् ! आ (वायर वाउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) बादर वायुकायना पर्याप्तको अने अपर्याप्तकोमाथी (कयरे कयरेहिंतो) केओ केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, धुला, तुल्य अगर तो विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायर वाउकाइया) सौथी ओछा बादर वायुकायिक पर्याप्तको छे, (वायरवाउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) बादर वायुकाय अपर्याप्तक असंख्यातगुणा छे, (एएसि णं भंते !) हे लगवन् ! आ (वायरवणस्सइकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) बादर वनस्पतिकायना पर्याप्तक अने अपर्याप्तकोमा (कयरे कयरेहिंतो) केओ केनाथी (अप्पा वा बहुया वा, तुल्ला

क्रायिकाः पर्याप्तकाः, वादरवनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः।
एतेषां खलु भदन्त ! प्रत्येकशरीर वादरवनस्पतिकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तकानां
कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम !
सर्वस्तोकाः प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः प्रत्येक शरीर वादर-
वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! वादर-
निगोदानां पर्याप्तापर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा,
वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्व-
त्थोवा वायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया) सद्य से कम वादर वनस्पति-
काय के पर्याप्तक हैं (वायरवणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्ज-
गुणा) वादर वनस्पतिकाय के अपर्याप्तक असंख्यातगुणे हैं (वायर
निगोया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर निगोद के अपर्याप्त असं-
ख्यातगुणा हैं। (एएसि णं भन्ते !) हे भगवन् ! इन (पत्तेयसरीर वायर-
वणस्सइकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) प्रत्येक शरीर वादर वनस्पति-
कायिकों के पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों में से (कयरे कयरेहितो) कौन
किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत,
तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा
पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया) सबसे कम वादर वन-
स्पतिकाय के पर्याप्त हैं (पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइया अपज्जत्तया
असंखेज्जगुणा) प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त

विसेसाहिया वा) डोणु डोनाथी अल्प छे ? डोणु डोनाथी वधारे छे अने डोणु
डोनी अधाथर छे तथा डोणु डोनाथी विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया) अधाथी
ओछा भादर वनस्पतिकायना पर्याप्तक छे (वायर वणस्सइकाइया अपज्जत्तया
असंखेज्जगुणा) भादर वनस्पतिकायना अपर्याप्तक असंख्यातगुणा छे

(एएसि ण भन्ते !) भगवन् ! आ (पत्तेयसरीरवायर वणस्सइकाइयाण पज्जत्ता-
पज्जत्ताण) प्रत्येक शरीर भादर वनस्पतिकायिकोना पर्याप्तको अने अपर्याप्तकोभा
(कयरे कयरेहितो) डोणु डोनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया
वा ?) अल्प, धल्ला, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) (सव्वत्थोवा पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया)
अधाथी ओछा भादर वनस्पतिकायना पर्याप्त छे (पत्तेयसरीरवायरवणस्सइका
अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा) प्रत्येकशरीर भादर वनस्पति कायिक
असंख्यातगुणा छे,

विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः वादरनिगोदाः पर्याप्तकाः वादरनिगोदाः
 अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, एतेषां खलु वदन्त ! वादरत्रसकायिकानां पर्या-
 प्तापर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका
 वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः वादरत्रसकायिकाः पर्याप्तकाः, वादरत्रसकायिकाः
 अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः एतेषां खलु भदन्त ! वादराणां वादरपृथिवीका-

असंख्यात गुणा हैं। (एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (वायर
 निगोदाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) वादर निगोदकाय के पर्याप्तकों और
 अपर्याप्तकों में (कयरे कयरेहितो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया
 वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक
 हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायरनिगोया पज्जत्तया वायर
 निगोया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सबसे अल्प वादरनिगोद के
 पर्याप्तक है, वादर निगोद के अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (एएसि णं
 भंते !) हे भगवन् ! इन (वायरतसकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) वादर
 त्रसकाय के पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों में (कयरे कयरेहितो) कौन
 किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प,
 बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्व-
 त्थोवा वायरतसकाइया पज्जत्ता) सबसे कम वादर त्रसकाय के पर्याप्त
 हैं (वायरतसकाइया अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा) वादर त्रसकाय के
 अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं ।

(एएसि ण भंते !) लगवन् ! आ (वायरनिगोदाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं) वायरनिगोद
 कायना पर्याप्तके अने अपर्याप्तकेभा (कयरे कयरेहितो) केणु केनाथी (अप्पा वा
 बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, धुत्था, तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?
 (गोयमा !) छे गौतम ! ((सव्वत्थोवा वायर निगोया पज्जत्तया) अधाथी
 ओछा वादर निगोदना पर्याप्त छे (वायर निगोया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा)
 वादर निगोदना अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे,

(एएसि ण भंते !) लगवन् ! आ (वायरत तसकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ता
 णं) वादरत्रसकायना पर्याप्तके अने अपर्याप्तकेभा (कयरे कयरेहितो) केणु
 केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, अधिक,
 तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) छे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायर तसकाइया पज्जत्ता) अधाथी
 ओछा वादर त्रस कायना पर्याप्त छे (वायर तसकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा)
 वादर त्रसकायना अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे.

धिकानां वादराप्कायिकानां वादरतेजःकायिकानां वादरवायुकायिकानां वादर-
वनस्पतिकायिकानां प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकानां वादरनिगोदानां
वादरत्रसकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा,
तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः वादरतेजःकायिकाः पर्या-
प्तकाः वादरत्रसकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, वादरत्रसकायिका अप-
र्याप्तका असंख्येयगुणाः प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकाः पर्याप्तका असं-

(एएसि णं भंते ! हे भगवन् ! इन (वायराणं) वादर जीवो (वायर-
पुढविकाइयाणं) वादर पृथिवीकायिको (वायरआउकाइयाणं) वादर
अप्कायिको (वायरतेउकाइयाणं) वादर तेजस्कायिको (वायरवाउकाइ-
याणं) वादर वायुकायिको (वायरवणस्सइकाइयाणं) वादर वनस्पति-
कायिको (पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइयाणं) प्रत्येक शरीर वादर
वनस्पतिकायिको (वायरनिगोयाणं) वादर निगोदकायो (वायरतस-
इयाणं) वादर त्रसकायिको के (पज्जत्तापज्जत्ताणं) पर्याप्तको और
अपर्याप्तको में (कयरे कयरे हितो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा
तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सन्वत्थोवा वायरतेउकाइया पज्जत्तया)
सब से कम वादर तेजस्काय के पर्याप्तक हैं (वायरतसकाइया पज्जत्तया
असंखेज्जगुणा) वादर त्रसकायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (वायर
तसकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर त्रसकायिक अपर्याप्त
असंख्यात गुणा हैं (पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया

(एएसि ण भंते !) भगवन् ! आ (वायराण) वादर एवे (वायर पुढवि-
काइयाणं) वादर पृथ्वीकायिके (वायर आउकाइयाण) वादर ऋषकायिके (वायर
तेउकाइयाणं) वादर तेजस्कायिके (वायर वाउकाइयाण) वादर वायुकायिके (वायर
वणस्सइकाइयाण) वादरवनस्पतिकायिके (पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइयाण) प्रत्येक
शरीर वादरवनस्पतिकायिके (वायर निगोयाणं) वादर निगोद काये (वायरतस-
काइयाणं) वादर त्रसकायिकेना (पज्जत्ता पज्जत्ताण) पर्याप्तके अने अपर्याप्तकेभा
(कयरे कयरे हितो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?)
अल्प, धणु तुल्य अथवा विशेषाधिके छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सन्वत्थोवा वायर तेउकाइया पज्जत्तया) अधाथी
ओआ वादर तेजस्कायिना पर्याप्त छे (वायरतसकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर
त्रसकायिक पर्याप्त असंख्यातगणु छे (वायरतसकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा)
वादर त्रसकायिक अपर्याप्त असंख्यातगणु छे, (पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइया

अनन्तगुणाः, वादरवनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा वादरा-
पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, वादरा विशेषाधिकाः ॥सू० ७॥

टीका—अथ वादरपृथिवीकायिकादीनामल्पवहुत्व वक्तव्यता प्ररूपयितुमाह
—‘एषसि षं भंते ! वादराणं’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतेषां सखु वाद-
राणाम् समुच्चयवादराणां ‘वायरपुठविकाइयाणं’ वादरपृथिवीकायिकानाम्,
‘वायरआउकाइयाणं’ वादराष्कायिकानाम्, ‘वायरतेउकाइयाणं’ वादरतेजः-
कायिकानाम् ‘वादरवाउकाइयाणं’ वादरवायुकायिकानाम्, ‘वादरवणस्सइकाइ-
याणं’ वादरवनस्पतिकायिकानाम् समुच्चय वादरवनस्पतिकायिकानाम् ‘पत्तेय
सरीर वादरवणस्सइकाइयाणं’ प्रत्येकशरीर वादरवनस्पतिकायिकानाम् ‘वादर-
गुणा हैं (वायरवाउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर वायु-
काय के अपर्याप्त असंख्यगुणा है (वायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया
अणंतगुणा) वादर वनस्पतिकाय के पर्याप्त अनन्तगुणा हैं (वायर-
वण इकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर वनस्पतिकायिक
अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (वायरअपज्जत्तया विसेसाहिया) वादर
जीवों के अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (वायरा विसेसाहिया) वादर समु-
च्चय जीव विशेषाधिक हैं ॥६॥

टीकार्थ—अब पृथ्वीकायिकों आदि के अल्पवहुत्व की प्ररूपणा
जाती है—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! समुच्चय वादर,
वादर पृथिवीकायिक, वादर अष्कायिक, वादर तेजस्कायिक, वादर
वायुकायिक, समुच्चय वादर वनस्पतिकायिक, प्रत्येक शरीर वादर
वनस्पतिकायिक, वादर निगोद तथा वादर त्रसकायिक अर्थात् द्वीन्द्रिय

(असंखेज्जगुणा) आदर ञणकायना अपर्याप्त असंख्यातगणु छे (वायर वाउकाइया
अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) आदर वायुकायना अपर्याप्त असंख्यातगणु छे (वायर
वणस्सइकाइया पज्जत्तया अणंतगुणा) आदर वनस्पतिकायना पर्याप्त अनंतगणु छे
(वायरवणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) आदर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त
असंख्यातगणु छे (वायर अपज्जत्तया विसेसाहिया) आदर एवेना अपर्याप्त
विशेषाधिक छे (वायरा विसेसाहिया) आदर समुच्चय एव विशेषाधिक छे ॥सू०६॥

टीकार्थ—हुवे आदर पृथ्वीकायिक एवे आदिना अल्पवहुत्वनी प्ररूपणा
कराय छे—श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे भगवन् ! समुच्चय आदर, आदर
पृथ्वीकायिक, आदर ञणकायिक, आदर तेजस्कायिक, आदर वायुकायिक, समुच्चय
आदर वनस्पतिकायिक, प्रत्येक शरीर आदर वनस्पतिकायिक, आदर निगोद

निगोदाणं' बादरनिगोदानाम् 'वायरत्सकाइयाणं' बादरत्रसकायिकानाम् बादर-
द्वीन्द्रियादीनामित्यर्थः, 'कयरे कयरेहितो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया
वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा. विशेषा-
धिका वा भवन्ति ! भगवान् उत्तरयति—'गौयमा !' हे गौतम ! 'सन्वत्थोवा
'वायरत्सकाइया' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः बादरत्रसकायिकाः—बादरद्वीन्द्रिया-
भवन्ति, द्वीन्द्रियादीनामेव बादरत्रसपदवाच्यत्वेन तेषा मन्यकायेभ्योऽल्पत्वात्,
तेभ्यः 'वायरतेउकाइया' बादरतेजःकायिका 'असंखेज्जगुणा' असंख्येयगुणा
भवन्ति, तेषाम् असंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि 'पत्तेयसरीर
वादरवणस्सइकाइया असंखेज्जगुणा' प्रत्येकशरीर बादरवनस्पतिकायिकाः असं-
ख्येयगुणा भवन्ति, बादरतेजःकायिकानां मनुष्यक्षेत्रे एव सद्भावेन तदपेक्षया
बादरवनस्पतिकायिकानां स्थानस्यासंख्येयगुणत्वात्, तेभ्योऽपि 'वादरनिगोदा
'असंखेज्जगुणा' बादरनिगोदाः असंख्येयगुणा भवन्ति बादरनिगोदानामत्यन्त

आदि जीवों में से कौन किसकी अपेक्षा अल्प है, कौन किससे अधिक
है; कौन किससे तुल्य या विशेषाधिक है ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! बादर द्वीन्द्रिय आदि
त्रस जीव सबसे कम हैं, क्योंकि द्वीन्द्रिय आदि ही त्रस कहलाते हैं
वे अन्य सभी कार्यों से अल्प हैं । इनकी अपेक्षा बादर तेजस्कायिक
असंख्यगुणा हैं, क्योंकि वे असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों के बरा-
बर हैं । इनकी अपेक्षा भी प्रत्येक शरीर बादर वनस्पतिकायिक असं-
ख्यातगुणा हैं, क्योंकि बादर तेजस्काय के जीव सिर्फ मनुष्य क्षेत्र
में ही होते हैं अतएव बादर वनस्पति का क्षेत्र उन से असंख्यातगुणा
अधिक है बादर निगोद इससे भी असंख्यगुणा हैं, क्योंकि बादर

तथा बादर त्रस कायिक अर्थात् द्वीन्द्रिय आदि लोकोपाधी कोष कोनाथी
अल्प छे, कोष कोनाथी अधिक छे, कोष कोनाथी तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! बादर द्वीन्द्रिय आदि त्रस लोव
पाधी कोषा छे, केमके द्वीन्द्रिय आदि न त्रस कडेवाय छे अने तेको अन्य
पाधी कायना लोवोधी अल्प छे, तेमनी अपेक्षाके बादर तेजस्कायिक
असंख्यात गणा छे, केमके तेको असंख्यात लोकाकाश प्रदेशोनी पराण छे,
तेमनी अपेक्षाके पणु प्रत्येक शरीर बादर वनस्पतिकायिक असंख्यात गणा
छे, केमके बादर तेजस्कायना लोव इकत मनुष्य क्षेत्रमा न थाय छे, तेथी न
बादर वनस्पतिनु क्षेत्र तेमनाथी असंख्यात गणा अधिक छे, बादर निगोद
तेनाथी पणु असंख्यात गणा छे, केमके बादर निगोद अत्यन्त सूक्ष्म अप-

सूक्ष्मावगाहनतयोदकेषु सर्वत्रापि च सद्भावात् शैवालादीनामुदकेऽवश्यं भाविनां
 वादरानन्तकायिकत्वात्, तेभ्योऽपि 'वादराणुदविकाइया असंखेज्जगुणा' वादराः
 पृथिवीकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेपाम् अष्टपृथिवीषु सर्वविमानभवन-
 पर्यतादिषु सद्भावात्, तेभ्योऽपि 'वायरा आउकाइया असंखेज्जगुणा' वादराः
 अप्कायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, समुद्रेषु उदकवाहुल्यात्, तेभ्योऽपि
 'वायरा वाउकाइया असंखेज्जगुणा' वादराः वायुकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति,
 रन्ध्रे सर्वत्र वायुसद्भावात्, तेभ्योऽपि 'वादरा वणस्सडकाइया अणंतगुणाः'
 वादराः वनस्पतिकायिकाः अनन्तगुणा भवन्ति प्रतिवादरनिगोद मनन्तानां जीवानां
 सद्भावात्, तेभ्योऽपि 'वायरा विसेसाहिया' वादराः समुच्चयवादराः जीवाः
 विशेषाधिकाः किञ्चिदधिका भवन्ति, वादरद्वीन्द्रियादि त्रसकायिकादीनामपि
 तत्र समावेशात्, इत्येवं समुच्चयादि वादराणामल्पवहुत्वादिकं प्रतिपाद्य

निगोद अत्यन्त सूक्ष्म अवगाहना वाले होने के कारण जल में सर्वत्र
 होते हैं। शैवाल आदि अनन्त कायिक हैं और जल में उसका सद्-
 भाव अवश्य होता है। इनकी अपेक्षा वादर पृथिवीकायिक असंख्यात
 गुणा हैं, क्योंकि वे आठों पृथिवियों में एवं समस्त विमान, भवन
 तथा पर्वतों आदि में विद्यमान हैं। वादर अप्कायिक उनसे भी असं-
 ख्यगुणा अधिक हैं, क्योंकि समुद्रों में जल की बहुलता होती है।
 वादर वायुकायिक उनसे भी असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि सभी रन्ध्रों
 में (पोली जगह में) वायु विद्यमान रहती है। वादर वनस्पतिकायिक
 उनसे अनन्तगुणा अधिक हैं, क्योंकि प्रत्येक वादर निगोद में अनन्त
 जीव होते हैं। वादर जीव उनसे विशेषाधिक हैं, क्योंकि वादर द्वीन्द्रिय
 आदि सभी उनसे सम्मिलित हैं।

इस प्रकार समुच्चय आदि वादर जीवों के अल्पवहुत्व का प्रति-

गाहनावाणा ढोवाणा क्षरणे पाष्ठीमा सर्वत्र ढोय'छे, शेवाण आदि अनन्तकायिक
 छे, अने पाष्ठीमा तेना' सद्भाव अवश्य' छे, तेमनी अपेक्षाये वादर
 पृथ्वीकायिक असंख्यातगुणा छे, केमके तेमो अर्द्धी पृथ्वीयोमा तेम न समस्त
 विमान, भवन तथा पर्वतो आदिमा ह्यात' छे, वादर नणकायिक तेमनाथी
 असंख्यातगुणा अधिक छे, केमके समुद्रोमा पाष्ठीनी अधिकता ढोय' छे, आदर
 वायुकायिक तेनाथी पणु असंख्यात गणु छे, केमके यथा छिद्रोमा वायु
 अवश्य ढोय न छे, वादर वनस्पतिकायिक तेमनाथी अनंत गणु अधिक छे,
 केमके प्रत्येक वादर निगोदमा अनन्त एव थाय छे, वादर एव तेमनाथी
 विशेषाधिक छे, केमके वादर 'द्वीन्द्रिय आदि यथा तेमनामा सम्मिलित' छे.

अपञ्चत्तगा असंखेज्जगुणा' वा'दरतेजःकायिका अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति
 तेषामसंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि 'पत्तेयसरीर वादरवणस्सइ-
 काइया अपञ्चत्तगा असंखेज्जगुणा' प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिका अपर्या-
 त्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि 'वायरनिगोदा अपञ्चत्तगा
 असंखेज्जगुणा' वादरनिगोदाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति तेभ्योऽपि
 'वायरपुढविकाइया अपञ्चत्तगा असंखेज्जगुणा' वादरपृथिवीकायिका अपर्याप्तकाः
 असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायरभाउकाइया अपञ्चत्तगा असंखेज्जगुणा'
 वादराप्कायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायरवाउ-
 काइया अपञ्चत्तगा असंखेज्जगुणा' वादरवायुकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येय-
 गुणा भवन्ति, प्रगुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि 'वायरवणस्सइकाइया अपञ्चत्तगा अणंत-
 गुणा' वादरवनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः अनन्तगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः
 तेभ्योऽपि 'वायर अपञ्चत्तगा विसेसाहिया' वादरा अपर्याप्तका विशेषाधिका
 भवन्ति, अथ समुच्चयादि वादराणामेव पर्याप्तकानां जीवानामल्लपचहुत्वमाह-

वादर तेजस्काय के अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं क्योंकि वे असंख्यात
 लोकाकाश प्रदेशों के बराबर हैं। उनकी अपेक्षा प्रत्येक शरीर वादर
 वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं, इसका कारण भी
 पहले बतलाया जा चुका है। उनकी अपेक्षा वादर निगोद के अपर्याप्त
 असंख्यातगुणा हैं। उनसे वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त असंख्यात
 गुणा हैं। उनकी अपेक्षा वादर अप्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा
 हैं, उनसे वादर वाउकाय के अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं इसका कारण
 भी पहले कहा जा चुका है। उनकी अपेक्षा वादर वनस्पतिकायिक
 अपर्याप्त अनन्तगुणा हैं, इसका कारण भी पहले बतला दिया है।
 उनकी अपेक्षा अपर्याप्तक विशेषाधिक हैं।

क्षाम्मे णादर तेजस्कायना अपर्याप्त असंख्यात गण्णा छे, केमके तेज्जा अस-
 ष्यात लोकाकाश प्रदेशाना णराणर छे, तेमनी अपेक्षाम्मे प्रत्येक शरीर णादर
 वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यात गण्णा छे तेनुं कारण्ण पण्ण आगण्ण अता-
 वेहु छे, तेमनी अपेक्षाम्मे णादर निगोदना अपर्याप्त असंख्यात गण्णा छे,
 तेज्जाभाथी णादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त असंख्यात गण्णा छे, तेमनी अपे-
 क्षाम्मे णादर अप्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगण्णा छे, तेमनाथी णादर वायुकायना
 अपर्याप्त असंख्यातगण्णा छे, तेनुं कारण्ण पण्ण आगण्ण कडेवाथेहु छे, तेमनी
 अपेक्षाम्मे णादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त अनन्तगण्णा छे, तेनुं पण्ण कारण्ण
 पहिला अतावी दिहु छे, तेमनी अपेक्षाम्मे णादर अपर्याप्तक विशेषाधिक छे.

तेषामेवापर्याप्तकानामल्पबहुत्वादिकं प्ररूपयितुमाह—‘एषसि णं भंते ! बादर-
पुढविकाइय अपज्जत्तगाणं’ गीतमः पृच्छति—हे भदन्त एतेषामेव बादरपृथिवी-
कायिकापर्याप्तकानाम् ‘बादर आउकाइय अपज्जत्तगाणं’ बादराप्कायिकापर्या-
प्तकानाम् ‘वायरतेउकाइय अपज्जत्तगाणं’ बादरतेजःकायिकापर्याप्तकानाम्,
‘वायरवाउकाइय अपज्जत्तगाणं’ बादरवायुकायिकापर्याप्तकानाम् ‘बादरवणस्सइ-
काइय अपज्जत्तगाणं’ बादरवनस्पतिकायिकापर्याप्तकानां ‘पत्तेयसररीरवायरवण-
स्सइकाइय अपज्जत्तगाणं’ प्रत्येकशरीरबादरवनस्पतिकायिकापर्याप्तकानाम्
‘वायरनिगोद अपज्जत्तगाणं’ बादरनिगोदापर्याप्तकानाम् ‘वायरतसकाइय अप-
ज्जत्तगाणं’ बादरत्रसकायिकापर्याप्तकानाञ्च मध्ये ‘कयरे कयरेहितो’ कतरे
कतरेभ्यः, ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?’ अल्पा वा,
बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’
हे गीतम ! ‘सन्वत्थोवा वायरतसकाइया अपज्जत्तगा’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः
बादरत्रसकायिकाः अपर्याप्तका भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्यो—‘वायरतेउकाइया

पादन करके अब उन्हीं के अपर्याप्तकों का अल्पबहुत्व प्ररूपित करने
के लिए कहते हैं—

हे भगवन् ! इन बादर पृथ्वीकायिकों के अपर्याप्तों, बादर
अप्कायिकों के अपर्याप्तों, बादर तेजस्कायिकों के अपर्याप्तों, बादर
वायुकायिकों के अपर्याप्तों, बादर वनस्पतिकायिकों के अपर्याप्तों,
प्रत्येक शरीर बादर वनस्पतिकायिकों के अपर्याप्तों, बादर निगोद
अपर्याप्तों तथा बादर त्रसकाय के अपर्याप्तों में कौन किससे अल्प,
बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौ ! सबसे कम बादर त्रसकाय
के अपर्याप्तक हैं, इसका कारण पहले कहा जा चुका है उनकी अपेक्षा

आ रीते समुच्चय आदि आदर एतेना अल्पबहुत्वत्तु प्रतिपादन करिने
उडे तेमना अ अपर्याप्तकोत्तु अल्प बहुत्व अरूपित करवाने माटे कडे छे—

हे भगवन् ! आ आदर पृथिवीकायिकेना अपर्याप्तको, आदर अप्का-
यिकेना अपर्याप्तको, आदर तेजस्कायिकेना अपर्याप्तको, आदर वायुकायिकेना
अपर्याप्तको, आदर वनस्पतिकायिकेना अपर्याप्तको, प्रत्येक शरीर आदर वनस्पति-
कायिकेना अपर्याप्तको, आदर निगोद अपर्याप्तको तथा आदर त्रसकायना अप-
र्याप्तकोमा कोषु कोनाथी अल्प, धुल्ला, तुल्य, अगस्तो. विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गीतम ! अधाथी आछा आदर त्रस-
कायना अपर्याप्तक छे, तेतु कारणु पडेल्ला कडेवाध गअेल्लु छे, तेमनी अपे

अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा' व' दारतेजःकायिका अपर्याप्तकाः असंखेयगुणा भवन्ति तेषामसंखेयलोकाकाशप्रदेश णत्वात्, तेभ्योऽपि 'पत्तेयसरीर वादरवणस्सइ' काइया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा' प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिका अपर्याप्तकाः असंखेयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि 'वायरनिगोदा अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा' वादरनिगोदाः अपर्याप्तकाः असंखेयगुणा भवन्ति तेभ्योऽपि 'वायरपुद्विकाइया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा' वादरपृथिवीकायिका अपर्याप्तकाः असंखेयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायरआउकाइया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा' वादराप्कायिकाः अपर्याप्तकाः असंखेयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायरवाउकाइया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा' वादरवायुकायिकाः अपर्याप्तकाः असंखेयगुणा भवन्ति, प्रगुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि 'वायरवणस्सइकाइया अपञ्जत्तगा अणंतगुणा' वादरवनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः अनन्तगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः तेभ्योऽपि 'वायर अपञ्जत्तगा विसेसाहिया' वादरा अपर्याप्तका विशेषाधिका भवन्ति, अथ समुच्चयादि वादराणामेव पर्याप्तकानां जीवानामल्पबहुत्वमाह-

वादर तेजस्काय के अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं क्योंकि वे असंख्यात लोकाकाश प्रदेशों के बराबर हैं। उनकी अपेक्षा प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं, इसका कारण भी पहले बतलाया जा चुका है। उनकी अपेक्षा वादर निगोद के अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं। उनसे वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं। उनकी अपेक्षा वादर अप्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, उनसे वादर वाउकाय के अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं इसका कारण भी पहले कहा जा चुका है। उनकी अपेक्षा वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त अनन्तगुणा हैं, इसका कारण भी पहले बतला दिया है। उनकी अपेक्षा अपर्याप्तक विशेषाधिक हैं।

क्षामे वादर तेजस्कायना अपर्याप्त असंख्यात गणुा छे, केमके तेज्जे असंख्यात लोकाकाश प्रदेशेना णराणर छे, तेमनी अपेक्षाञ्जे प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिक यिक अपर्याप्त असंख्यात गणुा छे तेनु कारणु पणु आगण णतावेळु छे, तेमनी अपेक्षाञ्जे वादर निगोदना अपर्याप्त असंख्यात गणुा छे, तेज्जेमाथी वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त असंख्यात गणुा छे, तेमनी अपेक्षाञ्जे वादर अप्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगणुा छे, तेमनाथी वादर वायुकायना अपर्याप्त असंख्यातगणुा छे, तेनु कारणु पणु आगण कडेवायेळु छे, तेमनी अपेक्षाञ्जे वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त अनन्तगणुा छे, तेनु पणु कारणु पहिला णतावी दिधु छे, तेमनी अपेक्षाञ्जे वादर अपर्याप्तक विशेषाधिक छे,

‘एएसि णं भंते ! वायरपञ्जत्तयाणं’ हे भदन्त ! एतेषां खलु वादरपर्याप्तकानाम् ‘वायरपुढविकाइयाणं’ वादरपृथिवीकायिकानाम्, ‘पञ्जत्तयाणं’ पर्याप्तकानाम् ‘वायरआउकाइयाणं’ वादरप्राकायिकानाम्, ‘पञ्जत्तयाणं’ पर्याप्तकानाम् ‘वायरतेउकाइयाणं पञ्जत्तयाणं’ वादरतेजःकायिकानां पर्याप्तकानाम् ‘वायरवाउकाइयाणं पञ्जत्तयाणं’ वादरवायुकायिकानां पर्याप्तकानाम् ‘पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइयाणं’ प्रत्येक शरीर वादरवनस्पतिकायिकानाम्, ‘पञ्जत्तयाणं’ पर्याप्तकानाम् ‘वायरनिगोदपञ्जत्तयाणं’ वादरनिगोदपर्याप्तकानाम् ‘वायरतसकाइय-पञ्जत्तयाणं’ वादरत्रसकायिकपर्याप्तकानाञ्च मध्ये ‘कयरे कयरेहितो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सन्वत्थोवा वायरतेउकाइया पञ्जत्तया’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः वादरतेजःकायिकाः पर्याप्तका भवन्ति तेषां कतिचित्समयन्यूनैरावलिकासमयैर्गुणितस्य आवलिकासमयवर्गस्य यावान् समयराशि भवति तावत्प्रमाणत्वात्,

अब समुच्चय आदि बादर पर्याप्तकों का अल्पबहुत्व प्ररूपित करते हैं—

हे भगवन् ! इन बादर पर्याप्तकों, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्तों, बादर अप्राकायिक पर्याप्तकों, बादर तेजस्कायिक पर्याप्तों, बादर वायुकायिक पर्याप्तों, प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकाय के पर्याप्तों, बादर निगोद के पर्याप्तकों तथा बादर त्रसकायिक पर्याप्तकों में से कौन से अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! बादर तेजस्कायिक पर्याप्त सबसे कम हैं, क्योंकि वे कुछ समय कम एक आवलिका के समयों के साथ एक आवलिका के समयवर्ग का गुणाकार करने पर जो

हुवे समुच्चय आदि बादर पर्याप्तकोना अल्पबहुत्वने प्ररूपित करे छे—

हे भगवन् ! आ बादर पर्याप्तको, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्तो, बादर अप्राकायिक पर्याप्तो, बादर तेजस्कायिक पर्याप्तो, बादर वायुकायिक पर्याप्तको, प्रत्येक शरीर बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तको, बादर निगोदना पर्याप्तको तथा बादर त्रसकायिक पर्याप्तकोमाथी केषु कोनाथी अल्प, धल्ला तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! बादर तेजस्कायिक पर्याप्तको माथाथी जोछा छे, केभके तेजो थोडा समय जोछा तेवी ओक आवलिकाना समयोनी साथे ओक आवलिकाना समय वर्गोना गुणाकार करवाथी जे समय

तथाचोक्तम्—‘आवलिय वग्गो ऊणावलिय गुणिओ हु वायरातेउ’

छाया—आवलिकावर्गः ऊणावलिकया गुणितो भवति वादरास्तेजःकायिका इति, तेभ्यः ‘वायरत्सकाइया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा’ वादरत्रसकायिकाः वादरद्वीन्द्रियादयः पर्याप्तताः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेषां प्रतरं यावन्ति अङ्गुलासंख्येयभागमात्राणि खण्डानि भवन्ति तावत्प्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि ‘पत्तेय-सरीरवायरवणस्सइकाइया’ प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकाः ‘पञ्जत्तया अमं-खेज्जगुणा’ पर्याप्तता असंख्येयगुणा भवन्ति, तेषां प्रतरं यावन्ति अङ्गुला-संख्येयभागमात्राणि खण्डानि भवन्ति तावत्प्रमाणत्वात् तथाचोक्तम्—

‘पत्तेय पञ्जत्तवणकाइयाओ पवरं हरंति लोगस्स । अंगुलअसंखभागेण भाइय मिति’ प्रत्येकपर्याप्त वनस्पतिकायिकाः प्रतरं हरन्ति लोकस्य । अङ्गुलासंख्येय-भागेन भाजिता इति, तेभ्योऽपि ‘वायरनिगोदा पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा’

समय राशि लब्ध होती है, उतना ही उनका परिमाण है । कहा भी है—‘आवलिका के वर्ग को कुछ समय कम एक आवलिका से गुणित करने पर जो संख्या हो उतने ही वादर तेजस्कायिक हैं ।’ वादर तेजस्कायिकों की अपेक्षा वादर त्रसकायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि प्रतर में अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र जितने खंड होते हैं, उतनी ही उनकी संख्या है । उनकी अपेक्षा प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि प्रतर में जितने अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र खंड होते हैं वे उतने ही हैं । कहा भी है—प्रत्येक वनस्पतिकायिक पर्याप्त अंगुल के असंख्या-तवें भाग से विभाजित होकर लोक के प्रतर को हरण करते हैं । इन की अपेक्षा वादर निगोद के पर्याप्त असंख्यगुणा हैं, क्योंकि

राशि लब्ध थाय छे, तेट्ठु ज तेओनु परिभाणु छे, कहु पणु छे डे—आव-
लिकाना वग्गे क्कं समय ओओ तेवा ओक आवलिकाथी गुणवाथी जे सप्या
थाय, तेट्ठु ज वादर तेजस्कायिके छे वादर तेजस्कायिकेनी अपेक्षाओ वादर
त्रसकायिक पर्याप्तक असंख्यात गणु छे, डेमके प्रतरमा अशुदना असं-
ख्यातमा भागमात्र जेट्ठु ज थय छे, तेट्ठु ज तेओनी सप्या छे, तेमनी
अपेक्षाओ प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त असंख्यातगणु छे,
डेमके प्रतरमा जेट्ठु अशुदना असंख्यातमा भाग मात्र जे जने छे, तेओ
तेट्ठु ज छे, कहु पणु छे—प्रत्येक वनस्पतिकायिक पर्याप्तके अशुदना असंख्या-
तमा भागधी विभाजित गनीने लोकना प्रतरने हरण करे छे, तेमनी अपेक्षाओ
वादर निगोदना पर्याप्त असंख्य गणु छे, डेमके तेमनी अवगाहना अत्यन्त

वादरनिगोदाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेपामत्यन्तसूक्ष्मावगाहनत्वात्, जलाशयेषु च सर्वत्र सद्भावात्, तेभ्योऽपि—‘वायरपुढविकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा’ वादरपृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति तेपामत्यधिक संख्यप्रतराङ्गुलासंख्येयभागखण्डप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि ‘वायरआउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा’ वादराप्कायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः भवन्ति, तेपामत्यधिकतर संख्यप्रतराङ्गुलासंख्येयभागखण्डप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि—‘वायरवाउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा’ वादरवायुकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः भवन्ति तेषां घनीकृतलोकस्य असंख्येयसंख्याततमभागवर्त्याकाशप्रदेशप्रमाणत्वात् तेभ्योऽपि ‘वायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया अणंतगुणा’ वादरवनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः अनन्तगुणा भवन्ति, प्रतिवादरैकैकं निगोदमनन्तानां जीवानां सद्भावात्, तेभ्योऽपि ‘वायरपज्जत्तया विसेसाहिया’ वादर पर्याप्तकाः समुच्चय वादरपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः भवन्ति, वादरतेजःका-

उनकी अवगाहना अत्यन्त सूक्ष्म होती है और वे जलाशयों में सर्वत्र पाये जाते हैं। वादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त उनसे भी असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि वे अत्यधिक संख्यावाले प्रतरांगुलों के असंख्येय भाग खण्डों के बराबर हैं। वादर अप्कायिक पर्याप्त उनसे भी असंख्यात गुणा हैं। वादर वायुकायिक पर्याप्त उनसे भी असंख्यात गुणा हैं, क्योंकि वे घनीकृत लोक के असंख्यात संख्याततम भाग में जितने आकाश प्रदेश होते हैं उनके बराबर है। उनकी अपेक्षा वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनन्त गुणित हैं; क्योंकि एक-एक वादर निगोद में अनन्त-अनन्त जीव होते हैं। समुच्चय वादर पर्याप्तक उनसे भी कुछ अधिक हैं, क्यों कि इन में वादर तेजस्कायिक आदि का भी समावेश हो जाता है।

सूक्ष्म थाय छे अने तेओ जलाशयोमा सर्वत्र मणी आवे छे वादर पृथ्वी कायिक पर्याप्त तेओथी पणु असंख्यात गणु छे, केमके तेओ अत्यधिक संख्या वाणा प्रतराणुलोना असंख्येय भाग भडोनी अराअर छे वादर अप्कायिक पर्याप्त तेओथी पणु असंख्यात गणु छे, वादर वायुकायिक पर्याप्त तेमनाथी पणु असंख्यात गणु छे, केमके तेओ घनीकृत लोकना असंख्यात संख्यात तम भागमा नेटली आकाश प्रदेश होय छे, तेमना अराअर छे, तेमनी अपेक्षाओ वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनन्तगुणित छे, केमके ओक ओक वादर निगोदमा अनन्त-अनन्त जीव होय छे, समुच्चय वादर पर्याप्तक तेमनाथी अंधक अधिक छे, केमके ओमा वादर तेजस्कायिक

यिकादीनामपि पर्याप्तकानां तत्र समावेशात्, अथ समुच्चय वादराणामेव पर्याप्तापर्याप्तानाम् अल्पवहुत्वादिकमाह—‘एएसि णं भंते ! वायराणं पज्जत्तापज्जत्तागुणं’ हे भदन्त ! एतेषां खलु वादराणाम्—समुच्चयवादरजीवानां, पर्याप्ता, पर्याप्तकानां मध्ये ‘कयरे कयरेहितो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सव्वत्थोवा वायरपज्जत्ताया’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, वादरपर्याप्तका भवन्ति, ‘वायरअपज्जत्तागा असंखेज्जगुणा’ वायरापर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, वादरैकैकपर्याप्तनिश्रया असंख्येयानां वादरापर्याप्तकानां समुत्पादात् । तथाचोक्तम्—

‘पज्जत्ताग निस्साए अपज्जत्तागा वक्कमंति । जत्थ एगो तत्थ नियमा असं-

अब पूर्वोक्त जीवों के ही पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों का अल्प-बहुत्व प्रदर्शित करते हैं—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन वादर जीवों के पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सब से पर्याप्त वादर हैं, अपर्याप्त वादर उनसे असंख्यगुणा अधिक हैं, क्यों कि एक-एक पर्याप्त के आश्रय से असंख्यात-असंख्यात वादर अपर्याप्त उत्पन्न होते हैं । कहा भी है—‘पर्याप्तक के आश्रय से अपर्याप्तक उत्पन्न होते हैं । जहाँ एक पर्याप्तक है, वहाँ नियम से असंख्यात अपर्याप्तक होते हैं । इसी प्रकार पर्याप्तकों की अपेक्षा अपर्याप्तक सभी जगह असंख्यातगुणा कह लेने चाहिए ।

आदिना पणु सणुवेश थध नय छे.

इसे पूर्वोक्त लोचना न पर्याप्तको अने अपर्याप्तकोतुं अल्प, बहुत्व-प्रदर्शित करे छे—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! आ आदर लोचना पर्याप्तको अने अपर्याप्तकोमा कोणु कोनाथी अल्प, धणु, तुल्य अथवा विशेषाधिक न ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! अधाथी छे, अपर्याप्त आदर तेमनाथी असंख्यात गणु अधिक पर्याप्त आदरना आश्रयथी असंख्यात पर्याप्त या थाय छे, कहु पणु छे के—पर्याप्तकना अ पर्याप्तक अके पर्याप्तक छे, ला नियमथी अ पर्याप्तकोनी अपेक्षाअे अपर्याप्तक अस

वादरनिगोदाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेषामत्यन्तसूक्ष्मावगाहनत्वात्, जलाशयेषु च सर्वत्र सद्भावात्, तेभ्योऽपि—‘वायरपुढविकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा’ वादरपृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति तेषामत्यधिक संख्यप्रतराङ्गुलासंख्येयभागखण्डप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि ‘वायरआउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा’ वादराप्कायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः भवन्ति, तेषामत्यधिकतर संख्यप्रतराङ्गुलासंख्येयभागखण्डप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि—‘वायरवाउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा’ वादरवायुकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः भवन्ति तेषां घनीकृतलोकस्य असंख्येयसंख्याततमभागवर्त्याकाशप्रदेशप्रमाणत्वात् तेभ्योऽपि ‘वायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया अणंतगुणा’ वादरवनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः अनन्तगुणा भवन्ति, प्रतिवादर्कैक निगोदमनन्तानां जीवानां सद्भावात्, तेभ्योऽपि ‘वायरपज्जत्तया विसेसाहिया’ वादर पर्याप्तकाः समुच्चय वादरपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः भवन्ति, वादरतेजःका-

उनकी अवगाहना अत्यन्त सूक्ष्म होती है और वे जलाशयों में सर्वत्र पाये जाते हैं। वादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त उनसे भी असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि वे अत्यधिक संख्यावाले प्रतरांगुलों के असंख्येय भाग खण्डों के बराबर हैं। वादर अप्कायिक पर्याप्त उनसे भी असंख्यात गुणा हैं। वादर वायुकायिक पर्याप्त उनसे भी असंख्यात गुणा हैं, क्योंकि वे घनीकृत लोक के असंख्यात संख्याततम भाग में जितने आकाश प्रदेश होते हैं उनके बराबर हैं। उनकी अपेक्षा वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनन्त गुणित हैं; क्योंकि एक-एक वादर निगोद में अनन्त-अनन्त जीव होते हैं। समुच्चय वादर पर्याप्तक उनसे भी कुछ अधिक हैं, क्यों कि इन में वादर तेजस्कायिक आदि का भी समावेश हो जाता है।

सूक्ष्म थाय छे अने तेओ जलाशयोमा सर्वत्र भणी आवे छे वादर पृथ्वी कायिक पर्याप्त तेओथी पणु असंख्यात गणु छे, केभके तेओ अत्यधिक संख्या वाणा प्रतरांगुलोना असंख्येय भाग भडानी बराबर छे वादर अप्कायिक पर्याप्त तेओथी पणु असंख्यात गणु छे, वादर वायुकायिक पर्याप्त तेमनाथी पणु असंख्यात गणु छे, केभके तेओ घनीकृत लोकना असंख्यात संख्यात तम भागमा ँटलो आकाश प्रदेश होय छे, तेमना बराबर छे, तेमनी अपेक्षामे वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनन्तगुणित छे, केभके ओक ओक वादर निगोदमा अनन्त-अनन्त जीव होय छे, समुच्चय वादर पर्याप्तक तेमनाथी कायिक अधिक छे, केभके ओमा वादर तेजस्कायिक

सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः वादराफ्कायिकाः पर्याप्तका भवन्ति, तेभ्यो—वायर-
आउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादराफ्कायिकाः अपर्याप्तकाः असंखेय-
गुणा भवन्ति, प्राशुक्तयुक्तेः, गौतमः पृच्छति—'एएसि णं मंते ! वायरतेउ-
काइयाणं पज्जत्तापज्जत्तगाणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु वादरतेजः कायिकाना
पर्याप्तापर्याप्तकानां मध्ये 'कयरे कयरेहितो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया
वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषा-
धिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्वत्थोवा
वायरतेउकाइया' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः वादरतेजः कायिकाः 'पज्जत्तया'
पर्याप्तका भवन्ति, तेभ्यः 'अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' अपर्याप्तका वादर तेजः-
कायिकाः असंखेयगुणा भवन्ति, प्राशुक्तयुक्तेः, गौतमः पृच्छति—'एएसि णं
मंते ! वायरवाउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्तगाणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु वादर
वायुकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तकानां मध्ये 'कयरे कयरेहितो' कतरे कतरेभ्यः
'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा,
तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम !

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन वादर तेज-
स्कायिकों के पर्याप्तों और अपर्याप्तों में कौन किसकी अपेक्षा अल्प,
बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं । श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे
गौतम ! वादर तेजस्काय के पर्याप्त सब से कम हैं, अपर्याप्त उनसे
असंख्यत गुणा अधिक हैं ।

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन वादर वायुकाय
के पर्याप्तों और अपर्याप्तों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य
अथवा विशेषाधिक हैं ? श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! वादर

श्री भगवान् । उत्तर आपे छे—हे गौतम ! पर्याप्त पादर अप्काधिक
पधाधी ओछा छे, अपर्याप्त तेमनी अपेक्षाये असंख्यातगणा अधिक छे.

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! आ पादर तेजस्कायिकाना
पर्याप्तो अने अपर्याप्तोमा केणु केनाथी अल्प, घण्टा तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! पादर तेजस्कायना पर्याप्त
पधाधी ओछा छे, अपर्याप्त तेमनाथी असंख्यात गणा अधिक छे.

श्री गौतम ! स्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! आ पादर कायना पर्याप्तो
अने अपर्याप्तोमा केणु केनाथी अल्प, घण्टा, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! पादर वायुकायना पर्याप्त पधाधी
ओछा छे, पादर वायुकायना अपर्याप्त तेमनाथी असंख्यातगणा अधिक छे,

खेज्जा' इति, पर्याप्तकनिश्रया अपर्याप्तका व्युत्क्रामन्ति, यत्रैकस्तत्र नियमात् असंख्येयाः इति, सर्वत्र पर्याप्तैभ्योऽपर्याप्ता असंख्येयगुणावाच्याः,

अथ तेषामेवसमुदितानां पर्याप्तापर्याप्तानामल्पत्वादिकं गौतमः पृच्छति- 'एएसि णं भंते ! वायरपुढविकाइयाणं' हे भदन्त ! एतेषा खलु वादरपृथिवीकायिकानाम् 'पज्जत्तापज्जत्तयाणं' पर्याप्तापर्याप्तकानां 'कयरे कयरेहिंतो' कतरे कतरेभ्यः; 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति- 'गोयमा' हे गौतम ! 'सवत्थोवा वायरपुढविकाइया पज्जत्तया' सर्वस्तोकाः- सर्वेभ्योऽल्पाः वादरपृथिवीकायिकाः पर्याप्तका भवन्ति, तेभ्यो 'वायरपुढविकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादरपृथिवीकायिकाः अपर्याप्तका असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, गौतमः पृच्छति- 'एएसि णं भंते ! वायरआउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्तयाणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु वादरापकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तकानां मध्ये 'कयरे कयरेहिंतो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति- 'गोयमा !' हे गौतम ! 'सवत्थोवा वायरआउकाइया पज्जत्तया'.

अब गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं-हे भगवन् ! इन वादर पृथिवीकायिकों के पर्याप्तों और अपर्याप्तों में कौन किसरो अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं-हे गौतम ! वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त सब से हैं, वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त उनसे असंख्यातगुणा अधिक हैं ।

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं-हे भगवन् ! इन वादर अपकायिकों के पर्याप्तों और अपर्याप्तों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं-हे गौतम ! पर्याप्त वादर अपकायिक सब से कम हैं, अपर्याप्त उनकी अपेक्षा असंख्यात गुणा अधिक हैं ।

हुवे श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे-हे भगवन् ! आ वादर पृथिवीकायिकेना पर्याप्तो अने अपर्याप्तोमा केणु केनाथी अल्प, धणु तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे-हे गौतम ! वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त णधाथी ओछा छे, वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त तेमनाथी अस पथातगणु अधिक छे.

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे-हे भगवन् ! आ वादर अपकायिकना पर्याप्तके अने अपर्याप्तकेमा केणु केनाथी अल्प, धणु, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः वादराप्कायिकाः पर्याप्तका भवन्ति, तेभ्यो—वायर-
आउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादराप्कायिकाः अपर्गाप्तकाः असंखेय-
गुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, गौतमः पृच्छति—'एएसि णं भंते ! वायरतेउ-
काइयाणं पज्जत्तापज्जत्तगाणं' हे भदन्त ! एतेषा खलु वादरतेजः कायिकानां
पर्याप्तापर्याप्तकानां मध्ये 'कयरे कयरेहितो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया
वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषा-
धिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्वत्थोवा
वायरतेउकाइया' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः वादरतेजः कायिकाः 'पज्जत्तया'
पर्याप्तका भवन्ति, तेभ्यः 'अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' अपर्याप्तका वादर तेजः-
कायिकाः असंखेयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, गौतमः पृच्छति—'एएसि णं
भंते ! वायरवाउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्तगाणं' हे भदन्त ! एतेषा खलु वादर
वायुकायिकानां पर्याप्तापर्याप्तकानां मध्ये 'कयरे कयरेहितो' कतरे कतरेभ्यः
'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा,
तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम !

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन वादर तेज-
स्कायिकों के पर्याप्तों और अपर्याप्तों में कौन किसकी अपेक्षा अल्प,
बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ? श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे
गौतम ! वादर तेजस्काय के पर्याप्त सब से कम हैं, अपर्याप्त उनसे
असख्यात गुणा अधिक हैं ।

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन वादर वायुकाय
के पर्याप्तों और अपर्याप्तों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य
अथवा विशेषाधिक हैं ? श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! वादर

श्री भगवान् । उत्तर आपे छे—हे गौतम ! पर्याप्त आदर अप्कायिक
अधाथी ओछा छे, अपर्याप्त तेमनी अपेक्षाअे अस ज्ञानगण्णा अधिक छे.

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् । आ आदर तेजस्कायिकेना
पर्याप्तो अने अपर्याप्तोमां केणु केनाथी अल्प, धण्णा तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम । आदर तेजस्कायना पर्याप्त
अधाथी ओछा छे, अपर्याप्त तेमनाथी अस ज्ञान गण्णा अधिक छे.

श्री गौतम । स्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् । आ आदर कायना पर्याप्तो
अने अपर्याप्तोमा केणु केनाथी अल्प, धण्णा, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम । आदर वायुकायना पर्याप्त अधाथी
ओछा छे, आदर वायुकायना अपर्याप्त तेमनाथी अस ज्ञानगण्णा अधिक छे,

‘સવ્વત્થોવા વાયરવાડકાઈયા પજ્જત્તયા’ સર્વસ્તોકાઃ-સર્વેભ્યોડલ્પાઃ, વાદર વાયુકાયિકાઃ પર્યાપ્તકા ભવન્તિ તેભ્યો ‘વાયરવાડકાઈયા અપજ્જત્તગા અસંખેજ્જગુણા’ વાદર વાયુકાયિકાઃ અપર્યાપ્તકાઃ અસંખ્યેયગુણા ભવન્તિ, પ્રાગુક્તયુક્તેઃ, ગૌતમઃ પૃચ્છતિ-‘એસિ ણં મંતે ! વાયરવળસ્સઈકાઈયાણં પજ્જત્તાપજ્જત્તગાણં’ હે મદન્ત ! એતેપાં સ્ખલ્લ વાદરવનસ્પતિકાયિકાનાં પર્યાપ્તાપર્યાપ્તકાનાં મધ્યે ‘કયરે કયરેહિંતો’ કતરે કતરેભ્યઃ ‘અપ્પા વા, વહુયા વા, તુલ્લા વા, વિસેસા-હિયા વા ?’ અલ્પા વા, વહુકા વા, તુલ્યા વા, વિશેષાધિકા વા ભવન્તિ ? મગવાન્ ઉત્તરયતિ-‘ગોયમા !’ હે ગૌતમ ! ‘સવ્વત્થોવા વાયરવળસ્સઈકાઈયા પજ્જત્તયા’ સર્વસ્તોકાઃ-સર્વેભ્યોડલ્પાઃ વાદર વનસ્પતિકાયિકાઃ પર્યાપ્તકાઃ ભવન્તિ તેભ્યોડપિ ‘વાયરવળસ્સઈકાઈયા અપજ્જત્તયા અસંખેજ્જગુણા’ વાદર વન-

વાયુકાય કે પર્યાપ્ત સ્વ સે કમ હૈ, વાદર વાયુકાય કે અપર્યાપ્ત ઉન સે અસંખ્યાત ગુણા અધિક હૈ ।

શ્રી ગૌતમ સ્વામી પ્રશ્ન કરતે હૈ-હે મગવન્ ! ઇન વાદર વન-સ્પતિકાયિકોં કે પર્યાપ્તકોં ઓર અપર્યાપ્તકોં મેં કૌન કિસસે અલ્પ, વહુત, તુલ્ય યા વિશેષાધિક હૈ ? શ્રી મગવાન્ ઉત્તર દેતે હૈ-હે ગૌતમ ! સ્વસે કમ વાદર વનસ્પતિકાય કે પર્યાપ્ત હૈ, વાદર વનસ્પતિકાય કે અપર્યાપ્ત ઉનસે અસંખ્યાતગુણા અધિક હૈ ।

શ્રી ગૌતમ સ્વામી પ્રશ્ન કરતે હૈ-હે મગવન્ ! ઇન પ્રત્યેક શરીર વાદર વનસ્પતિકાયિકોં કે પર્યાપ્ત ઓર અપર્યાપ્ત જીવોં મેં કૌન કિસસે અલ્પ, વહુત, તુલ્ય અથવા વિશેષાધિક હૈ ? શ્રી મગવાન્ ઉત્તર દેતે હૈ-હે ગૌતમ ! પર્યાપ્ત પ્રત્યેક શરીર વાદર વનસ્પતિકાયિક સ્વ સે કમ હૈ, અપર્યાપ્ત ઉનકી અપેક્ષા અસંખ્યાતગુણા હૈ, અપર્યાપ્તક

શ્રી ગૌતમ સ્વામી પ્રશ્ન કરે છે-હે ભગવન્ । આ બાહર વનસ્પતિકા-યિકોના પર્યાપ્તકો અને અપર્યાપ્તકોમાં કોણ કોનાથી અલ્પ, ઘણા, તુલ્ય અગર વિશેષાધિક છે ?

શ્રી ભગવાન્ ઉત્તર આપે છે-હે ગૌતમ । બધાથી ઓછા બાહરવનસ્પતિકાયનાં પર્યાપ્ત છે, બાહર વનસ્પતિકાયના અપર્યાપ્ત તેમનાથી અસંખ્યાત-ઘણા અધિક છે.

શ્રી ગૌતમ સ્વામી પ્રશ્ન કરે છે-હે ભગવન્ । આ પ્રત્યેક શરીર બાહર વનસ્પતિકાયિકોના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત બંનેમાં કોણ કોનાથી અધિક, અલ્પ, તુલ્ય અથવા વિશેષાધિક છે ?

શ્રી ભગવાન્ ઉત્તર આપે છે-હે ગૌતમ । પર્યાપ્ત પ્રત્યેક શરીર બાહર વનસ્પતિકાયિક બધાથી ઓછા છે, અપર્યાપ્ત તેમની અપેક્ષાએ અસંખ્યાતઘણા

स्पतिकायिका अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः, गौतमः पृच्छति—‘एएसि ण भंते ! पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइयाणं’ हे भदन्त ! एतेषां खलु प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकानां ‘पज्जत्तापज्जत्तगाणं’ पर्याप्तापर्याप्तकानां मध्ये ‘कयरे कयरेहिंतो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा?’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सव्वत्थोवा पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकाः पर्याप्तका भवन्ति, तेभ्यः ‘पत्तेयसरीर वादरवणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा’ प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः, ‘पज्जत्तगानिस्साए अपज्जत्तगा वक्कमत्ति, जत्थ एक्को तत्थ नियमा असंखेज्जा’ पर्याप्तकनिश्चया अपर्याप्तका व्युत्क्रामन्ति, यत्र एकस्तत्र नियमात् असंख्येया इति वचनप्रामाण्याच्च, गौतमः पृच्छति—‘एएसि णं भंते ! वायरनिगोयाणं पज्जत्तापज्जत्तगाणं कयरे कयरेहिंतो’ हे भदन्त ! एतेषां खलु वादरनिगोदानां पर्याप्तापर्याप्तकानां मध्ये कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सव्वत्थोवा वायरनिगोया पज्जत्ता’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः वादरनिगोदाः पर्याप्तका भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘वायरनिगोया अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा’

जीवों के असंख्यातगुणा होने का कारण पूर्व में कहा जा चुका है और वह यह है कि पर्याप्तक जीव के आश्रय से अपर्याप्तों की उत्पत्ति होती है, अतएव जहां एक पर्याप्तक हो वहां नियम से असंख्य अपर्याप्तक होते हैं ।

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! वादर निगोद के पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ? श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! वादर निगोद के पर्याप्त सब से कम हैं, वादर निगोद के अपर्याप्त उनकी

छे, अपर्याप्तक लुवे असंख्यात गण्णा डोवानु करणु आगण कडेवायेलु छे अने ते अे छे के पर्याप्तक लुवना आश्रयथी अपर्याप्तकानी उत्पत्ति थाय छे, तेथी न न्या अेक पर्याप्तक छे, त्या नियमथी असंख्य पर्याप्तक थाय छे.

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! वादर निगोदना पर्याप्तके अने अपर्याप्तकेमा केषु केनाथी अल्प, धण्णा, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे

श्री भगवन् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! वादर निगोदना पर्याप्तक अधाथी

वादरनिगोदाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, गौतमः पृच्छति—‘एएसि णं भंते ! वायरतसकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं’ हे भदन्त ! एतेषां खलु वादरत्रसकायिकानां—द्वीन्द्रियादि वादराणाम्, पर्याप्तापर्याप्तानां मध्ये ‘कयरे कयरेहिंते’ कतरे फतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसा-हिया वा’ अल्पा वा बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘सव्वत्थोवा वायरतसकाइया पज्जत्ता’ सर्व-स्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः वादरत्रसकायिकाः द्वीन्द्रियादि वादराः, पर्याप्तकाः भवन्ति, तेभ्योऽपि—‘वायरतसकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा’ वादरत्रसकायिकाः द्वीन्द्रियादि वादराः, अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः, अथैतेषामेव समुदितानां समुच्चयवादराणां पर्याप्तापर्याप्तानामल्पबहुत्वादिकं प्ररूपयति—‘एएसि णं भंते ! वायराणं’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतेषां खलु वादराणां स्थूलानां जीवानाम् ‘वायरपुढवीकाइयाणं’ वादर पृथ्वीकायिकानां ‘वायरआउक्काइयाणं’ वादरअप्कायिकानां ‘वायरतेउकाइयाणं’ वादरतेजःकायिकानां ‘वायरवाउकाइयाणं’ वादरवायुकायिकानां ‘वायरवणस्सइकाइयाणं’ वादर वनस्पतिकायिकानाम् ‘पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइयाणं’ प्रत्येकशरीरवादर अपेक्षा असंख्यात गुणा हैं ।

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! वादर त्रसकाय के पर्याप्त और अपर्याप्तकों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! वादर त्रसकायिक पर्याप्त सबसे कम हैं, त्रसकायिक वादर अपर्याप्त उनसे असंख्यात गुणा हैं ।

श्री-गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! समुच्चय वादर जीवों के, वादर पृथ्वीकायिकों के, वादर अप्कायिकों के, वादर तेजःस्कायिकों के, वादर वायुकायिकों के, वादर वनस्पतिकायिकों के,

ओछा छे, वादर निगोदना अपर्याप्त तेमनी अपेक्षाओ अत्र पथातगण्ठा छे ।

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! वादर त्रसकायना पर्याप्तो अने अपर्याप्तमा डोखु डोनाथी अल्प, तुल्य धण्ठा अथवा विशेषाधिक छे

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! वादर त्रसकायिक पर्याप्त सौथी ओछा छे, त्रसकायिक वादर अपर्याप्त तेमनाथी असंख्यात गण्ठा छे

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! समुच्चय वादर लोवोना वादर पृथ्वीकायोना, वादर वणकायिकोना, वादर तेजःस्कायिकोना, वादर वायु कायिकोना, वादर वनस्पतिकायिकोना, प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिकोना,

वनस्पतिकायिकानाम् 'वायरनिगोयाणं' वादर निगोदानां 'वायरत्सकाइयाणं' वादरत्रसकायिकानाम् 'पज्जत्तापज्जत्ताणं' पर्याप्तापर्याप्तानां मध्ये 'कयरे कयरे-हिंतो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुलया वा, विसेसादिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा, तुलया वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'शोयमा !' हे गौतम ! 'सव्वत्थोवा वायरतेउकाइया पज्जत्तया' सर्वस्तोकाः वादरतेजःकायिकाः पर्याप्तकाः भवन्ति, तेभ्योऽपि—'वायर-त्सकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादरत्रसकायिकाः—टीन्द्रियादि वादराः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'पत्थेयसरीरनायरवणस्सइ-काइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा' प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकाः पर्या-प्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायरनिगोया पज्जत्तया असं-खेज्जगुणा' वादर निगोदाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायर पुढविकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादर पृथ्वीकायिकाः पर्याप्तकाः असं-ख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायरभाउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा'

प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिकों के, वादर निगोदों के तथा वादर त्रसकायिकों के पर्याप्तों और अपर्याप्तों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सब से कम वादर तेज-स्कायिक पर्याप्त हैं, उनकी अपेक्षा वादर त्रसकायिक पर्याप्त असं-ख्यातगुणा हैं, उनकी अपेक्षा वादर त्रसकायिक अपर्याप्त असंख्यात-गुणा हैं, उनकी अपेक्षा प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, उनसे वादर निगोद के पर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, उनसे वादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा हैं । उनसे वादर अप्कायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, उनसे वादर वायुकायिक पर्याप्त

वादर निगोदना तथा वादर त्रसकायिकेना पर्याप्ते अने अपर्याप्तेमा केषु केनाथी अल्प, बहुया, तुल्य अजर विशेषाधिके छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छेः—हे गौतम ! अधाथी ओछा वादर तेज-स्कायिक पर्याप्त छे, तेमनी अपेक्षाअे वादर त्रसकायिक पर्याप्त असंख्यातगणु छे, तेमनी अपेक्षाअे वादर त्रसकायिक अपर्याप्त असंख्यातगणु छे, तेमनी अपेक्षाअे प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त असंख्यातगणु छे, तेमनाथी वादर निगोदना पर्याप्त असंख्यातगणु छे, तेमनाथी वादर पृथ्वी-कायिक पर्याप्त असंख्यातगणु छे, तेमनाथी वादर वायुकायिक पर्याप्त असं-ख्यात गणु छे, तेमनाथी वादर वायुकायिक पर्याप्त असंख्यातगणु छे, तेम-

वादराष्कायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायरवाउ-
काइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादरवायुकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा
भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायरतेउकाइया अपज्जत्तया' वादर तेजःकायिका अप-
र्याप्तकाः 'असंखेज्जगुणा' असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'पत्तेयसररीर वायर-
वणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' प्रत्येकशरीर वादर वनस्पति-
कायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्राशुक्तयुक्तेः तेभ्योऽपि 'वायर
निगोया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादर निगोदाः अपर्याप्तकाः असंख्येय-
गुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायरपुढविकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादर
पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति तेभ्योऽपि 'वायरआउ-
काइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादराष्कायिका अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा
भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायरवाउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादर
वायुकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि वादर वायुका-
यिका पर्याप्तकेभ्यः 'वायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया अणंतगुणा' वादर वन-
स्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः अनन्तगुणा भवन्ति प्रतिवादैरैकैकनिगोदमनन्तानां
जीवानां सद्भावात् तेभ्योऽपि 'वायरवणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा'
वादरवनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायर

असंख्यात गुणा हैं, उनसे वादर तेस्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा
हैं, उनसे प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक असंख्यातगुणा हैं,
उनसे वादर निगोद के अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं, उनसे वादर
पृथ्वीकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, उनसे वादर अष्कायिक
अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, उनसे वादर वायुकायिक अपर्याप्त
असंख्यातगुणा हैं, उनसे वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनन्तगुणा
हैं, क्योंकि एक-एक निगोद में अनन्त-अनन्त जीव होते हैं। वादर
वनस्पतिकायिक पर्याप्तों से वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यात-

नाथी आदर तेजःकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे, तेमनाथी प्रत्येक
शरीर आदर वनस्पतिकायिक असंख्यात गणु छे, तेमनाथी आदर निगोदना
अपर्याप्त असंख्यात गणु छे, तेमनाथी आदर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त असं-
ख्यातगणु छे, तेमनाथी आदर अष्कायिक अपर्याप्त असंख्यात गणु छे,
तेमनाथी आदर वायुकायिक अपर्याप्त असंख्यात गणु छे, तेमनाथी आदर
वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनन्तगणु छे, केमके एक एक निगोदमा अनन्त-
अनन्त एव होय छे, आदर वनस्पतिकायिक पर्याप्तोथी आदर वनस्पति-
कायिक अपर्याप्त असंख्यात गणु छे अने तेमोथी आदर अपर्याप्त विशेषतः

अपञ्जत्तया विसेसाहिया' वादराः सामान्येन अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति वादरतेजःकायिकादीनामपि अपर्याप्तानां तत्र समावेशात्, तेभ्योऽपि 'वायरा विसेसाहिया' वादराः समुच्चयवादरजीवाः पर्याप्तापर्याप्त विशेषणरहिता विशेषाधिका भवन्ति वादरपर्याप्त तेजःकायिकादीनामपि तत्र समावेशात् इत्याशयः ॥सू० ७॥

सूक्ष्मवादर समुदायाल्पवहुत्व वक्तव्यता-

मूलम्—एषसि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढविकाइयाणं सुहुम आउकाइयाणं सुहुमवादरतेउकाइयाणं, सुहुमवाउकाइयाणं, हुमवणस्सइकाइयाणं सुहुमनिगोयाणं, वायराणं वादरपुढवीकाइयाणं वायरआउकाइयाणं वायरतेउकाइयाणं वायरवाउकाइयाणं वायरवणस्सइकाइयाणं पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइयाणं वायरनिगोयाणं तसकाइयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा? गोयमा ! सबत्थोवा वायरतसकाइया वायरतेउकाइया असंखेज्जगुणा, पत्तेयसरीरवादरवणस्सइकाइया असंखेज्जगुणा, वायरनिगोया असंखेज्जगुणा, वायरपुढवीकाइया असंखेज्जगुणा, वादरआउकाइया असंखेज्जगुणा, वायरवाउकाइया असंखेज्जगुणा, सुहुमतेउकाइया असंखेज्जगुणा, सुहुमपुढवीकाइया विसेसाहिया, सुहुमआउकाइया विसेसाहिया, सुहुमवाउकाइया विसेसाहिया, सुहुमनिगोया असंखेज्जगुणा, वायरवणस्सइकाइया अणंतगुणा, वायरा विसेसाहिया, सुहुमवणस्सइकाइया असं-

गुणा हैं और उनसे वादर अपर्याप्त विशेषाधिक हैं, क्योंकि इनमें वादर तेजस्कायिक अपर्याप्त आदि का भी समावेश हो जाता है । पर्याप्त और अपर्याप्त जिन में सम्मिलित हैं ऐसे सामान्य वादर जीव उनसे भी विशेषाधिक हैं ॥ ७ ॥

धिक छे, डेमके तेओमा आदर तेजस्कायिक अपर्याप्त आदिना पणु समावेश थं लय छे, पर्याप्त अने अपर्याप्त वेओमा सम्मिलित छे, ओवा सामान्य आदर एव तेमनाथी पणु विशेषाधिक छे ॥ ७ ॥

वादराप्कायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायरवाउ-
काइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादरनायुकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा
भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायरतेउकाइया अपज्जत्तया' वादर तेजःकायिका अप-
र्याप्तकाः 'असंखेज्जगुणा' असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'पत्तेयसररीर वायर-
वणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' प्रत्येकशरीर वादर वनस्पति-
कायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुग्मतेः तेभ्योऽपि 'वायर
निगोया अपज्जत्तया अगंखेज्जगुणा' वादर निगोदाः अपर्याप्तकाः असंख्येय-
गुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायरपुढविकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादर
पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति तेभ्योऽपि 'वायरआउ-
काइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादराप्कायिका अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा
भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायरवाउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादर
वायुकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि वादर वायुका-
यिका पर्याप्तकेभ्यः 'वायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया अणंतगुणा' वादर वन-
स्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः अनन्तगुणा भवन्ति प्रतिवादरैकैकनिगोदमनन्तानां
जीवानां सद्भावान् तेभ्योऽपि 'वायरवणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा'
वादरवनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायर

असंख्यात गुणा हैं, उनसे वादर तेस्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा
हैं, उनसे प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक असंख्यातगुणा हैं,
उनसे वादर निगोद के अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं, उनसे वादर
पृथ्वीकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, उनसे वादर अप्कायिक
अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, उनसे वादर वायुकायिक अपर्याप्त
असंख्यातगुणा हैं, उनसे वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनन्तगुणा
हैं, क्योंकि एक-एक निगोद में अनन्त-अनन्त जीव होते हैं। वादर
वनस्पतिकायिक पर्याप्तों से वादरवनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यात-

नाथी आदर तेवस्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे, तेमनाथी प्रत्येक
शरीर आदर वनस्पतिकायिक असंख्यात गणुा छे, तेमनाथी आदर निगोदना
अपर्याप्त असंख्यात गणुा छे, तेमनाथी आदर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त असं
ख्यातगणुा छे, तेमनाथी आदर अप्कायिक अपर्याप्त असंख्यात गणुा छे,
तेमनाथी आदर वायुकायिक अपर्याप्त असंख्यात गणुा छे, तेमनाथी आदर
वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनंतगणुा छे, केभके अेक अेक निगोदभा अनन्त-
अनन्त एव छे, आदर वनस्पतिकायिक पर्याप्तोथी आदर वनस्पति-
कायिक अपर्याप्त असंख्यात गणुा छे अने तेमोथी आदर अपर्याप्त विशेष-

अपञ्जत्तया विसेसाहिया' वादराः सामान्येन अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति वादरतेजःकायिकादीनामपि अपर्याप्ताना तत्र समावेशात्, तेभ्योऽपि 'वायरा विसेसाहिया' वादराः समुच्चयवादरजीवाः पर्याप्तापर्याप्त विशेषणरहिता विशेषाधिका भवन्ति वादरपर्याप्त तेजःकायिकादीनामपि तत्र समावेशात् इत्याशयः ॥सू० ७॥

सूक्ष्मवादर समुदायाल्पबहुत्व वक्तव्यता-

मूलम्-एषि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढविकाइयाणं सुहुम आउकाइयाणं सुहुमवादरतेउकाइयाणं, सुहुमवाउकाइयाणं, सुहुमवणस्सइकाइयाणं सुहुमनिगोयाणं, वायराणं वादरपुढवीकाइयाणं वायरआउकाइयाणं वायरतेउकाइयाणं वायरवाउकाइयाणं वायरवणस्सइकाइयाणं पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइयाणं वायरनिगोयाणं तसकाइयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा? गोयमा ! सवत्थोवा वायरतसकाइया वायरतेउकाइया असंखेज्जगुणा, पत्तेयसरीरवादरवणस्सइकाइया असंखेज्जगुणा, वायरनिगोया असंखेज्जगुणा, वायरपुढवीकाइया असंखेज्जगुणा, वादरआउकाइया असंखेज्जगुणा, वायरवाउकाइया असंखेज्जगुणा, सुहुमतेउकाइया असंखेज्जगुणा, सुहुमपुढवीकाइया विसेसाहिया, सुहुमआउकाइया विसेसाहिया, सुहुमवाउकाइया विसेसाहिया, सुहुमनिगोया असंखेज्जगुणा, वायरवणस्सइकाइया अणांतगुणा, वायरा विसेसाहिया, सुहुमवणस्सइकाइया असं-

गुणा हैं और उनसे वादर अपर्याप्त विशेषाधिक हैं, क्योंकि इनमें वादर तेजस्कायिक अपर्याप्त आदि का भी समावेश हो जाता है। पर्याप्त और अपर्याप्त जिन में सम्मिलित हैं ऐसे सामान्य वादर जीव उनसे भी विशेषाधिक हैं ॥७॥

धिक छे, केमके तेओमा आदर तेजस्कायिक अपर्याप्त आदिने पणु समावेश थध अथ छे, पर्याप्त अने अपर्याप्त तेओमा सम्मिलित छे, ओवा सामान्य आदर एव तेमनाथी पणु विशेषाधिक छे ॥७॥

खेज्जगुणा, सुहुमा विसेसाहिया । एएसि णं भंते ! सुहुमअप-
 ज्जत्तयाणं सुहुमपुढवीकाइयाणं अपज्जत्तयाणं सुहुमआउकाइ-
 याणं अपज्जत्तयाणं सुहुमतेउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं, सुहुमवाउ-
 काइयाणं अपज्जत्तयाणं सुहुमवणस्सइकाइयाणं अपज्जत्तयाणं
 सुहुमनिगोयाणं अपज्जत्तयाणं वायरअपज्जत्तयाणं वायरपुढवी-
 काइयाणं अपज्जत्तयाणं वायरआउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं वायर-
 तेउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं वायरवाउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं-
 वायरवणस्सइकाइयाणं अपज्जत्तयाणं, पत्तेयसरीर वायरवण-
 स्सइकाइयाणं अपज्जत्तयाणं, वादरनिगोयाणं अपज्जत्तयाणं
 वादरतसकाइयाणं अपज्जत्तयाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा,
 बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा
 वायरतसकाइया अपज्जत्तया, वायरतेउकाइया अपज्जत्तया
 असंखेज्जगुणा, पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइया अपज्जत्तया
 असंखेज्जगुणा, वायरनिगोया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायर-
 पुढवीकाइया अपज्जत्तया, असंखेज्जगुणा, वायरआउकाइया
 अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायरवाउकाइया अपज्जत्तया
 असंखेज्जगुणा, सुहुमतेउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा,
 सुहुमपुढवीकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया, सुहुमआउकाइया
 अपज्जत्तया विसेसाहिया, सुहुमवाउकाइया अपज्जत्तया विसे-
 साहिया, सुहुमनिगोया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायरवण-
 स्सइकाइया अपज्जत्तया अणंतगुणा, वायरा अपज्जत्तया विसे-
 साहिया, सुहुमवणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा,
 सुहुमाअपज्जत्तया विसेसाहिया । एएसि णं भंते ! सुहुमपज्ज-
 त्तयाणं, सुहुमपुढवीकाइया पज्जत्तयाणं, सुहुमआउकाइया
 पज्जत्तयाणं, सुहुमतेउकाइया पज्जत्तयाणं, सुहुमवाउकाइया

पञ्जत्तयाणं, सुहुमवणस्सइकाइया पञ्जत्तयाणं, पत्तेयसरीर
 वायरवणस्सइकाइया पञ्जत्तयाणं, वायरनिगोया पञ्जत्त-
 याणं, वायरतसकाइया पञ्जत्तयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा
 वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा? गोयमा ! सव्व-
 त्थोवा वायरतेउकाइया पञ्जत्तया, वायरतसकाइया पञ्जत्तया,
 असंखेज्जगुणा, पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइया पञ्जत्तया असं-
 खेज्जगुणा, वायरनिगोया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायर-
 पुढवीकाइया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायरआउकाइया पञ्ज-
 त्तया असंखेज्जगुणा, वायरवाउकाइया पञ्जत्तया असंखेज्ज-
 गुणा, सुहुमतेउकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा सुहुम-
 पुढवीकाइया अपञ्जत्तया विसेसाहिया सुहुमआउकाइया पञ्ज-
 त्तया विसेसाहिया सुहुमवाउकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया,
 सुहुमनिगोया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायरवणस्सइकाइया
 पञ्जत्तया अणंतगुणा, वायरपञ्जत्तया विसेसाहिया, सु म-
 वणस्सइकाइया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, सुहुमपञ्जत्तया विसे-
 साहिया, एएसि णं भंते ! सुहुमाणं वायरण य पञ्जत्तापञ्ज-
 त्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसे-
 साहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वायरा पञ्जत्तया, वायर-
 अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, सुहुमअपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा,
 सुहुमपञ्जत्तया संखेज्जगुणा ॥सू० ८॥

छाया—एतेषां खलु भदन्त ! सूक्ष्माणां, सूक्ष्मपृथिवीकायिकानां सूक्ष्मा-
 प्फायिकानां सूक्ष्म तेजःकायिकानां, सूक्ष्मवायुकायिकानाम् सूक्ष्मवनस्पतिका-

सूक्ष्म-बादर जीवों का अल्पबहुत्व

शब्दार्थ-(एएसि णं भंते !) हे भगवन् इन (सुहुमाणं) सूक्ष्म

यिकानाम्, सूक्ष्मनिगोदानाम्, वादराणाम्, वादरपृथ्वीकायिकानाम्, वादरा-
 प्कायिकानाम्, वायरतेजःकायिकानाम्, वादरवायुकायिकानाम्, वादरवनस्पति-
 कायिकानाम्, प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकानाम् वादरनिगोदानाम् त्रस-
 कायिकानाम् च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका
 वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः वादरत्रसकायिकाः, वादरतेजःकायिका असंख्येय-

जीवों (सुहुम पृथ्वीकाइयाणं) सूक्ष्म पृथ्वीकायिकों (सुहुम आउका-
 इयाणं) सूक्ष्म अप्कायिकों (सुहुम तेउकाइयाणं) सूक्ष्म तेजस्कायिकों
 (सुहुम वाउकाइयाणं) सूक्ष्म वायुकायिकों (सुहुम वणस्सइकाइयाणं)
 सूक्ष्म वनस्पतिकायिकों (सुहुम निगोयाणं) सूक्ष्म निगोदों (वायराणं)
 वादर जीवों (वायरपृथ्वीकाइयाणं) वादर पृथ्वीकायिकों (वायरआउ-
 काइयाणं) वादर अप्कायिकों (वायर तेउकाइयाणं) वादर तेजस्का-
 यिकों (वायर वाउकाइयाणं) वादर वायुकायिकों (वायर वणस्सइ-
 याणं) वादर वनस्पतिकायिकों (पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइयाणं)
 प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिकों (वायर निगोयाणं) वादर निगोदों
 (तसकाइयाण य) और त्रसकायिकों में (कयरे कयरेहितो) कौन किस
 से (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत,
 तुल्य या विशेषाधिक है ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सञ्चत्थोवा वायरतसकाइया) सब से
 कम वादर त्रसकायिक हैं (वायर तेउकाइया असंखेज्जगुणा) वादर

सूक्ष्म-आदर एवे।नु अल्प अहुत्प

शब्दार्थ-(एएसि ण भंते !) हे भगवन ! आ (सुहुमाणं) सूक्ष्मएवे। (सुहुम-
 पृथ्वीकाइयाणं) सूक्ष्म पृथ्वीकायिके। (सुहुमआउकाइयाणं) सूक्ष्मवायुकायिके। (सुहुम
 तेउकाइयाणं) सूक्ष्म तेजस्कायिके। (सुहुमवाउकाइयाणं) सूक्ष्मवायुकायिके। (सुहुम-
 वणस्सइकाइयाणं) सूक्ष्म वनस्पतिकायिके। (सुहुमनिगोयाणं) सूक्ष्मनिगोदो। (वायराणं)
 आदरएवे। (वायरपृथ्वीकाइयाणं) आदर पृथ्वीकायिके। (वादरआउकाइयाणं) आदर
 वायुकायिके। (वायरतेउकाइयाणं) आदर तेजस्कायिके। (वायरवाउकाइयाणं) आदर
 वायुकायिके। (वायरवणस्सइकाइयाणं) आदर वनस्पतिकायिके। (पत्तेयसरीरवायरवण-
 स्सइकाइयाणं) प्रत्येक शरीर आदर वनस्पतिकायिके। (वायरनिगोयाणं) आदर निगोदो।
 (तसकाइयाणय) अने त्रसकायिके। (कयरे कयरेहितो) के। (अप्पावा-
 बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, धण्णा, तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सञ्चत्थोवा वायरतसकाइया) अधाथी ओ। आदर
 त्रसकायिक छे (वायरतेउकाइया असंखेज्जगुणा) आदर तेजस्कायिक असंख्यातगण्णा छे.

गुणाः, प्रत्येकशरीरवाद्दरवन्नस्पतिकायिका असंख्येयगुणाः, वाद्दरनिगोदाः
 असंख्येयगुणाः, वाद्दरपृथिवीकायिकाः असंख्येयगुणाः, वाद्दराप्कायिकाः
 असंख्येयगुणाः, वाद्दरवायुकायिका असंख्येयगुणाः, सूक्ष्मतेजःकायिका असं-
 ख्येयगुणाः, सूक्ष्मपृथिवीकायिकाः विशेषाधिकाः, सूक्ष्माप्कायिका विशेषाधिकाः,
 सूक्ष्मवायुकायिका विशेषाधिकाः, सूक्ष्मनिगोदा असंख्येयगुणाः, वाद्दरवन्नस्पति-
 कायिका अनन्तगुणाः, वाद्दराः विशेषाधिकाः, सूक्ष्मवन्नस्पतिकायिकाः अनन्त-

तेजस्कायिक असंख्यातगुणा हैं (पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइया
 असंखेज्जगुणा) प्रत्येक शरीर वाद्दर वन्नस्पतिकायिक असंख्यातगुणा
 हैं (वायर निगोया असंखेज्जगुणा) वाद्दर निगोद असंख्यातगुणा हैं
 (वायर पुढवीकाइया असंखेज्जगुणा) वाद्दर पृथ्वीकायिक असंख्यात
 गुणा हैं (वायर आउकाइया असंखेज्जगुणा) वाद्दर अप्कायिक असंख्यात
 गुणा हैं (वायर वाउकाइया असंखेज्जगुणा) वाद्दर वायुकायिक असं-
 ख्यातगुणा हैं (सुहुम तेउकाइया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म तेजस्कायिक
 असंख्यातगुणा हैं (सुहुम पुढवीकाइया विसेसाहिया) सूक्ष्म पृथ्वी-
 कायिक विशेषाधिक हैं (सुहुम आउकाइया विसेसाहिया) सूक्ष्म अप्का-
 यिक विशेषाधिक हैं (सुहुम वाउकाइया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायु-
 कायिक विशेषाधिक हैं (सुहुम निगोया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म निगोद
 असंख्यातगुणा हैं (वायर वणस्सइकाइया अणंतगुणा) वाद्दर वन्नस्पति-
 कायिक अनन्तगुणा हैं (वायरा विसेसाहिया) वाद्दर विशेषाधिक हैं
 (सुहुम वणस्सइकाइया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म वन्नस्पतिकायिक असं-
 ख्यातगुणा हैं (सुहुमा विसेसाहिया) सूक्ष्म जीव विशेषाधिक हैं ।

(पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइया असंखेज्जगुणा) प्रत्येक शरीर वाद्दर वन्नस्पतिकायिक
 असंख्यातगुणा छे (वायरनिगोया असंखेज्जगुणा) वाद्दर निगोद असंख्यातगुणा
 छे (वायर पुढवीकाइया असंखेज्जगुणा) वाद्दर पृथ्वीकायिक असंख्यातगुणा छे (वायर
 आउकाइया असंखेज्जगुणा) वाद्दर अप्कायिक असंख्यातगुणा छे (वायरवाउकाइया-
 असंखेज्जगुणा) वाद्दर वायुकायिक असंख्यातगुणा छे (सुहुमतेउकाइया असंखेज्जगुणा)
 सूक्ष्म तेउकायिक असंख्यातगुणा छे (सुहुमपुढवीकाइया विसेसाहिया) सूक्ष्म
 पृथ्वीकायिक विशेषाधिक छे (सुहुमआउकाइया विसेसाहिया) सूक्ष्म अप्कायिक
 विशेषाधिक छे (सुहुमवाउकाइया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुकायिक विशेषाधिक छे
 (सुहुमनिगोया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म निगोद असंख्यातगुणा छे (वायरवणस्सइ
 काइया अणंतगुणा) वाद्दर वन्नस्पतिकायिक अनन्तगुणा छे (वायरा विसेसाहिया)
 वाद्दर विशेषाधिक छे (सुहुमवणस्सइकाइया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म वन्नस्पतिकायिक

गुणाः, सूक्ष्मा निशेषात्रिकाः, एतेषां सत्त्व भदन्त ! सूक्ष्मापर्याप्तकानां, सूक्ष्म-
पृथिवीकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम्, सूक्ष्मापकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम्, सूक्ष्म-
तेजःकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम् सूक्ष्मवायुकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम्, सूक्ष्म-
वनस्पतिकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम्, सूक्ष्मनिगोदानाम् अपर्याप्तकानाम्, वाद-
रापर्याप्तकानाम्, वादरपृथिवीकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम्, वादरपकायिका-
नाम् अपर्याप्तकानाम्, वादरतेजःकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम्, वादरवायु-
कायिकानाम् अपर्याप्तकानाम्, वादरवनस्पतिकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम्,
प्रत्येकशरीर वादरवनस्पतिकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम् वादरनिगोदानाम्

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इम (सुहृम अपज्जत्तयाणं) सूक्ष्म
जीवों के अपर्याप्तों (सुहृम पुढवीकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) सूक्ष्म
पृथ्वीकाय के अपर्याप्तों (सुहृम आउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) सूक्ष्म
अपकाय के अपर्याप्तों (सुहृम तेउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) सूक्ष्म
तेजस्कायिक अपर्याप्तों (सुहृम वाउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) सूक्ष्म
वायुकायिक अपर्याप्तों (सुहृम वणस्सइकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) सूक्ष्म
वनस्पतिकायिक अपर्याप्तों (सुहृम निगोद्याणं अपज्जत्तयाणं) सूक्ष्म
निगोद के अपर्याप्तों (वायर अपज्जत्तयाणं) वादर अपर्याप्तों (वायर
पुढवीकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) वादर पृथ्वीकाय के अपर्याप्तों (वायर
आउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) वादर अपकाय के अपर्याप्तों (वायर
तेउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) वादर तेजस्कायिक के अपर्याप्तों (वायर
वाउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) वादर वायुकाय के अपर्याप्तों (वायर
वणस्सइकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) वादर वनस्पतिकाय के अपर्याप्तों

असंभ्यातगण्णं छे (सुहृम विसेसाहिया) सूक्ष्म ७५ विशेषाधिक छे.

(एएसि ण भंते !) भगवन् ! आ (सुहृम अपज्जत्तयाणं) सूक्ष्म ७६वेना अपर्या
प्तके (सुहृम पुढवीकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) सूक्ष्म पृथ्वीकायना अपर्याप्तके (सुहृम
आउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) सूक्ष्म ७७कायना अपर्याप्तके (सुहृम तेउकाइयाणं अपज्ज-
त्तयाणं) सूक्ष्म तेजस्कायना अपर्याप्तके (सुहृम वाउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) सूक्ष्म
वायुकायिक अपर्याप्तके (सुहृम वणस्सइकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक
अपर्याप्तके (सुहृम निगोद्याणं अपज्जत्तयाणं) सूक्ष्म निगोदाना अपर्याप्तके (वायर अप-
ज्जत्तयाणं) वादर अपर्याप्तके (वादर पुढवीकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) वादर पृथ्वीकायना
अपर्याप्तके (वायर आउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) वादर ७७कायना अपर्याप्तके (वायर-
तेउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) वादर तेजस्कायिकना अपर्याप्तके (वायर वाउकाइयाणं अपज्ज-
त्तयाणं) वादर वायुकायना अपर्याप्तके (वायर वणस्सइकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) वादर

अपर्याप्तकानाम्, वादरत्रसकायिकानाम् अपर्याप्तकानाञ्च कतरे कतरेभ्यः अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, निशेषादिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः वादरत्रसकायिकाः अपर्याप्तकाः, वादरतेजःकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिका अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, वादरनिगोदाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, वादरपृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, वादराष्कायिका अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, वादरवायुका-

(पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्तों (वायर निगोद्याणं अपज्जत्तयाणं) वादर निगोद के अपर्याप्तों (वायर तसकाइयाणं अपज्जत्तयाणं) वादर त्रसकाय के अपर्याप्तों में से (ऊयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायरतसकाइया) सब से कम वादरत्रसकायिक (अपज्जत्तया) अपर्याप्तक हैं (वायरतेउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादरतेजस्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) प्रत्येक शरीर वादरवनस्पतिकायिक अपर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं (वायरनिगोद्या अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादरनिगोद अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (वायर पुढवीकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (वायर आउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्ज-

वनस्पतिकायिना अपर्याप्तो (पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइयाण अपज्जत्तयाण) प्रत्येक शरीर भादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्तो (वायरनिगोद्याण अपज्जत्तयाण) भादर निगोदना अपर्याप्तो (वायरतसकाइयाण अपज्जत्तयाण) भादर त्रसकायिना अपर्याप्तोभाथी (कयरे कयरेहिंतो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धणु, तुल्य अथवा अधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायरतसकाइया) अधाथी ओएण भादर त्रसकायिक (अपज्जत्तया) अपर्याप्तक छे (वायरतेउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) भादर तेजस्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगणु छे (पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइया-अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) प्रत्येक शरीर भादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्तक असंख्यातगणु छे (वायरनिगोद्या अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) भादर निगोद अपर्याप्त असंख्यातगणु छे (वायरपुढवीकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) भादरपृथ्वीकायिक अपर्याप्त असंख्यातगणु छे (वायरआउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) भादर

यिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, सूक्ष्मतेजःकायिका अपर्याप्तका असंख्येयगुणाः, सूक्ष्मपृथिवीकायिकानां अपर्याप्तकाः विशेषात्रिकाः, सूक्ष्माप्कायिकाः अपर्याप्तका विशेषाधिकाः, सूक्ष्मनायुकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, सूक्ष्मनिगोदा अपर्याप्तका असंख्येयगुणाः वादरवनस्पतिकायिका अपर्याप्तका अनन्तगुणाः, वादरा अपर्याप्तका विशेषात्रिकाः, सूक्ष्मवनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, सूक्ष्माः अपर्याप्तका विशेषाधिकाः, एतेषां सखु भदन्त ! सूक्ष्मपर्याप्तकानाम्, सूक्ष्मपृथिवीकायिक पर्याप्तकानां, सूक्ष्माप्कायिक-

गुणा) वादर अप्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (वायरवाउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर वायुकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (सुहुम तेउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (सुहुम पुढवीकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहुम आउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अप्कायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहुम वाउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहुम निगोद्या अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (वायर वणस्सइकाइया अपज्जत्तया अणतगुणा) वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त अनन्तगुणा हैं (वायरा अपज्जत्तया विसेसाहिया) वादर अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहुम वणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (सुहुमा अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अपर्याप्तक विशेषाधिक हैं ।

अणकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे (वायरवाउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) आउकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे (सुहुमतेउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे (सुहुमपुढवीकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे (सुहुमआउकाइया-अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अप्कायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे (सुहुमवाउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्मवायुकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे (सुहुमनिगोद्या अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे (वायरवणस्सइकाइया अपज्जत्तया अणतगुणा) वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त अनन्तगुणा छे (वायरा अपज्जत्तया विसेसाहिया) वादर अपर्याप्त विशेषाधिक छे (सुहुमवणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे (सुहुमाअपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अपर्याप्तक विशेषाधिक छे,

पर्याप्तकानां, सूक्ष्मतेजःकायिकपर्याप्तकानाम्, सूक्ष्मवायुकायिकपर्याप्तकानां, सूक्ष्मवनस्पतिकायिकपर्याप्तकानाम्, सूक्ष्मनिगोदपर्याप्तकानां, वादरपर्याप्तकानाम्, वादरपृथिवीकायिकपर्याप्तकानाम्, वादराष्कायिकपर्याप्तकानाम्, वादर-तेजःकायिकपर्याप्तकानाम्, वादरवायुकायिकपर्याप्तकानां, वादरवनस्पतिकायिक-पर्याप्तकानां, प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकपर्याप्तकानां, वादरनिगोदपर्या-प्तकानां, वादरत्रसकायिकपर्याप्तकानां च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा,

(एएस्ति णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सुहुम पज्जत्तयाणं) सूक्ष्म पर्याप्तकों (सुहुम पुढवीकाइय पज्जत्तयाणं) सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्तकों (सुहुम आउकाइय पज्जत्तयाणं) सूक्ष्म अप्काय पर्याप्तकों (सुहुम तेउकाइय पज्जत्तयाणं) सूक्ष्म तेजःकायिक पर्याप्तकों (सुहुम वाउकाइय पज्जत्तयाणं) सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्तकों (सुहुम वणस्सइकाइय पज्जत्तयाणं) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्तकों (सुहुम निगोय पज्जत्तयाणं) सूक्ष्म निगोद पर्याप्तकों (वायर पज्जत्तयाणं) वादर पर्याप्तकों (वायर पुढवीकाइय पज्जत्तयाणं) वादर पृथ्वीकायिक पर्याप्तकों (वायर आउकाइय पज्जत्तयाणं) वादर अप्कायिक पर्याप्तकों (वायर तेउकाइय पज्जत्तयाणं) वादर तेजस्कायिक पर्याप्तकों (वायर वाउकाइय पज्जत्तयाणं) वादर वायुकायिक पर्याप्तकों (वायर वणस्सइकाइय पज्जत्तयाणं) वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तकों (पत्तेयसरीर वादरवणस्सइकाइय पज्जत्तयाणं) प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तकों (वायर निगोय पज्जत्तयाणं) वादर निगोद के पर्याप्तकों (वायर तसकाइय पज्जत्तयाणं य) और वादर त्रसकाय के पर्याप्तकों

(एएस्ति णं भंते !) हे भगवन् ! आ (सुहुमपज्जत्तयाणं) सूक्ष्म पर्याप्तके (सुहुमपुढवीकाइय पज्जत्तयाणं) सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्तके (सुहुम आउकाइया पज्जत्तयाणं) सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्तके (सुहुमतेउकाइय पज्जत्तयाणं) सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्तके (सुहुमवाउकाइया पज्जत्तयाणं) सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्तके (सुहुमवणस्सइकाइयपज्जत्तयाणं) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्तके (सुहुमनिगोयपज्जत्तयाणं) सूक्ष्म निगोद पर्याप्तके (वायरपज्जत्तयाणं) आदर पर्याप्तके (वायरपुढवीकाइयपज्जत्तयाणं) आदर पृथ्वीकायिक पर्याप्तके (वायरआउकाइयपज्जत्तयाणं) आदर अप्कायिक पर्याप्तके (वायरतेउकाइयपज्जत्तयाणं) आदर तेजस्कायिक पर्याप्तके (वायरवाउकाइयपज्जत्तयाणं) आदर वायुकायिक पर्याप्तके (वायरवणस्सइकाइय पज्जत्तयाणं) आदर वनस्पतिकायिक पर्याप्तके (पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइयपज्जत्तयाणं) प्रत्येक शरीर आदर वनस्पतिकायिक पर्याप्तके (वायरनिगोयपज्जत्तयाणं) आदर निगोदना पर्याप्तके (वायरतसकाइयपज्जत्तयाणं य) अने आदर त्रसकायना पर्याप्तकेभां (कयरे कयरे-

तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः वादरतेजःकायिकपर्याप्तकाः, वादरत्रसकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः वादरनिगोदाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, वादरपृथिवीकायिकाः पर्याप्तका असंख्येयगुणाः, वादराप्कायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, वादरवायुकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, सूक्ष्मतेजःकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, सूक्ष्मपृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, सूक्ष्मा-

सकों में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

(गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायर तेउकाइया पज्जत्तया) सब से कम वादर तेजस्काय के पर्याप्तक है (वायर तसकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर त्रसकाय के पर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं (पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा है (वायरनिगोया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर निगोद के पर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं (वायर पुढवीकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर पृथ्वीकाय के पर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं (वायर आउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर अप्कायिक पर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं (वायरवाउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर वायुकाय के पर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (सुहुमतेउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा है (सुहुमपुढवीकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया)

हिंतो) केअु केअनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, धया, तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायरतेउकाइया पज्जत्तया) अधाथी आअा आदर तेजस्कायना पर्याप्तक छे (वायरतसकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) आदर त्रसकायना पर्याप्त असंख्यातगणु छे (पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) प्रत्येक शरीर आदर वनस्पतिकायिक पर्याप्त असंख्यातगणु छे (वायरनिगोया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) आदर निगोदना पर्याप्तक असंख्यातगणु छे (वायरपुढवीकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) आदर पृथ्वीकायना पर्याप्त असंख्यातगणु छे (वायरआउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) आदर अप्कायिक पर्याप्त असंख्यातगणु छे (वायरवाउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) आदर वायुकायिक पर्याप्त असंख्यातगणु छे (सुहुमतेउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्मतेजस्कायिक पर्याप्त असंख्यातगणु छे (सुहुमपुढवीकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म

ष्कायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, सूक्ष्मवायुकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, सूक्ष्मनिगोदाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, वादरानस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः अनन्तगुणाः, वादरपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, सूक्ष्मवनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, सूक्ष्म पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, एतेषां खलु भदन्त ! सूक्ष्माणं वादराणाञ्च पर्याप्तापर्याप्तकानां कतरे करेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः वादराः पर्याप्तकाः,

सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त विशेषाधिक है (सुहुम आउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहुम वाउकापया पज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहुम निगोदा पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म निगोद के पर्याप्त असंख्यातगुणा है (वायरवणस्सइ ताइया पज्जत्तया अणंतगुणा) वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनन्तगुणा है (वायर पज्जत्तया विसेसाहिया) वादर पर्याप्त विशेषाधिक है (सुहुम वणस्सइकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्तक असंख्यातगुणा है (सुहुम पज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पर्याप्तक विशेषाधिक है ।

(एएसि णं अंते !) हे भगवन् ! इन (सुहुमाणं वायराण य पज्जत्तापज्जत्ताणं) सूक्ष्म और वादर जीवो के पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायरा पज्जत्तया) सब से कम वादर पर्याप्तक हैं (वायरा अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर अपर्याप्तक

पृथ्वीकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे (सुहुमआउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे (सुहुमवाउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे (सुहुमनिगोदा पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म निगोदाना पर्याप्त असंख्यातगुणा छे (वायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया अणंतगुणा) वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनन्तगुणा छे (वायरपज्जत्तया विसेसाहिया) वादर पर्याप्त विशेषाधिक छे (सुहुमवणस्सइकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा छे (सुहुमपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पर्याप्तक विशेषाधिक छे

(एएसि ण अंते !) हे भगवन् ! आ (सुहुमाण वायराण य पज्जत्तापज्जत्ताणं) सूक्ष्म अने वादर जीवोना पर्याप्तको अने अपर्याप्तकोमा (कयरे कयरेहिंतो) कोषु कोनाथी (अप्पा वा बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ? (गोयमा !) गौतम ! (सव्वत्थोवा वायरा पज्जत्तया) अधाथी

वादरापर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, सूक्ष्मापर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, सूक्ष्म-
पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः ॥ सू० ८ ॥

टीका—अथ समुच्चयसूक्ष्मवादरसमुदायगताल्पबहुत्वादिकं प्ररूपयित्तु-
माह—‘एषसि णं भंते ! सुहुमाणं’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतेषां सख
सूक्ष्माणां जीवानाम् ‘सुहुम पुढवीकाइयाणं’ सूक्ष्मपृथिवीकायिकानाम्, ‘सुहुम
आउकाइयाणं’ सूक्ष्मापकायिकानाम्, ‘सुहुम तेउकाइयाणं’ सूक्ष्म तेजःकायिकानां
‘सुहुम वाउकाइयाणं’ सूक्ष्मवायुकायिकानाम्, ‘सुहुम वणस्सइकाइयाणं’ सूक्ष्म-
वनस्पतिकायिकानाम्, ‘सुहुम निगोयाणं वायराणं’ सूक्ष्म निगोदाना, वादरा-
णाम्, ‘वायर पुढवीकाइयाणं’ वादरपृथिवीकायिकानाम्, ‘वायर आउकाइयाणं’
वादरापकायिकानाम्, ‘वायर तेउकाइयाणं’ वादर तेजःकायिकानाम्, ‘वायर
वाउकाइयाणं’ वादर वायुकायिकानाम्, ‘वायर वणस्सइकाइयाणं’ वादर वन-
स्पतिकायिकानाम्, ‘पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइयाणं’ प्रत्येकशरीर वादर-
वनस्पतिकायिकानाम् ‘वायरनिगोयाणं’ वादरनिगोदानाम्, ‘तसकाइयाण य’
त्रसकायिकानाश्च—द्वीन्द्रियादीनाम् मध्ये ‘कयरे कयरेहिंतो’ कतरे कतरेभ्यः,
‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या
असंख्यात गुणा हैं (सुहुम अपज्जत्तया) सूक्ष्म अपर्याप्तक (असंखे-
ज्जगुणा) असंख्यात गुणा हैं (सुहुम पज्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म
पर्याप्तक संख्यात गुणा हैं ।

टीकार्थ—अथ समुच्चय सूक्ष्म—वादर समुदाय संबंधी अल्पबहुत्व
की प्ररूपणा की जाती है—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन सूक्ष्म जीवों,
सूक्ष्म पृथ्वीकायिकों, सूक्ष्म अपकायिकों, सूक्ष्म तेजःकायिकों, सूक्ष्म
वायुकायिकों, सूक्ष्म वनस्पतिकायिकों, सूक्ष्म निगोदों, वादर जीवों,

जोछा वादरपर्याप्तक छे (वायरा अपज्जत्तया असखेज्जगुणा) वादर अपर्याप्त अस-
ख्यातगणु छे (सुहुमअपज्जत्तया) सूक्ष्म अपर्याप्तक (असंखेज्जगुणा) अस
ख्यात-
गणु छे (सुहुमपज्जत्तया असखेज्जगुणा) सूक्ष्म पर्याप्तक अस
ख्यातगणु छे.

टीकार्थ—इवे समुच्चय सूक्ष्म वादर—समुदाय संबंधी अल्प बहुत्वनी
प्ररूपणा कराय छे—

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! आ सूक्ष्म लोवो, सूक्ष्म
पृथ्वीकायिको, सूक्ष्म अपकायिको, सूक्ष्म तेजःकायिको, सूक्ष्म वायुकायिको, सूक्ष्म
वनस्पतिकायिको, सूक्ष्म निगोदो, वादर लोवो, वादर पृथ्वीकायिको, वादर
अपकायिको, वादर तेजःकायिको, वादर वायुकायिको, वादर वनस्पतिकायिको,

वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम !
 ‘सन्वत्थोवा वायर तसकाइया’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः वादर त्रसकायिकाः
 —द्वीन्द्रियादि वादराः भवन्ति, तेभ्यः ‘वायर तेउकाइया असंखेज्जगुणा’ वादर
 तेजःकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘पत्तेयसरीरवायरवणस्सद-
 काइया असंखेज्जगुणा’ प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकाः असंख्येयगुणा
 भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘वायर निगोया असंखेज्जगुणा’ वादर निगोदा असंख्येय-
 गुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि—‘वायरपुढवीकाइया असंखेज्जगुणा’ वादर पृथिवी-
 कायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘वायर आउकाइया असंखेज्जगुणा’
 वादराप्कायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘वायर वाउकाइया असंखे-
 ज्जगुणा’ वादर वायुकायिका असंख्येयगुणा भवन्ति, एतेषां वादर समुच्चय
 जीवानां प्रागुक्तरीत्या उत्तरोत्तरमसंख्येयगुणत्वादिकमवसेयम्,

अथ सूक्ष्माणां समुच्चयजीवानामल्पवहुत्सादिकं प्ररूपयति—‘सुहुम तेउकाइया

बादर पृथ्वीकायिकों, बादर अप्कायिकों, बादर तेजस्कायिकों, बादर
 वायुकायिकों, बादर वनस्पतिकायिकों, प्रत्येक शरीर वादर वनस्पति-
 कायिकों, बादर निगोदों और त्रसकायिकों में कौन किससे अल्प हैं,
 बहुत हैं, तुल्य हैं अथवा विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सब से कम वादर त्रस-
 कायिक हैं, उन से बादर तेजस्कायिक असंख्यात गुणा हैं, उन की
 अपेक्षा प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक असंख्यात गुणा हैं, उन
 की अपेक्षा बादर निगोद असंख्यातगुणा हैं उनसे बादर पृथ्वीकायिक
 असंख्यातगुणा हैं, उनसे बादर अप्कायिक असंख्यातगुणा हैं, उनसे
 बादर वायुकायिक असंख्यातगुणा हैं । इस प्रकार समुच्चय वादर
 जीव पूर्वोक्त प्रकार से उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे समझने चाहिए ।

भादर निगोदा अने त्रसकायिकोमाथी कोषु कोनाथी अल्प छे, धणु छे, तुल्य
 छे अथवा विशेषाधिक छे ?

श्रीभगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! माथी ओछा भादर त्रसकायिक
 छे, तेमनाथी भादर तेजस्कायिक असंख्यातगुणा छे, तेमनी अपेक्षाये प्रत्येक
 भादर वनस्पतिकायिक असंख्यातगुणा छे, तेमनी अपेक्षाये भादर निगोद
 असंख्यातगुणा छे, तेमनाथी भादर पृथ्वीकायिक असंख्यातगुणा छे, तेमनाथी
 भादर अप्कायिक असंख्यातगुणा छे, तेमनाथी भादरवायुकायिक असंख्यातगुणा
 छे. आ प्रकारे समुच्चय भादर एव पूर्वोक्त प्रकारथी उत्तरोत्तर असंख्यात-
 गुणा समज्जा नेछे.

असंख्येज्जगुणा' सूक्ष्मतेजःकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'सुहुम-
पृथ्वीकाद्या विसेसाहिया' सूक्ष्मपृथिवी कायिकाः विशेषाधिकाः—किञ्चिदधिका-
भवन्ति, तेभ्योऽपि 'सुहुमवाउकाद्या विसेसाहिया' सूक्ष्माकायिकाः विशेषाधिका
भवन्ति, तेभ्योऽपि 'सुहुम वाउकाद्या विसेसाहिया' सूक्ष्मवायुकायिकाः विशेषा-
धिका भवन्ति, तेभ्योऽपि 'गुहुम निगोद्या असंख्येज्जगुणा' सूक्ष्म निगोदाः असं-
ख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि—'वायरवणस्सडकाइया अणंतगुणा'
वादर वनस्पतिकायिका अनन्तगुणा भवन्ति, प्रतिवादरनिगोदमनन्तानां जीवानां
सद्भावात्, तेभ्योऽपि 'वायरा विसेसाहिया' वायराः स्थूला जीवाः विशेषा-
धिकाः—किञ्चिदधिकाः भवन्ति वादर तेजःकायिकादीनामपि तेषु समापातात्,
तेभ्योऽपि 'सुहुम वणस्सडकाइया अणंतगुणा' सूक्ष्म वनस्पतिकायिका अनन्तगुणाः
(असंख्येयगुणाः) भवन्ति, वादरनिगोदापेक्षया सूक्ष्मनिगोदानमसंख्येयगुण-
त्वात्, तेभ्योऽपि 'सुहुमा विसेसाहिया' सूक्ष्मा जीवाः, विशेषाधिकाः—किञ्चि-
दधिका भवन्ति, सूक्ष्म तेजःकायिकादीनामपि तत्र समापातात्, अथैतेषामेव

अव सूक्ष्म जीवों के अल्प-बहुत की प्ररूपणा करते हैं—उन से
अर्थात् वादर वायुकायिकों से सूक्ष्म तेजस्काय के जीव असंख्यातगुणा
हैं, उनसे सूक्ष्म पृथिवीकायिक विशेषाधिक हैं, उनसे सूक्ष्म अप्का
यिक विशेषाधिक हैं, उनसे सूक्ष्म वायुकायिक विशेषाधिक हैं, उन
से सूक्ष्म निगोद असंख्यातगुणा है, उनकी अपेक्षा वादर वनस्पति-
कायिक अनन्तगुणा हैं, क्योंकि प्रत्येक वादर निगोद में अनन्त जीवों
का सद्भाव होता है वादर वनस्पतिकायिकों की अपेक्षा वादर जीव
विशेषाधिक हैं, क्योंकि इनमें वादर तेजस्कायिक आदि का भी समा-
वेश हो जाता है। वादर जीवों की अपेक्षा सूक्ष्म वनस्पतिकायिक
असंख्यातगुणा हैं क्योंकि वादर निगोद के जीवों की अपेक्षा सूक्ष्म
निगोद के जीव असंख्यातगुणा हैं। सूक्ष्म वनस्पतिकायिकों की अपेक्षा

इवे सूक्ष्म लोवोना अल्प बहुत्वनी प्ररूपणा करे छे—तेमनाथी अर्थात्
वादर वायुकायिकोथी सूक्ष्म तेजस्कायना लव असंख्यातगुणा छे, तेमनाथी
सूक्ष्म पृथ्वीकायिक विशेषाधिक छे, तेमनाथी सूक्ष्म अप्कायिक विशेषाधिक छे,
तेमनाथी सूक्ष्मवायुकायिक विशेषाधिक छे तेमनाथी सूक्ष्म निगोद असंख्यात-
गुणा छे, तेमनी अपेक्षाये वादर वनस्पतिकायिक अनन्तगुणा छे, केमके प्रत्येक
वादर निगोदमा अनन्त लोवोना सद्भाव होय छे वादर वनस्पतिकायिकोनी
अपेक्षाये वादर लव विशेषाधिक छे, केमके तेमनामा वादर तेजस्कायिक
आदिना पणु समावेश थथ नथ छे. वादर लोवोनी अपेक्षाये सूक्ष्म वनस्प-
तिकायिक असंख्यातगुणा छे, केमके वादर निगोदना लोवोनी अपेक्षाये सूक्ष्म

अपर्याप्तानां सूक्ष्मवादरसमुच्चयजीवानामल्पबहुत्वादिकं प्ररूपयति—‘एणसि णं भंते ! सुहुम अपज्जत्तयाणं’ हे भदन्त ! एतेषां सत्तु सूक्ष्मापर्याप्तकानाम् ‘सुहुम पुढवीकाइयाणं अपज्जत्तयाणं’ सूक्ष्म पृथिवीकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम्, ‘सुहुम आउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं’ सूक्ष्मापकायिकानामपर्याप्तकानाम्, ‘सुहुम तेउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं’ सूक्ष्म तेजःकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम्, ‘सुहुम वाउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं’ सूक्ष्म वायुकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम्, ‘सुहुम वणस्सइकाइयाणं अपज्जत्तयाणं’ सूक्ष्म वनस्पतिकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम्, ‘सुहुम निगोयाणं अपज्जत्तयाणं’ सूक्ष्म निगोदानाम् अपर्याप्तकानाम्, ‘वायर अपज्जत्तयाणं’ वादरापर्याप्तकानाम्, ‘वायर पुढवीकाइयाणं अपज्जत्तयाणं’ वादर पृथिवीकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम्, ‘वायर आउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं’ वादरापकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम्, ‘वायर तेउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं’ वादर तेजःकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम्, ‘वायर वाउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं’ वादर वायुकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम्, ‘वायर वणस्सइकाइयाणं अपज्जत्तयाणं’ वादर वनस्पतिकायि-

सूक्ष्म जीव (समुच्चय) विशेषाधिक हैं, क्योंकि इन में सूक्ष्म तेजस्कायिक आदि का भी समावेश होता है ।

अब इन्हीं सूक्ष्म-वादर जीवों के अपर्याप्तकों का अल्पबहुत्व दिखलाते हैं—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन सूक्ष्म अपर्याप्तकों, सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्तों, सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्तों, सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्तों, सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्तों, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्तों, सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्तों, वादर अपर्याप्तों, वादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्तों, वादर अपकायिक अपर्याप्तों, वादर तेजस्कायिक अपर्याप्तों, वादर वायुकायिक अपर्याप्तों, वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्तों, प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक

निगोदना एव अस जयातगाष्ठा छे सूक्ष्म वनस्पतिकायिकेनी अपेक्षाये सूक्ष्म एव (समुच्चय) विशेषाधिक छे, डेमके तेष्सांमा सूक्ष्म तेजस्कायिक आदिना पण् समावेश थाय छे.

इवे आण् सूक्ष्म आदर एवेना अपर्याप्तकेना अइपण्हुत्वने देभाडे छे—

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे—भगवन् ! आ सूक्ष्म अपर्याप्तके, सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्तके सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्तके, सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्तके, सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्तके, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्तके, सूक्ष्म निगोदना अपर्याप्तके, आदर अपर्याप्तके, आदर पृथ्वीकायिक अपर्याप्तके, आदर अपकायिक

कानाम् अपर्याप्तकानाम्, 'पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइयाणं अपज्जत्तयाणं' प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम्, 'वायर निगोदाणं अपज्जत्तयाणं' वादरनिगोदानाम् अपर्याप्तकानाम् 'वायर तसकाइयाणं अपज्जत्तयाणं' वादर त्रसकायिकानाम् अपर्याप्तकानाम् स्थूलद्वीन्द्रियादीनाम् मध्ये 'कयरे कयरेहितो' कतरे कतरेभ्यः 'अल्पा वा, बहुया वा, तुल्य वा, विशेषाहिया वा?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति— 'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्वत्थोवा वायर तसकाइया अपज्जत्तया' सर्वस्तोकाः सर्वेभ्योऽल्पाः, वादरत्रसकायिकाः स्थूलद्वीन्द्रियाः, अपर्याप्तकाः भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्यः 'वायर तेउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादर तेजःकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'पत्तेय सरीर वायर वणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायर निगोया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादर निगोदा अपर्याप्तका असंख्येयगुणा भवन्ति तेभ्योऽपि वायर पुढवीकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादर पृथिवीकायिका अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तदपेक्षया—'वायर आउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा'

अपर्याप्तो, वादर निगोद के अपर्याप्तो तथा वादर त्रसकाय के अपर्याप्तों में से कौन किसकी अपेक्षा अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! वादर त्रसकाय के अपर्याप्तक जीव सबसे कम हैं, इस का कारण पहले कहा जा चुका है । इनकी अपेक्षा वादर तेजस्काय के अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं इनकी अपेक्षा प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, इनसे वादर निगोद के अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं, इनसे वादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, इनसे वादर अप्काय के

अपर्याप्तो, आदर तेजस्कायिक अपर्याप्तो, आदर वायुकायिक अपर्याप्तो, आदर वनस्पतिकायिक अपर्याप्तो, प्रत्येक शरीर आदर वनस्पतिकायिक अपर्याप्तो, आदर निगोदाना अपर्याप्तो तथा आदर त्रसकायना अपर्याप्तोमाथी डोणु डोनी अपेक्षाये अल्प, धणु तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर दे छे—हे गौतम ! आदर त्रसकायना अपर्याप्तक अल्प अथवा अधो छे, तेनु डारणु पडेला कडेलु ते, तेमनी अपेक्षाये आदर तेजस्कायना अपर्याप्त असंख्यातगणु छे, तेमनी अपेक्षाये प्रत्येक शरीर आदर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यातगणु छे, तेमनाथी आदर निगोदाना अपर्याप्त असंख्यातगणु छे, तेमनाथी आदर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त असंख्यात

वादराष्कायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तदपेक्षया-‘वायर वाउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा’ वादर वायुकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, वादर वायुकायिकेभ्योऽपर्याप्तकेभ्यः ‘सुहुम तेउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा’ सूक्ष्म तेजःकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति तेषाम् अत्यधिका संख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि ‘सुहुम पुढवि-कापया अपज्जत्तया विसेसाहिया’ सूक्ष्म पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः-किञ्चिदधिका भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘सुहुम आउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया’ सूक्ष्माष्कायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘सुहुम वाउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया’ सूक्ष्म वायुकायिका अपर्याप्तका विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘सुहुम निगोया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा’ सूक्ष्म निगोदाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तसूक्ष्मविषयकयुक्तेः जागरूकत्वात्, तेभ्योऽपि सूक्ष्म निगोदा पर्याप्तकेभ्यः-‘वायर वणस्सइकाइया अपज्जत्तया अणंतगुणा’ वादर वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः अनन्तगुणा भवन्ति,

अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, इनसे वादर वायुकाय के अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, वादर वायुकाय के अपर्याप्तकों से सूक्ष्म तेजस्काय के अपर्याप्त असंख्यातगुणा है, क्योंकि वे बहुत अधिक असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों के बराबर हैं। सूक्ष्म तेजस्काय के अपर्याप्तकों की अपेक्षा सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं। इनकी अपेक्षा सूक्ष्म अष्काय के अपर्याप्त विशेषाधिक हैं। इनकी अपेक्षा सूक्ष्म वायुकाय के अपर्याप्त विशेषाधिक हैं। इनकी अपेक्षा सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, इसका कारण पहले बतलाया जा चुका है। सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्तकों की अपेक्षा वादर वनस्पति-काय के अपर्याप्त अनन्तगुणा हैं, क्योंकि एक-एक वादर निगोद

गण्टा छे, तेनाथी भादर अभ्कायना अपर्याप्त असंख्यातगण्टा छे, तेमनाथी भादर वायुकायना अपर्याप्त असंख्यातगण्टा छे, भादर वायुकायना अपर्याप्तकेथी सूक्ष्म तेजस्कायना अपर्याप्त असंख्यातगण्टा छे, केमके तेथो धण्टा वधादे असंख्यात लोकाकाशना प्रदेशोनी थराणर छे सूक्ष्म तेजस्कायना अपर्याप्तकेनी अपेक्षाथे सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे तेमनी अपेक्षाथे सूक्ष्म अभ्कायिकना अपर्याप्त विशेषाधिक छे तेमनी अपेक्षाथे सूक्ष्म वायुकायना अपर्याप्त विशेषाधिक छे तेमनी अपेक्षाथे सूक्ष्म निगोदना अपर्याप्त असंख्यात गण्टा छे, तेनु कारण्टु पहले बतलायी दिधेछु छे. सूक्ष्म निगोदना अपर्याप्तकेनी अपेक्षाथे भादर वनस्पतिकायना अपर्याप्त अनन्तगण्टा छे, केमके ओके ओके

प्रतिवादादरैकैकनिगोदमनन्तानां जीवाना सद्भावात्, तेभ्योऽपि सामान्येन 'वायरा अपञ्जत्तया विसेसाहिया' वादराः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, वादर द्वीन्द्रियादि त्रसकायिका पर्याप्तकादीनामपि तत्र समावेशात्, तेभ्योऽपि 'सुहुम वणस्सइकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा' सूक्ष्म वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, वादर निगोदा पर्याप्तकापेक्षया सूक्ष्मनिगोदा पर्याप्तकानामसंख्येयगुणत्वात्, तेभ्योऽपि सामान्येन 'सुहुमा अपञ्जत्तया विसेसाहिया' सूक्ष्माः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, सूक्ष्म तेजःकायिका पर्याप्तकादीनामपि तत्र समावेशात्, अथ समुच्चयसूक्ष्मवादपर्याप्तकानामल्प-बहुत्वादिकं प्ररूपयति—'एएसि णं भंते ! सुहुम पञ्जत्तयाणं' गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतेषा सखु सूक्ष्म पर्याप्तकानाम् 'सुहुम पृथ्वीकाइया पञ्जत्तयाणं'

में अनन्त-अनन्त जीव होते हैं। वादर वनस्पतिकाय के अपर्याप्तों की अपेक्षा सामान्य वादर अपर्याप्तक विशेषाधिक हैं, क्योंकि द्वीन्द्रियादि त्रसकायिकों के अपर्याप्तक भी सम्मिलित हैं। वादर अपर्याप्तकों की अपेक्षा सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि वादर निगोद के अपर्याप्तकों की अपेक्षा सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं। सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्तकों की अपेक्षा सामान्य सूक्ष्म अपर्याप्तक विशेषाधिक हैं, क्योंकि सूक्ष्म तेजःकाय के अपर्याप्तक आदि का भी इनमें समावेश हो जाता है।

अब समुच्चय सूक्ष्म-वादर पर्याप्तकों का अल्प-बहुत्व दिखलाते हैं—
श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन सूक्ष्म पर्याप्तकों, सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्तकों, सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्तों, सूक्ष्म तेज-

आदर निगोदना अनन्त-अनन्त एव थाय छे, आदर वनस्पतिकायना अपर्याप्तकेनी अपेक्षाये सामान्य आदर अपर्याप्तक विशेषाधिक छे, केमके तेजोभा द्वीन्द्रियादि त्रसकायिकेना अपर्याप्तक पणु स मिक्षित छे. आदर पर्याप्तकेनी अपेक्षाये सूक्ष्मवनस्पतिकायिक अपर्याप्तक असंख्यातगुणा छे, केमके आदर निगोदना अपर्याप्तकेनी अपेक्षाये सूक्ष्म निगोदना अपर्याप्तक असंख्यातगुणा छे, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्तकेनी अपेक्षाये सामान्य सूक्ष्म अपर्याप्तक विशेषाधिक छे, केमके तेमनाभा सूक्ष्म तेजःकाय एवेना अपर्याप्तक आदिना पणु समावेश थथ नय छे

इवे समुच्चय सूक्ष्म-आदर पर्याप्तकेनु अल्प, धणापणु देभाडे छे
श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! आ सूक्ष्म पर्याप्तके सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्तके, सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्तके, सूक्ष्म तेजःकायिक पर्याप्तके,

सूक्ष्मपृथिवीकायिकपर्याप्तकानाम् 'सुहुम आउकाइया पज्जत्तयाणं' सूक्ष्मा-
 प्कायिकपर्याप्तकानाम् 'सुहुम तेउकाइया पज्जत्तयाणं' सूक्ष्म तेजःकायिक
 पर्याप्तकानाम् 'सुहुम वाउकाइया पज्जत्तयाणं' सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्तकानाम्
 'सुहुम वणस्सइकाइया पज्जत्तयाणं' सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्तकानाम् 'सुहुम
 निगोया पज्जत्तयाणं' सूक्ष्म निगोदपर्याप्तकानां 'वायर पज्जत्तयाण' वादर
 पर्याप्तकानाम् 'वायर पुढवीकाइया पज्जत्तयाण' वादर पृथिवीकायिक पर्याप्तका-
 नाम् 'वायर आउकाइया पज्जत्तयाणं' वादराप्कायिक पर्याप्तकानाम् 'वायर
 तेउकाइया पज्जत्तयाण' वादर तेजःकायिकपर्याप्तकानाम् 'वायर वाउकाइया
 पज्जत्तयाणं' वादर वायुकायिक पर्याप्तकानाम् 'वायर वणस्सइकाइया पज्जत्तयाणं'
 वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तकानाम् 'पत्तेदसरीर वायर वणस्सइकाइया पज्जत्त-
 याणं' प्रत्येक शरीर वादरवनस्पतिकायिकपर्याप्तकानाम् 'वायर निगोया पज्ज-
 त्तयाणं' वादर निगोदपर्याप्तकानाम् 'वायर तसकाइय पज्जत्तयाण य' वादर
 त्रसकायिक पर्याप्तकानाञ्च मध्ये 'कयरे कयरेहिंतो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा,
 बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा' अल्पा वा, पहुका वा, तुल्या वा, विशेष-
 पाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्वत्थोवा
 वायर तेउकाइया पज्जत्तया' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, वादर तेजःकायिकाः

स्कायिक पर्याप्तों, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्तों, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक
 पर्याप्तों, सूक्ष्म निगोद के पर्याप्तकों, वादर पर्याप्तकों, वादर पृथ्वी-
 कायिक पर्याप्तों, वादर अप्कायिक पर्याप्तों, वादर तेजस्कायिक
 पर्याप्तों, वादर वायुकायिक पर्याप्तों, वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तों,
 प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तों, वादर निगोद पर्याप्तकों
 तथा वादर त्रसकायिक पर्याप्तकों में से कौन किसकी अपेक्षा अल्प,
 बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सब से कम पर्याप्त तेज-
 स्कायिक हैं, उनसे पर्याप्त वादर त्रसकायिक असंख्यात गुणा अधिक

सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्तको, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्तको, सूक्ष्म निगोदना
 पर्याप्तको, वादर पर्याप्तको, वादर पृथ्वीकायिक पर्याप्तको, वादर अप्कायिक
 पर्याप्तको, वादर तेजस्कायिक पर्याप्तको, वादर वायुकायिकपर्याप्तको, वादर वनस्प-
 तिकायिक पर्याप्तको, प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तको, वादर निगोद
 पर्याप्तको तथा वादर त्रसकायिक पर्याप्तकोमाथी कोणु कोनी अपेक्षाअे अल्प,
 धृष्टा, तुल्य अगरे विशेषाधिक छे ?

श्रीभगवान् उत्तर आपे छेः—हे गौतम ! अधाथी कोणु पर्याप्त तेज-

पर्याप्तिकाः भवन्ति, तेभ्यः 'वायर तसकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादर त्रसकायिकाः पर्याप्तिकाः असंखेयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'पत्तेयसरीर वायर वणस्सइकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा' प्रत्येकशरीर वादर वनस्पतिकायिकाः पर्याप्तिकाः असंखेयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायर निगोया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादर निगोदाः पर्याप्तिकाः असंखेयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायर पुहवीकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादर पृथिवीकायिकाः पर्याप्तिकाः असंखेयगुणा भवन्ति तेभ्योऽपि 'वायर आउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादरापकायिकाः पर्याप्तिकाः असंखेयगुणा भवन्ति तेभ्योऽपि 'वायर वाउ काइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादर वायुकायिकाः पर्याप्तिकाः असंखेयगुणा भवन्ति प्रागुक्तवादरविषयक्रयुक्तेः सत्वात्, तेभ्योऽपि वादर पर्याप्तक वायुकायिकेभ्यः 'सुहुम तेउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा' सूक्ष्म तेजःकायिक पर्याप्तिका असंखेयगुणा भवन्ति, वादर वायुकायिकानामसंखेयप्रतरप्रदेशराशिप्रमाणतया तदपेक्षया सूक्ष्म तेजःकायिकाना पर्याप्तकानामसंखेयलोकाकाशप्रदेश-

हैं, उनसे प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त असंख्यगुणा अधिक हैं, उनकी अपेक्षा वादर निगोद पर्याप्त असंख्यात गुणा अधिक हैं उनसे वादर पृथ्वीकायिक असंख्यात गुणा हैं, उनसे पर्याप्त वादर अपकायिक असंख्यात गुणा हैं, उनसे वादर वायुकायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, वादर वायुकायिक पर्याप्तों की अपेक्षा सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि वादर वायुकायिक पर्याप्त असंख्यात प्रतर प्रदेशों की राशि के बराबर है और उनकी अपेक्षा सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त असंख्यात लोकाकाश प्रदेशों की राशि के बराबर हैं, अतएव ये असंख्यात गुणा हैं। सूक्ष्म तेजस्का-

स्कायना छे, तेमनाथी पर्याप्त आदर त्रसकायिक असंख्यातगणुा अधिक छे, तेमनाथी प्रत्येक शरीर आदर वनस्पतिकायिक पर्याप्त असंख्यातगणुा अधिक छे, तेमनी अपेक्षाये आदर निगोद पर्याप्त असंख्यातगणुा अधिक छे, तेमनाथी आदर पृथ्वीकायिक असंख्यातगणुा छे, तेमनाथी आदर अपकायिक असंख्यातगणुा छे, तेमनाथी आदर वायुकायिक पर्याप्तक असंख्यातगणुा छे, आदर वायुकायिक पर्याप्तकेनी अपेक्षाये सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त असंख्यात गणुा अधिक छे, केमके आदर वायुकायिक पर्याप्त असंख्यात प्रतरप्रदेशीनी राशिना अराअर छे अने तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त असंख्यात लोकाकाश प्रदेशीनी राशिना अराअर छे, तेथी अ तेथी असंख्यातगणुा छे, सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्तकेनी अपेक्षाये सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्त विशेषा-

राशिप्रमाणत्वात् तेषामसंख्येयगुणत्वमवसेयम्, तदपेक्षया 'सुहुम पृथ्वीकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया' सूक्ष्म पृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः किञ्चिदधिका भवन्ति, तदपेक्षया—'सुहुम आउकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया' सूक्ष्मापकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति तदपेक्षया—'सुहुम वाउकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया' सूक्ष्म वायुकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, सूक्ष्म पर्याप्तक वायुकायिकेभ्यः 'सुहुम निगोया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा' सूक्ष्म निगोदाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेषामत्यधिकतया प्रतिगोलक सदभावात्, तेभ्योऽपि 'वायर वणस्सइकाइया पञ्जत्तया अणंतगुणा' वादर वनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः अनन्तगुणा भवन्ति तेषां प्रतिगारैकैक निगोद मनन्तानां सदभावात्, तेभ्योऽपि 'वायर पञ्जत्तया विसेसाहिया' समुच्चय वादरपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, पर्याप्तकवादरतेजःकायिकादीनामपि तत्र समावेशात्, तेभ्योऽपि 'सुहुम वणस्सइकाइया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा' सूक्ष्म वनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, वादर निगोद पर्याप्तकापेक्षया सूक्ष्म निगोद पर्याप्तकानामसंख्येयगुणत्वात् तेभ्योऽपि 'सुहुम पञ्जत्तया

यिक पर्याप्तकों की अपेक्षा सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म निगोद के पर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक हैं, उनकी अपेक्षा वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तक अनन्त गुणा अधिक हैं, क्योंकि वे प्रत्येक वादर निगोद में अनन्त-अनन्त जीव होते हैं, वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तों की अपेक्षा समुच्चय वादर पर्याप्त विशेषाधिक हैं, क्योंकि उनमें वादर तेजस्कायिक आदि का भी समावेश है वादर पर्याप्तों की अपेक्षा सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त असंख्य गुणा हैं, क्योंकि वादर निगोद के पर्याप्तकों की अपेक्षा सूक्ष्म निगोद के पर्याप्त

धिक छे, तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे, तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे, तेमनी अपेक्षाये निगोदना पर्याप्तक असंख्यातगुणा अधिक छे, तेमनी अपेक्षाये वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनन्तगुणा अधिक छे, केमके तेयो प्रत्येक वादर निगोदमा अनन्त-अनन्त थाय छे, वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तोनी अपेक्षाये समुच्चय वादर पर्याप्त विशेषाधिक छे, केमके तेयोमा वादर तेजस्कायिक आदिना पणु समावेश छे वादर पर्याप्तोनी अपेक्षाये सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त असंख्यात गणु छे, केमके वादर निगोदना पर्याप्तकोनी अपेक्षाये सूक्ष्म निगोदना पर्याप्तक

विसेसाहिया' सूक्ष्म पर्याप्तकाः विशेषाधिकारः भवन्ति पर्याप्तसूक्ष्मतेजःका-
यिकादीनामपि तत्र समावेशात्, अर्थात्तदमेव सूक्ष्म वादरादीनां प्रत्येक पर्याप्ता-
पर्याप्तकानां पृथक् पृथक्त्ववद्वादिनां प्ररूपयति—'एएसि णं भंते ! सुहुमाणं' हे
भदन्त ! एतेषां सखु सूक्ष्माणाम् 'वायराण य पज्जत्तापज्जत्ताण' वादराणांश्च पर्या-
प्तापर्याप्तकानाम् मध्ये 'कयरे कयरेहिंनो' कतरे कतरेभवः 'अप्पा वा बहुया वा,
तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, वट्टुणा वा, तुल्या वा, विशेषाधिकारः वा
किञ्चिदधिकारः वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्व-
त्थोवा वायरा पज्जत्ताया' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, वादराः पर्याप्तकाः भवन्ति
तेषां परिमितक्षेत्रान्तिवात् तेषां 'वायरा अपज्जत्ताया अरंत्तेज्जगुणा' वादरा अप-
र्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति एकैवादादपर्याप्तनिश्चया असंख्येय वादरा-

प्तक असंख्यात गुणा अभिन्न हैं । उनकी अपेक्षा सूक्ष्म पर्याप्त विशेषा-
धिक हैं, क्योंकि उनमें पर्याप्त सूक्ष्मतेजस्कायिक आदि भी सम्मिलित हैं ।

अब सूक्ष्म-वादर आदि के पर्याप्तकों एवं अपर्याप्तकों के पृथक्-
पृथक् अल्पबहुत्व का प्रतिपादन करते हैं—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन सूक्ष्म और
वादर जीवों के पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों में कौन किससे अल्प,
बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक है ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम !
सब से कम वादर पर्याप्तक जीव हैं, क्योंकि वे परिमित क्षेत्र में ही
होते हैं, उनकी अपेक्षा वादर अपर्याप्तक असंख्यात गुणा हैं क्योंकि
एक-एक वादर पर्याप्त के आश्रय से असंख्यात वादर अपर्याप्तों की
उत्पत्ति होती है । वादर अपर्याप्तकों की अपेक्षा सूक्ष्म अपर्याप्तक

असंख्यातगुणा अधिक थे तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म पर्याप्त विशेषाधिक थे,
केमके तेजोभा पर्याप्त सूक्ष्म तेजस्कायिक आदि पणु सम्मिलित थे.

इवे सूक्ष्म वादर आदिना पर्याप्तके तेमन् अपर्याप्तकेना पृथक्-पृथक्
अल्प बहुत्वनु प्रतिपादन करे थे—

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे थे—हे भगवन् ! आ सूक्ष्म अने वादर एतेना
पर्याप्तके अने अपर्याप्तकेना केणु केनाथी अल्प, धणु, तुल्य अथवा
विशेषाधिक थे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे थे—हे गौतम ! अधाथी ज्येष्ठा वादर पर्याप्तक
एव थे, केमके तेजो परिमित क्षेत्रमा न् थाय थे, तेमनी अपेक्षाये वादर
अपर्याप्तक असंख्यातगुणा थे, केमके ज्येष्ठ ज्येष्ठ वादर पर्याप्तकेना आश्रयथी
असंख्यात वादर अपर्याप्तकेनी उत्पत्ति थाय थे वादर अपर्याप्तकेनी अपे-

પર્યાપ્તકાનાં સમુત્પાદાત્, તેભ્યોઽપિ 'સુહુમ અપજ્જતયા અસંખેજ્જગુણા' સૂક્ષ્મા અપર્યાપ્તકાઃ અસંખ્યેયગુણા ભવન્તિ, તેપાં સર્વલોકવ્યાપ્તત્વેન ક્ષેત્રસ્યાસંખ્યેયગુણત્વાત્, તેભ્યઃ 'સુહુમ પજ્જતયા સંખેજ્જગુણા' સૂક્ષ્માઃ પર્યાપ્તકાઃ સંખ્યેયગુણા ભવન્તિ તેપાં વહુકાલાવસ્થાયિત્વેન સર્વદૈવ સંખ્યેયગુણતયા સમુપલભ્યમાનત્વાત્ ॥૬. ૮॥

સૂક્ષ્મવાદરૃથિવૈકાચિકાચલ્પવહુત્વ વક્તવ્યતા-

મૂલમ્-એસિ ણં મંતે ! સુહુમપુઢવીકાઙ્યાણં વાયરપુઢવિકાઙ્યાણ ય પજ્જત્તાપજ્જત્તાણં કચરે કચરેહિંતો અપ્પા વા, વહુયા વા, તુલ્લા વા વિસેસાહિયા વા ? ગોયમા ! સઠ્વત્થોવા વાયરપુઢવીકાઙ્યા પજ્જત્તયા વાયરપુઢવીકાઙ્યા અપજ્જત્તયા અસંખેજ્જગુણા, સુહુમપુઢવીકાઙ્યા અપજ્જત્તયા અસંખેજ્જગુણા, સુહુમપુઢવીકાઙ્યા પજ્જત્તયા સંખેજ્જગુણા, એસિ ણં મંતે ! સુહુમઆઝકાઙ્યાણં વાયરઆઝકાઙ્યાણ ય પજ્જત્તાપજ્જત્તાણં કચરે કચરેહિંતો અપ્પા વા, વહુયા વા, તુલ્લા વા, વિસેસાહિયા વા ? ગોયમા ! સઠ્વત્થોવા વાયરઆઝકાઙ્યા પજ્જત્તયા, વાયરઆઝકાઙ્યા અપજ્જત્તયા અસંખેજ્જગુણા, સુહુમઆઝકાઙ્યા અપજ્જત્તયા અસંખેજ્જગુણા સુહુમઆઝકાઙ્યા પજ્જત્તયા સંખેજ્જગુણા, એસિ ણં મંતે ! સુહુમતેઝકાઙ્યાણં વાયરતેઝકાઙ્યાણ ય પજ્જત્તાપજ્જત્તાણં કચરે કચરેહિંતો અપ્પા વા, વહુયા વા, તુલ્લા વા, વિસેસાહિયા વા ? ગોયમા ! સઠ્વત્થોવા વાયરતેઝકાઙ્યા પજ્જત્તયા, વાયરતેઝકાઙ્યા અપજ્જત્તયા અસંખેજ્જગુણા, સુહુમતેઝ-

અસંખ્યાતગુણા હૈં, ક્યોંકિ વે સમ્પૂર્ણ લોક મેં વ્યાપ્ત હૈં, અતએવ ઝન કા ક્ષેત્ર અસંખ્યાતગુણા હૈં । સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્તોં કી અપેક્ષા સૂક્ષ્મ પર્યાપ્ત સંખ્યાતગુણા હૈં, ક્યોંકિ વે અધિક કાલ તક રહતે હૈં, અતઃ સદૈવ સંખ્યાત ગુણા પાયે જાતે હૈ ॥૭॥

ક્ષાએ સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્તક અસખ્યાતગણા છે, કેમકે તેઓ સમ્પૂર્ણ લોકમા વ્યાપ્ત છે, તેથી જ તેમનું ક્ષેત્ર અમખ્યાતગણુ છે સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્તોની અપેક્ષાએ સૂક્ષ્મ પર્યાપ્ત અસખ્યાતગણા છે, કેમકે તેઓ અધિક કાળ સુધી રહે છે, તેથી સદૈવ સખ્યાતગણા મળી આવે છે ॥ ૭ ॥

काइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, सुहुमतेउकाइया पञ्जत्तया संखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! सुहुमवाउकाइयाणं वायरवाउकाइयाण य पञ्जत्तापञ्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वायरवाउकाइया पञ्जत्तया, वायरवाउकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, सुहुमवाउकाइया पञ्जत्तया संखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! सुहुमवणस्सइकाइयाणं वायरवणस्सइकाइयाण य पञ्जत्तापञ्जत्ताणय कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वायरवणस्सइकाइया पञ्जत्तया, वायरवणस्सइकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, सुहुमवणस्सइकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, सुहुमवणस्सइकाइया पञ्जत्तया संखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! सुहुमनिगोयाणं वायरनिगोयाण य पञ्जत्तापञ्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वायरनिगोया पञ्जत्तया, वायरनिगोया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, सुहुमनिगोया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, सुहुमनिगोया पञ्जत्तया संखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढवीकाइयाणं, सुहुमआउकाइयाणं, सुहुमतेउकाइयाणं, सुहुमवाउकाइयाणं, सुहुमवणस्सइकाइयाणं, सुहुमनिगोयाणं. वायराणं, वायरपुढवीकाइयाणं, वायरआउकाइयाणं, वायरतेउकाइयाणं, वायरवाउकाइयाणं, वायरवणस्सइकाइयाणं, पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइयाणं वायरनिगोयाणं, वायरतसकाइयाण य, पञ्जत्तापञ्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वायरतेउकाइया पञ्जत्तया, वायर तसकाइया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायरतसकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायर-

निगोया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायरपुढवीकाइया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायरआउकाइया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायरवाउकाइया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायरतेउकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, पत्तेयसरीर वायरवणस्सइकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायरनिगोया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायरपुढवीकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा वायरआउकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायरवाउकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, सुहुमतेउकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, सुहुमपुढवीकाइया अपञ्जत्तया विसेसाहिया, सुहुमआउकाइया अपञ्जत्तया विसेसाहिया, सुहुमवाउकाइया अपञ्जत्तया विसेसाहिया, सुहुमतेउकाइया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, सुहुमपुढवीकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया, सुहुमआउकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया, सुहुमवाउकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया, सुहुमनिगोया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, सुहुमनिगोया पञ्जत्तया संखेज्जगुणा, वायरवणस्सइकाइया पञ्जत्तया अणंतगुणा, वायरपञ्जत्तया विसेसाहिया, वायरवणस्सइकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, वायरअपञ्जत्तया विसेसाहिया, वायरा विसेसाहिया सु मवणस्सइकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा, सुहुमअपञ्जत्तया विसेसाहिया. सुहुमवणस्सइकाइया पञ्जत्तया संखेज्जगुणा, सुहुमा पञ्जत्तया विसेसाहिया, सुहुमा विसेसाहिया ॥सू० ९॥

छाया—एतेपां खलु भदन्त ! सूक्ष्म पृथिवीकायिकाना वादर पृथिवीकायिकानाम् च पर्याप्तापर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा,

सूक्ष्म-वादर पृथ्वीकायिकादि का अल्पबहुत्व-

शब्दार्थ—(एपसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सुहुम पुढवीकाइ-

सूक्ष्म-वादर पृथ्वीकायिकादितु अल्प-अहुत्व

शब्दार्थ—(एपसिणं भन्ते !) भगवन् ! आ (सुहुमपुढवीकाइयाणं) सूक्ष्म पृथ्वी-

વિશેષાધિકા વા ? ગૌતમ ! સર્વમ્તોક્તાઃ વાદરપૃથિવીકાયિકાઃ પર્યાપ્તકાઃ, વાદર પૃથિવીકાયિકા અપર્યાપ્તકાઃ અસંખ્યેયગુણાઃ, સૂક્ષ્મ પૃથિવીકાયિકા અપર્યાપ્તકાઃ અસંખ્યેયગુણા, સૂક્ષ્મ પૃથિવીકાયિકાઃ પર્યાપ્તકાઃ સંખ્યેયગુણાઃ, એતેષાં સ્વલ્પ મદન્ત ! સૂક્ષ્માપ્તકાયિકાના વાદરાપ્તકાયિકાનામ્ ચ પર્યાપ્તાપર્યાપ્તકાનાં કતરે કતરેભ્યોડલ્યા વા, વહુકા વા, તુલ્યા વા, વિશેષાધિકા વા ? ગૌતમ !

યાણં) સૂક્ષ્મ પૃથિવીકાયિકાં (વાયર પુઢવીકાઈયાણ ય) ઔર વાદર પૃથિવીકાયિકોં કે (પજ્જત્તાપજ્જત્તાણં) પર્યાપ્તકોં એવં અપર્યાપ્તકોં મેં (કયરે કયરેહિંતો) કૌન કિસસે (અપ્પા વા વહુયા વા તુલ્લા વા વિસેસાહિયા વા ?) અલ્પ, વહુત, તુલ્ય યા વિશેષાધિક હેં ? (ગોયમા) હે ગૌતમ ! (સવ્વત્યોવા વાયર પુઢવીકાઈયા પજ્જત્તયા) સ્વ સે કમ વાદર પૃથ્વીકાયિક પર્યાપ્ત હેં (વાયર પુઢવીકાઈયા અપજ્જત્તયા અસં-સ્વેજ્જગુણા) વાદર પૃથ્વીકાયિક અપર્યાપ્ત અસંખ્યાત ગુણા હેં (સુહુમ પુઢવીકાઈયા અપજ્જત્તયા અસંસ્વેજ્જગુણા) સૂક્ષ્મ પૃથિવીકાયિક અપર્યાપ્ત અસંખ્યાત ગુણા હેં (સુહુમ પુઢવીકાઈયા પજ્જત્તયા સંસ્વેજ્જગુણા) સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયિક પર્યાપ્ત સંખ્યાત ગુણા હેં ।

(એસિ ણં મંતે !) હે મગવન્ ! ઇન (સુહુમ આડકાઈયાણં) સૂક્ષ્મ અપ્તકાયિકોં (વાયર આડકાઈયાણ ય) ઔર વાદર અપ્તકાયિકોં કે (પજ્જત્તાપજ્જત્તાણં) પર્યાપ્તકો ઔર અપર્યાપ્તકો મેં (કયરે કયરે-હિંતો) કૌન કિસસે (અપ્પા વા વહુયા વા તુલ્લા વા વિસેસાહિયા

કાયિકો (વાયરપુઢવીકાઈયાણ ય) અને વાદર પૃથ્વીકાયિકોના (પજ્જત્તાપજ્જત્તાણ) પર્યાપ્તકો તેમજ અપર્યાપ્તકોમા (કયરે કયરેહિંતો) કોણ કોનાથી (અપ્પા વા વહુયા વા તુલ્લા વા વિસેસાહિયા વા ?) અલ્પ, ઘણા, તુલ્ય અગર વિશેષાધિક છે ?

(ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (સવ્વત્યોવા વાયરપુઢવીકાઈયા પજ્જત્તયા) બધાથી મોઢા વાદર પૃથ્વીકાયિક પર્યાપ્ત છે (વાયરપુઢવીકાઈયા અપજ્જત્તયા અસંસ્વેજ્જ-ગુણા) વાદર પૃથ્વીકાયિક અપર્યાપ્ત અસંખ્યાતગણા છે (સુહુમપુઢવીકાઈયા અપજ્જ-ત્તયા અસંસ્વેજ્જગુણા) સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયિક અપર્યાપ્ત અસંખ્યાતગણા છે (સુહુમ-પુઢવીકાઈયા પજ્જત્તયા સંસ્વેજ્જગુણા) સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયિક પર્યાપ્ત સંખ્યાતગણા છે.

(એસિ ણ મંતે !) હે ભગવન્ ! આ (સુહુમઆડકાઈયાણં) સૂક્ષ્મ અપ્તકાયિકો (વાયરઆડકાઈયાણય) અને વાદર અપ્તકાયિકોના (પજ્જત્તાપજ્જત્તાણ) પર્યાપ્તકો અને અપર્યાપ્તકોમા (કયરે કયરેહિંતો) કોણ કોનાથી (અપ્પા વા વહુયા વા તુલ્લા વા વિસે-સાહિયા વા ?) અલ્પ, ઘણા, તુલ્ય અગર વિશેષાધિક છે ?

सर्वस्तोकाः वादराप्कायिकाः पर्याप्तकाः, वादराप्कायिका अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, सूक्ष्माप्कायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, सूक्ष्माप्कायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! सूक्ष्मतेजःकायिकानां, वादर तेजःकायिकानाम् च पर्याप्तापर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः वादर तेजःकायिकाः पर्याप्तकाः, वादर तेजःकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः सूक्ष्म तेजःकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, सूक्ष्मतेजःकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः,

वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा बायर आउकाइया पज्जत्तया) सब से कम वादर अप्कायिक पर्याप्त हैं (बायर आउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर अप्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (सुहुम आउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म अप्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (सुहुम आउकाइया पज्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त संख्यातगुणा हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सुहुम तेउकाइयाणं) सूक्ष्म तेजस्कायिकों (बायर तेउकाइयाण य) और वादर तेजस्कायिक (पज्जत्तापज्जत्ताणं) पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों में (कयरे कयरेहितो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा) सब से कम (बायर तेउकाइया पज्जत्तया) वादर तेजस्कायिक पर्याप्त हैं (बायर तेउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर तेजस्कायिक

(गोयमा ।) हे गौतम । (सव्वत्थोवा बायरआउकाइया पज्जत्तया) षड्धाथी ओऽथा भादर अप्कायिक पर्याप्त छे (बायरआउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) भादर अप्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगणु छे (सुहुमआउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त असंख्यातगणु छे (सुहुमआउकाइया पज्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त संख्यातगणु छे

(एएसिण भंते !) भगवन् ? आ (सुहुमतेउकाइयाण) सूक्ष्म तेजस्कायिके (बायरतेउकाइयाणय) अने भादर तेजस्कायिक (पज्जत्तापज्जत्ताणं) पर्याप्तके अने अपर्याप्तकेभा (कयरे कयरेहितो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, धणु, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

(गोयमा ।) हे गौतम । (सव्वत्थोवा) षड्धाथी ओऽथा (बायरतेउकाइया पज्जत्तया) भादर तेजस्कायिक पर्याप्त छे (बायरतेउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा)

एतेषां खलु भदन्त ! सूक्ष्म वायुकायिकानां वादर वायुकायिकानाञ्च पर्याप्ता-
पर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका
वा ? गौतम ! सर्वसौकाः वादर वायुकायिकाः पर्याप्तकाः, वादर वायुकायिकाः
अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, सूक्ष्म वायुकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः,
सूक्ष्म वायुकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! सूक्ष्म
वनस्पतिकायिकाना वादर वनस्पतिकायिकानाञ्च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका

अपर्याप्त असंख्यगुणा है (सुहृम तेजकाइया अपज्जत्तया असंखेज्ज-
गुणा) सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (सुहृम तेजका-
इया पज्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त संख्यातगुणा हैं ।

(एएसि षं भंते !) हे भगवन् ! इन (सुहृम वाउकाइयाणं वायर
वाउकाइयाण थ) सूक्ष्म वायुकायिको और वादर वायुकायिकों के
(पज्जत्तापज्जत्ताणं) पर्याप्तों और अपर्याप्तों में (कयरे कयरेहिंतो)
कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?)
अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्व-
त्थोवा वायर वाउकाइया) सब से कम वादर वायुकायिक (पज्जत्तया)
पर्याप्तरु हैं (वायर वाउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर वायु-
कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा है (सुहृम वाउकाइया अपज्जत्तया
असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (सुहृम
वाउकाइया पज्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त
संख्यात गुणा हैं ।

आदर तेजस्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे (सुहृमतेजकाइया अपज्जत्तया असंखे-
ज्जगुणा) सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे (सुहृमतेजकाइया पज्जत्तया
संखेज्जगुणा) सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त संख्यातगुणा छे.

(एएसिण भंते !) हे भगवन् ! आ (सुहृमवाउकाइयाण वायरवाउकाइयाणय)
सूक्ष्म वायुकायिके आने आदर वायुकायिकेना (पज्जत्तापज्जत्ताण) पर्याप्ते आने
अपर्याप्तेमा (कयरे कयरेहिंतो) केण केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसे
साहिया वा ?) अल्प, धणु, तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायरवाउकाइया) अधाथी ओथा
आदर वायुकायिक (पज्जत्तया) पर्याप्त छे (वायरवाउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्ज-
गुणा) आदरवायुकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे (सुहृमवाउकाइया अपज्जत्तया-
असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे (सुहृमवाउकाइया
पज्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त संख्यातगुणा छे

वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वरतोकाः वादर वनस्पतिकायिकाः, पर्याप्तकाः, वादर वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, सूक्ष्म वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, सूक्ष्म वनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! सूक्ष्मनिगोदानां वादरनिगोदानाञ्च पर्याप्तापर्याप्तकानां कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ?

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सुहुम वणस्सइकाइयाणं वायर वणस्सइकाइयाण य) सूक्ष्म वनस्पतिकायिकां और वनस्पतिकायिकों के (पज्जत्तापज्जत्ताणं) पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ? (गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायर वणस्सइकाइया पज्जत्तया) सब से कम वादर वनस्पतिकाय के पर्याप्तक हैं (वायर वणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (सुहुम वणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (सुहुम वणस्सइकाइया पज्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त संख्यातगुणा हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सुहुम निगोयाणं वायर निगोयाण य) सूक्ष्म निगोदों और वादर निगोदों के (पज्जत्तापज्जत्ताणं) पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किस

(एएसिणं भंते !) हे भगवन् ! आ (सुहुमवणस्सइकाइयाण वायरवणस्सइकाइयाण य) सूक्ष्म वनस्पतिकायिके अने वादर वनस्पतिकायिकेना (पज्जत्तापज्जत्ताणं) पर्याप्तके अने अपर्याप्तकेमा (कयरे कयरेहिंतो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया ?) अल्प, धणु, तुल्य अगार विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया) अधाथी ओछा वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तक छे (वायरवणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यातगणु छे (सुहुमवणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यातगणु छे (सुहुमवणस्सइकाइया पज्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त संख्यातगणु छे

(एएसिण भंते !) हे भगवन् ! आ (सुहुमनिगोयाण वायरनिगोयाणय) सूक्ष्म निगोद अने वादर निगोदना (पज्जत्तापज्जत्ताण) पर्याप्तके अने अपर्याप्तकेमा (कयरे कयरेहिंतो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?)

गौतम ! सर्वस्तोकाः वादरनिगोदाः पर्याप्तकाः, वादरनिगोदाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, सूक्ष्मनिगोदाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, सूक्ष्म निगोदाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! सूक्ष्माणां सूक्ष्मपृथिवीकायिकानां सूक्ष्मापकायिकानाम् सूक्ष्म तेजःकायिकानाम्, सूक्ष्म वायुकायिकानाम्, सूक्ष्म वनस्पतिकायिकानाम्, सूक्ष्म निगोदानाम्, वादराणाम्, वादर पृथिवीकायिकानाम्, वादरापकायिकानाम्, वादर तेजःकायिकानाम्, वादर वायुकायिका-

से (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायर निगोया पज्जत्तया) सच से कम वादर निगोद के पर्याप्तक हैं (वायर निगोया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर निगोद के अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (सुहुम निगोया अपज्जत्तया) सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त (असंखेज्जगुणा) असंख्यातगुणा हैं (सुहुम निगोया पज्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म निगोद के पर्याप्तक संख्यातगुणा हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (सुहुमाण पुढ्वीकाइयाणं सूक्ष्म पृथ्वीकायिकों (सुहुम आउकाइयाणं) सूक्ष्म अपकायिकों (सुहुम तेउकाइयाणं) सूक्ष्म तेजस्कायिकों (सुहुम वाउकाइयाणं) सूक्ष्म वायुकायिकों (सुहुम वणस्सइकाइयाणं) सूक्ष्म वनस्पतिकायिकों (सुहुम निगोयाणं) सूक्ष्म निगोदों (वायराणं) वादरों (वायर पुढ्वीकाइयाणं) वादर पृथिवीकायिकों (वायर आउकाइयाणं) वादर अपकायिकों (वायर तेउकाइयाणं) वादर तेजस्कायिकों (वायर वाउकाइयाणं) वादर वायु-

अल्प, धणु, तुल्य अगर तो विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा वायरनिगोया पज्जत्तया) अधाथी ओछा आदरनिगोदना पर्याप्तक छे (वायरनिगोया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) आदरनिगोदना अपर्याप्त असंख्यातगणु छे

(सुहुमनिगोया अपज्जत्तया) सूक्ष्म निगोदना अपर्याप्त (असंखेज्जगुणा) असंख्यातगणु छे (सुहुमनिगोया पज्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्मनिगोदना पर्याप्तक संख्यातगणु छे,

(एएसिण भंते !) भगवन् ! आ (सुहुमाणं पुढ्वीकाइयाणं) सूक्ष्म पृथ्वीकायिके। (सुहुमआउकाइयाणं) सूक्ष्म अपकायिके। (सुहुमतेउकाइयाणं) सूक्ष्म तेजस्कायिके। (सुहुमवाउकाइयाणं) सूक्ष्म वायुकायिके। (सुहुमवणस्सइकाइयाणं) सूक्ष्म वनस्पतिकायिके। (सुहुमनिगोयाणं) सूक्ष्म निगोद (वायराणं) आदरे। (वायरपुढ्वीकाइयाणं) आदर पृथ्वीकायिके। (वायरआउकाइयाणं) आदर अपकायिके। (वायरतेउकाइयाणं)

नाम्, वादर वनस्पतिकायिकानाम्, प्रत्येकशरीरवनस्पतिकायिकाम्, वादरनिगो-
दानाम्, वादरत्रसकायिकानाम् च पर्याप्तापर्याप्तानाम् कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा,
बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः वादरतेजः
कायिकाः पर्याप्तकाः, वादरत्रसकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, वादर
त्रसकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकाः
पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, वादर निगोदाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः,
वादरपृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, वादराप्कायिकाः पर्याप्तकाः

कायिकों (बायर वणस्सइकाइयाणं) वादर वनस्पतिकायिकों (पत्तेय-
सरीरबायरवणस्सइकाइया) प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिकों
(बायर निगोयाणं) वादर निगोदों (बायर तसकाइयाणं) वादर त्रस-
कायिकों में (पज्जत्तापज्जत्ताणं) पर्याप्तों और अपर्याप्तों में (कयरे
कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया
वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा बायर तेउकाइया पज्जत्तया)
सब से वादर तेजस्काय के पर्याप्तक हैं (बायर तसकाइया पज्ज-
त्तया असंखेज्जगुणा) वादर त्रसकाय के पर्याप्तक असंख्यात गुणा हैं
(बायर तसकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वादर त्रसकायिक अप-
र्याप्त असंख्यात गुणा हैं (पत्तेयसरीर बायर वणस्सइकाइया पज्जत्तया
असंखेज्जगुणा) प्रत्येक शरीर वादर वनस्पि यिक पर्याप्त असंख्यात

आदर तेजस्कायिके (बायरवाउकाइयाण) आदर वायुकायिके (बायरवणस्सइकाइयाण)
आदर वनस्पतिकायिके (पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइयाण) प्रत्येक शरीर आदर
वनस्पतिकायिके (बायरनिगोयाण) आदर निगोदे (बायरतसकाइयाणं) आदर त्रस
कायिकेना (पज्जत्तापज्जत्ताण) पर्याप्तो अने अपर्याप्तोभा (कयरे कयरेहिंतो) केअ
केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धणु, तुल्य
अगर ते विशेषाधिके छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा बायरतेउकाइयापज्जत्तया) अधाथी आछा
आदर तेजस्कायना पर्याप्तक छे (बायरतसकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) आदर
त्रसकायना पर्याप्तक असंख्यातगणु छे (बायरतसकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा)
आदर त्रसकायिक अपर्याप्त असंख्यातगणु छे (पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइया
पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) प्रत्येक शरीर आदरवनस्पतिकायिक पर्याप्तक असं-
ख्यातगणु छे (बायरनिगोया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) आदरनिगोदना पर्याप्तक
असंख्यातगणु छे (बायरपुढवीकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) आदरपृथ्वीकायना

पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, सूक्ष्मापकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः सूक्ष्म-
वायुकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, सूक्ष्मतेजःकायिकाः पर्याप्तकाः
असंख्येयगुणाः, सूक्ष्मपृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः सूक्ष्मापकायिकाः
पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, सूक्ष्मवायुकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, सूक्ष्म-
निगोदाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, सूक्ष्मनिगोदाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः,
सूक्ष्म-वादरवनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः अनन्तगुणाः, वादरपर्याप्तकाः विशेषा-
धिकाः, वादरवनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, वादरा पर्याप्तकाः

गुणा हैं (सुहृम पृथ्वीकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पृथिवी-
कायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहृम आउकाइया अपज्जत्तया
विसेसाहिया) सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहृम वाउ-
काइया अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त विशेष-
ाधिक हैं (सुहृम तेउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म तेज-
स्कायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (सुहृम पृथ्वीकाइया पज्जत्तया
विसेसाहिया) सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहृम
आउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त विशेष-
ाधिक हैं (सुहृम वाउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायु-
कायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं (सुहृम निगोया अपज्जत्तया असंखे-
ज्जगुणा) सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्तक असंख्यात गुणा हैं (सुहृम
निगोया पज्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म निगोद के पर्याप्तक संख्यात
गुणा हैं (बायर वणस्सइकाइया पज्जत्तया अणंतगुणा) वादर वनस्पति-
काय के पर्याप्तक अनन्तगुणा हैं (बायर पज्जत्तया विसेसाहिया)
वादर पर्याप्त विशेषाधिक हैं (बायर वणस्सइकाइया अपज्जत्तया

पृथ्वीकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्मपृथ्वीकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे.

(सुहृमआउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म ञणकायिक अपर्याप्त विशेष-
ाधिक छे (सुहृमवाउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्मवायुकायिक अपर्याप्त
विशेषाधिक छे (सुहृमतेउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त
असंख्यातगुणा छे (सुहृमपृथ्वीकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्मपृथ्वीकायिक
पर्याप्त विशेषाधिक छे (सुहृमआउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्मअपकायिक पर्याप्त
विशेषाधिक छे (सुहृमवाउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त
विशेषाधिक छे (सुहृमनिगोया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म निगोदना अपर्याप्तक
असंख्यातगुणा छे (सुहृमनिगोया पज्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म निगोदना पर्याप्तक
संख्यातगुणा छे (बायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया अणंतगुणा) वादर वनस्पतिकायना
पर्याप्तक अनन्तगुणा छे (बायरपज्जत्तया विसेसाहिया) वादर पर्याप्त विशेषाधिक

विशेषाधिकाः, वादराः विशेषाधिकाः, सूक्ष्मवनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, सूक्ष्मापर्याप्तकाः विशेषाधिकाः, सूक्ष्मवनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, सूक्ष्मपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः सूक्ष्मा विशेषाधिकाः, द्वारम् ॥ सू० ९ ॥

टीका—अथ सूक्ष्मपृथिवीकायिकवाद्पृथिवीकायिकादीनां प्रत्येकं पर्याप्तापर्याप्तकानां समुदायेनाल्पबहुत्वादिरुमाह—‘एएसि णं भंते ! सुहुमपुढवीकाइयाणं’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतेषां तस्य सूक्ष्मपृथिवीकायिकानां ‘वायरपुढविकाइयाणय’ वाद्पृथिवीकायिकानाञ्च ‘पज्जत्तापज्जत्ताणं’ पर्याप्तापर्याप्तकानां मध्ये ‘कयरे कयरेद्वितो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, असंखेज्जगुणा) वाद् वनस्पतिकाय के अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (वायर अपज्जत्तया विसेसाहिया) वाद्दर अपर्याप्तक विशेषाधिक हैं (वायरा विसेसाहिया) वाद्दर विशेषाधिक हैं (सुहुम वणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं (सुहुम अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अपर्याप्तक विशेषाधिक हैं (सुहुम वणस्सइकाइया पज्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त संख्यातगुणा है (सुहुम पज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पर्याप्तक विशेषाधिक हैं (सुहुमा विसेसाहिया) सूक्ष्म जीव विशेषाधिक हैं । ॥ ७ ॥

टीकार्थ—अथ सूक्ष्म पृथ्वीकायिक एवं वाद्दर पृथ्वीकायिक आदि के, प्रत्येक के समुदाय रूप से अल्पबहुत्व का प्रतिपादन करते हैं—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन सूक्ष्म पृथ्वीकायिकों और वाद्दर पृथ्वीकायिकों के पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों

छे (वायरवणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) वाद्दर वनस्पतिकायिका अपर्याप्तक असंख्यातगुणा छे (वायरअपज्जत्तया विसेसाहिया) वाद्दर अपर्याप्तक विशेषाधिक छे (वायरा विसेसाहिया) वाद्दर विशेषाधिक छे (सुहुमवणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे (सुहुमअपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अपर्याप्तक विशेषाधिक छे (सुहुमवणस्सइकाइया पज्जत्तया संखेज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त संख्यातगुणा छे (सुहुमपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पर्याप्तक विशेषाधिक छे (सुहुमा विसेसाहिया) सूक्ष्म एव विशेषाधिक छे. ॥ ७ ॥

टीकार्थः—हुवे सूक्ष्म पृथ्वीकायिक तेमल वाद्दर पृथ्वीकायिक आदिना प्रत्येकना समुदायइपथी अल्प बहुत्वतु प्रतिपादन करे छे—

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! आ सूक्ष्म पृथ्वीकायिके अने वाद्दर पृथ्वीकायिकेना पर्याप्तके अने अपर्याप्तकेना केणु केनाथी सोछा,

विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—' गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्वत्थोवा वायर पुढवीकाइया पज्जत्तया' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, वादरपृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः भवन्ति, तेभ्योऽपि 'सुहुम पुढवीकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' सूक्ष्म पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'सुहुमपुढवीकाइया पज्जत्तया संखेज्जगुणा' सूक्ष्मपृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, गौतमः पृच्छति—'एएसि णं भंते ! सुहुम आउकाइयाणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु सूक्ष्मापकायिकानाम्, 'वायर आउकाइयाण य, वादरापकायिकानाञ्च 'पज्जत्तापज्जत्ताणं' पर्याप्तापर्याप्तकानाम् मध्ये 'कयरे कयरेहितो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पावा, बहुका वा, तुल्या वा विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्वत्थोवा वायर आउकाइया पज्जत्तया' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, वादरापकायिकाः पर्याप्तकाः भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायर आउकाइया अपज्जत्तया

में कौन किस से कम, अधिक, तुल्य या विशेषाधिक अर्थात् कुछ अधिक है ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सब से कम वादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त हैं, उनकी अपेक्षा वादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं, सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्त उनसे भी असंख्यात गुणा हैं और सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्त उनसे संख्यातगुणा अधिक हैं । इस विषय में युक्ति पहले कही जा चुकी है ।

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन सूक्ष्म अपकायिकों और वादर अपकायिकों के पर्याप्तों और अपर्याप्तों में कौन

वधारे, तुल्य अगर विशेषाधिक अर्थात् कथक अधिक छे ?

श्रीलगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! अधाथी ओछा भादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त छे, तेमनी अपेक्षाअे भादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त असंख्यात गणुा छे, सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्त तेमनाथी पणु असंख्यातगणुा छे अने सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्त तेमनाथी संख्यातगणुा अधिक छे. आ विषयमा युक्ति आगण कडेली छे.

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे लगवन् ! आ सूक्ष्म ञणकायिके अने भादर ञणकायिकेना पर्याप्तो अने अपर्याप्तकेना केणु केनाथी थोडा, धणुा, तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

श्रीलगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! अधाथी ओछा भादर अपकायिक

असंखेज्जगुणा' वादराप्कायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, तेभ्योऽपि सूक्ष्माप्कायिका अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः 'सुहुम आउकाइया पज्जत्तया संखेज्जगुणा' सूक्ष्माप्कायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः भवन्ति, गौतमः पृच्छति - 'एएसि णं भंते ! सुहुम तेउकाइयाणं' हे भदन्त ! एतेपां खलु सूक्ष्मतेजः कायिकानाम् 'वायर तेउकाइयाण य पज्जत्तापज्जत्ताणं' वादर तेजःकायिकानाञ्च पर्याप्तापर्याप्तकानां 'कयरे कयरेहिंतो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति - 'गोयमा !' हे गौतम ! 'सन्वत्थोवा वायर तेउकाइया पज्जत्तया' सर्वस्तोकाः वादरतेजः कायिकाः पर्याप्तकाः भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायर तेउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादरतेजःकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'सुहुम तेउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' सूक्ष्मतेजःकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योः किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं - हे गौतम ! सबसे कम वादर अप्कायिक पर्याप्त हैं, उनकी अपेक्षा वादर अप्कायिक अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं । उनकी अपेक्षा सूक्ष्म अप्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक हैं और उनकी अपेक्षा सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त संख्यातगुणा हैं ।

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं - हे भगवान् ! इन सूक्ष्म तेजस्कायिकों और वादर तेजस्कायिकों के पर्याप्त और अपर्याप्त में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं - हे गौतम ! सबसे कम वादर तेजस्कायिक पर्याप्त हैं, उनकी अपेक्षा वादर तेजस्कायिक अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्त असं-

पर्याप्तक छे, तेमनी अपेक्षाअे वादर अप्कायिना अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे, तेमनी अपेक्षाअे सूक्ष्म अप्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक छे अने तेमनी अपेक्षाअे सूक्ष्म ज्जगुणायिक पर्याप्त संख्यातगुणा छे

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे - भगवान् आ सूक्ष्म तेजस्कायिके अने वादर तेजस्कायिकेना पर्याप्तो अने अपर्याप्तोमा केणु केनाथी ओछा अधिक तुल्य अगुर विशेषाधिक छे ?

आ प्रश्नो उत्तर आपता भगवान् श्री महावीरस्वामी कडे छे के - हे गौतम ! अथाथी ओछा वादर तेजस्कायिक पर्याप्तके छे, तेना करता वादर तेजस्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे, तेना करतां सूक्ष्म तेजस्कायिक

ऽपि 'सुहुम तेउकाइया पज्जत्तया संखेज्जगुणा' सूक्ष्मतेजःकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्राणुक्तयुक्तेः, गौतमः पृच्छति—'एएसि णं भंते ! सुहुम वाउकाइयाणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु सूक्ष्म वायुकायिकानाम्, 'वायर वाउकाइयाण य' वादर वायुकायिकानाञ्च 'पज्जत्तापज्जत्ताणं' पर्याप्तापर्याप्तकानां मध्ये 'कयरे कयरेहिंते' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, वहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्वत्थोवा वायर वाउकाइया पज्जत्तया' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, वादरवायुकायिकाः पर्याप्तकाः भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायर वाउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादरवायुकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि, 'सुहुम वाउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' सूक्ष्म वायुकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'सुहुम ख्यात गुणा हैं और उनकी अपेक्षा सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त संख्यात गुणा हैं । इसका कारण पहले बतलाया जा चुका है ।

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन सूक्ष्म वायुकायिकों और वादर वायुकायिकों के पर्याप्तों और अपर्याप्तों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सबसे कम वादर वायुकाय के पर्याप्तक हैं, उनकी अपेक्षा वादर वायुकाय के अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म वायुकाय के अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं और उनकी अपेक्षा भी सूक्ष्म वायुकाय के पर्याप्तक संख्यात गुणा हैं ।

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन सूक्ष्म वनस्पति-

अपर्याप्तक असंख्यातगुणा छे, अने तेना करता सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्तक संख्यातगुणा छे, तेनु कारणु पड़ेला कड़ेवामा आनी गथेल छे

गौतमस्वामी पूछे छे के डे भगवन् ! आ सूक्ष्म वायुकायिके अने वादर वायुकायिकेना पर्याप्तके अने अपर्याप्तकेमा कोणु केनाथी अल्प, ओछा, वधादे, सरणा अने विशेषाधिक छे ? उत्तर आपता भगवान्श्री कडे छे के—हे गौतम ! सौथी ओछा वादर वायुकायना पर्याप्तके छे, तेना करता वादर वायुकायना अपर्याप्तक असंख्यातगुणा छे तेना करता सूक्ष्म वायुकायना अपर्याप्तके असंख्यातगुणा छे, अने तेना करता सूक्ष्म वायुकायना पर्याप्तक संख्यातगुणा छे

गौतमस्वामी प्रश्न करता कडे छे के—हे भगवन् ! आ सूक्ष्म वनस्पति-

वाउकाइया पज्जत्तया संखेज्जगुणा' सूक्ष्म वायुकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, गौतमः पृच्छति—'एएसि णं भंते ! सुहुम वणस्सइकाइयाणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु सूक्ष्म वनस्पतिकायिकानाम्, 'वायर वणस्सइकाइयाण य' वादर वनस्पतिकायिकानाञ्च 'पज्जत्तापज्जत्ताणं' पर्याप्तापर्याप्तकानां मध्ये 'कयरे कयरे-हिंतो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्वत्थोवा वायर वणस्सइकाइया पज्जत्तया' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, वादर वनस्पतिकायिकाः पर्याप्तका भवन्ति, तेभ्यो 'वायर वणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादर वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तका असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'सुहुम वणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखे-ज्जगुणा' सूक्ष्म वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'सुहुम वणस्सइकाइया पज्जत्तया संखेज्जगुणा' सूक्ष्म वनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, गौतमः पृच्छति—'एएसि णं भंते ! सुहुम निगोयाणं' हे भदन्त ! एतेषां खलु सूक्ष्मनिगोदानाम् 'वायर निगोयाण य' वादर निगोदा-नाञ्च 'पज्जत्तापज्जत्ताणं' पर्याप्तापर्याप्तकानां मध्ये 'कयरे कयरेहिंतो' कतरे कत-रेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा' अल्पा वा, बहुका

कायिकों के तथा बादर वनस्पतिकायिकों के पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सब से कम बादर वनस्पतिकाय के पर्याप्तक हैं, उनकी अपेक्षा बादर वनस्पतिकाय के अपर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म वनस्पतिकाय के अपर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं और उनकी अपेक्षा सूक्ष्म वनस्पतिकाय के पर्याप्तक संख्यातगुणा अधिक हैं ।

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन सूक्ष्म निगोद

कायिकेना तथा बादर वनस्पतिकायिकेना पर्याप्तके अने अपर्याप्तकेभा डोणु डेनाथी ओछा, धणु, सरणा अने विशेषाधिक छे ?

श्रीभगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! 'अधाथी ओछा बादर वनस्प-तिकायिकेना पर्याप्तक छे, तेमनी अपेक्षाअे बादर वनस्पतिकायिना अपर्याप्तक असंख्यातगणु छे, तेमनी अपेक्षाअे सूक्ष्म वनस्पतिकायिना अपर्याप्तक असंख्यातगणु छे, अने तेमनी अपेक्षाअे सूक्ष्म वनस्पतिकायिना पर्याप्तक संख्यातगणु अधिक छे

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे—भगवन् ! आ सूक्ष्म निगोद अने बादर

वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सच्चत्थोवा वायरनिगोयया’ सर्वेभ्योऽल्पाः वादरनिगोदकाः ‘पज्जत्तया’ पर्याप्तकाः भवन्ति, ‘वायर निगोया य’ तेभ्योऽपि वादर निगोदकाश्च ‘अपज्जत्तया’ अपर्याप्तकाः ‘असंखेज्जगुणा’ असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि—‘सुहुम निगोयया अपज्जत्तया’ सूक्ष्म निगोदकाः अपर्याप्तकाश्च ‘असंखेज्जगुणा’ असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘सुहुम निगोया पज्जत्तया संखेज्जगुणा’ सूक्ष्म निगोदाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः सूक्ष्मपृथिवीकायिकादीनामल्पवहुत्वम्, गौतमः पृच्छति—‘एएसि णं भंते ! सुहुमाणं’ हे भदन्त ! एतेषां खलु सूक्ष्माणाम्, ‘सुहुम पुढवीकाइयाणं’ सूक्ष्म पृथिवीकायिकानाम् ‘सुहुम आउकाइयाणं’ सूक्ष्माण्कायिकानाम् ‘सुहुम तेउकाइयाणं’ सूक्ष्मतेज्जकायिकानाम् ‘सुहुम वाउकाइयाणं’ सूक्ष्म वायुकायिकानाम् ‘सुहुम वणस्सइकाइयाणं’ सूक्ष्मवनस्पतिकायिकानाम्, ‘सुहुम निगोयाणं’ सूक्ष्मनिगोदानाञ्च

और वादर निगोद के पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवों में से कौन किसकी अपेक्षा अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सबसे कम वादर निगोद के पर्याप्तक हैं, उनकी अपेक्षा वादर निगोद के अपर्याप्तक असंख्यात गुणा हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं और उनकी अपेक्षा सूक्ष्म निगोद के पर्याप्तक संख्यात गुणा हैं । इसका कारण पहले कहा जा चुका है ।

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् हैं ! इन सूक्ष्म जीवों के, सूक्ष्म पृथ्वीकायिकों के, सूक्ष्म अण्कायिकों के, सूक्ष्म तेजस्कायिकों के, सूक्ष्म वायुकायिकों के, सूक्ष्म वनस्पतिकायिकों के, सूक्ष्म निगोदों

निगोदना पर्याप्तक अने अपर्याप्तक लोभाभाधी कोषु कोनी अपेक्षाये अल्प, धन्या, तुल्य या विशेषाधिके छे ?

श्रीभगवान् उत्तर आपे छे—गौतम ! अधाधी जोछा वादर निगोदना पर्याप्तक छे, तेमनी अपेक्षाये वादर निगोदना अपर्याप्तक असंख्यातगुणा छे, तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म निगोदना अपर्याप्तक असंख्यातगुणा छे अने तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म निगोदना पर्याप्तक संख्यातगुणा छे, तेनु कारण आगण कहेवाधं गयेलु छे

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे—भगवन् ! आ सूक्ष्मलोभाना सूक्ष्म पृथ्वीकायिकाना, सूक्ष्म अण्कायिकाना, सूक्ष्म तेज्जकायिकाना, सूक्ष्म वायुकायिकाना, सूक्ष्म वनस्पतिकायिकाना, सूक्ष्म निगोदना, वादर लोभाना, वादर पृथ्वीकायिकाना

‘वायराणं’ वादराणाञ्च ‘वायरपृथ्वीकाइयाणं’ वादरपृथिवीकायिकानाम् ‘वायर
 आउकाइयाणं’ वादराण्कायिकानाम्, ‘वायर तेउकाइयाणं’ वादरतेजःकायिका-
 नाम्, ‘वायर वाउकाइयाणं’ वादर वायुकायिकानाम् ‘वायर वणस्सइकाइयाणं’
 वादर वनस्पतिकायिकानाम् ‘पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइयाणं’ प्रत्येक शरीर-
 वादर वनस्पतिकायिकानाम्, ‘वायर निगोयथाणं’ वादर निगोदानाम् ‘वायर
 तसकाइयाण य’ वादर त्रसकायिकानाम् स्थूल द्वीन्द्रियादीनाञ्च ‘पज्जत्तापज्ज-
 त्ताणं’ पर्याप्तापर्याप्तकानाम् ‘कयरे कयरेहिंतो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा,
 बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा,
 विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘संख-
 ल्थोवा वायर तेउकाइया पज्जत्तया’ सर्वस्तोका सर्वेभ्योऽल्पाः, वादरतेजःका-
 यिकाः पर्याप्तकाः भवन्ति, तदपेक्षया ‘वायर तसकाइया पज्जत्तया असंखेज्ज-
 गुणा’ वादरत्रसकायिकाः—स्थूल द्वीन्द्रियादयः, पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः
 भवन्ति; तेभ्योऽपि ‘वायर तसकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा’ वादर त्रस-
 कायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘पत्तेय सरीर वायर-
 वणस्सइकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा’ प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकाः

के, वादर जीवों के, वादरपृथ्वीकायिकों के, वादर अप्कायिकों के, वादर
 तेजस्कायिकों के, वादर वायुकायिकों के, वादर वनस्पतिकायिकों के,
 प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिकों के, वादर निगोदों के तथा वादर
 त्रसकायिकों के पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों में से कौन किसकी
 अपेक्षा अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सब से कम वादरतेजस्का-
 यिक पर्याप्त हैं, उनकी अपेक्षा वादरत्रसकायिक पर्याप्त असंख्यात
 गुणा अधिक हैं, उनकी अपेक्षा वादर त्रसकायिक अपर्याप्त असं-
 ख्यातगुणा अधिक हैं उनकी अपेक्षा प्रत्येक शरीर वादर वनस्पति-

आदर अप्कायिकोना, आदर तेज्कायिकोना, आदर वायुकायिकोना, आदर वन
 स्पतिकायिकोना, प्रत्येक शरीर आदर वनस्पतिकायिकोना, आदर निगोदोना,
 तथा आदर त्रसकायिकोना पर्याप्तको तथा अपर्याप्तकोना कोषु कोनी अपेक्षाये
 अल्प, धृष्टा, तुल्य अगर तो विशेषाधिक छे ?

श्रीभगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! जथाथी ज्योथा आदर तेज्स्का-
 यिक पर्याप्त छे, तेमनी अपेक्षाये आदर त्रसकायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक
 छे, तेमनी अपेक्षाये आदर त्रसकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक छे, तेमनी
 अपेक्षाये प्रत्येक शरीर आदर वनस्पतिकायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक

पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायर निगोया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादरनिगोदाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायर पुढवीकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादर पृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः भवन्ति, तेभ्यो 'वायर आउकाइया' वादराप्कायिका' पज्जत्तया' पर्याप्तकाः 'असंखेज्जगुणा' असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायर वाउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादरवायुकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायर तेउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा?' वादर तेजःकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः भवन्ति, तेभ्योऽपि 'पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइया अपज्जत्तया' प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकाः, अपर्याप्तकाः 'असंखेज्जगुणा' असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायर निगोया' वादर निगोदाः 'अपज्जत्तया' अपर्याप्तकाः, 'असंखेज्जगुणा' असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायर पुढवीकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादर पृथिवीकायिका अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायर आउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' वादराप्कायिकाः अपर्याप्तकाः

कायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक हैं, उनकी अपेक्षा वादर निगोद पर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक हैं। उनकी अपेक्षा वादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक हैं, उनकी अपेक्षा वादर अप्रकायिक पर्याप्तक असंख्यातगुणा अधिक हैं, उनकी अपेक्षा वादर वायुकायिक पर्याप्त असंख्यात गुणा अधिक हैं, उनकी अपेक्षा वादर तेजस्कायिक अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं, उनकी अपेक्षा प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं, उनकी अपेक्षा वादर निगोद अपर्याप्तक असंख्यात गुणा हैं, उनकी अपेक्षा वादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक हैं, उनकी

छे, तेमनी अपेक्षाये भादर निगोद पर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक छे, तेमनी अपेक्षाये भादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक छे, तेमनी अपेक्षाये भादर वायुकायिक पर्याप्तक असंख्यातगुणा अधिक छे, तेमनी अपेक्षाये भादर वायुकायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक छे, तेमनी अपेक्षाये तेजस्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे, तेमनी अपेक्षाये प्रत्येक शरीर भादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे, तेमनी अपेक्षाये भादर निगोद पर्याप्तक असंख्यातगुणा छे, तेमनी अपेक्षाये भादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक छे, तेमनी अपेक्षाये भादर वायुकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक छे, तेमनी अपेक्षाये भादर वायुकायिक अपर्याप्त

असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायर वाउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्ज-
गुणा' वादर वायुकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तदपेक्षया
'सुहुम तेउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा' सूक्ष्म तेजःकायिकाः अपर्याप्तकाः
असंख्येयगुणा भवन्ति, तदपेक्षया 'सुहुम पुढवीकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया'
सूक्ष्म पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, तदपेक्षया 'सुहुम
आउकाइका अपज्जत्तया विसेसाहिया' सूक्ष्माप्कायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषा-
भवन्ति, तदपेक्षया 'सुहुमवाउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया ?' सूक्ष्म वायु-
कायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः—किञ्चिदधिकाः भवन्ति, तेभ्यः 'सुहुम
तेउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा' सूक्ष्म तेजःकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्ये-
यगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'सुहुम पुढवीकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया' सूक्ष्म
पृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति—प्रागुक्तयुक्तेः तेभ्यः 'सुहुम
आउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया' सूक्ष्माप्कायिकाः पर्याप्तका विशेषाधिकाः
भवन्ति, तेभ्यः 'सुहुमवाउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया' सूक्ष्मवायुकायिकाः
पर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योपि 'सुहुमनिगोया अपज्ज-
त्तया असंखेज्जगुणा' सूक्ष्मनिगोदाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि

अपेक्षा वादर अप्काय के अपर्याप्त असंख्यात गुणा अधिक हैं, उन
की अपेक्षा वादर वायुकाय के अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं, उनकी
अपेक्षा सूक्ष्म तेजस्काय के अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं, उनकी अपेक्षा
सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म
अप्काय के अपर्याप्त विशेषाधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म वायुका-
यिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म तेजस्कायिक
पर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक हैं. उनकी अपेक्षा सूक्ष्म पृथ्वीकायिक
पर्याप्त विशेषाधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त विशे-
षाधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं,

असंख्यातगुणा छे, तेमनी अपेक्षाअये सूक्ष्म तेजस्कायना अपर्याप्त असंख्यात-
गुणा छे, तेमनी अपेक्षाअये सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे,
तेमनी अपेक्षाअये सूक्ष्म न्णकायना अपर्याप्त विशेषाधिक छे, तेमनी अपेक्षाअये
सूक्ष्म वायुकायना अपर्याप्त विशेषाधिक छे, तेमनी अपेक्षाअये सूक्ष्म तेजस्कायिक
पर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक छे, तेमनी अपेक्षाअये सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्त
विशेषाधिक छे, तेमनी अपेक्षाअये सूक्ष्म न्णकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे,
तेमनी अपेक्षाअये सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे, तेमनी अपेक्षाअये
सूक्ष्म निगोदाना अपर्याप्तक असंख्यातगुणा अधिक छे, तेमनी अपेक्षाअये

‘सुहुमनिगोया पञ्जत्तया संखेज्जगुणा’ सूक्ष्मनिगोदाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि—‘वायरवणस्सइकाइया पञ्जत्तया अणंतगुणा’ वाद्दर वनस्पति कायिकाः पर्याप्तकाः अनन्तगुणा भवन्ति तेभ्योऽपि ‘वायर पञ्जत्तया विसेसाहिया’ वाद्दरपर्याप्तकाः समुच्चय पर्याप्तवादराः विशेषाधिका भवन्ति, पर्याप्तक वाद्दर तेजःकायिकादीनामपि तत्र समुच्चयात्, तेभ्योऽपि,—‘वायर वणस्सइकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा’ वाद्दर वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, एकैकवाद्दरपर्याप्तनिगोदनिश्रया असंख्येयानां वाद्दरापर्याप्तकनिगोदानां समुत्पादात्, तेभ्योऽपि ‘वायर अपञ्जत्तया विसेसाहिया’ समुच्चय वाद्दरा अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः भवन्ति, अपर्याप्तकानां वाद्दर तेजः कायिकादीनामपि तत्र समावेशात्, तेभ्योऽपि ‘वायरा विसेसाहिया’ वाद्दराः सामान्यजीवाः, विशेषाधिका भवन्ति, पर्याप्तकानामपि तेषु समावेशात्, तेभ्योऽपि ‘सुहुमवणस्सइकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा’ सूक्ष्म वनस्पतिकायिकाः

उनकी अपेक्षा सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्तक असंख्यातगुणा अधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म निगोद के पर्याप्त संख्यातगुणा अधिक हैं, उनकी अपेक्षा वाद्दर वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनन्तगुणा अधिक हैं और उनकी अपेक्षा वाद्दर पर्याप्त विशेषाधिक हैं, क्योंकि उनमें वाद्दर तेजस्कायिक आदि का भी समावेश हो जाता है। उनकी अपेक्षा वाद्दर वनस्पतिकायिक पर्याप्त असंख्यात गुणा अधिक हैं, क्योंकि एक-एक वाद्दर पर्याप्तक निगोद के आश्रय से असंख्य २ वाद्दर अपर्याप्तक निगोदों की उत्पत्ति होती है उनकी अपेक्षा वाद्दर अपर्याप्त समुच्चय जीव विशेषाधिक हैं, क्योंकि उनमें अपर्याप्त वाद्दर तेजस्कायिक आदि का भी समावेश होता है। उनकी अपेक्षा भी सामान्य वाद्दर जीव विशेषाधिक हैं, क्योंकि उनमें पर्याप्तकों का भी समावेश

सूक्ष्म निगोदना पर्याप्तक सख्यातगुणा अधिक छे, तेमनी अपेक्षाछे वाद्दर वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनन्तगुणा अधिक छे अने तेमनी अपेक्षाछे वाद्दर पर्याप्त विशेषाधिक छे, केमके तेओमा वाद्दर तेजस्कायिक आदिना पणु समावेश थय नय छे, तेमनी अपेक्षाछे वाद्दर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असख्यातगुणा अधिक छे, केमके ओक ओक वाद्दर पर्याप्तक निगोदना आश्रयथी असभ्य असभ्य वाद्दर अपर्याप्तक निगोदानी उत्पत्ति थय छे, तेमनी अपेक्षाछे वाद्दर अपर्याप्त समुच्चय एव विशेषाधिक छे, केमके तेमनामा अपर्याप्तक वाद्दर तेजस्कायिक आदिना पणु समावेश थय नय छे. तेमना करता पणु सामान्य वाद्दर एव विशेषाधिक छे, केमके तेओमां पर्याप्तकेना पणु समावेश

असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायुः ताडकाऽया अपञ्जत्तया असंखेज्ज-
गुणा' वादर वायुकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तदपेक्षया
'सूक्ष्म तेजःकाऽया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा' सूक्ष्म तेजःकायिकाः अपर्याप्तकाः
असंख्येयगुणा भवन्ति, तदपेक्षया 'सूक्ष्म पृथ्वीकाऽया अपञ्जत्तया त्रिसेसाहिया'
सूक्ष्म पृथ्वीकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिकारिका भवन्ति, तदपेक्षया 'सूक्ष्म
आउकाऽया अपञ्जत्तया त्रिसेसाहिया' सूक्ष्म आउकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषा-
भवन्ति, तदपेक्षया 'सूक्ष्मवाउकाऽया अपञ्जत्तया त्रिसेसाहिया ?' सूक्ष्म वायु-
कायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिकारिकाः-विशेषाधिकारिकाः भवन्ति, तेभ्यः 'सूक्ष्म
तेजःकाऽया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा' सूक्ष्म तेजःकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्ये-
यगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'सूक्ष्म पृथ्वीकाऽया पञ्जत्तया त्रिसेसाहिया' सूक्ष्म
पृथ्वीकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकारिका भवन्ति-प्रागुक्तयुक्तेः तेभ्यः 'सूक्ष्म
आउकाऽया पञ्जत्तया त्रिसेसाहिया' सूक्ष्म आउकायिकाः पर्याप्तका विशेषाधिकारिकाः
भवन्ति, तेभ्यः 'सूक्ष्मवाउकाऽया पञ्जत्तया त्रिसेसाहिया' सूक्ष्मवायुकायिकाः
पर्याप्तकाः विशेषाधिकारिका भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योपि 'सूक्ष्मनिगोया अपञ्ज-
ा असंखेज्जगुणा' सूक्ष्मनिगोदाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि

अपेक्षा वादर अप्काय के अपर्याप्त असंख्यात गुणा अधिक हैं, उन
की अपेक्षा वादर वायुकाय के अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं, उनकी अपेक्षा
सूक्ष्म तेजस्काय के अपर्याप्त असंख्यात गुणा हैं, उनकी अपेक्षा
सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्त विशेषाधिकारिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म
वायुकाय के अपर्याप्त विशेषाधिकारिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म वायुका-
यिक अपर्याप्त विशेषाधिकारिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म तेजस्कायिक
अपर्याप्त असंख्यात गुणा अधिक हैं. उनकी अपेक्षा सूक्ष्म पृथ्वीकायिक
अपर्याप्त विशेषाधिकारिक हैं, की अपेक्षा सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त विशेष-
ाधिकारिक, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त विशेषाधिकारिक हैं,

असंख्यातगुणा है, तेमनी अपेक्षाओं सूक्ष्म तेजस्कायना अपर्याप्त असंख्यात-
गुणा है, तेमनी अपेक्षाओं सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्त विशेषाधिकारिक है,
तेमनी अपेक्षाओं सूक्ष्म वायुकायना अपर्याप्त विशेषाधिकारिक है, तेमनी अपेक्षाओं
सूक्ष्म वायुकायना अपर्याप्त विशेषाधिकारिक है, तेमनी अपेक्षाओं सूक्ष्म तेजस्कायिक
अपर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक है, तेमनी अपेक्षाओं सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्त
विशेषाधिकारिक है, तेमनी अपेक्षाओं सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त विशेषाधिकारिक है,
तेमनी अपेक्षाओं सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त विशेषाधिकारिक है, तेमनी अपेक्षाओं
सूक्ष्म निगोदाना अपर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक है, तेमनी अपेक्षाओं

‘सुहुमनिगोया पञ्जत्तया संखेज्जगुणा’ सूक्ष्मनिगोदाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि—‘वायरवणस्सइकाइया पञ्जत्तया अणंतगुणा’ वादर वनस्पति कायिकाः पर्याप्तकाः अनन्तगुणा भवन्ति तेभ्योऽपि ‘वायर पञ्जत्तया विसेसाहिया’ वादरपर्याप्तकाः समुच्चय पर्याप्तवादराः विशेषाधिका भवन्ति, पर्याप्तक वादर तेजःकायिकादीनामपि तत्र समुच्चयात्, तेभ्योऽपि,—‘वायर वणस्सइकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा’ वादर वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, एकैकवादरपर्याप्तनिगोदनिश्रया असंख्येयानां वादरापर्याप्तनिगोदानां समुत्पादात्, तेभ्योऽपि ‘वायर अपञ्जत्तया विसेसाहिया’ समुच्चय वादरा अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः भवन्ति, अपर्याप्तकानां वादर तेजः कायिकादीनामपि तत्र समावेशात्, तेभ्योऽपि ‘वायरा विसेसाहिया’ वादराः सामान्यजीवाः, विशेषाधिका भवन्ति, पर्याप्तकानामपि तेषु समावेशात्, तेभ्योऽपि ‘सुहुमवणस्सइकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा’ सूक्ष्म वनस्पतिकायिकाः

उनकी अपेक्षा सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्तक असंख्यातगुणा अधिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म निगोद के पर्याप्त संख्यातगुणा अधिक हैं, उनकी अपेक्षा वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनन्तगुणा अधिक हैं और उनकी अपेक्षा वादर पर्याप्त विशेषाधिक हैं, क्योंकि उनमें वादर तेजस्कायिक आदि का भी समावेश हो जाता है। उनकी अपेक्षा वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त असंख्यात गुणा अधिक हैं, क्योंकि एक-एक वादर पर्याप्तक निगोद के आश्रय से असंख्य २ वादर अपर्याप्तक निगोदों की उत्पत्ति होती है उनकी अपेक्षा वादर अपर्याप्त समुच्चय जीव विशेषाधिक हैं, क्योंकि उनमें अपर्याप्त वादर तेजस्कायिक आदि का भी समावेश होता है। उनकी अपेक्षा भी सामान्य वादर जीव विशेषाधिक हैं, क्योंकि उनमें पर्याप्तकों का भी समावेश

सूक्ष्म निगोदना पर्याप्तक संख्यातगुणा अधिक छे, तेमनी अपेक्षाअे भादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनन्तगुणा अधिक छे अने तेमनी अपेक्षाअे भादर पर्याप्त विशेषाधिक छे, केमके तेओभा भादर तेजस्कायिक आदिने पणु समावेश थथ नय छे, तेमनी अपेक्षाअे भादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यात-गुणा अधिक छे, केमके ओक ओक भादर पर्याप्तक निगोदना आश्रयथी असंख्य असंख्य भादर अपर्याप्तक-निगोदोनी उत्पत्ति थाय छे, तेमनी अपेक्षाअे भादर अपर्याप्त समुच्चय एव विशेषाधिक छे, केमके तेमनाभां अपर्याप्तक भादर तेजस्कायिक आदिने पणु समावेश थथ नय छे, तेमना करता पणु सामान्य भादर एव विशेषाधिक छे, केमके तेओभां पर्याप्तकोने पणु समावेश

असंख्येयगुणाः, अयोगिनः अनन्तगुणा, काययोगिनोऽनन्तगुणाः, सयोगिनो विशेषाधिका ॥ सू० १० ॥

टीका-अथ योगद्वारमधिकृत्य जीवानामल्प बहुत्वादिकं प्ररूपयितुमाह-
'एएसि णं भंते ! जीवाणं' गौतमः पृच्छति-हे भद्रन्त ! एतेषां खलु जीवानाम्
'सजोगीणं, मणजोगीणं, वइजोगीणं, कायजोगीणं, अजोगीण य' सयोगिना,
मनोयोगीनां, वचोयोगीना, काययोगिनाम्, अयोगिनाश्च मध्ये 'क्यरे क्यरे-
हितो' कतरे कतरेभ्यः, 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्या वा, विसेसाहिया वा ?'
अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति
-'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्वत्थोना जीवा मणजोगी' सर्वस्तोकाः सर्वेभ्यो
ऽल्पाः, जीवाः मनोयोगिनो भवन्ति, पर्याप्तज्ञानामेव संज्ञिनां मनोयोगितया
तेषां सर्वेभ्योऽल्पत्वात्, तदपेक्षया 'वयजोगी असंखेज्जगुणा' वचोयोगिनः अर्ध-
अधोगी अनन्तगुणा हैं (कायजोगी अणंतगुणा) काययोगी अनन्त-
गुणा हैं (सजोगी विसेसाहिया) सयोगी विशेषाधिक हैं ॥९॥

टीकार्थ-अव योगद्वार की अपेक्षा से जीवों के अल्पबहुत्व की प्ररूपणा की जाती है-

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं-हे भगवन् ! इन सयोगी, मनो-
योगी, वचनयोगी, काययोगी और अधोगी जीवों में कौन किस से
अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं-हे गौतम ! मनोयोग वाले जीव सब
से कम हैं, क्योंकि संज्ञी पर्याप्त जीव ही योग वाले होते हैं
और वे सबसे अल्प हैं । मनोयोग वालों की अपेक्षा वचनयोग वाले
जीव असंख्यगुणा अधिक हैं, क्योंकि संज्ञी जीवों की अपेक्षा द्वीन्द्रिय

गण्णा छे (अजोगी अणतगुणा) अथोगी अनन्त गण्णा छे (सजोगी विसेसाहिया)
सयोगी विशेषाधिक छे ॥ ९ ॥

टीकार्थ- हुवे योगद्वारनी अपेक्षाये लोवोना अल्प बहुत्वनी प्ररूपणा
कराय छे

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे-भगवन् ! आ सयोगी, मनोयोगी,
वचनयोगी, काययोगी, अने अथोगी लोवोमा कोण्ण कोनाथी अल्प, धण्णा, तुल्य
अजर विशेषाधिक छे ?

श्री भगवन् उत्तर दे छे-हे गौतम ! मनोयोगवाणा लव अधाथी ओछा
छे, केमके स जी पर्याप्त लवल मनोयोगवाणा थाय छे अने तेओ अधाथी
थोडा छे मनोयोगवाणानी अपेक्षाये वचनयोगवाणा लव अस भ्यातगण्णा अधिक
छे, केमके स जी लोवोनी अपेक्षाये द्वीन्द्रिय आदि लव । अस भ्यातगण्णा

रुयेयगुणा भवन्ति, संज्ञिभ्यो वचोयोगिना द्वीन्द्रियादीनामसंख्येयगुणत्वात् तदपेक्षया 'अजोगी अणंतगुणा' अयोगिनोऽनन्तगुणा भवन्ति, अयोगिनां सिद्धानामनन्तत्वात्, तेभ्योऽपि 'कायजोगी अणंतगुणा' काययोगिनोऽनन्तगुणा भवन्ति, वनस्पतीनामनन्तत्वात्, तेभ्योऽपि 'सजोगी विसेसाहिया' सयोगिनः सामान्याः विशेषाधिका भवन्ति, तत्र द्वीन्द्रियादीनामपि वाग्योगादीना समावेशात् इति 'दारं' पञ्चमम् योगद्वारं समाप्तम् ॥ १० ॥

वेदद्वारवक्तव्यता

मूलम्—एएसि णं भंते ! जीवानां सवेयगाणं, इत्थीवेयगाणं, पुरिसवेयगाणं, नपुंसगवेयगाणं, अवेयगाण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा पुरिसवेयगा, इत्थीवेयगा, संखेज्जगुणा, अवेयगा अणंतगुणा, नपुंसगवेयगा अणंतगुणा, सवेयगा विसेसाहिया ॥दारं॥सू० ११॥

आदि जीव असंख्यातगुणा हैं। वचनयोग वालों की अपेक्षा अयोगी अर्थात् सिद्ध जीव अनन्तगुणा हैं। अयोगियों की अपेक्षा काययोगी जीव अनन्तगुणा अधिक हैं, क्योंकि वनस्पतिकाय के जीव अनन्तगुणा हैं और वे सब काययोगी हैं। काययोगियों की अपेक्षा सामान्य सयोगी जीव विशेषाधिक हैं, क्यों कि इन में वचनयोगी आदि भी सम्मिलित है ॥१०॥

पांचवां योगद्वार समाप्त

वेदद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (जीवाणं) जीवों

छे. वचनयोगवाणाम्भोनी अपेक्षाये अयोगी अर्थात् सिद्ध एव अनन्तगुणा छे अयोगियोनी अपेक्षाये काययोगी एव अनन्तगुणा अधिक छे, केभके वनस्पतिकायना एव अनन्तगुणा छे अने ते गधा काययोगी छे काययोगी ओनी अपेक्षाये सामान्य सयोगी एव विशेषाधिक छे, केभके तेमनामा वचन योगी आदि पणु सम्मिलित छे ॥ १० ॥

॥ पाचमु योगद्वार समाप्त ॥

वेद द्वारनी वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसिणं भंते !) भगवन् ! आ (जीवाण) एवे (सवेयगाणं) वेद-

છાયા-પતંગા સ્વત્વ મદન્ત ! ગીતાના સોટકાનામ્, સ્ત્રીવેદકાનામ્, પુરુષ-વેદકાનામ્, નપુ સગવેદકાનામ્, અવેદકાનામ્ કતરે કતરે-યોડલ્પા વા, વહુકા વા, તુલ્યા વા, વિશેષાધિકા વા ? ગૌતમ ! સર્વસ્તોકાઃ જીવાઃ પુરુષવેદકાઃ સ્ત્રીવેદકાઃ સંન્યેયગુણા અવેદકાઃ અનન્તગુણાઃ, નપુંસક વેદકાઃ અનન્તગુણાઃ, સવેદકા વિશેષાધિકાઃ, ડારમ્ ૫ ॥ ૨૦ ૧૧ ॥

ટીકા-અથ વેદદ્વારમધિહ્યાલ્પવદ્વદાદિકં પ્રરુપયિતુમાહ-‘અસિ ણં મંતે જીવાણં’ હે મદન્ત ! એતેષાં સત્ત્વ જીવાનામ્ ‘સવેયગાણં’ સવેદકાનામ્ સમુચ્ચ-વેદકાનામ્ ‘સ્ત્રીવેયગાણં’ સ્ત્રીવેદકાનામ્, ‘પુરિસવેયગાણં’ પુરુષવેદકાનામ્ ‘નપુંસગવેયગાણં’ નપુંસગવેદકાનામ્, ‘અવેયગાણ ય’ અવેદકાનામ્ સિદ્ધાનામ્ (સવેયગાણં) વેદ સહિતોં (સ્ત્રીવેયગાણં) સ્ત્રીવેદકોં (પુરિસવેયગાણં) પુરુષ વેદકોં (નપુંસગવેયગાણં) નપુંસક વેદકોં (અવેયગાણ ય) ઓર અવેદકોં મેં (કચરે કચરેહિંતો) કોન કિમસે (અપ્પા વા વહુયા તુલ્યા વા વિસેસાહિયા વા ?) અલ્પ, વહુત, તુલ્ય યા વિશેષાધિક હેં ? (ગોયમા) હે ગૌતમ ! (સવ્વત્યોવા જીવા પુરિસવેયગા) સવસે કમ જીવ પુરુષવેદી હેં (સ્ત્રીવેયગા સંલેજ્જગુણા) સ્ત્રીવેદી સંલ્યાનગુણા અધિક હેં (અવેયગા અણંતગુણા) અવેદી અનન્તગુણા હેં (નપુંસગવેયગા અણંત-ગુણા) નપુંસકવેદી અનન્તગુણા હેં (સવેયગા વિસેસાહિયા) સવેદ જીવ વિશેષાધિક હેં ।

અથ વેદદ્વાર કી અપેક્ષા અલ્પવહુત્વ પ્રદર્શિત ક્રિયા જાતા હૈ-

ટીકાર્થ શ્રી ગૌતમસ્વામી પ્રશ્ન કરતે હે-હે મગવન ! ઇન સવેદ અર્થાત્ વેદ સે યુક્ત જીવો મે, સ્ત્રીવેદ વાલોં મે, પુરુષવેદ વાલોં મે,

સહિત (સ્ત્રીવેયગાણ) સ્ત્રી વેદકો (પુરિસ વેયગાણ) પુરુષવેદકો (નપુસગવેયગાણ) નપુ સક વેદકો (અવેયગાણ ય) અને અવેદકોમા (કચરે કચરેહિંતો) કોણુ કોનાથી (અપ્પાવા વહુયા વા તુલ્યા વા વિસેસાહિયા વા ?) અલ્પ, વહુત, તુલ્ય અગર વિશેષાધિક છે ?

(ગોયમા) ઠે ગૌતમ ! (સવ્વત્યોવા જીવા પુરિસવેયગા) મધાથી ઓછા પુરુષ વેદી છે (સ્ત્રીવેયગા સંલેજ્જગુણા) સ્ત્રી વેદી સંખ્યાતગણુ અધિક છે (અવેયગા અણંતગુણા) અવેદી અનન્તગણુ છે (નપુસગવેયગા અણંતગુણા) નપુ સકવેદી અનન્ત ગણુ છે (સવેયગા વિસેસાહિયા) સવેદક ૭૫ વિશેષાધિક છે

હવે વેદદ્વારની અપેક્ષાએ અલ્પ બહુત્વ પ્રદર્શિત કરાય છે

ટીકાર્થ-શ્રી ગૌતમસ્વામી પ્રશ્ન કરે છે-ભગવન ! આ સવેદ અર્થાત્ વેદથી યુક્ત ઓવામા, સ્ત્રી વેદવાળામા, પુરુષવેદવાળામા, નપુંસક વેદવાળામા તથા અવેદ-

मध्ये 'कयरे कयरेदितो' कतरे कतरेभ्यः 'अपा ना वट्टा ना, तुग्या वा, विसेसादिया वा ?' अल्पा वा, वट्टका वा, तुग्या वा, विशेषाधिकाना वा भान्ति ? भगवान् उत्तरयति-गोयमा ! हे गौतम ! 'सन्ध्वाना जोता पुरिगत्रेया' सर्प-स्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः, जीताः पुण्योदका भान्ति, तिर्यग्योनिमनुष्याणा देवानाञ्च संज्ञिनायेव पुरुषवेदरात्, तेभ्यः 'इत्थीयेया संवेज्जःणा' स्त्रीवेदकाः, संख्येयगुणा भान्ति, तथा चोक्तं जीवाभिगमे-"तिरिस्स जोणिय पुरिमदितो तिरिक्खजोणिय इत्थीओ तिगुणीओ तिरुवादियाओ य, तदा मणुग्ग पुरिमदितो मणुस्स इत्थीओ सत्तावीसगुणाओ सत्तावीसखुत्तराओ य, पयमे, टोपुग्गिमे-दितो देवित्थीओ वत्तीसगुणाओ वत्तीसखुत्तराओ" निर्यग्योनिमनुष्योभ्यस्ति-र्यग्योनिक स्त्रियः त्रिगुणाः, त्रिरूपाविकाश्च तथा मनुष्य पुरुषेभ्यो मनुष्य स्त्रियः सप्तविंशतिगुणाः सप्तविंशति रूपोत्तराश्च, तथा टोपुरुषेभ्यो देवस्त्रियो द्वाविंशत्-नपुंसकवेद वालो मे तथा अवेदको अर्थात् वेद रहित सिद्ध आदि जीवो मे कौन किसरो अल्प, वट्टत, तुल्य या विशेषाधिक है ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं-हे गौतम ! सबसे कम जीव पुरुषवेद वाले हैं, क्योंकि संज्ञी तिर्यचो मनुष्यों और देवों में ही पुरुषवेद पाया जाता है । पुरुषवेदियों की अपेक्षा स्त्रीवेदी जीव संख्यातगुणा अधिक हैं । जीवाभिगम सूत्र में कहा है-तिर्यच पुरुषो से तिर्यच स्त्रियां तिगुनी हैं, और त्रिरूपाधिक अर्थात् तिगुनी और तीन होते हैं, मनुष्य पुरुषों की अपेक्षा मनुष्य स्त्रियां सत्ताईस गुणी हैं और सत्ताईस-रूपोत्तर अर्थात् सत्ताईस होती हैं तथा देव पुरुषों की अपेक्षा देव स्त्रियां द्वाविंशति गुणा (वत्तीसगुणी) और द्वाविंशति रूपोत्तर अर्थात् वत्तीस गुनी और वत्तीस होती हैं । स्त्रीवेदियों की अपेक्षा अवेदक

कोमा, अर्थात् वेदरहित सिद्ध आदि ज्योमा कोषुकेनाथी अल्प, धष्ठा तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे-हे गौतम गंधाथी ज्योमा एव पुत्र वेद वाणा छे, केमके स जी तिर्यचो अने मनुष्यो अने देवोमाण पुत्रवेदवाणा भणी आवे छे पुत्रवेदियेनी अपेक्षाये स्त्रीवेदी एव स पयातगणा अधिक छे. एवाभिगम सूत्रमां कहु छे-तिर्यच पुत्रोथी तिर्यच स्त्रियो त्रयु गण्णी डोय छे, अने त्रिप्राधिक अर्थात् त्रयु गण्णी अने त्रयु डोय छे मनुष्य पुत्रोनी अपेक्षाये मनुष्य स्त्रियो सत्तावीस गण्णी अने सत्तावीस रूपोत्तर अर्थात् सत्तावीस थायछे तथा देव पुत्रोनी अपेक्षाये देव स्त्रियो अत्रीस गण्णी अने अत्रीस रूपोत्तर अर्थात् अत्रीस गण्णी अने अत्रीस थाय छे, स्त्री वेदियेनी

गुणाः द्वात्रिंशत् रूपोत्तराः ऽति, 'तेभ्योपि-' ननेयमा अणंतगुणा' अवेदकाः सिद्धाः अनन्तगुणा भवन्ति अवेदकानाम्-स्त्रीपुरुषादिवेदरहिताना सिद्धानामनन्तत्वात्, तेभ्योऽपि 'नपुंसगवेयगा अणंतगुणा' नपुंसकवेदकाः अनन्तगुणा भवन्ति, सिद्धेभ्योऽपि अवेदकेभ्यो वनस्पतिकायिकानामनन्तगुणत्वात्, 'सवेयगा' त्रिसेसाहिया' सवेदकाः सामान्यतो वेदसहिताः विशेषाधिका भवन्ति, स्त्रीवेद पुरुषवेदकानामपि तेषु समावेशात् 'दार' पठम् दारम्-वेददारं समाप्तम् ॥ सू० ११ ॥

कपायदारवक्तव्यता—

मूलम्-एएसि णं भंते ! सकसाईणं, कोहकसाईणं, माणकसाईणं, मायाकसाईणं, लोहकसाईणं, अकसाईण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा, तुछा वा, त्रिसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा अकसाई, माणकसाई अणंतगुणाः, कोहकसाई त्रिसेसाहिया, मायाकसाई त्रिसेसाहिया, लोहकसाई त्रिसेसाहिया, सकसाई त्रिसेसाहिया, दारं ॥सू० १२॥

अर्थात् सिद्ध आदि जीव अनन्तगुणा हैं क्योंकि जो स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद से रहित हो गेसे सभी जीव, जो नौवें गुणस्थान के कुछ ऊपर भागसे आगे के तथा आगे के गुणस्थानों के जीव से ऊपर के हैं तथा सिद्ध हैं, वे सभी अवेदी कहलाते हैं और सिद्ध जीव अनन्त हैं। अवेदकों की अपेक्षा नपुंसकवेदी अनन्तगुणा है, क्योंकि सभी वनस्पतिकायिक जीव नपुंसकवेदी हैं और वे सिद्धों से भी अनन्तगुणित हैं। नपुंसकवेदियों की अपेक्षा सामान्य सवेदी जीव विशेषाधिक हैं, क्योंकि उनमें स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी भी सम्मिलित हैं ॥११॥

छद्दा वेददार समाप्त

अपेक्षाये अवेदक अर्थात् सिद्ध आदि एव अनन्त गण्ठा छे, केमके के स्त्रीवेद, पुत्रवेद अने नपुंसक वेदधी रहित होय जेवा जधा एव, के नवमा शुश्रुस्थानना कर्धक विपरना भाजधी आगणना तथा शुश्रुस्थानना एवधी विपरना छे तथा सिद्ध छे, तेज्जा जधा अवेदी कडेवाय छे. अने सिद्ध एव अनन्त छे अवेदकेनी अपेक्षाये नपुंसक वेदी अनन्त गण्ठा छे, केमके जधा वनस्पतिकायिक एव नपुंसक वेदी छे अने तेज्जा सिद्धीधी पण्य अनन्त शुश्रित छे नपुंसक वेदियेनी अपेक्षाये सामान्य सवेदी एव विशेषाधिक छे केमके तेज्जाभा स्त्रीवेदी अने पुत्रवेदी पण्य सम्मिलित छे ॥ ११ ॥

छद्दु वेददार समाप्त

छाया-एतेषां खलु मद्भन्त ! सहायिणाम्, क्रोरुपायिणाम् मानक्यायिणाम्, मायाक्यायिणाम्, लोभक्यायिणाम्, अरुपायिणाञ्च कतरे कतरेभ्यः अल्पा वा, बहुला वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्नोकाः जीवाः अरुपायिणः, मानक्यायिणोऽनन्तगुणाः, क्रोरुपायिणो विशेषाधिकाः, माया क्यायिणो विशेषाधिकाः, लोभक्यायिणो विशेषाधिकाः, सक्यायिणो विशेषाधिकाः । ॥१२॥

टीका—अथ क्पाय द्वारामविकृत्य जीवालपबहुत्वादिकं प्ररूपयितुमाह—

क्पायद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसि षं भंते !) हे भगवन् ! इन (सकसाईणं) क्पाय वालों (कोहकसाईणं) क्रोध क्पाय वालों (माणकसाईणं) मानक्पाय वालों (माया कसाईणं) माया क्पाय वालों (लोह कसाईणं) लोभ क्पाय वालों (अकसाईण य) और अक्पायों में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं । (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा अकसाई) सबसे कम जीव अक्पायी है (माणकसाई अणंतगुणा) मानक्पाय वाले अनन्तगुणा हैं (कोहकसाई विसेसाहिया) क्रोध क्पाय वाले विशेषाधिक हैं (मायाकसाई विसेसाहिया) माया क्पाय वाले विशेषाधिक हैं (लोहकसाई विसेसाहिया) लोभ क्पाय वाले विशेषाधिक हैं (सकसाई विसेसाहिया) सक्पाय जीव विशेषाधिक हैं ।

अब क्पायों की अपेक्षा से जीवों का अल्पबहुत्व कहते हैं—

क्पाय द्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसिण भंते !) भगवन् ! आ (सकसाईणं) क्पाये वाणा (कोह कसाईण) क्रोध क्पाय वाणा (माणकसाईण) मान क्पाय वाणा (मायाकसाईण) माया क्पाय वाणा (लोहकसाईण) लोभ क्पाय वाणा (अकसाईण य) अने अक्पायेभा (कयरे कयरेहिंतो) केषु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धष्ठा, तुष्थ अगर विशेषाधिक छे ?

(गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा अकसाई) अक्पायी अेषा अण अक्पायी छे (माणकसाई अणतगुणा) मान क्पायवाणा अनन्तगेषु छे (कोह कसाई विसेसाहिया) क्रोध क्पायवाणा विशेषाधिक छे (माया कसाई विसेसाहिया) माया क्पाय वाणा विशेषाधिक छे (लोहकसाई विसेसाहिया) लोभ क्पाय वाणा विशेषाधिक छे (सकसाई विसेसाहिया) सक्पायी अण विशेषाधिक छे.

इये क्पायेनी अपेक्षेअ अयेनु अल्पत्व बहुत्व कडे छे

‘एएसिणं भंते ! सरुसाईणं’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतेषा सुखु सरुपायिणा—रुपायोदयाताम् कपायः रुपायोदयः रुपायेण रुपायोदयेन सहिताः सरुपायाः कपायोदयवन्त इत्यर्थः, विपाकावस्था गताः स्तोदयमुपदर्शयन्तः कपायकर्मपरमाणवस्ते विधन्ते येषां ते सरुपायिणः रुपायोदयसहिता इत्याशयः, ‘कोदकसाईणं’ क्रोधकपायिणाम्—क्रोधकपायपरिणामवताम्, ‘माणकसाईणं’ मानकपायिणाम्—मानकपायपरिणामवताम् ‘मायाकसाईणं’ मायाकपायिणाम्—मायाकपायपरिणामवता ‘लोदकसाईणं’ लोभकपायिणाम्—लोभकपायपरिणामवताम् ‘अरुसाईणं य’ अरुपायिणाञ्च कपायपरिणामरहितानाम् मध्ये ‘कयरे कयरेद्वितो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्या वा, बहुया वा, तुल्या वा, विसेसाद्विया वा ?’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिके वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘रागन्थोता जीता अरुसाई’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, जीवाः अरुपायिणः—कपायपरिमाणरहिता भवन्ति, कतिपयानामर्हत्प्रभृतीनां मनुष्याणां सिद्धनाञ्च अरुपायित्वात् तेभ्यः ‘माणकसाई अणत-

टीकार्थ—श्री गौतमस्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन सकपायी अर्थात् जिनमें कपाय का उदय विद्यमान है ऐसे जीवों में तथा क्रोधकपायी अर्थात् क्रोधकपाय के परिणाम वाले, मानकपायी अर्थात् मानकपाय के परिणाम वाले, मायाकपायी अर्थात् मायाकपाय के परिणाम वाले, लोभकपायी अर्थात् लोभकपाय के परिणाम वाले तथा अकपायी अर्थात् कपाय रूप परिणाम से रहित जीवों में कौन किसकी अपेक्षा अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! अकपायी अर्थात् कपाय परिणाम से रहित जीव सबसे कम हैं क्योंकि कतिपयक्षीण कपाय आदि गुणस्थानों वाले तथा सिद्ध जीव कपाय से रहित होते हैं।

टीकार्थ—श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे थे—भगवन् ! आ सकपायी अर्थात् जेओमा कपायने उदय विद्यमान थे ओवा लुवेमा तथा क्रोध कपायी अर्थात् क्रोधकपायना परिष्णामवाणा, मानकपायी अर्थात् मानकपायना परिष्णामवाणा, माया कपायी अर्थात् मायाकपायना परिष्णामवाणा, लोभकपायी अर्थात् लोभकपायना परिष्णामवाणा तथा अकपायी अर्थात् कपाय रूप परिष्णामथी रहित लुवेमाथी केषु केनी अपेक्षाये अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिके थे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे थे—हे गौतम ! अकपायी अर्थात् कपाय परिष्णामथी रहित अथाथी ओछा थे, केमके केदलाक क्षीणकपाय आदि शुष्णस्थानो वाणा तथा सिद्ध लुवज कपायथी रहित डोय थे अकपायी लुवेनी अपेक्षाये

गुणा' मानकषायिणः मानकषायपरिणामवन्तः अनन्तगुणा भवन्ति, पदस्वपि जीवनिकायेषु मानकषायपरिमाणस्य समुपलभ्यमानत्वात्, तेभ्यः 'क्रोधकसाई विसेसाहिया' क्रोधकषायपरिणामवन्तः, विशेषाधिकाः, किञ्चिदधिका भवन्ति, मानकषायपरिणामकालापेक्षया क्रोधकषायपरिणामकालस्य विशेषाधिकत्वात्, तेभ्योऽपि—'मायाकसाई विसेसाहिया' मायाकषायिणः—मायाकषाय परिणामवन्तः विशेषाधिका भवन्ति, क्रोधकषाय परिणामकालापेक्षया मायाकषायपरिणामकालस्य विशेषाधिकत्वात्, तेभ्योऽपि 'लोहकसाई विसेसाहिया' लोभकषायिणः—लोभकषाय-परिणामवन्तः, विशेषाधिका भवन्ति, मायाकषायपरिणामकालापेक्षया लोभकषाय-परिणामकालस्य किञ्चिदधिकत्वात्, लोभकषायिभ्योऽपि 'सकसाई विसेसाहिया' सकषायिणः सकषायोदयाः विशेषाधिकाः—किञ्चिदधिका भवन्ति, मानादि कषाय-परिणामवतामपि तेषु समावेशात् 'दार' समाप्तम् कषायद्वार समाप्तम् ॥सू० १२॥

अकषायी जीवों की अपेक्षा मानकषायी अनन्तगुणा हैं, क्योंकि छहों जीवनिकायों में मानकषाय पाया जाता है। उनकी अपेक्षा क्रोध कषायी जीव विशेषाधिक हैं, क्योंकि मानकषाय रूप परिणाम की अपेक्षा क्रोधकषाय के परिणाम का काल कुछ अधिक है। क्रोधकषायी जीवों की अपेक्षा मायाकषायी जीव विशेषाधिक हैं, क्यों कि क्रोधकषाय रूप परिणाम के काल की अपेक्षा मायाकषाय रूप परिणाम का काल विशेषाधिक है। मायाकषायी जीवों की अपेक्षा लोभ कषायी विशेषाधिक हैं, क्योंकि मायाकषाय परिणाम के काल की अपेक्षा लोभकषाय परिणाम का काल कुछ अधिक है। लोभकषायी जीवों की अपेक्षा सकषाय अर्थात् सामान्य कषायोदय वाले जीव विशेषाधिक हैं, क्योंकि मानकषायी आदि सभी का इनमें समावेश है। सातमां कषायद्वार समाप्त ॥१२॥

मानकषायी अनन्तगुणा छे, केमके छये लुवनिकायेभा मानकषाय मणी आवे छे तेमनी अपेक्षाये क्रोध कषायी लुव विशेषाधिक छे, केमके मानकषाय ३प परिष्ठाभनी अपेक्षाये क्रोधकषायना परिष्ठाभनोकाण काठक अधिक छे. क्रोध कषायी लुवानी अपेक्षाये मायाकषायी लुव विशेषाधिक छे, केमके क्रोधकषाय ३प परिष्ठाभना काणनी अपेक्षाये मायाकषाय ३प परिष्ठाभनो काण विशेषाधिक छे मायाकषायी लुवानी अपेक्षाये लोल कषायी विशेषाधिक छे, केमके माया कषाय परिष्ठाभनी अपेक्षाये लोल कषाय परिष्ठाभनो काण काठक अधिक छे, लोलकषायी लुवानी अपेक्षाये सकषाय अर्थात् सामान्य कषायोदय वाणा लुव विशेषाधिक छे, केमके मायाकषायी आदि गधानो येभनाभा समावेश छे ॥१२॥

लेश्याद्वारवक्तव्यता—

मूलम्—एएसि णं भंते ! जीवाणं सलेस्साणं किण्हलेस्साणं, नीललेस्साणं, काउलेस्साणं, तेउलेस्साणं, पम्हलेस्साणं, सुक्कलेस्साणं, अलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा सुक्कलेस्सा, पम्हलेस्सा संखेज्जगुणा, तेउलेस्सा संखेज्जगुणा, अलेस्सा अणंतगुणा, काउलेस्सा अणंतगुणा, नीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया, सलेस्सा विसेसाहिया, दारं ॥सू० १३॥

छाया—एतेषां सल्ल भदन्त ! जीवानां सलेश्यानां, कृष्णलेश्यानां, नीललेश्यानां, कापोतलेश्यानाम्, तेजोलेश्यानां, पद्मलेश्यानाम्, शुक्ललेश्यानाम् अलेश्यानाञ्च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुला वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः जीवाः शुक्ललेश्याः, पद्मलेश्याः संख्येयगुणाः, तेजोलेश्याः संख्ये-

लेश्याद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (जीवाणं) जीवों (सलेस्साणं) लेश्या सहितों (किण्हलेस्साणं) कृष्ण लेश्या वालों (नीललेस्साणं) नीललेश्या वालों (काउलेस्साणं) कापोत लेश्या वालों (तेउलेस्साणं) तेजोलेश्या वालों (पम्हलेस्साणं) पद्म लेश्या वालों (सुक्कलेस्साणं) शुक्ल लेश्या वालों (अलेस्साण य) और लेश्या रहितों में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा सुक्कलेस्सा) सब से कम जीव शुक्ल-

लेश्याद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसिण भंते !) भगवन् ! आ (जीवाण) एवे (सलेस्साण) लेश्या सहितो (किण्हलेस्साण) कृष्ण लेश्यावाणा (नीललेस्साण) नील लेश्यावाणा (काउलेस्साण) कापोत लेश्यावाणा (तेउलेस्साण) तेजे लेश्यावाणा (पम्हलेस्साण) पद्मलेश्यावाणा (सुक्कलेस्साणं) शुक्ल लेश्यावाणा (अलेस्साण य) अने लेश्या रहितोभा (कयरे कयरेहिंतो) केण्ण केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धल्ला, तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

(गोयमा) हे गौतम (सव्वत्थोवा जीवा सुक्कलेस्सा) अधाथी ओएण एव

यगुणाः, अलेश्याः अनन्तगुणाः कापोतलेश्याः अनन्तगुणाः, नीललेश्याः विशेषाधिकाः, कृष्णलेश्याः विशेषाधिकाः सलेश्याः विशेषाधिकाः, द्वारम् ॥ १३ ॥

टीका—अथ लेश्याद्वारमधिकृत्य लेश्यावतामल्पवहुत्वादिकं प्ररूपयितुमाह—
‘एएसिणं भंते ! जीवाणं सलेस्साणं’ हे भदन्त ! एतेपां खलु जीवानां सलेश्यानां समुच्चयलेश्यावताम्, ‘किण्हलेस्साणं’ कृष्णलेश्याना ‘नीललेस्साणं’ नीललेश्यानाम् ‘काउलेस्साणं’ कापोतलेश्यानाम्, ‘तेउलेस्साणं’ तेजोलेश्यानाम् ‘पम्हलेस्साणं’ पद्मलेश्यानाम्, ‘सुक्कलेस्साणं’ ‘शुक्कललेश्यानाम्, ‘अलेस्साण य’ अलेश्यानाञ्च—लेश्या रहितानाम् मध्ये ‘कयरे कयरेहिंतो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा?’ अल्पा वा, बहुका वा,

लेश्या वाले हैं (पम्हलेस्सा संखेज्जगुणा) पद्मलेश्या वाले संख्यातगुणा हैं (तेउलेस्सा संखेज्जगुणा) तेजोलेश्या वाले संख्यातगुणा हैं (अलेस्सा अणंतगुणा) लेश्या रहित अनन्तगुणा हैं (काउलेस्सा अणंतगुणा) कपोत लेश्यावाले अनन्तगुणा हैं (नीललेस्सा विसेसाहिया) नीललेश्या वाले विशेषाधिक हैं (कण्हलेस्सा विसेसाहिया) कृष्णलेश्या वाले विशेषाधिक हैं (सलेस्सा विसेसाहिया) सलेश्य विशेषाधिक हैं ।

टीकार्थ—अव लेश्यओं की अपेक्षा जीवों का अल्पवहुत्व कहते हैं—
श्री गौतम स्वामी ने प्रश्न किया—हे भगवन् ! इन सलेश्य अर्थात् लेश्या वाले समुच्चय जीवों में, कृष्णलेश्या वाले, नील लेश्या वाले, कापोत लेश्या वाले, तेजोलेश्या वाले, पद्म लेश्या वाले, शुक्कललेश्या वाले और अलेश्य अर्थात् लेश्या रहित जीवों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

शुक्कल लेश्यावाणा छे (पम्हलेस्सा संखेज्जगुणा) पद्म लेश्यावाणा संख्यातगण्णा छे (तेउलेस्सा संखेज्जगुणा) तेने लेश्यावाणा संख्यातगण्णा छे (अलेस्सा अणंतगुणा) लेश्या रहित अनन्तगण्णा छे (काउलेस्सा अणंतगुणा) कपोत लेश्यावाणा अनन्तगण्णा छे (नीललेस्सा विसेसाहिया) नील लेश्यावाणा विशेषाधिक छे (कण्हलेस्सा विसेसाहिया) कृष्णलेश्यावाणा विशेषाधिक छे (सलेस्सा विसेसाहिया) सलेश्या विशेषाधिक छे.

इवे लेश्याग्गोनी अपेक्षाये एवेणु अल्प बहुत्व कळे छे

टीकार्थ—श्री गौतमस्वामीये प्रश्न कथे—भगवन् ! आ सलेश्य अर्थात् लेश्यावाणा समुच्चय एवेमा, कृष्णलेश्यावाणा, नीललेश्यावाणा, कापोतलेश्यावाणा तेनेलेश्यावाणा, पद्मलेश्यावाणा, शुक्कललेश्यावाणा अने अलेश्य अर्थात् लेश्यारहित एवेमा केषु कानाथी अल्प, धण्णा, तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

શુક્લવા, વિગેષાપિક્ષા વા ભવન્તિ, ભગવાન્ ઉત્તરયતિ—‘ગૌતમ !’ હે ગૌતમ ! ‘રાત્વત્તોવા જીવા મુક્તેસ્તા’ સર્વસ્તોકાઃ—સર્વેઘ્યોડ્લયાઃ, જીવાઃ શુક્લલેશ્યા ગમન્તિ, શુક્લા લેશ્યા યેવા તે શુક્લલેશ્યાઃ इत्यर्थः, લાન્તકાદિષુ અનુત્તરાન્તેષુ વૈમાનિકદેવેષુ કૃતિપયેષુ ચ ગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિકેષુ કર્મભૂમિકેષુ સંખ્યે-યનર્પાયુક્તેષુ મનુષ્યેષુ નિર્યચ્છ્રીપુરુષેષુ ચ કૃતિપયેષુ સંખ્યેયવર્ષાયુક્તેષુ શુક્લલે-શ્યાયાઃ સંભવાત્, તેભ્યઃ ‘પદ્મલેશ્યા સંખેજ્જગુણા’ પદ્મલેશ્યાઃ સંખ્યેયગુણા ભવન્તિ, પદ્મલેશ્યાયાઃ સનત્કુમારમાહેન્દ્રવ્રહ્મલોકકલ્પવાસિદેવેષુ પ્રચુરગર્ભવ્યુ-ત્ક્રાન્તિકેષુ ગર્ભભૂમિજેષુ સંખ્યેયનર્પાયુક્તેષુ મનુષ્યસ્ત્રીપુમેષુ તથા ગર્ભવ્યુ-ત્ક્રાન્તિકૃતિર્યગ્યોનિક્ષત્રીપુમેષુ સંખ્યેયવર્ષાયુક્તેષુ સદ્ભાવાત્, સનત્કુમારાદિ દેવાદીનાશ્ચ સમુદિતાના લાન્તકાદિદેવાદિભ્યઃ સંખ્યેયગુણત્વાત્ શુક્લલેશ્યા-

શ્રી ભગવાન્ ઉત્તર દેતે હૈં—હે ગૌતમ ! સયસે કમ જીવ શુક્લ-લેશ્યા વાલે હે, કયોકિ શુક્લલેશ્યા સિર્ષ લાન્તક સે લગા કર અનુ-ત્તરૌપપાતિક વૈમાનિક દેવોં મેં, કૃતિપય ગર્ભજ કર્મભૂમિ કે સંખ્યાત વર્ષ કી આયુ વાલે મનુષ્યોં મેં તથા કૃતિપય સંખ્યાત વર્ષ કી આયુ વાલે નિર્યચ શ્રી-પુરુષોં મેં હી પાઈ જાતી હૈ । શુક્લલેશ્યા વાલોં કી અપેક્ષા પદ્મલેશ્યા વાલે સંખ્યાત ગુણા હૈં, કયોકિ વહ સનત્કુમાર, માહેન્દ્ર તથા વ્રહ્મલોક કલ્પ કે નિવાસી દેવોં મેં, વહુસંખ્યક ગર્ભજ કર્મભૂમિજ સંખ્યાત વર્ષ કી આયુ વાલે મનુષ્ય શ્રીપુરુષોં મેં તથા સંખ્યાત વર્ષ કી આયુ વાલે ગર્ભજ નિર્યચ શ્રી-પુરુષોં મેં પાઈ જાતી હૈ ઓર યે સનત્કુમાર દેવ આદિ લાન્તક દેવ આદિ સે સંખ્યાતગુણા અધિક હૈં, હસ કારણ શુક્લલેશ્યા વાલોં સે પદ્મલેશ્યા વાલે સંખ્યાત

શ્રી ભગવાન્ ઉત્તર આપે છે—હે ગૌતમ ! યધાધી ઓષા છવ શુક્લ લેશ્યાવાળા છે, કેમકે શુક્લ લેશ્યા ડ્રકત લાન્તકથી લઈને અનુત્તરૌપપાતિક વૈમાનિક દેવોમા, કેટલાક ગર્ભજકર્મ ભૂમિના સંખ્યાત વર્ષની આયુવાળા મનુષ્યોમા તથા કૃતિપય સંખ્યાત વર્ષની આયુવાળા તિર્યચ શ્રી પુરુષોમા જ મળી આવે છે શુક્લ લેશ્યાવાળાઓની અપેક્ષાએ પદ્મલેશ્યાવાળા સંખ્યાત ગણા છે, કેમકે તે સનત્કુમાર, માહેન્દ્ર તથા વ્રહ્મલોક કલ્પના નિવાસીદેવોમા, બહુસંખ્યક ગર્ભજ કર્મભૂમિજ સંખ્યાત વર્ષની આયુષ્યવાળા મનુષ્ય શ્રી પુરુષોમા તથા સંખ્યાત વર્ષની આયુષ્યવાળા ગર્ભજ તિર્યચ શ્રી પુરુષોમા મળી આવે છે અને આ સનત્કુમારદેવ આદિ લાન્તક દેવ આદિથી સંખ્યાત ગણા અધિક છે, એ કારણે શુક્લ લેશ્યા વાળાઓથી પદ્મ લેશ્યાવાળા સંખ્યાત

કેભ્યઃ પદ્મલેશ્યાકાના સંખ્યેયગુણત્વં યુક્તમ્, તેભ્યાંડપિ 'તેજલેશ્યા સંગોજગુણા' તેજોલેશ્યાઃ સંખ્યેયગુણા ઋવન્તિ, તેજોલેશ્યાયાઃ સર્વેષુ સૌર્મજ્ઞાનજ્યોતિષ્ક-દેવેષુ કતિપયેષુ ચ ભાનપતિવાનવ્યન્તરગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિ કૃતિર્યગ્વોનિરૂપચ્ચેન્દ્રિય મનુષ્યેષુ વાદરપર્યાપ્તૈકેન્દ્રિયેષુ ચ સદ્ભાવાન્,

અન્નેદમવનેયમ્-યદ્યપિ જ્યોતિષ્કાણા ભવનવાસિભ્યઃ સનત્કુમારાદિ દેનેત્ય-શ્ચાસંખ્યેયગુણત્વેન તેજોલેશ્યાકાનામસંખ્યેયગુણતાં પ્રાપ્તં તથાપિ પદ્મલેશ્યાકેભ્ય-સ્તેજોલેશ્યાકાનાં સંખ્યેયગુણત્વમેવ યુક્તમ્, તિર્યગભિત્રકેભ્ય એવ પદ્મલેશ્યાકેભ્ય-સ્તિર્યગ્મિત્રાણામેવ તેજોલેશ્યાકાના ગ્રહપિત્ત્વેન, તિરશ્ચાચ પદ્મલેશ્યાકાના-મપિ અતિવહુત્વેન સંખ્યેયગુણત્વમેવ તેજોલેશ્યાકાના નાસંખ્યેયગુણત્વમિતિ,

ગુણા અધિક કહે ગણ હૈં । પદ્મલેશ્યા ચાલો સે તેજોલેશ્યા ચાલે સંખ્યાતગુણા અધિક હૈં, ક્યોકિ તેજોલેશ્યા સગી સૌધર્મ ઓર ઈજ્ઞાન કલ્પ કે વૈમાનિક દેવોં મેં, જ્યોતિષ્ક દેવોં મેં, કતિપય ભવનપતિ ઓર વાનવ્યન્તર દેવોં મેં, ગર્ભજ પંચેન્દ્રિય તિર્યચોં ઓર મનુષ્યોં મેં તથા વાદર પર્યાપ્ત એકેન્દ્રિયોં મેં ઓ પાઈ જાતી હૈં । યહાં યહ વાત ધ્યાન દેને યોગ્ય હૈ-યદ્યપિ જ્યોતિષ્ક દેવ, ભવનવાસિયો તથા સનત્-કુમાર આદિ દેવોં કી અપેક્ષા અસંખ્યાત ગુણા હૈં, અતએવ તેજો-લેશ્યા ચાલે જીવ અસંખ્યાતગુણે હોને ચાહિય, તથાપિ પદ્મલેશ્યા ચાલોં સે તેજોલેશ્યા ચાલે જીવ સંખ્યાતગુણે હી હૈં, ક્યોકિ પદ્મલેશ્યા ચાલે જો કહે ગણ હૈં ડનમેં તિર્યચ શામિલ હૈં ઓર તેજોલેશ્યા ચાલોં મેં ઓ તિર્યચ શામિલ હૈં ઓર તિર્યચ વહુત સે પદ્મલેશ્યા ચાલે ઓ હોતે હૈં, અતએવ તેજોલેશ્યા ચાલે સંખ્યાતગુણે હી હો સકતે હૈં, અસં-

ગણા અધિક કહેલા છે પદ્મલેશ્યા વાળાથી તેજોલેશ્યાવાળા સંખ્યાતગણા અધિક છે, કેમકે તેજોલેશ્યા બધા સૌધર્મ અને ઇજ્ઞાન કલ્પના વૈમાનિક દેવોમા, ન્યો-તિષ્ક દેવોમા, કેટલાક ભવનપતિ અને વાનવ્યન્તર દેવોમા, ગર્ભજ પંચે-ન્દ્રિય તિર્યચો અને મનુષ્યોમા તથા બાદર પર્યાપ્ત એકેન્દ્રિયોમા પણ મળી આવે છે અહિ આ વાત ધ્યાન દેવાયોગ્ય છે-યદ્યપિ ન્યોતિષ્ક દેવ, ભવન વાસિયો તથા સનત્કુમાર આદિ દેવોની અપેક્ષાએ અસંખ્યાત ગણા છે, તેથી જ તેજોલેશ્યાવાળા એવ અસંખ્યાતગણા હોવા નેધએ તથાપિ પદ્મલેશ્યા વાળાઓથી તેજોલેશ્યાવાળા એવ સંખ્યાત ગણા છે, કેમકે પદ્મલેશ્યાવાળા જે કહેલા છે, તેઓમા તિર્યચ સામેલ છે અને તેજોલેશ્યાવાળાઓમા પણ તિર્યચ સામેલ છે અને તિર્યચોમા પણ પદ્મલેશ્યા વાળા પણ હોય છે, તેથી જ તેજોલેશ્યાવાળા સંખ્યાતગણા જ બની શકે છે. અસંખ્યાતગણા નહિ.

તેભ્યોઽપિ 'અલેસ્સા અણંતગુણા' અલેશ્યાઃ લેશ્યારહિતાઃ સિદ્ધાઃ અનન્તગુણા ભવન્તિ સિદ્ધાનામનન્તત્વાત્, તેભ્યોઽપિ-'કાપોતલેશ્યાઃ કાપોતલેશ્યાઃ અનન્તગુણા ભવન્તિ, વનસ્પતિકાયિકેત્રપિ કાપોતલેશ્યાયાઃ સદ્ભાવાત્ વનસ્પતિકાયિકાનાઞ્ચ સિદ્ધેભ્યોપિ અનન્તગુણત્વાત્, તેભ્યોપિ 'નીલલેસ્સા વિસેસાહિયા' નીલલેશ્યાઃ વિશેષાધિકા ભવન્તિ, અત્યધિકાના નીલલેશ્યાયાઃ સદ્ભાવાત્, તેભ્યોપિ 'કૃષ્ણલેસ્સા વિસેસાહિયા' કૃષ્ણલેશ્યાઃ વિશેષાધિકા ભવન્તિ, અત્યધિકતમાનાં કૃષ્ણલેશ્યાયા' સદ્ભાવાત્, તેભ્યોઽપિ 'સલેસ્સા વિસેસાહિયા' સલેશ્યાઃ સામાન્યેન લેશ્યાવન્તઃ, વિશેષાધિકા ભવન્તિ, તત્ર નીલલેશ્યા કાદીનામપિ સમાવેશાત્ ઇતિ 'દારં' અષ્ટમસ્ લેશ્યાદ્વારં સમાસમ્ ॥ ૧૩ ॥

દષ્ટિદ્વારવક્તવ્યતા-

મૂલમ્-एएसि णं भंते ! जीवाणं सम्मदिट्ठीणं मिच्छादि-
ट्ठीणं सम्मामिच्छदिट्ठीणं कयरे कयरेहितो अप्पा वा, बहुया
वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा
सम्मामिच्छदिट्ठी, सम्मदिट्ठी अणंतगुणा, मिच्छादिट्ठी अणंत-
गुणा, दारं ॥सू० १४॥

ख्याતગુણા નહીં । તેજોલેશ્યા વાલોં સે અલેશ્ય-લેશ્યા રહિત જીવ અનન્ત ગુણા હૈ, કયોંકિ અલેશ્યોં મેં સિદ્ધ અનન્ત હૈં । અલેશ્યોં કી અપેક્ષા કાપોત લેશ્યાવાલે અનન્ત ગુણા હૈં, કયોંકિ વનસ્પતિકાયિકોં મેં મી કાપોતલેશ્યા કા સદ્ભાવ હૈ ઓર વનસ્પતિકાયિક સિદ્ધોં સે મી અનન્તગુણા હે । કાપોત લેશ્યા વાલોં કી અપેક્ષા નીલ લેશ્યા વાલે વિશેષાધિક હૈ ઓર નીલલેશ્યા વાલોં સે કૃષ્ણલેશ્યા વાલે વિશેષાધિક હૈં । ઉનકી અપેક્ષા સામાન્ય સલેશ્ય જીવ વિશેષાધિક હૈં કયોં કિ ઉનમેં નીલ લેશ્યા વાલે આદિ મી શામિલ હૈં ।

આઠવાં લેશ્યાદ્વાર સમાસ ॥૧૩॥

તેજોલેશ્યા વાળાઓથી અલેશ્ય-લેશ્યા રહિત જીવ અનન્તગુણા છે, કેમકે અલેશ્યોમા સિદ્ધ અનન્ત છે, અલેશ્યોની અપેક્ષાએ કાપોતલેશ્યાવાળા અનન્તગુણા છે, કેમકે વનસ્પતિ કાયિકેમા પણ કાપોતલેશ્યાનો સદ્ભાવ છે અને વનસ્પતિકાયિક સિદ્ધોથી પણ અનન્તગુણા છે. કાપોતલેશ્યા વાળાઓની અપેક્ષાએ નીલ-લેશ્યાવાળા વિશેષાધિક છે અને નીલલેશ્યા વાળાઓથી કૃષ્ણલેશ્યાવાળા વિશેષાધિક છે તેઓની અપેક્ષાએ સામાન્ય સલેશ્ય જીવ વિશેષાધિક છે કેમકે તેઓમા નીલલેશ્યાવાળા વિગેરેપણ મળેલા છે. આઠમું લેશ્યાદ્વાર સમાસ ॥૧૩॥

छाया—एतेषां खलु भदन्त ! जीवानां सम्यग्दृष्टीना मिथ्यादृष्टीना, सम्यग्मिथ्यादृष्टिना च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? हे गौतम ! सर्वस्तोकाः जीवाः सम्यग्मिथ्यादृष्टयः, सम्यग्दृष्टयोऽनन्तगुणाः, मिथ्यादृष्टयोऽनन्तगुणाः, द्वारम् ॥ १४ ॥

टीका—अथ सम्यग्द्वारमधिकृत्य जीवालपवहुत्वादिकं प्ररूपयितुमाह—
‘एएसि णं भंते ! जीवाणं’ हे भदन्त ! एतेषां खलु जीवानां ‘सम्मदिट्ठीणं’ सम्यग्दृष्टीनाम् ‘मिच्छादिट्ठीणं’ मिथ्यादृष्टीनां ‘सम्मामिच्छादिट्ठीणं य’ सम्यग्-

दृष्टिद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (जीवाणं सम्मदिट्ठीणं) सम्यग्दृष्टि जीवों (मिच्छादिट्ठीणं) मिथ्यादृष्टियों (सम्मामिच्छादिट्ठीण य) और सम्यग्मिथ्यादृष्टियों में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा) सबसे कम जीव (सम्मामिच्छादिट्ठी) सम्यग्मिथ्यादृष्टि अर्थात् मिश्रदृष्टि हैं (सम्मदिट्ठी अणंतगुणा) सम्यग्दृष्टि अनन्तगुणा हैं, (मिच्छादिट्ठी अणंतगुणा) मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणा हैं । ॥१३॥

टीकार्थ—अब दृष्टि की अपेक्षा से जीवों के अल्पवहुत्व की प्ररूपणा की जाती है—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन सम्यग्दृष्टि

दृष्टिद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! आ (जीवाणं सम्मदिट्ठीणं) सम्यग्दृष्टि एवे (मिच्छादिट्ठीणं) मिथ्यादृष्टियो (सम्मामिच्छादिट्ठीणं य) अने सम्मग्मिथ्यादृष्टियोमा (कयरे कयरेहिंतो) कोणु कोनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, धणु, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

(गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा) णधाथी ओछा एव (सम्मामिच्छादिट्ठी) सम्मग्मिथ्या दृष्टि अर्थात् मिश्रदृष्टि छे. (सम्मदिट्ठी अणंतगुण) सम्मग्मिथ्यादृष्टि अनन्त गणु छे (मिच्छादिट्ठी अणंतगुणा) मिथ्यादृष्टि अनन्त गणु छे ॥ १३ ॥

इवे दृष्टिनी अपेक्षाये एवेता अल्प बहुत्वनी प्ररूपणा कराय छे—

टीकार्थ—श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! आ सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टिअने मिश्रदृष्टि एवेमा कोणु कोनाथी अल्प, धणु, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

તેભ્યોઽપિ 'અલેસ્સા અણંતગુણા' અલેશ્યાઃ લેશ્યારહિતાઃ સિદ્ધાઃ અનન્તગુણા ભવન્તિ સિદ્ધાનામનન્તત્વાત્, તેભ્યોઽપિ- 'કાપોતલેશ્યાઃ' કાપોતલેશ્યાઃ અનન્તગુણા ભવન્તિ, વનસ્પતિકાયિકેષ્વપિ કાપોતલેશ્યાયાઃ સદ્ભાવાત્ વનસ્પતિકાયિકાનાઞ્ચ સિદ્ધેભ્યોપિ અનન્તગુણત્વાત્, તેભ્યોપિ 'નીલલેસ્સા વિસેસાહિયા' નીલલેશ્યાઃ વિશેષાધિકા ભવન્તિ, અત્યધિકાના નીલલેશ્યાયાઃ સદ્ભાવાત્, તેભ્યોપિ 'કૃષ્ણલેસ્સા વિસેસાહિયા' કૃષ્ણલેશ્યાઃ વિશેષાધિકા ભવન્તિ, અત્યધિકતમાનાં કૃષ્ણલેશ્યાયાઃ સદ્ભાવાત્, તેભ્યોઽપિ 'સલેસ્સા વિસેસાહિયા' સલેશ્યાઃ સામાન્યેન લેશ્યાવન્તઃ, વિશેષાધિકા ભવન્તિ, તત્ર નીલલેશ્યા કાદીનામપિ સમાવેશાત્ ઇતિ 'દારં' અષ્ટમમ્ લેશ્યાદ્દારં સમાપ્તમ્ ॥ ૧૩ ॥

દષ્ટિદ્ધારવક્તવ્યતા-

મૂલમ્-एएसि णं भंते ! जीवाणं सम्मदिट्ठीणं मिच्छादि-
ट्ठीणं सम्मामिच्छदिट्ठीणं कयरे कयरेहितो अप्पा वा, वहुया
वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा
सम्मामिच्छदिट्ठी, सम्मदिट्ठी अणांतगुणा, मिच्छादिट्ठी अणांत-
गुणा, दारं ॥सू० १४॥

હ્યાતગુણા નહીં । તેજોલેશ્યા વાલોં સે અલેશ્ય-લેશ્યા રહિત જીવ અનન્ત ગુણા હૈં, કયોંકિ અલેશ્યોં મેં સિદ્ધ અનન્ત હૈં । અલેશ્યોં કી અપેક્ષા કાપોત લેશ્યાવાલે અનન્ત ગુણા હૈં, કયોંકિ વનસ્પતિકાયિકોં મેં ણી કાપોતલેશ્યા કા સદ્ભાવ હૈં ઓર વનસ્પતિકાયિક સિદ્ધોં સે ણી અનન્તગુણા હૈં । કાપોત લેશ્યા વાલોં કી અપેક્ષા નીલ લેશ્યા વાલે વિશેષાધિક હૈં ઓર નીલલેશ્યા વાલોં સે કૃષ્ણલેશ્યા વાલે વિશેષાધિક હૈં । ડનકી અપેક્ષા સામાન્ય સલેશ્ય જીવ વિશેષાધિક હૈં કયોં કિ ડનમેં નીલ લેશ્યા વાલે આદિ ણી શામિલ હૈં ।

આઠવાં લેશ્યાદ્દાર સમાપ્ત ॥૧૩॥

તેજોલેશ્યા વાળાઓથી અલેશ્ય-લેશ્યા રહિત જીવ અનન્તગુણા છે, કેમકે અલેશ્યોના સિદ્ધ અનન્ત છે, અલેશ્યોની અપેક્ષાએ કાપોતલેશ્યાવાળા અનન્તગુણા છે, કેમકે વનસ્પતિ કાયિકોના પણ કાપોતલેશ્યાનો સદ્ભાવ છે અને વનસ્પતિકાયિક સિદ્ધોથી પણ અનન્તગુણા છે. કાપોતલેશ્યા વાળાઓની અપેક્ષાએ નીલલેશ્યાવાળા વિશેષાધિક છે અને નીલલેશ્યા વાળાઓથી કૃષ્ણલેશ્યાવાળા વિશેષાધિક છે તેઓની અપેક્ષાએ સામાન્ય સલેશ્ય જીવ વિશેષાધિક છે કેમકે તેઓના નીલલેશ્યાવાળા વિશેષપણ મળેલા છે. આઠમું લેશ્યાદ્દાર સમાપ્ત ॥૧૩॥

છાયા—એતેવાં સ્વલુ મદન્ત ! જીવાનાં સમ્યગ્દષ્ટીના મિથ્યાદષ્ટીનાં, સમ્યગ્મિથ્યાદષ્ટિનાં ચ કતરે કતરેભ્યોડલા વા, વહુકા વા, તુલ્યા વા, વિશેષાધિકા વા ? હે ગૌતમ ! સર્વસ્તોકાઃ જીવાઃ સમ્યગ્મિથ્યાદષ્ટયઃ, સમ્યગ્દષ્ટયો ડનન્તગુણાઃ, મિથ્યાદષ્ટયોડનન્તગુણાઃ, દ્વારમ્ ॥ ૧૪ ॥

ટીકા—અથ સમ્યક્ત્વદ્વારમધિકૃત્ય જીવાલ્પવહુત્વાદિકં પ્રરૂપયિતુમાહ—‘એસિ ણં મંતે ! જીવાણ’ હે મદન્ત ! એતેવા સ્વલુ જીવાનાં ‘સમ્મદ્દિટ્ઠીણં’ સમ્યગ્દષ્ટીનામ્ ‘મિચ્છાદિટ્ઠીણં’ મિથ્યાદષ્ટીના ‘સમ્મામિચ્છાદિટ્ઠીણં ય’ સમ્યગ્-

દષ્ટિદ્વાર વક્તવ્યતા

શબ્દાર્થ—(એસિ ણં મંતે !) હે ભગવન્ ! ઇન (જીવાણં સમ્મદ્દિટ્ઠીણં) સમ્યગ્દષ્ટિ જીવોં (મિચ્છાદિટ્ઠીણં) મિથ્યાદષ્ટિયોં (સમ્મામિચ્છાદિટ્ઠીણ ય) ઓર સમ્યગ્મિથ્યાદષ્ટિયોં મેં (કયરે કયરેહિંતો) કોન કિસસે (અપ્પા વા વહુયા વા તુલ્યા વા વિસેસાહિયા વા ?) અલ્પ, વહુત, તુલ્ય યા વિશેષાધિક હૈ ? (ગોયમા) હે ગૌતમ ! (સવ્વત્થોવા જીવા) સબસે કમ જીવ (સમ્મામિચ્છાદિટ્ઠી) સમ્યગ્મિથ્યાદષ્ટિ અર્થાત્ મિશ્રદષ્ટિ હૈ (સમ્મદિટ્ઠી અણંતગુણા) સમ્યગ્દષ્ટિ અનન્તગુણા હૈ, (મિચ્છાદિટ્ઠી અણંતગુણા) મિથ્યાદષ્ટિ અનન્તગુણા હૈ ॥ ૧૩ ॥

ટીકાર્થ—અવ દષ્ટિ કી અપેક્ષા સે જીવોં કે અલ્પવહુત્વ કી પ્રરૂપણા કી જાતી હૈ—

શ્રી ગૌતમ સ્વામી પ્રશ્ન કરતે હૈ—હે ભગવન્ ! ઇન સમ્યગ્દષ્ટિ

દષ્ટિદ્વાર વક્તવ્યતા

શબ્દાર્થ—(એસિ ણં મંતે !) હે ભગવન્ ! આ (જીવાણં સમ્મદ્દિટ્ઠીણં) સમ્યગ્દષ્ટિ એવો (મિચ્છાદિટ્ઠીણં) મિથ્યાદષ્ટિયો (સમ્મામિચ્છાદિટ્ઠીણ ય) અને સમ્યગ્મિથ્યાદષ્ટિયોમા (કયરે કયરેહિંતો) કોણ કોનાથી (અપ્પા વા વહુયા વા તુલ્યા વા વિસેસાહિયા વા ?) અલ્પ, ઘણા, તુલ્ય અથવા વિશેષાધિક છે ?

(ગોયમા) હે ગૌતમ ! (સવ્વત્થોવા જીવા) યાધાર્થી એછા એવ (સમ્મામિચ્છાદિટ્ઠી) સમ્યક્ મિથ્યા દષ્ટિ અર્થાત્ મિશ્રદષ્ટિ છે. (સમ્મદિટ્ઠી અણંત ગુણ) સમ્યગ્દષ્ટિ અનન્ત ગણા છે (મિચ્છાદિટ્ઠી અણંતગુણા) મિથ્યાદષ્ટિ અનન્ત ગણા છે ॥ ૧૩ ॥

હવે દષ્ટિની અપેક્ષાએ એવોના અલ્પ વહુત્વની પ્રરૂપણા કરાય છે—

ટીકાર્થ—શ્રી ગૌતમ સ્વામી પ્રશ્ન કરે છે—હે ભગવન્ ! આ સમ્યગ્દષ્ટિ, મિથ્યાદષ્ટિ અને મિશ્રદષ્ટિ એવોમા કોણ કોનાથી અલ્પ, ઘણા, તુલ્ય અથવા વિશેષાધિક છે ?

મિથ્યાદૃષ્ટીનાશ્ચ 'કયરે કયરેહિંતો' કતરે કતરેભ્યઃ 'અપ્પા વા, બહુયા વા, તુલ્લા વા, વિસેસાહિયા વા ?' અલ્પા વા, વહુકા વા, તુલ્યા વા, વિશેષાધિકા વા ભવન્તિ ? ભગવાન્ ઉત્તરયતિ—'ગોયમા !' હે ગૌતમ ! 'સવ્વત્થોવા જીવા સમ્મમિચ્છાદિટ્ઠી' સર્વસ્તોકાઃ જીવાઃ સમ્યગ્મિથ્યાદૃષ્ટયો ભવન્તિ, સમ્યક્મિથ્યાદૃષ્ટિપરિણામકાલસ્યાન્તર્મુહૂર્તપ્રમાણમાત્રતયાસ્ત્યલ્પત્તેન તેષાં પ્રશ્નકાલે અલ્પાનામેવોપલ્ભ્યમાનત્વાત્, તેભ્યઃ 'સમ્મદિટ્ઠી' સમ્યગ્દૃષ્ટયઃ સિદ્ધતીર્થકુરાદયઃ અનન્તગુણા ભવન્તિ, સિદ્ધાનામનન્તત્વાત્, તેભ્યોઽપિ—'મિચ્છાદિટ્ઠી અણંતગુણા' મિથ્યાદૃષ્ટયઃ એકેન્દ્રિયાદયઃ, અનન્તગુણા ભવન્તિ, સિદ્ધેભ્યોઽપિ વનસ્પતિકાયિકાનામ્ મિથ્યાદૃષ્ટીનામનન્તગુણત્વાત્, इत्याशयः 'दार' नवमं दृष्टिद्वारम् समाप्तम् ॥१४॥

જ્ઞાનદ્વારવક્તવ્યતા—

મૂલમ્—एएसि षं भंते ! जीवाणं आभिणिवोहियणाणीणं सुयणाणीणं, ओहिणाणीणं, मणपज्जवणाणीणं, केवलणाणीण य कयरे कयरेहिनो, अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा मणपज्जवणाणी, ओहिणाणी असंखेज्जगुणा, आभिणिवोहियणाणी, सुयनाणी दो वि

मिथ्यादृष्टि और मिश्रदृष्टि जीवों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ।

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सब से कम जीव सम्यग्-मिथ्यादृष्टि अर्थात् मिश्रदृष्टि वाले हैं, क्योंकि मिश्रदृष्टि का काल अन्तर्मुहूर्त्त मात्र है, इस कारण प्रश्न के समय वे थोड़े से ही हो सकते हैं । उनकी अपेक्षा सम्यग्दृष्टि अनन्तगुणा हैं, क्योंकि सिद्ध अनन्त हैं और वे सम्यग्दृष्टियों में ही सम्मिलित हैं । सम्यग्दृष्टियों की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणा हैं, क्योंकि वनस्पतिकायिक आदि मिथ्यादृष्टि सिद्धों से भी अनन्तगुणा हैं । नौवां दृष्टिद्वार समाप्त ॥१४॥

શ્રી ભગવાન્ ઉત્તર આપે છે—હે ગૌતમ ! બધાથી ઓછા એવ સમ્યગ્-મિથ્યા દૃષ્ટિ અર્થાત્ મિશ્ર દૃષ્ટિ વાળા છે, કેમકે મિશ્ર દૃષ્ટિનો કાલ અન્તર્મુહૂર્ત માત્ર છે, એ કારણે પ્રશ્નના સમયે તેઓ થોડાજ હોઈ શકે છે તેમની અપેક્ષાએ સમ્યગ્દૃષ્ટિ અનન્તગણા છે, કેમકે સિદ્ધ અનન્ત છે અને તેઓ સમ્યગ્દૃષ્ટિઓમા જ સમ્મિલિત છે સમ્યગ્દૃષ્ટિઓની અપેક્ષાએ મિથ્યાદૃષ્ટિ અનન્તગણા છે, કેમકે વનસ્પતિકાયિક આદિ મિથ્યાદૃષ્ટિ સિદ્ધોથી પણ અનન્ત-ગણા છે. નવમું દૃષ્ટિદ્વાર સમાપ્ત ॥ ૧૪ ॥

तुल्ला विसेसाहिया, केवलणाणी अणंतगुणा, एएसि णं भंते !
जीवाणं मइ अन्नाणीणं सुय अन्नाणीणं, विभंगणाणीण य
कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसा-
हिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा विभंगनाणी, मइ
अन्नाणी सुय अन्नाणी दो वि तुल्ला अणंतगुणा, एएसि णं
भंते ! जीवाणं आभिणिबोहियणाणीणं, सुयणाणीणं, ओहि-
नाणीणं, मणपज्जवनाणीणं, केवलनाणीणं, मइ अन्नाणीणं,
सुय अन्नाणीणं, विभंगणाणीण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा,
बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा
जीवा मणपज्जवनाणी, ओहिणाणी असंखेज्जगुणा, आभिणि-
बोहियनाणी, सुयनाणी दो वि तुल्ला विसेसाहिया, विभं-
गनाणी असंखेज्जगुणा, केवलनाणी अणंतगुणा मइ अन्नाणी
सुय अणणाणी य दो वि तुल्ला अणंतगुणा दारं ॥सु० १५॥

छाया--एतेपां खल्ल भदन्त । जीवानाम् आभिनिबोधिकज्ञानिनाम्, श्रुत-
ज्ञानिनाम्, अवधिज्ञानिनाम्, मनः पर्यवज्ञानिनाम्, केवलज्ञानिनाञ्च कतरे
कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम !

ज्ञानद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ--(एएसि णं भंते !) भगवन् ! इन (जीवाणं आभिण-
बोहियणाणीणं) आभिनिबोधिक ज्ञानी जीवों (सुयणाणीणं) श्रुतज्ञा-
नियों (ओहिणाणीणं) अवधिज्ञानियों (मणपज्जवणाणीणं) मनः पर्यव
ज्ञानियों (केवलणाणीण य) और केवल ज्ञानियों में (कयरे कयरेहिंतो)
कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प

ज्ञानद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ--(एएसि णं भंते !) भगवन् ! आ (जीवाण आभिणिबोहियणाणीण)
आभिनिबोधिक्क ज्ञानी एवे (सुयणाणीण) श्रुतज्ञानीओ (ओहिणाणीण) अयधि
ज्ञानीथे (मणपज्जवणाणीणं) मनःपर्यवज्ञानीथे (केवलणाणीण य) अने डेवण-
ज्ञानीथेआ (कयरे कयरेहिंतो) डेअु डेनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा
विसेसाहिया वा ?) अल्प, धल्लु, तुल्ल्य अगार विशेषाधिक छे ?

સર્વસ્તોકાઃ જીવાઃ મનઃપર્યનજ્ઞાનિનઃ, અવધિજ્ઞાનિનઃ અસંખ્યેયગુણાઃ, આભિ-
નિવોધિકજ્ઞાનિનઃ શ્રુતજ્ઞાનિનો દ્વયેઽપિ તુલ્યાઃ વિશેષાધિકાઃ, કેવલજ્ઞાનિનઃ
અનન્તગુણાઃ, एतेषा खलु भदन्त ! जीवाना मत्यज्ञानिनां श्रुताज्ञानिनां
विभङ्गज्ञानिनाश्च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषा-
धिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः जीवाः विभङ्गज्ञानिनः, मत्यज्ञानिनः श्रुताज्ञा-
निनो द्वयेऽपि तुल्याः अनन्तगुणाः, एतेषा खलु भदन्त ! जीवानाम् आभिनि-

बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा
जीवा मणपज्जवनाणी) सबसे कम जीव मनःपर्यवज्ञानी हैं (ओहि-
नाणी असंखेज्जगुणा) अवधिज्ञानी असंख्यातगुणा हैं (आभिणि-
बोहियनाणी सुयनाणी दोवि तुल्ला विसेसाहिया) आभिनिवोधिक
ज्ञानी और श्रुतज्ञानी दोनों तुल्य हैं और अवधिज्ञानियों से विशे-
षाधिक हैं (केवलनाणी अणंतगुणा) (केवलज्ञानी अनन्तगुणा हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (जीवाणं मइअन्नाणीणं) मति
अज्ञानी जीवों (सुय अन्नाणीणं) श्रुत-अज्ञानियों (विभंगणाणीण य)
और विभंगज्ञानियों में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा
बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशे-
धिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा विभंगनाणी)
विभंगज्ञानी जीव सब से कम हैं (मइअन्नाणी सुय अन्नाणी दोवि
तुल्ला अणंतगुणा) मति-अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी दोनों तुल्य हैं
और विभंगज्ञानियों से अनन्तगुणा हैं ।

(गोयमा !) हे गौतम (सव्वत्थोवा जीवा मणपज्जवनाणी) षधार्थी ओछा
છવ મન પર્યવજ્ઞાની છે (ઓહિનાણી અસંખેજ્જ ગુણા) અવધિ જ્ઞાની અસંખ્યાત
ગણા છે (આભિણિવોહિયનાણી સુયનાણી દો વિ તુલ્લા વિસેસાહિયા) આભિનિ
વોધિક જ્ઞાની અને શ્રુતજ્ઞાની બન્ને તુલ્ય છે અને અવધિજ્ઞાનીયોથી વિશેષા-
ધિક છે (કેવલનાણી અણતગુણા) કેવળજ્ઞાની અનન્તગણા છે

(एएसिण भंते !) हे भगवन् ! आ (जीवाण मइ अन्नाणीण) मति अज्ञानी
છવો (સુયઅન્નાણી) શ્રુત-અજ્ઞાનીયો (વિભંગનાણી) અને વિલગજ્ઞાનીયોમા
(કયરે કયરેહિતો) કેાણ કેાનાથી (અપ્પા વા વહુયા વા તુલ્લા વા વિસેસાહિયા
વા) અલ્પ, ઘણા, તુલ્ય અગર વિશેષાધિક છે ?

(गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा विभंगनाणी) વિલગજ્ઞાની છવ
બધાર્થી ઓછા છે (મइ અન્નાણી સુય અન્નાણી દો વિ તુલ્લા અણત ગુણા) મતિ
અજ્ઞાની અને શ્રુત અજ્ઞાની બન્ને સરખા છે અને વિલગજ્ઞાનીયોથી અનન્ત
ગણા વધારે છે.

अधिकाधिकज्ञानिताम्, श्रुतज्ञानिनाम्, अवधिज्ञानिनाम्, मनःपर्यवज्ञानिनाम्, केवल-
 -ज्ञानिनाम्, मन्वज्ञानिनाम्, श्रुताज्ञानिनाम्, विभङ्गज्ञानिताश्च, कतरे, कतरे, योऽल्पांवा,
 -प्रबहुकाश्च, तुल्यांवा, विशेषाधिका वा ? श्रौतम् - सर्वस्तोकाः जीवा मनःपर्यवज्ञा-
 -निनाम्, अवधिज्ञानितोऽसंख्येयगुणाः, अभिनिबोधिकाश्च, श्रुतज्ञानिनो द्वयेऽपि
 -तुल्याः विशेषाधिकाः, विभङ्गज्ञानिनः असंख्येयगुणाः, केवलज्ञानिनः अनन्तगुणाः,
 -मन्वज्ञानिनः, श्रुताज्ञानिनश्च द्वयेऽपि तुल्याः अनन्तगुणाः । द्वारम् १० ॥१५॥

अभिनिबोधिणी (संख्येयगुणां भेदे) हे भगवन् इह (जीवाणं) जीवो (अभिनि-
 बोधिण्याणीणं) मतिज्ञानियो (सुयणाणीणं) श्रुतज्ञानियो (ओहिना-
 णीणं) अवधिज्ञानियो (मणपञ्चवनाणीणं) मनःपर्यवज्ञानियो (केवल-
 नाणीणं) केवलज्ञानियो (मइअन्नाणीणं) मतिअज्ञानियो (सुयअन्ना-
 णीणं) श्रुतअज्ञानियो (विभंगणाणीणं च) और विभंगज्ञानियो मे
 -कतरे, कतरे हि तो) कौतं, किससे (अप्या वा बहुया वा तुल्या वा विसे-
 साहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्यांवा, विशेषाधिक हैं ? (अभिनिबो-
 धिण्याणीणं) हे श्रौतम्, सव्वत्थोवा जीवा मणपञ्चवनाणीणं मनः
 पर्यवज्ञानी, जीव-सुय-से, क्रम हैं (ओहिणाणी असंखेज्जगुणा) अवधि-
 ज्ञानिभिः संख्येयगुणतुल्यांवा (अभिनिबोधिण्याणीणं सुयणाणीणं दो वि तुल्या
 विसेसाहिया) अभिनिबोधिकाश्च और श्रुतज्ञानी, दोनो, वरुणवरुण हैं
 और अवधिज्ञानियो से ! विशेषाधिक हैं (विभंगणाणी असंखेज्जगुणा)
 विभङ्गज्ञानी असंख्येयगुणा हैं (केवलज्ञानी अर्णतंगुणा) केवलज्ञानी
 अनन्तगुणा हैं (मइअण्णाणी सुयअण्णाणी च दो वि तुल्या अर्णत-
 -गुणा कतरे प्रसिण, भेदे) उच्छेदगणम् । ओ (जीवाणं) जीवो (अभिनिबोधिण्याणीणं)
 मतिअज्ञानियो (सुयणाणीणं) श्रुतअज्ञानियो (ओहिणाणीणं) अवधिज्ञानियो (मणपञ्चवनाणीणं)
 मनःपर्यवज्ञानियो (केवलज्ञानियो) मन्वज्ञानियो (मइअन्नाणीणं)
 मतिअज्ञानियो (सुयअन्नाणीणं) श्रुतअज्ञानियो (विभंगणाणीणं च) मनः (विभंग-
 गणानियो) कतरे कतरे हि तो) कौतं कौतथी (अप्या वा तुल्या वा बहुया वा
 विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्यांवा, विशेषाधिक हैं ?
 (गोयसा) हे श्रौतम् (सव्वत्थोवा जीवा मणपञ्चवनाणीणं) मनःपर्यवज्ञानी
 जीव-अध्यायी ओहिणं (ओहिणाणी असंखेज्जगुणा) अवधिज्ञानी, अभिनि-
 बोधिण्याणीणं (अभिनिबोधिण्याणीणं सुयणाणीणं दो वि तुल्या विसेसाहिया) अभिनि-
 बोधिण्याणीणं और श्रुतज्ञानी, दोनो, वरुणवरुण हैं और अवधिज्ञानियो से ! विशेष-
 आधिक हैं (विभंगणाणी असंखेज्जगुणा) (केवलज्ञानी) अर्णतंगुणां (केवल-
 ज्ञानी) अनन्तगुणां (मइअण्णाणी सुयअण्णाणी च दो वि तुल्या अर्णत-
 -गुणां कतरे प्रसिण, भेदे) उच्छेदगणम् । ओ (जीवाणं) जीवो (अभिनिबोधिण्याणीणं)

સર્વસ્તોકાઃ જીવાઃ મનઃપર્યવજ્ઞાનિનઃ, અવધિજ્ઞાનિનઃ અસંખ્યેયગુણાઃ, આભિ-
નિબોધિકજ્ઞાનિનઃ શ્રુતજ્ઞાનિનો દ્વયેઽપિ તુલ્યાઃ વિશેષાધિકાઃ, કેવલજ્ઞાનિનઃ
અનન્તગુણાઃ, એતેપાં યલ્લુ ભદન્ત ! જીવાનાં મત્યજ્ઞાનિનાં શ્રુતાજ્ઞાનિનાં
વિભદ્ગજ્ઞાનિનાશ્ચ કતરે કતરેભ્યોડલ્પા વા, વહુકા વા, તુલ્યા વા, વિશેષા-
ધિકા વા ? ગૌતમ ! સર્વસ્તોકાઃ જીવાઃ વિભદ્ગજ્ઞાનિનઃ, મત્યજ્ઞાનિનઃ શ્રુતાજ્ઞા-
નિનો દ્વયેડપિ તુલ્યાઃ અનન્તગુણાઃ, એતેપાં યલ્લુ ભદન્ત ! જીવાનામ્ આભિનિ-

બહુત, તુલ્ય યા વિશેષાધિક હૈ ? (ગોયમા) હૈ ગૌતમ ! (સવ્વત્યોવા
જીવા મળપજ્જવનાળી) સવસે કમ જીવ મનઃપર્યવજ્ઞાની હૈ (ઓહિ-
નાળી અસંખેજ્જગુણા) અવધિજ્ઞાની અસંખ્યાતગુણા હૈ (આભિણિ-
વોહિયનાળી સુચનાળી દોવિ તુલ્લા વિસેસાહિયા) આભિનિબોધિક
જ્ઞાની ઓર શ્રુતજ્ઞાની દોનોં તુલ્ય હૈ ઓર અવધિજ્ઞાનિયોં સે વિશે-
ષાધિક હૈ (કેવલનાળી અણંતગુણા (કેવલજ્ઞાની અનન્તગુણા હૈ ।

(એસિ ણં મંતે !) હૈ ભગવન્ ! ઇન (જીવાણં મદ્અન્નાળીણં) મતિ
અજ્ઞાની જીવોં (સુચ અન્નાળીણં) શ્રુત-અજ્ઞાનિયોં (વિભંગનાળીણ ય)
ઓર વિભંગજ્ઞાનિયોં મેં (કયરે કયરેહિંતો) કૌન કિસસે (અપ્પા વા
વહુયા વા તુલ્લા વા વિસેસાહિયા વા ?) અલ્પ, વહુત, તુલ્ય યા વિશે-
ધિક હૈ ? (ગોયમા) હૈ ગૌતમ ! (સવ્વત્યોવા જીવા વિભંગનાળી)
વિભંગજ્ઞાની જીવ સવ સે કમ હૈ (મદ્અન્નાળી સુચ અન્નાળી દોવિ
તુલ્લા અણંતગુણા) મતિ-અજ્ઞાની ઓર શ્રુત અજ્ઞાની દોનોં તુલ્ય હૈ
ઓર વિભંગજ્ઞાનિયોં સે અનન્તગુણા હૈ ।

(ગોયમા !) હૈ ગૌતમ (સવ્વત્યોવા જીવા મળપજ્જવનાળી) અધાથી ઓહા
છવ મન પર્યવજ્ઞાની છે (ઓહિનાળી અસંખેજ્જ ગુણા) અવધિ જ્ઞાની અસખ્યાત
ગણા છે (આભિણિવોહિયનાળી સુચનાળી દો વિ તુલ્લા વિસેસાહિયા) આભિનિ
બોધિક જ્ઞાની અને શ્રુતજ્ઞાની બન્ને તુલ્ય છે અને અવધિજ્ઞાનીયેથી વિશેષા-
ધિક છે (કેવલનાળી અણંતગુણા) કેવલજ્ઞાની અનન્તગણા છે

(એસિ ણં મંતે !) હૈ ભગવન્ ! આ (જીવાણં મદ્ અન્નાળીણ) મતિ અજ્ઞાની
છવે (સુચઅન્નાળીણં) શ્રુત-અજ્ઞાનીયે (વિભંગનાળીણ ય) અને વિભંગજ્ઞાનિયેમા
(કયરે કયરેહિ તો) કોણ કોનાથી (અપ્પા વા વહુયા વા તુલ્લા વા વિસેસાહિયા
વા) અલ્પ, ઘણા, તુલ્ય અગર વિશેષાધિક છે ?

(ગોયમા) હૈ ગૌતમ ! (સવ્વત્યોવા જીવા વિભંગનાળી) વિભંગજ્ઞાની છવ
અધાથી ઓહા છે (મદ્ અન્નાળી સુચ અન્નાળી દો વિ તુલ્લા અણંત ગુણા) મતિ
અજ્ઞાની અને શ્રુત અજ્ઞાની બન્ને સરખા છે અને વિભંગજ્ઞાનિયેથી અનન્ત
ગણા વધારે છે.

अभिधिकज्ञानिनाम्, श्रुतज्ञानिनाम्, अवधिज्ञानिनाम्, मनःपर्यवज्ञानिनाम्, केवल-
 ज्ञानिनाम्, मत्पर्यवज्ञानिनाम्, श्रुताज्ञानिनां, विभङ्गज्ञानिनां च, कतरे, कतरे, योऽल्पवाचा,
 तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतमः - सर्वस्तोकाः जीवा मनोपर्ववज्ञा-
 न्निनाम्, अवधिज्ञानिनोऽसंख्येयगुणाः, आभिनिबोधिकज्ञानिनः श्रुतज्ञानिनो द्वयेऽपि
 तुल्याः विशेषाधिकाः, विभङ्गज्ञानिनः असंख्येयगुणाः, केवलज्ञानिनः अनन्तगुणाः,
 मत्पर्यवज्ञानिनः, श्रुताज्ञानिनश्च द्वयेऽपि तुल्याः अनन्तगुणाः ॥ १५ ॥

(सूत्रे सिर्णा भन्ते ॥) हे भगवन्! इन (जीवाणं) जीवों (आभिनि-
 बोधियणाणीणं) मतिज्ञानियों (सुयणाणीणं) श्रुतज्ञानियों (ओहिना-
 णीणं) अवधिज्ञानियों (मणपञ्जवनाणीणं) मनःपर्यवज्ञानियों (केवल-
 नाणीणं) केवलज्ञानियों (मइअन्नाणीणं) मतिअज्ञानियों (सुयअन्ना-
 णीणं) श्रुतअज्ञानियों (विभंगणाणीणं) और विभंगज्ञानियों में
 कतरे कतरे हि तो) कौतं किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसे-
 साहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य वा विशेषाधिक हैं ? (अन्नाण-
 णं) (सोमम्) हे भगवन्! (संख्येयगुणा जीवा मणपञ्जवनाणी) मनः
 पर्यवज्ञानी जीवः साधः से क्रम हैं (ओहिणाणी असंख्येयगुणा) अवधि-
 ज्ञानी असंख्यातगुणा हैं (आभिनिबोधिनाणी सुयनाणी दो वि तुल्ला
 विसेसाहिया) आभिनिबोधिकज्ञानी और श्रुतज्ञानी दोनों बराबर हैं
 और अवधिज्ञानियों से । विशेषाधिक हैं (विभंगणाणी असंख्येयगुणा)
 विभंगज्ञानी असंख्यातगुणा हैं (केवलनाणी अर्णतगुणा) केवलज्ञानी
 अनन्तगुणा हैं (मइअन्नाणी सुयअन्नाणी) दो वि तुल्ला : अर्णत-

तरे परस्मिन्, अन्ते) (अन्नाणम्) आ (जीवाणं) जीवो (आभिनिबोधिण्याणीणं)
 आभिनिबोधिण्याणीणं (सुयणाणीणं) श्रुतज्ञानियों (ओहिणाणीणं) अवधिज्ञानियों (मणपञ्जवनाणीणं)
 मणपञ्जवनाणीणं, मनःपर्यवज्ञानियों (केवलनाणीणं) केवलज्ञानियों (मइअन्नाणीणं)
 मतिअज्ञानियों (सुयअन्नाणीणं) श्रुत, अज्ञानियों (विभंगणाणीणं) कतरे, कतरे, विभंग-
 ज्ञानियों (कतरे कतरे हि तो) कौतं किससे (अप्पा वा तुल्ला वा बहुया वा
 विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य अगरे विशेषाधिक हैं ?
 (सोमम्) हे गौतम! (संख्येयवा जीवा मणपञ्जवनाणी) मनःपर्यवज्ञानी
 जीवः अधः साधः से (ओहिणाणी असंख्येयगुणा) अवधिज्ञानी असंख्यात-
 गुणा हैं (आभिनिबोधिण्याणी सुयनाणी दो वि तुल्ला विसेसाहिया) आभिनि-
 बोधिकज्ञानी अनन्तगुणा हैं (मइअन्नाणी सुयअन्नाणी) मतिअज्ञानियों (सुयअन्नाणी)
 श्रुत, अज्ञानियों (विभंगणाणी असंख्येयगुणा) विभंगज्ञानी असंख्यातगुणा हैं
 (केवलनाणी अर्णतगुणा) केवलज्ञानी अनन्तगुणा हैं (मइअन्नाणी सुयअन्नाणी)

સર્વસ્તોકાઃ જીવાઃ મનઃપર્યવજ્ઞાનિનઃ, અવધિજ્ઞાનિનઃ અસંખ્યેયગુણાઃ, આભિ-
નિવોધિકજ્ઞાનિનઃ શ્રુતજ્ઞાનિનો દ્વયેઽપિ તુલ્યાઃ વિશેષાધિકાઃ, કેવલજ્ઞાનિનઃ
અનન્તગુણાઃ, एतेषा खलु भदन्त ! जीवानां मत्यज्ञानिनां श्रुताज्ञानिनां
विभङ्गज्ञानिनाश्च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषा-
धिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः जीवाः विभङ्गज्ञानिनः, मत्यज्ञानिनः श्रुताज्ञा-
निनो द्वयेऽपि तुल्याः अनन्तगुणाः, एतेषा खलु भदन्त ! जीवानाम् आभिनि-

बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा
जीवा मणपज्जवनाणी) सबसे कम जीव मनःपर्यवज्ञानी हैं (ओहि-
नाणी असंखेज्जगुणा) अवधिज्ञानी असंख्यातगुणा हैं (आभिणि-
बोहियनाणी सुयनाणी दोवि तुल्ला विसेसाहिया) आभिनिवोधिक
ज्ञानी और श्रुतज्ञानी दोनों तुल्य हैं और अवधिज्ञानियों से विशे-
षाधिक हैं (केवलनाणी अणंतगुणा) (केवलज्ञानी अनन्तगुणा हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (जीवाणं मइअन्नाणीणं) मति
अज्ञानी जीवों (सुय अन्नाणीणं) श्रुत-अज्ञानियों (विभंगणाणीण य)
और विभंगज्ञानियों में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा
बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशे-
धिक हैं ?) (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा विभंगनाणी)
विभंगज्ञानी जीव सब से कम हैं (मइअन्नाणी सुय अन्नाणी दोवि
तुल्ला अणंतगुणा) मति-अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी दोनों तुल्य हैं
और विभंगज्ञानियों से अनन्तगुणा हैं ।

(गोयमा !) हे गौतम (सव्वत्थोवा जीवा मणपज्जवनाणी) બધાથી ઓછા
છવ મન પર્યવજ્ઞાની છે (ઓહિનાણી અસંખેજ્જ ગુણા) અવધિ જ્ઞાની અસંખ્યાત
ગણા છે (આભિણિવોહિયનાણી સુયનાણી દો વિ તુલ્લા વિસેસાહિયા) આભિનિ
વોધિક જ્ઞાની અને શ્રુતજ્ઞાની બન્ને તુલ્ય છે અને અવધિજ્ઞાનીયોથી વિશેષા-
ધિક છે (કેવલનાણી અણતગુણા) કેવળજ્ઞાની અનન્તગણા છે

(एएसिणं भंते !) हे भगवन् ! आ (जीवाणं मइ अन्नाणीण) मति अज्ञानी
छवो (सुयअन्नाणीणं) श्रुत-अज्ञानीयो (विभंगणाणीण य) અને વિભંગજ્ઞાનીયોમા
(કયરે કયરેહિ તો) કેાણ કેનાથી (અપ્પા વા બહુયા વા તુલ્લા વા વિસેસાહિયા
વા) અલ્પ, ઘણા, તુલ્ય અગર વિશેષાધિક છે ?

(गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा विभंगनाणी) વિભંગજ્ઞાની છવ
બધાથી ઓછા છે (મइ અન્નાણી સુય અન્નાણી દો વિ તુલ્લા અણત ગુણા) મતિ
અજ્ઞાની અને શ્રુત અજ્ઞાની બન્ને સરખા છે અને વિભંગજ્ઞાનીયોથી અનન્ત
ગણા વધારે છે.

बोहियनाणी सुयनाणी दो वि तुल्या विसेसाहिया' आभिनिबोधिक ज्ञानिनः श्रुतज्ञानिनश्च इमे 'दो वि तुल्या विसेसाहिया' विशेषाधिक भवन्ति, संज्ञि-पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक मनुष्याणामिवावधिज्ञानरहितानामपि कतिपयानामभि-निबोधिकश्रुतज्ञानसद्भावात् स्वस्थाने तुल्या द्वयेऽपि तुल्याः-परस्पर सदृशा भवन्ति, तथाचोक्तम्-

'जत्थ मरुणाणं तत्थ सुयनाणं, जत्थ सुयनाणं तत्थ मरुणाणं' यत्र मतिज्ञानं तत्र श्रुतज्ञानं, यत्र श्रुतज्ञानं तत्र मतिज्ञानम्' इति वचनप्रामाण्यात्, तेभ्योऽपि 'केवलनाणी अणंतगुणा' केवलज्ञानिनोऽर्हत् सिद्धादयोऽनन्तगुणा भवन्ति, सिद्धा-नामनन्तत्वात्, इत्येवं रीत्या ज्ञानिनामल्पबहुत्वं प्रतिपाद्य सम्प्रति तद्विरुद्धा-

है। अवधिज्ञानियों की अपेक्षा आभिनिबोधिकज्ञानी और श्रुत-ज्ञानी विशेषाधिक है। तथा ये दोनों परस्पर में तुल्य हैं, क्योंकि जिन मनुष्यों और तिर्यग्यों को अवधिज्ञान नहीं होता है उन्हें भी आभिनि-बोधिक और श्रुतज्ञान हो सकता है। दोनों को बराबर कहने का कारण यह है कि ये दोनों ज्ञान सहचर हैं। कहा भी है—'जहां मति-ज्ञान है वहां श्रुतज्ञान है जहां श्रुतज्ञान है वहां मतिज्ञान है।' मति-श्रुतज्ञानियों की अपेक्षा केवलज्ञानी अनन्तगुणा हैं, क्योंकि सिद्ध जीव अनन्त हैं और वे सभी केवलज्ञानी होते हैं।

इस प्रकार ज्ञान की अपेक्षा जीवों का अल्पबहुत्व प्रतिपादन करके अब अज्ञान (मिथ्याज्ञान) की अपेक्षा अल्पबहुत्व दिखलाते हैं—

पञ्चेन्द्रिय तिर्यगेने पणु थाय छे अवधिज्ञानियेनी अपेक्षाये आभिनि-बोधिकज्ञानी अने श्रुतज्ञानी विशेषाधिक छे तथा आ गन्ने परस्परमां तुल्य छे, केभके ने मनुष्ये अने तिर्यगेने अवधिज्ञान नथी थतु तेज्याने पणु आभि-निबोधिक अने श्रुतज्ञान थर्छ शके छे गन्नेने णराणर कडेवानु कारण आ छे के अने गन्ने ज्ञान सहचर छे. कहु पणु छे—'ज्या मतिज्ञान छे त्या श्रुतज्ञान छे, 'ज्या श्रुतज्ञान छे त्या मतिज्ञान छे, मति श्रुतज्ञानियेनी अपेक्षाये केवलज्ञानी अनन्तगुणा छे, केभके सिद्ध एव अनन्त छे अने ते अथा केवलज्ञानी होय छे

आ रीते ज्ञाननी अपेक्षाये एवेतु अल्प बहुत्व प्रतिपादन करीने हुवे अज्ञान (मिथ्याज्ञान) नी अपेक्षाये अल्प बहुत्व देखाडे छे—

श्री गौतम स्वामीये प्रश्न क्योँ छे लगवन् । मतिअज्ञानी श्रुतअज्ञानी अने विलग ज्ञानी एवेमा केषु केनाथी अल्प, अधिक, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

ટીકા--અથ જ્ઞાનદ્વારમધિકૃત્ય જીવાલ્પવહુત્વાદિકં પ્રરૂપયિતુમાહ--'एएसि णं भंते ! जीवाणं' ગૌતમઃ પૃચ્છતિ--હે મદન્ત ! एतेषां खलु जीवानाम् आभि- णिवोहियणाणीणं' આભિનિવોધિકજ્ઞાનિનામ્, 'सुयनाणीणं' શ્રુતજ્ઞાનિનામ્, ओहिणाणीणं' અવધિજ્ઞાનિનામ્, 'मणपज्जवणाणीणं' મનઃપર્યવજ્ઞાનિનાં 'केवलणा- णीणं य' કેવલજ્ઞાનિનાઞ્ચ, મન્યે 'कयरे कयरेहिंतो' કતરે કતરેભ્યઃ 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेमाहिया वा ?' અલ્પા વા, વહુકા વા, તુલ્યા વા, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति--'गोयमा' हे गौतम ! 'सब्वत्थोवा जीवा मणपज्जवणाणी' सर्वस्तोकाः सर्वेभ्योऽल्पाः जीवाः मनःपर्यवज्ञानिनो भवन्ति, संयमशालिनामेवामपौपंध्यादि ऋद्धिप्राप्तानां मनःपर्यवज्ञानसंभवात्, तेभ्यः 'ओहिनाणी असंखेज्जगुणा' अधिज्ञानिनः असंख्येयगुणा भवन्ति, नैरयि- कतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रिय मनुष्य देवानामप्यवविज्ञानसंभवात्, तेभ्योपि 'आभिणि- गुणा) मति-अज्ञानी और श्रुत-अज्ञानी दोनों वरावर हैं और केवल- ज्ञानियों से अनन्तगुणा हैं ॥१५॥

ટીકાર્થ--અબ જ્ઞાન કી અપેક્ષા સે અલ્પવહુત્વ કી પ્રરૂપણા કરતે હૈ--
શ્રી ગૌતમ સ્વામી પ્રશ્ન કરતે હૈ--હે ભગવન્ ! ઇન આભિનિવોધિક જ્ઞાની, શ્રુતજ્ઞાની, અવધિજ્ઞાની, મનઃપર્યવજ્ઞાની જૌર કેવલજ્ઞાની જીવો મેં કૌન કિસસે અલ્પ, વહુત, તુલ્ય યા વિશેષાધિક હૈ ?

શ્રી ભગવાન્ ઉત્તર દેતે હૈ--હે ગૌતમ ! સબસે કમ જીવ મનઃ પર્યવજ્ઞાની હૈ, કયોંકિ મનઃપર્યવજ્ઞાન ડન્હીં સંયમશાલી પુરુષોં કો હોતા હૈ જો ટામ્મર્ષે ષધિ આદિ ઋદ્ધિયોં સે રામ્પન્ન હોં । મનઃપર્યવ- જ્ઞાનિયો કી અપેક્ષા અવધિજ્ઞાની અસંખ્યાતગુણા હૈ, કયોંકિ અવ- ધિજ્ઞાન નારકોં, દેવોં, મનુષ્યોં ઔર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોં કો મી હોતા

णीय दो वि तुल्ला अणतगुणा) मति अज्ञानी अने श्रुत अज्ञानी अने भरा- भर छे अने केवल ज्ञानियोथी अन तगण्णु छे.

ટીકાર્થ:-હુવે જ્ઞાનની અપેક્ષાએ અલ્પ બહુત્વની પ્રરૂપણા કરે છે:-

શ્રી ગૌતમ સ્વામી પ્રશ્ન કરે છે--હે ભગવાન્ ! આ આભિનિવોધિક જ્ઞાની, શ્રુતજ્ઞાની, અવધિજ્ઞાની, મનઃપર્યવજ્ઞાની અને કેવલજ્ઞાની જીવોમાં કોણ કોનાથી અલ્પ, વહુત, તુલ્ય, અગર વિશેષાધિક છે ?

શ્રી ભગવાન્ ઉત્તર દે છે--હે ગૌતમ ! બધાથી ઓછા જીવ મન પર્યવ જ્ઞાની છે, કેમકે મન.પર્યવજ્ઞાન એજ સયમશીલ પુરુષોને થાય છે જેઓ આમપૌંધધિ આદિ ઋદ્ધિયોથી મ પન્ન હોય છે મન પર્યવજ્ઞાનિયોની અપેક્ષાએ અવધિજ્ઞાની અસંખ્યાતગણા છે, કેમકે અવધિજ્ઞાન નારકો, દેવો મનુષ્યો અને

बोहियनाणी सुयनाणी दो वि तुल्ला विसेसाहिया' आभिनिबोधिक ज्ञानिनः श्रुतज्ञानिनश्च इमे 'दो वि तुल्ला विसेसाहिया' विशेषाधिकार भवन्ति, संज्ञि-पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक मनुष्याणामिवावधिज्ञानरहितानामपि कृतिपयानामभि-निबोधिकश्रुतज्ञानसद्भावात् स्वस्थाने तुल्या द्वयेऽपि तुल्याः-परस्पर सदृशा भवन्ति, तथाचोक्तम्-

'जत्य मरुणं तत्य सुयनाणं, जत्य सुयनाणं तत्य मरुणं' यत्र मतिज्ञानं तत्र श्रुतज्ञानं, यत्र श्रुतज्ञानं तत्र मतिज्ञानम्' इति वचनग्रामाभ्यात्, तेभ्योऽपि 'केवलनाणी अणंतगुणा' केवलज्ञानिनोऽर्हत् सिद्धादयोऽनन्तगुणा भवन्ति, सिद्धा-नामनन्तत्वात्, इत्येवं रीत्या ज्ञानिनामल्पवहुत्वं प्रतिपाद्य सम्प्रति तद्विरुद्धा-है । अवधिज्ञानियों की अपेक्षा आभिनिबोधिकज्ञानी और श्रुत-ज्ञानी विशेषाधिकार हैं । तथा ये दोनो परस्पर में तुल्य हैं, क्योंकि जिन मनुष्यों और तिर्यग्यों को अवधिज्ञान नहीं होता है उन्हें भी आभिनि-बोधिक और श्रुतज्ञान हो सकता है । दोनो को बराबर कहने का कारण यह है कि ये दोनो ज्ञान सहचर हैं । कहा भी है-'जहां मति-ज्ञान है वहां श्रुतज्ञान है जहां श्रुतज्ञान है वहां मतिज्ञान है ।' मति-श्रुतज्ञानियों की अपेक्षा केवलज्ञानी अनन्तगुणा हैं, क्योंकि सिद्ध जीव अनन्त हैं और वे सभी केवलज्ञानी होते हैं ।

इस प्रकार ज्ञान की अपेक्षा जीवों का अल्पवहुत्व प्रतिपादन करके अब अज्ञान (मिथ्याज्ञान) की अपेक्षा अल्पवहुत्व दिखलाते हैं-

पञ्चेन्द्रिय तिर्यगेने पशु थाय छे अवधिज्ञानियोनी अपेक्षाये आभिनि-नोधिकज्ञानी अने श्रुतज्ञानी विशेषाधिकार छे तथा आ गन्ने परस्परमां तुल्य छे, केमके ने मनुष्ये अने तिर्यगेने अवधिज्ञान नथी थतु तेयोने पशु आभि-निबोधिक अने श्रुतज्ञान थर् शके छे अन्नेने परापर कडेवातु कारण आ छे के ये अन्ने ज्ञान सहचर छे. कहु पशु छे-'ज्या मतिज्ञान छे त्या श्रुतज्ञान छे, 'ज्यां श्रुतज्ञान छे त्या मतिज्ञान छे, मति श्रुतज्ञानियोनी अपेक्षाये केवलज्ञानी अनन्तगुणा छे, केमके सिद्ध एव अनन्त छे अने ते पथा केवलज्ञानी होय छे

आ रीते ज्ञाननी अपेक्षाये एवोतु अल्प बहुत्व प्रतिपादन करीने हुवे अज्ञान (मिथ्याज्ञान) नी अपेक्षाये अल्प बहुत्व देखाडे छे-

श्री गौतम स्वामीये प्रश्न कथो छे लगवन् ! मतिअज्ञानी श्रुतअज्ञानी अने विभग ज्ञानी एवोमा कोषु कोनाथी अल्प, अधिक, तुल्य अथवा विशेषाधिकार छे ?

જામજ્ઞાનિનામલ્પવહુત્વં પ્રતિપાદયતિ-‘एएसि णं भंते! जीवाणं मइअन्नाणीणं
 हे भदन्त ! एतेषा खलु जीवानाम् सत्यज्ञानिना ‘सुय अन्नाणीण’ श्रुताज्ञानिनां
 ‘विभंगणाणीण य’ विभङ्गज्ञानिनाश्च मध्ये क्यरे क्यरेहितो कर्तरे क्तुरेअं
 अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाद्वियां वा ? अल्पा वा, बहुया
 वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति-‘गौतम ! हे
 गौतम ! ‘सव्वत्थोवा जीवा विभंगनाणी’ सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः, जीवाः
 विभङ्गज्ञानिनो भवन्ति, केषाञ्चिदेवनेरियकतियेणोनिकपञ्चन्द्रिय मनुष्यदेवानाम्
 विभङ्गज्ञानसद्भावात्, तेभ्योऽपि ‘मइ’ अन्नाणी ‘सुय’ अन्नाणी दो वि ‘तुल्ला’
 अंतगुणां मत्यज्ञानिनः श्रुताज्ञानिनश्च अनन्तगुणां भवन्ति, वनस्पतीनामपि
 अनन्तानां मत्यज्ञानश्रुताज्ञानसद्भावात्, स्वस्थाने । तु इमे द्वयेऽपि परस्परं
 तुल्या भवन्ति जत्थ मइ अन्नाणं तत्थ सुय अन्नाणं, जत्थ सुय अन्नाणं तत्थ
 मइ अन्नाणं यत्र मत्यज्ञानं तत्र श्रुताज्ञानं, यत्र श्रुताज्ञानं तत्र मत्यज्ञानं
 इति वचनप्रामाण्यात्, इत्येवं रीत्या अज्ञानिनामल્पवहृत्वं प्रतिपाद्य सम्प्रति ज्ञान्य
 ज्ञानिनामुभयेषां समुदायेनाल्पवहृत्वं प्रतिपादयति-‘एएसि णं भंते! जीवाणं

श्री गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है भगवान् ! मति-अज्ञानी
 श्रुत-अज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवों में कौन किससे अल्प, बहुत
 तुल्य अथवा विशेषाधिक है ? भगवान् ने उत्तर दिया है- गौतम !
 सबसे कम जीव विभंगज्ञानी हैं, क्यो कि मिथ्यादृष्टि देवों, तारकों
 को तथा किन्हीं-किन्हीं अचेन्द्रिय तिर्यक्तो और मनुष्यों को ही विभंग-
 ज्ञान होता है । विभंगज्ञानियों की अपेक्षा (मति-अज्ञानी और श्रुत-
 अज्ञानी अनन्तगुणा हैं, क्यो कि वनस्पतिकायिक अनन्त जीवों की
 मति-अज्ञान और श्रुत-अज्ञान होता है, पर विभंगज्ञान नहीं होता ।
 किन्तु मति-अज्ञानी और श्रुत-अज्ञानी आपस में बराबर हैं, क्यो कि
 -जहां मति-अज्ञान है, वहां श्रुत-अज्ञान होता है । और जहां श्रुत-
 अज्ञान होता है, वहां मति-अज्ञान होता है । यह आगम का वचन है ।

|| श्री-बलगवाने उत्तर आरये-हे गौतम ! अधीधी-आओ लध विलग-
 ज्ञानी-अ, अइमं-मिथ्यादृष्टि देवी, नारको-तथा-अइ-अइ-पञ्चन्द्रिय तिर्यया
 अने मनुष्येने अ विलगज्ञान थाय अ विलगज्ञानीयेतीं अचक्ष्णं मतिं
 अक्षानीं अने श्रुत अज्ञानी अ अनन्तगुणो अ अइमं वनस्पति इन्द्रिय अनन्त
 लवोने मति-अज्ञान अने श्रुतअज्ञान थाय अ परंतु विलगज्ञानी मथी-यतु-
 अइमं-मति अज्ञानीयेने श्रुत अज्ञानी परस्परमं अइमं अइ-अइ-अइ-अइ-
 मति-अज्ञान अ, तमी-श्रुत अज्ञानी-थाय अ, अने-अया श्रुतअज्ञान-डोय अ
 त्या मति अज्ञान डोय अ, आ प्रमाणे आगमनु वचन अ, अ इमी-अइ

आभिनिवोधिर्गोणीणं । गौतमः । पृच्छति हे भदन्त ॥ एतेषां खलु जीवानाम्
 आभिनिवोधिकज्ञानिनाम्, सुयनाणीणां, श्रुतज्ञानिनाम्, ओहिनाणीणां, अवि-
 धिज्ञानिनाम्, मणपञ्चवनाणीणां, मनःपर्यवज्ञानिनाम्, केवलनाणीणां, केवल-
 ज्ञानिनाम्, मई, अन्माणीणां, मत्तज्ञानिनाम्, क्रुय अन्नाणीणां, श्रुताज्ञानिनाम्
 विभंगणीणीण येष विभङ्गज्ञानिनाश्च मध्ये ॥ अथरे कथंरेहितो कतरे, कतरेभ्यः
 अप्पा वा, वहुया वा, तुल्या वा, विसेसाहिया वा, अल्पा वा, वहुका वा,
 तुल्या वा, विशेषाधिक्या वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरं यति - गोयमां हे गौतमः
 'सव्वत्थीवा' जीवा मणपञ्चवनाणी संविस्तोकां जीवाः मनः पर्यवज्ञानिनो
 भवन्ति, तेभ्यः 'ओहिणाणी' असंखेज्जगुणा अवधिज्ञानिनोऽसंखयेयगुणा
 भवन्ति, तेभ्योऽपि 'आभिनिवोधिनाणी, सुयनणी दीन्नि, तुल्या - विसेसाहिया'
 आभिनिवोधिकज्ञानिनाः, श्रुतज्ञानिनाश्च विशेषाधिका भवन्ति, स्वस्थाने तु इमे
 द्वयोऽपि परस्पर तुल्या भवन्ति तेभ्योऽपि 'विभंगनाणी असंखेज्जगुणा' विभङ्ग-

इस प्रकार अज्ञानी जीवों के अल्पबहुत्व का प्रतिपादन करके
 जीवज्ञानियों तथा अज्ञानियों का सम्मिलित अल्पबहुत्वां निरूपण
 किया जाता है श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं - हे भगवन् ! इन आभिनिवो-
 धिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अपधिज्ञानी, मनःपर्यवज्ञानी, केवलज्ञानी,
 मत्तज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवों में कौन किस से
 अल्प, वहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ? श्री भगवान् उत्तर देते हैं - हे गौतम ! सिधसे कर्म जीव मनःपर्य-
 वज्ञानी होते हैं, उनकी अपेक्षा अपधिज्ञानी असंख्यातगुणित हैं और
 उनकी अपेक्षा भी आभिनिवोधिकज्ञानी तथा श्रुतज्ञानी विशेषाधिक
 हैं, मगर आभिनिवोधिकज्ञानी और श्रुतज्ञानी परस्पर में तुल्य हैं

श्री गौतम अज्ञानी जीवों में अल्प बहुत्व प्रतिपादन करने हेतु ज्ञानियों
 तथा अज्ञानियों का सम्मिलित अल्प बहुत्व निरूपण करायें ॥ १ ॥ श्री गौतम स्वामी भगवन् ! हे भगवन् !
 श्री गौतम स्वामी भगवन् ! हे भगवन् ! श्री आभिनिवोधिकज्ञानी
 श्रुतज्ञानी, अपधिज्ञानी, मनःपर्यवज्ञानी, केवलज्ञानी, मत्तज्ञानी, श्रुताज्ञानी, अने
 विभंगज्ञानी जीवों में कौन किस से अल्प, वहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ?
 श्री भगवान् उत्तर देते हैं - हे गौतम ! सिधसे कर्म जीव मनः
 पर्यवज्ञानी होते हैं, उनकी अपेक्षा अपधिज्ञानी असंख्यातगुणित हैं
 उनकी अपेक्षा भी आभिनिवोधिकज्ञानी तथा श्रुतज्ञानी विशेषा-
 धिक हैं परन्तु आभिनिवोधिकज्ञानी और श्रुतज्ञानी परस्पर में तुल्य हैं

જ્ઞાનનો અસંખ્યેયગુણા ભવન્તિ, દેવગતૌ નરકગતૌ ચ । સમ્યગ્દષ્ટિભ્યો મિથ્યાદૃષ્ટીનામસંખ્યેયગુણત્વેન, દેવનૈરયિકાણાશ્ચ સમ્યગ્દૃષ્ટીનામધિજ્ઞાનિત્વેન, મિથ્યાદૃષ્ટીનાશ્ચ વિભક્તજ્ઞાનિત્વેનાસંખ્યેયગુણત્વેનાસંખ્યેયગુણત્વાત્, તેભ્યોઽપિ 'કેવલનાણી અપાંતગુણા' કેવલજ્ઞાનિનોર્હત્ સિદ્ધાદયોઽનન્તગુણા ભવન્તિ સિદ્ધાનામનન્તત્વાન્, તેભ્યોઽપિ 'મઙ્ અન્નાણી સુચઅન્નણી ય દો વિ તુલ્લા અપાંતગુણા' મત્યજ્ઞાનિનઃ શ્રુતાજ્ઞાનિનશ્ચ અનન્તગુણા ભવન્તિ, મત્યજ્ઞાનિ શ્રુતાજ્ઞાનિનાં વનસ્પતિકાયિકાનાં સિદ્ધેભ્યોઽપિ અનન્તત્વાત્, સ્વસ્થાને તુ ઇમે દ્વયેઽપિ પરસ્પરં તુરયા ભવન્તિ इत्याशयः, 'દારં' દશમમ્ જ્ઞાનદ્વારં સમાસમ્ । સૂ૦ ૧૫॥

દર્શનદ્વાર વક્તવ્યતા-

મૂલમ્-ઈષિ ણં મંતે ! જીવાણં ચક્ષુદંસણીણં, અચક્ષુદંસણીણં, ઓહિદંસણીણં, કેવલદંસણીણ ય, કચરે કચરેહિંતો અપ્પા વા, વહુધા વા, તુલ્લા વા, વિસેસાહિયા વા ? ગોયમા !

उनकी अपेक्षा विभगज्ञानी असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि देव गति और नरकगति में सम्यग्दृष्टि जीवों की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि असंख्यातगुणा हैं और जो देव-नारक सम्यग्दृष्टि होते हैं उनमें अधिज्ञान तथा जो मिथ्यादृष्टि हैं उनमें विभगज्ञान पाया जाता है । विभगज्ञानियों की अपेक्षा केवलज्ञानी अनन्तगुणा हैं क्योंकि केवलज्ञान अर्हन्तों और सिद्धों को होता है और सिद्ध अनन्त हैं । केवलज्ञानियों की अपेक्षा मति-अज्ञानी और श्रुतअज्ञानी अनन्तगुणा हैं, क्योंकि मति-अज्ञानी एवं श्रुत-अज्ञानी वनस्पतिकायिक सिद्धों से अनन्तगुणा हैं । किन्तु मति-अज्ञानी और श्रुत-अज्ञानी परस्पर में तुल्य हैं । यह दशवां ज्ञानद्वार समाप्त हुआ ॥ १५ ॥

તેમની અપેક્ષાએ વિભગજ્ઞાની અસંખ્યાતગણા છે, કેમકે દેવગતિ અને નરકગતિમા સમ્યગ્દષ્ટિ ભુવેની અપેક્ષાએ મિથ્યાદૃષ્ટિ અસંખ્યાતગણા છે અને જે દેવ નારક સમ્યગ્દષ્ટિ હોય છે તેઓમા અધિજ્ઞાન તથા જે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે, તેઓમા વિભગજ્ઞાન મળી આવે છે વિભગજ્ઞાનીઓની અપેક્ષાએ કેવલ જ્ઞાની અનન્તગણા છે કેમકે કેવલ જ્ઞાન અર્હન્તો અને સિદ્ધોને થાય છે અને સિદ્ધ અનન્ત છે કેવલ જ્ઞાનીઓની અપેક્ષાએ મતિ-અજ્ઞાની તેમજ શ્રુત અજ્ઞાની અનન્તગણા છે, કેમકે મતિ અજ્ઞાની તેમજ શ્રુત અજ્ઞાની વનસ્પતિ કાયિક સિદ્ધોધી અનન્તગણા છે, પરન્તુ મતિ-અજ્ઞાની અને શ્રુત-અજ્ઞાની પરસ્પરમા તુલ્ય છે આ દશમુ જ્ઞાનદ્વાર સમાપ્ત થયુ. ॥ ૧૫ ॥

सञ्चत्वोवा जीवा ओहिदंसणी, चक्रखुदंसणी, असंखेज्जगुणा, केवलदंसणी अणंतगुणा, अचक्रखुदंसणी अणंतगुणा, दारं ११।सू. १६।

छाया-एतेपां खलु भदन्त ! जीवानां चक्षुदर्शनिनाम्, अचक्षुदर्शनिनाम्, अवधिदर्शनिनां, केवलदर्शनिनाञ्च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोका जीवाः अवधिदर्शनिनः, चक्षुदर्शनिनोऽसंखेयगुणाः, केवलदर्शनिनोऽनन्तगुणाः, अचक्षुदर्शनिनः अनन्तगुणाः द्वारम् ११ । १६।

टीका-अथ दर्शनद्वारमधिकृत्य जीवालप बहुत्वादिकं प्ररूपयति-‘एएसिणं भंते ! जीवाणं’ गौतमः पृच्छति-हे भदन्त ! एतेषा खलु जीवानाम् ‘चक्रखु-

दर्शनद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ-(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (जीवाणं) जीवों (चक्रखुदंसणीणं) चक्षुदर्शनियों (अचक्रखुदंसणीणं) अचक्षुदर्शनियों (ओहिदंसणीणं) अवधि दर्शनियों (केवलदंसणीण य) और केवलदर्शनियों में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सञ्चत्वोवा जीवा ओहिदंसणी) सब से कम जीव अवधि दर्शनी हैं (चक्रखुदंसणी असंखेज्जगुणा) चक्षुदर्शन वाले असंख्यातगुणा हैं (केवलदंसणी अणंतगुणा) केवलदर्शनी अनन्त गुणा हैं (अचक्रखुदंसणी अणंतगुणा) अचक्षुदर्शनी अनन्तगुणा हैं ।

टीकार्थ-अब दर्शनकी अपेक्षा से जीवों के अल्पबहुत्व का प्ररूपण किया जाता है-

दर्शन द्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ-(एएसिणं भंते) हे भगवन् ! आ (जीवाण) एवे (चक्रखुदंसणीणं) यक्षु दर्शनीये (अचक्रखुदंसणीण) अयक्षु दर्शनीये (ओहिदंसणीण) अवधिदर्शनीये (केवल दंसणीण य) अने केवल दर्शनीयेमा (कयरे कयरे हितो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, अधिक, तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

(गोयमा) हे गौतम (सञ्चत्वोवा जीवा ओहिदंसणी) अधाथी ओध्ठा एव अवधिदर्शनी छे (चक्रखुदंसणी असंखेज्जगुणा) यक्षुदर्शनवाणा अस पयात गण्ठा छे (केवलदंसणी अणतगुणा) केवणदर्शनी वाणा अनन्तगण्ठा छे (अचक्रखुदंसणी अणतगुणा) अयक्षु दर्शनी अनन्त गण्ठा छे

टीकार्थ-हे दर्शननी अपेक्षाअे एवेना अल्प बहुत्वतु प्ररूपणु कराय छे-

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे-हे भगवान् ! आ यक्षु दर्शनी, अयक्षु

अक्षुब्धदर्शनीनाम् 'अक्षुब्धदर्शनीनाम्' 'अक्षुब्धदर्शनीनाम्' 'अक्षुब्धदर्शनीनाम्' 'अक्षुब्धदर्शनीनाम्'
 अवधिदर्शनीनां 'केवलदर्शनीनां य', केवलदर्शनीनां च मध्ये 'कुर्ये कुर्येदितो'
 कतरं कतरेभ्यः अप्या वा, बहुया वा, तुल्या वा, विसोहाद्या वा ? अल्पा
 वा बहुका वा, तुल्या वा 'विशेषाधिक' वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति - 'गीतम'
 इ गीतम् 'सुखत्यां जीवा आहिदसणीं सर्वतोकाः सर्वभ्योऽल्पाः, जीवाः
 अवधिदर्शनीनां भवन्ति, देवैरियैकैणां कतिपर्यानाञ्च सञ्ज्ञि पञ्चन्द्रियतिर्यग्यानां च
 मनुष्याणामुपधिदर्शनसद्भावात्, तेभ्यश्च 'चक्षुदर्शनी' असखज्जगुणां चक्षु-
 दर्शनीनां संख्येयगुणां भवन्ति सर्वा देवैरियैकैनुष्याणां तिर्यग्यानां पञ्च-
 न्द्रियाणाम् असञ्ज्ञितिर्यग्यानां पञ्चन्द्रियाणाम् चतुरिन्द्रियाणाञ्च चक्षुदर्शन सद्-
 भावात्, तेभ्योऽपि 'केवलदर्शनी' खणत्तन्मुणः केवलदर्शनीनाः सिद्धादयोऽन-
 न्तगुणां भवन्ति, सिद्धाजानामन्तत्वात्, (तेभ्योऽपि) 'अक्षुब्धदर्शनी' वर्णातगुणां
 अक्षुब्धदर्शनीनां अनन्तगुणां भवन्ति, चनस्पतिकारिणीनां सिद्धेभ्योऽपि अंतस्त्वत्ते,
 इत्येवमयं एव एकदिशामुदर्शनदर्शनीनां समेतत्वं श्रेयाह्वं (श्रीगणेशोऽर्चनां)
 श्री गीतम (वामी प्रश्नं) करते हे - हे भगवान् 'इह चक्षुदर्शनी,
 अक्षुब्धदर्शनी, अवधिदर्शनी और केवलदर्शनी जीवों में कौन किससे
 अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ? भगवान् उत्तर देते हैं - हे
 गीतम ! सबसे कम जीव अवधिदर्शन वाले हैं, क्योंकि देवों, नारकों
 और कतिपर्ये सञ्ज्ञि, पञ्चन्द्रिय तिर्यचों तथा मनुष्यों को ही अवधिदर्शन
 होता है 'उनको अपेक्षा चक्षुदर्शनी असख्यातगुणी है, क्योंकि सभी
 देवों, सभी नारकों, सभी मनुष्यों और सभी पञ्चन्द्रिय तिर्यचों में
 तथा चक्षुरिन्द्रिय जीवों में चक्षुदर्शन पाया जाता है। चक्षुदर्शनी जीवों
 की अपेक्षा केवलदर्शनी अनन्तगुणी है, क्योंकि सिद्ध जीव अनन्त
 गुणा हैं, और केवलदर्शनीया की अपेक्षा अक्षुब्धदर्शनी अनन्तगुणा
 दर्शनी, अवधिदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी केवलदर्शनी (अक्षुब्धदर्शनी), अक्षुब्धदर्शनी
 और अक्षुब्धदर्शनी के अक्षुब्धदर्शनी के अक्षुब्धदर्शनी के अक्षुब्धदर्शनी के अक्षुब्धदर्शनी
 श्री भगवान् उत्तर आपे ये - हे गीतम् 'इह चक्षुदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अवधिदर्शनी
 दर्शन पाया है, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी
 तथा मनुष्यों के अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी
 अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी
 पञ्चन्द्रिय तिर्यचों तथा चतुरिन्द्रिय, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी
 अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी
 अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी, अक्षुब्धदर्शनी

संयतद्वार वक्तव्यता-

मूलम्-एएसि णं भंते ! जीवाणं संजयाणं, असंजयाणं, संजयासंजयाणं नो संजय नो असंजय नो संजयासंजयाण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा संजया, संजयासंजया असंखेज्जगुणा, नो संजया नो असंजया नो संजयासंजया अणंतगुणा, असंजया अणंतगुणा, दारं १२ ॥सू० १७॥

छाया-एतेपां खलु भदन्त ! जीवानां संयतानाम्, असंयतानाम्, संयतासंयतानां नो संयत नो असंयत नो संयतासंयतानाश्च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः जीवाः संयताः, हैं, क्योंकि सभी वनस्पतिकायिकों में अचक्षुदर्शन पाया जाता है और वे सिद्धों से अनन्त है । ग्याग्हवां दर्शनद्वार समाप्त ॥१६॥

संयतद्वार वक्तव्यता-

शब्दार्थ-(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (जीवाणं) जीवों (संयताणं) संयतों (असंयताणं) असंयतों (संजयासंजयाणं) संयतासंयत (नो संजय-नो असंजय नो संजयासंजयाण य) संयतों असंयतों एवं संयतासंयतों से भिन्न यथात् सिद्ध जीवों में (कयरे कयरेहितो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा संजया) सबसे कम जीव संयत हैं (संजयासंजया

गण्णा छे. डेभडे षधा वनस्पतिकायिकोभा अचक्षुदर्शन भणी आवे छे अने तेभो सिद्धोथी अनन्त छे, अगीथारमु दर्शनद्वार समाप्त ॥ १६ ॥

संयत द्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ-(एएसिण भंते !) हे भगवन् ! आ (जीवाणं) एवे (संयताण) संयतो (असंयताण) असंयतो (संजयासंजयाण) संयतासंयत (नो संजय नो असंजय-नो संजयासंजयाण य) संयतो, असंयतो, तेभञ्ज संयता संयतोथी भिन्न यथात् सिद्ध एवेभा (कयरे कयरेहितो) डोण्ण डोनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धण्णा, तुल्य, अगर विशेषाधिक छे ?

(गोयमा) हे गौतम (सव्वत्थोवा जीवा संजया) अधाथी थोडा एव संयत

संयतारांयता असंख्येयगुणाः, नो संयता नो ऽसंयता नो संयतासंयताः अनन्तगुणाः, असंयताः अनन्तगुणाः, द्वारम् १२ ॥ सू० १७ ॥

टीका—अथ संयतद्वारमधिकृत्य जीवाल्प बहुत्वादिकं प्ररूपयितुमाह—‘एषि पं भंते ! जीवाणं’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतेषां खलु वक्ष्यमाणानां जीवानाम् ‘संयताणं’ संयतानाम् ‘असंजयाणं’ असंयतानाम् ‘संजयासंजयाणं’ संयतासंयतानाम् ‘नो संजय नो असंजय नो संजयासजयाण य कयरे कयरेहिंते’ नो संयत नो ऽसंयत नो संयतासंयताश्च मध्ये कतरे कतरेभ्यः ‘अल्पा वा, बहुया वा, तुल्या वा, विशेषाहिया वा ?’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सञ्चत्थोवा

असंख्येयगुणा) संयतासंयत असंख्यातगुणा हैं (नो संयता नो असंजया नो संयतासंयता अणंतगुणा) जो संयत नहीं, असंयत नहीं, संयतासंयत नही वे अनन्त गुणा हैं (असंजया) असंयत (अनंतगुणा) अनन्त गुणा हैं ।

टीकार्थ—अब संयतद्वार के आधार पर जीवों के अल्पबहुत्व का निरूपण किया जाता है—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन संयत अर्थात् संयमवान्, असंयत अर्थात् असंयमी, संयतासंयत अर्थात् संयमासंयमी तथा नो संयत नो असंयत नो संयतासंयत अर्थात् जो संयमवान्, असंयमी या संयमासंयमी अर्थात् देशसंयमी नहीं है अर्थात् सिद्ध जीव हैं, उनमें कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक है ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सबसे कम जीव संयमी

छे (संजयासजया अमलेज्जगुणा) संयतासंयत असंख्यातगुणा छे (नो संजया नो असंजया नो संयतासंयता अणंतगुणा) नो संयत नथी असंयत नथी, संयतासंयत नथी तेज्जा अनन्तगुणा छे (असंयता) असंयत (अनन्तगुणा) अनन्तगुणा छे

टीकार्थ—इसे संयत द्वारना आधार पर लोचना अल्प बहुत्वतु निरूपण कराय छे—

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! आ संयत अर्थात् संयमवान्, असंयत अर्थात् असंयमी, संयतासंयत अर्थात् संयमासंयमी तथा नो संयत नो असंयत नो संयतासंयत अर्थात् जो संयमवान्, असंयमी अगर संयमासंयमी अर्थात् देश संयमी नथी अर्थात् सिद्ध लव छे, तेज्जाभा डोणु डोनाथी अल्प, धणु, तुल्य, अथवा विशेषाधिक छे ?

जीवा संजया' सर्वस्तोकाः जीवाः संयता भवन्ति, तेनामुत्कृष्टेनापि कोटिसहस्र-
पृथक्त्व प्रमाणत्वेनोपलभ्यमानत्वात्, तथाचोक्तम्-

'कोडीसहस्र पुहुत्तं मणुयलोए रांजयाणं ।' कोटिसहस्रपृथक्त्वं नवसहस्र-
कोटयः मनुष्यलोके संयतानागिति, तेभ्योऽपि 'संजयासंजया असंखेज्जगुणा'
संयतासंयताः देशविरताः असंख्येयगुणा भवन्ति पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिशानाम्
असंख्येयानां देशविरतिराद्भावात्, तेभ्योऽपि 'नो सजया नो अराजया नो
सजयासंजया अणंतगुणा' नो सयत नोऽसयत नोऽसयतासयताः अनन्तगुणा
भवन्ति, उक्तप्रतिषेधत्रययुक्तानां सिद्धानामनन्तत्वात्, तेभ्योऽपि 'असजया
अणंतगुणा' असयताः अनन्तगुणा भवन्ति, वनस्पतिकायिकानां सिद्धेभ्योऽपि
अनन्तत्वात्, 'दारं' द्वादशम् संयतद्वार समाप्तम् ॥ सू० १७ ॥

उपयोगद्वार वक्तव्यता-

मूलम्-एएसि णं भंते ! जीवाणं सागरोवउत्ताणं, अणागा-
रोवउत्ताण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, वहुया वा, तुल्ला वा
हैं, क्यों कि वे अधिक से अधिक कोटि सहस्र पृथक्त्व अर्थात् दो
हजार करोड से लेकर नौ हजार करोड तक ही पाये जाते हैं । कहा
भी है-'मनुष्यलोक में संयत कोटि सहस्रपृथक्त्व होते हैं ।' संयतो
की अपेक्षा संयतासंयत जीव असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि असंख्यात
पंचेन्द्रिय तिर्यचों में भी देशविरति पाई जाती है । जो संयमी असं-
यमी या सयमासंयमी नहीं कहे जा सकते, ऐसे सिद्ध जीव अनन्त
गुणा हैं । जनकी अपेक्षा असयमी जीव अनन्त गुणा हैं, क्यों कि
वनस्पतिकायिक जीव सिद्धों से अनन्तगुणा हैं और वे सभी असंयमी
हैं । बाहरवां सयतद्वार समाप्त ॥ १७ ॥

श्री लघवान् उत्तर आपे छे-डे गौतम । अधाथी ओछा एव सयमी
छे, केमके तेओ वधारेमा वधारे कोटिसहस्र पृथक्त्व अर्थात् जे डुनर करेड
थी लईने नौ डुनर करेड सुधीनाज भणे छे. कहु पणु छे के-मनुष्यलोकमा
सयत कोटिसहस्र पृथक्त्व होय छे. सयतोनी अपेक्षाओ सयतासयत एव
असंख्यात गणु छे केमके असंख्यात पञ्चेन्द्रिय तिर्यओमा पणु देश विरति
भणी आवे छे. जे सयमी असयमी अगर सयमासयमी नहीं कहेवाता
ओवा सिद्ध एवे अनन्तगणु छे तेमनी अपेक्षाओ असयमी एव अनन्त
गणु छे, केमके वनस्पति कायिक एव सिद्धोथी अनन्त गणु छे अने ते
अधा असयमी छे

भारतु सयतद्वार समाप्त ॥ १७ ॥

विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा अणागारोव-
उत्ता, सागारोवउत्ता संखेज्जगुणा, दारं १३ ॥सु० १८॥

छाया-एतेषां खलु भदन्त ! जीवानां साकारोपयुक्तानाम्, अनाकारोपयुक्तानाञ्च
कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्व-
स्तोकाः जीवाः अनाकारोपयुक्ताः, साकारोपयुक्ताः, संख्येयगुणाः, द्वारम् ॥१३॥

टीका-अथोपयोगद्वारमधिकृत्य जीवालपवहुत्व प्ररूपयति-‘एएसि ण भंते !
जीवाणं’ हे भदन्त ! एतेषां खलु जीवानां ‘सागारोवउत्ताणं’ साकारोपयुक्तानाम्
-साकारोपयोगानाम् ‘अणागारोव उत्ताण’ अनाकारोपयुक्तानाञ्च मध्ये ‘कयरे-

उपयोगद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ-(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (जीवाणं) जीवों
(सागारोवउत्ताणं) साकारोपयोग वाले (अणागारोवउत्ताण य) और
अनाकारोपयोग वाले में (कयरे कयरेहिंते) कौन किससे (अप्पा वा
बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेष-
षाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा अणागारोवउत्ता)
सब से कम अनाकारोपयोग वाले हैं (सागारोवउत्ता संखेज्जगुणा)
साकार उपयोग वाले संख्यातगुणा हैं ।

टीकार्थ-अब उपयोग की अपेक्षा से जीवों के अल्पबहुत्व का
प्रतिपादन किया जाता है-

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं-हे भगवन् ! इन साकारोपयोग
अर्थात् ज्ञानोपयोग वाले तथा अनाकारोपयोग अर्थात् दर्शनोपयोग

उपयोग द्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ-(एएसिणं भंते !) हे भगवन् आ (जीवाण) एवे (सागारोव-
उत्ताण) साकारोपयोग वाणा (अणागारोवउत्ताण य) अने अनाकारोपयोगवाणा-
ओभा (कयरे कयरेहिंते) कोथु कोनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसे-
साहिया वा ?) अल्प, धणु तुत्थ अगार विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम (सव्वत्थोवा जीवा अणागारोवउत्ता) हे गौतम !
अधाथी ओछा अनाकारोपयोगवाणा एवे छे (सागारोवउत्ता संखेज्जगुणा) साकार
उपयोगवाणा सख्यातगणु छे

टीकार्थ- इवे उपयोगनी अपेक्षाओ एवेना अल्प बहुत्वु प्रतिपादन
कराय छे

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे-हे भगवन् ! आ साकारोपयोग अर्थात्
ज्ञानोपयोग वाणा तथा अनाकारोपयोग अर्थात् दर्शनोपयोगवाणा एवेभाथी

क्यरेहिंतो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्या वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति - गौयमा !' हे गौतम ! 'सव्वत्थोवा जीवा अणागारोवउत्ता' सर्वस्तोकाः- सर्वेभ्योऽल्पाः जीवाः अनाकारोपयुक्ताः भवन्ति, अनाकारोपयोगकालस्य सर्वेभ्योऽल्पत्वात् अनाकारोपयोगोपयुक्तानामपि सर्वस्तोकत्तम् प्रश्नकाले तेषां स्तोक्रानामेरोपलब्धेः 'सागारोवउत्ता सखेज्जगुणा' साकारोपयुक्ताः सख्येयगुणाः, भवन्ति साकारोपयोगकालस्य दीर्घत्वेन प्रश्नकाले तेषां वहूनामुपलब्धेः 'दार' त्रयोदशम् उपोगद्वार समाप्तम् ॥सू० १८॥

आहारद्वार वक्तव्यता-

मूलम्-एएसि णं भंते ! जीवाणं आहारगाणं अणाहारगाण य क्यरे क्यरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गौयमा ! सव्वत्थोवा जीवा अणाहारगा आहारगा असंखेज्जगुणा, दारं १४ ॥सू० १९॥

छाया-एतेषां खलु भदन्त ! जीवानाम् आहारकाणाम्, अनाहारकाणाश्च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! वाले जीवों में से कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं-हे गौतम ! सब से कम जीव अनाकारोपयोग वाले हैं, क्योंकि अनाकार उपयोग का समय अल्प है, अतएव अनाकारोपयोग से उपयुक्त जीव भी अल्प ही हैं। प्रश्न के समय वे थोड़े ही पाये जाते हैं। उनकी अपेक्षा साकार उपयोग वाले अर्थात् ज्ञानोपयोग से उपयुक्त जीव संख्यातगुणा हैं, क्योंकि साकार उपयोग का काल लम्बा होता है, अतएव प्रश्न काल में वे बहुत पाये जाते हैं। तेरहवां उपयोगद्वार समाप्त ॥१८॥

कौषुडोनाथी अल्प, धण्डा, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे-हे गौतम ! जथाथी ज्योछा एव अनाकारोपयोग वाणा छे, केमके अनाकारने समय अल्प छे, तेथीअ अनाकारोपयोगथी उपयुक्त एव पण्ड अल्प न छे प्रश्नना समये तेज्जो थोडा न मणी आवे छे. तेमनी अपेक्षाज्जे साकार उपयोग वाणा अर्थात् ज्ञानोपयोगथी उपयुक्त एव सख्यात गण्डा छे, केमके साकार उपयोगने काल लामो डोय छे, तेथीअ प्रश्नकालमा तेज्जो धण्डा मणी आवे छे

तेरथु उपयोग द्वार समाप्त ॥ १८ ॥

त्रिसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा अणागारोव-
उत्ता, सागारोवउत्ता संखेज्जगुणा, दारं १३ ॥सू० १८॥

छाया-एतेषां खलु भदन्त ! जीवाना साकारोपयुक्तानाम्, अनाकारोपयुक्तानाञ्च
कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्व-
स्तोकाः जीवाः अनाकारोपयुक्ताः, साकारोपयुक्ताः, संख्येयगुणाः, द्वारम् ॥१३॥

टीका-अथोपयोगद्वारमधिकृत्य जीवालपबहुत्व प्ररूपयति-‘एएसि णं भंते !
जीवाणं’ हे भदन्त ! एतेषा खलु जीवानां ‘सागारोवउत्ताणं’ साकारोपयुक्तानाम्
-साकारोपयोगानाम् ‘अणागारोव उत्ताण’ अनाकारोपयुक्तानाञ्च मध्ये ‘कयरे-

उपयोगद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ-(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (जीवाणं) जीवों
(सागारोवउत्ताणं) साकारोपयोग वाले (अणागारोवउत्ताण य) और
अनाकारोपयोग वाले में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा
बहुया वा तुल्ला वा त्रिसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेष-
ाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा अणागारोवउत्ता)
सब से कम अनाकारोपयोग वाले हैं (सागारोवउत्ता संखेज्जगुणा)
साकार उपयोग वाले संख्यातगुणा हैं ।

टीकार्थ-अब उपयोग की अपेक्षा से जीवों के अल्पबहुत्व का
प्रतिपादन किया जाता है-

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं-हे भगवन् ! इन साकारोपयोग
अर्थात् ज्ञानोपयोग वाले तथा अनाकारोपयोग अर्थात् दर्शनोपयोग

उपयोग द्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ- (एएसिणं भंते !) हे भगवन् आ (जीवाण) एवे (सागारोव-
उत्ताणं) साकारोपयोग वाणा (अणागारोवउत्ताण य) अने अनाकारोपयोगवाणा-
ओभा (कयरे कयरेहिंतो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा त्रिसे-
साहिया वा ?) अल्प, धणा तुस्य अगार विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम (सव्वत्थोवा जीवा अणागारोवउत्ता) हे गौतम !
अधाथी ओछा अनाकारोपयोगवाणा एवे छे (सागारोवउत्ता संखेज्जगुणा) साकार
उपयोगवाणा संख्यातगणु छे

टीकार्थ- दुवे उपयोगनी अपेक्षाओ एवेना अल्प गडुत्वतु प्रतिपादन
कराय छे

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे-हे भगवन् ! आ साकारोपयोग अर्थात्
ज्ञानोपयोग वाणा तथा अनाकारोपयोग अर्थात् दर्शनोपयोगवाणा एवेभाथी

कयरेहिंतो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्या वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति - गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्वत्थोवा जीवा अणागारोवउत्ता' सर्वस्तोकाः- सर्वेभ्योऽल्पाः जीवाः अनाकारोपयुक्ताः भवन्ति, अनाकारोपयोगकालस्य सर्वेभ्योऽल्पत्वात् अनाकारोपयोगोपयुक्तानामपि सर्वस्तोक्तत्वम् प्रश्नकाले तेषां स्तोक्रानामेवोपलब्धेः 'सागारोवउत्ता सखेज्जगुणा' साकारोपयुक्ताः सख्येयगुणाः, भवन्ति साकारोपयोगकालस्य दीर्घत्वेन प्रश्नकाले तेषां बहूनामुपलब्धेः 'दार' त्रयोदशम् उपयोगद्वार समाप्तम् ॥६० १८॥

आहारद्वार वक्तव्यता-

मूलम्-एएसि णं भंते ! जीवाणं आहारगाणं अणाहारगाणं य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्या वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा अणाहारगा आहारगा असंखेज्जगुणा, दारं १४ ॥सू० १९॥

छाया-एतेषां खलु भदन्त ! जीवानाम् आहारकाणाम्, अनाहारकाणाञ्च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! वाले जीवों में से कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं-हे गौतम ! सब से कम जीव अनाकारोपयोग वाले हैं, क्योंकि अनाकार उपयोग का समय अल्प है, अतएव अनाकारोपयोग से उपयुक्त जीव भी अल्प ही हैं। प्रश्न के समय वे थोड़े ही पाये जाते हैं। उनकी अपेक्षा साकार उपयोग वाले अर्थात् ज्ञानोपयोग से उपयुक्त जीव संख्यातगुणा हैं, क्योंकि साकार उपयोग का काल लम्बा होता है, अतएव प्रश्न काल में वे बहुत पाये जाते हैं। तेरहवां उपयोगद्वार समाप्त ॥१८॥

डोणुडोनाथी अल्प, धल्ला, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे-हे गौतम ! अधाथी ओछा एव अनाका रोपयोग वाणा छे, डेभके अनाकारनेा समय अल्प छे, तेथीज्ज अनाकारोपयोगथी उपयुक्त एव पणु अल्प न छे. प्रश्नना समये तेओ थोडा न मणी आवे छे. तेमनी अपेक्षाओ साकार उपयोग वाणा अर्थात् ज्ञानोपयोगथी उपयुक्त एव संख्यात गणुा छे, डेभके साकार उपयोगनेा काल लामेा होय छे, तेथीज्ज प्रश्नकालमा तेओ धल्ला मणी आवे छे

तेरसु उपयोग द्वार समाप्त ॥ १८ ॥

સર્વસ્તોકા જીવાઃ અનાહારકાઃ, આહારકા અસંખ્યેયગુણાઃ, ડારમ્ ૧૪।૨૦ ૧૯।

ટીકા-અનાહારકદ્વારમચિકૃત્યાહ-‘एएसि णं भते ! जीवाण’ गौतमः पृच्छति-हे भदन्त ! एतेषां सख जीवानां ‘आहारगणं’ आहारकाणाम् ‘अणाहारगण य’ अनाहारकाणाञ्च मभ्ये ‘कयरे कयरेहितो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति-‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘सव्वत्थोवा जीवा अणाहारगा’ सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः, जीवाः अनाहारका भवन्ति

આહારદ્વાર વક્તવ્યતા-

શબ્દાર્થ-(एएसि णं भते !) हे भगवन् ! इन (जीवाणं) जीवों आहारगणं अणाहारगण य) आहारकों और अनाहारकों में (कयरे कयरेहितो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा अणाहारगा) सब से कम जीव अनाहारक हैं (अहारगा असंखेज्जगुणा) आहारक असंख्यातगुणा हैं ।

ટીકાર્થ-અવ આહારદ્વાર કી અપેક્ષા અલ્પવહુત્વ પ્રરૂપિત કરતે હૈ- શ્રી ગૌતમ સ્વામી ને પ્રશ્ન કિયા-હે ભગવન્ ! इन आहारक और अनाहारक जीवों में से कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ? भगवान् ने उत्तर दिया-हे गौतम ! सब से कम जीव अनाहारक हैं, क्योंकि सिद्ध तथा विग्रहगति वाले जीव ही अनाहा-

આહાર દ્વાર વક્તવ્યતા

શબ્દાર્થ-(एएसि णं भते !) ભગવન્ આ (जीवाण) एवेना (आहारगण अणाहारगण य) આહારકો અને અનાહારકોમા (कयरे कयरेहितो) કોણ કોનાથી (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) અલ્પ, ઘણા, તુલ્ય અગર-વિશેષાધિક છે ?

(गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा अणाहारगा) બધાથી ઓછા એવ અનાહારક છે (आहारगा असंखेज्जगुणा) આહારક અસંખ્યાત ગણા છે

ટીકાર્થ-હવે આહાર દ્વારની અપેક્ષાએ અલ્પ વહુત્વ પ્રરૂપિત કરે છે શ્રીગૌતમસ્વામીએ પ્રશ્ન કર્યો -હે ભગવન્ ! આ આહારક અને અનાહારક એવામાંથી કોણ કોની અપેક્ષાએ અલ્પ, ઘણા, તુલ્ય અથવા વિશેષાધિક છે ?

શ્રી ભગવાને ઉત્તર આપ્યો:-હે ગૌતમ ! બધાથી ઓછા એવ અનાહારક છે, કેમકે સિદ્ધ તથા વિગ્રહગતિ વાળા એવ એ અનાહારક હોય છે. કહ્યું

सिद्धविग्रहगत्यापन्नादीनामेवानाहारकत्वात्, तथाचोक्तम्—

‘विग्रहगद्मावन्ना केवलिनो समुहया अयोगी य । सिद्धा य अणाहारा
सेसा आहारगा जीवा’ ॥१॥ विग्रहगतिमापन्नाः केवलिनः समुद्धताश्चायोगिनिश्च ।
सिद्धाश्चानाहाराः शेषा आहारका जीवाः ॥१॥ इति, तेभ्यः अनाहारकेभ्यः
‘आहारगा असंखेज्जगुणा’ आहारका जीवा असंख्येयगुणा भवन्ति, अथ वनस्पति
कायिकानामाहारकाणां सिद्धेभ्योऽनन्तत्वात् कथं तेषां नानन्तगुणत्वमिति इति-
चेत्रोच्यते—सूक्ष्मनिगोदानां सर्वसंख्ययाप्यसंख्येयतया अन्तर्मुहूर्त समयराशि
तुल्यतया च सर्वकालं विग्रहावस्थायित्वोपलब्धेरनाहारकाणामपि अति बहुत्वेन
समस्तजीवराश्यसंख्येयभागतुल्यत्वात् तदपेक्षया आहारकाणामसंख्येयगुणत्वमेव
नानन्तगुणत्वमिति भावः, ‘दारं’ चतुर्दशम् आहारदारं समाप्तम् ॥सू० १९॥

रक होते हैं । कहा भी हैं—‘विग्रहगति करते हुए जीव, समुद्धात
प्राप्त केवली और सिद्ध अनाहारक होते हैं । इनके सिवाय सभी
जीव आहारक हैं । अनाहारकों की अपेक्षा आहारक जीव असंख्यात
गुणा हैं । यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि वनस्पतिकायिक आहार-
रक जीव सिद्धों से अनन्तगुणा हैं, अतएव आहारक अनन्तगुणा क्यों
नहीं कहे गए ? उत्तर—सूक्ष्म निगोद सब मिल कर भी असंख्यात हैं
और अन्तर्मुहूर्त की समयराशि के बराबर हैं, वे सर्वकाल में विग्रह-
गति प्राप्त रहते हैं, अतएव उनमें अनाहारक भी बहुत अधिक होते
हैं, सम्पूर्ण जीव राशि के असंख्यातवे भाग के बराबर होते हैं, अतः
उनकी अपेक्षा आहारक जीव असंख्यातगुणा ही हैं, अनन्तगुणा नहीं
हैं । चौदहवां आहारदार समाप्त ॥१९॥

पशु छे—विग्रह गति करी रहेला एव, समुद्धात प्राप्त केवली अने सिद्ध
अनाहारक छाय छे, तेभना सिवाय भधा एव आहारक छे. अनाहारकेनी
अपेक्षाये आहारक एव असंख्यातगुणा छे. अहि प्रश्न करी शक्य के
वनस्पतिकायिक आहारक एव सिद्धोथी अनन्त गुणा छे, तेथीए आहारक
अनन्तगुणा केम नथी कहेला ? उत्तर—सूक्ष्म निगोद भधा मणीने पशु
असंख्यात छे अने अन्तर्मुहूर्तनी समय राशिना परापर छे, तेथी
भधा काणमा विग्रह गति प्राप्त रहे छे, तेथीए तेथीमा अनाहारक पशु धणु
अधिक छाय छे, सम्पूर्ण एवराशिना असंख्यातमा लागना परापर थाय छे,
तेथी तेथीनी अपेक्षाये आहारक एव असंख्यात गुणा ए छे अनन्त गुणा
हाता नथी. चौदसु आहार दार समाप्त ॥ १६ ॥

भाषकद्वारवक्तव्यता-

मूलम्—एएसि णं भंते ! जीवाणं भासगाणं अभासगाण
य कयरे कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसा-
हिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा भासगा, अभासगा
अणंतगुणा, दारं १५ ॥सू० २०॥

छाया—एतेपां सल्ल भदन्त ! जीवानां भाषकाणाम्, अभाषकाणाञ्च कतरे
कतरेभ्यः अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः
जीवाः भाषकाः, अभाषकाः अनन्तगुणाः, द्वारम् ॥१५॥सू० २०॥

टीका—अथ भाषकद्वारमधिकृत्य जीवालपबहुत्वादिकं प्ररूपयितुमाह—‘एएसि
णं भंते ! जीवाणं’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतेपां सल्ल जीवानां ‘भासगाणं’
भाषकाणाम्, ‘अभासगाणय’ अभाषकाणाञ्च मध्ये ‘कयरे कयरेहितो’ कतरे कतरे
भ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा?’ अल्पा वा, बहुका वा,

भाषकद्वार वक्तव्यता-

शब्दार्थ—(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (जीवाणं भासगाणं
अभासगाण य) भाषकों और अभाषकों में से (कयरे कयरेहितो)
कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प
बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा
जीवा भासगा) सब से कम जीव भाषक हैं (अभासगा अणंतगुणा)
अभाषक अनन्तगुणा हैं ।

टीकार्थ—अथ भाषकद्वार की अपेक्षा से जीवों का अल्पबहुत्व
कहते हैं—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन भाषक और
अभाषक जीवों में से कौन किसकी अपेक्षा अल्प, बहुत, तुल्य अथवा

भाषक द्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! आ (जीवाणं भासगाणं अभास
गाण य) भाषकों अने अभाषकों (कयरे कयरेहितो) के लिये कौन (अप्पा
वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धृष्ट, तुल्य अथवा तो
विशेषाधिक है ?

(गोयमा) गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा भासगा) यथाथी ओथा एव
भाषक है (अभासगा अणंत गुणा) अभाषक अनन्तगुणा है ?

टीकार्थ—इसे भाषक द्वारकी अपेक्षासे एतेना अल्प बहुत्वेने कहे है

तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा’ हे गौतम !
 ‘सव्वत्थोवा जीवा भासगा’ सर्वस्तोकाः सर्वेभ्योऽल्पाः’ जीवाः भाषका, भाषा-
 लब्धिविशिष्टा भवन्ति, द्वीन्द्रियादीनामेव भाषकत्वात्, तदपेक्षया ‘अभासगा
 अणंतगुणा’ अभाषकाः—भाषालब्धिविकलाः जीवाः अनन्तगुणा भवन्ति, वनस्पति
 कायिकानामनन्तत्वात्, ‘दारं’ इति पञ्चदशम् भाषकद्वारं समाप्तम् ॥ सू० २० ॥

परीतद्वार वक्तव्यता—

मूलम्—एएसि णं भंते ! जीवाणं परीत्ताणं अपरीत्ताणं नो
 परीत्ता नो अपरीत्ताण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया
 वा तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा
 परीत्ता, नो परीत्ता नो अपरीत्ता अणंतगुणा, अपरीत्ता अणं-
 तगुणा, दारं १६ ॥सू० २१॥

छाया—एतेषां खलु भदन्त ! जीवानां परीतानाम् अपरीतानाम् नो परीत
 नोऽपरीतानाञ्च कतरे कतरेभ्योल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ?
 विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सबसे कम जीव
 भाषक अर्थात् भाषा लब्धि से सम्पन्न हैं । उनकी अपेक्षा अभाषक
 अनन्तगुणा हैं, क्यों कि वनस्पतिकायिक अनन्त हैं और वे सभी
 अभाषक हैं । पन्द्रहवां भाषकद्वार समाप्त ॥२१॥

परीतद्वार वक्तव्यता—

शब्दार्थ—(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (जीवाणं परित्ताणं
 अपरित्ताणं नो परित्ता नो अपरित्ताण य) परीत, अपरीत और नो
 परीत नो अपरीत जीवों में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा
 वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे—डे भगवन् ! आ भाषक अने अभाषक
 लयोभा कोषु कोनाथी अल्प, धण्णा, तुल्य के विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—डे गौतम ! अधाथी ओछा लव भाषक
 अर्थात् भाषा लब्धिथी स पन्न छे तेमनी अपेक्षाये अभाषक अनन्तगण्णा
 छे, केमके वनस्पतिकायिक अनन्त छे अने तेओ अधा अभाषक छे

प द्दरमु भाषक द्वार समाप्त ॥ २१ ॥

परीत द्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसिण भंते) डे भगवन् ! आ (जीवाण, परित्ताण अपरित्ताण
 नो परित्ता नो अपरित्ताण य) परीत, अपरीत अने नो परीत नो अपरीत
 प्र० २२

गौतम ! सर्वस्तोकाः जीवाः परीताः, नो परीत नोऽपरीताः अनन्तगुणाः, अपरीता अनन्तगुणाः द्वारम् १६ ॥ सू० २१ ॥

टीकां—अथ परीतादि द्वारमधिकृत्य जीवालपबहुत्वादिकं प्ररूपयितुमाह—
'एषसि णं भंते ! जीवाणं परीत्ताणं' गौतमः पृच्छति हे भदन्त ! एतेषां खलु जीवानां परीतानाम्—शुक्लपाक्षिकाणाम्, प्रत्येकशरीरिणाञ्च, 'अपरीत्ताणं' अपरीतानाम्—कृष्णपाक्षिकानाम्, साधारणवनस्पतीनाञ्च, नो परीत्ता नो अपरीत्ताण य' नो परीत नोऽपरीतानाञ्च—सिद्धानाम् मध्ये 'कयरे कयरेहि तो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा ! हे गौतम ! 'सव्वत्थोवा जीवा परीत्ता' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, जीवाः परीताः

विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा परित्ता) सबसे कम परीत जीव हैं (नो परित्ता नो अपरित्ता अणतगुणा) नो परीत—नो अपरीत अनन्तगुणा है (अपरीता अणतगुणा) अपरीत जीव अनन्तगुणा है ॥२१॥

टीकार्थ—अब परीतद्वार की अपेक्षा जीवों के अल्पबहुत्व का कथन करते हैं—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन परीत जीवों अर्थात् शुक्ल पाक्षिकों तथा प्रत्येक शरीर वालों, अपरीत जीवों अर्थात् कृष्णपाक्षियों तथा साधारण वनस्पति के जीवों एवं नो परीत नो अपरीत अर्थात् सिद्धों में से कौन किसकी अपेक्षा अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवात् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! परीत जीव सबसे कम हैं, दायों कि जिन जीवों ने संसार को परिमित कर

एवेमा (कयरे कयरेहि तो) डोणु डेनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धणु, तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

(गोयमा) छे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा परित्ता) षधाथी ओछा परीत एव छे (नो परित्ता नो अपरित्ता अणतगुणा) नो परीत नो अपरीत अनन्त गणु छे (अपरीता अणतगुणा) अपरीत एव अनन्त गणु छे

टीकार्थ—छवे परीत द्वारनी अपेक्षाओ एवेमा अल्प बहुत्वनु कथन करे छे—श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—छे भगवन् ! आ परीत एवे अर्थात् शुक्ल पाक्षिके तथा प्रत्येक शरीरवाणा 'अपरीत एवे अर्थात् कृष्णपाक्षिके तथा साधारण वनस्पतिना एवे तेमञ्च नो परीत नो अपरीत अर्थात् सिद्धोमाथी डोणु डेनी अपेक्षाओ अल्प, धणु, तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

शुक्लपाक्षिकरूपभवपरीताः, प्रत्येक शरीररूपकायपरीताश्च भवन्ति, शुक्लपाक्षिकाणां भवपरीतानां, प्रत्येक शरीरिणाश्च कायपरीतानाम् सङ्गजीवापेक्षयाऽत्यल्पत्वात्, तेभ्यः—‘नो परीता नो अपरीता अणंतगुणा’ नो परीत नोऽपरीताः उभयप्रतिषेधविशिष्टाः सिद्धाः अनन्तगुणा भवन्ति, सिद्धानामेवोभयप्रतिषेधविशिष्टत्वात् अनन्तत्वाच्च, तेभ्योऽपि सिद्धेभ्यः ‘अपरीता अणंतगुणा’ अपरीताः कृष्णपाक्षिकाः साधारणवनस्पतयश्च अनन्तगुणा भवन्ति तदुभयेपाम् अपरीतानां सिद्धेभ्योऽपि अनन्तगुणत्वात्, इति ‘दारं’ षोडशम् परीतद्वारम् समाप्तम् ॥ ६० २१ ॥

पर्याप्तकद्वारवक्तव्यता

मूलम्—एएसि णं भंते ! जीवाणं पज्जत्ताणं अपज्जत्ताणं नो पज्जत्ता नो अपज्जत्ताण य कथरे कथरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, त्रिसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा नो पज्जत्ता नो अपज्जत्तगा, अपज्जत्तगा अणंतगुणा, पज्जत्तगा संखिज्जगुणा, दारं १७ ॥सू० २१॥

छाया—एतेषां खलु भदन्त ! जीवानां पर्याप्तकानाम्, अपर्याप्तकानां नो पर्याप्तनोऽपर्याप्तकानाश्च कतरे कदरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेष-
दिया है और जो प्रत्येक शरीर हैं, वे सकल जीवो की अपेक्षा अत्यन्त अल्प हैं । जो परीत भी नहीं और अपरीत भी नहीं हैं, ऐसे सिद्ध जीव उनसे अनन्त गुणा हैं और उनकी अपेक्षा भी अपरीत अर्थात् कृष्ण-
पाक्षिक तथा साधारण वनस्पति के जीव अनन्तगुणा हैं; क्योंकि ये दोनो मिल कर सिद्धो से अनन्तगुणा हैं १६वां परीतद्वार समाप्त ॥ २१ ॥

पर्याप्तकद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (जीवाणं पज्जत्ताणं

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! परीत एव गधाथी ज्योछा छे केमके जे एवोये स सारने परिमित करी दीधे छे अने जे प्रत्येक शरीर छे तेज्यो सक्क एवोनी अपेक्षाये अत्यन्त थोडा छे जेज्यो परीत पणु नथी अने अपरीत पणु नही जेम होय छे जेवा सिद्ध एव तेमनाथी अनन्त गणु छे अने तेमनी अपेक्षाये पणु अपरीत अर्थात् कृष्णपाक्षिक तथा साधारण वनस्पतिना एव अनन्त गणु छे, केमके ते जन्ने मणीने सिद्धोथी अनन्त गणु छे. सोणमुं परीत द्वार समाप्त ॥ २१ ॥

पर्याप्तक द्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसिण भंते !) हे भगवन् ! आ (जीवाणं पज्जत्ताणं अपज्ज-

षाधिका वा ? गौतम ! सर्वास्त्रोक्ताः जीवाः नो पर्याप्तका नोऽपर्याप्तकाः, अनन्त-
गुणाः, पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः, द्वारम् १७ ॥३०॥ २२॥

टीका—अथ पर्याप्तकद्वारमधिकृत्य जीवालपत्ववहुत्वादिकं प्ररूपयितुमाह—‘एष-
सिणं भंते ! जीवाणं’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतेषां खलु जीवानाम्
‘पञ्जत्ताणं’ पर्याप्तकानाम्, ‘अपञ्जत्ताणं’ अपर्याप्तकानाम्, ‘नो पञ्जत्ता नो अपञ्ज-
त्ताण य’ नो पर्याप्तक नोऽपर्याप्तकाना च मध्ये ‘कयरे कयरेहितो’ कतरे कतरेभ्यः,
‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? अल्पा वा, बहुका वा,
तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम !

अपञ्जत्तार्णं नो पञ्जत्ता नो अपञ्जत्ताण य) पर्याप्त, अपर्याप्त और नो
पर्याप्त नो अपर्याप्त जीवों में (कयरे कयरेहितो) कौन किससे (अप्पा
वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य अथवा
विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा नो पञ्जत्ता
नो अपञ्जत्तगा) सब से कम नो पर्याप्त—नो अपर्याप्त जीव हैं (अपञ्ज-
त्तगा अणतगुणा) अपर्याप्तक अनन्तगुणा हैं (पञ्जत्ता संखिज्जगुणा)
पर्याप्तक संख्यात गुणा हैं ॥२२॥

टीकार्थ—अब पर्याप्तक द्वार की अपेक्षा जीवों के अल्पबहुत्व का
प्रतिपादन किया जाता है—

श्री गौ स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन पर्याप्त, अप-
र्याप्त और नो पर्याप्त—नो अपर्याप्त जीवों में से कौन किसकी अपेक्षा
अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—

त्तार्णं नो पञ्जत्ता नो अपञ्जत्ताण य) पर्याप्त, अपर्याप्त, अने न पर्याप्त के न
अपर्याप्त एवेमा (कयरे कयरेहितो) कोषु कोनाथी (अप्पा वा बहुया वा
तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, धञ्जा तुल्य अथवा विशेषाधिके छे ?

(गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा नो पञ्जत्ता नो अपञ्जत्ता)
अधाथी ओछा न पर्याप्त न अपर्याप्त एव छे (अपञ्जत्तगा अणतगुणा)
अपर्याप्तक अनन्त गण्ठा छे (पञ्जत्तगा संखिज्जगुणा) पर्याप्तक संख्यातगण्ठा छे
टीकार्थ—हुवे पर्याप्तक द्वारनी अपेक्षाये एवेमा अल्प बहुत्वतुं प्रति
पादन कराय छे

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे हे भगवन् ! आ पर्याप्त अपर्याप्त अने
न पर्याप्त—न अपर्याप्त एवेमाथी कोषु कोनी अपेक्षाये थोडा, धञ्जा तुल्य
अथवा विशेषाधिके छे ?

श्री भगवान् उत्तर आवे छे—गौतम ! अधाथी ओछा एव नोपर्याप्त

‘सव्यथोवा जीवा नो पज्जत्ता नो अपज्जत्तगा’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः जीवाः, नो पर्याप्तकनोऽपर्याप्तका सिद्धाः भवन्ति सिद्धानामेवोभयप्रतिपेधविशिष्टतया तेषाञ्चापर्याप्तकादिभ्यः सर्वालपत्वात्, तेभ्यः ‘अपज्जत्तगा अणंतगुणा’ अपर्याप्तकाः साधारण वनस्पतयोऽनन्तगुणा भवन्ति सिद्धेभ्योऽपि साधारणवनस्पतिकायिकानामन्तगुणानां सर्वकालमपर्याप्तत्वेनोपलभ्यमानत्वात्, तेभ्योऽपि—‘पज्जत्तगा संखिज्जगुणा’ पर्याप्तकाः सूक्ष्माः संख्येयगुणा भवन्ति, सर्वेभ्यो बहूना जीवानां सूक्ष्मतया सूक्ष्माणाञ्च सर्वकालम् अपर्याप्तकेभ्यः पर्याप्तकानां संख्येयगुणत्वात्, इति ‘दारं’ सप्तदशम् पर्याप्तकदारं समाप्तम् ॥ सू० २२ ॥

सूक्ष्मद्वारवक्तव्यता

मूलम्—एएसि णं भंते ! जीवाणं सुहुमाणं वायराणं, नो सुहुम नो वायराण य, कयरे कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्यथोवा जीवा नो सुहुमा नो वायरा वायरा अणंतगुणा, सुहुमा असंखेज्जगुणा दारं १८ ॥सू० २३॥

हे गौतम ! सब से कम जीव नो पर्याप्त—नो अपर्याप्त अर्थात् सिद्ध हैं, क्योंकि जो पर्याप्त भी नहीं और अपर्याप्त भी नहीं, ऐसे जीव सिद्ध ही हो सकते हैं और वे पर्याप्तों एवं अपर्याप्तों से कम हैं । उनकी अपेक्षा अपर्याप्तक जीव अनन्तगुणा हैं, क्योंकि साधारणवनस्पतिकाय के जीव अनन्त गुणा हैं और वे सदा अपर्याप्त बहुत ही पाये जाते हैं । उनकी अपेक्षा पर्याप्त जीव संख्यात गुणा हैं । १७वां पर्याप्तक द्वार समाप्त ॥२२॥

सूक्ष्मद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (जीवाणं सुहुमाणं वाय-

नो अपर्याप्त अर्थात् सिद्ध छे, केभके ने पर्याप्त पणु नडी अने अपर्याप्त पणु नडी ओवा एव सिद्ध न डोड शके छे अने ते पर्याप्त तेमन अपर्याप्तोथी ओछा छे तेमनी अपेक्षाओ अपर्याप्तक एव अनन्त गणु छे केभके साधारण वनस्पति कायना एव अनन्तगणु छे अने ते सदा अपर्याप्त धणु न मणी आवे छे तेमनी अपेक्षाओ पर्याप्त एव संख्यातगणु छे

सत्तरथु पर्याप्तक द्वार समाप्त ॥ २२ ॥

सूक्ष्म द्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसिण भंते) हे भगवन् ! आ (जीवाण सुहुमाण वायराण नो

छाया-एतेषां खलु भदन्त ! जीवानां सूक्ष्माणाम्, वादराणाम्, नो सूक्ष्मनो-
वादराणाञ्च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा
भवन्ति 'गौतम ! सर्वस्तोका जीवाः नो सूक्ष्म नो वादराः, वादराः अनन्तगुणाः,
सूक्ष्मा असंख्येयगुणाः, द्वारम् १८ ॥सू० २३॥

टीका-अथ सूक्ष्मद्वारमधिकृत्य जीवालपत्व बहुत्वादिकं प्ररूपयितुमाह-'एषि
षं भंते ! जीवाणं' गौतमः पृच्छति-हे भदन्त ! एतेषां खलु जीवानां 'सुहुमाणं'
सूक्ष्माणाम्, 'वायराणं' वादराणाम्, 'नो सुहुमनो वायराण य' नो सूक्ष्म नो वादरा-
णाञ्च सिद्धाना मध्ये 'कयरे कयरेहितो' कतरे कतरेभ्यः, 'अप्पा वा, बहुया वा,
तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा
भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति-'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्वत्थोवा जीवा नो

राणं नो सुहुम नो वायराण य) सूक्ष्म, वादर तथा नो सूक्ष्म-नो वादर
जीवों में (कयरे कयरेहितो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला
वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ?
(गोयमा) हे गौतम (सव्वत्थोवा जीवा नो सुहुमा नो वायरा) सबसे
कम जीव नो सूक्ष्म-नो वादर हैं (वायरा अणंतगुणा) वादर अनन्त-
गुणा हैं (सुहुमा असंख्येयगुणा) सूक्ष्म असंख्यात गुणा हैं ॥२३॥

टीकार्थ-अब सूक्ष्मद्वार की अपेक्षा जीवों के अल्पबहुत्व को कथन
करते हैं-

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं-हे भगवन् ! इन सूक्ष्म, वादर
तथा नो सूक्ष्म-नो वादर अर्थात् सिद्ध जीवों में से कौन किसकी
अपेक्षा अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते
हैं-गौतम ! सब से कम जीव नो सूक्ष्म-नो वादर हैं, क्योंकि ऐसे

सुहुम नो वायराण य) सूक्ष्म आदर तथा नो-सूक्ष्म नो आदर एवोभा
(कयरे कयरे हितो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया
वा) अल्प, धणु, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा नो सुहुमा नो वायरा) अधाथी
ओछा एव नो सूक्ष्म नो आदर छे (वायरा अणत गुणा) आदर अनन्त
गणु ते (सुहुमा असंख्येयगुणा) सूक्ष्म अम अथातगणु छे

डेवे सूक्ष्म द्वारनी अपेक्षाओ एवोना अल्प बहुत्वतु कथन करे छे

टीकार्थ-श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे हे भगवन् ! आ सूक्ष्म आदर
तथा नो सूक्ष्म, नो आदर अर्थात् सिद्ध एवोभाथी केणु केनी अपेक्षाओ अल्प,
धणु, तुल्य अगरे विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे-हे । गौतम अधाथी ओछा एव नोसूक्ष्म-

सुहुमानो वायरा' सर्वस्तोत्राः-सर्वेभ्योल्पाः, जीवाः नो सूक्ष्मानो वाद्राः सिद्धाः भवन्ति तेषां सूक्ष्मजीवराश्यपेक्षया वाद्राजीवराश्यपेक्षया चानन्तत्वात्, तेभ्यः 'वायरा अणंतगुणा' वाद्राः-स्थूला जीवाः, अनन्तगुणा भवन्ति, वादरनिगोद-जीवानां सिद्धेभ्योपि अनन्तगुणत्वात्, तेभ्योऽपि 'सुहुमा असंखेज्जगुणा' सूक्ष्माः जीवाः असंखेयगुणा भवन्ति, वादरनिगोदापेक्षया सूक्ष्मनिगोदानामसंख्यगुण-त्वात् इति 'दारं' अष्टादशम् सूक्ष्मद्वारं समाप्तम् ॥ सू० २३ ॥

संज्ञिद्वारवक्तव्यता-

मूलम्-एएसि णं भंते ! जीवानां सन्नीपां असन्नीपां, नो सण्णी नो असण्णीपां कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सवत्थोवा जीवा सण्णी, नो सण्णी नो असण्णी अणंतगुणा, असण्णी अणंतगुणा, दारं १९ ॥सू० २४॥

छाया-एतेषां खलु भदन्त ! जीवानां संज्ञिनाम्, असंज्ञिनाम्, नो संज्ञि-नोसंज्ञिना च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका जीव सिद्ध हैं और वे सूक्ष्म जीवराशि और वादर जीवराशि की अपेक्षा अनन्त हैं । वादर अर्थात् स्थूल जीव अनन्त गुणा हैं, क्योंकि वादर निगोद के जीव सिद्धों की अपेक्षा भी अनन्तगुणा अधिक हैं । वादर जीवों की अपेक्षा सूक्ष्म जीव असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि वादर निगोद की अपेक्षा सूक्ष्म निगोद जीव असंख्यात गुणा अधिक हैं । १८वां सूक्ष्म द्वार समाप्त ॥२३॥

संज्ञिद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ-(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (जीवाणं सन्नीपां, असन्नीपां, नो सण्णी नो असण्णीपां) संज्ञी, असंज्ञी और नो संज्ञी-

नोपादर छे केभके एवा एव सिद्ध छे अने ते सूक्ष्म एव राशि अने पादर राशिनी अपेक्षाअे अनन्त छे पादर अर्थात् स्थूल एव अनन्तगणु छे, केभके पादर निगोदना एव सिद्धीनी अपेक्षाअे पणु अनन्तगणु अधिक छे पादर एवानी अपेक्षाअे सूक्ष्म एव असंख्यातगणु छे केभके पादर निगोदनी अपेक्षाअे सूक्ष्म निगोद एव असंख्यातगणु अधिक छे. अदारसु सूक्ष्मद्वार समाप्त. ॥२३॥

संज्ञिद्वार वक्तव्यता.

शब्दार्थ-(एएसिणं भंते ?) छे भगवन् आ (जीवाण सन्नीपा, असन्नीपा नोसन्नी नोअसण्णीपा) स री अस री अने नोस री-नोअस री एवोभा

वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः जीवाः संज्ञिनः, नो संज्ञिनोऽसंज्ञिनः अनन्तगुणाः, असंज्ञि नोऽनन्तगुणाः, द्वारम् १९ ॥ सू० २४ ॥

टीका-अथ संज्ञिद्वारमधिकृत्य जीवाल्पबहुत्वादिकं प्ररूपयितुमाह-‘एएसिणं भंते ! जीवाणं’ गौतमः पृच्छति-हे भदन्त ! एतेषां खलु भदन्त ! जीवानाम् ‘सण्णीणं’ संज्ञिनाम् ‘असण्णीणं’ असंज्ञिनाम्, नो सण्णी नो असण्णीणं’ नो संज्ञिनो असंज्ञिनाम् च मध्ये ‘कयरे कयरेहिंतो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति-‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सन्वत्थोवा जीवा सण्णी’ सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः, जीवाः संज्ञिनो भवन्ति, समनस्कानामेव संज्ञित्वात्, तदपेक्षया-‘नो सण्णी नो असण्णी अणंतगुणा’ नो संज्ञिनोऽसंज्ञिनोऽनन्तगुणा भवन्ति, सिद्धानामेवोभयप्रतिषेधविशिष्टतया तेषां संज्ञिभ्योऽनन्तगुणत्वात्, नो असंज्ञी जीवों में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (सन्वत्थोवा जीवा सण्णी) सब से कम जीव संज्ञी हैं (नो सण्णी-नो असण्णी अणंतगुणा) नो संज्ञी नो असंज्ञी अनन्त गुणा हैं (असण्णी अणंतगुणा) असंज्ञी जीव अनन्त गुणा हैं ॥२४॥

टीकार्थ-अथ संज्ञीद्वार की अपेक्षा से जीवों का अल्पबहुत्व दिखलाते हैं-श्री गौतमस्वामी प्रश्न करते हैं-हे भगवन् ! इन संज्ञी, असंज्ञी और नो संज्ञी नो असंज्ञी जीवों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक है । श्री भगवान् उत्तर देते हैं- हे गौतम ! सब से कम जीव संज्ञी हैं, क्योंकि विशिष्ट मन वाले जीव ही संज्ञी कहलाते हैं और ऐसे जीव सब से कम हैं । संज्ञियों की अपेक्षा नो संज्ञी

(कयरे कयरेहिंतो) डोणु डोनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, धणु, तुत्थ अगार विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) डे गौतम ! (सन्वत्थोवा जीवा सण्णी) षधायी ओछा एव स संज्ञी छे (असण्णी अणंतगुणा) अम संज्ञी एव अनन्तगुणा छे

टीकार्थ-डवे स संज्ञी द्वारनी अपेक्षासे एवेतु अल्प बहुत्व देखाडे छे श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे-भगवन् ! आ स संज्ञी, अस संज्ञी अने नस संज्ञी न अस संज्ञी एवेमा डोणु डोनाथी अल्प, धणु, तुत्थ अथवा विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे-डे गौतम ! षधायी ओछा एव संज्ञी छे, डेमडे विशिष्ट मनवाणा एव न स संज्ञी कडेवाय छे अने ओवा एव

तेभ्योऽपि—‘असंज्ञी अणंतगुणा’ असंज्ञिनो वनस्पतिकारिकादयोऽनन्तगुणत्वात्, वनस्पतिकारिकानां सिद्धेभ्योऽनन्तगुणत्वात्, ‘जां’ इति एतन्नविशम् संज्ञिद्वारम् समाप्तम् ॥ सू० २४ ॥

भवसिद्धिकद्वारवक्तव्यता—

मूलम्—एएसि णं भंते ! जीवाणं भवसिद्धिघाणं, अभवसिद्धिघाणं, नो भवसिद्धिया नो अभवसिद्धिया ग य कयरे कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा अभवसिद्धिया, णो भवसिद्धिया णो अभवसिद्धिया अणंतगुणा, भवसिद्धिया अणंतगुणा, दां ० ॥ सू० २५ ॥

छाया—एतेषां खलु भदन्त ! जीवानां भवसिद्धिज्ञानाम्, अभवसिद्धिज्ञानाम्, नो भवसिद्धिक नोऽभवसिद्धिज्ञानाञ्च कतरे कतरेभ्योऽप्या वा, बहुया वा, तुल्या नो असंज्ञी अनन्त गुणा हैं, क्योंकि ऐसे जीव सिद्ध हैं और वे संज्ञियों की अपेक्षा अनन्तगुणा हैं । उनकी अपेक्षा भी असंज्ञी जीव अनन्तगुणा हैं, क्योंकि वनस्पतिकारिक आदि जीव अनन्तगुणा हैं और वे सब सिद्धों से भी अनन्तगुणा हैं । १९वां संज्ञिद्वार समाप्त ॥ २४ ॥

भवसिद्धिकद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (जीवाणं भवसिद्धिघाणं अभवसिद्धिघाणं नो भवसिद्धिय नो अभवसिद्धियाण य) भवसिद्धिको, अभवसिद्धिको तथा नो भवसिद्धिक-नो अभवसिद्धिको में (कयरे कयरेहितो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

अथानी ओछा छे सज्ञियोनी अपेक्षाये नसज्ञी-न असज्ञी अनन्तगुणा छे, केमके ओवा एव सिद्ध छे अने तेओ सज्ञियोनी अपेक्षाये अनन्त गणुा छे, तेमनी अपेक्षाये पणु असज्ञी एव अनन्तगणुा छे, केमके वनस्पतिकारिक आदि एव अनन्त गणुा छे अने तेओ अथा सिद्धोधी पणु अनन्त गणुा अधिक छे ओगणुासयु सज्ञिद्वार समाप्त ॥ २४ ॥

भवसिद्धिद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसिणं भंते !) हे भगवान् ! आ (जीवाणं भवसिद्धिघाणं अभवसिद्धिघाणं नो भवसिद्धिय नो अभवसिद्धियाण य) भवसिद्धिको, अभवसिद्धिको, तथा नो भवसिद्धिक-नो अभवसिद्धिकोमा (कयरे कयरेहितो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धणुा, तुल्य के विशेषाधिक छे ?

वा, विशेषाधिका वा? गौतम ! सर्वस्तोकाः जीवाः अभवसिद्धिकाः, नो भवसिद्धिकनोऽभवसिद्धिकाः अनन्तगुणा भवसिद्धिका अनन्तगुणाः, द्वारम् २० ॥ सू० २५ ॥

टीका—अथ भवसिद्धिकद्वारमधिकृत्य जीवाल्यवहुत्वादिर्कं प्ररूपयितुमाह—
'एएसिणं भंते ! जीवाणं' गौतमः पृच्छति-हे-भदन्त ! एतेषां खलु जीवानाम्
'भवसिद्धियाणं' भवसिद्धिकानाम् भवे सिद्धिर्येषां ते भवसिद्धिकास्तेषां, तस्मिन्
भवे भवान्तरे वा युक्तिगामिनाम् 'अभवसिद्धियाणं' अभवसिद्धिकानाम्, 'नो
भवसिद्धिया नो अभवसिद्धियाण य' नो भवसिद्धिक नोऽभवसिद्धिकानाञ्च सिद्धा
नां मध्ये 'कयरे कयरेहिंतो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा,
विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ?
भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्वत्थोवा जीवा अभवसिद्धिया'
सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः जीवाः अभवसिद्धिकाः—अभव्याः भवन्ति, तेषां
जघन्ययुक्तानन्तकपरिमाणत्वात्, तथा चोक्तमनुयोगद्वारे—

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा अभवसिद्धिया) अभवसिद्धिक
जीव सबसे कम हैं (णोभवसिद्धिया णोअभवसिद्धिया अणंतगुणा) नो
भवसिद्धिकनो अभवसिद्धिक अनन्तगुणा हैं (भवसिद्धिया अणंत-
गुणा) भवसिद्धिक अनन्तगुणा हैं ॥२५॥

अब भवसिद्धिकद्वार की अपेक्षा जीवों का अल्पबहुत्व कहते हैं—
टीकार्थ—श्री गौतम प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन भवसिद्धिकों
अर्थात् मोक्षगमन के योग्य-अव्य जीवों, अभवसिद्धिकों अर्थात्
मोक्षगमन के अयोग्य जीवों तथा नो भवसिद्धिक-नो अभवसिद्धिकों
अर्थात् सिद्ध जीवों में से कौन किसकी अपेक्षा अल्प, बहुत, तुल्य या
विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सबसे कम जीव

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा अभवसिद्धिया) अलवसिद्धिक
एव सौथी ओछा छे (णोभवसिद्धिया णो अभवसिद्धिया अणंतगुणा) नो अल-
सिद्धिक नो अलवसिद्धिक अनन्त गणु छे, (भवसिद्धिया अणंतगुणा)
अलसिद्धिक अनन्तगणु छे. ॥२५॥

टीकार्थ—हुवे अलसिद्धिकद्वारनी अपेक्षाअे एवेणु अल्प अहुत्व कडेवामा
आवे छे, ओ स अथमा गौतम स्वामी श्री कडे छे के-डे अणवन् आ अल-
सिद्धिके अर्थात् मोक्ष गमन योग्य-अव्य एवे अलवसिद्धिके मोक्ष गमनने
अयोग्य एवे तथा नो अलसिद्धिक-नो अलवसिद्धिके अर्थात् सिद्धएवेमाथी
डेणु डेनाथी अल्प, धणु, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आवे छे.—गौतम ! अथथी ओछा एव अलवसिद्धिक

“उक्तोसए परिचाणंतए रूवे पक्खित्ते जहन्नयं जुत्ताणंतयं होइ, अभवसिद्धियावि तत्तिया चैव” इति, उत्कृष्टेन परीतानन्तके रूपे प्रक्षिप्ते जघन्ययुक्तानन्तकं भवति, अभवसिद्धिकाश्चापि तृतीयाश्चैव” इति, तेभ्यः ‘नो भवसिद्धिया नो भवसिद्धिया अंगंतगुणा’ नो भवसिद्धिरु नोऽभवसिद्धिका अनन्तगुणा भवन्ति, सिद्धानामेव तदुभयप्रतिषेधविशिष्टतया तेषाम् अजघन्योत्कृष्टयुक्तानन्तकपरिमाणत्वात् तेभ्योऽपि—‘भवसिद्धिया अंगंतगुणा’ भवसिद्धिकाः अनन्तगुणा भवन्ति, एरुस्य भव्यनिगोदस्थानन्तभागरूपानां सिद्धानां भव्यजीवराशिनिगोदानाञ्च लोके ऽसंख्येयत्वात् ‘दारं’ विशम् भवसिद्धिकद्वारं समाप्तम् ॥ सू. २५ ॥

अस्तिकायद्वारवक्तव्यता—

मूलम्—एएसि णं भंते ! धम्मत्थिकाय अधम्मत्थिकाय आगासत्थिकाय जीवत्थिकाय पोग्गलत्थिकाय अच्चासमयाणं दब्बट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, वित्तेसाहिया वा ? गोयमा ! धम्मत्थिकाए, अधम्मत्थि-

अभवसिद्धिक अर्थात् अभव्य हैं, क्योंकि वे जघन्य युक्तानन्त प्रमाण वाले हैं। अनुयोगद्वार सूत्र में कहा है—‘उत्कृष्ट परीतानन्त में एक संख्या मिलाने से जघन्य युक्तानन्त का प्रमाण आता है, अभव्य जीव उतने ही है।’ नो भवसिद्धिक-नो अभवसिद्धिक उनसे अनन्तगुणा अधिक हैं, क्योंकि जो भव्य भी नहीं और अभव्य भी नहीं, ऐसे जीव सिद्ध हैं और वे अजघन्योत्कृष्ट युक्तानन्त संख्या वाले हैं। उन की अपेक्षा भी भवसिद्धिक अर्थात् भव्य जीव अनन्तगुणा हैं, क्योंकि सिद्ध एक भव्य निगोद राशि के अनन्तवे भाग हैं, और ऐसी भव्य निगोद राशि लोक में असंख्यात है। २०वां भवसिद्धिकद्वार सम्पूर्ण। २५।

अर्थात् अलोक्य छे, केमके तेओ जघन्य युक्तानन्त प्रमाण वाणा छे, अनुयोगद्वार सूत्रमा कल्लु छे—‘उत्कृष्ट परीतानन्त मा ओक स भ्या भेणववाथी जघन्य युक्तानन्तमु प्रमाण आवे छे, अलोक्य एव ओटलाज छे, नो भवसिद्धिक नो अलवसिद्धिक तेओथी अनन्तगण्ठा अधिक छे. केमके जे लोक्य पणु नथी अने अलोक्य पणु नथी, ओवा एव सिद्ध छे अने तेओ अजघन्योत्कृष्ट युक्तानन्त स भ्या वाणा छे तेमनी अपेक्षाओ पणु भवसिद्धिक अर्थात् लोक्य एव अनन्त गण्ठा छे, केमके सिद्ध ओक लोक्य निगोद राशिना अनन्तमे भाग छे—अने आवी लोक्य निगोद राशि दोकमां असंख्यात छे. वीससु’ भवसिद्धिकद्वार स पूष् ॥ २५ ॥

काए, आगासत्थिकाए, एएणं तिन्निऽवि तुल्ला दव्वट्टयाए
 सव्वत्थोवा जीवत्थिकाए दव्वट्टयाए अणंतगुणे, पोग्गलत्थिकाए
 दव्वट्टयाए अणंतगुणे, अद्धासमए दव्वट्टयाए अणंतगुणे, एए-
 सिणं भंते ! धम्मत्थिकाय अधम्मत्थिकाय आगात्थिकाय जीव-
 त्थिकाय पोग्गलत्थिकाय अद्धासमयाणं पएसट्टयाए कयरे
 कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया
 वा ? गोयमा ! धम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकाए, एए णं दोवि
 तुल्ला पएसट्टयाए सव्वत्थोवा, जीवत्थिकाए पएसट्टयाए अणंत-
 गुणे, पोग्गलत्थिकाए पएसट्टयाए अणंतगुणे, अद्धासमए पए-
 सट्टयाए अणंतगुणे, आगासत्थिकाए पएसट्टयाए अणंतगुणे,
 एयस्स णं भंते ! धम्मत्थिकायस्स दव्वट्टपएसट्टयाए कयरे
 कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?
 गोयमा सव्वत्थोवे एगे धम्मत्थिकाए दव्वट्टयाए से चैव
 पएसट्टयाए असंखेज्जगुणे, एयस्स णं भंते ! अधम्मत्थिकायस्स
 दव्वट्टपएसट्टयाए कयरे कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा,
 तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे एगे अध-
 म्मत्थिकाए दव्वट्टयाए, से चैव पएसट्टयाए असंखेज्जगुणे,
 एयस्स णं भंते ! आगासत्थिकायस्स दव्वट्ट पएसट्टयाए कयरे
 कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया
 वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे एगे आगासत्थिकाए दव्वट्टयाए,
 से चैव पएसट्टयाए अणंतगुणे, एयस्स णं भंते ! जीवत्थि-
 कायस्स दव्वट्ट पएसट्टयाए कयरे कयरेहितो अप्पा वा, बहुया
 वा तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे जीव-
 त्थिकाए दव्वट्टयाए, से चैव पएसट्टयाए असंखेज्जगुणे, एयस्स
 णं भंते ! पोग्गलत्थिकायस्स दव्वट्टपएसट्टयाए कयरे कयरेहितो
 अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ।

सवत्थोवे पोग्गलत्थिकाए दव्वट्टयाए, से चैव पएसट्टयाए असंखेज्जगुणे, अद्धासमए न पुच्छिज्जइ, पएसभावा, एएसि णं भंते ! धम्मत्थिकाय अधम्मत्थिकाय आगासत्थिकाय जीवत्थिकाय पोग्गलत्थिकाय अद्धासमयाणं दव्वट्टपएसट्टयाए य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! धम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए एए त्तिन्नि वि तुल्ला दव्वट्टयाए सवत्थोवा, धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए य एएसि णं दोन्नि वि तुल्ला पएसट्टयाए असंखेज्जगुणा, जीवत्थिकाए दव्वट्टयाए अणंतगुणे, से चैव पएसट्टयाए असंखेज्जगुणे, पोग्गलत्थिकाए दव्वट्टयाए अणंतगुणे, से चैव पएसट्टयाए असंखेज्जगुणे, अद्धासमए दव्वट्टपएसट्टयाए अणंतगुणे, आगासत्थिकाए पएसट्टयाए अणंतगुणे, दारं २१ ॥सू० २६॥

छाया-एतेषां खलु भदन्त ! धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय-जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय-अद्धासमयाना द्रव्यार्थतया कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! धर्मास्तिकायः, अधर्मा-

अस्तिकायद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (धम्मत्थिकाय) धर्मास्तिकाय (अधम्मत्थिकाय) अधर्मास्तिकाय (आगासत्थिकाय) आकाशास्तिकाय (जीवत्थिकाय) जीवास्तिकाय (पोग्गलत्थिकाय) पुद्गलास्तिकाय (अद्धासमयाण य) और अद्धासमय-काल में से (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया

अस्तिकायद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! आ (धम्मत्थिकाय) धर्मास्तिकाय (अधम्मत्थिकाय) अधर्मास्तिकाय (आगासत्थिकाय) आकाशास्तिकाय (जीवत्थिकाय) जीवास्तिकाय (पोग्गलत्थिकाय) पुद्गलास्तिकाय (अद्धासमयाण य) अने अद्धासमय-कालमें (कयरे कयरेहिंतो) कौन कौनसे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अधः, अधः, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

काए, आगासत्थिकाए, एएणं तिन्निऽवि तुल्ला दव्वट्टयाए
 सव्वत्थोवा जीवत्थिकाए दव्वट्टयाए अणंतगुणे, पोग्गलत्थिकाए
 दव्वट्टयाए अणंतगुणे, अद्धासमए दव्वट्टयाए अणंतगुणे, एए-
 सिणं भंते ! धम्मत्थिकाय अधम्मत्थिकाय आगात्थिकाय जीव-
 त्थिकाय पोग्गलत्थिकाय अद्धासमयाणं पएसट्टयाए कयरे
 कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया
 वा ? गोयमा ! धम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकाए, एए णं दोवि
 तुल्ला पएसट्टयाए सव्वत्थोवा, जीवत्थिकाए पएसट्टयाए अणंत-
 गुणे, पोग्गलत्थिकाए पएसट्टयाए अणंतगुणे, अद्धासमए पए-
 सट्टयाए अणंतगुणे, आगात्थिकाए पएसट्टयाए अणंतगुणे,
 एयस्स णं भंते ! धम्मत्थिकायस्स दव्वट्टपएसट्टयाए कयरे
 कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?
 गोयमा सव्वत्थोवे एगे धम्मत्थिकाए दव्वट्टयाए से चेत्र
 पएसट्टयाए असंखेज्जगुणे, एयस्स णं भंते ! अधम्मत्थिकायस्स
 दव्वट्टपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा,
 तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे एगे अध-
 म्मत्थिकाए दव्वट्टयाए, से चेत्र पएसट्टयाए असंखेज्जगुणे,
 एयस्स णं भंते ! आगासत्थिकायस्स दव्वट्ट पएसट्टयाए कयरे
 कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया
 वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे एगे आगासत्थिकाए दव्वट्टयाए,
 से चेत्र पएसट्टयाए अणंतगुणे, एयस्स णं भंते ! जीवत्थि-
 कायस्स दव्वट्ट पएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया
 वा तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे जीव-
 त्थिकाए दव्वट्टयाए, से चेत्र पएसट्टयाए असंखेज्जगुणे, एयस्स
 णं भंते ! पोग्गलत्थिकायस्स दव्वट्टपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो
 अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा !

सवत्थोवे पोग्गलत्थिकाए दव्वट्टयाए, से चैव पएसट्टयाए असंखेज्जगुणे, अद्धासमए न पुच्छिज्जइ, पएसभावा, एएसि णं भंते ! धम्मत्थिकाय अधम्मत्थिकाय आगासत्थिकाय जीवत्थिकाय पोग्गलत्थिकाय अद्धासमयाणं दव्वट्टपएसट्टयाए य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! धम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए एए त्तिन्नि वि तुल्ला दव्वट्टयाए सवत्थोवा, धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए य एएसि णं दोन्नि वि तुल्ला पएसट्टयाए असंखेज्जगुणा, जीवत्थिकाए दव्वट्टयाए अणंतगुणे, से चैव पएसट्टयाए असंखेज्जगुणे, पोग्गलत्थिकाए दव्वट्टयाए अणंतगुणे, से चैव पएसट्टयाए असंखेज्जगुणे, अद्धासमए दव्वट्टपएसट्टयाए अणंतगुणे, आगासत्थिकाए पएसट्टयाए अणंतगुणे, दारं २१ ॥सू० २६॥

छाया-एतेषां खलु भदन्त ! धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय-जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय-अद्धासमयाना द्रव्यार्थतया कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! धर्मास्तिकायः, अधर्मा-

अस्तिकायद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (धम्मत्थिकाय) धर्मास्तिकाय (अधम्मत्थिकाय) अधर्मास्तिकाय (आगासत्थिकाय) आकाशास्तिकाय (जीवत्थिकाय) जीवास्तिकाय (पोग्गलत्थिकाय) पुद्गलास्तिकाय (अद्धासमयाण य) और अद्धासमय-काल में से (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया

अस्तिकायद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! आ (धम्मत्थिकाय) धर्मास्तिकाय (अधम्मत्थिकाय) अधर्मास्तिकाय (आगासत्थिकाय) आकाशास्तिकाय (जीवत्थिकाय) जीवास्तिकाय (पोग्गलत्थिकाय) पुद्गलास्तिकाय (अद्धासमयाण य) अने अद्धासमय कालधी (कयरे कयरेहिंतो) केषु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, वधारे, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

स्तिकायः आकाशास्तिकायः, एते खलु त्रयोऽपि तुल्याः द्रव्यार्थतया सर्पस्तोकाः, जीवास्तिकायो द्रव्यार्थतया अनन्तगुणः, पुद्गलास्तिकायो द्रव्यार्थतया अनन्तगुणः, अद्वासमयो द्रव्यार्थतया अनन्तगुणः, एतेषां खलु भदन्त ! धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय-जीवास्तिकाय-पुद्गलास्तिकाय-अद्वासमयानां प्रदेशाथतया कतरे कतरेभ्यः अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! धर्मास्तिकायः, अधर्मास्तिकायः, एतौ खलु द्वावपि तुल्यौ प्रदेशार्थतया

वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं। (गोयमा) हे गौतम (धम्मत्थिकाए) धर्मास्तिकाय (अधम्मत्थिकाए) अधर्मास्तिकाय (आगासत्थिकाए) आकाशास्तिकाय (एएणं तिन्नि वि तुल्ला) ये तीनों ही बराबर हे (दब्बट्टयाए) द्रव्य की अपेक्षा से (सब्बत्थोवा) सब से कम हैं (जीवत्थिकाए) जीवास्तिकाय (दब्बट्टयाए) द्रव्य की अपेक्षा से (अणंतगुणा) अनन्तगुणा है। (पोगलत्थिकाए) पुद्गलास्तिकाय (दब्बट्टयाए अणंतगुणे) द्रव्य की अपेक्षा अनन्तगुणा है (अद्वासमए दब्बट्टयाए अणंतगुणे) अद्वाकाल द्रव्य की अपेक्षा से अनन्तगुणा है।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (धम्मत्थिकाय-अधम्मत्थिकाय आगासत्थिकाय-जीवत्थिकाय-पोगलत्थिकाय-अद्वासमयाणं) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और अद्वाकाल में (एएसट्टयाए) प्रदेशों की अपेक्षा से (कयरे कयरेहिंते) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ? (गोयमा !)

(गोयमा !) हे गौतम (धम्मत्थिकाए) धर्मास्तिकाय (अधम्मत्थिकाए) अधर्मास्तिकाय (आगासत्थिकाए) आकाशास्तिकाय (एएणं तिन्नि तुल्ला) या त्रये अराअर छे (दब्बट्टयाए) द्रव्य की अपेक्षा से (सब्बत्थोवा) अधाथी आछा छे (जीवत्थिकाए) जीवास्तिकाय (दब्बट्टयाए) द्रव्य की अपेक्षा से (अणंतगुणे) अनन्तगुणा छे (पोगलत्थिकाए) पुद्गलास्तिकाय (दब्बट्टयाए अणंतगुणे) द्रव्य की अपेक्षा से अनन्तगुणा छे (अद्वासमए दब्बट्टयाए अणंतगुणे) अद्वाकाल द्रव्य की अपेक्षा से अनन्तगुणा छे।

(एएसिणं भंते !) हे भगवन् ! (धम्मत्थिकाय अधम्मत्थिकाय आगासत्थिकाय-जीवत्थिकाय-पोगलत्थिकाय अद्वासमयाणं) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय अने अद्वाकाल (एएसट्टयाए) प्रदेशों की अपेक्षा से (कयरे कयरेहिंते) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक है ?

सर्वस्तोकौ जीवास्तिकायः प्रदेशार्थतया अनन्तगुणा पुद्गलास्तिकायः प्रदेशार्थ-
तया अनन्तगुणः, अद्वासमयः प्रदेशार्थतया अनन्तगुणः, आकाशास्तिकायः प्रदे-
शार्थतया अनन्तगुणः, एतस्य खलु भदन्त ! धर्मास्तिकायस्य द्रव्यार्थप्रदेशार्थ-
तया कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिकाः वा ? गौतम !
सर्वस्तोकः एको धर्मास्तिकायो द्रव्यार्थतया, सचैव प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणः

हे गौतम ! (धम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकाए एए णं दोवि तुल्ला पए-
सट्ठयाए सव्वत्थोवा) धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, ये दोनों
परस्पर तुल्य हैं और प्रदेशों से सबसे अल्प हैं (जीवत्थिकाए पएसट्ठ-
याए अणंतगुणे) जीवास्तिकाय प्रदेशों से अनन्तगुणा हैं (पोग्गलत्थि-
काए पएसट्ठयाए अणंतगुणे) पुद्गलास्तिकाय प्रदेशों की अपेक्षा
अनन्तगुणित है (अद्वासमए पएसट्ठयाए अणंतगुणे) अद्वासमय प्रदेशों
की अपेक्षा अनन्त गुणा है (आगासत्थिकाए पएसट्ठयाए अणंतगुणे)
आकाशास्तिकाय प्रदेशों की अपेक्षा अनन्तगुणा है ।

(एयस्सणं भंते !) हे भगवन् ! इस (धम्मत्थिकायस्स) धर्मास्त-
काय के (द्व्वट्ठपएसट्ठयाए) द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से (कयरे
कयरेहितो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसा-
हिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे
गौतम ! (सव्वत्थोवे एगे धम्मत्थिकाए द्व्वट्ठयाए) सबसे अल्प एक

(गोयमा !) हे गौतम ! (धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए एए ण दो वि तुल्ला
पएसट्ठयाए सव्वत्थोवा) धर्मास्तिकाय अने अधर्मास्तिकाय ते अन्ने परस्पर सरभा
छे अने प्रदेशोथी भधाथी अल्प छे (जीवत्थिकाए पएसट्ठयाए अणतगुणे) एवा
स्तिकाय प्रदेशोनी अपेक्षाथी अनन्तगण्णु छे (पोग्गलत्थिकाए पएसट्ठयाए अणतगुणे)
पुद्गलास्तिकाय प्रदेशोनी अपेक्षाथे अनन्तगुणित छे (अद्वासमए पएसट्ठयाए
अणतगुणे) अद्वासमय प्रदेशोनी अपेक्षाथे अनन्तगण्णु छे (आगासत्थिकाए
पएसट्ठयाए अणतगुणे) आकाशास्तिकाय प्रदेशोनी अपेक्षाथे अनन्तगण्णु छे ।)

(एयस्स ण भंते !) हे भगवन् ! आ (धम्मत्थिकायस्स) धर्मास्तिकायना
(द्व्वट्ठपएसट्ठयाए) द्रव्य अने प्रदेशोनी अपेक्षाथे (कयरे कयरेहितो) कोण्णु
कोण्णुथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धण्णु, तुल्य
अथवा विशेषाधिक छे ?)

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवे एगे धम्मत्थिकाए द्व्वट्ठयाए) भधाथी
ओण्णु ओक धर्मास्तिकाय छे, द्रव्यनी अपेक्षाथे (से चैव पएसट्ठयाए असख्खेज्जगुणे)
प्रदेशोनी अपेक्षाथे तेण्णु अस भ्यातगण्णु छे

स्तिकायःआकाशास्तिकायः, एते खलु त्रयोऽपि तुल्याः द्रव्यार्थतया सर्वास्तोकाः,
जीवास्तिकायो द्रव्यार्थतया अनन्तगुणः, पुद्गलास्तिकायो द्रव्यार्थतया अनन्तगुणः,
अद्वासमयो द्रव्यार्थतया अनन्तगुणः, एतेषां खलु भदन्त ! धर्मास्तिकाय अधर्मा-
स्तिकाय आकाशास्तिकाय-जीवास्तिकाय-पुद्गलास्तिकाय-अद्वासमयानां प्रदे-
शाथतया कतरे कतरेभ्यः अल्पा वा, बहुला वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ?
गौतम ! धर्मास्तिकायः, अधर्मास्तिकायः, एतौ खलु द्वावपि तुल्यौ प्रदेशार्थतया

वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं । (गोयमा) हे गौतम
(धम्मत्थिकाए) धर्मास्तिकाय (अधम्मत्थिकाए) अधर्मास्तिकाय (आगा-
सत्थिकाए) आकाशास्तिकाय (एएणं तिन्नि वि तुल्ला) ये तीनों ही
बराबर हे (द्व्वट्ठयाए) द्रव्य की अपेक्षा से (सव्वत्थोवा) सब से कम
हैं (जीवत्थिकाए) जीवास्तिकाय (द्व्वट्ठयाए) द्रव्य की अपेक्षा से
(अणंतगुणा) अनन्तगुणा है । (पोग्गलत्थिकाए) पुद्गलास्तिकाय (द्व्व-
ट्ठयाए अणंतगुणे) द्रव्य की अपेक्षा अनन्तगुणा है (अद्वासमए द्व्वट्ठ-
याए अणंतगुणे) अद्वाकाल द्रव्य की अपेक्षा से अनन्तगुणा है ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (धम्मत्थिकाय-अधम्मत्थि-
काय आगासत्थिकाय-जीवत्थिकाय - पोग्गलत्थिकाय-अद्वासमयाणं)
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्-
गलास्तिकाय और अद्वाकाल में (पएसट्ठयाए) प्रदेशों की अपेक्षा से
(कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा
विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा !)

(गोयमा !) हे गौतम (धम्मत्थिकाए) धर्मास्तिकाय (अधम्मत्थिकाए) अधर्मा-
स्तिकाय (आगासात्थिकाए) आकाशास्तिकाय (एएण तिन्नि तुल्ला) आ त्रणे भराभर
छे (द्व्वट्ठयाए) द्रव्यकी अपेक्षासे (सव्वत्थोवा) अधाथी आछा छे (जीवत्थिकाए)
जीवास्तिकाय (द्व्वट्ठयाए) द्रव्यकी अपेक्षासे (अणतगुणे) अनन्तगुणा छे (पोग्गल
त्थिकाए) पुद्गलास्तिकाय (द्व्वट्ठयाए अणतगुणे) द्रव्यकी अपेक्षासे अनन्तगुणा छे
(अद्वासमए द्व्वट्ठयाए अणतगुणे) अद्वाकाल द्रव्यकी अपेक्षासे अनन्तगुणा छे.

(एएसिणं भंते !) हे भगवन् ! (धमत्थिकाय अधम्मत्थिकाय आगासत्थिकाय-
जीवत्थिकाय-पोग्गलत्थिकाय अद्वासमयाणं) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आकाशा-
स्तिकाय जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय अने अद्वा काल (पएसट्ठयाए) प्रदेशोनी
अपेक्षासे (कयरे कयरेहिंतो) कोणु कोनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसे-
साहिया वा ?) अल्प बहुत तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

सर्वस्तोकौ जीवास्तिकायः प्रदेशार्थतया अनन्तगुणा पुद्गलास्तिकायः प्रदेशार्थ-
तया अनन्तगुणः, अद्वासमयः प्रदेशार्थतया अनन्तगुणः, आकाशास्तिकायः प्रदे-
शार्थतया अनन्तगुणः, एतस्य खलु भदन्त ! धर्मास्तिकायस्य द्रव्यार्थप्रदेशार्थ-
तया कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिकाः वा ? गौतम !
सर्वस्तोकः एको धर्मास्तिकायो द्रव्यार्थतया, सचैव प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणः

हे गौतम ! (धम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकाए एए णं दोवि तुल्ला पए-
सट्ठयाए सव्वत्थोवा) धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, ये दोनों
परस्पर तुल्य हैं और प्रदेशों से सबसे अल्प हैं (जीवत्थिकाए पएसट्ठ-
याए अणंतगुणे) जीवास्तिकाय प्रदेशों से अनन्तगुणा हैं (पोग्गलत्थि-
काए पएसट्ठयाए अणंतगुणे) पुद्गलास्तिकाय प्रदेशों की अपेक्षा
अनन्तगुणित है (अद्वासमए पएसट्ठयाए अणंतगुणे) अद्वासमय प्रदेशों
की अपेक्षा अनन्त गुणा है (आगासत्थिकाए पएसट्ठयाए अणंतगुणे)
आकाशास्ति ाय प्रदेशों की अपेक्षा अनन्तगुणा है ।

(एयस्सणं भंते !) हे भगवन् ! इस (धम्मत्थिकायस्स) धर्मास्त-
काय के (दव्वट्ठपएसट्ठयाए) द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से (कयरे
कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसा-
हिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे
गौतम ! (सव्वत्थोवे एगे धम्मत्थिकाए दव्वट्ठयाए) सबसे अल्प एक

(गोयमा !) हे गौतम ! (धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए एए ण दो वि तुल्ला
पएसट्ठयाए सव्वत्थोवा) धर्मास्तिकाय अने अधर्मास्तिकाय ते अने परस्पर सरथा
छे अने प्रदेशोथी अधार्थी अल्प छे (जीवत्थिकाए पएसट्ठयाए अणतगुणे) एवा
स्तिकाय प्रदेशोनी अपेक्षाथी अनन्तगण्णा छे (पोग्गलत्थिकाए पएसट्ठयाए अणतगुणे)
पुद्गलास्तिकाय प्रदेशोनी अपेक्षाथे अनन्तगुणित छे (अद्वासमए पएसट्ठयाए
अणंतगुणे) अद्वासमय प्रदेशोनी अपेक्षाथे अनन्तगण्णा छे (आगासत्थिकाए
पएसट्ठयाए अणंतगुणे) आकाशास्तिकाय प्रदेशोनी अपेक्षाथे अनन्तगण्णा छे ।)

(एयस्स ण भंते !) हे भगवन् ! आ (धम्मत्थिकायस्स) धर्मास्तिकायना
(दव्वट्ठपएसट्ठयाए) द्रव्य अने प्रदेशोनी अपेक्षाथे (कयरे कयरेहिंतो) केषु
केषुथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धण्णा, तुल्य
अथवा विशेषाधिक छे ?)

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवे एगे धम्मत्थिकाए दव्वट्ठयाए) अधार्थी
ओछा ओक धर्मास्तिकाय छे, द्रव्यनी अपेक्षाथे (से चैव पएसट्ठयाए असत्खेज्जगुणे)
प्रदेशोनी अपेक्षाथे तेज्ज असत्थयातगण्णा छे

एतस्य खलु भदन्त ! अधर्मास्तिकायस्य द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया कतरेभ्यः कतरेभ्यो-
 ऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ! गौतम ! सर्वस्तोत्रः एको
 ऽधर्मास्तिकायो द्रव्यार्थतया सचैव प्रदेशार्थतया अमंख्येयगुणः, एतस्य खलु
 भदन्त ! आकाशास्तिकायस्य द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका
 वा, तुल्या वा विशेषाधिका वा गौतम ! सर्वस्तोत्रः एकः आकाशास्तिकायो
 द्रव्यार्थतया, सचैव प्रदेशार्थतया अणंतगुणः, एतस्य खलु भदन्त ! जीवास्ति-

धर्मास्तिकाय है द्रव्य की अपेक्षा से (से चैव पएसट्टयाए असंखेज्ज-
 गुणे) वही प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यातशुणा है । (एयस्स णं भते !
 अधम्मत्थिकायस्स) हे भगवन् ! इस अधर्मास्तिकाय के (द्व्वट्टपए-
 सट्टयाए) द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से (कयरे कयरेहिंतो) कौन
 किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प,
 बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवे एगे
 अधम्मत्थिकाए दव्वट्टयाए) सब से कम एक अधर्मास्तिकाय है द्रव्य
 की अपेक्षा से (से चैव पएसट्टयाए असंखेज्जगुणे) प्रदेशों की अपेक्षा से
 वही असंख्यातशुणा है । (एयस्स णं भते ! आगासत्थिकायस्स) हे
 भगवन् ! इस आकाशास्तिकाय के (दव्वट्टपएसट्टयाए) द्रव्य और
 प्रदेशों की अपेक्षा से (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा
 बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेष-
 षाधिक है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवे एगे आगासत्थिकाए
 दव्वट्टयाए) सबसे कम एक आकाशास्तिकाय है द्रव्य की अपेक्षा से

(एयस्स णं भते ! अधम्मत्थिकायस्स) हे भगवन् ! आ अधर्मास्तिकायना
 (दव्वट्टपएसट्टयाए) द्रव्य अने प्रदेशोनी अपेक्षाथी (कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा
 बहुया वा तुल्ला वा विसेसिया वा) ओछा वधारे तुस्य अथवा विशेषाधिक छे ?
 (गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवे एगे अधम्मत्थिकाए दव्वट्टयाए) सौथी
 ओछा ओक अधर्मास्तिकाय द्रव्यनी अपेक्षाओ छे, (से चैव पएसट्टयाए असंखे-
 ज्जगुणे) प्रदेशोनी अपेक्षाओनी ओक अस पथातगण्णु छे

(एयस्स णं भते ! आगासत्थिकायस्स) हे भगवन् ! आ आकाशास्तिकायना
 (दव्वट्टपएसट्टयाए) द्रव्य अने प्रदेशोनी अपेक्षाओ (कयरे कयरेहिंतो) ओण्णु ओनाथी
 (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया) अल्प, धण्णु, तुस्य अगर तो
 विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवे एगे आगासत्थिकाए दव्वट्टयाए) अधाथी

कायस्य द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ? सर्वस्तोको जीवास्तिकायो द्रव्यार्थतया सचैव प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणः, एतस्य खलु भदन्त ! पुद्गलास्तिकायस्य द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकः पुद्गलास्तिकायो द्रव्यार्थतया सचैव प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणः अद्वासमयो न पृच्छ्यते प्रदेशाभावात्, एतेषां खलु भदन्त ! धर्मास्ति-

(से चैव पएसद्वयाए अणंतगुणे) वही प्रदेशों की अपेक्षा से अनन्तगुणा है । (एयस्स णं भंते ! जीवत्थिकायस्स) हे भगवन् ! इस जीवास्तिकाय के (द्व्वद्वपएसद्वयाए) द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवे जीवत्थिकाए दव्वद्वयाए) सबसे कम जीवास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा से है (से चैव पएसद्वयाए असंखेज्जगुणे) वही प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यातगुणा हैं । (एयस्स णं भंते ! पोग्गलत्थिकायस्स दव्वद्वपएसद्वयाए) हे भगवन् ! इन पुद्गलास्तिकाय के द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवे पोग्गलत्थिकाए दव्वद्वयाए) सबसे कम पुद्गलास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा से है (से

ओछा ओक आकाशास्तिकाय छे द्रव्यनी अपेक्षाओ (से चैव पएसद्वयाए अणंतगुणे) तेज प्रदेशोनी अपेक्षाओ अनन्तगणु छे)

(एयस्स ण भंते ! जीवत्थिकायस्स) हे भगवन् ! आ लुवस्तिकायना (द्व्वद्वपएसद्वयाए) द्रव्य अने प्रदेशोनी अपेक्षाओ (कयरे कयरेहिंतो) केणु केनाथी अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा अल्प, धणु, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवे जीवत्थिकाए दव्वद्वयाए) द्रव्यनी अपेक्षाओ अधाथी ओछा लुवास्तिकाय छे (से चैव पएसद्वयाए असंखेज्जगुणे) तेज प्रदेशोनी अपेक्षाओ असंख्यातगणु छे

(एयस्स ण भंते ! पोग्गलत्थिकायस्स दव्वद्वपएसद्वयाए) हे भगवन् ! आ पुद्गलास्तिकायना द्रव्य अने प्रदेशोनी अपेक्षाओ (कयरे कयरेहिंतो) केणु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धणु, तुल्य, अगर विशेषाधिक छे ?

कायअधर्मास्तिकाय-आकाशास्तिकाय जीवास्तिकायपुद्गलास्तिकायाद्वासमयानां
द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका
वा ? गौतम ! धर्मास्तिकायः, अधर्मास्तिकायः, आकाशास्तिकायः, एते त्रयोऽपि
तुल्याः द्रव्यार्थतया सर्वस्तोकाः, धर्मास्तिकायः, अधर्मास्तिकायश्च, एतौ खलु
द्वावपि तुल्यौ प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणौ, जीवास्तिकायो द्रव्यार्थतया अनन्त-

चेव पएसद्वयाए असंखेज्जगुणे) वही प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यातगुणा
हैं (अद्वासमए न पुच्छिज्जइ पएसभावा) काल के विषय में प्रश्न नहीं
करना क्योंकि उसमें प्रदेश नहीं हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (धम्मत्थिकाय-अधम्मत्थि-
काय-आगासत्थिकाय-जीवत्थिकाय-पोग्गलत्थिकाय-अद्वासमयाणं)
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय,
पुद्गलास्तिकाय और अद्वासमय के (द्वद्वट्ठपएसद्वयाए च) द्रव्य और
प्रदेशों की अपेक्षा (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया
तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक
हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (धम्मत्थिकाए) धर्मास्तिकाय (अधम्मत्थि-
काए) अधर्मास्तिकाय (आगासत्थिकाए) आकाशास्तिकाय (एए
तिन्नि वि) ये तीनों ही (तुल्ला) तुल्य हैं (द्वद्वट्ठयाए सव्वत्थोवा)
द्रव्य से सब से अल्प हैं (धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए च एए णं

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवे पाग्गलत्थिकाए द्वद्वट्ठयाए) षड्धाथी ओऽथ
पुद्गलास्तिकाय द्रव्यनी अपेक्षाये छे (से चेव पएसद्वयाए असंखेज्जगुणे) तेव
प्रदेशेनी अपेक्षाये असंख्यातगुणा छे (अद्वासमए न पुच्छिज्जइ पएसभावा)
काणना विषयमा प्रश्न न करवे केम के तेमा प्रदेशे नथी

(एएसिणं भंते !) हे भगवन् ! आ (धम्मत्थिकाय-अधम्मत्थिकाय आगा-
सत्थिकाय-जीवत्थिकाय-पोग्गलत्थिकाय, -अद्वासमयाणं) धर्मास्तिकाय, अधर्मा-
स्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय अने अद्वासमयना
(द्वद्वट्ठपएसद्वयाए च) द्रव्य अने प्रदेशेनी अपेक्षाये (कयरे कयरेहिंतो) कोऽथ
कोनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, बहुत, तुल्य,
अगर विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (धम्मत्थिकाए) धर्मास्तिकाय (अधम्मत्थिकाए) अध-
र्मास्तिकाय (आगासत्थिकाए) आकाशास्तिकाय (एए तिन्नि वि) आ त्रये (तुल्ला)
तुल्य (द्वद्वट्ठयाए सव्वत्थोवा) द्रव्यनी अपेक्षाथी षड्धाथी अल्प (धम्मत्थिकाए

गुणः, सचैव प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणः, पुद्गलास्तिकायो द्रव्यार्थतया अनन्त-
गुणः, सचैव प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणः, अद्वासमयो द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया अन-
न्तगुणः, आकाशास्तिकायः प्रदेशार्थतया अनन्तगुणः, द्वारम् २१ ॥ सू० २६ ॥

टीका—अथास्तिकायद्वारमधिकृत्य अल्पत्वादिकं प्ररूपयितुमाह—‘एएसिणं
भंते !’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतेषां खलु ‘धम्मत्थिकाय अधम्मत्थिकाय
जीवत्थिकाय पोग्गलत्थिकाय अद्वासमयाणं’ धर्मास्तिकाय—अधर्मास्तिकाय—
आकाशास्तिकाय—जीवास्तिकाय—पुद्गलारित्थिकाय अद्वासमयानां मध्ये ‘द्व्वद्वयाए’

दोन्नि वि तुल्ला) धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये दोनों तुल्य
हैं (पएसद्वयाए असंखेज्जगुणा) प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यातगुणा हैं
(जीवत्थिकाए द्व्वद्वयाए अणंतगुणे) जीवास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा
अनन्तगुणा हैं (से चैव पएसद्वयाए) वही प्रदेशों की अपेक्षा (असंखेज्ज-
गुणे) असंख्यातगुणा हैं (पोग्गलत्थिकाए द्व्वद्वयाए अणंतगुणे) पुद्ग-
लास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा अनन्तगुणा है (से चैव पएसद्वयाए) वही
प्रदेशों की अपेक्षा (असंखेज्जगुणे) असंख्यातगुणा है (अद्वासमए)
अद्वासमय (द्व्वद्वपएसद्वयाए अणंतगुणे) द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा
अनन्तगुणा है (आगासत्थिकाए) आकाशास्तिकाय (पएसद्वयाए)
प्रदेशों की अपेक्षा (अणंतगुणे) अनन्तगुणा हैं ।

अब अस्तिकाय की अपेक्षा से अल्पबहुत्व की प्ररूपणा करते हैं—
टीकार्थ—श्री गौतमस्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन धर्मास्ति-

अधम्मत्थिकाए य एणं दोन्नि वि तुल्ला) धर्मास्तिकाय अने अधर्मास्तिकाय
अने अने तुल्ये छे (पएसद्वद्वयाए असंखेज्जगुणा) प्रदेशोनी अपेक्षाअने असंख्यात-
गुणा छे (जीवत्थिकाए द्व्वद्वद्वयाए अणतगुणे) जीवास्तिकाय द्रव्यनी अपेक्षाअने
अनन्तगुणा छे (से चैव पएसद्वद्वयाए) तेज्ज प्रदेशोनी अपेक्षाअने (असंखेज्जगुणे)
असंख्यातगुणा छे (पोग्गलत्थिकाए द्व्वद्वद्वयाए अणतगुणे) पुद्गलास्तिकाय द्रव्यनी
अपेक्षाथी अनन्तगुणा छे (से चैव पएसद्वद्वयाए) तेज्ज प्रदेशोनी अपेक्षाथी (असंखे-
ज्जगुणे) असंख्यातगुणा छे (अद्वासमए) अद्वासमय (द्व्वद्वद्वपएसद्वद्वयाए अणत-
गुणे) द्रव्य अने प्रदेशोनी अपेक्षाअने अनन्तगुणा छे (आगासत्थिकाए) आकाशा-
स्तिकाय (पएसद्वद्वयाए) प्रदेशोनी अपेक्षाअने (अणतगुणे) अनन्तगुणा छे

इवे अस्तिकायनी अपेक्षाअने अल्प बहुत्वनी प्ररूपणा करे छे

टीकार्थ—श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! आ धर्मास्तिकाय,

દ્રવ્યાર્થતયા—દ્રવ્યાપેક્ષયા ‘કતરે—કતરેહિતો’ કતરે કતરેભ્યઃ ‘અપ્પા વા, વહુયા વા, તુલ્લા વા, વિસેસાહિયા વા?’ અલ્પા વા, વહુકા વા, તુલ્યા વા, વિશેષાધિકા વા ભવન્તિ? ભગવાન્ ઉત્તરયતિ—‘ગૌતમ !’ હે ગૌતમ ! ‘ધર્મસ્થિકાણ, અધર્મસ્થિકાણ, આકાશસ્થિકાણ’ ધર્માસ્થિકાયઃ, અધર્માસ્થિકાયઃ, આકાશસ્થિકાયઃ ‘एएणं तिन्निऽवि तुल्ला दव्वट्ठयाए सव्वत्थोवा’ एते खलु त्रयोऽपि धर्मास्तिकायादयो, द्रव्यार्थतया—द्रव्यमेवार्थो द्रव्यार्थस्तस्य भावो द्रव्यार्थता तया, द्रव्यत्वेनेत्यर्थः, तुल્યાः—समाना भवन्ति, प्रत्येकमेकसंख्याकत्वात्, अत एव सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पा भवन्ति, तेभ्यः, ‘जीवस्थिकाए दव्वट्ठयाए अणंतगुणे’ जीवास्तिकायो द्रव्यार्थतया द्रव्यत्वेन, अनन्तगुणो भवति, प्रत्येकं जीवानां द्रव्यरूपतया तेषां जीवास्तिकायेऽनन्तत्वात्, तदपेक्षयापि—‘योग्गलत्थिकाए दव्वट्ठयाए अणंतगुणे’ पुद्गलास्तिकायो द्रव्यार्थतया—द्रव्यरूपतया अनन्तगुणो भवति, परमाणु द्विप्रदेशिकादीनां पृथक् पृथक् प्रत्येकद्रव्यत्वेन, तेषाञ्च सामान्येन प्रयोग-

કાય, અધર્માસ્થિકાય, આકાશાસ્થિકાય, જીવાસ્થિકાય, પુદ્ગલાસ્થિકાય
और अद्वासमय में से द्रव्य की अपेक्षा कौन किससे अल्प, बहुत,
तुल्य या विशेषाधिक हैं? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! धर्मास्ति-
काय, अधर्मास्ति काय और आकाशास्तिकाय, ये तीनों द्रव्य की अपेक्षा
से तुल्य हैं, क्योंकि तीनों ही एक-एक संख्या वाले हैं, इस कारण ये
सबसे अल्प हैं। जीवास्तिकाय इन तीनों से द्रव्य की अपेक्षा अनन्त
गुणा हैं, क्योंकि जीव अनन्त हैं और वे प्रत्येक पृथक्-पृथक् द्रव्य हैं।
जीवास्तिकाय की अपेक्षा पुद्गलास्तिकाय द्रव्य से अनन्तगुणा हैं,
क्योंकि परमाणु, द्विप्रदेशी आदि स्कंध स्वतंत्र द्रव्य हैं। सामान्य रूप

અર્ધાસ્થિકાય, આકાશાસ્થિકાય, જીવાસ્થિકાય, પુદ્ગલાસ્થિકાય અને અદ્વાસમય-
માથી દ્રવ્યની અપેક્ષાએ કોણુ કોનાથી અલ્પ, ઘણા, તુલ્ય અગર વિશેષાધિક છે,

શ્રી ભગવાન્ ઉત્તર આપે છે—હે ગૌતમ ! ધર્માસ્થિકાય, અધર્માસ્થિકાય,
અને આકાશાસ્થિકાય આ ત્રણે દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તુલ્ય છે, કેમકે ત્રણે એક
એક સંખ્યાવાળા છે, એ કારણે એ બધાથી એછા છે જીવાસ્થિકાય આ ત્રણેથી
દ્રવ્યની અપેક્ષાએ અનન્ત ગણુ છે અને તેઓ પ્રત્યેક પૃથક્ પૃથક્ દ્રવ્યજ છે.
જીવાસ્થિકાયની અપેક્ષાએ પુદ્ગલાસ્થિકાય દ્રવ્યથી અનન્ત ગણુ છે. કેમકે
પરમાણુ, દ્વિપ્રદેશી આદિ સ્કંધ સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે. સામાન્ય રૂપે તેઓ ત્રણ
પ્રકારના છે—પ્રયોગ પરિણુત, મિશ્રપરિણુત અને વિસત્તાપરિણુત, તેઓમાંથી

परिणत-मिश्रपरिणत विश्रसापरिणतभेदेन त्रैविद्यात् तेयु तावत् केवल प्रयोगपरिणतानामपि जीवेभ्योऽनन्तगुणत्वं भवति एकैकस्य जीवस्य प्रत्येकमनन्तैर्ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीयवेदनीयादिकर्म पुद्गलस्कन्धैः परिवेष्टितत्वात्, किं पुनः शेषाणाम् ? प्रयोगपरिणतेभ्योपि मिश्रपरिणतानामनन्तगुणत्वं भवन्ति तेभ्योऽपि विश्रसापरिणतानामनन्तगुणत्वं भवन्ति, तथोक्तं प्रज्ञापनायाम्—

‘सर्वथोवा पुद्गला पयोगपरिणया, मीसपरिणया, अणंतगुणा, वीससापरिणया अणंतगुणा’ इति, सर्वस्तोकाः पुद्गलाः प्रयोगपरिणताः, मिश्रपरिणता अनन्तगुणाः, विश्रसापरिणताः अनन्तगुणाः, इति, अत एव जीवास्तिकायापेक्षया पुद्गलास्तिकायस्य द्रव्यार्थिकनयेनानन्तगुणत्वं भवति, तस्मादपि—‘अद्धासमए दव्ट्याए अणंतगुणे’ अद्धासमयः कालविशेषो, द्रव्यायंतया—द्रव्यत्वेन, अनन्तगुणो भवति एकस्यैव परमाणोरनागतकाले द्विप्रदेशिकादि दशप्रदेशिकान्त-

से वे तीन प्रकार के हैं—प्रयोगपरिणत, मिश्रपरिणत और विश्रसापरिणत । इन में से सिर्फ प्रयोगपरिणत पुद्गल भी जीवों से अनन्तगुणित हैं । इसके अतिरिक्त एक-एक जीव अनन्त-अनन्त ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वेदनीय आदि कर्म-परमाणुओं से संबद्ध है । प्रयोगपरिणत पुद्गलों की अपेक्षा मिश्रपरिणत पुद्गल अनन्तगुणा हैं और उनकी अपेक्षा भी विश्रसापरिणत पुद्गल अनन्तगुणा हैं । इसी प्रज्ञापना में कहा है—‘सबसे कम पुद्गल प्रयोगपरिणत हैं, मिश्रपरिणत उनसे अनन्तगुणा हैं और विश्रसापरिणत उन से भी अनन्तगुणित हैं ।’ इस प्रकार द्रव्य की अपेक्षा से जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय अनन्तगुणा है । पुद्गलास्तिकाय की अपेक्षा अद्धाकाल द्रव्य की अपेक्षा अनन्तगुणा है । अद्धासमय काल को कहते हैं । वह काल द्रव्य की दृष्टि से पुद्गलास्तिकाय की अपेक्षा अनन्तगुणित है । भवि-

इकत प्रयोग परिणत पुद्गल पणु एवोथी अनन्त शुषित छे. तेना सिपाय ओक ओक एव अनन्त-अनन्त ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वेदनीय आदि कर्म परमाणुओथी सम्बद्ध छे प्रयोग परिणत पुद्गलोनी अपेक्षाओ पणु विश्रसापरिणत पुद्गल अनन्तगुणा छे आ प्रज्ञापनामा कहु छे के—‘अधोथी ओछा पुद्गल प्रयोग परिणत छे, मिश्र परिणत तेमनाथी अनन्त गणु छे आने विश्रसा परिणत तेमनाथी पणु अनन्त शुषित छे’ ‘ओ रीते द्रव्यनी अपेक्षाओ एनास्तिकायथी पुद्गलास्तिकाय अनन्तगुणा छे पुद्गलास्तिकायनी अपेक्षाओ अद्धाकाल द्रव्यनी अपेक्षाओ अनन्त गणु छे अद्धासमय कालने कहे छे. ते काल द्रव्यनी दृष्टिओ पुद्गलास्तिकायनी अपेक्षाओ अनन्तशुषित

संख्यातप्रदेशिकासंख्यातप्रदेशिकानन्तप्रदेशिकस्कन्धान्तः परिणामित्वेनानन्ता-
भाविनः संयोगाः भिन्नभिन्नकालाः केवलवेदोपलब्धा भवन्ति, यथा चैकस्य
परमाणोस्तथैव सर्वेषां प्रत्येकं द्विप्रदेशिकादिस्कन्धानां चानन्ताः संयोगा भिन्न-
भिन्नकालाः उपलब्धा भवन्ति, सर्वेषामपि मनुष्यलोकक्षेत्रान्तर्वर्तितया परिणाम-
संभवात् एवमेव क्षेत्रतोऽपि अयं परमाणुरमुष्मिन् आकाशप्रदेशे अमुष्मिन् काले
अवगाक्ष्यते इत्येवमेकस्य परमाणो रनन्ताः भाविनः संयोगा भवन्ति, यथा
चैकस्य परमाणोस्तथैव सर्वेषां परमाणूनां, तथैव द्विप्रदेशिकादीनामपि स्कन्धाना-
मनन्तप्रदेशस्कन्धानां प्रत्येकं तत्तदेकप्रदेशाद्यवगाहभेदेन भिन्नभिन्नकालाः

इयत् काल में एक परमाणु द्विप्रदेशी, यावत् दशप्रदेशी यहां तक कि
संख्यात प्रदेशी, असंख्यातप्रदेशी और अनन्तप्रदेशी स्कंध के साथ
मिलकर अनन्त परिणामों को धारण करेगा, अतएव एक ही परमाणु
के भावी संयोग अनन्त हैं और वे अनन्त संयोग भिन्न-भिन्न कालों
में होने वाले हैं जो केवल ज्ञान से जाने जा सकते हैं। और जैसे एक
परमाणु के भावी संयोग अनन्त हैं उसी प्रकार सभी द्विप्रदेशी
आदि स्कंधों के भी विभिन्न कालों में होने वाले अनन्त संयोग हैं।
इसी प्रकार क्षेत्र की दृष्टि से भी एक-एक परमाणु के भावी संयोग
अनन्त हैं। यह परमाणु अमुक काल में अमुक आकाश प्रदेश में
अवगाहन करेगा, दूसरे समय में किसी दूसरे आकाश प्रदेश में।
जैसे एक परमाणु के भावी संयोग अनन्त हैं, उसी प्रकार सभी पर-
माणुओं के समझ लेने चाहिए। इसी प्रकार द्विप्रदेशी स्कंध से लेकर

छे. अविध्यत् काणमा अेक परमाणु द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, यावत् दश प्रदेशी
त्यां सुधी के संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अने अनन्त प्रदेशी स्कंधनी
साथे मणीने अनन्त परिणामोने धारणु करशे तेथी न् अेक न् परमाणुना
भावी संयोग अनन्तगणु छे अने ते अनन्त संयोग भिन्न-भिन्न काणोमा
धनार छे न् क्षेत्रज्ञानथी न्शुय छे अने न्मे अेक परमाणुने अवि
संयोग अनन्त छे तेन प्रकारे अथा द्विप्रदेशी आदि स्कंधाना पणु
विलिन्न काणोमा धनारा अनन्त संयोग छे अेक प्रकारे क्षेत्रनी दृष्टिअे
पणु अेक अेक परमाणुना भावी संयोग अनन्त छे आ परमाणु अमुक
काणमा अमुक आकाशप्रदेशमा अवगाहन करशे अने अीन समयमा
कोठ अीन प्रदेशमा न्मेअे अेक परमाणुने भावी संयोग अनन्त छे, ते
प्रकारे अथा परमाणुना समणु लेवा न्नेअे तेन प्रकारे द्विप्रदेशी स्कंधथी
अर्थने अनन्त प्रदेशी स्कंध सुधीमा प्रत्येक विलिन्न आकाश प्रदेशोमां अय

भाविनः संयोगाः अनन्ता भवन्ति, तथैव कालतोऽपि अयं परमाणुरमुष्मिन् आकाशप्रदेशे एकसमयस्थितिको द्वयादिसमयस्थितिको वर्तते इत्येवमेकस्यापि परमाणोरेकस्मिन् आकाशप्रदेशे भाविनः संयोगाः असंख्याता भवन्ति, तथैव सर्वेष्वपि आकाशप्रदेशेषु प्रत्येकमसंख्येया भाविनः संयोगाः भवन्ति, ततः पौनः पुन्येन तेषु आकाशप्रदेशेषु कालस्य परावर्तनेऽनन्तत्वात् अनन्ताः कालतो भाविनः संयोगा भवन्ति, यथा चैकस्य परमाणोस्तथा सर्वेषां परमाणु द्विप्रदेशिकादिस्कन्धानां प्रत्येकं कालतो भाविनः अनन्ताः संयोगा अवसेयाः, एवं भावतोऽपि-अयंपरमाणुरमुष्मिन् काले एकगुणकालको भवति इत्येव मेकस्यापि परमाणोः

अनन्त प्रदेशी स्कंध तक में से प्रत्येक विभिन्न आकाश प्रदेशों में अवगाहन करेगा, अतएव भिन्न-भिन्न कालों में होने वाले भावी संयोग अनन्त हैं। इसी प्रकार काल की अपेक्षा भी यह परमाणु इस आकाश प्रदेश में एक समय की स्थिति वाला, दो आदि समयों की स्थिति वाला है इस प्रकार एक ही परमाणु के एक आकाशप्रदेश में भावी संयोग असंख्यात होते हैं, फिर पुनः पुनः उन आकाश-प्रदेशों में काल का परिवर्तन होने पर काल की अपेक्षा भी भावी संयोग अनन्त होते हैं। जैसे एक परमाणु के विषय में कहा गया है उसी प्रकार सभी परमाणु, द्विप्रदेशी स्कंध आदि प्रत्येक के काल की अपेक्षा भावी संयोग अनन्त समझ लेने चाहिये। इसी प्रकार भाव से समझना चाहिए, यथा-यह परमाणु इस काल में एक गुण काला होगा, इस प्रकार एक ही परमाणु के भिन्न-भिन्न कालीन संयोग अनन्त हैं। और जैसे एक परमाणु के उसी प्रकार सभी परमाणुओं

गाढेन करशे तेथीन लिन लिन काणोभा थनारा भावी संयोग अनन्त छे
 ओए रीते काणनी अपेक्षाओ पणु आ परमाणु आ आकाशप्रदेशमां ओक
 समयनी स्थितिवाणा ओ आदि समयोनी स्थितिवाणा छे ओ प्रकारे ओक ए
 परमाणुना ओक आकाश प्रदेशमा भावी संयोग असंख्यात थाय छे, इरी
 वारवार ओ आकाश प्रदेशोमा काणनु परिवर्तन थतां काणनी अपेक्षाओ पणु
 भावी संयोग अनन्त थाय छे नेम ओक परमाणुना विषयमा कडेलु छे, ते
 ए रीते यथा परमाणु, द्विप्रदेशी स्कंध आदि प्रत्येकना काणनी अपेक्षाओ
 भावी संयोग अनन्त समझ देवा नेधओ ओ ए प्रकारे भावधी समयपु
 नेधओ यथा आ परमाणु आ काणमा ओक गुण काणो थशे. ओ प्रकारे ओकए
 परमाणुना लिन-लिन कालीन संयोग अनन्त छे. अने नेम ओक परमाणुना

पृथक्पृथक्कालाः अनन्ताः संयोगाः भवन्ति, यथा चैकस्य परमाणोस्तथैव सर्वेषां परमाणु द्विप्रदेशिकादि स्कन्धानां पृथक् पृथक् अनन्ताः संयोगाः भावतो भवन्ति, इत्येवं रीत्या एरुस्यापि परमाणो द्रव्यक्षेत्रकालभावविशेषसम्बन्धवशादनन्ता भाविनः समया उपलब्धा भवन्ति यथैवैकस्य परमाणोस्तथैव सर्वेषां परमाणूनां सर्वेषाञ्च द्विप्रदेशिकादि स्कन्धानामत्रसेयम् तच्च परिणामिकाल वस्तु विना परिणामिपुद्गलास्तिकायादि वस्तु विना च नोपपन्नं भवति, तथा चोक्तम्—

‘संयोगपुरस्कारश्च नाम भाविनि हि युज्यते काले । न हि संयोगपुरस्कारो ह्यसतां केषांचिदुपपन्नः ॥१॥ इति । यथा च सर्वेषां परमाणुद्विप्रदेशिकादि स्कन्धानां प्रत्येकं द्रव्यक्षेत्रकालभावविशेषसम्बन्धवशादनन्ता भाविनोऽद्वास-

एवं द्विप्रदेशी आदि स्कंधों के पृथक्-पृथक् अनन्त संयोग भाव की अपेक्षा हैं। इस प्रकार विचार करने पर एक ही परमाणु के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव विशेष के सम्बन्ध से अनन्त भावी समय सिद्ध होते हैं। और जो बात एक परमाणु के विषय में हैं वही सब परमाणुओं एवं द्विप्रदेशिक आदि स्कंधों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। यह सब परिणमनशील काल नामक वस्तु के विना और परिणमनशील पुद्गलास्तिकाय आदि वस्तुओं के विना संगत नहीं हो सकता। कहा भी है—‘भावी काल की विद्यमानता होने पर ही भावी संयोग संयोग बन सकते हैं और असत् पदार्थों का संयोग हो नहीं सकता, अतएव पुद्गलास्तिकाय आदि को भी सत् ही मानना चाहिए।’

जिस प्रकार परमाणु, द्विप्रदेशिक आदि स्कंधों में से प्रत्येक के द्रव्य क्षेत्र काल भाव विशेष के सम्बन्ध से अनन्त भावी अद्वाकाल

ते न प्रकारे यथा परमाणुयो तेमन द्विप्रदेशी आदि स्कंधाना पृथक्-पृथक् अनन्त संयोगी भावनी अपेक्षाये छे. आ रीते विचार करवाथी ऐकन परमाणुना द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भाव विशेषना सम्बन्धथी अनन्त भावी समय सिद्ध थाय छे अने न वार ऐक परमाणुना विषयभा छे, तेन यथा परमाणुयो तेमन द्वि प्रदेशिक आदि स्कंधाना विषयभा पञ्च समथु लेवी ज्येथये. आ यधुं परिणमनशीलकाल नामक वस्तुना सिवाय अने परिणमनशील पुद्गलास्तिकाय आदि वस्तुयोना विना संगत नथी थर्ष शकतु. कहु पञ्च छे के—‘भावी कालनी विद्यमानता होय तो न भावी संयोग संयोग नी शके छे अने असत् पदार्थाना संयोग थर्ष नथी शकतो तेथीन वास्तिकाय आदिने पञ्च असत् न मानवु ज्येथये

रीते परमाणु, द्विप्रदेशिक आदि स्कंधाभाथी प्रत्येकना द्रव्य क्षेत्र

मयाः प्रतिपादितास्तथैव अतीता अपि अद्वासमयाः प्रतिपत्तव्याः इति पुद्गला-
स्तिकायादनन्तगुणोऽद्वासमयो द्रव्यार्थत्वेन सिद्धो भवति, अथ धर्मास्तिकाया-
दीनामेव प्रदेशार्थतयाऽल्पबहुत्वादिकं प्ररूपयितुमाह—‘एएसि षं भंते !’ गौतमः
पृच्छति—हे भदन्त ! एतेषां खलु ‘धम्मत्थिकाय अधम्मत्थिकाय आगासत्थि-
काय जीवत्थिकाय पोग्गलत्थिकाय अद्वासमयाणं’ धर्मास्तिकायाधर्मास्तिकाया-
काशास्तिकायजीवास्तिकायपुद्गलास्तिकायाद्वासमयानाम् मध्ये ‘पएसट्टयाए’
प्रदेशार्थतया ‘कयरे कयरेहिंत्तो’ कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला
वा, विसेसाहिया वा ?’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा
भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—गोयमा !’ हे गौतम ! ‘धम्मत्थिकाए अधम्मत्थि-
काए’ धर्मास्तिकायः, अधर्मास्तिकायः ‘एएणं दो वि तुल्ला पएसट्टयाए सव्व-
त्थोवा’ एतौ खलु द्वावपि प्रदेशार्थतया तुल्यौ परस्परं समानौ भवतः, द्वयोरपि
प्रतिपादित किए गए हैं, उसी प्रकार भूत अद्वाकाल भी समझ लेने
चाहिए। इस प्रकार अद्वाकाल पुद्गलास्तिकाय से द्रव्य की अपेक्षा
अनन्तगुणा सिद्ध होता है।

अब धर्मास्तिकाय आदि का प्रदेशों की अपेक्षा अल्पबहुत्व बत-
लाया जाता है—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन धर्मास्तिकाय,
अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय
और अद्वासमय में प्रदेशों की अपेक्षा से कौन किससे अल्प, बहुत,
तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! धर्मा-
स्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, ये दोनों प्रदेशों से तुल्य है। इन
दोनों के प्रदेश लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर ही हैं तथा अन्य द्रव्यों

का लोकाकाश विशेषना सम्बन्धती अनन्तलापी अद्वाकाल प्रतिपादित करायेल
छे, तेज्ज रीते भूत अद्वाकाण पणु समलु लेवे। जेधजे जे रीते अद्वाकाल
पुद्गलास्तिकायती द्रव्यती अपेक्षाजे अनन्त गणु। सिद्ध थाय छे

डेवे धर्मास्तिकाय आदिना प्रदेशोनी अपेक्षाजे अल्प, बहुत्व जातावाय छे

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—भगवन् ! आ धर्मास्तिकाय अधर्मास्ति-
काय आकाशास्तिकाय जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय अने अद्वा समयमा प्रदेशोनी
अपेक्षाजे कोणु कोनाथी अल्प, धणु, तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—डे गौतम ! धर्मास्तिकाय, अने अधर्मा-
स्तिकाय, आ अने प्रदेशोथी सरणा छे जे अनेना प्रदेश लोकाकाशना
प्रदेशोनी बराबर जे छे तथा अन्य द्रव्योनी अपेक्षाजे तेमना प्रदेश अधाथी

लोकाकाशप्रदेशपरिमाणप्रदेशत्वात् अन्यास्तिकायाद्धारामयापेक्षया च इमौ द्वावपि सर्वस्तोक्तो भवतः, ताभ्यामपि 'जीवत्थिकाए पएसद्वयाए अणंतगुणे' जीवास्तिकायः प्रदेशार्थतया अनन्तगुणो भवति, जीवास्तिकाये जीवानामनन्तत्वात्, एकैकस्य च जीवस्य लोकाकाशप्रदेशपरिमाणप्रदेशत्वात्, तदपेक्षयापि 'पोगलत्थिकाए पएसद्वयाए अणंतगुणे' पुद्गलास्तिकायः प्रदेशार्थतया अनन्तगुणो भवति, कर्मस्वरूपप्रदेशानामपि सर्वज्ञानप्रदेशेभ्योऽनन्तगुणत्वेन एकैकस्य जीवप्रदेशस्यानन्तान्तैः कर्मपरमाणुभिरावेष्टितपरिवेष्टितत्वेन च सकलपुद्गलास्तिकायप्रदेशानां सुतरामनन्तान्तैः कर्मपरमाणुभिरावेष्टितत्वसिद्धेः पुद्गलास्तिकायस्य जीवास्तिकायात् प्रदेशार्थतयाऽनन्तगुणत्वं सिद्धम्, तस्मादपि—'अद्धासमए पएसद्वयाए अणंतगुणे' अद्धारामयः प्रदेशार्थतया अनन्तगुणो भवति, एकै-

की अपेक्षा इनके प्रदेश सब से कम हैं। इन दोनों की अपेक्षा जीवास्तिकाय प्रदेशों से अनन्त गुणा हैं। क्योंकि जीव द्रव्य अनन्त हैं और उनमें से प्रत्येक के प्रदेश लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर हैं। जीवास्तिकाय की अपेक्षा पुद्गलास्तिकाय प्रदेशों से अनन्तगुणा हैं, क्योंकि पुद्गल की अन्य वर्गणाओं को छोड़ दिया जाय और सिर्फ कर्म वर्गणाओं को ही लिया जाय तो जीव का एक-एक प्रदेश अनन्त-अनन्त कर्म परमाणुओं से आवृत है अर्थात् जीव के प्रत्येक प्रदेश के साथ अनन्त-अनन्त कार्मण वर्गणा के परमाणु चिपटे हुए हैं, अतएव सहज ही यह सिद्ध हो जाता है कि जीवास्तिकाय के प्रदेशों की अपेक्षा पुद्गलास्तिकाय के प्रदेश अनन्तगुणित हैं। कर्मवर्गणा के अतिरिक्त औदारिक, वैक्रिय आदि अन्य अनेक वर्गणा भी हैं। पुद्गलास्तिकाय की अपेक्षा भी अद्धाकाल के प्रदेश अनन्तगुणित हैं,

ओछा छे आ गन्नेनी अपेक्षाओ लुवास्तिकाय प्रदेशोथी अनन्त गणु छे, केमके लुव द्रव्य अनन्त छे अने तेभनाभाथी प्रत्येकना प्रदेश लोकाकाशना प्रदेशोनी गराणर छे लुवास्तिकायनी अपेक्षाओ पुद्गलास्तिकाय प्रदेशोथी अनन्त गणु छे, केमके पुद्गलनी अन्य वर्गणाओने न लेवामा आवेतो लुवना ओक ओक प्रदेश अनन्त अनन्त कर्म परमाणुओथी आवृत्त छे अर्थात् लुवना प्रत्येक प्रदेशना साथे अनन्त-अनन्त कार्मणु वर्गणाना परमाणु ओटोला होय छे, तेथी न स्वाभाविक रीते आ सिद्ध थथ नय छे के लुवास्तिकायना प्रदेशोनी अपेक्षाओ पुद्गलास्तिकायना प्रदेश अनन्त गुणित छे. कर्मवर्गणाथी अतिरिक्त औदारिक, वैक्रिय आदि अन्य अनेक वर्गणा पणु छे पुद्गलास्तिकायनी अपेक्षाओ पणु अद्धाकालना प्रदेश अनन्त गुणित छे

कस्य पुद्गलास्तिकाय प्रदेशस्य पूर्वोक्तानुसारेण तत्तद् द्रव्यक्षेत्रकालभावविशेष-
सम्बन्धवशादनन्तानागतीतः स्यात्समयानाम् अनन्तानामनागतसमयानां सद्भावात्,
तस्मादपि—‘आगासत्थिकाए पएसट्टयाए अणंतगुणे’ आकाशास्तिकायः प्रदेशार्थ-
तया अनन्तगुणो भवति, सर्वापेक्षयापि अलोकस्य अनन्तत्वरत्तद्भावात् इत्याशयः,
अथ प्रत्येकं धर्मास्तिकायादीनाम् द्रव्यार्थप्रदेशार्थनयाऽल्पबहुत्वं प्ररूपयितुमाह—
‘एयस्स णं मंते ! धम्मत्थिकायस्स’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतरय खलु
धर्मास्तिकायस्य’ ‘द्व्वट्टपएसट्टयाए’ द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया ‘कयरे कयरेहितो’
कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?’ अल्पा
वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा’
हे गौतम ! ‘सव्वत्थोवे एगे धम्मत्थिकाए द्व्वट्टयाए’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पः

क्योंकि एक-एक पुद्गलास्तिकाय के पहले कहे अनुसार विभिन्न
द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के सम्बन्ध के कारण अतीत और अनागत
समय अनन्त-अनन्त हैं। अद्वाकाल की अपेक्षा आकाशास्तिकाय प्रदेशों
की दृष्टि से अनन्तगुणा है, क्योंकि लोकाकाश अनन्त-असीम है।

अब धर्मास्तिकाय आदि का द्रव्य और प्रदेश-दोनों की अपेक्षा
से अल्पबहुत्व प्ररूपित करते हैं—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इस धर्मास्तिकाय
के द्रव्य और प्रदेश में से कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेष-
षाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! धर्मास्तिकाय द्रव्य
की अपेक्षा सब से कम अल्प एक है और प्रदेशों की अपेक्षा वह
असंख्यात गुणा हैं।

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! अधर्मास्तिकाय के
द्रव्य और प्रदेशों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक

केमके ओक ओक पुद्गलास्तिकायना आगण क्ख्हा अनुसार, विविन्न द्रव्य, क्षेत्र,
काल अने भावना सम्बन्धना कारणे अतीत अने अनागत समय अनन्त
अनन्त छे अद्वाकाणनी अपेक्षाओ आकाशास्तिकाय प्रदेशोनी दृष्टियो अनन्त
गण्णा छे, केमके अलोकाकाश अनन्त असीम छे.

हुवे धर्मास्तिकाय आदिना द्रव्य अने प्रदेश णन्नेनी अपेक्षाओ अल्प
अहुत्व प्ररूपित करे छे

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—भगवन् ! आ धर्मास्तिकायना द्रव्य अने
प्रदेशोमा केण्णु केनाथी अल्प, धण्णा, तुल्य अगार विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! धर्मास्तिकाय द्रव्यनी अपेक्षाओ

धर्मास्तिकायो द्रव्यार्थतया—द्रव्यत्वेन भवति, एकत्वात्, 'से चैव पएसद्वयाए असंखेज्जगुणे' स चैव धर्मास्तिकायः प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणो भवति, तस्य लोकाकाशप्रदेशपरिमाणप्रदेशत्वात्,

अथाधर्मास्तिकायस्याल्पबहुत्वं प्ररूपयितुमाह—'एयस्स णं भंते ! अधम्मत्थिकायस्स' गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतस्य खलु अधर्मास्तिकायस्य 'द्व्वद्वपएसद्वयाए' द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया 'कयरे कयरेहितो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! सव्वत्थोवे एगे अधम्मत्थिकाए द्व्वद्वयाए' सर्वस्तोकः—सर्वेभ्योऽल्पः, अधर्मास्तिकायो द्रव्यार्थतया भवति, एकत्वात्, 'से चैव पएसद्वयाए असंखेज्जगुणे' स चैव—अधर्मास्तिकायः प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणो भवति तस्य लोकाकाशप्रदेशपरिमाणप्रदेशात्मकत्वात्,

अथाकाशास्तिकायस्य द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया अल्पबहुत्वादिकं प्ररूपयितुमाह—'एयस्स णं भंते ! आगासत्थिकायस्स' गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतस्य खलु आकाशास्तिकायस्य 'द्व्वद्वपएसद्वयाए' द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया 'कयरे कयरेहितो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्वत्थोवे एगे आगासत्थिकाए द्व्वद्वयाए' सर्वस्तोकः—

हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—सब से अल्प अधर्मास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा से है, क्योंकि वह एक द्रव्य ही है, मगर असंख्यात प्रदेशी होने के कारण प्रदेशों की दृष्टि से वह असंख्यातगुणा है ।

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! द्रव्य और प्रदेश की दृष्टि से आकाशास्तिकाय का अल्प-बहुत्व क्या है ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! आकाशास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा से सब

अधार्थी ओछा ओक छे अने प्रदेशानी अपेक्षाअे ते असंख्यात गणु छे

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे—भगवन् ! अधर्मास्तिकायना द्रव्य अने प्रदेशोभा केषु कानाथी अल्प, धणु, तुल्य अगरोतो विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—अधार्थी ओछा अधर्मास्तिक द्रव्यनी अपेक्षाअे छे केभके ते ओक द्रव्य न छे, परन्तु असंख्यात प्रदेशी होवानी कारणे प्रदेशोनी दृष्टिअे ते असंख्यात गणु छे

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे—भगवन् ! द्रव्य अने प्रदेशनी दृष्टिअे आकाशास्तिकायनु अल्प बहुत्व शु छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! आकाशास्तिकाय द्रव्यनी

सर्वेभ्योऽपि अल्पः, आकाशास्तिकायो द्रव्यार्थतया भवति, तस्य एकत्वात् 'से चैव पएसद्वयाए अगंतगुणे' स चैव आकाशारितकायः प्रदेशार्थतया अनन्त-गुणो भवति, तस्यापरिमितत्वात्,

अथ जीवास्तिकायस्य द्रव्यार्थप्रदेशार्थतयाऽल्पवद्द्रव्यादिकम् प्ररूपयति-
'एयस्स णं भंते ! जीवत्थिकायस्य दव्वट्टपएसद्वयाए' गौतमः पृच्छति-हे भदन्त !
एतस्य खलु जीवास्तिकायस्य द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया 'कयरे कयरेहिंतो' कतरे कतरे-
भ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्लवा वा, विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा,
तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति-'गोयमा !' हे गौतम
'सव्वत्थोवे जीवत्थिकाए दव्वट्टयाए' सर्वस्तोकः-सर्वेभ्योऽल्पो जीवास्तिकायो
द्रव्यार्थतया भवति, 'से चैव पएसद्वयाए असंखेज्जगुणे' स चैव प्रदेशार्थतया
असंख्येयगुणो भवति. प्रतिनीवं लोकाकाशप्रदेशपरिमाणप्रदेशत्वाद्,

से अल्प है, क्योंकि एक है, मगर प्रदेशों की अपेक्षा से वह अनन्त-गुणा है अर्थात् उसके प्रदेश अनन्त हैं। तात्पर्य यह है कि द्रव्य से आकाशास्तिकाय एक है और प्रदेशों से अनन्त है, अतः द्रव्य की अपेक्षा प्रदेशों से उसे अनन्तगुणा कहना उचित ही है।

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं-हे भगवन् ! द्रव्य और प्रदेश की अपेक्षा से जीवास्तिकाय में कौन किससे अल्प, बहुत तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं-हे गौतम ! द्रव्य की अपेक्षा जीवास्तिकाय अल्प है और प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यातगुणा है, क्योंकि एक-एक जीव के लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर असंख्यात-असंख्यात प्रदेश हैं।

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं-हे भगवन् ! द्रव्य और प्रदेश

अपेक्षाये णधाथी अल्पे छे केमके अेक छे. परन्तु प्रदेशोनी अपेक्षाये ते अनन्त गण्णा छे अर्थात् तेभना प्रदेश अनन्त छे. तात्पर्य अे छे के द्रव्यथी आकाशास्तिकाय अेक छे अने प्रदेशोअे अनन्त छे तेथी द्रव्यनी अपेक्षाअे प्रदेशोथी तेने अनन्त गण्णु कडेवु न्दधअे.

श्री जीवतस्वामी प्रश्न करे छे-भगवन् ! द्रव्य अने प्रदेशोनी अपेक्षाअे ल्वास्तिकायमा केअु केनार्थी अल्प, धण्णा, तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे-हे गौतम ! द्रव्यनी अपेक्षाअे ल्वास्तिकाय अल्प छे अने प्रदेशोनी अपेक्षाअे असंख्यात गण्णु' छे, केमके अेक अेक लवना लोकाकाशना प्रदेशोना बराबर असंख्यात-असंख्यात प्रदेश छे

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे-भगवन् ! द्रव्य अने प्रदेशोनी अपेक्षाअे

अथ पुद्गलास्तिकायस्य द्रव्यार्थप्रदेशार्थतयाऽल्प वहुत्वं प्रतिपादयति—‘एयस्स पं भंते ! पोग्गलत्थिकायस्य, दव्वट्ठपएसट्ठयाए’ गौतमः पृच्छति—हे मदन्त ! एतस्स खलु पुद्गलास्तिकायस्य द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया ‘कयरे कयरेहिंतो’ कतरे कतरेभ्यः, ‘अप्पा वा, वहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा’ अल्पा वा, बहुया वा, तुल्या वा. विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सव्वत्थोवे पोग्गलत्थिकाए दव्वट्ठयाए’ सर्वस्तो हः—सर्वेभ्योऽल्पः, पुद्गलास्तिकायो द्रव्यार्थतया भवति, द्रव्याणां सर्वत्रैवालपत्तात् ‘से चैव पएसट्ठयाए असंखेज्जगुणे’ स चैव—पुद्गलास्तिकायः प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणो भवति, अथ बहूनां लोकेऽनन्तप्रदेशिकानां स्कन्धानां सत्त्वेनानन्तगुणत्वमेव पुद्गलास्तिकायस्य, नासंख्येयगुणत्वमिति चेदत्रोच्यते—‘सव्वत्थोवा अणतपएसिया खंधा दव्वट्ठयाए. परमाणु पोग्गला दव्वट्ठयाए अणंतगुणा, संखेज्जपएसिया खंधा दव्वट्ठयाए संखेज्जगुणा, असंखेज्जपएसिया खंधा दव्वट्ठयाए असंखेज्ज-

की अपेक्षा से पुद्गलास्तिकाय में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! द्रव्य की अपेक्षा पुद्गलास्तिकाय कम हैं, क्योंकि प्रदेशों से द्रव्य कम ही होते हैं, प्रदेशों की अपेक्षा वह असंख्यातगुणा है। प्रश्न किया जा सकता है कि लोक में अनन्तप्रदेशी स्कन्ध बहुत हैं, अतएव पुद्गलास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा प्रदेशों से अनन्तगुणा होना चाहिए, असंख्यात गुणा नहीं ? इसका समाधान करने के लिए कहा गया है—‘द्रव्य की दृष्टि से अनन्तप्रदेशी स्कंध सब से कम हैं, परमाणु पुद्गल उनकी अपेक्षा अनन्तगुणा हैं, संख्यातप्रदेशी स्कंध संख्यातगुणा हैं और असंख्यातप्रदेशी स्कंध असंख्यातगुणा हैं।’ यह कथन आगे किया जाएगा, इस के अनुसार अनन्तप्रदेशी स्कंध अत्यन्त अल्प हैं

पुद्गलास्तिकायमा कोणु कोनाथी अल्प, धणु, तुल्य अजरतो विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—द्रव्यनी अपेक्षाये पुद्गलास्तिकाय ओछा छे, केमके प्रदेशोथी द्रव्य ओछा न् डोय छे प्रदेशोनी अपेक्षाये ते असंख्यात गणु छे प्रश्न करी शकय छे के लोकमा अनन्त प्रदेशी स्कंध धणु छे तेथी न् पुद्गलास्तिकाय द्रव्यनी अपेक्षाये प्रदेशोथी अनन्त गणु डोया लेधये, असंख्यातगणु नहीं ? तेतु समाधान करवा भाटे कलु छे के ‘द्रव्यनीदृष्टिअये अनन्त प्रदेशी स्कन्ध अधाथी स्वल्प छे, परमाणु पुद्गल तेमनी अपेक्षाये अनन्त गणु छे, संख्यात प्रदेशी स्कन्ध संख्यात गणु छे अने असंख्यात प्रदेशी स्कन्ध असंख्यात गणु छे’ आ कथन आगण करवामा आवथे.

गुणा' इति वक्ष्यमाणदचनप्रामाण्यात्, अनन्तप्रदेशिकस्कन्धानां स्वल्पत्वेन परमाणादीनामतिबहुत्वेन, सर्वस्यैव पुद्गलास्तिकायस्य प्रदेशार्थतया प्ररूपणे- अनन्तप्रदेशिक स्कन्धानामतिस्तोकत्वात्, परमाणुनाञ्चातिबहुत्वेन तेषां पृथक् पृथक् द्रव्यत्वात् असंख्येयप्रदेशिकानाञ्च स्कन्धानाम् परमाणापेक्षयाऽसंख्येय- गुणत्वात् असंख्येयगुणत्वमेव पुद्गलास्तिकायस्य प्रदेशार्थनया भवति, नानन्त- गुणत्वमिति भावः, 'अद्वासमए न पुच्छिञ्जइ, पएसाभावा' अद्वासमगो न पृच्छयते-द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया न प्ररूप्यते, प्रदेशाभावात्,

अथ अद्वासमयानां द्रव्यार्थता नियमे वा वाचो युक्तिः ? तेषां प्रदेशार्थताया अपि वक्तुं शक्यत्वात् यथाऽनन्तानां परमाणुनां समुदायात्मकस्य स्कन्धस्य द्रव्यत्वं तदवयवप्रदेशत्वञ्च भवति तथैव सकलस्यैव कालस्य द्रव्यत्वं तदवयवत्वञ्च समया-

और परमाणु उनकी अपेक्षा अत्यधिक हैं और वे सब पृथक्-पृथक् द्रव्य हैं, कारण असंख्यात प्रदेशी स्कंध परमाणुओं की अपेक्षा असंख्यातगुणा ही हैं। इस प्रकार पुद्गलास्तिकाय प्रदेशों की दृष्टि से असंख्यातगुणा ही हो सकता है, अनन्तगुणा नहीं हो सकता।

अद्वासमय अर्थात् काल द्रव्य के विषय में द्रव्य और प्रदेशों के अल्प-बहुत्व को लेकर प्रश्न नहीं करना चाहिए क्योंकि काल के प्रदेश नहीं होते हैं। प्रश्न हो सकता है कि काल द्रव्य ही है, उसके प्रदेश नहीं हैं, इस विषय में युक्ति क्या है ? जैसे अनन्त परमाणुओं का समूह रूप स्कंध द्रव्य कहलाता है और उसके अवयव प्रदेश कहलाते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण काल को द्रव्य और अवयवों को प्रदेश कहा जा सकता है ? इसका उत्तर यह है कि यहाँ दृष्टान्त और

तदनुसार अनन्त प्रदेशी स्कन्ध अत्यन्त अल्प छे अने परमाणु तेमनी अपेक्षाये अत्यधिक छे अने तेयो अथा पृथक् पृथक् द्रव्य छे, अे कारणे असंख्यात प्रदेशी स्कन्ध परमाणुयोनी अपेक्षाये असंख्यात गणा न छे आ प्रकारे पुद्गलास्तिकाय प्रदेशोनी दृष्टिअे असंख्यात गणा न होथ शके, अनन्तगणा थथ शकता नथी.

अद्वासमय अर्थात् काल द्रव्यना विषयमा द्रव्य अने प्रदेशोना अल्प बहुत्वने लधने प्रश्न न करवे। जेधअे डेभके कालने प्रदेश नथी होता प्रश्न करी शकय छे डे काल द्रव्य न छे तेने प्रदेश नथी, आ विषयमा युक्ति कथ छे ? जेम अनन्त परमाणुयोनी समूह रूप स्कन्ध द्रव्य कहेवाय छे अने तेना अवयव प्रदेश कहेवाय छे, तेन रीते संपूर्ण कालने द्रव्य अने तेना अवयवोने प्रदेश कही शकय छे ? तेना उत्तर आ छे डे अही दृष्टान्त अने

अथ पुद्गलास्तिकायस्य द्रव्यार्थप्रदेशार्थतयाऽल्प नृत्त्व प्रतिपादयति—‘एयस्त
ण भन्ते ! पोगलत्थिकायस्य, द्रव्यद्रूपसदृशाण’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त !
एतास्त खलु पुद्गलास्तिकायस्य द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया ‘क्यरे क्यरेहिंतो’ कतरे
कतरेभ्यः, ‘अल्पा वा, बहुया वा, गुल्पा वा, विसेसादिधा वा’ अल्पा वा, बहुका
वा, तुल्या वा. विशेषाधिका वा भान्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे
गौतम ! ‘सव्यत्थोत्रे पोगलत्थिकाय द्रव्यद्रुपाण’ सर्वास्नो हः—सर्वेभ्योऽल्पः,
पुद्गलास्तिकायो द्रव्यार्थतया भवति, द्रव्याणा सर्वाणां पत्तात् ‘मे चैव परसदृ-
याण अमंखेज्जगणे’ स चैव—पुद्गलान्तिकायः प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणो
भवति, अथ वदना लोकेऽनन्तप्रदेशिकाना स्तान्त्वाना सर्वेनानन्तगुणत्वमेव
पुद्गलास्तिकायस्य, नासंख्येयगुणत्वमिति चेदत्रोच्यते—‘सव्यत्थोत्रे अणत्पए-
सिया संधा द्रव्यद्रुयाण, परमाणु पोगला द्रव्यद्रुयाण अणत्गुणा, संखेज्जपएसिया
समा द्रव्यद्रुयाण संखेज्जगुणा, असंखेज्जपएसिया संधा द्रव्यद्रुयाण असंखेज्ज-
की अपेक्षा से पुद्गलास्तिकाय मे कौन हिससे अल्प, बहुत, तुल्य
या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! द्रव्य की
अपेक्षा पुद्गलास्तिकाय कम हैं, क्योकि प्रदेशों से द्रव्य कम ही
होते हैं, प्रदेशों की अपेक्षा यह असंख्यातगुणा है। प्रश्न किया जा
सकता है कि लोका मे अनन्तप्रदेशी स्कन्ध बहुत है, अतएव पुद्गला-
स्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा प्रदेशो से अनन्तगुणा होना चाहिए, असं-
ख्यात गुणा नहीं ? इसका समाधान करने के लिए कहा गया है—
‘द्रव्य की दृष्टि से अनन्तप्रदेशी स्कंध राव से कम है, परमाणु पुद्-
गल उनकी अपेक्षा अनन्तगुणा हैं, संख्यातप्रदेशी स्कंध संख्यातगुणा
हैं और असख्यातप्रदेशी स्कंध असंख्यातगुणा हैं।’ यह कथन आगे
किया जाएगा, इस के अनुसार अनन्तप्रदेशी स्कंध अत्यन्त अल्प हैं

पुद्गलास्तिकायमा केणु केनाथी अल्प, धणा, तुल्य आगरीते विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—द्रव्यनी अपेक्षाये पुद्गलास्तिकाय ओछा छे,
केमके प्रदेशोथी द्रव्य ओछा न् छाय छे प्रदेशोनी अपेक्षाये ते अस प्यात
गणु छे प्रक्ष करी शकय छे के लोकमां अनन्त प्रदेशी स्कंध धणा छे, तेथी
न पुद्गलास्तिकाय द्रव्यनी अपेक्षाये प्रदेशोथी अनन्त गणु छेवा नोछये,
अस प्यातगणु नहीं ? तेनु समाधान करवा माटे कहु छे के ‘द्रव्यनीदृष्टिअये
अनन्त प्रदेशी स्कन्ध अधाथी स्वल्प छे, परमाणु पुद्गल तेमनी अपेक्षाअये
अनन्त गणु छे, स प्यात प्रदेशी स्कन्ध स प्यात गणु छे अने अस प्यात
प्रदेशी स्कन्ध अस प्यात गणु छे” आ कथन आगल करवामा आवरी.

गुणा' इति वक्ष्यमाणद्वचनप्रामाण्यात्, अनन्तप्रदेशिकस्कन्धानां स्वल्पत्वेन पर-
माणादीनामतिबहुत्वेन, सर्वस्यैव पुद्गलास्तिकायस्य प्रदेशार्थतया प्ररूपणे-
अनन्तप्रदेशिक स्कन्धानामतिस्तोकत्वात्, परमाणुनाञ्चातिबहुत्वेन तेषां पृथक्
पृथक् द्रव्यत्वात् असंख्येयप्रदेशिकानाञ्च स्कन्धानाम् परमाणापेक्षयाऽसंख्येय-
गुणत्वात् असंख्येयगुणत्वमेव पुद्गलास्तिकायस्य प्रदेशार्थनया भवति, नानन्त-
गुणत्वमिति भावः, 'अद्वासमए न पुच्छिञ्जइ, पएसाभावा' अद्वासमगो न
पृच्छयते—द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया न प्ररूप्यते, प्रदेशाभावात्,

अथ अद्वासमयानां द्रव्यार्थता नियमे वा वाचो युक्तिः ? तेषां प्रदेशार्थताया
अपि वक्तुं शक्यत्वात् यथाऽनन्तानां परमाणूनां समुदायात्मकस्य स्कन्धस्य द्रव्यत्वं
तदवयवप्रदेशत्वञ्च भवति तथैव सकलस्यैव कालस्य द्रव्यत्वं तदवयवत्वञ्च समया-

और परमाणु उनकी अपेक्षा अत्यधिक हैं और वे सब पृथक्-पृथक्
द्रव्य हैं, कारण असंख्यात प्रदेशी स्कंध परमाणुओं की अपेक्षा असं-
ख्यातगुणा ही हैं। इस प्रकार पुद्गलास्तिकाय प्रदेशों की दृष्टि से
असंख्यातगुणा ही हो सकता है, अनन्तगुणा नहीं हो सकता।

अद्वासमय अर्थात् काल द्रव्य के विषय में द्रव्य और प्रदेशों के
अल्प-बहुत्व को लेकर प्रश्न नहीं करना चाहिए क्योंकि काल के
प्रदेश नहीं होते हैं। प्रश्न हो सकता है कि काल द्रव्य ही है, उसके
प्रदेश नहीं हैं, इस विषय में युक्ति क्या है ? जैसे अनन्त परमाणुओं
का समूह रूप स्कंध द्रव्य कहलाता है और उसके अवयव प्रदेश कह-
लाते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण काल को द्रव्य और अवयवों को प्रदेश
कहा जा सकता है ? इसका उत्तर यह है कि यहां दृष्टान्त और

तदनुसार अनन्त प्रदेशी स्कन्ध अनन्त अल्प छे अने परमाणु तेमनी
अपेक्षाये अत्यधिक छे अने तेओ अधा पृथक् पृथक् द्रव्य छे, अे कारणे
असंख्यात प्रदेशी स्कन्ध परमाणुओनी अपेक्षाये असंख्यात गणुा न छे
आ प्रकारे पुद्गलास्तिकाय प्रदेशोनी दृष्टिअे असंख्यात गणुान् होथ शके,
अनन्तगणुा थय शकता नथी

अद्वा समय अर्थात् काल द्रव्यना विषयमा द्रव्य अने प्रदेशोना अल्प
अहुत्वने लधने प्रश्न न करवो जेधअे केमके कारणे प्रदेश नथी होता प्रश्न
करी शकय छे के काल द्रव्य न छे तेने प्रदेश नथी, आ विषयमा युक्ति
कथ छे ? जेभ अनन्त परमाणुओना समूह रूप स्कन्ध द्रव्य कडेवाय छे अने
तेना अवयव प्रदेश कडेवाय छे, तेन रीते सम्पूर्ण कारणे द्रव्य अने तेना
अवयवोने प्रदेश कही शकय छे ? तेना उत्तर आ छे के अही दृष्टान्त अने

त्मरूपप्रदेशत्वं संभवतीति नेदत्रोच्यते प्रकृते दृष्टान्तद्वार्ष्टान्तिकयोर्माहावैषम्यात्, तथाहि—‘परस्परसापेक्षतया परिणमनमाले वन परमाणुना समुदायरय स्कन्धरूप-तया परस्परनिरपेक्षाणा केवलपरमाणुनामिव स्कन्धत्वायोगात्, अद्वासमयानान्तु परस्पर निरपेक्षत्वमेव, वर्तमानसमयभावे पूर्वापरसमययोगभावेन स्कन्धत्व परिणामाभावात्, तदभावाच्च नाद्वासमयाः प्रदेशाः संभवन्ति, किन्तु पृथगेव द्रव्याणि इत्याशयः । अथामीया धर्मास्तिकायादीनां समेपा सहैव द्रव्यार्थप्रदेशार्थतयाऽव्यवहृत्वादिकं स्वरूपयति—‘एणमि णं भते । धम्मत्थिकाय अयम्मत्थिकाय आगासकाय जीवत्थिकाय पोगलत्थिकाय अद्वासमयाण दवाट्टपणसट्टयाए य’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतेषा खुलु धर्मास्तिकायाधर्मास्तिकायाकाशास्तिकाय जीवास्तिकायपुद्गलारित्तिकायाद्वासमयाना द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया च ‘कयरे कयरे-दाष्टान्तिक में महान् विषमता है । जब परमाणु परस्पर सापेक्ष हो कर अर्थात् एकमेक होकर परिणत होते हैं तभी उनका समुदाय स्कन्ध कहलाता है । यदि वे परमाणु परस्पर निरपेक्ष हों तो उनके समूह को स्कन्ध नहीं कह सकते । अद्वासमय परस्पर निरपेक्ष हैं, स्कन्ध के समान परस्पर सापेक्ष द्रव्य नहीं हैं । जब वर्तमान समय होता है तो उससे आगे और पीछे के समय का अभाव होता है, अतएव उन में स्कन्ध रूप परिणाम का अभाव है और इसी कारण अद्वासमय के प्रदेशों का अभाव कहा गया है । अद्वाकाल पृथक्-पृथक् द्रव्य हैं ।

अथ पूर्वोक्त धर्मास्तिकाय आदि भव का एक साथ द्रव्य और प्रदेश की अपेक्षा से अल्पवहुत्व बतलाया जाता है—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन धर्मास्तिकाय,

दाष्टान्तिकमा महान् विषमता छे न्यारे परमाणु परस्पर सापेक्ष थधने अर्थात् ओकमेक थधने परिणत थाय छे त्यारे तेमने समुदाय स्कन्ध कडेवाय छे जे ते परमाणुओ परस्पर निरपेक्ष छेय तो तेमना समूहने स्कन्ध नहीं कडि शकतो अद्वा समय परस्पर निरपेक्ष छे स्कन्धना समान परस्पर सापेक्ष द्रव्य नहीं, न्यारे वर्तमान समय छेय तो तेना आगण अने पाछणना समयने अभाव छेय छे तेथी ज तेमनामा स्कन्ध रूप परिणामने अभाव छे अने तेज कारणे अद्वासमयना प्रदेशोने अभाव कडेल छे अद्वा काल पृथक् पृथक् द्रव्य छे

हुवे पूर्वोक्त धर्मास्तिकाय आदि अधाना ओक साथे द्रव्य अने प्रदेशनी अपेक्षाओ अल्प बहुत्व बतावाय छे

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—भगवन् ! आ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय

हिंतो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा?' अप्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति - 'गोयमा !' हे गौतम ! 'धम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए' धर्मास्तिकायः, अधर्मास्तिकायः, आकाशास्तिकायश्च 'एए तिन्नि वि तुल्ला दव्व-द्वयाए सव्वत्थोवा' एते त्रयोऽपि धर्मास्तिकायादयो द्रव्यार्थतया-द्रव्यार्थिकनयेन तुल्याः समानाः, सर्वस्तोकाश्च-सर्वेभ्योऽल्पाः सन्ति, तेषां प्रत्येकमेकसंख्याक-त्वात्, तेभ्योऽपि-'धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए य' धर्मास्तिकायः, अधर्मास्ति-कायश्च 'एएसि णं दोन्नि वि तुल्ला पएसद्वयाए असंखेज्जगुणा' एतो खलु द्वावपि प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणौ भवतः, स्वस्थाने तु परस्परं तुल्यौ स्तः, ताभ्यामपि 'जीवत्थिकाए दव्वद्वयाए अणंतगुणे' जीवास्तिकायो द्रव्यार्थतया अनन्तगुणो

अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और अद्धासमय में से द्रव्य और प्रदेश की अपेक्षा कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं? भगवान् उत्तर देते हैं-हे गौतम ! धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, ये तीनों परस्पर में तुल्य हैं, क्योंकि तीनों ही एक-एक द्रव्य हैं, अतएव सबसे अल्प हैं। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये दोनों प्रदेशों की अपेक्षा परस्पर तुल्य हैं मगर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यातगुणा हैं। तात्पर्य यह है कि द्रव्य से धर्मास्तिकाय एक है और अधर्मास्ति काय भी एक हैं, मगर दोनों के प्रदेश असंख्यात-असंख्यात हैं, इनके प्रदेशों में कोई न्यूनाधिकता नहीं है। इस कारण द्रव्य से प्रदेश असंख्यातगुणा हैं। द्रव्य की अपेक्षा जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय से अनन्तगुणा है, क्योंकि जीव द्रव्य अनन्त

आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय अने अद्धा समयमाथी द्रव्य अने प्रदेशोनी अपेक्षाये कोणु कोनाथी अल्प, धणा, तुल्य अगार विशेषाधिक छे ? श्री भगवान् उत्तर आपे छे-हे गौतम ! धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय अने आकाशास्तिकाय आ त्रणे परस्परमा तुल्य छे केमके त्रणे अेक अेक द्रव्य छे, तेथीअ अधाथी जोछा छे, धर्मास्तिकाय अने अधर्मास्तिकाय आ अन्ने प्रदेशोनी अपेक्षाये परस्पर तुल्य छे परन्तु प्रदेशोनी अपेक्षाये अस ज्यात गणु छे तात्पर्य आ छे के द्रव्यथी धर्मास्तिकाय अेक छे अने अधर्मास्तिकाय पणु अेक छे. पणु अन्नेना प्रदेश अस ज्यात-अस ज्यात छे, तेमना प्रदेशोमा कोण न्यूनाधिकता नथी अे कारणे द्रव्यथी प्रदेश अस ज्यात गणु छे द्रव्यनी अपेक्षाये जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय अने अधर्मास्तिकायथी अनन्तगणु छे

भवति अनन्तानां जीवद्रव्याणां सद्भावात्, 'से चैव पण्ड्याण अंखेज्जगणे' स चैव-जीवास्तिकायः प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणो भवति, प्रतिजीवमसंख्येयानां प्रदेशानां सद्भावात्, तस्मादपि प्रदेशार्थिकजीवास्तिकायात् 'पोग्गलात्थिकाए दव्वट्टयाए अणंतगुणे' पुद्गलास्तिकायो द्रव्यार्थतया अनन्तगुणो भवति, प्रति जीवप्रदेशम् जानावरणीयदर्शनारणीयादिर्म्मपुद्गलरूपाणामपि अनन्तानां सद्भावात्, 'से चैव पण्ड्याण अंखेज्जगणे' स चैव पुद्गलास्तिकायः प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणो भवति, प्रागुक्तयुक्तेः वक्ष्यमाणवचनप्रामाण्यात्, तस्मादपि 'अट्टाममए दव्वट्टपण्ड्याण अणंतगुणे' अद्वासमयो द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया अनन्तगुणो भवति, प्रागुक्तयुक्तेः, तस्मादपि-'आगासत्थिकाए पण्ड्याण अणंतगुणे' आकाशास्तिकायः प्रदेशार्थतया अनन्तगुणो भवति, मर्वास्वपि दिक्षु आकाशास्तिकायस्यानन्ताभावान् । अद्वासमयस्य च मनुष्यक्षेत्रमात्रं सद्भावात्, इति 'दारं' एत्तोनिशम् अस्तिकायद्वारम् समाप्तम् ॥ सू० २६ ॥

हैं । जीवास्तिकाय प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यातगुणा है, क्योंकि एक-एक जीव के असंख्यात-असंख्यान प्रदेश होते हैं । प्रदेशरूप जीवास्तिकाय से द्रव्य रूप पुद्गलास्तिकाय अनन्तगुणा है, क्योंकि जीव के एक-एक प्रदेश के साथ अनन्त-अनन्त कर्म पुद्गल द्रव्य संबद्ध हैं । द्रव्यरूप पुद्गलास्तिकाय की अपेक्षा प्रदेशरूप पुद्गलास्तिकाय असंख्यात गुणा है । इस विषय में युक्ति पहले कही जा चुकी है, आगे कहा जाने वाला वचन इस विषय में प्रमाण है । उसकी अपेक्षा भी अद्वासमय द्रव्य और प्रदेश से अनन्त गुणा है । इस विषय में भी युक्ति पहले कही जा चुकी है । अद्वासमय की अपेक्षा आकाशास्तिकाय प्रदेशों की दृष्टि से अनन्तगुणा है, क्योंकि आकाशास्तिकाय सभी दिशाओं में अनन्त है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है जब कि

केमके एव द्रव्य अनन्त छे एवास्तिकाय प्रदेशोनी अपेक्षाओ असंख्यातगुणा छे, केमके ओक-ओक एवना असंख्यात-असंख्यात प्रदेश थाय छे प्रदेश इय एवास्तिकायथी द्रव्य इय पुद्गलास्तिकाय अनन्तगुणा छे, केमके एवना ओक-ओक प्रदेशोनी साथे अनन्त अनन्त कर्मपुद्गल द्रव्य संबद्ध छे द्रव्य इय पुद्गलास्तिकायनी अपेक्षाओ प्रदेश इय पुद्गलास्तिकाय असंख्यातगुणा छे. आ विषयमा युक्ति पडेला कडेवाओली छे, आगण कडेवामा आवनारा वचन आ विषयमा प्रमाण छे. तेनी अपेक्षाओ पण अद्वासमय द्रव्य अने प्रदेशथी अनन्तगुणा छे आ विषयमा पण युक्ति पडेला कडेवाओ गछ छे अद्वासमयनी अपेक्षाओ आकाशास्तिकाय प्रदेशोनी दृष्टिथी अनन्तगुणा छे, केमके आकाशास्तिकाय

चरमद्वारवक्तव्यता-

मूलम्-एएसि णं भंते ! जीवाणं चरिमाणं अचरिमाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा अचरिमा, चरिमा अणंतगुणा, दारं २२ ॥सू० २७॥

छाया--एतेषां खलु भदन्त ! जीवानां चरमागाम् अचरमाणाञ्च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः जीवाः अचरमाः, चरमाः अनन्तगुणाः, द्वारम् २२ ॥सू० २७॥

टीका-अथ चरमद्वारमधिकृत्य जीवाल्लवहुत्वादिकं प्ररूपयितुमाह--'एएसि णं भंते ! जीवाणं' गौतमः पृच्छति-हे भदन्त ! एतेषां खलु जीवानाम् 'चरिमाणं' चरमाणाम् 'अचरिमाण य' अचरमाणाञ्च मध्ये 'कयरे कयरेहिंतो' कतरे कतरेभ्यः अद्वासमय सिर्फ मनुष्य में ही होता है । इक्कीसवाँ अस्तिकाय-द्वार सम्पूर्ण ॥ २६ ॥

चरमद्वार वक्तव्यता-

शब्दार्थ-(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (जीवाणं चरिमाणं अचरिमाण य) चरम और अचरम जीवों में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा अचरिमा) अचरम जीव सब से कम हैं (चरिमा अणंतगुणा) चरम अनन्त गुणा हैं । २७॥

टीकार्थ-अब चरमद्वार को लेकर जीवों के अल्पबहुत्व का प्ररूपण किया जा रहा है--

अधी दिशाओमा अनन्त छे, तेमनी कयाय डेअ सीमा नथी. न्यादे अद्वासमय इकत मनुष्य क्षेत्रमा न् डेय छे ऐकवीसमु अस्तिकाय द्वार सम्पूर्ण ॥ २६ ॥

चरमद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ-(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! आ (जीवाणं चरिमाण अचरिमाण य) चरम अने अचरम एवेमा (कयरे कयरेहिंतो) डेअ डेनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, धुया, तुल्या अगर विशेषाधिक छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा अचरिमा) अचरम एवे अथाथी ओछा छे (चरिमा अणंतगुणा) चरम अनन्त गुणा छे

हुवे चरमद्वारने लधने एवेना अल्प बहुत्वतु प्ररूपण कराध रहु छे

‘અપ્પા વા, વહુયા વા, તુલ્લા વા, વિસેસાહિયા વા ?’ અલ્પા વા, વા, વહુકા વા, તુલ્યા વા, વિશેષાધિકા વા ભવન્તિ ? ભગવાન્ ઉત્તરયતિ—‘ગોયમા !’ હે ગૌતમ ! ‘સવ્વત્થોવા જીવા અચરિમા’ સર્વસ્તોત્તાઃ—સર્વેભ્યોડ્ડલાઃ, જીવાઃ અચરમાઃ અભવ્યાઃ સિદ્ધાશ્ચ ભવન્તિ; અભવ્યાના સિદ્ધાનાશ્ચ ચરમભવાભાવાત્ સ્તોકા एवा चरमाः तदुभयेषा समुदितानामपि अज्ञान्योत्कृष्ट विशिष्टानन्तकपरिणामत्वात्, तेभ्योऽपि ‘चरमा अणंतगुणा’ चरमाः भव्याः अनन्तगुणा भवन्ति तेषाम् अज्ञान्योत्कृष्टानन्तानन्त परिमाणत्वात् । येषा चरमो भवः संभवः तेऽपि तद्योग्यत्वात् चरमा इति व्यपदिश्यन्ते, इति ‘दारं’ द्वाविंशम् चरमदारं समाप्तम् ॥ ६० २७ ॥

जीवद्वारवक्तव्यता—

મૂલમ્—एषसि णं भंते ! जीवाणं पोग्गलाणं अद्धासमयाणं, सव्वदव्वाणां, सव्वपएसाणां, सव्वपज्जवाण य कयरे कयरे-
हिंतो अप्पा वा, वहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ?
गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा, पोग्गला अणंतगुणा, अद्धासमया

श्री गौतम स्वामो प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन चरम और अचरम जीवों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सबसे कम जीव अचरम अर्थात् अभव्य और सिद्ध हैं, क्योंकि अभव्यों और सिद्धों का चरम पना नहीं होता । ये दोनों मिलकर भी अज्ञघन्योत्कृष्ट अनन्त ही होते हैं । चरम अर्थात् भव्य जीव उनकी अपेक्षा अनन्तगुणा हैं, क्योंकि उनका अज्ञघन्योत्कृष्ट अनन्तानन्त परिमाण है । जिनका चरम भव संभव है वे भी चरम भव की योग्यता के कारण चरम कहलाते हैं । २२वां चरमद्वार समाप्त ॥२७।

टीકાર્થ—શ્રી ગૌતમસ્વામી પ્રશ્ન કરે છે—ભગવન્ આ ચરમ અને અચરમ જીવોમા કેાણુ કેાનાથી અધિક, અલ્પ, તુલ્ય અગર વિશેષાધિક છે ?

શ્રી ભગવાન્ ઉત્તર આપે છે કે ગૌતમ ! અધાર્થી ઓછા જીવ અચરમ અર્થાત્ અભવ્ય અને સિદ્ધ છે, કેમકે અભવ્યો અને સિદ્ધોત્ ચરમપણુ નથી હોતુ. ઓ જાને મલિને પણ અજ્ઞન્યોત્કૃષ્ટ અનન્ત જ હોય છે ચરમ અર્થાત્ ભવ્યજીવ તેમની અપેક્ષાએ અનન્તગણુ છે, કેમકે તેમણુ અજ્ઞન્યોત્કૃષ્ટ અનન્તાનન્ત પરિમાણુ છે, જેના ચરમ ભવને સ ભવ છે તેઓ પણ ચરમભવની યોગ્યતાને કારણે ચરમ કહેવાય છે

બાવીસમુ ચરમ દ્વાર સમાપ્ત ॥ ૨૭ ॥

अणंतगुणा, सव्वदव्वा विसेसाहिया सव्वपएसा अणंतगुणा,
सव्वपज्जवा अणंतगुणा । दारं २३ ॥सू० २८॥

छाछा -एतेपा खल्ल भदन्त ! जीवानां पुद्गलानाम् अद्वासमयानां सर्वद्र-
व्याणाम्; सर्वप्रदेशानाम्; सर्वपर्ययानाम् च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा,
तुल्या वा; विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोका जीवाः, पुद्गला अनन्तगुणाः
सर्वद्रव्याणि विशेषाधिकानि, सर्वप्रदेशाः अनन्तगुणाः सर्वपर्यया अनन्तगुणाः
द्वारम् २३ ॥सू० २८॥

टीका—अथ जीवद्वारमधिकृत्याल्पबहुत्वादिकं प्ररूपयितुमाह—‘एएसिणं
भंते ! जीवाणं’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतेषां खल्ल जीवानाम् ‘पोग्ग-

जीवद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (जीवाणं) जीवों
(पोग्गलाणं) पुद्गलों (अद्वासमयाणं) अद्वासमयों (सव्व दव्वाणं) सर्व
द्रव्यों (सव्व पएसाणं) सर्व प्रदेशों (सव्व पज्जवाण य) और सब
पर्यायों में (कयरे कयरेहिंतो) कौन किससे (अप्पा वा बहुया वा
तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक
हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा) जीव सब से कम हैं
(पोग्गला अणंतगुणा) पुद्गल अनन्त गुणा हैं (अद्वासमया अणंतगुणा)
अद्वासमय अनन्तगुणा हैं (सव्व दव्वा विसेसाहिया) सर्व द्रव्य विशे-
षाधिक हैं (सव्वपएसा अणंतगुणा) सर्व प्रदेश अनन्तगुणा हैं (सव्व-
पज्जवा अणंतगुणा) सर्व पर्याय अनन्तगुणा हैं ।

अब जीवद्वार को लेकर अल्पबहुत्व की प्ररूपणा की जाती है—

जीवद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(एएसिण भंते !) भगवन् ! आ (जीवाणं) एवे (पोग्गलाणं)
पुद्गले (अद्वासमयाण) अद्वासमये (सव्व दव्वाण) सर्व द्रव्ये (सव्व पए-
साण) सर्वप्रदेशे (सव्वपज्जवाण य) अने अथा पर्यायेभा (कयरे कयरेहि तो)
केण केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया ?) अल्प धया, तुल्य
अगर विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा) एव अथाथी ओछा छे
(पोग्गला अणंतगुणा) पुद्गल अनन्तगुणा छे (अद्वासमया अणंतगुणा)
अद्वासमय अनन्त गणुा छे (सव्व दव्वा विसेसाहिया) सर्व द्रव्य विशेषाधिक
छे. (सव्व पएसा अणंतगुणा) सर्व प्रदेश अनन्त गणुा छे (सव्वपज्जवा अणंत-
गुणा) सर्व पर्याय अनन्तगणुा छे.

લાળં' પુદ્ગલનામ્ અદ્વાસમયાળં' અદ્વાસમયાનામ્, 'સવ્વદ્વ્યાણં' સર્વદ્રવ્યાણામ્ 'સવ્વપ્પણં' સર્વપ્રદેશાનામ્ 'સવ્વપ્પજ્ઞાણ ય' સર્વપર્યવાણાશ્ચ મધ્યે 'ફ્ફરે ક્કયરેહિતો' કતરે કતરેભ્યઃ 'અપ્પા વા, વહુયા વા, તુલ્લા વા વિસેસાહિયા વા !' અલ્પાવા, વહુકા વા, તુલ્યા વા, વિશેષાધિકા વા ભવન્તિ? ભગવાન્ ઉત્તરયતિ- 'ગોયમા !' હે ગૌતમ ! 'સવ્વત્થોવા જીવા' સર્વસ્તોકાઃ, સર્વેભ્યોડ્ડલા જીવા ભવન્તિ, તેભ્યઃ 'પોગ્ગલા અણંતગુણા' પુદ્ગલાઃ અનન્તગુણા ભવન્તિ, તેભ્યઃ 'અદ્વાસમયા અણંતગુણા' અદ્વાસમયાઃ અનન્તગુણા ભવન્તિ, પ્રાગુક્તયુક્તેઃ, તેભ્યોડ્ડપિ 'સવ્વદ્વ્યા વિસેસાહિયા' સર્વદ્રવ્યાણિ વિશેષાધિકાનિ ભવન્તિ, પુદ્ગલેભ્યોડ્ડનન્તગુણત્વેન ઉપયુક્તાનામદ્વાસમયાનાં પ્રત્યેકં દ્રવ્યત્વેન દ્રવ્યનિરૂપણે તેપામપિ પરિગ્રહેણ, તેપાં મધ્યે સર્વજીવદ્રવ્યાણામ્ સર્વપુદ્ગલદ્રવ્યાણામ્, ધર્માર્માકાશાસ્ત્રિકાયાદ્રવ્યાણાશ્ચ પ્રક્ષેપેણ, તેપાશ્ચ સમુદિતામપિ અદ્વાસમયાનન્તભાગકલ્પનયા

ટીકાર્થ-શ્રી ગૌતમસ્વામી પ્રશ્ન કરતે હૈં-હે ભગવન ! ઇન જીવોં, પુદ્ગલોં અદ્વાસમયોં, સમસ્ત દ્રવ્યોં, સમસ્ત પ્રદેશોં ઓર સમસ્ત પર્યાયોં મેં કોન કિસસે અલ્પ, વહુત, તુલ્ય યા વિશેષાધિક હૈં ? શ્રી ભગવાન ઉત્તર દેતે હૈં-હે ગૌતમ ! સવસે કમ જીવ હૈં, જીવોં સે પુદ્ગલ અનન્ત ગુણા હૈં, પુદ્ગલોં સે અદ્વાસમય અનન્તગુણા હૈં, અદ્વાસમયોં સે સર્વ દ્રવ્ય વિશેષાધિક હૈં । પુદ્ગલોં સે અનન્તગુણા હોને સે પ્રત્યેક અદ્વાસમય મી દ્રવ્ય હૈં, અતઃ દ્રવ્ય કે નિરૂપણ મેં ઁનકો મી ગ્રહણ કિયા ગયા હૈં ઓર સાથ હી સમસ્ત જીવ દ્રવ્યોં, પુદ્ગલ દ્રવ્યોં, ધર્મ, અધર્મ ઁવં આકાશાસ્ત્રિકાયા દ્રવ્યોં કો મિલાયા ગયા હૈં ઓર વે સમી મિલ કર મી અદ્વાસમયોં કે અનન્તવેં ભાગ હોને કે કારણ ઁહેં મિલા દેને પર મી અદ્વાસમયોં સે સર્વદ્રવ્ય વિશેષાધિક હી હોતે હૈં । સર્વ

ટીકાર્થ-હવે જીવ દારને લઇને અલ્પ બહુત્વની પ્રશ્નપણા કરાય છે શ્રી ગૌતમસ્વામી પ્રશ્ન કરે છે-ભગવન આ જીવો પુદ્ગલો, અદ્વાસમયો સમસ્ત દ્રવ્યો, સમસ્ત પ્રદેશો, અને સમસ્ત પર્યાયોમા કેણ કોનાથી અલ્પ અધિક જુદ્ય અગર વિશેષાધિક છે ?

શ્રી ભગવાન ઉત્તર આપે છે-હે ગૌતમ ! બધાથી ઓછા જીવ છે. જીવો થી પુદ્ગલ અનન્ત ગણા છે પુદ્ગલોથી અદ્વાસમય અનન્ત ગણા છે, અદ્વાસમયોથી સર્વ દ્રવ્ય વિશેષાધિક છે પુદ્ગલોથી અનન્ત ગણા હોવાથી પ્રત્યેક અદ્વા. સમય પણ દ્રવ્ય છે, તેથી દ્રવ્યના નિરૂપણમા તેમને પણ શ્રદ્ધા કર્યા છે અને સાથે જ સમસ્ત જીવ દ્રવ્યો, પુદ્ગલ દ્રવ્યો, ધર્મ અધર્મ, તેમજ આકાશાસ્ત્રિકાયા દ્રવ્યોને મેળવેલા છે અને તે બધા મળીને પણ અદ્વાસમયનો

तेषां प्रक्षेपेऽपि किञ्चिदधिकत्वेन अद्वासमयेभ्यः सर्वद्रव्यानाम् विशेषाधिकत्वं भवति, तेभ्योऽपि 'सव्वपएसा अणंतगुणा' सर्वप्रदेशा अनन्तगुणा भवन्ति, आकाशस्यानन्तत्वात्, तेभ्योऽपि 'सव्वपज्जवा अणंतगुणा' सर्वपर्यवाः अनन्तगुणा भवन्ति, एकैकाकाशप्रदेशेऽनन्तागुरुलघुपर्यायाणां सद्भावात् इति 'दारं' त्रयोविंशम् जीवद्वारं समाप्तम् ॥ सू० २८ ॥

क्षेत्रद्वारवक्तव्यता—

मूळम्—खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा जीवा उड्डुलोयतिरियलोए अहोलोय तिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेज्जगुणा, तेलुक्के असंखेज्जगुणा, उड्डुलोए असंखेज्जगुणा अहोलोए विसेसाहिया २४ ॥सू० २९॥

छाया—क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोका जीवा ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके अधोलोकतिर्यग्लोके विशेषाधिकाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये असंख्येयगुणाः, द्रव्यों की अपेक्षा सर्व प्रदेश अनन्तगुणा हैं, क्योंकि आकाश अनन्त प्रदेशी हैं । सर्वप्रदेशों की अपेक्षा सर्व पर्याय अनन्तगुणा हैं, क्योंकि एक-एक आकाशप्रदेश में अनन्त-अनन्त अगुरुलघु पर्याय विद्यमान हैं । २३वां जीवद्वार समाप्त ॥२८॥

क्षेत्रद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ—(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र की अपेक्षा से (सव्वत्थोवा जीवा) सबसे कम जीव (उड्डुलोय तिरियलोए) ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में हैं (अहोलोयतिरियलोए) अधोलोक-तिर्यग्लोक में (विसेसाहिया) विशेषाधिक हैं (तिरियलोए) तिर्यग्लोक में (असंखेज्जगुणा) असंख्यातगुणा

अनन्तमे वाग ङोवाना कारणे तेमने मेणवी देवाथी पणु अद्वासमयेथी सर्व द्रव्य विशेषाधिक ७ थाय छे सर्वद्रव्येथानी अपेक्षाये सर्व प्रदेश अनन्त गणु छे, केमके आकाश अनन्त प्रदेशी छे. सर्व प्रदेशेथानी अपेक्षाये सर्व पर्याय अनन्त गणु छे, केमके जेक-जेक आकाश प्रदेशमा अनन्त-अनन्त अणुर् लघु पर्याय विद्यमान छे.

तेवीससु एव द्वार समाप्त ॥ २८ ॥

क्षेत्र द्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ— (खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रनी अपेक्षाये (सव्वत्थोवा जीवा) अधाथी ओछा एव (उड्डुलोयतिरियलोए) ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोकमा छे (अहोलोय तिरियलोए) अधोलोक तिर्यग्लोकमा (विसेसाहिया) विशेषाधिक छे (तिरिय

ऊर्ध्वलोके असंख्येलगुणाः, अधोलोके विशेषाधिकाः २४ ॥ सू० २९ ॥

टीका - अथ क्षेत्रद्वारमधिकृत्याल्पवहुत्वादिकं प्ररूपयितुमाह - 'खेत्ताणुवा-
पणं' क्षेत्रानुपातेन - क्षेत्रस्यानुपातः क्षेत्रानुपातस्तेन, क्षेत्रानुसारेणेत्यर्थः प्ररूप्य-
माणाः 'सव्वत्थोवा जीवा उद्दल्लोयतिरियलोए' सर्वस्तोकाः - सर्वेभ्योऽल्पाः
जीवाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके भवन्ति, ऊर्ध्वलोकस्तनाकाशप्रदेशप्रतरं तिर्यग्लोकस्य
सर्वोपरितनाकाशप्रदेशप्रतरञ्च ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोकपदेन व्यपदिश्यते अत्रेदं
वोच्यम् - सामस्त्येन चतुर्दशरज्ज्वात्मक लोकास्य भागत्रयम् - ऊर्ध्वलोकः, तिर्य-
ग्लोकः, अधोलोकश्च, एतत् त्रयाणां विभागो रुचक उच्यते तथा च रुचकस्या-
पस्तात् नवयोजनशतानि रुचकोपरि नवयोजनशतानि तिर्यग्लोको वर्तते तस्य च
तिर्यग्लोकस्याधस्तात् अधोलोकः, उपरिष्ठात्, ऊर्ध्वलोको वर्तते, स च देशो-
न-

हैं (तेलुक्के असंख्येज्जगुणा) त्रैलोक्य में असंख्यात गुणा हैं (उद्दलोए
असंख्येज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक में असंख्यात गुणा हैं (अहोलोए विसेसा-
हिया) अधोलोक में विशेषाधिक हैं ।

अब क्षेत्रद्वार की अपेक्षा से अल्पवहुत्व की प्ररूपणा करते हैं-

टीकार्थ-क्षेत्र की अपेक्षा से सबसे कम जीव ऊर्ध्वलोक-तिर्यक्-
लोक में हैं ऊर्ध्वलोक का नीचे का प्रदेश प्रतर और तिर्यक्लोक का
सबसे ऊपर का आकाश प्रदेशप्रतर ऊर्ध्वलोक-तिर्यक्लोक कहलाता है।
यहां यह समझ लेना चाहिए कि चौदह राजूपरिमित सम्पूर्ण लोक
के तीन भाग हैं-ऊर्ध्वलोक, तिर्यक्लोक और अधोलोक ये विभाग
रुचक प्रदेशों में होते हैं। रुचक के नौ सौ योजन नीचे और नौ सौ
योजन ऊपर तिर्यक्लोक है। तिर्यक्लोक के नीचे अधोलोक है और

लोए) तिर्यक्क लोकाभा (असंख्येज्जगुणा) असंख्यात गणुा छे (तेलुक्के असंख्येज्ज
गुणा) त्रैलोक्यभा असंख्यातगणुा छे (उद्दल्लोए असंख्येज्जगुणा) ऊर्ध्वलोकाभा
असंख्यात गणुा छे (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोकाभा विशेषाधिक छे

टीकार्थ-इत्थे क्षेत्र द्वारनी अपेक्षाये अत्थ गहुत्तवनी इत्थणुा करे छे

क्षेत्रनी अपेक्षाये अधागी गोछा एत्थ ऊर्ध्वलोक्-तिर्यक्कलोक्का छे ऊर्ध्व
लोक्कना नीचेनेा प्रदेश प्रतर अने तिर्यक्क लोक्कना अधाधी उपरनेा आकाश
प्रदेश प्रतर ऊर्ध्वलोक्क तिर्यक्कलोक्क कडेनाय छे अत्थि आ समणु लेवु न्नेधये
चौदराणु परिमित सम्पूर्ण लोक्कना त्रणु भाग छे-ऊर्ध्वलोक्क, तिर्यक्कलोक्क अने
अधोलोक्क आ विभागो इत्थक्क प्रदेशभा उठाय छे इत्थक्कना नवसो योजन नीचे
अने नवसो योजन उपर तिर्यक्कलोक्क छे तिर्यक्कलोक्कना नीचे अधोलोक्क छे अने
उपर ऊर्ध्वलोक्क छे. ऊर्ध्वलोक्क कथक्क गोछा सात् रणुत्थ प्रभाणु छे अने अधो

सप्तरज्जुप्रमाणो बोध्यः, अधोलोकश्च समधिकसप्तरज्जुप्रमाणो वर्तते, तिर्यग्लोकश्च तयोर्मध्येऽष्टादशयोजनशतोच्छ्रायो वर्तते, तत्र रुचकसमतलाद् भूभागा-
न्नवयोजनशतानि गमनानन्तरं ज्योतिश्चक्रस्योपरितनं तिर्यग्लोकसम्बन्धि एकप्रा-
देशिकमाकाशप्रतरं तिर्यग्लोकप्रतरं वर्तते, तस्य चोपरितनम् एकप्रादेशिकमाका-
शप्रतरम् ऊर्ध्वलोकप्रतरम् वर्तते, ते द्वे अपि ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोको व्यपदिश्यते,
तत्र विद्यमाना जीवाः सर्वस्तोका भवन्ति, तेभ्योऽपि 'अधोलोय तिरियलोए
विसेसाट्टिया' अधोलोकतिर्यग्लोके जीवाः विशेषाधिका भवन्ति, अधोलोकस्यो-
परितने एक प्रादेशिके आकाशप्रदेशप्रतररूपे तिर्यग्लोकस्य सर्वाधस्तने एक प्रादे-
शिके आकाशप्रदेशप्रतररूपे चाधोलोकतिर्यग्लोके ये विग्रहगत्या तत्रस्थतया वा

ऊपर ऊर्ध्वलोक है । ऊर्ध्वलोक कुछ अधिक सात रज्जु प्रमाण है और
अधोलोक कुछ अधिक सात रज्जु प्रमाण है । इन दोनों के मध्य में
अठारह सौ योजन ऊंचा तिर्यक्लोक है । रुचक के समतल भूमिभाग
से नौ सौ योजन जाने पर, ज्योतिश्चक्र के ऊपर तिर्यक्लोक संबंधी
आकाश प्रतर है जो एक प्रादेशिक है । वह तिर्यक्लोक का प्रतर है ।
इसके ऊपर का एक प्रदेशी आकाश प्रतर ऊर्ध्वलोक प्रतर कहलाता है ।
इन्हीं दोनों प्रतरों को 'ऊर्ध्वलोक तिर्यक्लोक' कहते हैं । इस ऊर्ध्वलोक
तिर्यक्लोक में सब से कम जीव हैं । उनकी अपेक्षा अधोलोक-तिर्य-
क्लोक में जीव विशेषाधिक हैं । अधोलोक के ऊपर का एक प्रदेशी
आकाश प्रतर और तिर्यक्लोक के नीचे का एक प्रदेशी आकाशप्रतर
'अधोलोक तिर्यक्लोक' कहलाता है । विग्रहगति करते हुए या वहीं पर
स्थित जीव विशेषाधिक है । तिर्यक्लोक में जीव उनकी अपेक्षा असं-

लोक कथं अधिक सात रज्जु प्रमाणे छे आ गन्नेनी पयमा अठार सौ
योजन ज्योतिश्चक्र लोक छे रुचकना समतल भूमिभागधी नवसौ योजन
नवाथी ज्योतिश्चक्र रुचकना ऊपर तिर्यक्लोक सम्बन्धी आकाश प्रतर छे जे
अेक प्रादेशिक छे ते तिर्यक्लोकनु प्रतर छे तेना ऊपरनु अेक प्रदेशी आकाश
प्रतर ऊर्ध्वलोक प्रतर कडेवाय छे आ गन्ने प्रतरने ऊर्ध्वलोक तिर्यक्लोक
कडे छे आ ऊर्ध्वलोक तिर्यक्लोकमा सौथी आछा एव छे. तेमनी अपेक्षाअे
अधोलोक तिर्यक्लोकमा एव विशेषाधिक छे अधोलोक ऊपरनु अेक प्रदेशी
आकाश प्रतर अने तिर्यक्लोकना नीचेनु अेक प्रदेशी आकाश प्रतर अधो-
लोक तिर्यक्लोक कडेवाय छे विग्रह गति करता अजर त्याज स्थित एव
विशेषाधिक छे तिर्यक्लोकमा एव तेमनी अपेक्षाअे असंख्यात गणु छे

વર્તન્તે તે વિશેષાધિકા ભવન્તિ, તેભ્યોપિ 'તિરિયલોષ અસંખેજ્જગુણા' તિર્યગ્લોકે અસંખ્યેય જીવા ભવન્તિ, ઉપર્યુક્ત ક્ષેત્રદ્વયાત્ તિર્યગ્લોકક્ષેત્રસ્યાસંખ્યેયગુણત્વાત્, તેભ્યોઽપિ 'તેલુકકે અસંખેજ્જગુણા' ત્રૈલોક્યે ત્રિલોકસંસ્પર્શિનઃ અસંખ્યેયગુણા જીવા ભવન્તિ, અત્ર વિગ્રહગત્યાપન્ના લોકત્રયસંસ્પર્શકા એવ ગ્રહીતવ્યાઃ, તે ચ તિર્યગ્લોકવર્તિભ્યોઽસંખ્યેયગુણા એવ વોઽવ્યાઃ, તેભ્યોઽપિ 'ઉદ્ભલોષ અસંખેજ્જગુણા, ઊર્ધ્વલોકે ઊર્ધ્વલોકે ઊર્ધ્વલોકાત્રસ્થિતા જીવાઃ અસંખ્યેયગુણા ભવન્તિ, ઉત્પાતક્ષેત્રસ્વાતિવદ્ભૂત્વાત્, અસંખ્યેયાના ભાગાનામુદ્વર્તનાયાશ્ચ સંભવાત્ તેભ્યોઽપિ 'અઘોલોષ વિસેસાદિયા' અધોલોકે-અધોલોકવર્તિનો વિશેષાધિકા જીવા ભવન્તિ સમ્પરજ્જ્વલિકસ્ય અધોલોકસ્ય કથિતત્વાત્ इत्येवं सामान्येन जीवाना क्षेत्रानुपातेनाल्पवहुत्वं प्रतिपादितम्, इति, चतुर्विंशतितम द्वारं समाप्तम् ॥ ૨૧ ॥

નૈરયિકાઘલ્પવહુત્વવક્તવ્યતા-

મૂલમ્-સ્વેત્તાણુવાણાં સઠ્વસ્થોવા નેરઙ્ગયા તેલોકકે, અહોલોય તિરિયલોષ અસંખેજ્જગુણા, અહોલોષ અસંખેજગુણા, સ્વેત્તા-

સ્વ્યાતગુણા હૈં, ક્યોંકિ ડપર જિન દો ક્ષેત્રોં કા કથન કિયા હૈ, ડનકી અપેક્ષા તિર્યગ્લોક કા વિસ્તાર અસંખ્યાતગુણા હૈ । તિર્યગ્લોક કે જીવોં કી અપેક્ષા ત્રૈલોક્યવર્તી જીવ અસંખ્યાતગુણા હૈં યહાં વિગ્રહ ગતિ કરતે હુષ્ તેનોં લોકોં કો સ્પર્શ કરને વાલે જીવ હી ગ્રહણ કરના ડાહિષ ડૌર વે તિર્યગ્લોકવર્તી જીવોં સે અસંખ્યાત ગુણિત હૈં । ડનકી અપેક્ષા ઊર્ધ્વલોક મેં અસંખ્યાતગુણા જીવ હૈં, ક્યોંકિ ડપપાત ક્ષેત્ર કી અત્યન્ત વહુલતા હૈ ડૌર અસંખ્ય ભાગો કી ડદ્વર્તના કા મી સંભવ હૈ । ડનકી અપેક્ષા અધોલોક મેં વિશેષાધિક હૈં ક્યોંકિ અધોલોક સાત રજ્જૂ સે મી કિંચિત્ અધિક પ્રમાણ વાલા કહા ગયા હૈ । ડસ પ્રકાર ક્ષેત્ર કે અનુસાર સામાન્ય રૂપ સે જીવોં કા અલ્પવહુત્વ હુઆ ॥ ૨૧ ॥

કેમકે ડપર જે ડે ક્ષેત્રોનુ કથન કર્યુ છે, તેમની અપેક્ષાએ તિર્યલોકના વિસ્તાર અસખ્યાત ગણ્યા છે તિર્યક લોકના જીવોની અપેક્ષાએ ત્રૈલોક વર્તી જીવ અસખ્યાત ગણ્યા છે અહિ વિગ્રહ ગતિ કરી રહેલ ત્રણે લોકને સ્પર્શ કરનાર જીવનુ જ અહણુ કરવુ જોઇએ અને તે તિર્યકલોકવર્તી જીવોથી અસખ્યાત શુદ્ધિત છે તેમની અપેક્ષાએ અધોલોકમા વિશેષાધિક છે કેમકે અધોલોક સાત રજ્જુથી વધુ થોડો વિશેષ પ્રમાણ વાળો કહેવાયેલ છે આ રીતે ક્ષેત્રના અનુસાર સામાન્ય રૂપથી જીવોનુ અલ્પ બહુત્વ થયુ ॥ ૨૬ ॥

णुवाएणं सवत्थोवा तिरिक्खजोणिया उड्डुल्लोयतिरियलोए,
 अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेज्जगुणा,
 तेल्लोक्के असंखेज्जगुणा, उड्डुलोए असंखेज्जगुणा, अहोलोए
 विसेसाहिया, खेत्ताणुवाएणं सवत्थोवाओ तिरिक्खजोणि-
 णीओ उड्डुलोए, उड्डुलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ तेल्लोक्के
 संखेज्जगुणाओ अहोलोय तिरियलोए संखेज्जगुणाओ, अहोलोए
 संखेज्जगुणाओ, तिरियलोए संखेज्जगुणाओ, खेत्ताणुवाएणं, सव-
 त्थोवा मणुस्सा तेल्लोक्के, उड्डुलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा,
 अहोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा, उड्डुलोए संखेज्जगुणा, अहो-
 लोए संखेज्जगुणा, तिरियलोए संखेज्जगुणा, खेत्ताणुवाएणं सव-
 त्थोवा मणुस्सीओ तेल्लोक्के, उड्डुलोयतिरियलोए संखेज्जगु-
 णाओ, अहोलोय तिरियलोए संखेज्जगुणाओ, उड्डुलोए संखे-
 ज्जगुणाओ, अहोलोए संखेज्जगुणाओ, तिरियलोए संखेज्ज-
 गुणाओ, खेत्ताणुवाएणं सवत्थोवा देवा उड्डुलोए, उड्डुलोय
 तिरियलोए असंखेज्जगुणा, तेल्लोक्के संखेज्जगुणा, अहोलोय-
 तिरियलोए संखेज्जगुणा, अहोलोए संखेज्जगुणा, तिरियलोए
 संखेज्जगुणा, खेत्ताणुवाएणं सवत्थोवाओ देवीओ उड्डुलोए,
 उड्डुलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ, तेल्लोक्के संखेज्जगुणाओ,
 अहोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणाओ, अहोलोए संखेज्जगुणाओ,
 तिरियलोए संखेज्जगुणाओ ॥सू० ३०॥

छाया--क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोका नैरयिकास्त्रैलोक्ये, अधोलोकतिर्यग्लोके

नैरयिकादि-अल्पबहुत्व वक्तव्यता-

शब्दार्थ-(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सवत्थोवा नेरइया तेल्लोक्के) सबसे नारक त्रैलोक्य में हैं (अहोलोयतिरियलोए

नैरयिकादि-अल्प बहुत्व वक्तव्यता

शब्दार्थ-(खेत्ताणुवाएण) क्षेत्रना अनुसार (सवत्थोवा नेरइया तेल्लोक्के) अधार्थी आछा नारक त्रैलोक्यमा छे (अहोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा)

असंख्येयगुणाः, अधोलोके असंख्येयगुणाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकास्तिर्यग्यो-
निकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके, अधोलोकतिर्यग्लोके विशेषाधिकाः, तिर्यग्लोके
असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये असंख्येयगुणाः, ऊर्ध्वलोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके
विशेषाधिकाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकास्तिर्यग्योनिकाः ऊर्ध्वलोके, ऊर्ध्वलोक-
तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये संख्येयगुणाः, अधोलोकतिर्यग्लोके संख्ये-
यगुणाः, अधोलोके संख्येयगुणाः, तिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, क्षेत्रानुपातेन सर्व-

असंखेज्जगुणा) अधोलोक-तिर्यक्लोक में असंख्यात गुणा हैं (अहो-
लोए असंखेज्जगुणा) अधोलोक में असंख्यातगुणा हैं (खेत्ताणुवाएणं)
क्षेत्र के अनुसार (सव्वत्थोवा तिरिक्ख जोणिया उड्डूलोयतिरियलोए)
सब से कम तिर्यच ऊर्ध्वलोक-तिर्यक्लोक में हैं (अहोलोयतिरिय-
लोए विसेसाहिया) अधोलोक-तिर्यक्लोक में विशेषाधिक हैं (तिरिय-
लोए असंखेज्जगुणा) तिर्यक्लोक में असंख्यात गुणा हैं (तेलोकके
असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य में असंख्यातगुणा हैं (उड्डूलोए असंखेज्जगुणा)
ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोक
में विशेषाधिक हैं (खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सव्वत्थोवाओ
तिरिक्खजोणिणीओ (सबसे कम तिर्यचनी (उड्डूलोए) ऊर्ध्वलोक में
हैं (उड्डूलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ) ऊर्ध्वलोक-तिर्यक्लोक में
असंख्यातगुणी हैं (तेलोकके संखेज्जगुणाओ) त्रैलोक्य में संख्यातगुणी
हैं (अहोलोय तिरियलोए संखेज्जगुणाओ) अधोलोक-तिर्यक्लोक में

अधोदोऽतिर्यग्दोऽकमा असंख्यातगणुा छे. (अहोलोए असंखेज्जगुणा) अधो-
दोऽकमा असंख्यात गणुा छे (खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना अनुसार (सव्वत्थोवा
तिरिक्खजोणिया उड्डूलोयतिरियलोए) अधोदो अओछी तिर्यच ऊर्ध्वदोऽक
तिर्यग्दोऽकमा छे (अहोलोए तिरियलोए विसेसाहिया) अधोदोऽक तिर्यग्दोऽकमां
विशेषाधिक छे (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्दोऽकमा असंख्यातगणुा छे
(तेलोकके असंखेज्जगुणा) त्रैदोऽकमा असंख्यातगणुा छे (उड्डूलोए असंखे-
ज्जगुणा) ऊर्ध्वदोऽकमा असंख्यात गणुा छे (अहोलोए विसेसाहिया) अधो-
दोऽकमा विशेषाधिक छे (खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना अनुसार (सव्वत्थोवाओ तिरिक्ख-
जोणिणीओ) अधोदो अओछी तिर्यचनी (उड्डूलोए) ऊर्ध्वदोऽकमा (उड्डूलोय
तिरियलोए असंखेज्जगुणाओ) ऊर्ध्वदोऽक तिर्यग्दोऽकमा असंख्यातगणुा छे
(तेलोकके संखेज्जगुणाओ) त्रैदोऽकमा संख्यात गणुा छे (अहोलोय तिरियलोए
संखेज्जगुणाओ) अधोदोऽक तिर्यग्दोऽकमा संख्यातगणुा छे (अहोलोए

स्तोकाः मनुष्यास्त्रैलोक्ये, ऊर्ध्वलोके तिर्यग्लोके अंख्येयगुणाः, अग्निलोक-
तिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, ऊर्ध्वलोके संख्येयगुणाः, अग्निलोके संख्येयगुणाः,
तिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः मनुष्यास्त्रैलोक्ये, ऊर्ध्वलोक-
तिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, अग्निलोकतिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, ऊर्ध्वलोके संख्ये-
यगुणाः, अधोलोके संख्येयगुणाः, तिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, क्षेत्रानुपातेन सर्व-

संख्यातगुणी हैं। (अहोलोए संखेज्जगुणाओ) अधोलोक में संख्यात
गुणी हैं (तिरियलोए संखेज्जगुणाओ) तिर्यक्लोक में संख्यातगुणी है।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सव्वत्थोवा मणुस्सा तेलोक्के)
सब से कम मनुष्य त्रैलोक्य में हैं (उद्दुल्लोयतिरियलोए असंखेज्ज-
गुणा) ऊर्ध्वलोक-तिर्यक्लोक में असंख्यात गुणा हैं। (अहोलोयतिरि-
यलोए संखेज्जगुणा) अधोलोक-तिर्यक्लोक में संख्यातगुणा हैं (उद्दु-
लोए संखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक में संख्यात गुणा (अहोलोए संखेज्ज-
गुणा) अधोलोक में संख्यातगुणा (तिरियलोए संखेज्जगुणा) तिर्यक्-
लोक में संख्यातगुणा हैं। (खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सव्व-
त्थोवा मणुस्सीओ तेलोक्के) सबसे कम मनुष्यनी त्रैलोक्य में हैं
(उद्दुल्लोयतिरियलोए संखेज्जगुणाओ) ऊर्ध्वलोक तिर्यक्लोकमें संख्यात-
गुनी है (अहोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणाओ) अधोलोक-तिर्यक्लोक
में संख्यातगुणी (उद्दुलोए संखेज्जगुणाओ) ऊर्ध्वलोक में संख्यातगुणी
(अहोलोए संखेज्जगुणाओ) अधोलोक में संख्यातगुणी (तिरियलोए

सखेज्जगुणाओ) अधोलोका स ज्ञातगण्णी छे (तिरियलोए संखेज्जगुणाओ)
तिर्यक् लोका स ज्ञातगण्णी छे.

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना अनुसार (सव्वत्थोवा मणुस्सा तेलोक्के) अधो
ओओ मनुष्य त्रैलोकायमा छे (उद्दुल्लोयतिरियलोए असखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोका
तिर्यक्लोकायमा अस ज्ञातगण्णी छे (अहोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा) अधोलोका
तिर्यक्लोकायमा स ज्ञातगण्णी छे (उद्दुलोए संखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोकायमा स ज्ञातगण्णी
(अहोलोए संखेज्जगुणा) अधोलोकायमा स ज्ञातगण्णी (तिरियलोए संखेज्जगुणाओ)
तिर्यक्लोकायमा स ज्ञातगण्णी छे.

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना अनुसार (सव्वत्थोवा मणुस्सीओ तेलोक्के) अधो
ओओ मनुष्यनी त्रैलोकायमा छे (उद्दुल्लोयतिरियलोए संखेज्जगुणाओ) ऊर्ध्व
लोका तिर्यक्लोकायमा स ज्ञातगण्णी (अहोलोए तिरियलोए संखेज्जगुणाओ) अधोलोका
तिर्यक्लोकायमा स ज्ञातगण्णी (उद्दुल्लोय संखेज्जगुणाओ) ऊर्ध्वलोकायमा स ज्ञात-
गण्णी (अहोलोए संखेज्जगुणाओ) अधोलोकायमा स ज्ञातगण्णी छे तिरियलोए संखे-

स्तोत्राः देवाः ऊर्ध्वलोके, ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये संख्ये-
यगुणाः, अधोलोकतिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, अधोलोके संख्येयगुणाः, तिर्यग्लोके
संख्येयगुणाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोका देव्यः ऊर्ध्वलोके ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके
असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये संख्येयगुणाः, अधोलोकतिर्यग्लोके संख्येयगुणाः,
अधोलोके संख्येयगुणाः, तिर्यग्लोके संख्येयगुणाः ॥३०॥

संखेज्जगुणाओ) तिर्यक्लोक में संख्यातगुणी हैं ।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सव्वत्थोवा देवा उड्डलोए)
सबसे कम देव ऊर्ध्वलोक में हैं (उड्डलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा)
ऊर्ध्वलोक-तिर्यक्लोक में असंख्यातगुणा हैं (तेलोकके संखेज्जगुणा)
त्रैलोक्य में संख्यातगुणा हैं (अहोलोय तिरियलोए संखेज्जगुणा)
अधोलोक-तिर्यक्लोक में संख्यातगुणा हैं (अहोलोए संखेज्जगुणा)
अधोलोक में संख्यातगुणा हैं (तिरियलोए संखेज्जगुणा) तिष्ठेणलोक में
संख्यातगुणा हैं । (खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र की अपेक्षा से (सव्वत्थो-
वाओ देवीओ) सब से कम देवियां (उड्डलोए) ऊर्ध्वलोक में हैं (उड्ड-
लोयतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ) ऊर्ध्वलोक-तिर्यक्लोक में असं-
ख्यातगुणी हैं (तेलोकके संखेज्जगुणाओ) त्रैलोक्य में संख्यातगुणी हैं
(अहोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणाओ) अधोलोक-तिर्यक्लोक में
संख्यातगुणी हैं (अहोलोए संखेज्जगुणाओ) अधोलोक में संख्यातगुणा
: हैं (तिरियलोए संखेज्जगुणाओ) तिर्यक्लोक में संख्यातगुणी हैं ।

(ज्जगुणाओ) तिर्यक्लोकमा स प्यातगण्णी छे

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना अनुसार (सव्वत्थोवा देवा उड्डलोए) अधार्थी ओछा
देव उर्ध्वलोकमा छे (उड्डलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा) उर्ध्वलोक तिर्यक्लोकमा
अस प्यातगण्णी छे (तेलोकके संखेज्जगुणा) त्रैलोक्यमा स प्यातगण्णी छे (अहोलोए
तिरियलोए संखेज्जगुणा) अधोलोक तिर्यक्लोकमा स प्यातगण्णी छे (अहोलोए
संखेज्जगुणा) अधोलोकमा स प्यातगण्णी छे (तिरियलोए संखेज्जगुणा) तिर्यक्
लोकमा स प्यातगण्णी छे ।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रनी अपेक्षाओ (सव्वत्थोवाओ देवीओ) अधार्थी ओछी
देवीओ (उड्डलोए) उर्ध्वलोकमा छे (उड्डलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ) उर्ध्व-
लोक तिर्यक्लोकमा अस प्यातगण्णी छे (तेलोकके संखेज्जगुणाओ) त्रैलोक्यमा
स प्यातगण्णी छे (अहोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणाओ) अधोलोक तिर्यक्लोकमा
स प्यातगण्णी छे (अहोलोए संखेज्जगुणाओ) अधोलोकमा स प्यातगण्णी छे
(तिरियलोए संखेज्जगुणाओ) तिर्यक्लोकमा स प्यातगण्णी छे

टीका--पूर्व सामान्येन जीवानां क्षेत्रानुपातेनाल्पबहुत्वं प्रतिपादितं सम्प्रति चतुर्गतिदण्डकक्रमेणाल्पबहुत्वं प्रतिपादयितुमाह--'खेत्ताणुवाएणं' क्षेत्रानुपातेन--क्षेत्रानुसारेण प्ररूप्यमाणाः 'सव्वत्थोवा नेरइया तेलोकके' सर्वस्तोकाः--सर्वेभ्यो-ऽल्पाः नैरयिकाः त्रैलोक्ये--लोकत्रयसंस्पर्शिनो भवन्ति, अथ कथं लोकत्रय संस्पर्शिनो नैरयिकाः ? कथं वा ते सर्वस्तोकाः ? इति चेदत्रोच्यते--मेरुशिखरे अञ्जनदधिमुखगिरिशिखरादिषु वा वापीषु वर्तमाना मत्स्यादयो नरकेषु उत्पत्त-मिच्छन् ईलिकागत्या प्रदेशान् विक्षिपन्तस्त्रैलोक्यमपि स्पृशन्ति नैरयिकव्यपदेशश्च प्राप्नुवन्ति तत् कालमेव नरकेषु उत्पत्ते नैरयिकायुष्कप्रतिसंवेदनात्, ते चेत्यंभूताः

इससे पूर्व क्षेत्र की अपेक्षा से सामान्य रूप से जीवों का अल्प-बहुत्व प्रतिपादित किया गया, अब चारों गतियों को लेकर उनके अल्पबहुत्व का प्ररूपण किया जाता है--

टीकार्थ--क्षेत्र की दृष्टि से विचार किया जाय तो सब से कम नारक त्रैलोक्य में हैं अर्थात् तीनों लोक को स्पर्श करने वाले हैं। प्रश्न हो सकता है कि नारक जीव तीनों लोकों को स्पर्श करने वाले कैसे हो सकते हैं ? और वे सबसे कैसे हैं ? इसका उत्तर यह है--मेरुपर्वत के शिखर पर अथवा अंजन या दधिमुख पर्वतादि के शिखर पर जो वावडियां हैं, उनमें रहने वाले जो मत्स्य आदि नारक में उत्पन्न होने वाले हैं, वे इलिकागति से अपने आत्मप्रदेशों को फैलाते हुए तीनों लोकों का स्पर्श करते हैं और उस समय वे नारक ही कहलाते हैं, क्योंकि तत्काल ही उनकी उत्पत्ति नारक में होने वाली है और वे नरकायु का वेदन करते हैं। इस प्रकार के नारक

आनाथी पड़ेला क्षेत्रनी अपेक्षाये सामान्य रूपेण लोकोनु अल्प बहुत्व प्रतिपादित करायु, हुवे थारे गतियोने लधने तेमना अल्प बहु-त्वनु प्ररूपणु कराय छे

टीकार्थ--क्षेत्रनी दृष्टिमे विचार करायतो अधाथी ओछा नारक त्रैलोक्यमा छे अर्थात् त्रैलु लोकने स्पर्श करवावाणा छे अत्र थर्ध शके छे के नारक लुव त्रैलु लोकने स्पर्श करवावाणा केवी रीते थर्ध शके छे ? अने ते अधाथी ओछा कर्ध रीते छे ? तेने उत्तर आ प्रभाणु छे के--मेइ पर्वतना शिखर पर अथवा अ अंज नगर दधि मुख पर्वतादिना शिखर पर ने वावडियो छे तेमा रहेवा वाणा ने मत्स्य आदि नरकमा उत्पन्न थनारा छे, तेओ ध लिङागतिथी पोताना आत्म प्रदेशोने देलावता रहिने त्रैलु लोकनो स्पर्श करे छे अने ते समये तेओ नारक न रहेवाय छे, केमके तत्काल तेमनी उत्पत्ति नरकमा थनार छे

कतिपया एवेति सर्वस्तोकत्वं तेषामुक्तम्, तेभ्यः 'अधोलोयतिरियलोए असंखे-
ज्जगुणा' अधोलोक तिर्यग्लोके-अधोलोक तिर्यग्लोरुसंज्ञकपूर्वोक्तप्रतरद्वयस्य
संस्पर्शिनोऽसंख्येयगुणाः भवन्ति नैरयिकाः यस्मात् वहवोऽसंख्येयेषु द्वीप-
समुद्रेषु पञ्चेन्द्रियकिर्यग्योनिकाः नरकेषु उत्पद्यमानाः प्रागुक्तं प्रतरद्वयं स्पृश-
न्ति तस्मात् पूर्वापेक्षयाऽसंख्येयगुणा भवन्ति, क्षेत्रस्यासंख्येयगुणत्वात्, मेवा-
दिक्षेत्रादसंख्येयद्वीपसमुद्रात्मकं क्षेत्रमसंख्येयगुणमित्यतोऽसंख्येयगुणा भवन्ति,
तेभ्योऽपि 'अधोलोए असंखेज्जगुणा' अधोलोके नैरयिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति,
इत्येवं नैरयिकगति मनुसृत्य क्षेत्रानुपानेनाल्पबहुत्वं प्रतिपाद्य सम्प्रति तिर्यगति-

थोडे ही होते हैं, अतएव उन्हें सब से कम कहा है । त्रिलोकस्पर्शी
नारको की अपेक्षा अधोलोक-तिर्यक्लोक में असंख्यातगुणा नारक
हैं । यहां अधोलोक-तिर्यक्लोक से वहां पूर्वोक्त आशय अर्थात् अधो-
लोक के ऊपरी और तिर्यक्लोक के निचले दो प्रतरो को स्पर्श करने
वाले समझना चाहिए । ऐसे नारक असंख्यातगुणा हैं । क्यों कि
असंख्यात द्वीप समुद्रो में रहने वाले बहुत-से पंचेन्द्रिय तिर्यक्
जब नरकों में उत्पन्न होते हैं तो पूर्वोक्त दो प्रतरों का स्पर्श करते
हैं, कारण वे इस त्रैलोक्यस्पर्शी नारकों से असंख्यातगुणा हैं, क्यों कि
उनका क्षेत्र असंख्यातगुणा हैं । मेरु आदि क्षेत्र की अपेक्षा असं-
ख्यात द्वीप-समुद्र रूप क्षेत्र असंख्यातगुणा हैं । यह क्षेत्र के अनु-
सार नारकों का अल्पबहुत्व है ।

तिर्यचो का अल्पबहुत्व क्षेत्र के अनुसार सब से कम तिर्यच

अने ते नरकायुतु वेदन करे छे आ प्रकारना नारक थोडाक न थाय छे.
तेथीन तेमने भधाथी ओछा कडेल छे त्रिलोक स्पर्शी नारकोनी अपेक्षाये
अधोलोक-तिर्यक्लोकमा अस ज्यात गणुा नारक छे अडि अधोलोक तिर्यक्
लोकाथी तेन पूर्वोक्त आशय अर्थात् अधोलोकना उपर अने तिर्यक्लोकना
निचला जे प्रतरौने स्पर्श करवा वाजा समझवा जेधये आवा नारक अस ज्यात
गणुा छे डेमके अस ज्यात द्वीप समुद्रोमा रहनारा धणुा पंचेन्द्रिय तिर्यक्
न्यारे नरकमा उत्पन्न थाय छे तो पूर्वोक्त जे प्रतरौना स्पर्श करे छे जे
कारणु तेओ त्रैलोक्य स्पर्शी नारकोथी अस ज्यात गणुा छे, डेमके तेमनु क्षेत्र
अस ज्यातगणु छे मेरु आदि क्षेत्रनी अपेक्षाये अस ज्यात द्वीप समुद्र रूप
क्षेत्र अस ज्यातगणु अधिक छे जेमनी अपेक्षाये अधोलोकमा नारक अस ज्यात
गणुा छे. आ क्षेत्रना अनुसार नारकोनु अल्प बहुत्व छे

तिर्यचोनु अल्प-बहुत्व-क्षेत्रना अनुसार भधाथी ओछा तिर्यक् जेध्वं

मनुसृत्य तदनुपातेनैवाल्पवहुत्वं प्रतिपादयति—‘खेत्ताणुवाएणं’ क्षेत्रानुपातेन—
 क्षेत्रानुसारेण, ‘स्रवत्थोवा तिरिक्खजोणिया उइदलोयतिरियलोए’ सर्वस्तोकाः
 —सर्वेभ्योऽल्पाः, तिर्यग्योनिकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके—ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोक संज्ञक
 प्रागुक्तप्रतरद्वयस्य संस्पर्शिनो भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘अहोलोयतिरियलोए विसे-
 साहिया’ अधोलोकतिर्यग्लोके—अधोलोकतिर्यग्लोकसंज्ञकप्रागुक्तप्रतरद्वयस्य संस्पर्-
 शिनः तिर्यग्योनिका विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्त सामान्यजीवसूत्रयुक्तेः,
 तेभ्योपि ‘तिरियलोए असंखेज्जगुणा’ तिर्यग्लोके—तिर्यग्लोकसंज्ञकरूपोक्त प्रतर-
 स्य संस्पर्शिनस्तिर्यग्योनिकाः असंखेयगुणा भवन्ति, तेभ्योपि ‘तेलोकके असं-
 खेज्जगुणा’ त्रैलोक्ये लोकत्रयसंस्पर्शिनस्तिर्यग्योनिकाः असंखेयगुणा भवन्ति,
 प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि ‘उइदलोए असंखेज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोके प्रागुक्तोर्ध्वलोक-
 संज्ञक प्रतरसंस्पर्शिनस्तिर्यग्योनिकाः असंखेयगुणा भवन्ति तेभ्योऽपि ‘अहोलोए
 विसेसाहिया’ अधोलोके—अधोलोकसंस्पर्शिनस्तिर्यग्योनिका विशेषाधिका भवन्ति,
 अथ तिर्यग्योनिक स्त्री विषयकाऽल्पवहुत्वमाह—‘खेत्ताणुवाएणं क्षेत्रानुसारेण

ऊर्ध्वलोक-तिर्यक्लोक में हैं अर्थात् तिर्यक्लोक के उपरिलोकवर्ती और
 ऊर्ध्वलोक के अधोलोक वर्ती दो प्रतरों में हैं इनकी अपेक्षा अधोलोक
 —तिर्यक्लोक में अर्थात् अधोलोक के ऊपरी और तिर्थलोक के निचले
 दो प्रतरों में विशेषाधिक हैं। इसका कारण पूर्व सूत्र की व्याख्या में
 कहा जा चुका है। इनकी अपेक्षा तिर्यक्लोक में असंख्यातगुणा हैं।
 इनकी अपेक्षा भी त्रैलोक्य में अर्थात् तीनों लोको को स्पर्श करने
 वाले तिर्यच असंख्यातगुणा हैं। इसका कारण भी पहले बतलाया जा
 चुका है। त्रैलोक्य संस्पर्शी तिर्यचों की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में अर्थात्
 पूर्वोक्त ऊर्ध्वलोक संज्ञक प्रतर में असंख्यातगुणा तिर्यच हैं। इनकी
 अपेक्षा अधोलोक में विशेषाधिक हैं।

लोक-तिर्यक लोकमा छे अर्थात् तिर्यक लोकना उपरवर्ती अने ऊर्ध्वलोकना
 अधोवर्ती छे प्रतरमा छे. तेमनी अपेक्षाअे अधोलोक-तिर्यक लोकमा अर्थात्
 अधोलोकना उपरना अने तिर्था लोकना नीचला छे प्रतरमा विशेषाधिक छे.
 अेनु कारण पूर्व सूत्रनी व्याख्यामा छेवार्थ गअेलु छे तेमनी अपेक्षाअे
 तिर्यक लोकमा असंख्यात गअु छे अेमनी अपेक्षाअे पअु त्रैलोक्यमा अर्थात्
 त्रलु लोकने स्पर्श करवावाणा तिर्यच असंख्यात गअु छे. अेनु कारण पअु
 पअेला अतावी दिअेलु छे. त्रैलोक्य स्पर्शी तिर्यचानी अपेक्षाअे ऊर्ध्वलोकमा
 अर्थात् पूर्वोक्त ऊर्ध्वलोक संज्ञक प्रतरमा असंख्यात गअु तिर्यच छे. अेमनी
 अपेक्षाअे अधोलोकमा विशेषाधिक छे.

प्ररूप्यमाणाः—‘सव्यतथोवाभो तिरिक्खलजोणिणीओ उद्धलोए’ सर्वस्तोकाः—
 सर्वेभ्यो ऽल्पाः, तिर्यग्योनिकस्त्रियः, ऊर्ध्वलोके—ऊर्ध्वलोक संस्पर्शिन्यो भवन्ति,
 मेवादिवापीप्रभृतिषु अपि पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रीणां सद्भावात् तासाञ्च
 क्षेत्रस्याल्पत्वात् सर्वस्तोक्तत्वं बोध्यम्, ताभ्योऽपि ‘उद्धल्लोयंतिरयलोए असंखे-
 ज्जगुणाओ’ ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके—प्रागुक्तोर्ध्वलोकतिर्यग्लोकप्रतरद्वयसंस्पर्शिन्यः
 पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रियः असंख्येयगुणा भवन्ति सहस्रारदेवलोकपर्यन्तस्था-
 यिनां देवानामपि गर्भव्युत्क्रान्तिकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिषु उत्पद्यमानतया शेषका-
 यानाञ्च सुतरां तत्रोत्पद्यमानत्वेन यथासंभवमुपरिवर्तिनां सहस्रारान्तदेवानामन्ये-
 पाञ्च शेषकायाना मूर्ध्वलोकतिर्यग्लोके पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रीत्वेन तदायुः
 प्रतिसंवेद्यमानानां समुत्पद्यमानत्वेन, तिर्यग्लोकवर्तिनीनां पञ्चेन्द्रियतिर्यक्स्त्रीणाम्

तिर्यच स्त्रियों का अल्पबहुत्व-क्षेत्रकी अपेक्षा से सब से कम
 तिर्यचनियां ऊर्ध्वलोक का स्पर्श करने वाली हैं, क्योंकि मेरु आदि
 की वापी आदि में भी पंचेन्द्रिय तिर्यचस्त्रियां विद्यमान हैं। उनका
 क्षेत्र अल्प है, अतएव वे सब से कम कही गई हैं। इनकी अपेक्षा
 ऊर्ध्वलोक-तिर्यक्लोक में अर्थात् ऊर्ध्वलोक और तिर्छेलोक के दो
 प्रतरो को स्पर्श करने वाली तिर्यचस्त्रियां असंख्यानगुणी हैं। इसका
 कारण यह है—सहस्रार देवलोक तक के देव गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यच-
 स्त्रियों में उत्पन्न हो सकते हैं और शेष कायों के जीव भी उनमें
 उत्पन्न हो ही सकते हैं। जब सहस्रार देवलोक तक के देव या शेष-
 कायों के जीव ऊर्ध्वलोक से तिर्छेलोक में पंचेन्द्रिय तिर्यचस्त्री के रूप
 में उत्पन्न होने वाले होते हैं, तब वे तिर्यचनी की आयु का वेदन
 करते हैं। इसके अतिरिक्त तिर्यक्लोक वर्ती पंचेन्द्रिय तिर्यच

तिर्यच स्त्रियोनु—अल्प-बहुत्व-क्षेत्रकी अपेक्षासे अधाधी जोड़ी तिर्यच
 नियो ऊर्ध्वलोकको स्पर्श करनारीओ छे, केमके मेइ आदिनी वापी आदिमा
 पणु पञ्चेन्द्रिय तिर्यच स्त्रियो विद्यमान छे. तेमनु क्षेत्र अल्प छे, तेथीन ते
 अधाधी जोड़ी कडेली छे तेमनी अपेक्षासे ऊर्ध्वलोक तिर्यक्लोकमा अर्थात्
 ऊर्ध्वलोक अने तिर्यक्लोकना से प्रतरीने स्पर्श करनारी तिर्यच स्त्रियो अस्स प्यात
 गणुी छे. तेनु कारण आ छे सहस्रार देवलोक सुधीना देव गरान पञ्चेन्द्रिय
 तिर्यच स्त्रियोमा उत्पन्न थई शके छे अने शेष कायोना एव पणु तेमां
 उत्पन्न थई न शके छे न्यारे सहस्रार देवलोक सुधीना देव अगर शेष कायोना
 एव ऊर्ध्वलोकथी तिर्छेलोकमा पञ्चेन्द्रिय तिर्यच स्त्रीना रूपमा उत्पन्न थनारा
 होय छे त्यारथी तिर्यचनीना आयुअथनु वेदन करे छे. तेना सिवाय तिर्यक्

ऊर्ध्वलोक देवत्वेन शेषकायत्वेन चोत्पद्यमानानां मारणान्तिरु समुद्घातेनोत्पत्ति-
देशे निजनिजात्मप्रदेशदण्डान् विक्षिपन्तीनाम् प्राशुक्तप्रतरद्वयसंस्पर्शनात्, सर्वेषाञ्च
तिर्यग्योनिकस्त्रीत्वात् भवति असंख्येयगुणत्वम्, ताभ्योऽपि—‘तेलोकके संखेज्ज-
गुणाओ’ त्रैलोक्ये—लोकत्रयसंस्पर्शिन्यः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रियः संख्येयगुणा
भवन्ति, अधोलोकाद् भवनवासिवाव्यन्तरनैरयिकाणां शेषकायिकानाञ्चापि ऊर्ध्व-
लोके पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रीत्वेनोत्पद्यमानतया, ऊर्ध्वलोकाद् देवादीनामपि
अधोलोके पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रीत्वेन समुत्पद्यमानतया तेषाञ्च समवहतानां
स्वस्वात्मप्रदेशदण्डे लोकत्रयसंस्पर्शनात्, प्रभूतानाञ्च तेषां तिर्यग्योनिकस्त्रियायुः
प्रतिसंवेदनात् तिर्यग्योनिकस्त्रीणां संख्येयगुणत्वमुपपद्यते, ताभ्यश्च ‘अहोलोयति-

जब ऊर्ध्वलोक में देव रूप से या अन्य किसी रूप में उत्पन्न होने
वाली होती हैं, तब वे मारणान्तिरु समुद्घात करके अपने उत्पत्ति
देश में अपने आत्मप्रदेशों को फैलाती हैं। उस समय वे उक्त दो
प्रतरों को स्पर्श करती हैं। वे सब उस समय तिर्यक्योनिक स्त्रियां
हैं, अतएव असंख्यगुणी कही गई हैं। इनकी अपेक्षा तीनों लोकों
को स्पर्श करने वाली तिर्यचस्त्रियां संख्यातगुणी हैं। जब अधोलोक
से भवनवासी, वान-व्यन्तर, नैरयिक तथा अन्य कार्यों के जीव
ऊर्ध्वलोक में पंचेन्द्रिय तिर्यचस्त्री के रूप में उत्पन्न होते हैं अथवा जब
ऊर्ध्वलोक से देवादि कोई अधोलोक में तिर्यचस्त्री के रूप में उत्पन्न
होता है और वे समुद्घात करके अपने आत्मप्रदेशों को फैलाते हैं तो
तीनों लोकों का स्पर्श करते हैं। ऐसे जीव बहुत हैं अतएव उनको
संख्यात गुणी कहना सुसंगत ही है। इनकी अपेक्षा अधोलोक-

लोकवर्ती पंचेन्द्रिय स्त्रियो न्यारे ऊर्ध्वलोकमा देव रूपथी अगर अन्य कोष्ठ
रूपमा उत्पन्न थनारी होय छे, त्यारे ते मारणान्तिरु समुद्घात करीने पोताना
उत्पत्ति देशमा पोताना आत्मप्रदेशोने इलावे छे ते समये उक्त ओ प्रतरोने
स्पर्श करे छे ते अधी ते समये तिर्यक्योनिक स्त्रियो छे, तेथीअ अस ज्य्यात
गण्णी कडेदी छे तेमनी अपेक्षाअे त्रुल्ले लोकने स्पर्श करनारी तिर्यअ स्त्रियो
स ज्य्यात गण्णी छे न्यारे अधोलोक भवनवासी, वानव्यन्तर, नैरयिक तथा
अन्य कार्याना एव ऊर्ध्वलोकमा पंचेन्द्रिय तिर्यअ स्त्रीना रूपमा उत्पन्न थाय
छे अथवा न्यारे ऊर्ध्वलोकथी देवादि कोष्ठ अधोलोकमा तिर्यअ स्त्रीना रूपमा उत्पन्न
थाय छे, अने तेयो समुद्घात करीने पोताना आत्म प्रदेशोने इलावे छे तो त्रुल्ले
लोकने स्पर्श करे छे अेवा एव धण्णा छे तेथीअ तेमने स ज्य्यातगण्णा कडेवु
ते सुसंगतअ छे. तेमनी अपेक्षाअे अधोलोक तिर्यकलोकने स्पर्श करनारी

પ્રહુત્પમાણાઃ—'મગ્ધગોત્રી ત્રિવિદ્યાગોણિણી ત્રો ઉદ્ધવો' સર્વસ્તોકાઃ—
 સર્વેભ્યો ડન્વાઃ, નિર્ગમોનિહમિયઃ, કુર્વ્યંતોઃ—કુર્વ્યંતોઃ સંસ્પર્શિન્યો ભવન્તિ,
 મેરોદિતાપીપ્રધૃતિયુ ત્રિપિ પદ્મેન્દ્રિયનિર્ગમોનિહમિણાં સદ્માયાન્ તાસાશ્ચ
 ક્ષેત્રસ્વાલ્પવાન્ વાસ્તોક્ત્વં વોચ્યમ્, તામ્ગોત્રી 'ઉદ્ધવોનિરવ્યોષ અસંતે-
 જ્ઞગુણાશ્ચો' કુર્વ્યંતોઃ કલિયોગ્લોકે—પ્રાગ્લોકોર્વ્યંતોઃ કલિયોગ્લોકે હગતરદ્વયસંસ્પર્શિન્યઃ
 પદ્મેન્દ્રિયતિર્થગોનિહમિયઃ પ્રગમ્યેયતુણા ભવન્તિ સહસારદેવલોકોહૃપ્યંતસ્થા-
 યિનાં દેવાનામાપિ ગર્ભગ્ન્યંત્વિહપદ્મેન્દ્રિયતિર્થગોનિયુ ઉત્પદ્યમાનતયા શેપકા-
 યાનાશ્ચ મુતરા તત્રોત્પદ્યમાનન્વેન યથામંમામુપગિર્તિના મદ્ગારાન્તદેવાનામન્વે-
 પાશ્ચ શેપકાયાના મુર્વ્યંતોઃ કલિયોગ્લોકે પદ્મેન્દ્રિયતિર્થગોનિહમિણીત્વેન તદાયુઃ
 પ્રતિમંવેદ્યમાનાના સમુત્પદ્યમાનન્વેન, તિર્થગોક્ત્વર્તિનીના પદ્મેન્દ્રિયતિર્થગોણાશ્ચ

નિર્ચચ સ્ત્રિયોં કા અપ્પવૃત્ત્વ-ક્ષેત્રકી અપેક્ષા સે સ્વ સે કમ
 તિર્ચચનિયાં કુર્ધ્વલોક કા સ્પર્શ કરને વાલી હં, કયોંકિ મેરુ આદિ
 કી વાપી આદિ મેં મી પંચેન્દ્રિય નિર્ચચસ્ત્રિયાં વિચમાન હં । ઉનકા
 ક્ષેત્ર અસ્વ ટે, અતગ્વ વે સ્વ સે કમ કાટી ગઈ હં । ઇનકી અપેક્ષા
 કુર્ધ્વલોક-નિર્ચચલોક મે અર્થાત્ કુર્ધ્વલોક ઓર તિર્છલોક કે દો
 પ્રતરો કો સ્પર્શ કરને વાલી નિર્ચચસ્ત્રિયાં અસંહ્યાન્ગુણી હં । ઇસકા
 કારણ યદ્દ હૈ—સહસાર દેવલોક તરુ કે દેવ ગર્ભજ પંચેન્દ્રિય તિર્ચચ-
 સ્ત્રિયોં મેં ઉત્પન્ન હો શક્તે ટે ઓર શેપ કાર્યોં કે જીવ મી ડનમેં
 ઉત્પન્ન હો હી શક્તે ટે । જવ સહસાર દેવલોક તરુ કે દેવ યા શેપ-
 કાર્યોં કે જીવ કુર્ધ્વલોક સે તિર્છલોક મેં પંચેન્દ્રિય તિર્ચચસ્ત્રી કે રૂપ
 મેં ઉત્પન્ન હોને વાલે હોતે હે, તવ વે તિર્ચચની કી આયુ કા વેદન
 કરતે હં । ઇસકે અતિરિક્ત તિર્ચચલોક વર્તી પંચેન્દ્રિય તિર્ચચસ્ત્રિયાં

તિર્ચચ સિયોતુ—અદ્ય-ગાહુત્વ-શેવની અપેક્ષાએ બધાથી ઓછી તિર્ચચ
 નિયો ઊર્ધ્વલોકનો સ્પર્શ કરનારીઓ છે, કેમકે એરૂ આદિની વાપી આદિમાં
 પણ પદ્મેન્દ્રિય તિર્ચચ સ્ત્રિયો વિદ્યમાન છે. તેમતુ ક્ષેત્ર અદ્ય છે, તેથીજ તે
 બધાથી ઓછી કહેલી છે તેમની અપેક્ષાએ ઊર્ધ્વલોક તિર્ચચલોકમા અર્થાત્
 ઊર્ધ્વલોક અને તિર્ચચલોકના બે પ્રતરોને સ્પર્શ કરનારી તિર્ચચ સ્ત્રિયો અસ ખ્યાત
 ગણી છે. તેતુ કારણ આ છે સહસાર દેવલોક સુધીના દેવ ગર્ભજ પદ્મેન્દ્રિય
 તિર્ચચ સ્ત્રિયોમા ઉત્પન્ન થઈ શકે છે અને શેપ કાર્યોના જીવ પણ તેમાં
 ઉત્પન્ન થઈ જ શકે છે બધાએ સહસાર દેવલોક સુધીના દેવ અગર શેપ કાર્યોના
 જીવ ઊર્ધ્વલોકથી તિર્ચચલોકમા પદ્મેન્દ્રિય તિર્ચચ સ્ત્રીના રૂપમા ઉત્પન્ન થનારા
 હોય છે ત્યારથી તિર્ચચનીના આયુષ્યતુ વેદન કરે છે તેના સિવાય તિર્ચચ

ऊर्ध्वलोक देवत्वेन शेषकायत्वेन चोत्पद्यमानानां मारणान्तिरु समुद्घातेनोत्पत्ति-
देशे निजनिजात्मप्रदेशदण्डान् विक्षिपन्तीनाम् प्रागुक्तप्रतरद्वयसंस्पर्शनात्, सर्वेषाञ्च
तिर्यग्योनिकस्त्रीत्वात् भवति असंख्येयगुणत्वम्, ताभ्योऽपि—‘तेलोकके संखेज्ज-
गुणाओ’ त्रैलोक्ये—लोकत्रयसंस्पर्शिन्यः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रियः संख्येयगुणा
भवन्ति, अधोलोकाद् भवनवासिवानव्यन्तरनैरयिकाणां शेषकायिकानाञ्चापि ऊर्ध्व-
लोके पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रीत्वेनोत्पद्यमानतया, ऊर्ध्वलोकाद् देवादीनामपि
अधोलोके पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रीत्वेन समुत्पद्यमानतया तेषाञ्च समग्रहतानां
स्वस्वात्मप्रदेशदण्डे लोकत्रयसंस्पर्शनात्, प्रभूतानाञ्च तेषां तिर्यग्योनिकस्यायुः
प्रतिसंवेदनात् तिर्यग्योनिकस्त्रीणां संख्येयगुणत्वमुपपद्यते, ताभ्यश्च ‘अहोलोयति-

जब ऊर्ध्वलोक में देव रूप से या अन्य किसी रूप में उत्पन्न होने
वाली होती हैं, तब वे मारणान्तिरु समुद्घात करके अपने उत्पत्ति
देश में अपने आत्मप्रदेशों को फैलाती हैं। उस समय वे उक्त दो
प्रतरों को स्पर्श करती हैं। वे सब उस समय तिर्यग्योनिक स्त्रियां
हैं, अतएव असंख्यगुणी कही गई हैं। इनकी अपेक्षा तीनों लोकों
को स्पर्श करने वाली तिर्यचस्त्रियां संख्यातगुणी हैं। जब अधोलोक
से भवनवासी, वान-व्यन्तर, नैरयिक तथा अन्य कार्यों के जीव
ऊर्ध्वलोक में पंचेन्द्रिय तिर्यचस्त्री के रूप में उत्पन्न होते हैं अथवा जब
ऊर्ध्वलोक से देवादि कोई अधोलोक में तिर्यचस्त्री के रूप में उत्पन्न
होता है और वे समुद्घात करके अपने आत्मप्रदेशों को फैलाते हैं तो
तीनों लोकों का स्पर्श करते हैं। ऐसे जीव बहुत हैं अतएव उनको
संख्यात गुणी कहना सुसंगत ही है। इनकी अपेक्षा अधोलोक-

लोकवतीं पञ्चेन्द्रिय स्त्रियो न्यारे ऊर्ध्वलोकमा देव रूपमा अगर अन्य कोष्ठ
रूपमा उत्पन्न बनारी होय छे, त्यारे ते मारणान्तिक समुद्घात करीने पोताना
उत्पत्ति देशमा पोताना आत्मप्रदेशोने इलावे छे ते समये उक्त जे प्रतरोंने
स्पर्श करे छे ते अधी ते समये तिर्यक्योनिक स्त्रियो छे, तेथीन अस पयात
गणी कडेली छे तेमनी अपेक्षाये त्रये लोकने स्पर्श करनारी तिर्यच स्त्रियो
स पयात गणी छे न्यारे अधोलोक भवनवासी, वानव्यन्तर, नैरयिक तथा
अन्य कथोना एव ऊर्ध्वलोकमा पञ्चेन्द्रिय तिर्यच स्त्रीना रूपमा उत्पन्न थाय
छे अथवा न्यारे ऊर्ध्वलोकथी देवादि कोष्ठ अधोलोकमा तिर्यच स्त्रीना रूपमा उत्पन्न
थाय छे, अने तेयो समुद्घात करीने पोताना आत्म प्रदेशोने इलावे छे तो त्रये
लोकने स्पर्श करे छे एवा एव धषा छे तेथीन तेमने स पयातगणी कडेलुं
ते सुसंगत छे. तेमनी अपेक्षाये अधोलोक तिर्यकलोकने स्पर्श करनारी

प्ररूप्यमानाः—‘सर्वत्रयोत्राओ तिरिक्त्तजोगिणीओ उद्दहलोए’ सर्वस्तोकाः—
 सर्वेभ्यो ऽल्पाः, तिर्यग्योनिकस्त्रियः, ऊर्ध्वलोके—ऊर्ध्वलोक संस्पशिन्यो भवन्ति,
 मेवादिवापीप्रभृतिषु अपि पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रीणां सद्भावात् तासाञ्च
 क्षेत्रस्याल्पत्वात् सर्वस्तोरुत्वं बोध्यम्, ताभ्योऽपि ‘उद्दहलोयतिरयलोए असंखे-
 ज्जगुणाओ’ ऊर्ध्वलोहतिर्यग्लोके—प्रागुक्तोर्ध्वलोहतिर्यग्लोकरुप्रतरद्वयसंस्पशिन्यः
 पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रियः असंख्येयगुणा भवन्ति सहस्रारदेवलोकपर्यन्तस्था-
 यिनां देवानामपि गर्भव्युत्क्रान्तिरुपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिषु उत्पद्यमानतया शेषका-
 यानाञ्च सुतरां तत्रोत्पद्यमानत्वेन यथासंभवमुपरिवर्तिनां सहस्रारान्तदेवानामन्ये-
 पाञ्च शेषकायाना मूर्ध्वलोहतिर्यग्लोके पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रीत्वेन तदायुः
 प्रतिसंवेद्यमानानां समुत्पद्यमानत्वेन, तिर्यग्लोकरुवर्तिनीनां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्लोकाणां

तिर्यच स्त्रियो का अल्पबहुत्व-क्षेत्रकी अपेक्षा से सब से कम
 तिर्यचनियों ऊर्ध्वलोक का स्पर्श करने वाली हैं, क्योंकि मेरु आदि
 की वापी आदि में भी पंचेन्द्रिय तिर्यचस्त्रियां विद्यमान हैं। उनका
 क्षेत्र अल्प है, अतएव वे सब से कम कही गई हैं। इनकी अपेक्षा
 ऊर्ध्वलोक-तिर्यक्लोक में अर्थात् ऊर्ध्वलोक और तिर्छेलोक के दो
 प्रतरो को स्पर्श करने वाली तिर्यचस्त्रियां असंख्यानगुणी हैं। इसका
 कारण यह है—सहस्रार देवलोक तक के देव गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यच-
 स्त्रियो में उत्पन्न हो सकते हैं और शेष कायों के जीव भी उनमें
 उत्पन्न हो ही सकते हैं। जब सहस्रार देवलोक तक के देव या शेष-
 कायो के जीव ऊर्ध्वलोक से तिर्छेलोक में पंचेन्द्रिय तिर्यचस्त्री के रूप
 में उत्पन्न होने वाले होते हैं, तब वे तिर्यचनी की आयु का वेदन
 करते हैं। इसके अतिरिक्त तिर्यक्लोक वर्ती पंचेन्द्रिय तिर्यचस्त्रियां

तिर्य'च स्त्रियोनु—अल्प—अहुत्व—क्षेत्रनी अपेक्षाये अधाथी ओछी तिर्य'च
 नियो ऊर्ध्वलोकना स्पर्श' करनारीओ छे, केभके भेइ आदिनी वापी आदिमा
 पषु पञ्चेन्द्रिय तिर्य'च स्त्रियो विद्यमान छे. तेमनु क्षेत्र अल्प छे, तेथीन ते
 अधाथी ओछी कडेली छे तेमनी अपेक्षाये ऊर्ध्वलोक तिर्य'कलोकमा अर्थात्
 ऊर्ध्वलोक अने तिर्य'कलोकना जे प्रतरोने स्पर्श' करनारी तिर्य'च स्त्रियो अस प्यात
 गषु छे. तेनु कारण आ छे सहस्रार देवलोक सुधीना देव गर्भज पञ्चेन्द्रिय
 तिर्य'च स्त्रियोमा उत्पन्न थई शके छे अने शेष कायोना एव पषु तेमां
 उत्पन्न थई न शके छे न्यारे सहस्रार देवलोक सुधीना देव अगर शेष कायोना
 एव ऊर्ध्वलोकथी तिर्छलोकमा पञ्चेन्द्रिय तिर्य'च स्त्रीना रूपमा उत्पन्न थनारा
 होय छे त्यारथी तिर्य'चनीना आयुष्यनु वेदन करे छे. तेना सिवाय तिर्य'क

ऊर्ध्वलोक देवत्वेन शेषकायत्वेन चोत्पद्यमानानां मारणान्तिरु समुद्घातेनोत्पत्ति-
देशे निजनिजात्मप्रदेशदण्डान् विक्षिपन्तीनाम् प्रागुक्तप्रतरद्वयसंस्पर्शानात्, सर्वेषाञ्च
तिर्यग्योनिकस्त्रीत्वात् भवति असंख्येयगुणत्वम्, ताभ्योऽपि—‘तेलोकके संखेज्ज-
गुणाओ’ त्रैलोक्ये—लोकत्रयसंस्पर्शिन्यः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रियः संख्येयगुणा
भवन्ति, अधोलोकाद् भवनवासिवानव्यन्तरनैरयिकाणा शेषकायिकानाञ्चापि ऊर्ध्व-
लोके पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रीत्वेनोत्पद्यमानतया, ऊर्ध्वलोकाद् देवादीनामपि
अधोलोके पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रीत्वेन समुत्पद्यमानतया तेषाञ्च समग्रहतानां
स्वस्वात्मप्रदेशदण्डे लोकत्रयसंस्पर्शानात्, प्रभूतानाञ्च तेषां तिर्यग्योनिकस्यायुः
प्रतिसंवेदनात् तिर्यग्योनिकस्त्रीणां संख्येयगुणत्वमुपपद्यते, ताभ्यश्च ‘अहोलोयति-

जब ऊर्ध्वलोक में देव रूप से या अन्य किसी रूप में उत्पन्न होने
वाली होती हैं, तब वे मारणान्तिरु समुद्घात करके अपने उत्पत्ति
देश में अपने आत्मप्रदेशों को फैलाती हैं। उस समय वे उक्त दो
प्रतरों को स्पर्श करती हैं। वे सब उस समय तिर्यक्योनिक स्त्रियां
हैं, अतएव असंख्यगुणी कही गई हैं। इनकी अपेक्षा तीनों लोकों
को स्पर्श करने वाली तिर्यचस्त्रियां संख्यातगुणी हैं। जब अधोलोक
से भवनवासी, वान-व्यन्तर, नैरयिक तथा अन्य कार्यों के जीव
ऊर्ध्वलोक में पंचेन्द्रिय तिर्यचस्त्री के रूप में उत्पन्न होते हैं अथवा जब
ऊर्ध्वलोक से देवादि कोई अधोलोक में तिर्यचस्त्री के रूप में उत्पन्न
होता है और वे समुद्घात करके अपने आत्मप्रदेशों को फैलाते हैं तो
तीनों लोकों का स्पर्श करते हैं। ऐसे जीव वहुत हैं अतएव उनको
संख्यात गुणी कहना सुसंगत ही है। इनकी अपेक्षा अधोलोक-

लोकवतीं पञ्चेन्द्रिय स्त्रियो न्यारे ऊर्ध्वलोकमा देव रूपी अग्र अन्य कोऽ
रूपमा उत्पन्न धनारी डाय छे, त्यारे ते मारणान्तिरु समुद्घात करीने पोताना
उत्पत्ति देशमा पोताना आत्मप्रदेशीने इलावे छे ते समये उक्त ये प्रतरौने
स्पर्श करे छे ते अधी ते समये तिर्यक्योनिक स्त्रियो छे, तेथीन अस पयात
गणी डडेली छे तेमनी अपेक्षाये त्रैलु लोकने स्पर्श करनारी तिर्यक्य स्त्रियो
स पयात गणी छे न्यारे अधोलोक लवनवासी, वानव्यन्तर, नैरयिक तथा
अन्य कथेना एव ऊर्ध्वलोकमा पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्य स्त्रीना रूपमा उत्पन्न थाय
छे अथवा न्यारे ऊर्ध्वलोकयी देवादि कोऽ अधोलोकमा तिर्यक्य स्त्रीना रूपमा उत्पन्न
थाय छे, अने तेओ समुद्घात करीने पोताना आत्म प्रदेशीने इलावे छे तो त्रैलु
लोकने स्पर्श करे छे ओवा एव धणु छे तेथीन तेमने स पयातगणी डडेयुं
ते सुसंगत छे. तेमनी अपेक्षाये अधोलोक तिर्यक्यलोकने स्पर्श करनारी

रियलोए संखेज्जगुणाओ' अधोलोकतिर्यग्लोके-अधोलोकतिर्यग्लोकसंस्पर्शिन्यः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रियः संख्येयगुणा भवन्ति, बहुनां नैरयिकादीना समुद्रघातं विनापि तिर्यग्लोके पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रीत्वेनोत्पद्यमानतया तिर्यग्लोकवर्तिनाश्च जीवानां तिर्यग्योनिकस्त्रित्वेन अधोलौकिकग्रामेष्वपि तेषां तद्रूपेणोत्पद्यमानतया प्रागुक्तप्रतरद्वयसंस्पर्शनात् तिर्यग्योनिकस्त्रियायुः प्रतिसंवेदनाच्च तिर्यग्योनिकस्त्रीत्वेन संख्येयगुणत्वं भवति, ताभ्योऽपि 'अहोलोए संखेज्जगुणाओ' अधोलोके-अधोलोकस्य प्रतरे वर्तमानाः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रियः संख्येयगुणा भवन्ति, अधोलौकिकग्रामाणां सर्वेषां च समुद्राणां योजनसहस्रावगाढत्वेन ततो नवयोजनशतानामधस्तात् मत्सीप्रभृतितिर्यग्योनिकस्त्रीणां स्वस्थात्वेन प्रभूतत्वात् संख्येयगुणत्वं भवति, क्षेत्रस्य संख्येयगुणत्वात्, ताभ्योपि 'तिरियलोए संखेज्जगुणाओ' तिर्यग्लोके वर्तमानाः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रियः संख्येयगुणाः भवति,

तिर्यक्लोक का स्पर्श करने वाली तिर्यग्योनिक स्त्रियां संख्यातगुणी अधिक हैं। बहुत-से नारक आदि समुद्रघात किये विना ही तिर्यक्लोक में तिर्यचनी के रूप में उत्पन्न होते हैं तथा तिष्ठें लोक के जीवादि तिर्यचस्त्री के रूप में अधोलौकिक ग्रामों में भी उत्पन्न होते हैं। उस समय वे पूर्वोक्त दो प्रतरों का स्पर्श करते हैं और तिर्यचस्त्री के आयुष्य का वेदन करते हैं, अतः उन्हें संख्यातगुणी कहा है। इन की अपेक्षा भी अधोलोक में अर्थात् अधोलोक के र में विद्यमान तिर्यचस्त्रियां संख्यातगुणा हैं। अधोलौकिक ग्राम और सभी समुद्र एक हजार योजन अवगाह वाले हैं, अतः नौ सौ योजन से नीचे मत्सी आदि तिर्यचस्त्रियों के स्वस्थान हैं और स्वस्थान होने के कारण वे प्रचुर हैं, इस कारण उन्हें संख्यातगुणी कहा है। उनका

तिर्यक्योनिक स्त्रियो स ख्यात गण्णी अधिक छे, घण्णा णथा नारक आदि समुद्रघात कथां सिवाय न तिर्यकलोकात् तिर्यच स्त्रीना रूपमा अधोलौकिक ग्रामेभा पणु उत्पन्न थाय छे, ते समये तेओ पूर्वोक्त ये प्रतरानो स्पर्श करे छे अने तिर्यच स्त्रीना आयुष्यतु वेदन करे छे तेथी तेओने स ख्यात गण्णी कही छे, ओमनी अपेक्षाये पणु अधोलौकमा अर्थात् अधोलोकना प्रतरमा विद्यमान तिर्यच स्त्रियो स ख्यात गण्णी छे अधोलौकिक ग्राम अने णथा समुद्र ओक हजार योजन अवगाह वाणा छे, तेथी नौ सौ योजनथी नीचे मत्सी आदि तिर्यच स्त्रियोना स्वस्थान छे, अने स्वस्थान होवाने कारणे प्रचुर छे ओ कारणे तेमने स ख्यात गण्णी कहेल छे, तेमत्तु क्षेत्र पणु स ख्यात गण्णी

अथ मनुष्यगतिविषयमधिकृत्याल्पवहुत्वमाह-खेत्ताणुवाएणं' क्षेत्रानुपातेन-
क्षेत्रानुसारेण प्ररूप्यमाणाः 'सञ्चत्थोवा मणुस्सा तेलोक्के सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽ-
ल्पाः, मनुष्याः त्रैलोक्ये-लोकत्रयवर्तिनो भवन्ति, ऊर्ध्वलोकादधोलौकिकग्रामेषु
समुत्पद्यमानानां मारणान्तिकसमुद्घातेन समवहतानां मध्ये केचित् समुद्घातवशाद्
वर्हिर्निर्गतैः स्वात्मप्रदेशैस्त्रीनपि लोकान् स्पृशन्ति, अन्ये च केचिद् वैक्रियसमुद्-
घातम् आहारकसमुद्घातं वा प्राप्ताः सन्तस्तथाविधप्रयत्नविशेषाद्दूरतरमूर्ध्वाधो-
विक्षिप्तात्मप्रदेशाः, केऽलिसमुद्घातगताश्च केचित्त्रीनपि लोकान् संपृशन्ति
स्तोकाश्च ते भवन्ति इति सर्वस्तोक्तत्वं तेषां भवति, तेभ्योऽपि-उद्बल्लोय तिरि-
यलोए असंखेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके-ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोक संपृशिनो

क्षेत्र भी संख्यातगुणा अधिक है। अधोलोक की अपेक्षा तिर्यक्लोक
में तिर्यच् यां संख्यातगुणी अधिक हैं।

मनुष्यगति का अल्पवहुत्व-क्षेत्र की अपेक्षा से प्ररूपणा की जाय
तो तीनों लोकों में वर्तमान मनुष्य सब से कम हैं। ऊर्ध्वलोक से
अधोलौकिक ग्रामों में उत्पन्न होते हुए और मारणान्तिक समुद्घात
करने वालों में से कोई-कोई समुद्घात के कारण बाहर निकाले
हुए अपने आत्मप्रदेशों से तीनों लोकों का स्पर्श करते हैं। कोई-कोई
वैक्रिय या आहारक समुद्घात को प्राप्त होकर विशेष प्रयत्न के
द्वारा बहुत दूर तक ऊपर और नीचे अपने आत्मप्रदेशों को फैलाते
हैं और केवल समुद्घात को प्राप्त कोई-कोई तीनों लोकों को स्पर्श
करते हैं। ऐसे मनुष्य थोड़े ही होते हैं, अतएव उन्हें सबसे कम कहा
है। इनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक को स्पर्श करने वाले मनुष्य

अधिक छे अधोलोकनी अपेक्षाये तिर्यक् लोकमा तिर्यच स्त्रियो सख्यात
गण्णी अधिक छे

मनुष्य गतिरु अल्प-अहुत्व-क्षेत्रनी अपेक्षाये प्ररूपणा कराय तो त्रल्ले
लोकमा वर्तमान मनुष्य अधाथी ओछा छे ऊर्ध्वलोकथी अधोलौकिक आभोमा
उत्पन्न थर्धने अने मारणान्तिक समुद्घात करनाराओमाथी केछ केछ समुद्-
घातना कारणे गडार काठेला पोताना आत्मप्रदेशोथी त्रल्ले लोकनो स्पर्श करे छे,
केछ केछ वैक्रिय अगार आहारक समुद्घातने प्राप्त थर्धने ओछ विशेष प्रय-
त्नना द्वारा धल्ले हर सुधी गपर अने नीचे पोताना आत्मप्रदेशोने इलावे छे
अने केवली समुद्घातने प्राप्त केछ केछ त्रल्ले लोकनो स्पर्श करे छे ओवा
मनुष्य थोडाञ् थाय छे, तेथीञ् तेमने अधाथी ओछा कहा छे. तेमनी
अपेक्षाये ऊर्ध्वलोक तिर्यक्लोकने स्पर्श करवा वाणा मनुष्य अस ख्यात गण्णी

मनुष्याः असंख्येयगुणा भवन्ति, वैमानिकदेवानाम् शेषकायिकानाश्च यथोसंभव-
 मूर्ध्वलोकात् तिर्यग्लोके मनुष्यत्वेन समुत्पद्यमानतया पूर्वोक्तप्रतरद्वय संस्पर्शित्वं
 तेषाम्, तथा विद्याधराणामपि च मेवादिषु गमनं तेषाञ्च शुक्ररुधिरादि पुद्गलेषु
 समूर्च्छिममनुष्याणामुत्पाद इति ते विद्याधराः रुधिरादिपुद्गलसम्मिश्राः यदा
 गच्छन्ति तदा समूर्च्छिममनुष्या अपि पूर्वोक्तप्रतरद्वयसंस्पर्शिन उपजायन्ते
 तेषाञ्चाति बहुत्वाद् भवति, असंख्येयगुणत्वं तेषाम् तेभ्योऽपि 'अधोलो-
 तिरियलोए संखेज्जगुणा' अधोलोकतिर्यग्लोके अधोलोकतिर्यग्लोकसंज्ञकप्रतरद्वय
 संस्पर्शिनो मनुष्याः संख्येयगुणाः भवन्ति, अधोलौकिकग्रामेषु निसर्गादेव-
 बहूना मनुष्याणां सत्त्वेन, तिर्यग्लोकात् मनुष्येभ्यः शेषकायेभ्यो वाऽधोलौकिक-

असंख्यातगुणा हैं। वैमानिक देव या अन्य कायिक जीव जब यथा
 संभव ऊर्ध्वलोक से तिर्यग्लोक में मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं
 तब वे पूर्वोक्त दो प्रतरों का स्पर्श करते हैं। इनके अतिरिक्त विद्याधर
 भी मेरु आदि पर गमन करते हैं और उनके शुक्र या रुधिर आदि
 के पुद्गलो से यदि समूर्च्छिम मनुष्यो की उत्पत्ति होती है और वे
 विद्याधर उन पुद्गलों के साथ जब लौटते हैं तब पूर्वोक्त दो प्रतरों
 का स्पर्श करते हैं। वे अत्यधिक होते हैं, अतएव असंख्यातगुणा है।
 इनकी अपेक्षा भी अधोलोक-तिर्यग्लोक नामक दो प्रतरों को स्पर्श
 करने वाले मनुष्य संख्यातगुणा हैं। अधोलौकिक ग्रामों में स्वभा-
 वतः बहुत-से मनुष्यों का सद्भाव है। तथा तिर्छलोक से मनुष्यों
 या अन्य कायों से अधोलौकिक ग्रामों में गर्भज मनुष्य या समूर्च्छिम
 मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हुए, अथवा अधोलौकिक ग्रामों से या

छे वैमानिक देव अगर अन्य कायिक ७७७ न्यारे यथा सत्त्व ७७७दिकथी
 तिर्यग्लोकात् मनुष्यना इषमा उत्पन्न थाय छे त्यारे तेज्यो पूर्वोक्ता ७७
 प्रतराने, स्पर्श करे छे, ते सिवाय विद्याधर पशु मेरु आदि पर गमन
 करे छे अने तेमना शुक्र अगर रुधिर आदिना पुद्गलोमा यदि समूर्च्छिम
 मनुष्येनी उत्पत्ति थाय छे अने ते विद्याधर ते पुद्गलोनी साथे न्यारे पाछा
 वजे छे त्यारे पूर्वोक्त ७७ प्रतराने स्पर्श करे छे तेज्यो अत्यधिक होय छे,
 तेथीन असंख्यातगुणा छे तेमनी अपेक्षाये पशु अधे लोक-तिर्यग्लोक नामक
 ७७ प्रतराने स्पर्श करवा वाणा मनुष्य संख्यातगुणा छे, अधे लोकिक ग्रामोमा
 स्वभावथी घण्टा मनुष्येनी सद्भाव छे तथा तिर्छलोकथी मनुष्ये अगर
 अन्यकायेथी अधोलौकिक ग्रामोमा गर्भज मनुष्य अगर समूर्च्छिम
 मनुष्यना इषमा उत्पन्न थधने अथवा अधोलौकिक ग्रामोथी अगर समूर्च्छिम

ग्रामेषु गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्यत्वेन वा समूर्च्छिममनुष्यत्वेन वा उत्पित्स्व-
नाम्, अधोलोकाद् अधोलौकिकग्रामरूपात् शेषाद् वा मनुष्येभ्यः शेषकायेभ्यो
वा तिर्यग्लोके गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्यत्वेन वा समूर्च्छिममनुष्यत्वेन वा समु-
त्पित्स्वनाञ्च पूर्वोक्तप्रतरद्वयसंस्पर्शनाद् तेषां बहुतरत्वाच्च तथा स्वस्थानादपि
केषाञ्चिदधोलौकिकग्रामेषु पूर्वोक्तप्रतरद्वयसंस्पर्शित्वाच्च प्रागुक्तभ्यः संख्येयगुण-
त्वं बोध्यम्, तेभ्योऽपि 'उद्धलोए संखेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोके-ऊर्ध्वलोक प्रतर-
मस्पर्शिनो मनुष्याः संख्येयगुणा भवन्ति, सौमनसादिक्रीडार्थं प्रचुरतराणां
विद्याधरादीनां गमनागमनसद्भावात्, तेषां च यथासंभवं रुधिरादि पुद्गल-
योगात् समूर्च्छिममनुष्यसद्भावात्, तेभ्योऽपि-'अहोलोए संखेज्जगुणा' अधो-
लोके-अधोलोकसंस्पर्शिनो मनुष्याः संख्येयगुणा भवन्ति, अधोलोकस्य स्व-
स्थानत्वेन बहुत्वसंभवात् तेभ्योऽपि 'तिरियलोए संखेज्जगुणा' तिर्यग्लोके-

अधोलोकवर्ती किसी अन्य स्थान से तिर्छेलोक में गर्भज अथवा
समूर्च्छिम मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हुए मनुष्य पूर्वोक्त दो प्रतरों
का स्पर्श करते हैं। अतएव इन्हें संख्यातगुणा कहा है। इन की
अपे ऊर्ध्वलोक में अर्थात् ऊर्ध्वलोक के प्रतर को स्पर्श करने वाले
मनुष्य संख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि सौमनस आदि वनों में क्रीडा
करने के लिए प्रचुरतर विद्याधरों आदि का गमनागमन होता है और
उनके रुधिर आदि पुद्गलों के योग से समूर्च्छिम मनुष्यों की उत्पत्ति
होती है। इनकी अपेक्षा भी अधोलोक का स्पर्श करने वाले मनुष्य
संख्यातगुणा हैं, क्योंकि अधोलोक स्वस्थान होने से अधिकता होना
स्वाभाविक है। इनकी अपेक्षा भी तिर्यग्लोक में संख्यातगुणा अधिक

मनुष्यना इपमा उत्पन्न थधने, अथवा अधोलौकिक ग्रामेधी अगर अधो-
लोकवर्ती कोष्ठ अन्य स्थानधी तिर्छादोडमा गर्भज अथवा समूर्च्छिम
मनुष्यना इपमा उत्पन्न थधने मनुष्य पूर्वोक्त ये प्रतरानो स्पर्श करे छे.
तेधीज तेमने सख्यात गणुा कइया छे तेमनी अपेक्षाये उर्ध्वदोडमा अर्थात्
उर्ध्वदोडना प्रतरानो स्पर्श करवा वाणा मनुष्य सख्यात गणुा अधिक छे.
केमके सौमनस आदि वनोमा क्रीडा करवाने माटे प्रचुरतर विद्याधरो आदिनु
आगमन थाय छे अने तेमना इधिर आदि पुद्गलाना योगधी समूर्च्छिम
मनुष्यानी उत्पत्ति थाय छे तेमनी अपेक्षाये पणु अधोलोडनो स्पर्श करवा
वाणा मनुष्य सख्यात गणुा छे, केमके अधोलोड स्वस्थान होवाधी अधिकता
थपी स्वाभाविक छे. तेमनी अपेक्षाये पणु तिर्यक दोडमां सख्यात गणुा

तिर्यग्लोकवर्तिनो मनुष्याः संख्येयगुणा भवन्ति, तिर्यग्लोकक्षेत्रस्य संख्यात-
गुणत्वात्, स्वस्थानत्वेन बहुत्व संभवाच्च,

अथ क्षेत्रानुपातेन मानुषीविषयकमल्पबहुत्वं प्ररूपयति-‘खेत्ताणुवापणं’
क्षेत्रानुपातेन-क्षेत्रानुसारेण प्ररूप्यमाणा ‘सन्वत्थोवा मणुस्सीथो तेलोक्के’
सर्वस्तोकाः-सर्वाभ्योऽल्पाः मानुष्यः-मनुष्यस्त्रियस्त्रैलोक्ये-लोरूपत्रय संस्पर्-
शिन्यो भवन्ति, ऊर्ध्वलोकादधोलोके समुत्पित्सूनां मारणान्तिकसमुद्घात-
वशाद् विनिःसृतदूरतरात्मप्रदेशानां वैक्रियसमुद्घातगतानां केवलिसमुद्घात-
गतानां वा लोकत्रसंस्पर्शनात् तासां चाति स्तोक्तत्वं बोध्यम्, ताभ्योऽपि-
-‘उद्दलयतिरियलोए संखेज्जगुणाओ’ ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके - ऊर्ध्वलोक
तिर्यग्लोकसंज्ञरुप्रागुक्तप्रतरद्वयसंस्पर्शिन्यो मानुष्यः संख्येयगुणा भवन्ति, वैमा-
निकदेवाः शेषकायाथोर्ध्वलोकात् तिर्यग्लोके मनुष्यस्त्रीत्वेनोत्पद्यमानाः, तिर्य-

हैं, क्योंकि तिर्यग्लोक का क्षेत्र संख्यातगुणा अधिक है और मनुष्यों
का वह स्वक्षेत्र है, इस कारण उनकी अधिकता का संभव है ।

मनुष्यों का अल्पबहुत्व-क्षेत्र की अपेक्षा से सब से कम
मनुष्य या तीनों लोकों का स्पर्श करने वाली हैं । ऊर्ध्वलोक से
अधोलोक में उत्पन्न होने वाले मारणान्तिक समुद्घात करके जो
अपने आत्मप्रदेशों को बहुत दूर तक बाहर निकालते हैं अथवा जो
वैक्रिय समुद्घात या केवली समुद्घात करते हैं वे तीनों लोकों का स्पर्श
करती हैं और ऐसी मनुष्य स्त्रियां कम हैं । इनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-
तिर्यग्लोक नामक पूर्वोक्त दो प्रतरों को स्पर्श करने वाली संख्यातगुणी
हैं । वैमानिक देव आदि कोई जीव जब ऊर्ध्वलोक से तिर्यग्लोक में
मनुष्य स्त्री के रूप में उत्पन्न होने वाला होता है और जब कोई तिर्य-

अधिक छे, डेमके तिर्यक लोकना क्षेत्र स ग्यात गणु अधिक छे अने मनुष्योतु
ते स्वक्षेत्र छे, ते कारणु तेमनी अधिकताने स लव छे.

मनुष्य स्त्रियोतु अल्प-बहुत्व-क्षेत्रनी अपेक्षाओ अधाधी ओधी मनुष्य
स्त्रियो त्रैलोकने स्पर्श करनारी छे ऊर्ध्वलोकथी अधोलोकमा उत्पन्न थनार
मारणान्तिक समुद्घात करीने ने आत्म प्रदेशाने धणु हर सुधी गडार
काडे छे अथवा ने वैक्रिय समुद्घात या केवली समुद्घात करे छे, तेओ त्रै
लोकने स्पर्श करे छे अने आवी मनुष्य स्त्रियो ओधी छे तेमनी अपेक्षाओ
ऊर्ध्वलोक-तिर्यक लोक नामक पूर्वोक्त ओ प्रतराने स्पर्श करवा वाणी स ग्यात
गणु छे वैमानिक देव आदि कोई जीव न्यारे ऊर्ध्वलोकथी तिर्यक लोकमा
मनुष्य स्त्रीना रूपमा उत्पन्न थनार थाय छे अने न्यारे कोई तिर्यकलोकमा

ग्लोकवर्तिमानुष्यश्चोर्ध्वलोके समुत्पित्सवो मारणातिकसमुद्घातवशात् दूर-
तरमूद्घ्विक्षिप्तात्मप्रदेशाः पूर्वोक्तप्रतरद्वयं संस्पृशन्ति, ताश्च द्वय्योऽपि बहु-
तरा भवन्ति, ताभ्योऽपि 'अधोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणाओ' अधोलोक
तिर्यग्लोके-अधोलोकतिर्यग्लोकसंज्ञकप्रतरद्वयसंस्पर्शिन्यो मानुष्यः संख्येयगुणा
भवन्ति, तिर्यग्लोकाद् मनुष्यस्त्रीभ्यः, शेषेभ्यो वा ऽधोलौकिकग्रामेषु, अधोलौ-
किकग्रामरूपात् शेषाद्वा तिर्यग्लोके मनुष्यस्त्रीत्वेनोत्पित्सवः काश्चित् अधो
लौकिकग्रामेषु अवस्थानेनापि पूर्वोक्तप्रतरद्वयं संस्पृशन्ति, ताश्च प्रगुक्ताभ्योऽति
बह्व्यो भवति, ताभ्योऽपि 'उद्धलोए संखेज्जगुणाओ' ऊर्ध्वलोके-ऊर्ध्वलोक
संज्ञकप्रतरवर्तिन्यो मानुष्यः संख्येयगुणा भवन्ति, सौमनसादिषु क्रीडार्थं प्रचुर-
तराणां विद्याधरीणां गमनसंभवात्, ताभ्योऽपि-'अधोलोए संखेज्जगुणाओ'
अधोलोके-अधोलोकवर्तिन्यो मनुष्यस्त्रियः संख्येयगुणा भवन्ति, अधोलोकस्य

ग्लोक में स्थित मनुष्यस्त्री ऊर्ध्वलोक में उत्पन्न होने वाली हो
तब मारणान्तिक समुद्घात करते समय वह पूर्वोक्त दो प्रतरों का
स्पर्श करती है। ये दोनों प्रकार की स्त्रियां बहुतर होती हैं, इनकी
अपेक्षा भी-अधोलोक-तिर्यग्लोक में अर्थात् अधोलोक तिर्यग्लोक
को स्पर्श करने वाली मानुषियां संख्यातगुणा हैं जो तिर्यग्लोक से
मनुष्य स्त्री पर्याय से या अन्य पर्याय से अधोलौकिक ग्रामों में या
अधोलौकिक ग्राम से तिर्यग्लोक में मनुष्यस्त्री के रूप में उत्पन्न हों
उनमें से कोई अधोलौकिक ग्रामों में अवस्थान करके भी पूर्वोक्त दोनों
प्रतरों का स्पर्श करती हैं। ऐसी स्त्रियां पूर्वोक्त की अपेक्षा बहुत
अधिक होती हैं। इनकी अपेक्षा भी ऊर्ध्वलोक में अर्थात् ऊर्ध्वलोक

स्थित मनुष्य स्त्री उर्ध्वलोकमा उत्पन्न थनारी थाय त्यारे मारणान्तिक समुद्
घात करती वधते पूर्वोक्त ये प्रतराने स्पर्श करे छे आ गन्ने प्रकारनी
स्त्रियो धष्ठी अधी होय छे तेमनी अपेक्षाये पणु अधोलोक तिर्यक लोकमा
अर्थात् अधोलोक तिर्यकने स्पर्श करवावाणी मानुषियो स भ्यात गष्ठी छे. ने
तिर्यक लोकथी मनुष्य स्त्री पर्यायथी अगर अन्य पर्यायथी अधोलौकिक ग्रामोमा
अगर अधोलौकिक ग्रामथी तिर्यकलोकमा मनुष्य स्त्रीना रूपमा उत्पन्न थाय तेमाथी
केरि अधोलौकिक ग्रामोमा अवस्थान करीने पणु पूर्वोक्त गन्ने प्रतराने
स्पर्श करे छे (आवी स्त्रियो पूर्वोक्तनी अपेक्षाये धष्ठी अधिक छे तेमनी
अपेक्षाये पणु उर्ध्वलोकमा अर्थात् उर्ध्वलोक नामक प्रतरमा खेती मनुष्यनियो
स भ्यातगष्ठी अधिक छे, केमके सौमनस आदि वनोमा डीडा करवा माटे धष्ठी
अधी विद्याधरीयो ऋशके छे उर्ध्वलोकनी अपेक्षाये अधोलोकमा मनुष्य स्त्रियो

तिर्यग्लोकवर्तिनो मनुष्याः संख्येयगुणा भवन्ति, तिर्यग्लोकक्षेत्रस्य संख्यात-
गुणत्वात्, स्वस्थानत्वेन बहुत्व संभवाच्च,

अथ क्षेत्रानुपातेन मानुषीविषयकमल्पबहुत्वं प्ररूपयति—‘खेत्ताणुवाएणं’
क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण प्ररूप्यमाणा ‘सञ्चरत्योवा मणुस्सीओ तेलोक्के’
सर्वस्तोकाः—सर्वाभ्योऽल्पाः मानुष्यः—मनुष्यस्त्रियस्त्रैलोक्ये—लोकपत्रय संस्प-
र्शिन्यो भवन्ति, ऊर्ध्वलोकादधोलोके समुत्पित्स्त्रूनां मारणान्तिरुसमुद्घात-
वशाद् विनिःसृतदूरतरात्मप्रदेशानां वैक्रियसमुद्घातगतानां केवलिसमुद्घात-
गतानां वा लोकत्रसंस्पर्शनात् तासां चाति स्तोकत्वं बोध्यम्, ताभ्योऽपि-
—‘उड्डलयतिरियलोए संखेज्जगुणाओ’ ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके—ऊर्ध्वलोक
तिर्यग्लोकसंज्ञरुप्रागुक्तप्रतरद्वयसंस्पर्शिन्यो मानुष्यः संख्येयगुणा भवन्ति, वैमा-
निकदेवाः शेषकायाश्चोर्ध्वलोकात् तिर्यग्लोके मनुष्यस्त्रीत्वेनोत्पद्यमानाः, तिर्य

, क्योंकि तिर्यग्लोक का क्षेत्र संख्यातगुणा अधिक है और मनुष्यों
वह स्वक्षेत्र है, इस कारण उनकी अधिकता का संभव है ।

मनुष्यस्त्रियों का अल्पबहुत्व—क्षेत्र की अपेक्षा से सब से कम
है—यां तीनों लोकों का स्पर्श करने वाली हैं । ऊर्ध्वलोक से
अधोलोक में उत्पन्न होने वाले मारणान्तिक समुद्घात करके जो
अपने आत्मप्रदेशों को बहुत दूर तक बाहर निकालते हैं अथवा जो
वैदिक समुद्घात या केवली समुद्घात करते हैं वे तीनों लोकों का स्पर्श
करती हैं और ऐसी मनुष्य स्त्रियां कम हैं । इनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-
तिर्यग्लोक नामक पूर्वोक्त दो प्रतरों को स्पर्श करने वाली संख्यातगुणी
हैं । वैमानिक देव आदि कोई जीव जब ऊर्ध्वलोक से तिर्यग्लोक में
मनुष्य स्त्री के रूप में उत्पन्न होने वाला होता है और जब कोई तिर्य-

अधिक छे, केमके तिर्यक लोकना क्षेत्र संख्यात गुणा अधिक छे अने मनुष्योत्प-
ते स्वक्षेत्र छे, ते डारण्ण तेमनी अधिकताना स भव छे.

मनुष्य स्त्रियोत्प अल्प-बहुत्व-क्षेत्रनी अपेक्षाये अधाधी ओछी मनुष्य
स्त्रियो त्रैलोक्ये स्पर्श करनारी छे ऊर्ध्वलोकधी अधोलोकमा उत्पन्न थनारा
मारणान्तिक समुद्घात करीने ने आत्म प्रदेशोने धण्ण हर सुधी गडार
कडे छे अथवा ने वैदिक समुद्घात या केवली समुद्घात करे छे, तेओ त्रैल-
लोकने स्पर्श करे छे अने आवी मनुष्य स्त्रियो ओछी छे. तेमनी अपेक्षाये
ऊर्ध्वलोक-तिर्यक लोक नामक पूर्वोक्त ये प्रतरोंने स्पर्श करवा वाणी संख्यात
छे. वैमानिक देव आदि केमके एव अथारे ऊर्ध्वलोकधी तिर्यक लोकमा

ग्लोकवर्तिमानुष्यश्चोर्ध्वलोके सगुत्पित्सवो मारणातिकसमुद्घातवशात् दूर-
तरमूर्ध्वविक्षिप्तात्मप्रदेशाः पूर्वोक्तप्रतरद्वयं संस्पृशन्ति, ताश्च द्वय्योऽपि बहु-
तरा भवन्ति, ताभ्योऽपि 'अधोलोपतिरियलोए संखेज्जगुणाओ' अधोलोक
तिर्यग्लोके-अधोलोकतिर्यग्लोकसंज्ञकप्रतरद्वयसंस्पर्शिन्यो मानुष्यः संख्येयगुणा
भवन्ति, तिर्यग्लोकाद् मनुष्यस्त्रीभ्यः, शेषेभ्यो वा ऽधोलौकिकग्रामेषु, अधोलौ-
किकग्रामरूपात् शेषाद्वा तिर्यग्लोके मनुष्यस्त्रीत्वेनोत्पित्सवः काश्चित् अधो
लौकिकग्रामेषु अवस्थानेनापि पूर्वोक्तप्रतरद्वयं संस्पृशन्ति, ताश्च प्रगुक्ताभ्योऽपि
बहुभ्यो भवति, ताभ्योऽपि 'उद्धूलोए संखेज्जगुणाओ' ऊर्ध्वलोके-ऊर्ध्वलोक
संज्ञकप्रतरवर्तिन्यो मानुष्यः संख्येयगुणा भवन्ति, सौमनसादिषु क्रीडार्थं प्रचुर-
तराणां विद्याधरीणां गमनसंभवात्, ताभ्योऽपि-'अधोलोए संखेज्जगुणाओ'
अधोलोके-अधोलोकवर्तिन्यो मनुष्यस्त्रियः संख्येयगुणा भवन्ति, अधोलोकस्य

ग्लोक में स्थित मनुष्यस्त्री ऊर्ध्वलोक में उत्पन्न होने वाली हो
तब मारणान्तिक समुद्घात करते समय वह पूर्वोक्त दो प्रतरों का
स्पर्श करती है। ये दोनों प्रकार की स्त्रियां बहुतर होनी हैं, इनकी
अपेक्षा भी-अधोलोक-तिर्यग्लोक में अर्थात् अधोलोक तिर्यग्लोक
को स्पर्श करने वाली मानुषियां संख्यातगुणा हैं जो तिर्यग्लोक से
मनुष्य स्त्री पर्याय से या अन्य पर्याय से अधोलौकिक ग्रामों में या
अधोलौकिक ग्राम से तिर्यग्लोक में मनुष्यस्त्री के रूप में उत्पन्न हों
उनमें से कोई अधोलौकिक ग्रामों में अवस्थान करके भी पूर्वोक्त दोनों
प्रतरों का स्पर्श करती हैं। ऐसी स्त्रियां पूर्वोक्त की अपेक्षा बहुत
अधिक होती हैं। इनकी अपेक्षा भी ऊर्ध्वलोक में अर्थात् ऊर्ध्वलोक

स्थित मनुष्य स्त्री ऊर्ध्वलोकात् उत्पन्न भवती तत्र तत्रे मारणान्तिक समुद्घा-
त करती वपते पूर्वोक्त ये प्रतराने स्पर्श करे छे आ जन्ने प्रकारनी
स्त्रियो धर्षी अधी होय छे तेमनी अपेक्षाये पणु अधोलोक तिर्यक लोकमा
अर्थात् अधोलोक तिर्यकने स्पर्श करवावाणी मानुषियो स भ्यात गणुी छे जे
तिर्यक लोकथी मनुष्य स्त्री पर्यायथी अगर अन्य पर्यायथी अधोलौकिक ग्रामोमां
अगर अधोलौकिक ग्रामथी तिर्यकलोकमा मनुष्य स्त्रीना रूपमा उत्पन्न थाय तेमाथी
कोइ अधोलौकिक ग्रामोमा अवस्थान करीने पणु पूर्वोक्त जन्ने प्रतराने
स्पर्श करे छे (आनी स्त्रियो पूर्वोक्तनी अपेक्षाये धर्षी अधिक छे तेमनी
अपेक्षाये पणु ऊर्ध्वलोकमा अर्थात् ऊर्ध्वलोक नामक प्रतरमा रहेली मनुष्यनियो
स भ्यातगणुी अधिक छे, केमके सौमनस आदि पनोमां डीडा करवा माटे धर्षी
अधी विद्याधरीयो जे छे छे, ऊर्ध्वलोकनी अपेक्षाये अधोलोकमा मनुष्य स्त्रियो

स्वस्थानत्वेन तत्रापि बहूनां मानुषीणां सद्भावात्, ताभ्योऽपि 'तिर्यग्लोए संखेज्जगुणाओ' तिर्यग्लोके-तिर्यग्लोकसंख्यकप्रतरवर्तिन्यो मानुष्यः संख्येयगुणा भवन्ति, तिर्यग्लोकक्षेत्रस्य संख्येयगुणत्वात्, स्वस्थानत्वेन बहुत्वसंभवाच्च, इत्येवं मनुष्यगतिमाश्रित्याल्पबहुत्वं प्रतिपाद्य सम्प्रति देवगतिमाश्रित्याल्पबहुत्वादिकं प्ररूपयति-'खेत्ताणुवाएण' क्षेत्रानुपातेन-क्षेत्रानुसारेण प्ररूप्यमाणाः 'सव्वस्थोवा देवा उड्डुलोए' सर्वस्तोवा-सर्वेभ्योऽल्पाः, देवाः ऊर्ध्वलोके-ऊर्ध्वलोकवर्तिनो भवन्ति, तत्र वैमानिकानामेव देवानां सद्भावेन तेषा मल्पत्वात्, तीर्थङ्करजन्ममहोत्सवादौ मन्दरादिषु गमनकुर्वतां भवनपति प्रभृतीनामपि स्वल्पत्वात् सर्वस्तोकत्वं देवानामूर्ध्वलोके सिद्धम्, तेभ्योऽपि 'उड्डुलोयतिर्यग्लोए असंखेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके-ऊर्ध्वलोकप्रतरद्वयवर्तिनो देवाः असंख्येयगुणा

नामक प्रतर में रही मनुष्यनियां संख्यातगुणा अधिक हैं, क्यों कि सौमनस आदि वनों में क्रीडा करने के लिए बहुत-से विद्याधरी जा सकती हैं। ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में मनुष्य स्त्रियां संख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि अधोलोक स्वस्थान है, अतएव वहां बहुत मनुष्य स्त्रियों का सद्भाव है। अधोलोक से भी तिर्यग्लोक में अर्थात् तिर्यग्लोक नामक प्रतर में रही हुई मनुष्य स्त्रियां संख्यातगुणी हैं, क्योंकि तिर्यग्लोक क्षेत्र संख्यातगुणा अधिक है और वह स्वस्थान है, अतएव उनका बाहुल्य संभव है।

देवगति का अल्पबहुत्व-क्षेत्र की अपेक्षा से सब से कम देव ऊर्ध्वलोक में हैं, क्योंकि वहां सिर्फ वैमानिक देव ही पाये जाते हैं। तीर्थंकर के जन्म महोत्सव आदि के अवसर पर सुमेरु आदि पर गमन करने वाले भवनपति आदि देव भी स्वल्प होते हैं, अतएव

संख्यातगुणी अधिक छे, केमके अधोलोक स्वस्थान छे तेथीज् तथा घण्णी मनुष्य स्त्रियोना सद्भाव छे अधोलोकथी पणु तिर्यग्लोकमा अर्थात् तिर्यग्लोक नामक प्रतरमा रहेली मनुष्य स्त्रियो सख्यातगुणी छे, केमके तिर्यग्लोकक्षेत्र संख्यातगुणी अधिक छे अने ते स्वस्थान छे, तेथीज् तेमनु ग्राह्य स लवित छे

देवगतितु अल्प-बहुत्व-क्षेत्रनी अपेक्षाये अधाथी ओछा देव ऊर्ध्वलोकमा छे, केमके तथा इकत वैमानिक देव ज् मणी आवे छे. तीर्थंकरना जन्म महोत्सवादिना अवसर उपर सुमेरु आदि पर गमन करवा वाणा भवनपति आदि देव पणु थोडा होथ छे, तेथी ज् ऊर्ध्वलोकमा अधाथी ओछा देवोतु होवु सिद्ध थाथ छे. तेमनी अपेक्षाये ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक नामक जे प्रतराना देव असख्यातगुणी अधिक छे, केमके आ अने प्रतर न्योतिध्

भ्रान्ति, तस्य प्रतरद्वयस्य ज्योतिष्काणां प्रत्यासन्नत्वेन स्वस्थानत्वात्, भवनपति-
वानव्यन्तरज्योतिष्काणां मन्दरादां सौधर्मादिकल्पगतानां स्वस्थाने गमनागमनात्,
सौधर्मादिषु देवत्वेन उत्पित्स्वना देवायुः प्रतिसंवेद्यमानानां स्तोत्पत्तिदेशमभिग-
च्छताम् पूर्वोक्तप्रतरद्वयसंस्पर्शनात्, साकल्येन पूर्वोक्तप्रतरद्वयसंस्पर्शनां प्ररूपणेऽति
बहुत्वाच्च प्रागुक्तेभ्योऽसंख्येयगुणत्वं भवति, तेभ्योऽपि 'तैलोक्यं संख्येयगुणा'
त्रैलोक्ये-लोकत्रयवर्तिनो देवाः संख्येयगुणा भ्रान्ति, भवनपतिवानव्यन्तर-
ज्योतिष्कवैमानिकानां देवानां तथाविधप्रयत्नविशेषवशात् वैक्रियसमुद्वा-
तेन समवहतानां लोकत्रयसंस्पर्शनात्, तेषां पूर्वोक्तप्रतरद्वयसंस्पर्शभ्यः संख्येय-

ऊर्ध्वलोक मे सब से कम देवों का होना सिद्ध होता है। उनकी
अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-मध्यलोक नामक दो प्रतरों के देव अभंख्यातगुणा
अधिक हैं, क्योंकि ये दोनों प्रतर ज्योतिष्क देवों के समीपवर्ती हैं,
अतएव उनके स्वस्थान हैं। इससे अतिरिक्त भवनपति, वानव्यन्तर
और ज्योतिष्क देव सुमेरु आदि पर गमन करते हैं। सौधर्म आदि
कल्पों के देव अपने स्थान में आते जाते हैं, या सौधर्म आदि देव
लोकों में देवरूप से उत्पन्न होने वाले जो देवायु का वेदन कर रहे
हैं, वे जब अपने उत्पत्ति देश में जाते हैं तब पूर्वोक्त दोनों प्रतरों का
स्पर्श होता है। ऐसे देव पूर्वोक्त देवों से असंख्यातगुणा अधिक हैं।
उनकी अपेक्षा भी त्रैलोक्य में अर्थात् लोकत्रयवर्ती देव संख्यातगुणा
हैं, क्योंकि भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देव एक
प्रकार के विशेष प्रयत्न से जब वैक्रिय समुद्घात करते हैं, तब तीनों
लोकों का स्पर्श करते हैं। वे पूर्वोक्त दोनों प्रतरों को स्पर्श करने वालों
की अपेक्षा संख्यातगुणा अधिक हैं। उनकी अपेक्षा अधोलोक-

देवानां समीपवर्ती छे तेथी न तेमना स्वस्थान छे तेना शिवाय भवनपति
वानव्यन्तर अने न्योतिष्क देव सुमेरु आदि पर गमन करे छे, सौधर्म
आदि कल्पेना देव पोताना स्थानमा आवे नथ छे, अजर सौधर्म आदि
देवलोकोमा देवउपथी उत्पन्न थनार ने देवायुनु वेदन करी रखेल छे, तेज्जे
न्यारे पोताना उत्पत्ति देशमा नथ छे त्यारे पूर्वोक्त भन्ने प्रतराने स्पर्श
थाय छे जेवा देव पूर्वोक्त देवोथी असंख्यात गणु अधिक छे, तेमनी
अपेक्षाये पणु त्रैलोक्यमा अर्थात् लोकत्रयवर्ती देव संख्यात गणु छे, केमके
भवनपति, वानव्यन्तर, न्योतिष्क अने वैमानिक देव अेक प्रकारना विशेष
प्रयत्नथी न्यारे वैक्रिय समुद्घात करे छे, त्यारे त्रैलु लोकाने स्पर्श करे छे.
तेज्जे पूर्वोक्त भन्ने प्रतराने स्पर्श करनारनी अपेक्षाये संख्यात गणु

गुणत्वं भवति, तेभ्योऽपि 'अहोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा' अधोलोक तिर्यग्लोके-अधोलोकतिर्यग्लोक प्रतरद्वयसंस्पर्शिनो देवाः संख्येयगुणा भवन्ति, तस्य प्रतरद्वयस्य भवनपतिवानव्यन्तरदेवानां प्रत्यासन्नतया स्वस्थानत्वात्, बहूनां भवनपतीनां स्वभवनस्थानां तिर्यग्लोकगमनागमनात्, तथोद्वर्तमानानां, वैक्रिय-समुद्घातेन समवहतानाम्, तिर्यग्लोकवर्तिनां, पञ्चेन्द्रियतिर्यग्मनुष्याणां वा भवनपतित्वेनोत्पद्यमानानां च भवनपत्यायुरनुभवतां पूर्वोक्तप्रतरद्वयसंस्पर्शित्वे-नातिबहुत्वात् संख्येयगुणत्वं भवति, तेभ्योऽपि 'अहोलोए संखेज्जगुणा' अधोलोके-अधोलोकवर्तिनो देवाः संख्येयगुणा भवन्ति, अधोलोकस्य भवनपतीनां स्वस्थानत्वात्, तेभ्योऽपि 'तिरियलोए संखेज्जगुणा' तिर्यग्लोके-तिर्यग्लोकवर्तिनो देवाः संख्येयगुणा भवन्ति तिर्यग्लोकस्य ज्योतिष्कवानव्यन्तराणां स्वस्थानत्वात् ।

तिर्यग्लोक मे संख्यातगुणा हैं अर्थात् अधोलोक तिर्यग्लोक नामक दोनों प्रतरों को स्पर्श करने वाले संख्यात गुणा हैं, क्योंकि वे दोनों प्रतर भवनपति तथा वानव्यन्तर देवों के समीपवर्ती होने से उनके स्वस्थान हैं । बहुसंख्यक भवनपति तिर्यग्लोक मे नागमन करते हैं, उद्वर्तन करते हैं, वैक्रिय समुद्घात करते हैं अथवा तिर्यग्लोक के पञ्चेन्द्रिय तिर्यच या मनुष्य जब भवनपति के रूप में उत्पन्न होने वाले होते हैं और भवनपति की आयु का अनुभव करते हैं तब पूर्वोक्त दोनों प्रतरों का स्पर्श होता है । ऐसे जीव बहुत होने के कारण संख्यातगुणा कहे गए हैं । उनकी अपेक्षा अधोलोक में संख्यात गुणा हैं, क्योंकि अधोलोक भवनवासी देवों का स्वस्थान है । अधोलोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक मे रहने वाले देव संख्यातगुणा हैं, क्योंकि तिर्यग्लोक ज्योतिष्क और वानव्यन्तरों का स्वस्थान है ।

अधिक छे. तेमनी अपेक्षाये अधोलोक तिर्यकलोकमा स ज्ञ्यात गण्णु छे अर्थात् अधोलोक तिर्यकलोक नामक जन्ने प्रतराने स्पर्श करनारा स ज्ञ्यात गण्णु छे केमके तेज्जे जन्ने प्रतर लवनपति वानव्यन्तर देवाना समीपवर्ती होवाथी तेमना स्वस्थान छे जहुस ज्यक लवनपति तिर्यकलोकमा गमनागमन करे छे, उद्वर्तन करे छे, वैक्रिय समुद्घात करे छे, अथवा उत्पन्न थनारा जने छे जने लवनपतिना आयुधने अनुभव करे छे, त्यारे पूर्वोक्त जन्ने प्रतराने स्पर्श थाय छे. जेवा ज्व घण्णु होवाने कारणु स ज्ञ्यात गण्णु कडेला छे तमनी अपेक्षाये अधोलोकमा स ज्ञ्यात गण्णु छे, केमके अधोलोक लवनवासी देवाना स्वस्थान छे अधोलोकनी अपेक्षाये तिर्यकलोकमा रहनारा देव स ज्ञ्यात गण्णु छे, केमके तिर्यकलोक ज्योतिष्क जने वानव्यन्तराने स्वस्थान छे.

અથ દેવીરાશિત્યાલ્પમહુત્ત્વં પ્રતિપાદયતિ—‘લેક્ષાણુવાણ’ ક્ષેત્રાનુપાતેન ક્ષેત્રાનુસારેણ, ‘સંસ્વત્થોવાઓ દેવીઓ ઉદ્ધુલો’ સર્વસ્તોત્રાઃ—સર્વાભ્યોડલ્પાઃ, દેવ્યઃ, ઊર્ધ્વલોકે, ઊર્ધ્વલોકવર્તિન્યો ભવન્તિ, તત્ર વૈમાનિકદેવીનામેવ સત્ત્વેન તાસામતિસ્તોકત્વાત્, તાભ્યો દેવીભ્યઃ ‘ઉદ્ધુલોયતિરિયલો’ અસં-લેજ્જગુણાઓ’ ઊર્ધ્વલોકતિર્યગ્લોકે—ઊર્ધ્વલોકતિર્યગ્લોકપ્રતરદ્વયવર્તિન્યો દેવ્યઃ અસંલ્પેયગુણા ભવન્તિ, પ્રાગુક્તદેવવિપયકયુક્તેઃ, તાભ્યોડપિ ‘તેલોકત્રે સંલે-જ્જગુણાઓ’ ત્રૈલોક્યે—લોકત્રયવર્તિન્યો દેવ્યઃ સંલ્પેયગુણા ભવન્તિ, પ્રાગુક્તયુક્તેઃ, તાભ્યોડપિ ‘અહોલોયતિરિયલો’ અધોલોકતિર્યગ્લોકે—અધો-લોકતિર્યગ્લોકસંલ્પકપ્રતરદ્વયવર્તિન્યો દેવ્યઃ સંલ્પેયગુણા ભવન્તિ, પ્રાગુક્ત-દેવવિપયકયુક્તેઃ, તાભ્યોડપિ ‘અહોલો’ સંલેજ્જગુણાઓ’ અધોલોકે—અધોલોક વર્તિન્યો દેવ્યઃ સંલ્પેયગુણા ભવન્તિ, પ્રાગુક્તયુક્તેઃ, તાભ્યોડપિ ‘તિરિયલો’ સંલેજ્જગુણાઓ’ તિર્યગ્લોકે—તિર્યગ્લોકવર્તિન્યો દેવ્યઃ સંલ્પેયગુણા ભવન્તિ, પ્રાગુક્તદેવવિપયકયુક્તેઃ સત્ત્વાત્ ॥૬૦ ૩૦॥

દેવિયોં કા અલ્પમહુત્વ-ક્ષેત્ર કી અપેક્ષા સે સવ સે કમ દેવિયાં ઊર્ધ્વલોક મેં હેં, કયોંકિ ઊર્ધ્વલોક મેં સિર્ફ વૈમાનિક દેવિયાં હી હોતી હેં, અતેવ સવસે કમ હેં । ઁનકી અપેક્ષા ઊર્ધ્વલોક-તિર્યગ્લોક નામક પ્રતરોં મેં અસંલ્પ્યાતગુણી હેં । ઁસ કા કારણ વહી સમજ્જ લેના ચાહિણ જો દેવોં કે વિષય મેં કહા ગયા હૈ । ઁનકી અપેક્ષા તીનોં લોકોં કા સ્પર્શ કરને વાલી દેવિયાં સંલ્પ્યાત ગુણી હેં । ઁસ કા કારણ પહલે દેવોં કે પ્રસંગ મેં કહા જા ચુકા હૈ । ઁનકી અપેક્ષા અધોલોક-તિર્યગ્લોક મેં સંલ્પ્યાતગુણી હેં । યહાં મી પૂર્વોક્ત યુક્તિ સમજ્જ લેની ચાહિણ । ઁન કી અપેક્ષા અધોલોક મેં સંલ્પ્યાતગુણી અધિક હેં । દેવોં કે વિષય મેં જો યુક્તિયાં કહી હેં વે યહાં મી સમજ્જ લેના ચાહિણ ॥ ૩૦ ॥

દેવિયેતુ અલ્પ મહુત્વ-ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ બધાથી ઓછી દેવીઓ ઊર્ધ્વ લોકમા છે, કેમકે ઊર્ધ્વલોકમા ફક્ત વૈમાનિક દેવિયો જ હોય છે, તેથીજ બધાથી ઓછી છે તેમની અપેક્ષાએ ઊર્ધ્વલોક-તિર્યગ્લોક નામક પ્રતરોમા સંલ્પ્યાત ગણી છે તેતુ કારણ તેજ સમજ્જ લેવુ જોઈએ જે દેવોની બાબતમા કહેલુ છે તેમની અપેક્ષાએ ત્રણે લોકનો સ્પર્શ કરવાવાળી દેવિયો સંલ્પ્યાત ગણી છે. તેતુ કારણ પહેલા દેવોના પ્રસંગમા કહિ દિધેલુ છે. તેમની અપેક્ષાએ અધોલોક-તિર્યગ્લોક લોકમા સંલ્પ્યાત ગણી છે અહિ પણ પૂર્વોક્ત યુક્તિ સમજ્જ લેવી જોઈએ તેમની અપેક્ષાએ અધોલોકમા સંલ્પ્યાત ગણી અધિક છે. અને તેમની અપેક્ષાએ પણ તિર્યગ્લોકમા સંલ્પ્યાત ગણી અધિક છે. દેવોના વિષયમા જે યુક્તિઓ કહી છે તે અહિ પણ સમજ્જ લેવી જોઈએ ॥ ૩૦ ॥

गुणत्वं भवति, तेभ्योऽपि 'अहोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा' अधोलोक तिर्यग्लोके-अधोलोकतिर्यग्लोक प्रतरद्वयसंस्पर्शिनो देवाः संख्येयगुणा भवन्ति, तस्य प्रतरद्वयस्य भवनपतिवानव्यन्तरदेवानां प्रत्यासन्नतया स्वस्थानत्वात्, बहूनां भवनपतीनां स्वभवनस्थानां तिर्यग्लोकगमनागमनात्, तथोद्वर्तमानानां, वैक्रिय-समुद्घातेन समवहतानाम्, तिर्यग्लोकवर्तिनां, पञ्चेन्द्रियतिर्यगमनुष्याणा वा भवनपतित्वेनोत्पद्यमानाना च भवनपत्यायुरनुभवतां पूर्वोक्तप्रतरद्वयसंस्पर्शित्वे-नातिबहुत्वात् संख्येयगुणत्वं भवति, तेभ्योऽपि 'अहोलोए संखेज्जगुणा' अधोलोके-अधोलोकवर्तिनो देवाः संख्येयगुणा भवन्ति, अधोलोकस्य भवनपतीनां स्वस्थानत्वात्, तेभ्योऽपि 'तिरियलोए संखेज्जगुणा' तिर्यग्लोके-तिर्यग्लोकवर्तिनो देवाः संख्येयगुणा भवन्ति तिर्यग्लोकस्य ज्योतिष्कवानव्यन्तराणां स्वस्थानत्वात् ।

तिर्यग्लोक मे संख्यातगुणा हैं अर्थात् अधोलोक तिर्यग्लोक नामक दोनों प्रतरों को स्पर्श करने वाले संख्यात गुणा हैं, क्योंकि वे दोनों प्रतर भवनपति तथा वानव्यन्तर देवों के समीपवर्ती होने से उनके स्वस्थान हैं । बहुसंख्यक भवनपति तिर्यग्लोक में नागमन करते हैं, उद्वर्त्तन करते हैं, वैक्रिय समुद्घात करते हैं अथवा तिर्यग्लोक के पंचेन्द्रिय तिर्यच या मनुष्य जब भवनपति के रूप में उत्पन्न होने वाले होते हैं और भवनपति की आयु का अनुभव करते हैं तब पूर्वोक्त दोनों प्रतरों का स्पर्श होता है । ऐसे जीव बहुत होने के कारण संख्यातगुणा कहे गए हैं । उनकी अपेक्षा अधोलोक में संख्यात गुणा हैं, क्योंकि अधोलोक भवनवासी देवों का स्वस्थान है । अधोलोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में रहने वाले देव संख्यातगुणा हैं, क्योंकि तिर्यग्लोक ज्योतिष्क और वानव्यन्तरों का स्वस्थान है ।

अधिक छे. तेमनी अपेक्षाञ्चे अधोलोक तिर्यग्लोकमा स भ्यात गण्णा छे अर्थात् अधोलोक तिर्यग्लोक नामक अन्ने प्रतरानो स्पर्श करनारा स भ्यात गण्णा छे केमके तेञ्चो अन्ने प्रतर भवनपति वानव्यन्तर देवाना समीपवर्ती होवाथी तेमना स्वस्थान छे गण्डुसभ्यक भवनपति तिर्यग्लोकमा गमनागमन करे छे, उद्वर्त्तन करे छे, वैक्रिय समुद्घात करे छे, अथवा उत्पन्न थनारा अने छे अने भवनपतिना आयुष्येना अनुभव करे छे, त्यारि पूर्वोक्त अन्ने प्रतरानो स्पर्श थाय छे. जेवा एव घण्णा होवाने कारण्णे स भ्यात गण्णा कडेला छे तेमनी अपेक्षाञ्चे अधोलोकमा स भ्यात गण्णा छे, केमके अधोलोक भवनवासी देवाना स्वस्थान छे अधोलोकनी अपेक्षाञ्चे तिर्यग्लोकमा रहेनारा देव स भ्यात गण्णा छे, केमके तिर्यग्लोक ज्योतिष्क अने वानव्यन्तराना स्वस्थान छे.

अथ देवीराश्रित्याल्पवदुत्वं प्रतिपादयति—‘खेत्ताणुवाएण’ क्षेत्रानुपातेन क्षेत्रानुसारेण, ‘सन्नत्थोवाओ देवीओ उड्डुलोए’ सांस्तोकाः—सर्वाभ्योऽल्पाः, देव्यः, ऊर्ध्वलोके, ऊर्ध्वलोकवर्तिन्यो भवन्ति, तत्र वैमानिकदेवीनामेव सत्त्वेन तासामतिस्तोकत्वात्, ताभ्यो देवीभ्यः ‘उड्डुलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ’ ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके—ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोकप्रतरद्वयवर्तिन्यो देव्यः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तदेवविषयकयुक्तेः, ताभ्योऽपि ‘तेलोक्के संखेज्जगुणाओ’ त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिन्यो देव्यः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, ताभ्योऽपि ‘अहोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणाओ’ अधोलोकतिर्यग्लोके—अधोलोकतिर्यग्लोकसंख्येयकप्रतरद्वयवर्तिन्यो देव्यः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तदेवविषयकयुक्तेः, ताभ्योऽपि ‘अहोलोए संखेज्जगुणाओ’ अधोलोके—अधोलोकवर्तिन्यो देव्यः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, ताभ्योऽपि ‘तिरियलोए संखेज्जगुणाओ’ तिर्यग्लोके—तिर्यग्लोकवर्तिन्यो देव्यः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तदेवविषयकयुक्तेः सत्त्वात् ॥ सू० ३० ॥

देवियों का अल्पवदुत्व-क्षेत्र की अपेक्षा से सब से देवियां ऊर्ध्वलोक में हैं, क्योंकि ऊर्ध्वलोक में सिर्फ वैमानिक देवियां ही होती हैं, अतएव सबसे कम हैं। उनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में असंख्यातगुणी हैं। इस का कारण वही समझ लेना चाहिए जो देवों के विषय में कहा गया है। उनकी अपेक्षा तीनों लोकों का स्पर्श करने वाली देवियां संख्यात गुणी हैं। इस का कारण पहले देवों के प्रसंग में कहा जा चुका है। उनकी अपेक्षा अधोलोक-तिर्यग्लोक में संख्यातगुणी हैं। यहां भी पूर्वोक्त युक्ति समझ लेनी चाहिए। उनकी अपेक्षा अधोलोक में संख्यातगुणी अधिक हैं। देवों के विषय में जो युक्तियां कही है वे यहां भी समझ लेना चाहिए ॥ ३० ॥

देवियेणु अल्प वदुत्व-क्षेत्री अपेक्षाये अधाथी ओधी देवीओ उर्ध्व लोकमा छे, केमके उर्ध्वलोकमा इकत वैमानिक देविये न् डोय छे, तेथीन् अधाथी ओधी छे तेमनी अपेक्षाये उर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरैमा स भ्यात गण्ठी छे तेनु कारणु तेन् समल लेवु ने-जे न् देवीनी आभतमा कडेलु छे तेमनी अपेक्षाये त्रिले लोकने स्पर्श करवावाणी देविये स भ्यात गण्ठी छे तेनु कारणु पडेला देवीना प्रस गमा कडि दिधेलु छे, तेमनी अपेक्षाये अधोलोक-तिर्यग्लोक लोकमा स भ्यात गण्ठी छे अडि पणु पूर्वोक्त युक्ति समल लेवी नेधये तेमनी अपेक्षाये अधोलोकमा स भ्यात गण्ठी अधिक छे, अने तेमनी अपेक्षाये पणु तिर्यग्लोकमा स भ्यात गण्ठी अधिक छे, देवीना विषयमा न् युक्तिओ कडी छे ते अडि पणु समल लेवी नेधये ॥ ३० ॥

भवनपत्यादि देवारूपबहुत्वमक्तव्यता-

मूलम्—खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा भवनवासी देवा उड्डु-
लोए, उड्डुलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा, तेलोक्के संखेज्ज-
गुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा, तिरियलोए असंखे-
ज्जगुणा, अहोलोए असंखेज्जगुणा, खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थो-
वाओ भवणवासिणीओ देवीओ उड्डुलोए, उड्डुलोयतिरियलोए
असंखेज्जगुणाओ, तेलोक्के संखेज्जगुणाओ, अहोलोयतिरिय-
लोए असंखेज्जगुणाओ, तिरियलोए असंखेज्जगुणाओ, अहो-
लोए असंखेज्जगुणाओ, खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा वाणमंतरा
देवा उड्डुलोए, उड्डुलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा, तेलोक्के
संखेज्जगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा, अहोलोए
संखेज्जगुणा, तिरियलोए संखेज्जगुणा, खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थो-
वाओ वाणमंतरीओ देवीओ उड्डुलोए, उड्डुलोयतिरियलोए असं-
खेज्जगुणाओ, तेलोक्के संखेज्जगुणाओ, अहोलोयतिरियलोए
असंखेज्जगुणाओ, अहोलोए संखेज्जगुणाओ, तिरियलोए
संखेज्जगुणाओ, खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा जोइसिया देवा उड्डु-
लोए, उड्डुलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा, तेलोक्के संखेज्ज-
गुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा, अहोलोए संखेज्ज-
गुणा, तिरियलोए असंखेज्जगुणा, खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवाओ
जोइसिणीओ देवीओ उड्डुलोए, उड्डुलोयतिरियलोए असंखे-
ज्जगुणाओ, तेलोक्के संखेज्जगुणाओ, अहोलोयतिरियलोए
असंखेज्जगुणाओ, अहोलोए संखेज्जगुणाओ, तिरियलोए असं-
खेज्जगुणाओ, खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा वेमाणिया देवा उड्डु-
लोयतिरियलोए, तेलोक्के संखेज्जगुणा, अहोलोयतिरियलोए
संखेज्जगुणा, अहोलोए संखेज्जगुणा, तिरियलोए संखेज्जगुणा,

असंख्येयगुणाः, अधोलोके असंख्येयगुणाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोका वानव्यन्तरा देवा ऊर्ध्वलोके, ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये संख्येयगुणाः, अधोलोकतिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके संख्येयगुणाः, तिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोका वानव्यन्तर्यो देव्यः ऊर्ध्वलोके, ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये संख्येयगुणा, अधोलोकतिर्यग्लोके असं-

गुणी हैं (तेल्लोके संखेज्जगुणाओ) त्रैलोक्य में संख्यातगुणी हैं (अहो-ल्लोयतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ) अधोलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यात गुणी हैं (तिरियलोए असंखेज्जगुणाओ) तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणी हैं (अहोलोए असंखेज्जगुणाओ) अधोलोक में असंख्यातगुणी हैं ।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सन्वत्थोवा वाणमंतरा देवा उड्डलोए) सबसे कम वानव्यन्तर देव ऊर्ध्वलोक में हैं (उड्डलोयतिरिय-लोए असंखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (तेल्लोके संखेज्जगुणा) त्रैलोक्य में संख्यातगुणा हैं (अहोलोयतिरिय-लोए) अधोलोक-तिर्यग्लोक में (असंखेज्जगुणा) असंख्यातगुणा हैं (अहोलोए संखेज्जगुणा) अधोलोक में संख्यातगुणा हैं (तिरियलोए संखेज्जगुणा) तिर्यग्लोक में संख्यातगुणा हैं ।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार सन्वत्थोवाओ वाणमंतरीओ देवीओ) सबसे से कम वानव्यन्तर देवियां (उड्डलोए) ऊर्ध्वलोक में हैं (उड्डलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ) ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणी हैं (तेल्लोके संखेज्जगुणाओ) त्रैलोक्य में संख्यातगुणी

के-संखेज्जगुणाओ) त्रैलोक्यमा संख्यातगण्णी छे (अहोलोयतिरियलोए असं-खेज्जगुणाओ) अधोलोक-तिर्यग्लोकमा असंख्यातगण्णी छे (तिरियलोए असं-खेज्जगुणाओ) तिर्यग्लोकमा असंख्यातगण्णी छे (अहोलोए असंखेज्जगुणाओ) अधोलोकमा असंख्यातगण्णी छे ।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र अनुसार (सन्वत्थोवा वाणमंतरा देवा उड्डलोए) अधाथी ओएण वान-व्यन्तर देव उर्ध्वलोकमा छे (उड्डलोय तिरियलोए असंखेज्जगुणा) उर्ध्वलोकतिर्यग्लोकमा असंख्यात गण्णी छे (तेल्लोके संखेज्जगुणा) त्रैलोक्यमा संख्यातगण्णी छे (अहोलोयतिरियलोए) अधोलोक तिर्यग्लोकमा (असंखेज्जगुणा) असंख्यातगण्णी छे (तिरियलोए संखेज्जगुणा) तिर्यग्लोकमा संख्यातगण्णी छे

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना अनुसार (सन्वत्थोवा वाणमंतरीओ देवीओ) अधाथी ओएण वानव्यन्तरी देविओ (उड्डलोए) उर्ध्वलोकमा छे (उड्डलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ) उर्ध्वलोकतिर्यग्लोकमा असंख्यातगण्णी छे (तेल्लोके संखेज्जगुणाओ) त्रैलोक्यमा

ख्येयगुणाः, अधोलोके संख्येयगुणाः, तिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः ज्योतिष्का देवा ऊर्ध्वलोके, ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये संख्येयगुणाः, अधोलोकतिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके संख्येयगुणाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः ज्योतिष्कयो देव्यः ऊर्ध्वलोकं, ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोकं असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये संख्येयगुणाः, अधो-

हैं (अहोलोयतिरियलोए) अधोलोक-तिर्यग्लोक में (असंखेज्जगुणाओ) असंख्यातगुणी हैं (अहोलोए संखेज्जगुणाओ) अधोलोक में संख्यातगुणी हैं (तिरियलोए संखेज्जगुणाओ) तिर्यग्लोक में संख्यातगुणी हैं।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सव्वत्थोवा जोइसिया देवा उड्डुलोए) सब से कम ज्योतिष्क देव ऊर्ध्वलोक में हैं (उड्डुलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (तेल्लोक्के संखेज्जगुणा) त्रैलोक्य में संख्यातगुणा हैं (अहोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा) अधोलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोए संखेज्जगुणा) अधोलोक में संख्यातगुणा हैं (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सव्वत्थोवाओ जोइसणीओ देवीओ उड्डुलोए) सब से कम ज्योतिष्क देवियां ऊर्ध्वलोक में हैं (उड्डुलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ) ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणी हैं (तेल्लोक्के संखेज्जगुणाओ) त्रैलोक्य में संख्यातगुणी हैं (अहो-

संख्यातगुणी छे (अहोलोयतिरियलोए) अधोदोः तिर्यग्दोः (असंखेज्जगुणाओ) असंख्यातगुणी छे (अहोलोए संखेज्जगुणाओ) अधोदोः संख्यातगुणी छे (तिरियलोए संखेज्जगुणाओ) तिर्यग्दोः संख्यातगुणी छे।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना अनुसार (सव्वत्थोवा जोइसिया देवा उड्डुलोए) सौथी ओए छे ज्योतिष्क देव उर्ध्वदोः छे। (उड्डुलोए तिरियलोए असंखेज्जगुणा) उर्ध्वदोः तिर्यग्दोः असंख्यातगुणी छे। (तेल्लोक्के संखेज्जगुणा) त्रैदोः संख्यातगुणी छे। (अहोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा) अधोदोः तिर्यग्दोः असंख्यातगुणी छे (अहोलोए संखेज्जगुणा) अधोदोः संख्यातगुणी छे (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्दोः असंख्यातगुणी छे।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रनी अनुसार (सव्वत्थोवाओ जोइसणीओ देवीओ) सौथी ओए छे ज्योतिष्क देवीओ उर्ध्वदोः छे (उड्डुलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ) उर्ध्वदोः तिर्यग्दोः असंख्यातगुणी छे (तेल्लोक्के संखेज्जगुणाओ) त्रैदोः संख्यातगुणी छे। (अहोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ) अधोदोः

लोकतिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके संख्येयगुणाः, तिर्यग्लोके असंख्येय-
गुणाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोक्ताः वैमानिका देवाः, ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके, त्रैलोक्ये
संख्येयगुणाः, अधोलोकतिर्यग्लोक संख्येयगुणाः, अधोलोके संख्येयगुणाः,
तिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, ऊर्ध्वलोके असंख्येयगुणाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोक्ताः
वैमानिकयो देव्य ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके, त्रैलोक्ये संख्येयगुणाः अधोलोकतिर्यग्लो-

ल्यतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ) अधोलोक-तिर्यग्लोक में असं-
ख्यातगुणी हैं (अहोलोए संखेज्जगुणाओ) अधोलोक मे संख्यातगुणी
हैं (तिरियलोए असंखेज्जगुणाओ) तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणी हैं।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र की अपेक्षा से (सञ्चत्थोवा वेमाणिया देवा
उड्डलयतिरियलोए) सब से कम वैमानिक देव ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोक
में हैं (तेलोकके संखेज्जगुणा) त्रैलोक्य मे संख्यातगुणा हैं (अहोलोय-
तिरियलोए संखेज्जगुणा) अधोलोक तिर्यग्लोक मे संख्यातगुणी हैं
(अहोलोए संखेज्जगुणा) अधोलोक मे संख्यातगुणी हैं (तिरियलोए
संखेज्जगुणा) तिर्यग्लोक मे संख्यातगुणा हैं (उड्डलोए असंखेज्जगुणा)
ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा हैं।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र की अपेक्षा से (सञ्चत्थोवाओ वेमाणिणीओ
देवीओ उड्डलयतिरियलोए) सब से कम वैमानिक देवियां ऊर्ध्वलोक
-तिर्यग्लोक में हैं (तेलोकके संखेज्जगुणाओ) त्रैलोक्य मे संख्यात-
गुणी हैं (अहोलोयतिरियलोए) अधोलोक तिर्यग्लोक में (संखेज्ज
गुणाओ) संख्यातगुणी हैं (अहोलोए संखेज्जगुणाओ) अधोलोक मे

तिर्यग्दोइमा असंख्यात गण्णी छे (अहोलोए संखेज्जगुणाओ) अधोदोइमा
संख्यात गण्णी छे (तिरियलोए असंखेज्जगुणाओ) तिर्यग्दोइमा असंख्यात गण्णी छे।

(खेत्ताणुवाएण) क्षेत्रनी अपेक्षाये (सञ्चत्थोवा वेमाणिया देवा उड्डलय
तिरियलोए) अधोधी ओछा वैमानिकदेव उर्ध्वदोइ तिर्यग्दोइमा छे (तेलोकके
संखेज्जगुणा) त्रैदोइयमा संख्यातगण्णी छे (अहोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा)
अधोदोइ-तिर्यग्दोइमा संख्यातगण्णी छे (अहोलोए संखेज्जगुणा) अधोदोइमा
संख्यातगण्णी छे (तिरियलोए संखेज्जगुणा) तिर्यग्दोइमा संख्यातगण्णी छे
(उड्डलोए असंखेज्जगुणा) उर्ध्वदोइमां असंख्यातगण्णी छे

(खेत्ताणुवाएण) क्षेत्रनी अपेक्षाये (सञ्चत्थोवाओ वेमाणिणीओ देवीओ उड्ड-
लयतिरियलोए) सौथी थोडी वैमानिकदेवियो उर्ध्वदोइ-तिर्यग्दोइमा छे (तेलोक-
के संखेज्जगुणाओ) त्रैदोइयमां संख्यातगण्णी छे (अहोलोयतिरियलोए) अधोदोइ
अनेतिर्यग्दोइमा (संखेज्जगुणाओ) संख्यातगण्णी छे (अहोलोए संखेज्जगुणाओ)

लोके संख्येयगुणाः अधोलोके संख्येयगुणाः, तिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, ऊर्ध्व-
लोके असंख्येयगुणाः ॥

टीका—इतः पूर्व नैरयिकादि देवसामान्यविषयकमल्पबहुत्वं प्रतिपादितम्,
सम्प्रति भवनपत्यादि देवविषयकाल्पबहुत्वप्रतिपादयिष्या सर्वप्रथमं भवनपति-
विषयकमल्पबहुत्वं प्रतिपादयति—'खेत्ताणुवाएण' क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण
प्ररूप्यमाणाः 'सन्वत्थोवा भवणवासीदेवा उड्डुलोए' सर्वस्तोकाः भवनवासिनो
देवाः ऊर्ध्वलोके—ऊर्ध्वलोकप्रतरवर्तिनो भवन्ति, केचिद् भवनपतयो देवाः सौध-
मादिष्वपि कल्पेषु पूर्वसंगतिकनिश्रया गमनं कुर्वन्ति, केचिद् गेरो जिनेन्द्रजन्म-
महोत्सवमुपलक्ष्य, अञ्जनदधिमुखेषु अष्टाह्निकमहोत्सवमुपलक्ष्य, अपरे च केचिद्

संख्यातगुणी हैं (तिरियलोए खेज्जगुणाओ) तिर्यग्लोक में संख्यात-
गुणी हैं (उड्डुलोए असंखेज्जगुणाओ) ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणी हैं ।

टीकार्थ—इस से पूर्व नैरयिक आदि चारों गतियों के जीवों का
सामान्य रूप से अल्पबहुत्व प्रतिपादित किया गया है, अब भवनपति
आदि देव-विशेषों के अल्पबहुत्व का प्रतिपादन करते हुए सर्वप्रथम
भवनपति देवों के अल्पबहुत्व को प्रदर्शित करते हैं—

क्षेत्र के अनुसार यदि प्ररूपणा की जाय तो सब से कम भवन-
वासी देव ऊर्ध्वलोक में हैं । कोई-कोई भवनपति देव सौधर्म आदि
कल्पों में अपने पूर्वभव के संगतिक देव की निश्रा से जाते हैं । कोई
कोई मेरुपर्वत पर तीर्थकर भगवान् के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में,
कोई अष्टाह्निक महोत्सव करने के लिए अंजन एवं दधिमुख आदि

अधोलोकमा स भ्यातगण्णी छे (तिरियलोए स खेज्जगुणाओ) तिर्यग्लोकमां स भ्यात-
गण्णी छे. (उड्डुलोए असंखेज्जगुणाओ) ऊर्ध्वलोकमा अस भ्यात गण्णी छे.

टीकार्थ—आनी पडेला नैरयिक वगेरे थारे गतिवाणा एवे। एवेणु
सामान्यरीते अल्प बहुत्व प्रतिपादित करवामा आवेल छे. एवे भवनपति
वगेरे देव अने देवियोना अल्प बहुत्वनु प्रतिपादन करवा माटे सौथी पडेलां
भवनपति देवोना अल्प बहुत्व ने प्रदर्शित करे छे,—

क्षेत्र प्रमाणे जे प्ररूपणा करवामा आवे तो सौथी ओछा भवनवासी
देवे। ऊर्ध्वलोकमा छे सौधर्म वगेरे कल्पोना केछि केछि भवनपति पोताना
पूर्व भवमाना संगतिक देवनी निश्राथी जय छे केछि केछि मेरुपर्वतपर
तीर्थकर भगवानना जन्म महोत्सवना उपलक्ष्यमा केछि अष्टाह्निक महोत्सव
करवा माटे अंजन अने दधिमुख वगेरे पर्वतोनी उपर अने केछि केछि कीडा

भवनपतयो मन्दरादिषु क्रीडनार्थं गमनं कुर्वन्ति, एतेषाञ्च सर्वेषां स्वल्पतया, ऊर्ध्वलोके तेषां सर्वस्तोकत्वं भवति, तेभ्यः-‘उड्डूलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके-ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोकसंज्ञकप्रतरद्भयवर्तिनो भवनपतयोऽसंख्येयगुणा भवन्ति, तिर्यग्लोकस्थानां वैक्रियसमुद्घातेन समवहतानाम् ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोकसंस्पर्शनात्, तथा तिर्यग्लोकस्थानामेव मारणान्तिकसमुद्घातेन समवहतानामूर्ध्वलोके सौधर्मादिषु देवकल्पेषु बादरपर्याप्तपृथिवीकायिकतया बादरपर्याप्तपृष्कायिकतया, बादरपर्याप्तप्रत्येकवनस्पतिकायिकतया च शुभेषु मणिविधानादिस्थानेषु समुत्पित्सूनां स्वभवायुरेव प्रतिसंवेदयमानानां स्वभवायुः प्रतिसंवेदनाच्च तेषामुत्पत्तिदेशे विक्षिप्तात्मप्रदेशदण्डानाम् भवनवासित्वस्यैवोपलभ्यमानत्वात्, ऊर्ध्वलोके गमनागमनात् तत्प्रतरद्भयसमीपवर्तिक्रीडास्थानतश्च

पर्वतो पर और कोई-कोई क्रीडा के हेतु मन्दर पर्वत आदि पर गमन करते हैं। मगर ये सब स्वल्प ही होते हैं, अतएव उन्हें सब से कम कहा है। ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामक पूर्वोक्त दो प्रतरों में असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि तिर्यग्लोकवर्ती भवनपति जब वैक्रिय समुद्घात करते हैं तब वे ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक का स्पर्श करते हैं। इन के अतिरिक्त तिर्यग्लोकवर्ती भवनपति मारणान्तिक समुद्घात करके ऊर्ध्वलोक में सौधर्मकल्प आदि में बादर पृथ्वीकारि, बादर अप्कायिक, या बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक रूप से अथवा शुभ मणिभेदों में उत्पन्न होने वाले होते हैं और अपने भव की ही आयु का वेदन करते हैं और अपने भव की आयु का वेदन करने के कारण भवनपति ही कहलाते हैं तब भी वे ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक का स्पर्श करते हैं। ऊर्ध्वलोक में गमनागमन करने से पूर्वोक्त

करवाना हेतुथी मन्दर वगैरे पर्वतपर गमन करे छे परतु अे अथा अल्पञ्छेय छे. तेथीञ् तेअेने सौथी कभ कडेला छे उर्ध्वलोकनी अपेक्षाथी उर्ध्वलोक तिर्यग्लोक नामना पूर्वोक्त अे प्रतरामा असंख्या गणुा छे केभके तिर्यग्लोक मा रहेवावाणा भवनपति देव न्यारे वैक्रियसमुद्घात करे छे, तयारे तेअे उर्ध्वलोक अने तिर्यग्लोकना स्पर्श करे छे ते शिवाय तिर्यग्लोकमा रहेवा वाणा भवनपति मारणान्तिक समुद्घात करीने उर्ध्वलोकमा सौधर्म वगैरे कल्पमा आदर पृथ्वीकायिक, आदर अप्कायिक, अथवा आदर प्रत्येक वनस्पति कायिक पणुथी अथवा शुभ मणिना लेहोमा उत्पन्न थवावाणा छेय छे अने पोताना भव सअधी आयुतु वेदन करे छे. अने पोताना भवनी आयुतु वेदन करवाना कारणे भवनपती न् कडेवाय छे. तो पणु तेअे उर्ध्व-

पूर्वोक्तप्रतरद्वयसंस्पर्शनात् तेषां प्रागुक्ततेभ्योऽसंख्येयगुणत्वमवसेयम् । तेभ्योऽपि 'तेलोकके संखेज्जगुणा' त्रैलोक्ये लोकत्रयवर्तिनो भवनपतयः संख्येयगुणा भवन्ति, ऊर्ध्वलोकं पञ्चेन्द्रियतिरश्वां भवनपतित्वेनोत्पिरसूना, तथा स्वस्थाने वैक्रिय समुद्घातेन, मारणान्तिक प्रथम समुद्घातेन वा तथाविधात्यधिक प्रयत्नविशेषेण समवहतानां लोकत्रयसंस्पर्शित्वात् संख्येयगुणत्वं तेषां भवति अन्यस्थानसमवह-
तेभ्यः स्वस्थानसमवहतानां संख्येयगुणत्वात् तेभ्योऽपि 'अहोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा' अधोलोकतिर्यग्लोके-अधोलोकतिर्यग्लोकसंज्ञकप्रागुक्तप्रतरद्वय-
वर्तिनो भवनपतयः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेषां तिर्यग्योनिकस्य स्वस्थानसमी-
पवर्तितया गमनागमनभावेन, स्वस्थानस्थित क्रोधादि समुद्घातप्राप्त्या च

दोनो प्रतरों के समीपवर्ती क्रीडास्थान से उन दोनों प्रतरों का स्पर्श करते हैं । ये देव पूर्वोक्त देवों से असंख्यातगुणा हैं । इनकी अपेक्षा त्रिलोकवर्ती भवनपति संख्यातगुणा हैं । ऊर्ध्वलोक में पंचेन्द्रियतिर्येच जब भवनपति रूप से उत्पन्न होने वाला होता है, तथा स्वस्थान में वैक्रिय समुद्घात या मारणान्तिक प्रथम समुद्घात के द्वारा तथाविध अत्यधिक प्रयत्न विशेष से समुद्घात करते हैं, तब वे तीनों लोकों का स्पर्श करते हैं । वे संख्यातगुणा इस कारण हैं कि अन्य स्थान में समुद्घात करने वालों की अपेक्षा स्वस्थान में समुद्घात करने वाले संख्यातगुणा होते हैं । अधोलोक-तिर्यग्लोक में उनकी अपेक्षा भी असंख्यातगुणा हैं । तिर्यग्लोक उनके स्वस्थान से समीप होने से गम-
नागमन होने के कारण तथा स्वस्थान में स्थित रहते हुए भी क्रोधादि

लोक अने तिर्यग्लोकमें स्पर्श करे छे ऊर्ध्वलोकमा गमनागमन करवाथी पूर्वोक्त अन्ने प्रतरों ना समीपवर्ती क्रीडास्थानथी अने अन्ने प्रतरोंना स्पर्श करे छे आ देव पूर्वोक्त देवथी असंख्यात गणु छे तेनी अपेक्षाथी तेना करता त्रिलोकवर्ती भवनपती देव संख्यात गणु छे ऊर्ध्वलोकमा पंचेन्द्रिय तिर्येच अन्नारे भवनपतिपणुथी उत्पन्न थवाना थाय छे, तथा स्वस्थानमा वैक्रियसमुद्घात अथवा मारणान्तिक पहुँछा समुद्घात द्वारा तेवा प्रकारना अत्यधिक प्रयत्न विशेष थी समुद्घात करे छे त्यारे तेयो त्रैलोक्ये-
कनो स्पर्श करे छे. तेयो संख्यातगणु अने कारणथी छे के-जीन स्थानमा समुद्घात करवा वाणा करता स्वस्थानमा समुद्घात करवा वाणा संख्यात गणु होय छे तेना करता पणु अधोलोक अने तिर्यग्लोकमा असंख्यात गणु छे तिर्यग्लोक तेमना स्वस्थानथी नष्ट होवाथी गमनागमन थर्क शकवाना कारणे तथा स्वस्थानमा स्थित रहनी पणु क्रोध विगरे कथाय समुद्घातनी

ભવનપતયો મન્દરાદિપુ ક્રીડનાર્થ' ગમનં કુર્વન્તિ, एतेपाञ्च सर्वेषां स्वल्पतया, ऊर्ध्वलોકે તેપાં સર્વસ્તોકત્વં ભવતિ, તેभ्यः- 'उड्ढूलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके-ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोकसंज्ञ रुप्रतरद्वयवर्तिनो भवनपतयोऽसंख्ये-यगुणा भवन्ति, तिर्यग्लोरुस्थानां वैक्रियसमुद्घातेन समवहतानाम् ऊर्ध्व-लोकतिर्यग्लोकसंस्पर्शनात्, तथा तिर्यग्लोकस्थानामेव मारणान्तिकसमुद्घातेन समवहतानामूर्ध्वलोके सौधर्मादिषु देवकल्पेषु बादरपर्याप्तपृथिवीकायिकतया बादरपर्याप्तायिकतया, बादरपर्याप्तप्रत्येकवनस्पतिकायिकतया च शुभेषु मणि-विधानादिस्थानेषु समुत्पित्तानां स्वभवायुरेव प्रतिसंवेदयमानानां स्वभवायुः प्रतिसंवेदनाच्च तेषामुत्पत्तिदेशे विशिष्टात्मप्रदेशदण्डानाम् भवनवासित्वस्वैवोप-लभ्यमानत्वात्, ऊर्ध्वलोके गमनागमनात् तत्प्रतरद्वयसमीपवर्तिक्रीडास्थानतश्च

पर्वतो पर और कोई-कोई क्रीडा के हेतु मन्दर पर्वत आदि पर गमन करते हैं। मगर ये सब स्वल्प ही होते हैं, अतएव उन्हें सब से कम कहा है। ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामक पूर्वोक्त दो प्रतरों में असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि तिर्यग्लोवर्ती भवनपति जब वैक्रिय समुद्घात करते हैं तब वे ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक का स्पर्श करते हैं। इन के अतिरिक्त तिर्यग्लोकवर्ती भवनपति मारणान्तिक समुद्घात करके ऊर्ध्वलोक में सौधर्मकल्प आदि में बादर पृथ्वीकायिक, बादर अप्कायिक, या बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक रूप से अथवा शुभ मणिभेदों में उत्पन्न होने वाले होते हैं और अपने भव की ही आयु का वेदन करते हैं और अपने भव की आयु का वेदन करने के कारण भवनपति ही कहलाते हैं तब भी वे ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक का स्पर्श करते हैं। ऊर्ध्वलोक में गमनागमन करने से पूर्वोक्त

કરવાના હેતુથી મદર વગેરે પર્વતપર ગમન કરે છે પરતુ એ બધા અલ્પજ હોય છે. તેથીજ તેઓને સૌથી કમ કહેલા છે ઉર્ધ્વલોકની અપેક્ષાથી ઉર્ધ્વલોક તિર્યગ્લોક નામના પૂર્વોક્ત બે પ્રતરેમાં અસખ્યા ગણ્યા છે કેમકે તિર્યગ્લોક મા રહેવાવાળા ભવનપતિ દેવ જ્યારે વૈક્રિયસમુદ્ઘાત કરે છે, ત્યારે તેઓ ઉર્ધ્વલોક અને તિર્યગ્લોકનો સ્પર્શ કરે છે તે શિવાય તિર્યગ્લોકમાં રહેવા વાળા ભવનપતિ મારણાન્તિક સમુદ્ઘાત કરીને ઉર્ધ્વલોકમાં સૌધર્મ વગેરે કલ્પમાં બાદર પૃથ્વીકાયિક, બાદર અપ્કાયિક, અથવા બાદર પ્રત્યેક વનસ્પતિ કાયિક પણાથી અથવા શુભ મણિના ભેદોમાં ઉત્પન્ન થવાવાળા હોય છે. અને પોતાના ભવ સબધી આયુતુ વેદન કરે છે અને પોતાના ભવની આયુતુ વેદન કરવાના કારણે ભવનપતી જ કહેવાય છે તેા પણ તેઓ'ઉર્ધ્વ-

पूर्वोक्तप्रतरद्वयसंस्पर्शानात् तेषां प्रागुक्तेभ्योऽसंख्येयगुणत्वमवसेयम् । तेभ्योऽपि 'तेलोकके संखेज्जगुणा' त्रैलोक्ये लोकत्रयवर्तिनो भवनपतयः संख्येयगुणा भवन्ति, ऊर्ध्वलोके पञ्चेन्द्रियतिरश्चां भवनपतित्वेनोत्पिरसूनां, तथा स्वस्थाने वैक्रिय समुद्घातेन, मारणान्तिक प्रथम समुद्घातेन वा तथाविधात्यधिक प्रयत्नविशेषेण समवहतानां लोकत्रयसंस्पर्शित्वात् संख्येयगुणत्वं तेषां भवति अन्यस्थानसमवह-
तेभ्यः स्वस्थानसमवहतानां संख्येयगुणत्वात् तेभ्योऽपि 'अहोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा' अधोलोकतिर्यग्लोके-अधोलोकतिर्यग्लोकसंज्ञकप्रागुक्तप्रतरद्वय-
वर्तिनो भवनपतयः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेषां तिर्यग्योनिकस्य स्वस्थानसमी-
पवर्तितया गमनागमनभावेन, स्वस्थानस्थित क्रोधादि समुद्घातप्राप्त्या च

दोनों प्रतरों के समीपवर्ती क्रीडास्थान से उन दोनों प्रतरों का स्पर्श करते हैं । ये देव पूर्वोक्त देवों से असंख्यातगुणा हैं । इनकी अपेक्षा त्रिलोकवर्ती भवनपति संख्यातगुणा हैं । ऊर्ध्वलोक में पंचेन्द्रियतिर्यच जब भवनपति रूप से उत्पन्न होने वाला होता है, तथा स्वस्थान में वैक्रिय समुद्घात या मारणान्तिक प्रथम समुद्घात के द्वारा तथाविध अत्यधिक प्रयत्न विशेष से समुद्घात करते हैं, तब वे तीनों लोकों का स्पर्श करते हैं । वे संख्यातगुणा इस कारण हैं कि अन्य स्थान में समुद्घात करने वालों की अपेक्षा स्वस्थान में समुद्घात करने वाले संख्यातगुणा होते हैं । अधोलोक-तिर्यग्लोक में उनकी अपेक्षा भी असंख्यातगुणा हैं । तिर्यग्लोक उनके स्वस्थान से समीप होने से गम-
नागमन होने के कारण तथा स्वस्थान में स्थित रहते हुए भी क्रोधादि

लोक अने तिर्यग्लोकने स्पर्श करे छे उर्ध्वलोकमा गमनागमन करवाथी पूर्वोक्त गन्ने प्रतरे ना समीपवर्ती क्रीडास्थानथी अने गन्ने प्रतराने स्पर्श करे छे आ देव पूर्वोक्त देवाथी असंख्यात गणु छे, तेनी अपेक्षाथी तेना करता त्रिलोकवर्ती भवनपती देव सख्यात गणु छे उर्ध्वलोकमा पञ्चेन्द्रिय तिर्यच न्यारे भवनपतिपणुथी उत्पन्न भवाना थाय छे, तथा स्वस्थानमा वैक्रियसमुद्घात अथवा मारणान्तिक परेला समुद्घात द्वारा तेवा प्रकारना अत्यधिक प्रयत्न विशेष थी समुद्घात करे छे त्यारे तेओ त्रिलोक-
कने स्पर्श करे छे तेओ सख्यातगणु अने कारणुथी छे के-पीन स्थानमा समुद्घात करवा वाणा करता स्वस्थानमा समुद्घात करवा वाणा सख्यात गणु होय छे तेना करता पणु अधोलोक अने तिर्यग्लोकमा असख्यात गणु छे तिर्यग्लोक तेमना स्वस्थानथी नलुक होवाथी गमनागमन थक शकवाना कारणु तथा स्वस्थानमा स्थित रहिने पणु क्रोध विगरे कषाय समुद्घातनी

बहवः पूर्वोक्त प्रतरद्वयसंस्पर्शिनो भवन्ति, तेभ्योऽपि 'तिरियलोए असंखेज्जगुणा' तिर्यग्लोके-तिर्यग्लोकप्रतरवर्तिनो भवनपतयोऽसंख्येयगुणा भवन्ति, तीर्थङ्कराणां समवसरणादौ वन्दनार्थं, रमणीयद्वीपेषु क्रीडार्थं तेषामागमनसंभवात्, आगतानाश्च चिरकालमप्यवस्थानसद्भावात्, तेभ्योऽपि 'अधोलोए असंखेज्जगुणा' अधोलोके-अधोलोकरप्रतरवर्तिनो भवनपतयोऽसंख्येयगुणा भवन्ति, भवनपतीनाम् अधोलोकस्य स्वस्थानत्वेनासंख्येयगुणत्वसंभवात्,

अथ भवनपति देवीनामल्पबहुत्वं प्रतिपादयति- 'खेत्ताणुवाएणं' क्षेत्रातुपातेन -क्षेत्रानुसारेण 'सव्वत्थोवाओ भवणवासिणीओ देवीओ उड्डुलोए' सर्वस्तोकाः- सर्वाभ्योऽल्पाः भवनवासिन्यो देव्यः ऊर्ध्वलोके-ऊर्ध्वलोकप्रतरवर्तिन्यो भवन्ति भवनपतिविषयकपूर्वोक्तयुग्मैः, ताभ्यः- 'उड्डुलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा'

कपाय समुद्घात की प्राप्ति के कारण बहुत-से भवनपति पूर्वोक्त दोनों प्रतरों का स्पर्श करते हैं। उनकी अपेक्षा तिर्यग्लोक में भवनपति असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि वे तीर्थकरों के समवसरण में उनकी वन्दना के लिए तथा रमणीय द्वीपों में क्रीडा करने के लिए जाते हैं और जत्र वहाँ पहुँचते हैं तो चिरकाल तक ठहरते भी हैं। उनकी अपेक्षा भी अधोलोक में असंख्यातगुणा है। अधोलोक भवनपतियों का स्वस्थान है अतएव उनका वहाँ असंख्यातपणा होना संभव ही है।

भवनपति देवियों का अल्पबहुत्व-क्षेत्र की अपेक्षा सब से कम भवनवासिनी देवियां ऊर्ध्वलोक में अर्थात् ऊर्ध्वलोकप्रतर में हैं। इस का कारण पहले भवनपति देवों के प्रकरण में बतलाया जा चुका है। उन की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में संख्यातगुणी

प्राप्तिना कारणे षण्ण भवनपति पूर्वोक्त णन्ने प्रतरोना स्पर्श करे छे तेना करता पण्ण तिर्यग्लोकां भवनपति असंख्यात गण्ण छे, केमके तेओ तीर्थ करेना समवसरणमा तेओने वंदना करवा भाटे तथा रमणीय द्वीपेमा क्रीडा करवा भाटे जय छे अने न्यारे तेओ त्या पडेओ छे तो दाओ 'समय पर्यन्त त्या रहे पण्ण छे, तेमनी अपेक्षाथी पण्ण अधोलोकां असंख्यातगण्ण छे अधोलोक भवनपतियोनु' स्वस्थान छे तेथी न तेओनु त्या असंख्यातपण्ण 'डोनु' सलपित छे.

भवनपति देवियोनु अल्प गण्णपण्ण क्षेत्रनी अपेक्षाओ सौथी ओओ छे. भवनवासिनी देवियो ऊर्ध्वलोकां अर्थात् ऊर्ध्वलोक प्रतरमा छे. तेनु कारणे पडेवा भवनपति देवीना प्रकरणमा अताववामा आधी गयेल छे तेना करता ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोक नामना प्रतरमा असंख्यात गण्ण देवियो छे. तेना

ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके-ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोकप्रतरवर्तिन्यो भवनवासिन्योऽसंख्येय-
गुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः, ताभ्योऽपि-‘तेलोकके संखेज्जगुणाओ’ त्रैलोक्ये-
लोकत्रयवर्तिन्यो भवनवासिन्यः संख्येयगुणा भवन्ति, उपर्युक्त भवनपतिविषयक
युक्तेः, ताभ्योऽपि-‘अधोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ’ अधोलोकतिर्यग्लोके
-अधोलोकतिर्यग्लोकवर्तिनो भवनवासिन्योऽसंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः.
ताभ्योऽपि ‘तिरियलोए असंखेज्जगुणाओ’ तिर्यग्लोके-तिर्यग्लोकवर्तिन्यो भवन-
पतेः स्त्रियः असंख्येयगुणा भवन्ति, भवनपतिविषयक प्रागुक्तयुक्तेः सद्भावात्,
ताभ्योऽपि-‘अधोलोए असंखेज्जगुणाओ’ अधोलोके-अधोलोकवर्तिन्यो भवनपत्न्यो-
ऽसंख्येयगुणा भवनपत्नीनामधोलोकस्य स्वस्थानत्वेन असंख्येयगुणात्वसंभवात्,

अथ वानव्यन्तराणामल्पबहुत्वं प्ररूपयितुमाह-‘खेत्ताणुवाएण’ ज्ञेत्रानुपातेन-
क्षेत्रानुसारेण प्ररूप्यमाणाः ‘सव्वत्थोवा वाणमंतरा देवा उड्डुलोए’ सर्वस्तोकाः-
सर्वेभ्योऽल्पाः वानव्यन्तरा देवाः ऊर्ध्वलोके-ऊर्ध्वलोकसंस्पर्शिनो भवन्ति तत्र
पण्डकवनादौ कतिपयानामेव वानव्यन्तराणां, सद्भावात्, तेभ्यः ‘उड्डुलोयतिरि-
यलोए असंखेज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोके-ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोकसंज्ञक प्रागुक्त
प्रतरद्वयवर्तिनो वानव्यन्तराः असंख्येयगुणा भवन्ति, कतिपयानां व्यन्तराणां

हैं। उनकी अपेक्षा त्रैलोक्य में संख्यातगुणी हैं, उन की अपेक्षा भी
अधोलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणी भवनवासिनी देवियां हैं और
उनकी अपेक्षा भी तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणी हैं। उनकी अपेक्षा
अधोलोक में असंख्यातगुणी हैं। इस न्यूनाधिकता का कारण वही
समझ लेना चाहिए जो भवनपति देवों के विषय में कहा गया है।

वानव्यन्तर देवों का अल्पबहुत्व-क्षेत्र के अनुसार प्ररूपण करने
पर सब से कम वानव्यन्तर देव ऊर्ध्वलोक में अर्थात् ऊर्ध्वलोक स्पर्शी
हैं, क्योंकि पण्डकवन आदि में कतिपय वानव्यन्तर ही पाये जाते
हैं। उनसे ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा अधिक हैं। क्योंकि

करता त्रैलोक्यमा स ज्थात गण्णी देविये छे. तेना करता अधोलोक तिर्यग्लो-
कमा अस ज्थात गण्णी भवनवासी देविये छे अने तेना करता पण्ड तिर्यग्लोकमा
अस ज्थात गण्णी देविये छे. तेना करता अधोलोकमा अस ज्थात गण्णी छे आ
न्यूनाधिक पण्डानु कारणे अण्ण समणु नेधअे के ने कारणे भवनपति देवीना
स अधमा कडेवामा आवेल छे

वानव्यन्तर देवानु अल्पबहुत्व-क्षेत्र अनुसार प्ररूपण करवाथी सौथी ओछा
वानव्यन्तर देवा ऊर्ध्वलोकमा अर्थात् ऊर्ध्वलोक स्पर्शी छे केभके-प उक पगेरे
वनमा केटलाक वानव्यन्तरा मणे छे. तेना करता ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोकमा

स्वस्थानान्तर्वर्तितया, कतिपयानां स्वस्थानसमीपवर्तित्वेन बहूनाञ्च मेवादी गमनागमनभावेन प्रागुक्तप्रतरद्वयसंस्पर्शित्वात्, समुदायेन तेषां प्रकृत्यमाणा-
नामत्यधिकत्वात् तेभ्योऽपि 'तेलोकै संखेज्जगुणा' त्रैलोक्ये-लोकत्रयवर्तिनो
व्यन्तराः संख्येयगुणा भवन्ति, तिर्यग्लोकवर्तिनामपि वानव्यन्तराणां तथा
विधतीत्रप्रयत्नविशेषवशात् वैक्रियसमुद्घातेन समवदतानामात्मप्रदेशैर्लोकत्रय-
संस्पर्शनेन प्रागुक्तेभ्योऽत्यधिकतया संख्येयगुणत्वमवसेयम् तेभ्योऽपि
'अहोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा' अधोलोकतिर्यग्लोक-अधो लोकतिर्य-
ग्लोकप्रतरद्वयवर्तिनो वानव्यन्तरा असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रतरद्वयस्य बहूनां
वानव्यन्तराणां स्वस्थानत्वेन बहूनां तत्संस्पर्शित्वात्तेषाम् असंख्येयगुणत्वं बोध्यम्
तेभ्योऽपि 'अदलोए संखेज्जगुणा' अधोलोकै-अधोलोकप्रतरवर्तिनो वानव्य-
न्तराः संख्येयगुणा भवन्ति, तत्र अधोलौकिकग्रामेषु वानव्यन्तराणां स्वस्थानतया

कुछ व्यन्तर स्वस्थान के अन्तर्गत होने से, कुछ स्वस्थान के निकटवर्ती होने से और बहूनों के मेरु आदि पर गमन करने के कारण वे पूर्वोक्त दोनों प्रतरों का स्पर्श करते हैं। इन सब को सम्मिलित कर दे तो अत्यधिक हो जाते हैं। उन की अपेक्षा त्रैलोक्यवर्ती व्यन्तर संख्यात गुणा अधिक हैं, क्योंकि तिर्यग्लोकवर्ती वानव्यन्तर एक प्रकार के तीव्र प्रयत्न के द्वारा वैक्रियसमुद्घात करके आत्मप्रदेशों को जब बाहर निकालते हैं तब वे त्रिलोकस्पर्शी होते हैं। वे पूर्वोक्त व्यन्तरों से अत्यधिक होने के कारण संख्यातगुणा कहे गए हैं। इनकी अपेक्षा भी अधोलोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों का स्पर्श करने वाले असंख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि वे दोनों प्रतर बहूनों से वानव्यन्तरों के स्वस्थान हैं और बहुत से उनका स्पर्श करते हैं। इनकी अपेक्षा अधो-

असंख्यात गणना वधाये छे. केमके थोडा व्यन्तर स्वस्थाननी अहर होवाथी
कथं स्वस्थाननी नलक होवाथी अने धण्डाभराना मेरु विगेरे पर गमन
करवाना कारणे तेयो पूर्वोक्त गन्ने प्रतरिनेो स्पर्श करे छे आ अधाने
मेणववासां आवे तो धण्डा वधाये थं नथ छे तेमना करता त्रैलोक्यवर्ति
वानव्यन्तर ओक प्रकारना तीव्र प्रयत्न द्वारा वैक्रिय समुद्घात करिने आत्म
प्रदेशेने न्यारे अहार कडाडे छे, तयारे तेयो त्रिलोक स्पर्शी होय छे तेयो
पूर्वोक्त वानव्यन्तरिथी अत्यत अधिक होवाथी संख्यात गणना कडेवामा
आवेला छे. तेयोना करता यहु अधोलोक-तिर्यग्लोक नामना प्रतरिनेो स्पर्श
करवा वाणां असंख्यात-गणना वधाये छे केमके-अने गन्ने प्रतरि धण्डा भरा
वानव्यन्तरि स्वस्थान छे. अने धण्डा भरा तेना स्पर्श करे छे. तेना करता

बहूनामधोलोके क्रीडानिमित्तं गमनसद्भावात् तेभ्योऽपि—‘तिरियलोए संखेज्ज-
गुणा’ तिर्यग्लोके—तिर्यग्लोकवर्तिनो व्यन्तराः संख्येयगुणा भवन्ति, तेषां व्यन्त-
राणां तिर्यग्लोकस्य स्वस्थानतया संख्येयगुणत्वसंभवात्,

अथ वानव्यन्तरीणामल्पबहुत्वं प्रतिपादयति । ‘खेत्ताणुवाएणं’ क्षेत्रानु-
पातेन—क्षेत्रानुसारेण ‘सव्वत्थोवाओ वाणमंतरीओ देवीओ उड्डुलोए’ सर्व-
स्तोकाः—सर्वाभ्योऽल्पाः, वानव्यन्तर्यो देव्यः ऊर्ध्वलोके—ऊर्ध्वलोकप्रतरवर्ति-
न्यो भवन्ति प्रागुक्तव्यन्तरविषयकयुक्तेः सत्त्वात्, ताभ्यः ‘उड्डुलोयतिरियलोए
असंखेज्जगुणाओ’ ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके—ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोकसंज्ञक प्रागुक्तप्रतर-
द्वयवर्तिन्यो वानव्यन्तर्योऽसंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तव्यन्तरदेवविषयकयुक्तेः,
ताभ्योपि—‘तेलोक्के संखेज्जगुणाओ’ त्रैलोक्ये—लोकत्रयप्रतरवर्तिन्यो वानव्यन्तर-
देव्यः संख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः, ताभ्योपि—‘अहोलोयतिरियलोए
असंखेज्जगुणाओ’ अधोलोके—तिर्यग्लोके—अधोलोकतिर्यग्लोकप्रतरद्वयसंस्पर्शिन्यो
वानव्यन्तर्यो देव्योऽसंख्येयगुणा भवन्ति, व्यन्तरविषयक प्रागुक्तयुक्तेः, ताभ्यो-
पि ‘अहोलोए संखेज्जगुणाओ’ अधोलोके—अधोलोकप्रतरवर्तिन्यो वानव्यन्तर्यः
संख्येयगुणा भवन्ति व्यन्तरविषयकपूर्वोक्तयुक्तेः, ताभ्योपि ‘तिरियलोए संखेज्ज
लोक में संख्यातगुणा हैं, क्योंकि अधोलौकिक ग्रामो में वानव्यन्तरों
के स्वस्थान हैं और बहुत से वहां क्रीडा के निमित्त जाते हैं । उनकी
अपेक्षा तिर्यग्लोक में संख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि तिर्यग्लोक
उनका स्वस्थान है ।

वानव्यन्तरी देवियों का अल्पबहुत्व-क्षेत्र के अनुसार सब से कम
वानव्यन्तरी देवियों ऊर्ध्वलोक प्रतरवर्तिनी है । उनकी अपेक्षा ऊर्ध्व-
लोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणी हैं । उनकी अपेक्षा त्रैलोक्य में
संख्यातगुणी हैं । त्रैलोक्य की अपेक्षा अधोलोक तिर्यग्लोक में असं-
ख्यातगुणी हैं । उनकी अपेक्षा अधोलोक रवर्तिनी संख्यातगुणी हैं ।

अधोलोकमा स भ्यातगण्णु छे, केमके—अधोलोकवर्ति गाभोमा वानव्यन्तरीना स्व-
स्थान छे अने धण्णु भरा वानव्यन्तरी त्या डीडा करवा भाटे जय छे. तेना
करता तिर्यग्लोकमा स भ्यातगण्णु वधारे छे केमके—तिर्यग्लोक तेओनु स्वस्थान छे.

वानव्यन्तरी देवियोनु अल्प गडुपण्णु —

क्षेत्रना कथन प्रभाण्णु सौथी ओणी वानव्यन्तरी देवियो उर्ध्वलोकमा
अर्थात् उर्ध्वलोकना प्रतरमा आवेल छे तेना करता उर्ध्वलोक तिर्यग्लोकमा
अस भ्यात गण्णु छे तेना करता त्रैलोक्यमा स भ्यात गण्णु छे. त्रैलोक्यना
करना अधोलोक तिर्यग्लोकमा अस भ्यात गण्णु छे. तेना करता अधोलोक प्रतर

गुणाओ' तिर्यग्लोके—'तिर्यग्लोकप्रतरवर्तिन्यो वानव्यन्तरदेव्यः संख्येयगुणा भवन्ति वानव्यन्तरदेव विषयप्रागुक्तयुक्तेः ।

अथ ज्योतिष्काणा मल्पवहुत्वं प्रतिपादयति । खेत्ताणुवाएणं' क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण प्ररूप्यमाणा 'सन्वत्योवा जोडसिया देवा उड्डलोए' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः ज्योतिष्का देवा ऊर्ध्वलोके—ऊर्ध्वलोकप्रतरसंस्पर्शिनो भवन्ति, मन्दरे कतिपयानां जिनेन्द्रजन्ममहोत्सवादौ कतिपयानाम् अञ्जनदधिमुखेषु अष्टादिकार्यम् कतिपयानां मन्दरादिषु क्रीडार्यं गमनसंभवात्, तेभ्यः—'उड्डुल्लोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके प्रागुक्तप्रतरद्वये सन्त ज्योतिष्का असंख्येयगुणा भवन्ति, तत्प्रतरद्वयस्य प्रत्यासन्न-उनकी अपेक्षा तिर्यग्लोक में संख्यातगुणी हैं । इन के अल्पवहुत्व में वही युक्तियों यथायोग्य रामल्ल लेनी चाहिए जो देवों के सम्बन्ध में कही गई है ।

ज्योतिष्क देवों का अल्पवहुत्व—क्षेत्र के अनुसार सब से कम ज्योतिष्क देव ऊर्ध्वलोक में अर्थात् ऊर्ध्वलोक नामक प्रतर का स्पर्श करनेवाले हैं, क्योंकि कुछ ज्योतिष्क देव तीर्थकर के जन्ममहोत्सव आदि के अवसर पर मन्दर पर्वत पर जाते हैं, कुछ अंजनपर्वत एव दधिमुख नामक पर्वत पर अठाई महोत्सव करने जाते हैं और कतिपय मन्दर आदि पर क्रीडा करने के निमित्त जाते हैं । ये सब थोड़े ही होते हैं । इनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि ये दोनों प्रतर सन्निकट होने से कोई—कोई ज्योतिष्क अपने स्थान में स्थित रहकर भी इनका स्पर्श करते हैं, कोई वैक्रियसमुद्घात करके आत्मप्रदेशों से स्पर्श करते हैं और कोई कोई ऊर्ध्वलोक में

वर्तिनी सख्यातगुणी छे तेना करता तिर्यग्लोका सख्यातगुणी छे । तेजाना अल्पगुणपणामां ज्ये युक्तिगो के जे हेवाना सणधमा कडेवामा आवेल छे । तेज यथायोग्य रीते समल देवी ।

ज्योतिष्क हेवाना अल्प गुण पणानु कथन—

क्षेत्रना प्रमाणे सौथी ज्योतिष्क हेवे ऊर्ध्वलोकमा अर्थात् ऊर्ध्वलोक नामना प्रतराना स्पर्श करवा वाणा छे डेमके डेटलाक ज्योतिष्क हेवे तीर्थ करना जन्म महोत्सव विगेरे अवसरपर मंदर पर्वत पर लथ छे डेटलाक अंजन पर्वत पर अने दधिमुख नामना पर्वत पर अठाई महोत्सव करवा माटे लथ छे अने डेटलाक मंदर विगेरे पर्वतानी उपर डीडा करवा निमित्त लथ छे । ज्ये अथा थोडाज्ज डाय छे, तेमना करता ऊर्ध्वलोक—तिर्य-

तथा केपाञ्चित् ज्योतिष्काणां स्वरथानस्थानामपि रांगपर्शानां केपाञ्चित्तु ऊर्ध्वलोके गमनागमनभावतः संस्पर्शनाच्च प्रागुवतेभ्योऽसंख्येयगुणत्वं प्रकृतप्रतरद्वयसंस्पर्शानां ज्योतिष्काणां भवति, तेभ्योऽपि 'तेलोकके संखेज्जगुणा' त्रैलोक्ये-लोकत्रयवर्तिनो ज्योतिष्काः संख्येयगुणा भवन्ति, तथाविध तीत्र प्रयत्नवशाद् वैक्रिय समुद्घातेन समवहतानामात्मप्रदेशैर्लौकिकत्रयसंस्पर्शानां नैमर्गिकानि बहृत्वात् प्रागुवतेभ्यः संख्येयगुणत्वं भवति, तेभ्योपि 'अधोलोए तिरियन्तोए असंखेज्जगुणा' अधोलोकतिर्यग्लोकप्रागुक्तप्रतरद्वये वर्तमाना ज्योतिष्का असंख्येयगुणा भवन्ति, बहूनां ज्योतिष्काणामधोलौकिकग्रामेषु भगवतां समवसरणादौ अधोलोके क्रीडार्थं गमनागमनभावात्, बहूनाञ्चाधोलोकात् ज्योतिष्कलोकेषु सगुत्पद्यमानानाम्

आते-जाते उनका स्पर्श करते हैं। इस कारण इन दोनों प्रतरों का स्पर्श करनेवाले ऊर्ध्वलोक वालों से असंख्यातगुणा हैं। इनकी अपेक्षा भी त्रैलोक्यवर्ती ज्योतिष्क संख्यातगुणा अधिक हैं, क्यों कि विशिष्ट तीत्र प्रयत्न करके जो वैक्रिय समुद्घात करते हैं वे अपने आत्मप्रदेशों से तीनों लोकों का स्पर्श करते हैं अतः स्वभावतः उनकी अधिकता है। उनकी अपेक्षा भी अधोलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि बहुत-से ज्योतिष्कदेव अधोलौकिक ग्रामों में भगवान् के समवसरण आदि में तथा बहुत-से अधोलोक में क्रीडा करने के लिये जाते हैं। बहुत-से ऐसे भी हैं जो अधोलोक से ज्योतिष्कदेवों में उत्पन्न होते हैं। वे भी उक्त दोनों प्रतरों का स्पर्श करते

लोकमा अस जयात गण्ठा वधारे छे केमके आ भन्ने प्रतरेा समीप वर्ति छोवाथी कोछ कोछ न्योतिष्क देव पोताका स्थानमा स्थित रडीने पणु तेना स्पर्श करे छे कोछ कोछ वैक्रिय समुद्घात करीने आत्म प्रदेशोथी स्पर्श करे छे अने कोछ कोछ उर्ध्वलोकमा आवता जता तेना स्पर्श करे छे आ कारणुथी आ भन्ने प्रतरेानो स्पर्श करवावाणा उर्ध्वलोक वाणाओथी अस जयातगण्ठा वधारे छे तेना करता पणु त्रैलोक्यवर्ति न्योतिष्क देव स जयातगण्ठा वधारे छे केमके-विशेष प्रकारथी तीव्र पयत्न करीने तेओ वैक्रिय समुद्घात करे छे. तेओ पोताना आत्म प्रदेशोमाथी तण्णे लोकेना स्पर्श करे छे तेथी स्वाभाविक रीतेन तेओनु अधिकपणु छे तेना करता पणु अधोलोक तिर्यग्लोकमा अस जयातगण्ठा वधारे छे केमके धण्ठा न्योतिष्क देवो अधोलोक समधी गामोमा लगवान्ता समवसरणु विगेरेमा क्रीडा करवा माटे नय छे. तथा धण्ठा भरा अधोलोकमा क्रीडा करवा नय छे धण्ठा भरा ओवा पणु छे तेओ अधोलोकमाथी न्योतिष्क देवोमा उत्पन्न थाय छे. तेओ पणु उपर कडेव

उपर्युक्तप्रतरद्वयसंस्पर्शात् प्रागुक्तेभ्योऽसंख्येयगुणत्वं भवति, तेभ्योपि 'अहोलोए संखेज्जगुणा' अधोलोके वर्तमाना ज्योतिष्काः संख्येयगुणा भवन्ति, अधोलोके वहूना क्रीडार्थम् अधोलौकिकग्रामेषु भगवतां समवसरणादीं चिरकालावस्थानात् संख्येयगुणत्वं भवति, तेभ्योपि 'तिरियलोए असंखेज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमानाः ज्योतिष्काः असंख्येयगुणा भवन्ति, ज्योतिष्काणां तिर्यग्लोकस्य स्वस्थानत्वेन असंख्येयगुणत्वसंभवात् ।

अथ ज्योतिष्कदेवी विषयकालपवहुत्वं प्रतिपादयति—'खेत्ताणुवाएणं' क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण, 'सव्रत्योवाओ जोइसिणीओ देवीओ उइदलोए' सर्वस्तोकाः—सर्वाभ्योऽल्पाः, ज्योतिष्क्यो देव्य ऊर्ध्वलोके तत्प्रतरवर्तिन्यो भवन्ति, ज्योतिष्कदेवविषयक प्रागुक्तयुक्तेः, ताभ्यः—'उड्डूलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके—तत्प्रतरद्वयवर्तिन्यो ज्योतिष्कदेव्योऽसंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तज्योतिष्कयुक्तेः, 'तेलोके संखेज्जगुणाओ' त्रैलोक्ये—लोकत्रय-

हैं । इस कारण वे पूर्वोक्त देवों से असंख्यातगुणा हैं । उनकी अपेक्षा भी अधोलोक में संख्यातगुणा हैं, क्योंकि बहुत-से ज्योतिष्क अधोलोक में क्रीडा के निमित्त जाते हैं और कोई-कोई अधोलौकिक ग्रामों में भगवान् के समवसरण आदि में चिरकाल तक ठहरते हैं, अतएव संख्यातगुणा हैं । उनकी अपेक्षा भी तिर्यक्लोक में असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि यह उनका स्वस्थान है ।

ज्योतिष्कदेवियों का अल्पबहुत्व-क्षेत्र की अपेक्षा से सब से कम ज्योतिष्कदेवियां ऊर्ध्वलोक नामक प्रतर में हैं । उनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-तिर्यक्लोक में असंख्यातगुणी हैं, उनकी अपेक्षा भी-त्रैलोक्य में संख्यातगुणी हैं, उनकी अपेक्षा अधोलोक-तिर्यक्लोक में असंख्या-

अन्ने प्रतरानो रूपशं करे छे. तेथी तेओ पूर्वाकृत देवाथी असंख्यातगुणी छे. तेना करता पणु अधोलोकमा संख्यातगुणा छे केमके-धणु परा ज्योतिष्क देवा अधोलोकमा क्रीडा करवा माटे नय छे अने कोष कोष अधोलोक संभधी गामोमा लगवान्ना समवसरणु विगेरेमा धणुं काण सुधी रहे छे तेथी ज तेओ संख्यातगुणा छे तेना करता पणु तिर्यक्लोकमा असंख्यातगुणा छे केमके आ तेओनु स्वस्थान छे

ज्योतिष्क देवियोना अल्पबहुपणुनु कथन—

क्षेत्रनी अपेक्षाथी सौथी कम ज्योतिष्क देवियो ऊर्ध्वलोक नामना प्रतरमा छे. तेना करता ऊर्ध्वलोकतिर्यक्लोकमा असंख्यातगुणी छे तेना करता पणु त्रैलोक्यमा संख्यातगुणी छे तेना करता अधोलोक-तिर्यक्लोकमा असंख्यातगुणी

प्रतरवर्तिन्यो ज्योतिष्कदेव्यः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, ताभ्योऽपि 'अहोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा' अधोलोकतिर्यग्लोके-तत्प्रतरद्वयवर्तिन्यो ज्योतिष्कदेव्योऽसंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः सत्वात् ताभ्योऽपि 'अहोलोए संखेज्जगुणा' अधोलोके-वर्तमाना ज्योतिष्कदेव्यः संख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्त-युक्तेः, ताभ्योपि 'तिरियलोए असंखेज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमाना ज्योतिष्क-देव्योऽसंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्त्या तासां तिर्यग्लोकस्य स्वस्थानत्वेना-संख्येयगुणत्वसंभवात्

अथ वैमानिका नामल्पबहुत्वमाह- 'खेत्ताणुवाएणं' क्षेत्रानुपातेन प्ररूप्य-माणाः 'सव्वत्थोवा वेमाणिया देवा उद्धल्लोयतिरियलोए' सर्वस्तोका वैमा-निका देवा ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनो भवन्ति तत्र कतिपयानामेव वैमानिकदेवानां प्रागुक्तरीत्या संपर्कसंभवेन सर्वस्तोकत्वं भवति, तेभ्यः 'तेलोकके संखेज्जगुणा' त्रैलोके वर्तमाना वैमानिकाः संख्येयगुणाः, प्रगुक्तयुक्तेः, 'तेभ्योपि

तगुणी हैं, उनकी अपेक्षा अधोलोक में संख्यातगुणी हैं, उनकी अपेक्षा भी तिर्यक्लोक में असंख्यातगुणी हैं। इस अल्प बहुत्व का कारण पहले देवों के विषय में कहे अनुसार ही यथायोग्य समझ लेना चाहिए।

वैमानिकदेवों का अल्प बहुत्व-सब से कम वैमानिक देव ऊर्ध्व-लोक-तिर्यक्लोक नामक पूर्वोक्त दो प्रतरों में हैं, क्यों कि वहाँ थोड़े-से ही वैमानिक देवों का सम्पर्क संभव है। उनकी अपेक्षा त्रैलोक्य में वर्तमान वैमानिक देव पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार संख्यातगुणा अधिक हैं। उनसे भी अधोलोक-तिर्यक्लोक नामक प्रतरों में संख्यातगुणा अधिक हैं, क्यों कि भगवान् के समबसरण आदि में अधोलौकिक ग्रामों में उनका गमनागमन होता है। उनकी अपेक्षा

छे तेना करता अधोलोकमा सख्यातगुणी छे तेना करता पणु तिर्यक्लोकमा असख्यातगुणी छे आ अल्पबहुत्वपणुनु कारण पडेला देवाना सभधमा जे प्रमाणे कडेवामा आवेद छे ते ज प्रमाणे यथा योग्य रीते सभल देवु.

वैमानिक देवाना अल्पबहुत्वपणुनु कथन

सौथी ओछा वैमानिक देवा ऊर्ध्वलोक-तिर्यक्लोक नामवाणा पूर्वोक्त जे प्रतरमा छे केमके-त्या थोडाज वैमानिक देवाना सपकनि सभव छे तेना करता त्रैलोक्यमा रहवावाणा वैमानिक देवा पूर्वोक्त युक्ति अनुसार सख्यात गणुा वधारे छे तेनाथी पणु अधोलोक तिर्यक्लोक नामना प्रतरमां असख्यात गणुा वधारे छे तेनाथी पणु अधोलोक तिर्यक्लोक नामना प्रतरमा अस-ख्यात गणुा वधारे छे केमके भगवानना समबसरण विगेरेमा अधोलोकवाणा

‘अधोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा’ अगोलोकेतिर्यग्भ्रुके तत्प्रतरद्वयवर्तिनो वैमानिकाः संख्येयगुणाः, भगवतां समवसरणादौ अधोलौकिकग्रामेषु गमना-गमनभावेन, प्रकृतप्रतरद्वयाधिष्ठित समवसरणादौ चावस्थानात् बहूनां वैमानिकानां तत्प्रतरद्वयसंस्पर्शनात् संख्येयगुणत्वं बोध्यम् तेभ्योऽपि ‘अधोलोए संखेज्जगुणा’ अधोलोके संख्येयगुणाः वैमानिकाः, बहूनां वैमानिकानां भगवत्समवसरणादौ अधोलौकिकग्रामेषु अवस्थानसद्भावात्, तेभ्योऽपि ‘तिरियलोए संखेज्जगुणा’ तिर्यग्भ्रुके तत्प्रतरसंस्पर्शिनो वैमानिकाः संख्येयगुणाः, बहूनां वैमानिकानां बहुषु समवसरणेषु बहुषु क्रीडास्थानेषु अवस्थानसद्भावात् तेभ्योऽपि ‘उद्धल्लोए असंखेज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोके वर्तमाना वैमानिका असंख्येयगुणा भवन्ति, वैमानिकानां तद्लोकस्य स्वस्थानत्वात्, तत्र च स्वभावादेव वैमानिकानां बहुत्वसद्भावात्,

अथ वैमानिकदेवीविषयकाल्पबहुत्वं प्रतिपादयति—‘खेत्तानुवाएणं’ क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण, सव्वत्थोवाओ वैमाणिणीओ देवीओ उद्धल्लोयतिरियलोए’

भी अधोलोक में संख्यातगुणा अधिक हैं, क्यों कि बहुत-से वैमानिक देव भगवान् के समवसरण आदि में अधोलौकिक ग्रामों में रहते हैं। उनकी अपेक्षा तिर्यक्लोक में संख्यातगुणा अधिक हैं, क्यों कि बहुत से वैमानिक बहुत-से समवसरणों में तथा बहु संख्यक क्रीडास्थानों में अवस्थित होते हैं, उनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा अधिक हैं, क्यों कि ऊर्ध्वलोक वैमानिकदेवों का स्वस्थान है, अतएव वहां उनकी अधिकता होना स्वाभाविक ही है।

वैमानिकदेवियों का अल्प बहुत्व-क्षेत्र के अनुसार सब से कम वैमानिकदेवियां ऊर्ध्वलोक-तिर्यक्लोक में हैं अर्थात् इन दोनों प्रतरों का स्पर्श करनेवाली हैं, उनकी, अपेक्षा त्रैलोक्य में संख्यातगुणी हैं,

गामोमा तेओनु गमनागमन थाय छे. तेना करता पणु अधोलोकमा स प्यात गणु वधारे छे. केमके-धणुअरा वैमानिक देवो लगवान्ना समवसरणु विगेरेमां अधोलोकवर्ति गामोमा रहि छे तेना करता तिर्यक्लोकमा स प्यातगणु वधारे छे. केमके धणु अरा वैमानिक धणु समवसरणोमा तथा अहुस प्यक डीडा स्थानोमा अवस्थित रहि छे-तेना करता उर्ध्वलोकमा अस प्यात गणु वधारे छे. केमके-उर्ध्वलोक वैमानिक देवोनु स्वस्थान छे तेथीन त्या तेओनु अधिकपणु डोनु स्वाभाविक छे

वैमानिक देवियोना अधिकपणुनु कथंन

क्षेत्रना अनुसार सौथी ओधी वैमानिक देवियो उर्ध्वलोक-तिर्यक्लोकमा छे अर्थात् आ भन्ने प्रतरोनो स्पर्श करवावाणी छे तेना करता त्रैलोक्यमा स प्यातगणु वधारे छे तेना करता अधोलोक-तिर्यक्लोकमा स प्यातगणु वधारे

सर्वस्तोका सर्वाभ्योऽल्पाः, वैमानिक्यो देव्यः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके-तत्प्रतरद्वय-
वर्तिन्यो वैमानिकदेव्यो भवन्ति, प्रागुक्तवैमानिकविषयकयुक्तेः, ताभ्योऽपि-
'तेलोक्के संखेज्जगुणाओ' त्रैलोक्ये-लोकत्रयवर्तिन्यो वैमानिकदेव्यः संख्येयगुणा
भवन्ति, प्रागुक्तवैमानिकविषयकयुक्तेः, ताभ्योऽपि-अहोलोयतिरियलोए संखे-
ज्जगुणाओ' अधोलोकतिर्यग्लोके-तत्प्रतरद्वयवर्तिन्यो वैमानिकदेव्यः संख्येय-
गुणा भवन्ति, वैमानिकविषयकप्रागुक्तयुक्तेः, ताभ्योऽपि 'अहोलोए संखेज्ज-
गुणाओ' अधोलोके वर्तमाना वैमानिकदेव्यः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तवैमा-
निकयुक्तेः, ताभ्योऽपि 'तिरियलोए संखेज्जगुणाओ' तिर्यग्लोके वर्तिन्यो वैमा-
निकदेव्यः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, ताभ्योऽपि-उद्वहलोए असं-
खेज्जगुणाओ' ऊर्ध्वलोके वर्तमाना वैमानिकदेव्य असंख्येयगुणा भवन्ति, तासां
वैमानिकदेवीनामूर्ध्वलोकस्य स्वस्थानत्वेन तत्र वहीनां तासां स्थिति
सद्भावादित्याशयः ॥ सू० ३१ ॥

मूलम्-खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा एगिंदिया जीवा उड्डु-
लोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरि-
यलोए असंखिज्जगुणा, तेलोक्के असंखिज्जगुणा, उड्डुलोए
असंखिज्जगुणा, अहोलोए विसेसाहिया, खेत्ताणुवाएणं सव्व-
त्थोवा एगिंदिया जीवा अपज्जत्तगा उड्डुलोयतिरियलोए, अहो-
लोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखिज्जगुणा,
तेलोक्के असंखेज्जगुणा, उड्डुलोए असंखेज्जगुणा, अहोलोए
विसेसाहिया; खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा एगिंदिया जीवा पज्ज-
त्तगा उड्डुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया,

उनकी अपेक्षा अधोलोक तिर्यग्लोक में संख्यातगुणी हैं, उनसे भी
तिर्यग्लोक में संख्यातगुणी हैं और उनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में
असंख्यातगुणी हैं। इनके अल्प बहुत्व का कारण वैमानिक देवों के
अल्प बहुत्व के अनुसार ही समझ लेना चाहिए ॥सू० ३१॥

छे तेना क्खता अधोलोक्कमा स ज्जातगणी छे तेना क्खता पणु तिर्यक्कलोक्कमां
स ज्जातगणी छे तेना क्खता उर्ध्वलोक्कमा अस ज्जातगणी छे तेज्जाता अल्पअहु
पणुता क्खत्तु वैमानिक देवाना अल्पअहु पणुता प्रभाण्णु सभल्ल देवु ॥सू ३१ ॥

તિરિયલોએ અસંખેજ્જગુણા, તેલોકકે અસંખિજ્જગુણા, ઉદ્દલોએ
અસંખિજ્જગુણા, અહોલોએ વિસેસાહિયા ॥સૂ૦ ૩૨॥

છાયા—ક્ષેત્રાનુપાતેન સર્વસ્તોકાઃ એકેન્દ્રિયા જીવાઃ, ઊર્ધ્વલોકતિર્યગ્લોકે,
અધોલોકતિર્યગ્લોકે વિશેષાધિકાઃ, તિર્યગ્લોકે અસંખ્યેયગુણાઃ, ત્રૈલોક્યે અસં-
ખ્યેયગુણાઃ, ઊર્ધ્વલોકે અસંખ્યેયગુણા, અધોલોકે વિશેષાધિકાઃ, ક્ષેત્રાનુપાતેન
સર્વસ્તોકા એકેન્દ્રિયાઃ જીવાઃ અપર્યાપ્તકાઃ ઊર્ધ્વલોકતિર્યગ્લોકે, અધોલોકતિર્ય-
ગ્લોકે વિશેષાધિકાઃ, તિર્યગ્લોકે અસંખ્યેયગુણાઃ, ત્રૈલોક્યે અસંખ્યેયગુણાઃ,
ઊર્ધ્વલોકે અસંખ્યેયગુણા, અધોલોકે વિશેષાધિકાઃ, ક્ષેત્રાનુપાતેન સર્વસ્તોકાઃ

એકેન્દ્રિયજીવોં કા અત્પ વહુત્વ

શબ્દાર્થ—(સ્વેત્તાણુવાણં) ક્ષેત્ર કે અનુસાર (સવ્વત્થોવા ઈર્ગિ-
દિયા જીવા ઉદ્દલોયતિરિયલોએ) સબ સે કમ એકેન્દ્રિય જીવ ઊર્ધ્વ-
લોકતિર્યગ્લોક મેં હેં (અહોલોયતિરિયલોએ વિસેસાહિયા) અધો-
લોક-તિર્યગ્લોક મેં વિશેષાધિક હેં (તિરિયલોએ અસંખિજ્જગુણા)
તિર્યગ્લોક મેં અસંખ્યાતગુણા હેં (તેલોકકે અસંખેજ્જગુણા) ત્રૈલોક્ય
મેં અસંખ્યાતગુણા હેં (ઉદ્દલોએ અસંખેજ્જગુણા) ઊર્ધ્વલોક મેં અસં-
ખ્યાતગુણા હેં (અહોલોએ વિસેસાહિયા) અધોલોક મેં વિશેષાધિક
હેં (સ્વેત્તાણુવાણં) ક્ષેત્ર કે અનુસાર (સવ્વત્થોવા) ઈર્ગિદિયા જીવા
અપજ્જત્તગા ઉદ્દલોયતિરિયલોએ) સબ સે કમ એકેન્દ્રિય અપર્યાપ્ત
જીવ ઊર્ધ્વલોક-તિર્યગ્લોક મેં હેં (અહોલોયતિરિયલોએ વિસેસાહિયા)
અધોલોક-તિર્યગ્લોક મેં વિશેષાધિક હેં (તિરિયલોએ અસંખિજ્જગુણા)
તિર્થેલોક મેં અસંખ્યાતગુણા હેં (તેલોકકે અસંખેજ્જગુણા) ત્રૈલોક્ય

એકેન્દ્રિય જીવોના અત્પબહુપણાનુ કથન

શબ્દાર્થ—(સ્વેત્તાણુવાણં) ક્ષેત્ર અનુસાર (સવ્વત્થોવા ઈર્ગિદિયા જીવા ઉદ્દ-
લોયતિરિયલોએ) સૌથી ઓછા એક ઇન્દ્રિયવાળા જીવો ઉર્ધ્વલોક-તિર્યગ્લોકમાં
છે (અહોલોય તિરિયલોએ વિસેસાહિયા) અધોલોક તિર્યગ્લોકમાં વિશેષાધિક છે.
(તિરિયલોએ અસંખિજ્જગુણા) તિર્યગ્લોકમાં અસંખ્યાતગણા છે (તેલોકકે અસંખેજ્જ-
ગુણા) ત્રૈલોક્યમાં અસંખ્યાતગણા છે (ઉદ્દલોએ અસંખેજ્જગુણા) ઉર્ધ્વલોકમાં
અસંખ્યાતગણા છે (અહોલોએ વિસેસાહિયા) અધોલોકમાં વિશેષાધિક છે.

(સ્વેત્તાણુવાણં) ક્ષેત્ર અનુસાર (સવ્વત્થોવા ઈર્ગિદિયા જીવા અપજ્જત્તગા ઉદ્દ-
લોય તિરિયલોએ) સૌથી ઓછા એક ઇન્દ્રિયવાળા જીવો ઉર્ધ્વલોક-તિર્યગ્લોકમાં
છે (અહોલોએ તિરિયલોએ વિસેસાહિયા) અધોલોક તિર્યગ્લોકમાં વિશેષાધિક છે
(તિરિયલોએ અસંખિજ્જગુણા) તિર્થલોકમાં અસંખ્યાતગણા છે, (તેલોકકે અસંખેજ્જ

एकेन्द्रिया जीवाः पर्याप्तकाः, ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके, अधोलोकतिर्यग्लोके विशेषाधिकाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये असंख्येयगुणाः ऊर्ध्वलोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके विशेषाधिकाः, ॥सू० ३२॥

टीका—अथ समुच्चयैकेन्द्रियाणां पर्याप्तापर्याप्तकैकेन्द्रियजीवानां चाल्पबहुत्वं प्ररूपयितुमाह—‘खेत्ताणुवाएणं’ क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण प्ररूप्यमाणाः ‘सन्वत्थोवा एगिंदिया जीवा उड्डूलोयतिरियलोए’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, एकेन्द्रियाः सामान्यजीवाः, ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके—तत्प्रतरद्वयवर्तिनो भवन्ति, तत्र

में असंख्यातगुणा हैं (उड्डूलोए असंखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोक में विशेषाधिक हैं ।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र की अपेक्षा से (सन्वत्थोवा एगिंदिया जीवा पज्जत्तगा’ उड्डूलोयतिरियलोए) सब से कम एकेन्द्रिय जीव पर्याप्तक ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक में हैं (अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोक—तिर्यग्लोक में विशेषाधिक हैं (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा है (त्रैलोक्ये असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य में असंख्यातगुणा हैं (उड्डूलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा हैं। (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोक में विशेषाधिक हैं ।

टीकार्थ—अब सामान्यतः एकेन्द्रिय, अपर्याप्त एकेन्द्रिय और पर्याप्त एकेन्द्रिय जीवों के अल्पबहुत्व की प्ररूपणा करते हैं—क्षेत्र के अनुसार प्ररूपणा करने पर सब से कम एक एकेन्द्रिय जीव ऊर्ध्वलोक

गुणा) त्रैलोक्यभा असंख्यातगुणा छे. (उड्डूलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोकभा असंख्यातगुणा छे (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोकभा विशेषाधिक छे.

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रनी अपेक्षार्थी (सन्वत्थोवा एगिंदिया जीवा पज्जत्तगा उड्डूलोयतिरियलोए) सौथी ओ।छा ऐकेन्द्रिय एव पर्याप्तक ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोकभा छे. (अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोक—तिर्यग्लोकभा विशेषाधिक छे (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्लोकभा असंख्यातगुणा छे (त्रैलोक्ये असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्यभा असंख्यातगुणा छे (उड्डूलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोकभा असंख्यातगुणा छे, (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोकभा विशेषाधिक छे ॥३२॥

टीकार्थ—इवे सामान्य रीते ऐकेन्द्रिय, अपर्याप्त ऐकेन्द्रिय अने पर्याप्त ऐकेन्द्रिय एवोना अल्प बहुपणानी प्ररूपणा करवामा आवे छे.

क्षेत्रनी अनुसार प्ररूपणा करवामा आवे तो ऊर्ध्वलोकभा अने तिर्यग्लोक-

स्थितानामेव केपाञ्चिच्चोर्ध्वलोकात्तिर्यग्लोके तिर्यग्लोकाच्चोर्ध्वलोके समुत्पित्सूनां मारणान्तिकसमुद्घातेन समवहत्तानां प्रकृतप्रतरद्वयसंस्पर्शानात्, तेषां स्वल्पत्वाच्च सर्वस्तोकत्वं भवति, तेभ्यः 'अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया' अधोलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिन एकेन्द्रियाः सामान्य जीवाः विशेषाधिकाः—किञ्चिदधिका भवति, अधोलोकात्तिर्यग्लोके, तिर्यग्लोकाद् वा अधोलोके ईलिकागत्या समुत्पद्यमानानामेकेन्द्रियाणां प्रस्तुतप्रतरद्वयसंस्पर्शानात्, तत्रस्थानाच्चोर्ध्वलोकादधोलोके विशेषाधिकत्वात्, वहूनामेवाधोलोकात्तिर्यग्लोके समुत्पद्यमानानामुपलब्धे स्तेषां विशेषाधिकत्वं भवति, तेभ्योऽपि—'तिरियलोए असंखिज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमाना एकेन्द्रिया असंख्येयगुणा भवन्ति, उपर्युक्त प्रतरद्वयक्षेत्रा-

—तिर्यक्लोक नामक दो प्रतरों में हैं। कोई-कोई एकेन्द्रिय, वहीं स्थित रहते हैं और कोई-कोई ऊर्ध्वलोक से तिर्यक्लोक में या तिर्यक्लोक से ऊर्ध्वलोक में उत्पन्न होने वाले जब मारणान्तिक समुद्घात करते हैं तब उक्त दोनों प्रतरों का स्पर्श करते हैं। ऐसे जीव स्वल्प होते हैं, अतएव उन्हें सब से कम कहा है। उनकी अपेक्षा अधोलोक तिर्यक्लोक नामक प्रतरों में एकेन्द्रिय जीव विशेषाधिक हैं। जो जीव अधोलोक से तिर्यक्लोक में या तिर्यक्लोक से अधोलोक में ईलिकागति से उत्पन्न होते हैं, वे इन दोनों प्रतरों का स्पर्श करते हैं। वहीं रहने वाले जीव ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में अधिक होते हैं, और अधोलोक से तिर्यक्लोक में उत्पन्न होने वाले भी अधिक होते हैं, इस कारण वे विशेषाधिक कहे गए हैं। इन अधोलोक-तिर्यक्लोक के एकेन्द्रियों की अपेक्षा तिर्यक्लोक में एकेन्द्रिय जीव असं-

लोक नामना जे प्रतरेशा सौथी ओछा ओक छेन्द्रियवाणा एवे छे कोछ कोछ ओकेन्द्रिय त्याज स्थित रहे छे अने कोछ कोछ ओकेन्द्रियो उर्ध्वलोकथी तिर्यक्लोकमा अथवा तिर्यक्लोकमाथी उर्ध्वलोकमा उत्पन्न थवा वाणा एवे न्यारे मारणान्तिक समुद्घात करे छे त्यारे उक्त अने प्रतरेशा स्पर्श करे छे. ओवा एवे धरु ओछा होय छे. तेथीज तेओने सौथी ओछा कहा छे तेना करता अधोलोक-तिर्यक्लोक नामना प्रतरेशा ओकेन्द्रिय एवे विशेषाधिक छे. जे एव अधोलोकमा धरुका गतिथी उत्पन्न थाय छे तेओ आ गेठ प्रतरेशा स्पर्श करे छे त्याज रहेवावाणा एवे उर्ध्वलोक करता अधोलोकमा वधारे होय छे अने अधोलोक करता तिर्यक्लोकमा उत्पन्न थवावाणा पण अधिक होय छे तेथी तेओने विशेषाधिक कहा छे आ अधोलोक-तिर्यक्लोकना ओकेन्द्रियो करता तिर्यक्लोकमा ओकेन्द्रिय एवे असंख्यातगणु छे, उभके

तिर्यङ्गलोकक्षेत्रस्यासंख्येयगुणत्वात् तेभ्योऽपि 'तेलोकके असंखिज्जगुणा' त्रैलोक्ये-
लोकत्रनवर्तिन एकेन्द्रिय जीवाः असंख्येयगुणा भवन्ति, बहूनामेकेन्द्रियाणा-
मूर्ध्वलोकादधोलोके, अधोलोकाच्चोर्ध्वलोके समुत्पद्यमानत्वेन तेषाञ्च मध्ये बहूनां
भारणान्तिरुसमुद्घातवशात्प्रारारितात्मप्रदेशानाम् लोकात्रयसंस्पर्शानात् तेषामसं-
ख्येयगुणत्वं भवति, तेभ्योऽपि 'उर्ध्वलोए असंखिज्जगुणा' ऊर्ध्वलोके वर्तमाना
एकेन्द्रिया असंख्येयगुणा भवन्ति, एकेन्द्रियाणामुपपातक्षेत्रस्योर्ध्वलोकं अत्यधिक-
त्वात्, तेभ्यश्च-'अधोलोए निसेसाहिया' अधोलोके वर्तमाना एकेन्द्रियाः विशेष-
पाधिका भवन्ति, तेषामूर्ध्वलोकक्षेत्रादधोलोकक्षेत्रस्य विशेषाधिकत्वात्,

अथापर्याप्तकैकेन्द्रियाणामल्पबहुत्वं प्ररूपयति-'खेत्ताणुवाएणं' क्षेत्रानुपातेन-
क्षेत्रानुसारेण, 'सन्वत्थोवा एगिदिया जीवा अपज्जत्तगा उडढलयतिरियलोए'
ख्यातगुणा हैं, क्यों कि पूर्वोक्त दो प्रतरवर्ति क्षेत्र की अपेक्षा तिर्यङ्ग-
लोक का क्षेत्र असंख्यातगुणा अधिक है। तिर्यङ्गलोक की अपेक्षा
तीन लोकवर्ती एकेन्द्रिय जीव असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि बहुत-से
एकेन्द्रिय ऊर्ध्वलोक से अधोलोक में और अधोलोक से ऊर्ध्वलोक में
उत्पन्न होते हैं और उनमें से बहुत-से भारणान्तिक समुद्घात करके
अपने आत्मप्रदेशों को फैलाकर तीनों लोकों का स्पर्श करते हैं।
उनकी अपेक्षा भी ऊर्ध्वलोक में एकेन्द्रिय जीव असंख्यातगुणा है,
क्यों कि एकेन्द्रिय जीवों का उपपातक्षेत्र ऊर्ध्वलोक में अत्यधिक है।
ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में एकेन्द्रिय विशेषाधिक है, क्योंकि
एकेन्द्रियों का ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक क्षेत्र विशेषाधिक है।

अपर्याप्त एकेन्द्रियों का अल्प बहुत्व-क्षेत्र के अनुसार विचार
करने पर सब से कम अपर्याप्त एकेन्द्रिय ऊर्ध्वलोक-तिर्यङ्गलोक में है

पूर्वोक्त ये प्रतरवर्ति क्षेत्र करता तिर्यङ्गलोकनु क्षेत्र अस ज्ञातगणु वधारे छे.
तिर्यङ्गलोक करता त्रणु लोकमा रडेला ऐकेन्द्रिय एवे। अस ज्ञातगणु छे केमके-
घणु परा ऐकेन्द्रियो उर्ध्वलोकमाथी अधोलोकमा अने अधोलोकमाथी उर्ध्वलोकमां
उत्पन्न थाय छे अने ते पैडी घणु परा भारणान्तिक समुद्घात करीने पोताना
आत्मप्रदेशाने फैलावीने त्रणु लोकाने स्पर्श करे छे तेना करता उर्ध्वलोकमा
ऐकेन्द्रिय एवे। अस ज्ञातगणु छे, केमके ऐकेन्द्रिय एवे। उपपात क्षेत्र
उर्ध्वलोकमा अत्यधिक छे. उर्ध्वलोक करता अधोलोकमा ऐकेन्द्रियो विशेषाधिक
छे केमके ऐकेन्द्रियोनु उर्ध्वलोक करता अधोलोक क्षेत्र विशेषाधिक छे.

अपर्याप्त ऐकेन्द्रियोनु अल्प बहुत्व

क्षेत्रना कथन प्रमाणु विचार करवाथी सौथी ओछा अपर्याप्त ऐकेन्द्रियो

सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः एकेन्द्रिया जीवा अपर्याप्तकाः, ऊर्ध्वलोकतिर्यक्लोके-
 तत्प्रतरद्वयवर्तिनो भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योपि 'अधोलोयतिरियलोए विसे-
 साहिया' अधोलोकतिर्यक्लोके—तत्प्रतरद्वयवर्तिनः एकेन्द्रिया अपर्याप्तका जीवा
 विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि 'तिरियलोए असंखिज्जगुणा' तिर्य-
 ग्लोके वर्तमाना अपर्याप्तका एकेन्द्रियजीवा असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः,
 तेभ्योऽपि—'तेलोकके असंखेज्जगुणा' त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनः अपर्याप्तकाः एके-
 न्द्रिया जीवा असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योपि 'उद्धलोए असं-
 खेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोके वर्तमाना अपर्याप्तका एकेन्द्रियजीवाः असंख्येयगुणा भवन्ति
 प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि—'अहोलोए विसेसाहिया' अधोलोके वर्तमाना अपर्या-
 प्तरा एकेन्द्रिय जीवा विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्तौघिकैकेन्द्रियविषयकयुक्तेः

अथ पर्याप्तकैकेन्द्रियजीवानामल्पबहुत्वं प्ररूपयति—'खेत्ताणुवाएणं' क्षेत्रानु-
 पातेन—क्षेत्रानुसारेण 'सवत्थोवा एगिदिया जीवा पज्जतगा उद्धलोयतिरिय-
 लोए' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पा, एकेन्द्रिया जीवाः पर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोकतिर्य-

अर्थात् पूर्वोक्त दो प्रतरों में होते हैं, इसका कारण पहले कहा जा
 चुका है। उनकी अपेक्षा अधोलोकतिर्यक्लोक में विशेषाधिक हैं,
 इसका कारण भी पूर्ववत् ही समझलेना चाहिए। उनकी अपेक्षा
 तिर्यक्लोक में असंख्यातगुणा हैं। उनकी अपेक्षा त्रैलोक्यवर्ती अप-
 र्याप्त एकेन्द्रिय असंख्यातगुणा हैं। उनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में असं-
 ख्यातगुणा हैं। ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में विशेषाधिक हैं।
 इस अल्प बहुत्व का कारण पूर्ववत् ही समझ लेना चाहिए।

पर्याप्त एकेन्द्रिय जीवों का अल्प बहुत्व-क्षेत्र की अपेक्षा से सब
 से कम एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव ऊर्ध्वलोक-तिर्यक्लोक में हैं। इसका

उर्ध्वलोक-तिर्यक्लोकमा छे. अर्थात् पूर्वोक्त दो प्रतरमा डोय छे. तेनु कारण
 पड्डेला-डडेवामा आवी गयेल छे. तेमना करता अधोलोक-तिर्यक्लोकमां विशे
 पाधिक छे. तेनु कारण पणु पड्डेला क्खामा प्रमाणे न समल देवुं. तेना करतां
 तिर्यक्लोकमा अस जयात गणु छे तेना करता त्रैलोक्यमा रडेवावाणा अपर्याप्त
 एकेन्द्रिये अस जयात गणु छे तेना करता उर्ध्वलोकमा अस जयात गणु छे.
 उर्ध्वलोक करता अधोलोकमा विशेषाधिक छे आ अल्प बहुत्वनु कारण पड्डेला
 ना कथन प्रमाणे न समल देवु.

पर्याप्त एकेन्द्रिय लोवानु- अल्प बहुत्व

क्षेत्रनी अपेक्षाथी सौथी थोडा एकेन्द्रिय पर्याप्त- लव उर्ध्वलोक तिर्यक्

ग्लोके-तत्प्रतरद्वयवर्तिनो भवन्ति, प्रागुक्तैकेन्द्रियौघिकविषयकयुक्तेः सद्भावात्, तेभ्योऽपि 'अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया' अधोलोक्ततिर्यग्लोके-तत्प्रतरद्वयवर्तिनः पर्याप्तका एकेन्द्रियजीवाः विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः सत्त्वात्, तेभ्योपि-'तिरियलोए असंखिज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमानाः पर्याप्तका एकेन्द्रियजीवाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि 'तेलोक्के असंखिज्जगुणा' त्रैलोक्ये-लोकत्रयवर्तिनः पर्याप्तका एकेन्द्रिय जीवा असंख्येयगुणा भवन्ति उपर्युक्तयुक्तेः तेभ्योऽपि 'उद्धल्लोए असंखिज्जगुणा' ऊर्ध्वलोके वर्तमानाः पर्याप्तकाः एकेन्द्रिय जीवाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'अहोलोए विसेसाहिया' अधोलोके वर्तमानाः पर्याप्तका एकेन्द्रियजीवाः विशेषाधिका भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः । ३२।

द्वीन्द्रियाद्यल्पवहुत्ववक्तव्यता—

मूलम्-खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा वेइंदिया उड्डलोए, उड्ड-
लोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा. तेलोक्के असंखिज्जगुणा,
अहोलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा, अहोलोए संखिज्जगुणा,
तिरियलोए संखिज्जगुणा । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा वेइंदिया
अपज्जत्तया उड्डलोए, उड्डलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा
तेलोक्के असंखेज्जगुणा. अहोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा.

कारण वही है जो सामान्य एकेन्द्रियों के विषय में कहा गया है । उनकी अपेक्षा अधोलोक-तिर्यक्लोक नामक दो प्रतरों में एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव विशेषाधिक है । इसका कारण भी पूर्ववत् ही है । उनकी अपेक्षा तिर्यक्लोक में असंख्यातगुणा अधिक हैं । तिर्यक्लोक की अपेक्षा त्रैलोक्य में असंख्यातगुणा हैं । उनकी अपेक्षा भी ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा हैं और ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में वर्तमान पर्याप्त एकेन्द्रिय जीव विशेषाधिक हैं ॥सू०३२॥

लोकमा छे अेतु कारणु अे न छे के ने सामान्य अेकेन्द्रियोना स अ धमा
कडेवाभा आवेल छे तेना करता अधोलोक-तिर्यक्लोक नामना अे प्रतेशेभा अेके-
न्द्रिय पर्याप्त अे विशेषाधिक छे तेनु कारणु पणु पूर्ववत् न समनपु. तेना
करता तिर्यक्लोकमा अम जयातगणु अधिक छे तिर्यक्लोक करता त्रैलोक्यमा अस-
ख्यातगणु छे तेना करता पणु ऊर्ध्वलोकमा अम जयातगणु छे. अने ऊर्ध्वलोक
करता अधोलोकमा रडेवावाणा पर्याप्त अेकेन्द्रिय अे विशेषाधिक छे. ॥सू. ३२॥

अहोलोए संखिज्जगुणा, तिरियलोए संखिज्जगुणा । खेत्ताणु-
 वाएणं सव्वत्थोवा वेइंदिया पज्जत्ता उड्डलोए, उड्डलोयतिरिय-
 लोए असंखिज्जगुणा, तेलोक्के असंखिज्जगुणा, अहोलोयति-
 रियलोए असंखिज्जगुणा, अहोलोए संखिज्जगुणा, तिरियलोए
 संखिज्जगुणा । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा तेइंदिया उड्डलोए,
 उड्डलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा, तेलोक्के असंखिज्जगुणा,
 अहोलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा. अहोलोए संखिज्जगुणा,
 तिरियलोए संखिज्जगुणा, खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा तेइंदिया
 अपज्जत्तगा उड्डलोए, उड्डलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा,
 तेलोक्के असंखिज्जगुणा; अहोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा,
 अहोलोय संखेज्जगुणा, तिरियलोए संखेज्जगुणा । खेत्ताणुवाएणं
 सव्वत्थोवा तेइंदिया पज्जत्तया उड्डलोए, उड्डलोयतिरियलोए
 असंखेज्जगुणा, तेलोक्के असंखिज्जगुणा, अहोलोयतिरियलोए
 असंखेज्जगुणा, अहोलोए संखेज्जगुणा, तिरियलोए संखिज्ज-
 गुणा, खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा चउरिंदिया जीवा उड्डलोए,
 उड्डलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा, तेलोक्के असंखिज्जगुणा,
 अहोलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा, अहोलोए संखिज्जगुणा,
 तिरियलोए संखिज्जगुणा । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा चउरि-
 दिया जीवा अपज्जत्तया उड्डलोए, उड्डलोयतिरियलोए असंखे-
 ज्जगुणा; तेलोक्के असंखेज्जगुणा, अहोलोयतिरियलोए असं-
 खिज्जगुणा, अहोलोए संखेज्जगुणा तिरियलोए संखेज्जगुणा ।
 खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा चउरिंदिया जीवा पज्जत्तगा उड्डलोए
 उड्डलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा, तेलोक्के असंखेज्जगुणा,
 अहोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा, अहोलोए संखेज्जगुणा,
 तिरियलोए संखेज्जगुणा ॥सू० ३३॥

छाया—क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः द्वीन्द्रियाः ऊर्ध्वलोके, ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये असंख्येयगुणाः, अधोलोकतिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके संख्येयगुणाः, तिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोका द्वीन्द्रिया अपर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोके, ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये असंख्येयगुणाः, अधोलोकतिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके संख्ये-

द्वीन्द्रियजीवों का अल्पबहुत्व

शब्दार्थ—(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सव्वत्थोवा वेइंदिया उड्डलोए) सब से कम द्वीन्द्रिय ऊर्ध्वलोक में हैं (उड्डलोलयतिरियलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (तेलोकके असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोलयतिरियलोए असंखिज्जगुणा) अधोलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं। (अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक में संख्यातगुणा हैं (तिरियलोए संखिज्जगुणा) तिर्यग्लोक में संख्यातगुणा हैं।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सव्वत्थोवा वेइंदिया अपज्जत्तया उड्डलोए) सब से कम द्वीन्द्रिय अपर्याप्त जीव ऊर्ध्वलोक में हैं (उड्डलोलयतिरियलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (तेलोकके असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोलयतिरियलोए असंखेज्जगुणा) अधोलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक में संख्यात-

द्वीन्द्रिय एवानु अल्प बहुत्व

शब्दार्थ—(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना कथन प्रभाषे (सव्वत्थोवा वेइंदिया उड्डलोलयतिरियलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (तेलोकके असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोलयतिरियलोए असंखिज्जगुणा) अधोलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक में संख्यातगुणा हैं।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र अनुसार (सव्वत्थोवा वेइंदिया अपज्जत्तया उड्डलोए) सौथा आछा द्विन्द्रियो अपर्याप्त एव ऊर्ध्वलोक में हैं (उड्डलोलयतिरियलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (तेलोकके असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोलयतिरियलोए असंखिज्जगुणा) अधोलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक में संख्यात-

अहोलोए संखिञ्जगुणा, तिरियलोए संखिञ्जगुणा । खेत्ताणु-
वाएणं सव्वत्थोवा वेइंदिया पज्जत्ता उड्डलोए, उड्डलोयतिरिय-
लोए असंखिञ्जगुणा, तेलोक्के असंखिञ्जगुणा, अहोलोयति-
रियलोए असंखिञ्जगुणा, अहोलोए संखिञ्जगुणा, तिरियलोए
संखिञ्जगुणा । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा तेइंदिया उड्डलोए,
उड्डलोयतिरियलोए असंखिञ्जगुणा, तेलोक्के असंखिञ्जगुणा,
अहोलोयतिरियलोए असंखिञ्जगुणा. अहोलोए संखिञ्जगुणा,
तिरियलोए संखिञ्जगुणा, खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा तेइंदिया
अपज्जत्तगा उड्डलोए, उड्डलोयतिरियलोए असंखिञ्जगुणा,
तेलोक्के असंखिञ्जगुणा; अहोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा,
अहोलोय संखेज्जगुणा, तिरियलोए संखेज्जगुणा । खेत्ताणुवाएणं
सव्वत्थोवा तेइंदिया पज्जत्तया उड्डलोए, उड्डलोयतिरियलोए
असंखेज्जगुणा, तेलोक्के असंखिञ्जगुणा, अहोलोयतिरियलोए
असंखेज्जगुणा, अहोलोए संखेज्जगुणा, तिरियलोए संखिञ्ज-
गुणा, खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा चउरिंदिया जीवा उड्डलोए,
उड्डलोयतिरियलोए असंखिञ्जगुणा, तेलोक्के असंखिञ्जगुणा,
अहोलोयतिरियलोए असंखिञ्जगुणा, अहोलोए संखिञ्जगुणा,
तिरियलोए संखिञ्जगुणा । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा चउरिं-
दिया जीवा अपज्जत्तया उड्डलोए, उड्डलोयतिरियलोए असंखे-
ज्जगुणा; तेलोक्के असंखेज्जगुणा, अहोलोयतिरियलोए असं-
खिञ्जगुणा, अहोलोए संखेज्जगुणा तिरियलोए संखेज्जगुणा ।
खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा चउरिंदिया जीवा पज्जत्तगा उड्डलोए
उड्डलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा, तेलोक्के असंखेज्जगुणा,
अहोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा, अहोलोए संखेज्जगुणा,
तिरियलोए संखेज्जगुणा ॥सू० ३३॥

छाया—क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः द्वीन्द्रियाः ऊर्ध्वलोके, ऊर्ध्वलोकतिर्यग्-
ग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये असंख्येयगुणाः, अधोलोकतिर्यग्ग्लोके असंख्येय-
गुणाः, अधोलोके संख्येयगुणाः, तिर्यग्ग्लोके संख्येयगुणाः, क्षेत्रानुपातेन सर्व-
स्तोका द्वीन्द्रिया अपर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोके, ऊर्ध्वलोकतिर्यग्ग्लोके असंख्येयगुणाः,
त्रैलोक्ये असंख्येयगुणाः, अधोलोकतिर्यग्ग्लोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके संख्ये-

द्वीन्द्रियजीवों का अल्पवृत्त्व

शब्दार्थ—(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सन्वत्थोवा वेइं-
दिया उड्डुल्लोण) सब से कम द्वीन्द्रिय ऊर्ध्वलोक मे हैं (उड्डुल्लोयतिरिय-
लोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक-तिर्यक्लोक में असंख्यातगुणा हैं (ते
लोकके असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोयतिरिय
लोए असंखिज्जगुणा) अधोलोक-तिर्यक्लोक में असंख्यातगुणा हैं।
(अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक में संख्यातगुणा हैं (तिरियलोए
संखिज्जगुणा) तिर्यक्लोक में संख्यातगुणा हैं।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सन्वत्थोवा वेइंदिया अपज्ज-
त्तया उड्डुल्लोए) सब से कम द्वीन्द्रिय अपर्याप्त जीव ऊर्ध्वलोक
मे हैं (उड्डुल्लोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में
असंख्यातगुणा हैं (तेलोकके असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य में असंख्यात-
गुणा हैं (अहोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा) अधोलोक-तिर्यग्लोक
में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक में संख्यात-

द्वीन्द्रिय एवोतु अल्प वृत्त्व

शब्दार्थ—(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना कथन प्रमाणे (सन्वत्थोवा वेइंदिया उड्डु-
ल्लोण) सौथी थोडा द्वीन्द्रिय एव उर्ध्वलोकभा छे (उड्डुल्लोयतिरियलोए असंखेज्ज
गुणा) उर्ध्वलोक तिर्यक्लोकभा असंख्यातगणु छे (तेलोकके असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य
भा असंख्यातगणु छे (अहोलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा) अधोलोक-
तिर्यक्लोकभा असंख्यातगणु छे (अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोलोकभा
संख्यातगणु छे (तिरियलोए संखिज्जगुणा) तिर्यक्लोकभा संख्यातगणु छे

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र अनुसार (सन्वत्थोवा वेइंदिया अपज्जत्तया उड्डुल्लोए)
सौथी थोडा द्वीन्द्रिय अपर्याप्त एव उर्ध्वलोकभा छे (उड्डुल्लोयतिरियलोए
असंखिज्जगुणा) उर्ध्वलोक-तिर्यक्लोकभा असंख्यातगणु छे (तेलोकके असंखेज्ज-
गुणा) त्रैलोक्यभा असंख्यातगणु छे (अहोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा)
अधोलोक तिर्यक्लोकभा असंख्यातगणु छे, (अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोलोकभा

सर्वस्तोत्राथतुरिन्द्रिया जीवाः पर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोके, ऊर्ध्वलोकेतिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये असंख्येयगुणाः, अधोलोकेतिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके संख्येयगुणाः, तिर्यग्लोके संख्येयगुणाः ॥ सू० ३३ ॥

टीका-अथ द्वीन्द्रियादीनामल्पबहुत्ववत्त्वयतां प्ररूपयितुमाह-‘खेत्ताणुवाणं’ क्षेत्रानुपातेन-क्षेत्रानुसारेण प्ररूप्यमाणा ‘सद्यत्तयोत्र चन्द्रिया उर्ध्वलोए’ सर्वस्तोत्राः-सर्वेभ्योऽल्पाः, द्वीन्द्रियाः ऊर्ध्वलोके तन्प्रकारवर्तिना भवन्ति, तेषामूर्ध्वलोकस्थैरुद्देशे मेरुशिखरस्य वाप्यादीं प्रागादि नद्वावात्, सर्वस्तोत्रत्वं बोध्यम्,

(खेत्ताणुवाणं) क्षेत्र की अपेक्षा (सद्यत्तयोत्र चन्द्रिया जीवा पञ्जत्तगा उर्ध्वलोए) सब से कम चौइन्द्रिय पर्याप्त जीव ऊर्ध्वलोक में हैं (उर्ध्वलोएतिरियलोए असंखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (तिलोकके असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य में असंख्यातगुणा है (अहोलोएतिरियलोए असंखेज्जगुणा) अधोलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा है (अहोलोए संखेज्जगुणा) अधोलोक में संख्यातगुणा हैं (तिरियलोए संखेज्जगुणा) तिर्यग्लोक में संख्यातगुणा हैं ॥३३॥

अब द्वीन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीवों के अल्प बहुत्व की प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं ।

टीकार्थ-क्षेत्र के अनुसार प्ररूपणा करने पर सब से कम द्वीन्द्रिय जीव ऊर्ध्वलोक में हैं क्योंकि ऊर्ध्वलोक के एक भाग-मेरुशिखर की चावडी आदि में ही शंख आदि पाये जाते हैं । उनकी अपेक्षा ऊर्ध्व-

(खेत्ताणुवाणं) क्षेत्रनी अपेक्षाये (सद्यत्तयोत्र चन्द्रिया जीवा पञ्जत्तगा उर्ध्वलोए) सौधी ओछा चौइन्द्रिय एव पर्याप्त उर्ध्वलोकमा छे. (उर्ध्वलोए तिरियलोए असंखेज्जगुणा) उर्ध्वलोक-तिर्यग्लोकमा असंख्यात गण्ठा छे. (तिलोकके असंखिज्जगुणा) त्रैलोक्यमा असंख्यात गण्ठा छे (अहोलोएतिरियलोए असंखिज्जगुणा) अधोलोक-तिर्यग्लोकमा असंख्यात गण्ठा छे (अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोलोकमा संख्यातगण्ठा छे (तिरियलोए संखेज्जगुणा) तिर्यग्लोकमा संख्यात गण्ठा छे ॥ ३३ ॥

टीकार्थ-इसे सूत्रकार द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-अने चौइन्द्रिय एवैना अल्प बहुत्वनी प्ररूपण्ठा करवा माटे कडे छे,

क्षेत्रना अनुसार प्ररूपण्ठा करवाधी सौधी ओछा द्वीन्द्रिय-जे द्वीन्द्रियवाणा उर्ध्वलोकमा छे केभके-उर्ध्वलोकना अके भाग इप मेइ शिभरनी वावडी विगरेमा ए श अ विगरे मणी शके छे तेना करता उर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामना जे प्ररूपण्ठा असंख्यात गण्ठा छे. केभके जे एव तिर्यग्लोकमाधी उर्ध्वलोकमा

तेभ्यः 'उड्डूलोयतिरियलोए' ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके—तत्प्रतरद्वयवर्तिनो द्वीन्द्रियाः 'असंखेज्जगुणा' असंख्येयगुणा भवन्ति, तिर्यग्लोकादूर्ध्वलोके, ऊर्ध्वलोकात् तिर्यग्लोके द्वीन्द्रियतया समुत्पित्सूनां तदायुरनुभवताम् ईलिकागत्या समुत्प-
घमानानाम्, द्वीन्द्रियाणामेव ऊर्ध्वलोकात्तिर्यग्लोके, तिर्यग्लोकाद्वोर्ध्वलोके द्वीन्द्रियतया तदन्यत्वेन वा समुत्पित्सूनाम् कृतप्रथममारणान्तिकसमुद्घा-
तानां द्वीन्द्रियायुः प्रतिसंवेदयमानानां समुद्घातवशाच्च दूरतरप्रसारितनिजात्म-
प्रदेशदण्डानाञ्च, उपर्युक्तप्रतरद्वयाधिष्ठितक्षेत्रवर्तिनाञ्च प्रकृतप्रतरद्वयसंस्पर्शित्वात्
बहुत्वाच्च प्रागुक्तेभ्योऽसंख्येयगुणत्वं भवति, तेभ्योऽपि—'तेलोक्के असंखेज्ज-
गुणा' त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनो द्वीन्द्रिया असंख्येयगुणा भवन्ति, अधोलोकं
द्वीन्द्रियाणां प्रभूतत्वेनोत्पत्तिस्थानत्वेन, तस्मादपि तिर्यग्लोकेऽतिप्रभूतत्वेनोत्प-

लोक तिर्यग्लोक नामक दो प्रतरों में असंख्यातगुणा हैं, क्यों कि जो जीव तिर्यग्लोक से ऊर्ध्वलोक में या ऊर्ध्वलोक से तिर्यग्लोक में द्वीन्द्रिय रूप से उत्पन्न होते हैं और द्वीन्द्रियायु का अनुभव कर रहे होते हैं और ईलिकागति से उत्पन्न हो रहे हों अथवा द्वीन्द्रिय जीव ही ऊर्ध्वलोक से तिर्यग्लोक में या तिर्यग्लोक से ऊर्ध्वलोक में द्वीन्द्रिय रूप से या अन्य किसी रूप से उत्पन्न होने वाले हों, जिन्होंने मार-
णान्तिक समुद्घात किया हो और जो द्वीन्द्रिय का आयुष्य वेदन कर रहे हों तथा समुद्घात के कारण जिन्होंने आत्मप्रदेशों को दूर तक फैलाया हो, वे ही इन दो प्रतरों का स्पर्श करते हैं। ऐसे जीव बहुत होते हैं, अतएव ऊर्ध्वलोक वालों की अपेक्षा असंख्यातगुणा कहे गए हैं। उनकी अपेक्षा भी त्रैलोक्य में असंख्यातगुणा हैं, क्यों कि अधोलोक में द्वीन्द्रियों के उत्पत्ति स्थान बहुत हैं तिर्यग्लोक में

अथवा उर्ध्वलोकमाथी तिर्यग्लोकमा द्वीन्द्रिय पण्णाथी उत्पन्न थाय छे, अने द्वीन्द्रियपण्णाने अनुभव करी रहैल होय छे, तथा धलिका गतिथी उत्पन्न थरि रह्या होय, अथवा द्वीन्द्रियल्लोके उर्ध्वलोकमाद्वीन्द्रिय पण्णाथी अथवा अधोलोक माथे उत्पन्न थवाना होय, जेणे मारणान्तिक समुद्घात करैल होय, अने जेणे द्वीन्द्रियना आयुष्यनु वेदन करी रहैल होय, तथा समुद्घातना कारणे जेणेजे आत्मप्रदेशाने दूर सुधी इलावेल होय, तेणेजे आ जे प्रतराने स्पर्श करे छे जेवा जेवा धण्णा होय छे तेथी उर्ध्वलोक वाणान्ते करता तेमने असंख्यात गण्णा कडेवाभा आवेल छे, तेना करता पण्ण त्रैलोक्यमा असंख्यात गण्णा छे केमके—अधोलोकमा द्वीन्द्रिय ल्लोकेना उत्पत्तिस्थाने धण्णा छे तिर्यग्लोकमा तेना करता पण्ण वधादे छे.

त्तिस्थानतया अधोलोकाद्-र्धलोके द्वीन्द्रियत्वेन तदन्यत्वेन वा समुत्पित्स्वनां प्रथममारणान्तिकसमुद्घातसमहृतानां समुद्घातत्रयान्चोत्पत्तिदेशं यावत् प्रक्षिप्तात्मप्रदेशदण्डानाम्, द्वीन्द्रियायुः प्रतिसंवेदयमानानाम्, ऊर्ध्वलोकादधोलोके द्वीन्द्रियाणां तदन्येया वा द्वीन्द्रियतया समुत्पद्यमानानां द्वीन्द्रियायुरनुभवतां त्रैलोक्यसंस्पर्शनात्, तेषां वृत्तान्च प्रागुत्पत्तेः-संस्पर्शयेयगुणत्वं संभवति, तेषां-ऽपि 'अधोलोयतिरियलोक् अतंखेजगुणा' अधोलोक्ततिर्यग्लोके-तत्प्रतरद्वयवर्तिनो द्वीन्द्रिया असंख्येयगुणा भवन्ति, तिर्यग्लोकादधोलोके, अधोलोकाद् वा तिर्यग्लोके द्वीन्द्रियतया समुत्पित्स्वना तदायुरनुभवताम् ईदृशकागत्या समुत्पद्यमानानाम्, तिर्यग्लोकादधोलोके द्वीन्द्रियत्वेन तदन्यत्वेन वा समुत्पित्स्वना द्वीन्द्रि-

तो और भी अधिक हैं तथा अधोलोक से ऊर्ध्वलोक में द्वीन्द्रिय रूप से या किसी अन्य रूप से जो उत्पन्न होने वाले हों, प्रथम मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हों, जिन्होंने समुद्घात के कारण अपने आत्मप्रदेशों को उत्पत्ति स्थान तक पहुँचाया हो और जो द्वीन्द्रियायु का वेदन कर रहे हों, तथा ऊर्ध्वलोक से अधोलोक में जो द्वीन्द्रिय या अन्य जीव द्वीन्द्रिय रूप में उत्पन्न होने वाले हों और द्वीन्द्रिय की आयु का वेदन कर रहे हों, वही त्रैलोक्य का स्पर्श करते हैं। वैसे जीव बहुत होते हैं, अतः ये पूर्वोक्त जीवों से असंख्यातगुणा हैं। इनकी अपेक्षा भी अधोलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि तिर्यग्लोक से अधोलोक में अथवा अधोलोक से तिर्यग्लोक में जो द्वीन्द्रिय रूप में उत्पन्न हो रहे हो और द्वीन्द्रिय के आयुष्य का वेदन कर रहे हों तथा ईलिकागति से उत्पन्न हो रहे हो, अथवा

तथा अधोलोकाधी ऊर्ध्वलोकभा द्वीन्द्रिय पञ्चाधी अथवा कोष्ठ अन्य रूपे ने उत्पन्न भवाना होय भेदोभा मारणान्तिक समुद्घात करी रहेल होय नेकोअने समुद्घातना कारणे पोताना आत्मप्रदेशेने उत्पत्ति स्थान सुधी ईलायेल होय, अने ने द्वीन्द्रिय आयुष्यनु वेदन करी रहेल होय, तथा ऊर्ध्वलोकधी अधोलोकभा ने द्वीन्द्रियना अथवा भीने कोष्ठ एव द्वीन्द्रिय पञ्चाधी उत्पन्न भवाना होय, अने द्वीन्द्रियना आयुष्यनु वेदन करी रहेल होय, कोन त्रैलोक्य ना स्पर्श करे छे. कोवा एवो घषाण होय छे तेथी तेको पूर्वोक्त एवो करता सण्यात गणु छे तेना करता पणु अधोलोक-तिर्यग्लोकभा असण्यात गणु छे केभके तिर्यग्लोकाधी अधोलोकभा अथवा अधोलोकाधी तिर्यग्लोकाधी नेको द्वीन्द्रिय पञ्चाधी उत्पन्न थध रहेल होय, अने द्वीन्द्रियना आयुष्यनु वेदन करी रहेल होय, तथा धलिका गतिथी उत्पन्न थध रहेल होय, अथवा

तेभ्यः 'उर्ध्वलोकतिर्यग्लोके' ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके-तत्प्रतरद्वयवर्तिनो द्वीन्द्रियाः 'असंखेज्जगुणा' असंख्येयगुणा भवन्ति, तिर्यग्लोकादूर्ध्वलोके, ऊर्ध्वलोकात् तिर्यग्लोके द्वीन्द्रियतया समुत्पित्स्नानां तदायुरनुभवताम् ईलिकागत्या समुत्पद्यमानानाम्, द्वीन्द्रियाणामेव ऊर्ध्वलोकात्तिर्यग्लोके, तिर्यग्लोकादूर्ध्वलोके द्वीन्द्रियतया तदन्यत्वेन वा समुत्पित्स्नानाम् कृतप्रथममारणान्तिकसमुद्घातानां द्वीन्द्रियायुः प्रतिसंवेदयमानानां समुद्घातवशाच्च दूरतरग्रसारितनिजात्मप्रदेशदण्डानाञ्च, उपर्युक्तप्रतरद्वयाधिष्ठितक्षेत्रवर्तिनाञ्च प्रकृतप्रतरद्वयसंस्पर्शित्वात् बहुत्वाच्च प्रागुक्तेभ्योऽसंख्येयगुणत्वं भवति, तेभ्योऽपि- 'तेलोकके असंखेज्जगुणा' त्रैलोक्ये-लोकत्रयवर्तिनो द्वीन्द्रिया असंख्येयगुणा भवन्ति, अधोलोके द्वीन्द्रियाणां प्रभूतत्वेनोत्पत्तिस्थानत्वेन, तस्मादपि तिर्यग्लोकेऽतिप्रभूतत्वेनोत्प-

लोक तिर्यग्लोक नामक दो प्रतरों में असंख्यातगुणा हैं, क्यों कि जो जीव तिर्यग्लोक से ऊर्ध्वलोक में या ऊर्ध्वलोक से तिर्यग्लोक में द्वीन्द्रिय रूप से उत्पन्न होते हैं और द्वीन्द्रियायु का अनुभव कर रहे होते हैं और ईलिकागति से उत्पन्न हो रहे हों अथवा द्वीन्द्रिय जीव ही ऊर्ध्वलोक से तिर्यग्लोक में या तिर्यग्लोक से ऊर्ध्वलोक में द्वीन्द्रिय रूप से या अन्य किसी रूप से उत्पन्न होने वाले हों, जिन्होंने मारणान्तिक समुद्घात किया हो और जो द्वीन्द्रिय का आयुष्य वेदन कर रहे हों तथा समुद्घात के कारण जिन्होंने आत्मप्रदेशों को दूर तक फैलाया हो, वे ही इन दो प्रतरों का स्पर्श करते हैं। ऐसे जीव बहुत होते हैं, अतएव ऊर्ध्वलोक वालों की अपेक्षा असंख्यातगुणा कहे गए हैं। उनकी अपेक्षा भी त्रैलोक्य में असंख्यातगुणा हैं, क्यों कि अधोलोक में द्वीन्द्रियों के उत्पत्ति स्थान बहुत हैं तिर्यग्लोक में

अथवा उर्ध्वलोकमाथी तिर्यग्लोकमा द्वीन्द्रिय पञ्चाथी उत्पन्न थाय छे, अने द्वीन्द्रियपञ्चाने अनुभव करी रहैल होय छे, तथा धलिका गतिथी उत्पन्न थय रह्या होय, अथवा द्वीन्द्रियल्लोके उर्ध्वलोकमाद्वीन्द्रिय पञ्चाथी अथवा भीला कोठि रूपे उत्पन्न थवाना होय, जेणे भारणान्तिक समुद्घात करैल होय, अने जेणे द्वीन्द्रियना आयुष्यनु वेदन करी रहैल होय, तथा समुद्घातना कारणे जेणेजे आत्मप्रदेशाने दूर सुधी ईलावेल होय, तेणे आ जे प्रदेशाने स्पर्श करे छे जेवा लोके घण्टा होय छे. तेथी उर्ध्वलोक वाणाजे करता तेमने अम ज्यात गण्टा कडेवाभा आवेल छे. तेना करतां पणु त्रैलोक्यमा अस ज्यात गण्टा छे केमके-अधोलोकमा द्वीन्द्रिय लोकेना उत्पत्तिस्थानो घण्टा छे. तिर्यग्लोकमां तो तेना करता पणु वधारे छे.

त्तिस्थानतया अधोलोकादूर्ध्वलोके द्वीन्द्रियत्वेन तदन्यत्वेन वा समुत्पित्सूनां प्रथममारणान्तिकसमुद्घातसमहताना समुद्घातवशाच्चोत्पत्तिदेशं यावत् प्रक्षिप्तात्मप्रदेशदण्डानाम्, द्वीन्द्रियायुः प्रतिसंवेदयमानानाम्, ऊर्ध्वलोकादधोलोके द्वीन्द्रियाणां तदन्येया वा द्वीन्द्रियतया समुत्पद्यमानाना द्वीन्द्रियायुरनुभवतां त्रैलोक्यसंस्पर्शनात्, तेषां वृत्तत्वाच्च प्रागुक्तैर्भ्योऽसंख्येयगुणत्वं संभाति, तेभ्योऽपि 'अहोलोयतिरियल्लोणं अगंखेज्जगुणा' अर्धलोकादतिर्यग्लोके-तत्प्रतरद्वयवर्तिनो द्वीन्द्रिया असंख्येयगुणा वृत्ति, तिर्यग्लोकादधोलोके, अधोलोकाद् वा तिर्यग्लोके द्वीन्द्रियतया समुत्पित्सूना तदायुरनुभवताम् ईलिकागत्या समुत्पद्यमानानाम्, तिर्यग्लोकादधोलोके द्वीन्द्रियत्वेन तदन्यत्वेन वा समुत्पित्सूना द्वीन्द्रि-

तो और भी अधिक है तथा अधोलोक से ऊर्ध्वलोक में द्वीन्द्रिय रूप से या किसी अन्य रूप से जो उत्पन्न होने वाले हों, प्रथम मारणा-
न्तिक समुद्घात कर रहे हों, जिन्होंने समुद्घात के कारण अपने
आत्मप्रदेशों को उत्पत्ति स्थान तक पहुँचाया हो और जो द्वीन्द्रियायु
का वेदन कर रहे हों, तथा ऊर्ध्वलोक से अधोलोक में जो द्वीन्द्रिय
या अन्य जीव द्वीन्द्रिय रूप से उत्पन्न होने वाले हों और द्वीन्द्रिय
की आयु का वेदन कर रहे हों, वही त्रैलोक्य का स्पर्श करते हैं।
वैसे जीव बहुत होते हैं, अतः ये पूर्वोक्त जीवों से असंख्यातगुणा
हैं। इनकी अपेक्षा भी अधोलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं,
क्योंकि तिर्यग्लोक से अधोलोक में अथवा अधोलोक से तिर्यग्लोक
में जो द्वीन्द्रिय रूप में उत्पन्न हो रहे हों और द्वीन्द्रिय के आयुष्य
का वेदन कर रहे हों तथा ईलिकागति से उत्पन्न हो रहे हों, अथवा

तथा अधोलोकात्तथा ऊर्ध्वलोकात्तथा द्वीन्द्रिय पञ्चाथी अथवा कोष्ठ अन्य रूपे न
उत्पन्न भवाना होय पडेल मारणान्तिक समुद्घात करी रहेल होय न्नेओओ
समुद्घातना कारणे पोताना आत्मप्रदेशाने उत्पत्ति स्थान सुधी ईलायेल होय,
अने न्ने द्वीन्द्रिय आयुष्यनु वेदन करी रहेल होय, तथा ऊर्ध्वलोकात्तथा
अधोलोकात्तथा न्ने द्वीन्द्रियना अथवा गीने कोष्ठ एव द्वीन्द्रिय पञ्चाथी उत्पन्न
भवाना होय, अने द्वीन्द्रियना आयुष्यनु वेदन करी रहेल होय, ओए त्रैलोक्य
ना स्पर्श करे छे ओवा एवो घण्टाए होय छे तेथी तेओ पूर्वोक्त एवो
करता सञ्चयात्त गण्टा छे. तेना करता पण्ट अधोलोकात्-तिर्यग्लोकात्तथा आसञ्चयात्त
गण्टा छे केभके तिर्यग्लोकात्तथा अधोलोकात्तथा अथवा अधोलोकात्तथा तिर्यग्लोकात्तथा
न्नेओ द्वीन्द्रिय पञ्चाथी उत्पन्न भय रहेल होय, अने द्वीन्द्रियना आयुष्यनु
वेदन करी रहेल होय, तथा धलिका गतिथी उत्पन्न भय रहेल होय, अथवा

याणाञ्च प्रथममारणान्तिकसमुद्घातसमवहतानां द्वीन्द्रियायुरनुभवतां समुद्घात-
वशाच्चोत्पत्तिदेशं यावत् प्रक्षिप्तात्मप्रदेशदण्डानाम् उपर्युक्तप्रतरद्वयसंपर्शनात्
तेषां प्रचुरत्वाच्च प्रागुक्तेभ्योऽसंख्येयगुणत्वं भवति, तेभ्यः—‘अधोलोए संखेज्ज-
गुणा’ अधोलोके वर्तमाना द्वीन्द्रियाः संख्येयगुणा भवन्ति, तत्र तेषामुत्पत्ति-
स्थानबाहुल्यात् संख्येयगुणत्वं भवति, तेभ्योऽपि—‘तिरियलोए संखेज्जगुणा’
तिर्यग्लोके वर्तमानाः द्वीन्द्रियाः संख्येयगुणा भवन्ति, तत्र तेषामतिप्रभूताना-
मुत्पत्तिस्थानानां सद्भावात्, संख्येयगुणत्वं संभवति ।

अथापर्याप्तक द्वीन्द्रियाणामल्पबहुत्वं प्ररूपयितुमाह—‘खेत्ताणुवाएणं’ क्षेत्रा-
नुपातेन—क्षेत्रानुसारेण ‘सव्वत्थोवा वेइ दिया अपज्जत्तया उड्डुलोए’ सर्वस्तोकाः
सर्वेभ्योऽल्पाः द्वीन्द्रिया अपर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोके तत्प्रतरवर्तिनो भवन्ति, प्रागुक्त-
जो द्वीन्द्रिय जीव तिर्यग्लोक से अधोलोक में द्वीन्द्रिय या जो अन्य
रूप में उत्पन्न होने वाले हों, जो प्रथम मारणान्तिक समुद्घात कर
रहे हों और द्वीन्द्रिय के आयुष्य का वेदन कर रहे हों और जिन्होंने
समुद्घात के कारण उत्पत्ति देश तक आत्मप्रदेशों को फैलाया हो,
वे इन दो प्रतरों का स्पर्श करते हैं । ऐसे जीव अत्यधिक होते हैं,
अतएव इन्हें पूर्वोक्तों से असंख्यातगुणा कहा है । इनकी अपेक्षा भी
अधोलोक में संख्यातगुणा हैं, क्योंकि वहां उनके उत्पत्ति स्थानों की
बहुलता है, उनकी अपेक्षा भी तिर्यग्लोक में संख्यातगुणा अधिक हैं,
क्योंकि तिर्यग्लोक में उनके उत्पत्ति स्थान और भी अधिक हैं ।

अपर्याप्तक द्वीन्द्रियों का अल्पबहुल-क्षेत्र की अपेक्षा से सब से
कम अपर्याप्त द्वीन्द्रिय ऊर्ध्वलोक में हैं । इस का कारण पहले कहा

ने द्वीन्द्रियएव तिर्यकलोकमी अधोलोकमा द्वीन्द्रिय पशुमी अथवा अन्य इपे
उत्पन्न थवाना डाय, ने पडेला मारणान्तिक समुद्घात करी-रडेल डाय, अने
नेओअे समुद्घातना कारणे उत्पत्ति देश पर्यन्त आत्मप्रदेशाने इलावेले डाय
तेओ आ ये प्रतराने स्पर्श करे छे ओवा एवे घणु डाय छे तेथीव
तेओने पूर्वोक्त एवे करता अय भ्यात गणु कहे छे, तेना करता पशु
अधोलोकमा स भ्यातगणु छे केमके त्या तेमना उत्पत्ती स्थानानु णडुपणु
छे, तेना करता पशु तिर्यकलोकमा स भ्यातगणु वधारे छे. केमके तिर्यकलोकमा
तेना उत्पत्तिस्थाने ओथी पशु वधारे छे

अपर्याप्त द्वीन्द्रियानु अल्पबहुल

क्षेत्रनी अपेक्षाथी सौथी ओछा अपर्याप्त द्वीन्द्रिये ऊर्ध्वलोकमा छे तेनु’
कारणु पडेला कडेवामा आवी गयेल छे, ऊर्ध्वलोक करता ऊर्ध्वलोक—तिर्यकलोकमां
अस भ्यात गणु छे तेनु कारणु पशु पडेला कडेवामा आवी गयेल छे.

युक्तेः, तेभ्यः 'उद्धूलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके तत्प्र-
तरद्वयवर्तिनो द्वीन्द्रियाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः,
तेभ्यः 'तेलोवके असंखेज्जगुणा' त्रैलोक्ये-लोकत्रयवर्तिनोऽपर्याप्तकद्वीन्द्रियाः
असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि-'अहोलोयतिरियलोए असंखे-
ज्जगुणा' अधोलोकतिर्यग्लोके-तत्प्रतरद्वयवर्तिनो द्वीन्द्रिया अपर्याप्तकाः असं-
ख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि 'अहोलोए संखेज्जगुणा' अधोलोके
वर्तमाना द्वीन्द्रिया अपर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि
'तिरियलोए संखेज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमानाः द्वीन्द्रिया अपर्याप्तकाः संख्येय-
गुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः ।

अथ पर्याप्तकद्वीन्द्रियाणामल्पवहुत्वं प्ररूपयति-'खेत्ताणुवाएणं' क्षेत्रानुपा-
तेन-क्षेत्रानुसारेण 'सञ्चत्थोवा वेइंदिया पज्जत्तया उद्धूलोए' सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्यो-

जा चुका है । ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में असं-
ख्यातगुणा हैं । इसका कारण भी पहले कह चुके हैं । ऊर्ध्वलोक-
तिर्यग्लोक की अपेक्षा तीन लोकवर्ती अपर्याप्त द्वीन्द्रिय असंख्यात-
गुणा हैं । इसके विषय में पूर्वोक्त युक्ति ही समझ लेना चाहिए ।
त्रैलोक्य की अपेक्षा अधोलोक तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में असंख्यात
गुणा अधिक हैं । अधोलोक-तिर्यग्लोक की अपेक्षा अधोलोक में
संख्यातगुणा अधिक हैं । अधोलोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में संख्यात
गुणा अधिक हैं । यहाँ सर्वत्र न्यूनाधिकता का कारण पहले कहे अनु-
सार जान लेना चाहिए ।

पर्याप्तक द्वीन्द्रियों का अल्पवहुत्व-क्षेत्र के अनुसार सब से कम
पर्याप्तक द्वीन्द्रिय ऊर्ध्वलोक में हैं । उनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लो-
क में असंख्यातगुणा हैं । ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक की अपेक्षा लोक

ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोक करता त्रयु लोकवर्ति अपर्याप्त द्वीन्द्रियो असंख्यात गणु
छे तेना सञ्चत्थमा पूर्वोक्त युक्ति न समल लेवी त्रैलोक्यना करता अधो-
लोक तिर्यग्लोक नामना प्रतराभा असंख्यात गणु वधारे छे, अधे लोक तिर्यग्लो-
लोकना करता अधोलोकमा संख्यात गणु वधारे छे अधोलोक करता तिर्यग्लो-
लोकमा संख्यात वधारे छे अही गधे ठेकाणु न्यूनाधिकतु कारण पडेवा
कह्या प्रमाणुतु समल लेवु

पर्याप्त द्वीन्द्रियोतु अल्पवहुत्व

क्षेत्रनी अपेक्षाथी सौथी कम पर्याप्तक द्वीन्द्रिय लयो ऊर्ध्वलोकमा छे,
तेना करता ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोकमा असंख्यात गणु छे, ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक

ડહ્વાઃ, દ્વીન્દ્રિયાઃ પર્યાપ્તકાઃ ઝ઼ર્ધ્વલોકે તત્પ્રતરવર્તિનો ભવન્તિ, તેભ્યોઽપિ 'ઉદ્ધુલોયતિરિયલોષ અસંલ્લેજ્જગુણા' ઝ઼ર્ધ્વલોકતિર્યગ્લોકે-તત્પ્રતરદ્વયવર્તિનો દ્વીન્દ્રિયાઃ પર્યાપ્તકાઃ અસંલ્લેયગુણા ભવન્તિ, પ્રાગુક્તયુક્તેઃ, તેભ્યોઽપિ 'તેલોક્કે અસંલ્લેજ્જગુણા' ત્રૈલોક્યે-લોકત્રયવર્તિનો દ્વીન્દ્રિયાઃ પર્યાપ્તકાઃ અસંલ્લેયગુણા ભવન્તિ, પ્રાગુક્તયુક્તેઃ, તેભ્યોઽપિ-અહોલોયતિરિયલોષ અરાંલ્લિજ્જગુણા' અધોલોકતિર્યગ્લોકે તત્પ્રતરદ્વયવર્તિનો દ્વીન્દ્રિયાઃ પર્યાપ્તકાઃ અસંલ્લેયગુણા ભવન્તિ, યુક્તેરુક્તત્વાત્; તેભ્યોઽપિ-અહોલોષ સંલ્લિજ્જગુણા' અધોલોકે-તત્પ્રતરવર્તિનો દ્વીન્દ્રિયાઃ પર્યાપ્તકાઃ સંલ્લેયગુણા ભવન્તિ, પ્રાગુક્તયુક્તેઃ, તેભ્યોઽપિ 'તિરિયલોષ સંલ્લિજ્જગુણા' તિર્યગ્લોકે વર્તમાનાઃ પર્યાપ્તકા દ્વીન્દ્રિયા સંલ્લેયગુણાઃ ભવન્તિ, પ્રાગુક્તયુક્તેઃ ।

અથ ત્રીન્દ્રિયાણામરૂપવહુત્વં પ્રતિપાદયતિ- 'લેત્તાણુવાણં સન્વત્થોવા તેહં-દિયા ઉદ્ધુલોષ' ક્ષેત્રાણુપાતેન-ક્ષેત્રાણુસારેણ, સર્વસ્તોકાસ્ત્રીન્દ્રિયાઃ ઝ઼ર્ધ્વલોકે તત્પ્રતરવર્તિનો ભવન્તિ, તેભ્યોઽપિ 'ઉદ્ધુલોયતિરિયલોષ અસંલ્લિજ્જગુણા' ઝ઼ર્ધ્વલોકતિર્યગ્લોકે તત્પ્રતરદ્વયવર્તિન સ્ત્રીન્દ્રિયાઃ અરાંલ્લેયગુણા ભવન્તિ, તેભ્યોઽપિ- 'તેલોક્કે અસંલ્લિજ્જગુણા' ત્રૈલોક્યે-લોકત્રયવર્તિનસ્ત્રીન્દ્રિયાઃ અસંલ્લેયગુણા ભવન્તિ, પ્રાગુક્તયુક્તેઃ, તેભ્યોઽપિ 'અહોલોય તિરિયલોષ અસંલ્લેજ્જગુણા' અધો-

ત્રયવર્ત્તી અસંલ્લ્યાતગુણા અધિક હૈં । ડનકી અપેક્ષા ત્રી અધોલોક-તિર્યગ્લોક મેં અસંલ્લ્યાતગુણા હૈં । અધોલોક-તિર્યગ્લોક કી અપેક્ષા અધોલોક મે સંલ્લ્યાતગુણા હૈં । અધોલોક કી અપેક્ષા તિર્યગ્લોક મેં સંલ્લ્યાતગુણા અધિક હૈં । યહાં ત્રી સર્વત્ર પૂર્વે કથનાણુસાર હી કારણ સમદ્ધ લેના ઑહિષ ।

ત્રીન્દ્રિય ત્રીવોં કા અરૂપવહુત્વ-ક્ષેત્ર કે અણુસાર સવ સે કમ ત્રીન્દ્રિય ત્રીવ ઝ઼ર્ધ્વલોક મે હૈં । ઝ઼ર્ધ્વલોક કી અપેક્ષા ઝ઼ર્ધ્વલોક-તિર્યગ્લોક મે અસંલ્લ્યાતગુણા અધિક હૈં । ઝ઼ર્ધ્વલોક-તિર્યગ્લોક કી અપેક્ષા ત્રૈલોક્ય મેં અસંલ્લ્યાતગુણા હૈં । ત્રૈલોક્ય કી અપેક્ષા અધોલોક

ના કરતા ત્રૈલોક્યવર્તિ ણુવે અસ ણ્યાત ગણા વધારે છે તેના કરતાં પણ અધોલોક-તિર્યકલોકમા અસ ણ્યાત ગણા છે અધોલોક તિર્યકલોક કરતા અધોલોકમા અસ ણ્યાત ગણા છે અધોલોક કરતા તિર્યકલોકમા સ ણ્યાત ગણા વધારે છે અહીં યા પણ અધે ં પહેલા કહેલ કથન પ્રમાણે ં કારણ મમશ લેવું ત્રીન્દ્રિય ણુવેતુ અરૂપવહુત્વ

ક્ષેત્રના અણુસાર ત્રીવોં ણુવે ત્રીન્દ્રિય ણુવ ંવલોકે કમા છે. ંવલોકે કરતા ંવલોક-તિર્યકલોકમા અસ ણ્યાત ગણા વધારે છે. ંવલોક-તિર્યકલોક

लोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनस्त्रीन्द्रिया असंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि 'अहोलोए संखिज्जगुणा' अधोलोके वर्तमानाः त्रीन्द्रियाः संख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि—'तिरियलोए संखिज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमाना स्त्रीन्द्रियाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः ।

अथापर्याप्तक त्रीन्द्रियाणामल्पबहुत्वं प्ररूपयति—'खेत्ताणुवाणं' क्षेत्रानुपातेन क्षेत्रानुसारेण 'सन्वत्थोवा तेऽन्द्रिया अपज्जत्तया' उड्डुलोए' सर्वम्तोक्ताः—सर्वेभ्यो-
ऽल्पाः, त्रीन्द्रिया अपर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोके वर्तमाना भवन्ति, तेभ्योऽपि 'उड्डुल्लोय
तिरियलोए असंखिज्जगुणा' ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनस्त्रीन्द्रिया
अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि—'तेलोक्के असंखिज्जगुणा' त्रैलोक्ये
—लोकत्रयवर्तिनोऽपर्याप्तकास्त्रीन्द्रियाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः,
तेभ्योऽपि 'अहोलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा' अधोलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतर-
द्वयवर्तिनोऽपर्याप्तकास्त्रीन्द्रियाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि
—अहोलोए संखिज्जगुणा' अधोलोके वर्तमाना अपर्याप्तकास्त्रीन्द्रिया संख्येयगुणा
भवन्ति, तेभ्योऽपि 'तिरियलोए संखिज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमाना अपर्याप्तक
त्रीन्द्रियाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः ।

—तिर्यग्लोक मे असंख्यातगुणा है । अधोलोक—तिर्यग्लोक नामक प्रतरों की अपेक्षा अधोलोक मे संख्यातगुणा अधिक है । अधोलोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक मे संख्यातगुणा अधिक है । इस का कारण पूर्ववत् ही है ।

अपर्याप्त त्रीन्द्रियों का अल्पबहुत्व—क्षेत्र की अपेक्षा सब से कम अपर्याप्त त्रीन्द्रिय ऊर्ध्वलोक मे हैं । ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक मे संख्यातगुणा अधिक है । ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक की अपेक्षा त्रैलोक्य मे असंख्यातगुणा हैं । त्रैलोक्य की अपेक्षा अधोलोक—तिर्यग्लोक मे असंख्यातगुणा हैं । अधोलोक—तिर्यग्लोक की अपेक्षा

करता त्रैलोक्यमा असंख्यातगुणा छे त्रैलोक्यना करता अधोलोक—तिर्यग्लोकमा संख्यातगुणा छे, अधोलोकतिर्यग्लोकनामना प्रतरे करता अधोलोकमा संख्यातगुणा वधारे छे अधोलोकना करता तिर्यग्लोकमा संख्यातगुणा वधारे छे तेनु कारण पहुँलाना कथन प्रमाणे न छे तेम समञ्जसु

अपर्याप्तक त्रीन्द्रियोनु अल्प बहुत्व

क्षेत्रणी अपेक्षाशी सौथी ओछा अपर्याप्तक त्रीन्द्रिय ऊर्ध्वलोकमा छे ऊर्ध्वलोक करता ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोकमा असंख्यात गणना वधारे छे ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोक करता त्रैलोक्यमा असंख्यात गणना छे, त्रैलोक्यना करता अधोलोक

अथ पर्याप्तकत्रीन्द्रियाणामल्पबहुत्वमाह—‘खेत्ताणुवाएणं’ क्षेत्रानुपातेन-क्षेत्रानुसारेण, ‘सन्वत्थोवा तेऽदिया पज्जत्तया उड्डुलोए’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्यो-ऽल्पाः, त्रीन्द्रियाः पर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोके वर्तमाना भवन्ति, तेभ्योऽपि—‘उड्डुलोय तिरियलोए असंखेज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके—तत्प्रतरद्वयवर्तिनः पर्याप्तका-स्त्रीन्द्रियाः असंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि ‘तेलोके असंखिज्जगुणा’ त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनः पर्याप्तकत्रीन्द्रिया असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि ‘अहोलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा’ अधोलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरवर्तिनः पर्याप्तकास्त्रीन्द्रिया असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि—‘अहोलोए संखिज्जगुणा’ अधोलोके वर्तमानाः पर्याप्तकास्त्रीन्द्रियाः संख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘तिरियलोए संखिज्जगुणा’ तिर्यग्लोके वर्तमानाः पर्याप्तकास्त्रीन्द्रियाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः ।

अधोलोक मे संख्यातगुणा अधिक हैं । अधोलोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक मे संख्यातगुणा हैं । कारण पूर्ववत् जानना चाहिए ।

पर्याप्तक त्रीन्द्रियों का अल्पबहुत्व-क्षेत्र के अनुसार सब से कम पर्याप्त त्रीन्द्रिय ऊर्ध्वलोक मे हैं । ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक मे असंख्यातगुणा अधिक हैं । ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक की अपेक्षा त्रैलोक्य मे असंख्यातगुणा हैं । त्रैलोक्य की अपेक्षा अधोलोक-तिर्यग्लोक मे असंख्यातगुणा अधिक हैं । अधोलोक-तिर्यग्लोक की अपेक्षा अधोलोक मे संख्यातगुणा अधिक हैं । अधोलोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक मे संख्यातगुणा अधिक हैं । कारण पहले कहे अनुसार जानना चाहिए ।

चौडन्द्रिय जीवों का अल्पबहुत्व-क्षेत्र के अनुसार विचार करने

तिर्यङ्लोकमा अम ज्यात गण्ण वधारे छे अधोलोक तिर्यङ्लोक करता अधोलोकमा अस ज्यातगण्ण वधारे छे अधोलोक करता तिर्यङ्लोकमा स ज्यातगण्ण छे. तेनु कारण पूर्ववत् समञ्च देवु

पर्याप्तक त्रीन्द्रियोनु अल्प बहुत्व

क्षेत्रना कथन प्रमाणे मौथी कम पर्याप्तक त्रीन्द्रिय ऊर्ध्वलोकमा छे. ऊर्ध्वलोकना करता ऊर्ध्वलोक-तिर्यङ्लोकमा अम ज्यात गण्ण वधारे छे ऊर्ध्वलोक तिर्यङ्लोकना करता त्रैलोक्यमा अस ज्यातगण्ण छे त्रैलोक्यना करता अधोलोक तिर्यङ्लोकमा अस ज्यात गण्ण वधारे छे अधोलोक-तिर्यङ्लोकना करता अधोलोकमा स ज्यात गण्ण वधारे छे अधोलोकना करता तिर्यङ्लोकमा स ज्यात गण्ण वधारे छे तेनु कारण पहले कहे अनुसार समञ्च देवु

अथ चतुरिन्द्रियाणामल्पबहुत्वं प्रतिपादयति—‘खेत्ताणुवाणं’ क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण ‘सन्वत्थोवा चउरिदिया जीवा उड्डुलोए’ सर्वस्तोकाः—सर्वभ्यो-
-ज्ज्वाः, चतुरिन्द्रिया जीवा ऊर्ध्वलोके वर्तमाना भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्यो-
-ऽपि ‘उड्डुलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोकरतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिन-
-श्चतुरिन्द्रिया असंख्येयगुणा भवन्ति, युक्तेरुक्तत्वाद्, तेभ्योऽपि ‘तेलोक्के असं-
-खिज्जगुणा’ त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनश्चतुरिन्द्रिया असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्त-
-युक्तेः तेभ्योऽपि—‘अहोलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा’ अधोलोकरतिर्यग्लोके
-तत्प्रतरद्वयवर्तिनश्चतुरिन्द्रियाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि
-‘अहोलोए संखिज्जगुणा’ अधोलोके वर्तमानाश्चतुरिन्द्रियाः संख्येयगुणा भवन्ति
-प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योपि ‘तिरियलोए संखिज्जगुणा’ तिर्यग्लोके वर्तमानाश्चतुरि-
-न्द्रियाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः,

अथापर्याप्तचतुरिन्द्रियाणामल्पबहुत्वमाह—‘खेत्ताणुवाणं’ क्षेत्रानुपातेन—
-क्षेत्रानुसारेण, ‘सन्वत्थोवा चउरिदिया जीवा अपज्जत्तया उड्डुलोए’ सर्वस्तोकाः—
-पर सब से कम चौइन्द्रिय जीव ऊर्ध्वलोक मे हैं । ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्-
-लोक नामक प्रतरों मे असंख्यातगुणा अधिक हैं । ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्-
-लोक की अपेक्षा त्रिलोकवर्त्ती असंख्यातगुणा अधिक है । त्रिलोक-
-वर्त्तियों की अपेक्षा अधोलोक—तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा अधिक
-हैं । उनकी अपेक्षा अधोलोक में संख्यातगुणा अधिक हैं और अधो-
-लोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक मे संख्यातगुणा अधिक है ।

अपर्याप्तक चतुरिन्द्रिय जीवों का अल्पबहुत्व—क्षेत्र की अपेक्षा से
-सब से कम चौइन्द्रिय अपर्याप्तक जीव ऊर्ध्वलोक मे हैं । ऊर्ध्वलोक
-की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक मे असंख्यातगुणा अधिक हैं ।

औ षन्द्रिय ल्पेनु अल्प बहुत्व

क्षेत्र अनुसार विचार करवाथी सौथी ज्ञोछा यार षन्द्रियवाणा ल्पे
-उर्ध्वलोकमा छे उर्ध्वलोक करता उर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक नामना प्रतरेमा असं-
-ख्यातगुणा वधारे छे उर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक करता त्रैलोक्यमा असंख्यातगुणा
-छे, त्रिलोक्यवर्त्ती करता अधोलोक—तिर्यग्लोकमा असंख्यातगुणा वधारे छे,
-तेना करता अधोलोकमा संख्यातगुणा वधारे छे, अने अधोलोक करता
-तिर्यग्लोकमा संख्यातगुणा वधारे छे,

अपर्याप्तक चतुरिन्द्रिय ल्पेनु अल्प बहुत्व

क्षेत्रनी अपेक्षाथी सौथी ज्ञोछा औषन्द्रिय अपर्याप्तक ल्पे उर्ध्वलोकमा
-छे उर्ध्वलोक करता उर्ध्वलोक—तिर्यग्लोकमा असंख्यातगुणा वधारे छे, उर्ध्व-

अथ पर्याप्तकत्रीन्द्रियाणामल्पबहुत्वमाह—‘खेत्तानुवाएणं’ क्षेत्रानुपातेन-
क्षेत्रानुसारेण, ‘सन्वत्योवा तेइदिया पज्जत्तया उड्डलोए’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्यो-
ऽल्पाः, त्रीन्द्रियाः पर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोके वर्तमाना भवन्ति, तेभ्योऽपि—‘उड्डल्लोय
तिरियलोए असंखेज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके—तत्प्रतरद्वयवर्तिनः पर्याप्तका-
स्त्रीन्द्रियाः असंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तैः, तेभ्योऽपि ‘तेलोके असंखिज्ज-
गुणा’ त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनः पर्याप्तकत्रीन्द्रिया असंख्येयगुणा भवन्ति,
प्रागुक्तयुक्तैः, तेभ्योऽपि ‘अटोलोयतिरियलोए असंसिज्जगुणा’ अधोलोकतिर्यग्लो-
के तत्प्रतरवर्तिनः पर्याप्तकास्त्रीन्द्रिया असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि—
‘अटोलोए संसिज्जगुणा’ अधोलोके वर्तमानाः पर्याप्तकास्त्रीन्द्रियाः संख्येयगुणा
भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘तिरियलोए संसिज्जगुणा’ तिर्यग्लोके वर्तमानाः पर्याप्तकां
स्त्रीन्द्रियाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तैः ।

अधोलोक मे संख्यातगुणा अधिक हैं । अधोलोक की अपेक्षा तिर्यग्लो-
क मे संख्यातगुणा हैं । कारण पूर्ववत् जानना चाहिए ।

पर्याप्तक त्रीन्द्रियों का अल्पबहुत्व-क्षेत्र के अनुसार सद्य से कम
पर्याप्त त्रीन्द्रिय ऊर्ध्वलोक मे हैं । ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-
तिर्यग्लोक मे असंख्यातगुणा अधिक हैं । ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक की
अपेक्षा त्रैलोक्य मे असंख्यातगुणा हैं । त्रैलोक्य की अपेक्षा अधोलोक
—तिर्यग्लोक मे असंख्यातगुणा अधिक हैं । अधोलोक-तिर्यग्लोक
की अपेक्षा अधोलोक मे संख्यातगुणा अधिक हैं । अधोलोक की
अपेक्षा तिर्यग्लोक मे संख्यातगुणा अधिक हैं । कारण पहले कहे
अनुसार जानना चाहिए ।

चौइन्द्रिय जीवों का अल्पबहुत्व-क्षेत्र के अनुसार विचार करने

तिर्यकलोकमा अस ज्जात गण्णा वधारे छे अधोलोक तिर्यग्लोक करता अधे-
लोकमा अस ज्जातगण्णा वधारे छे अधोलोक करता तिर्यकलोकमा स ज्जातगण्णा
छे तेनु कारण पूर्ववत् समञ्च देवु’

पर्याप्तक त्रीन्द्रियेषु अल्प बहुत्व

क्षेत्रना कथन प्रमाणे सौथी कम पर्याप्तक त्रीन्द्रिय उर्ध्वलोकमा छे उर्ध्व
लोकना करता उर्ध्वलोक-तिर्यकलोकमा अस ज्जात गण्णा वधारे छे उर्ध्वलोक
तिर्यकलोकना करता त्रैलोक्यमा अस ज्जातगण्णा छे त्रैलोक्यना करता अधोलोक
तिर्यकलोकमा अस ज्जात गण्णा वधारे छे अधोलोक-तिर्यक लोकना करता
अधोलोकमा स ज्जात गण्णा वधारे छे अधोलोकना करता तिर्यकलोकमा स ज्जात
गण्णा वधारे छे, तेनु कारण पहले कहे अनुसार समञ्च देवु’

अथ चतुरिन्द्रियाणामल्पवहुत्वं प्रतिपादयति—‘खेत्ताणुवाणं’ क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण ‘सन्वत्थोवा चउरिंदिया जीवा उड्डुलोए’ सर्वस्तोकाः—सर्वभ्यो-
-ऽल्पाः, चतुरिन्द्रिया जीवा ऊर्ध्वलोके वर्तमाना भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्यो-
-ऽपि ‘उड्डुलोयतिरियलोए असंसिज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोकरतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिन-
-श्चतुरिन्द्रिया असंख्येयगुणा भवन्ति, युक्तेरुक्तत्वात्, तेभ्योऽपि ‘तेलोक्के असं-
-सिज्जगुणा’ त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनश्चतुरिन्द्रिया अभ्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्त-
-युक्तेः तेभ्योऽपि—‘अहोलोयतिरियलोए असंसिज्जगुणा’ अधोलोकरतिर्यग्लोके
-तत्प्रतरद्वयवर्तिनश्चतुरिन्द्रियाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि
-‘अहोलोए संसिज्जगुणा’ अधोलोके वर्तमानाश्चतुरिन्द्रियाः संख्येयगुणा भवन्ति
-प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योपि ‘तिरियलोए संसिज्जगुणा’ तिर्यग्लोके वर्तमानाश्चतुरि-
-न्द्रियाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः,

अथापर्याप्तचतुरिन्द्रियाणामल्पवहुत्वमाह—‘खेत्ताणुवाणं’ क्षेत्रानुपातेन—
-क्षेत्रानुसारेण, ‘सन्वत्थोवा चउरिंदिया जीवा अपज्जत्ता उड्डुलोए’ सर्वस्तोकाः—
-पर सब से कम चौइन्द्रिय जीव ऊर्ध्वलोक मे हैं । ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्-
-लोक नामक प्रतरों मे असंख्यातगुणा अधिक है । ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्-
-लोक की अपेक्षा त्रिलोकवर्ती असंख्यातगुणा अधिक हैं । त्रिलोक-
-वर्तियों की अपेक्षा अधोलोक-तिर्यग्लोक ने असंख्यातगुणा अधिक
-हैं । उनकी अपेक्षा अधोलोक में संख्यातगुणा अधिक है और अधो-
-लोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक मे संख्यातगुणा अधिक है ।

अपर्याप्तक चतुरिन्द्रिय जीवों का अल्पवहुत्व-क्षेत्र की अपेक्षा से
-सब से चौइन्द्रिय अपर्याप्तक जीव ऊर्ध्वलोक मे हैं । ऊर्ध्वलोक
-की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा अधिक हैं ।

यौ धन्द्रिय लोवानु अल्प गहुत्व

क्षेत्र अनुसार विचार करवाथी सौथी ओछा यार धन्द्रियवाणा लोवा
-उर्ध्वलोकमा छे उर्ध्वलोक करता उर्ध्वलोक-तिर्यकलोक नामना प्रतरोंमा असं-
-ख्यातगुणा वधारे छे उर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक करता त्रैलोक्यमा असंख्यातगुणा
-छे त्रिलोकवर्तियों करता अधोलोक-तिर्यकलोकमा असंख्यातगुणा वधारे छे
-तेना करता अधोलोकमा संख्यातगुणा वधारे छे, अने अधोलोक करता
-तिर्यकलोकमा संख्यातगुणा वधारे छे,

अपर्याप्तक चतुरिन्द्रिय लोवानु अल्प गहुत्व

क्षेत्रनी अपेक्षाथी सौथी ओछा यौधन्द्रिय अपर्याप्तक लोवा उर्ध्वलोकमा
-छे उर्ध्वलोक करता उर्ध्वलोक-तिर्यकलोकमा असंख्यातगुणा वधारे छे उर्ध्व-

सर्वेभ्योऽल्पाः चतुरिन्द्रिया जीवाः अपर्याप्तका ऊर्ध्वलोके वर्तमाना भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि—‘उद्धूलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोकतिर्यग्-लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनश्चतुरिन्द्रिया अपर्याप्तका असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्त-युक्तेः तेभ्योपि—‘तेलोक्के असंखिज्जगुणा’ त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनश्चतुरिन्द्रिया अपर्याप्तका असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि—‘अधोलोयतिरिय-लोए असंखिज्जगुणा’ अधोलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनश्चतुरिन्द्रिया अपर्या-प्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि—‘अधोलोए संखिज्जगुणा’ अधोलोके वर्तमानाश्चतुरिन्द्रिया अपर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योपि ‘तिरियलोए संखेज्जगुणा’ तिर्यग्लोके वर्तमानाश्चतुरिन्द्रिया अपर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः

अथ पर्याप्तक चतुरिन्द्रियाणामल्पबहुत्वं प्रतिपादयति—‘खेत्ताणुवाएणं’ क्षेत्रा-नुपातेन—क्षेत्रानुसारेण ‘सन्वत्थोवा चउरिदिया जीवा पज्जत्तगा उद्धूलोए’ सर्व-स्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाश्चतुरिन्द्रिया जीवाः पर्याप्तका ऊर्ध्वलोके वर्तमाना भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि—‘उद्धूलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोकतिर्य-ग्लोके—तत्प्रतरद्वयवर्तिनश्चतुरिन्द्रियाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्त-युक्तेः, तेभ्योऽपि ‘तेलोक्के असंखिज्जगुणा’ त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनश्चतुरिन्द्रियाः

ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक की अपेक्षा त्रैलोक्य मे असंख्यातगुणा अधिक हैं। त्रैलोक्य की अपेक्षा अधोलोक-तिर्यग्लोक मे असंख्यातगुणा अधिक हैं। उनकी अपेक्षा अधोलोक मे संख्यातगुणा अधिक हैं। अधोलोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक मे संख्यातगुणा अधिक हैं।

पर्याप्त चौइन्द्रिय जीवों का अल्पबहुत्व-क्षेत्र के अनुसार सब से कम पर्याप्त चौइन्द्रिय जीव ऊर्ध्वलोक में हैं। ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं। ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक

लोक-तिर्यग्लोक करता त्रैलोक्यमा अस ज्ञातगणुा वधारे छे त्रैलोक्यना करता अधोलोक-तिर्यग्लोकमा अस ज्ञातगणुा वधारे छे तेना करता अधोलोकमा स ज्ञातगणुा वधारे छे अधोलोकना करता तिर्यग्लोकमा स ज्ञातगणुा वधारे छे

पर्याप्त चार इन्द्रियवाणा लयेनु अल्प बहुत्व

क्षेत्रना अनुसार सौथी ओछा पर्याप्त चार इन्द्रियवाणा लयेनु उर्ध्वलोकमा छे उर्ध्वलोक करता उर्ध्वलोक-तिर्यग्लोकमा अस ज्ञात गणुा छे. उर्ध्वलोक तिर्यग्लोकना करता त्रैलोक्यमा अस ज्ञातगणुा छे त्रैलोक्यना करता अधोलोक तिर्यग्लोकमा अस ज्ञात गणुा छे अधोलोकतिर्यग्लोक करता तिर्यग्लोकमा

पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि 'अधोलोयतिरिय-
लोए असंखिज्जगुणा' अधोलोकतिर्यग्लोके—तत्रतरद्वयवर्तिनश्चतुरिन्द्रियाः पर्या-
प्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, युक्तेरुक्तत्वात्, तेभ्योऽपि—'अधोलोए संखेज्ज-
गुणा' अधोलोके वर्तमानाश्चतुरिन्द्रियाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्यो-
ऽपि—'तिरियलोए संखिज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमानाश्चतुरिन्द्रियाः पर्याप्तकाः
संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः ॥सू० ३३॥

पञ्चेन्द्रियाल्पवहुत्तवक्तव्यता—

मूलम्—खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा पंचिंदिया तेल्लोके उड्डु-
लोयतिरियलोए संखिज्जगुणा, अधोलोयतिरियलोए संखिज्ज-
गुणा, अधोलोए संखिज्जगुणा, तिरियलोए असंखेज्जगुणा ।
खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा । पंचिंदिया अपज्जत्तया तेल्लोक्के,
उड्डुलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा, अधोलोयतिरियलोए संखेज्ज-
गुणा, उड्डुलोए संखिज्जगुणा, अधोलोए संखिज्जगुणा, तिरिय-
लोए असंखेज्जगुणा, खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा पंचिंदिया पज्जत्ता
उड्डुलोए, उड्डुलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा, तेल्लोक्के संखि-
ज्जगुणा, अधोलोयतिरियलोए संखिज्जगुणा, अधोलोए संखे-
ज्जगुणा, तिरियलोए असंखिज्जगुणा ॥सू० ३४॥

छाया—क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः पञ्चेन्द्रियास्त्रैलोक्ये, ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके
संख्येयगुणाः, अधोलोकतिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, ऊर्ध्वलोके संख्येयगुणाः,

की अपेक्षा त्रैलोक्य में असंख्यातगुणा हैं । त्रैलोक्य की अपेक्षा अधो-
लोक-तिर्यग्लोक में अशाख्यातगुणा हैं । अधोलोक-तिर्यग्लोक की
अपेक्षा तिर्यग्लोक में संख्यातगुणा अधिक हैं । इन सब की न्यूनाधि-
कता का कारण पूर्ववत् ही समझ लेना चाहिए ॥३३॥

पंचेन्द्रियों का अल्पवहुत्तव

शब्दार्थ—(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सव्वत्थोवा पंचिं-

स यथात गण्ठा वधारे छे या गधाना न्यूनाधिक पण्णानु कारण पडेवा छडेवाभा
आवी गयेद छे अे न प्रमाणुतु समणु देवु . ॥ सू. ३३ ॥

पञ्चेन्द्रियातु अल्प वहुत्तव

शब्दार्थ—(खेत्ताणुवाएण) क्षेत्रना प्रमाणे (सव्वत्थोवा पंचिंदिया तेल्लोक्के)

अधोलोके संख्येयगुणाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः पञ्चेन्द्रिया अपर्याप्तकास्त्रैलोक्ये, ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, अधोलोक तिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, ऊर्ध्वलोके संख्येयगुणाः, अधोलोके संख्येयगुणाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः पञ्चेन्द्रियाः पर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोके, ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये संख्येयगुणाः, अधोलोक

दिया तेलोक्के) सब से कम पंचेन्द्रिय त्रिलोक स्पर्शा हैं (उद्धूलोय-तिरियलोए संखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक मे संख्यातगुणा हैं (अहोलोयतिरियलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक-तिर्यग्लोक में संख्यात गुणा हैं (उद्धूलोए संखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक में संख्यातगुणा है (अहोलोए संखेज्जगुणा) अधोलोक में संख्यातगुणा है (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा है ।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सव्वत्थोवा पंचिदिया अपज्जत्तया तिलोक्के) सब से कम अपर्याप्त पंचेन्द्रिय त्रिलोकस्पर्शा हैं (उद्धूलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में संख्यात गुणा हैं (अहोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा) अधोलोक-तिर्यग्लोक में संख्यातगुणा हैं (उद्धूलोए संखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक में संख्यातगुणा हैं (अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक में संख्यातगुणा हैं (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्लोक मे असंख्यातगुणा हैं ।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सव्वत्थोवा पंचिदिया पज्जत्ता उद्धूलोए) सब से कम पर्याप्त पंचेन्द्रिय ऊर्ध्वलोक मे हैं (उद्धूलोयतिरि-

सौधी ओछा पंचेन्द्रिये त्रिलोक स्पर्शा' छे. (उद्धूलोयतिरियलोए सखिज्ज गुणा) उर्ध्वलोक तिर्यकलोकभा स भ्यात गणु छे (अहोलोयतिरियलोए सखि-ज्जगुणा) अधोलोक तिर्यकलोकभा स भ्यात गणु छे. (उद्धूलोए स खिज्जगुणा) उर्ध्वलोकभा स भ्यात गणु छे (अहोलोए स खिज्जगुणा) अधोलोकभा स भ्यात गणु छे, (तिरियलोए अस खिज्जगुणा) तिर्यकलोकभा अस भ्यात गणु छे

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र अनुसार (सव्वत्थोवा पंचिदिया अपज्जत्तया तेलोक्के) सौधी ओछा अपर्याप्त पंचेन्द्रिय त्रिलोक स्पर्शा' छे (उद्धूलोयतिरियलोए स खिज्जगुणा) उर्ध्वलोक-तिर्यकलोकभा स भ्यातगणु छे (अहोलोए तिरियलोए स खिज्जगुणा) अधोलोक-तिर्यकलोकभा स भ्यातगणु छे (उद्धूलोए स खिज्जगुणा) उर्ध्वलोकभा स भ्यातगणु छे. (अहोलोए स खिज्जगुणा) अधोलोकभा स भ्यात-गणु छे (तिरियलोए अस खिज्जगुणा) तिर्यकलोकभा अस भ्यातगणु छे

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र अनुसार (सव्वत्थोवा पंचिदिया पज्जत्ता उद्धूलोए) सौधी ओछा पर्याप्त पंचेन्द्रिय उर्ध्वलोकभा छे. (उद्धूलोयतिरियलोए असखेज्ज-

तिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, अधोलोके संख्येयगुणाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः ॥

टीका—अथ पञ्चेन्द्रियाणामल्पवहुत्वमाह—‘खेत्ताणुवाएणं’ क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण प्ररूप्यमाणाः ‘सव्वत्थोवा पंचिदिया तेलोक्के’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योल्पाः पञ्चेन्द्रियास्त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनो भवन्ति, अधोलोकाद्धर्बलोके, ऊर्ध्वलोकाद्वाऽधोलोके अन्यस्त्रायानां पञ्चेन्द्रियायुगनुभवताम् ईल्लिकागत्या समुत्पद्यमानानां, पञ्चेन्द्रियाणाञ्चोर्ध्वलोकाऽधोलोके, अधोलोकाद्धर्बलोके वा पञ्चेन्द्रियत्वेन अन्यकायत्वेन वा समुत्पित्स्वर्ना मारणान्तिकसमुद्घातेन समवहतानां समुद्घातवशाच्चोत्पत्तिदेशं यावत् प्रक्षिप्तात्मप्रदेशदण्डानां पञ्चेन्द्रियायुः प्रतिसंवे-

यलोए असंखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक मे अमंख्यातगुणा हँ । (तेलोकके संखेज्जगुणा) त्रैलोक्य में संख्यातगुणा हँ (अहोलोयतिरियलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक-तिर्यग्लोक में संख्यातगुणा हँ (अहोलोए संखेज्जगुणा) अधोलोक में संख्यातगुणा हँ (तिरियलोए असंखिज्जगुणा) तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हँ ।

अब पंचेन्द्रिय जीवों का अल्पवहुत्व कहते हैं—

टीकार्थ—क्षेत्र के अनुसार प्ररूपणा की जाय तो सब से कम पंचेन्द्रिय जीव त्रिलोकस्पर्शी हैं, क्योंकि वही जीव तीनों लोकों को स्पर्श करते हैं जो ऊर्ध्वलोक से अधोलोक में या अधोलोक से ऊर्ध्वलोक में उत्पन्न हो रहे हों, पंचेन्द्रिय की आयु का अनुभव कर रहे हों और ईल्लिकागति से उत्पन्न हो रहे हों, अथवा जो पंचेन्द्रिय ऊर्ध्वलोक से अधोलोक में या अधोलोक से ऊर्ध्वलोक में पंचेन्द्रिय रूप से या अन्य रूप से उत्पन्न होते हुए मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हों और अपने उत्पत्तिदेश पर्यन्त जिन्होंने आत्मप्रदेशों को फैलाया हो

गुणा) उर्ध्वलोक तिर्यग्लोकमा असंख्यातगुणा छे. (तेलोकके संखेज्जगुणा) त्रैलोक्यमा संख्यातगुणा छे (अहोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा) अधोलोक-तिर्यग्लोकमा संख्यातगुणा छे (अहोलोए संखेज्जगुणा) अधोलोकमा संख्यातगुणा छे (तिरियलोए असंखिज्जगुणा) तिर्यग्लोकमा असंख्यातगुणा छे

टीकार्थ—इवे सूत्रकार पंचेन्द्रिय एवेना । अल्पवहुत्वतु कथन करे छे.

क्षेत्र अनुसार प्ररूपणा करवामा आवे तो सौधी ओछा पंचेन्द्रिय एवो त्रिलोक स्पर्शी छे केभके ओ न एवे त्रिणे लोकाने स्पर्श करे छे के न उर्ध्वलोकधु अधोलोकमा अथवा अधोलोकधु उर्ध्वलोकमा उत्पन्न थता छेय, पंचेन्द्रियेना आयुधने अनुभव करी रहैल छेय अने धलिका गतिथी उत्पन्न

दयमानानां त्रैलोक्यसंस्पर्शनात् तेषामल्पत्वाच्च सर्वस्तोऽन्वं भवति, तेभ्योपि-
 'उद्धूलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोकं तिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनः पञ्चे-
 न्द्रियाः संख्येयगुणा भवन्ति, तेषां प्रचुरतराणामुपपातेन समुद्घातेन वा प्रागुक्त
 प्रतरद्वयसंस्पर्शसद्भावात्, तेभ्योऽपि 'अधोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा' अधो-
 लोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयसंस्पर्शिनः पञ्चेन्द्रियाः संख्येयगुणा भवन्ति तेषाम्
 अतिप्रचुरतमानामुपपातसमुद्घाताभ्यां तत्प्रतरद्वयसंस्पर्शनात्संख्येयगुणत्वं भवति
 तेभ्योऽपि 'उद्धूलोए संखेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोकं वर्तमानाः पञ्चेन्द्रियाः संख्येय-
 गुणा भवन्ति, तत्र वैमानिकदेवानां पञ्चेन्द्रियाणां सद्भावात् संख्येयगुणत्वं
 भवति, तेभ्योऽपि-'अधोलोए संखेज्जगुणा' अधोलोके वर्तमानाः पञ्चेन्द्रियाः
 संख्येयगुणा भवन्ति, तत्र वैमानिकदेवापेक्षया संख्येयगुणानां नैरधिक्याणां सद्भा-
 और पंचेन्द्रियायु का वेदन कर रहे हों, ऐसे जीव अल्प होते हैं, अत-
 एव उन्हें सब से कम कहा गया है।

त्रिलोकस्पर्शी पंचेन्द्रिय जीवों की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक
 नामक दो प्रतरों में रहने वाले पंचेन्द्रिय संख्यातगुणा अधिक हैं,
 क्योंकि उपपात या समुद्घात के द्वारा इन प्रतरों का स्पर्श करने वाले
 अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। इन की अपेक्षा भी अधोलोक-तिर्यग्लोक
 नामक दो प्रतरों का स्पर्श करने वाले पंचेन्द्रिय संख्यातगुणा अधिक
 हैं, क्योंकि उपपात एवं समुद्घात के द्वारा इन प्रतरों का स्पर्श करने
 वाले जीव बहुत अधिक होते हैं। उन की अपेक्षा भी ऊर्ध्वलोक में
 संख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि वहां पंचेन्द्रिय वैमानिक देवों का
 सद्भाव है। उन की अपेक्षा भी अधोलोक में संख्यातगुणा अधिक

यता होय, अथवा जे पञ्चेन्द्रिय ऊर्ध्वलोकभाया अधोलोकभा अथवा अधो-
 लोकभाया ऊर्ध्वलोकभा पञ्चेन्द्रिय पण्णाथी अथवा अन्य इये उत्पन्न यता थका
 भाखण्णान्तिक समुद्घात करी रहेल होय अने पोताना उत्पत्तिदेश पर्यन्त जेओअजे
 आत्मप्रदेशोने श्वापेल होय अने पञ्चेन्द्रियना आशुध्यतु वेदन करी रहेल होय
 जेवा जेयो अइय होय छे तेथीज तेमने सौथी कग छडेवाभा आवेल छे

त्रिलोक स्पर्शी पञ्चेन्द्रिय जेयो करता ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामना जे
 प्रतेशेभा रहैवावाणा पञ्चेन्द्रिय सख्यात गण्णा अधिक छे केमके उपपात अने
 समुद्घात द्वारा आ प्रतेशेना स्पर्श करवावाणा अपेक्षाकृत अधिक होय
 छे तेना करता पण्ण अधोलोक-तिर्यग्लोक नामना जे प्रतेशेना स्पर्श करवा
 वाणा पञ्चेन्द्रियो सख्यात गण्णा वधारे छे केमके उपपात अने समुद्घात द्वारा
 आ प्रतेशेना स्पर्श करवावाणा जेयो धण्णा वधारे होय छे तेना करता पण्ण
 ऊर्ध्वलोकभा सख्यात गण्णा वधारे छे केमके त्या पञ्चेन्द्रिय वैमानिक देवोने

वात्, तेभ्योऽपि—तिरियलोए असंखेज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमानाः पञ्चेन्द्रियाः असंख्येयगुणा भवन्ति समूर्च्छिमजलचरखेचरादीनां व्यन्तरज्योतिष्काणां समूर्च्छिममनुष्याणाञ्च पञ्चेन्द्रियाणां तत्र सद्भावेनासंख्येयगुणत्वं भवति,

अथापर्याप्तकपञ्चेन्द्रियाणामल्पबहुत्वं प्रतिपादयति—'खेत्ताणुवापणं' क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण 'सन्वत्थोवा पंचिदिया अपज्जत्तया तेलाक्के' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, पञ्चेन्द्रियाः अपर्याप्तकाः त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनो भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि 'उड्डुल्लोयतिरियलोए संखेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके—तत्प्रतरद्वयवर्तिनः पञ्चेन्द्रिया अपर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि 'अधोलोयतिरियलोए संखिज्जगुणा' अधोलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनोऽपर्याप्तकाः पञ्चेन्द्रियाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः,

हैं, क्योंकि अधोलोक में वैमानिकों की अपेक्षा संख्यातगुणा अधिक नारक विद्यमान हैं। अधोलोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में वर्तमान पंचेन्द्रिय असंख्यातगुणा हैं, क्यों कि तिर्यग्लोक में जलचर, खेचर, भूचर, व्यन्तर, ज्योतिष्क तथा समूर्च्छिम मनुष्य आदि पंचेन्द्रिय जीव बहुत बड़ी संख्या में हैं।

अपर्याप्तक पंचेन्द्रिय जीवों का अल्पबहुत्व-क्षेत्र के अनुसार सब से कम पंचेन्द्रिय अपर्याप्त त्रिलोकस्पर्शी है, इस विषय में युक्ति पूर्ववत् ही समझना चाहिए। त्रिलोकस्पर्शी पंचेन्द्रियों की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोरु में संख्यातगुणा अधिक हैं। उनकी अपेक्षा अधोलोक-तिर्यग्लोक में संख्यातगुणा अधिक हैं। उनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में संख्यातगुणा अधिक है। ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में संख्यात-

सङ्ख्याव रहे छे तेना करता पणु अधोलोका सख्यात गणुा वधारे छे केभके अधोलोका वैमानिकेना करता सख्यात गणुा वधारे नारके विद्यमान छे अधोलोका करता तिर्यग्लोका सख्यात गणुा पञ्चेन्द्रिये असख्यात गणुा छे केभके तिर्यग्लोका जलचर-खेचर-भूचर-व्यन्तर-ज्योतिष्क तथा समूर्च्छिम मनुष्य विगेरे पञ्चेन्द्रिय एवे घणी मोटि सख्यात छे.

अपर्याप्त पञ्चेन्द्रिय एवेनु अल्प गणुत्व

क्षेत्रना अनुसार सौथी ओछा पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त त्रिलोक स्पर्शी छे आ सधनी युक्ति पढेला ने प्रमाणे कडेवामा आवेल छे तेन प्रमाणे समजवी त्रिलोकस्पर्शी पञ्चेन्द्रियेना करता ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोका सख्यात गणुा वधारे छे तेना करता अधोलोक-तिर्यग्लोका सख्यातगणुा वधारे छे, तेना करता ऊर्ध्वलोकमा सख्यात गणुा वधारे छे, ऊर्ध्वलोक करता अधोलोकमा

तेभ्योऽपि—‘उडूलोए संखिज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोके वर्तमानाः पञ्चेन्द्रियाः अपर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योपि ‘अधोलोए संखेज्जगुणा’ अधोलोके वर्तमाना अपर्याप्तकपञ्चेन्द्रियाः संख्येयगुणा भवन्ति युक्तैरुक्तत्वात्, तेभ्योऽपि—‘तिरियलोए असंखिज्जगुणा’ तिर्यग्लोके वर्तमानाः पञ्चेन्द्रिया अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः ।

अथ पर्याप्तकपञ्चेन्द्रियाणामल्पबहुत्वमाह—‘खेत्ताणुवाएणं’ क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण प्ररूप्यमाणाः ‘सव्वत्थोवा पंचिदिया पज्जत्ता उडूलोए’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः पञ्चेन्द्रियाः पर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोके वर्तमाना भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः प्रायो वैमानिकानामेव सद्भावात् तेभ्योऽपि—‘उडूलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके—तत्प्रतरद्वयवर्तिनः पर्याप्तकपञ्चेन्द्रियाः असंख्येयगुणा भवन्ति उपर्युक्तप्रतरद्वयसमीपवर्ति ज्योतिष्कास्तदधिष्ठित क्षेत्रवर्तिवानव्यन्तरपञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चो वैमानिकवानव्यन्तरज्योतिष्कविधाधरचारणश्रुति पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोर्ध्वलोके तिर्यग्लोके च गमनागमने कुर्वन्तः उर्ध्वलोक-

गुणा अधिक हैं और अधोलोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा अधिक हैं । इस अल्पबहुत्व में पूर्ववत् ही कारण समझ लेना चाहिए ।

पर्याप्तक पंचेन्द्रियों का अल्पबहुत्व—सब से कम पर्याप्त पंचेन्द्रिय ऊर्ध्वलोक में हैं, क्योंकि वहाँ प्रायः सिर्फ वैमानिक देव ही रहते हैं । उनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा अधिक हैं । उनकी अपेक्षा त्रिलोकस्पर्शी पर्याप्त पंचेन्द्रिय संख्यातगुणा अधिक हैं । क्योंकि जब अधोलोक में स्थित भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क, वैमानिक या विधाधर वैक्रिय समुद्घात करते हैं और तथाविध विशिष्ट प्रयत्न के द्वारा ऊर्ध्वलोक में अपने आत्मप्रदेशों को फैलाते हैं, तब वे तीनों लोकों का स्पर्श करते हैं । इस कारण उन्हें

संख्यात गणना वधाये छे, अने अधोलोकना करता तिर्यग्लोकमा असंख्यात गणना वधाये छे आ अल्प बहुत्वमा तेनु कारण पडेल्लो कह्वा अनुसार न छे

पर्याप्त पंचेन्द्रिय अल्प बहुत्व

सौथी ओछा पर्याप्त पंचेन्द्रिय ऊर्ध्वलोकमा छे, केमके त्या प्रायः वैमानिक देवान् रहे छे तेना करता ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोकमा असंख्यात गणना वधाये छे तेना करता त्रिलोक स्पर्शी पर्याप्त पंचेन्द्रिय संख्यात गणना वधाये छे केमके अधोलोकमा रहेवावाणा भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क, वैमानिक अथवा विधाधर अन्यारे वैक्रिय समुद्घात करे छे अने तेना प्रदर्शना विशेष प्रयत्न द्वारा ऊर्ध्वलोकमा पोताना आत्म प्रदेशाने फैलावे छे, त्यारे तेओ त्रिलोकाने स्पर्श

तिर्यग्लोकप्रतरद्वयं संस्पृशन्ति, तेभ्योऽपि 'तेल्लोकं संत्विज्जगुणा' त्रैलोक्ये-
लोकत्रयवर्तिनः पर्याप्तरूपञ्चेन्द्रियाः संस्पृश्यगुणा भवन्ति, भवनपति नानव्यन्तर-
ज्योतिष्कवैमानिहानां विद्याधराणा वाऽधोलोकस्थानाम् भ्रमणसमुद्घातसमव-
हतानां तथाविधा प्रयत्नविशेषवजात् ऊर्ध्वलोकं प्रक्षिन्तामप्रदेवदण्डाना लोकरत्रय-
संस्पर्शनात् संस्पृश्यगुणत्वं तेषामुपपद्यते, तेभ्योऽपि- 'अधोलोयतिरियग्लोए
संखेज्जगुणा' अधोलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनः पर्याप्तरूपञ्चेन्द्रियाः संस्पृ-
श्यगुणा भवन्ति तत्र वहनां नानव्यन्तराणा ररयानप्रत्यासप्रतया तिर्यग्लोके
ऊर्ध्वलोकं वा भवनपतीनाम् अगोलौकिकग्रामेषु भगवतां समवसग्णादौ अधो-
लोके क्रीडार्थं च गमनागमनरूपेण, समुद्रेषु केषाञ्चित्त्रैन्द्रियतिरिथां स्वस्थान
प्रत्यासन्नतया केषाञ्चित् तदधिष्ठितक्षेत्राश्रितत्वेन उपर्युक्तप्रतरद्वयसंस्पर्शनात्

संख्यातगुणा कहा गया है। त्रिलोकस्पर्शी पर्याप्त पञ्चेन्द्रियो की अपेक्षा
अधोलोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में संख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि
ये प्रतर वान-व्यन्तर देवों के स्वस्थान से समीप वर्ती हैं, अतएव
जब वे तिर्यग्लोक या ऊर्ध्वलोक में जाते हैं तो इन प्रतरों का स्पर्श
करते हैं। भवनपति देव अधोलौकिक ग्रामों में तीर्थकर के समवस-
रण आदि में या क्रीडा के लिए जब आते जाते हैं तो वे भी इन
प्रतरों का स्पर्श करते हैं। समुद्रवर्ती किन्हीं-किन्हीं पंचेन्द्रिय तिर्यचों
के स्वस्थान से सन्निकट होने के कारण और किन्हीं-किन्हीं के वहीं
रहने के कारण उक्त दोनों प्रतरों का स्पर्श होता है, अतएव इन्हें
संख्यातगुणा कहा है।

करे छे तेथी तेजोने स ज्यात गण्ठा कडेवामा आवेल छे त्रिलोक स्पर्शी
पर्याप्त पञ्चेन्द्रियोना करता अधोलोक-तिर्यकलोक नामना प्रतरेशमा स ज्यात
गण्ठा कडेवामा आवेल छे त्रिलोकस्पर्शी पर्याप्त पञ्चेन्द्रियोना करता अधोलोक
तिर्यकलोक नामना प्रतरेशमा स ज्यात गण्ठा वधारे छे केमडे प्रतरेशमा वान-
व्यन्तर देवो स्वस्थानथी समीपमा छे तेथीन न्यारे तेजो तिर्यकलोक अथवा
ऊर्ध्वलोकमा न्य छे त्यारे तेजो या प्रतरेशमा स्पर्श करे छे भवनपति देवो
अधोलोकवर्ति गामेशमा तीर्थ करना समवसरण विशेषमा अथवा क्रीडा करवा
भाटे न्य छे, अने आवे छे. त्यारे तेजो पण्ठा या प्रतरेशमा स्पर्श करे छे.
समुद्रवर्ति कोठ कोठ पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोना स्वस्थान समीपमा होवथी उक्त
जे अने प्रतरेशमा स्पर्श थाय छे तेथीन तेने स ज्यात गण्ठा कडेल छे.
अधोलोक तिर्यकलोकना करता अधोलोकमा पर्याप्त पञ्चेन्द्रिय जेवो स ज्यात
गण्ठा छे केमडे-अधोलोकमा नारके अने भवनपति निवास करे छे अधोलोक

संख्येयगुणत्वं भवति, तेभ्योऽपि 'अहोलोए संखेज्जगुणा' अधोलोके वर्तमानाः पर्याप्तकपञ्चेन्द्रियजीवाः संख्येयगुणा भवन्ति तत्र नैरयिकाणां भवनपतीनां चावस्थानात् तेभ्योऽपि 'तिरियलोए असंखेज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमानाः पर्याप्तकपञ्चेन्द्रियाः असंख्येयगुणा भवन्ति तत्र पञ्चेन्द्रियतिर्यग्मनुष्यव्यन्तर ज्योतिष्काणासवस्थानादित्याशयः ॥सू० ३४॥

पृथिवीकायिकाधल्पवहुत्ववक्तव्यता

मूलम्—खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा पुढविकाइया उड्डुलोय-
तिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए
असंखेज्जगुणा, तेलोक्के असंखेज्जगुणा, उड्डुलोए असंखेज्ज-
गुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा
पुढविकाइया अपज्जत्तया उड्डुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरि-
यलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेज्जगुणा, तेलोक्के
असंखेज्जगुणा, उड्डुलोए असंखेज्जगुणा, अहोलोए विसेसा-
हिया । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा पुढविकाइया पज्जत्तया
उड्डुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरिय-
लोए असंखेज्जगुणा, तेलोक्के असंखेज्जगुणा, उड्डुलोए असंखे-
ज्जगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा
आउकाइया, उड्डुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसे-
साहिया, तिरियलोए असंखेज्जगुणा, तेलोक्के असंखेज्जगुणा,
उड्डुलोए असंखेज्जगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवा-
एणं सव्वत्थोवा आउकाइया अपज्जत्तया उड्डुलोयतिरियलोए,

अधोलोक-तिर्यग्लोक की अपेक्षा अधोलोक में पर्याप्त पंचेन्द्रिय जीव संख्यातगुणा हैं, क्योंकि अधोलोक में नारक और भवनपति निवास करते हैं । अधोलोक की अपेक्षा भी मध्यलोक में असंख्यात-गुणा अधिक हैं, क्योंकि मध्यलोक में पंचेन्द्रिय तिर्यच, मनुष्य, व्यन्तर और ज्योतिष्क देव निवास करते हैं ॥३४॥

कस्ता पणु मध्यलोकाभा असंख्यात गणुा वधारे छे इमके मध्यलोकाभा पचे-
न्द्रिय, तिर्यच, मनुष्य-वानव्यन्तर अने ज्योतिष्क देव निवास करे छे । सू० ३४।

अहोलयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेज्जगुणा,
तेलोकके असंखेज्जगुणा, उड्डलोए असंखेज्जगुणा, अहोलोए
विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा आउकाइया पज्जत्तया
उड्डलयतिरियलोए, अहोलयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरि-
यलोए असंखेज्जगुणा, तेलोकके असंखेज्जगुणा, उड्डलोए असं-
खेज्जगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा
तेउकाइया उड्डलयतिरियलोए अहोलयतिरियलोए विसेसा-
हिया, तिरियलोए असंखेज्जगुणा, तेलोकके असंखेज्जगुणा, अहो-
लोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा तेउकाइया अप-
ज्जत्तया उड्डतिरियलोए, अहोलयतिरियलोए विसेसाहिया,
तिरियलोए असंखेज्जगुणा, तेलोकके असंखेज्जगुणा, उड्डलोए
असंखेज्जगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सव्व-
त्थोवा तेउकाइया पज्जत्तया उड्डलयतिरियलोए, अहोलय-
तिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेज्जगुणा, तेलोकके
असंखेज्जगुणा, उड्डलोए असंखेज्जगुणा, अहोलोए विसेसाहिया,
खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा वाउकाइया उड्डलयतिरियलोए,
अहोलयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेज्जगुणा,
तेलोकके असंखेज्जगुणा उड्डलोए असंखेज्जगुणा, अहोलोए
विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा वाउकाइया अपज्जत्तया
उड्डलयतिरियलोए, अहोलयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरिय-
लोए संखेज्जगुणा, तेलोकके असंखेज्जगुणा, उड्डलोए असंखेज्ज-
गुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा वाउ-
काइया पज्जत्तया उड्डलयतिरियलोए अहोलोएतिरियलोए
विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेज्जगुणा, तेलोकके असंखेज्जगुणा,
उड्डलोए असंखेज्जगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवा-

एणं सञ्चत्थोवा वणस्सइकाइया उड्डूलोयतिरियलोए, अहोलोय-
तिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेज्जगुणा, तेलोक्के
असंखेज्जगुणा, उड्डूलोए असंखेज्जगुणा, अहोलोए विसेसाहिया,
खेत्ताणुवाएणं सञ्चत्थोवा वणस्सइकाइया अपज्जत्तया उड्डूलोय-
तिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए
असंखेज्जगुणा, तेलोक्के असंखेज्जगुणा, उड्डूलोए असंखेज्ज-
गुणा, अहोलोए विसेसाहिया, खेत्ताणुवाएणं सञ्चत्थोवा वण-
स्सइकाइया पज्जत्तया उड्डूलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए
विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेज्जगुणा, तेलोक्के असंखेज्ज-
गुणा, अहोलोए विसेसाहिया ॥सू० ३५॥

छाया—क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः पृथिवीकायिकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके,
अधोलोकतिर्यग्लोके विशेषाधिकाः, तिर्यग्लोके असंखेयगुणाः, त्रैलोक्ये असं-
खेयगुणाः, ऊर्ध्वलोके असंखेयगुणाः, अधोलोके विशेषाधिकाः, क्षेत्रानुपातेन

पृथिवीकायिक आदि का अल्पबहुत्व

शब्दार्थ—(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सञ्चत्थोवा पुढवि-
काइया उड्डूलोयतिरियलोए) सब से कम पृथ्वीकायिक ऊर्ध्वलोक-
तिर्यग्लोक में हैं (अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोक तिर्य-
ग्लोक में विशेषाधिक हैं (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्लोक में
असंख्यातगुणा हैं (तेलोक्के असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य में असंख्यातगुणा
हैं (उड्डूलोए असंखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोए
विसेसाहिया) अधोलोक में विशेषाधिक हैं ।

पृथ्वीकायिक विगेषेण अल्प बहुत्व

शब्दार्थ—(खेत्ताणुवाएण) क्षेत्र अनुसार (सञ्चत्थोवा पुढविकाइया उड्डूलोय
तिरियलोए) सौधी आधा पृथ्वीकायिक ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोकमा छे. (अहोलोय
तिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोक—तिर्यग्लोकमा विशेषाधिक छे, (तिरियलोए
असंखेज्जगुणा) तिर्यग्लोकमा असंख्यात गण्ठा छे, (तेलोक्के असंखेज्जगुणा)
त्रैलोक्यमा असंख्यात गण्ठा छे (उड्डूलोए असंखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोकमा असं-
ख्यात गण्ठा छे. (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोकमा विशेषाधिक छे.

सर्वस्तोकाः पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके, अधोलोक-
तिर्यग्लोके विशेषाधिकाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रिलोक्ये असंख्येयगुणाः,
ऊर्ध्वलोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके विशेषाधिकाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः
पृथिवीकायिका पर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके, अधोलोकतिर्यग्लोके विशेषा-
धिकाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये असंख्येयगुणाः, ऊर्ध्वलोके असं-
ख्येयगुणाः, अधोलोके विशेषाधिकाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः अपर्याप्तकाः
ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके, अधोलोकतिर्यग्लोके विशेषाधिकाः तिर्यग्लोके असंख्येय-
गुणाः, त्रैलोक्ये असंख्येयगुणाः, ऊर्ध्वलोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके विशेषा-

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सन्वत्थोवा पुढविकाइया अप-
ज्जत्तया उड्डल्लोयतिरियलोए) सब से कम पृथ्वीकायिक अपर्याप्त
ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में हैं (अहोल्लोयतिरियलोए विसेसाहिया)
अधोलोक-तिर्यग्लोक में विशेषाधिक हैं (तिरियलोए असंखिज्जगुणा)
तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (तेल्लोकके असंखिज्जगुणा) त्रैलोक्य
में असंख्यातगुणा हैं (उड्डल्लोए असंखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक में असंख्यात-
गुणा हैं (अहोल्लोए विसेसाहिया) अधोलोक में विशेषाधिक हैं ।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सन्वत्थोवा पुढविकाइया पज्ज-
त्तया) सब से कम पृथ्वीकायिक पर्याप्त (उड्डल्लोयतिरियलोए) उर्ध्व-
लोक-तिर्यग्लोक में है (अहोल्लोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोक
-तिर्यग्लोक में विशेषाधिक हैं (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्य-
ग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (तेल्लोकके असंखिज्जगुणा) त्रैलोक्य में

(खेत्ताणुवाएण) क्षेत्रना अनुसार (सन्वत्थोवा पुढविकाइया अपज्जत्तया
उड्डल्लोयतिरियलोए) सौथी ओछा पृथ्वीकायिक अपर्याप्त उर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक
में है (अहोल्लोय-तिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोक-तिर्यग्लोक में विशेषाधिक
है, (तिरियलोए असंखिज्ज गुणा) तिर्यग्लोक में असंख्यात गणना है (तेल्लोकके
असंखिज्ज गुणा) त्रैलोक्य में असंख्यात गणना है (उड्डल्लोए असंखिज्ज गुणा)
उर्ध्वलोक में असंख्यात गणना है (अहोल्लोए विसेसाहिया) अधोलोक में विशेषाधिक है

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना कथन प्रमाणे (सन्वत्थोवा पुढविकाइया पज्जत्तया
उड्डल्लोयतिरियलोए) सौथी ओछा पृथ्वीकायिक पर्याप्त उर्ध्वलोक तिर्यग्लोक में
है (अहोल्लोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोक तिर्यग्लोक में विशेषाधिक है
(तिरियलोए असंखिज्जगुणा) तिर्यग्लोक में असंख्यातगणना है (तेल्लोकके असं-
खिज्जगुणा) त्रैलोक्य में असंख्यातगणना है (उड्डल्लोए असंखिज्जगुणा) उर्ध्व-

पाधिकाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः अप्कायिका अपर्याप्तका ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके, अधोलोकतिर्यग्लोके विशेषाधिकाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये अमंख्येयगुणाः, ऊर्ध्वलोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके विशेषाधिकाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः अप्कायिकाः पर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके, अधोलोकतिर्य-
असंख्यातगुणा हैं (उद्ध्रलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक मे असंख्यात गुणा हैं (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोक मे विशेषाधिक हैं।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सच्चत्थोवा आउकाइया उद्ध्र-
लोयतिरियलोए) सब से कम अप्कायिक ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक मे हैं (अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोक-तिर्यग्लोक मे विशेषाधिक हैं (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्लोक मे असंख्यातगुणा हैं (तेलोकके असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य मे असंख्यातगुणा हैं (उद्ध्रलोए असंखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक मे असंख्यातगुणा हैं (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोक मे विशेषाधिक हैं।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सच्चत्थोवा आउकाइया अप-
ज्जत्तया उद्ध्रलोयतिरियलोए) सब से कम अप्कायिक अपर्याप्त ऊर्ध्व-
लोक-तिर्यग्लोक मे हैं (अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोक-
तिर्यग्लोक मे विशेषाधिक हैं (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्लोक मे असंख्यातगुणा हैं (तेलोकके असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य मे असंख्यातगुणा हैं (उद्ध्रलोए असंखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक मे असंख्यातगुणा हैं (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोक मे विशेषाधिक हैं।

लोकमा अत्र प्यात गण्णु छे, (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोकमा विशेषाधिक छे

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना अनुसार (सच्चत्थोवा आउकाइया उद्ध्रलोयतिरिय-
लोए) सौथी ओण्णु अप्कायिक उर्ध्वलोक-तिर्यग्लोकमा छे (अहोलोयतिरियलोए
विसेसाहिया) अधोलोक तिर्यग्लोकमा विशेषाधिक छे (तिरियलोए असंखेज्जगुणा)
तिर्यग्लोकमा अत्र प्यातगण्णु छे (उद्ध्रलोए असंखिज्जगुणा) उर्ध्वलोकमा
असं प्यात गण्णु छे (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोकमा विशेषाधिक छे

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना अनुसार (सच्चत्थोवा आउकाइया अपज्जत्तया
उद्ध्रलोयतिरियलोए) सौथी ओण्णु अप्कायिक अपर्याप्त उर्ध्वलोक-तिर्यग्लोकमा
छे (अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोक तिर्यग्लोकमा विशेषाधिक छे
(तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्लोकमा असं प्यातगण्णु छे (तेलोकके असंखे
ज्जगुणा) त्रैलोक्यमा असं प्यातगण्णु छे (उद्ध्रलोए असंखेज्जगुणा) उर्ध्वलोकमा
असं प्यातगण्णु छे (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोकमा विशेषाधिक छे.

लोके विशेषाधिकाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये असंख्येयगुणाः, ऊर्ध्व-
लोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके विशेषाधिकाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः तेजः
कायिकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके, अधोलोकतिर्यग्लोके विशेषाधिकाः, तिर्यग्लोके
असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये असंख्येयगुणाः, ऊर्ध्वलोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके
विशेषाधिकाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः तेजः कायिकाः अपर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोक-

(खित्ताणुवाणं) क्षेत्र के अनुसार (सच्चरयोवा आउकाइया पज्ज-
त्तया उड्डल्लोयतिरियल्लो) सब से कम अप्कायिक पर्याप्त ऊर्ध्वलोक-
तिर्यग्लोक मे हैं (अहोल्लोयतिरियल्लो विसेसाहिया) अधोलोक-
तिर्यग्लोक मे विशेषाधिक हैं (तिरियल्लो असखेज्जगुणा) तिर्यग्लोक
मे असंख्यातगुणा हैं (तेल्लोकके असंखिज्जगुणा) त्रैलोक्य मे असं-
ख्यातगुणा हैं (उड्डल्लो असखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक मे असंख्यातगुणा
हैं (अहोल्लो विसेसाहिया) अधोलोक मे विशेषाधिक हैं।

(खित्ताणुवाणं) क्षेत्र के अनुसार (सच्चरयोवा तेउकाइया उड्डल्लोय-
तिरियल्लो) सब से कम तेजःकायिक ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक मे हैं
(अहोल्लोयतिरियल्लो विसेसाहिया) अधोलोक-तिर्यग्लोक मे विशेष-
पाधिक हैं (तिरियल्लो असखिज्जगुणा) तिर्यग्लोक मे असंख्यात-
गुणा हैं (तेल्लोकके असंखिज्जगुणा) त्रैलोक्य मे असंख्यातगुणा है

(खित्ताणुवाणं) क्षेत्रानुसार (सच्चरयोवा आउकाइया पज्जत्तया उड्डल्लोय
ल्लोयतिरियल्लो) ओछा अप्कायिक पर्याप्त ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोकमे छे (अहोल्लोय
तिरियल्लो विसेसाहिया) अधोलोक तिर्यग्लोकमे विशेषाधिक छे (तिरियल्लो
असखेज्जगुणा) तिर्यग्लोकमे असंख्यात गण्णु छे (अहोल्लो विसेसाहिया)
अधोलोकमे विशेषाधिक छे

(खित्ताणुवाणं) क्षेत्रानी अनुसार (सच्चरयोवा तेउकाइया उड्डल्लोयतिरियल्लो)
सौथी ओछा तेजःकायिक ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोकमे छे (अहोल्लोय तिरियल्लो
विसेसाहिया) अधोलोक तिर्यग्लोकमे विशेषाधिक छे (तिरियल्लो असखेज्जगुणा)
तिर्यग्लोकमे असंख्यात गण्णु छे (तेल्लोकके असखेज्जगुणा) त्रैलोक्यमे
असंख्यात गण्णु छे (उड्डल्लोय असखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोकमे असंख्यात गण्णु
छे (अहोल्लोय विसेसाहिया) अधोलोकमे विशेषाधिक छे

(खित्ताणुवाणं) क्षेत्रना प्रमाणे (सच्चरयोवा तेउकाइया अपज्जत्तया उड्डल्लोय-
तिरियल्लो) सौथी ओछा अपर्याप्त तेजःकायिक ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोकमे छे (अहो-
ल्लोय तिरियल्लो विसेसाहिया) अधोलोक तिर्यग्लोकमे विशेषाधिक छे (तिरियल्लो
असखेज्जगुणा) तिर्यग्लोकमे असंख्यातगण्णु छे (उड्डल्लोय असखेज्जगुणा) ऊर्ध्व-

तिर्यग्लोके, अधोलोकतिर्यग्लोके वर्तमाना तेजस्कायिकाः विशेषाधिकाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये असंख्येयगुणाः, ऊर्ध्वलोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके विशेषाधिकाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वरतोकाः तेजः-कायिकाः पर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके, अधोलोकतिर्यग्लोलोके विशेषाधिकाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये असंख्येयगुणाः, ऊर्ध्वलोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके विशेषा-
(उड्डलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक मे असंख्यातगुणा हैं (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोक मे विशेषाधिक हैं ।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सव्वत्थोवा तेउकाइया अपज्जत्तया उड्डलोयतिरियलोए) सब से कम अपर्याप्त तेजस्कायिक ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक मे हैं (अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोक-तिर्यग्लोक मे विशेषाधिक हैं (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्लोक में असख्यातगुणा हैं (तिलोकके असखेज्जगुणा) त्रैलोक्य में असख्यातगुणा हैं (उड्डलोए असंखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक मे असख्यातगुणा हैं (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोक में विशेषाधिक हैं ।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सव्वत्थोवा तेउकाइया पज्जत्तया उड्डलोयतिरियलोए) सबसे कम पर्याप्त तेजस्कायिक ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में हैं (अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोक-तिर्यग्लोक में विशेषाधिक हैं (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्लोक में असख्यातगुणा हैं (तिलोकके असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य में असख्यातगुणा हैं (उड्डलोए असंखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक में असख्यातगुणा हैं

दोऽङ्गमा असंख्यातगुणां ए (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोकां विशेषाधिकं ए

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रनां कथनं प्रमाणे (सव्वत्थोवा तेउकाइया पज्जत्तया उड्डलोयतिरियलोए) सौथीं आछां पर्याप्तं तेजस्कायिकं ऊर्ध्वदोऽङ्गमा-तिर्यग्दोऽङ्गमां ए (अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोकां तिर्यग्दोऽङ्गमां विशेषाधिकं ए (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्दोऽङ्गमां असंख्यातगुणां ए (तिलोकके असंखेज्जगुणा) त्रैदोऽङ्गमां असंख्यातगुणां ए (उड्डलोए असंखेज्जगुणा) ऊर्ध्वदोऽङ्गमां असंख्यातगुणां ए (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोकां विशेषाधिकं ए

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रनां कथनं प्रमाणे (सव्वत्थोवा तेउकाइया उड्डलोयतिरियलोए) सौथीं आछां पर्याप्तं तेजस्कायिकं ऊर्ध्वदोऽङ्गमा-तिर्यग्दोऽङ्गमां ए (अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोकां तिर्यग्दोऽङ्गमां विशेषाधिकं ए (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्दोऽङ्गमां असंख्यातगुणां ए (तिलोकके असंखेज्जगुणा) त्रैदोऽङ्गमां असंख्यातगुणां ए (उड्डलोए असंखेज्जगुणा) ऊर्ध्वदोऽङ्गमां असंख्यात-

शिक्षाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः वायुकायिकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके, अधोलोकतिर्यग्लोके विशेषाधिकाः, तिर्यग्लोके अमंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये असंख्येयगुणाः, ऊर्ध्वलोके असंख्येयगुणाः, अत्रिलोके विशेषाधिकाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः वायुकायिकाः अपर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके, अधोलोकतिर्यग्लोके विशेषाधिकाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये अमंख्येयगुणाः ऊर्ध्वलोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके विशेषाधिकाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोका वायुकायिकाः

(अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोक में विशेषाधिक है ।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सच्चत्थोवा वाउकाइया उड्डुल्लोयतिरियलोए) सब से कम वायुकायिक ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में हैं (अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोक-तिर्यग्लोक में विशेषाधिक हैं (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्लोक में अमंख्यातगुणा हैं (तेल्लोक्के असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य में अमंख्यातगुणा हैं (उड्डुलोए असंखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोक में विशेषाधिक हैं ।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सच्चत्थोवा वाउकाइया अपज्जत्तया सब से कम वायुकायिक अपर्याप्त (उड्डुल्लोयतिरियलोए) ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में हैं (अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोक तिर्यग्लोक में विशेषाधिक हैं (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (तेल्लोक्के असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य में असंख्यातगुणा हैं (उड्डुलोए असंखेज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोक में विशेषाधिक हैं ।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सच्चत्थोवा वाउकाइया) सब से कम वायुकायिक (पज्जत्तया) पर्याप्तक (उड्डुल्लोयतिरियलोए) ऊर्ध्व-

गणुा छे. (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोकाभा विशेषाधिक छे

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना कथन प्रभाषे (सच्चत्थोवा वाउकाइया अपज्जत्तया) सौथी ओआ वायुकायिक अपर्याप्तक (उड्डुल्लोयतिरियलोए) उध्वलोका तिर्यग्लोकाभा छे (अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोका तिर्यग्लोकाभा विशेषाधिक छे. (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्लोकाभा असंख्यातगणुा छे, (तेल्लोक्के असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्यभा असंख्यातगणुा छे (उड्डुलोए असंखेज्जगुणा) उध्वलोकाभा असंख्यात गणुा छे (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोकाभा विशेषाधिक छे.

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना कथन प्रभाषे (सच्चत्थोवा वाउकाइया) सौथी ओआ वायुकायिक (पज्जत्तया) पर्याप्तक (उड्डुल्लोयतिरियलोए) उध्वलोका तिर्यग्लोकाभा

पर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके, अधोलोकतिर्यग्लोके विशेषाधिकाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये असंख्येयगुणाः, ऊर्ध्वलोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके विशेषाधिकाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः वनस्पतिकायिकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके अधोलोकतिर्यग्लोके विशेषाधिकाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, त्रैलोक्ये असंख्येयगुणाः, ऊर्ध्वलोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके विशेषाधिकाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके, लोकातिर्यग्लोक मे हैं (अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोक-तिर्यग्लोक मे विशेषाधिक हैं (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (तेलोक्के असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य में असंख्यातगुणा हैं (उड्डलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोक में विशेषाधिक हैं ।

(खेत्ताणुवाणं) क्षेत्र के अनुसार (सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया उड्डलोयतिरियलोए) सब से कम वनस्पतिकायिक ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में है (अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोक-तिर्यग्लोक में विशेषाधिक है (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (तेलोक्के असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य में असंख्यातगुणा हैं (उड्डलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोक में विशेषाधिक हैं ।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया अपज्जत्तया उड्डलोयतिरियलोए) सब से कम वनस्पतिकायिक अप-

छे (अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोक-तिर्यग्लोक-विशेषाधिक छे (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्लोक-विशेषाधिक छे (तेलोक्के असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य-विशेषाधिक छे (उड्डलोए असंखिज्जगुणा) उर्ध्वलोक-विशेषाधिक असंख्यात गणु छे

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना कथन प्रभाण्णे (सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया उड्डलोयतिरियलोए) सौथी ओण्ण वनस्पतिकायिक उर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक-विशेषाधिक छे, (अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोक-तिर्यग्लोक-विशेषाधिक छे (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यग्लोक-विशेषाधिक असंख्यातगणु छे (तेलोक्के असंखेज्जगुणा) त्रैलोक्य-विशेषाधिक असंख्यात गणु छे (उड्डलोए असंखिज्जगुणा) उर्ध्वलोक-विशेषाधिक असंख्यात गणु छे (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोक-विशेषाधिक छे

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना कथन प्रभाण्णे (सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया अपज्जत्तया उड्डलोयतिरियलोए) सौथी ओण्ण वनस्पतिकायिक अपर्याप्तक उर्ध्वलोक-तिर्य-

अधोलोकोत्तिर्यग्लोके विशेषाधिकाः, तिर्यग्लोके असंख्यगुणाः, त्रैलोक्ये अमंख्य-
गुणाः, ऊर्ध्वलोके अमंख्यगुणाः, अग्लोके विशेषाधिकाः, क्षेत्रानुपातेन सर्व-
स्तोका वनस्पतिकाधिकाः पर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके, अग्लोकातिर्य-
ग्लोके विशेषाधिकाः, तिर्यग्लोके असंख्यगुणाः, त्रैलोक्ये अमंख्यगुणाः,
ऊर्ध्वलोके असंख्यगुणाः, अग्लोके विशेषाधिकाः ॥ सू० ३५ ॥

यसि ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में है (अहोलोकातिर्यग्लोके विशेषाधिकाः)
अधोलोक-तिर्यग्लोक में विशेषाधिकाः (तिर्यग्लोके असंख्यगुणाः)
तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणाः हैं (तेल्लोके असंख्यगुणाः) त्रैलोक्य में
असंख्यातगुणा है (उर्ध्वलोक असंख्यगुणा) ऊर्ध्वलोक असंख्यातगुणा है
(अहोलोक विशेषाधिका) अधोलोक में विशेषाधिका हैं ।

(क्षेत्रानुवापणं) क्षेत्र के अनुसार (सम्बन्धो वा वणससङ्काइया पञ्जत्तया)
पञ्जत्तया) सब से कम वनस्पतिकाधिका पर्याप्त (उर्ध्वलोकतिर्यग्लोके)
ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में है (अहोलोकातिर्यग्लोके विशेषाधिका) अधो-
लोक-तिर्यग्लोक में विशेषाधिका हैं (तिर्यग्लोके असंख्यगुणाः)
तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (तेल्लोके असंख्यगुणाः) त्रैलोक्य
में असंख्यातगुणा हैं (उर्ध्वलोक असंख्यगुणा) ऊर्ध्वलोक में असं-
ख्यातगुणा है (अहोलोक विशेषाधिका) अधोलोक में विशेषाधिका हैं ।

अब पृथ्वीकायिक आदि पाँचों एकेन्द्रिय समुच्चय जीवों का
तथा पर्याप्तक और अपर्याप्तक भेदों का, यों तीन प्रकार का अल्प-

श्लोकमा छे (अहोलोकातिर्यग्लोके विशेषाधिका) अधोलोक-तिर्यग्लोकमा विशेषाधिका
छे (तिर्यग्लोके असंख्यगुणाः) तिर्यग्लोकमा असंख्यातगुणा छे (तेल्लोके असं-
ख्यगुणाः) त्रैलोक्यमा असंख्यातगुणा छे (उर्ध्वलोक असंख्यगुणाः) ऊर्ध्वलोकमा
असंख्यातगुणा छे (अहोलोक विशेषाधिका) अधोलोकमा विशेषाधिका छे ।

(क्षेत्रानुवापणं) क्षेत्रना कथन प्रमाणे (सम्बन्धो वा वणससङ्काइया पञ्जत्तया)
सौथी ओधी वनस्पतिकाधिका पर्याप्त (उर्ध्वलोकतिर्यग्लोके) ऊर्ध्वलोक तिर्य-
ग्लोकमा छे (अहोलोकातिर्यग्लोके विशेषाधिका) अधोलोक-तिर्यग्लोकमा विशेष-
ाधिका छे (तिर्यग्लोके असंख्यगुणाः) तिर्यग्लोकमा असंख्यात गुणा छे
(तेल्लोके असंख्यगुणाः) त्रैलोक्यमा असंख्यात गणुा छे (उर्ध्वलोक असंख्य-
गुणाः) ऊर्ध्वलोकमा असंख्यात गणुा छे (अहोलोक विशेषाधिका) अधोलोकमा
विशेषाधिका छे ॥ सू० ३४ ॥

टीका-६वे पृथ्वीकायिक विजेर ओकेन्द्रिय समुच्चय जीवों केना

ટીકા—પ્રયૈકેન્દ્રિયવિશેષાણાં પૃથ્વીકાયાિકાદીનાં પશ્ચાનાં સમુચ્ચય-પર્યાપ્તાપય પ્તકભેદેન પ્રત્યેકં ત્રીણિ ત્રીણિ અન્પવ્નહુત્વાનિ પ્રરૂપયિતુમાહ-
 'સ્વેત્તાણુમાણં' ક્ષેત્રાનુપાતેન-ક્ષેત્રાનુસારેણ 'સવ્વત્થોવા પુઢવિકાઙ્યા ઉઢ્ઢુલોય
 તિરિયલોઈ' સર્વસ્તોકાઃ-સર્વેભ્યોઽસ્ત્વાઃ, પૃથ્વીકાયાિકાઃ ડર્ધ્વલોકતિર્યગ્લોકે
 તત્પ્રતરદ્વયવર્તિનો ભવન્તિ પ્રાગુવતૈકેન્દ્રિયવિપયકયુક્તેઃ, તેભ્યઃ 'અહોલોયતિરિય-
 લોઈ વિસેસાહિયા' અધોલોકતિર્યગ્લોકે-તત્પ્રતરદ્વયવર્તિનઃ પૃથ્વીકાયાિકા વિશે-
 ષાધિકા ભવન્તિ ઁકેન્દ્રિયપ્રકરણે યુક્તેરુક્તત્વાત્, તેભ્યોઽપિ-'તિરિયલોઈ અસં-
 સ્વેઙ્ગગુણા' તિર્યગ્લોકેવર્તમાનાઃ પૃથ્વીકાયાિકાઃ અસંસ્વેયગુણા ભવન્તિ,
 પ્રાગુક્તયુક્તેઃ સત્વાત્, તેભ્યોઽપિ 'તેલોકકે અસંસ્વેઙ્ગગુણા' ત્રૈલોક્યે-લોકત્રય-
 વર્તિનઃ પૃથ્વીકાયાિકાઃ અસંસ્વેયગુણા ભવન્તિ સમુચ્ચયૈકેન્દ્રિયવત્, તેભ્યોપિ
 'ઉઢ્ઢુલોઈ અસંસ્વેઙ્ગગુણા' ડર્ધ્વલોકે વર્તમાનાઃ પૃથ્વીકાયાિકાઃ અસંસ્વેયગુણા
 ભવન્તિ ઓધિકૈકેન્દ્રિયવત્, તેભ્યોઽપિ 'અહોલોઈ વિસેસાહિયા' અધોલોકે વર્ત-
 માનાઃ પૃથ્વીકાયાિકાઃ વિશેષાધિકા ભવન્તિ, ઁકેન્દ્રિયસમુચ્ચયવત્,

બહુત્વ પ્રરૂપિત કરતે હૈં-

ટીકાર્થ-ક્ષેત્ર કી અપેક્ષા સબ સે કમ પૃથ્વીકાયાિક ડર્ધ્વલોક-
 તિર્યગ્લોક મેં હૈં અર્થાત્ પૂર્વોક્ત દો પ્રતરોં મેં હોતે હૈં । હસ સંવંધ મેં
 વહી યુક્તિ સમક્ષ લેની ઁાહિઈ જો ઁકેન્દ્રિયોં કૈ વિષય મેં કહી જા
 ઁુકી હૈ । હનકી અપેક્ષા અધોલોક-તિર્યગ્લોક નામક પ્રતરોં મેં વિશે-
 ષાધિક હૈં । યુક્તિ ઁકેન્દ્રિયોં કૈ પ્રકરણ મેં કહી જા ઁુકી હૈ । હન
 કી અપેક્ષા તિર્યગ્લોક મેં અસંસ્વ્યાતગુણા હૈં, હસકા કારણ મી પહેલે
 કહા જા ઁુકા હૈ । હનકી અપેક્ષા ત્રિલોકવર્તી પૃથ્વીકાયાિક અસં-
 સ્વ્યાતગુણા હૈં, હનસે ડર્ધ્વલોક મેં ષર્તમાન પૃથ્વીકાયાિક અસંસ્વ્યાત
 ગુણા હૈં, હન સે અધોલોક મેં વિશેષાધિક હૈં । હન સવ કૈ વિષય મેં

પર્યાપ્તક અપર્યાપ્તકના લેહોતુ ઁ રીતે ત્રણ પ્રકારના અહપગહુપણાની પ્રજ્ઞા
 કરવામા આવે છે

ક્ષેત્રની અપેક્ષાથી સૌથી ઁાછા પૃથ્વીકાયાિક ડર્ધ્વલોક તિર્યગ્લોકમા છે.
 અર્થાત્ પૂર્વોક્ત ઁ પ્રતરોમા હોય છે આ સળધમા ઁકેન્દ્રિયોના વિષયમા
 ઁ કથન કરવામા આવેલ છે ઁ ઁ કથન સમજવુ લેધઁ તેના કરતા
 અધોલોક-તિર્યગ્લોક નામના પ્રતરોમા વિશેષાધિક છે તેના સળધી ઁુક્તિ
 ઁકેન્દ્રિયોના પ્રકરણમા કહેવામા આવી ગયેલ છે તેના કરતા તિર્યગ્લોકમા
 અસ ઁ્યાત ગણા છે, તેવુ કારણ પણ પહેલા કહેવામા આવી ગયેલ છે તેના
 કરતા ત્રિલોકવર્તી પૃથ્વીકાયાિક અસ ઁ્યાત ગણા છે તેના કરતા ડર્ધ્વલોકમા

अपर्याप्तपृथिवीकायिकानामल्पबहुत्वं प्रतिपादयति—‘खेत्ताणुवाणं’ क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण, ‘सव्वत्थोवा पुदवीकाइया अपज्जत्तया उड्डुल्लोय-तिरियलोए’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः ऊर्ध्व-लोकतिर्यग्लोके—तत्प्रतरद्वयवर्तिनो भवन्ति, प्रागुक्तैकेन्द्रिययुक्तेः, तेभ्योऽपि—‘अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया’ अधोलोकतिर्यग्लोके—तत्प्रतरद्वयवर्तिनः पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, ते समुच्चयैकेन्द्रियवत्, तेभ्योऽपि—‘तिरियलोए असंखेज्जगुणा’ तिर्यग्लोके वर्तमानाः अपर्याप्तक-पृथिवीकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योपि ‘तेल्लोकके असं-खेज्जगुणा’ त्रैलोक्ये लोकत्रयवर्तिनः पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येय-गुणा भवन्ति, एकेन्द्रियसमुच्चयवत्, तेभ्योऽपि ‘उड्डुलोए असंखेज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोके वर्तमानाः अपर्याप्तकपृथिवीकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागु-क्तैकेन्द्रिययुक्तेः, तेभ्योऽपि—‘अहोलोए विसेसाहिया’ अधोलोके वर्तमाना अप-र्याप्तकपृथिवीकायिकाः विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्तैकेन्द्रिययुक्तेः ।

वही युक्ति जानना चाहिए जो समुच्चय एकेन्द्रियों के अल्पबहुत्व के विषय में कही जा चुकी है ।

अपर्याप्तक पृथ्वीकायिकों का अल्पबहुत्व—सब से कम अपर्याप्त पृथ्वीकायिक ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोक में हैं । उनकी अपेक्षा अधोलोक-तिर्यग्लोक में विशेषाधिक है । अधोलोक-तिर्यग्लोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा अधिक हैं । तिर्यग्लोक की अपेक्षा त्रिलोकवर्ती असंख्यातगुणा हैं, उनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में असंख्या-तगुणा हैं । ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में विशेषाधिक हैं । इनके इस अल्पबहुत्व का कारण वही समझना चाहिए जो एकेन्द्रियों के अल्पबहुत्व में कहा गया है ।

रहेला पृथ्वीकायिक असंख्यात गणुा छे तेना करता अधोलोकमा रहेला पृथ्वी कायिके विशेषाधिक छे आ अधाना स भ धमा युक्ति ने समुच्चय एकेन्द्रियोना अल्पबहुत्वपणुाना स भ धमा कडेवामा आवेल छे ओ न रीते समजवी.

अपर्याप्तक पृथ्वीकायिकेनु अल्पबहुत्व

सौथो ओछा अपर्याप्तक पृथ्वीकायिक, ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोकमां छे, तेना करता अधोलोक—तिर्यग्लोकमा विशेषाधिक छे अधोलोक तिर्यग्लोकना करता तिर्य-ग्लोकमा असंख्यातगणुा छे तिर्यग्लोकना करता त्रिलोकवर्ति अमंख्यातगणुा छे ऊर्ध्वलोकना करता अधोलोकमा विशेषाधिक छे आ अल्पबहुत्वपणुाना स भ धमा पणु ओन रीते समजवी के ने एकेन्द्रियोना स भ धमा कडेवामा आवी गयेल छे.

टीका—भयैकेन्द्रियविशेषाणा पृथिवीकायिकादीनां पञ्चानां समुच्चय पर्याप्तपय प्तकभेदेन प्रत्येकं त्रीणि त्रीणि अल्पबहुत्वानि प्ररूपयितुमाह- 'खेताणुगणं' क्षेत्रानुपातेन-क्षेत्रानुसारेण 'सञ्चरथोवा पुढविनाइया उड्डुलोय तिरियलोए' सर्वस्नोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः, पृथिवीकायिकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनो भवन्ति प्रागुवर्तैकेन्द्रियविषयकयुक्तेः, तेभ्यः 'अहोलोयतिरिय लोए विसेसाहिया' अधोलोकतिर्यग्लोके-तत्प्रतरद्वयवर्तिनः पृथिवीकायिका विशेष पाधिका भवन्ति एकेन्द्रियप्रकरणे युक्तेरुक्तत्वात्, तेभ्योऽपि-'तिरियलोए असं-खेज्जगुणा' तिर्यग्लोकेवर्तमानाः पृथिवीकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः सत्त्वात्, तेभ्योऽपि 'तेल्लोकके असंखेज्जगुणा' त्रैलोक्ये-लोकत्रय-वर्तिनः पृथिवीकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति समुच्चयैकेन्द्रियवत्, तेभ्योपि 'उड्डुलोए असंखेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोकके वर्तमानाः पृथिवीकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति औधिकैकेन्द्रियवत्, तेभ्योऽपि 'अहोलोए विसेसाहिया' अधोलोकके वर्त-मानाः पृथिवीकायिकाः विशेषाधिका भवन्ति, एकेन्द्रियसमुच्चयवत्,

बहुत्व प्ररूपित करते हैं-

टीकार्थ-क्षेत्र की अपेक्षा सब से कम पृथ्वीकायिक ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में हैं अर्थात् पूर्वोक्त दो प्रतरों में होते हैं। इस संबंध में वही युक्ति समझ लेनी चाहिए जो एकेन्द्रियों के विषय में कही जा चुकी है। इनकी अपेक्षा अधोलोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में विशेषाधिक हैं। युक्ति एकेन्द्रियों के प्रकरण में कही जा चुकी है। इन की अपेक्षा तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं, इसका कारण भी पहले कहा जा चुका है। इनकी अपेक्षा त्रिलोकवर्ती पृथ्वीकायिक असंख्यातगुणा हैं, इनसे ऊर्ध्वलोक में वर्तमान पृथ्वीकायिक असंख्यात गुणा हैं, इन से अधोलोक में विशेषाधिक हैं। इन सब के विषय में

पर्याप्तक अपर्याप्तकना लेदोनु ओ रीते त्रयु प्रकारना अल्पगहुपणुानी प्रपणुा करवामा आवे छे

क्षेत्रनी अपेक्षाथी सौथी ओछा पृथ्वीकायिक उर्ध्वलोक तिर्यग्लोकमा छे अर्थात् पूर्वोक्त ओ प्रतरमा होय छे आ सगधमा ओकेन्द्रियोना विषयमा ओ कथन करवामा आवेद छे ओ न कथन समञ्जसु लेदथे तेना करता अधोलोक-तिर्यग्लोक नामना प्रतरमा विशेषाधिक छे तेना सगधी युक्ति ओकेन्द्रियोना प्रकरणमा छडेवामा आवी गयेद छे तेना करता तिर्यग्लोकमा असंख्यात गणुा छे, तेनु कारण पणु पडेला छडेवामा आवी गयेद छे तेना करता त्रिलोकवर्ती पृथ्वीकायिक असंख्यात गणुा छे. तेना करता उर्ध्वलोकमा

अपर्याप्तकपृथिवीकायिकानामल्पवहुत्वं प्रतिपादयति—‘खेत्ताणुवाणं’ क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण, ‘सञ्चत्योत्रा पुदवीकाइया अपञ्जत्तया उद्धूलोय-तिरियलोए’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः ऊर्ध्व-लोकतिर्यग्लोके—तन्प्रतरद्वयवर्तिनो भवन्ति, प्रागुक्तकेन्द्रिययुक्तेः, तेभ्योऽपि—‘अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया’ अधोलोकतिर्यग्लोके—तन्प्रतरद्वयवर्तिनः पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, ते समुच्चयकेन्द्रियवत्, तेभ्योऽपि—‘तिरियलोए असंखेज्जगुणा’ तिर्यग्लोके वर्तमानाः अपर्याप्तक-पृथिवीकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि ‘तेल्लोक्के असं-खेज्जगुणा’ त्रैलोक्ये लोकत्रयवर्तिनः पृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येय-गुणा भवन्ति, एकेन्द्रियसमुच्चयवत्, तेभ्योऽपि ‘उद्धूलोए असंखेज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोके वर्तमानाः अपर्याप्तकपृथिवीकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागु-क्तकेन्द्रिययुक्तेः, तेभ्योऽपि—‘अहोलोए विसेसाहिया’ अधोलोके वर्तमाना अप-र्याप्तकपृथिवीकायिकाः विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्तकेन्द्रिययुक्तेः ।

वही युक्ति जानना चाहिए जो समुच्चय एकेन्द्रियों के अल्पवहुत्व के विषय में कही जा चुकी है ।

अपर्याप्तक पृथ्वीकायिकों का अल्पवहुत्व—सब से कम अपर्याप्त पृथ्वीकायिक ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोक में हैं । उनकी अपेक्षा अधोलोक-तिर्यग्लोक में विशेषाधिक हैं । अधोलोक—तिर्यग्लोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा अधिक हैं । तिर्यग्लोक की अपेक्षा त्रिलोकवर्ती असंख्यातगुणा हैं, उनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में असंख्या-तगुणा हैं । ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में विशेषाधिक हैं । इनके इस अल्पवहुत्व का कारण वही समझना चाहिए जो एकेन्द्रियों के अल्पवहुत्व में कहा गया है ।

रहेला पृथ्वीकायिक असंख्यात गणुा छे तेना करता अधोलोकमा रहेला पृथ्वी-कायिको विशेषाधिक छे आ अधाना स भ धमा युक्ति ने समुच्चय एकेन्द्रियोना अल्पवहुत्वपणुाना स भ धमा कडेवामा आवेल छे ओ न रीते समजवी.

अपर्याप्तक पृथ्वीकायिकेणु अल्पवहुत्व

सोथो ओछा अपर्याप्तक पृथ्वीकायिक, ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोकमां छे. तेना करता अधोलोक—तिर्यग्लोकमा विशयाधिक छे अधोलोक तिर्यग्लोकना करता तिर्य-ग्लोकमा असंख्यातगणुा छे तिर्यग्लोकना करता त्रिलोकवर्ति समंख्यातगणुा छे. ऊर्ध्वलोकना करता अधोलोकमा विशेषाधिक छे आ अल्पवहुत्वपना स भ धमा पणु ओन रीते समजवी के ने एकेन्द्रियोना संभ धमा कडेवामा आवी गयेल छे.

अथ पर्याप्तक पृथिवीकाधिकानामल्पबहुत्वमाह—‘रुत्ताणुवाएणं’ क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण ‘सत्त्वयोवा पुढविक्काया पञ्जत्तया उद्धूलोयतिरियलोए’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, पृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनो भवन्ति, प्रागुक्तसमुच्चयैकेन्द्रियवत्, तेभ्योऽपि ‘अधोलोयतिरियलोए विसैसाहिया’ अधोलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनः पर्याप्तपृथिवीकायिका विशेषाधिका भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः तेभ्योऽपि—‘तिरिग्लोए असंखेज्जगुणा’ तिर्यग्लोके वर्तमानाः पर्याप्तकपृथिवीकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, पूर्वोक्तैकेन्द्रियसमुच्चयवत्, तेभ्योऽपि ‘तेलोकके असंखेज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोके—लोअयवर्तिनः पर्याप्तपृथिवीकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि ‘उद्धूलोए असंखेज्जगुणा’ उर्ध्वलोके वर्तमानाः पृथिवीकायिकाः पर्याप्तका असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तसमुच्चयवत्, तेभ्योऽपि—‘अधोलोए विसैसाहिया’ अधोलोके वर्तमानाः पर्याप्तपृथिवीकायिकाः विशेषाधिका भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः

अथाधिकानामल्पबहुत्वमाह—‘रुत्ताणुवाएणं’ क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसा-

पर्याप्तक पृथ्वीकायिकों का अल्पबहुत्व-क्षेत्र के अनुसार सब से कम पर्याप्त पृथ्वीकायिक ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में हैं अर्थात् ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामक दो प्रतरों को स्पर्श करने वाले हैं। उनकी अपेक्षा अधोलोक तिर्यग्लोक में विशेषाधिक हैं। उनकी अपेक्षा तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं। तिर्यग्लोक की अपेक्षा त्रिलोकवर्ती अर्थात् तीनों लोकों का स्पर्श करने वाले असंख्यातगुणा हैं। उनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा हैं और ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में विशेषाधिक हैं।

अपकायिकों का अल्पबहुत्व-क्षेत्र के अनुसार सबसे कम अपका-

पर्याप्तक पृथ्वीकायिकों का अल्पबहुत्व

क्षेत्रना अनुसार सौथी ज्वाछा पर्याप्तक पृथ्वीकायिक ऊर्ध्वलोक तिर्यलोकमा छे, अर्थात् ऊर्ध्वलोक-तिर्यलोक नामना जो प्रतरेना स्पर्श करवावाणा छे तेना करता अधोलोक-तिर्यलोकमा विशेषाधिक छे, तेना करता तिर्यलोकमा असंख्यातगुणा छे तिर्यलोकना करता त्रिलोकवर्ति अर्थात् त्रिलोकना स्पर्श करवावाणा असंख्यातगुणा छे तेना करता ऊर्ध्वलोकमा असंख्यातगुणा छे अने ऊर्ध्वलोकना करता अधोलोकमा विशेषाधिक छे

अपकायिकों का अल्पबहुत्व

क्षेत्रना अनुसार सौथी ज्वाछा अपकायिक ऊर्ध्वलोक तिर्यलोक नामना

रेण 'सव्वत्थोवा आउकाइया उड्डुल्लोयतिरियलोए' सर्वस्तोकाः सर्वभ्योऽल्पाः, अप्कायिकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनो भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि 'अहोल्लोयतिरियलोए विसेसाहिया' अधोलोकतिर्यग्लोके-तत्प्रतरद्वयवर्तिनोऽप्कायिकाः विशेषाधिका भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि-'तिरियलोए असंखेज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमानाः अप्कायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तकेन्द्रियसमुच्चयवत्, तेभ्योऽपि 'तेल्लोक्के असंखेज्जगुणा' त्रैलोक्ये-लोकत्रयवर्तिनोऽप्कायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि-'उड्डुलोए असंखेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोके वर्तमाना अप्कायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि-'अहोल्लोए विसेसाहिया' अधोलोके वर्तमाना अप्कायिकाः विशेषाधिका भवन्ति समुच्चयैकेन्द्रियवत्,

अथापर्याप्तकायिकानामल्पबहुत्वमाह-'खेत्ताणुवाएणं' क्षेत्रानुपातेन-क्षेत्रानुसारेण, 'सव्वत्थोवा आउकाइया अपज्जत्तया उड्डुल्लोयतिरियलोए' सर्वस्तोकाः-सर्वभ्योऽल्पाः अप्कायिकाः अपर्याप्ताः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके-प्रतरद्वयवर्तिनो भवन्ति, प्रागुक्तसमुच्चयैकेन्द्रिययुक्तेः, तेभ्योऽपि-'अहोल्लोयतिरियलोए विसेसाहिया' अधोलोकतिर्यग्लोके-तत्प्रतरद्वयवर्तिनोऽपर्याप्ताः अप्कायिका विशेषाधिकाः भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि 'तिरियलोए असंखेज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमाना अप्कायिका अपर्याप्ताः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि-'तेल्लोक्के असंखेज्जगुणा' त्रैलोक्ये-लोकत्रयवर्तिनोऽपर्याप्तका अप्का-

यिक ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में है। उनकी अपेक्षा अधोलोक-तिर्यग्लोक में विशेषाधिक हैं। अधोलोक-तिर्यग्लोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं। तिर्यग्लोक की अपेक्षा त्रिलोकवर्ती असंख्यातगुणा हैं। त्रिलोकवर्तियों की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा हैं। ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में विशेषाधिक हैं। यहां भी युक्ति समुच्चय एकेन्द्रियों के विषय में जो कही है वही समझना चाहिए।

अपर्याप्तकायिकों का अल्पबहुत्व-सब से कम अप्कायिक

प्रतरमा छे, अधोलोक्क-तिर्यग्लोक्कनी अपेक्षाजे तिर्यग्लोक्कमा अस्स जयातगण्णा छे. तिर्यग्लोक्कनी अपेक्षाजे त्रैलोक्यवर्ति अस्स जयातगण्णा छे, उर्ध्वलोकना करता अधोलोक्कमा विशेषाधिक छे अहिया पण्ण समुच्चय एव एकेन्द्रियाना स भधमा जे युक्ति कही छे अज्ज युक्ति समज्जवी

अपर्याप्तकायिकोनु अल्पबहुत्व

सौथी ओछा अप्कायिक अपर्याप्तकायिक एव उर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामना

यिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, समुच्चयैकेन्द्रियात्, तेभ्योऽपि—‘उड्डुलोए असंखेज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोके वर्तमाना अपर्याप्तका अप्कायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि ‘अधोलोए विसेसाहिया’ अधोलोके वर्तमाना अपर्याप्तका अप्कायिकाः विशेषाधिका भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः

अथ पर्याप्तकाप्कायिकानामल्पबहुत्व प्रतिपादयति—‘खेत्ताणुवाएण’ क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण ‘सव्वत्थोवा आउकाडया पज्जत्तया उड्डुलोयतिरियलोए’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः अप्कायिकाः पर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनो भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः तेभ्योऽपि ‘अधोलोयतिरियलोए विसेसाहिया’ अधोलोक्तिर्यग्लोके प्रतरद्वयवर्तिनः पर्याप्तका अप्कायिकाः विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः तेभ्योऽपि ‘तिरियलोए असंखेज्जगुणा’ तिर्यग्लोके वर्तमानाः पर्याप्तका अप्कायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘तेलोके असंखेज्जगुणा’ त्रिलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनः पर्याप्तका अप्कायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः

अपर्याप्तक जीव ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक नामक दो प्रतरों में हैं, ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक की अपेक्षा अधोलोक—तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में विशेषाधिक हैं, अधोलोक—तिर्यग्लोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं, तिर्यग्लोक की अपेक्षा त्रिलोकवर्त्ती असंख्यातगुणा हैं, त्रिलोकवर्त्तियों की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा हैं, ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में विशेषाधिक हैं। इस अल्पबहुत्व के संबंध में भी वही युक्तियाँ समझनी चाहिए जो एकेन्द्रियों के विषय में कही हैं।

पर्याप्तक अप्कायिकों का अल्पबहुत्व—क्षेत्र के अनुसार सब से कम अप्कायिक पर्याप्त ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में हैं, ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक की अपेक्षा अधोलोक तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में विशेषाधिक हैं, अधोलोक तिर्यग्लोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में

ये प्रवेशमा छे उर्ध्वदोऽक—तिर्यग्दोऽकना करता अधोदोऽक—तिर्यग्दोऽक नामना प्रवेशमा विशेषाधिक छे, अधोदोऽक—तिर्यग्दोऽकना करता तिर्यग्दोऽकमा असंख्यातगणा छे तिर्यग्दोऽकना करता त्रिलोकावति असंख्यातगणा छे उर्ध्वदोऽकना करता अधोदोऽकमा विशेषाधिक छे या अल्पबहुत्वना स भधमा यल्ले अत्र युक्तियो समन्वी के ने अकेन्द्रियोना स भधमा कही छे

पर्याप्तक अप्कायिकेणु अल्प बहुत्व

क्षेत्रनी अनुसार सौधी गोला अप्कायिक पर्याप्तक उर्ध्वदोऽक तिर्यग्दोऽक नामना प्रवेशमा छे उर्ध्वदोऽक तिर्यग्दोऽकना करता अधोदोऽक तिर्यग्दोऽक नामना प्रवेशमा विशेषाधिक छे, अधोदोऽक तिर्यग्दोऽकना करता तिर्यग्दोऽकमा असंख्यात

तेभ्योऽपि 'उद्ध्रलोए असंखेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोके वर्तमानाः पर्याप्तकायिकाः असंखेयगुणा भवन्ति प्रागुक्तैकेन्द्रियवत्, तेभ्योऽपि—'अहोलोए विसेसाहिया' अधोलोके वर्तमानाः पर्याप्तकायिकाः विशेषाधिका भवन्ति प्रागुक्तैकेन्द्रिययुक्तेः

अथ तेजःकायिकानामल्पवहुत्वं प्रतिपादयति—'खेत्ताणुवाएणं' क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण 'सव्वत्थोवा तेउकाडया उद्ध्रलोयतिरियलोए' सर्वभ्योः संखेयगुणाः, तेजःकायिकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनो भवन्ति तेभ्योऽपि—'अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया' अधोलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनस्तेजःकायिकाः विशेषाधिका भवन्ति प्रागुक्तसमुच्चयैकेन्द्रियवत्, तेभ्योऽपि 'तिरियलोए संखेज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमानस्तेजःकायिकाः संखेयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः तेभ्योऽपि 'तेलोके असंखेज्जगुणा' त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनस्तेजःकायिकाः असंखेयगुणा' भवन्ति, प्रागुच्चयैकेन्द्रिययुक्तेः सत्त्वात् । तेभ्योऽपि 'उद्ध्रलोए असंखेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोके वर्तमानास्तेजःकायिकाः असंखेयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि 'अहोलोए विसेसाहिया' अधोलोके वर्तमानास्तेजःकायिका विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तैकेन्द्रियसमुच्चयवत् ।

अथापर्याप्तस्तेजःकायिकानामल्पवहुत्वं प्ररूपयति—'खेत्ताणुवाएणं' क्षेत्रानु-
असंख्यातगुणा हैं, तिर्यग्लोक की अपेक्षा त्रिलोकवर्त्ती असंख्यातगुणा हैं, त्रिलोकवर्त्तियों की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा हैं, ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में विशेषाधिक हैं । युक्ति पूर्ववत् जाननी चाहिए ।

तेजस्कायिकों का अल्पवहुत्व—सब से कम तेजस्कायिक ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक में हैं, ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक की अपेक्षा अधोलोक—तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में विशेषाधिक हैं, अधोलोक—तिर्यग्लोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में संख्यातगुणा हैं, तिर्यग्लोक की अपेक्षा त्रिलोकवर्त्ती असंख्यातगुणा हैं, त्रिलोकवर्त्तियों की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक

गण्य छे. तिर्यग्लोकना करता त्रिलोकना असंख्यात गण्य छे, त्रिलोकवर्त्तिथिना करता उर्ध्वलोकना असंख्यात गण्य छे उर्ध्वलोकना करता अधोलोकना विशेषाधिक छे आ स ग ध मा प डे वा म आ व्य प्रभाषेनी रीत समन्वयी

तेजस्कायिकेणु अल्प गहुत्व

सौधी ओछा तेजस्कायिके उर्ध्वलोक—तिर्यग्लोकना छे, उर्ध्वलोक तिर्यग्लोकना करता अधोलोक—तिर्यग्लोक नामना प्रतरामा विशेषाधिक छे अधोलोक तिर्यग्लोकना करता तिर्यग्लोकना संख्यातगण्य छे तिर्यग्लोकना करता त्रिलोकवर्त्ति असंख्यातगण्य छे. त्रिलोकवर्त्तिथिना करता उर्ध्वलोकना असंख्यातगण्य

पातेन-क्षेत्रानुसारेण 'मन्त्रस्थोवा तेउकाइया अपज्जत्तया उड्डुल्लोयतिरियलोए' सर्वस्तोकाः सर्वेभ्योऽल्पास्तेजःकायिकाः अपर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके तत्प्र-तरद्वयवर्तिनो भवन्ति, प्रागुक्तसमुच्चयैकेन्द्रियवत्, तेभ्योऽपि-'अहोलोयतिरिय-लोए विसेसाहिया' अधोलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनोऽपर्याप्तकास्तेजःका-यिकाः विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि 'तिरियलोए असंखेज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमानाः अपर्याप्तकास्तेजःकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति समुच्चयैके-न्द्रियवत्, तेभ्योऽपि 'तेलोके असंखेज्जगुणा' त्रैलोक्ये-लोकत्रयवर्तिनः अपर्याप्त-कास्तेजःकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तसमुच्चयैकेन्द्रियवत्, तेभ्योऽपि 'उड्डुलोए असंखेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोकके वर्तमानाः अपर्याप्तकाः तेजःकायिकाः असं-ख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तैकेन्द्रिययुक्तेः, 'अहोलोए विसेसाहिया' अधोलोके वर्तमानाः अपर्याप्तकाः तेजःकायिका विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्तैकेन्द्रिययुक्तेः,

अथ पर्याप्ततेजःकायिकानामल्पबहुत्वं प्रतिपादयति-'खेत्ताणुवाएणं सन्वत्थोवा तेउकाइया पज्जत्तया उड्डुल्लोयतिरियलोए' क्षेत्रानुपातेन-क्षेत्रानु-सारेण प्ररूपमाणः पर्याप्तकास्तेजःकायिकाः सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पा ऊर्ध्व-

में असंख्यातगुणा हैं और ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में विशेषा-धिक हैं । युक्ति पूर्ववत् ही समझना चाहिए ।

अपर्याप्त तेजस्कायिकों का अल्पबहुत्व-सब से कम अपर्याप्तक तेजस्कायिक ऊर्ध्वलोक-मध्यलोक नामक प्रतरों में हैं । ऊर्ध्वलोक-मध्यलोक की अपेक्षा अधोलोक-मध्यलोक नामक प्रतरों में विशेषा-धिक हैं । अधोलोक-मध्यलोक की अपेक्षा मध्यलोक में असंख्यात-गुणा हैं । मध्यलोक की अपेक्षा त्रिलोकवर्ती असंख्यातगुणा हैं । त्रिलोकवर्तियों की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा हैं । ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में असंख्यातगुणा हैं । युक्ति पूर्ववत् समझना चाहिए ।

छे अने उर्ध्वलोकना करता अधोलोकमा विशेषाधिक छे आ सज्जी रीत पडैलानी नेमज्ज समज्जी

अपर्याप्त तेजस्कायिकानु' अल्पबहुत्व

सौधी ओछा अपर्याप्त तेजस्कायिक उर्ध्वलोक-मध्यलोक नामना प्रतरामा छे. उर्ध्वलोक-मध्यलोकना करता अधोलोक-मध्यलोक नामना प्रतरामा विशेषा-धिक छे, अधोलोक मध्यलोकना करता मध्यलोकमा असंख्यातगुणा छे. अधो-लोक मध्यलोकना करता मध्यलोकमा असंख्यात गणुा छे मध्यलोकना करता त्रिलोकवर्ती असंख्यातगुणा छे त्रिलोकवर्तीयिना करता उर्ध्वलोकमा असं-ख्यातगुणा छे उर्ध्वलोकना करता अधोलोकमा असंख्यातगुणा छे आ कथन सज्जी रीत पडैलानी नेमज्ज छे

लोके तिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वये वर्तमाना भवन्ति प्रागुक्तसदृशवर्तकेन्द्रियवत्, तेभ्यो-
पि-‘अधोलोयतिरियलोए विसेसाहिया’ अधोलोकरुतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनः
पर्याप्तकास्तेजःकायिकाः विशेषाधिकाः किञ्चिदधिका भवन्ति, प्रागुक्तकेन्द्रिय-
युक्तेः, तेभ्योऽपि ‘तिरियलोए असखेज्जगुणा’ तिर्यग्लोके वर्तमाना स्तेजःका-
यिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति समुच्चयैकेन्द्रियवत्, तेभ्योऽपि-‘तेलोके
असंखेज्जगुणा’ त्रैलोक्ये-लोकत्रयवर्तिनः पर्याप्तकास्तेजः कायिका असंख्येय-
गुणा भवन्ति, औधिकैकेन्द्रिययुक्तेः तेभ्योऽपि ‘उड्डुल्लेए असंखेज्जगुणा’ ऊर्ध्व-
लोके वर्तमानाः पर्याप्तकास्तेजःकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति पूर्वोक्तकेन्द्रिय-
युक्तेः सत्त्वात् तेभ्योपि-‘अधोलोए विसेसाहिया’ अधोलोके वर्तमानाः पर्याप्तकाः
तेजःकायिका विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्तौधिकैकेन्द्रिययुक्ते रूपपादितत्वात् ।

अथ वायुकायिकानामल्पवहुत्वं ग्रहणयितुमाह-‘खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा
वाउकाइया उड्डुल्लोयतिरियलोए’ क्षेत्रानुपातेन-क्षेत्रानुसारेण सर्वस्वोकाः सर्वेभ्यो-
पर्याप्त तेजस्कायिको का अल्पवहुत्व-क्षेत्र के अनुसार सब से
कम पर्याप्त तेजस्कायिक ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में है, ऊर्ध्वलोक-तिर्य-
ग्लोक की अपेक्षा अधोलोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में विशेषा-
धिक हैं। अधोलोक-तिर्यग्लोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में असंख्यात
गुणा अधिक हैं। तिर्यग्लोक की अपेक्षा त्रिलोकवर्ती असंख्यातगुणा
अधिक हैं, त्रिलोकवर्तियों की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा
अधिक हैं और ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में विशेषाधिक हैं।
युक्ति पूर्ववत् समझना चाहिए ।

वायुकायिक जीवों का अल्पवहुत्व-सब से कम वायुकायिक जीव
ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामक दोनों प्रतरों में हैं, उनकी अपेक्षा अधो-

पर्याप्त तेजस्कायिकोऽपि अल्पवहुत्व

क्षेत्र प्रमाणे सौधी ओछा पर्याप्त तेजस्कायिक ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोकमा
छे. ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोकना करता अधोलोक तिर्यग्लोक नामना प्रतरमा विशेषे
पाधिक छे अधोलोक-तिर्यग्लोकना करता तिर्यग्लोकमा असंख्यात गणुा पधारे
छे तिर्यग्लोकना करता त्रिलोकवर्ती असंख्यात गणुा पधारे छे त्रिलोकवर्ती
योना करता ऊर्ध्वलोकमा असंख्यात गणुा पधारे छे अने ऊर्ध्वलोकना करता
अधोलोकमा विशेषाधिक छे. तेनी रीत पडेलानी नेमज्ज समज्जवी.

वायुकायिक जीवोऽपि अल्पवहुत्व

सौधी ओछा वायुकायिक अपि ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामना अने प्रतरमा
छे तेना करता अधोलोक तिर्यग्लोक नामना प्रतरमा विशेषाधिक छे. अधो-

ऽल्पाः, वायुकायिकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनो भवन्ति प्रागुक्त समुच्चयैकेन्द्रियवत्, तेभ्योऽपि 'अधोलोयतिरियलो विसेसाहिया' अधोलोक तिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनो वायुकायिकाः विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्त समुच्चयैकेन्द्रियवत्, तेभ्योपि 'तिरियलोए असंखेज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमाना वायुकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, समुच्चयैकेन्द्रियोक्तयुक्तेः, तेभ्योपि- 'तेलोके असंखेज्जगुणा' त्रैलोक्ये-लोकत्रयवर्तिनो वायुकायिका असंख्येय-गुणा भवन्ति प्रागुक्तैकेन्द्रियौधिकयुक्तेरुपपादनात् तेभ्योऽपि 'अधोलोए विसेसा-हिया' अधोलोके वर्तमाना वायुकायिका विशेषाधिका भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः,

अथपर्याप्तकवायुकायिकानामल्पबहुत्वं प्रतिपादयति- 'खेत्ताणुवाएणं सव्व-त्थोवा वायुकाइया अपज्जत्तया उड्डुलोयतिरियलोए' क्षेत्रानुपातेन-क्षेत्रानुसा-रेण, सर्वस्तोकाः सर्वेभ्योऽल्पाः, वायुकायिका अपर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोकतिर्य-ग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनो भवन्ति, प्रागुक्तैकेन्द्रिययुक्तेः तेभ्योऽपि 'अधोलोय-तिरियलोए विसेसाहिया' अधोलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनो वायुकायिका अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्तैकेन्द्रियौधिकवत् तेभ्योऽपि- 'तिरिय-लोए असंखेज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमाना अपर्याप्तकवायुकायिकाः असंख्येयगुणा

लोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में विशेषाधिक हैं, अधोलोक-तिर्यग-लोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं, तिर्यग्लोक की अपेक्षा त्रिलोकवर्त्ती असंख्यातगुणा हैं, त्रिलोकवर्त्तियों की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा हैं, ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में विशेषाधिक हैं। पूर्व में कथित युक्ति यहां भी समझ लेनी चाहिए।

अपर्याप्तक वायुकायिकों का अल्पबहुत्व-क्षेत्र के अनुसार सबसे कम अपर्याप्तक वायुकायिक ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में हैं। उनकी अपेक्षा अधोलोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में विशेषाधिक हैं। अधोलोक-तिर्यग्लोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा

लोक तिर्यग्लोकना करता तिर्यग्लोकमा अम भ्यात गणु छे तिर्यग्लोकना करता त्रिलोकवर्ति अस ग्यात गणु छे त्रिलोकवर्तिना करता उर्ध्वलोकमा अस-भ्यात गणु वधारे छे अने उर्ध्वलोकना करता अधोलोकमा विशेषाधिक छे. पहिला छडेवामा आवेल रीत अड्डीया पणु अनेव समलु देवी

अपर्याप्त वायुकायिकानु अल्पबहुत्व

क्षेत्रनी अपेक्षाये सौथी ओछा अपर्याप्तक वायुकायिक उर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक-नामना ये प्रतरामा छे. तेना करता अधोलोक-तिर्यग्लोक नामना प्रतरामा विशेषाधिक छे अधोलोक-तिर्यग्लोकना करता तिर्यग्लोकमा अस भ्यातगणु छे.

भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेरुपादितत्वात् तेभ्योऽपि—‘तेलोके अमंखेज्जगुणा’ त्रैलोक्ये लोकत्रयवर्तिनोऽपर्याप्तवायुकायिकाः अमंखेयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः सत्त्वात् तेभ्योऽपि—‘उद्धल्लोए असंखेज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोके वर्तमाना अपर्याप्त वायुकायिकाः असंखेयगुणा भवन्ति प्रागुक्तैकेन्द्रियवत् तेभ्योऽपि—‘अहोल्लोए विसेसाहिया’ अधोलोके वर्तमाना अपर्याप्तवायुकायिकाः विशेषात्रिका भवन्ति प्रागुक्तैकेन्द्रियसमुच्चयवत् ।

अथ पर्याप्तवायुकायिकानामल्पबहुत्वं प्रतिपादयति—‘खेत्ताणुवाएणं सञ्च-
त्थोवा वायुकाडया पज्जत्तया उद्धल्लोयतिरियल्लोए’ क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण, सर्वस्तोकाः सर्वेभ्योऽल्पाः, वायुकायिकाः पर्याप्तकाः ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनो भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘अहोल्लोयतिरियल्लोए विसेसानिया’ अधो-
लोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनः पर्याप्तवायुकायिकाः, विशेषात्रिका भवन्ति प्रागुक्तैकेन्द्रियसमुच्चयवत् तेभ्योऽपि—तिरियल्लोए अमंखेज्जगुणा’ तिर्यग्लोके वर्तमानाः पर्याप्तवायुकायिकाः असंखेयगुणा भवन्ति, पूर्वोक्तैकेन्द्रियौघिक-
युक्तेः, तेभ्योऽपि—‘तेलोक्के असंखेज्जगुणा’ त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनः पर्याप्त-
वायुकायिकाः असंखेयगुणा भवन्ति तद्युक्तेः पूर्वमुपपादितत्वात् तेभ्योऽपि—‘उद्ध-

हैं । तिर्यग्लोक की अपेक्षा त्रिलोकवर्त्ती असंख्यातगुणा हैं, त्रिलोक-
वर्त्तियों की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा हैं और ऊर्ध्वलोक
की अपेक्षा अधोलोक में विशेषाधिक हैं । इन सब अल्पबहुत्व का कारण
समुच्चय एकेन्द्रियो के अल्पबहुत्व के समान ही समझ लेना चाहिए ।

पर्याप्त वायुकायिकों का अल्पबहुत्व-क्षेत्र के अनुसार सबसे कम
पर्याप्त वायुकायिक ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में हैं, उनकी
अपेक्षा अधोलोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में विशेषाधिक हैं । अधो-
लोक-तिर्यग्लोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा अधिक हैं,

तिर्यग्लोकना करता त्रिलोकवर्ति अमंख्यात गणुा छे. त्रिलोकवर्तियेना करता
उर्ध्वलोकना असंख्यातगणुा छे अने उर्ध्वलोकना करता अधोलोकना विशेषाधिक
छे आ अधाना अल्प गणुावतु कारण समुच्चय एकेन्द्रियेना अल्पगणुावतना
प्रमाणे न समञ्जसु.

पर्याप्त वायुकायिकेणु अल्प गणुाव-

क्षेत्रना अनुसार सौथी आछा पर्याप्त वायुकायिक उर्ध्वलोक तिर्यग्लोक
नामना प्रतराभा छे तेना करता अधोलोक-तिर्यग्लोक नामना प्रतराभा विशेष-
धाधिक छे अधोलोक-तिर्यग्लोकना करता तिर्यग्लोकना असंख्यात गणुा वधादे
छे तिर्यग्लोकनी अपेक्षा त्रिलोकवर्ति अमंख्यात गणुा वधादे छे. तेना करता

લોષ અસંખેજ્જગુણા' ऊर्ध्वलोकेवर्तमानाः पर्याप्तकवायुकायिका असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तैकेन्द्रियसमुच्चयवत् तेभ्योऽपि 'अधोलोष विसैसाहिया' अधोलोके वर्तमानाः पर्याप्तकवायुकायिकाः विशेषाधिका भवन्ति औधिकैकेन्द्रियवत् ।

अथ वनस्पतिकारिकायिकानामल्पबहुत्वं प्रतिपादयति—'खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया उड्डुल्लोयतिरियलोए' क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण, सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योल्पा वनस्पतिकारिका ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनो भवन्ति प्रागुक्तसमुच्चयैकेन्द्रियवत् तेभ्योऽपि—'अधोलोयतिरियलोए विसैसाहिया' अधोलोकतिर्यग्लोके वर्तमानाः वनस्पतिकारिकाः विशेषाधिका भवन्ति प्रागुक्तैकेन्द्रियपुक्तेरनुसारात् तेभ्योऽपि—'तिरियलोए असखेज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमाना वनस्पतिकारिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि—'तेलेके असखेज्जगुणा' त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनो वनस्पतिकारिका असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तसमुच्चयैकेन्द्रियवत्, तेभ्योऽपि—'उड्डुलोए असखेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोके वर्तमाना वनस्पतिकारिका असंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तैकेन्द्रियौधिकयुक्तेः, तेभ्योऽपि तिर्यग्लोक की अपेक्षा त्रिलोकवर्ती असंख्यातगुणा अधिक हैं, उनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा अधिक हैं और ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में विशेषाधिक है। युक्तियां एकेन्द्रियों के विषय में जो कही हैं, वही यहां जान लेना चाहिए।

वनस्पतिकारिकों का अल्पबहुत्व—क्षेत्र के अनुसार सब से कम वनस्पतिकारिक जीव ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक नामक दोनों प्रतरों में हैं। ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक की अपेक्षा अधोलोक—तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में विशेषाधिक हैं। अधोलोक—तिर्यग्लोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा है, तिर्यग्लोक की अपेक्षा त्रिलोकवर्ती असंख्यातगुणा हैं, उनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा हैं और ऊर्ध्वलोक की

ઉર્ધ્વલોકમા અસખ્યાત વધારે છે, અને ઉર્ધ્વલોકના કરતા અધોલોકમા વિશેષાધિક છે એકેન્દ્રિયોના સબંધમા જે રીતે કહેવામા આવેલ છે એજ રીત આના સબંધમા પણ સમજ લેવી.

वनस्पतिकारिकोनु अल्प बहुत्व

क्षेत्रनी अनुसार सौथी ओछा वनस्पतिकारिक एव उर्ध्वलोक तिर्यग्लोक नामना अन प्रतरामा છે ઉર્ધ્વલોક-તિર્યગ્લોકના કરતા અધોલોક તિર્યગ્લોક નામના પ્રતરોમા વિશેષાધિક છે અધોલોક-તિર્યગ્લોકના કરતા તિર્યગ્લોકમા અસખ્યાતગણા છે તિર્યગ્લોકના કરતા ત્રિલોકવર્તી અસખ્યાતગણા છે તેના કરતા ઉર્ધ્વલોકમા અસખ્યાત ગણા છે, અને ઉર્ધ્વલોકના કરતા અધોલોકમા

—‘अहोलोए विसेसाहिया’ अधोलोक वर्तमाना वनस्पतिकायिका असंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तैकेन्द्रियौधिकयुक्तेः, तेभ्योऽपि—‘अहोलोए विसेसाहिया’ अधोलोके वर्तमाना वनस्पतिकायिकाः विशेषाधिका भवन्ति प्रागुक्तसमुच्चयैकेन्द्रिययुक्तेः ।

अथापर्याप्तकवनस्पतिकायिकानामल्पवृद्धत्वमाह—‘खेत्ताणुवाएण सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया अपज्जत्तया उड्डूलोयतिरियलोए’ क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण, सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, वनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तका ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनो भवन्ति युक्तेः पूर्वमुपपादितत्वात् तेभ्योऽपि—‘अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया’ अधोलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनोऽपर्याप्तकवनस्पतिकायिका विशेषाधिका भवन्ति, प्रागुक्तैकेन्द्रिययुक्तेः, तेभ्योऽपि ‘तिरियलोए असंखेज्जगुणा’ तिर्यग्लोके वर्तमानाः अपर्याप्तकवनस्पतिकायिका असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि—‘तेलोके असंखेज्जगुणा’ त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनोऽपर्याप्तकवनस्पतिकायिका असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तैकेन्द्रियसमुच्चयवत्, तेभ्योऽपि ‘उड्डूलोए असंखेज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोके वर्तमाना अपर्याप्तकवनस्प-
अपेक्षा अधोलोक में विशेषाधिक है । इसका कारण समुच्चय एकेन्द्रियों के अल्पवृद्धत्व में कहे अनुसार ही समझ लेना चाहिए ।

अपर्याप्तक वनस्पतिकायिकों का अल्पवृद्धत्व-क्षेत्र के अनुसार सब से कम अपर्याप्त वनस्पतिकायिक ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में हैं, ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक की अपेक्षा अधोलोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में विशेषाधिक हैं, अधोलोक-तिर्यग्लोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं, तिर्यग्लोक की अपेक्षा त्रिलोकस्पर्शी असंख्यातगुणा हैं, उनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा है और ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में विशेषाधिक है । युक्ति पूर्ववत् ही समझ लेना चाहिए ।

विशेषाधिक छे तेनु धारणु समुच्चय ऐकेन्द्रियेना अल्पवृद्धत्वना प्रकरणुमा क्खामा प्रमाणे न समञ्जसु ।

अपर्याप्त वनस्पतिकायिकेणु अल्पवृद्धत्व

क्षेत्रना अनुसार सौथी ओछा अपर्याप्त वनस्पतिकायिक उर्ध्वलोक-तिर्यग्लोकमा छे उर्ध्वलोक-तिर्यग्लोकना करता अधोलोक-तिर्यग्लोक नामना प्रतरैमा विशेषाधिक छे अधोलोक तिर्यग्लोकना करता तिर्यग्लोकमा असंख्यात गणु छे तिर्यग्लोकना करता त्रिलोकवर्ति असंख्यात गणु छे तेना करता उर्ध्वलोकमा असंख्यात गणु छे, अने उर्ध्वलोकना करता अधोलोकमा विशेषाधिक छे, तेनी रीत पडैला क्खामा प्रमाणे समञ्जसी ।

तिकायिका असंख्येयगुणा भवन्ति, औघिकैकेन्द्रियवत् तेभ्योऽपि—‘अहोलोए विसेसाहिया’ अधोलोके वर्तमाना पर्याप्तका वनस्पतिकायिका विशेषाधिका भवन्ति ।

अथ पर्याप्तकवनस्पतिकायिकानामल्पबहुत्वमाह—‘खेत्ताणुवाएणं सञ्चत्थोवा वणस्सइकाया पज्जत्तया उड्डूलोयतिरिलोए’ क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोका वनस्पतिकायिकाः पर्याप्तका ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनो भवन्ति, तेभ्योऽपि—‘अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया’ अधोलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनः पर्याप्तकवनस्पतिकायिका विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्योऽपि—‘तिरियलोए असंखेज्जगुणा’ तिर्यग्लोके वर्तमानाः पर्याप्तकवनस्पतिकायिका असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि—‘तेलोकके असंखेज्जगुणा’ त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनः पर्याप्तकवनस्पतिकायिका असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि—‘उड्डूलोए असंखेज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोके वर्तमानाः पर्याप्तकवनस्पतिकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘अहोलोए विसेसाहिया’ अधोलोके वर्तमानाः पर्याप्तकवनस्पतिकायिका विशेषाधिका भवन्ति प्रागुक्तसमुच्चयैकेन्द्रिययुक्तेरुपपादनादित्याशयः ॥सू० ३५॥

त्रसकायिकाल्पबहुत्ववक्तव्यता

मूलम्—खेत्ताणुवाएणं सञ्चत्थोवा तसकाइया तेलोकके उड्डूलोयतिरियलोए, असंखेज्जगुणा, अहोलोयतिरियलोए संखे-

पर्याप्त वनस्पतिकायिकों का अल्पबहुत्व-क्षेत्र के अनुसार सब से कम पर्याप्त वनस्पतिकायिक ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामक दो प्रतरों में हैं, उनकी अपेक्षा अधोलोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में विशेषाधिक हैं । अधोलोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों की अपेक्षा तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं, तिर्यग्लोक की अपेक्षा त्रिलोकवर्ती असंख्यातगुणा हैं, उनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा हैं और ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में विशेषाधिक हैं । युक्ति पूर्ववत् ही समझना चाहिए ॥ ३५ ॥

‘पर्याप्त वनस्पतिकायिकेणु अल्पबहुत्व

क्षेत्रनी अपेक्षाअे सौधी आछा पर्याप्त वनस्पति कायिक उर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामना मे प्रतरेशां छे’ तेना करता अधोलोक-तिर्यग्लोक नामना प्रतरेशां विशेषाधिक छे अधोलोक-तिर्यग्लोक नामना प्रतरेशां करता तिर्यग्लोकमा असंख्यात गणु छे तिर्यग्लोकना करता त्रिलोकवर्ति असंख्यात गणु छे. तेनी करता उर्ध्वलोकमा असंख्यात गणु छे, अने उर्ध्वलोकना करता अधोलोकमा विशेषाधिक छे. तेनी रीत पडेलानी नेमण समणवी. ॥ सू ३५ ॥

ज्जगुणा, उड्डलोए संखेज्जगुणा, अहोलोए संखेज्जगुणा, तिरियलोए असंखेज्जगुणा, खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा अपज्जत्तया तेलोक्के, उड्डलोयतिरियलोए, असंखेज्जगुणा, अहोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा, उड्डलोए संखेज्जगुणा, अहोलोए संखेज्जगुणा, निरियलोए असंखेज्जगुणा, खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा तसकाइया पज्जत्तया तेलोक्के, उड्डलोयतिरियलोए, असंखेज्जगुणा, अहोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा, उड्डलोए संखेज्जगुणा, अहोलोए संखेज्जगुणा, तिरियलोए असंखेज्जगुणा । सू० ३६॥

छाया—क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः त्रसकायिकानामन्वयगुणे, ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, अधोलोकतिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, ऊर्ध्वलोक संख्येयगुणाः, अधोलोक संख्येयगुणाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः त्रसकायिकाः अपर्याप्तकासैलोक्ये, ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः,

त्रसकायिकों का अल्पबहुत्व

शब्दार्थ—(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सव्वत्थोवा तसकाइया तेलोक्के) सब से कम त्रसकायिक त्रिलोक में हैं (उड्डलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोयतिरियलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक-तिर्यग्लोक में संख्यातगुणा हैं (उड्डलोए संखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक में संख्यातगुणा हैं (अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक में संख्यातगुणा हैं (तिरियलोए असंखिज्जगुणा) तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं ।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सव्वत्थोवा तसकाइया अपज्जत्तया) सब से कम अपर्याप्त त्रसकायिक (तेलोक्के) त्रैलोक्य में हैं

त्रसकायिकेणु अल्पबहुत्व

शब्दार्थ—(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना अनुसार (सव्वत्थोवा तसकाइया तेलोक्के) त्रिलोक्या सौधी आछा त्रसकायिके छे (उड्डलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक्या असंख्यातगण्णा छे (अहोलोय-तिरियलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक तिर्यग्लोक्या संख्यातगण्णा छे (उड्डलोए संखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक्या संख्यातगण्णा छे (अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक्या संख्यातगण्णा छे (तिरियलोए असंखिज्जगुणा) तिर्यग्लोक्या असंख्यातगण्णा छे

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना अनुसार (सव्वत्थोवा तसकाइया अपज्जत्तया)

अधोलोकतिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, ऊर्ध्वलोके संख्येयगुणाः, अधोलोके संख्येय-
गुणाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकात्सकायिकाः पर्याप्त-
कास्त्रैलोक्ये, ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, अधोलोकतिर्यग्लोके संख्येय-
गुणाः, ऊर्ध्वलोके संख्येयगुणाः, अधोलोके संख्येयगुणाः, तिर्यग्लोके असं-
ख्येयगुणाः ॥ सू० ३६ ॥

टीका—अथ त्रसकायिकानामल्पबहुत्ववक्तव्यनां प्ररूपयति—‘खेत्ताणुवाएणं’
क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण, ‘सच्चत्थोवा तसकाइया तेलोके’ सर्वस्तोकाः—सर्व-
(उद्धूलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में असं-
ख्यातगुणा हैं (अहोलोयतिरियलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक-तिर्यग्लो-
क में संख्यातगुणा हैं (उद्धूलोए संखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक में संख्यात
गुणा हैं (अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक में संख्यातगुणा हैं (तिरि-
यलोए असंखिज्जगुणा) तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं ।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सच्चत्थोवा तसकाइया पज्ज-
त्तया तेलोक्के) सब से कम पर्याप्त त्रसकायिक त्रिलोक में हैं (उद्धूलोय
तिरियलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा
हैं (अहोलोयतिरियलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक-तिर्यग्लोक में
संख्यातगुणा हैं (उद्धूलोए संखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक में संख्यातगुणा हैं
(अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक में संख्यातगुणा हैं (तिरियलोए
असंखिज्जगुणा) तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं ।

अथ त्रसकायिक जीवोंके अल्पबहुत्व की प्ररूपणा क्षेत्र की अपेक्षा

सौथी कम अपर्याप्त त्रसकायिक (तेलोक्के) त्रैलोक्यमा छे (उद्धूलोयतिरियलोए
असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोकमा असंख्यातगणु छे (अहोलोयतिरियलोए
संखिज्जगुणा) अधोलोक तिर्यग्लोकमा संख्यातगणु छे (उद्धूलोए संखिज्ज
गुणा) ऊर्ध्वलोकमा संख्यातगणु छे (अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोलोकमा
संख्यातगणु छे (तिरियलोए असंखिज्जगुणा) तिर्यग्लोकमा असंख्यातगणु छे

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना अनुसार (सच्चत्थोवा तसकाइया पज्जत्तया तेलोक्के)
सौथी ओछा पर्याप्त त्रसकायिक एवे त्रैलोक्यमा छे (उद्धूलोयतिरियलोए असं
खिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोकमा असंख्यातगणु छे (अहोलोयतिरियलोए संखि-
ज्जगुणा) अधोलोक तिर्यग्लोकमा संख्यातगणु छे (उद्धूलोए संखिज्जगुणा) ऊर्ध्व-
लोकमा संख्यातगणु छे (अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोलोकमा संख्यातगणु
छे (तिरियलोए असंखिज्जगुणा) तिर्यग्लोकमा असंख्यातगणु छे ॥ सू. ३६ ॥

टीकाध—इवे क्षेत्रनी अपेक्षाथी त्रसकायिक एवेना अल्प बहुत्वनी प्ररू-

भ्योऽल्पाः, त्रसकायिकाः—एकेन्द्रियभिन्नाद्दीन्द्रियादयसंलोकये—लोकत्रयवर्तिनो भवन्ति प्रागुक्तैकेन्द्रियाविरुद्धान्, तेभ्यः—‘उद्धूलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनस्त्रसकायिकाः द्वीन्द्रियादयः असंख्येयगुणा भवन्ति, समुच्चयैकेन्द्रियोक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि—‘अहोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा’ अधोलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनस्त्रसकायिकाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तैकेन्द्रिययुक्तेः, तेभ्योऽपि ‘उद्धूलोए संखेज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोके वर्तमानास्त्रसकायिकाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तैकेन्द्रिययुक्तेः, तेभ्योऽपि—‘अहोलोए संखेज्जगुणा’ अधोलोके वर्तमानास्त्रसकायिकाः संख्येयगुणा भवन्ति, समुच्चयैकेन्द्रियोक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि ‘तिरियलोए असंखेज्जगुणा’ तिर्यग्लोके वर्तमानास्त्रसकायिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः ।

अथापर्याप्तक त्रसकायिकानामल्पवहुत्वं प्रतिपादयति—‘खेत्ताणुवाएणं’ क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण, ‘सत्तरत्थावा तसकाइया अपज्जत्तया तेलोक्के’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, त्रसकायिकाः द्वीन्द्रियादयः, अपर्याप्तकाः, त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनो भवन्ति प्रागुक्तैकेन्द्रियसमुच्चयवत्, तेभ्यः—‘उद्धूलोयतिरियलोए असं-

की जाती है—

टीकार्थ—क्षेत्र के अनुसार सबसे कम त्रसकायिक जीव त्रिलोक में हैं। त्रिलोक की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में असंख्यातगुणा अधिक है। ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों की अपेक्षा अधोलोकतिर्यग्लोक नामक प्रतरों में संख्यातगुणा अधिक हैं, उनसे ऊर्ध्वलोक में संख्यातगुणा अधिक है, ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में संख्यातगुणा अधिक है और अधोलोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा अधिक है।

अपर्याप्त त्रसकायिकों का अल्पवहुत्व-क्षेत्र के अनुसार सब से कम अपर्याप्तक त्रसकायिक जीव त्रिलोक में है, इनकी अपेक्षा ऊर्ध्व-

पक्षा करवाभा आवे छे क्षेत्रना अनुसार सौथी ओछा त्रसकायिक एव त्रिलोकमा छे त्रिलोकनी अपेक्षाओ उर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामना प्रतराभा असंख्यातगुणा वधारे छे उर्ध्वलोक तिर्यग्लोक नामना प्रतराना करता अधोलोक-तिर्यग्लोक नामना प्रतराभा संख्यात गणुा वधारे छे तेनाथी संख्यात गणुा वधारे उर्ध्वलोकमा छे उर्ध्वलोकना करता अधोलोकमा संख्यातगणुा वधारे छे, अने अधोलोकना करता तिर्यग्लोकमा असंख्यात गणुा वधारे छे.

अपर्याप्तक त्रसकायिकानु अल्पवहुत्व

क्षेत्रना अनुसार सौथी ओछा अपर्याप्तक त्रसकायिक एवो त्रिलोकमा

अधोलोकतिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, ऊर्ध्वलोके संख्येयगुणाः, अधोलोके संख्येयगुणाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकास्त्रसकायिकाः पर्याप्तकास्त्रैलोक्ये, ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः, अधोलोकतिर्यग्लोके संख्येयगुणाः, ऊर्ध्वलोके संख्येयगुणाः, अधोलोके संख्येयगुणाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः ॥ सू० ३६ ॥

टीका—अथ त्रसकायिकानामल्पबहुत्ववक्तव्यतां प्ररूपयति—‘खेत्ताणुवाएणं’ क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण, ‘सव्वत्थोवा तसकाइया तेलोके’ सर्वस्तोकाः—सर्वे—(उड्डूलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोयतिरियलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक—तिर्यग्लोक में संख्यातगुणा हैं (उड्डूलोए संखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक में संख्यातगुणा हैं (अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक में संख्यातगुणा हैं (तिरियलोए असंखिज्जगुणा) तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं ।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सव्वत्थोवा तसकाइया पज्जत्तया तेलोक्के) सब से कम पर्याप्त त्रसकायिक त्रिलोक में हैं (उड्डूलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं (अहोलोयतिरियलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक—तिर्यग्लोक में संख्यातगुणा हैं (उड्डूलोए संखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक में संख्यातगुणा हैं (अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोलोक में संख्यातगुणा हैं (तिरियलोए असंखिज्जगुणा) तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा हैं ।

अथ त्रसकायिक जीवों के अल्पबहुत्व की प्ररूपणा क्षेत्र की अपेक्षा

सौथी कम अपर्याप्त त्रसकायिक (तेलोक्के) त्रैदोइयमा छे (उड्डूलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा) उध्वदोइ तिर्यदोइयमा असंख्यात गण्णा छे (अहोलोयतिरियलोए संखिज्जगुणा) अधोदोइ तिर्यदोइयमा संख्यात गण्णा छे (उड्डूलोए संखिज्जगुणा) उध्वदोइयमा संख्यातगण्णा छे (अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोदोइयमा संख्यातगण्णा छे (तिरियलोए असंखिज्जगुणा) तिर्यदोइयमा असंख्यात गण्णा छे

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्रना अनुसार (सव्वत्थोवा तसकाइया पज्जत्तया तेलोक्के) सौथी ओछा पर्याप्त त्रसकायिक एवे त्रैदोइयमा छे (उड्डूलोयतिरियलोए असंखिज्जगुणा) उध्वदोइतिर्यदोइयमा असंख्यातगण्णा छे (अहोलोयतिरियलोए संखिज्जगुणा) अधोदोइ तिर्यदोइयमा संख्यातगण्णा छे (उड्डूलोए संखिज्जगुणा) उध्वदोइयमा संख्यातगण्णा छे (अहोलोए संखिज्जगुणा) अधोदोइयमा संख्यातगण्णा छे (तिरियलोए असंखिज्जगुणा) तिर्यदोइयमा असंख्यातगण्णा छे ॥ सू० ३६ ॥

टीकार्थ—इये क्षेत्रनी अपेक्षाथी त्रसकायिक एवेना अल्प बहुत्वनी प्ररूप-

भ्योऽल्पाः, त्रसकायिकाः—एकेन्द्रियमिन्द्राद्द्वीन्द्रियादयश्चैत्रिये—लोकत्रयवर्तिनो भवन्ति प्रागुक्तैकेन्द्रियोधिकवत्, तेभ्यः—‘उर्ध्वलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनस्त्रसकायिकाः द्वीन्द्रियादयः असंखेयगुणा भवन्ति, समुच्चयैकेन्द्रियोक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि—‘अहोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा’ अधोलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनस्त्रसकायिकाः संखेयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तैकेन्द्रिययुक्तेः, तेभ्योऽपि ‘उर्ध्वलोए संखेज्जगुणा’ ऊर्ध्वलोके वर्तमानास्त्रसकायिकाः संखेयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तैकेन्द्रिययुक्तेः, तेभ्योऽपि—‘अहोलोए संखेज्जगुणा’ अधोलोके वर्तमानास्त्रसकायिकाः संखेयगुणा भवन्ति, समुच्चयैकेन्द्रियोक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि ‘तिरियलोए असंखेज्जगुणा’ तिर्यग्लोके वर्तमानास्त्रसकायिकाः असंखेयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः ।

अथापर्याप्तक त्रसकायिकानामल्पवहुत्वं प्रतिपादयति—‘खेत्ताणुवाएणं’ क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण, ‘सञ्जत्थावा तस काडया अपज्जत्तया तेलोक्के’ सर्वस्तोकाः—संभ्योऽल्पाः, त्रसकायिकाः द्वीन्द्रियादयः, अपर्याप्तकाः, त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनो भवन्ति प्रागुक्तैकेन्द्रियसमुच्चयवत्, तेभ्यः—‘उर्ध्वलोयतिरियलोए असं-

की जाती है—

टीकार्थ—क्षेत्र के अनुसार सबसे कम त्रसकायिक जीव त्रिलोक में हैं। त्रिलोक की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में असंख्यातगुणा अधिक हैं। ऊर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक नामक प्रतरों की अपेक्षा अधोलोकतिर्यग्लोक नामक प्रतरों में संख्यातगुणा अधिक हैं, उनसे ऊर्ध्वलोक में संख्यातगुणा अधिक है, ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में संख्यातगुणा अधिक है और अधोलोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा अधिक हैं।

अपर्याप्त त्रसकायिकों का अल्पवहुत्व—क्षेत्र के अनुसार सब से कम अपर्याप्तक त्रसकायिक जीव त्रिलोक में हैं, इनकी अपेक्षा ऊर्ध्व-

पणा करवाभा आवे छे क्षेत्रना अनुसार सौधी ज्योछा त्रसकायिक लुव त्रिलोकभा छे त्रिलोकनी अपेक्षाछे उर्ध्वलोक—तिर्यग्लोक नामना प्रतराभा असंख्यातगणुा वधारे छे उर्ध्वलोक तिर्यग्लोक नामना प्रतराभा करता अधोलोक—तिर्यग्लोक नामना प्रतराभा संख्यात गणुा वधारे छे तेनाधी संख्यात गणुा वधारे उर्ध्वलोकभा छे उर्ध्वलोकना करता अधोलोकभा संख्यातगणुा वधारे छे, अने अधोलोकना करता तिर्यग्लोकभा असंख्यात गणुा वधारे छे.

अपर्याप्तक त्रसकायिकेणु अल्पवहुत्व

क्षेत्रना अनुसार सौधी ज्योछा अपर्याप्तक त्रसकायिक लुवे त्रिलोकभा

खेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनस्त्रसकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तैकेन्द्रियसमुच्चययुक्तेः, तेभ्योऽपि 'अधोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा' अधोलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनस्त्रसकायिका अपर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति समुच्चयैकेन्द्रियोक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि 'उद्दलोए संखेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोके वर्तमानाः अपर्याप्ताः त्रसकायिका संख्येयगुणा भवति प्रागुक्तैकेन्द्रियसमुच्चयवत्, तेभ्योऽपि—'तिरियलोए असंखेज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमानास्त्रसकायिका अपर्याप्तका असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तसमुच्चयैकेन्द्रियवत्

अथ पर्याप्तक त्रसकायिकानामल्पबहुत्वं प्रतिपादयति—'खेत्ताणुवाएणं' क्षेत्र-नुसारेण 'सन्वत्थोवा तसकाइया पज्जत्तया तेलोक्के' सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, त्रसकायिकाः—द्वीन्द्रियादयः, पर्याप्तकाः, त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनो भवन्ति, प्रागुक्तसमुच्चयैकेन्द्रियवत्, तेभ्यः—'उद्दलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनस्त्रसकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तैकेन्द्रियौधिकयुक्तेः, तेभ्योऽपि—'अधोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा' अधोलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनस्त्रसकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति,

लोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में असंख्यातगुणा अधिक हैं, ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक प्रतरों की अपेक्षा अधोलोक-तिर्यग्लोक में संख्यातगुणा अधिक हैं, अधोलोक-तिर्यग्लोक की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में संख्यातगुणा अधिक हैं, ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में संख्यातगुणा अधिक हैं, अधोलोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणा अधिक हैं।

पर्याप्तक त्रसकायिकों का अल्पबहुत्व-क्षेत्र की अपेक्षा से सबसे कम पर्याप्त त्रसकायिक जीव त्रिलोक में हैं, उनकी अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में असंख्यातगुणा है, उनकी अपेक्षा अधोलोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों में संख्यातगुणा है, उनकी अपेक्षा भी

छे तेना करता ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामना प्रतराभा असंख्यात गण्णा वधारे
छे ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामना प्रतराभा करता अधोलोक-तिर्यग्लोकभा संख्यात गण्णा वधारे छे अधोलोक-तिर्यग्लोकना करता ऊर्ध्वलोकभा संख्यात गण्णा वधारे
छे ऊर्ध्वलोकना करता अधोलोकभा संख्यात गण्णा वधारे छे अधोलोकना करता तिर्यग्लोकभा असंख्यात गण्णा वधारे छे.

पर्याप्तक त्रसकायिकोनु अल्प बहुत्व

क्षेत्रना अनुसार सौधी ओछा पर्याप्तक त्रस कायिक एव त्रिलोकभा छे तेना करता ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोक नामना प्रतराभा असंख्यात गण्णा छे. तेना करता अधोलोक-तिर्यग्लोक नामना प्रतराभा संख्यातगण्णा छे. ऊर्ध्वलोकना

प्रागुक्तसमुच्चयैकेन्द्रियवत्, तेभ्योऽपि 'उर्ध्वलोए संखेज्जगुणा' ऊर्ध्वलोके वर्तमानाः पर्याप्तकास्रसकायिकाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि—'अधोलोए संखेज्जगुणा' अधोलोके वर्तमाना स्रसकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, प्रागुक्तयुक्तेः, तेभ्योऽपि—'तिर्यग्लोए असंखेज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमानस्रसकायिकाः पर्याप्तका असंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तैकेन्द्रियसमुच्चययुक्तेरित्याशयः । इति चतुर्विंशं क्षेत्रद्वारं समाप्तम् ॥सू० ३६॥

बन्धद्वारवक्तव्यता—

मूलम्—एएसि णं भंते ! जीवाणं आउयस्स कम्मस्स वंधगाणं, अबंधगाणं, पज्जत्ताणं, अपज्जत्ताणं, सुत्ताणं, जागराणं, समोहयाणं, असमोहयाणं सायावेयगाणं, असायावेयगाणं, इंदिओवउत्ताणं, नो इंदिओवउत्ताणं, सागारोवउत्ताणं, अणागारोवउत्ताण य, कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुह्हा वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा आउयस्स कम्मस्स वंधगा १ अपज्जत्तया संखेज्जगुणा २, सुत्ता संखेज्जगुणा ३, समोहया संखेज्जगुणा ४, सायावेयगा संखेज्जगुणा ५, इंदिओवउत्ता संखेज्जगुणा ६, अणागारोवउत्ता संखेज्जगुणा ७, सागरोवउत्ता संखेज्जगुणा ८, नो इंदिओवउत्ता विसेसाहिया ९, असायावेयगा विसेसाहिया १०, असमोहया विसेसाहिया ११, जागरा विसे-
ऊर्ध्वलोक में संख्यातगुणा हैं, ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में संख्यातगुणा अधिक हैं और अधोलोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में वर्तमान पर्याप्त त्रसकायिक असंख्यातगुणा अधिक है । इन के इस अल्प बहुत में वही युक्ति समझना चाहिए जो समुच्चय पञ्चेन्द्रियों के विषय में कही गई है ॥३६॥

चौबीसमां क्षेत्रद्वार समाप्त

कस्ता अधोलोकमा स ख्यात गणुा वधारे छे. अने अधोलोकमा कस्ता तिर्य-
ग्लोकमा वर्तमान पर्याप्त त्रसकायिक अस ख्यात गणुा वधारे छे आभना आ
अल्प बहुत्वमा ओ न युक्ति समझवी के ने समुच्चय पञ्चेन्द्रियोना स अधमां
कडेवामा आवेल छे ॥ सू ३६ ॥

चौबीसमु क्षेत्रद्वार समाप्त

साहिया१०, पञ्जत्तया विसेसाहिया१३, आउयस्स कम्मस्स
अबंधया विसेसाहिया १४ ॥सू० ३७॥

छाया-एतेषां खलु भदन्त ! जीवानामायुष्कस्य कर्मणो बन्धकानाम्,
अबन्धकानाम्, पर्याप्तकानाम्, अपर्याप्तकानाम्, सुप्तानाम्, जाग्रतानाम्, सम-
वहतानाम्, असमवहतानाम्, सातवेदकानाम्, असातवेदकानाम्, इन्द्रियोपयुक्ता-
नाम्, नो इन्द्रियोपयुक्तानाम्, साकारोपयुक्तानाम्, अनाकारोपयुक्तानाञ्च कतरे
कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः

बन्धद्वार वक्तव्यता-

शब्दार्थ-(एणसि णं भंते !) हे भगवन् (जीवाणं) जीवों के (आउ-
यस्स कम्मस्स) आयु कर्म के (बंधगाणं अबंधगाणं) बंध करने वालों,
न बंध करने वालों (पञ्जत्ताणं अपञ्जत्ताणं) पर्याप्तों, अपर्याप्तों
(सुत्ताणं जागराणं) सुप्तों और जागृतों (समोहयाणं असमोहयाणं)
समुद्घात करते हुआओं, न समुद्घात करते हुआओं, (सायावेयगाणं
असायावेयगाणं) सातावेदकों, असातावेदकों (इंदिओवउत्ताणं नो
इंदिओवउत्ताणं) इन्द्रियोपयुक्तों, नो इन्द्रियोपयुक्तों (सागारोवउत्ताणं
अणागारोवउत्ताणं) साकार उपयोग से उपयुक्तों, अनाकारोपयोग में
उपयुक्तों में से (कयरे) कौन (कयरेहिंतो) किससे (अप्पा वा) अल्प
(बहुया वा) या बहुत (तुल्ला वा) या तुल्य (विसेसाहिया वा) या
विशेषाधिक हैं ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा) सब से कम जीव

बन्धद्वारणी वक्तव्यता

शब्दार्थ-(एणसिणं भंते !) हे भगवन् आ (जीवाण) एवेना (आउयस्स
कम्मस्स) आयुर्कर्मना (बंधगाणं अबंधगाणं) बंध करवावाणां अने बंध न करवा
वाणाभा (पञ्जत्ताणं अपञ्जत्ताणं) पर्याप्तो अने अपर्याप्तोभा (सुत्ताणं जागराणं)
सुतेवा अने नगतेवाओभा (समोहयाणं असमोहयाणं) समुद्घात करवावाणां अने
समुद्घात न करवावाणाओभा (सायावेयगाणं असायावेयगाणं) साता वेदकेभा
अने असाता वेदकेभा (इंदिओवउत्ताणं नो इंदिओवउत्ताणं) इंद्रियोपयोगवाणा-
ओभा अने नो इंद्रियोपयुक्तोभा (सागारोवउत्ताणं अणागारोवउत्ताणं) साकार
उपयोगवाणाओभा अने अनाकारोपयोगवाणाओभा (कयरे) केणु (कयरेहिंतो)
केनाथी (अप्पा वा) अल्प छे ? अगरे (बहुया वा) णहुं छे ? (तुल्ला वा) अथवा
तुल्य छे ? (विसेसाहियावा) विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा) सौथी ओछा एव (आउय-

जीवाः आयुष्कस्य कर्मणो बन्धकाः १, अपर्याप्तकाः संख्येयगुणाः २, मृताः संख्येयगुणाः ३, समवहताः संख्येयगुणाः ४, सातवेदकाः संख्येयगुणाः ५, इन्द्रियोपयुक्ताः संख्येयगुणाः ६, अनाकारोपयुक्ताः संख्येयगुणाः ७, साकारोपयुक्ताः संख्येयगुणाः ८, नो इन्द्रियोपयुक्ता विशेषाधिकाः ९, असातावेदका विशेषाधिका १०, असमवहता विशेषाधिकाः ११, जाग्रतो विशेषाधिकाः १२, पर्याप्तका विशेषाधिकाः १३, आयुष्कस्य कर्मणोऽबन्धका विशेषाधिकाः ॥

(आउचस्स कम्मस्स बंधगा) आयुर्कर्म के बन्धक हैं (अपज्जत्तया संखेज्जगुणा) अपर्याप्तक संख्यातगुणा हैं (सुत्ता संखेज्जगुणा) सुप्त संख्यातगुणा हैं (समोहया संखेज्जगुणा) समुद्घात वाले संख्यातगुणा हैं (सायावेयगा संखेज्जगुणा) सातावेदक संख्यातगुणा हैं (इन्द्रियोवत्ता) इन्द्रियोपयुक्त संख्यातगुणा हैं (अणागारोवत्ता संखेज्जगुणा) अनाकार उपयोग में उपयुक्त संख्यातगुणा हैं (सागारोवत्ता संखेज्जगुणा) साकारोपयोग वाले संख्यातगुणा हैं (नोइन्द्रियोवत्ता विसेसाहिया) नोइन्द्रिय के उपयोग वाले विशेषाधिक हैं (आसायावेयगा विसेसाहिया) असातावेदक विशेषाधिक हैं (असमोहया विसेसाहिया) समुद्घात न करते हुए विशेषाधिक है (जागरा विसेसाहिया) जाग्रत विशेषाधिक हैं (पज्जत्तया विसेसाहिया) पर्याप्त विशेषाधिक हैं (आउचस्स कम्मस्स अबंधया विसेसाहिया) आयु कर्म के अबन्धक विशेषाधिक हैं ।

अब बन्धद्वार की अपेक्षा से जीवों के अल्पबहुत्व का प्रतिपादन

स्स कम्मस्स बंधगा) आयु कर्मणा बन्धकं छे (अपज्जत्तया संखेज्जगुणा) अपर्याप्तक संख्यातगुणा छे (सुत्ता संखेज्जगुणा) सुप्त संख्यातगुणा छे (समोहया संखेज्जगुणा) समुद्घातवाणा संख्यातगुणा छे (सायावेयगा संखेज्जगुणा) सातावेदक संख्यातगुणा छे (इन्द्रियोवत्ता संखेज्जगुणा) इन्द्रियोपयुक्त संख्यातगुणा छे (अणागारोवत्ता संखेज्जगुणा) अनाकारोपयुक्तवाणा संख्यातगुणा छे (सागारोवत्ता संखेज्जगुणा) साकारोपयोगवाणा संख्यातगुणा छे (नो इन्द्रियोवत्ता विसेसाहिया) नो इन्द्रियोपयोगवाणा विशेषाधिक छे (आसायावेयगा विसेसाहिया) असातावेदक विशेषाधिक छे (असमोहया विसेसाहिया) समुद्घात न करवावाणा विशेषाधिक छे, (जागरा विसेसाहिया) जाग्रतविशेषाधिक छे, (पज्जत्तया विसेसाहिया) पर्याप्तके विशेषाधिक छे, (आउचस्स कम्मस्स अबंधया विसेसाहिया) आयुर्कर्मणा अबन्धक विशेषाधिक छे ॥ ३६ ॥

टीकार्थ—इत्थे बंधद्वारनी अपेक्षाथी एतेना अल्प बहुत्वमु निरूप्यु

टीका—अथ बन्धद्वारमधिकृत्याल्पबहुत्वं प्ररूपयितुमाह—‘एएसि णं भंते ! जीवाणं’ हे भदन्त ! एतेषा खलु जीवानाम् ‘आउयस्स कम्मस्स बंधगाणं’ आयुष्यस्य कर्मणो बन्धकानाम्, ‘अबंधगाणं’ अबन्धकानाम्, ‘पज्जत्ताणं’ पर्याप्तकानाम्, ‘अपज्जत्ताणं’ अपर्याप्तकानाम्, ‘सुत्ताणं’ सुप्तानाम्, ‘जागराणं’ जाग्रताम्, ‘समोहयाणं’ समवहत्तानाम्, ‘असमोहयाणं’ असमवहत्तानाम्, ‘सायावेयगाणं’ सातावेदकानाम्, ‘असायावेयगाणं’ असातावेदकानाम् ‘इंदिओवउत्ताणं’ इन्द्रियोपयुक्तानाम् ‘नो इंदिओवउत्ताणं’ नो इन्द्रियोपयुक्तानाम् ‘सागारोवउत्ताणं’ साकारोपयुक्तानाम्, ‘अणागारोवउत्ताण य’ अनाकारोपयुक्तानां च मध्ये ‘कयरे कयरेहिंतो’ कतरे कतरेभ्यः, ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा?’ अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘सव्वत्थोवा जीवा आउयस्स कम्मस्स क्रिया जाता है—

टीकार्थ—श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन आयु कर्म का बंध करने वाले, आयुकर्म का बन्ध न करने वाले, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, सुप्त, जागृत, समुद्घात को प्राप्त अर्थात् समुद्घात करते हुए, समुद्घात न करते हुए, साता का वेदन करने वाले, असाता का वेदन करने वाले, इन्द्रियों के उपयोग के उपयुक्त, नो इन्द्रिय के उपयोग वाले, साकारोपयोग अर्थात् ज्ञानोपयोग वाले, अनाकारोपयोग अर्थात् दर्शनोपयोग वाले जीवों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ।

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सब से कम जीव आयुकर्म के बन्धक हैं, क्योंकि आयुकर्म के बन्ध का काल प्रतिनियत और स्वल्प

करवाया आव्यु छे

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् आ आयुकर्मना अथ न करवावाणा पर्याप्तक अपर्याप्तक सुप्त, जागृत—समुद्घातने प्राप्त अर्थात् समुद्घात करते होय तेवा समुद्घात न करेता होय तेवा साता वेदन करेता होय तेवा, असाता वेदन करवावाणा इन्द्रियोना उपयोगथी उपयुक्त नो इन्द्रियोना उपयोगवाणा साकारोपयोग ओटले के ज्ञानोपयोगवाणा अनाकारोपयोग ओटले के दर्शनोपयोगवाणा एवोमा एण्ठे केनाथी अल्प वधारे—तुल्य—अथवा विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम सीधी ओछा एव आयुकर्मना अथ करवावाणा छे केभके आयुकर्मना अथना काल प्रतिनियत अने स्वल्प

बंधगा ?' सर्स्नोकाः—सर्नेभ्योऽल्पाः जीवाः, आयुष्यस्य कर्मणो बन्धका भवन्ति आयुर्वन्धकालस्य प्रतिनियतत्वात् ? तेभ्यः 'अपज्जत्तया संखेज्जगुणा' अपर्याप्तताः संख्येयगुणा भवन्ति, अपर्याप्तानाम् अनुभूयमानमवत्रिभागाघवशेषायुषां पारभविकायुर्वन्धकत्वात् द्वौ त्रिभागौ अवन्धकालः, एकश्च वन्धकाल इति बन्धकालादवन्धकालस्य संख्येयगुणत्वात् आयुर्वन्धकेभ्योऽपर्याप्तज्ञाना संख्येयगुणत्वं भवति तेभ्योऽपर्याप्तेभ्योऽपि—'सुत्ता संखेज्जगुणा' गुप्ताः संख्येयगुणा भवन्ति पर्याप्तेषु अपर्याप्तेषु च गुप्तानामुपलम्भेन, अपर्याप्तेभ्यश्च पर्याप्तानां संख्येयगुणत्वात्; अपर्याप्तेभ्यः गुप्तानां संख्येयगुणत्वं बोध्यम् ३, तेभ्योऽपि सुप्तेभ्यः 'समोहया संखेज्जगुणा ४' समवहताः संख्येयगुणा भवन्ति, पर्याप्तेषु

है। आयुर्कर्म के बंधकों की अपेक्षा अपर्याप्त जीव संख्यातगुणा अधिक हैं। अपर्याप्त जीव अनुभूयमान भव के तीन भागों में से दो भाग वीत जाने पर और एक भाग शेष रहने पर आयु के बन्धक होते हैं। इस प्रकार तीन भागों में से दो भाग अवन्धकाल और एक भाग वन्धकाल है। अतः बन्धकाल से अवन्धकाल संख्यातगुणा होने के कारण आयु बन्धकों की अपेक्षा अपर्याप्त संख्यातगुणा अधिक कहे गए हैं।

अपर्याप्तकों की अपेक्षा सुप्त जीव संख्यातगुणा हैं, क्योंकि सुप्त जीव पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों—दोनों में पाये जाते हैं और अपर्याप्तकों की अपेक्षा पर्याप्तक संख्यातगुणा अधिक हैं। सुप्त जीवों की अपेक्षा समवहत (समुद्घात वाले) जीव संख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि बहुत—से पर्याप्त और अपर्याप्त जीव सदा मारणान्तिक समु-

छे. आयुर्कर्मना बंधकेनी अपेक्षार्थी अपर्याप्त एव स ज्ञातगण्णा वधारे छे. अपर्याप्त एव अनुभूयमान लवना त्रयु लालोभाथी जे लालो वीती नय त्यारे अने ओके लाल शेष रहे त्यारे आयुना बंधक डोय छे आ प्रभाणु त्रयु लालोभाथी जे लाल अणन्ध काल अने ओके लाल बन्धकाल छे. आथी बन्धकालथी अणन्धन काल स ज्ञातगण्णा डोवाना डारणु आयुबन्धकेनी अपेक्षा अपर्याप्त स ज्ञातगण्णा वधारे कडेवासि आवे छे.

अपर्याप्तकेनी अपेक्षार्थी सुप्त एव स ज्ञात गण्णा छे. केमके सुप्त एव पर्याप्त अने अपर्याप्त बन्नेभा पणु भेणवी शकय छे, अपर्याप्तकेनी अपेक्षा पर्याप्त स ज्ञात गण्णा वधारे छे सुप्त एवेनी अपेक्षा समवहत (समुद्घात वाणा) एव स ज्ञातगण्णा वधारे छे. केम के वण्णा थरा पर्याप्त अने अपर्याप्त एव सदा मारणान्तिक समुद्घात करता डोय तेवा मणी आवे छे. सधणा एवेनी अपेक्षा साताना वेहक एव स ज्ञात गण्णा छे. केमके

ચ અપર્યાપ્તેષુ ચ મારણાન્તિકસમુદ્ઘાતેન વહૂના સમવહતાનાં સમુદ્ઘાતં કુર્વ-
તામ્ સર્વતોપલ્લભ્યમાનત્વાત્, તેભ્યોઽપિ સમવહતેભ્યઃ—‘સાયાવેયગા સ સ્વેજ્જગુણા
૫’ સાતાવેદકાઃ સંખ્યેયગુણા ભવન્તિ, આયુર્વન્ધકા પર્યાપ્ત સુપ્તેષ્વેપિ સાતાવેદ-
કાનામુપલ્લભ્યમાનત્વાત્, તેભ્યોઽપિ સાતાવેદકેભ્યઃ ‘ઇન્દ્રિઓવચ્ચા સ્વેજ્જગુણા
૬’ ઇન્દ્રિયોપયુક્તાઃ સંખ્યેયગુણા ભવન્તિ, અસાતાવેદકાનામપિ ઇન્દ્રિયોપયોગસ્યો-
પલ્લભ્યમાનત્વાત્, તેભ્યોઽપિ ‘અનાકારોવચ્ચા સ્વેજ્જગુણા ૭’ અનાકારોપયોગો
પયુક્તાઃ સંખ્યેયગુણા ભવન્તિ, ઇન્દ્રિયોપયોગેષુ ચાનાકારોપયોગસ્યોપલ્લભ્યમાન-
ત્વાત્, તેભ્યોઽપિ ‘સાકારોવચ્ચા સ્વેજ્જગુણા ૮’ સાકારોપયુક્તાઃ સંખ્યેયગુણા
ભવન્તિ, ઇન્દ્રિયોપયોગેષુ ચ સાકારોપયોગકાલસ્ય વહુત્વેન તત્કાલ વિશિષ્ટાના-
મપિ સંખ્યેયગુણત્વસંભવાત્, તેભ્યોઽપિ ‘નો ઇન્દ્રિઓવચ્ચા વિસેસાહિયા ૯’ નો

દ્ઘોત કરતે હુણ પાયે જાતે હૈં । સમવહત જીવોં કી અપેક્ષા સાતા કે
વેદક જીવ સંખ્યાતગુણા હૈં, ક્યોંકિ આયુ કે વન્ધક, અપર્યાપ્ત ઓર
સુસ જીવોં મે ખી સાતા કા વેદન કરને વાલે ઉપલબ્ધ હોતે હૈં । સાતા-
વેદકોં કી અપેક્ષા ઇન્દ્રિયોપયુક્ત જીવ સંખ્યાતગુણા અધિક હૈં, ક્યોં-
કિ ઇન્દ્રિયોં કા ઉપયોગ લગાને વાલે, સાતાવેદકોં કે અતિરિક્ત
અસાતાવેદક ખી હોતે હૈં । ઇન્દ્રિયો પયુક્તોં કી અપેક્ષા અનાકારોપયુક્ત
અર્થાત્ દર્શન કા ઉપયોગ લગાયે હુણ જીવ સંખ્યાતગુણા અધિક
હોતે હૈં, ક્યોંકિ ઇન્દ્રિયોપયોગ ઓર નોઇન્દ્રિયોં કે ઉપયોગ વાલોં મે-
દોનોં મે અનાકાર ઉપયોગ દેસ્લા જાતા હૈં । અનાકારોપયુક્તોં કી
અપેક્ષા સાકારોપયુક્ત સંખ્યાતગુણા અધિક હૈં ક્યોંકિ અનાકારોપયોગ
કી અપેક્ષા સાકારોપયોગ કા કાલ અધિક હૈં, ઇસ કારણ સાકારોપ-
યોગ વાલે ખી અધિક હૈં । સાકારોપયોગ વાલોં કી અપેક્ષા ખી નોઇ-
ન્દ્રિયોપયોગ વાલે વિશેષાધિક હૈં, ક્યોંકિ ઇન મે નોઇન્દ્રિય-અનાકાર

આયુના ળ ધેક, અપર્યાપ્ત અને સુસ જીવોંમાં પણ સાતાવેદન કરવાવાળા
ઉપલબ્ધ થાય છે સાતાવેદકોની અપેક્ષાથી ઇન્દ્રિયોપયુક્ત જીવ સંખ્યાતગણી
વધારે છે કેમકે ઇન્દ્રિયોના ઉપયોગ લગાવવા વાળા સાતાવેદકોના શિવાય
અસાતાવેદકો પણ હોય છે ઇન્દ્રિયોપયુક્તોના કરતા અનાકારોપયુક્ત અર્થાત્
દર્શનને ઉપયોગ લગાવવાળા જીવ સંખ્યાત ગણી વધારે હોય છે, કેમકે
ઇન્દ્રિયોપયોગ અને નો ઇન્દ્રિયોના ઉપયોગવાળાઓમા ઝોમ ળનેમા અનાકાર
ઉપયોગ જોવામા આવે છે અનાકારોપયુક્તોના કરતા સાકારોપયોગવાળા
સંખ્યાત ગણી વધારે છે, કેમકે અનાકારોપયોગવાળાની અપેક્ષા સાકારોપયોગને
કાળ વધારે છે એ કારણે સાકારોપયોગવાળા વધારે છે સાકારોપયોગવાળાઓના
કરતા પણ નો ઇન્દ્રિયોપયોગવાળા વિશેષાધિક છે, કેમકે—તેમનામા નોઇન્દ્રિય

इन्द्रियोपयोगीयुक्ता विशेषाधिका भवन्ति, तत्र नो इन्द्रियानामारोपयुक्तानामपि समावेशेन विशेषाधिकत्वसंभवात्, तेभ्योऽपि—‘आसायावेद्यया विसेसाहिया १०’ असातावेदका विशेषाधिका भवन्ति, इन्द्रियोपयुक्तानामपि असातवेदकत्वात्, तेभ्योऽपि—‘असमोहया विरोसाहिया ११’ असमवहताः विशेषाधिका भवन्ति, सातवेदकानामपि असमवहतात्त्वात् असातवेदकत्वात्, तेभ्योऽपि—‘जागरा विसेसाहिया १२’ जागराः विशेषाधिका भवन्ति, कतिपयानां समवहतानामपि जागरत्वत्त्वात् जागराणां विशेषाधिकत्वसंभवात्, तेभ्योऽपि ‘पञ्जक्तया विसेसाहिया १३’ पर्याप्तका विशेषाधिका भवन्ति, कतिपयानां सुप्तानामपि पर्याप्तत्वेन पर्याप्तकानां विशेषाधिकत्वसंभवात्, जागराणां पर्याप्तत्वस्यैव सत्त्वेन सुप्तानां पर्याप्तत्वनियमात्, तेभ्योऽपि पर्याप्तेभ्यः ‘आउ-यास कर्मसस अवंधया विसेसाहिया १४’ आयुयस्य कर्मणोऽवन्धकाः विशेषा-
 उपयोग चाले भी सम्मिलित हैं। इनकी अपेक्षा असातावेदक विशेषाधिक हैं, क्योंकि इन्द्रियोपयुक्त भी असाता के वेदक होते हैं। असातावेदकों की अपेक्षा असमवहत (समुद्घात न किये हुए) विशेषाधिक हैं, क्योंकि सातावेदक भी समवहत होते हैं, अतएव समवहतों की विशेषाधिकता है। समवहतों की अपेक्षा जागृत विशेषाधिक हैं, क्यों कि कतिपय समवहत जीव भी जागृत होते हैं। जागृतों की अपेक्षा पर्याप्त विशेषाधिक हैं, क्योंकि बहुत-से जीव ऐसे भी हैं जो जागृत न होते हुए भी अर्थात् सुप्त होकर भी पर्याप्त हैं। जो जागृत हैं वे पर्याप्त ही होते हैं अतएव सुप्त जीवों के विषय में ऐसा नियम नहीं है। पर्याप्त जीवों की अपेक्षा आयुकर्म के अवन्धक जीव विशेषाधिक है, क्योंकि अपर्याप्तक भी आयुकर्म के बन्धक होते हैं। यहां

अनाकार उपयोगवाणा पशु भजेला छे. तेना करता असातावेदक विशेषाधिक छे. केमके इन्द्रियोपयुक्त पशु असातानु वेदन करवावाणा होय छे. असातावेदकेना करता असमवहतन—(समुद्घात न करनारा) विशेषाधिक छे केमके सातावेदक पशु असमवहत होय छे तेथी न असमवहतानु विशेषाधिक पशु छे असमवहताना करता अत्रत विशेषाधिक छे केमके केटलाक सगवहत एव पशु अत्रत होय छे अत्रताना करता पर्याप्त एव विशेषाधिक छे. केमके घण्टा भरा एव जेवा पशु होय छे जेजो अत्रत न होवाछता पशु अर्थात् सुप्त धर्मे पशु पर्याप्त छे जेजो अत्रत छे, तेजो पर्याप्त न होय छे. परंतु सुप्त एवोना स अधमा जेवा नियम नहीं, पर्याप्त एवोना करता आयु कर्मना अधक एव विशेषाधिक छे केमके अपर्याप्त पशु आयुकर्मना अधक होय

ધિન્ના મરણિ, આર્યાપ્રજ્ઞાનામાપે આયુઃ કર્મવન્ધકવસદ્માવાત્, અત્રેદં વોધ્યમ્
-આયુષ્યકર્મવન્ધકવન્ધકાના પર્યાપ્તકાપર્યાપ્તકાનામ્, સુપ્તજાગરાણામ્, સમ-
વહતાસમવહતાના સાતવેદકાસાતવેદકાનામ્, ઇન્દ્રિયોપયુક્ત નો ઇન્દ્રિયોપયુક્તાનાં
સાકારોપયુક્તાનાકારોપયુક્તાનાં સમુદાયેનાલ્પવહુત્વં પ્રતિપાદિતમ્-તદભિપ્રાયજ્ઞા-
નાર્થં પ્રત્યેકમલ્પવહુત્વં વિનેયજનાનુગ્રહાય પ્રતિપાદ્યતે તત્રાયુષ્યકર્મવન્ધકાઃ સર્વ-
સ્તોકાઃ ભવન્તિ, તદવન્ધકાઃ સંલ્લેયગુણાઃ, અનુભૂયમાનમવાયુપિ ત્રિમાગાવશેષે
ત્રિમાગત્રિમાગાવશેષેવા જીવાઃ પારમથિકાયુષ્યં વધ્નન્તિ તતો દ્વૌ ત્રિમાગૌ

યહ સમઙ્ગના ચાહિ-આયુકર્મ કે વન્ધક અવન્ધકો કા, પર્યાપ્તક-
અપર્યાપ્તકો કા, સુસ-જાગૃતો કા, સમવહત-અસમવહતો કા, સાતા
અસાતા વેદકો કા, ઇન્દ્રિયોપયુક્ત-નોઈન્દ્રિયોપયુક્તો કા તથા સાકાર
-અનાકારોપયુક્તો કા સામુદાયિક રૂપ સે અલ્પવહુત્વ પ્રતિપાદિત
કિયા ગયા હૈ, કિન્તુ શિષ્યજનોં કે અનુગ્રહ કે લિ-અવ પ્રત્યેક યુગલ
કે અલ્પવહુત્વ કા પ્રતિપાદન કિયા જાતા હૈ-

આયુષ્ય કર્મ કે વન્ધક કમ હૈં, ઉસ સે અવન્ધક સંલ્લયાતગુણ
અધિક હૈં । અનુભૂયમાન ભવ કા આયુષ્ય જવ દો ભાગ વ્યતીત હો
જાને પર તીસરા ભાગ શેષ રહતા હૈ યા તીસરે ભાગ કા તીસરા ભાગ
શેષ રહતા હૈ, તવ જીવ આગામી ભવ કે આયુષ્ય કા વન્ધ કરતે હૈ
ઇસ પ્રકાર તીન ભાગોં મે સે દો ભાગ અવન્ધકાલ હૈ, સિર્ફ તીસરા
ભાગ વન્ધકાલ હૈ ઓર વહ વન્ધકાલ ખી અન્તર્મુહૂર્ત માત્ર હોતા હૈ,
પૂરા તીસરા ભાગ નહીં, ઇસ કારણ વન્ધકોં કી અપેક્ષા અવન્ધક
સંલ્લયાતગુણ અધિક હૈં ।

છે અહીં એ સમજવું જોઈ એ કે-આયુકર્મના બંધક અબંધકોનું પર્યાયક
અપર્યાયકોનું સુખ અને ભગ્નતોનું ઇન્દ્રિયોપયુક્ત અને નો ઇન્દ્રિયોપયુક્તોનું
સંમવહત અસમવહતોનું સાતા અને અસાતા વેદકોનું તથા સાકાર અનાકારો-
પયુક્તોનું સામુદાયિકપણથી અલ્પબહુત્વનું પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યું છે
પરંતુ શિષ્યજનોના અનુગ્રહ માટે હવે દરેક યુગલના અલ્પબહુત્વનું પ્રતિપાદન
કરવામા આવે છે

આયુષ્ય કર્મના બંધક જોશ છે. તેનાથી અબંધકો સંખ્યાત ગણા
વધારે છે અનુભવ કરતા ભવનું આયુષ્ય જ્યારે બે ભાગ યતિત થઈ જાય
ત્યારે ત્રીજો ભાગ બાકી રહે છે અથવા ત્રીજા ભાગનો ત્રીજો ભાગ બાકી રહે
છે. ત્યારે જીવ આગામી ભવના આયુષ્યનો બંધકરે છે આ રીતે ત્રણ ભાગોમાથી
બે ભાગનો અબંધકાળ છે. કેવળ ત્રીજો ભાગ બંધકાળ છે, અને તે બંધકાળ
પણ અતર્મુહૂર્ત માત્ર હોય છે, પુરો ત્રીજા ભાગ નહીં તે કારણે બંધકોના
કરતા અબંધક સંખ્યાત ગણા વધારે છે

अबन्धकालः, एकस्त्रिभागो बन्धकालः इति बन्धकैः त्रयोऽबन्धकाः संख्येयगुणा भवन्ति, एवम् अपर्याप्तकाः सर्वस्तोका भवन्ति, पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति सूक्ष्मजीवापेक्षया एतदुक्तमवसेयम्, सूक्ष्मेषु बाह्यव्याघाताभावात् बहूनां निष्पत्तिर्भवति स्तोकानामेव चानिष्पत्तिः, एवमेव सर्वस्तोकत्वं सुप्तानां भवति, तद्रपेक्षया जागराणां संख्येयगुणत्वम्, एतच्चापि सूक्ष्मैकेन्द्रियापेक्षयाऽवसेयम्, यतोऽपर्याप्तानां सुप्तानामेव उपलब्धेः, पर्याप्तानान्तु जागराणामपि, तथैव समवह-तानां सर्वस्तोकत्वं भवति, यतः समवहतानां मारणान्तिकसमुद्घातेनैवात्र परि-ग्रहात्, मारणान्तिकसमुद्घातो मरणकाले एव न शेषकाले, सोऽपि न सर्वेषां भवति इति सर्वस्तोकास्ते भवन्ति, तेभ्योऽसमवहता असंख्येयगुणा भवन्ति,

इसी प्रकार अपर्याप्त जीव अल्प हैं, पर्याप्तक उन से संख्यातगुणा अधिक हैं। यह कथन सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा समझना चाहिए। सूक्ष्म जीवों में बाह्य व्याघात न होने से निष्पत्ति (उत्पत्ति) बहुतां की होती है और अनिष्पत्ति (अनुत्पत्ति) थोड़ों की होती है।

इसी प्रकार सुप्त जीव थोड़े हैं, उनकी अपेक्षा जागृत संख्यात-गुणा अधिक हैं। यह कथन भी सूक्ष्म एकेन्द्रियों की अपेक्षा से सम-झना चाहिए, क्यों कि अपर्याप्त जीव सुप्त ही पाये जाते हैं, पर्याप्त जागृत भी होते हैं।

इसी प्रकार समवहत जीव थोड़े हैं, क्योंकि यहाँ मारणान्तिक समुद्घात से समवहत ही लिये गये हैं और मारणान्तिक समुद्घात मरणकाल में ही होता है, शेष समय में नहीं। वह भी सब जीव नहीं करते, अतएव समवहत थोड़े कहे गए हैं, उनकी अपेक्षा अस-मवहत जीव असंख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि जीवनकाल अधिक है।

ये ७ प्रमाणे अपर्याप्त एव थोडा छे, पर्याप्तक तेनाथी सख्यात गणुा वधारे छे, आ कथन सूक्ष्म एवेनी अपेक्षाथी समज्जु लेध्जे, सूक्ष्म एवेभा बाह्य व्याघात न होवाथी घणुानी उत्पत्ती थाय छे, अने अनिष्पत्ति-अनु-त्पत्ति थोडावेनी थाय छे.

ये ७ रीते सुप्त एवे थोडा छे, तेना करता नथत एवे सख्यात गणुा वधारे छे, आ कथन पणु सूक्ष्म ऐकेन्द्रियेनी अपेक्षाये समज्जु लेध्जे केमके अपर्याप्तक एव सुप्त ७ मणी आवे छे, पर्याप्त नथत पणु होय छे

ये ७ रीते समवहतएव थोडा छे, केमके-अही मारणान्तिक समुद्घातथी समवहत ७ लेवाभा आवेल छे, अने मारणान्तिक समुद्घात मरणु क्षणमा ७ होय छे, आहीना समयमा नही ते पणु अधा एव नथी करता

જીવનકાલસ્યાત્યધિકત્વાત્, તથૈવ સાતવેદકાનાં સર્વસ્તોકત્વં ભવતિ, વહૂનાં સાધારણશરીરતયા અલ્પાનાશ્ચ પ્રત્યેકશરીરિતયા, સાધારણશરીરાણાશ્ચ વહૂનામ-સાતવેદકતયા સાતવેદકાઃ સ્વલ્પા ભવન્તિ, પ્રત્યેકશરીરિણાન્તુ વાહુલ્યં સાત-વેદકાનામ્ ભવતિ, સ્તોકત્વમ્ અસાતવેદકાનાં ભવતિ, તસ્માત્ સાતવેદિનઃ સ્તોકાઃ ભવન્તિ, તદપેક્ષયા અસાતવેદિનઃ સંસ્લેયગુણાઃ, એવમેત્તં ઇન્દ્રિયોપયો-ગસ્ય પ્રત્યુત્પન્નકાલવિપયત્વેન તદુપયોગકાલસ્ય સર્વસ્તોકત્વાત્, નો ઇન્દ્રિયોપ-યોગસ્ય અતીતાનાગતકાલવિપયતયા વહુકાલત્વેન નો ઇન્દ્રિયોપયુક્તાઃ સંસ્લેય-ગુણાઃ તથૈવ અનાકારોપયોગકાલસ્ય સર્વસ્તોકત્વાત્ અનાકારોપયુક્તાઃ સર્વસ્તોકા

इसी प्रकार साता का वेदन करने वाले जीव कम हैं, क्योंकि कि साधारण शरीरी जीव बहुत हैं और प्रत्येक शरीरी अल्प हैं। बहुत साधारण शरीरी जीव असाता के वेदक होते हैं, इस कारण साता वेदक कम हैं। प्रत्येकशरीरी जीवों में तो सातावेदकों की बहुलता है और आसातावेदकों की अल्पता है। अतएव सातावेदक कम और असाता वेदक संख्यातगुणा अधिक समझना चाहिए।

इसी प्रकार इन्द्रियोपयुक्त कम हैं और नोइन्द्रियोपयुक्त संख्यात-गुणा अधिक हैं। इन्द्रियोपयोग वर्तमान विषयक ही होता है, अतः एव उसका काल स्वल्प है, नोइन्द्रियोपयोग अतीत-अनागत काल विषयक भी होता है, अतः उसका समय बहुत है। इस कारण नो-इन्द्रियोपयुक्त संख्यातगुणे कहे गए हैं।

તેથીજ સમવહુત શોડા કહેવામા આવેલ છે, તેના કરતા અન્યમવહુત એવ અસ ખ્યાત ગણા વધારે છે, કેમકે એવનકાળ વધારે છે

એ જ પ્રમાણે સાતાનુ વેદન કરવાવાળા એવ ઓછા છે કેમકે-સાધારણ શરીર એવ ઘણા છે, અને પ્રત્યેક શરીરી શોડા છે ઘણા સાધારણ શરીરી એવ અસાતાનુ વેદન કરનારા હોય છે તે કારણથી સાતા વેદક શોડા છે પ્રત્યેક શરીરી એવોમાનો સાતા વેદકોનુ અધિકપણુ છે, અને અસાતા વેદકો નુ અલ્પ પણુ છે તેથીજ સાતાવેદક ઓછા અને અસાતા વેદક સ ખ્યાતગણા વધારે સમજવા જોઈએ

એ જ રીતે ઇન્દ્રિયોપયોગવાળા ઓછા છે, અને નો ઇન્દ્રિયોપયોગ વાળા સ ખ્યાત ગણા વધારે છે ઇન્દ્રિયોપયોગ વર્તમાન વિષયક જ હોય છે તેથીજ તેનો કાળ સ્પષ્ટ છે નોઇન્દ્રિયોપયોગ અતીત અનાગત કાળ સંબંધી પણુ હોય છે તેથી તેનો સમય ઘણા છે તે કારણથી નોઇન્દ્રિયોપયોગ સ ખ્યાત ગણા કહેવામા આવેલ છે. એજ રીતે અનાકારોપયોગ (દર્શનોપયોગ)

भवन्ति, तदपेक्षया साकारोपयुक्ताः संख्येयगुणा भवन्ति, साकारोपयोग काल-
स्यानाकारोपयोगकालात् संख्येयगुणत्वादिति भावः ।

इति पञ्चविंशं बन्धद्वारं समाप्तम् ॥सू० ३७॥

पुद्गलद्वार वक्तव्यता-

मूलम्—खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा पुग्गला तेलोक्के उड्डु
लोयतिरियलोए अणंतगुणा, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया,
तिरियलोए असंखेज्जगुणा, उड्डुलोए, असंखेज्जगुणा, अहोलोए
विसेसाहिया, दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा पुग्गला उड्डुदिसाए,
अहोलोए विसेसाहिया; उत्तरपुरत्थिमेणं दाहिणपच्चत्थिमेण य
दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा, दाहिणपुरच्छिमेण, उत्तरपच्च-
त्थिमेण य दो वि विसेसाहिया, पुरच्छिमेणं असंखेज्जगुणा,
पच्चत्थिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं
विसेसाहिया, खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवाइं तेलोक्के, उड्डुलोय-
तिरियलोए अणंतगुणाइं, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहियाइं,
उड्डुलोए असंखेज्जगुणाइं, अहोलोए अणंतगुणाइं, तिरियलोए
संखेज्जगुणाइं, दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवाइं दव्वाइं अहोदिसाए,
उड्डुदिसाए अणंतगुणाइं, उत्तरपुरच्छिमेणं दाहिणपच्चत्थि-
मेण य दो वि तुल्लाइं असंखेज्जगुणाइं, दाहिणपुरच्छिमेणं
उत्तरपच्चत्थिमेण य दो वि तुल्लाइं विसेसाहियाइं. पुरच्छिमेणं

इसी प्रकार अनाकारोपयोग (दर्शनोपयोग) का काल अल्प है,
अतएव अनाकार उपयोग वाले अल्प हैं, उन की अपेक्षा साकारोप-
योग वाले संख्यातगुणा अधिक हैं। अनाकारोपयोग की अपेक्षा
साकारोपयोग का काल संख्यातगुणा है ॥३७॥

पञ्चीसमां द्वार समाप्त

नेा काण अल्प छे तेथीअ अनाकार उपयोगवाणा अल्प छे तेना करता
साकारोपयोगवाणा सञ्चात गळ्हा वधादे छे अनाकारोपयोग करता साकारोप-
योगनेा काण सञ्चात गळ्हा छे ॥ ३७ ॥

पञ्चीससु द्वार समाप्त

असंखेज्जगुणाइं, पच्चत्थिमेणं विसेसाहियाइं, दाहिणेणं विसे
साहियाइं, उत्तरेणं विसेसाहियाइं ॥सू० ३८॥

छाया-क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकाः पुद्गलस्रैलोक्ये, ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके
अनन्तगुणाः, अधोलोकतिर्यग्लोके विशेषाधिकाः, तिर्यग्लोके असंख्येयगुणाः,
ऊर्ध्वलोके असंख्येयगुणाः, अधोलोके विशेषाधिकाः, दिगनुपातेन सर्वस्तोकाः
पुद्गलाः ऊर्ध्वदिशि, अधोलोकं विशेषाधिकाः, उत्तरपौरस्त्येन दक्षिणपश्चिमेन
च द्वयेऽपि तुल्याः असंख्येयगुणाः, दक्षिणपौरस्त्येन उत्तरपश्चिमेन च द्वयेऽपि

पुद्गलद्वार वक्तव्यता

शब्दार्थ-(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सच्चत्थोवा पोगगला तेलोक्के) सब से कम पुद्गल त्रिलोक में है (उद्धूलोयतिरियलोए अणतगुणा) ऊर्ध्वलोक-तिर्यक्लोक में अनन्तगुणा है (अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोक-तिर्यक्लोक में विशेषाधिक हैं (तिरियलोए असंखेज्जगुणा) तिर्यक्लोक में असंख्यातगुणा है (उद्धूलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा है (अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोक में विशेषाधिक है ।

(दिसाणुवाएणं) दिशाओं के अनुसार (सच्चत्थोवा पोगगला उद्धू-
दिसाए) सब से कम पुद्गल ऊर्ध्वदिशा में हैं (अहोदिसाए विसेसा-
हिया) अधोदिशा में विशेषाधिक हैं (उत्तरपुरच्छिमेणं दाहिणपच्चत्थि-
मेणं य दो वि तुल्ला) उत्तर-पूर्व तथा दक्षिण-पश्चिम दोनों में तुल्य
हैं (असंखिज्जगुणा) असंख्यातगुणा हैं (दाहिणपुरच्छिमेणं उत्तरपच्च-

पुद्गल द्वारनु कथन

शब्दार्थ—(खेत्ताणुवाएण) क्षेत्रना अनुसार (सच्चत्थोवा पोगगला तेलोक्के)
सौथी ओछा पुद्गले त्रिलोकां छे, (उद्धूलोयतिरियलोए अणतगुणा) ऊर्ध्वलोकां
अने तिर्यक्लोकां अन तगणा छे, (अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया) अधोलोकां
तिर्यक्लोकां विशेषाधिक छे (तिरियलोए अण खेज्जगुणा) तिर्यक्लोकां अस-
ख्यात गणा छे, (उद्धूलोए असंखिज्जगुणा) ऊर्ध्वलोकां अन ख्यातगणा छे,
(अहोलोए विसेसाहिया) अधोलोकां विशेषाधिक छे

(दिसाणुवाएण) दिशाओंकी अनुसार (सच्चत्थोवा पोगगला उद्धू दिसाए)
सौथी ओछा पुद्गले उर्ध्व दिशां छे (अहोदिसाए विसेसाहिया) अधो-
दिशां विशेषाधिक छे (उत्तरपुरच्छिमेणं दाहिणपच्चत्थिमेणं य दो वि तुल्ला)
उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम ओ अनेमा तुल्य छे, अने (असंखिज्जगुणा)
असंख्यात गणा छे, (दाहिणपुरच्छिमेणं उत्तरपच्चत्थिमेणं य दो वि तुल्ला विसे-

तुल्याः असंख्येयगुणाः, दक्षिणपौरस्त्येन उत्तरपश्चिमेन च दृशेऽपि विशेषाधिकाः,
 पौरस्त्येन असंख्येयगुणाः, पश्चिमेन विशेषाधिकाः, दक्षिणेन विशेषाधिकाः,
 उत्तरेण विशेषाधिकाः, क्षेत्रानुपातेन सर्वस्तोकानि द्रव्यानि त्रैलोक्ये, ऊर्ध्वलोक-
 तिर्यग्लोके अनन्तगुणानि, अधोलोकैरतिर्यग्लोके विशेषाधिकानि, ऊर्ध्वलोके
 असंख्येयगुणानि, अधोलोके अनन्तगुणानि, तिर्यग्लोकं संख्येयगुणानि, दिगनु-
 पातेन सर्वस्तोकानि द्रव्याणि अधोदिशि, ऊर्ध्वदिशि अनन्तगुणानि, उत्तरपौर-
 स्थिमेण च दो वि तुल्ला विसेसाहिया) दक्षिणपूर्व और उत्तरपश्चिम
 दोनों में तुल्य है और विशेषाधिक है (पुरच्छिमेण असंखिज्जगुणा)
 पूर्व में असंख्यातगुणा है (पच्चत्थिमेण विसेसाहिया) पश्चिम में
 विशेषाधिक हैं (दाहिणेण विसेसाहिया) दक्षिण में विशेषाधिक हैं
 (उत्तरेण विसेसाहिया) उत्तर में विशेषाधिक है ।

(खेत्ताणुवाएणं) क्षेत्र के अनुसार (सव्वत्थोवाटं दव्वाटं तेलोके)
 सब से कम द्रव्य त्रिलोक में हैं (उद्धल्लोयतिरियलोए अणंतगुणाइं)
 ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक में अनन्तगुणा हैं (अहोलोयतिरियलोए विसेसा-
 हियाइं) अधोलोक-तिर्यग्लोक में विशेषाधिक हैं (उद्धलोए असंखि-
 ज्जगुणाइं) ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणा है (अहोलोए अणंतगुणाइं)
 अधोलोक में अनन्तगुणा है (तिरियलोए संखिज्जगुणाइं) तिर्यग्लोक
 में संख्यातगुणा हैं ।

(दिसाणुवाएणं) दिशा के अनुसार (सव्वत्थोवाइं दव्वाइं अहो-
 दिसाए) सब से कम द्रव्य अधोदिशा में हैं (उद्धदिसाए अणंतगुणाइं)

साहिया) दक्षिण पूर्व अने उत्तर पश्चिम ये गन्नेमा तुल्य छे, अने विशे-
 पाधिक छे (पुरत्थिमेण असंखिज्जगुणा) पूर्वमा असंख्यात गणुा छे. (पच्चत्थि
 मेण विसेसाहिया) पश्चिममा विशेषाधिक छे. (दाहिणेण विसेसाहिया) दक्षिणमा
 विशेषाधिक छे (उत्तरेण विसेसाहिया) उत्तरमा विशेषाधिक छे.

(खेत्ताणुवाएण) क्षेत्रमा अनुसार (सव्वत्थोवाइ दव्वाइं तेलोक्के) सौधी
 ओल्लु द्रव्य त्रिलोकमा छे (उद्धल्लोयतिरियलोए अणंतगुणाइ) ऊर्ध्वलोक तिर्य-
 ग्लोकमा अनंत गणुा छे (अहोलोए तिरियलोए विसेसाहियाइं) अधोलोक तिर्य-
 ग्लोकमा विशेषाधिक छे. (उद्धलोए असंखिज्जगुणाइं) ऊर्ध्वलोकमा असंख्यात
 गणुा छे (अहोलोए अणंतगुणाइ) अधोलोकमा अनंतगणुा छे. (तिरियलोए
 संखिज्जगुणाइं) तिर्यग्लोकमा संख्यात गणुा छे

(दिसाणुवाएण) दिशामा अनुसार (सव्वत्थोवाइ अहोदिसाए) सौधी ओल्लु
 द्रव्य अधोदिशामा छे (उद्धदिसाए अणंतगुणाइ) ऊर्ध्वदिशामा अनंतगणुा छे

स्त्येन दक्षिणपश्चिमेन च द्वयान्यपि तुल्यानि असंख्येयगुणानि, दक्षिणपौरस्त्येन उत्तरपश्चिमेन च द्वयान्यपि तुल्यानि विशेषाधिकानि, पौरस्त्येन असंख्येयगुणानि पश्चिमेन विशेषाधिकानि, दक्षिणेन विशेषाधिकानि, उत्तरेण विशेषाधिकानि ॥

टीका—बन्धद्वारवक्तव्यतानन्तरं पुद्गलद्वारमधिकृत्याह—‘खेत्ताणुवाएणं सञ्चत्थोवा पुग्गला तेलोके’ क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण, क्षेत्रापेक्षयेत्यर्थः प्ररूप्यमाणाः सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, पुद्गलाः त्रैलोक्ये—लोकत्रयवर्तिनो भवन्ति, पुद्गलद्रव्याणि लोकत्रयव्यापकानि सर्वस्तोकानि भवन्तीत्याशयः, महास्कन्धानामेव पुद्गलद्रव्याणां त्रैलोक्यव्यापित्वात् तेषाञ्चाल्पत्वात्, तदपेक्षया—‘उड्डुल्लोयतिरियलोए अणंतगुणा’ ऊर्ध्वलोकतिर्गलोके—तत्प्रतरद्वयवर्तिनः पुद्गलाः ऊर्ध्वदिशा में अनन्तगुणा हैं (उत्तरपुरच्छिमेणं दाहिणपच्चत्थिमेण य दोवि तुल्लाइ असंखिज्जगुणाइं) उत्तरपूर्व और दक्षिणपश्चिम दोनों में तुल्य असंख्यातगुणा हैं (दाहिणपुरच्छिमेणं उत्तरपच्चत्थिमेण य दोवि तुल्लाइं विसेसाहियाइं) दक्षिणपूर्व और उत्तरपश्चिम दोनों में तुल्य और विशेषाधिक हैं (पुरच्छिमेणं असंखिज्जगुणाइं) पूर्व में असंख्यातगुणा हैं (पच्चत्थिमेणं विसेसाहियाइं) पश्चिम में विशेषाधिक हैं (दाहिणेणं विसेसाहियाइं) दक्षिण में विशेषाधिक हैं (उत्तरेणं विसेसाहियाइं) उत्तर में विशेषाधिक हैं ।

बन्धद्वार की वक्तव्यता के पश्चात् पुद्गलद्वार वक्तव्यता प्रारंभ की जाती है—

टीकार्थ—क्षेत्र के अनुसार विचार किया जाय तो ऐसे पुद्गल सबसे कम हैं जो त्रिलोकवर्ती हों अर्थात् तीनों लोकों को व्याप्त हों । त्रिलो-

(उत्तरपुरच्छिमेण दाहिणपच्चत्थिमेणय दो वि तुल्लाइ अस खिज्जगुणाइ) उत्तर पूर्व अने दक्षिण पश्चिम ओ भन्नेमा तुदय अने असंख्यात गणुा छे. (दाहिण पुरत्थिमेण उत्तर पच्चत्थिमेण य दो वि तुल्लाइ विसेसाहियाइ) दक्षिण पूर्व अने उत्तर पश्चिम ओ भन्नेमा तुदय अने विशेषाधिक छे (पुरत्थिमेण अस खिज्ज गणाइं) पूर्वमा अस ग्यात गणुा छे (पच्चत्थिमेण विसेसाहिया) पश्चिममा विशेषाधिक छे (दाहिणेण विसेसाहियाइ) दक्षिणमा विशेषाधिक छे (उत्तरेण विसेसाहियाइ) उत्तरमा विशेषाधिक छे ॥ ३७ ॥

टीकार्थ—बन्ध द्वारतु कथन उर्या पछी पुद्गल द्वारना कथनना प्रारंभ करवामा आवे छे

क्षेत्रनी अनुसार विचार करवामा आवे तो एवा पुद्गलो सौधी ओछा छे के ओ त्रिलोकवर्ति होय अर्थात् त्रये लोकेमा व्याप्त होय, त्रिलोकवर्ति

अनन्तगुणा भवन्ति, तिर्यग्लोकस्य सर्वोपरितर्कप्रप्रादेशिकप्रकारस्य, ऊर्ध्वलोकस्य सर्वाधस्तनैः प्रप्रादेशिक प्रतरस्य च तिर्यग्लोकोर्ध्वलोरुपपदाच्चत्वेन तयोश्च अनन्तसंख्येयप्रादेशिकानन्तासंख्येयप्रादेशिकानन्तानन्तप्रादेशिकरूपाः सम्पर्गनात् तेषां द्रव्यार्थतयाऽनन्तगुणत्वं बोध्यम्, तेभ्योऽपि 'अद्वैतलोकतिर्यग्लोके' विसेसाहिया' अधोलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्तिनः पुद्गलाः विशेषाधिका भवन्ति, तत्क्षेत्रस्यायामविष्कम्भाभ्यां किञ्चिद् विशेषाधिकत्वात्, तेभ्योऽपि—'तिर्यग्लोके अमंखेज्जगुणा' तिर्यग्लोके वर्तमानाः पुद्गला द्रव्यरूपा असंख्येयगुणा भवन्ति, तत्क्षेत्रस्यासंख्येयगुणत्वात्, तेभ्योऽपि—'उर्ध्वलोके असंख्येयगुणा' ऊर्ध्वलोके वर्तमानाद्रव्यरूपपुद्गला असंख्येयगुणा भवन्ति, ऊर्ध्वलोकक्षेत्रस्य तिर्यग्लोकक्षेत्रापेक्षया संख्ये-

कवर्ती पुद्गलों की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामक दो प्रतरों में अनन्तगुणा है, क्योंकि तिर्यग्लोक का सब से ऊपर का एक प्रदेश वाला प्रतर और ऊर्ध्वलोक का सब से नीचे का एक प्रदेशात्मक प्रतर यहाँ 'ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक' माना गया है। इन दोनों प्रतरों में अनन्त संख्यातप्रदेशी, अनन्त असंख्यातप्रदेशी और अनन्त अनन्तप्रदेशी रून्ध विद्यमान हैं, अतएव द्रव्य की अपेक्षा अनन्तगुणा समझना चाहिए। ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक की अपेक्षा अधोलोक-तिर्यग्लोक नामक दो प्रतरों में पुद्गल विशेषाधिक हैं, क्योंकि इस क्षेत्र की लम्बाई-चौड़ाई कुछ अधिक है। अधोलोक-तिर्यग्लोक की अपेक्षा तिर्यग्लोक में विद्यमान पुद्गल असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि यह क्षेत्र असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि तिर्यग्लोक की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में विद्यमान पुद्गल असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि तिर्यग्लोक से ऊर्ध्वलोक का क्षेत्र असंख्यातगुणा अधिक है। ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा

पुद्गलानां कृता उर्ध्वलोक तिर्यग्लोक नामना ये प्रतराभा अनन्त गण्णा छे केमके तिर्यग्लोकसु सौथी उपरतु' ओक प्रदेशवाणु प्रतर अने उर्ध्वलोकसु सौथी नीचेना ओक प्रदेशवाणा प्रतरने आही' उर्ध्वलोक तिर्यग्लोक मानवामा आवेल छे आ गन्ने प्रतराभा अनन्त संख्यात प्रदेशी अनन्त असंख्यात प्रदेशी अने अनन्त अनन्त प्रदेशी रून्ध विद्यमान छे, तेथीज्ज द्रव्यनी अपेक्षाथी अनन्तगण्णा समज्जवा जेधये उर्ध्वलोक तिर्यग्लोकना कृता अधोलोक तिर्यग्लोक नामना ये प्रतराभा पुद्गल विशेषाधिक छे केमके-आ क्षेत्रनी लमार्ध पडोणार्ध छे छे वधारे छे अधोलोक तिर्यग्लोकना कृता तिर्यग्लोकमा रहेला पुद्गल असंख्यात गण्णा छे केमके आ क्षेत्र असंख्यात गण्णा छे केमके तिर्यग्लोकथी उर्ध्वलोकसु क्षेत्र असंख्यात गण्णा वधारे छे उर्ध्वलोकनी अपेक्षाथी अधोलोकमा

यगुगत्वात्, तेभ्योऽपि—‘अधोलोए विसेमाहिया’ अधोलोके वर्तमानाः द्रव्यरूपपुद्गला विशेषाधिका भवन्ति, ऊर्ध्वलोकस्य देशोनसप्तरज्जुप्रमाणत्वेन अधोलोकस्य समधिकसप्तरज्जुप्रमाणतया ऊर्ध्वलोकापेक्षयाऽधोलोकस्य विशेषाधिकत्वात्,

अथ दिगनुपातेन पुद्गलद्रव्याणामल्पबहुत्वं प्ररूपयति—‘दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा पुग्गला उड्डुदिसाए’ दिगनुपातेन—दिगनुसारेण प्ररूप्यमाणाः सर्वस्तोकाः सर्वेभ्योऽल्पाः पुद्गलाः—द्रव्यरूपाः ऊर्ध्वदिशि भवन्ति, रत्नप्रभासमभूतलमेरुमध्येऽष्टप्रादेशिकरूचकाद् विनिर्गतायां चतुःप्रदेशात्मिकायामूर्ध्वदिशि यावल्लोकान्ते सर्वस्तोकत्वं पुद्गलानां बोध्यम्, तेभ्योऽपि ‘अधोलोए विसेसाहिया’ अधोलोके—अधोदिशि वर्तमानाः पुद्गला द्रव्यरूपाः विशेषाधिका भवन्ति, अधोदिशोऽपि चतुःप्रदेशरूपायाः यावल्लोकान्तस्य विशेषाधिकत्वेन तत्र पुद्गलद्रव्याणामपि विशेषाधिकत्वं संभवति, तेभ्योऽपि—‘उत्तरपुरच्छिमेणं दाहिणपच्चत्थिमेण य दोवि तुल्ला असंखेज्जगुणा’ उत्तरपौरस्त्येन उत्तरपूर्वस्याम्, दक्षिण-

अधोलोक में पुद्गल विशेषाधिक है, क्योंकि ऊर्ध्वलोक देशोन सात राजू का है जबकि अधोलोक कुछ अधिक सात राजू प्रमाण है, अतएव अधोलोक का क्षेत्र विशेषाधिक है।

दिशाओं की अपेक्षा पुद्गल द्रव्य का अल्पबहुत्व—दिशाओं की अपेक्षा से प्ररूपण किया जाय तो सब से कम पुद्गल ऊर्ध्वदिशा में हैं। क्योंकि रत्नप्रभा पृथ्वी के समतल भूभाग से मेरुपर्वत के मध्य में जो आठ प्रदेशों का रुचक है, उससे निकली हुई चार प्रदेशात्मक ऊर्ध्वदिशा में लोकान्त पर्यन्त सब से कम पुद्गल हैं, ऊर्ध्वदिशा की अपेक्षा अधोदिशा में पुद्गल विशेषाधिक हैं। यद्यपि अधोदिशा भी चार प्रदेशात्मक ही हैं मगर लोकपर्यन्त वह कुछ अधिक है, इस कारण उसमें पुद्गल भी कुछ अधिक हैं। उत्तर—पूर्वदिशा में तथा

पुद्गल विशेषाधिक छे, केमके ऊर्ध्वलोक देशोन सात राजुने छे, त्यारे अधोलोक क छक वधारे सात राजु प्रमाणुने छे, तेथी न अधोलोकतु क्षेत्र विशेषाधिक छे.

दिसाओनी अपेक्षाधी पुद्गल डव्यतु अल्प बहुत्व

दिसाओनी अपेक्षाधी प्ररूपणा करवामा आवे तो भीथी ओछा पुद्गल ऊर्ध्वदिशाभा छे केमके रत्नप्रभा पृथ्वीना समतल भूभागथी मेरु पर्वतना मध्यभा ने आठ प्रदेशोना रुचक छे तेमाथी नीकणेल चार प्रदेशवाणी ऊर्ध्व दिशाभा लोकान्त पर्यन्त सौथी ओछा पुद्गलो छे ऊर्ध्व दिशाना करता अधोदिशाभा विशेषाधिक पुद्गल छे ने के दिशा पणु चार प्रदेशात्मक न छे परतु लोक पर्यन्त ते क छक वधारे छे. ते कारणथी तेमा पुद्गल पणु क छक वधारे छे.

पश्चिमेन-दक्षिणपश्चिमायां प्रत्येकं वर्तमानाः च असंख्येयगुणा भवन्ति, स्वस्थाने तु परस्परं द्वयेऽपि तुल्याः-सदृशा भवन्ति रुचकाद्विनिर्गतयोः मुक्तावलि-संस्थान-संस्थितयोस्तिर्यग्लोकान्तमधोलोकान्तमूर्ध्वलोकान्तं पर्यवसितयोः तयोर्द्वयोरपि दिशोः क्षेत्रस्यासंख्येयगुणत्वात्, तत्र पुद्गलानामपि असंख्येयगुणत्वं तत् क्षेत्रस्य तु स्वस्थाने तुल्यत्वात् पुद्गलानामपि स्वस्थाने तुल्यत्वमवसेयम्, तेभ्योऽपि-‘दाहिणपुरच्छिमेण उत्तरपच्चत्थिमेण य दौवि तुल्ला विसेसाहिया’ दक्षिण पौरस्त्येन-दक्षिणपूर्वस्याम् उत्तरपश्चिमेन उत्तरपश्चिमायाञ्च प्रत्येकं दिशि वर्तमानाः पुद्गलाः विशेषाधिका भवन्ति, स्वस्थाने तु परस्परं तुल्या भवन्ति सौमनसगन्धमादनैषु सप्तसप्तकूटेषु विद्युत्प्रभमाल्यवतो नगनवकूटेषु च धूमिका-

दक्षिण-पश्चिम दिशा में बराबर-बराबर पुद्गल हैं, मगर अधोदिशा की अपेक्षा असंख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि रुचक से निकली हुई मुक्तावली के आकार की और तिर्यग्लोक, अधोलोक एवं ऊर्ध्वलोक तक फैली हुई इन दोनों दिशाओं का क्षेत्र असंख्यातगुणा अधिक हैं, अतएव उन में पुद्गल भी असंख्यातगुणा है। मगर दोनों दिशाओं का क्षेत्र चूकि बराबर है, अतएव उन दोनों में पुद्गल भी बराबर कहे गए हैं। इन दोनों दिशाओं की अपेक्षा दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशाओं में-दोनों में परस्पर तुल्य पुद्गल हैं, मगर उत्तरपूर्व एवं दक्षिणपश्चिम दिशाओं की अपेक्षा विशेषाधिक हैं। इस का कारण यह है कि सौमनस एवं गन्धमादन पर्वतों के सात-सात कूटों (शिखरों) पर तथा विद्युत्प्रभ और माल्यवत् पर्वतों के नौ-नौ कूटों पर कोहरे एव ओस आदिके सूक्ष्म पुद्गल बहुत होते हैं। मगर

उत्तर पूर्व दिशाभा तथा दक्षिण पश्चिम दिशाभा सरणे सरणा पुद्गलो छे पणु अधोदिशाना करता अस ज्ञात गणुा वधारे छे. डेभके इत्यकथा नीकणेले मुक्तावलीना आकारनी अने तिर्यग्लोक, अधोलोक अने ऊर्ध्वलोक सुधी देवा येवी आ अन्ने दिशाओतु क्षेत्र अस ज्ञात गणु वधारे छे तेथी न तेभा पुद्गल पणु अस ज्ञात गणुा छे परतु अन्ने दिशाओतु क्षेत्र अभतो अशे-अर छे तेथीन अे अन्नेभा पुद्गलो पणु सरणा कडेवाभा आवेले छे. आ अन्ने दिशाओना करता दक्षिण पूर्व अने उत्तर पश्चिम अे अन्ने दिशाओभा परस्पर सरणा पुद्गलो छे पणु उत्तर पूर्व अने दक्षिण पश्चिम दिशाओना करता विशेषाधिक छे तेनु कारण अे छे डे-सौमनस अने गन्धमादन पर्वतीना सात सात कूटो (शिखरपर) तथा विद्युत्प्रभ अने माल्यवान् पर्वतीना नव नव कूटो पर कोहरी अने ओस आदि के सूक्ष्म पुद्गलो पणुा दोय छे,

ડવશ્યાયાદિ સૂક્ષ્મપુદ્ગલાનાં પ્રચુરાણાં સદ્ભાવેન વિશેષાધિકત્વાત્ સ્વસ્થાને ક્ષેત્રસ્ય પર્વતાદેશ્ય સમાનત્વેન તુલ્યત્વાત્. તેभ्यોऽपि—‘पुरच्छिमेण’ असंख्येयगुणा’ पौरस्त्येन पूर्वस्यां दिशि वर्तमानाः पुद्गलाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तत्क्षेत्रस्या संख्येयगुणत्वात् पुद्गलानामपि असंख्येयगुणत्वं बोध्यम्, तेभ्योऽपि ‘पञ्चस्थि-मेण’ विसेसाहिया’ पश्चिमेन पश्चिमायां दिशि वर्तमानाः पुद्गलाः विशेषाधिकाः भवन्ति, तत्राधोलौकिकग्रामेषु शुपिरसद्भावेन प्रभूतानां पुद्गलानामवस्थानसद्-भावात्, तेभ्योऽपि—‘दाहिणेण’ विसेसाहिया’ दक्षिणेन दक्षिणस्यां दिशि वर्त-मानाः पुद्गला विशेषाधिका भवन्ति, प्रभूतशुवनशुपिरसद्भावात्, तेभ्योऽपि—‘उत्तरेण’ विसेसाहिया’ उत्तरेण उत्तरस्यां दिशि वर्तमानाः पुद्गलाः विशेषाधिका भवन्ति, उत्तरस्यां दिशि आयामविष्कम्भाभ्यां संख्येययोजनकोटिकोटिमाने मानससरसि जलचराणां पनकशैवालादीनाञ्च सत्वानामतिप्रभूतत्वेन तेषां तैजस-कार्मणपुद्गलानामधिकतयोपलब्धतया पूर्वोक्तेभ्यो विशेषाधिकत्वं भवति,

दोनो दिशाओं में क्षेत्र एवं पर्वत आदि की समानता होने के कारण तुल्य ही पुद्गल हैं। इन दोनों दिशाओं की अपेक्षा पूर्वदिशा में पुद्गल असंख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि यह क्षेत्र असंख्यातगुणा है। पूर्वदिशा की अपेक्षा पश्चिमदिशा में पुद्गल विशेषाधिक हैं, क्योंकि वहाँ अधोलौकिक ग्रामों में रंघ्र (पोलार) होने से बहुत पुद्गल विद्यमान रहते हैं। पश्चिम की अपेक्षा दक्षिणदिशा में विशेषाधिक हैं, क्योंकि वहाँ पोल अधिक है। दक्षिण दिशा की अपेक्षा उत्तर में पुद्गल विशेषाधिक हैं, क्योंकि उत्तरदिशा में संख्यात कोडाकोडी योजन लम्बा-चौड़ा मानस सरोवर है, उस में जलचर और पनक तथा सेवार आदि जीव बहुत अधिक हैं और उन के साथ लगे हुए

પરતુ બન્ને દિશામાં ક્ષેત્ર અને પર્વત વિગેરેનું સરખાપણું હોવાના કારણે સરખા જ પુદ્ગલો છે આ બન્ને દિશાઓના કરતા પૂર્વ દિશામાં પુદ્ગલો અસખ્યાત ગણા વધારે છે કેમકે એ ક્ષેત્ર અસખ્યાત ગણું છે પૂર્વદિશાના કરતા પશ્ચિમ દિશામાં પુદ્ગલો વિશેષાધિક છે કેમકે ત્યાં અધોલોકિક ગ્રામોમાં છિદ્ર (પોલાણ) હોવાથી ઘણાજ પુદ્ગલો ઝહેલા હોય છે પશ્ચિમ દિશાના કરતા દક્ષિણ દિશામાં વિશેષાધિક છે કેમકે ત્યાં પોલાણ વધારે છે દક્ષિણ દિશાના કરતા ઉત્તરદિશામાં પુદ્ગલો વિશેષાધિક છે કેમકે ઉત્તર દિશામાં સખ્યાત કોડાકોડી યોજન લાંબુ પહોળુ માનસ સરોવર છે તેમાં જલચર, પનક અને સેવાગ વિગેરે છવો ઘણાજ વધારે છે, અને તેની માથે લાગેલા તેજમ અને કાર્મણ વર્ગણાના પુદ્ગલો પણ ઘણા જ છે. તેથી જ અહીંયા પુદ્ગલો

इत्येवं पुद्गलविषयकमल्पबहुत्वं प्रतिपाद्य संप्रति सामान्येन द्रव्यविषयकमल्पबहुत्वं क्षेत्रानुपातेनाह—‘खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवाइं दब्बाइं तेलोक्के’ क्षेत्रानुपातेन—क्षेत्रानुसारेण प्ररूप्यमाणानि सर्वस्तोकानि—सर्वेभ्योऽल्पानि द्रव्यानि त्रिलोक्ये—लोकत्रयसंस्पर्शीनि भवन्ति, धर्मास्तिकायाधर्मास्तिकायाकाशास्तिकायद्रव्याणां पुद्गलास्तिकायस्य महास्कन्धानां जीवास्तिकायस्य मारणान्तिकसमुद्घातेनातीवसमवहतानां जीवानां लोकत्रयव्यापितया तेषाञ्चाल्पत्वात् सर्वस्तोकत्वं भवति, तेभ्योऽपि ‘उद्धूलोयतिरियलोए अणंतगुणाइं’ ऊर्ध्वलोकतिर्यग्लोके तत्प्रतरद्वयवर्त्तीनि द्रव्याणि अनन्तगुणानि भवन्ति, तत्प्रतरद्वयस्यानन्तैः अनन्तैर्जीवद्रव्यैश्च संस्पर्शानात्, तेभ्योऽपि ‘अहोलोयतिरियलोए विसेसाहियाइं’ अधोलोकतिर्यग्लोके

तैजस एवं कार्मण वर्गणा के पुद्गल भी बहुत हैं, अतएव यहां पुद्गल विशेषाधिक कहे गए हैं। यह पुद्गलों का अल्पबहुत्व हुआ।

अब सामान्य रूप से द्रव्यों संबंधी अल्पबहुत्व प्ररूपितकिया जाता है—

क्षेत्र की अपेक्षा से प्ररूपणा की जाय तो सब से कम द्रव्य ऐसे हैं जो त्रिलोक में हों, क्योंकि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय के महास्कंध और जीवास्तिकाय में से मारणान्तिक समुद्घात से अतीव समवहत जीव ही त्रिलोक में व्याप्त होते हैं और वे कम हैं। त्रिलोकस्पर्शी द्रव्यों की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक नामक दो प्रतरों में अनन्तगुणा द्रव्य है, क्योंकि इन दोनों प्रतरों का अनन्त पुद्गल द्रव्य और अनन्त जीव द्रव्य स्पर्श करते हैं। ऊर्ध्वलोक-तिर्यग्लोक की अपेक्षा अधोलोक-तिर्यग्लोक नामक प्रतरों

पणु धल्लान् विशेषाधिक कडेवाभा आवेला छे आ पुद्गलाना अल्प बहुत्व संबंधी कथन थयु

हुवे सामान्य पणुथी द्रव्ये संबंधी अल्प बहुत्वतु प्ररूपणु करवाभा आवे छे

क्षेत्रनी अपेक्षाथी प्ररूपणु करवाभा आवेती सौथी ओछु द्रव्य ओ छे के ले त्रिलोकभा होय केभके धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकायना महास्कंध अने लुवास्तिकायभाथी मारणान्तिक समुद्घातथी अत्यंत समवहत लुवेल त्रिलोकभा व्याप्त होय छे अने तेओ ओछा छे त्रिलोक स्पर्शि द्रव्येना करता ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोक नामना प्रतराने अत्यंत पुद्गल द्रव्य अने अत्यंत लुप द्रव्य स्पर्श करे छे ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोकना करता अधोलोक तिर्यग्लोक नामना प्रतराभा क छेक पधारे द्रव्य छे अधोलोक

तत्प्रतरद्वयवर्तीनि द्रव्याणि विज्ञेयाधिकानि भवन्ति, अधोलोकतिर्यग्लोकप्रतर-
द्वयस्योर्ध्वलोकतिर्यग्लोकप्रतरद्वयात् किञ्चिदधिकत्वात्, तेभ्योऽपि—‘उद्धूलोए
असंखेज्जगुणाइं’ ऊर्ध्वलोके वर्तमानानि द्रव्याणि असंख्येयगुणानि भवन्ति,
तत्क्षेत्रस्यासंख्येयगुणत्वात्, तेभ्योऽपि—‘अहोलोए अणंतगुणाइं’ अधोलोके वर्त-
मानानि द्रव्याणि अनन्तगुणानि भवन्ति, अधोलौकिकग्रामेषु वर्तमानस्य कालस्य
तत्त्परमाणु संख्येयासंख्येयानन्तप्रादेशिकद्रव्यक्षेत्रकालभात्रपर्यायसम्बन्धवशात्
प्रतिपरमाण्वादि द्रव्यमानन्त्येन अधोलोकेऽनन्तगुणत्वं संभवति, तेभ्योऽपि ‘तिरि-
यलोए संखेज्जगुणाइं’ तिर्यग्लोके वर्तमानानि द्रव्याणि संख्येयगुणानि भवन्ति,
अधोलौकिकग्रामप्रमाणानां एण्डानाम् कालद्रव्याधारभूते मनुष्यलोके संख्ये-
यानामवाप्यमानत्वात् ।

अथ दिगनुपातेन सामान्यतो द्रव्याणामल्पबहुत्वं प्ररूपयितुमाह—‘दिसाणु-
वाएणं सन्वत्थोवाइं दन्वाइं अहोदिसाए’ दिगनुपातेन—दिगनुसारेण प्ररूप्यमा-
में किञ्चित् अधिक द्रव्य हैं । अधोलोक—तिर्यग्लोक की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक
में द्रव्य असंख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि वह क्षेत्र असंख्यातगुणा
विस्तृत है । ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक में अनन्तगुणा अधिक
द्रव्य हैं, क्योंकि अधोलौकिक ग्रामों में वर्तमान काल का विभिन्न
परमाणुओं, संख्यातप्रदेशी, असंख्यातप्रदेशी, अनन्तप्रदेशी द्रव्य,
क्षेत्र, काल और भाव के साथ संबंध होने के कारण प्रत्येक परमाणु
आदि द्रव्य अनन्त प्रकार का होता है अधोलोक की अपेक्षा तिर्यग्ल-
लोक में संख्यातगुणा द्रव्य हैं, क्योंकि अधोलौकिक ग्राम गण्डण्ड
कालद्रव्य के आधारभूत मनुष्यलोक में संख्यात पाये जाते हैं ।

दिशाओं की अपेक्षा सामान्यद्रव्यों का अल्पबहुत्व—दिशाओं की
अपेक्षा सब से कम द्रव्य अधोदिशा में हैं, अधोदिशा की अपेक्षा

तिर्यग्लोकना करता ऊर्ध्वलोकना द्रव्य असंख्यात गण्डण्ड वधारे छे केमके ते क्षेत्र
असंख्यातगण्डण्ड विस्तारवाण छे ऊर्ध्वलोकना करता अधोलोकना अनन्तगण्डण्ड वधारे
द्रव्य छे केमके अधोलौकिक ग्रामोना वर्तमान कालना एण्डा एण्डा परमाणुओ
संख्यात प्रदेशी असंख्यातप्रदेशी अनन्तप्रदेशी क्षेत्रकाल अने लावनी साथे
संबंध होवना कारणे इरेक परमाणु विगरे द्रव्य अनन्त प्रकारनु होय छे.
अधोलोकना करता तिर्यग्लोकना संख्यातगण्डण्ड द्रव्य छे, केमके अधोलौकिक ग्राम
प्रमाणु अड काल द्रव्यना आधारभूत मनुष्यलोकना संख्यात भणी आवे छे

दिशाओनी अपेक्षाथी सामान्य द्रव्योनु अल्प बहुत्व

दिशाओनी अपेक्षाथे सौथी ओण्ड द्रव्य अधोदिशाना छे अधोदिशाना

गानि सर्वस्तोत्रानि सामान्येन द्रव्याणि अधोदिशि वर्तमानानि भवन्ति, तेभ्यः 'उद्धृदिसाए अणंतगुणाइ' ऊर्ध्वदिशि वर्तमानानि द्रव्याणि अनन्तगुणानि, भवन्ति, ऊर्ध्वलोके मेरोः पञ्चयोजनशतक स्फटिकमयभित्ती चन्द्रदूर्यप्रभानुप्रवेशात् द्रव्याणां क्षणादिकालप्रतिभागस्य सद्भावेन कालस्य च पूर्वोक्तरीत्या प्रतिपरमाष्वादि द्रव्यमानन्त्येन तेभ्योऽनन्तगुणत्वं भवति, तेभ्योऽपि—'उत्तरपुरच्छिमेणं दाहिण-पच्चत्थिमेण य दोवि तुल्लाइ अरांखेज्जाइ' उत्तरपौरस्त्येन—उत्तरपूर्वस्यामै-शान्याम्, दक्षिणपश्चिमेन—दक्षिणपश्चिमायाञ्च—नैर्ऋतकोणे वर्तमानानि द्रव्याणि असंख्येयगुणानि भवन्ति, तत्क्षेत्रस्यासंख्येयगुणत्वात्, स्वस्थाने तु द्वयान्यपि परस्परं तुल्यानि भवन्ति समानक्षेत्रत्वात्, तेभ्योऽपि 'दाहिणपुरच्छिमेणं उत्तर-पच्चत्थिमेण य दोवि तुल्लाइं विसेसाहियाइ' दक्षिणपौरस्त्येन—दक्षिणपूर्वस्या-माग्नेयकोणे, उत्तरपश्चिमेन—उत्तरपश्चिमायां वायव्यकोणे विशेषाधिकानि भवन्ति,

ऊर्ध्वदिशा में अनन्तगुणा है, क्योंकि ऊर्ध्वलोक में मेरु पर्वत की पांच सौ योजन की स्फटिकमय भित्ति में चन्द्र और सूर्य की प्रभा का प्रवेश होने से, द्रव्यों के क्षण आदि काल का प्रतिभाग होने और प्रत्येक परमाणु आदि द्रव्य की अपेक्षा पूर्वोक्त प्रकार से काल अनन्त होने से द्रव्यों का अनन्तगुणा होना सिद्ध है। ऊर्ध्वदिशा की अपेक्षा उत्तरपूर्व तथा दक्षिणपश्चिम दिशा में असंख्यातगुणित द्रव्य है उत्तर पूर्वदिशा ईशानकोण है और दक्षिण पश्चिमदिशा नैर्ऋत्य कोण है। इनमें असंख्यातगुणा द्रव्य होने का कारण क्षेत्र का असंख्यात-होना है, मगर इन दोनों दिशाओं में बराबर-बराबर ही द्रव्य हैं, क्योंकि इन दोनों का क्षेत्र बराबर है। इन दोनों की अपेक्षा दक्षिण पूर्वदिशा अर्थात् आग्नेयकोण में और उत्तरपश्चिम अर्थात् वायव्य-

करता ऊर्ध्व दिशाभा अनन्तगुणु छे केभके ऊर्ध्वलोकभा मेरु पर्वतनी ५०० पायसो योजननी स्फटिकमय वीतभा चन्द्र अने सूर्यना तेजने प्रकाश होवाथी द्रव्येना क्षणु विगेरे क्षणने विभाग थवाथी अने दरेक परमाणु विगेरे द्रव्यनी अपेक्षाओ पूर्वोक्त प्रकारथी क्षण अनन्त होवाथी द्रव्येनु अनन्त गणु होवु सिद्ध थाय छे ऊर्ध्व दिशाना करता उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम दिशाभा असंख्यात गणु द्रव्य छे उत्तर पूर्वदिशा ओ ईशान भूखे छे अने दक्षिण पश्चिम दिशा ओ नैर्ऋत्य भूखे छे. तेभा असंख्यात द्रव्य होवावु कारण क्षेत्रनु असंख्यात गणु होवु ओ छे परतु अने दिशाओभा सरणे सरणु न द्रव्य छे. केभके ओ अन्नेनु क्षेत्र सरणु न छे, ओ अन्नेना करत दक्षिण पूर्व दिशा अर्थात् अग्नि भूखेभा अने उत्तर पश्चिम अर्थात् वायव्य भूखेभा

विद्युत्प्रभमालयवत्कूटाश्रितानां भूमिकाऽवश्यायादि श्रृङ्खणपुद्गलद्रव्याणां बहूनां सद्भावात्, स्वस्थाने तु द्रव्यान्यपि द्रव्याणि तुल्यानि भवन्ति समानक्षेत्रत्वात्, तेभ्योऽपि—‘पुरच्छिमेणं असंखेज्जगुणाइं’ पौरस्त्येन—पूर्वस्यां दिशि वर्तमानानि द्रव्याणि असंख्येयगुणानि भवन्ति, तत्क्षेत्रस्य असंख्येयगुणत्वात्, तेभ्योऽपि—‘पच्चत्थिमेणं विसेसाहियाइ’ पश्चिमेन पश्चिमायां दिशि वर्तमानानि द्रव्याणि विशेषाधिकानि भवन्ति, अधोलौकिकग्रामेषु शुपिरसद्भावेन तत्र बहूनां पुद्गलद्रव्याणामवस्थानसद्भावात्, तेभ्योऽपि ‘दाहिणेणं विसेसाहियाइ’ दक्षिणेन—दक्षिणस्यां दिशि वर्तमानानि द्रव्याणि विशेषाधिकानि भवन्ति, तत्र प्रभूतभवनशुपिरसद्भावात्, तेभ्योऽपि—‘उत्तरेणं विसेसाहियाइं’ उत्तरेण—उत्तरस्यां दिशि वर्तमानानि द्रव्याणि विशेषाधिकानि भवन्ति, तत्र मानससरसि जीवद्रव्याणां तदाश्रित तैजसकार्मणपुद्गलस्कन्धद्रव्याणाञ्च प्रभूतानां सद्भावात् ॥३८॥

कोण मे द्रव्य विशेषाधिक हैं, क्योंकि इन दिशाओं में विद्युत्प्रभ एवं मालयवन्त पर्वतों के कूटों पर कोहरे एवं ओस आदि श्रृङ्खण पुद्गल द्रव्य बहुत होते हैं, किन्तु आपस में इन दोनों दिशाओं में द्रव्य तुल्य हैं, क्योंकि दोनों का क्षेत्र तुल्य है। इन दिशाओं की अपेक्षा पूर्वदिशा में असंख्यातगुणा अधिक द्रव्य हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र असंख्यातगुणा अधिक है। पूर्व की अपेक्षा पश्चिमदिशा में द्रव्य विशेषाधिक हैं, क्योंकि अधोलौकिक ग्रामों में पोल होने के कारण वहाँ बहुतपुद्गल द्रव्यों का सद्भाव है पश्चिम की अपेक्षा दक्षिण में द्रव्य विशेषाधिक हैं, क्योंकि वहाँ बहुसंख्यक भवनों के रंध्र मौजूद हैं दक्षिण की अपेक्षा उत्तरदिशा में द्रव्य विशेषाधिक हैं, क्योंकि मानस सरोवर में रहने वाले जीवों के आश्रित तैजस एवं कार्मण वर्गणा के पुद्गलस्कन्ध द्रव्य बहुत हैं ॥३८॥

विशेषाधिक द्रव्य छे, केमके आ दिशाओमा विद्युत्प्रभ अने मालयवन्त पर्वताना शिष्ये पर केडुरा अने आकगतु श्लक्ष्ण पुद्गल द्रव्य धलु डोय छे. परतु परस्परमा आ अन्ने दिशाओमा सरथु द्रव्य छे केमके अन्नेतु क्षेत्र सरथु अ छे. आ दिशाओमा करता पूर्व दिशाभा अस प्यात गलु वधारे द्रव्य छे केमके—तेतु क्षेत्र अस प्यात गलु वधारे छे पूर्व दिशाना करता पश्चिम दिशाभा विशेषाधिक द्रव्य छे केमके—अधोलौकिक ग्रामोमा पोलायु डोपाना करणुथी त्या धलु पुद्गल द्रव्योना सद्भाव छे. पश्चिम दिशाना करता दक्षिण दिशाभा विशेषाधिक द्रव्य छे केमके—त्या अधिक स प्यावाणा लवनामा पोलायु रडेल छे दक्षिण दिशाना करता उत्तर दिशाभा द्रव्य विशेषाधिक छे केमके

परमाणुपुद्गलाल्पबहुत्ववक्तव्यता—

मूलम्—एएसि णं भंते ! परमाणुपोग्गलाणं संखेज्जपएसियाणं असंखेज्जपएसियाणं, अणंतपएसियाण य खंधाणं द्वट्टयाए पएसट्टयाए द्वट्टपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा. बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा अणंतपएसिया खंधा द्वट्टयाए, परमाणुपोग्गला द्वट्टयाए अणंतगुणा. संखेज्जपएसिया खंधा द्वट्टयाए संखेज्जगुणा, असंखेज्जपएसिया खंधा द्वट्टयाए असंखेज्जगुणा, सव्वत्थोवा अणंतपएसिया खंधा पएसट्टयाए; परमाणुपोग्गला अपएसट्टयाए अणंतगुणा, संखेज्जपएसिया खंधा पएसट्टयाए संखेज्जगुणा, असंखेज्जपएसिया खंधा पएसट्टयाए असंखेज्जगुणा, सव्वत्थोवा अणंतपएसिया खंधा द्वट्टयाए, ते चेव पएसट्टयाए अणंतगुणा, परमाणुपोग्गला द्वट्टपएसट्टयाए अणंतगुणा संखेज्जपएसिया खंधा, द्वट्टयाए संखेज्जगुणा, ते चेव पएसट्टयाए संखेज्जगुणा, असंखेज्जपएसिया खंधा द्वट्टयाए असंखेज्जगुणा, ते चेव पएसट्टयाए असंखेज्जगुणा; एएसि णं भंते ! एगपएसोगाढाणं, संखेज्जपएसोगाढाणं, असंखेज्जपएसोगाढाण य पोग्गलाणं द्वट्टयाए पएसट्टयाए द्वट्टपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो, अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा एगपएसोगाढा पोग्गला द्वट्टयाए, संखेज्जपएसोगाढा पोग्गला द्वट्टयाए संखेज्जगुणा, असंखेज्जपएसोगाढा पोग्गला द्वट्टयाए असंखेज्जगुणा, पएसट्टयाए सव्वत्थोवा एगपएसोगाढा पोग्गला, संखेज्जपएसोगाढा पोग्गला पएसट्टयाए संखेज्जगुणा,

मानस सरोवरभा रडेवावाणा लुयोना आश्रय वाणा तैजस अने कामिष्णु वर्ग.
ध्याना पुद्गल रूध द्रव्य धरुा छे. ॥ ३८ ॥

असंखेज्जपएसोगाढा पोग्गला पएसट्टयाए असंखेज्जगुणा,
 दव्वट्टपएसट्टयाए सव्वत्थोवा एगपएसोगाढा पोग्गला दव्वट्ट-
 पएसट्टयाए, संखेज्जपएसोगाढा पोग्गला दव्वट्टयाए संखेज्ज-
 गुणा ते चेव पएसट्टयाए संखेज्जगुणा, असंखेज्जपएसोगाढा
 पोग्गला दव्वट्टयाए असंखेज्जगुणा, ते चेव पएसट्टयाए असं-
 खेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! एगसमयठिइयाणं वेसमयठिइ-
 याणं जाव असंखेज्जसमयठिइयाणं पोग्गलाणं दव्वट्टयाए,
 पएसट्टयाए, दव्वट्टपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया
 वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा एक-
 समयठिइया पोग्गला दव्वट्टयाए, संखेज्जसमयठिइया पोग्गला
 दव्वट्टयाए संखेज्जगुणा, असंखेज्जसमयठिइया पोग्गला दव्व-
 ट्टयाए असंखेज्जगुणा, पएसट्टयाए सव्वत्थोवा एगसमयठिइया
 पोग्गला पएसट्टयाए, संखेज्जसमयठिइया पोग्गला पएसट्ट-
 याए संखेज्जगुणा, असंखेज्जसमयठिइया पोग्गला पएसट्ट-
 याए असंखेज्जगुणा, दव्वट्टपएसट्टयाए सव्वत्थोवा एगसमय
 ठिइया पोग्गला दव्वट्टपएसट्टयाए, संखेज्जसमयठिइया पोग्गला
 दव्वट्टयाए संखेज्जगुणा ते चेव पएसट्टयाए संखेज्जगुणा,
 असंखेज्जसमयठिइया पोग्गला दव्वट्टयाए असंखेज्जगुणा ते
 चेव पएसट्टयाए असंखेज्जगुणा, एएसि णं भंते ! एगगुणकाल-
 गाणं संखेज्जगुणकालगाणं, असंखेज्जगुणकालगाणं, अणंत-
 गुणकालगाणं य पोग्गलाणं दव्वट्टयाए पएसट्टयाए दव्वट्टप-
 एसट्टयाए य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा,
 विसेसाहिया वा ? गोयमा ! जहा पोग्गला तहा भाणियवा,
 एवं संखेज्जगुणकालगाणं वि, एवं सेसा वि, वण्णा, गंधा,
 रसा फासा भाणियवा, फासाणं कक्खडमउयगरुयलहुयाणं

जहा एगपएसोगाढाणं भणियं तथा भाणियत्वं, अवसेसा फासा
जहा वणणा तथा भाणियत्वा, दारं २६ ॥सू० ३९॥

छाया-एतेषां खलु भदन्त ! परमाणुपुद्गलानां संख्येयप्रदेशिकानाम्,
असंख्येयप्रदेशिकानाम्, अनन्तप्रदेशिकानां च स्कन्धानां द्रव्यार्थतया प्रदेशार्थ-
तया द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेष-
पाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोका अनन्तप्रदेशिकाः स्कन्धाः द्रव्यार्थतया, पर-
माणुपुद्गलाः द्रव्यार्थतया अनन्तगुणाः, संख्येयप्रदेशिकाः स्कन्धाः द्रव्यार्थतया
संख्येयगुणाः, असंख्येयप्रदेशिकाः स्कन्धाः द्रव्यार्थतया असंख्येयगुणाः, सर्व-

परमाणु पुद्गल का अल्पबहुत्व

शब्दार्थ-(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (परमाणु पोग्गलाणं)
परमाणु पुद्गलों (संखेज्जपएसियाणं) संख्यात प्रदेश वालों (असंखेज्ज
पएसियाणं) असंख्यात प्रदेश वालों (अणंत पएसियाण य) और
अनन्त प्रदेश वालों (खंधाणं) स्कंधों में (द्व्वट्टयाए) द्रव्य की अपेक्षा
से (पएसट्टयाए) प्रदेशों की अपेक्षा से (द्व्वट्टपएसट्टयाए) द्रव्य और
प्रदेशों की अपेक्षा से (कयरे) कौन (कयरेहिंतो) किस से (अप्पा वा
बहुया वा तुल्या वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेष-
पाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा अणंत पएसिया खंधा
द्व्वट्टयाए) द्रव्य की अपेक्षा सब से कम अनन्त प्रदेशी स्कंध हैं (पर-
माणु पोग्गला द्व्वट्टयाए अणंतगुणा) द्रव्य की अपेक्षा परमाणु पुद्गल
अनन्तगुणा हैं (संखेज्जपएसिया खंधा द्व्वट्टयाए संखेज्जगुणा) द्रव्य से

परमाणु पुद्गलनु अल्प बहुत्व

शब्दार्थ-(एएसिण भंते !) हे भगवन् आ (परमाणुपोग्गलाणं) परमाणु
पुद्गलों (संखेज्जपएसियाणं) संख्यात प्रदेशवाणा (असंखेज्जपएसियाणं) अस-
ख्यात प्रदेशवाणा (अणंतपएसियाण य) अने अनंतप्रदेशवाणा (खंधाणं) स्कंधोभा
(द्व्वट्टयाए) द्रव्यनी अपेक्षासे (पएसट्टयाए) प्रदेशोनी अपेक्षाथी (द्व्वट्टपएसट्टयाए)
द्रव्य अने प्रदेशोनी अपेक्षाथी (कयरे) कोण (कयरेहिंतो) कोनाथी (अप्पा वा
बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा) अल्प, वधारे तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

(गोयमा) हे गौतम (सव्वत्थोवा अणंतपएसिया खंधा द्व्वट्टयाए) द्रव्यनी
अपेक्षाथी सहुंथी कोण अनंत प्रदेशी स्कंध छे (परमाणुपोग्गला द्व्वट्टयाए
अणंतगुणा) द्रव्यनी अपेक्षाथी परमाणु पुद्गल अनंत गुणा छे (संखेज्जपएस
सिया खंधा द्व्वट्टयाए संखेज्जगुणा) द्रव्यथी संख्यात प्रदेशी स्कंध संख्यातगुणा

स्तोकाः अनन्तप्रदेशिकाः स्फन्धाः प्रदेशार्थतया परमाणुपुद्गलाः, अप्रदेशार्थतया अनन्तगुणाः, संख्येयप्रदेशिकाः स्फन्धाः प्रदेशार्थतया संख्येयगुणाः, असंख्येय-प्रदेशिकाः स्फन्धाः प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणाः, सर्वस्तोकाः अनन्तप्रदेशिकाः स्फन्धाः द्रव्यार्थतया, ते चैव प्रदेशार्थतया अनन्तगुणाः, परमाणुपुद्गलाः द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया अनन्तगुणाः, संख्येयप्रदेशिकाः स्फन्धाः द्रव्यार्थतया संख्ये-

संख्यातप्रदेशी स्कंध संख्यातगुणा हैं (असंखेज्जपएसिया खंधा द्बद्ध-याए असंखेज्जगुणा) असंख्यातप्रदेशी स्कंध द्रव्य से असंख्यातगुणा हैं।

(पएसट्टयाए) प्रदेशों की अपेक्षा अल्पचहुत्व-(सव्वत्थोवा अणंत पएसिया खंधा पएसट्टयाए) प्रदेशों की अपेक्षा सब से कम स्कंध अनन्त प्रदेशी हैं (परमाणु पोग्गला अपएसट्टयाए अणंतगुणा) परमाणु पुद्गल अप्रदेशी की अपेक्षा अणंतगुणा हैं (संखेज्जपएसिया खंधा पएसट्टयाए संखेज्जगुणा) संख्यातप्रदेशी स्कंध प्रदेशों की अपेक्षा संख्यातगुणा हैं (असंखेज्जपएसिया खंधा पएसट्टयाए असंखेज्जगुणा) असंख्यातप्रदेशी स्कंध प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यातगुणा हैं।

(द्बद्धपएसट्टयाए) द्रव्यार्थ प्रदेशार्थ की अपेक्षा-(सव्वत्थोवा अणंतपएसिया खंधा द्बद्धयाए) सब से कम अनन्त प्रदेशी स्कंध द्रव्य की अपेक्षा से हैं (ते चैव पएसट्टयाए अणंतगुणा) वे ही प्रदेशों की अपेक्षा से अनन्तगुणा हैं (परमाणुपोग्गला द्बद्धपएसट्टयाए अणंतगुणा) परमाणु पुद्गल द्रव्य-एवं प्रदेश की अपेक्षा अनन्तगुणा हैं

छे (असंखेज्जपएसिया खंधा द्बद्धयाए असंखेज्जगुणा) असंख्यात प्रदेशी स्कंध द्रव्यार्थी असंख्यातगुणा छे.

(पएसट्टयाए) प्रदेशोनी अपेक्षाथी अल्प चधारेपणु (सव्वत्थोवा अणंत पएसिया खंधा पएसट्टयाए) प्रदेशोनी अपेक्षाथी सहुथी ओणु स्कंध अनंत प्रदेशी छे (परमाणुपोग्गला अपएसट्टयाए अणंतगुणा) परमाणु पुद्गल अप्रदेशीनी अपेक्षाथी अनंतगुणा छे (संखेज्जपएसिया खंधा पएसट्टयाए संखेज्जगुणा) संख्यातप्रदेशी स्कंध प्रदेशोनी अपेक्षाथी संख्यातगुणा छे (असंखेज्जपएसिया खंधा पएसट्टयाए असंखेज्जगुणा) असंख्यात प्रदेशी स्कंध प्रदेशोनी अपेक्षाथी असंख्यातगुणा छे

(द्बद्धपएसट्टयाए) द्रव्यार्थ प्रदेशार्थनी अपेक्षाथी (सव्वत्थोवा अणंत पएसिया खंधा द्बद्धयाए) सहुथी ओणु अनंत प्रदेशी स्कंध द्रव्यार्थी अपेक्षाथी छे. (ते चैव पएसट्टयाए अणंतगुणा) ते च प्रदेशोनी अपेक्षाथी अनंतगुणा छे. (परमाणुपोग्गला द्बद्धपएसट्टयाए अणंतगुणा) परमाणु पुद्गल द्रव्यार्थी अपेक्षाथी

यगुणः, ते चैव प्रदेशार्थतया संख्येयगुणाः, असंख्येयप्रदेशिकाः स्कन्धाः
द्रव्यार्थतया असंख्येयगुणाः, ते चैव प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणाः, एतेषां सखु
भदन्त ! एकप्रदेशावगाढानाम्, संख्येयप्रदेशावगाढानाम्, असंख्येयप्रदेशाव-
गाढानाम् च पुद्गलानां द्रव्यार्थतया, प्रदेशार्थतया, द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया कतरे
कतरेभ्योऽल्पा वा, वहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः
एकप्रदेशावगाढाः पुद्गलाः द्रव्यार्थतया, संख्येयप्रदेशावगाढाः पुद्गलाः द्रव्या-
(संखेज्जपएसिया खंधा दन्वट्टयाए संखेज्जगुणा) संख्यातप्रदेशी स्कंध
द्रव्य से संख्यातगुणा हैं (ते चैव पएसट्टयाए संखेज्जगुणा) वे ही
प्रदेशों की अपेक्षा संख्यातगुणा हैं (असंखेज्जपएसिया खंधा दन्वट्ट-
याए असंखेज्जगुणा) असंख्यातप्रदेशी स्कंध द्रव्य से असंख्यातगुणा
हैं (ते चैव पएसट्टयाए असंखेज्जगुणा) वे ही प्रदेशों की अपेक्षा
असंख्यात गुणा हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (एगपसोगाढाणं) एक प्रदेश
में अ ढ (संखेज्जपएसोगाढाणं) संख्यात प्रदेशों में अवगाढ (असं-
खेज्जपएसोगाढाण य) और असंख्यात प्रदेशों में अवगाढ (पोगग-
लाणं) पुद्गलों में (दन्वट्टयाए) द्रव्य से (पएसट्टयाए) प्रदेशों से (दन्व-
पएसट्टयाए) द्रव्य और प्रदेशों से (कयरे) कौन (कयरेहिंतो) किससे
(अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?) अल्प, बहुत,
तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा !) हे गौ ! (सन्वत्थोवा एगपए-
सोगाढा पोगगला दन्वट्टयाए) सब से कम एक प्रदेश में अवगाढ पुद्गल

अपेक्षाधी अन तगण्णु छे (संखेज्जपएसिया खंधा दन्वट्टयाए संखेज्जगुणा)
संख्यात प्रदेशी स्कंध द्रव्यनी अपेक्षा संख्यातगण्णु छे (ते चैव पएसट्टयाए
संखेज्जगुणा) तेण प्रदेशोनी अपेक्षाये संख्यातगण्णु छे (असंखेज्जपएसिया खंधा
दन्वट्टयाए असंखेज्जगुणा) असंख्यात प्रदेशी स्कंध द्रव्यधी असंख्यातगण्णु छे.
(ते चैव पएसट्टयाए असंखेज्जगुणा) ते ण प्रदेशोनी अपेक्षाये असंख्यातगण्णु छे.

(एएसिण भंते) हे भगवान् आ (एगपएसोगाढाण) अके प्रदेशमा अवगाढ
(संखेज्जपएसोगाढाण) संख्यात प्रदेशोमा अवगाढ (असंखेज्जपएसोगाढाण य)
अने असंख्यात प्रदेशोमा अवगाढ (पोगगलाणं) पुद्गलोमा (दन्वट्टयाए)
द्रव्यधी (पएसट्टयाए) प्रदेशोधी (दन्वट्टपएसट्टयाए) द्रव्य अने प्रदेशोधी (कयरे)
कोण्णु (कयरेहिंतो) कोनाधी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?)
अल्प, वधारे, तुल्य विशेषाधिक छे

(गोयमा !) हे गौतम । (सन्वत्थोवा एगपएसोगाढा पोगगला दन्वट्टयाए)

र्थतया संख्येयगुणाः, असंख्येयप्रदेशावगाढाः पुद्गलाः द्रव्यार्थतया असंख्येय-
गुणाः, प्रदेशार्थतया सर्वस्तोकाः एरुप्रदेशावगाढाः पुद्गलाः संख्येयप्रदेशाव-
गाढाः पुद्गलाः प्रदेशार्थतया संख्येयगुणाः असंख्येयप्रदेशावगाढाः पुद्गलाः
प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणाः, द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया सर्वस्तोकाः एकप्रदेशाव-
गाढाः पुद्गलाः, द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया संख्येयप्रदेशावगाढाः पुद्गलाः द्रव्या-
र्थतया संख्येयगुणाः, ते चैव प्रदेशार्थतया संख्येयगुणाः, असंख्येयप्रदेशा-

द्रव्य से हैं (संखेज्ज पएसोगाढा पोग्गला द्ब्वट्टयाए सखेज्जगुणा)
संख्यात प्रदेशों में अवगाढ पुद्गल द्रव्य से संख्यातगुणा हैं (असंखेज्ज-
पएसोगाढा पोग्गला द्ब्वट्टयाए असंखेज्जगुणा) असंख्यात प्रदेशों में
अवगाढ पुद्गल द्रव्य से असंख्यातगुणा हैं (पएसट्टयाए सव्वत्थोवा
एगपएसोगाढा पोग्गला) प्रदेशों की अपेक्षा सब से कम एक प्रदेशाव-
गाढ पुद्गल हैं (संखिज्जपएसोगाढा पोग्गला पएसट्टयाए संखिज्ज-
गुणा) संख्यातप्रदेशों में अवगाढ पुद्गल प्रदेशों की अपेक्षा संख्यातगुणा
हैं (असंखिज्ज पएसोगाढा पोग्गला पएसट्टयाए असंखेज्जगुणा) असं-
ख्यात प्रदेशों में अवगाढ पुद्गल प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यातगुणा हैं।

(द्ब्वट्टपएसट्टयाए-सव्वत्थोवा एगपएसोगाढा पुग्गला द्ब्वट्टपए-
सट्टयाए) सब से कम एक प्रदेश में अवगाढ पुद्गल द्रव्य और प्रदेश
की अपेक्षा से हैं (संखिज्जपएसोगाढा पुग्गला द्ब्वट्टयाए संखिज्ज-
गुणा) संख्यातप्रदेशों में अवगाढ पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा संख्यातगुणा
हैं (ते चैव पएसट्टयाए संखिज्जगुणा) वे ही प्रदेश की अपेक्षा संख्यात

सहुथी ओ.धु ओक प्रदेशमा अवगाढ पुद्गल द्रव्ये छे (सखेज्जपएसोगाढा पोग्गला
द्ब्वट्टयाए सखेज्जगुणा) संख्यात प्रदेशमा अवगाढ पुद्गल प्रदेशोनी अपेक्षा
संख्यातगणु छे. (असखेज्जपएसोगाढा पोग्गला द्ब्वट्टयाए असखेज्जगुणा) असं-
ख्यात प्रदेशोमा अवगाढ पुद्गल प्रदेशोनी अपेक्षा असंख्यातगणु छे

(पएसट्टयाए सव्वत्थोवा एगपएसोगाढा पोग्गला) प्रदेशोनी अपेक्षाथी सौथी
ओ.धु ओकप्रदेशावगाढ पुद्गल छे (संखिज्जपएसोगाढा पोग्गला पएसट्टयाए
संखिज्जगुणा) संख्यात प्रदेशोमा अवगाढ पुद्गल प्रदेशोनी अपेक्षाथी संख्यात
गणु छे. (असंखिज्जपएसोगाढा पोग्गला पएसट्टयाए असखेज्जगुणा) असंख्यात
प्रदेशोमा अवगाढ पुद्गल प्रदेशोनी अपेक्षाथी असंख्यातगणु छे

(द्ब्वट्टपएसट्टयाए सव्वत्थोवा एगपएसोगाढा पोग्गला द्ब्वट्टपएसट्टयाए)
सौथी ओ.धु ओक प्रदेशमा अवगाढ पुद्गल द्रव्ये अने प्रदेशोनी अपेक्षाथी छे.
(संखिज्जपएसोगाढा पोग्गला द्ब्वट्टयाए संखिज्जगुणा) संख्यात प्रदेशोमा अवगाढ

वगाढाः पुद्गलाः द्रव्यार्थतया असंख्येयगुणाः, ते चैव प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणाः, एतेषां खलु भदन्त ! एकममयस्थितिकानाम्, त्रिसमयस्थितिकानां यावत् असंख्येयसमयस्थितिकानाम् पुद्गलानां द्रव्यार्थतया, प्रदेशार्थतया, द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः एकममयस्थितिकाः पुद्गलाः द्रव्यार्थतया, संख्येयसमयस्थितिकाः पुद्गलाः द्रव्यार्थतया संख्येयगुणाः, असंख्येय-

गुणा हैं (असंखिज्जपएसोगाढा पुग्गला दब्बट्टयाए असंखिज्जगुणा) असंख्यात प्रदेशों में अवगाह पुद्गल द्रव्य से असंख्यातगुणा हैं (ते चैव पएसट्टयाए असंखिज्जगुणा) वे ही प्रदेशों से असंख्यातगुणा हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (एगसमयठिइयाणं) एक समय की स्थिति वाले (वेसमयठिइयाणं) दो समय की स्थिति वाले (जाव) यावत् (असंखेज्ज समयठिइयाणं) असंख्यात समय की स्थिति वाले (पुग्गलाणं) पुद्गलों में (दब्बट्टयाए) द्रव्य से (पएसट्टयाए) प्रदेशों से (दब्बट्टपएसट्टयाए) द्रव्य और प्रदेशों से (कयरे) कौन (कयरेहिंतो) किस से (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसैसाहिया वा ?) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (सब्बत्थोवा एगसमयठिइया पुग्गला दब्बट्टयाए) सब से कम एक समय की स्थिति वाले पुद्गल हैं द्रव्य से (संखिज्जसमयठिइया पुग्गला दब्बट्टयाए संखिज्जगुणा) संख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल द्रव्य से संख्यात गुणा हैं (असंखिज्जसमयठिइया पुग्गला दब्बट्टयाए असंखिज्जगुणा)

पुद्गल द्रव्यनी अपेक्षार्थी सञ्जातगणुा छे (ते चैव पएसट्टयाए संखिज्जगुणा) ते च प्रदेशानी अपेक्षार्थी सञ्जातगणुा छे (असंखिज्जपएसोगाढा पुग्गला दब्बट्टयाए असंखिज्जगुणा) असंञ्जात प्रदेशोभा अवगाह पुद्गल द्रव्यथी असञ्जातगणुा छे (ते चैव पएसट्टयाए असंखिज्जगुणा) ये च प्रदेशार्थी असञ्जातगणुा छे.

(एएसिण भंते !) हे भगवन् आ (एगसमयठिइयाणं) एक समयनी स्थितिवाणा (वे 'समयठिइयाण) ये समयनी स्थितिवाणा (जाव) यावत् (असंखेज्ज समयठिइयाण) असञ्जात समयानी स्थितिवाणा (पुग्गलाण) पुद्गलोभां (दब्बट्टयाए) द्रव्यथी (पएसट्टयाए) प्रदेशार्थी (दब्बट्टपएसट्टयाए) द्रव्य अने प्रदेशार्थी (कयरे) कौण (कयरेहिंतो) कौणार्थी (अप्पावा बहुया वा तुल्ला वा विसैसाहिया वा) अल्प धणुा, तुल्य अगरे विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सब्बत्थोवा एगसमयठिइया पुग्गला दब्बट्टयाए) सौथी ओआ ओक समयनी स्थितिवाणा पुद्गल द्रव्यथी छे (संखिज्जसमयठिइया पुग्गला दब्बट्टयाए संखिज्जगुणा) सञ्जात समयनी स्थितिवाणा पुद्गल

समयस्थितिकाः पुद्गलाः द्रव्यार्थतया असंख्येयगुणाः, प्रदेशार्थतया सर्वस्तोकाः एकसमयस्थितिकाः पुद्गलाः प्रदेशार्थतया, संख्येयसमयस्थितिकाः पुद्गलाः प्रदेशार्थतया संख्येयगुणाः, असंख्येयसमयस्थितिकाः पुद्गलाः प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणाः, द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया सर्वस्तोकाः एकसमयस्थितिकाः पुद्गलाः, द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया संख्येयसमयस्थितिकाः पुद्गलाः द्रव्यार्थतया संख्येयगुणाः, ते चैव प्रदेशार्थतया संख्येयगुणाः, असंख्येयसमयस्थितिकाः पुद्गलाः द्रव्यार्थतया असंख्येयगुणाः, ते चैव प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणाः, एतेषां एतद् भदन्त !

असंख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल द्रव्य से असंख्यातगुणा हैं (पएसद्वयाए सब्बत्थोवा एगसमयट्ठिइया पुग्गला पएसद्वयाए) प्रदेशों की अपेक्षा सब से कम एक समय की स्थिति वाले पुद्गल हैं प्रदेशों से (संखिज्ज समयट्ठिइया पुग्गला पएसद्वयाए संखेज्जगुणा) संख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल प्रदेशों से संख्यातगुणा हैं (असंखिज्ज समयट्ठिइया पुग्गला पएसद्वयाए असंखेज्जगुणा) असंख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल प्रदेशों से असंख्यातगुणा हैं (दब्बद्वपएसद्वयाए सब्बत्थोवा एगसमयट्ठिइया पुग्गला) द्रव्य और प्रदेशों से सबसे कम एक समय की स्थिति वाले पुद्गल (दब्बद्वपएसद्वयाए) द्रव्य और प्रदेशों से (संखिज्जसमयट्ठिइया) संख्यात समय की स्थिति वाले (पुग्गला) पुद्गल (दब्बद्वयाए) द्रव्य से (संखिज्जगुणा) संख्यातगुणा हैं (ते चैव पएसद्वयाए) वे ही प्रदेशों की अपेक्षा (संखेज्जगुणा) संख्यातगुणा हैं (असंखिज्जसमयट्ठिइया पुग्गला दब्बद्वयाए असंखिज्जगुणा) असं-

द्रव्यथी स भ्यातगण्णु छे (असंखिज्जसमयट्ठिइया पुग्गला दब्बद्वयाए असंखिज्जगुणा) अस भ्यात समयनी स्थितिवाणा पुद्गले। द्रव्यथी अस भ्यातगण्णु छे (पएसद्वयाए सब्बत्थोवा एगसमयट्ठिइया पुग्गला पएसद्वयाए) प्रदेशोनी अपेक्षाथी सौथी ओछा ओक समयनी स्थितिवाणा पुद्गले। छे (संखिज्जसमयट्ठिइया पुग्गला पएसद्वयाए संखेज्जगुणा) स भ्यात समयनी स्थितिवाणा पुद्गले। प्रदेशोथी स भ्यातगण्णु छे (असंखिज्जसमयट्ठिइया पुग्गला पएसद्वयाए असंखेज्जगुणा) अस भ्यात समयनी स्थितिवाणा पुद्गले। प्रदेशोथी अस भ्यातगण्णु छे। (दब्बद्वपएसद्वयाए सब्बत्थोवा एगसमयट्ठिइया पुग्गला) द्रव्य अने प्रदेशोथी सौथी ओछा ओक समयनी स्थितिवाणा पुद्गले। छे (संखिज्जसमयट्ठिइया) स भ्यातसमयनी स्थितिवाणा (पुग्गला) पुद्गले। (दब्बद्वयाए) द्रव्यथी (संखिज्जगुणा) स भ्यातगण्णु छे (ते चैव पएसद्वयाए) ओए प्रदेशोनी अपेक्षाथी (संखेज्जगुणा) स भ्यातगण्णु छे (असंखिज्जसमयट्ठिइया पुग्गला दब्बद्वयाए असंखेज्जगुणा) अय भ्यात समयनी

एकगुणकालकानाम्, संख्येयगुणकालकानाम्, असंख्येयगुणकालकानाम्, अनन्त-
गुणकालकानाम् पुद्गलानां द्रव्यार्थतया, प्रदेशार्थतया द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया च
कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा ? गौतम ! यथा
पुद्गलास्तथा भणितव्याः, एवं संख्येयगुणकालका अपि, एवं असंख्येय-

ख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल द्रव्य से असंख्यातगुणा हैं (ते
चेव पएसट्टयाए असंखिज्जगुणा) वे ही प्रदेशों से असंख्यातगुणा हैं ।

(एएसि णं भंते !) हे भगवन् ! इन (एगगुणकालगाणं) एक गुण
काले (संखिज्जगुणकालगाणं) संख्यातगुण काले (असंखिज्जगुण-
कालगाणं) असंख्यातगुण काले (अर्णतगुण कालगाण य) और अनन्त
गुण काले (पुग्गलाणं) पुद्गलों में (द्व्वट्टयाए) द्रव्य से (पएसट्टयाए)
प्रदेशों से (द्व्वट्टपएसट्टयाए य) द्रव्य एवं प्रदेशों से (कयरे कयरेहिंतो)
कौन किस से (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?)
अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहा
पुग्गला तहा भाणियव्वा) जैसे पुद्गल कहे वैसा ही कहना चाहिए
(एवं) इसी प्रकार (संखिज्जगुणकालगाण वि) संख्यात गुण काले भी
(एवं असंखेज्जगुणकालगाण वि) इसी प्रकार असंख्यात गुण काले
भी (एवं सेसा वि) इसी प्रकार शोष भी (वण्णा) वर्ण (गंधा) गंध
(रसा) रस (फासा) स्पर्श (भाणियव्वा) कहने चाहिए (फासाणं)

स्थितिवाणा पुद्गल द्रव्येभ्यो असंख्यातगुणा छे. (ते चेव पएसट्टयाए असंखि-
ज्जगुणा) अे न प्रदेशेभ्यो असंख्यातगुणा छे.

(एएसिण भंते !) हे भगवन् आ (एगगुणकालगाणं) अेक शुष्ण काणा
(संखिज्जगुणकालगाण) संख्यात शुष्ण काणा (असंखिज्जगुणकालगाण) असंख्यात
शुष्ण काणा (अर्णतगुणकालगाण य) अने अनन्त शुष्ण काणा (पुग्गलाणं) पुद्गलानाम्
(द्व्वट्टयाए) द्रव्येभ्यो (पएसट्टयाए) प्रदेशेभ्यो (द्व्वट्टपएसट्टयाए) द्रव्य अने प्रदेशेभ्यो
(कयरे कयरेहिंतो) केअु केअनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा)
अल्प, वधादे, तुल्य अथवा विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (जहा पुग्गला तहा भाणियव्वा) जेभ पुद्गल
कहा छे तेभ न कडेवा जेठ अे (एव) अे न प्रभाणु (संखिज्जगुणकालगाण
वि) संख्यातशुष्ण काणा पुद्गल पशु (एव असंखेज्जगुणकालगाण वि) अे न
प्रभाणु असंख्यात शुष्णकाणा पशु (एव सेसावि) अे न प्रभाणु आकीना पुद्गले
ना संघमा पशु संघपु (वण्णा) वर्ण (गंधा) गंध (रसा) रस (फासाणं)

गुणकालका अपि शेषा अपि, वर्णाः, गन्धाः, रसाः, स्पर्शाः भणितव्याः, स्पर्शानां कर्कशमृदुरुगुरुकलघुक्रानां यथा एकप्रदेशावगाढानां भणितं तथा भणितव्यम्, अवशेषाः स्पर्शाः यथा वर्णास्तथा भणितव्याः ॥३९॥

टीका—अथ परमाणुपुद्गलानां संख्यातप्रदेशानामसंख्यातप्रदेशानामनन्तप्रदेशानाञ्च परस्परमल्पबहुत्ववक्तव्यतां प्ररूपयति—‘एएसि णं भंते ! परमाणु पोग्गलाणं’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतेषां खलु परमाणुपुद्गलानाम् ‘संखेज्जपएसियाणं असंखेज्जपएसिया णं अणंतपएसियाण य खंधाणं’ संख्येयप्रदेशिकानाम् असंख्येयप्रदेशिकानाम्, अनन्तप्रदेशिकानाञ्च स्कन्धानाम् मध्ये ‘द्व्वट्ठयाए पएसट्ठयाए द्व्वट्ठपएसट्ठयाए’ द्रव्यार्थतया—द्रव्यार्थिकनयेन, प्रदेशार्थतया—प्रदेशार्थिकनयेन द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया च—तद्दुभयनयापेक्षयेत्यर्थः, ‘कयरे कयरेहितो कतरे कतरेभ्यः ‘अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा?’ अल्पा वा, बहुया वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’

स्पर्शों में (कक्खडमउयगुरुयलहुयाणं) कर्कश, मृदु, गुरु, लघु का कथन (जहा एगपएसोगाढाणं भणियं) जैसा एकप्रदेशावगाढों का कहा (तहा भाणियव्वं) वैसा कहना चाहिए (अवसेसा फासा) शेष स्पर्श (जहा वण्णा तहा भाणियव्वा) वर्णों के समान कहना चाहिए ।

अब परमाणु पुद्गलों, संख्यात प्रदेशी स्कंधों, असंख्यात प्रदेशी स्कंधों और अनन्त प्रदेशी स्कंधों का पारस्परिक अल्पबहुत्व निरूपण किया जाता है—

टीकार्थ—श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन परमाणुपुद्गलों, संख्यातप्रदेशी स्कंधों, असंख्यातप्रदेशी स्कंधों और अनन्तप्रदेशी स्कंधों में से द्रव्य की अपेक्षा से, प्रदेशों की अपेक्षा से

स्पर्श (भाणियव्वा) कडेवा नेधये. (फासाण) स्पर्शांमां (कक्खडमउयगुरुयलहुयाण) कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, स्पर्शानु कथन णाल्लुपु. (जहा एगपएसोगाढाण भणियं) जेभ अेक प्रदेशावगाढ पुद्गलाना सणधमा कथन क्खुं छे. (तहा भाणियव्वं) जे ज प्रभाण्णे कडेपु नेधये (अवसेसा फासा) भाक्खीना स्पर्श (जहा वण्णा तहा भाणियव्वा) वण्णीना सरणेः कडेवे नेधये ॥ सू. ३६ ॥

टीकार्थ—डूवे परमाणु पुद्गलाना, संख्यात प्रदेशी स्कंधा, असंख्यात प्रदेशी स्कंधा अने अनन्त प्रदेशी स्कंधानु पारस्परिक अल्प बहुत्व निरूपण करवामा आवे छे

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे के—हे भगवन् ! आ परमाणु पुद्गलाना, संख्यात प्रदेशी स्कंधा, असंख्यात प्रदेशी स्कंधा अने अनन्तप्रदेशी स्कंधाना

हे गौतम ! 'सर्व्वत्थोवा अणंतपएसिया खंधा दब्बट्टयाए' सर्व्वस्तोकाः—सर्व्वेभ्यो-
 ऽल्पाः, अनन्तप्रदेशिकाः स्कन्धाः द्रव्यार्थतया—द्रव्यार्थिकनयेन भवन्ति, तेपा-
 मनन्तप्रदेशिकानां तथा स्वाभाव्यात् तेभ्यः—'परमाणुपोगला दब्बट्टयाए अणंत-
 गुणा' परमाणुपुद्गलाः द्रव्यार्थतया—द्रव्यार्थिकनयेन, अनन्तगुणा भवन्ति,
 तेपामपि तथा स्वाभाव्यात्, तेभ्योऽपि—'संखेज्जपएसिया खंधा दब्बट्टयाए
 संखेज्जगुणा' संख्येयप्रदेशिकाः स्कन्धाः द्रव्यार्थतया संख्येयगुणा भवन्ति, तथा
 स्वभाव एवात्रापि कारणमवसेयम् तेभ्योऽपि—'असंखेज्जपएसिया खंधा दब्ब-
 ट्टयाए असंखेज्जगुणा' असंख्यप्रदेशिकाः स्कन्धाः द्रव्यार्थतया असंख्येयगुणा
 भवन्ति, तेपामपि तथा—स्वभावत्वात्, तेभ्योऽपि—'सर्व्वत्थोवा अणंतपएसिया
 खंधा पएसट्टयाए' सर्व्वस्तोकाः—सर्व्वेभ्योऽल्पाः अनन्तप्रदेशिकाः स्कन्धाः प्रदे-
 शार्थतया भवन्ति तेपामनन्तप्रदेशिकानां स्कन्धानां तथा स्वभावत्वात्, तेभ्योऽपि
 —परमाणुपोगला अपएसट्टयाए अणंतगुणा' परमाणुपुद्गलाः अप्रदेशार्थतया
 अनन्तगुणा भवन्ति, परमाणुपुद्गलानां निरवयवतया प्रदेशत्वाभावेन अप्रदे-

तथा द्रव्य और प्रदेश—दोनों की अपेक्षा से कौन किस से अल्प, बहुत,
 तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! सब से कम अनन्तप्रदेशी
 स्कंध द्रव्य की अपेक्षा से हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है।
 परमाणुपुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से अनन्तगुणा हैं। इन की अपेक्षा
 संख्यातप्रदेशी स्कंध द्रव्य से संख्यातगुणा हैं। असंख्यातप्रदेशी स्कंध
 द्रव्य से असंख्यातगुणा हैं।

प्रदेशों की अपेक्षा, सब से कम अनन्तप्रदेशी स्कंध हैं। उनसे
 परमाणु पुद्गल अप्रदेश की विवक्षा से अनन्तगुणा है। परमाणुपुद्गल
 निरवयव होता है, उस में प्रदेश नहीं होते, अतएव उसे सूत्र में 'अपए-

द्रव्यनी अपेक्षाथी प्रदेशानी अपेक्षाथी तथा द्रव्य अने प्रदेश—अनेनी अपेक्षाथी
 डोणु कोनाथी ओणु, वधारे, सरभा अगरेतो विशेषाधिक छे ?

श्रीभगवान् उत्तर आपता कडे छे के-डे गौतम ! सौथी ओणु अन त प्रदेशी
 स्कंध द्रव्यनी अपेक्षाथी छे केभके-तेने। स्वभाव अ ओवे छे परमाणु पुद्गल
 द्रव्यनी अपेक्षाअे अन तगणु छे तेना करतो स जथात प्रदेशी स्कंध द्रव्यथी
 स जथातगणु छे अस जथातप्रदेशी स्कंध द्रव्यथी अस जथातगणु वधारे छे।

प्रदेशानी अपेक्षाथी सौथी ओणु अन त प्रदेशीस्कंध छे। तेनाथी पर-
 माणु पुद्गल अप्रदेशीनी विवक्षाथी अन तगणु छे परमाणु पुद्गलो निरव-
 यव डेथ छे। तेमा प्रदेशो डोता नथी तेथीअे तेने सूत्रमा (अपएसट्टयाए)

શાર્થત્વમુક્તમ્, તદપેક્ષયાઽનન્તગુણત્વં તેપાં વોધ્યમ્, તેભ્યોઽપિ 'સંખેજ્જપણસિયા
 ળંધા પણસટ્ટયાણ સંખેજ્જગુણા' સંખયેયપ્રદેશિકાઃ સ્કન્ધાઃ પ્રદેશાર્થતયા સંખયેય-
 ગુણા ભવન્તિ, તેપામપિ તથા સ્વભાવ ઇવાત્રાપિ કારણમ્, તેભ્યોઽપિ—'અસંખેજ્જ-
 પણસિયા ળંધા પણસટ્ટયાણ અસંખેજ્જગુણા' અસંખયેયપ્રદેશિકાઃ સ્કન્ધાઃ પ્રદેશાર્થ
 તયા અસંખયેયગુણા ભવન્તિ, તેપામપિ તથા સ્વભાવત્વાત્, તેભ્યોઽપિ—'સવ્વત્થો
 વા અણંતપણસિયા ળંધા દવ્વટ્ટયાણ' દ્રવ્યાર્થતયા—દ્રવ્યાર્થિકનયાપેક્ષયા, સર્વ-
 સ્તોકાઃસર્વેભ્યોઽલ્પાઃ, અનન્તપ્રદેશિકાઃ સ્કન્ધાઃ ભવન્તિ, તેપામપિ તથા સ્વભાવ
 ઇવાત્ર નિદાનમ્, તેભ્યોઽપિ 'તે ચેવ પણસટ્ટયાણ અણંતગુણા' તે ચૈવ—અનન્ત
 પ્રદેશિકાઃ સ્કન્ધાઃ પ્રદેશાર્થતયા અનન્તગુણા ભવન્તિ, તેભ્યોઽપિ 'પરમાણુપોગ્ગલા
 દવ્વટ્ટ અપણસટ્ટયાણ અણંતગુણા' પરમાણુપુદ્ગલાઃ દ્રવ્યાર્થતયા અપ્રદેશાર્થતયા
 અનન્તગુણા ભવન્તિ, તેભ્યોઽપિ—'સંખેજ્જપણસિયા ળંધા દવ્વટ્ટયાણ સંખેજ્જગુણા'
 સંખયેયપ્રદેશિકાઃ સ્કન્ધાઃ દ્રવ્યાર્થતયા સંખયેયગુણા ભવન્તિ, 'તે ચેવ પણસટ્ટ-
 યાણ સંખેજ્જગુણા' તે ચૈવ—સંખ્યાતપ્રદેશિકાઃ સ્કન્ધાઃ પ્રદેશાર્થતયા સંખયેયગુણા
 ભવન્તિ તેપામપિ તથા સ્વભાવત્વાત્ તેભ્યોઽપિ 'અસંખેજ્જપણસિયા ળંધા દવ્વટ્ટયાણ
 સટ્ટયાણ' કહા હૈ । પરમાણુપુદ્ગલોં કી અપેક્ષા સંખ્યાતપ્રદેશી સ્કંધ
 પ્રદેશોં કી વિવક્ષા સે સંખ્યાતગુણા હૈં । ડનસે અસંખ્યાત પ્રદેશી સ્કંધ
 પ્રદેશોં કી વિવક્ષા સે અસંખ્યાતગુણા હૈં ।

દ્રવ્યાર્થ પ્રદેશાર્થ કી અપેક્ષા—અનન્તપ્રદેશી સ્કંધ દ્રવ્ય સબસે થોડે
 હૈં કિન્તુ પ્રદેશોં સે વે હી અનન્ત ગુણા હોતે હૈં । ડન સે પરમાણુપુદ્ગલ
 દ્રવ્યપ્રદેશ કી વિવક્ષા સે અનન્તગુણે હૈં । ડનસે સંખ્યાતપ્રદેશી
 સ્કંધ દ્રવ્ય કી વિવક્ષા સે સંખ્યાતગુણા હૈં, વે હી પ્રદેશોં કી વિવક્ષા
 સે સંખ્યાતગુણા અધિક હૈં । ડનસે ઢી અસંખ્યાતપ્રદેશી સ્કંધ દ્રવ્ય
 કી વિવક્ષા સે અસંખ્યાતગુણા હૈં, વે હી પ્રદેશોં કી વિવક્ષા સે ડન
 સે અસંખ્યાત ગુણા હૈં ।

એમ કહેલ છે પરમાણુ પુદ્ગલોના કરતા સખ્યાત પ્રદેશી સ્કંધ પ્રદેશોની
 વિવક્ષાથી અસખ્યાતગણા છે

દ્રવ્યાર્થ પ્રદેશાર્થની અપેક્ષાથી અનન્ત પ્રદેશી સ્કંધ દ્રવ્યથી સૌથી થોડા
 છે. પરંતુ પ્રદેશોથી એ જ અનન્તગણા થાય છે તેનાથી પરમાણુ પુદ્ગલ
 દ્રવ્ય પ્રદેશની વિવક્ષાથી અનન્તગણા છે તેનાથી સખ્યાત પ્રદેશી સ્કંધ દ્રવ્યની
 વિવક્ષાથી અનન્તગણા છે એ જ પ્રદેશોની વિવક્ષાથી સખ્યાતગણા વધારે છે
 તેનાથી પણ અસખ્યાત પ્રદેશી સ્કંધ દ્રવ્યની વિવક્ષાથી અસખ્યાત ગણા છે.
 એ જ પ્રદેશોની વિવક્ષાથી અસખ્યાતગણા છે.

असंखेज्जगुणा' असंख्येयप्रदेशिकाः स्कन्धाः द्रव्यार्थतया असंख्येयगुणा भवन्ति, तेषामपि तथा स्वभावत्वात् 'ते चैव पएसट्टयाए असंखेज्जगुणा' ते चैव-असंख्येय-प्रदेशिकाः स्कन्धाः प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणा भवन्ति, अथैनेषामेव क्षेत्र प्राधान्येनाल्पबहुत्वमाह- 'एएसि णं भंते ; एगपएसोगाढाणं' गौतमः पृच्छति-हे भदन्त ! एतेषां खलु एकप्रदेशावगाढानाम्, 'संखेज्जपएसोगाढाणं' संख्येय-प्रदेशावगाढानाम्, 'असंखेज्जपएसोगाढाणय' असंख्येयप्रदेशावगाढानाञ्च 'पोग्ग-ळाणं' पुद्गलानाम् मध्ये 'दव्वट्टयाए, पएसट्टयाए' द्रव्यार्थतया, प्रदेशार्थतया 'दव्वट्टपएसट्टयाए' द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया च 'कयरे कयरे हितो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति- 'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्वत्थोवा एगपएसोगाढा पोग्गला दव्वट्टयाए' क्षेत्राधिकारतः क्षेत्रस्य प्राधान्यापेक्षया परमाण्वाद्यनन्ताणुकस्कन्धानामपि विवक्षितैकप्रदेशावगाढत्वेन आधाराधेयोरभेदोपचारादेकद्रव्यत्वेन व्यवहारात् तथाभूताः एकप्रदेशावगाढाः पुद्गलाः-पुद्गलद्रव्याणि, सर्वस्तोकाः- सर्वेभ्योऽल्पाः, द्रव्यार्थतया भवन्ति ते च

अब क्षेत्र की प्रधानता से इनका अल्पबहुत्व दिग्बलाते हैं-

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं-हे भगवन् ! इन एक प्रदेशावगाढ अर्थात् आकाश के एक प्रदेश में स्थित, संख्यात प्रदेशावगाढ, और असंख्यातप्रदेशावगाढ पुद्गलों में द्रव्य से, प्रदेशों से तथा द्रव्य-प्रदेशों से कौन किसकी अपेक्षा अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं-हे गौतम ! सब से कम एक प्रदेश में अवगाढ पुद्गल द्रव्य की विवक्षा से हैं । यहाँ क्षेत्र की प्रधानता से विचार वि । जा रहा है, अतएव जो भी परमाणु, संख्यातप्रदेशी, असंख्यातप्रदेशी या अनन्तप्रदेशी स्कंध आकाश के एक प्रदेश में

हुवे क्षेत्रनी प्रधानताथी तेणु अल्पबहुत्व भतावे छे

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे के-डे लगवन् आ ओक प्रदेशावगाढ अर्थात् आकाशना ओक प्रदेशमा रहेला, सख्यात प्रदेशावगाढ अने असख्यात प्रदेशावगाढ पुद्गलौमा द्रव्यथी प्रदेशोथी तथा द्रव्यप्रदेशोथी कोणु कोनाथी ओछा, वधारे, सरभा विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तरमा कडे छे के-डे गौतम । सौथी ओछा ओक प्रदेशमा अवगाढ पुद्गल द्रव्यनी विवक्षाथी छे अही क्षेत्र प्रधानताथी विचार करवामा आवी रह्यो छे तेथीन ने परमाणु सख्यात प्रदेशी, असख्यातप्रदेशी, अथवा अनन्त प्रदेशी स्कंध आकाशना ओक प्रदेशमा अवगाढ छे. ते अधाने ओकञ्च

लोकाकाशप्रदेशप्रमाणा बोध्याः सर्वस्यैवाकाशप्रदेशस्य एकप्रदेशावगाहनपरिणाम-
परिणतानां परमाणादीनामवकाशदानपरिणामेन परिणतत्वात्, तेभ्योऽपि 'संखे-
ज्जपएसोगाढा पोगगला दव्वट्टयाए संखेज्जगुणा' संख्येयप्रदेशावगाढाः पुद्गलाः
द्रव्यार्थतया संख्येयगुणा भवन्ति, क्षेत्रस्य प्राधान्येन द्रव्यगुणाद्यनन्ताणुकस्कंधानां
द्विप्रदेशावगाढानामेकद्रव्यत्वेन विवक्षणात् तेषाञ्च तथाभूतानां पुद्गलद्रव्याणां
प्रागुक्तेभ्यः संख्येयगुणत्वात् वस्तुतोऽसंख्येयानामपि सर्वलोकप्रदेशानाम् असक-
ल्पनया दशसंख्यकपरिकल्पनेन तेषां च प्रत्येकप्ररूपणे दशैव भवन्तीति एक-
प्रदेशावगाढानां दशानां पुद्गलद्रव्याणां लाभेन तेषामेव दशप्रदेशानाम् अन्य-
ग्रहणान्यत्यागद्वारा बहूनामेव द्विकसंयोगानाम् उपलभ्येन एकप्रदेशावगाढापेक्षया
द्विप्रदेशावगाढानां पुद्गलद्रव्याणां संख्येयगुणत्वात् तेभ्योऽपि त्रिप्रदेशाव-
गाढानां पुद्गलद्रव्याणाम् एवमेव चतुःप्रदेशावगाढानां पञ्चप्रदेशावगाढानां यावत्
उत्कृष्टसंख्यातप्रदेशावगाढानाम् संख्येयगुणत्वलाभेन, एकप्रदेशावगाढापेक्षया
संख्येयप्रदेशावगाढानि पुद्गलद्रव्याणि द्रव्यार्थतया संख्येयगुणानि भवन्ति

अवगाढ हैं, उन सब को एक ही राशि में परिगणित करके 'एक-
प्रदेशावगाढ' कहा गया है। उनकी अपेक्षा संख्यात प्रदेशों में अव-
गाढ पुद्गल द्रव्य की विवक्षा से संख्यातगुणा हैं। यहाँ भी यह बात
ध्यान में रखना चाहिए कि आकाश के दो प्रदेशों में द्व्यणुक भी
रहता है, त्र्यणुक भी रहता है, असंख्यातप्रदेशी या अनन्तप्रदेशी
स्कंध भी है, अतः उन सब की क्षेत्र की अपेक्षा एक ही राशि है।
इसी प्रकार तीन प्रदेशों से त्र्यणुक से लेकर अनन्ताणुक स्कंध तक
रहते हैं, उनकी भी एक राशि समझ लेनी चाहिए। इस प्रकार एक
प्रदेशावगाढ पुद्गलों की अपेक्षा संख्यातप्रदेशों में अवगाढ पुद्गल
द्रव्य संख्यातगुणा अधिक कहें गए हैं। लोक के समस्त प्रदेश वास्तव

राशीमा परिगणित करीने ओक प्रदेशावगाढ कहेवामा आण्वा छे तेना करता
संख्यात प्रदेशोमा अवगाढ पुद्गल द्रव्यनी विवक्षाये संख्यातगुणा छे अर्ही
पणु आ वात ध्यानमा राश्वी नोथये डे-आकाशना ये प्रदेशोमा द्व्यणुक
पणु रहे छे, त्र्यणुक पणु रहे छे असंख्यात अथवा अनन्त प्रदेशी स्कंध
पणु रहे छे तेथी ये अधानी क्षेत्रनी अपेक्षाथी ओक व राशी छे, ये व
प्रमाणे त्र्यणु प्रदेशोमा त्र्यणुकथी लधने अनन्ताणुक स्कंध सुधी रहे छे,
तेनी पणु ओक राशी समझ लेवी नोथये आ रीते ओक प्रदेशावगाढ पुद्ग-
लद्वीनी अपेक्षाथी संख्यात प्रदेशोमा अवगाढ पुद्गल द्रव्य संख्यात गणु
वधारे कहेल छे लोकना सधणा प्रदेशी वास्तविक रीते असंख्यात छे, तो पणु

तेभ्योऽपि 'असंखेज्जपएसोगाढा पोग्गला दच्चट्टयाए असंखेज्जगुणा' असंख्येय-
 प्रदेशावगाढाः पुद्गलाः द्रव्यार्थतया असंख्येयगुणा गणन्ति, असंख्येयस्या-
 संख्येयभेदभिन्नत्वात्, 'पएसट्टयाए सव्वत्थोवा एगपएसोगाढा पोग्गला'
 प्रदेशार्थतया सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः, एकप्रदेशावगाढाः पुद्गला भवन्ति,
 तेभ्योऽपि-'संखेज्जपएसोगाढा पोग्गला पएसट्टयाए संखेज्जगुणा' संख्येय-
 प्रदेशावगाढाः पुद्गलाः-पुद्गलद्रव्याणि, प्रदेशार्थतया संख्येयगुणा भवन्ति,
 तेभ्योऽपि 'असंखेज्जपएसोगाढा पोग्गला पएसट्टयाए असंखेज्जगुणा' असंख्येय-
 प्रदेशावगाढाः पुद्गलाः प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणा भवन्ति, 'दच्चट्टपएसट्टयाए
 सव्वत्थोवा एगपएसोगाढा पोग्गला' द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया तद्बुभयापेक्षया, सर्व-
 स्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः एकप्रदेशावगाढाः पुद्गला भवन्ति, 'दच्चट्टपएसट्टयाए
 संखेज्जपएसोगाढा पोग्गला' द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया संख्येयप्रदेशावगाढाः पुद्गला
 भवन्ति, 'दच्चट्टयाए संखेज्जगुणा' द्रव्यार्थतया संख्येयप्रदेशावगाढाः पुद्गलाः

में असंख्यात हैं तथापि असत्कल्पना से उन्हें दश मान लें । उन में से प्रत्येक की प्ररूपणा करने पर दश ही होते हैं, इस प्रकार प्रदेश में अवगाढ दश पुद्गलों का लाभ होता है । उन्हीं दश प्रदेशों के अन्य के ग्रहण और अन्य के त्याग द्वारा बहुत-से द्विकसंयोगों का लाभ होता है, इस कारण एक प्रदेश में अवगाढ पुद्गलों की अपेक्षा द्विप्रदेशावगाढ पुद्गल द्रव्य संख्यातगुणा हैं । उनकी अपेक्षा भी त्रिप्रदेशावगाढ पुद्गल द्रव्य, इसी प्रकार चार प्रदेशों में अवगाढ, पांच प्रदेशों में अवगाढ यावत् संख्यात प्रदेशों में अवगाढ पुद्गल द्रव्य संख्यातगुणा सिद्ध होते हैं । एकप्रदेशावगाढ पुद्गल द्रव्यों की अपेक्षा संख्यातगुणा है । संख्यातप्रदेशावगाढ पुद्गलद्रव्य द्रव्य की विवक्षा से संख्यातगुणा हैं । उनकी अपेक्षा भी असंख्यातप्रदेशावगाढ पुद्गल द्रव्य की विव

असत्कल्पनाथी तेने इस भानीले । तेमाथी इरेकनी प्ररूपणा करवामा आवे तो इस ७ होय छे ओ प्रमाणे ओक प्रदेशमा अवगाढ इस पुद्गलोने लाल थाय छे ओ ७ इस प्रदेशोने अन्यथी शुष्ण अने अन्यथी त्याग द्वारा धष्ण स यो-
 गोने लाल थाय छे आ कारणथी ओक प्रदेशमा अवगाढ पुद्गलोनी अपेक्षाथी द्विप्रदेशावगाढ पुद्गल द्रव्य संख्यातगुण छे । तेना करता त्रिप्रदेशावगाढ पुद्गल द्रव्य, ओ ७ प्रमाणे चार प्रदेशोमा अवगाढ यावत् संख्यात प्रदेशोमा अवगाढ पुद्गल द्रव्य, संख्यातगुण सिद्ध थाय छे ओक प्रदेशावगाढ पुद्गल द्रव्योनी अपेक्षाथी संख्यातगुण छे संख्यात प्रदेशावगाढ पुद्गल द्रव्योनी विव-
 क्षाथी संख्यातगुण छे । तेना करता पञ्च असंख्यात प्रदेशावगाढ पुद्गल द्रव्योनी

संख्येयगुणा भवन्ति, 'ते चैव पएसद्वयाए संखेज्जगुणा' ते चैव-संख्येयप्रदेशावगाढाः पुद्गलाः प्रदेशार्थतया संख्येयगुणा भवन्ति, 'असंखेज्जपएसोगाढा पोगला दव्वद्वयाए असंखेज्जगुणा' असंख्येयप्रदेशावगाढाः पुद्गलाः द्रव्यार्थतया असंख्येयगुणा भवन्ति, 'ते चैव पएसद्वयाए असंखेज्जगुणा' ते चैव-असंख्येयप्रदेशावगाढाः पुद्गलाः प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणा भवन्ति, गौतमः पृच्छति- 'एएसि णं भंते ! एगसमयठिइया णं भंते ! हे भदन्त ! एतेपां खलु एकसमयस्थितिकानाम्- 'एकस्मिन्नेव समये स्थितिर्येषां ते एकसमय-

से असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं ।

प्रदेशों की विवक्षा से सब से कम पुद्गल एकप्रदेशावगाढ हैं । उनकी अपेक्षा संख्यात प्रदेशों में अवगाढ पुद्गल प्रदेशों की विवक्षा से संख्यातगुणा अधिक हैं । उनकी अपेक्षा भी असंख्यात आकाशप्रदेशों में अवगाढ पुद्गल प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यातगुणा हैं ।

द्रव्य और प्रदेश दोनों की विवक्षा से एक प्रदेश में अवगाढ पुद्गल सब से कम हैं । द्रव्य और प्रदेश दोनों की विवक्षा से संख्यात प्रदेशों में अवगाढ पुद्गल द्रव्य से संख्यातगुणा हैं और वही संख्यात प्रदेशों में अवगाढ पुद्गल प्रदेशों से भी संख्यातगुणा हैं । असंख्यात प्रदेशों में अवगाढ पुद्गल द्रव्य से असंख्यातगुणा हैं, वे ही प्रदेश से असंख्यातगुणा अधिक हैं,

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं-हे भगवन् ! एक समय की स्थिति वाले, संख्यात समयों की स्थिति वाले, असंख्यात समय की

विवक्षाथी असंख्यातगल्लु छे केमके-असंख्यातना असंख्यात लेटो डोय छे.

प्रदेशोनी विवक्षाथी सौथी ओछा पुद्गल ओक प्रदेशावगाढ छे. तेना करता संख्यात प्रदेशोभा अवगाढ पुद्गल प्रदेशोनी विवक्षाथी संख्यातगल्लु वधारे छे तेना करता पल्लु असंख्यात आकाश प्रदेशोभा अवगाढ पुद्गल प्रदेशोनी विवक्षाथी असंख्यातगल्लु छे.

द्रव्य अने प्रदेश अन्नेनी विवक्षाथी ओक प्रदेशभा अवगाढ पुद्गल सौथी ओछा छे द्रव्य अने प्रदेश अन्नेनी विवक्षाथी संख्यात प्रदेशोभा अवगाढ पुद्गल द्रव्यथी संख्यातगल्लु छे अने ओज संख्यात प्रदेशोभा अवगाढ पुद्गल प्रदेशोथी पल्लु संख्यातगल्लु छे असंख्यात प्रदेशोभा अवगाढ पुद्गल द्रव्यथी असंख्यातगल्लु ओज प्रदेशथी असंख्यातगल्लु वधारे छे.

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे के-हे भगवन् ओक समयनी स्थितिवाणा संख्यात समयोनी स्थितिवाणा असंख्यात समयोनी स्थितिवाणा अने अन्त

स्थितिकास्तेषामित्यर्थः, 'संखेज्जसमयठिइयाणं' संख्येयसमयस्थितिज्ञानाम्-
संख्यातसमयवर्तिनामित्यर्थः, 'असंखेज्जसमयठिइयाणं' असंख्यातसमयस्थिति-
ज्ञानाम्-असंख्येयसमयस्थाधिनाम्, 'पोग्गलाणं' पुद्गलानाम् मध्ये 'द्व्वट्ठ-
याए, पएसट्टयाए, दव्वट्ठपएसट्टयाए' द्रव्यार्थतया, प्रदेशार्थतया, द्रव्यार्थ-
प्रदेशार्थतया च 'क्यरे क्यरेहिंतो' कतरे कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया वा,
तुल्ला वा, विसेसाहिया वा?' अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा
भवन्ति? भगवान् उत्तरयति—'गौतम! हे गौतम! 'सव्वत्थोवा एगसमयठिइया
पोग्गला दव्वट्टयाए' सर्वस्तोकाः सर्वेभ्योऽल्पाः, एकसमयस्थितिकाः, पुद्गलाः
द्रव्यार्थतया-द्रव्यार्थिकनयेन भवन्ति, 'संखेज्जसमयठिइया पोग्गला दव्वट्टयाए
संखेज्जगुणा' संख्येयसमयस्थितिकाः पुद्गलाः द्रव्यार्थतया संख्येयगुणा भवन्ति
'असंखेज्जसमयठिइया पोग्गला दव्वट्टयाए असंखेज्जगुणा' असंख्येयसमयस्थि-
तिकाः पुद्गलाः द्रव्यार्थतया असंख्येयगुणा भवन्ति, 'सव्वत्थोवा-एगसमयठिइया
पोग्गला पएसट्टयाए' सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पाः, एकसमयस्थितिकाः पुद्गलाः
प्रदेशार्थतया भवन्ति, 'संखेज्जसमयठिइया पोग्गला पएसट्टयाए संखेज्जगुणा'
संख्येयसमयस्थितिकाः पुद्गलाः प्रदेशार्थतया संख्येयगुणा भवन्ति, 'असंखेज्ज-

स्थिति वाले और अनन्त समयों की स्थिति वाले पुद्गलों में से कौन
किस से द्रव्य, प्रदेश एवं द्रव्य प्रदेश उभय की विवक्षा से अल्प,
बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक हैं ?

श्री भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! द्रव्य की विवक्षा से सब
से कम पुद्गल एक समय की स्थिति वाले हैं । द्रव्य की विवक्षा से
संख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल संख्यातगुणा अधिक हैं । द्रव्य
की विवक्षा से असंख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल असंख्यातगुणा
हैं । प्रदेशों की विवक्षा से सब से कम पुद्गल एक समय की स्थिति
वाले हैं । प्रदेशों की विवक्षा से संख्यात समय की स्थिति वाले
पुद्गल संख्यातगुणा हैं । प्रदेशों की विवक्षा से असंख्यात समय की

समयानी स्थितिवाणा पुद्गलोमाथी कोषु कोनाथी द्रव्य प्रदेश अने द्रव्य अने
प्रदेश अनेनी विवक्षाथी अल्प, वधारे, तुल्य, अजर विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! द्रव्यनी विवक्षाथी सौथी ओछा
पुद्गल अेक समयनी स्थितिवाणा छे द्रव्यनी विवक्षाथी स भ्यात समयनी
स्थिति वाणा पुद्गल स भ्यातगणु वधारे छे द्रव्यनी विवक्षाथी अस भ्यातगणु
समयनी स्थितिवाणा पुद्गल अस भ्यातगणु छे प्रदेशोनी विवक्षाथी सौथी
ओछा अेक समयनी स्थितिवाणा छे । प्रदेशोनी विवक्षाथी स भ्यात समयनी

समपठिइया पोग्गला पएसट्टयाए अपंखेज्जगुणा' अरंख्येयसमयस्थितिकाः पुद्गलाः प्रदेशार्थतया अरंख्येयगुणा भवन्ते, 'द्वन्द्वपएसट्टयाए सव्वरथो वा एगममपठिइया पोग्गला' द्व्यार्थप्रदेशार्थतया सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽव्याः, एकसमयस्थितिकाः पुद्गला भवन्ति, 'द्वन्द्वपएसट्टयाए संखेज्जसमयठिइया पोग्गला द्वन्द्वयाए संखेज्जगुणा' द्व्यार्थप्रदेशार्थतया संख्येयसमयस्थितिकाः पुद्गलाः द्व्यार्थतया संख्येयगुणा' भवन्ति, 'ते चेव पएसट्टयाए संखेज्जगुणा' ते चैव—संख्येयसमयस्थितिकाः पुद्गलाः प्रदेशार्थतया संख्येयगुणा भवन्ति 'असंखेज्जसमयठिइया पोग्गला द्वन्द्वयाए असंखेज्जगुणा' असंख्येयसमयस्थितिकाः पुद्गलाः द्व्यार्थतया असंख्येयगुणा भवन्ति, 'ते चेव पएसट्टयाए असंखेज्जगुणा' ते चैव असंख्येयसमयस्थितिकाः पुद्गलाः प्रदेशार्थतया असंख्येयगुणा भवन्ति ।

अथ भावतोऽल्पवहुत्वं च क्तव्यतां प्ररूपयति—'एएसिणं भंते ! एगुक्तकालगाणं' गौतमः ! पृच्छति—हे भदन्त ! एतेषां खलु एकगुणकालकानाम्, 'संखेज्जगुणकालगाणं' संख्येयगुणकालकानाम्, 'असंखेज्जगुणकालगाणं'

स्थिति वाले पुद्गल असंख्यातगुणा हैं ।

द्रव्य और प्रदेश दोनों की विवक्षा से सब से कम पुद्गल एक स की स्थिति वाले हैं । द्रव्य और प्रदेश दोनों की विवक्षा से संख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल द्रव्य से संख्यातगुणा और वे ही प्रदेश से संख्यातगुणा हैं । द्रव्य की विवक्षा से असंख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल असंख्यातगुणित हैं, वे ही प्रदेश की अपेक्षा असंख्यातगुणा हैं ।

अब भाव की अपेक्षा से अल्पबहुत्व की प्ररूपणा करते हैं—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! इन एक गुण काले

स्थितिवाणा पुद्गल स भ्यातगणुा छे प्रदेशानी विवक्षाथी अस भ्यात समयनी स्थितिवाणा पुद्गल अस भ्यातगणुा छे

द्रव्य अने प्रदेश अन्नेनी विवक्षाथी सौथी ओछा पुद्गल ओक समयनी स्थितिवाणा छे. द्रव्य अने प्रदेश अन्नेनी विवक्षाथी स भ्यात समयनी स्थिति वाणा पुद्गल द्रव्यथी स भ्यातगणुा अने ओ न प्रदेशथी पणु स भ्यातगणुा छे. द्रव्यनी अपेक्षाथी अस भ्यात समयनी स्थितिवाणा पुद्गल अस भ्यात गणुा छे. अने ओश्र प्रदेशनी अपेक्षाथी अस भ्यातगणुा छे

हुवे लावनी अपेक्षाथी अरूप णहुनी प्ररूपणुा करवामा आवे छे

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे के—के भगवन् आ ओक शुष्णकाणामं भ्यात शुष्ण काणा अस भ्यात शुष्ण काणा अने अनन्तशुष्ण काणा पुद्गलसौमाथी द्रव्य,

असंख्येयगुणकालकानाम् 'अणंतगुणकालगाण य पोग्गलाणं' अनन्तगुणकाल-
कानाञ्च पुद्गलानां मध्ये, 'द्व्वट्टयाए, पएसट्टयाए, द्व्वट्टपएसट्टयाए य'
द्रव्यार्थतया, प्रदेशार्थतया, 'द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया च 'कयरे कयरेहिंतो' कतरे
कतरेभ्यः 'अप्पा वा, बहुया, वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा?' अल्पा वा,
बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका भवन्ति ! भगवान्.पूर्वोक्त व्यपदेशेन उत्तर-
यति 'गोयमा' हे गौतम ! 'जहा पोग्गला तहा भाणियच्चा' यथा प्राक् पुद्गलाः
भणिताः प्रतिपादितास्तथा एक गुणकालका अपि भणितव्याः—प्रतिपादयितव्याः,
तथा च व्यपदेशस्वरूपं यथा—'सच्चत्थोवा अणंतपएसिया खंधा एगगुण-
कालगा' सर्वस्तोकाः—अनन्तप्रदेशिकाः स्कन्धाः एकगुणकालकाः, 'परमाणु-
पोग्गला द्व्वट्टयाए एगगुणकालगा अणंतगुणा' परमाणुपुद्गलाः द्रव्यार्थतया
एकगुणकालका अनन्तगुणाः, 'संखेज्जपएसिया खंधा एगगुणकालगा संखेज्ज-
गुणा' संख्येयप्रदेशिकाः स्कन्धाः एकगुणकालकाः संख्येयगुणाः, 'असंखेज्ज-
पएसिया खंधा एगगुणकालगा असंखेज्जगुणा' असंख्येयप्रदेशिकाः स्कन्धाः

संख्यात गुण काले, असंख्यात गुण काले और अनन्त गुण काले पुद्गलों
में से द्रव्य, प्रदेश और द्रव्य-प्रदेश दोनों की विवक्षा से कौन किस
की अपेक्षा अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक है ? भगवान्
उत्तर देते हैं—हे गौतम ! पहले सामान्य पुद्गलों के विषय में जो
वक्तव्यता कही गई है, वही एक गुण काले पुद्गलों के विषय में भी
समझना चाहिये । वह वक्तव्यता इस प्रकार जानना चाहिये सब से
कम द्रव्यार्थ रूप से अनन्तगुण काले पुद्गल हैं । उन से द्रव्यार्थरूप से
एक गुण काले पुद्गल अनन्तगुणा हैं । उन से द्रव्यार्थरूप से संख्यात
गुण काले पुद्गल संख्यातगुणा हैं । उन से द्रव्यार्थरूप से असंख्यातगुण
काले पुद्गल असंख्यातगुणा हैं ।

प्रदेश, अने द्रव्यप्रदेश जन्नेनी विवक्षार्थी केषु केनाथी अल्प, वधारे तुल्य
अगर ते विशेषाधिक छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपता कडे छे के-हे गौतम ! पड़ेदा सामान्य
पुद्गलेना स भधमा जे कथन करवामा आवेल छे जे ज कथन जेक शुष्ण
काणा पुद्गलेना स भधमा पष्ण समज्जु. ते कथन आ प्रभाषे छे

सौथी ओछा द्रव्यार्थ पष्णार्थी अन त गष्ण काणा पुद्गल छे तेनाथी
द्रव्यार्थ पष्णार्थी जेक शुष्ण काणा पुद्गल अन त गष्ण छे तेनाथी द्रव्यार्थ
पष्णार्थी स ज्थातगष्ण काणा पुद्गल स ज्थातगष्ण छे तेनाथी द्रव्यार्थ पष्णार्थी
अस ज्थातगष्ण काणा पुद्गल अस ज्थात गष्ण छे.

એકગુણકાલકાઃ અસંખ્યેયગુણાઃ, 'પદ્મદ્રવ્યાપ્ત સવ્વત્યોવા અણંતપદ્મસિયા સંખ્યા
 એકગુણકાલકા' પ્રદેશાર્થતયા સર્વસ્તોકાઃ અનન્તપ્રદેશિકાઃ સ્કન્ધાઃ એકગુણ-
 કાલકાઃ, 'પરમાણુયોગ્ગલા એકગુણકાલકા અણંતગુણા' પરમાણુપુદ્ગલાઃ એકગુણ
 કાલકાઃ અનન્તગુણાઃ પ્રદેશાર્થતયા ભવન્તિ ઇત્યાદિ રીત્યા સ્વયમૂહનીયમ્, તથૈવ
 સંખ્યેયગુણકાલકાનામ્, અસંખ્યેયગુણકાલકાનામ્, અનન્તગુણકાલકાનામપિ
 વક્તવ્યમિત્યભિપ્રાયેનાહ- 'એવં સંખેજ્જગુણકાલકાણવિ' એવમ્-પૂર્વોક્તરીત્યા, સંખ્યે-
 યગુણકાલકાનામપિ અવસેયમ્, એવં-તથૈવ શેપાણામપિ-અસંખ્યેયગુણકાલકા-
 નામપિ અવસેયમ્, 'એવં સેસા વિ વળ્ણા ગંધા રસા ફાસા માણિયવ્વા' એવમ્-
 પૂર્વોક્તરીત્યા, શેપા અપિ વર્ણાઃ, ગન્ધાઃ, રસાઃ, સ્પર્શાઃ, મણિતવ્યાઃ, વક્તવ્યાઃ,

પ્રદેશાર્થ-પ્રદેશાર્થરૂપ સે સબ સે કમ અનન્તગુણ કાલે પુદ્ગલ
 હૈં । એકગુણ કાલે પુદ્ગલ અપ્રદેશાર્થ રૂપ સે અનન્ત ગુણા હૈં । ઉનસે
 સંખ્યાતગુણ કાલે પુદ્ગલ પ્રદેશાર્થરૂપ સે સંખ્યાતગુણા હૈં । ઉનસે અસં-
 ક્યાત ગુણ કાલે પ્રદ્ગલ પ્રદેશાર્થરૂપ સે અસંખ્યાતગુણા હૈં ।

દ્રવ્યાર્થ પ્રદેશાર્થ રૂપ સે-સબ સે કમ દ્રવ્યાર્થ રૂપ સે અનન્તગુણ
 કાલે પુદ્ગલ હૈં । વે હી અનન્તગુણ કાલે પુદ્ગલ પ્રદેશાર્થ રૂપ સે અનન્ત
 ગુણા હૈં । એક ગુણ કાલે પુદ્ગલ-દ્રવ્યાર્થ અપ્રદેશાર્થ રૂપ સે અનન્ત
 ગુણા હૈં । સંખ્યાતગુણ કાલે પુદ્ગલ દ્રવ્યાર્થરૂપ સે સંખ્યાતગુણા હૈં ।
 વે હી દ્રવ્યાર્થરૂપ સે ઉનસે સંખ્યાતગુણા હૈં । ઉનસે અસંખ્યાત ગુણ
 કાલે પુદ્ગલ દ્રવ્યાર્થ રૂપ સે અસંખ્યાતગુણા હૈં ઓર વે હી પ્રદેશાર્થરૂપ
 સે ઉનસે અસંખ્યાતગુણા હૈં ।

પ્રદેશાર્થ-પ્રદેશાર્થ પશુથી સૌથી ઓછા અન ત ગુણ કાળા પુદ્ગલો છે
 એક ગુણ કાળા પુદ્ગલ પ્રદેશાર્થ પશુથી અન ત ગણા છે, તેનાથી સ ખ્યાત
 ગણા કાળા પુદ્ગલ પ્રદેશાર્થ પશુથી સ ખ્યાત ગણા છે તેનાથી અસ ખ્યાત
 ગણા કાળા પુદ્ગલ પ્રદેશાર્થ પશુથી અમ ખ્યાત ગણા કહેવામા આવેલ છે,

દ્રવ્યાર્થ પ્રદેશાર્થ પશુથી સૌથી ઓછા દ્રવ્યાર્થ પશુથી અન ત ગણા કાળા
 પુદ્ગલો છે એ ન અન ત ગુણ કાળા પુદ્ગલ પ્રદેશાર્થ પશુથી અન ત ગણા
 છે. એક ગુણ કાળા પુદ્ગલ દ્રવ્યાર્થ પ્રદેશાર્થ પશુથી અન ત ગણા છે મ ખ્યાત
 ગણા કાળા પુદ્ગલો દ્રવ્યાર્થ પશુથી સ ખ્યાત ગણા છે એ ન પ્રદેશાર્થ પશુથી
 તેનાથી સ ખ્યાત ગણા છે અસ ખ્યાત ગણા કાળા પુદ્ગલ તેનાથી દ્રવ્યાર્થ પશુથી
 અસ ખ્યાત ગણા છે અને એ ન પ્રદેશાર્થ પશુથી તેનાથી અમ ખ્યાત ગણા છે.

આજ પ્રમાણે નીલ-લીલા વિગેરે ઝાકીના આર વર્ણથી બે ગધ, પાચ
 રસ અને શીત, ઉષ્ણ, સ્નિગ્ધ અને ડક્ષ આ પદર બોલતુ અદ્ય પ્રહુત્વ

किन्तु 'फासाणं कक्खडमउयगुरुयलहुयाणं जहा एगपएसोगाढाणं भणियं तथा भाणियच्चं' स्पर्शानाम्-कर्कशमृदुकगुरुकलघुकानाम् यथा एकप्रदेशावगाढानामल्पबहुत्वम् भणितम्-उक्तम्, तथा भणितव्यम्-वक्तव्यम्, तदभिलापस्तु- 'संवत्थोवा एगपएसोगाढा एगगुणकक्खडफासा दव्वट्टयाए' सर्वस्तोकाः एकप्रदेशावगाढाः एकगुणकर्कशस्पर्शा द्रव्यार्थतया, 'संखेज्जपएसोगाढा एगगुणकक्खडफासा पोगला दव्वट्टयाए संखेज्जगुणा' संख्येयप्रदेशावगाढाः एकगुणकर्कशस्पर्शाः पुद्गलाः द्रव्यार्थतया संख्येयगुणाः, 'असंखेज्जपएसोगाढा एगगुणकक्खडफासा दव्वट्टयाए असंखेज्जगुणा' असंख्येयप्रदेशावगाढा एकगुणकर्कशस्पर्शाः द्रव्यार्थतया असंख्येयगुणाः, इत्यादिरीत्या बोध्यः, एवमेव संख्येयगुणकर्कशस्पर्शाः, असंख्येयगुणकर्कशस्पर्शाः, अनन्तगुणकर्कशस्पर्शाः अपि वक्तव्याः,

इसी प्रकार नीला आदि शेष चार वर्ण, दो गंध, पांच रस और शीत, उष्ण, सिग्ध, और रूक्ष इन पन्द्रह बोलों का अल्प बहुत काले वर्ण के समान उपरोक्त रूप से समझ लेना चाहिये ।

द्रव्यार्थरूप से-एक गुण कर्कश पुद्गल द्रव्यार्थ रूप से सब से कम हैं । उन से संख्यात गुण कर्कश पुद्गल द्रव्यार्थरूप से संख्यातगुणा हैं । उनसे असंख्यातगुण कर्कशपुद्गल द्रव्यार्थ रूप से असंख्यातगुणा हैं । उन से अनन्तगुण कर्कश पुद्गल द्रव्यार्थरूप से अनन्तगुणा हैं ।

प्रदेशार्थ रूप से अल्प, बहुतव इसी प्रकार कह देना चाहिये । किन्तु संख्यातगुण कर्कश पुद्गल प्रदेशार्थ रूप से असंख्यातगुणा हैं ऐसा कहना चाहिये ।

द्रव्यार्थ प्रदेशार्थ रूप से-एक गुण कर्कश पुद्गल द्रव्यार्थ अप्रदेशार्थ रूप से सब से कम हैं । उन से संख्यातगुण कर्कश पुद्गल द्रव्यार्थ रूप से संख्यातगुणा हैं । वे ही प्रदेशार्थ रूप से उन से असं

काणा वर्षुनी नेम उपरोक्त कथन प्रभाषे समञ्ज देवुं

द्रव्यार्थ पञ्चाथी अेक शुष् कर्कश पुद्गल द्रव्यार्थ पञ्चाथी ओछा छे स भ्याशुष् कर्कश पुद्गल तेनाथी द्रव्यार्थ पञ्चाथी अस भ्यातगञ्जा छे अन त शुष् कर्कश पुद्गल द्रव्यार्थ पञ्चाथी तेनाथी अन-तगञ्जा छे

प्रदेशार्थ पञ्चाथी अल्प बहुत्व आञ्ज प्रभाषे समञ्ज देवु परतु स भ्यातशुष् कर्कश पुद्गल प्रदेशार्थ पञ्चाथी अस भ्यातगञ्जा छे तेम कडेवु नेमअे

द्रव्यार्थ प्रदेशार्थ पञ्चाथी-अेक शुष् कर्कश पुद्गल द्रव्यार्थ अप्रदेशार्थ पञ्चाथी सौथी ओछा छे तेनाथी स भ्यातगञ्जा कर्कश पुद्गल द्रव्यार्थ पञ्चाथी स भ्यात गञ्जा छे तेञ् प्रदेशार्थपञ्चाथी तेनाथी अस भ्याथगञ्जा छे केअ

तथैव मृदुकगुरुकलघुकरूपाः रपर्शा अपि चक्तव्याः अवशिष्टाश्चत्वारः शीतादयः स्पर्शा यथा वर्णादयः प्रतिप्रादितास्तथैव प्रतिपादनीयाः इत्यग्निप्रायेणाह—‘अवसेसा फासा जहा वन्ना तथा भणियन्वा’ अवशेषा स्पर्शाः शीतादयो यथा वर्णाः भणिता उक्तास्तथा भणितव्याः, तथा चोक्तमेव, इति ‘दारं’ पद्भ्विषम् पुद्गलद्वारम् समाप्तम् ॥सू० ३९॥

महादण्डकल्पवहुत्ववक्तव्यता

मूलम्—अह भंते ! सव्वज्जीवप्पबहुं महादण्डयं वण्णइस्सामि सव्वत्थोवा गढभवक्कंतिया मणुस्सा१, मणुस्सीओ संखेज्जगुणाओ२, वायरतेउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा३, अणुत्तरोववाइया देवा असंखेज्जगुणा४, उवरिमगेविज्जगा देवा संखेज्जगुणा५, मज्झिमगेविज्जगा देवा संखेज्जगुणा६, हिट्ठिमगेविज्जगा देवा संखेज्जगुणा७, अच्चुए कप्पे देवा संखिज्जगुणा८, आरणे कप्पे देवा संखिज्जगुणा९, पाणए कप्पे देवा संखिज्जगुणा१०, आणए कप्पे देवा संखिज्जगुणा११, अहे सत्तमाए पुढवीए नेरइया असंखिज्जगुणा१२ छट्ठीए तमाए

ख्यातगुणा हैं। (किसी किसी प्रति में संख्यातगुणा लिखा है।) उन से असंख्यात गुण कर्कश पुद्गल द्रव्यार्थ रूप से असंख्यातगुणा हैं और वे ही प्रदेशार्थरूप से उन से असंख्यातगुणा हैं। उन से अनन्त गुणा कर्कश पुद्गल द्रव्यार्थ रूप से अनन्तगुणा हैं और वे ही प्रदेशार्थ रूप से उनसे अनन्तगुणा हैं।

जिस प्रकार कर्कश स्पर्श का अल्पबहुत्व कहा उसी प्रकार मृदु, गुरु और लघु स्पर्श का भी अल्पबहुत्व कह देना चाहिये।

छन्विसमां पुद्गलद्वार समाप्त

डेहं प्रतीभा स ज्ज्यातगण्णा लज्जा छे तेनाथी अस ज्ज्यातगण्णा कडंश पुद्गल द्रव्यार्थ पण्णाथी अस ज्ज्यातगण्णा छे. अने ओ न प्रदेशार्थ पण्णाथी तेनाथी अस ज्ज्यातगण्णा छे. अन तगण्णा कडंश पुद्गल तेनाथी द्रव्यार्थ पण्णाथी अन त गण्णा छे अने ओ न प्रदेशार्थ पण्णाथी तेनाथी अन तगण्णा छे

ने प्रभाण्णे कडंश स्पर्शतु अहप भहुत्त कडेल छे. ओ न प्रभाण्णे मृदु, गुरु, अने लघु स्पर्शतु पण्ण अहप भहुत्त कडेल लेवुं ओधे ॥ ३८ ॥

छन्वीससु पुद्गल द्वार समाप्त

पुढवीए नेरइया असंखेज्जगुणा१३ सहस्रसारे कप्पे देवा असंखि-
ज्जगुणा१४ महासुक्के कप्पे देवा असंखिज्जगुणा१५, पंचभाए
धूमप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखिज्जगुणा१६, लंतए कप्पए
देवा असंखिज्जगुणा१७, चउत्थीए पंकप्पभाए पुढवीए नेर-
इया असंखिज्जगुणा१८, वंभलोए कप्पे देवा असंखिज्जगुणा
१९, तच्चआए बालुयप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखिज्जगुणा
२०, माहिंदे कप्पे देवा असंखिज्जगुणा२१, सणंकुमारे कप्पे
देवा असंखेज्जगुणा२२, दोच्चाए सक्करप्पभाए पुढवीए नेरइया
असंखिज्जगुणा२३, संमुच्छिमा मणुस्सा असंखिज्जगुणा२४,
ईसाणे कप्पे देवा असंखिज्जगुणा२५, ईसाणे कप्पे देवीओ
संखिज्जगुणाओ२६, सोहम्मे कप्पे देवा संखिज्जगुणा२७, सोह-
म्मे कप्पे देवीओ संखेज्जगुणाओ२८, भवणवासी देवा असं-
खेज्जगुणा२९, भवणवासिणीओ देवीओ संखेज्जगुणाओ३०,
इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखिज्जगुणा३१, खह-
यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा असंखिज्जगुणा३२, खहयर-
पंचिंदियतिरिक्खजोणिओ संखिज्जगुणाओ३३, थलयरपंचिंदिय-
तिरिक्खजोणिया पुरिसा संखिज्जगुणा३४, थलयरपंचिंदियतिरि-
क्खजोणीणिओ संखिज्जगुणाओ३५, जलयरपंचिंदियतिरिक्ख-
जोणिया पुरिसा संखिज्जगुणा३६, जलयरपंचिंदियतिरिक्खजो-
णिणीओ संखिज्जगुणाओ३७, वाणमंतरा देवा संखिज्जगुणा३८,
वाणमंतरीओ देवीओ संखिज्जगुणाओ३९, जोइसिया देवा संखि-
ज्जगुणा४० जोइसिणीओ देवीओ संखिज्जगुणाओ४१, खहयर-
पंचिंदियतिरिक्खजोणिया नपुंसगा संखिज्जगुणा४२, थलयर-
पंचिंदियतिरिक्खजोणिया नपुंसगा संखिज्जगुणा४३, जलयर-
पंचिंदियतिरिक्खजोणिया नपुंसगा संखिज्जगुणा४४, चउरिंदिया

पञ्जत्तया संखिज्जगुणा४५, पंचिंदिया पञ्जत्तया विसेसाहिया४६,
 वेइंदिया अपञ्जत्तया विसेसाहिया४७, तेइंदिया पञ्जत्तया विसे-
 साहिया४८, पंचिंदिया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा४९, चउरिं-
 दिया अपञ्जत्तया विसेसाहिया५०, तेइंदिया अपञ्जत्तया विसे-
 साहिया५१, वेइंदिया अपञ्जत्तया विसेसाहिया५२, पत्तेयसरीर-
 वायरवणस्सइकाइया पञ्जत्तया असंखिज्जगुणा५३, वायरनिगोया-
 पञ्जत्तया असंखिज्जगुणा५४, वायरपुढवीकाइया पञ्जत्तया असं-
 खिज्जगुणा५५, वायरआउकाइया पञ्जत्तया असंखिज्जगुणा५६,
 वायरवाउकाइया पञ्जत्तया असंखिज्जगुणा५७, वायरतेउका-
 इया अपञ्जत्तया असंखिज्जगुणा५८, पत्तेयसरीर वायरवणस्सइ-
 काइया अपञ्जत्तया असंखिज्जगुणा५९, वायरनिगोया अप-
 ज्जत्तया असंखिज्जगुणा६० वायरपुढवीकाइया अपञ्जत्तया
 असंखिज्जगुणा६१, वायरआउकाइया अपञ्जत्तया असंखिज्ज-
 गुणा६२, वायरवाउकाइया अपञ्जत्तया असंखिज्जगुणा६३, सुहुम-
 तेउकाइया अपञ्जत्तया असंखिज्जगुणा६४, सुहुमपुढवीकाइया
 अपञ्जत्तया विसेसाहिया६५, सुहुमआउकाइया अपञ्जत्तया
 विसेसाहिया६६, सुहुमवाउकाइया अपञ्जत्तया विसेसाहिया६७,
 सुहुमतेउकाइया पञ्जत्तया संखिज्जगुणा६८, सुहुमपुढवीकाइया
 पञ्जत्तया विसेसाहिया६९, सुहुमआउकाइया पञ्जत्तया विसे-
 साहिया७०, सुहुमवाउकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया७१, सुहु-
 मनिगोया अपञ्जत्तया असंखिज्जगुणा७२, सुहुमनिगोया पञ्ज-
 त्तया संखिज्जगुणा७३, अभवसिद्धिया अणंतगुणा७४, परि-
 वडिय सम्मदिट्ठि अणंतगुणा७६, वायरवणस्सइकाइया पञ्ज-
 त्तया अणंतगुणा७७, वायरपञ्जत्तया विसेसाहिया७८, वायर-
 वणस्सइकाइया अपञ्जत्तया असंखिज्जगुणा७९, वायर अपञ्ज-

त्तगा विसेसाहिया८०, वायरा विसेसाहिया८१, सुहुमवणस्सइ-
काइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा८२, सुहुम अपज्जत्तया विसे-
साहिया८३, सुहुमवणस्सइकाइया पज्जत्तया संखिज्जगुणा८४,
पज्जत्तया सुहुमा विसेसाहिया८५, सुहुमा विसेसाहिया८६, भव-
सिद्धिया विसेसाहिया८७, निगोयजीवा विसेसाहिया८८, वण-
स्सइ जीवा विसेसाहिया८९, एगिंदिया विसेसाहिया९०,
तिरिक्खजोणिया विसेसाहिया९१ मिच्छादिट्ठी विसेसाहिया९२,
अविरया विसेसाहिया९३, सकसाई विसेसाहिया९४, छउ-
मत्था विसेसाहिया९५, सजोगी विसेसाहिया९६, संसारत्था
विसेसाहिया९७, सव्व जीवा विसेसाहिया९८, पणवणाए
भगवईए बहुवत्तव्वयपयं समत्तं ॥सू० ४०॥

तइयं पयं समत्तं ॥३॥

छाया—अथ भदन्त ! सर्वजीवाल्पवहुत्वं महादण्डकं वर्णयिष्यामि सर्व-
स्तोकाः गर्भव्युत्क्रान्तिका मनुष्याः १ मानुष्यः संख्येयगुणाः २, वादरतेजः
कायिकाः पर्याप्तिकाः अमंख्येयगुणाः ३, अनुत्तरीपपातिका देवाः असंख्येयगुणाः

महादण्डक का अल्पवहुत्व

शब्दार्थ—(अह) अथ—अथ (भंते) हे भगवन् ! (सव्वजीवप्पवहुं)
सब जीवों के अल्प बहुत्व वाले (महादण्डयं) महादण्डक का (वण-
इस्सामि) वर्णन करूंगा (सव्वत्थोवा गवभवक्कतिया मणुस्सा) सबसे
कम गर्भज मनुष्य हैं (मणुस्सीओ संखिज्जगुणाओ) मनुष्यनी संख्यात
गुणा अधिक हैं (वायरतेउकाइया पज्जत्तया असंखिज्जगुणा) पर्याप्त

महादण्डक अल्प बहुत्व

शब्दार्थ—(अह) अथ इवे (भंते) हे भगवन् (सव्वजीवप्पवहुं) सर्व जीवोना
अल्प बहुत्व वाणु (महादण्डयं) महादण्डकनु (वणइस्सामि) वर्णन करीश (सव्व-
त्थोवा गवभवक्कतिया मणुस्सा) सौथी ओछा गर्भज मनुष्यो छे (मणुस्सीओ
संखिज्जगुणाओ) मानुषिणी सख्यातगणुी पधारे छे (वायरतेउकाइया पज्जत्तया
असंखिज्जगुणा) पर्याप्तिका-२ तेजस्कायिक असख्यातगणुा (अणुत्तरोववाइया

४, उपरिमग्नैवेयकाः देवाः संख्येयगुणाः ५, मध्यमग्नैवेयकाः देवाः संख्येयगुणा
 ६, अधस्तनग्नैवेयकाः देवाः संख्येयगुणाः ७, अच्युते कल्पे देवाः संख्येयगुणाः
 ८, आरणे कल्पे देवाः संख्येयगुणाः ९, प्राणते कल्पे देवाः संख्येयगुणाः १०,
 आनते कल्पे देवाः संख्येयगुणाः ११, अधः सप्तम्या पृथिव्यां नैरयिकाः असं-
 ख्येयगुणाः १२, षष्ठ्यां तमायां पृथिव्यां नैरयिकाः असंख्येयगुणाः १३, सह-
 सारे कल्पे देवा असंख्येयगुणाः १४, महाशुक्रे कल्पे देवाः असंख्येयगुणाः १५,

वाङ्मतेजस्कायिक असंख्यातगुणा हैं (अणुत्तरोचवाङ्मतेजस्का देवा असं-
 खिज्जगुणा) अनुत्तरोपपातिक देव असंख्यातगुणा हैं (उपरिमग्नैवेयका देवा संखिज्जगुणा) उपरी ग्नैवेयकों के देव संख्यातगुणा हैं (मज्जिम-
 ग्नैवेयका देवा संखिज्जगुणा) मध्यम ग्नैवेयकों के देव संख्यातगुणा हैं (हिद्विमग्नैवेयका देवा संखिज्जगुणा) निचले ग्नैवेयकों के देव संख्यात
 गुणा हैं (अच्युत कल्पे देवा संखिज्जगुणा) अच्युत कल्प में देव संख्यात
 गुणा (आरणे कल्पे देवा संखिज्जगुणा) आरण कल्प में देव संख्यात-
 गुणा (प्राणते कल्पे देवा संखिज्जगुणा) प्राणत कल्प में देव संख्यात-
 गुणा (अहे सत्तमाए पुढवीए नैरइया असंखिज्जगुणा) निचली सातवीं
 नरक पृथ्वी में नारक असंख्यातगुणा (छट्टीए तमाए पुढवीए नैरइया
 असंखिज्जगुणा) छठी तमःप्रभा पृथ्वी में नारक असंख्यातगुणा है (सह-
 सारे कल्पे देवा असंखिज्जगुणा) सहस्रार कल्प में देव असंख्यातगुणा
 (महासुक्के कल्पे देवा असंखिज्जगुणा) महाशुक्र कल्प में देव असं-

देवा अर्णतगुणा) अनुत्तरोपपातिक देव असंख्यातगुणा छे (उपरिमग्नैवेयका देवा
 संखिज्जगुणा) उपरना ग्नैवेयकदेव संख्यातगुणा छे (मज्जिमग्नैवेयका देवा संखि-
 ज्जगुणा) मध्यम ग्नैवेयकदेवा देव संख्यातगुणा छे (हिद्विमग्नैवेयका देवा संखिज्ज-
 गुणा) निचला ग्नैवेयकदेवा देव संख्यातगुणा छे (अच्युत कल्पे देवा संखिज्जगुणा)
 अच्युत कल्पना देवा संख्यातगुणा छे. (आरणे कल्पे देवा संखिज्जगुणा) आरण
 कल्पना देवा संख्यातगुणा छे (प्राणते कल्पे देवा संखिज्जगुणा) प्राणतकल्पना
 देवा संख्यातगुणा छे (आणते कल्पे देवा संखिज्जगुणा) आनत कल्पना देवा
 संख्यातगुणा छे (अहे सत्तमाए पुढवीए नैरइया असंखिज्जगुणा) निचली
 सातवीं नरक भूमिमा नारक असंख्यातगुणा छे (छट्टीए तमाए पुढवीए नैरइया
 असंखिज्जगुणा) निचली सातवीं नरक भूमिमा नारक असंख्यातगुणा छे.
 (छट्टीए तमाए पुढवीए नैरइया असंखिज्जगुणा) छठी तमःप्रभा पृथ्वीमा नारक
 असंख्यातगुणा छे. (सहस्रारे कल्पे देवा असंखिज्जगुणा) सहस्रार कल्पना देव
 असंख्यातगुणा छे. (महासुक्के कल्पे देवा असंखिज्जगुणा) महाशुक्र कल्पना

पञ्चम्यां धूमप्रभायां पृथिव्यां नैरयिकाः असंख्येयगुणाः १६, लान्तके कल्पे-
 देवा असंख्येयगुणाः १७, चतुर्थ्यां पङ्कप्रभायां पृथिव्यां नैरयिकाः असंख्येय-
 गुणाः १८, ब्रह्मलोके कल्पे देवा असंख्येयगुणाः १९, तृतीयस्यां बालुकाप्रभायां
 पृथिव्याम् नैरयिकाः असंख्येयगुणाः २०, माहेन्द्रे कल्पे देवाः असंख्येयगुणाः
 २१, सनत्कुमारे कल्पे देवाः असंख्येयगुणाः २२, द्वितीयस्यां शर्कराप्रभायां
 पृथिव्याम् नैरयिकाः असंख्येयगुणाः २३, समूर्च्छिमा मनुष्याः असंख्येयगुणाः
 २४, ईशाने कल्पे देवाः असंख्येयगुणाः २५, ईशाने कल्पे देव्यः संख्येयगुणाः

ख्यातगुणा (पंचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखिज्जगुणा)
 पांचवीं धूमप्रभा पृथ्वी में नारक असंख्यातगुणा (लंतए कप्पे देवा
 असंखिज्जगुणा) लान्तक कल्प में देव असंख्यातगुणा (चउत्थीए पंकप्प-
 भाए पुढवीए नेरइया असंखिज्जगुणा) चौथी पंकप्रभा पृथ्वी में नारक
 असंख्यातगुणा (बंभलोए कप्पे देवा असंखिज्जगुणा) ब्रह्मलोक कल्प
 में देव असंख्यातगुणा हैं (तच्चाए बालुयप्पभाए पुढवीए नेरइया
 असंखिज्जगुणा) तीसरी बालुकाप्रभा में नारक असंख्यातगुणा (माहिंदे
 कप्पे देवा असंखिज्जगुणा) माहेन्द्र कल्प में देव असंख्यातगुणा हैं
 (सणंकुमारे कप्पे देवा असंखिज्जगुणा) सनत्कुमार कल्प में देव
 असंख्यातगुणा (दोच्चाए सक्करप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखिज्ज-
 गुणा) दूसरी शर्कराप्रभा पृथिवी में नारक असंख्यातगुणा (संमुच्छिम
 मणुस्सा असंखिज्जगुणा) समूर्च्छिम मनुष्य असंख्यातगुणा (ईसाणे
 कप्पे देवा असंखिज्जगुणा) ईशान कल्प में देव असंख्यातगुणा (ईसाणे

हेवे असंख्यातगुणा छे (पंचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखिज्जगुणा)
 पांचवीं धूमप्रभा पृथ्वीमा नारक असंख्यातगुणा छे (लंतए कप्पे देवा असं-
 खिज्जगुणा) लान्तक कल्पमा हेवे असंख्यातगुणा छे. (चउत्थीए पंकप्पभाए पुढवीए
 नेरइया असंखिज्जगुणा) चौथी पंकप्रभा पृथ्वीमा नारक असंख्यातगुणा छे.
 (बंभलोए कप्पे देवा असंखिज्जगुणा) ब्रह्मलोक कल्पमा हेवे असंख्यातगुणा छे.
 (तच्चाए बालुयप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखिज्जगुणा) तीसरी बालुका प्रभा
 पृथ्वीमा नारके असंख्यातगुणा छे. (माहिंदे कप्पे देवा असंखिज्जगुणा) माहे-
 न्द्र कल्पमा हेवे असंख्यातगुणा छे (सणंकुमारे कप्पे देवा असंखिज्जगुणा)
 सनत्कुमार कल्पमा हेवे असंख्यातगुणा छे (दोच्चाए सक्करप्पभाए पुढवीए
 नेरइया असंखिज्जगुणा) चौथी शर्कराप्रभा पृथ्वीमा नारके असंख्यातगुणा छे
 (संमुच्छिममणुस्सा असंखिज्जगुणा) समूर्च्छिम मनुष्य असंख्यातगुणा छे.
 (ईसाणे कप्पे देवा असंखिज्जगुणा) ईशान कल्पमा हेवे असंख्यातगुणा छे.

२६, सौधर्मे कल्पे देवाः संख्येयगुणाः २७, सौधर्मे कल्पे देव्यः संख्येयगुणाः २८, भवनवासिनो देवाः असंख्येयगुणाः २९, भवनवासिन्यो देव्यः संख्येयगुणाः ३०, अस्याः रत्नप्रभायाः पृथिव्या नैरयिकाः असंख्येयगुणाः ३१, खेचर पञ्चेन्द्रिय-तिर्यग्योनिकाः पुरुषाः असंख्येयगुणाः ३२, खेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनित्रयः संख्येयगुणाः ३३, स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः पुरुषाः संख्येयगुणाः ३४, स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनित्रयः संख्येयगुणाः ३५, जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्यो-निकाः पुरुषाः संख्येयगुणाः ३६, जलचर पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनित्रयः संख्येय-

कल्पे देवीओ संखिज्जगुणाओ) ईशान कल्प में देवियां संख्यातगुणी (सोहम्मे कल्पे देवा संखिज्जगुणा) सौधर्मकल्प में देव संख्यातगुणा (सोहम्मे कल्पे देवीओ संखेज्जगुणाओ) सौधर्मकल्प में देवियां संख्यात गुणी (भवणवासी देवा असंखेज्जगुणा) भवनवामी देव असंख्यात-गुणा (भवणवासिणीओ देवीओ संखेज्जगुणाओ) भवनवासिनी देवियां संख्यातगुणी (इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखिज्ज गुणा) इस रत्नप्रभा पृथिवीके नारक असंख्यातगुणा (खहयर पंचि-दियतिरिक्खजोगिया) खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक् (पुरिसा) पुरुष (असंखिज्जगुणा) असंख्यातगुणा (खहयरपंचिदिय तिरिक्खजोगि-णीओ असंखिज्जगुणाओ) खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यचनिधां संख्यातगुणा (थलयरपंचिदिय तिरिक्खजोगिया संखिज्जगुणा) स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यच पुरुष संख्यातगुणा (थलयर पंचिदिय तिरिक्खजोखिणीओ संखिज्जगुणाओ) स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचस्त्रिधां संख्यातगुणी (जल-चर पंचिदियतिरिक्खजोगिया पुरिसा संखिज्जगुणा) जलचर पंचेन्द्रिय

(ईसाणे कल्पे देवीओ संखिज्जगुणाओ) ईशान कल्पमा देवियो स भ्यातगण्णी छे (सोहम्मे कल्पे देवा संखिज्जगुणा) सौधर्म कल्पमा देवो स भ्यातगण्णी छे (सोहम्मे कल्पे देवीओ संखेज्जगुणाओ) सौधर्म कल्पमा देवियो स भ्यातगण्णी छे (भवणवासो देवा असंखेज्जगुणा) भवनवासी देवो अस भ्यातगण्णी छे (भवनवासिणीओ देवीओ संखेज्जगुणाओ) भवनवासिनी देवीओ स भ्यातगण्णी छे. (इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखिज्जगुणा) आ रत्नप्रभा पृथ्वीना नारके अस भ्यातगण्णी छे (खहयरपंचिदियतिरिक्खजोगिया) जेथर पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिक् (पुरिसा) पुरुष (असंखिज्जगुणा) अस भ्यातगण्णी छे (खहयर पंचिदिय तिरिक्खजोगिणीओ संखिज्जगुणाओ) जेथर पंचेन्द्रिय तिर्यच स्त्रीयो स भ्यातगण्णी छे (थलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिया पुरिसा संखिज्जगुणा) स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यच पुरुष स भ्यातगण्णी छे. (थलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिणीओ संखिज्जगुणाओ) स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यच स्त्रीयो स भ्यातगण्णी छे. (जलयर पंचि-

गुणाः ३७, वानव्यन्तराः देवाः संख्येयगुणा' ३८, वानव्यन्तर्यो देव्यः
 संख्येयगुणाः ३९, ज्योतिष्का देवाः संख्येयगुणाः ४०, ज्योतिष्कयो देव्यः
 संख्येयगुणाः ४१, खचर पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका नपुंसकाः संख्येयगुणाः ४२,
 स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका नपुंसकाः संख्येयगुणाः ४३, जलचरपञ्चेन्द्रिय-
 तिर्यग्योनिका नपुंसकाः संख्येयगुणाः ४४ चतुरिन्द्रियाः पर्याप्तकाः संख्येय-
 गुणाः ४५, पञ्चेन्द्रियाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः ४६, द्वीन्द्रियाः पर्याप्तकाः

तिर्यच्योनिक पुरुष संख्यातगुणा (जलचर पंचिन्द्रिय तिरिक्खजोणि-
 णीओ संखिज्जगुणाओ) जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिकस्त्रियां संख्यात
 गुणी (वाणमंतरा देवा संखिज्जगुणां) वानव्यन्तर देव संख्यातगुणा
 (वाणमंतरीओ देवीओ संखिज्जगुणाओ) वानव्यन्तरी देवियां संख्यात
 गुणा (जोइसिया देवा संखिज्जगुणा) ज्योतिष्क देव संख्यातगुणा
 (जोइसिणीओ देवीओ संखिज्जगुणाओ) ज्योतिष्क देवियां संख्यात-
 गुणा (खहयर पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिआ नपुंसगा संखिज्जगुणा) खचर
 पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिक नपुंसक संख्यातगुणा हैं (थलचरपंचिन्द्रिय-
 तिरिक्खजोणिआ नपुंसगा संखिज्जगुणा) स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यच
 नपुंसक संख्यातगुणा (जलचरपंचिन्द्रिय तिरिक्खजोणिआ नपुंसगा
 संखिज्जगुणा) जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिक नपुंसक संख्यातगुणा
 (चउरिंदिया पज्जत्तया संखिज्जगुणा) चतुरिन्द्रिय पर्याप्त संख्यातगुणा
 (पंचिंदिया पज्जत्तया विसेसाहिया) पंचेन्द्रिय पर्याप्त विशेषाधिक

दिय तिरिक्खजोणिआ पुरिसा संखिज्जगुणा) जलचर पंचेन्द्रिय तिर्य' थ योनिक
 पुइधो स प्यातगण्णु छे (जलचरपंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिणीओ संखिज्जगुणाओ)
 जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यथेनिक स्त्रियो स प्यातगण्णु छे (वाणमंतरा देवा संखि
 ज्जगुणा) वानव्यन्तर देव स प्यातगण्णु छे (वाणमंतरीओ देवीओ संखिज्जगुणाओ)
 वानव्यन्तरी देवियो स प्यातगण्णु छे (जोइसिया देवा संखिज्जगुणा) ज्योतिष्क
 देव स प्यातगण्णु छे (जोइसिणीओ देवीओ संखिज्जगुणाओ) ज्योतिष्क देवियो
 स प्यातगण्णु छे (खहयरपंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिआ नपुंसगा संखिज्जगुणा) खचर
 पंचेन्द्रिय तिर्यथेनिक नपुंसक स प्यातगण्णु छे (थलचरपंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिआ
 नपुंसगा स प्यातगण्णु) स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यथेनिक नपुंसक स प्यातगण्णु छे
 (जलचर पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिआ नपुंसगा संखिज्जगुणा) जलचर पंचेन्द्रिय
 तिर्यथेनिक नपुंसक स प्यातगण्णु छे (चउरिंदिया पज्जत्तया स प्यातगण्णु) चतुरिन्द्रिय
 पर्याप्तक स प्यातगण्णु छे. (पंचिंदिया पज्जत्तया विसेसाहिया) पंचेन्द्रिय पर्याप्तक

વિશેષાધિકાઃ ૪૭, ત્રીન્દ્રિયાઃ પર્યાપ્ત્તાઃ વિશેષાધિકાઃ ૪૮, પચ્ચેન્દ્રિયાઃ
 અપર્યાપ્ત્તાઃ અસંખ્યેયગુણાઃ ૪૯, ચતુરિન્દ્રિયાઃ અપર્યાપ્ત્તાઃ વિશેષાધિકાઃ ૫૦,
 ત્રીન્દ્રિયાઃ અપર્યાપ્ત્તા વિશેષાધિકાઃ ૫૧, દ્વીન્દ્રિયા અપર્યાપ્ત્તા વિશેષાધિકાઃ
 ૫૨, પ્રત્યેકશરીરવાદરવનસ્પતિકાયિકાઃ પર્યાપ્ત્તાઃ અસંખ્યેયગુણાઃ ૫૩,
 વાદરનિગોદાઃ, પર્યાપ્ત્તાઃ અસંખ્યેયગુણાઃ ૫૪, વાદરપૃથિવીકાયિકાઃ પર્યાપ્ત્તાઃ
 અસંખ્યેયગુણાઃ ૫૫, વાદરાખ્કાયિકાઃ પર્યાપ્ત્તાઃ અસંખ્યેયગુણાઃ ૫૬, વાદર-
 વાયુકાયિકાઃ પર્યાપ્ત્તાઃ અસંખ્યેયગુણાઃ ૫૭ વાદરતેજઃકાયિકાઃ અપર્યાપ્ત્તાઃ

(વેદંદિયા પજ્જત્તયા વિસેસાહિયા) દ્વીન્દ્રિય પર્યાપ્ત વિશેષાધિક (તેદં-
 દિયા પજ્જત્તયા વિસેસાહિયા) ત્રીન્દ્રિય પર્યાપ્ત વિશેષાધિક (પંચેન્દિયા
 અપજ્જત્તયા અસંખ્યેજ્જગુણા) પંચેન્દ્રિય અપર્યાપ્ત અસંખ્યાતગુણા (ચત-
 રિન્દિયા અપજ્જત્તયા વિસેસાહિયા) ચૌદ્વિન્દ્રિય અપર્યાપ્ત વિશેષાધિક
 (તેદંદિયા અપજ્જત્તયા વિસેસાહિયા) ત્રીન્દ્રિય અપર્યાપ્ત વિશેષાધિક
 (વેદંદિયા અપજ્જત્તયા વિસેસાહિયા) દ્વીન્દ્રિય અપર્યાપ્ત વિશેષાધિક
 (પત્તેયસરીર વાયરવળસ્સદ્કાહ્યા પજ્જત્તયા અસંખ્યેજ્જગુણા) પ્રત્યેક
 શરીર વાદર વનસ્પતિકાયિક પર્યાપ્ત અસંખ્યાતગુણા (વાયરનિગોયા
 પજ્જત્તયા અસંખ્યેજ્જગુણા) વાદર નિગોદ પર્યાપ્ત અસંખ્યાતગુણા (વાયર
 પુઢવિકાહ્યા પજ્જત્તયા અસંખ્યેજ્જગુણા) વાદરપૃથિવીકાયિક પર્યાપ્ત
 અસંખ્યાતગુણા (વાયરઆઠકાહ્યા પજ્જત્તયા અસંખ્યેજ્જગુણા) વાદર
 અખ્કાયિક પર્યાપ્ત અસંખ્યાતગુણા (વાયરવાઠકાહ્યા પજ્જત્તયા અસં-
 ખ્યેજ્જગુણા) વાદર વાયુકાયિક પર્યાપ્ત અસંખ્યાતગુણા (વાયરતેઠકા-

વિશેષાધિક છે (વેદંદિયા પજ્જત્તયા વિસેસાહિયા) દ્વીન્દ્રિય પર્યાપ્ત વિશેષાધિક
 છે (તેદંદિયા પજ્જત્તયા વિસેસાહિયા) ત્રીન્દ્રિય પર્યાપ્ત વિશેષાધિક છે. (પંચે-
 દિયા અપજ્જત્તયા અસંખ્યેજ્જગુણા) ૫ ચેન્દ્રિય અપર્યાપ્ત અસંખ્યાતગણુ છે. (ચત-
 રિન્દિયા અપજ્જત્તયા વિસેસાહિયા) ૪૨ ઇન્દ્રિયવાળા અપર્યાપ્ત વિશેષાધિક છે
 (તેદંદિયા અપજ્જત્તયા વિસેસાહિયા) ૩૪ ઇન્દ્રિયવાળા અપર્યાપ્ત વિશેષાધિક છે
 (વેદંદિયા અપજ્જત્તયા વિસેસાહિયા) ૪૦ ઇન્દ્રિય અપર્યાપ્ત વિશેષાધિક છે
 (પત્તેયસરીરવાયરવળસ્સદ્કાહ્યા પજ્જત્તયા અસંખ્યેજ્જગુણા) પ્રત્યેક શરીર બાદર
 વનસ્પતિકાયિક પર્યાપ્ત અસંખ્યાતગણુ છે (વાયરનિગોયા પજ્જત્તયા અસંખ્યેજ્જ-
 ગુણા) બાદર નિગોદ પર્યાપ્ત અસંખ્યાતગણુ છે (વાયરપુઢવીકાહ્યા પજ્જત્તયા
 અસંખ્યેજ્જગુણા) બાદર પૃથ્વીકાયિક પર્યાપ્ત અસંખ્યાતગણુ છે (વાયરઆઠકાહ્યા
 પજ્જત્તયા અસંખ્યેજ્જગુણા) બાદર અખ્કાયિક પર્યાપ્ત અસંખ્યાતગણુ છે (વાયર-
 વાઠકાહ્યા પજ્જત્તયા અસંખ્યેજ્જગુણા) બાદર વાયુકાયિક પર્યાપ્ત અસંખ્યાતગણુ છે.

असंख्येयगुणाः ५८, प्रत्येकशरीरवाद्भवन्परित्यागिकाः अपर्याप्तकाः असं-
ख्येयगुणाः ५९, वादरनिगोदाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः ६० वादरपृथिवी-
कायिका अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः ६१, वादरापकायिकाः अपर्याप्तकाः असं-
ख्येयगुणाः ६२ वादरवायुकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः ६३, सूक्ष्मतेजः
कायिका अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः ६४, सूक्ष्मपृथिवीकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषे
षाधिकाः ६५, सूक्ष्मापकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः ६६, सूक्ष्मवायुवायिका
अपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः ६७, सूक्ष्मतेजः कायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः ६८,

इया अपञ्जत्तया असंखिज्जगुणा) वादर तेजस्कायिक अपर्याप्त असं-
ख्यातगुणा (पत्तयसरीर वायरवणस्सइकाइया अपञ्जत्तया असंखिज्ज-
गुणा) प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा
(वायरनिगोद्या अपञ्जत्तया असंखिज्जगुणा) वादर निगोद अपर्याप्त
असंख्यातगुणा (वायरपुढविकाइया अपञ्जत्तया असंखिज्जगुणा) वादर
पृथिवीकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा (वायरआउकाइया अपञ्ज-
त्तया असंखिज्जगुणा) वादर अपकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा
(वायरवाउकाइया अपञ्जत्तया असंखिज्जगुणा) वादर वायुकायिक
अपर्याप्त असंख्यातगुणा (सुहुम तेउकाइया अपञ्जत्तया असंखिज्ज-
गुणा) सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा (सुहुम पुढवीका-
इया अपञ्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्त विशेषे
षाधिक (सुहुम आउकाइया अपञ्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अपका-
यिक अपर्याप्त विशेषाधिक (सुहुम वाउकाइया अपञ्जत्तया विसेसा-

(वायर तेउकाइया अपञ्जत्तया असंखिज्जगुणा) आदर तेजस्कायिक अपर्याप्त
असंख्यातगुणा छे (पत्तयसरीरवायरवणस्सइकाइया अपञ्जत्तया असंखिज्जगुणा)
प्रत्येक शरीर आदर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे (वायरनिगोद्या
अपञ्जत्तया असंखिज्जगुणा) आदरनिगोद अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे (वायरपुढवि-
काइया अपञ्जत्तया असंखिज्जगुणा) आदर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे
(वायरआउकाइया अपञ्जत्तया असंखिज्जगुणा) आदर अपकायिक अपर्याप्त असंख्या-
तगुणा छे (वायर वाउकाइया अपञ्जत्तया असंखिज्जगुणा) आदर वायुकायिक अप-
र्याप्त असंख्यातगुणा छे (सुहुम तेउकाइया अपञ्जत्तया असंखिज्जगुणा) सूक्ष्मतेज-
स्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे (सुहुम पुढवीकाइया अपञ्जत्तया विसेसाहिया)
सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे (सुहुम आउकाइया अपञ्जत्तया विसे-
साहिया) सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे (सुहुम वाउकाइया अपञ्जत्तया
विसेसाहिया) सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे. (सुहुम तेउकाइया पञ्जत्तया

સૂક્ષ્મપૃથિવીકાયિકાઃ પર્યાપ્તકાઃ વિશેષાધિકાઃ ૬૯, સૂક્ષ્માપ્કાયિકાઃ પર્યાપ્તકાઃ વિશેષાધિકાઃ ૭૦, સૂક્ષ્મવાયુકાયિકાઃ પર્યાપ્તકાઃ વિશેષાધિકાઃ ૭૧, સૂક્ષ્મનિગોદાઃ અપર્યાપ્તકાઃ અસંખ્યેયગુણાઃ ૭૨, સૂક્ષ્મનિગોદાઃ પર્યાપ્તકાઃ સંખ્યેયગુણાઃ ૭૩, અભવસિદ્ધિકા અનન્તગુણાઃ ૭૪, પ્રતિપતિતસમ્યગ્દૃષ્ટોઽનન્તગુણાઃ ૭૫, સિદ્ધાઃ અનન્તગુણાઃ ૭૬, વાદરવનસ્પતિકાયિકાઃ પર્યાપ્તકાઃ અનન્તગુણાઃ ૭૭, વાદર પર્યાપ્તકાઃ વિશેષાધિકાઃ ૭૮ વાદરવનસ્પતિકાયિકાઃ અપર્યાપ્તકાઃ અસંખ્યેયગુણાઃ ૭૯, વાદરા પર્યાપ્તકાઃ વિશેષાધિકાઃ ૮૦, વાદરાઃ

હિયા) સૂક્ષ્મ વાયુકાયિક અપર્યાપ્ત વિશેષાધિક (સુહુમ તેઝકાઈયા પજ્જત્તયા સંઘિજ્જગુણા) સૂક્ષ્મ તેજસ્કાયિક પર્યાપ્ત સંખ્યાતગુણા (સુહુમ પુઠવીકાઈયા પજ્જત્તયા વિસેસાહિયા) સૂક્ષ્મ પૃથિવીકાયિક પર્યાપ્ત વિશેષાધિક (સુહુમ આઝકાઈયા પજ્જત્તયા વિસેસાહિયા) સૂક્ષ્મ અપ્કાયિક પર્યાપ્ત વિશેષાધિક (સુહુમ વાઝકાઈયા પજ્જત્તયા વિસેસાહિયા) સૂક્ષ્મ વાયુકાયિક પર્યાપ્ત વિશેષાધિક (સુહુમ નિગોયા અપજ્જત્તયા અસંઘિજ્જગુણા) સૂક્ષ્મ નિગોદ અપર્યાપ્ત અસંખ્યાતગુણા (સુહુમ નિગોયા પજ્જત્તયા સંઘિજ્જગુણા) સૂક્ષ્મ નિગોદ પર્યાપ્ત સંખ્યાતગુણા (અભવસિદ્ધિયા અર્ણતગુણા) અભવ્ય અનન્તગુણા (પરિવલ્લિય સમ્મદિઠિયા અર્ણતગુણા) સમ્યક્ત્વ સે ભ્રષ્ટ અનન્તગુણા (સિદ્ધા અર્ણતગુણા) સિદ્ધ અનન્તગુણા હૈં । (વાયરવણસ્સઙ્કાઈયા પજ્જત્તયા અર્ણતગુણા) વાદર વનસ્પતિકાયિક પર્યાપ્ત અનન્તગુણા (વાયર પજ્જત્તયા વિસેસાહિયા) વાદર પર્યાપ્ત વિશેષાધિક (વાયરવણસ્સઙ્કાઈયા અપજ્જત્તયા અસંઘિજ્જગુણા) વાદર વનસ્પતિકાયિક અપર્યાપ્ત અસંખ્યાત

સ ઘિજ્જગુણા) સૂક્ષ્મ તેજસ્કાયિક પર્યાપ્ત સંખ્યાતગણા છે (સુહુમ પુઠવિકાઈયા પજ્જત્તયા વિસેસાહિયા) સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયિક પર્યાપ્ત વિશેષાધિક છે. (સુહુમ આઝકાઈયા પજ્જત્તયા વિસેસાહિયા) સૂક્ષ્મ અપ્કાયિક પર્યાપ્ત વિશેષાધિક છે. (સુહુમ વાઝકાઈયા પજ્જત્તયા વિસેસાહિયા) સૂક્ષ્મ વાયુકાયિક પર્યાપ્ત વિશેષાધિક છે (સુહુમ નિગોયા અપજ્જત્તયા અસંઘિજ્જગુણા) સૂક્ષ્મ નિગોદ અપર્યાપ્ત અસંખ્યાતગણા છે. (સુહુમ નિગોયા પજ્જત્તયા સંઘિજ્જગુણા) સૂક્ષ્મ નિગોદ પર્યાપ્ત સંખ્યાતગણા છે. (અભવસિદ્ધિયા અર્ણતગુણા) અભવ્ય અનન્તગણા છે (પરિવલ્લિયસમ્મદિઠિયા અર્ણતગુણા) સમ્યક્ત્વથી ભ્રષ્ટ અનન્તગણા છે (સિદ્ધા અર્ણતગુણા) સિદ્ધ અનન્તગણા છે (વાયરવણસ્સઙ્કાઈયા પજ્જત્તયા અર્ણતગુણા) વાદર વનસ્પતિકાયિક પર્યાપ્ત અનન્તગણા છે (વાયર પજ્જત્તયા વિસેસાહિયા) વાદર પર્યાપ્ત વિશેષાધિક છે (વાયર વણસ્સઙ્કાઈયા અપજ્જત્તયા અસંઘિજ્જગુણા) વાદર વનસ્પતિકાયિક અપર્યાપ્ત અસંખ્યાત

विशेषाधिकाः ८१, सूक्ष्मवनस्पतिक्रायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः ८२, सूक्ष्मापर्याप्तकाः विशेषाधिकाः ८३, सूक्ष्मवनस्पतिक्रायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणाः ८४, सूक्ष्मपर्याप्तकाः विशेषाधिकाः ८५, सूक्ष्मा विशेषाधिकाः ८६, भवसिद्धिका विशेषाधिकाः ८७ निगोदा जीवाः विशेषाधिकाः ८८, वनस्पतिजीवा विशेषाधिकाः ८९, एकेन्द्रियाः विशेषाधिकाः ९० तिर्यग्योनिका विशेषाधिकाः ९१, मिथ्या दृष्टयो विशेषाधिकाः ९२, अविरताः विशेषाधिकाः ९३ सरुपायिणो विशेषाधिकाः ९४, छद्मस्थाः विशेषाधिकाः ९५, सयोगिनो विशेषा-

गुणा (वायर अपज्जत्तगा विसेसाहिया) वादर अपर्याप्त विशेषाधिक (वायरा विसेसाहिया) वादर विशेषाधिक (सुहुम वणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिक्रायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा (सुहुम अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अपर्याप्तक विशेषाधिक (सुहुम वणस्सइकाइया पज्जत्तया संखिज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिक्रायिक पर्याप्त संख्यातगुणा (सुहुम पज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पर्याप्तक विशेषाधिक (सुहुमा विसेसाहिया) सूक्ष्म जीव विशेषाधिक (भवसिद्धिया विसेसाहिया) भव्य विशेषाधिक (निगोयजीवा विसेसाहिया) निगोद जीव विशेषाधिक (वणस्सइ जीवा विसेसाहिया) वनस्पति जीव विशेषाधिक (एगिंदिया विसेसाहिया) एकेन्द्रिय विशेषाधिक (तिरिक्खजोणिया विसेसाहिया) तिर्यच विशेषाधिक (मिच्छादिद्वी विसेसाहिया) मिथ्यादृष्टि विशेषाधिक (अविरया विसेसाहिया) अविरत विशेषाधिक (सकसाई विसेसाहिया) सकपाय जीव विशेषाधिक (छउमत्था विसेसाहिया) छद्मस्थ विशेषाधिक (स जोगी

गण्ठा छे (वायर अपज्जत्तगा विसेसाहिया) वादर अपर्याप्तक विशेषाधिक छे (वायरा विसेसाहिया) वादर विशेषाधिक छे (सुहुम वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिक्रायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा छे (सुहुम अपज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म अपर्याप्तक विशेषाधिक छे (सुहुम वणस्सइकाइया पज्जत्तया संखिज्जगुणा) सूक्ष्म वनस्पतिक्रायिक पर्याप्त संख्यातगुणा छे (सुहुम पज्जत्तया विसेसाहिया) सूक्ष्म पर्याप्तक विशेषाधिक छे (सुहुमा विसेसाहिया) सूक्ष्म जीव विशेषाधिक (भवसिद्धिया विसेसाहिया) भव्य विशेषाधिक छे (निगोयजीवा विसेसाहिया) निगोद जीव विशेषाधिक छे (वणस्सइजीवा विसेसाहिया) वनस्पति जीव विशेषाधिक छे (एगिंदिया विसेसाहिया) एकेन्द्रिय विशेषाधिक छे (तिरिक्खजोणिया विसेसाहिया) तिर्यच विशेषाधिक छे (मिच्छादिद्वि विसेसाहिया) मिथ्यादृष्टि विशेषाधिक छे (अविरया विसेसाहिया) अविरत विशेषाधिक छे (सकसाई विसेसाहिया) सकपाय जीव विशेषाधिक छे (छउमत्था विसेसाहिया) छद्मस्थ विशेषाधिक छे (स जोगी

धिकाः ९६, संसारस्था विशेषाधिकाः ९७, सर्वजीवाः विशेषाधिकाः ९८, प्रज्ञापनायां भगवत्यां बहुवक्तव्यपदं समाप्तम्, तृतीयं पदं समाप्तम् ॥६०४०॥

टीका—अथ महादण्डकं व्याख्यातुकामो गौतमो गुरुमापृच्छते—‘अहं भंते ! सव्वजीवप्पवहुं महादण्डकं वण्णइस्सामि’ हे भदन्त ! अथ सर्वजीवाल्पवहुत्वं यस्मिन् तत् तथाविधं महादण्डकं वर्णयिष्यामि—व्याख्यास्यामि एतेन गुर्वनुज्ञथैव शिष्य किमपि विवक्षतीति सिद्धम् अथ प्रतिज्ञातमाह—‘सव्वत्थोवा गव्व वक्कंतिया मणुस्सा ?’ सर्वस्तोकाः—सर्वेभ्योऽल्पाः, गर्भव्युत्क्रान्तिकाः—गर्भाद् व्युत्क्रान्तिः निष्क्रान्तिः उत्पत्तिर्येषां ते गर्भव्युत्क्रान्तिकाः, मनुष्या भवन्ति, तेषां संख्येयकोटि—कोटि प्रमाणत्वात् १, तेभ्योऽपि ‘मणुस्सीओ संखिज्ज-

विसेसाहिया) सजोगी विशेषाधिक (संसारत्वा विसेसाहिया) संसारी जीव विशेषाधिक (सव्वजीवा विसेसाहिया) सर्व जीव विशेषाधिक ।

प्रज्ञापना भगवती का बहुवक्तव्यता पद समाप्त

तृतीय पद समाप्त

टीकार्थ—महादण्डक का व्याख्यान करने के इच्छुक गौतम स्वामी गुरु से अनुमति लेते हैं कि—प्रभो ! समस्त जीवों का अल्पबहुत जिसमें प्रतिपादित किया गया है, उस महादण्डक का व्याख्यान करूंगा । इससे फलित होता है कि शिष्य को गुरु की अनुज्ञा लेकर ही व्याख्यान करना चाहिए ।

अब महादण्डक प्रारंभ किया जाता है—

गर्भज उ.र्धात्तू गर्भ जन्म से उत्पन्न होने वाले मनुष्य सब से कम हैं, क्योंकि उनकी संख्या संख्यात कोडाकोडी परिमित ही है (१) मनुष्यस्त्रियां उनकी अपेक्षा संख्यातगुणी अधिक हैं, क्योंकि वे

साहिया) सक्पाय ७५ विशेषाधिक छे (छत्तमत्था विसेसाहिया) छद्मस्थ विशेषाधिक छे (सजोगी विसेसाहिया) सजोगी विशेषाधिक छे (संसारत्वा विसेसाहिया) संसारी ७५ विशेषाधिक छे (सव्वजीवा विसेसाहिया)सर्व ७५ विशेषाधिक छे.

प्रज्ञापना भगवतीनु अल्प बहुत्व वक्तव्यता पद समाप्त

तृतीय पद समाप्त

टीकार्थ—महादण्डकनु व्याख्यान करवाने इच्छुक गौतमस्वामी गुइनी अनुमति ले छे के प्रभो ! समस्त जीवोना अल्प बहुत्व जेमा प्रतिपादित करेवा छे, ते महादण्डकनु व्याख्यान करीश. तेनाथी इदित थाय छे के शिष्ये गुइनी आज्ञा लधने न व्याख्यान करवु जेधंथो इवे महादण्डक प्रारंभ कराय छे.

(१) गर्भज अर्थात् गर्भजन्मथी उत्पन्न थनारा मनुष्य अधाथी ओछा छे, केमके तेमनी संख्या संख्यात कोडा कोडी परिमित न छे १, मनुष्यस्त्रियो

गुणाओ' मानुष्यः—मनुष्यस्त्रियः संख्येयगुणा भवन्ति, तासां मनुष्यापेक्षया सप्त-
 विंशतिगुणाधिकत्वात् तथा चोक्तम्—'सत्तावीसगुणा पुणा मणुयाणं तदहियाचेव'
 सप्तविंशतिगुणाः पुनर्मनुष्याणां तदधिकाश्चैव २, ताभ्योऽपि 'वायरतेउकाइया
 पज्जत्तया असंखिज्जगुणा' ३, वादर तेजःकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येय-
 गुणा भवन्ति तेषां कतिपयवर्गन्यूनावलिकाघनसमयप्रमाणत्वात् ३, तेभ्योऽपि
 'अणुत्तरोववाइया देवा असंखिज्जगुणा' अनुत्तरौपपातिकाः देवाः असंख्येयगुणा
 भवन्ति तेषां क्षेत्रपल्योपमासंख्येयभागवर्तिनभःप्रदेशराशिप्रमाणत्वात् ४,
 तेभ्योऽपि 'उवरिमगेविज्जगा देवा संखिज्जगुणा ५' उपरिमत्रिकग्रैवेयका देवाः
 संख्येयगुणा भवन्ति तेषां बृहत्तरपल्योपमासंख्येयभागवर्त्याकाशप्रदेशराशि-
 प्रमाणत्वात् ५, अनुत्तरदेवानां पञ्च विमानसत्त्वेन, उपरितनग्रैवेयकत्रिके तु

मनुष्यपुरुषों की अपेक्षा सत्ताईसगुणी और सत्ताईस ज्यादा होती
 हैं। कहा भी है—मनुष्यस्त्रियां सत्ताईसगुणी और सत्ताईस अधिक
 होती हैं। (२) मनुष्यस्त्रियों की अपेक्षा वादर तेजस्कायिक पर्याप्त
 जीव असंख्यातगुणा अधिक होते हैं, क्योंकि वे कतिपय वर्ग कम
 आवलिकाघन समय प्रमाण हैं। (३) उनकी अपेक्षा अनुत्तरौपपा-
 तिक देव असंख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि वे क्षेत्र पल्योपम के
 असंख्यातवें भागवर्ती आकाश प्रदेशों की राशि के बराबर हैं। (४)
 उनकी अपेक्षा ऊपरी तीन ग्रैवेयकों के देव संख्यातगुणा अधिक हैं,
 क्योंकि वे बृहत्तर (अधिक बड़े) पल्योपम के असंख्यातवें भाग में
 रहे हुए आकाशप्रदेशों की राशि के बराबर हैं। अनुत्तर देवों के सिर्फ
 पांच विमान है, किन्तु ऊपर के तीन ग्रैवेयकों में सौ विमान हैं और

तेमनाथी सख्यातगुणी अधिक छे, डेमके तेजो मनुष्य पुइपोनी अपेक्षाओ
 सत्तावीस गण्णी अने सत्तावीस अधिक डोय छे कहु पणु छे—मनुष्य स्त्रीओ
 सत्तावीस गण्णी अने सत्तावीस अधिक डोय छे, (२) मनुष्य स्त्रीओनी अपे
 क्षाओ भादर तेजस्कायिक पर्याप्त एव असख्यात गण्णी अधिक थाय छे, डेमके
 तेजो कतिपय वर्ग ओछा आवलिका घन समय प्रमाण छे (३) तेमनी
 अपेक्षाओ अनुत्तरौपपातिक देव असख्यातगण्णी अधिक छे, डेमके तेजो क्षेत्र
 पल्योपमना असख्यातमा भागवर्ती आकाश प्रदेशोनी राशिना भराभर छे
 (४) तेमनी अपेक्षाओ उपरना त्रणु ग्रैवेयकोना देव सख्यातगण्णी अधिक छे,
 डेमके ते बृहत्तर (अधिकथी) पल्योपमना असख्यातमा भागमा रहिने आकाश
 प्रदेशनी राशिना भराभर छे अनुत्तर देवोना इकत पाय विमान छे, परन्तु
 उपरना त्रणु ग्रैवेयकोमा सौविमान छे अने प्रत्येक विमानोमा असख्यात

विमानशतसत्त्वेन प्रतिविमानश्वासंख्येयदेवानां सत्त्वात् अधोऽधोवर्तिविमानेषु देवानां प्रभूतत्वेन अनुत्तरौपपातिकदेवेभ्यो बृहत्तरक्षेत्रपत्योपमासंख्येयभागवत्याकाशप्रदेशराशिप्रमाणानाम् उपरितनत्रिकग्रैवेयकदेवानां संख्येयगुणत्वात् एवमुत्तरत्रापि, तेभ्योऽपि 'मन्त्रिमगेविज्जगा देवा संखिज्जगुणा ६' मध्यमत्रिकग्रैवेयका देवाः संख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि-'द्विद्विमगेविज्जगा देवा संखिज्जगुणा ७' अधस्तनत्रिकग्रैवेयका देवाः संख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि-'अच्युए कप्पे देवा संखिज्जगुणा ८' अच्युते कल्पे देवाः संख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'आरणे कप्पे देवा संखिज्जगुणा' ९' आरणे कल्पे देवाः संख्येयगुणा भवन्ति, आरणाच्युतकल्पयोः समश्रेणिकयोः समानविमानसंख्यकत्वेऽपि कृष्णपाक्षिकाणां बाहुल्येन दक्षिणस्यां दिशि तथा स्वाभाव्यात् समुत्पादेन उत्तरस्यां तथोत्पादाभावेन कृष्णपाक्षिकाणां बहुत्वात् शुक्लपाक्षिकाणाञ्च स्तोक्तत्वात् अच्युत-

प्रत्येक विमान में असंख्यात देव रहते हैं। नीचे-नीचे के विमानों में अधिक-अधिक देव होते हैं, अतएव अनुत्तर विमानों की अपेक्षा ऊपरी तीन ग्रैवेयकों के देव संख्यातगुणा अधिक हैं। आगे भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिए। (५) ऊपरी ग्रैवेयकों के देवों से मध्यम ग्रैवेयकों के देव संख्यातगुणा अधिक हैं (६) मध्यम ग्रैवेयकों के देवों की अपेक्षा निचले तीन ग्रैवेयकों के देव संख्यातगुणा अधिक हैं। (७) उनकी अपेक्षा अच्युत कल्प के देव संख्यातगुणा हैं। (८) अच्युतकल्प की अपेक्षा आरणकल्प में देव संख्यातगुणा अधिक हैं। यद्यपि आरण और अच्युतकल्प समानश्रेणी में स्थित हैं और दोनों की विमान संख्या बराबर है, तथापि स्वभावतः कृष्णपक्षी जीव प्रायः दक्षिणदिशा में उत्पन्न होते हैं, उत्तरदिशा में उतने नहीं उत्पन्न होते और

देव, रहे छे नीचे- नीचेना विमानोमा अधिक-अधिक देव होय छे, तेथीन अनुत्तर विमानोनी अपेक्षाये उपरना त्रयु ग्रैवेयक देव संख्यातगुणा अधिक छे आगण पण्ये न् रीते समल्ल वेवु नोधंये (५) उपरना ग्रैवेयक देवोथी मध्यम ग्रैवेयक देवो असंख्यातगुणा अधिक छे (६) मध्यम ग्रैवेयकोना देवोनी अपेक्षाये नीचला त्रयु ग्रैवेयकोना देव संख्यातगुणा अधिक छे (७) तेमनी अपेक्षाये अच्युत कल्पना देव संख्यातगुणा छे (८) अच्युत कल्पनी अपेक्षाये आरण कल्पना देव संख्यात गण्यु अधिक छे यद्यपि आरण्ये अने अच्युत कल्प समान श्रेणिमा स्थित छे अने अनेनी विमान संख्या परा परा छे, तो पण्यु स्वभावथी कृष्णपक्षी एव प्राय दक्षिण दिशाभा उत्पन्न थाय छे, उत्तर दिशाभा नथी उत्पन्न थता अने कृष्णपाक्षिके एव शुक्लपाक्षिकेनी

कल्पदेवापेक्षया आरणकल्पदेवानां संख्येयगुणत्वमवसेयम्, तेभ्योऽपि—‘पाणए कप्पे देवा संखिज्जगुणा १०, प्राणते कल्पे देवाः, संख्येयगुणा भवन्ति तेभ्योऽपि ‘आणए कप्पे देवा संखिज्जगुणा ११’ आनते कल्पे देवाः संख्येयगुणा भवन्ति, आरणकल्पोत्तरीत्याऽवसेयम्, तेभ्योऽपि ‘अहे सत्तमाए पुढवीए नेरइया असंखिज्जगुणा’ अधः सप्तम्यां पृथिव्यां नैरयिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति १२, तेषां श्रेण्यसंख्येयभागवत्याकाशप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि—‘छट्ठीए तमाए पुढवीए नेरइया असंखिज्जगुणा १३’ षष्ठ्यां तमायां पृथिव्यां नैरयिका असंख्येयगुणा भवन्ति तेषामसंख्येयगुणत्वञ्च प्रागेव दिगनुपातेन नैरयिकाल्पवहु-

कृष्णपाक्षिक जीव शुक्लपाक्षिकों की अपेक्षा अधिक होते हैं, इस कारण अच्युतकल्प के देवों की अपेक्षा आरणकल्प के देव संख्यातगुणा अधिक हैं । (९) आरणकल्प के देवों से पाणतकल्प के देव संख्यातगुणा अधिक हैं । (१०) उनकी अपेक्षा आनत कल्प के देव संख्यातगुणा अधिक हैं । (११) आनत कल्प के देवों की अपेक्षा सातवीं नरकभूमि के नारक असंख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि वे श्रेणी के असंख्यातवें भाग में स्थित आकाशप्रदेशों की राशि के बराबर हैं (१२) उनकी अपेक्षा भी छठी तमः प्रभा पृथिवी के नारक असंख्यातगुणा हैं । पहले दिशाओं की अपेक्षा नारकों का जो अल्पबहुत्व बतलाया गया है, उसमें उनके असंख्येयत्व का प्रतिपादन किया जा चुका है । (१३) छठी नरकभूमि के नारकों की अपेक्षा सहस्रार कल्प के देव असंख्यातगुणा हैं । छठी पृथिवी के नारकों का परिमाण हेतुभूत श्रेणी का असंख्यातवां भाग है जब कि सहस्रार कल्प के

अपेक्षाये अधिक डोय छे, आ डारण्ण अच्युत कल्पना देवेनी अपेक्षाये आरण्ण कल्पना देव स ज्थातगण्ण अधिक छे (९) आरण्ण कल्पना देवेथी प्राणुत कल्पना देव स ज्थातगण्ण अधिक छे (१०) तेमनी अपेक्षाये आनत कल्पना देव स ज्थातगण्ण अधिक छे (११) आनत कल्पना देवेनी अपेक्षाये सातमी नरकभूमिना नारक अस ज्थातगण्ण अधिक छे, केमके तेयो श्रेण्णिना अस ज्थातमा लागमा स्थित आकाश प्रदेशनी राशिना गराणर छे (१२) तेमनी अपेक्षाये पण्ण छट्ठी तम प्रला पृथ्वीना नारक अस ज्थातगण्ण छे पडेला दिशाओनी अपेक्षाये नारकेतु जे अल्पबहुत्व गतायेलु छे, तेमा तेमना अस ज्थेयत्वतु प्रतिपादन करायेलु छे (१३) छट्ठी नरक भूमिना नारकेनी अपेक्षाये सहस्रार कल्पना देव अस ज्थातगण्ण छे, छट्ठी पृथ्वीना नारकेना परिमाण्ण हेतुभूत श्रेण्णिनो अस ज्थातमा लाग छे न्यादे सहस्रार कल्पना देवेना परिमाण्ण हेतु

त्व प्ररूपणे प्रतिपादितमेव, तेभ्योऽपि 'सहस्रारे कल्पे देवा असंखिज्जगुणा १४' सहस्रारे कल्पे देवाः असंख्येयगुणाः भवन्ति पृथ्याः पृथिव्याः नैरयिक-परिमाणस्य हेतुभूतश्रेण्यसंख्येयभागापेक्षया सहस्रारकल्पदेवपरिमाणस्य हेतु-भूत श्रेण्यसंख्येयभागस्यासंख्येयगुणत्वात्, तेभ्योऽपि—'महाशुक्रे कल्पे देवा असंखिज्जगुणा १५, महाशुक्रे कल्पे देवाः असंख्येयगुणा भवन्ति सहस्रारकल्पे पद् सहस्रविमानसद्भावेन तदपेक्षया महाशुक्रे कल्पे चत्वारिशत्सहस्रविमान सद्भावेन तद् बाहुल्यात् असंख्येयगुणत्वं भवति, तेभ्योऽपि 'पंचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखिज्जगुणा १६' पञ्चम्यां धूमप्रभायां पृथिव्यां नैरयिका असंख्येयगुणा भवन्ति, तेषां बृहत्तमश्रेण्यसंख्येयभागताकाशप्रदेशराशिप्रमाणत्वात् असंख्येयगुणत्वं भवति, तेभ्योऽपि 'लंतए कप्पए देवा असंखिज्जगुणा' लान्तके कल्पे देवाः असंख्येयगुणा भवन्ति १७, तेषामति बृहत्तमश्रेण्यसंख्येय-भागवर्त्याकाशप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि 'चउत्थीए पंरूप्पभाए पुढवीए

देवों का परिमाण ही हेतुभूत श्रेणी के असंख्यातवे' भाग का असंख्यातगुणित है। (१४) सहस्रार कल्प के देवों की अपेक्षा महाशुक्रेकल्प में देव असंख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि सहस्रार कल्प में छह हजार विमान हैं जब कि महाशुक्रे कल्प में चालीस हजार विमान हैं, अतएव उनमें रहने वाले देव असंख्यातगुणा होते हैं। (१५) महाशुक्रे कल्प के देवों की अपेक्षा पांचवीं धूमप्रभा पृथ्वी के नारक असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि वे बृहत्तम श्रेणी के असंख्यातवे भाग में रहे हुए आकाश प्रदेशों के बराबर हैं, अतएव असंख्यातगुणा हैं। (१६) उन की अपेक्षा लान्तक कल्प में देव असंख्यातगुणा हैं क्योंकि वे अति बृहत्तम श्रेणी के असंख्यातवे' भाग में स्थित आकाशप्रदेशों की राशि के बराबर हैं। (१७) लान्तक कल्प के देवों की अपेक्षा चौथी

भूत श्रेणीना असंख्यातमा लागना असंख्यात गुणित छे (१४) सहस्रार कल्पेना देवोनी अपेक्षाये महाशुक्रे कल्पमां देव असंख्यातगुणा अधिक छे, केमके, सहस्रार कल्पेना छ डलर विमान छे, ज्यारे महाशुक्रे कल्पमां आलीस डलर विमान छे, तेथीज तेजोमा रडेनारा देव असंख्यात गुणा छेथ छे (१५) महाशुक्रे कल्पेना देवोनी अपेक्षाये पाचमी धूमप्रभा पृथ्वीना नारक असंख्यातगुणा छे, केमके तेजो जूडत्तम श्रेणीना असंख्यातमा लागमा रडेला आकाश प्रदेशोनी बराबर छे, तेथीज असंख्यातगुणा छे. (१६) तेमनी अपेक्षाये लान्तक कल्पेमा देव असंख्यातगुणा छे केमके तेजो अति जूडत्तम श्रेणीना असंख्यातमा लागमा स्थित आकाश प्रदेशोनी राशिना बराबर छे, (१७)

नेरइया असंखिज्जगुणा १८, चतुर्थ्या पङ्कप्रगायां पृथिव्यां नैरयिकाः असंख्येय-
गुणा भवन्ति, युक्तेः प्राक् प्रतिपादितत्वात्, तेभ्योऽपि 'बंभलोए कल्पे देवा
असंखिज्जगुणा १९, ब्रह्मलोकं कल्पे देवाः असंख्येयगुणा भवन्ति प्रागुक्तयुक्तेः,
तेभ्योऽपि 'तच्चाए वालुयप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखिज्जगुणा २०' तृतीय-
स्यां वालुकाप्रभायां पृथिव्यां नैरयिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि
'माहिंदे कल्पे देवा असंखिज्जगुणा' माहेन्द्रे कल्पे देवाः असंख्येयगुणा भवन्ति २१,
तेभ्योऽपि 'सणकुमारे कल्पे देवा असंखिज्जगुणा २२' सनत्कुमारे कल्पे देवा
असंख्येयगुणा भवन्ति सर्वत्रापि पूर्वोक्तयुक्तेः सत्त्वात्, तेभ्योऽपि 'दोच्चाए
सकरप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखिज्जगुणा २३' द्वितीयस्या शर्कराप्रभायां
पृथिव्यां नेरयिका असंख्येयगुणा भवन्ति, एतेषाञ्च सप्तमपृथिवीनारकादीनां
द्वितीयपृथिवीनारक पर्यन्तानां प्रत्येकं स्वस्थाने प्ररूप्यमाणानां सर्वेषामपि घनी-

पङ्कप्रभा पृथिवी के नारक असंख्यातगुणा हैं, इस विषय में युक्ति
पहले कही जा चुकी है । (१८) उनकी अपेक्षा ब्रह्मलोक कल्प में देव
असंख्यातगुणा हैं, पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार । (१९) उनकी अपेक्षा
तीसरी वालुकाप्रभा नामक पृथिवी में नारक असंख्यातगुणा हैं, (२०)
उनकी अपेक्षा माहेन्द्र नामक कल्प में देव असंख्यातगुणा हैं । (२१)
माहेन्द्र कल्प की अपेक्षा सनत्कुमार कल्प में देव असंख्यातगुणा है
(२२) उनकी अपेक्षा दूसरी शर्कराप्रभा नामक पृथिवी में नारक
असंख्यातगुणा हैं, सातवीं पृथिवी से लेकर दूसरी पृथिवी तक के
नारक प्रत्येक अपने स्थान में प्ररूपित किये जाएं तो सभी घनीकृत
लोक श्रेणी के असंख्यातवे भाग में स्थित आकाश के प्रदेशों की
राशि के बराबर है, मगर श्रेणी के असंख्यातवे भाग के भी असं-

खान्तक कल्पना देवानी अपेक्षाये चोथी पङ्कप्रभा पृथ्वीना नारक असंख्यात-
गुणा छे. आ विषयमा युक्ति पडेला कडेवाध गध छे. (१८) तेमनी अपेक्षाये
ब्रह्मलोक कल्पना देव असंख्यातगुणा छे ते पूर्वोक्त युक्तिना अनुसार छे (१९)
तेमनी अपेक्षाये त्रीण वालुकाप्रभा नामक पृथ्वीमा नारक असंख्यातगुणा छे.
(२०) तेमनी अपेक्षाये माहेन्द्र नामक कल्पमा देव असंख्यातगुणा छे (२१)
माहेन्द्रकल्पनी अपेक्षाये सनत्कुमार कल्पमा देव असंख्यातगुणा छे. (२२)
तेमनी अपेक्षाये णीण शर्कराप्रभा नामक पृथ्वीमा नारक असंख्यातगुणा छे,
सातमी पृथ्वीथी लधने णीण पृथ्वी सुधीना नारक प्रत्येक पोताना स्थानमा
प्ररूपित कराय तो अथा घनीकृतलोक श्रेणीना असंख्यातमा भागमा स्थित
आकाशना प्रदेशेनी राशिना बराबर छे, परन्तु श्रेणीना असंख्यातमा भागमा

कृतलोकश्रेण्यसंख्येयभागगताकाशप्रदेशराशि प्रमाणत्वं विज्ञेयं, केवलं श्रेण्यसंख्येयभागस्यासंख्येयभेदभिन्नत्वात् उपर्युक्तरीत्याऽसंख्येयगुणत्वेनाभिधीयमानस्याल्पबहुत्वस्य विरोधाभावात्, तेभ्योऽपि द्वितीयनरकपृथिवी नैरयिकेभ्यः 'संमुच्छिन्ना मणुस्सा असंखिज्जगुणा २४' संमुच्छिन्ना मनुष्याः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेषाम् अङ्गुलमात्रक्षेत्रप्रदेशराशेः सम्बन्धिनि तृतीये वर्गमूले द्वितीयेन वर्गमूलेन गुणिते यावान् प्रदेशराशिस्तावत्प्रमाणानि यावन्ति खण्डानि एकस्यामेव प्रादेशिक्यां श्रेण्यां भवन्ति तावत्प्रमाणत्वात् तेभ्योऽपि—ईशाने कल्पे देवा असंखिज्जगुणा २५, ईशाने कल्पे देवा असंख्येयगुणा भवन्ति अङ्गुलमात्रक्षेत्रप्रदेशराशेः सम्बन्धिनि द्वितीये—वर्गमूले तृतीयेन वर्गमूलेन गुणिते यावान् प्रदेशराशिस्तावत्प्रमाणासु घनीकृतलोकस्यैकप्रादेशिकीषु यावन्त आकाशप्रदेशास्तावत्प्रमाणासु घनीकृतलोकस्यैक प्रादेशिकीषु यावन्त आकाशप्रदेशास्तावत्प्रमाणत्वम् ईशानकल्पगतदेवदेवी समुदायस्य भवन्ति तद्गत किञ्चिद्द्वान्त्रि-

ख्यात भेद होते हैं, अतएव दोनों जगह असंख्यातगुणा अल्पबहुत्व कहने में भी कोई विरोध नहीं आता। (२३) उनकी अपेक्षा भी संमूर्छिम मनुष्य असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि अंगुल मात्र क्षेत्र के प्रदेशों की राशि के द्वितीय वर्गमूल से गुणित तीसरे वर्गमूल में जितने प्रदेश होते हैं, उतने प्रमाण वाले जितने खंड एकप्रादेशिक श्रेणी में होते हैं उतनी ही संमूर्छिम मनुष्यों की संख्या है। (२४) संमूर्छिम मनुष्यों की अपेक्षा ईशान कल्प में देव असंख्यातगुणा हैं, अंगुल मात्र क्षेत्र के प्रदेशों की राशि के तृतीय वर्गमूल से गुणित द्वितीय वर्गमूल में जितने आकाशप्रदेशों की राशि होती है, उतने प्रमाण वाली घनीकृत लोक की एक प्रादेशिक श्रेणियों में रहे हुए आकाश प्रदेशों के बराबर हैं। यह संख्या ईशानकल्प के देवों और देवियों,

पशु असंख्यात भेद डोय छे, तेथी ज मनने जग्याये असंख्यातगणु अल्प बहुत्व छेडोयामा केध विरोध नहीं आवतो (२३) तेमनी अपेक्षाये पशु संमूर्छिम मनुष्य असंख्यातगणु छे, केभके अंगुलमात्र क्षेत्रना प्रदेशोनी राशिना द्वितीय वर्ग मूणथी शुष्ठी त्रीण वर्ग मूणमा जेटला प्रदेश थाय छे, तेटला प्रमाणवाणा जेटला अउ जेक प्रादेशिक श्रेणीमा थाय छे, तेटली ज संमूर्छिम मनुष्योनी संख्या छे (२४) संमूर्छिम मनुष्योनी अपेक्षाथी ईशान कल्पमा देव असंख्यातगणु छे अंगुलमात्र क्षेत्रना प्रदेशोनी राशिना त्रीण वर्ग मूणथी शुष्ठीला त्रीण वर्ग मूणमा जेटला आकाश प्रदेशोनी राशि जने छे, तेटला प्रमाणवाणी घनीकृत लोकनी जेक प्रादेशिक श्रेणियोमा रहेला आकाश प्रदेशोनी

शद्भागकल्पानाम् ईशानदेवानां सद्भावेन तेषां समूर्च्छिममनुष्येभ्योऽसंख्येयगुणत्वं भवति, तेभ्योऽपि—'ईसाणे कल्पे देवीओ संखिज्जगुणाओ २६' ईशाने कल्पे देव्यः संख्येयगुणा भवन्ति तासां तदपेक्षया द्वात्रिंशद्गुणत्वात्, 'वत्तीसगुणा वत्तीसरूव अहिया उ होंति देवीओ' द्वात्रिंशद्गुणा द्वात्रिंशदरूपाधिकास्तु भवन्ति देव्यः, इति वचनप्रामाण्यात् ताभ्योऽपि 'सोहम्मं कल्पे देवा संखिज्जगुणा २७' सौधर्मं कल्पे देवाः संख्येयगुणा भवन्ति ईशाने कल्पे अष्टाविंशतिलक्षविमानानां सद्भावेन, सौधर्मकल्पे तु द्वात्रिंशल्लक्षविमानसद्भावेन दक्षिणार्थां च दिशि बहूनां कृष्णपाक्षिकानां समुत्पादेन उत्तरदिग्वर्तीशानदेवीभ्यो विमानबाहुल्यात् दक्षिणदिग्वर्तिसौधर्मकल्पदेवानां संख्येयगुणत्वमवसेयम्, एतेन 'ईसाणे सव्रत्थवि वत्तीसगुणाओ होंति देवीओ । संखिज्जा सोहम्मं

दोनो की है । उस में से कुछ कम वत्तीसवां भागकल्प ईशान देव हैं । अतएव वे समूर्च्छिम मनुष्यों से असंख्यातगुणा होते हैं । (२५) ईशानकल्प के देवों की अपेक्षा ईशानकल्प की देवियां संख्यातगुणी अधिक हैं, क्योंकि वत्तीसगुणी और वत्तीस कही गई हैं । कहा भी भी है—'देवियां वत्तीस रूप अधिक वत्तीसगुणी हैं ।' (२६) ईशानकल्प की देवियों की अपेक्षा सौधर्मकल्प में देव संख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि ईशान कल्प में अट्ठाईस लाख विमान हैं जब कि सौधर्मकल्प में वत्तीस लाख विमान हैं । इस के अतिरिक्त दक्षिणदिशा में बहुत कृष्णपक्षी जीवों का उत्पाद होता है अतः उत्तरदिशा वर्त्ती ईशान कल्प की देवियों की अपेक्षा, विमानों की बहुलता होने से दक्षिणदिशावर्त्ती सौधर्मकल्प के देव संख्यातगुणा अधिक समझने चाहिए (२७) 'ईशानकल्प में सर्वत्र देवियां वत्तीसगुणा हैं, सौधर्मकल्प में

अराणर छे आ स ज्था धशान कल्पना देवे अने देवियो, अन्नेनी छे. तेभाथी काथ ज्योछे अत्रीसमे लाग कल्प धशान देव छे तेथीज तेज्या समूर्च्छिम मनुष्येथी अस ज्थानगण्ठा थाय छे (२५) धशान कल्पना देवेनी अपेक्षाज्ये धशान कल्पनी देवियो स ज्थातगण्ठी अधिक छे, केमके अत्रीसगण्ठी अने अत्रीस कडेली छे कहु पण् छे—'देवियो अत्रीस ३५ अधिक अत्रीसगण्ठी छे' (२६) धशान कल्पनी देवियोनी अपेक्षाज्ये सौधर्म कल्पमा देव स ज्थातगण्ठा अधिक छे, केमके धशान कल्पमा अट्ठावीस लाख विमान छे ज्यारे सौधर्म कल्पमा अत्रीस लाख विमान छे तदुपरान्त दक्षिण दिशाभां धण्ठा कृष्णपक्षी ज्येने। उत्पाद थाय छे, तेथी उत्तर दिशा वर्ती धशान कल्पनी देवियोनी अपेक्षाज्ये विमानोनी अहुत्तना डोानथी दक्षिण दिशा वर्ती सौधर्म कल्पना देव स ज्थात

तओ असंखा भवणवासी' ईशाने सर्वत्रापि द्वात्रिंशद्गुणा भवन्ति देव्यः संख्येयाः सौधर्मं ततोऽसंख्या भवनवासिनः' इति वचनप्रमाण्येन अत्रो सौधर्मरूपसंख्येयगुणत्वेन सह प्रागुक्तस्य माहेन्द्रकल्पापेक्षया सनत्कुमारक देवानामसंख्येयगुणत्वं विरोधोऽपि निरस्तो बोध्यः, तेभ्योऽपि—'सोहम्मे क देवीओ संखेज्जगुणाओ' २८, तरिमन्नेव सौधर्मं कल्पे देव्यः संख्येयगुणा भवन्ति तदपेक्षया तासां द्वात्रिंशद्गुणत्वात् 'सव्यत्थ वि वत्तीसगुणाओ हुंति देवीओ सर्वत्रापि द्वात्रिंशद्गुणा भवन्ति देव्यः, इति वचनप्रामाण्यात् ताभ्योऽपि 'भवण वासीदेवा असंखेज्जगुणा २९' भवनवासिनो देवा असंख्येयगुणा भवन्ति, तेषाम् अङ्गुलमात्रक्षेत्रप्रदेशराशेः सम्बन्धिनि प्रथमवर्गमूले तृतीयवर्गमूलेन गुणिते यावान् प्रदेशराशिर्भवति तावत्प्रमाणासु घनीकृतलोकस्य एरुप्रादेशिकश्रेणिए

देव उनसे संख्यातगुणा है और भवनवासियों की संख्या उनसे असंख्यातगुणा हैं। इस वचन की प्रमाणता से सौधर्मकल्प के देवों को यहाँ संख्यातगुणा कहना और माहेन्द्रकल्प की अपेक्षा सनत्कुमार कल्प के देवों को असंख्यातगुणा कहना परस्पर विरुद्ध नहीं है। सौधर्म कल्प के देवों की अपेक्षा सौधर्मकल्प की देवियां संख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि देवियां देवों की अपेक्षा वत्तीसगुणी और वत्तीस होती हैं कहा भी है—देवियां सर्वत्र वत्तीसगुणा और वत्तीस होती हैं। (२८) सौधर्मकल्प की देवियों की अपेक्षा भवनवासी देव असंख्यातगुणा हैं। अंगुलमात्र क्षेत्र के प्रदेशों की राशि के तीसरे वर्गमूल से गुणित प्रथम वर्गमूल में जितने प्रदेशों की राशि होती है, उतनी प्रमाणवाली घनीकृत लोक की एक प्रदेश वाली श्रेणियों में जितने आकाशप्रदेश

गण्टा अधिक समन्वा लेधंमे. २७ ईशान कल्पमा सर्वत्र देवियो भत्रीस गण्टी छे, सौधर्म कल्पमा देव तेभ्योथी स भ्यातगण्टा छे अने भवनवासियोनी स भ्या तेभ्योथी अस भ्यात गण्टी छे. आ वयननी प्रमाण्युताथी सौधर्म कल्पना देवो अडि स भ्यातगण्टा कडेवा अने माहेन्द्र कल्पनी अपेक्षाये सनत्कुमार कल्पना देवोने अस भ्यातगण्टा कडेवा ते परस्पर विरुद्ध नथी सौधर्म कल्पना देवोनी अपेक्षाये सौधर्म कल्पनी देवियो स भ्यातगण्टी अधिक छे, केमके देवियो देवोनी अपेक्षाये भत्रीस गण्टी अने भत्रीस थाय छे कहु पण्टु छे के देवियो भधे भत्रीस गण्टी अने भत्रीस होय छे, (२८) सौधर्म कल्पनी देवियोनी अपेक्षाये भवनवासी देव अस भ्यातगण्टा छे अंगुलमात्र क्षेत्रना प्रदेशोनी राशिना त्रीण वर्ग मूलधी शुद्धित प्रथम वर्गमूलमा नेटला प्रदेशोनी राशि थाय छे, तेटला प्रमाणवाणी घनीकृत लोकनी एक प्रदेशवाणी श्रेणियोमा नेटले

यावन्त आकाशप्रदेशा भवन्ति भवनपतिदेवदेवीसमुदायस्य तावत् प्रामाणतया तद्गतकिञ्चिद्गुण द्वात्रिंशत्तमभागकल्पानां भवनपतीनां सौधर्मदेवीभ्योऽसंख्येय-गुणत्वं बोध्यम् तेभ्योऽपि—‘भवणवासिणीओ देवीओ संखेज्जगुणाओ ३०’ भवनवासिन्यो देव्यः संख्येयगुणा भवन्ति तदपेक्षया तासां द्वात्रिंशद्गुणत्वात्, ताभ्योऽपि—‘इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखिज्जगुणा ३१’ अस्यां रत्नप्रभायां पृथिव्यां नैरयिकाः असंख्येयगुणा भवन्ति तेषाम् अङ्गुलमात्रक्षेत्र-प्रदेशराशेः सम्बन्धिनः प्रथमवर्गमूलस्य द्वितीयवर्गमूलेन गुणितस्य यावान् प्रदेशराशिर्भवति तावत्प्रमाणासु श्रेणिषु यावन्त आकाशप्रदेशास्तावत्प्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि ‘खहयर पंचिदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा अमंखिज्जगुणा ३२’ खेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिकाः पुरुषाः असंख्येयगुणा भवन्ति तेषां प्रतरासंख्येय-भागगतासंख्येयश्रेणि नभः प्रदेशराशिप्रमाणत्वात् । ‘खहयर पंचिदियतिरिक्ख-

प्रदेश होते हैं, उतनी ही भवनपति देवों और देवियों की संख्या है । उस संख्या में से किञ्चित् न्यून बत्तीसवे भाग के बराबर भवनवासियों की संख्या सौधर्मकल्प की देवियों की अपेक्षा असंख्यातगुणा होती है । (२९) भवनवासी देवों की अपेक्षा भवनवासिनी देवियां संख्यात-गुणा अधिक हैं, क्योंकि देवियां बत्तीस गुणी और बत्तीस होती हैं । (३०) भवनपति देवियों की अपेक्षा इस रत्नप्रभा पृथिवी के नारक असंख्यातगुणा हैं । वे अंगुल मात्र परिमित क्षेत्र के प्रदेशों की राशि के द्वितीय वर्गमूल से गुणित प्रथम वर्गमूल की जितनी प्रदेशराशि होती है, उतनी श्रेणियों में रहे हुए आकाश के प्रदेशों की बराबर हैं । (३१) उनकी अपेक्षा खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यक् पुरुष असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि वे प्रतर असंख्यातवे भाग में रही हुई असंख्यात श्रेणियां

आकाश प्रदेश थाय छे तेटली ७ लवनपति देवे अने देवियोनी सख्या छे. ते सख्यामाथी डिञ्चित न्यून भत्रीसभा लागनी परापर लवन वासियोनी सख्या सौधर्म कल्पनी देवियोनी अपेक्षाअे असख्यातगण्णी छे. (२९) लवन वासी देवोनी अपेक्षाअे लवनवासिनी देवियो सख्यातगण्णी अधिक छे केमके देवियो भत्रीस गण्णी अने भत्रीस होय छे (३०) लवनपति देवियोनी अपे-क्षाअे आ रत्नप्रभा पृथ्वीना नारक असख्यातगण्णी छे. तेअो अंगुल मात्र परिमित क्षेत्रना प्रदेशोनी राशिना द्वितीय वर्गमूलथी शुञ्चित प्रथम वर्गमूलनी नेटली प्रदेश राशि थाय छे, तेटली श्रेणियोभा रहेला आकाशना प्रदेशोनी परापर छे (३१) तेभनी अपेक्षाअे खेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यक् पुरुष असख्यात गण्णी छे, केमके तेअो प्रतरना असख्यातभा लागभा रहेली असख्यात श्रेणि.

जोणिणीओ संखिज्जगुणाओ ३३' खेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्भ्योनिकस्त्रियः संख्येयगुणा भवन्ति, तासां त्रिगुणत्वात्, तथाचोक्तम्—'तिगुणा तिरुवअहिया तिरियाणं इत्थिओ मुणेयव्वा' त्रिगुणाः त्रिरूपाधिकाः तिरथां स्त्रियो ज्ञातव्याः इति, ताभ्योऽपि—'थलयर पंचिदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा असंखिज्जगुणा ३४' स्थलचर पञ्चेन्द्रियतिर्यग्भ्योनिकाः पुरुषाः असंख्येयगुणाः, तेषां बृहत्तरप्रतरासंख्येयभागगतासंख्येयश्रेणिवर्तिनभः प्रदेशराशिप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि—'थलयर पंचिदियतिरिक्खजोणिणीओ संखिज्जगुणाओ ३५' स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्भ्योनिकास्त्रियः संख्येयगुणा भवन्ति तदपेक्षया तासां त्रिगुणत्वात्, प्रागुक्तवचनप्रामाण्यात्, ताभ्योऽपि—'जलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा संखिज्जगुणा ३६' जलचर-

के आकाशप्रदेशों के बराबर हैं (३२) पंचेन्द्रिय तिर्यच खेचर पुरुषों की अपेक्षा खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यच स्त्रियां संख्यातगुणी हैं, क्योंकि तिर्यचों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां तिगुनी और तीन अधिक होती हैं। कहा भी है—'तिर्यचों की स्त्रियां तिगुनी त्रिरूपाधिक होती हैं।' (३३) उनकी अपेक्षा स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यच पुरुष संख्यातगुणा हैं, क्योंकि बृहत्तर प्रतर के असंख्यातवे भाग में रही हुई असंख्यातश्रेणियों के आकाशप्रदेशों की राशि के बराबर हैं। (३४) उन की अपेक्षा भी स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचस्त्रियां संख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि वे तिगुनी और तीन अधिक होती हैं। (३५) उनकी अपेक्षा भी जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यच पुरुष संख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि वे बृहत्तम प्रतर के असंख्यातवे भाग में रही हुई असंख्यातश्रेणियों के आकाशप्रदेशों की राशि के बराबर हैं। (३६) उनकी

थाना आकाश प्रदेशोनी भराभर छे (३२) पंचेन्द्रियतिर्यच जेयर पुइयोनी अपेक्षाजे जेयर पंचेन्द्रिय तिर्यच स्त्रियो स ज्यातगणुी छे, केमके तिर्यथोभा पुइयोनी अपेक्षाजे स्त्रियो त्रणु गणुी अने त्रणु अधिक डोय छे कल्लु पणु छे—तिर्यथोनी स्त्रियो त्रणु गणुी त्रणु इपाधिक डोय छे, (३३) तेमनी अपेक्षाजे स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यच पुइय स ज्यातगणुी छे केमके तेजो भूइतर प्रतरना अस ज्यातमा लागमा रडेदी अस ज्यात श्रेष्ठियोना आकाश प्रदेशोनी राशिना भराभर छे (३४) तेमनी अपेक्षाजे, पणु स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यच स्त्रियो स ज्यातगणुी अधिक छे, केमके तेजो त्रणु गणुी अने त्रणु अधिक डोय छे. (३५) तेमनी अपेक्षाजे पणु जलयर पंचेन्द्रिय तिर्यच पुइय स ज्यात गणुी अधिक छे, केमके तेजो भूइतम प्रतरना अस ज्यातमा लागमा रडेदी अस ज्यात श्रेष्ठियोना आकाश प्रदेशोनी राशिना भराभर छे. (३६) तेमनी

पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः पुरुषाः संख्येयगुणा भवन्ति, तेषां बृहत्तमप्रतरासंख्येय-
भागगतासंख्येयश्चेणिवर्तिनमः प्रदेशगक्षिप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि 'जलयरपंचि-
दियतिरिक्खजोणिणीओ संखिज्जगुणाओ ३७' जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्त्रियः
संख्येयगुणा भवन्ति, तदपेक्षया तासां त्रिगुणत्वात् प्रागुक्तवचनप्रामाण्यात्,
ताभ्योऽपि—'वाणमंतरा देवा संखिज्जगुणा ३८' वानव्यन्तराः पुंवेदोदयिनो देवाः
संख्येयगुणा भवन्ति ३८, संख्येययोजनक्रोटिकोटि प्रमाणानि सूचिरूपाणि याव-
न्ति स्रण्डानि एकस्मिन् प्रतरे भवन्ति सामान्यव्यन्तराणां तावत्प्रमाणत्वात्,
पुंवेदोदयिनां च तेषां सकलसमुदायापेक्षया किञ्चिद्दूनद्वात्रिंशत्तमभागकल्पत्वात्
जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक स्त्रीभ्यः संख्येयगुणत्वं बोध्यम् तेभ्योऽपि—'वाण-
मंतरीओ देवीओ संखिज्जगुणाओ' वानव्यन्तर्यो देव्यः संख्येयगुणा भवन्ति ३९
तदपेक्षया तासां द्वात्रिंशद्गुणत्वात्, ताभ्योऽपि—'जोइसिया देवा संखिज्ज-

अपेक्षा जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचनी संख्यातगुणी अधिक हैं, क्योंकि
वे तिगुनी और तीन अधिक होती हैं। (३७) उनकी अपेक्षा भी
वानव्यन्तर देव संख्यातगुणा अधिक हैं। क्योंकि संख्यातगुणा कोडा-
कोडी योजन प्रमाण सूचीरूप जितने खंड एक प्रतर में होते हैं, उतने
ही सामान्य व्यन्तर देव है, जिनमें देवियां भी सम्मिलित हैं। उनमें
से पुरुषवेद के उदय वाले देव सम्पूर्ण समुदाय की अपेक्षा कुछ कम
बत्तीसवें भाग के बराबर होने से जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यच स्त्रियों
की अपेक्षा वे संख्यातगुणा हैं। (३८) वानव्यन्तरदेवों की अपेक्षा
वानव्यन्तरी देवियां संख्यातगुणी हैं, क्योंकि देवों की अपेक्षा देवियां
बत्तीसगुणा और बत्तीस अधिक हैं। (३९) वानव्यन्तर देवियों की
अपेक्षा ज्योतिष्क देव संख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि वे सामान्य

अपेक्षाये जलयर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचिनी स भ्यातगण्णी अधिक छे, केमके तेओ
त्रणु गण्णी अने त्रणु अधिक होय छे (३७) तेमनी अपेक्षाये पणु वानव्य-
न्तर देव स भ्यातगण्णा अधिक छे केमके स भ्यात कोडा-कोडी योजन प्रमाण
सूची ३५ नेटला षड् अेक प्रतरमा थाय छे, तेटला न सामान्य व्यन्तर
देव छे, जेओमा देवियो पणु स मिलित छे तेओमाथी पुइय वेदना उदय
वाणा देव स पूणु समुदायनी अपेक्षाये काधक ओछा भत्रीसमा लागनी भरा-
भर होवाथी जलयर पञ्चेन्द्रिय तिर्यच स्त्रियोनी अपेक्षाये तेओ स भ्यात
गण्णा छे. (३८) वानव्यन्तर देवोनी अपेक्षाये वानव्यन्तरी देवीओ स भ्यातगण्णी
छे केमके देवोनी अपेक्षाये देवीओ भत्रीस गण्णी अने भत्रीस अधिक छे
(३९) वानव्यन्तर देवीओनी अपेक्षाये ज्योतिष्क देव स भ्यातगण्णा अधिक छे,

गुणा ४०' ज्योतिष्का देवाः संख्येयगुणा भवन्ति, तेषां सामान्येन षट्पञ्चाशदधिकशतद्वयाङ्गुलप्रमाणानि सूचिरूपाणि यावन्ति खण्डानि एकस्मिन् प्रतरे भवन्ति तावत्प्रमाणतया तेषु च पु वेदोदयिनां ज्योतिष्काणां सकलसमुदायापेक्षया किञ्चिद्नद्वात्रिंशत्तमभागकल्पत्वात् व्यन्तरीभ्यः संख्येयगुणत्वं भवति, तेभ्योऽपि—'जोइसिणीओ देवीओ संखिज्जगुणाओ' ज्योतिष्कयो देव्यः संख्येयगुणा भवन्ति ४१ तदपेक्षया तासां द्वात्रिंशद्गुणत्वात्, ताभ्योऽपि—'खहयरपंचिदियतिरिक्खजोणिया नपु सगा संखिज्जगुणा ४२' खचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः नपुंसकाः संख्येयगुणा भवन्ति षट् पञ्चाशदधिकशतद्वयाङ्गुलप्रमाणानि सूचिरूपाणि यावन्ति खण्डानि एकस्मिन् प्रतरे भवन्ति ज्योतिष्काणां तावत् प्रमाणतया, चतुरिन्द्रियाणाञ्च अंगुलसंख्येयभागमात्राणि सूचिरूपाणि यावन्ति खण्डानि एकस्मिन् प्रतरे भवन्ति तावत्प्रमाणत्वेन अङ्गुलसंख्येयभागापेक्षया च षट् पञ्चाशदधिकाङ्गुलशतद्वयस्य संख्येयगुणत्वात् ज्योतिष्कदेवापेक्षया प्ररूप्यमाणानां

रूप से दो सौ छप्पन अंगुल प्रमाण सूचीरूप जितने खण्ड एक प्रतर में होते हैं उतने हैं। उसमें से देवियों को पृथक् कर दिया जाए तो देव किंचित् न्यून बत्तीसवे भाग के बराबर होते हैं, अतएव वे व्यन्तरी देवियों से संख्यातगुणा हैं। (४०) ज्योतिष्क देवों की अपेक्षा ज्योतिष्क देवियां संख्यातगुणी अधिक हैं, क्योंकि देवियां देवों से बत्तीसगुणी होती हैं। (४१) ज्योतिष्क देवियों की अपेक्षा खचर पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक नपुंसक संख्यातगुणा अधिक हैं। दो सौ छप्पन अंगुल

गण सूचीरूप जितने खंड एक प्रतर में होते हैं, उतने ज्योतिष्क देव हैं। चौहन्द्रिय अंगुल के संख्यातवे भाग मात्र सूचीरूप जितने खंड एक प्रतर में होते हैं, उतने हैं, यहां अंगुल के संख्यातवे भाग

केभके तेओ सामान्य इपे असो छप्पन अंगुल प्रमाण सूचि इप नेटला ७५ भा ओक प्रतर थाय छे तेटला छे तेओमाथी देवीओ लुढी पाडी देवामा आवे तो देव काईक ओछा अत्रीसमा लागनी अराअर थाय छे, तेथीअ तेओ व्यन्तरी देवियोथी सभ्यातगणु छे (४०) न्योतिष्क देवोनी अपेक्षाओ न्योतिष्क देवीओ सभ्यातगणु अधिक छे, केभके देवीओ देवोथी अत्रीस गणु थाय छे (४१) न्योतिष्क देवीओनी अपेक्षाओ जेअर औधन्द्रिय तिर्यगेनिक नपुंसक सभ्यात गणु अधिक छे असो छप्पन अंगुल प्रमाण सूची इप नेटला ७५ ओक प्रतरमा थाय छे तेटला न्योतिष्क देव छे पञ्चेन्द्रिय अंगुलना सभ्यातमा लाग मात्र सूचि इप नेटला ७५ ओक प्रतरमा थाय छे, तेटला अडि अंगुलना सभ्यातमा लागनी अपेक्षाओ असो छप्पन अंगुल सभ्यातगणु न अधिक

पर्याप्तचतुरिन्द्रियाणामपि संख्येयगुणत्वस्यैव सद्भावेन, पर्याप्तचतुरिन्द्रिया पेक्षया संख्येयभागमात्राणां खचर नपुंसकानां सुतरां ज्योतिष्कदेवापेक्षया संख्येयगुणत्वमेव नासंख्येयगुणत्वम्, तेभ्योऽपि—‘जलयरपंचिन्द्रियतिरिक्त्वज्योणि- यो नपुंसगा संखिज्जगुणा ४३’ स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका नपुंसकाः संख्येय- गुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि—‘जलयरपंचिन्द्रियतिरिक्त्वज्योणिया नपुंसगा संखिज्ज- गुणा ४४’ जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः नपुंसकाः संख्येयगुणा भवन्ति तेभ्यो- ऽपि ‘चउरिन्द्रिया पज्जत्तया संखिज्जगुणा ४५’ चतुरिन्द्रियाः पर्याप्तकाः संख्येय- गुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘पंचिन्द्रिया पज्जत्तया विसेसाहिया ४६’ पञ्चेन्द्रियाः पर्याप्तकाः संज्ञिनोऽसंज्ञिनश्च विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्योऽपि—‘वेइन्द्रिया पज्ज- त्तया विसेसाहिया ४७’ द्वीन्द्रियाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘तेइन्द्रिया पज्जत्तया विसेसाहिया ४८’ त्रीन्द्रियाः पर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्योऽपि—‘पंचिन्द्रिया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा ४९’ पञ्चेन्द्रियाः अपर्याप्तकाः

की अपेक्षा दो सौ छप्पन अंगुल संख्यातगुणा ही अधिक हैं, अतएव पर्याप्त चौइन्द्रियों की अपेक्षा संख्यात भाग मात्र खचर नपुंसकों का ज्योतिष्क देवों की अपेक्षा संख्यातगुणा होना स्वतः सिद्ध है, वे असंख्यातगुणा नहीं हो सकते । (४२) उनकी अपेक्षा भी स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यच नपुंसक संख्यातगुणा अधिक हैं । (४३) उनकी अपेक्षा भी जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यच नपुंसक संख्यातगुणा अधिक हैं । (४४) उनकी अपेक्षा चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक संख्यातगुणा अधिक हैं । (४५) उनसे पंचेन्द्रिय पर्याप्त विशेषाधिक हैं, जिनमें संज्ञी और असंज्ञी दोनों सम्मिलित हैं । (४६) उनकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय पर्याप्तक विशेषा- धिक हैं । (४७) उनकी अपेक्षा त्रीन्द्रिय पर्याप्तक विशेषाधिक हैं । (४८) उनकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय अपर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक हैं ।

छे तथीन् पर्याप्त औधन्द्रियोनी अपेक्षाये स ज्थात लाग मात्र भेत्तर नपुंसके ज्योतिष्क देवोनी अपेक्षाये स ज्थातगण्ठा थाय ते स्वतः सिद्ध छे, तेज्जे अस ज्थातगण्ठा नथी थध शकता (४२) तेमनी अपेक्षाये पण्ठ स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यच नपुंसक स ज्थातगण्ठा अधिक छे. (४३) तेमनी अपेक्षाये पण्ठ जलयर पञ्चेन्द्रिय तिर्यच नपुंसक स ज्थात गण्ठा अधिक छे. (४४) तेमनी अपेक्षाये चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक स ज्थातगण्ठा अधिक छे. (४५) तेमनाथी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त विशेषाधिक छे जेमनामा स ज्ठी अने अस ज्ठी जन्ने संभि- क्षित छे (४६) तेमनी अपेक्षाये द्वीन्द्रिय पर्याप्तक विशेषाधिक छे. (४७) तेमनी अपेक्षाये त्रीन्द्रिय पर्याप्तक विशेषाधिक छे. (४८) तेमनी अपेक्षाये पञ्चेन्द्रिय

असंख्येयगुणा भवन्ति तेषाम् अङ्गुलासंख्येयभागमात्राणि सूचिरूपाणि यावन्ति खण्डानि एकस्मिन् प्रतरे भवन्ति तावत्प्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि 'चतुरिन्द्रिया अपज्जत्तया विसेसाहिया५०' चतुरिन्द्रियाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्योऽपि 'तेइंदिया अपज्जत्तया विसेसाहिया५१' त्रीन्द्रियाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वेइंदिया अपज्जत्तया विसेसाहिया५२' द्वीन्द्रिया अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्योऽपि द्वीन्द्रिया पर्याप्तकेभ्यः 'पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइया पज्जत्तया असंखिज्जगुणा५३' प्रत्येकशरीर वादरवनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, अपर्याप्तद्वीन्द्रियादीनामिव पर्याप्तवादरवनस्पतिकायिकानामपि अंगुलासंख्येयभागमात्राणि सूचिरूपाणि यावन्ति खण्डानि एकस्मिन् प्रतरे भवन्ति तावत्प्रमाणानामन्यत्रोक्तत्वेऽपि अंगुलासंख्येयभागस्यासंख्येयभेदभिन्नतया वादरपर्याप्तप्रत्येकवनस्पतिपरिमाणप्ररूपणे

क्योंकि वे अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र सूचीरूप जितने खंड एक प्रतर में होते हैं, उतने ही हैं । (४९) उनकी अपेक्षा चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक हैं । (५०) उनकी अपेक्षा त्रीन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक हैं । (५१) उनकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक हैं । (५२) द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकों की अपेक्षा प्रत्येक शरीर वादरवनस्पतिकायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा हैं । अपर्याप्त द्वीन्द्रियादि की भांति पर्याप्त वादरवनस्पतिकायिक भी अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र सूचीरूप जितने खंड एक प्रतर में होते हैं, अन्यत्र उतने कहे गए हैं, किन्तु अंगुल के असंख्येय भाग के असंख्येय भेद होते हैं, अतः वादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर वादरवनस्पति के परिमाण के निरूपण में अंगुल का असंख्यातवां भाग कम अंगुल का असंख्यातवां भाग लेने पर

अपर्याप्तक स ख्यातगणुा अधिक छे, केमके तेओ अशुलना अस ख्यातमा लाग मात्र सूची ३प नेटला अउ ओक प्रतरमा थाय छे, तेटलाअ छे. (४९) तेमनी अपेक्षाओ चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक छे. (५०) तेमनी अपेक्षाओ त्रीन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक छे (५१) तेमनी अपेक्षाओ द्वीन्द्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक छे. (५२) द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकेनी अपेक्षाओ प्रत्येक शरीर वादर वनस्पति कायिक पर्याप्त अस ख्यातगणुा छे (५३) अपर्याप्तक द्वीन्द्रियोनी नेम वादर वनस्पतिकायिक पणु अशुलना अस ख्यातमा लाग मात्र सूची ३प नेटला अउ ओक प्रतरमा थाय छे. नीने तेटला कडेला छे, परतु अशुलना अस ख्येय लागना अम ख्येय लेह थाय छे तेथी वादर पर्याप्त प्रत्येक वनस्पतिना परिमाणना निरूपणमा अशुलना अस ख्यातमा लाग ओओ अशु-

अंगुलासंख्येयभागस्यासंख्येयगुणहीनस्यैव परिग्रहेण न कोऽपि पूर्वापरविरोधः ।
 तेभ्योऽपि 'वायरनिगोया पज्जत्तया असंखिज्जगुणा ५४' वादरनिगोदाः अन-
 न्तकायिकशरीररूपाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायर-
 पुढवीकाइया पज्जत्तया असंखिज्जगुणा ५५' वादरपृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः
 असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि—'वायर आउकाइया पज्जत्तया असं-
 खिज्जगुणा ५६' वादराष्कायिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति पर्याप्त-
 वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिकपृथिवीकायिकाष्कायिकानां प्रत्येकमङ्गुलासंख्येय-
 भागमात्राणि सूचीरूपाणि यावन्ति खण्डानि एकप्रतरे भवन्ति तावत्प्रमाणाना-
 मन्यत्राविशेषेणोक्तत्वेऽपि अङ्गुलासंख्येयभागस्यासंख्येयभेदमिन्नत्वान्न दोषः,
 तेभ्योऽपि—'वायर वाउकाइया पज्जत्तया असंखिज्जगुणा ५७' वादरवायुका-
 यिकाः पर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः, भवन्तिः तेषां घनीकृतलोकासंख्येयभाग-

कोई दोष नहीं (५३) पर्याप्त प्रत्येक शरीर वादरवनस्पतिकायिकों की
 अपेक्षा भी वादर निगोद के पर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं। (५४) उनकी
 अपेक्षा भी वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा हैं। (५५)
 उनकी अपेक्षा वादर अष्कायिक पर्याप्त असंख्यातगुणा अधिक हैं।
 पर्याप्त प्रत्येक शरीर वनस्पतिकायिक, पृथिवीकायिक और अष्कायिक
 में से प्रत्येक की संख्या उतनी है जितने अंगुल के असंख्यातवे' भाग
 मात्र सूची रूप जितने खंड एक प्रतर में होते हैं। यह अन्यत्र सामान्य
 रूप से कहा है, मगर अंगुल के असंख्यातवे' भाग के भी असंख्यात
 भेद होते हैं, अतएव कोई दोष नहीं समझना चाहिए। (५६) पर्याप्त
 वादर अष्कायिकों की अपेक्षा पर्याप्त वादर वायुकायिक असंख्यात-
 गुणा हैं क्योंकि वे घनीकृत लोक के असंख्यातवे भाग में स्थित

होने असंख्यातमा लाग लेवाथी कोष्ठ दोष नहीं पर्याप्त प्रत्येक शरीर वादर
 वनस्पतिकायिकोनी अपेक्षाओं पणु वादर निगोदना पर्याप्तक असंख्यातगणुा छे,
 (५४) तेरनी अपेक्षाओं पणु वादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त असंख्यातगणुा छे,
 (५५) तेमनी अपेक्षाओं वादर अष्कायिक पर्याप्त असंख्यात गणुा अधिक छे,
 पर्याप्त प्रत्येक शरीर वनस्पतिकायिक, पृथ्वीकायिक, अने अष्कायिकभाथी प्रत्ये-
 कनी संख्या तेदलीज् छे के नेदली अशुदना असंख्यातमा लागमात्र सूची
 रूप नेदला भउ अेक प्रतरमा थाय छे आ भीने सामान्य रूपथी क्हा छे
 पणु अशुदना असंख्यातमा लागना पणु असंख्यात लेदो अने छे, तेथी ज्
 कोष्ठ दोष समज्यो न लेदोअे (५६) पर्याप्त वादर अष्कायिकोनी अपेक्षाओं
 पर्याप्त वादर वायुकायिक असंख्यातगणुा छे, केभके तेओ घनीकृत लोकना अस-

गतासंख्येयप्रतरवर्त्याकाशप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि 'वायरतेउकाइया अप-
ज्जत्तया असंखिज्जगुणा ५८' वादरतेजःकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा
भवन्ति तेभ्योऽपि 'पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइया अपज्जत्तगा असंखिज्जगुणा
५९' प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति
तेभ्योऽपि 'वायरनिगोया अपज्जत्तया असंखिज्जगुणा ६०' वादरनिगोदाः
अनन्तकायिकशरीररूपाः, अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि 'वायर-
पुढवीकाइया अपज्जत्तया असंखिज्जगुणा ६१' वादरपृथ्वीकायिका अपर्याप्तकाः
असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि—'वायरआउकाइया अपज्जत्तया असंखिज्जगुणा
६२' वादराप्कायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि—'वायर-
वाउकाइया अपज्जत्तगा असंखिज्जगुणा' वादरवायुकायिका अपर्याप्तकाः असंख्येय-
गुणा भवन्ति ६३, तेभ्योऽपि 'सुहुमतेउकाइया अपज्जत्तगा असंखिज्जगुणा'
सूक्ष्मतेजःकायिकाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणा भवन्ति ६४, तेभ्योऽपि 'सुहुम-
पुढवीकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया' सूक्ष्मपृथिवीकायिका अपर्याप्तकाः विशेषे-

असंख्य प्रतरवर्ती आकाश के प्रदेशों की राशि के बराबर हैं । (५७)
उनकी अपेक्षा भी वादरतेजस्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं । (५८)
उनकी अपेक्षा भी प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त
असंख्यातगुणा हैं । (५९) उनकी अपेक्षा वादर निगोद के अपर्याप्त
असंख्यातगुणा हैं । (६०) उनकी अपेक्षा वादर पृथिवीकायिक अप-
र्याप्त असंख्यातगुणा हैं । (६१) उनकी अपेक्षा वादर अप्कायिक
अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं । (६२) उनकी अपेक्षा वादर वायुकायिक
अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं । (६३) उनकी अपेक्षा सूक्ष्म तेजस्कायिक
अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं । (६४) उनकी अपेक्षा सूक्ष्म पृथिवी-
कायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं । (६५) उनकी अपेक्षा सूक्ष्म अप्का-

भ्यातमा भागमा स्थित अस प्थ प्रतरवर्ती आकाशना प्रदेशानी राशिना
भराणर छे. (५७) तेमनी अपेक्षाये पणु भादर तेजस्कायिक अपर्याप्त अस भ्यात
छे (५८) तेमनी अपेक्षाये पणु प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त
अस भ्यातगणु छे (५९) तेमनी अपेक्षाये भादर निगोदना अपर्याप्तक अम-
भ्यातगणु छे (६०) तेमनी अपेक्षाये भादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्तक अस भ्यात
गणु छे (६१) तेमनी अपेक्षाये भादर अप्कायिक अपर्याप्तक अस भ्यातगणु
छे (६२) तेमनी अपेक्षाये भादर वायुकायिक अपर्याप्त अस भ्यातगणु छे.
(६३) तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्त अम भ्यातगणु छे (६४)
तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे (६५) तेमनी

षाधिका भवन्ति ६५, तेभ्योऽपि—‘सुहुमआउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया’ सूक्ष्माष्कायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति ६६, तेभ्योऽपि ‘सुहुमवाउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया’ सूक्ष्मवायुकायिकाः अपर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति ६७, तेभ्योऽपि—‘सुहुमतेउकाइया पज्जत्तया संखिज्जगुणा’ सूक्ष्मतेजःकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति ६८, अपर्याप्तकसूक्ष्मापेक्षया पर्याप्तकसूक्ष्माणां स्वभावा देव बाहुल्येन सदभावात्, तथाचोवतं प्रज्ञापनायाः संग्रहण्याम्—
‘जीवाणमपज्जत्ता बहुतरगा वायराण दिन्नेया ।

सुहुमाण य पज्जत्ता ओहेण य केवली विंति’ ॥१॥

जीवानामपर्याप्तकाः बहुतरकाः खलु विज्ञेयाः ।

सूक्ष्माणाश्च पर्याप्ताः ओघेन च केवलिनो विदन्ति ॥१॥

तेभ्योऽपि ‘सुहुमपुढवीकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया ६९’ सूक्ष्मपृथिवीकायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति, तेभ्योऽपि—‘सुहुमआउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया ७०’ सूक्ष्माष्कायिकाः पर्याप्तकाः विशेषाधिकाः भवन्ति, ‘तेभ्योऽपि—‘सुहुमवाउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया’ सूक्ष्मवायुकायिकाः

यिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं । (६६) उनकी अपेक्षा सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक हैं । (६७) उनकी अपेक्षा सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त संख्यातगुणा हैं, क्योंकि अपर्याप्तक सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा पर्याप्तक सूक्ष्म स्वभाव से ही अधिक होते हैं । प्रज्ञापनासूत्र की संग्रहणी में कहा है—‘केवली भगवान् कहते हैं कि बादर जीवों में अपर्याप्त अधिक होते हैं और सूक्ष्म जीवों में तथा समुच्चयरूप में पर्याप्त अधिक होते हैं ।’ (६८)

सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त जीवों की अपेक्षा सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं । (६९) उनकी अपेक्षा सूक्ष्म अष्कायिक पर्याप्त विशेषाधिक हैं । (७०) उनकी अपेक्षा सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त

अपेक्षाये सूक्ष्म अष्कायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे (६६) तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक छे (६७) तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त संख्यातगुणा छे, केमके अपर्याप्तक सूक्ष्म जिवोनी अपेक्षाये पर्याप्तक सूक्ष्म स्वभावमा न अधिक डोय छे प्रज्ञापना सूत्रनी संग्रहणीमा कहु छे—‘केवली भगवान् कडे छे के बादर जिवोमा अपर्याप्त अधिक डोय छे अने सूक्ष्म जिवोमा तथा समुच्चय रूपमा पर्याप्त अधिक डोय छे (६८)

सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त जिवोनी अपेक्षाये सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे (६९) तेमनी अपेक्षाये अष्कायिक पर्याप्त विशेषाधिक छे. (७०)

पर्याप्तका विशेषाधिका भवन्ति ७१, तेभ्योऽपि—‘सुहुमनिगोया अपञ्जत्तया असंखिज्जगुणा’ सूक्ष्मनिगोदाः अपर्याप्तकाः असंख्येयगुणाः भवन्ति ७२’ तेभ्योऽपि—‘सुहुमनिगोया पञ्जत्तया संखिज्जगुणा’ ७३, सूक्ष्मनिगोदाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति, अपर्याप्ततेजःकायिकादीनां पर्याप्तसूक्ष्मनिगोदपर्यन्तानां सामान्यतोऽन्यत्रासंख्येयलोकाकाशप्रदेशराशिप्रमाणानामुक्तत्वेऽपि लोकासंख्येयत्वस्यासंख्येयभेदभिन्नतयाऽल्पबहुत्वमुपपन्नम्, तेभ्योऽपि—‘अभवसिद्धिया अणंतगुणा ७४’ अभवसिद्धिका अनन्तगुणा भवन्ति तेषां जघन्येनानन्तकप्रमाणत्वात्, तेभ्योऽपि ‘परिवडियसम्महिद्धि अणंतगुणा ७५’ प्रतिपतितसम्यग्दृष्टयः—प्रतिपतिताभ्रष्टासम्यग्दृष्टिरेषां ते प्रतिपतितसम्यग्दृष्टयः अनन्तगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि—‘सिद्धा अणंतगुणा’ सिद्धाः अनन्तगुणा भवन्ति ७६, तेच्योऽपि—‘वायरवणस्सङ्काइया पञ्जत्तया अणंतगुणा’ वादरचनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः अनन्तगुणा भवन्ति ७७, तेभ्योऽपि ‘वायर पञ्जत्ता विसेसाहिया’ सामान्येन वादर

विशेषाधिक हैं। (७१) उनकी अपेक्षा सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्तक असंख्यातगुणा हैं। (७२) उनसे पर्याप्त सूक्ष्म निगोद संख्यातगुणा हैं। (७३) अपर्याप्त तेजस्कायिक से लेकर पर्याप्त सूक्ष्म निगोद तक के जीव सामान्य रूप से असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों की राशि के बराबर कहे गए हैं, किन्तु असंख्यात लोक असंख्यात भेद वाला है, अतएव यह अल्पबहुत संगत ही है। (७४) सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्तकों की अपेक्षा अभवसिद्धिक-अभव्य अनन्तगुणा अधिक हैं, क्योंकि वे जघन्य युक्त अनन्त प्रमाण हैं। (७५) उनकी अपेक्षा सम्यक्त्व से गिरे हुए जीव अनन्तगुणा हैं। (७६) उन से भी सिद्ध जीव अनन्तगुणा हैं। (७७) सिद्धों की अपेक्षा वादर वनस्पतिकायिक

तेमनी अपेक्षाये वायुक्रियिक पर्याप्त विशेषाधिक छे (७१) तेमनी अपेक्षाये सूक्ष्म निगोदना अपर्याप्तक असंख्यातगणु छे (७२) तेमनाथी पर्याप्त सूक्ष्म निगोद संख्यातगणु छे. (७३) अपर्याप्त तेजस्कायिकथी लघने पर्याप्त सूक्ष्म निगोद सुधीना एव सामान्य रूपे असंख्यात लोकाकाशाना प्रदेशाना राशिनो परमाणु कडेला छे, परंतु असंख्यात लोक असंख्यात भेद वाणा छे तेथी-एवा अव्यय अहुत्व संगत ए छे. (७४) सूक्ष्म निगोदना अपर्याप्तकेनी अपेक्षाये अल्प सिद्धिक-अभव्य अनन्तगणु अधिक छे, उभके तेच्यो जघन्य युक्त अनन्त प्रमाणु छे (७५) तेमनी अपेक्षाये सम्यक्त्वथी पडेला एव अनन्तगणु छे (७६) तेमनाथी पणु सिद्ध एव अनन्तगणु छे (७७) सिद्धोनी अपेक्षाये वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त अनन्तगणु छे (७८) तेमनाथी वादर पर्याप्त

પર્યાપ્તકાઃ વિશેષાધિકા ભવન્તિ તત્ર વાદરપર્યાપ્તપૃથિવીકાયિકાદીનામપિ સમા-
વેશાત્ ૭૮, તેભ્યોઽપિ 'વાયરવળસ્સઙ્કાદ્યા અપજ્જત્તયા અસંચિજ્જગુણા'
વાદરવનસ્પતિકાયિકાઃ અપર્યાપ્તકાઃ અસંખ્યેયગુણા ભવન્તિ ૭૯, એકૈવવાદર-
નિગોદપર્યાપ્તનિશ્રયા અસંખ્યેયગુણાનાં વાદરાપર્યાપ્તનિગોદાનાં સંભવાત્, તેભ્યો-
ઽપિ 'વાયર અપજ્જત્તયા વિસેસાહિયા' સામાન્યેન વાદરા પર્યાપ્તકા વિશેષાધિકા
ભવન્તિ ૮૦, વાદરાપર્યાપ્તકપૃથિવીકાયિકાદીનામપિ તત્ર સમાવેશાત્, તેભ્યોપિ
'વાયરા વિસેસાહિયા ૮૧' સામાન્યેન વાદરાઃ વિશેષાધિકા ભવન્તિ, તત્ર પર્યાપ્તા-
પર્યાપ્તકાણાં પ્રક્ષેપાત્ તેભ્યોઽપિ—'સુહમવળસ્સઙ્કાદ્યા અપજ્જત્તયા અસંચિજ્જ-
ગુણા' સૂક્ષ્મવનસ્પતિકાયિકા અપર્યાપ્તકાઃ અસંખ્યેયગુણા ભવન્તિ ૮૨, તેભ્યો-
ઽપિ—'સુહમ અપજ્જત્તયા વિસેસાહિયા' સામાન્યેન સૂક્ષ્મા અપર્યાપ્તકાઃ વિશેષા-

પર્યાપ્ત અનન્તગુણા હૈં । (૭૮) उनसे बादर पर्याप्त विशेषादि
हैं । क्योंकि बादर पर्याप्तकों में बादर पृथ्वीकायिकों आदि का
भी समावेश हो जाता है । (७९) उनकी अपेक्षा बादर वनस्पति-
कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं । क्योंकि एक-एक बादर
निगोद पर्याप्त के आश्रय से असंख्यात-असंख्यात बादर निगोद
अपर्याप्त रहते हैं । (८०) उनकी अपेक्षा भी बादर अपर्याप्त विशेष-
षाधिक हैं । क्योंकि इनमें बादर अपर्याप्तक पृथ्वीकायिक आदि का
भी समावेश हो जाता है । (८१) उनकी अपेक्षा सामान्य बादर
जीव विशेषाधिक हैं, क्योंकि इनमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों
सम्मिलित है । (८२) बादर जीवों की अपेक्षा सूक्ष्म वनस्पतिकायिक
अपर्याप्त असंख्यातगुणा हैं । (८३) उनकी अपेक्षा समुच्चय सूक्ष्म
अपर्याप्तक विशेषाधिक हैं । क्योंकि इनमें सूक्ष्म अपर्याप्त पृथ्वी-

વિશેષાધિક છે, કેમકે બાદર પર્યાપ્તકાના બાદર પૃથ્વીકાયિક આદિનો પણ સમા-
વેશ થઈ જાય છે (૭૮) તેમની અપેક્ષાએ બાદર વનસ્પતિકાયિક અપર્યાપ્ત
અસંખ્યાતગુણા છે કેમકે એક-એક બાદર નિગોદ પર્યાપ્તકના આશ્રમથી અસં-
ખ્યાત-અસંખ્યાત બાદર નિગોદ અપર્યાપ્ત રહે છે (૮૦) તેમની અપેક્ષાએ
પણ બાદર અપર્યાપ્ત વિશેષાધિક છે કેમકે એઓના બાદર અપર્યાપ્તક પૃથ્વી
કાયિક આદિનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. (૮૧) તેમની અપેક્ષાએ સામાન્ય
બાદર જીવ વિશેષાધિક છે, કેમકે તેમનામા પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત બંને મળેલા
છે (૮૨) બાદર જીવોની અપેક્ષાએ સૂક્ષ્મ વનસ્પતિકાયિક અપર્યાપ્ત અસંખ્યાત
ગુણા છે. (૮૩) તેમની અપેક્ષાએ સમુચ્ચય સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્તક વિશેષાધિક છે.
કેમકે તેમનામા સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્ત પૃથ્વીકાયિક આદિ સમિલિત છે. (૮૪) તેમ-

धिका भवन्ति, अपर्याप्तक सूक्ष्मपृथिवीकायिकादीनामपि तत्र समावेशात् ८३, तेभ्योऽपि 'मुहुमवणस्सङ्काडया पज्जत्तया संसिज्जगुणा' सूक्ष्मवनस्पतिकायिकाः पर्याप्तकाः संख्येयगुणा भवन्ति ८४, अपर्याप्तसूक्ष्मापेक्षया पर्याप्तकसूक्ष्माणं स्वभावादेव सर्वदा संख्येयगुणगुणत्वेनोपलभ्यमानत्वात्, केवलवेदसोपलब्धेश्च, तेभ्योऽपि सामान्येन 'मुहुम पज्जत्तया विसेसाहिया' सूक्ष्माः पर्याप्तकाः विशेषाधिका भवन्ति ८५, पर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवीकायिकादीनामपि तत्र समावेशात्, तेभ्योऽपि—'मुहुमा विसेसाहिया' सूक्ष्माः पर्याप्तापर्याप्तविशेषणरहिताः विशेषाधिका भवन्ति ८६, तत्र अपर्याप्तक सूक्ष्मपृथिवी अपूतेजोवायुवनस्पतिकायिकानामपि प्रक्षेपात्, तेभ्योऽपि 'भवसिद्धिया विसेसाहिया' भवसिद्धिकाः—भवेऽस्मिन् सिद्धिर्येषां ते भवसिद्धिकाः भव्याः विशेषाधिका भवन्ति ८७, जघन्यविशिष्टानन्तकमात्राभव्यं वर्जयित्वा शेषसर्वजीवानां भव्यत्वात्, तेभ्योऽपि 'निगोय-

कायिक आदि सम्मिलित हैं। (८४) उनसे सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त संख्यातगुणा अधिक हैं, क्योंकि अपर्याप्तक सूक्ष्मों की अपेक्षा पर्याप्तक सूक्ष्म जीव स्वभाव से ही संख्यातगुणा अधिक होते हैं। (८५) उनकी अपेक्षा सामान्य रूप से सूक्ष्म पर्याप्तक विशेषाधिक हैं, क्योंकि इनमें सूक्ष्म पृथिवीकायिक आदि भी शामिल हैं। (८६) उनकी अपेक्षा सामान्य अर्थात् पर्याप्त और अपर्याप्त सूक्ष्म विशेषाधिक हैं, क्योंकि इनमें अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक भी सम्मिलित हैं। (८७) उनकी अपेक्षा भव्य जीव विशेषाधिक हैं। क्योंकि जघन्य युक्त अनन्त प्रमाण अभव्यों को छोड़ कर शेष सभी जीव भव्य हैं। (८८) उनकी अपेक्षा निगोद जीव विशेषाधिक हैं। भव्यों और

नाथी सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त संख्यातगुणा अधिक थे, डेभके अपर्याप्तक सूक्ष्मोनी अपेक्षाये पर्याप्तक सूक्ष्म एव स्वभावधीन संख्यातगुणा अधिक होय थे (८५) तेमनी अपेक्षाये सामान्य रूपधी सूक्ष्म पर्याप्तक विशेषाधिक थे. डेभके तेमनाभा सूक्ष्म पृथ्वीकायिक आदि पर्याप्त पणु शासेल थे. (८६) तेमनी अपेक्षाये सामान्य अर्थात् पर्याप्तक अने अपर्याप्त सूक्ष्म विशेषाधिक थे, डेभके तेमा अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक अने वनस्पतिकायिक पणु सम्मिलित थे (८७) तेमनी अपेक्षाये लघ्वणु विशेषाधिक थे, डेभके जघन्य युक्त अनन्त प्रमाण अलघ्वेने त्यलने शेष अधा एव लघ्वे थे (८८) तेमनी अपेक्षाये निगोद एव विशेषाधिक थे

• लघ्वे अने अलघ्वेनी अति आहुत्यता धवाथी सूक्ष्म तेमन आदर

जीवा विसेसाहिया' निगोदजीवाः विशेषाधिका भवन्ति ८८, भव्यानाम्, अभव्यानाञ्चातिबाहुल्येन सूक्ष्मवादरनिगोदजीवराशावेव ग्राप्यमाणत्वेन, अन्येषां सर्वेषामपि संमिलितानाम् असंख्येयलोकाकाशप्रदेशराशिप्रमाणत्वात्, अभव्यानाञ्च जघन्ययुक्तानन्तकसंख्यामात्रपरिमाणानां भव्यापेक्षया किञ्चिन्मात्रत्वात्, भव्यानाञ्च पूर्वमभव्यपरिवर्जनेन प्ररूपितत्वात् सम्प्रति तु वादरसूक्ष्मनिगोद प्ररूपणे तेषामपि प्रक्षेपात् विशेषाधिकत्वं भवति, तेभ्योपि—'घणस्सइ जीवा विसेसाहिया' ८९, सामान्येन वनस्पतिजीवाः विशेषाधिका भवन्ति, तत्र प्रत्येकशरीराणामपि वनस्पतिजीवानां समावेशात्, तेभ्योऽपि 'एग्गिदिया विसेसाहिया ९०' सामान्येन एकेन्द्रियाः विशेषाधिका भवन्ति तत्र सूक्ष्मवादरपृथिवीकायिकादीनामपि समावेशात्, तेभ्योऽपि सामान्येन—'तिरिक्खजोणिया विसेसाहिया' तिर्यग्योनिकाः

अभव्यों का अतिबाहुल्य होने से सूक्ष्म एवं वादर निगोदराशि में ही सम्मिलित कर देनेसे तथा अन्य सब भी मिलकर असंख्यात लोकाकाश प्रदेशों की राशि प्रमाण ही होते हैं। अभव्य जीव जघन्य युक्तानन्त ही होने से भव्यों की अपेक्षा बहुत थोड़े हैं। यह कह चुके हैं कि अभव्यों को छोड़ कर सभी जीव भव्य हैं। यहां वादर-सूक्ष्म निगोद जीवों की अर्थात् समुच्चय निगोद जीवों की प्ररूपणा में वे भी सम्मिलित हो जाते हैं, अतएव विशेषाधिक हैं। (८९) निगोद जीवों की अपेक्षा वनस्पतिकाय के जीव विशेषाधिक हैं, क्योंकि सामान्य वनस्पतिकायिकों में प्रत्येक शरीर वनस्पतिकाय के जीव भी सम्मिलित है। (९०) वनस्पतिजीवों की अपेक्षा एकेन्द्रिय जीव विशेषाधिक हैं, क्योंकि उनमें सूक्ष्म एवं वादर पृथ्वीकायिक आदि का भी समावेश है। (९१) एकेन्द्रियों की अपेक्षा तिर्यच जीव

निगोद राशिमा न संमिलित करी देवाथी तथा भील्ल तथा भणीने अस च्यात्
 दोकाकाश प्रदेशोनी राशि प्रमाण न थाय छे अलव्य एव नघन्य युक्तानन्त
 न डोवाथी लव्योनी अपेक्षाये घणु थोडा छे, अे कडेवाध गधुं छे के-अल-
 व्योने त्यल्ले तथा एव लव्य छे, अहि पादर सूक्ष्म निगोद एवोनी अर्थात्
 समुच्चय निगोद एवोनी प्ररूपणाया तेयो पणु संमिलित थध लय छे.
 तेथीन विशेषाधिक छे. (८९) निगोद एवोनी अपेक्षाये वनस्पतिकायना एव
 विशेषाधिक छे, केमके सामान्य वनस्पति कायमा प्रत्येक शरीर वनस्पति कायना
 एव पणु संमिलित छे. (९०) वनस्पति एवोनी अपेक्षाये एकेन्द्रिय एव
 विशेषाधिक छे, केमके तेमनामा सूक्ष्म तेमन पादर पृथ्वीकायिक आदिना पणु
 समावेश छे. (९१) एकेन्द्रियोनी अपेक्षाये तिर्यच एव विशेषाधिक छे. केमके

વિશેષાધિકા ભવન્તિ ૧૧, તત્ર પર્યાપ્તાપર્યાપ્તક દ્વિત્રિચતુરિન્દ્રયપञ્ચેન્દ્રિય-
તિર્યગ્યોનિકાનામપિ સમાવેશાત્, તેભ્યોઽપિ—‘મિન્છાદિદ્વી વિસેસાહિયા ૧૨’
ચતુર્ગતિભાવિનો મિથ્યાદૃષ્ટયો જીવાઃ વિશેષાધિકા ભવન્તિ, અત્ર કતિપયા
વિરતસમ્યગ્દૃષ્ટ્યાદિ સંજ્ઞિવ્યક્તિરિક્તાના જ્ઞેયસર્વેષામપિ તિરથાં મિથ્યાદૃષ્ટિભાત્,
પ્રકૃતે તુ ચતુર્ગતિક મિથ્યાદૃષ્ટિપ્રરૂપણેઽસંલ્લેયનૈરચિક્ષાણાં તત્ર પ્રક્ષેપેણ તિર્યગ્
જીવરાશ્યપેક્ષયા ચતુર્ગતિક મિથ્યાદૃષ્ટીનાં પ્રરૂપ્યમાણાનાં વિશેષાધિકત્વં વોધ્યમ્,
તેભ્યોઽપિ—‘અવિરયા વિસેસાહિયા’ અવિરતા જીવા વિશેષાધિકા ભવન્તિ ૧૩,
તત્ર અવિરતસમ્યગ્દૃષ્ટીનાં પ્રક્ષેપાત્, તેભ્યોઽપિ ‘સક્રસાઈ વિસેસાહિયા’ સક-
પાયિણો જીવા વિશેષાધિકા ભવન્તિ ૧૪, દેશવિરતાદીનામપિ તત્ર સમાવેશાત્,
તેભ્યોઽપિ—‘છદ્મસ્થા વિસેસાહિયા’ છદ્મસ્થા વિશેષાધિકા ભવન્તિ ૧૫, તત્ર

વિશેષાધિક હૈં, ક્યો કિ તિર્યચ સામાન્ય મેં દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુ-
રિન્દ્રિય ઔર પંચેન્દ્રિય પર્યાપ્ત ઔર અપર્યાપ્ત સમી તિર્યચ શામિલ
હૈં । (૧૨) તિર્યચો કી અપેક્ષા મિથ્યાદૃષ્ટિ વિશેષાધિક હૈં, ક્યો કિ
થોડે સે અવિરત સમ્યગ્દૃષ્ટિ આદિ સંજ્ઞી તિર્યચો કો છોડ કર શેષ
સમી તિર્યચ મિથ્યાદૃષ્ટિ હૈં, ઇનકે અતિરિક્ત અન્ય ગતિયોં કે મિથ્યા-
દૃષ્ટિ મી યહાં સમ્મિલિત હૈં, જિનમેં અસંલ્લયાત નારક મી હૈં । અતઃ
‘તિર્યચો’ કી અપેક્ષા ચારો ગતિયોં કે મિથ્યાદૃષ્ટિ વિશેષાધિક હૈં ।
(૧૩) મિથ્યાદૃષ્ટિયોં કી અપેક્ષા અવિરત જીવ વિશેષાધિક હૈં, ક્યો-
કિ ઇનમેં અવિરત સમ્યગ્દૃષ્ટિ મી સમાવિષ્ટ હૈં । (૧૪) અવિરત
જીવોં કી અપેક્ષા સક્રષાય જીવ વિશેષાધિક હૈં, ક્યોંકિ સક્રષાય
જીવોં મેં દેશવિરત ઔર દશમ ગુણસ્થાન તક કે સર્વવિરત જીવ મી

તિર્યચ સામાન્યમા દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પચેન્દ્રિય શામેદ
છે. (૯૨) તિર્યચોની અપેક્ષાએ મિથ્યાદૃષ્ટિ વિશેષાધિક છે કેમકે થોડાક
અવિરત સમ્યગ્દૃષ્ટિ આદિ સંજ્ઞી તિર્યચોને છોડીને શેષ બધા તિર્યચ મિથ્યા
દૃષ્ટિ છે તેના શિવાય અન્ય ગતિયોના મિથ્યાદૃષ્ટિ પણ આમા સમિલિત
હોય છે, જેમા અસંખ્યાત નારક પણ હોય છે. તેથી તિર્યચોની અપેક્ષાએ
ચાર ગતિયોના મિથ્યાદૃષ્ટિ વિશેષાધિક છે. (૯૩) મિથ્યાદૃષ્ટિયોની અપેક્ષાએ
અવિરત જીવ વિશેષાધિક છે, કેમકે તેમનામા અવિરત સમ્યગ્દૃષ્ટિ પણ સમા
વિષ્ટ છે. (૯૪) અવિરત જીવોની અપેક્ષાએ સક્રષાય જીવ વિશેષાધિક છે,
કેમકે સક્રષાય જીવોમા દેશવિરત અને દશમ ગુણસ્થાન સુધીના સર્વ વિરત
જીવ પણ સમિલિત હોય છે (૯૫) સક્રષાય જીવોની અપેક્ષાએ છદ્મસ્થ
વિશેષાધિક છે. કેમકે છદ્મસ્થોમા ઉપશાન્ત મોહ આદિ સમિલિત છે (૯૬)

उपशान्तमोहक्षीणमोहादीनामपि समावेशात्, तेभ्योऽपि—‘सयोगी विसेसाहिया’ सयोगिनो विशेषाधिका भवन्ति तत्र सयोगीकेवलिनामपि समावेगात् ९६, तेभ्योऽपि ‘संसारस्था विसेसाहिया’ संसारस्थाः विशेषाधिका भवन्ति तत्र अयोगिकेवलिनामपि प्रक्षेपात् ९७, तेभ्योऽपि ‘सर्वजीवा विसेसाहिया’ सर्व-जीवाः विशेषाधिका भवन्ति तत्र सिद्धानामपि प्रक्षेपात्, ९८, इति, ‘पण्णवणाए भगवईए बहुवत्तव्वयपयं समत्तं’ प्रज्ञापनायां भगवत्यां बहुवत्तव्वयपदं समाप्तम्, ‘तइयं पयं समत्तं’ इति ॥सू. ४०॥

इतिश्री विश्वविख्यात-जगद्बल्लभ-प्रसिद्धवाचकपञ्चदशभाषाकलित-ललित कलापालापकप्रविशुद्गद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक - वादिमानमर्दक-श्री-शाहू छत्रपतिकोल्हापुरराजप्रदत्त - ‘जैनाचार्य’ - पदभूपित-कोल्हापुरराजगुरु-बालब्रह्मचारि जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्री-घासीलाल-व्रतिविरचितायां श्री प्रज्ञापना सूत्रस्य प्रमेयबोधिनीव्याख्यायां व्याख्यायां तृतीयं पदं समाप्तम् ॥३॥

सम्मिलित हैं। (९५) सकषाय जीवों की अपेक्षा छद्मस्थ विशेषाधिक क्योंकि छद्मस्थों में उपशान्तमोह आदि शामिल है। (९६) सकषाय जीवों की अपेक्षा सयोगी विशेषाधिक हैं, क्योंकि इनमें सयोगी केवली भी सम्मिलित हैं। (९७) सयोगियों की अपेक्षा संसारी जीव विशेषाधिक हैं, क्योंकि संसारी जीवों में अयोगी केवली भी हैं। (९८) संसारी जीवों की अपेक्षा सर्वजीव विशेषाधिक हैं, क्योंकि सर्व जीवों में सिद्धों का भी समावेश होता है।

श्री जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्यश्री घासीलाल व्रतिविरचित प्रज्ञापना सूत्र की प्रमेयबोधिनि व्याख्या के हिन्दी अनुवाद में तृतीयपद समाप्त ॥३॥

स कषाय लोवानी अपेक्षाये सयोगी विशेषाधिक छे, केमके तेमनामा स योगी केवली पणु स मिलित छे. (९७) सयोगीनी अपेक्षाये स सारी लव विशेषाधिक छे, केमके स सारी लोवोमा अयोगी केवली पणु छे. (९८) स सारी लोवोनी अपे. क्षाये सर्व लव विशेषाधिक छे, केमके सर्व लोवोमा सिद्धोनेो पणु समावेश थाय छे. श्री जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्यश्री घासीलाल व्रतिविरचित प्रज्ञापना सूत्रनी प्रमेयबोधिनी टीका ना शुभराती भाषांतरभां तृतीय पद समाप्त ॥ ३ ॥

चतुर्थ स्थितिपदम्

मूलम्—नेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं, अपज्जत्त नेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तग नेरइयाणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, रयणप्पभापुढवी नेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं सागरोवमं, अपज्जत्त रयणप्पभा पुढवीनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तरयणप्पभा पुढवीनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं, सक्करप्पभा पुढवीनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं सागरोवमं उक्कोसेणं तिन्नि सागरोवमाइं, अपज्जत्तगसक्करप्पभा पुढवीनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तय सक्करप्पभा पुढवीनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं तिन्नि सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, वालुयप्पभापुढवि नेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं तिन्नि सागरोवमाइं उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं अपज्जत्तयवालुयप्पभापुढवीनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण

वि अंतोमुहुत्तं, पञ्चत्तय बालुयप्पभापुढवीनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं तिन्नि सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सत्तसागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, पंकप्पभापुढवी नेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्त सागरोवमाइं, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइं, अपञ्चत्तय पंकप्पभापुढवीनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पञ्चत्तय पंकप्पभापुढवीनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्त सागरो इइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, धूमप्पभापुढवीनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाइं, अपञ्चत्तय धूमप्पभापुढवीनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पञ्चत्तय धूमप्पभापुढवीनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, तमप्पभापुढवीनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरससागरोवमाइं, उक्कोसेणं बावीसं सागरोवमाइं, अपञ्चत्तय तमप्पभापुढवीनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पञ्चत्तय तमप्पभापुढवीनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं बावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, अहे सत्तमा पुढवीनेरइयाणं भंते !

केवइयं कालं ठिईं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं वावीसं सागरोवमाइं उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं, अपज्जत्तय अहे सत्तमपुढविनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिईं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तग अहे सत्तम पुढविनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिईं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं वावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तणाइं ॥सू. १॥

छाया—नैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दशवर्षसहस्राणि, उत्कृष्टेन त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमानि, अपर्याप्तक नैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम् उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम् पर्याप्तकनैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दशवर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तोनानि, उत्कृष्टेन त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि, अन्तर्मुहूर्तोनानि, रत्नप्रभापृथिवी नैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दशवर्षसहस्राणि, उत्कृष्टेन सागरोपमम्, अपर्याप्तकरत्नप्रभापृथिवीनैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम् उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम् पर्याप्तक रत्नप्रभापृथिवी नैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दशवर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तोनानि, उत्कृष्टेन सागरोपमम् अन्तर्मुहूर्तोनम् शर्कराप्रभापृथिवीनैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन एकं सागरोपमम् उत्कृष्टेन त्रीणि सागरोपमानि, अपर्याप्तकशर्कराप्रभापृथिवीनैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम् उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम् पर्याप्तकशर्कराप्रभापृथिवीनैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन सागरोपमम् अन्तर्मुहूर्तोनम् उत्कृष्टेन त्रीणि सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तोनानि बालुकाप्रभा पृथिवीनैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन त्रीणि सागरोपमाणि उत्कृष्टेन सप्तसागरोपमानि अपर्याप्तक बालुकाप्रभापृथिवीनैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम् उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम् पर्याप्तकबालुकाप्रभापृथिवीनैरयिकाणां भदन्त कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन त्रीणि सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तोनानि उत्कृष्टेन सप्तसागरो-

चतुर्थ स्थितिपद-

शब्दार्थ-(नेरइयाणं) नारकों की (भते !) भगवन् ! (केवइयं) कितने (कालं) काल तक (ठिई) स्थिति (पण्णत्ता) कही है (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं) जघन्य (दसवाससहस्साइं) दश हजार वर्ष (उक्कोसेणं) उत्कृष्ट (तेत्तीसं) तेतीस (सागरोवमाइं) सागरोपम (अपज्जत्त नेरइयाणं भते केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता) अपर्याप्त नारकों की हे भगवन् ! कितने समय तक की स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त (उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त (पज्जत्तग नेरइयाणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता) पर्याप्तक नारकों की कितने समय तक की स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त दश हजार वर्ष तक (उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइ) उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त कम तेतीस सागरोपम तक ।

(रयणप्पभा पुढवीनेरइयाणं भते !) हे वन् ! रत्नप्रभा पृथिवी के नारको की (केवइयं कालं) कितने काल तक (ठिई पण्णत्ता) स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं दसवा सहस्साइं) जघन्य दस हजार वर्ष (उक्कोसेणं एगं सागरो) उत्कृष्ट एक सागरो (अपज्जत्तरयणप्पभा पुढवीनेरइयाणं) अपर्याप्त रत्नप्रभा पृथिवी के

त्रोथु स्थिति पद

शब्दार्थ-(नेरइयाणं) नारकोनी (भंते) भगवन् (केवइयं) केटला (कालं) काण सुधी (ठिई) स्थिति (पण्णत्ता) कडी छे (गोयमा) हे गौतम (जहण्णेणं) जघन्य (दसवाससहस्साइं) दश हजार वर्ष सुधी (उक्कोसेण) उत्कृष्ट (तेत्तीस) तेतीस (सागरोवमाइ) सागरोपम (अपज्जत्त नेरइयाण भंते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता) अपर्याप्त नारकोनी हे भगवन् ! केटला समय सुधी स्थिति कडेली छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं अंतो मुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त (उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) उत्कृष्टथी पथु अन्तर्मुहूर्त्त (पज्जत्तग नेरइयाणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?) पर्याप्त नारकोनी केटला समय सुधीनी स्थिति कडी छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त ओछा तेतीस सागरोपम सुधी

(रयणप्पभा पुढवी नेरइयाणं भंते !) भगवन् ! रत्नप्रभा पृथ्वीना नारकोनी (केवइयं कालं) केटला काण सुधी (ठिई पण्णत्ता) स्थिति कडी छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण दसवाससहस्साइं) जघन्य दश हजार वर्ष (उक्कोसेण एगं सागरोवमं) उत्कृष्ट एक सागरोपम (अपज्जत्ता रणयप्पभा पुढवी नेरइयाण)

नारकों की (भंते) हे भगवन् ! (केवइयं कालं) कितने काल तक (ठिई पण्णत्ता) स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्य अन्तमुहुत्तं (उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) उत्कृष्ट भी अन्तमुहुत्तं (पज्जत्तरयणप्पभा पुढवी नेरइयाणं) पर्याप्त रत्नप्रभा पृथिवी के नारकों की (भंते) हे भगवन् ! (केवइयं कालं) कितने काल तक (ठिई पण्णत्ता ?) स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तमुहुत्तं कम दश हजार वर्ष (उक्कोसेणं सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं) उत्कृष्ट अन्तमुहुत्तं कम एक सागरोवम तक ।

(सक्करप्पभा पुढवी नेरइयाणं) शर्कराप्रभा पृथिवी के नारकों की (भंते) हे भगवन् ! (केवइयं कालं) कितने काल तक (ठिई पण्णत्ता) स्थिति कही है ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं सागरोवम) जघन्य एक सागरोपम (उक्कोसेणं तिन्नि सागरोवमाइं) उत्कृष्ट तीन सागरोपम (अपज्जत्तग सक्करप्पभा पुढवीनेरइयाणं) अपर्याप्त शर्करा प्रभा के नारकों की (भंते) हे भगवन् ! (केवइयं कालं) कितने काल तक (ठिई पण्णत्ता) स्थिति कही है ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य अन्तमुहुत्तं, उत्कृष्ट भी अन्तमुहुत्तं (पज्जत्तय सक्करप्पभा पुढवीनेरइयाणं) पर्याप्त शर्करा-

अपर्याप्त रत्नप्रभा पृथ्वीना नारकोनी (भंते) भगवन् ! (केवइयं काल) डेटला काण सुधी (ठिई पण्णत्ता) स्थिति कही छे ? (गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्य अन्तमुहुत्तं (उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) उत्कृष्टथी पण्ण अन्तमुहुत्तं (पज्जत्तरयणप्पभा पुढवी नेरइयाण) पर्याप्त रत्नप्रभा पृथिवीना नारकोनी (भंते) भगवन् ! (केवइयं कालं) डेटला समथ सुधी (ठिई पण्णत्ता) स्थिति कही छे (गोयमा) डे गौतम ! (जहण्णेण दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तमुहुत्तं ओछा दश हजार वर्ष (उक्कोसेण सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं) उत्कृष्ट अन्तमुहुत्तं ओछा ओक सागरोपम सुधी

(सक्करप्पभा पुढवी नेरइयाण) शर्कराप्रभा पृथ्वीना नारकोनी (भंते) भगवन् ! (केवइयं कालं) डेटला समथ सुधी (ठिई पण्णत्ता) स्थिति कही छे ? (गोयमा) डे गौतम ! (जहण्णेण सागरोवम) जघन्य ओक सागरोपम (उक्कोसेण तिन्नि सागरोवमाइं) उत्कृष्ट त्रय सागरोपम (अपज्जत्तग सक्करप्पभा पुढवीनेरइयाण) अपर्याप्त शर्कराप्रभा नारकोनी (भंते) भगवन् ! (केवइयं काल) डेटला समथ सुधी (ठिई पण्णत्ता) स्थिति कही छे ? (गोयमा) डे गौतम ? (जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य अन्तमुहुत्तं उत्कृष्टथी पण्ण अन्तमुहुत्तं

प्रभा पृथिवी के नारकों की (भंते) भगवन् ! (केवइयं कालं) कितने काल तक (ठिई पणत्ता) स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं सागरोवमं अतोमुहुत्तुणं) जघन्य अन्तमुहुत्तं कम एक सागरोपम की (उक्कोसेणं तिन्नि सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तुणाइ) उत्कृष्ट अन्तमुहुत्तं कम तीन सागरोपम की ।

(वालुयप्पभा पुढवीनेरइयाणं) वालुकाप्रभा पृथ्वी के नारकों की (भंते) हे भगवन् ! (केवइयं कालं) कितने काल तक (ठिई पणत्ता) स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं तिन्नि सागरोवमाइ) जघन्य तीन सागरोपम (उक्कोसेण सत्त सागरोवमाइ) उत्कृष्ट सात सागरोपम (अपज्जत्त य वालुयप्पभा पुढवीनेरइयाणं) अपर्याप्त वालुकाप्रभा पृथ्वी के नारकों की (भंते) हे भगवन् ! (केवइयं कालं) कितने काल तक (ठिई पणत्ता) स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं) जघन्य अन्तमुहुत्तं (उक्कोसेणं वि अतोमुहुत्तं) उत्कृष्ट भी अन्तमुहुत्तं (पज्जत्तय वालुयप्पभा पुढवीनेरइयाणं) पर्याप्त वालुकाप्रभा पृथ्वी के नारकों की (भंते) भगवन् ! (केवइयं कालं) ठिई पणत्ता) कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा) गौतम ! (जहन्नेणं तिन्नि सागरोवमाइं) जघन्य तीन सागरोपम (अंतोमुहुत्तुणाइं)

(पज्जत्तय सक्करप्पभा पुढवी नेरइयाणं) पर्याप्त शर्कराप्रभा पृथ्वीना नारकेनी (भंते) भगवन् ! (केवइयं कालं) डेटला काण सुधी (ठिई पणत्ता) स्थिति कही छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण सागरोवम अतो मुहुत्तुणं) जघन्य अतमुहुत्तं ओछा ओक सागरोपमनी (उक्कोसेण तिन्नि सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तुणाइ) उत्कृष्ट अतमुहुत्तं ओछा त्रयु सागरोपमनी छे

(वालुयप्पभा पुढवी नेरइयाणं) वालुकाप्रभा पृथ्वीना नारकेनी (भंते) हे भगवन् ! (केवइयं कालं) डेटला समथ सुधी (ठिई पणत्ता) स्थिति कही छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण तिन्नि सागरोवमाइं) जघन्य त्रयु सागरोपम (उक्कोसेण सत्त सागरोवमाइ) उत्कृष्ट सात सागरोपम (अपज्जत्तय वालुयप्पभा पुढवी नेरइयाणं) अपर्याप्त वालुकाप्रभा पृथ्वीना नारकेनी (भंते) भगवन् ! (केवइयं कालं) डेटला काण सुधी (ठिई पणत्ता) स्थिति कही छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण अतोमुहुत्तं) जघन्य अन्तमुहुत्तं (उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) उत्कृष्ट भी त्रयु अन्तमुहुत्तं (पज्जत्तय वालुयप्पभा पुढवी नेरइयाणं) पर्याप्त वालुकाप्रभा पृथ्वीना नारकेनी (भंते) भगवन् ! (केवइयं कालं) डेटला काण सुधी स्थिति कही छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण तिन्नि

पमाणि अन्तर्मुहूर्तो नानि, पङ्कप्रभा पृथिवी नैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन सप्तसागरोपमाणि, उत्कृष्टेन दश सागरोपमाणि, अपर्याप्तकपङ्कप्रभा पृथिवी नैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येनापि अन्तर्मुहूर्तम् उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम् पर्याप्तकपङ्कप्रभा पृथिवीनैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम !

अन्तर्मुहूर्त्तं (उक्कोसेणं सप्तसागरोवमाहं) उत्कृष्ट सात सागरोपम (अंतोमुहुत्तूणाहं) अन्तर्मुहूर्त्तं कम ।

(पंकप्पभा पुढवीनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) हे भगवन् ! पंकप्रभा पृथ्वी के नारकों की वि ने काल तक स्थिति कही गई है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं सत्त सागरोवमाहं) जघन्य सात सागरो (उक्कोसेणं दस सागरोवमाहं) उत्कृष्ट दश सागरो (अपज्जत्त य पंकप्पभा पुढवीनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) अपर्याप्त पंकप्रभा पृथ्वी के नारकों की भगवन् ! कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त्तं, उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्तं (पज्जत्तय पंकप्पभा पुढवीनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) पर्याप्त पंकप्रभा पृथ्वी के नारकों की भगवन् ! कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं सत्त सागरोवमाहं अंतोमुहुत्तूणाहं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं कम सात सागरोपम (उक्कोसेणं दससागरोवमाहं अंतोमुहुत्तूणाहं) उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तं कम दस सागरोपम ।

सागरोवमाहं जघन्य त्रय सागरोपम (अंतोमुहुत्तूणाहं) अन्तर्मुहूर्त्तं ओछा

(पंकप्पभा पुढवीनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता) छे लगवन् ! पंकप्रभा पृथ्वीना नारकोनी डेटला काण सुधी स्थिति कडेली छे ? (गोयमा !) गौतम (जहण्णेण सत्तसागरोवमाहं) जघन्य सात सागरोपम (उक्कोसेण दस सागरोपमाहं) उत्कृष्ट दश सागरोपम (अपज्जत्तय पंकप्पभा पुढवी नेरइयाण भंते केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) अपर्याप्तक पंकप्रभा पृथ्वीना नारकोनी लगवन् डेटला समय सुधी स्थिति कडी छे ? (गोयमा ! जहण्णेण वि अतो मुहुत्तं उक्कोसेण वि अतोमुहुत्तं) जघन्यथी पण्ण अन्तर्मुहूर्त्तं, उत्कृष्टथी पण्ण अन्तर्मुहूर्त्तं (पज्जत्तय पंकप्पभा पुढवी नेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) पर्याप्त पंकप्रभा पृथ्वीना नारकोनी छे लगवन् ! डेटला काण सुधी स्थिति कडी छे ? (गोयमा जहण्णेण सत्त सागरोपमाहं अंतोमुहुत्तूणाहं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं ओछा सात सागरोपम (उक्कोसेण दस सागरोपमाहं अंतोमुहुत्तूणाहं) उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तं

जघन्येन सप्तसागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि उत्कृष्टेन दश सागरोपमानि अन्तर्मुहूर्तानानि, धूमप्रभा पृथिवीनैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दशसागरोपमाणि, उत्कृष्टेन सप्तदशसागरोपमाणि, अपर्याप्तकधूमप्रभापृथिवीनैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येनापि अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकधूमप्रभापृथिवीनैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दशसागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन सप्तदश सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि, तमःप्रभापृथिवी नैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः

(धूमप्पभा पुढवीनेरइयाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) धूमप्रभा पृथिवी के नारकों की भगवन् ! कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं दस सागरोवमाइ उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाइं) जघन्य दस गरोपम, उत्कृष्ट सतरह सागरोपम (अपज्जत्तय धूमप्पभा पुढवीनेरइयाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) अपर्याप्त धूमप्रभा पृथ्वी के नारकों की भगवन् ! कितने काल की स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं) जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त्त, उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त (पज्जत्तग धूमप्पभा पुढवीनेरइयाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) पर्याप्तक धूमप्रभा पृथ्वी के नारकों की भगवन् ! कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं दस सागरोवमाइ अतोसुहुत्तूणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त कम दस सागरोपम (उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाइ अंतोसुहुत्तूणाइ) उत्कृष्ट

अंहुत्तं इम दश सागरोपमनी छ

(धूमप्पभा पुढवी नेरइयाण भते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता) लगवन् । धूमप्रभा पृथ्वीना नारकेनी डेटका काण सुधी स्थिति क्खी छे ? (गोयमा) हे गौतम (जहण्णेण दस सागरोवमाइ उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाइं) जघन्य दश सागरोपम, उत्कृष्ट सत्तर सागरोपम (अपज्जत्तय धूमप्पभा पुढवी नेरइयाण भते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) अपर्याप्त धूमप्रभा पृथ्वीना नारकेनी लगवन् डेटका काण सुधी स्थिति क्खी छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं) जघन्यनी पण्ण अन्तर्मुहूर्त्त, उत्कृष्ट पण्ण अन्तर्मुहूर्त्त (पज्जत्तग धूमप्पभा पुढवी नेरइयाण भते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) पर्याप्तक धूमप्रभा पृथ्वीना नारकेनी लगवन् । डेटका काणनी स्थिति क्खी छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण दस सागरोवमाइ अतोसुहुत्तूणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त आशा दश सागरोपम (उक्कोसेण सत्तरससागरोवमाइ अंतो-

प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन सप्तदशसागरोपमाणि, उत्कृष्टेन द्वाविंशतिः सागरोपमाणि, अपर्याप्तक तमःप्रभापृथिवी नैरयिकाणां भदन्त ! क्रियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येनापि अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकतमःप्रभापृथिवी नैरयिकाणाम् भदन्त ! क्रियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन सप्तदशसागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन द्वाविंशतिः

अन्तर्मुहूर्तं कम सतरह सागरोपम की है ।

(तमप्पभा पुढवीनेरइयाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! तमःप्रभा पृथ्वी के नारकों की कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं सत्तरससागरोवमाइ, उक्कोसेणं वावीसं सागरोवमाइ) जघन्य सतरह सागरोपम, उत्कृष्ट बाईस सागरोपम (अपज्जत्तय तमप्पभा पुढवीनेरइयाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! अपर्याप्त तमःप्रभा पृथिवी के नारकों की कितने काल तक स्थिति कही गई है ? (गोयमा) हे गौतम (जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी अन्तर्मुहूर्तं उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्तं (पज्जत्तग तमप्पभा पुढवीनेरइयाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता) पर्याप्तक तमःप्रभा पृथ्वी के नारकों की भगवन् ! कितने काल तक स्थिति कही ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं सत्तरस सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं कम सतरहसागरोपम (उक्कोसेणं वावीस सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ)

मुहुत्तूणाइ) उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं ओछा सत्तर सागरोपम

(तमप्पभा पुढवीनेरइयाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता) हे भगवान् तमःप्रभा पृथ्वीना नारकोनी डेटला ङण सुधी स्थिति छडेदी छे ? (गोयमा ! हे गौतम ! (जहण्णेण सत्तरस सागरोवमाइ उक्कोसेण वावीसं सागरोवमाइ) जघन्य, सत्तर सागरोपम, अने उत्कृष्ट पावीस सागरोपम (अपज्जत्तय तमप्पभा पुढवी नेरइयाण भते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! अपर्याप्त तमःप्रभा पृथ्वीना नारकोनी डेटला ङण सुधी स्थिति छडेवाओदी छे ? (गोयमा ! हे गौतम ! (जहण्णेणं वि अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य पथु अन्तर्मुहूर्तं उत्कृष्ट पथु अन्तर्मुहूर्तं (पज्जत्तग तमप्पभा पुढवी नेरइयाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता) पर्याप्तक तमःप्रभा पृथ्वीना नारकोनी भगवन् ! डेटला ङण सुधी स्थिति छडी छे ? (गोयमा ! हे गौतम ! (जहण्णेण सत्तरस सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं ओछा सत्तर सागरोपम (उक्कोसेण वावीसं सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ) उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं ओछा पावीस सागरोपम

सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि, अधः सप्तमपृथिवी नैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन द्वाविंशतिः सागरोपमाणि, उत्कृष्टेन त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि, अपर्याप्तकाधःसप्तमपृथिवीनैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येनापि अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकाधःसप्तमपृथिवीनैरयिकाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन द्वाविंशतिः सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि ।

उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम बाईस सागरोपम की है ।

(अहे सत्तमापुढवीनेरइयाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) सातवीं पृथिवी के नारकों को भगवन् ! कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं बावीसं सागरोवमाइ उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइ) जघन्य बाईस सागरोपम, उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम (अपज्जत्तग अहे सत्तमापुढवीनेरइयाणं) अपर्याप्तक सातवीं पृथ्वी के नारकों की (भते !) भगवन् ! (केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) कितने काल की स्थिति कही कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त (पज्जत्तग अहे सत्तमापुढवीनेरइयाणं) पर्याप्तक सातवीं पृथ्वी के नारकों की (भते) भगवन् ! (केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) कितने काल की स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं बाईसं सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम बाईस सागरोपम (उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइ)

(अहे सत्तमापुढवीनेरइयाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) सातवीं पृथ्वीना नारकोनी केटला काण सुधी स्थिति कही छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं बावीसं सागरोवमाइ, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइ) जघन्य थावीस सागरोपम, उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम (अपज्जत्तगअहे सत्तमापुढवीनेरइयाणं) अपर्याप्त सातवीं पृथ्वीना नारकोनी (भते !) भगवन् (केवइयं कालं ठिई पणत्ता) केटला काणनी स्थिति कही छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य पथु अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट पथु अन्तर्मुहूर्त (पज्जत्तग अहे सत्तमापुढवीनेरइयाणं) पर्याप्त सातवीं पृथ्वीना नारकोनी (भते !) भगवन् ! (केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) केटला काणनी स्थिति कही छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं बाईस सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओछा थावीस सागरोपम (उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइ)

ટીકા-અત્રેદ વોધ્યમ્-અપર્યાપ્તકાવસ્થાયાં નૈરયિકાણામન્તમુહૂર્તમાત્રં સ્થિતિ-
સદ્ભાવેન પર્યાપ્તકાવસ્થાયામ્ અન્તમુહૂર્ત યૂનસ્થિતિઃ સર્વત્રૈવ જઘન્યેન ઉત્કૃષ્ટેન
ચ વોધ્યા, અન્યત્ સર્વં સ્પષ્ટમેવ વર્તતે ઇતિ, શેષ વ્યાખ્યા નિગોદસિદ્ધા ॥૬૧॥

અતોમુહુત્તુગાહ) ઉત્કૃષ્ટ અન્તમુહૂર્ત કમ તેત્રીસ સાગરોપમ કી હૈ ।

ટીકાર્થ-પ્રકૃત સૂત્ર મેં સાતોં નરક ભૂમિયોં મેં રહને વાલે સામાન્ય નારકોં કી ઓર ફિર અપર્યાપ્તક તથા પર્યાપ્તક નારકોં કી સ્થિતિ પૃથક્-પૃથક્ પ્રરૂપિત કી ગઈ હૈ । ઇસમેં ધ્યાન દેને યોગ્ય યહ હૈ કિ સમો પૃથિવ્યોં કે અપર્યાપ્ત નારકોં કી સ્થિતિ અન્તમુહૂર્ત હી હૈ, કયોંકિ અપર્યાપ્તક અવસ્થા અન્તમુહૂર્ત તક હી રહતી હૈ, ઇસસે અધિક નહીં । અતએવ સામાન્ય સ્થિતિ મેં સે અપર્યાપ્ત નારકોં કી અન્તમુહૂર્ત કાલ કી સ્થિતિ કો કમ કર દેને સે શેષ સ્થિતિ પર્યાપ્તકોં કી રહ જાતી હૈ । જૈસે-પ્રથમ પૃથ્વી મેં સામાન્ય સ્થિતિ જઘન્ય દસ હજાર વર્ષ ઓર ઉત્કૃષ્ટ એક સાગરોપમ કી હૈ' ઇસમેં સે અપર્યાપ્ત દશા કી અન્તમુહૂર્ત કી સ્થિતિ કમ કર દેને પર પર્યાપ્ત અવસ્થા કી જઘન્ય સ્થિતિ અન્તમુહૂર્ત કમ દસ સાગરોપમ કી ઓર ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અન્તમુહૂર્ત કમ એક સાગરોપમ કી હોતી હૈ । આગે ભી સર્વત્ર ઇસી પ્રકાર સમજના ચાહિએ ।

ઇસ સંબંધ મેં દૂસરી વાત ધ્યાન દેને યોગ્ય યહ હૈ કિ પહેલે-પહેલે કી ભૂમિ મેં જો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ હૈ, વહી અગલી ભૂમિ મેં જઘન્ય હૈ ।

અતોમુહુત્તુગાહ) ઉત્કૃષ્ટ અન્તમુહૂર્ત ઓછા તેત્રીસ સાગરોપમની છે.

ટીકાર્થ-પ્રકૃત સૂત્રમા સાતે નરકભૂમિયોમા રહેનારા સામાન્ય નારકોની અને વળી અપર્યાપ્તક તથા પર્યાપ્તક નારકોની સ્થિતિ ભિન્ન ભિન્ન રૂપે પ્રરૂપિત કરેલી છે. તેમા ધ્યાન દેવા યોગ્ય એ છે કે બધી પૃથ્વીયોના અપર્યાપ્ત નારકોની સ્થિતિ અન્તમુહૂર્ત જ છે કેમકે અપર્યાપ્તક અવસ્થા અન્તમુહૂર્ત સુધીની જ રહે છે તેથી અધિક નથી હોતી. તેથી જ સામાન્ય સ્થિતિમાથી અપર્યાપ્ત નારકોના અન્તમુહૂર્તના કાળની સ્થિતિને ઘટાડવાથી શેષ સ્થિતિ પર્યાપ્તકોની રહે છે જેમકે પ્રથમ પૃથ્વીમા સામાન્ય સ્થિતિ જઘન્ય દશ હજાર વર્ષ અને ઉત્કૃષ્ટ એક સાગરોપમની છે તેમાથી અપર્યાપ્ત દશાની અન્તમુહૂર્તની સ્થિતિ ઓછી કરી નાખવાથી પર્યાપ્ત અવસ્થાની જઘન્ય સ્થિતિ અન્તમુહૂર્ત ઓછા દશ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અન્તમુહૂર્ત ઓછા એક સાગરોપમની હોય છે. આગળ પણ બધે આ રીતે સમજવાનું છે

આ સમ્બન્ધમા બીજી વાત ધ્યાન દેવા યોગ્ય એ છે-કે પહેલા, પહેલાની ભૂમિમા જે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છે, તેજ આગળની ભૂમિમા જઘન્ય છે,

देवस्थिति वक्तव्यता—

मूलम्—देवाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा !
 जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं,
 अपज्जत्तयदेवाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा !
 जहण्णेणवि अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं पज्जत्तय देवाणं
 भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस-
 वाससईस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं,
 अंतोमुहुत्तूणाइं देवीणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?
 गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं उक्कोसेणं पणपन्नं पलि-
 ओवमाइं अपज्जत्तय देवीणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?
 गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं पज्ज-
 त्तय देवीणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जह-
 ण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं उक्कोसेणं पणपन्नं पलि-
 ओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं भवणवासीणं देवाणं भंते ! केवइयं
 कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं उक्को-
 सेणं साइरेणं सागरोवमं अपज्जत्तयभवणवासीणं भंते ! देवाणं
 केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं
 उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयभवणवासीणं देवाणं भंते !
 केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससह-
 स्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं साइरेणं सागरोवमं अंतोमुहु-
 त्तूणं, भवणवासिणीणं भंते ! देवीणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?

जैसे—रत्नप्रभा पृथ्वी में उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम है तो दूसरी
 शर्कराप्रभा में वही जघन्य स्थिति बतलाई गई है । शेष अर्थ शब्दार्थ
 से ही समझा जा सकता है ॥१॥

जैसे रत्नप्रभा पृथ्वीमा उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम छे तो भील शर्करा
 प्रभामा तेज जघन्यस्थिति अतावेदी छे, शेष अर्थ शब्दार्थधी ज समझथ
 लथ छे ॥ १ ॥

गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं अद्धपंचमाइं
 पलिओवमाइं, अपज्जत्तयभवणवासिणीणं देवीणं भंते ! केवइयं
 कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्को-
 सेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तियाणं भंते ! भवणवासिणीणं देवीणं
 केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवास
 सहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अद्धपंचमाइं पलिओवमाइं
 अंतोमुहुत्तूणाइं, असुरकुमाराणं भंते ! देवाणं केवइयं कालं
 ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्को-
 सेणं साइरेगं सागरोवमं, अपज्जत्तयअसुरकुमाराणं भंते !
 देवाणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं वि
 अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयअसुरकुमारा णं
 भंते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं
 दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं साइरेगं साग-
 रोवमं अंतोमुहुत्तूणं, असुरकुमारीणं भंते ! देवीणं केवइयं
 कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं,
 सेणं अद्धपंचमाइं पलिओवमाइं, अपज्जत्तियाणं असुर-
 मारी णं भंते ! देवीणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा !
 जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तियाणं
 असुरकुमारीणं देवीणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?
 गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्को
 सेणं अद्धपंचमाइं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, नागकुमारा-
 णं देवाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जह-
 ण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं दो पलिओवमाइं देसू-
 णाइं, अपज्जत्तयाणं भंते ! नागकुमाराणं केवइयं कालं ठिई
 पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि

अंतोमुहुत्तं, पञ्जत्तयाणं भंते ! नागकुमाराणं देवाणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं दो पलिओवमाइं देसूणाइं अंतो-मुहुत्तूणाइं, नागकुमारीणं भंते ! देवीणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं उक्कोसेणं देसूणं पलिओवमं, अपज्जत्तियाणं भंते ! नागकुमारीणं देवीणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतो-मुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पञ्जत्तियाणं भंते ! नाग-कुमारीणं देवीणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जह-ण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं देसूणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, सुवण्णकुमाराणं भंते देवाणं केव-इयं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं उक्कोसेणं दो पलिओवमाइं देसूणाइं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतो हुत्तं, पञ्जत्तयाणं पुच्छा ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतो-मुहुत्तूणाइं उक्कोसेण दो पलिओवमाइं देसूणाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, सुवण्णकुमारीणं देवीणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं दसवास-हस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं देसूणं पलिओवमं, अपज्ज-त्तियाणं पुच्छा ? गोयमा ! जहण्णेणं वि अंतो हुत्तं उक्कोसेण अंतोमुहुत्तं' वि पञ्जत्तियाणं पुच्छा ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवास-सहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं उक्कोसेणं देसूणं पलिओवमं अंतो-मुहुत्तूणं । एवं एएणं अभिलावेणं ओहिय अपज्जत्तय पञ्जत्तय-सुत्तत्तय देवाण य देवीणय नेयद्वं जाव थणियकुमाराणं जहा नागकुमाराणं ॥ सू०२ ॥

छाया-देवाना भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दशवर्षसहस्राणि, उत्कृष्टेन त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि, अपर्याप्तकदेवानां भदन्त !

क्रियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येनापि अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकदेवानां भदन्त ! क्रियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दशवर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि, देवीनां भदन्त ! क्रियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम !

देवों की स्थिति की वक्तव्यता

शब्दार्थ—(देवाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?) भगवन् ! देवों की कितने काल स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेण दस-वाससहस्साइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइ) गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष की, उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम की ।

(अपज्जत्ता य देवाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?) भगवन् ! अपर्याप्तक देवों की कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा जहण्णेणं वि अतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त तक (पज्जत्ताग देवाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?) भगवन् ! पर्याप्तक देवों की स्थिति कितने काल तक कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं दसवास सहस्साइ अतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइ अंतो मुहुत्तूणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम दस हजार वर्ष की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम तेतीस सागरोपम की ।

(देवीणं भते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?) भगवन् ! देवियों

देवीनी स्थितिनी वक्तव्यता

शब्दार्थ—(देवाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! देवीनी डेटला सभय सुधी स्थिति कडेवी छे ? (गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साइं उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइ) हे गौतम ! जघन्य दश हजार वर्षनी अने उत्कृष्ट तेतीस सागरोपमनी

(अपज्जत्ताय देवाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता) हे भगवन् ! अपर्याप्तक देवीनी डेटला वर्षी सुधीनी स्थिति कडी छे ? (गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्यथी पण्ण अन्तर्मुहूर्त सुधी अने उत्कृष्टथी पण्ण अन्तर्मुहूर्त सुधी (पज्जत्ताग देवाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?) भगवन् ! पर्याप्तक देवीनी स्थिति डेटला काण सुधी कडी छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं दसवाससहस्साइ अतोमुहुत्तूणाइ उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाइ अतोमुहुत्तूणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओछा दस हजार वर्षनी उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओछा तेतीस सागरोपमनी

(देवीणं भते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?) भगवन् ! देवियोंनी स्थिति

जघन्येन दशवर्षसहस्राणि, उत्कृष्टेन पञ्चपञ्चाशत् पत्योपमानि, अपर्याप्तक
देवीनां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिं प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येनापि अन्तर्मुहूर्त-
र्तम्, उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकदेवीनां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः
प्र । ? गौतम ! जघन्येन दशवर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तोनानि, उत्कृष्टेन पंच-
पञ्चाशत् पत्योपमानि अन्तर्मुहूर्तोनानि, भवनवासीनां देवानां भदन्त ! कियन्तं
कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दशवर्षसहस्राणि, उत्कृष्टेन सातिरेकं
सागरोपमम्, अपर्याप्तकभवनवासिनां भदन्त ! देवानां कियन्तं कालं स्थितिः

की स्थिति कितने काल तक कही है ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जह-
ण्णेणं दसवाससहस्साइं) जघन्य दस हजार वर्ष की (उक्कोसेणं
पणपन्नं पलिओवमाइं) उत्कृष्ट पचपन पत्योपम की (अपज्जत्त य
देवीणं भंते ! केवइयं कालं ठिईं पणत्ता ?) अपर्याप्तक देवियों की
हे भगवन् ! कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम !
(जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी अन्त-
र्मुहूर्तं, उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्तं की । (पज्जत्तय देवीणं भंते ! केवइयं
कालं ठिईं पणत्ता ?) पर्याप्तक देवियों की भगवन् ! कितने काल तक
स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं दसवाससहस्साइं
अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं कम दस हजार वर्ष की (उक्कोसेणं
पणपन्नं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) अन्तर्मुहूर्तं कम उत्कृष्ट पच-
पन पत्योपम की ।

(भवणवासीणं देवाणं भंते ! केवइयं कालं ठिईं पणत्ता ?) हे

डेटला सभय सुधी कडेदी छे ? (गोयमा !) हे गौतम (जहण्णेणं दसवाससह-
स्साइं) जघन्य दस हजार वर्षनी छे. (उक्कोसेण पणपन्नपलिओवमाइं)
उत्कृष्ट पचापन पत्योपमनी (अपज्जत्तय देवीण भंते ! केवइय कालं ठिईं
पणत्ता ?) अपर्याप्तक देवियोनी हे भगवन् ! डेटला काण सुधी स्थिति
कडी छे ? (गोयमा !) गौतम ! (जहण्णेण वि अतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतो-
मुहुत्तं) जघन्य पण्ण अन्तर्मुहूर्तं अने उत्कृष्ट पण्ण अन्तर्मुहूर्तनी (पज्जत्तय
देवीण भते ! केवइयं कालं ठिईं पणत्ता ?) पर्याप्तक देवियोनी भगवन् ! डेटला
सभय सुधी स्थिति कडी छे ? (गोयमा) गौतम ! (जहण्णेण दसवाससहस्साइं
अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं ओछा दस हजार वर्षनी (उक्कोसेण पण-
पन्नपलिओवमाइं अतोमुहुत्तूणाइं) अन्तर्मुहूर्तं ओछा उत्कृष्ट पचापन पत्योपमनी

(भवणवासीण देवाण भते ! केवइय कालं ठिईं पणत्ता ? भगवन् ! भवन
वासी देवोनी डेटला सभय सुधी स्थिति कडी छे ? (गोयमा जहण्णेण दस

प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येनापि अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तक भवनवासिनां देवानां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ? जघन्येन दशवर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन सातिरेकं सागरोपमम् अन्तर्मुहूर्तानम्, भवनवासिनीनां भदन्त ! देवीनां कियन्त कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम !

भगवन् ! भवनवासी देवों की कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं साइरेगं सागरोवमं) हे गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष की, उत्कृष्ट कुछ अधिक एक सागरोपम की (अपज्जत्तय भवणवासीणं भंते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) अपर्याप्तक भवनवासी देवों की भगवन् ! कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त (पज्जत्तय भवणवासीणं देवाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) पर्याप्तक भवनवासी देवों की भगवन् ! कितने काल की स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तणाइं, उक्कोसेणं साइरेगं सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम दस हजार वर्ष, उत्कृष्ट कुछ अधिक सागरोपम में अन्तर्मुहूर्त कम ।

(भवणवासिणीणं भंते ! देवीणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! भवनवासिनी देवियों की स्थिति कितने काल तक कही है ?

वाससहस्साइ उक्कोसेण साइरेगं सागरोवमं) हे गौतम ! जघन्य दश हजार वर्षानी उत्कृष्ट कुछ विशेष अेक सागरोपमनी (अपज्जत्तय भवणवासीण भंते ! देवाण केवइय कालं ठिई पणत्ता) अपर्याप्तक भवनवासी देवीनी लगवन् ! केटवा काण सुधी स्थिति कही छे ? (गोयमा !) हे गौतम (जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य पथु अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट पथु अन्तर्मुहूर्त (पज्जत्तय भवणवासिण देवाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) पर्याप्तक भवनवासी देवीनी लगवन् ! केटवा काणनी स्थिति कही छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं उक्कोसेण सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओछा दश हजार वर्ष, उत्कृष्ट कुछ विशेष सागरोपममा अन्तर्मुहूर्त ओछा छे

(भवणवासिणीणं भंते ! देवीण केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) लगवन् ! भवनवासिनी देवियों की स्थिति केटवा समय सुधी कही छे ? (गोयमा ! जह

जघन्येन दशवर्षसहस्राणि, उत्कृष्टेन अर्धपञ्चमानि पल्योपमानि, अपर्याप्तक-
भवनवासिनीनां देवीनां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम !
जघन्येनापि अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तिकानां भदन्त !
भवनवासिनीनां देवीनां कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दश-
वर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन अर्धपञ्चमानि पल्योपमानि अन्तर्मुहूर्तौ-
नानि, असुरकुमाराणां भंते ! देवानां कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम !

(गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं अद्धपंचमाइं
पलिओवमाइं) हे गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष, उत्कृष्ट साढे चार
पल्योपम (अपज्जत्तय भवणवासिणीणं देवीणं भंते ! केवइयं कालं
ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! अपर्याप्त भवनवासिनी देवियों की स्थिति
कितने काल तक कही है ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त्त,
उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त (पज्जत्तियाणं भंते ! भवणवासिणीणं देवीणं
केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! पर्याप्त भवनवासिनी देवियों
की कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं दसवास
सहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अद्ध पंचमाइं पलिओवमाइं)
हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त कम दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट
अन्तर्मुहूर्त्त कम साढे चार पल्योपम की ।

(असुरकुमाराणां भंते ! देवाणां केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) हे
भगवन् ! असुरकुमार देवों की कितने काल की स्थिति कही है ?

ण्णेण दसवाससहस्साइं, उक्कोसेण अद्ध पंचमाइं पलिओवमाइं) हे गौतम !
जघन्य दस हजार वर्ष अने उत्कृष्ट साढे चार पल्योपम (अपज्जत्तय भवण
वासिणीण देवीण भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! अपर्याप्त भव-
नवासिनी देवियों की स्थिति कितने काल तक कही है ? (गोयमा !) हे गौतम
(जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य पञ्च अन्तर्मुहूर्त्त
अने उत्कृष्ट पञ्च अन्तर्मुहूर्त्त (पज्जत्तियाणं भंते ! भवणवासिणीण देवीण केव-
इय कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! पर्याप्त भवनवासिनी देवियों की कितने
काल तक कही है ? (गोयमा !) हे गौतम (जहण्णेणं दसवाससहस्साइं
अंतो मुहुत्तूणाइं उक्कोसेणं अद्ध पंचमाइं पलिओवमाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त
आधा दस हजार वर्ष की अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त आधा साढे चार पल्योपम की ।

(असुरकुमाराण भंते ! देवाणां केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! असु-
रकुमार देवों की कितने काल तक कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं दस

प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येनापि अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तक भवनवासिनां देवानां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दशवर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन सातिरेकं सागरोपमम् अन्तर्मुहूर्तानम्, भवनवासिनीनां भदन्त ! देवीनां कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम !

भगवन् ! भवनवासी देवों की कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं साइरेगं सागरोवमं) हे गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष की, उत्कृष्ट कुछ अधिक एक सागरोपम की (अपज्जत्तय भवणवासीणं भंते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) अपर्याप्तक भवनवासी देवों की भगवन् ! कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त (पज्जत्तय भवणवासीणं देवाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) पर्याप्तक भवनवासी देवों की भगवन् ! कितने काल की स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तणाइं, उक्कोसेणं साइरेगं सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम दस हजार वर्ष, उत्कृष्ट कुछ अधिक सागरोपम में अन्तर्मुहूर्त कम ।

(भवणवासिणीणं भंते ! देवीणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! भवनवासिनी देवियों की स्थिति कितने काल तक कही है ?

वाससहस्साइं उक्कोसेण साइरेगं सागरोवमं) हे गौतम ! जघन्य दश हजार वर्षानी उत्कृष्ट काष्ठक विशेष ओक्क सागरोपमनी (अपज्जत्तय भवणवासीण भंते ! देवाण केवइय कालं ठिई पणत्ता) अपर्याप्तक भवनवासी देवीनी भगवन् ! डेटला काण सुधी स्थिति कही छे ? (गोयमा !) हे गौतम (जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य पणु अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट पणु अन्तर्मुहूर्तं (पज्जत्तय भवणवासिण देवाणं भंते ! केवइय कालं ठिई पणत्ता ?) पर्याप्तक भवनवासी देवीनी भगवन् ! डेटला काणनी स्थिति कही छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं उक्कोसेण सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं ओक्का दश हजार वर्ष, उत्कृष्ट काष्ठक विशेष सागरोपममा अन्तर्मुहूर्तं ओक्का छे.

(भवणवासिणीणं भंते ! देवीण केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! भवनवासिनी देवियों की स्थिति डेटला समथ सुधी कही छे ? (गोयमा ! जह

जघन्येन दशवर्षसहस्राणि, उत्कृष्टेन अर्धपञ्चमानि पत्योपमानि, अपर्याप्तक-
भवनवासिनीनां देवीनां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम !
जघन्येनापि अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तिकानां भदन्त !
भवनवासिनीनां देवीनां कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दश-
वर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन अर्धपञ्चमानि पत्योपमानि अन्तर्मुहूर्तो-
नानि, असुरकुमाराणां भंते ! देवानां कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम !

(गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं अद्धपंचमाइं
पलिओवमाइं) हे गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष, उत्कृष्ट साढे चार
पत्योपम (अपज्जत्तय भवणवासिणीणं देवीणं भंते ! केवइयं कालं
ठिईं पणत्ता ?) भगवन् ! अपर्याप्त भवनवासिनी देवियों की स्थिति
कितने काल तक कही है ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त्त,
उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त (पज्जत्तियाणं भंते ! भवणवासिणीणं देवीणं
केवइयं कालं ठिईं पणत्ता ?) भगवन् ! पर्याप्त भवनवासिनी देवियों
की कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं दसवास
सहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अद्ध पंचमाइं पलिओवमाइं)
हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त का दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट
अन्तर्मुहूर्त्त कम साढे चार पत्योपम की ।

(असुरकुमाराणं भंते ! देवाणं केवइयं कालं ठिईं पणत्ता ?) हे
भगवन् ! असुरकुमार देवों की कितने काल की स्थिति कही है ?

ण्णेण दसवाससहस्साइं, उक्कोसेण अद्ध पंचमाइं पलिओवमाइं) हे गौतम !
जघन्य दस हजार वर्ष अने उत्कृष्ट साढे चार पत्योपम (अपज्जत्तय भवण
वासिणीण देवीणं भंते ! केवइयं कालं ठिईं पणत्ता ?) भगवन् ! अपर्याप्तक भव-
नवासिनी देवियों की स्थिति कितना समय सुधी कड़ी छे ? (गोयमा !) हे गौतम
(जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य पद्य अन्तर्मुहूर्त्त
अने उत्कृष्ट पद्य अन्तर्मुहूर्त्त (पज्जत्तियाणं भंते ! भवणवासिणीण देवीण केव-
इय कालं ठिईं पणत्ता ?) भगवन् ! पर्याप्त भवनवासिनी देवियों की कितना
काण सुधी स्थिति कड़ी छे (गोयमा !) हे गौतम (जहण्णेण दसवाससहस्साइं
अंतोमुहुत्तूणाइं उक्कोसेणं अद्ध पंचमाइं पलिओवमाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त
ओछा दस हजारवर्षनी अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त ओछा साढे चार पत्योपमनी.

(असुरकुमाराणं भंते ! देवाणं केवइयं कालं ठिईं पणत्ता ?) भगवन् ! असु-
रकुमार देवियों की कितना काण सुधी स्थिति कड़ी छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं दस

जघन्येन दशवर्षसहस्राणि, उत्कृष्टेन सातिरेकं सागरोपमम्, अपर्याप्तकासुर
कुमाराणां भदन्त ! देवानाम् कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्ये-
नापि अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन नि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकासुरकुमाराणां भदन्त !
देवानां कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दशवर्षसहस्राणि
अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन सातिरेक सागरोपमम्, अन्तर्मुहूर्तानम् । असुरकुमा-
रीणा भदन्त ! देवीनां कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दश-

(गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइ, उक्कोसेणं साइरेगं सागरो-
वमं) गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष की, उत्कृष्ट कुछ अधिक साग-
रोपम की । (अपज्जत्तय असुरकुमाराणां भते ! देवाणं केवइयं कालं
ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! अपर्याप्त असुरकुमार देवों की कितने काल
की स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण
वि अंतोमुहुत्त) गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट भी अन्त-
र्मुहूर्त की । (पज्जत्तय असुरकुमाराणां भते ! देवाणं केवइयं कालं
ठिई पणत्ता ?) हे भगवन् ! पर्याप्त असुरकुमारों की कितने काल की
स्थिति कही ? (गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइ अंतोमुहुत्तूणाइ
उक्कोसेणं साइरेगं सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं) हे गौतम ! जघन्य अन्त-
र्मुहूर्त कम दस हजार वर्ष की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम एक सागरो-
पम से कुछ अधिक की ।

(असुरकुमाराणां भते ! देवीणां केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) हे
भगवन् ! असुरकुमारी देवियों की कितने काल की स्थिति कही है ?

वाससहस्साइ उक्कोसेण साइरेगं सागरोवमं) हे गौतम ! जघन्य दश हजार
वर्षानी, अने उत्कृष्ट कुछ अधिक सागरोपमनी (अपज्जत्तय असुरकुमाराणां भते !
देवाणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् अपर्याप्त असुरकुमार देवीनी डेटला
डालनी स्थिति कही छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं वि अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं वि अतो-
मुहुत्तं) गौतम ! जघन्य पणु अन्तर्मुहूर्त, अने उत्कृष्ट पणु अन्तर्मुहूर्तानी
(पज्जत्तय असुरकुमाराणां भते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! पर्याप्त
असुरकुमारदेवीनी डेटला काण सुधी स्थिति कही छे ? (गोयमा ! जहण्णेण दस
वाससहस्साइ अंतोमुहुत्तूणाइ उक्कोसेण साइरेगं सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं) हे
गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओछा दश हजार वर्षानी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त
ओछा ओके सागरोपमथी कुछ विशेष छे

(असुरकुमारीणां भते ! देवीणां केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! असुर
कुमारी देवियोंनी डेटला काणनी स्थिति कही छे ? (गोयमा जहण्णेणं दसवास-

वर्षसहस्राणि, उत्कृष्टेन अर्द्धपञ्चमानि पल्योपमानि, अपर्याप्तिकानाम् असुरकुमारीणां भदन्त ! देवीनां कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येनापि अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तिकानाम् असुरकुमारीणां देवीनां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दशवर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन अर्द्धपञ्चमानि पल्योपमानि अन्तर्मुहूर्तानानि, नागकुमाराणां देवानां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? जघन्येन दशवर्ष-

‘गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइ, उक्कोसेणं अद्धपंचमाइं पलिओवमाइं’ हे गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष की, उत्कृष्ट साढे चार पल्योपम की। (अपञ्जत्तियाणं भंते ! असुरकुमारीणं देवीणं केवइयं कालं ठिईं पण्णत्ता ?) भगवन् ! अपर्याप्त असुरकुमारी देवियों की कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेण वि अंतो-मुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पञ्जत्तियाणं असुरकुमारीणं देवीणं भंते ! केवइयं कालं ठिईं पण्णत्ता ?) भगवन् ! पर्याप्त असुरकुमारी देवियों की कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं दसवाससहस्साइ अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अद्धपंचमाइं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य दस हजार वर्ष में अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम ढे चार पल्योपम की।

(नागकुमाराणं देवाणं भंते ! केवइयं कालं ठिईं पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! नागकुमार देवों की कितने काल की स्थिति कही है ?

सहस्साइ, उक्कोसेणं अद्ध पंचमाइं पलिओवमाइं’ हे गौतम ! जघन्य दश हजार वर्षनी उत्कृष्ट साढे चार पल्योपमनी (अपञ्जत्तियाणं भंते ! असुरकुमारीणं देवीणं केवइयं कालं ठिईं पण्णत्ता ?) भगवन् ! अपर्याप्त असुरकुमारी देवियों नी डेटला ङाण सुधी स्थिति कही छे ? (गोयमा जहण्णेणं वि अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य पञ्च अन्तर्मुहूर्तं अने उत्कृष्ट पञ्च अन्तर्मुहूर्तनी (पञ्जत्तियाणं असुरकुमारीणं देवीणं भंते ! केवइयं कालं ठिईं पण्णत्ता ?) भगवन् ! पर्याप्त असुरकुमारी देवियोंनी डेटला ङाण सुधी स्थिति कही छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं उक्कोसेणं अद्धपंचमाइं पलिओवमाइं) जघन्यथी अंतर्मुहूर्तं कम दस हजार वर्षनी अने उत्कृष्टथी अन्तर्मुहूर्तं ओआ साढे चार पल्योपमनी छे

(नागकुमाराणं देवाणं भंते ! केवइयं कालं ठिईं पण्णत्ता) हे भगवन् नागकुमार देवोंनी स्थिति डेटला ङाणनी कहेवामा आवी छे ? (गोयमा !) हे गौतम !

जघन्येन दशवर्षसहस्राणि, उत्कृष्टेन सातिरेकं सागरोपमम्, अपर्याप्तकासुरकुमाराणां भदन्त ! देवानाम् कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येनापि अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन नि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकासुरकुमाराणां भदन्त ! देवानां कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दशवर्षमहस्राणि अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन सातिरेकं सागरोपमम्, अन्तर्मुहूर्तानम् । असुरकुमारीणां भदन्त ! देवीनां कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दश-

(गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइ, उक्कोसेणं साइरेगं सागरोवमं) गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष की, उत्कृष्ट कुछ अधिक सागरोपम की । (अपज्जत्तय असुरकुमाराणं भते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! अपर्याप्त असुरकुमार देवों की कितने काल की स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की । (पज्जत्तय असुरकुमाराणं भते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) हे भगवन् ! पर्याप्त असुरकुमारों की कितने काल की स्थिति कही ? (गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइ अंतोमुहुत्तणाइ उक्कोसेणं साइरेगं सागरोवमं अंतोमुहुत्तणं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम दस हजार वर्ष की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम एक सागरोपम से कुछ अधिक की ।

(असुरकुमाराणं भते ! देवीणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) हे भगवन् ! असुरकुमारी देवियों की कितने काल की स्थिति कही है ?

वाससहस्साइ उक्कोसेण साइरेगं सागरोवमं) हे गौतम ! जघन्य दश हजार वर्षानी, अने उत्कृष्ट कुछ अधिक सागरोपमनी (अपज्जत्तय असुरकुमाराणं भते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् अपर्याप्त असुरकुमार देवीनी डेटला डालनी स्थिति कही छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं वि अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्य पणु अन्तर्मुहूर्त, अने उत्कृष्ट पणु अन्तर्मुहूर्तानी (पज्जत्तय असुरकुमाराणं भते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! पर्याप्त असुरकुमारदेवीनी डेटला डाल सुधी स्थिति कही छे ? (गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साइ अंतोमुहुत्तणाइ उक्कोसेणं साइरेगं सागरोवमं अंतोमुहुत्तणं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओछा दश हजार वर्षानी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओछा ओक सागरोपमधी कुछ विशेष छे

(असुरकुमारीणं भते ! देवीणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! असुरकुमारी देवियों की कितने काल की स्थिति कही छे ? (गोयमा जहण्णेण दसवास-

वर्षसहस्राणि, उत्कृष्टेन अर्द्धपञ्चमानि पल्योपमानि, अपर्याप्तिकानाम् असुरकुमा-
रीणां भदन्त ! देवीनां कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येनापि
अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तिकानाम् असुरकुमारीणां देवीनां
भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दशवर्षसहस्राणि
अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन अर्द्धपञ्चमानि पल्योपमानि अन्तर्मुहूर्तानानि, नाग-
कुमाराणां देवानां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? जघन्येन दशवर्ष-

‘गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं अद्धपंचमाइं
पलिओवमाइं) हे गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष की, उत्कृष्ट साढे
चार पल्योपम की । (अपज्जत्तियाणं भंते ! असुरकुमारीणं देवीणं
केवइयं कालं ठिईं पणत्ता ?) भगवन् ! अपर्याप्त असुरकुमारी देवियों
की कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेण वि अंतो-
मुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त
और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तियाणं असुरकुमारीणं देवीणं
भंते ! केवइयं कालं ठिईं पणत्ता ?) भगवन् ! पर्याप्त असुरकुमारी
देवियों की कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौ !
(जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अद्धपंचमाइं
पलिओवमाइं) अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य दस हजार वर्ष में अन्तर्मुहूर्त
की और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम ढे चार पल्योपम की ।
(नागकुमाराणं देवाणं भंते ! केवइयं कालं ठिईं पणत्ता ?) हे
भगवन् ! नागकुमार देवों की कितने काल की स्थिति कही है ?

सहस्साइं, उक्कोसेणं अद्ध पंचमाइं पलिओवमाइं) हे गौतम ! जघन्य दश हजार
वर्षनी उत्कृष्ट साढे चार पल्योपमनी (अपज्जत्तियाणं भंते ! असुरकुमारीण
देवीणं केवइयं कालं ठिईं पणत्ता ?) भगवन् ! अपर्याप्त असुरकुमारी देवियों
नी केटला काण सुधी स्थिति कही छे ? (गोयमा जहण्णेणं वि अंतोमुहुत्तं उक्को-
सेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य पण्ण अन्तर्मुहूर्तं अने उत्कृष्ट पण्ण
अन्तर्मुहूर्तनी (पज्जत्तियाणं असुरकुमारीणं देवीणं भंते ! केवइयं कालं ठिईं
पणत्ता ?) भगवन् ! पर्याप्त असुरकुमारी देवियोंनी केटला काण सुधी स्थिति
कही छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं
उक्कोसेणं अद्धपंचमाइं पलिओमाइं) जघन्यथी अंतर्मुहूर्तं कम दस हजार वर्षनी
अने उत्कृष्टथी अन्तर्मुहूर्तं ओछा साढे चार पल्योपमनी छे.

(नागकुमाराणं देवाणं भंते ! केवइयं कालं ठिईं पणत्ता) हे भगवन् नागकुमार
देवोंनी स्थिति केटला काणनी कडेवासा आवी छे ? (गोयमा !) हे गौतम !

સહસ્રાણિ, ઉત્કૃષ્ટેન, દ્વે પલ્યોપમે દેશોને, અપર્યાપ્તકાનાં મદન્ત ! નાગકુમા-
રાણાં કિયન્તં કાલં સ્થિતિઃ પ્રજ્ઞપ્તા ? ગૌતમ ! જઘન્યેનાપિ અન્તર્મુહૂર્તમ્,
ઉત્કૃષ્ટેનાપિ અન્તર્મુહૂર્તમ્, પર્યાપ્તકાણાં મદન્ત ! નાગકુમારાણાં કિયન્તં કાલં
સ્થિતિઃ પ્રજ્ઞપ્તા ? ગૌતમ ! જઘન્યેન દશવર્ષસહસ્રાણિ અન્તર્મુહૂર્તોનાનિ, ઉત્કૃષ્ટેન
દ્વે પલ્યોપમે દેશોને અન્તર્મુહૂર્તોને, નાગકુમારીણાં મદન્ત ! દેવીનાં કિયન્તં
કાલં સ્થિતિઃ પ્રજ્ઞપ્તા ? ગૌતમ ! જઘન્યેન દશવર્ષસહસ્રાણિ, ઉત્કૃષ્ટેન દેશોનમ્
પલ્યોપમમ્, અપર્યાપ્તિકાનાં મદન્ત ! નાગકુમારીણાં દેવીનાં કિયન્તં કાલં

(ગોયમા) હે ગૌતમ ! (જહ્ણેણં દસવાસસહસ્સાઈં, ઉક્કોસેણં દો
પલિઓવમાઈં દેસૂણાઈં) જઘન્ય દસ હજાર કી, ઉત્કૃષ્ટ દેશોન
દો પલ્યોપમોં કી (અપજ્જત્તયાણં મંતે ! નાગકુમારાણં કેવહ્યં કાલં
ઠિઈં પ્ણત્તા ?) ભગવન્ ! અપર્યાસ નાગકુમારોં કી કિતને કાલ કી
સ્થિતિ કહી હૈ ? (ગોયમા) હે ગૌતમ ! (જહ્ણેણ વિ અંતોમુહૂત્તં,
ઉક્કોસેણ વિ અંતોમુહૂત્તં) જઘન્ય મી અન્તર્મુહૂર્ત, ઉત્કૃષ્ટ મી અન્ત
ર્મુહૂર્ત કી (પજ્જત્તયાણં મંતે ! નાગકુમારાણં દેવાણં કેવહ્યં કાલં
ઠિઈં પ્ણત્તા ?) ભગવન્ ! પર્યાસ નાગકુમારોં કી કિતને કાલ કી
સ્થિતિ કહી હૈ ? (ગોયમા) હે ગૌતમ ! (જહ્ણેણં દસવાસસહસ્સાઈં
અંતોમુહૂત્તૂણાઈં, ઉક્કોસેણં દો પલિઓવમાઈં દેસૂણાઈં અંતોમુહૂત્તૂણાઈં)
જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત કમ દસ હજાર વર્ષ કી, ઉત્કૃષ્ટ અન્તર્મુહૂર્ત કમ
દેશોન દો પલ્યોપમ કી ।

(નાગકુમારીણં મંતે ! દેવીણં કેવહ્યં કાલં ઠિઈં પ્ણત્તા ?) હે

(જહ્ણેણં દસવાસસહસ્સાઈં ઉક્કોસેણં દો પલિઓવમાઈં દેસૂણાઈં) જઘન્યો દશ
હબાર વર્ષની અને ઉત્કૃષ્ટ દેશોન ઓ પલ્યોપમની છે. (અપજ્જત્તયાણ મંતે ! નાગ-
કુમારાણં કેવહ્યં કાલં ઠિઈં પ્ણત્તા) હે ભગવન્ અપર્યાસ નાગકુમારોની-
સ્થિતિ કેટલા કાલની કહેવામા આવેલ છે ? (ગોયમા) હે ગૌતમ ! (જહ્ણેણ વિ
અંતોમુહૂત્તં, ઉક્કોસેણ વિ અંતોમુહૂત્તં) જઘન્ય પણ અન્તર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ પણ
અન્તર્મુહૂર્ત (પજ્જત્તયાણ મંતે ! નાગકુમારાણં દેવાણં કેવહ્યં કાલ ઠિઈં પ્ણત્તા)
ભગવન્ ! પર્યાસ નાગકુમારોની કેટલા કાળ સુધી સ્થિતિ કહી છે ? (ગોયમા) હે
ગૌતમ ! (જહ્ણેણ દસવાસસહસ્સાઈં, અંતોમુહૂત્તૂણાઈં, ઉક્કોસેણં દો પલિ-
ઓવમાઈં દેસૂણાઈં અંતો મુહૂત્તૂણાઈં) જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત ઓછા દશ હબાર વર્ષની
અને ઉત્કૃષ્ટ અન્તર્મુહૂર્ત ઓછા દેશોન પલ્યોપમની છે.

(નાગકુમારીણં મંતે ! દેવીણં કેવહ્યં કાલં ઠિઈં પ્ણત્તા) હે ભગવન્ નાગ-
કુમારી દેવિઓની સ્થિતિ કેટલા કાળની કહી છે ? હે (ગોયમા) ગૌતમ !

સ્થિતિઃ પ્રજ્ઞપ્તા ? ગૌતમ ! જઘન્યેનાપિ અન્તર્મુહૂર્તમ્, ઉત્કૃષ્ટેનાપિ અન્તર્મુહૂર્તમ્ પર્યાપ્તિકાનાં ભદન્ત ! નાગકુમારીણાં દેવીનાં કિયન્તં કાલં સ્થિતિઃ પ્રજ્ઞપ્તા ? ગૌતમ ! જઘન્યેન દશવર્ષસહસ્રાણિ અન્તર્મુહૂર્તોનાનિ, ઉત્કૃષ્ટેન દેશોનં પલ્યોપમમ્ અન્તર્મુહૂર્તોનમ્, સુવર્ણકુમારાણાં ભદન્ત ! દેવાનાં કિયન્તં કાલં સ્થિતિઃ

ભગવન્ ! નાગકુમારી દેવિયોં કી કિતને કાલ કી સ્થિતિ કહી હૈ ? (ગોયમા) હૈ ગૌતમ ! (જહ્ણણેણં દસવાસસહસ્સાહ, ઉત્ક્રોસેણં દેસૂણં પલિઓવમં) જઘન્ય દસ હજાર વર્ષ કી, ઉત્કૃષ્ટ દેશોન પલ્યોપમ કી (અપજ્જત્તિયાણં ભતે ! નાગકુમારીણં દેવીણં કેવહ્યં કાલં ઠિઈં પ્ણણત્તા) ભગવન્ ! અપર્યાપ્ત નાગકુમારી દેવિયોં કી કિતને કાલ કી સ્થિતિ કહી હૈ ? (ગોયમા) હૈ ગૌતમ ! (જહ્ણણેણ વિ અંતોમુહુત્ત, ઉ ત્તો-સેણ વિ અંતોમુહુત્ત) જઘન્ય મી અન્તર્મુહૂર્ત ઓર ઉત્કૃષ્ટ મી અન્તર્મુહૂર્ત (પજ્જત્તિયાણં ભતે ! નાગકુમારીણં દેવીણં કેવહ્યં કાલં ઠિઈં પ્ણણત્તા ?) ભગવન્ ! પર્યાપ્ત નાગકુમારી દેવિયોં કી કિતને કાલ કી સ્થિતિ કહી હૈ ? (ગોયમા) હૈ ગૌતમ ! (જહ્ણણેણં દસવાસસહસ્સાહ અંતોમુહુત્તુણાહ ઉત્ક્રોસેણં દેસૂણં પલિઓવમં અંતોમુહુત્તુણં) જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત કમ દસ હજાર વર્ષ કી ઉત્કૃષ્ટ અન્તર્મુહૂર્ત કમ દેશોન પલ્યોપમ કી ।

(સુવર્ણકુમારાણં ભતે ! દેવાણં કેવહ્યં કાલં ઠિઈં પ્ણણત્તા ?) હૈ ભગવન્ ! સુવર્ણકુમાર દેવોં કી કિતને કાલ કી સ્થિતિ કહી હૈ ?

(જહ્ણણેણ દસવાસસહસ્સાહ ઉત્ક્રોસેણ દેસૂણં પલિઓવમં) જઘન્ય દશ હજાર વર્ષની અને ઉત્કૃષ્ટ દેશોન પલ્યોપમની (અપજ્જત્તિયાણં ભતે ! નાગકુમારીણં દેવીણં કેવહ્યં કાલં ઠિઈં પ્ણણત્તા) હૈ ભગવન્ અપર્યાપ્તક નાગકુમારી દેવિયોની સ્થિતિ કેટલા કાળની છે ? (ગોયમા !) હૈ ગૌતમ ! (જહ્ણણેણ વિ અંતોમુહુત્ત, ઉત્ક્રોસેણ વિ અંતોમુહુત્ત) જઘન્યથી અને ઉત્કૃષ્ટથી પણ અંતર્મુહૂર્તની છે (પજ્જત્તિયાણં ભતે ! નાગકુમારીણં દેવીણં કેવહ્યં કાલં ઠિઈં પ્ણણત્તા) હૈ ભગવન્ પર્યાપ્ત નાગકુમારી દેવિયોની સ્થિતિ કેટલા કાળની કહેલ છે ? (ગોયમા !) હૈ ગૌતમ ! (જહ્ણણેણ દસવાસસહસ્સાહ અંતોમુહુત્તુણાહ ઉત્ક્રોસેણ દેસૂણં પલિઓવમં અંતોમુહુત્તુણં) જઘન્યથી અન્તર્મુહૂર્ત ઓછા દશ હજાર વર્ષની અને ઉત્કૃષ્ટથી અન્તર્મુહૂર્ત કમ દેશોન પલ્યોપમની છે.

(સુવર્ણકુમારાણં ભતે ! દેવાણં કેવહ્યં કાલ ઠિઈં પ્ણણત્તા ?) ભગવન્ ! સુવર્ણકુમાર દેવોની કેટલા સમયની સ્થિતિ કહી છે ! (ગોયમા !) હૈ ગૌતમ ! (જહ્ણણેણ દસવાસસહસ્સાહ ઉત્ક્રોસેણ દો પલિઓવમાહ દેસૂણાહ) જઘન્ય દશ

સહસ્રાણિ, ઉત્કૃષ્ટેન, દ્વે પલ્યોપમે દેશોને, અપર્યાપ્તકાનાં ભદન્ત ! નાગકુમા
રાણાં ક્રિયન્તં કાલં સ્થિતિઃ પ્રજ્ઞપ્તા ? ગૌતમ ! જઘન્યેનાપિ અન્તર્મુહૂર્તમ્,
ઉત્કૃષ્ટેનાપિ અન્તર્મુહૂર્તમ્, પર્યાપ્તકાણાં ભદન્ત ! નાગકુમારાણાં ક્રિયન્તં કાલં
સ્થિતિઃ પ્રજ્ઞપ્તા ? ગૌતમ ! જઘન્યેન દશવર્ષસહસ્રાણિ અન્તર્મુહૂર્તોનાનિ, ઉત્કૃષ્ટેન
દ્વે પલ્યોપમે દેશોને અન્તર્મુહૂર્તોને, નાગકુમારીણાં ભદન્ત ! દેવીનાં ક્રિયન્તં
કાલં સ્થિતિઃ પ્રજ્ઞપ્તા ? ગૌતમ ! જઘન્યેન દશવર્ષસહસ્રાણિ, ઉત્કૃષ્ટેન દેશોનમ્
પલ્યોપમમ્, અપર્યાપ્તિકાનાં ભદન્ત ! નાગકુમારીણાં દેવીનાં ક્રિયન્તં કાલં

(ગોયમા) હે ગૌતમ ! (જહ્ણણેણં દસવાસસહસ્સાઈં, ઉત્કૃષ્ટેણં દો
પલિઓવમાઈં દેસૂણાઈં) જઘન્ય દસ હજાર વર્ષ કી, ઉત્કૃષ્ટ દેશોન
દો પલ્યોપમોં કી (અપજ્જત્તયાણં મંતે ! નાગકુમારાણં કેવહ્યં કાલં
ઠિઈં પ્ણત્તા ?) ભગવન્ ! અપર્યાસ નાગકુમારોં કી કિતને કાલ કી
સ્થિતિ કહી હૈ ? (ગોયમા) હે ગૌતમ ! (જહ્ણણેણ વિ અંતોમુહૂર્તં,
ઉત્કૃષ્ટેણ વિ અંતોમુહૂર્તં) જઘન્ય ઓ અન્તર્મુહૂર્તં, ઉત્કૃષ્ટ ઓ અન્ત
ર્મુહૂર્તં કી (પજ્જત્તયાણં મંતે ! નાગકુમારાણં દેવાણં કેવહ્યં કાલં
ઠિઈં પ્ણત્તા ?) ભગવન્ ! પર્યાસ નાગકુમારોં કી કિતને કાલ કી
સ્થિતિ કહી હૈ ? (ગોયમા) હે ગૌતમ ! (જહ્ણણેણં દસવાસસહસ્સાઈં
અંતોમુહૂર્ત્તૂણાઈં, ઉત્કૃષ્ટેણં દો પલિઓવમાઈં દેસૂણાઈં અંતોમુહૂર્ત્તૂણાઈં)
જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્તં કમ દસ હજાર વર્ષ કી, ઉત્કૃષ્ટ અન્તર્મુહૂર્તં કમ
દેશોન દો પલ્યોપમ કી ।

(નાગકુમારીણં મંતે ! દેવીણં કેવહ્યં કાલં ઠિઈં પ્ણત્તા ?) હૈ

(જહ્ણણેણં દસવાસસહસ્સાઈં ઉત્કૃષ્ટેણં દો પલિઓવમાઈં દેસૂણાઈં) જઘન્ય ઓ દશ
હજાર વર્ષની અને ઉત્કૃષ્ટ દેશોન ઓ પલ્યોપમની છે. (અપજ્જત્તયાણં મંતે ! નાગ-
કુમારાણં કેવહ્યં કાલ ઠિઈં પ્ણત્તા) હે ભગવન્ અપર્યાસ નાગકુમારોની-
સ્થિતિ કેટલા કાલની કહેવામા આવેલ છે ? (ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (જહ્ણણેણ વિ
અંતોમુહૂર્તં, ઉત્કૃષ્ટેણ વિ અંતોમુહૂર્તં) જઘન્ય ઓ અન્તર્મુહૂર્તં અને ઉત્કૃષ્ટ ઓ
અન્તર્મુહૂર્તં (પજ્જત્તયાણં મંતે ! નાગકુમારાણં દેવાણં કેવહ્યં કાલં ઠિઈં પ્ણત્તા)
ભગવન્ ! પર્યાસ નાગકુમારોની કેટલા કાળ સુધી સ્થિતિ કહી છે ? (ગોયમા !)
હે ગૌતમ ! (જહ્ણણેણ દસવાસસહસ્સાઈં, અંતોમુહૂર્ત્તૂણાઈં, ઉત્કૃષ્ટેણં દો પલિ-
ઓવમાઈં દેસૂણાઈં અંતો મુહૂર્ત્તૂણાઈં) જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્તં ઓહા દશ હજાર વર્ષની
અને ઉત્કૃષ્ટ અન્તર્મુહૂર્તં ઓહા દેશોન પલ્યોપમની છે.

(નાગકુમારીણં મંતે ! દેવીણં કેવહ્યં કાલં ઠિઈં પ્ણત્તા) હે ભગવન્ નાગ-
કુમારો દેવિથોની સ્થિતિ કેટલા કાળની કહી છે ? હે (ગોયમા !) ગૌતમ !

स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येनापि अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम् पर्याप्तिकानां भदन्त ! नागकुमारीणां देवीनां कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दशवर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन देशोनं पल्योपमम् अन्तर्मुहूर्तानम्, सुवर्णकुमाराणां भदन्त ! देवानां कियन्तं कालं स्थितिः

भगवन् ! नागकुमारी देवियों की कितने काल की स्थिति कही है ?

(गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं दसवाससहस्साइ, उक्कोसेणं देसूणं पलिओवमं) जघन्य दस हजार वर्ष की, उत्कृष्ट देशोन पल्योपम की (अपज्जत्तियाणं भते ! नागकुमारीणं देवीणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता)

भगवन् ! अपर्याप्त नागकुमारी देवियों की कितने काल की स्थिति

कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उ ते-सेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त (पज्जत्तियाणं भते ! नागकुमारीणं देवीणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! पर्याप्त नागकुमारी देवियों की कितने काल की

स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं दसवाससहस्साइ अंतोमुहूत्तुणाइ उक्कोसेणं देसूणं पलिओवमं अंतोमुहूत्तुणं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम दस हजार वर्ष की उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम देशोन पल्योपम की ।

(सुवण्णकुमाराणं भते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) हे भगवन् ! सुवर्णकुमार देवों की कितने काल की स्थिति कही है ?

(जहण्णेण दसवाससहस्साइ उक्कोसेण देसूण पलिओवमं) जघन्य दश हजार वर्षानी अने उत्कृष्ट देशोन पल्योपमानी (अपज्जत्तियाण भते ! नागकुमारीण देवीण केवइयं कालं ठिई पणत्ता) हे भगवन् अपर्याप्त नागकुमारी देवियों की स्थिति कितना काल की है ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य भी अने उत्कृष्ट भी पल्योपम अन्तर्मुहूर्तानी छे. (पज्जत्तियाण भते ! नागकुमारीण देवीण केवइयं कालं ठिई पणत्ता) हे भगवन् पर्याप्त नागकुमारी देवियों की स्थिति कितना काल की है ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण दसवाससहस्साइ अंतोमुहूत्तुणाइ उक्कोसेण देसूण पलिओवमं अंतोमुहूत्तुणं) जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त आधा दश हजार वर्षानी अने उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त कम देशोन पल्योपमानी छे.

(सुवण्णकुमाराण भते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! सुवर्णकुमार देवों की कितना काल की स्थिति कही है ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण दसवाससहस्साइ उक्कोसेण दो पलिओवमाइ देसूणाइं) जघन्य दश

પ્રજ્ઞપ્તા ? ગૌતમ ! જઘન્યેન દશવર્ષસહસ્રાણિ, ઉત્કૃષ્ટેન દ્વે પલ્યોપમે દેશોને, અપર્યાપ્તકાનાં પૃચ્છા, ગૌતમ ! જઘન્યેનાપિ અન્તર્મુહૂર્તમ્, ઉત્કૃષ્ટેનાપિ અન્તર્મુહૂર્તમ્, પર્યાપ્તકાનાં પૃચ્છા, ગૌતમ ! જઘન્યેન દશવર્ષસહસ્રાણિ, અન્તર્મુહૂર્તોનાનિ, ઉત્કૃષ્ટેન દ્વે પલ્યોપમે દેશોને અન્તર્મુહૂર્તોને, સુવર્ણકુમારીણાં દેવીનાં પૃચ્છા, ગૌતમ ! જઘન્યેન દશવર્ષસહસ્રાણિ, ઉત્કૃષ્ટેન દેશોનં પલ્યોપનમ્, અપર્યાપ્તિકાનાં પૃચ્છા, ગૌતમ ! જઘન્યેનાપિ અન્તર્મુહૂર્તમ્, ઉત્કૃષ્ટેનાપિ અન્તર્મુહૂર્તમ્,

(ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (જહ્ણણેણં દસવાસસહસ્સાઈ, ઉત્કોસેણ દો પલિઓવમાઈ દેસૂણાઈ) જઘન્ય દસ હજાર વર્ષ કી, ઉત્કૃષ્ટ દેશોન દો પલ્યોપમ કી (વ્જ્જત્તયાણં પુચ્છા ?) અપર્યાપ્ત સુવર્ણકુમારોં કી પૃચ્છા ? (ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (જહ્ણણેણ વિ અંતોમુહુત્ત, ઉત્કોસેણ વિ અંતોમુહુત્ત) જઘન્ય મી અન્તર્મુહૂર્ત, ઉત્કૃષ્ટ મી અન્તર્મુહૂર્ત કી (પ્જ્જ ાણં પુચ્છા ?) પર્યાપ્તકોં કી પૃચ્છા ? (ગોયમા) હે ગૌતમ ! (જહ્ણણેણં દસવાસસહસ્સાઈ અંતોમુહુત્તુણાઈ, ઉત્કોસેણં દેસૂણં દો પલિઓવમાઈ અંતોમુહુત્તુણાઈ) જઘન્ય અન્તમુહૂર્ત કમ દસ હજાર કી, ઉત્કૃષ્ટ અન્તમુહૂર્ત કમ દેશોન દો પલ્યોપમ કી ।

(સુવર્ણકુમારીણં દેવીણં પુચ્છા ?) સુવર્ણકુમારી દેવિયોં કી પૃચ્છા ? (ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (જહ્ણણેણં દસવાસસહસ્સાઈ, ઉત્કોસેણં દેસૂણં પલિઓવમં) જઘન્ય દસ હજાર વર્ષ કી, ઉત્કૃષ્ટ દેશોન પલ્યોપમ કી (અપ્જ્જત્તયાણં પુચ્છા ?) અપર્યાપ્તક દેવિયોં કે વિષય મેં પૃચ્છા ? (ગોયમા) હે ગૌતમ ! (જહ્ણણેણ વિ અંતોમુહુત્ત, ઉત્કોસેણ

હજાર વર્ષની, ઉત્કૃષ્ટ દેશોન યે પલ્યોપમની (અપ્જ્જત્તયાણ પુચ્છા) અપર્યાપ્ત સુવર્ણકુમારો સબધ પ્રશ્ન (ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (જહ્ણણેણં વિ અંતોમુહુત્ત, ઉત્કોસેણ વિ અંતોમુહુત્ત) જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ થી અંતમુહૂર્તની છે (પ્જ્જત્તયાણ પુચ્છા) પર્યાપ્તકો સબધી પ્રશ્ન છે. (ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (જહ્ણણેણ દસવાસસહસ્સાઈ અંતોમુહુત્તુણાઈ ઉત્કોસેણ દેસૂણં દો પલિઓવમાઈ અંતોમુહુત્તુણાઈ) જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત ઓછા દસ હજાર વર્ષની અને ઉત્કૃષ્ટ અન્તર્મુહૂર્ત ઓછા દેશોન યે પલ્યોપમની છે.

(સુવર્ણકુમારીણ દેવીણં પુચ્છા) સુવર્ણકુમારી દેવિયો સબધી પ્રશ્ન છે. (ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (જહ્ણણેણ દસવાસસહસ્સાઈ ઉત્કોસેણ દેસૂણ પલિઓવમં) જઘન્ય દસ હજાર વર્ષની અને ઉત્કૃષ્ટ થી દેશોન પલ્યોપમની છે

(અપ્જ્જત્તયાણ પુચ્છા ?) અપર્યાપ્ત દેવિયોના વિષયમા પૃચ્છા ? (ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (જહ્ણણેણ વિ અંતોમુહુત્ત, ઉત્કોસેણ વિ અંતો મુહુત્ત) જઘન્ય પણ અંતર્મુહૂર્ત, ઉત્કૃષ્ટ પણ અંતર્મુહૂર્ત (પ્જ્જત્તયાણં પુચ્છા) પર્યાપ્ત સુવર્ણકુમારી

पर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन दशवर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तानि, उत्कृष्टेन देशेन पल्योपमम् अन्तर्मुहूर्तानम्, एवम् एतेन अभिलापेन औधिका-पर्याप्तक पर्याप्तकसूत्रत्रयम् देवानाञ्च देवीनाञ्च ज्ञातव्यं यावत् स्तनितकुमाराणां यथा नागकुमाराणाम् ॥

टीका—अत्रापि देवानां देवीनाञ्च अपर्याप्तावस्थायाम् अन्तर्मुहूर्तमात्रं स्थितिः सद्भावात् पर्याप्तावस्थायाम् अन्तर्मुहूर्तन्यूनानि स्थितिः सर्वत्रैव जघन्येनापि अवसेया, शेषव्याख्यानं निगदसिद्धम् ॥सू० २॥

वि अंतोमुहूर्तं) जघन्य भी अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्तं (पञ्ज-त्तियाणं पृच्छा ?) पर्याप्तक सुवर्णकुमारी देवियों के विषय में पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहूर्तूणाइ, उक्कोसेणं देसूणं पलिओवमं अंतोमुहूर्तूणं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं कम दस हजार वर्ष की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं कम देशेन पल्योपम की ।

(एवं) इस प्रकार (एएणं अभिलावेणं) इसी अभिलाप से—इन्हीं शब्दों में (ओहिय-पञ्जत्तय-अपञ्जत्तय सुत्तयं) औधिक अर्थात् सामान्य, पर्याप्तक और अपर्याप्तक के सूत्र (देवाण य देवीण य) देव और देवियों के विषय में (नेयव्वं) जानने चाहिए (जाव थणिय कुमाराणं) स्तनित कुमारों पर्यन्त (जहा नागकुमाराण) नागकुमारों के समान ।

टीकार्थ—यहां भी देवों और देवियों की अपर्याप्त अवस्था में अन्तर्मुहूर्त की स्थिति है, अतएव पर्याप्त अवस्था में अन्तर्मुहूर्त कम स्थिति कही गई है । शेष व्याख्या शब्दार्थ के अनुसार सम-झना चाहिए ॥२॥

देवियोना विषयमा पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण दसवाससहस्साइं अंतोमुहूर्तूणाइ उक्कोसेणं देसूणं पलिओवमं अंतोमुहूर्तूणं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं ओछा दश हजार वर्षानी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं ओछा देशेन पल्योपमानी छे

(एव) आप्रकारे (एएणं अभिलावेणं) आ अभिलापथी—ओव शब्दोमा (ओहिय-पञ्जत्तय-अपञ्जत्तयसुत्तयं) औधिक अर्थात् सामान्य, पर्याप्त अने अपर्याप्तकना सूत्र (देवाण य देवीणय) देवो अने देवियोना विषयमा (नेयव्व) ज्ञाणवा ज्ञेथ्ये (जाव थणियकुमाराणं) स्तनितकुमारो पर्यन्त (जहा नागकुमाराणं) नागकुमारोनासमान

टीकार्थ—आडि पण् देवो अने देवियोनी अपर्याप्त अवस्थाया अन्त-र्मुहूर्तनी स्थिति छे तेथीव पर्याप्त अवस्थाया अन्तर्मुहूर्त ओछी स्थिति छेलेली छे. शेषव्याख्या, शब्दार्थना अनुसार समजवी ज्ञेथ्ये ॥२॥

पृथिवीकायिकादि वक्तव्यता—

मूळम्—पुढविकाइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता
 गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्साइं
 अपज्जत्तयपुढविकाइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?
 गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं पज्जत्तयपुढवि-
 काइयाणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं बावीसं
 वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं सुहुमपुढवीकाइयाणं पुच्छा ?
 गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं अपज्जत्तयसु-
 हुमपुढवीकायाणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि
 अंतोमुहुत्तं । पज्जत्तयसुहुमपुढविकाइयाणं पुच्छा ? गोयमा ! जह
 ण्णेण वि उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्तं बायरपुढविकाइयाणं पुच्छा ?
 गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्साइं
 अपज्जत्तयबायर पुढविकाइयाणं पुच्छा ? गोयमा ! जहण्णेण वि
 षोसेण वि अंतोमुहुत्तं पज्जत्तयबायरपुढविकाइयाणं पुच्छा
 गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं बावीसं वाससह-
 स्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं आउकाइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई
 पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं सत्तवास-
 सहस्साइं अपज्जत्तय आउकाइयाणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेण
 वि अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं पज्जत्तय आउकाइ-
 याणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं सत्तवा-
 ससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं सुहुम आउकाइयाणं ओहियाणं अप-
 ज्जत्तयाणं पज्जत्तयाणय जहा सुहुमपुढविकाइयाणं तथा भणि-
 यव्वं । बायरआउकाइयाणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं
 उक्कोसेणं सत्तवाससहस्साइं अपज्जत्तयबायर आउकाइयाणं पुच्छा
 गोयमा ! जहण्णेणवि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं पज्जत्तयाण य

पुच्छा गोयमा । जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं सत्तवाससह-
 स्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं तेउकाइयाणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेणं
 अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि राइंदियाइं अपज्जत्तयाणं पुच्छा
 गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्तं पज्जत्तयाण य पुच्छा
 गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण तिन्नि राइंदि-
 याइं अंतोमुहुत्तूणाइं सुहुमतेउकाइयाणं ओहियाणं अपज्जत्तयाणं
 पज्जत्तयाण य पुच्छा गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेणवि अंतो-
 मुहुत्तं वायरतेउकाइयाणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेणं अंतो-
 मुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि राइंदियाइं अपज्जत्तय वायरतेउकाइयाणं
 पुच्छा गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्तं, पज्ज-
 त्ताणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि राइं-
 दियाइं अंतोमुहुत्तूणाइं । वाउकाइयाणं भंते ! केवइयं कालं
 ठिईं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं
 तिण्णि वाससहस्साइं अपज्जत्तयाणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेण
 वि उक्कोसोण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णे-
 णं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं,
 सुहुमवाउकाइयाणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि
 अंतोमुहुत्तं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेण वि उक्को-
 सेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेण वि
 उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, वायर वाउकाइयाणं पुच्छा गोयमा !
 जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि वाससहस्साइं अपज्जत्त-
 याणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं,
 प याणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि
 वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं । वणस्सइकाइयाणं भंते ! केवइयं
 कालं ठिईं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं

દસવાસસહસ્સાઈં, અપજ્જત્તયાણં પુચ્છા ગોયમા ! જહણ્ણેણ
 વિ ઉક્કોસેણ વિ અંતોમુહુત્તં, પજ્જત્તયાણં પુચ્છા ગોયમા !
 જહણ્ણેણં અંતોમુહુત્તં ઉક્કોસેણં દસવાસસહસ્સાઈં અંતોમુહુત્તૂ-
 ણાઈં સુહુમવળસ્સઙ્કાઙ્કાયાણં ઓહિયાણં અપજ્જત્તયાણં પજ્જત્ત-
 યાણ ય પુચ્છા ગોયમા ! જહણ્ણે વિ ઉક્કોસેણ વિ અંતો-
 મુહુત્તં, વાયરવળસ્સઙ્કાઙ્કાયાણં પુચ્છા ગોયમા ! જહણ્ણેણં અંતો-
 મુહુત્તં ઉક્કોસેણં દસવાસસહસ્સાઈં અપજ્જત્તાણં પુચ્છા ગોયમા !
 જહણ્ણેણ વિ ઉક્કોસેણ વિ અંતોમુહુત્તં, પજ્જત્તયાણં પુચ્છા
 ગોયમા જહણ્ણેણં અંતોમુહુત્તં ઉક્કોસેણં દસવાસસહસ્સાઈં
 અંતોમુહુત્તૂણાઈં ॥ સૂ૦ ૩ ॥

છાયા-પૃથિવીકાયિકાનાં ભદન્ત ! કિયન્તં કાલં સ્થિતિઃ પ્રજ્ઞપ્તા ? ગૌતમ !
 જઘન્યેન અન્તર્મુહૂર્તમ્, ઉત્કૃષ્ટેન દ્વાવિંશતિર્વર્ષસહસ્રાણિ, અપર્યાપ્તકપૃથિવી-
 કાયિકાના ભદન્ત ! કિયન્તં કાલં સ્થિતિઃ પ્રજ્ઞપ્તા ? ગૌતમ ! જઘન્યેનાપિ
 ઉત્કૃષ્ટેનાપિ અન્તર્મુહૂર્તમ્, પર્યાપ્તકપૃથિવીકાયિકાનાં પૃચ્છા, ગૌતમ ? જઘન્યેન

પૃથ્વીકાયાદિ કી સ્થિતિ કી વક્તવ્યતા-

શબ્દાર્થ-(પુઢવિકાઙ્કાયાણં અંતે ! કેવહ્યં કાલં ઠિઈં પળ્ણત્તા ?) હે
 ભગવન્ ! પૃથિવીકાયિકોં કી કિતને કાલ તક કી સ્થિતિ હૈ ? (ગોયમા)
 હે ગૌતમ ! (જહણ્ણેણં અંતોમુહુત્તં) જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત્ત કી (ઉક્કોસેણં
 વાવીસં વાસસહસ્સાઈં) ઉત્કૃષ્ટ બાર્સ હજાર વર્ષ કી (અપજ્જત્તય
 પુઢવિકાઙ્કાયાણં અંતે ! કેવહ્યં કાલં ઠિઈં પળ્ણત્તા ?) હે ભગવન્ ! અપ-
 ર્યાપ્ત પૃથ્વીકાયિકોં કી કિતને કાલ કી સ્થિતિ કહી હૈ ? (ગોયમા)
 હે ગૌતમ ! (જહણ્ણેણ વિ ઉક્કોસેણ વિ અંતોમુહુત્તં) જઘન્ય ભી ઓર
 ઉત્કૃષ્ટ ભી અન્તર્મુહૂર્ત્ત કી (પજ્જત્તય પુઢવિકાઙ્કાયાણં પુચ્છા ?) પર્યા-

પૃથ્વીકાયાદિની સ્થિતિની વક્તવ્યતા

શબ્દાર્થ — (પુઢવિકાઙ્કાયાણં અંતે ! કેવહ્ય કાલ ઠિઈં પળ્ણત્તા ? ભગવન્ !
 પૃથ્વીકાયિકોની કેટલાકાળ સુધી સ્થિતિ છે ? (ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (જહણ્ણેણ
 અંતોમુહુત્તં) જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્તની (ઉક્કોસેણ વાવીસં વાસસહસ્સાઈં) ઉત્કૃષ્ટ
 બાવીસહસ્રવર્ષની (અપજ્જત્તયપુઢવિકાઙ્કાયાણં અંતે ! કેવહ્યં કાલં ઠિઈં પળ્ણત્તા ?)
 ભગવન્ ! અપર્યાપ્ત પૃથ્વીકાયિકોની કેટલાકાળની સ્થિતિ કહી છે ? (ગોયમા !)
 હે ગૌતમ ! (જહણ્ણેણ વિ ઉક્કોસેણ વિ અંતો મુહુત્તં) જઘન્ય પણ અને ઉત્કૃષ્ટ

अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन द्वाविंशतिः वर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तोन्नानि, सूक्ष्मपृथिवी-
कायिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, अपर्याप्तक
सूक्ष्म पृथिवीकायिकानाम् पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहू-
र्तम्, पर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवीकायिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टे-
नापि अन्तर्मुहूर्तम्, बादरपृथिवीकायिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्त-

प्तक पृथिवीकायिकों के विषय में पृच्छा-प्रश्न ? (गोयमा) हे गौतम !
(जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहु-
त्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त कम बाईस
हजार वर्ष की ।

(सुह्रम पुढविकाइयाणं पुच्छा ?) सूक्ष्म पृथ्वीकायिकों के विषय
में पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतो-
मुहुत्तं) जघन्य भी उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त की (अपज्जत्तय सुह्रम
पुढविकाइयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकों के विषय
में पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतो-
मुहुत्तं) जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त की (पज्जत्तय सु-
पुढविकाइयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक सूक्ष्म पृथ्वीकायिकों की स्थिति के
विषय में पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि
अंतोमुहुत्तं) जघन्य स्थिति भी अन्तर्त्त, उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त
(बायरपुढविकाइयाणं पुच्छा ?) बादर पृथिवीकायिकों की स्थिति की

पथु अन्तर्मुहूर्त्तनी (पज्जत्तय पुढविकाइयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक पृथ्वीकायिकोना
विषयमा पृच्छा-प्रश्न ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं
बावीसं वाससहस्साइ अंतोमुहुत्तूणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त
कम बावीस हजारवर्षनी

(सुह्रमपुढविकाइयाणं पुच्छा ?) सूक्ष्मपृथ्वीकायिकोना विषयमां पृच्छा ?
(गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य पथु
अने अने उत्कृष्ट पथु अन्तर्मुहूर्त्तनी (अपज्जत्तयसुह्रम पुढविकाइयाणं पुच्छा)
अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिकोना विषयमा प्रश्न छे. (गोयमा !) हे गौतम !
(जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्यथी अने उत्कृष्टथी अन्तर्मुहूर्त्तनी छे.
(पज्जत्तयसुह्रम पुढवि काइयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक सूक्ष्म पृथ्वीकायिकोनी स्थितिना
विषयमा पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं)
जघन्य स्थिति पथु अन्तर्मुहूर्त्त उत्कृष्ट पथु अन्तर्मुहूर्त्तनी छे

(बायरपुढविकाइयाणं पुच्छा ?) बादर पृथ्वीकायिकोनी स्थितिनी पृच्छा

मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन द्वाविंशतिः वर्षसहस्राणि, अपर्याप्तकवादरपृथिवीकायिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकवादरपृथिवीकायिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन द्वाविंशतिः वर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तानानि, अप्कायिकानां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम् उत्कृष्टेन सप्तवर्षसहस्राणि, अपर्याप्तकायिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेनापि अन्त-

पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्साइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट बाईस हजार वर्ष की (अपज्जत्तय वायर पुढविकाइयाणं पुच्छा) अपर्याप्तक वादर पृथ्वीकायिकों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पज्ज य वायर पुढविकाइयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक वादर पृथ्वीकायिकों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम बाईस हजार वर्ष की है ।

(आउकाइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) हे भगवन् ! अप्कायिकों की कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्तवाससहस्साइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट सात हजार वर्ष (अपज्जत्तय आउकाइयाणं पुच्छा) अपर्याप्त अप्कायिकों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम !

(गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण बावीस वाससहस्साइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तनी, उत्कृष्ट आवीसहत्तर वर्षनी (अपज्जत्तयवायर पुढविकाइयाणं पुच्छा) अपर्याप्तक वादर पृथ्वीकायिकोंनी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्यपणु अने उत्कृष्ट पणु अन्तर्मुहूर्तनी (पज्जत्तय वादर पुढविकाइयाणं पुच्छा ?) पर्याप्त वादर कायिकोंनी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं बावीसवासं सहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तनी अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओछा आवीस हत्तर वर्ष

(आउकाइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिइं पणत्ता ?) भगवन् अप्कायिकोंनी स्थिति केटवा काण सुधी कही छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं सत्तवाससहस्साइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट सात हत्तर वर्ष (अपज्जत्तय आउकाइयाणं पुच्छा !) अपर्याप्त अप्कायिकोंनी

सुहूर्तम्, पर्याप्तकाष्कायिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन सप्तवर्षसहस्राणि, अन्तर्मुहूर्तानानि, सूक्ष्माष्कायिकानाम् औधिकानाम् अपर्याप्तकानां पर्याप्तकानां च यथा सूक्ष्मपृथिवीकायिकानां तथा भणितव्यम् बादराष्कायिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनान्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन सप्तवर्षसहस्राणि, अपर्याप्तक्रवादराष्कायिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्त-

(जहण्णेण वि अतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्तं (पज्जत्तय आउकाइयाणं पुच्छा ?) (पर्याप्तक अप्कायिकों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्तवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं कम सात हजार वर्ष की (सुहुम आउकाइयाणं ओहियाणं अपज्जत्तयाणं पज्जत्तयाण य) सूक्ष्म अप्कायिकों के औधिक (सामान्य), अपर्याप्त और पर्याप्त की स्थिति (जहा सुहुम पुढविकाइयाणं तहा भाणियच्चं) जैसी सूक्ष्म पृथिवीकायिकों की कही वैसी कहना चाहिए ।

(बायर आउकाइयाणं पुच्छा ?) बादर अप्कायिकों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्तवाससहस्साइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं की उत्कृष्ट सात हजार वर्ष की (अपज्जत्तय बायर आउकाइयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त बादर अप्कायिकों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि

स्थिति पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि अतोमुहुत्तं उक्कोसेणं वि अतोमुहुत्तं) जघन्यथी पणु अन्तर्मुहूर्तं उत्कृष्टथी पणु अन्तर्मुहूर्तं (पज्जत्तय आउकाइयाण पुच्छा) पर्याप्तक अप्कायिकेनो स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं अतोमुहुत्तं उक्कोसेणं सत्तवाससहस्साइ अतोमुहुत्तूणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्तानी उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं ओछा सात हजार वर्षानी (सुहुम-आउकाइयाण, ओहियाणं अपज्जत्तयाण पज्जत्तयाण य) सूक्ष्म अप्कायिकेनी औधिक (सामान्य) अपर्याप्त अने पर्याप्तनी स्थिति (जहा सुहुमपुढविकाइयाणं तहा भाणयच्चं) जैसी सूक्ष्म पृथिवीकायिकेनी कही छे तेवी कडेवी जेधजे

(बायरआउकाइयाणं पुच्छा ?) बादर अप्कायिकेनी स्थितिनी पृच्छा (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं अतोमुहुत्तं उक्कोसेण सत्तवाससहस्साइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तानी, उत्कृष्ट सात हजार वर्षानी (अपज्जत्तय बायरआउकाइयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त बादर अप्कायिकेनी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा !) हे

मुहूर्त, पर्याप्तकानाञ्च पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन सप्त-
वर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तोऽनानि, तेजःकायिकानाम् पृच्छा, गौतम ! जघन्येन
अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि रात्रिन्दिनानि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम !
जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानाञ्च पृच्छा, गौतम ! जघन्येन
अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि रात्रिन्दिनानि अन्तर्मुहूर्तोऽनानि, सूक्ष्म तेजः
कायिकानाम् औधिकानाम् अपर्याप्तकानाम् पर्याप्तकानाञ्च पृच्छा, गौतम !

अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त की,
उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पञ्जत्तयाणं पुच्छा) पर्याप्तकों की स्थिति
की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं
सत्तवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट
अन्तर्मुहूर्त कम त हजार वर्ष की ।

(तेउकाइयाणं पुच्छा ?) तेजस्कायिकों की स्थिति की पृच्छा ?
(गोयमा) हे गौ ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिननि राइं-
दियाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट तीन रात-दिन की (अप-
ञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तों की स्थिति की-पृच्छा ? (गोयमा !) हे
गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य भी और
उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पञ्जत्तयाण पुच्छा ?) पर्याप्तकों की
स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,
उक्कोसेणं तिननि राइ दियाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त
की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम तीन रात्रि-दिनों की ।

गौतम ! (जहण्णेण वि अतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अतोमुहुत्तं) जघन्य पञ्च अन्त-
र्मुहूर्तानी उत्कृष्ट पञ्च अन्तर्मुहूर्तानी (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तिकानी स्थितिनी
पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण अतोमुहुत्तं, उक्कोसेण सत्तवाससहस्साइं
अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओछा सात हजार वर्षनी
(तेउकाइयाणं पुच्छा ?) तेजस्कायिकानी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा !)
हे गौतम ! (जहण्णेणं अतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिननि राइंदियाइं) जघन्य अन्त-
र्मुहूर्तानी उत्कृष्ट त्रय रातदिवसानी (अपञ्जत्तयाणं पुच्छा !) अपर्याप्तानी
स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अतो-
मुहुत्तं) जघन्य पञ्च अने उत्कृष्ट पञ्च अन्तर्मुहूर्तानी (पञ्जत्तयाणं पुच्छा)
पर्याप्तिकानी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं अतोमुहुत्तं,
उक्कोसेणं तिननि राइंदियाइं अतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तानी उत्कृष्ट
अन्तर्मुहूर्त ओछा त्रय रात्रि दिवसानी

जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, वादरतेजःकायिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि रात्रिन्दिवानि, अपर्याप्तं वादरतेजः कायिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि रात्रिन्दिवानि अन्तर्मुहूर्तानि । वायुकायिकानां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रजप्ता ? गौतम !

(सुहृमतेउकाइयाणं ओहियाणं अपज्जत्तयाणं पज्जत्तयाण य पुच्छा ?) सूक्ष्म तेजस्कायिक औषिकों, अपर्याप्तों और पर्याप्तों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) सूक्ष्म तेजस्काय के समुच्चय, अपर्याप्तकों और पर्याप्तकों की स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है । (वायर तेउकाइयाणं पुच्छा ?) वादर तेजस्कायिकों की स्थिति पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतो-मुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि राइ दियाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट तीन रात्रि-दिवस (अपज्जत्तय वायरतेउकाइयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त वादर तेजस्कायिकों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि राइ दियाइ अंतोमुहुत्तूणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम तीन रात्रि-दिवस की ।

(सुहृम तेउकाइयाणं ओहियाणं अपज्जत्तयाणं पज्जत्तयाण य पुच्छा ?) सूक्ष्म तेजस्कायिक औषिकों, अपर्याप्तों और पर्याप्तों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं) सूक्ष्म तेजस्कायिकों के समुच्चय, अपर्याप्तों और पर्याप्तों की स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है । (वायर तेउकाइयाणं पुच्छा) वादर तेजस्कायिकों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि राइ दियाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट त्रयु रात्रि दिवस (अपज्जत्तय वायर तेउकाइयाणं पुच्छा) अपर्याप्त वादर तेजस्कायिकों की स्थिति की पृच्छा (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा) पर्याप्तों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि राइ दियाइ अंतोमुहुत्तूणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम तीन रात्रि दिवस की ।

मुहूर्त, पर्याप्तकानाञ्च पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन सप्त-
वर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तानानि, तेजःकायिकानाम् पृच्छा, गौतम ! जघन्येन
अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि रात्रिन्दिनानि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम !
जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानाञ्च पृच्छा, गौतम ! जघन्येन
अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि रात्रिन्दिनानि अन्तर्मुहूर्तानानि, सूक्ष्म तेजः
कायिकानाम् औधिकानाम् अपर्याप्तकानाम् पर्याप्तकानाञ्च पृच्छा, गौतम !

अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त की,
उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पञ्जत्तयाणं पुच्छा) पर्याप्तकों की स्थिति
की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं
सत्तवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट
अन्तर्मुहूर्त कम सात हजार वर्ष की ।

(तेउकाइयाणं पुच्छा ?) तेजस्कायिकों की स्थिति की पृच्छा ?
(गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि राइं-
दियाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट तीन रात-दिन की (अप-
ज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा !) हे
गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी और
उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पञ्जत्तयाण पुच्छा ?) पर्याप्तकों की
स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,
उक्कोसेणं तिन्नि राइं दियाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त
की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम तीन रात्रि-दिनों की ।

गौतम ! (जहण्णेणं वि अतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अतोमुहुत्तं) जघन्य पथु अन्त-
र्मुहूर्तानी उत्कृष्ट पथु अन्तर्मुहूर्तानी (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थितिनी
पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण अतोमुहुत्तं, उक्कोसेण सत्तवाससहस्साइं
अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओछा सात हजार वर्षनी
(तेउकाइयाणं पुच्छा ?) तेजस्कायिकों की स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा !)
हे गौतम ! (जहण्णेण अतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि राइंदियाइं) जघन्य अन्त-
र्मुहूर्तानी उत्कृष्ट त्रयु रातदिवसानी (अपज्जत्तयाणं पुच्छा !) अपर्याप्तों की
स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अतो-
मुहुत्तं) जघन्य पथु अने उत्कृष्ट पथु अन्तर्मुहूर्तानी (पञ्जत्तयाणं पुच्छा)
पर्याप्तकों की स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण अंतोमुहुत्तं,
उक्कोसेण तिन्नि राइंदियाइं अतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तानी उत्कृष्ट
अन्तर्मुहूर्त ओछा त्रयु रात्रि दिवसानी

जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, वादरतेजःकायिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि रात्रिन्दिवानि, अपर्याप्तं वादरतेजः कायिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि रात्रिन्दिवानि अन्तर्मुहूर्तानि । वायुकायिकानां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम !

(सुहृमतेउकाइयाणं ओहियाणं अपज्जत्तयाणं पज्जत्तयाण य पुच्छा ?) सूक्ष्म तेजस्कायिक औधिकों, अपर्याप्तों और पर्याप्तों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) सूक्ष्म तेजस्काय के समुच्चय, अपर्याप्तकों और पर्याप्तकों की स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है । (वायर तेउकाइयाणं पुच्छा ?) बादर तेजस्कायिकों की स्थिति पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतो-मुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि राइ दियाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट तीन रात्रि-दिवस (अपज्जत्तय वायरतेउकाइयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त बादर तेजस्कायिकों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अतोमुहुत्त) जघन्य और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्ताणं पुच्छा ?) पर्याप्तों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिन्नि राइ दियाइ अंतोमुहुत्तूणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम तीन रात्रि-दिवस की ।

(सुहृम तेउकाइयाण ओहियाणं अपज्जत्तयाणं पज्जत्तयाण य पुच्छा ?) सूक्ष्म तेजस्कायिक औधिकों, अपर्याप्तों और पर्याप्तों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) सूक्ष्म तेजस्कायिकों के समुच्चय, अपर्याप्तों और पर्याप्तों की स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है । (वायर तेउकाइयाणं पुच्छा) बादर तेजस्कायिकों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि राइ दियाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट त्रय रात्रि दिवस (अपज्जत्तय वायर तेउकाइयाणं पुच्छा) अपर्याप्त बादर तेजस्कायिकों की स्थिति की पृच्छा (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य और उत्कृष्ट त्रय अन्तर्मुहूर्तों की (पज्जत्ताणं पुच्छा) पर्याप्तों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि राइ दियाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्तों की, उत्कृष्ट त्रय रात्रि दिवस की

जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि वर्षसहस्राणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा !
 गौतम ! जघन्येन उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघ-
 न्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि वर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तानि, सूक्ष्मवायु-
 कायिकानां पृच्छा ? गौतम ! जघन्येनापि, उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, अपर्याप्त-
 कानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा,
 गौतम ! जघन्येनापि, उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, वादरवायुकायिकानां पृच्छा,

(वाउकाइयाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) वायुकायिकों
 की हे भगवन् ! कितने काल की स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम !
 (जहण्णेणं अतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साइ) जघन्य
 अन्तर्मुहूर्त्त उत्कृष्ट तीन हजार वर्ष की (अपज्जत्तयाण पुच्छा ?) अपर्या-
 प्तकों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं वि
 उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त्त, उत्कृष्ट भी
 अन्तर्मुहूर्त्त की (पज्जत्तियाण पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति की
 पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण
 तिन्नि वाससहस्साइ अंतोमुहुत्तूणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की, उत्कृष्ट
 अन्तर्मुहूर्त्त कम तीन हजार वर्ष की है ।

(सुहुम वाउकाइयाणं पुच्छा ?) सूक्ष्म वायुकायिकों की स्थिति
 की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतो-
 मुहुत्त) जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त की (अपज्जत्तयाणं
 पुच्छा ?) अपर्याप्तकों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम !

(वाउकाइयाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) वायुकायिकोंनी हे
 भगवन् ! केटवा डालनी स्थिति कही छे (गोयमा !) हे गौतम ? (जहण्णेणं
 अ तोमुहुत्तं, उक्कोसेण तिण्णि वाससहस्साइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त, उत्कृष्ट त्रयु
 डालर वर्षनी (अपज्जत्तयाण पुच्छा ?) अपर्याप्तकोंनी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा !)
 हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अन्तोमुहुत्तं) जघन्य पण्य अन्तर्मुहूर्त्त,
 उत्कृष्ट पण्य अन्तर्मुहूर्त्तनी (पज्जत्तयाण पुच्छा ? पर्याप्तकोंनी स्थितिनी पृच्छा ?
 (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिन्नि वाससहस्साइ
 अंतोमुहुत्तूणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तनी उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त ओछा त्रयु डालर वर्षनी

(सुहुम वाउकाइयाण पुच्छा ?) सूक्ष्म वायुकायिकोंनी स्थितिनी पृच्छा ?
 (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अतोमुहुत्तं) जघन्य पण्य
 अने उत्कृष्ट पण्य अन्तर्मुहूर्त्तनी (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकोंनी स्थितिनी
 पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अ तोमुहुत्त) जघन्य

गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्त्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि वर्षसहस्राणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्त्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्त्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि वर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्त्तानानि,

(जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त की (पज्जत्तयाण पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त की ।

(वायरवाउक्काइयाणं पुच्छा ?) वादर वायुकायिकों की स्थिति कितनी कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि वाससहस्साइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की, उत्कृष्ट तीन हजार वर्ष की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा) अपर्याप्तों की स्थिति कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी, उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा) पर्याप्तकों की कितनी (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि वाससहस्साइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त तीन हजार वर्ष की है ।

पथु अने उत्कृष्ट पथु अन्तर्मुहूर्त्तनी (पज्जत्तयाण पुच्छा ?) पर्याप्तकेनीस्थिति नी पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य पथु अने उत्कृष्ट पथु अन्तर्मुहूर्त्तनी

(वायर वाउक्काइयाणं पुच्छा) वादर वायुकायिकेनीस्थिति केटली छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण तिन्नि वाससहस्साइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तनी उत्कृष्ट त्रथु ६०१२ वर्षनी (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तोनी स्थिति केटली छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य अने उत्कृष्ट पथु अन्तर्मुहूर्त्तनी (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकेनी स्थिति केटली छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण तिन्नि वाससहस्साइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त ओछा त्रथु ६०१२वर्षनी

(वणस्सइ काइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) वनस्पति कायिकेनी लगवन् ! केटली काणसुधी स्थिति कडेली छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण दसवाससहस्साइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तनी उत्कृष्ट ६२१ ६०१२ वर्षनी, (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तोनी केटली ? (गोयमा !)

वनस्पतिकार्यायिकानां भदन्त ! कियन्तं काल स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन दशवर्षसहस्राणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन दशवर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तोभानि, सूक्ष्म वनस्पतिकार्यायिकानाम् औधिकानाम् अपर्याप्तकानाम् पर्याप्तकानाञ्च पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, बादरवनस्पतिकार्यायिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्त-

(वणस्सइकाइयाणं अंते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?) वनस्पतिकार्यायिकों की हे भगवन् ! कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दसवाससहस्साइं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं, उत्कृष्ट दस हजार वर्ष (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तों की कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्य भी उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्तं (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं (उक्कोसेणं दसवाससहस्साइं) उत्कृष्ट दस हजार वर्ष (अंतोमुहुत्तूणाइं) अन्तर्मुहूर्त्तं कम ।

(सुहुमवणस्सइकाइयाणं ओहियाणं अपज्जत्तयाणं पज्जत्तयाणं य पुच्छा ?) समुच्चय, अपर्याप्त और पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पतिकार्यायिकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्तं ।

(बायरवणस्सइकाइयाणं पुच्छा ?) बादर वनस्पतिकार्याय की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं

(जण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्य पण्ण उत्कृष्ट पण्ण अन्तर्मुहूर्त्तानी (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तिकानी स्थिति केटवी छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण अंतोमुहुत्तं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं (उक्कोसेण दसवाससहस्साइं) उत्कृष्ट दश हजारवर्षानी (अंतोमुहुत्तूणाइं) अन्तर्मुहूर्त्तं ओछा

सुहुमवणस्सइकाइयाणं ओहियाणं ओहियाणं अपज्जत्तयाणं, पज्जत्तयाणं य पुच्छा ?) समुच्चय अपर्याप्तिके अने पर्याप्तिके सूक्ष्म वनस्पतिकार्यायिकानी स्थिति केटवी छे (गोयमा !) हे गौतम ? (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य अने उत्कृष्ट पण्ण अन्तर्मुहूर्त्तं

(बायर वणस्सइकाइयाणं पुच्छा ?) बादर वनस्पतिकार्याय की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ? (जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण दसवाससह-

मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन दशवर्षसहस्राणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन दशवर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तानि ॥

टीका—अत्रापि अपर्याप्तावस्थायामन्तर्मुहूर्तं पर्याप्तावस्थायां तन्न्यूनस्थितिः, व्याख्या सुगमा ॥ सू. ०३ ॥

द्वीन्द्रियादि स्थिति वक्तव्यता—

मूलम्—बेइंदियाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण बारस संवच्छराइं, अपज्जयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण बारस संवच्छराइं अंतोमुहुत्तणाइं, तेइंदियाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं,

दसवाससहस्साइं) जघन्यं अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्टं दस हजार वर्ष की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा?) अपर्याप्तकों की पृच्छा? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्यं भी उत्कृष्टं भी अन्तर्मुहूर्तं (पज्जत्तयाणं पुच्छा?) पर्याप्तकों की स्थिति की पृच्छा? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तणाइं) जघन्यं अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्टं अन्तर्मुहूर्तं कम दस हजार वर्ष की है ।

टीकार्थ—व्याख्या सुगम है । पाठ के अनुसार एवं शब्दार्थ के अनुसार पूर्ववत् समझ लेना चाहिए ॥३॥

स्साइं) जघन्यं अन्तर्मुहूर्तं उत्कृष्टं दस हजार वर्ष की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा?) अपर्याप्तकों की पृच्छा? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्यं भी उत्कृष्टं भी अन्तर्मुहूर्तं (पज्जत्तयाणं पुच्छा?) पर्याप्तकों की स्थिति की पृच्छा? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तणाइं) जघन्यं अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्टं अन्तर्मुहूर्तं कम दस हजार वर्ष की है ।

टीकार्थ—व्याख्या सुगम है । पाठ के अनुसार, तेषां शब्दार्थ के अनुसार पूर्ववत् समझ लेना चाहिए ॥३॥

उक्कोसेणं एगुणवणं राइंदियाइं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा !
 जहणणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा,
 गोयमा ! जहणणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं एगुणवणं राइं-
 दियाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, चउरिंदियाणं भंते ! केवइयं कालं
 ठिई णत्ता ? गोयमा ! जहणणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं
 छम्मासा, अपज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहणणेण वि उक्को-
 सेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहणणेणं
 अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं छम्मासा अंतो हुत्तूणा ॥सू०४॥

छाया-द्वीन्द्रियाणाम् भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम !
 जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन द्वादश संवत्सराणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा,
 गौतम ! जघन्येनापि, उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम !
 जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन द्वादश संवत्सराणि अन्तर्मुहूर्तानामि त्रीन्द्रियाणां

द्वीन्द्रियादि की स्थिति की व्यता-

शब्दार्थ—(वेइंदियाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) हे
 भगवन् ! द्वीन्द्रियों की कितने काल तक स्थिति की है ? (गोयमा) हे
 गौतम ! (जहणणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वारससंवच्छराइं) जघन्य
 अन्तर्मुहूर्तं, ए षट् वारह वर्ष (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तों
 की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेण वि उक्कोसेण वि अंतो-
 मुहुत्तं) न्य और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा)
 पर्याप्तकों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेणं
 अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वारस संवच्छराइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य

द्वीन्द्रियादिनी स्थितिनी वक्तव्यता

शब्दार्थ.—(वेइंदियाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) द्वीन्द्रियों की
 कितने काल तक स्थिति की है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेणं अंतोमुहुत्तं
 उक्कोसेणं वारससंवच्छराइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट आठ वर्ष (अपज्जत्तयाणं
 पुच्छा ?) अपर्याप्तकों की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेण वि उक्को-
 सेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य अने उत्कृष्ट पञ्च अन्तर्मुहूर्तों की (पज्जत्तयाणं
 पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेणं
 अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वारस संवच्छराइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं,
 उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं आठ आठ वर्ष

भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन एकोनपञ्चाशत् रात्रिन्दिनानि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन एकोनपञ्चाशत् रात्रिन्दिनानि अन्तर्मुहूर्तानि, चतुरिन्द्रियाणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन षण्मासान्, अपर्याप्तकानाम् पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि

अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं कम बारह बर्ष की है ।

(तेइंदियाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) व्रीन्द्रियों की भगवन् ! कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं एगुणवण्णं राइ दियाइं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं उत्कृष्ट उनपचास रात दिन (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्य भी, उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्तं (पज्जत्तयाणं पुच्छा) पर्याप्तकों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं एगुणवण्णं राइ दियाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं कम उनपचास रात्रि-दिन ।

(चउरिंदियाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) चौइन्द्रियों की भगवन् ! कितने काल तक स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं छम्मासा) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं,

(तेइंदियाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) व्रीन्द्रियोनी भगवन् केट्ठा काण सुधीनी स्थिति क्खी छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं एगुणवण्णं राइंदियाइं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट ओगणु पयास रात द्विपस (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तोनी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा !) जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्यपणु उत्कृष्ट पणु अन्तर्मुहूर्तं (पज्जत्तयाणं पुच्छा) पर्याप्तोनी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं एगुणवण्णं राइ दियाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं ओगणु पयास रात्रि द्विपस

(चउरिंदियाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) चतुरिन्द्रियोनी भगवन् केट्ठा काण सुधी स्थिति क्खी छे ? (गोयमा !) जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं छम्मासा) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट छमासा (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?)

अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन ; अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन
षण्मासात् अन्तर्मुहूर्तो नान् ॥ १ ॥

टीका—व्याख्या सुगमा ॥४॥

पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक स्थिति वक्तव्यता—

मूलम्—पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवइयं कालं
ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि
पलिओवमाइं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं वि
उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं त्तियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं; उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, संमु-
च्छिमं पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुठ्वकोडी, अपज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा !
जहण्णेणं वि; उक्कोसेणं वि अंतो हुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा,
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुठ्वकोडी जलयर
अंतोमुहुत्तूणां, गंभवकंति य पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा,
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं,

उत्कृष्ट छह मास (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तों की स्थिति की
पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं) गौतम !
जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?)
पर्याप्तकों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,
उक्कोसेणं छम्मासा अंतोमुहुत्तूणां) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त,
उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम छह मास ।

टीकार्थ—व्याख्या सुगम है ॥४॥

अपर्याप्तकेनी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि, अतो-
मुहुत्तं) गौतम ! जघन्य, पण्य अने उत्कृष्ट पण्य अन्तर्मुहूर्तनी (पज्जत्तयाणं
पुच्छा) पर्याप्तकेनी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं अतोमुहुत्तं उक्को-
सेणं, छम्मासा अतोमुहुत्तूणां) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट
अन्तर्मुहूर्त आछा छमास.

टीकार्थ—व्याख्या सुगम छ ॥ ४ ॥

अपञ्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा । जहण्णेण वि उक्कोसेणं वि अंतो-
मुहुत्तं, पञ्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,
उक्कोसेणं तिणिण पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणां, जलयर पंचिदियतिरिक्खु
दिय तिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवइयं कालं ठिईं पणत्ता ?
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी, अपञ्जत्त-
याणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं,
पञ्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं
पुव्वकोडी, अंतोमुहुत्तूणा, संमुच्छिम जलयर पंचिदियतिरिक्खु
जोणियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं
पुव्वकोडी, अपञ्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि उक्को-
सेणं वि अंतोमुहुत्तं, पञ्जत्तयाणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा । गवभवकं तिय
जलयर पंचिदिय तिरिक्खजोणियाणं, पुच्छा, गोयमा ! जह-
ण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी, अपञ्जत्तयाणं पुच्छा ?
गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं, पञ्जत्तयाणं
पुच्छा ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पुव्वकोडी
अंतोमुहुत्तूणा, चउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिणि पलिओवमाइं,
अपञ्जत्तय चउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा,
गोयमा जहण्णेणं वि, उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं, पञ्जत्तयाणं पुच्छा
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिणि पलिओवमाइं
संमुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं चउरासीवाससह-
स्साइं, अपञ्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि
अंतोमुहुत्तं, पञ्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं

अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन ; अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन
पण्मासान् अन्तर्मुहूर्तानान् ॥

टीका—व्याख्या सुगमा ॥४॥

पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक स्थिति वक्तव्यता—

मूढम्—पञ्चिदियतिरिक्खजोणियाणं भन्ते ! केवइयं कालं
ठिई पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि
पलिओवमाइं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं पज्जत्तियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, संमु-
च्छिमं पञ्चिदियतिरि जोणियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी, अपज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा !
जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतो हुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा,
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी जलयर
अंतोमुहुत्तूणां, गंभं तिय पञ्चिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा,
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं,

उत्कृष्ट, छह मास (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?), अपर्याप्तों की स्थिति की
पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्तं) गौतम !
जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?)
पर्याप्तकों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,
उक्कोसेणं छम्मासा अंतोमुहुत्तूणां) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त,
उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम छह मास ।

टीकार्थ—व्याख्या सुगम है ॥४॥

अपर्याप्तकेनी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि, अतो-
मुहुत्तं) गौतम ! जघन्य, पण्य अने उत्कृष्ट पण्य अन्तर्मुहूर्तनी (पज्जत्तयाणं
पुच्छा) पर्याप्तकेनी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण अतोमुहुत्तं उक्को-
सेण, छम्मासा अतोमुहुत्तूणां) गौतम ! जघन्य, अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट
अन्तर्मुहूर्त ओछा छमास.

टीकार्थ—व्याख्या सुगम छे ॥ ४ ॥

अपञ्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा । जहणणेण वि उक्कोसेणं वि अंतो-
मुहुत्तं, पञ्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहणणेणं अंतोमुहुत्तं,
उक्कोसेणं तिणिण पलिओवसाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, जलयर पंचिदिय
तिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?
गोयमा ! जहणणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी, अपञ्जत्त-
याणं पुच्छा, गोयमा ! जहणणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं,
पञ्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहणणेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं
पुव्वकोडी, अंतोमुहुत्तूणा, संमुच्छिम जलयर पंचिदियतिरिक्ख
जोणियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहणणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं
पुव्वकोडी, अपञ्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहणणेण वि उक्को-
सेण वि अंतोमुहुत्तं, पञ्जत्तयाणं पुच्छा गोयमा ! जहणणेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा । गवभवकंतिप्र
जलयर पंचिदिय तिरिक्खजोणियाणं, पुच्छा, गोयमा ! जह-
णणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी, अपञ्जत्तयाणं पुच्छा ?
गोयमा ! जहणणेणं वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पञ्जत्तयाणं
पुच्छा ? गोयमा ! जहणणेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पुव्वकोडी
अंतोमुहुत्तूणा, चउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा
गोयमा ! जहणणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिणि पलिओवसाइं,
अपञ्जत्तय चउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा,
गोयमा जहणणेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं, पञ्जत्तयाणं पुच्छा
गोयमा ! जहणणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिणि पलिओवसाइं
संमुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा
गोयमा ! जहणणेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं चउरासीवास्सह-
स्साइं, अपञ्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहणणेणं वि उक्कोसेणं वि
अंतोमुहुत्तं, पञ्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहणणेणं अंतोमुहुत्तं

उक्कोसेणं च उरासीवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, गम्भवक्कंतिय
 चउप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा, गोयमा !
 जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं, अपज्ज-
 णं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं
 तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं
 तिन्नि पलिओवमाइं अतोमुहुत्तूणाइं, उरपरिसप्पथलयरपंचि-
 दियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं
 सेसेणं पुव्वकोडी, अपज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण
 वि उ सेसेण वि अंतो हुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा गोयमा !
 जहण्णेणं अतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।
 सं च्छिम उरपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा,
 गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तेवन्नं वाससहस्साइं,
 अपज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि
 अंतो त्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं
 उक्कोसेणं तेवन्नं वाससहस्साइं, अंतोमुहुत्तूणाइं । गम्भ-
 वक्कंतिय उरपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा,
 गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी, अपज्जत्त-
 याणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं,
 पज्जत्तयाण पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं
 पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा, भुयपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्ख-
 जोणियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं
 पुव्वकोडी, अपज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि उक्को-
 सेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं
 अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा, संमुच्छिम-
 भुयपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा, गोयमा !

जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं वायालीसं वाससह-
 स्साइं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्को-
 सोण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जह-
 ण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वायालीसं वाससहस्साइं
 अंतोमुहुत्तूणाइं । गब्भवक्कंतियभुयपरिसप्पथलयरपंचिंदिय-
 तिरि जोणियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णे ि अंतोमुहुत्तं,
 उक्कोसेणं पुव्वकोडी, अपज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि
 उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं
 अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा, खहयरपंचिंदिय
 तिरिक्खजोणियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,
 उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा,
 जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा,
 गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पलिओवमस्स असं-
 खेज्जइभागं, अंतोमुहुत्तूणं, संमुच्छिम खहयरपंचिंदियतिरि -
 जोणियाणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं
 बावत्तरी वाससहस्साइं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा, गोय ! जह
 ण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा,
 गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं बावत्तरिवास
 वाससहस्साइं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि
 उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा. गोयमा ! जहण्णेण
 अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं बावत्तरिवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं,
 गब्भवक्कंतिय खहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा,
 गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स
 असंखेज्जइभागं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेण वि
 उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा गोयमा ! जह-

ण्णे अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जभागं,
अंतोमुहुत्तुणं ॥सू० ५॥

छाया—पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां भदन्त ! क्रियन्तं काल स्थितिः प्रज्ञप्ता ?
गौतम ! जघन्येन अन्तमुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि पल्योपमानि अपर्याप्तकानां,
पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तमुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा,
गौतम ! जघन्येन अन्तमुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि पल्योपमानि अन्तमुहूर्तानि,
संमुच्छिमपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तमुहूर्तम्, उत्कृ-

पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो की स्थिति
शब्दार्थ—(पञ्चिन्द्रियतिरिक्खजोणियाणं भन्ते ! केवइयं कालं ठिई
पण्णत्ता ?) पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो की हे भगवन् ! कित्ते काल तक्क की स्थिति
कही है (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि
पलिओवमाइं) जघन्य अन्तमुहूर्तं, उत्कृष्ट तीन पल्योपम (अपज्जत्तयाणं
पुच्छा ?), अपर्याप्तों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम !
(जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी और उत्कृष्ट
भी अन्तमुहूर्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तों की स्थिति की
पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि
पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तुणाइं) जघन्य अन्तमुहूर्तं, उत्कृष्ट अन्तमुहूर्त
कम तीन पल्योपम ।

(संमुच्छिमपञ्चिन्द्रिय तिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ?) संमुच्छिम पञ्चे-
न्द्रिय तिर्यचो की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,
उक्कोसेणं पुक्वकोडी) हे गौतम ! जघन्य अन्तमुहूर्तं, उत्कृष्ट करोड

शब्दार्थ—(पञ्चिन्द्रियतिरिक्खजोणियाणं भन्ते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता !)
पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोनी भगवन् डेट्ठा डाणनी स्थिति उडी छे ? (गोयमा) डे
गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं) जघन्य अन्तमु-
हूर्तं, उत्कृष्ट तेषु पल्योपम (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तों की स्थिति पृच्छा ?
(गोयमा) डे गौतम ! (जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य पण्णत्तं
उत्कृष्ट पण्णत्तं अन्तमुहूर्तानी (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तों की स्थिति पृच्छा ?
(गोयमा) डे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं अंतो-
मुहुत्तुणाइं) जघन्य अन्तमुहूर्तं, अने उत्कृष्ट अन्तमुहूर्तं ओत्ता तेषु पल्योपम
(संमुच्छिम पञ्चिन्द्रियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ?) संमुच्छिम पञ्चेन्द्रिय
तिर्यचोनी स्थिति डेट्ठा छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पुक्व-

ष्टेन पूर्वकोटी, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्त-
र्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पूर्वकोटि
अन्तर्मुहूर्तानां, गर्भव्युत्क्रान्तिक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पृच्छा, गौतम ! जघ-
न्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि पल्योपमानि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम !
जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन
अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि पल्योपमानि अन्तर्मुहूर्तानानि, जलचर पञ्चेन्द्रिय-

पूर्व की (अपञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तों की स्थिति कितनी ?
(गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य
भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तों
की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्व-
कोटी अंतोमुहुत्तूणा) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अन्त-
र्मुहूर्त कम करोड पूर्व की ।

(गम्भवक्कंतिय पंचिदिय तिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ?) गर्भज
पंचेन्द्रिय तिर्यचों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जह-
ण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओ इं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त
उत्कृष्ट तीन पल्योपम(अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तों की पृच्छा ?
(गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य
भी, और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तों
की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं)
जघन्य अन्तर्मुहूर्त (उक्कोसेणं तिन्नि पलिओ इं अंतोमुहुत्तूणाइं)

कोटी) गौतम जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट करोड पूर्वा (अपञ्जत्तयाणं पुच्छा)
अपर्याप्तों की स्थिति कितनी छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं)
गौतम ! जघन्य पल्योपमने उत्कृष्ट पल्योपमने अन्तर्मुहूर्तानी (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?)
पर्याप्तों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोटी
अंतोमुहुत्तूणा) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त आधा करोड पूर्वा
(गम्भवक्कंतिय पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ?) गर्भज पञ्चेन्द्रिय
तिर्यचों की पृच्छा ? (गोयमा !) गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि
पलिओवमाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट त्रय पल्योपम (अपञ्जत्तयाणं पुच्छा)
अपर्याप्तों की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं) गौतम ?
जघन्य पल्योपमने उत्कृष्ट पल्योपमने अन्तर्मुहूर्त (पञ्जत्तयाणं पुच्छा) पर्याप्तों की स्थिति
पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त
(उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त आधा त्रय

तिर्यग्योनिकानां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पूर्वकोटी, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पूर्वकोटी अन्तर्मुहूर्ताना, संमूर्च्छिमजलचर पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पूर्वकोटी, अपर्याप्तकानां उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं कम तीन पर्योपम की ।

(जलयरपंचिदिय तिरिक्खजोणियाणं भन्ते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) हे भगवन् ! जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो की कितने काल की स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट करोड पूर्व की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तको की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्तं (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तों की स्थिति की पृच्छा ? (गो १) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं कम कोटिपूर्व की ।

(संमुच्छिम जलयरपंचिदिय तिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ?) संमूर्च्छिम जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी) जघन्य अन्त-

त्रयु पर्योपनी

(जलयर पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं भन्ते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! जलयर पंचेन्द्रिय तिर्यचोनी केटला क्षाणनी स्थिति कडेदी छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट करोड पूर्वनी (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकोनी पृच्छा (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य पयु अने उत्कृष्ट पयु अन्तर्मुहूर्तं (पज्जत्तयाण पुच्छा ?) पर्याप्तोनी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं ओछा डोटि पूर्वनी

(संमुच्छिम जलयर पंचिदिय तिरिक्ख जोणियाणं पुच्छा ?) संमूर्च्छिम जलयर पंचेन्द्रिय तिर्यचोनी स्थिति पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण पुव्वकोडी) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट पूर्व डोटिनी (अपज्जत्तयाण पुच्छा ?) अपर्याप्तकोनी पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण

पृच्छा ! गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पूर्वकोटी अन्तर्मुहूर्त्ताना, गर्भञ्चु-
त्क्रान्तिकजलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पृच्छा ? गौतम ! जघन्येन अन्त-
र्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पूर्वकोटी, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टे-
नापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन

मुहूर्त्त, उत्कृष्ट पूर्वकोटी की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तों की
पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमु-
हुत्त) जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त की (पज्जत्तयाण
पुच्छा ?) पर्याप्तों की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त
की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त कम करोड पूर्व की ।

(गम्भवक्कंतिय जलयर पच्चिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ?)
गर्भज जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे
गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुव्वकोडी) जघन्य अन्त-
र्मुहूर्त्त, उत्कृष्ट करोड पूर्व की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तों
की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतो-
मुहुत्तं) जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त की (पज्जत्तयाणं
पुच्छा ?) पर्याप्तों की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतो-
मुहुत्त, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त,
उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त कम करोड पूर्व की ।

वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य पथु अने उत्कृष्ट पथु अन्तर्मुहूर्त्तानी (पज्जत्त-
याणं पुच्छा ?) पर्याप्तोंनी पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं
उक्कोसेण पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तानी उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त
ओछा करेड पूर्वनी

(गम्भवक्कंतियजलयरपच्चिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ?) गर्भज जल
चर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोनी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जह-
ण्णेणं अंतो मुहुत्त, उक्कोसेणं पुव्व कोडी) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त, उत्कृष्ट करेड
पूर्वनी (अपज्जत्तयाण पुच्छा ?) अपर्याप्तोंनी पृच्छा ? (गोयमा ।) हे गौतम ।
(जहण्णेण वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य पथु अने उत्कृष्ट पथु अन्त-
र्मुहूर्त्तानी (पज्जत्तयाण पुच्छा ?) पर्याप्तोंनी पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ।
(जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त,
उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त ओछा करेड पूर्वनी

पूर्वकोटी अन्तर्मुहूर्तानां, चतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्गोनिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि पल्योपमानि, अपर्याप्तक चतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्गोनिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि पल्योपमानि अन्तर्मुहूर्तानानि, समूर्च्छिम चतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रियतिर्यग्गोनिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन चतुरशीतिवर्षसहस्राणि,

(चउप्पयथलयर पंचिदिय तिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ?) चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम (जहणणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट तीन पल्योपम की (अपज्जत्तय चउप्पयथलयरपंचिदिय तिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त चउष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तको की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं कम तीन पल्योपम की है ।

(संमुच्छिम चउप्पय थलयरपंचिदिय तिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ?) संमूर्च्छिम चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं चउरासी-

(चउप्पयथलयर पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ?) चतुष्पद स्थलयर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोनी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट त्रय पल्योपमनी (अपज्जत्तय चउप्पय थलयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त चतुष्पद स्थलयर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोनी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य अने उत्कृष्ट त्रय अन्तर्मुहूर्तानी (पज्जत्तयाण पुच्छा ?) पर्याप्तानी स्थितिनी पृच्छा (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण तिन्नि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं त्रयो पल्योपमनी (संमुच्छिम चउप्पय थलयर पंचिदियतिरिक्खजोणियाण पुच्छा ?) संमूर्च्छिम चतुष्पद स्थलयर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोनी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण चउरासी नाससहस्राइं) जघन्य

अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्त-
कानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन चतुरशीतिवर्षसहस्राणि
अन्तर्मुहूर्तानानि, गर्भव्युत्क्रान्तिक चतुष्पदस्थलचर पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां
पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि पल्योपमानि,
अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्या-
प्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रिणि पल्योपमानि
अन्तर्मुहूर्तानानि, उगःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पृच्छा, गौतम !

वाससहस्राइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट चौरासी हजार वर्ष
की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा) अपर्याप्तकों की स्थिति की पृच्छा ? (गो-
यमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य
और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा) पर्याप्तकों की स्थिति
की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं चउ-
रासी वाससहस्राइं अंतोमुहुत्तूणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट
चौरासी हजार वर्ष में अन्तर्मुहूर्त कम की ।

(गम्भवकंति य चउप्पय थलयर पंचिदिय तिरिक्खजोणियाणं
पुच्छा ?) गर्भज चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों की स्थिति की
पृच्छा अर्थात् उनकी स्थिति कितनी है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जह-
ण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं) जघन्य अन्तर्मु-
हूर्त, उत्कृष्ट तीन पल्योपम की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकों
की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्को-

अन्तर्मुहूर्तानी, उत्कृष्ट चौरासी हजार वर्षानी (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त-
कोनी स्थिति पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेणं वि अंतो-
मुहुत्तं) जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तानी (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकोनी
स्थिति संधी प्रश्न छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं
चउरासी वाससहस्राइ अंतोमुहुत्तूणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट चौरासी
हजार वर्षमा अन्तर्मुहूर्तानी ओछानी

(गम्भवकंति य चउप्पयथलयरपंचि दियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा) गर्भज
चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचोनी स्थितिनी पृच्छा ? अर्थात् तेमनी
स्थिति कैदली छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिन्नि
पलिओवमाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट त्रय पल्योपमनी (अपज्जत्तयाणं
पुच्छा) अपर्याप्तकोनी स्थितिनी पृच्छा (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तानी (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?)

जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पूर्वकोटी, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम !
जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन
अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पूर्वकोटी अन्तर्मुहूर्तेना, समूच्छिम उरःपरिसर्पस्थल-
चरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन

सेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की, (पञ्जत्त-
याणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की पुच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण तिन्नि पल्लिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइ) जघन्य
अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम तीन पत्थोपम की है ।

(उरपरिसर्प थलयर पंचिंदिय तिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ?) उर-
परिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों की स्थिति कितनी ? (गोयमा) हे
गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुच्चकोडी) जघन्य अन्तर्-
हूर्त की, उत्कृष्ट पूर्वकोटी की (अपञ्जत्तयाणं पृच्छा ?) अपर्याप्तकों
की स्थिति कितनी ? (गोयमा जहण्णेणं वि उक्कोसेण वि अंतोमु-
हुत्त) हे गौतम ! जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की (पञ्जत्तयाणं
पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,
उक्कोसेणं पुच्चकोडी अंतोमुहुत्तूणा) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त,
उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम पूर्वकोटी की ।

(संमुच्छिम उरपरिसर्पथलयरपंचिंदिय तिरिक्खजोणियाणं
पुच्छा ?) समूच्छिम उरपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों की स्थिति

पर्याप्तकानां पृच्छा ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण
तिन्नि पल्लिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त-
ओआ ऋषु पत्थोपमनी

(उरपरिसर्प थलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा) उरपरिसर्प स्थल-
चर पंचेन्द्रिय तिर्यचानां स्थिति डेटली छे ? (गोयमा !) हे गौतम !
(जहण्णेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेण पुच्चकोडी) जघन्य अन्तर्मुहूर्तनी उत्कृष्ट पूर्व
कोटीनी (अपञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकानां स्थिति डेटली छे ? (गोयमा !
जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य अने उत्कृष्ट अन्त-
र्मुहूर्तनी (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकानां स्थिति डेटली ? (गोयमा ! जह-
ण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण पुच्चकोडी अंतोमुहुत्तूणा) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त,
अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओआ पूर्व कोटीनी

(संमुच्छिम उरपरिसर्प थलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ?) समू-
च्छिम उरपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचानां स्थिति डेटली ? (गोयमा !

त्रिपञ्चाशत् वर्षसहस्राणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टे-
नापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येय अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन
त्रिपञ्चाशत् वर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तानानि, गर्भव्युत्क्रान्तिक उरःपरिसर्पस्थल-
चर पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन
पूर्वकोटी, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्

कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तेवन्नं वाससह-
स्साइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट त्रेपन हजार वर्ष (अप-
ज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा !) हे
गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य भी और
उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति
कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं ते
वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट अन्त-
र्मुहूर्त कम त्रेपन हजार वर्ष की ।

(गर्भवक्कंतिथ उरपरिसप्प थलयर पंचिंदिय तिरिक्खजोणि-
याणं पुच्छा ?) गर्भज उरपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों की स्थिति
कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं
पुव्वकोटी) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट पूर्वकोटि की (अपज्जत्तयाणं
पुच्छा ?) अपर्याप्तों की स्थिति कितनी ? (गोयमा !) हे गौतम !
(जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य और उत्कृष्ट अन्त-

जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण तेवन्नं वाससहस्साइं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं,
उत्कृष्ट त्रेपन हजार वर्ष (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तों की स्थिति कितनी ?
(गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य पण्य अने
उत्कृष्ट पण्य अन्तर्मुहूर्तानी (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तों की स्थिति कितनी ?
(गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य पण्य अने
उत्कृष्ट पण्य अन्तर्मुहूर्तानी (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तों की स्थिति कितनी ?
(गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण तेवन्नं वाससहस्साइं अंतो-
मुहुत्तणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तानी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं ओछा त्रेपन हजारवर्षानी

(गर्भवक्कंतिथ उरपरिसप्प थलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ?)
गर्भज उरपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचों की स्थिति कितनी ? (गोयमा !)
हे गौतम ! (जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण पुव्वकोटी) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं,
उत्कृष्ट पूर्व कोटिनी (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तों की स्थिति कितनी ?
(गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य अने उत्कृष्ट

जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पूर्वकोटी, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम !
जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन
अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पूर्वकोटी अन्तर्मुहूर्तानां, समूच्छिम उरःपरिसर्पस्थल-
चरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन

सेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की, (पञ्जत्तयाणं पृच्छा ?) पर्याप्तकों की पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण तिग्नि पल्लोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम तीन पत्थोपम की है ।

(उरपरिसर्प थलयर पंचिदिय तिरिक्खजोणियाणं पृच्छा ?) उरपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों की स्थिति कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुव्वकोडी) जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट पूर्वकोटि की (अपञ्जत्तयाणं पृच्छा ?) अपर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा जहण्णेणं वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की (पञ्जत्तयाणं पृच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम पूर्वकोटि की ।

(संमुच्छिम उरपरिसर्पथलयरपंचिदिय तिरिक्खजोणियाणं पृच्छा ?) समूच्छिम उरपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों की स्थिति

पर्याप्तकेनी पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण तिग्नि पल्लोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइ) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त-
ओछा ऋथ पत्थोपमनी

(उरपरिसर्प थलयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पृच्छा) उरपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचानी स्थिति केटली छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेण पुव्वकोडी) जघन्य अन्तर्मुहूर्तनी उत्कृष्ट पूर्वकोटिनी (अपञ्जत्तयाणं पृच्छा ?) अपर्याप्तकेनी स्थिति केटली छे ? (गोयमा) जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तनी (पञ्जत्तयाणं पृच्छा ?) पर्याप्तकेनी स्थिति केटली ? (गोयमा) जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त, अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओछा पूर्व कोटिनी

(संमुच्छिम उरपरिसर्प थलयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पृच्छा ?) समूच्छिम उरपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचानी स्थिति केटली ? (गोयमा)

त्रिपञ्चाशत् वर्षसहस्राणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टे-
नापि अन्तर्मुहूर्त्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येय अन्तर्मुहूर्त्तम्, उत्कृष्टेन
त्रिपञ्चाशत् वर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्त्तानि, गर्भव्युत्क्रान्तिक उरःपरिसर्पस्थल-
चर पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्त्तम्, उत्कृष्टेन
पूर्वकोटी, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्त्तम्

कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तेवन्नं वाससह-
स्साइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं, उत्कृष्ट त्रेपन हजार वर्ष (अप-
ज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा !) हे
गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी और
उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्तं की (पज्जत्ताणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति
कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तेवन्नं
वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं की, उत्कृष्ट अन्त-
र्मुहूर्त्तं कम त्रेपन हजार वर्ष की ।

(गवभवक्कंतिय उरपरिसप्प थलयर पंचिंदिय तिरिक्खजोगि-
याणं पुच्छा ?) गर्भज उरपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों की स्थिति
कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं
पुव्वकोटी) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं, उत्कृष्ट पूर्वकोटी की (अपज्जत्तयाणं
पुच्छा ?) अपर्याप्तों की स्थिति कितनी ? (गोयमा !) हे गौतम
(जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य और उत्कृष्ट १२-

पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्त्तम्, उत्कृष्टेन पूर्वकोटी अन्तर्मुहूर्त्तोना, भुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्त्तम्, उत्कृष्टेन पूर्वकोटी, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्त्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्त्तम्, उत्कृष्टेन पूर्वकोटी अन्तर्मुहूर्त्तोना, संमूर्च्छिमभुजपरिसर्पस्थलचर-

मुहूर्त्त की (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तो की ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेणं अतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अतोमुहुत्तूणा) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तं कम पूर्वकोटि की ?

(भुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छा ?) भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो की स्थिति कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेणं अतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं, उत्कृष्ट कोटिपूर्व की (अपञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तको की स्थिति कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेण वि, उक्कोसेण वि अतोमुहुत्तं) जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तं (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तको की स्थिति कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेणं अतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अतोमुहुत्तूणा) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं की उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तं कम पूर्वकोटि की ।

। - (संमूर्च्छिम भुजपरिसर्प स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छा ?) संमूर्च्छिम भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो की स्थिति

अन्तर्मुहूर्त्तनी (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकोनी पुच्छा (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेणं अतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अतोमुहुत्तूणा पुव्वकोडी) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तं ओछा पूर्व कोटिनी ?

(भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छा ?) भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोनी स्थिति कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेणं अतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं, उत्कृष्ट कोटि पूर्वनी (अपञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकोनी स्थिति कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेणं वि उक्कोसेणं वि अतोमुहुत्तं) जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तनी (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकोनी स्थिति कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहणणेणं अतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पुव्वकोडी अतोमुहुत्तूणा) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं ओछा पूर्व कोटिनी

(संमूर्च्छिम भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छा ?) संमूर्च्छिम भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोनी स्थिति कितनी ? (गोयमा)

पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन द्वि चत्वारिंशद्वर्षसहस्राणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन द्वा चत्वारिंशद्वर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तानानि, गर्भव्युत्क्रान्तिक भुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पूर्वकोटी, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्

कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वायालीसं वासहस्साइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं की, उत्कृष्ट वयालीस हजार वर्ष की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकों की कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तों की कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वायालीसं वासहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं कम वयालीस हजार वर्ष की ।

(गम्भवक्कंतिथ भुयपरिसप्प थलयर पंचिदिय तिरिक्खजोणि-याणं पुच्छा ?) गर्भज भुजपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों की स्थिति कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट पूर्वकोटी की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकों की ? (गोयमा) हे गौ ! (जहण्णेणवि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं की (पज्जत्तयाणं

हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वायालीस वासहस्साइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट वे तादीस ६२२ वर्षंणी (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त कौनी केटली स्थिति ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं वि उक्कोसेण वि अंतो मुहुत्तं) जघन्य अने उत्कृष्ट पथु अन्तर्मुहूर्तंणी (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकौनी केटली ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वायालीसं वासहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं ज्योथा वे तादीस ६२२ वर्षंणी

(गम्भवक्कंतिथ भुयपरिसप्प थलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिग्या णं पुच्छा ?) गर्भज भुय परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचौनी स्थिति केटली ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं उत्कृष्ट पूर्व कोटीनी (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकौनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तंणी

न्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन द्वासप्ततिः वर्षसहस्राणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन द्वासप्ततिः वर्षसहस्राणि, अन्तर्मुहूर्तानानि, गर्भव्युत्क्रान्तिकखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पल्योपमस्य असंख्येयभागम्, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम !

छिम खेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो की स्थिति कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं वावत्तरी वाससहस्साइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट वहत्तर हजार वर्ष की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तों की कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं वावत्तरीवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम वहत्तर हजार वर्ष की ।

(गम्भवकंतिय खहरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ?) गर्भज खेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो की स्थिति कितनी है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखे-) जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातवे-) (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गो १) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त

उक्कोसेण वावत्तरी वाससहस्साइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट आतेर वर्षानी (अपज्जत्तयाण पुच्छा ?) अपर्याप्तोनी स्थिति डेटली (गोयमा) ! १) ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य अने उत्कृष्ट अन्त- नी (पज्जत्तयाण पुच्छा) पर्याप्तोनी डेटली ? (गोयमा !) हे गौतम !

। अंतोमुहुत्त उक्कोसेण वावत्तरी वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य- ती उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त आछा आतेर डलर वर्षानी

(गम्भवकंतियखहरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाण पुच्छा ?) गर्भज खेचर तिर्यचोनी स्थिति डेटली ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण अंतो- सेण पलिओवमस्स असंखेज्जभाग) जघन्य अन्तर्मुहूर्तानी उत्कृष्ट- ती अख्यातमा भागानी (अपज्जत्तयाण पुच्छा ?) अपर्याप्तोनी स्थिति !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य

उत्कृष्टेन पूर्वकोटी अन्तर्मुहूर्तानां, खेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पल्योपमस्य असंख्येयभागम् अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनान्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पल्योपमस्य असंख्येयभागम्, अन्तर्मुहूर्तानम्, समूच्छिमखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पृच्छा, गौतम ! जघ-

पृच्छा ? पर्याप्तकों की (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहूर्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तणां) जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, (खहयरपरिचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ?) खेचर पंचेन्द्रिय

तिर्यचों की स्थिति कितनी (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातव भाग की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तों की कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम, पल्योपम का असंख्यातवां भाग ।

‘समुच्छिम खहयर पंचिदिय तिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ?’ समू-

(पज्जत्तया णं पुच्छा ?) पर्याप्तोंने स्थिति संभधी प्रश्न छे (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तणां) जघन्य अन्तर्मुहूर्तानी उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं ओछा पूर्व कोटीनी

(खहयरपचि दियतिरिक्खजोणियाण पुच्छा ?) खेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोनी स्थिति केटली ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं, उत्कृष्ट पल्योपमना असंख्यातमा भागनी (अपज्जत्तयाण पुच्छा ?) अपर्याप्तोंने केटली ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तानी (पज्जत्तयाण ?) पर्याप्तोंने केटली ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं अंतोमुहुत्तं) जघन्य अन्तर्मुहूर्तं उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं ओछा पल्योपमना असंख्यातमा भाग

(समुच्छिम खहयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाण पुच्छा ?) समूच्छिम खेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोनी स्थिति केटली ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण अंतो-

न्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन द्वासप्ततिः वर्षसहस्राणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन द्वासप्ततिः वर्षसहस्राणि, अन्तर्मुहूर्तानानि, गर्भव्युत्क्रान्तिकखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पल्योपमस्य असंख्येयभागम्, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम !

छिम खेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यचो की स्थिति कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं बावत्तरी वाससहस्साइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त, उत्कृष्ट बहत्तर हजार वर्ष की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तों की कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं बावत्तरीवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त कम बहत्तर हजार वर्ष की ।

(गम्भवक्कतिय खहयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ?) गर्भज खेचर पञ्चेन्द्रियतिर्यचो की स्थिति कितनी है ? (गोयमा) हे गौ ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की, उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातवे भाग की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त

मुहुत्तं, उक्कोसेण बावत्तरी वाससहस्साइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त उत्कृष्ट ओतेर ६०२ वर्षनी (अपज्जत्तयाण पुच्छा ?) अपर्याप्तोनी स्थिति डेटवी (गोयमा!) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तनी (पज्जत्तयाण पुच्छा) पर्याप्तोनी डेटवी ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण बावत्तरी वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त ओछा ओतेर ६०२ वर्षनी

(गम्भवक्कतियखहयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाण पुच्छा ?) गर्भज खेचर पञ्चेन्द्रियतिर्यचोनी स्थिति डेटवी ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तनी उत्कृष्ट पल्योपमना असंख्यातमा भागनी (अपज्जत्तयाण पुच्छा ?) अपर्याप्तोनी स्थिति डेटवी ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य

जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पल्योपमस्य असंख्येयभागम्, अन्तर्मुहूर्तोन्मम् ।
टीका—व्याख्या सुगमा ॥ सू० ५ ॥

मनुष्यस्थिति वक्तव्यता—

मूलम्—मणुस्साणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं
अपज्जतमणुस्साणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि
अंतोमुहुत्तं, पज्जतमणुस्साणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं
उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, संमूच्छिमणु-
स्साणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि
अंतोमुहुत्तं, गब्भवक्कंतियमणुस्साणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा,
गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं
पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि पलि-
ओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ॥ सू० ६ ॥

उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं अंतोमुहुत्तूर्णं) जघन्य अन्त-
र्मुहूर्त्त की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त कम पल्योपम के असंख्यातवे भाग की।
टीकार्थ—व्याख्या सु है ॥५॥

मनुष्य स्थिति वक्तव्यता—

शब्दार्थ—(मणुस्साणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) हे भगवन्
मनुष्यों की कितने काल की स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं अंतो-

अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तनी (पज्जत्तयाण पुच्छा ?) पर्याप्तकेनी स्थिति केटकी ?
(गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण पलिओवमस्स अस-
खेज्जइ भाग अंतोमुहुत्तण) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त ओछा
पल्योपमना असंख्यातमा लागनी

टीकार्थ—व्याख्या सुगम छे ॥ ५ ॥

मनुष्य स्थिति वक्तव्यता

शब्दार्थ—(मणुस्साणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) हे भगवन् ! मनु-
ष्यों की केटकी काणनी स्थिति कही छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतो-

छाया-मनुष्याणां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पत्योपमानि, अपर्याप्तमनुष्याणां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि, उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तमनुष्याणां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि पत्योपमानि अन्तर्मुहूर्तानानि, संमूर्च्छिम-मनुष्याणां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, गर्भव्युत्क्रान्तिमनुष्याणां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि पत्योपमानि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि

मुहुत्त, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्ट तीन पत्योपम की (अपञ्जत्तयमणुस्साणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक मनुष्यों की पृच्छा ? स्थिति कितनी है ? (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त्त, उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त (पञ्जत्त मणुस्साणं पुच्छा ?) पर्याप्त मनुष्यों की स्थिति कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त कम तीन पत्योपम ।

(संमुच्छिम मणुस्साणं पुच्छा ?) संमूर्च्छिम मनुष्यों की स्थिति कितनी ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त्त, उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त

(गर्भवक्कंतिय मणुस्साणं पुच्छा ?) गर्भव मनुष्यों की स्थिति कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त, उत्कृष्ट तीन पत्यो

मुहुत्तं, उक्कोसेण तिन्नि पलिओवमाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त अने उत्कृष्ट त्रयु पत्योपमनी (अपञ्जत्तय मणुस्साणं पुच्छा) अपर्याप्तक मनुष्योनी स्थिति कितनी है ? (जहण्णेणं वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य पत्यु अन्तर्मुहूर्त्त उत्कृष्ट पत्यु अन्तर्मुहूर्त्त (पञ्जत्तमणुस्साणं पुच्छा ?) पर्याप्त मनुष्योनी स्थिति कितनी ? गोयमा ! हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त ओआ त्रयु पत्योपम

(संमुच्छिम मणुस्साणं पुच्छा ?) संमूर्च्छिम मनुष्योनी स्थिति कितनी ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य पत्यु अन्तर्मुहूर्त्त उत्कृष्ट पत्यु अन्तर्मुहूर्त्त

(गर्भवक्कंतिय मणुस्साणं पुच्छा ?) गर्भव मनुष्योनी स्थिति कितनी ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं)

अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन त्रीणि पर्योपमानि अन्तर्मुहूर्तानि ॥

टीका—व्याख्या सुगमा ॥सू० ६॥

वानव्यन्तरस्थिति वक्तव्यता-

मूलम्—वाणमंतराणं भंते ! देवाणं केवडयं कालं तिई गत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं पलिओवमं, अपज्जत्तवाणमंतराणं देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं पलिओवमं अंतोमुत्तूणं । वाणमंतरीणं देवीणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं, अत्तियाणं देवीणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तियाणं वाणमंतरीणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं ॥सू० ७॥

(अपज्जत्तयाणं पुच्छा) अपर्याप्तकों की स्थिति कितनी? (गोयमा) हे गौ ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति कितनी? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिभि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम तीन पर्योपम ।

टीकार्थ—व्याख्या स्पष्ट है ॥६॥

जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट त्रय पर्योपम (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तो नी स्थिति कितनी छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तोनी पृच्छा ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं तिभि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओछा त्रय पर्योपम

टीकार्थ—व्याख्या स्पष्ट छे ॥ ६ ॥

छाया—वानव्यन्तराणां भदन्त ! देवानां कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन दशवर्षसहस्राणि, उत्कृष्टेन पल्योपमम्, अपर्याप्तकवानव्यन्तराणां देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन दशवर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन पल्योपमम् अन्तर्मुहूर्तानम्, वानव्यन्तरीणाम् देवीनां पृच्छा ?, गौतम ! जघन्येन

वानव्यन्तर स्थिति वक्तव्यता

शब्दार्थ—(वाणमंतराणं भते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) हे भगवन् ! वानव्यन्तर देवों की कितने काल की स्थिति कही है ? (गोयमा) हे गौतम ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं पलिओवमं) जघन्य दस हजार वर्ष, उत्कृष्ट एक पल्योपम (अपज्जत्त वाणराणं देवाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त वानव्यन्तर देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा) पर्याप्तों की वि नी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं) जघन्य दस हजार वर्ष की उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम पल्योपम की ।

(वाणमंतरीणं देवीणं पुच्छा ?) वानव्यन्तरी देवि गों की स्थिति कितनी ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं) जघन्य दस हजार वर्ष, उत्कृष्ट अर्ध पल्योपम

वानव्यन्तर देवीनी स्थितिनी वक्तव्यता

शब्दार्थ—(वाणमंतराणं भते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! वाणव्यन्तर देवीनी केटली काणनी स्थिति कडेली छे ? छे (गोयमा !) गौतम ! (जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं पलिओवमं) जघन्य दस हजार वर्ष, उत्कृष्ट अर्ध पल्योपम (अपज्जत्त वाणमंतराणं देवाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त वानव्यन्तर देवीनी स्थिति केटली ? (गोयमा !) छे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य अने उत्कृष्ट पण्य अन्तर्मुहूर्तानी (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तोनी केटली ? (गोयमा !) छे गौतम ! (जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं) जघन्य दस हजार वर्षानी उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त आछा पल्योपम

(वाणमंतरीण देवीणं पुच्छा ?) वानव्यन्तरी देविथोनी स्थिति केटली ? (गोयमा !) छे गौतम ! (जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं) जघन्य दस हजार वर्ष, उत्कृष्ट अर्ध पल्योपनी (अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा ?)

दशवर्षसहस्राणि, उत्कृष्टेन अर्द्धपल्योपमम्, अपर्याप्तिकानां देवीनां पृच्छा ?
गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तिकानां वानव्यन्तरीणां
पृच्छा, गौतम ! जघन्येन दशवर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेनार्द्ध-
पल्योपमम् अन्तर्मुहूर्तानम् । -

टीका—व्याख्या सुगमा ॥ सू० ७ ॥

ज्योतिष्कदेवस्थिति वक्तव्यता-

मूलम्—जोइसियाणं देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं
पलिओवमट्टभागो, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससयसहस्समब्भ-
हियं, अपज्जत्तजोइसियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि,
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं
पलिओवमट्टभागो अंतोमुहुत्तूणो, उक्कोसेणं पलिओवमं वास
सयसहस्समब्भहियं अंतोमुहुत्तूणं, जोइसियाणं देवीणं पुच्छा,
गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमट्टभागो, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं
पण्णासवाससहस्समब्भहियं, अपज्जत्तजोइसियदेवीणं पुच्छा,
की (अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवियों की स्थिति
कितनी ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतो-
मुहुत्त) जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तियाणं वाणमंत-
रीणं पुच्छा ?) पर्याप्तक वानव्यन्तरी देवियों की स्थिति कितनी ?
(गोयमा) हे गौतम ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइ अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्को-
सेणं अद्धपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम दसहजार
वर्ष, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम अर्द्ध पल्योपम की ।

टीकार्थ—व्याख्या स्पष्ट है ॥ ७ ॥

अपर्याप्तक देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा) ! (हे गौतम ! (जहण्णेणं उक्को-
सेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तानी (पज्जत्तियाण वाणम
तरीण पुच्छा ?) पर्याप्तक वानव्यन्तरी देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा) ! हे
गौतम ! (जहण्णेणं दसवाससहस्साइ अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं अद्धपलिओवम
अंतोमुहुत्तूणं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त आछा दश हजार वर्षानी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त
आछा अर्ध पल्योपमनी

टीकार्थ—व्याख्या स्पष्ट छे ॥ ७ ॥

गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तय जोइसिय
 देवीणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमट्टभागो, अंतो हु-
 त्तूणो, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं पण्णासवाससहस्समब्भहियं
 अंतोमुहुत्तूणं, चंदविमाणेणं भंते ! देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जह-
 ण्णेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससयसह-
 स्समब्भहियं, अपज्जत्तयाणं चंददेवाणं पुच्छा, गोयमा ! जह-
 ण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा !
 जह गेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं उक्कोसेणं पलिओवमं
 वाससयसहस्समब्भहियं अंतोमुहुत्तूणं, चंदविमाणेणं देवीणं
 पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं
 अद्धपलिओवमं पन्नासवाससहस्समब्भहियं, अपज्जत्तियाणं
 पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्ज-
 त्तियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं भागपलिओवमं अंतो-
 मुहुत्तूणं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं प सव सहस्समब्भहियं
 अंतोमुहुत्तूणं सूरविमाणे णं भंते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई
 पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं
 पलिओवमं वाससहस्समब्भहियं, अपज्जत्तयाणं च्छा, गोयमा !
 जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा !
 जहण्णेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पलिओ-
 वमं वाससहस्समब्भहियं अंतोमुहुत्तूणं, सूरविमाणेणं भंते !
 देवीणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं, उक्को-
 सेणं अद्धपलिओवमं पंचहिं वाससएहिमब्भहियं, अपज्जत्तियाणं
 पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतमुहुत्तं, पज्ज-
 त्तयाणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेणं चउभा लिओवमं अंतोमुहु-
 त्तूणं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं पंचहिं वा एहिमब्भहियं अंतो-

मुहुत्तूणं गहविमाणेणं भंते ! देवाणं पुच्छा ? गोयमा ! जहण्णेणं
 चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओवमं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा,
 गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतो हुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा,
 गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं
 वलिओवमं अंतो हुत्तूणं, गहविमाणे देवीणं पुच्छा गोयमा !
 जहण्णेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं,
 अत्तियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि
 अंतो हुत्तं, त्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं चउभाग-
 पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं अंतो-
 मुहुत्तूणं, नक्खत्तविमाणे देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं
 चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं, अपज्जत्तयाणं
 पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्ज-
 त्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं
 अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, नक्ख-
 त्तविमाणे देवीणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलि-
 ओवमं, उक्कोसेणं साइरेणं चउभागपलिओवमं, अपज्जत्तियाणं
 पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्ज-
 त्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं अंतो-
 मुहुत्तूणं, उक्कोसेणं साइरेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं,
 ताराविमाणे देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं अट्टभागपलि-
 ओवमं, उक्कोसेणं चउभागपलिओवमं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा,
 गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं
 पुच्छा गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमट्टभागं अंतोमुहुत्तूणं,
 उक्कोसेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, ताराविमाणे देवीणं
 पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमट्टभागं, उक्कोसेणं साइरेणं

अट्टभागपलिओवमं, ताराविमाणे अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा,
गोयमा ! जहण्णेणं वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तियाणं
देवीणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमट्टभागं अंतोमुहु-
त्तूणं, उक्कोसेणं साइरेणं पलिओवमट्टभागं अंतोमुहुत्तूणं ॥सू० ८॥

छाया—ज्योतिष्काणां देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पल्योपमाष्ट-
भागम्, उत्कृष्टेन पल्योपमम् वर्षशतसहस्राभ्यधिकम्, अपर्याप्तकज्योतिष्काणां
पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा,
गौतम ! जघन्येन पल्योपमाष्टभागम्, अन्तर्मुहूर्तानम्, उत्कृष्टेन पल्योपमं वर्षशत-

ज्योतिष्कदेवों की स्थिति की वक्तव्यता

शब्दार्थ—(जोइसियाणं देवाणं पुच्छा ?) ज्योतिष्क देवों की स्थिति
की पृच्छा अर्थात् स्थिति कितने काल की ? (गोयमा ! (जहण्णेणं
पलिओवमट्टभागो, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससयसहस्समम्भहियं)
हे गौतम ! जघन्य पल्योपम का आठवां भाग, उत्कृष्ट एक लाख वर्ष
अधिक पल्योपम की (अपज्जत्त जोइसियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त
ज्योतिष्क देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्को-
सेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त-की
(पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तों की स्थिति कितनी ? (गोयमा जहण्णेणं
पलिओवमट्टभागो अंतोमुहुत्तूणो, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससयसह-
मम्भहियं अंतोमुहुत्तूणं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त पल्योपम
का आठवां भाग, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम एक पल्योपम और एक

ज्योतिष्क देवानी स्थितिनी-वक्तव्यता

शब्दार्थ—(जोइसियाण देवाणं पुच्छा ?) ज्योतिष्क देवानी स्थिति संघ धी पृच्छा ?
अर्थात् स्थिति कितने काल की ? (गोयमा ! जहण्णेण पलिओवमट्टभागो, उक्कोसेणं पलि
ओवम वाससयसहस्समम्भहियं) गौतम ! जघन्य पल्योपमना आठवां भाग उत्कृष्ट
एक लाख वर्ष अधिक पल्योपमनी (अपज्जत्तय जोइसियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक ज्योतिष्क
देवानी स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं) गौतम
जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तानी (पज्जत्तयाण पुच्छा ?) पर्याप्तकानी स्थिति
कितनी ? (गोयमा जहण्णेणं पलिओवमट्टभागो अंतोमुहुत्तूणो, उक्कोसेणं पलिओवमं
वाससयसहस्समम्भहियं अंतोमुहुत्तूणं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त आठवां पल्योपमना
आठवां भाग उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त आठवां पल्योपम अने एक लाख वर्षानी

मु तूणं गहविमाणेणं भंते ! देवाणं पुच्छा ? गोयमा ! जहण्णेणं
 चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओवमं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा,
 गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा,
 गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं
 वलिओवमं अंतो हुत्तूणं, गहविमाणे देवीणं पुच्छा गोयमा !
 जहण्णेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं,
 अपज्जत्तियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि
 अंतो हुत्तं, त्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं चउभाग-
 पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं अंतो-
 मुहुत्तूणं, नक्खत्तविमाणे देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं
 चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं, अपज्जत्तयाणं
 पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं,
 पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं
 अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, नक्ख-
 त्तविमाणे देवीणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलि-
 ओवमं, उक्कोसेणं साइरेणं चउभागपलिओवमं, अपज्जत्तियाणं,
 पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्त-
 णं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं अंतो-
 मुहुत्तूणं, उक्कोसेणं साइरेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं,
 ताराविमाणे देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं अट्टभागपलि-
 ओवमं, उक्कोसेणं चउभागपलिओवमं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा,
 गोयमा ! जहण्णेणवि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं
 पुच्छा गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमट्टभागं अंतोमुहुत्तूणं,
 उक्कोसेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, ताराविमाणे देवीणं
 पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमट्टभागं, उक्कोसेणं साइरेणं

अट्टभागपलिओवमं, ताराविमाणे अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा,
गोयमा ! जहणणेणं वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तियाणं
देवीणं पुच्छा, गोयमा ! जहणणेणं पलिओवमट्टभागं अंतोमुहु-
त्तूणं, उक्कोसेणं साइरेणं पलिओवमट्टभागं अंतोमुहुत्तूणं ॥सू० ८॥

छाया—ज्योतिष्काणां देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पल्योपमाष्ट-
भागम्, उत्कृष्टेन पल्योपमम् वर्षशतसहस्राभ्यधिकम्, अपर्याप्तकज्योतिष्काणां
पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा,
गौतम ! जघन्येन पल्योपमाष्टभागम्, अन्तर्मुहूर्तौनम्, उत्कृष्टेन पल्योपमं वर्षशत-

ज्योतिष्कदेवों की स्थिति की वक्तव्यता

शब्दार्थ—(जोइसियाणं देवाणं पुच्छा ?) ज्योतिष्क देवों की स्थिति
की पृच्छा अर्थात् स्थिति कितने काल की ? (गोयमा ! (जहणणेणं
पलिओवमट्टभागो, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससयसहस्समव्वहियं)
हे गौतम ! जघन्य पल्योपम का आठवां भाग, उत्कृष्ट एक लाख वर्ष
अधिक पल्योपम की (अपज्जत्त जोइसियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त
ज्योतिष्क देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहणणेण वि, उक्को-
सेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त-की
(पज्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्तों की स्थिति कितनी ? (गोयमा जहणणेणं
पलिओवमट्टभागो अंतोमुहुत्तूणो, उक्कोसेणं पलिओ वाससयसह-
स्समव्वहियं अंतोमुहुत्तूणं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त पल्योपम
का आठवां भाग, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम एक पल्योपम और एक

ज्योतिष्क देवोनी स्थितिनी वक्तव्यता

शब्दार्थ—(जोइसियाण देवाणं पुच्छा ?) ज्योतिष्क देवोनीस्थिति संबंधी पृच्छा ?
अर्थात् स्थिति कितने काल की ? (गोयमा ! जहणणेणं पलिओवमट्टभागो, उक्कोसेणं पलि
ओवम वाससयसहस्समव्वहियं) गौतम ! जघन्य पल्योपमना आठवां भाग उत्कृष्ट
एक लाख वर्ष अधिक पल्योपमनी (अपज्जत्त जोइसियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त ज्योतिष्क
देवोनी स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहणणेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं) गौतम
जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तनी (पज्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्तोनी स्थिति
कितनी ? (गोयमा जहणणेणं पलिओवमट्टभागो अंतोमुहुत्तूणो, उक्कोसेणं पलिओवमं
वाससयसहस्समव्वहियं अंतोमुहुत्तूणं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त आठवां पल्योपमना
आठवां भाग उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त आठवां पल्योपम अने एक लाख वर्षनी

सहस्रमभ्यधिकम्, अन्तर्मुहूर्तम्, ज्योतिष्कीणां देवीनां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पल्योपमाष्टभागम्, उत्कृष्टेन अर्द्धपल्योपमम् पञ्चाशद्वर्षसहस्रमभ्यधिकम् अपर्याप्तकज्योतिष्कदेवीणां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकज्योतिष्कदेवीणां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पल्योपमाष्टभागम् अन्तर्मुहूर्तानम्, उत्कृष्टेन अर्द्धपल्योपमम्, पञ्चाशद्वर्षसहस्राभ्यधिकम्, अन्तर्मुहूर्तानम्, चन्द्रविमाने भदन्त ! देवानां पृच्छा ? गौतम ! जघन्येन लाख वर्ष की ।

(जोइसिणीणं देवीणं पुच्छा ?) ज्योतिष्क देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं पल्लिओ ढुभागो, उक्कोसेणं अद्धपल्लिओवमं पण्णासवाससहस्समम्भहियं) हे गौतम ! जघन्य पल्योपम आठवां भाग, उत्कृष्ट पचास हजार वर्ष अधिक आधा पल्योपम की (अपज्जत्त जोइसिय देवीणं पुच्छा ?) पर्याप्त ज्योतिष्क देवियों की ? नी ? (गोयमा जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) हे गौतम ! न्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तय जोइसिय देवीणं पुच्छा ?) पर्याप्तक ज्योतिष्क देवियों की कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं पल्लियोव भागो अंतोमुहुत्तूणो, उक्कोसेण अद्धपल्लिओ वमं पण्णासवाससह म्भहियं सोमुहुत्तूणं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम पल्योपम का आठवां भाग, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम आधा पल्योपम और पचास हजार वर्ष ।

(चंद्रविमाणे णं भंते ! देवाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! चन्द्रविमान में देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपल्लिओवमं,

(जोइसियाणं देवीणं पुच्छा ?) ज्योतिष्क देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा जहण्णेणं पल्लिओवमढुभागो, उक्कोसेण अद्धपल्लिओवमं पण्णासवाससहस्समम्भहियं) हे गौतम ! जघन्य पल्योपमने आठमे भाग उत्कृष्ट पचास हजार वर्ष अधिक अर्धा पल्योपमनी (अपज्जत्त जोइसिय देवीणं पुच्छा ?) अपर्याप्त ज्योतिष्क देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तनी (पज्जत्तय जोइसिय देवीणं पुच्छा ?) पर्याप्तक ज्योतिष्क देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण पल्लिओवमढुभागो अंतोमुहुत्तूणो उक्कोसेणं अद्धपल्लिओवमं पण्णासवाससहस्समम्भहियं अंतोमुहुत्तूणं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओछा पल्योपमने आठमे भाग उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओछा अर्धा पल्योपम अने पचास हजार वर्षनी

(चंद्रविमाणे णं भंते ! देवाणं पुच्छा ?) भगवन् ! चन्द्र विमानमे देवीणी

हूर्तम्, पर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन चतुर्भागपल्योपमम् अन्तर्मुहूर्तानम्,
 उत्कृष्टेन अर्द्धपल्योपमम्, पञ्चाशद्वर्षसहस्राभ्यधिकम् अन्तर्मुहूर्तानम्, सूरविमाने
 भदन्त ! देवानाम् कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन चतु-
 र्भागपल्योपमम्, उत्कृष्टेन पल्योपमम् वर्षसहस्राभ्यधिकम् अपर्याप्तिकानां पृच्छा,
 गौ ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम !

याणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक चन्द्रविमान की देवियों की पृच्छा ? (गोयमा
 (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी और उत्कृष्ट भी
 अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक देवियों की पृच्छा ?
 (गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, ओसेणं अद्ध
 पलिओ पण्णासवाससहस्समग्गमहिंयं अंतोमुहुत्तूणं) हे गौतम !
 जघन्य अन्तर्मुहूर्त पल्योपम का चतुर्थ भाग, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त
 अर्द्ध पल्योपम और पचास हजार वर्ष की ।

(सूरविमानेण भंते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?) हे
 भगवन् ! सूर्यविमान में देवों की कितने काल की स्थिति कही है ?
 (गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओवमं वास-
 सहस्समग्गमहिंयं) हे गौतम ! जघन्य पल्योपम का चौथाई भाग, उत्कृष्ट
 एक हजार वर्ष अधिक एक पल्योपम की (अपज्जत्तियाणं पुच्छा ?)
 पर्याप्तकों की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतो-
 मुहुत्तं) जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त (पज्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्या-
 प्तकों की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं अंतो-
 मुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससहस्समग्गमहिंयं अंतोमुहुत्तूणं)

देवियेनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम !
 जघन्य पल्योपम और उत्कृष्ट पल्योपम अन्तर्मुहूर्तानी (पज्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्त
 देवियेनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण
 अद्धपलिओवमं पण्णासवाससहस्समग्गमहिंयं अंतोमुहुत्तूणं) गौतम ! जघन्य
 अन्तर्मुहूर्त ओष्ठा पल्योपमना ओष्ठा भाग, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओष्ठा अर्द्ध
 पल्योपम अने पचास हजार वर्षानी

(सूरविमाणेण भंते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?) भगवन् ! सूर्य
 विमानमा देवानी डेट्वा काणनी स्थितिं कडीं छे (गोयमा ! जहण्णेण चउभाग
 पलिओवमं, उक्कोसेण पलिओवमं वाससहस्समग्गमहिंयं) गौतम ! जघन्य पल्यो
 पमना ओष्ठा भाग उत्कृष्ट ओष्ठा अर्द्ध पल्योपमानी (अप-
 ज्जत्तियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तिकेनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण

हूर्तम्, पर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन चतुर्भागपल्योपमम् अन्तर्मुहूर्तानम्, उत्कृष्टेन अर्द्धपल्योपमम्, पञ्चाशद्वर्षसहस्राभ्यधिकम् अन्तर्मुहूर्तानम्, सूरविमाने भदन्त ! देवानाम् कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन चतुर्भागपल्योपमम्, उत्कृष्टेन पल्योपमम् वर्षसहस्राभ्यधिकम् अपर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम !

याणं पुच्छा ? अपर्याप्तक चन्द्रविमान की देवियों की पृच्छा ? (गोयमा (जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक देवियों की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं पण्णासवाससहस्समच्चमहियं अंतोमुहुत्तूणं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम पल्योपम का चतुर्थ भाग, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त अर्द्ध पल्योपम और पचास हजार वर्ष की ।

(सूरविमाणे णं भन्ते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! सूर्यविमान में देवों की कितने काल की स्थिति कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससहस्समच्चमहियं) हे गौतम ! जघन्य पल्योपम का चौथाई भाग, उत्कृष्ट एक हजार वर्ष अधिक एक पल्योपम की (अपज्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त (पज्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससहस्समच्चमहियं अंतोमुहुत्तूणं)

देवियों की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य पल्योपम अने उत्कृष्ट पल्योपम अन्तर्मुहूर्तानी (पज्जत्तियाण पुच्छा ?) पर्याप्तिकों की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं उक्कोसेण अद्धपलिओवमं पण्णासवाससहस्समच्चमहियं अंतोमुहुत्तूणं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त जोथा पद्योपमनो जोथा लाग, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त जोथा अर्द्ध पद्योपम अने पचास हजार वर्षानी

(सूरविमाणे णं भन्ते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई ण्णत्ता ?) भगवन् ! सूर्य विमानमा देवोनी केटला काणनी स्थिति कइी छे (गोयमा ! जहण्णेण चउभाग पलिओवमं, उक्कोसेण पलिओवमं वाससहस्समच्चमहियं) गौतम ! जघन्य पद्योपमनो जोथा लाग उत्कृष्ट जोथे हजार वर्ष अधिक जोथे पद्योपमनी (अपज्जत्तियाण पुच्छा ?) अपर्याप्तिकों की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण

जघन्येन चतुर्भागपल्योपमम् अन्तर्मुहूर्तोन्नम्, उत्कृष्टेन पल्योपमम् वर्षसहस्राभ्यधिकम् अन्तर्मुहूर्तोन्नम्, सूरविमाने खलु भदन्त ! देवीनां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन चतुर्भागपल्योपमम्, उत्कृष्टेन अर्द्धपल्योपमम् पञ्चभिः वर्षशतैरभ्यधिकम्, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन चतुर्भागपल्ययोमम् अन्तर्मुहूर्तोन्नम्, उत्कृष्टेन अर्द्ध-

हे गौतम ! जघन्य पल्योपम का चतुर्थ भाग में अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्ट एक पल्योपम और एक हजार वर्ष में अन्तर्मुहूर्त्त, ।

(सूरविमाणेण भंते ! देवीणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! सूर्यविमान देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण चउभागपलिओवमं, कोसेणं अद्ध पलिओवमं पंचहिं वाससएहिमम्भहियं) हे गौ ! जघन्य पल्योपम का चौथाई भाग, उत्कृष्ट पांच सौ वर्ष अधिक एक पल्योपम (अपज्जत्तियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक सूर्य देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त की (प याणं पुच्छा ?) पर्या देवियों की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओ गोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं पंचहिं व सएहिमम्भहियं अंतोमुहुत्तूणं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त कम चौथाई पल्योपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त अर्द्ध पल्योपम और पांच सौ वर्ष की ।

अंतोमुहुत्तं) जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त (पज्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकानां पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण चउभागपलियोवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससहस्रमम्भहियं अंतोमुहुत्तूणं) गौतम, जघन्य पल्योपमना यथा भागभा अन्तर्मुहूर्त्त योछा अने उत्कृष्ट अेक पल्योपम अने अेक ह्जार वर्षमां अन्तर्मुहूर्त्त योछा ।

(सूरविमाणेण भंते ! देवीण पुच्छा ?) भगवान् ! सूर्य विमानेमां देवियोनी स्थिति केटली ? (गोयमा ! जहण्णेण पलिओवमं, उक्कोसेणं अद्ध पलिओवमं पंचहिं वाससएहिमम्भहियं) गौतम ! जघन्य पल्योपमने यथा भाग उत्कृष्ट पाचसो वर्ष अधिक अेक पल्योपम (अपज्जत्तियाण पुच्छा ?) अपर्याप्तक सूर्य विमानेनी देवियोनी स्थिति केटली ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तनी (पज्जत्तियाण पुच्छा ?) पर्याप्तक देवियोनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं उक्कोसेण अद्धपलिओवमं पंचहिं वाससएहिमम्भहियं अंतोमुहुत्तूणं) गौतम ! जघ-

पल्योपमम् पञ्चभिः वर्षशतैरभ्यधिकम् अन्तर्मुहूर्तोऽनम्, ग्रहविमाने खलु भदन्त !
 देवानां पृच्छा ? गौतम ! जघन्येन चतुर्भागपल्योपमम्, उत्कृष्टेन पल्योपमम्,
 अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, अपर्याप्तकानां
 पृच्छा, गौतम ! जघन्येन चतुर्भागपल्योपमम् अन्तर्मुहूर्तोऽनम्, उत्कृष्टेन पल्यो-
 पमम् अन्तर्मुहूर्तोऽनम्, ग्रहविमाने खलु देवीनां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन चतुर्भाग-
 पल्योपम् उत्कृष्टेन अर्द्धपल्योपमम् अपर्याप्तिकां पृच्छा ? गौतम ! जघन्येनापि

(ग्रहविमाणे णं भन्ते ! देवाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! ग्रहविमान
 में देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं,
 उक्कोसेणं पलिओ) हे गौतम ! जघन्य चौथाई पल्योपम की, उत्कृष्ट
 एक पल्योपम की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक ग्रह-देवों की
 स्थिति वि नी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि
 अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त्त, उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त
 की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा !
 जहण्णेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पलिओवमं अंतो-
 मुहुत्तूणं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त कम चौथाई पल्योपम, उत्कृष्ट
 अन्तर्मुहूर्त्त कम एक पल्योपम

(ग्रहविमाणे देवीणं पुच्छा) ग्रहविमान में देवियों की स्थिति कितनी
 है ? गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओ उक्कोसेणं अर्द्धपलिओ-
 वमं) हे गौतम ! जघन्य चौथाई पल्योपम, उत्कृष्ट अर्ध पल्योपम

न्य अन्तर्मुहूर्त्त ओछा यतुर्थाश पल्योपमनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त ओछा
 अर्ध पल्योपम अने पायसो वर्षनी

(ग्रहविमाणेणं भन्ते ! देवाण पुच्छा ?) भगवन् ! ग्रहविमानमा देवीना
 स्थिति डेटली ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेण पलिओवमं)
 गौतम ! जघन्य यतुर्थाश पल्योपमनी उत्कृष्ट अर्ध पल्योपमनी (अपज्जत्तयाणं
 पुच्छा ?) अपर्याप्तक ग्रह विमानना देवीना स्थिति डेटली ? (गोयमा ! जहण्णेण
 वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्य पथु अन्तर्मुहूर्त्त,
 उत्कृष्ट पथु अन्तर्मुहूर्त्तनी (पज्जत्तयाण पुच्छा ?) पर्याप्तकेनी स्थिति डेटली ?
 (गोयमा ! जहण्णेण चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेण पलिओवमं अंतो-
 मुहुत्तूणं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त ओछा यतुर्थाश पल्योपम उत्कृष्ट
 अन्तर्मुहूर्त्त ओछा अर्ध पल्योपम

(ग्रहविमाणे देवीण पुच्छा ?) ग्रहविमाननी देवियोनी स्थिति डेटली ?
 (गोयमा ! जहण्णेण चउभागपलिओवमं, उक्कोसेण अर्द्धपलिओवमं) गौतम !
 जघन्य अने यतुर्थाश पल्योपम, उत्कृष्ट अर्ध पल्योपम (अपज्जत्तियाणं पुच्छा ?)

उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम् पर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन चतुर्भागपल्यो, पमम् अन्तर्मुहूर्तानम्, उत्कृष्टेन अर्द्धपल्योपमम्, अन्तर्मुहूर्तानम्, नक्षत्रविमाने देवानां पृच्छा ? गौतम ! जघन्येन चतुर्भागपल्योपमम्, उत्कृष्टेन अर्द्धपल्योपमम्, अपर्याप्तिकानां पृच्छा ? गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुहूर्तानम्, उत्कृष्टेन अर्द्धपल्योपमम्,

(अपञ्जत्तिया णं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवियां की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की (पञ्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक देवियों की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तणं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं अंतोमुहुत्तणं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम चौथाई पल्योपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम अर्ध पल्योपम की ।

(नक्खत्तविमाणे देवाणं पुच्छा ?) नक्षत्र विमान में देवां की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं अद्ध पलिओवमं) हे गौतम ! जघन्य चौथाई पल्योपम, उत्कृष्ट अर्ध-पल्योपम की (अपञ्जत्तियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौ जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पञ्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति की पृच्छा ? (गो ! ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तणं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं अंतोमुहुत्तणं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त चौथाई पल्योपम, उत्कृष्ट अन्त

अपर्याप्तक देवियेनी स्थिति केटी ? (गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतो-मुहुत्तं) गौतम ! जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तनी (पञ्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्या-प्तक देवियेनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तणं उक्कोसेणं अद्ध पलिओवमं अंतोमुहुत्तणं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओछा थार बाग अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओछा अर्ध पल्योपमनी

(नक्खत्तविमाणे देवाणं पुच्छा ?) नक्षत्र विमानमा देवांनी स्थितिनी पृच्छा (गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं अद्ध पलिओवमं) गौतम ! जघन्य अतुर्थांश पल्योपम उत्कृष्ट अर्ध पल्योपमनी (अपञ्जत्तियाणं पुच्छा ?) अपर्या-प्तकेनी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य पथु अने उत्कृष्ट पथु अन्तर्मुहूर्तनी (पञ्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकेनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तणं, उक्को-

अन्तर्मुहूर्त्तानम्, नक्षत्रविमाने देवीनां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन चतुर्भागपल्योपमम्, उत्कृष्टेन सातिरेकम् चतुर्भागपल्योपमम्, अपर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्त्तम्, पर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन चतुर्भागपल्योपमम् अन्तर्मुहूर्त्तानम्, उत्कृष्टेन सातिरेकं चतुर्भागपल्योपमम्, अन्तर्मुहूर्त्तानम्, ताराविमाने देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अष्टभागपल्योपमम् उत्कृष्टेन चतुर्भागपल्योपमम् अपर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टे

र्मुहूर्त्तं कम अर्द्धं पल्योपम ।

(नक्षत्रविमाने देवीनां पृच्छा ?) नक्षत्र विमान में देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं साइरेगं चउभागपलिओवमं) हे गौतम ! जघन्य चौथाई पल्योपम, उत्कृष्ट कुछ अधिक चौथाई पल्योपम (अपज्जत्तियाणं पृच्छा ?) अपर्याप्त देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहूर्त्तं) हे गौतम ! जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्तं (पज्जत्तियाणं पृच्छा ?) पर्याप्त देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहूर्त्तूणं, उक्कोसेणं साइरेगं चउभागपलिओवमं अंतोमुहूर्त्तूणं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं कम चौथाई पल्योपम, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तं कम पल्योपम के चौथाई भाग से किंचित् अधिक ।

(ताराविमाने देवानां पृच्छा ?) तारा विमान में देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं अष्टभागपलिओवमं, उक्कोसेणं चउभागपलिओवमं) हे गौतम ! जघन्य पल्योपम का आठवां भाग,

सेणं अद्ध पलिओवमं अंतोमुहूर्त्तूणं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं ओछा अतु-
थांश पल्योपम उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तं ओछा अर्द्धं पल्योपम

(नक्षत्रविमाने देवीनां पृच्छा ?) नक्षत्र विमानमा देवियेनी स्थिति डेटवी ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं उक्कोसेणं साइरेगं चउभाग पलिओवमं) गौतम ! जघन्य अतुथांश पल्योपम, उत्कृष्ट अर्द्धं अधिक अतुथांश पल्योपमनी (अपज्जत्तियाणं पृच्छा ?) अपर्याप्त देवियेनी स्थिति डेटवी ? (गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहूर्त्तं) गौतम ! जघन्य पल्योपम अन्त-
उत्कृष्ट पल्योपम अन्तर्मुहूर्त्तं (पज्जत्तियाणं पृच्छा ?) पर्याप्त देवियेनी स्थिति डेटवी ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहूर्त्तूणं उक्कोसेणं साइरेगं चउभाग पलिओवमं अंतोमुहूर्त्तूणं) जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं ओछा अतुथांश पल्योपम उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तं ओछा पल्योपमना चौथाई भागधी स्थिति अधिक छे

नापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पल्योपमाष्टभागम् अन्तर्मुहूर्तोऽनम्, उत्कृष्टेन चतुर्भागपल्योपमम् अन्तर्मुहूर्तोऽनम्, ताराविमाने देवीनां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पल्योपमाष्टभागम्, उत्कृष्टेन सातिरेकम् अष्टभागपल्योपमम्, ताराविमाने अपर्याप्तिकानां देवीनां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टे-

उत्कृष्ट पल्योपम का चौथाई भाग (अपज्जत्तियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त (पज्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमद्वभागं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम पल्यो का आठवां भाग, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम पल्योपम का चौथाई भाग ।

(ताराविमाने देवीणं पुच्छा ?) तारा विमान में देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमद्वभागं उक्कोसेणं साइरेणं अद्वभाग पलिओवमं) हे गौतम ! जघन्य पल्योपम का आठवां भाग, उत्कृष्ट पल्योपम के आठवे भाग से कुछ अधिक (तारा विमाने अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा ?) तारा विमान में अपर्याप्तक देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त (पज्जत्ति-

(ताराविमाने देवाणं पुच्छा ?) तारा विमानमा देवीनी स्थिति डेटली ? (गोयमा ! जहण्णेणं अद्वभाग पलिओवम, उक्कोसेणं चउभाग पलिओवम) गौतम ! जघन्य पल्योपमना आठमे भाग, उत्कृष्ट पल्योपमना चौथे भाग (अपज्जत्तियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवीनी स्थिति डेटली ? (गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्त) गौतम ! जघन्य पल्योपमने उत्कृष्ट पल्योपमना अन्तर्मुहूर्त (पज्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक देवीनी स्थिति डेटली ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमद्वभागं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त चौथा पल्योपमना आठमे भाग, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त चौथा पल्योपमना चौथे भाग

(ताराविमाने देवीणं पुच्छा ?) तारा विमानमा देवीनी स्थिति डेटली ? (गोयमा ! जहण्णेण अद्वभागपलिओवमं उक्कोसेणं साइरेणं अद्वभाग पलिओवमं) गौतम ! जघन्य पल्योपमना आठमे भाग, उत्कृष्ट पल्योपमना आठमे भागथी कुछ अधिक (तारा विमाने अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा ?) तारा विमानमा अपर्याप्तक देवीनी स्थिति डेटली ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतो-

નાપિ અન્તર્મુહૂર્તમ્, પર્યાપ્તકાનાં દેવીનાં પૃચ્છા, ગૌતમ ! જઘન્યેન પલ્યોપમાષ્ટ-
ભાગમ્ અન્તર્મુહૂર્તોનમ્, ઉત્કૃષ્ટેન સાતિરેકમ્ પલ્યોપમાષ્ટભાગમ્ અન્તર્મુહૂર્તોનમ્ ॥

ટીકા—વ્યાખ્યા સુગમા, ॥૬૦ ૮॥

વૈમાનિકદેવસ્થિતિ વક્તવ્યતા—

મૂલમ્—વેમાણિયાણં દેવાણં મંતે ! કેવદ્વયં કાલં ઠિઈ
પળ્ણત્તા ? ગોયમા ! જહળ્ણેણં પલિઓવમં, ઉક્કોસેણં તેત્તીસં
સાગરોવમાઈં, અપજ્જત્તયાણં પુચ્છા, ગોયમા ! જહળ્ણેણ વિ
ત્તોસેણ વિ અંતોમુહુત્તં, પજ્જત્તયાણં પુચ્છા, ગોયમા ! જહળ્ણેણં
પલિઓવમં અંતોમુહુત્તૂણં, ઉક્કોસેણં તેત્તીસં સાગરોવમાઈં
અંતોમુહુત્તૂણાઈં, વેમાણિયાણં મંતે ! દેવીણં કેવદ્વયં કાલં ઠિઈ
પળ્ણત્તા, ગોયમા ! જહળ્ણેણં પલિઓવમં, ઉક્કોસેણં પળ્ણવન્નં
પલિઓવમાઈં, અપજ્જત્તિયાણં પુચ્છા, ગોયમા ! જહળ્ણેણ વિ
ઉક્કોસેણ વિ અંતોમુહુત્તં, પજ્જત્તિયાણં પુચ્છા, ગોયમા ! જહ-
ળ્ણેણં પલિઓવમં અંતોમુહુત્તૂણં, ઉક્કોસેણં પળ્ણવન્નં પલિઓવ-
માઈં અંતોમુહુત્તૂણાઈં, સોહમ્મે ણં મંતે ! કપ્પે દેવાણં કેવદ્વયં
કાલં ઠિઈ પળ્ણત્તા ? ગોયમા ! જહળ્ણેણં પલિઓવમં, ઉક્કોસેણં
દો સાગરોવમાઈં, અપજ્જત્તયાણં પુચ્છા, ગોયમા ! જહળ્ણેણ વિ,

યાણં દેવીણં પુચ્છા ?) પર્યાપ્ત દેવિયોં કી સ્થિતિ કિત્તની ? (ગોયમા !
જહળ્ણેણં પલિઓવમદ્વભાગં અંતોમુહુત્તૂણં, ઉક્કોસેણં સાહરેગં પલિ-
ઓવમદ્વભાગં અંતોમુહુત્તૂણં) હે ગૌતમ ! જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત કમ
પલ્યોપમ કા આઠવાં ભાગ ઓર ઉત્કૃષ્ટ અન્તર્મુહૂર્ત કમ પલ્યોપમ કે
આઠવેં ભાગ સે કુલ્લ અધિક ।

ટીકાર્થ—વ્યાખ્યા સુગમ હૈ ॥૮॥

મુહુત્તં) ગૌતમ ! જઘન્ય પલ્લ અને ઉત્કૃષ્ટ પલ્લ અન્તર્મુહૂર્ત (પજ્જત્તિયાણ પુચ્છા ?)
પર્યાપ્ત દેવિયોની સ્થિતિ કેટલી છે ? (ગોયમા ! જહળ્ણેણં પલિઓવમદ્વભાગ અંતો-
મુહુત્તૂણં, ઉક્કોસેણં સાહરેગં પલિઓવમદ્વભાગં અંતોમુહુત્તૂણ) ગૌતમ ! જઘન્ય
અન્તર્મુહૂર્ત ઓછા પલ્યોપમની આઠમા ભાગ, અને ઉત્કૃષ્ટ અન્તર્મુહૂર્ત ઓછા
પલ્યોપમનો આઠમા ભાગથી કાંઈક અધિક ટીકાર્થ—વ્યાખ્યા સુગમ છે ॥૮॥

उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं देवाणं पुच्छा, गोयमा !
जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं दो सागरोवमाइं
अंतोमुहुत्तूणाइं, सोहम्मं कप्पे देवीणां पुच्छा, गोयमा ! जह-
ण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं, अपज्ज-
त्तियाणं देवीणां पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि
अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तियाणं देवीणां पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं
पलिओवमं, अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं
अंतोमुहुत्तूणाइं, सोहम्मं कप्पे परिग्गहियाणं देवीणां पुच्छा,
गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं सत्तपलिओवमाइं,
अपज्जत्तियपरिग्गहिय देवीणां पुच्छा गोयमा ! जहण्णेण वि
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, परिग्गहियाणं पज्जत्तियाणं देवीणां
पुच्छा गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं
सत्तपलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, सोहम्मं कप्पे अपरिग्गहि-
याणं देवीणां, पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं
पण्णासं पलिओवमाइं, अपज्जत्तियाणं पुच्छा. गोयमा ! जह-
ण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तियाणं पुच्छा,
जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं उक्कोसेणं पन्नासं पलिओव
माइं अंतोमुहुत्तूणाइं, ईसाणे कप्पे देवाणं पुच्छा, गोयमा !
जहण्णेणं साइरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं साइरेगाइं दो सागरो-
वमाइं, अपज्जत्तदेवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण
वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगं
पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं साइरेगाइं दो सागरोवमाइं
अंतोमुहुत्तूणाइं, ईसाणे कप्पे देवीणां पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं
साइरेगं पलिओवमं उक्कोसेणं पणपन्नं पलिओवमाइं ईसाणे

नापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां देवीनां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पत्योपमाष्ट-
भागम् अन्तर्मुहूर्तानम्, उत्कृष्टेन सातिरेकम् पत्योपमाष्टभागम् अन्तर्मुहूर्तानम् ॥

टीका—व्याख्या सुगमा, ॥६० ८॥

वैमानिकदेवस्थिति वक्तव्यता—

मूलम्—वेमाणियाणं देवाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं तेत्तीसं
सागरोवमाइं, अपज्जत्तियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि

क्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं
पलिओवमं अंतोमुहुत्तणं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं
अंतोमुहुत्तणाइं, वेमाणियाणं भंते ! देवीणं केवइयं कालं ठिई

पण्णत्ता, गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं पणवन्नं
पलिओवमाइं, अपज्जत्तियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि
उक्कोसेण वि अंतो हुत्तं, पज्जत्तियाणं पुच्छा, गोयमा ! जह-

ण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तणं, उक्कोसेणं पणवन्नं पलिओव-
माइं अंतोमुहुत्तणाइं, सोहम्मै णं भंते ! कप्पे देवाणं केवइयं
कालं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं

दो सागरोवमाइं, अपज्जत्तियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि,

याणं देवीणं पुच्छा ?) पर्याप्त देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा !

जहण्णेणं पलिओवमद्वभागं अंतोमुहुत्तणं, उक्कोसेणं साहरेणं पलि-
ओवमद्वभागं अंतोमुहुत्तणं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं कम

पत्योपम का आठवां भाग और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं कम पत्योपम के
आठवें भाग से कुछ अधिक ।

टीकार्थ—व्याख्या सुगम है ॥८॥

मुहुत्तं) गौतम ! जघन्य पत्यु अने उत्कृष्ट पत्यु अन्तर्मुहूर्तं (पज्जत्तियाणं पुच्छा ?)
पर्याप्त देवियों की स्थिति कितनी है ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमद्वभागं अंतो-
मुहुत्तणं, उक्कोसेणं साहरेणं पलिओवमद्वभागं अंतोमुहुत्तणं) गौतम ! जघन्य
अन्तर्मुहूर्तं अष्टौ पत्योपमनी आठमो भाग, अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं अष्टौ
पत्योपमनी आठमो भागसे अधिक टीकार्थ—व्याख्या सुगम है ॥८॥

उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तियाणं देवाणं पुच्छा, गोयमा !
जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं दो सागरोवसाइं
अंतोमुहुत्तूणाइं, सोहम्मं कप्पे देवीणं पुच्छा, गोयमा ! जह-
ण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवसाइं, अपज्ज-
त्तियाणं देवीणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि
अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं
पलिओवमं, अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवसाइं
अंतोमुहुत्तूणाइं, सोहम्मं कप्पे परिग्गहियाणं देवीणं पुच्छा,
गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं सत्तपलिओवसाइं,
अपज्जत्तियपरिग्गहिय देवीणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेण वि
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, परिग्गहियाणं पज्जत्तियाणं देवीणं
पुच्छा गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं
सत्तपलिओवसाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, सोहम्मं कप्पे अपरिग्गहि-
याणं देवीणं, पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं
पण्णासं पलिओवसाइं, अपज्जत्तियाणं पुच्छा. गोयमा ! जह-
ण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तियाणं पुच्छा,
जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं उक्कोसेणं पन्नासं पलिओव
साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, ईसाणे कप्पे देवाणं पुच्छा, गोयमा !
जहण्णेणं साइरेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं साइरेगाइं दो सागरो-
वसाइं, अपज्जत्तदेवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण
वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं साइरेणं
पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं साइरेगाइं दो सागरोवसाइं
अंतोमुहुत्तूणाइं, ईसाणे कप्पे देवीणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं
साइरेणं पलिओवमं उक्कोसेणं पणपन्नं पलिओवसाइं ईसाणे

कप्पे देवीणं अपज्जत्तियाणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसे-
 णवि, अंतोमुहुत्तं, ईसाणे कप्पे पज्जत्तियाणं पुच्छा, गोयमा !
 जहण्णेणं साइरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं उक्कोसेणं पणपन्नं
 पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ईसाणे कप्पे परिग्गहियाणं
 देवीणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगं पलिओवमं, उक्को-
 सेणं नवपलिओवमाइं अपज्जत्तियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण
 वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, ईसाणेकप्पे पज्जत्तियाणं पुच्छा
 गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं नव
 पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, ईसाणेकप्पे अपरिग्गहि-
 याणं देवीणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगं पलिओवमं,
 उक्कोसेणं पणपन्नाइं पलिओवमाइं अप्पज्जत्तियाणं पुच्छा,
 गोयमा ! जहण्णेणवि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तियाणं
 पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं,
 उक्कोसेणं पणपन्नं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं सणकुमारे
 कप्पे देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं दो सागरोवमाइं, उक्को-
 सेणं सत्तसागरोवमाइं, अपज्जत्तियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णे-
 णवि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तियाणं पुच्छा, गोयमा !
 जहण्णेणं दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं उक्कोसेणं सत्तसा-
 गरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, माहिंदे कप्पे देवाणं पुच्छा, गोयमा !
 जहण्णेणं साइरेगाइं दो सागरोवमाइं उक्कोसेणं साइरे-
 गाइं सत्तसागरोवमाइं, अपज्जत्तियाणं पुच्छा ? गोयमा !
 जहण्णेण वि उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तियाणं पुच्छा ?
 गोयमा ! जहण्णेणं दो सागरोवमाइं साइरेगाइं अंतो
 मुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सत्तसागरोवमाइं साइरेगाइं अंतोमुहु-
 त्तूणाइं, बंभलोए कप्पे देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं सत्त

सागरोवमाइं उक्कोसेणं दससागरोवमाइं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?
 गोयमा ! जहण्णेणवि उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाण
 पुच्छा ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्तसागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं
 उक्कोसेणं दससागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, लंतए कप्पे देवाणं
 पुच्छा ? गोयमा ! जहण्णेणं दससागरोवमाइं उक्कोसेणं चउ-
 दस सागरोवमाइं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जह गेणवि
 उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्तं, पज्जयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णे-
 णं दससागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं चउदस साग
 रोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, महासुक्के कप्पे देवाणं पुच्छा,
 गोयमा ! जहण्णेणं चउदससागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्तरस-
 सागरोवमाइं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि,
 उक्कोसेण वि, अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं
 चउदस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं उक्कोसेणं सत्तसागरोवमाइं
 अंतोमुहुत्तूणाइं, सहस्सारे कप्पे देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जह-
 ण्णेणं सत्तरस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं अट्टारससागरोवमाइं,
 अपज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि
 अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरस-
 सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अट्टारससागरोवमाइं
 अंतोमुहुत्तूणाइं, आणए कप्पे देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जह-
 ण्णेणं अट्टारससागरोवमाइं, उक्कोसेणं एगूणवीसं सागरोवमाइं,
 अपज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि
 अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं अट्टारस-
 सागरोवमाइं, अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं एगूणवीसं सागरोवमाइं
 अंतोमुहुत्तूणाइं, पाणएकप्पे देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं
 एगूणवीसं सागरोवमाइं उक्कोसेणं वीसं सागरोवमाइं अपज्जत्त-

याणं पुच्छा, ? गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं
 पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण एगूणवीसं सागरोवमाइं
 अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं
 आरणे कप्पे देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं वीसं सागरोव-
 माइं उक्कोसेणं एक्कवीसं सागरोवमाइं अपज्जत्तयाणं पुच्छा,
 गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं
 पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं वीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं
 उक्कोसेणं एगवीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं अच्चुए कप्पे
 देवाणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेणं एगवीसं सागरोवमाइं उक्को
 सेणं बावीसं सागरोवमाइं अपज्जत्तयाणं पुच्छा ? गोयमा !
 जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा ?
 गोयमा ! जहण्णेणं इक्कसीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं
 उक्कोसेणं बावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ॥सू०९॥

छाया--वैमानिकानां देवानां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ?
 गौतम ! जघन्येन पल्योपमम् उत्कृष्टेन त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमानि, अपर्याप्तकानां

वैमानिक देवों की स्थिति की वक्तव्यता-

शब्दार्थ--(वैमाणियाणं देवाणं भन्ते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?)
 हे भगवन् ! वैमानिक देवों की कितने काल की स्थिति कही है ?
 (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं)
 हे गौतम ! जघन्य पल्योपम की, उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम की (अप-
 ज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त वैमानिक देवों की स्थिति कितनी ?
 (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम !

वैमानिक देवोनी स्थिति वक्तव्यता

शब्दार्थ--(वैमाणियाणं देवाणं भन्ते ! केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) हे भगवन् !
 वैमानिक देवोनी केट्ठा काणनी स्थिति क्कडी छे ? (गोयमा ! जहण्णेण पलिओ-
 वमं, उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाइ) हे गौतम ! जघन्य पल्योपमनी, उत्कृष्ट
 तेत्तीस सागरोपमनी (अपज्जत्तयाण पुच्छा ?) अपर्याप्तक वैमानिक देवोनी
 स्थिति केट्ठा छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) गौतम !
 जघन्य पल्योपमने उत्कृष्ट पल्योपमने अन्तमुहुत्तं (पज्जत्तयाण पुच्छा ?) पर्याप्तकानी

पृच्छा ! गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पल्योपमम् अन्तर्मुहूर्त्तानम्, उत्कृष्टेन त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्त्तानानि, वैमानिकीनां भदन्त ! देवीनां कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन पल्योपमम्, उत्कृष्टेन पञ्चपञ्चाशत् पल्योपमानि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेननापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पल्योपमम् अन्तर्मुहूर्त्तानम्, उत्कृष्टेन पञ्च-

जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त की (पञ्जत्तियाणं पुच्छा) पर्याप्तको की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त कम एक पल्योपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त तेतीस सागरोपम की ।

(वैमाणियाणं भंते ! देवीणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) हे भगवन् ! वैमानिक देवियों की स्थिति कितने काल की कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं पणपन्नं पलिओ) हे गौ ! जघन्य पल्योपम की, उत्कृष्ट पचपन पल्यो की (अपञ्जत्तियाणं पुच्छा) अपर्याप्तक देवियों की स्थिति नी ? (गो ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त की (पञ्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक वैमानिक देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पणपन्नं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त कम एक पल्योपम और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त कम पचपन पल्योपम की ।

स्थिति डेटवी छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त ओछा ओइ पल्योपमनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त ओछा तेतीस सागरोपमनी

वैमाणियाणं भंते ! देवीणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! वैमानिक देवियों की स्थिति डेटवी काणनी कही छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं पणपन्नं पलिओवमं) गौतम ! जघन्य पल्योपमनी, उत्कृष्ट पचपन पल्योपमनी (अपञ्जत्तियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवियों की स्थिति डेटवी ? (गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्य पल्योपम उत्कृष्ट पल्योपम अन्तर्मुहूर्त्तनी (पञ्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक वैमानिक देवियों की स्थिति डेटवी ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पणपन्नं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त ओछा ओइ

पञ्चाशत् पत्योपमानि अन्तर्मुहूर्तो नानि, सौधर्मे खलु भदन्त ! कल्पे देवानां कियन्तं कालं स्थितिः प्रज्ञसा ? गौतम ! जघन्येन पत्योपमम् उत्कृष्टेन द्वे सागरोपमे, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पत्योपमम् अन्तर्मुहूर्तो नम्, उत्कृष्टेन द्वे सागरोपमे अन्तर्मुहूर्तो ने, सौधर्मे कल्पे देवीनां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पत्योपमम् उत्कृष्टेन पञ्चाशत् पत्योपमानि, अपर्याप्तकानां

(सोहस्मे णं भंते ! कप्पे देवाणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) हे भगवन् ! सौधर्म कल्प में देवों की स्थिति कितने काल की कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं दो सागरोवमाइं) हे गौतम ! जघन्य एक पत्योपम की उत्कृष्ट दो सागरोपम की (अपज्जत्तियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तयाण देवाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक देवों की स्थिति किनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त एक पत्योपम और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम दो सागरोपम की है।

(सोहस्मे कप्पे देवीणं पुच्छा ?) सौधर्म कल्प में देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवम, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं) हे गौतम ! जघन्य एक पत्योपम, उत्कृष्ट पचास पत्योपम

पत्योपम अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओछा पत्यापम पत्योपमनी छे.

(सोहस्मेणं भंते ! कप्पे देवाणं केवइयं कालं ठिई पणत्ता ?) भगवन् ! सौधर्म कल्पमें देवीनी स्थिति कितनी कही छे ? (गोयमा ! जहण्णेण पलिओवमं, उक्कोसेणं दो सागरोवमाइं) गौतम ! जघन्य एक पत्योपमनी, उत्कृष्ट दो सागरोपमनी, (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तोंनी स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) गौतम ! जघन्य पत्यु अने उत्कृष्ट पत्यु अन्तर्मुहूर्त (पज्जत्तयाणं देवाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक देवीनी स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं उक्कोसेणं दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओछा एक पत्योपम अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त, ओछा दो सागरोपमनी

(सोहस्मेकप्पे देवीणं पुच्छा !) सौधर्म कल्पमें देवीनी स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण पलिओवमं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं) गौतम ! जघन्य

देवीनां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तिकानां देवीनां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पत्योपमम् अन्तर्मुहूर्त्तानम्, उत्कृष्टेन पञ्चाशत् पत्योपमानि अन्तर्मुहूर्त्तानानि, सौधर्मे कल्पे परिग्रहाणां देवीनां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पत्योपमम् उत्कृष्टेन सप्तपत्योपमानि, अपर्याप्तकपरिग्रह देवीनां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, परिग्रहाणां

की (अपञ्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त्त, उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त (पञ्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा ?) पर्याप्तक सौधर्म-देवियों की स्थिति कितनी ? (गो । ! जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त कम एक पत्योपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त कम पचास पत्योपम की ।

(सोहस्मे कप्पे परिग्गहियाणं देवीणं पुच्छा ?) सौधर्म कल्प में परिगृहीता देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं सत्त पलिओवमाइं) हे गौतम ! जघन्य एक पत्योपम, उत्कृष्ट सात पत्योपम की (अपञ्जत्तिय परिग्गहिय देवीणं पुच्छा ?) अपर्याप्त परिगृहीता देवियों की कितनी स्थिति ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त की (परिग्गहियाणं पञ्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा ?)

એક પત્યોપમ ઉત્કૃષ્ટ પચાસ પત્યોપમની (અપજ્જત્તિયાણં પુચ્છા ?) અપર્યાપ્તક દેવિયોની સ્થિતિ કેટલી ? (ગોયમા ! જહણ્ણેણં વિ ઉક્કોસેણ વિ અંતોમુહુત્તં) ગૌતમ ! જઘન્ય પથુ અન્તર્મુહૂર્ત, અને ઉત્કૃષ્ટ પથુ અન્તર્મુહૂર્ત (પજ્જત્તિયાણં દેવીણં પુચ્છા ?) પર્યાપ્તક સૌધર્મ દેવિયોની સ્થિતિ કેટલી ? (ગોયમા ! જહણ્ણેણં પલિઓવમં, અંતોમુહુત્તૂણ, ઉક્કોસેણ સત્તપલિઓવમાઈ અંતોમુહુત્તૂણાઈ) ગૌતમ ! જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત, એછા, એક પત્યોપમનો ઉત્કૃષ્ટ અન્તર્મુહૂર્ત એછા સાત પત્યોપમની.

(સોહસ્મે કપ્પે પરિગ્ગહિયાણં દેવીણં પુચ્છા ?) સૌધર્મ કલ્પમાં પરિગૃહિતા દેવિયોની સ્થિતિ કેટલી ? (ગોયમા ! જહણ્ણેણ પલિઓવમં, ઉક્કોસેણં સત્તપલિઓવમં) ગૌતમ ! જઘન્ય એક પત્યોપમ, ઉત્કૃષ્ટ સાતપત્યોપમની (અપજ્જત્તિય પરિગ્ગહિય દેવીણ પુચ્છા ?) અપર્યાપ્ત પરિગૃહિતા દેવિયોની કેટલી સ્થિતિ ? (ગોયમા ! જહણ્ણેણ વિ ઉક્કોસેણ વિ અંતોમુહુત્ત) ગૌતમ ! જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ અન્તર્મુહૂર્તની (પરિગ્ગહિયાણં પજ્જત્તિયાણં દેવીણ પુચ્છા ?) પરિગૃહિતા પર્યાપ્તદેવિયોની

पर्याप्तिकानां देवीनां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पल्योपमम् अन्तर्मुहूर्तोऽनम्, उत्कृष्टेन सप्तपल्योपमानि अन्तर्मुहूर्तोऽनानि, सौधर्मे कल्पे अपरिग्रहाणां देवीनां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पल्योपमम्, उत्कृष्टेन पञ्चाशत् पल्योपमानि, अपर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पल्योपमम् अन्तर्मुहूर्तोऽनम्, उत्कृष्टेन पञ्चाशत् पल्योपमानि परिगृहीता पर्याप्त देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओ वमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं सत्तपलिओमाइ अंतोमुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम एक पल्योपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम सात पल्योपम की ।

(सोहम्मे कप्पे अपरिग्गहियाणं देवीणं पुच्छा ?) सौधर्मकल्प में अपरिगृहीता देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं) हे गौतम ! जघन्य एक पल्योपम की (उज्जत्तियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवियों की कितनी (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्त अपरिगृहीता देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम एक पल्योपम की उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम पचास पल्योपम की ।

स्थिति डेटली ? (गोयमा ! जहण्णेण पलिओवमं अतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेण सत्तपलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओछा ओक पल्योपमनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओछा सातपल्योपमनी

(सोहम्मे कप्पे अपरिग्गहियाणं देवाणं पुच्छा ?) सौधर्मकल्पमा अपरिगृहीता देवियोनी स्थिति डेटली ? (गोयमा ! जहण्णेण पलिओवमं, उक्कोसेण पण्णासं पलिओवमाइं) जघन्य ओक पल्योपम, उत्कृष्ट पचास पल्योपमनी (अपज्जत्तियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त देवियोनी डेटली ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त (पज्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्त अपरिगृहीता देवियोनी डेटली (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, अतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं अतोमुहुत्तूणाइं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओछा पल्योपमनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओछा पचास पल्योपमनी

(ईसाणे कप्पे देवाणं पुच्छा ?) लगवन् ! धंशानकल्पमां देवोनी स्थिति डेटली ? (गोयमा ! जहण्णेण साइरेणं पलिओवमं उक्कोसेणं साइरेगाइं दो सागरोव-

अन्तर्मुहूर्तानि, ईशानेकल्पे देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन सातिरेकं पल्यो-
मम्, उत्कृष्टेन सातिरेके द्वे सागरोपमं, अपर्याप्तदेवानां पृच्छा, गौतम !
जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन
सातिरेकं पल्योपमम् अन्तर्मुहूर्तानम्, उत्कृष्टेन सातिरेके द्वे सागरोपमे अन्तर्मुहूर्-
त्ताने, ईशाने कल्पे देवीनां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन सातिरेकं पल्योपमम्
उत्कृष्टेन पञ्चपञ्चाशत् पल्योपमानि, ईशाने कल्पे देवीनाम् अपर्याप्तकानां पृच्छा,
गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, ईशाने कल्पे पर्याप्तकानां

(ईसाणे कल्पे देवाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! ईशान कल्प में देवों
की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगं पलिओवमं, उक्को-
सेणं साइरेगाइं दो सागरोवमाइं) हे गौतम ! जघन्य कुछ अधिक
एक पल्योपम की, उत्कृष्ट कुछ अधिक दो सागरोपम की (अपज्जत्त
देवाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जह-
ण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य और उत्कृष्ट
अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति कितनी ?
(गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं
साइरेगाइं दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्त-
र्मुहूर्त कुछ अधिक पल्योपम की उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम दो
सागरोपम से कुछ अधिक की ।

(ईसाणे कल्पे देवीणं पुच्छा ?) ईशान कल्प में देवियों की स्थिति
कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं पण-
पन्नं पलिओ इं) हे गौ ! जघन्य एक पल्योपम से कुछ अधिक,

माइ) गौतम ! जघन्य कंधक अधिक एक पल्योपमनी, उत्कृष्ट कंधक अधिक
दो सागरोपमनी (अपज्जत्त देवाण पुच्छा ?) अपर्याप्त देवीनी स्थिति डेटली ?
(गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्य अने उत्कृष्ट
अन्तर्मुहूर्तनी, (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकेनी स्थिति डेटली ? (गोयमा !
जहण्णेणं साइरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं साइरेगाइं दो सागरोवमाइं
अंतोमुहुत्तूणाइं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तकम कंधक पधारे पल्योपमनी अने
उत्कृष्ट दो सागरोपमनी

(ईसाणे कल्पे देवीण पुच्छा ?) ईशानकल्पमां देवियोनी स्थिति डेटली ?
(गोयमा ! जहण्णेण साइरेग पलिओवमं, उक्कोसेण पणपन्नं पलिओवमाइं) गौतम !
जघन्य एक पल्योपमथी कंधक अधिक, उत्कृष्ट पयावन पल्योपमनी (ईसाणे
कल्पे देवीण अपज्जत्तियाण पुच्छा ?) ईशानकल्पमा अपर्याप्तदेवियोनी स्थिति डेटली ?

पर्याप्तिकानां देवीनां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पल्योपमम् अन्तर्मुहूर्तानम्, उत्कृष्टेन सप्तपल्योपमानि अन्तर्मुहूर्तानानि, सौधर्मे कल्पे अपरिग्रहाणां देवीनां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पल्योपमम्, उत्कृष्टेन पञ्चाशत् पल्योपमानि, अपर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पल्योपमम् अन्तर्मुहूर्तानम्, उत्कृष्टेन पञ्चाशत् पल्योपमानि

परिगृहीता पर्याप्त देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेण सत्तपलिओमाइ अंतोमुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम एक पल्योपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम सात पल्योपम की ।

(सोहम्मे कप्पे अपरिग्गहियाणं देवीणं पुच्छा ?) सौधर्मकल्प में अपरिगृहीता देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं) हे गौतम ! जघन्य एक पल्योपम की (अपज्जत्तियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवियों की कितनी (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्त अपरिगृहीता देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम एक पल्योपम की उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम पचास पल्योपम की ।

स्थिति डेटली ? (गोयमा ! जहण्णेण पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेण सत्तपलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त आधा ओक पल्योपमनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त आधा सातपल्योपमनी

(सोहम्मे कप्पे अपरिग्गहियाणं देवाणं पुच्छा ?) सौधर्मकल्पमा अपरिगृहीता देवियोनी स्थिति डेटली ? (गोयमा ! जहण्णेण पलिओवम, उक्कोसेण पण्णासं पलिओवमाइं) जघन्य ओक पल्योपम, उत्कृष्ट पचास पल्योपमनी (अपज्जत्तियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त देवियोनी डेटली ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त (पज्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्त अपरिगृहीता देवियोनी डेटली (गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवम, अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त आधा पल्योपमनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त आधा पचास पल्योपमनी

(इसाणे कप्पे देवाणं पुच्छा ?) भगवन् ! धंशानकपमां देवोनी स्थिति डेटली ? (गोयमा ! जहण्णेणं साइरेण पलिओवमं उक्कोसेणं साइरेगाड दो सागरोव)

अन्तर्मुहूर्तानानि, ईशानेकल्पे देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन सातिरेकं पल्यो-
मम्, उत्कृष्टेन सातिरेके द्वे सागरोपमं, अपर्याप्तदेवानां पृच्छा, गौतम !
जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन
सातिरेकं पल्योपमम् अन्तर्मुहूर्तानम्, उत्कृष्टेन सातिरेके द्वे सागरोपमे अन्तर्मुहू-
त्तौने, ईशाने कल्पे देवीनां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन सातिरेकं पल्योपमम्
उत्कृष्टेन पञ्चपञ्चाशत् पल्योपमानि, ईशाने कल्पे देवीनाम् अपर्याप्तकानां पृच्छा,
गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, ईशाने कल्पे पर्याप्तकानां

(ईसाणे कल्पे देवाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! ईशान कल्प मे देवों
की स्थिति वि नी ? (गोयमा ! जहण्णेणं साहरेगं पलिओवमं, उक्को-
सेणं साहरेगाइं दो सागरोवमाइं) हे गौतम ! जघन्य कुछ अधिक
एक पल्यो की, उत्कृष्ट कुछ अधिक दो सागरोपम की (अपज्जत्त
देवाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जह-
ण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य और उत्कृष्ट
अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति कितनी ?
(गोयमा ! जहण्णेणं साहरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं
साहरेगाइं दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्त-
र्मुहूर्त कुछ अधिक पल्योपम की उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम दो
सागरोपम से कुछ अधिक की ।

(ईसाणे कल्पे देवीणं पुच्छा ?) ईशान कल्प में देवियों की स्थिति
वि नी ? (गोयमा ! जहण्णेणं साहरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं पण-
पन्नं पलिओवमाइं) हे गौतम ! जघन्य एक पल्योपम से कुछ अधिक,

माइ) गौतम ! जघन्य ४४४ अधिक एक पल्योपमनी, उत्कृष्ट ४४४ अधिक
दो सागरोपमनी (अपज्जत्त देवाण पुच्छा ?) अपर्याप्त देवीनी स्थिति कितनी ?
(गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्य अने उत्कृष्ट
अन्तर्मुहूर्तनी, (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकनी स्थिति कितनी ? (गोयमा !
जहण्णेण साहरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं साहरेगाइं दो सागरोवमाइं
अंतोमुहुत्तूणाइं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तकम ४४४ पदारे पल्योपमनी अने
उत्कृष्ट दो सागरोपमनी

(ईसाणे कल्पे देवीण पुच्छा ?) ईशानकल्पमां देवियोनी स्थिति कितनी ?
(गोयमा ! जहण्णेण साहरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं पणपन्नं पलिओवमाइं) गौतम !
जघन्य एक पल्योपमथी ४४४ अधिक, उत्कृष्ट पञ्चावन पल्योपमनी (ईसाणे
कल्पे देवीण अपज्जत्तियाण पुच्छा ?) ईशानकल्पमा अपर्याप्तदेवियोनी स्थिति कितनी ?

पृच्छा, गौतम ! जघन्येन सातिरेकं पल्योपमम् अन्तर्मुहूर्त्तानम्, उत्कृष्टेन पञ्च-
पञ्चाशत् पल्योपमानि अन्तर्मुहूर्त्तानानि, ईशाने कल्पे परिग्रहाणां देवीनां पृच्छा,
गौतम ! जघन्येन सातिरेकं पल्योपमम्, उत्कृष्टेन नवपल्योपमानि अपर्याप्तिकानां
पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्त्तम्, ईशाने कल्पे पर्याप्तिकानां
पृच्छा, गौतम ! जघन्येन सातिरेकं पल्योपमम् अन्तर्मुहूर्त्तानम्, उत्कृष्टेन नव

उत्कृष्ट पचपन पल्योपम की (ईसाणे कल्पे देवीणां अपज्जत्तियाणं
पुच्छा ?) ईशान कल्प में अपर्याप्त देवियों की स्थिति कितनी ?
(गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य
और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त की (ईसाणे कल्पे पज्जत्तियाणं पुच्छा ?)
ईशान कल्प में पर्याप्तक देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जह-
ण्णेणं साइरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तणं, उक्कोसेणं पणपन्नं पलिओ-
वमाइं अंतोमुहुत्तणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त सातिरेक
कुछ अधिक पल्योपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त कम पचपन पल्योपम
की (ईसाणे कल्पे परिग्रहियाणं देवीणां पुच्छा ?) ईशान कल्प में
परिग्रहीता देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगं
पलिओवमं, उक्कोसेणं नवपलिओवमाइं) हे गौतम ! जघन्य पल्यो-
पम से किंचित् अधिक, उत्कृष्ट नौ पल्योपम की (अपज्जत्तियाणं
पुच्छा ?) अपर्याप्त देवियों की कितनी ? (गोयमा जहण्णेण वि उक्को-
सेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त की
(ईसाणे कल्पे पज्जत्तियाणं पुच्छा ?) ईशान कल्प में पर्याप्त देवियों

(गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्य अने उत्कृष्ट
अन्तर्मुहूर्त्तनी, (ईसाणे कल्पे पज्जत्तियाण पुच्छा ?) ईशानकल्पमा पर्याप्त देवि-
थेनी स्थिति केटली ? (गोयमा ! जहण्णेण साइरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तणं
उक्कोसेण पणपन्न पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तणाइं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त
आशा सातिरेक काँक अधिक पल्योपमनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त आशा
पायावन पल्योपमनी.

(ईसाणे कल्पे परिग्रहियाण देवीणां पुच्छा ?) - ईशानकल्पमा परिग्रहीता देवि-
थेनी स्थिति केटली ? (गोयमा ! जहण्णेण साइरेग पलिओवमं, उक्कोसेण नव-
पलिओवमाइं) गौतम ! जघन्य पल्योपमथी किंचित् अधिक, उत्कृष्ट नौ पल्यो-
पमनी (अपज्जत्तियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त देवियों की स्थिति केटली ? (गोयमा !
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य पल्योपम अने उत्कृष्ट पल्यो-
अन्तर्मुहूर्त्तनी (ईसाणे कल्पे पज्जत्तियाण पुच्छा ?) पर्याप्त देवियों की स्थिति

पल्योपमानि अन्तर्मुहूर्त्तानानि, ईशाने कल्पे अपरिग्रहिक देवीनां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन सातिरेकं पल्योपमम्, उत्कृष्टेन पञ्चपञ्चाशत् पल्योपमानि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्त्तम्, पर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन सातिरेकं पल्योपमम् अन्तर्मुहूर्त्तानम्, उत्कृष्टेन पञ्चपञ्चाशत् पल्योपमानि अन्तर्मुहूर्त्तानानि, सनत्कुमारे कल्पे देवानां पृच्छा, गौतम !

की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूर्णं) हे गौतम ! जघन्य सातिरेक पल्योपम में अन्तर्मुहूर्त्त (उक्कोसेणं नवपलिओवमाइ अंतोमुहुत्तूर्णाइ) उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त नौ पल्यो (ईसाणे कप्पे अपरिग्गहियाणं देवीणं पुच्छा ?) ईशान कल्प में अपरिग्रहीता देवियों की कितनी स्थिति ? (गो ! जहण्णेणं साइरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं पणपन्नाइ पलिओवमाइ) हे गौतम ! जघन्य सातिरेक एक पल्योपम की, उत्कृष्ट पचपन पल्योपम की (अपज्जत्तियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त की (पज्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक देवियों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूर्णं, उक्कोसेणं पणपन्नं पलिओवमाइ अंतोमुहुत्तूर्णाइ) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त कम सातिरेक पल्योपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त कम पचपन पल्योपम की ।

(सणकुमारे कप्पे देवाणं पुच्छा ?) सनत्कुमार कल्प में देवों की

केटली ? (गोयमा जहण्णेणं साइरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूर्णं, उक्कोसेणं नव पलिओवमाइ अंतोमुहुत्तूर्णाइ) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त ओछा सातिरेक पल्योपमनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त ओछा नव पल्योपमनी.

(ईसाणे कप्पे अपरिग्गहियाण देवीण पुच्छा) ईशानकल्पमा अपरिग्रहीता देवियोनी स्थिति केटली छे ? (गोयमा ! जहण्णेण साइरेगं पलिओवमं उक्कोसेण पणपन्नाइ पलिओवमाइ) हे गौतम ! जघन्यथी सातिरेक ओक पल्योपमनी अने उत्कृष्ट पयावन पल्योपमनी (अपज्जत्तियाणं पुच्छा) अपर्याप्त देवियोनी स्थिति केटली ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्यथी अने उत्कृष्टथी पल्योपमनी (पज्जत्तियाणं पुच्छा) पर्याप्तक देवियोनी स्थिति केटली ? (गोयमा ! जहण्णेण साइरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूर्णं, उक्कोसेण पणपणं पलिओवमाइ) हे गौतम ! जघन्यथी अन्तर्मुहूर्त्तक सातिरेक पल्योपमनी उत्कृष्ट अने अन्तर्मुहूर्त्त ओछा पयावन पल्योपमनी

(सणकुमारे कप्पे देवाणं पुच्छा ?) सनत्कुमार कल्पमा देवियोनी स्थिति

जघन्येन द्वे सागरोपमे, उत्कृष्टेन सप्तसागरोपमानि, अपर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन द्वे सागरोपमे, अन्तर्मुहूर्तौने, उत्कृष्टेन सप्तसागरोपमानि अन्तर्मुहूर्तौनानि, माहेन्द्रे कल्पे देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन सातिरेके द्वे सागरोपमे - उत्कृष्टेन सातिरेकानि सप्तसागरोपमानि, अपर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तिकानां पृच्छा, गौतम ? जघन्येन द्वे सागरोपमे सातिरेके अन्तर्मुहूर्तौने, उत्कृष्टेन सप्तसागरोपमानि सातिरेकाणि स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं दो सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं) हे गौतम ! जघन्य दो सागरोपम, उत्कृष्ट सात सागरोपम की (अपज्जत्तियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त देवों की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्त देवों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तणाइं, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कय दो सागरोपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम सात सागरोपम की ।

(माहिंदे कप्पे देवाणं पुच्छा ?) माहेन्द्र कल्प में देवों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगं दो सागरोवमाइं, उक्कोसेणं साइरेगाइं सत्त सागरोवमाइं) हे गौतम ! जघन्य किंचित् अधिक दो सागरोपम की, उत्कृष्ट किंचित् अधिक सात सागरोपम की (अपज्जत्तियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त देवों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य

केट्ठी ? (गोयमा ! जहण्णेणं दो सागरोवमाइं, उक्कोसेण सत्तसागरोवमाइं) गौतम ! जघन्य ये सागरोपम, उत्कृष्ट सात सागरोपमनी, (अपज्जत्तियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त देवोनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) जघन्य पथु अने उत्कृष्ट पथु अन्तर्मुहूर्तनी (पज्जत्तियाणं पुच्छा ?) पर्याप्त देवोनी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तणाइं, उक्कोसेण सत्तसागरोवमाइं अंतोमुहुत्तणाइं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त आछा ये सागरोपमनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त आछा सात सागरोपमनी.

(माहिंदे कप्पे देवाणं पुच्छा ?) माहेन्द्रकल्पमा देवोनी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगाइं दो सागरोवमाइं, उक्कोसेणं साइरेगाइं सत्तसागरोवमाइं) गौतम ! जघन्य किंचित् अधिक ये सागरोपमनी, उत्कृष्ट किंचित् अधिक सातसागरोपमनी (अपज्जत्तियाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त देवोनी पृच्छा ?

अन्तर्मुहूर्त्तानानि, ब्रह्मलोके कल्पे देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन सप्तसागरोपमानि, उत्कृष्टेन दशसागरोपमानि, अपर्याप्तकानां पृच्छा ? गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्त्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन सप्तसागरोपमानि अन्तर्मुहूर्त्तानानि, उत्कृष्टेन दशसागरोपमानि अन्तर्मुहूर्त्तानानि, लान्तके कल्पे देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन दशसागरोपमानि, उत्कृष्टेन चतुर्दशसागरो-

और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त की (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक देवों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं दो सागरोवमाइं साइरेगाइ अंतोसुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइ साइरेगाइ अंतोसुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त कम सातिरेक दो सागरोपम, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त कम सातिरेक सात सागरोपम की ।

(बंभलोए कप्पे देवाणं पुच्छा ?) ब्रह्मलोक कल्प में देवों की स्थिति कितनी ? (जहण्णेणं सत्त सागरोवमाइं, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइ) जघन्य सात सागरोपम, उत्कृष्ट दस सागरोपम (अपञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त की (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं सत्तसागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं, उक्कोसेण दस सागरोवमाइ अंतोसुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त कम सात सागरोपम और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त दस सागरोपम की ।

(गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं) गौतम ! जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तानी (पञ्जत्तयाण पुच्छा ?) पर्याप्तक देवानी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण दो सागरोवमाइं साइरेगाइ अंतोसुहुत्तूणाइं, उक्कोसेण सत्त सागरोवमाइं, अंतोसुहुत्तूणाइं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त ओछा सातिरेक दो सागरोपम, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त ओछा सातिरेक सातसागरोपमनी.

(बंभलोए कप्पे देवाणं पुच्छा ?) ब्रह्मलोककल्पमां देवानी स्थिति डेटवी ? जहण्णेण सत्तसागरोवमाइं, उक्कोसेणं दससागरोवमाइं) जघन्य सात सागरोपम, उत्कृष्ट दशसागरोपम (अपञ्जत्तयाण पुच्छा ?) अपर्याप्तोनी स्थिति डेटवी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं) गौतम ! जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तानी (पञ्जत्तयाण पुच्छा ?) पर्याप्तक देवानी स्थिति डेटवी ? (गोयमा ! (जहण्णेणं सत्तसागरोवमाइ अंतोसुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं दससागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त ओछा, सातसागरोपम अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त ओछा दश सागरोपमनी,

पमानि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन दशसागरोपमानि अन्तर्मुहूर्त्तानानि, उत्कृष्टेन चतुर्दश सागरोपमानि अन्तर्मुहूर्त्तानानि, महाशुक्रे कल्पे देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन चतुर्दशसागरोपमाणि, उत्कृष्टेन सप्तसागरोपमानि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन चतुर्दशसागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्त्तानानि, उत्कृष्टेन

(लंतए कप्पे देवाणं पुच्छा ?) लान्तक कल्प में देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं दस सागरोवमाइ, उक्कोसेणं चउदससागरोवमाइ) हे गौतम ! जघन्य दस सागरोपम की, उत्कृष्ट चौदह सागरोपम की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं दससागरो अइ अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं चउदस सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ) हे गौतम ! जघन्य दस सागरोपम में अन्तर्मुहूर्त्त कम की और उत्कृष्ट चौदह सागरोपम में अन्तर्मुहूर्त्त कम की ।

(महासुकके कप्पे देवाणं पुच्छा ?) महाशुक्र कल्प में देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउदस सागरोवमाइ, उक्कोसेणं सतरस सागरोवमाइ) हे गौतम ! जघन्य चौदह सागरोपम की उत्कृष्ट सत्तरह सागरोपम की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णे वि उक्कोसेण वि अंतो-

(लंतए कप्पे देवाणं पुच्छा ?) लान्तककल्पमा देवानि स्थिति डेट्ठी ? (गोयमा ! जहण्णेणं दससागरोवमाइ, उक्कोसेणं चउदससागरोवमाइ) जघन्य दशसागरोपमानी, उत्कृष्ट चौदहसागरोपमानी (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवानि स्थिति डेट्ठी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तानी (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकानी स्थिति डेट्ठी ? (गोयमा ! जहण्णेणं दससागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं चउदससागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ) गौतम ! जघन्य दशसागरोपममा अन्तर्मुहूर्त्त आछानी अने उत्कृष्ट चौदहसागरोपममा अन्तर्मुहूर्त्त आछानी

(महासुकके कप्पे देवाणं पुच्छा ?) महाशुक्र कल्पमा देवानि स्थिति डेट्ठी ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउदस सागरोवमाइ, उक्कोसेणं सत्तरससागरोवमाइ) गौतम ! जघन्य चौदह सागरोपमानी, उत्कृष्ट सत्तर सागरोपमानी (अज्जत्तयाणं पुच्छा ?)

सप्तदशसागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्त्तानानि, सहस्रारे कल्पे देवानां पृच्छा. गौतम ! जघन्येन सप्तदशसागरोपमाणि उत्कृष्टेन अष्टादशसागरोपमाणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्त्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन सप्तदशसागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्त्तानानि, उत्कृष्टेन अष्टादश सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्त्तानानि, आनते कल्पे देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन

मुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त की (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउहस सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त चौदह सागरोपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त कम सतरह सागरोपम की ।

(सहस्रारे कल्पे देवाणं पुच्छा ?) सहस्रार कल्प में देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरस सागरोवमाइ, उक्कोसेणं अट्टारस सागरोवमाइ) हे गौतम ! जघन्य सतरह सागरोपम की उत्कृष्ट अठारह सागरोपम की (अपञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त की (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरस सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं अट्टारस सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त कम सतरह

अपर्याप्तक देवोनी स्थिति केटली ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्य पण्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तनी (पञ्जत्तयाण पुच्छा ?) पर्याप्तकोनी स्थिति केटली ? (जहण्णेण चउहससागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त ओछा चौदह सागरोपमनी, अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त ओछा सत्तरसागरोपमनी.

(सहस्रारे कल्पे देवाण पुच्छा ?) सहस्रारकल्पमा देवोनी स्थिति केटली ? (गोयमा ! जहण्णेण सत्तरस सागरोवमाइ, उक्कोसेण अट्टारससागरोवमाइ) गौतम ! जघन्य सत्तरसागरोपमनी उत्कृष्ट अठार सागरोपमनी (अपञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवोनी स्थिति केटली ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतो मुहुत्तं) गौतम ! जघन्य पण्य अने उत्कृष्ट पण्य अन्तर्मुहूर्त्तनी (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक देवोनी स्थिति केटली ? (गोयमा ! जहण्णेण सत्तरससागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेण अट्टारससागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त ओछा सत्तरसागरोपमनी अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त ओछा

अष्टदश सागरोपमाणि, उत्कृष्टेन एकोनविंशतिः सागरोपमाणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अष्टादशसागरोपमानि अन्तर्मुहूर्तानि, उत्कृष्टेन एकोनविंशतिः सागरोपमानि अन्तर्मुहूर्तानि, प्राणते कल्पे देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एकोनविंशतिः सागरोपमाणि, उत्कृष्टेन विंशतिः सागरोपमाणि अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां

सागरोपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त कम अठारह सागरोपम की ।

(आणए कप्पे देवाणं पुच्छा ?) आनत कल्प में देवों की स्थिति वि नी ? (गोयमा ! जहणणेणं अट्टारस सागरोवमाइ, उक्कोसेणं एगुणवीसं सागरोवमाइ) हे गौ ! जघन्य अठारह सागरोपम, उत्कृष्ट उन्नीस सागरो की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा ! जहणणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौ ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त्त, उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहणणेणं अट्टारस सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं एगुणवीसं सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त कम अठारह सागरोपम, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त कम उन्नीस सागरोपम की ।

(पाणए कप्पे देवाणं पुच्छा ?) प्राणत कल्प में देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहणणेणं एगुणवीसं सागरोवमाइ, उक्कोसेणं

अठार सागरोपमनी

(आणए कप्पे पुच्छा ?) आनतकल्पमा देवानि स्थिति डेटली ? (गोयमा ! अट्टारससागरोवमाइ उक्कोसेण एगुणवीस सागरोवमाइ) गौतम ! जघन्य अठार सागरोपम, उत्कृष्ट ओगुणीस सागरोपमनी (अपज्जत्तयाण पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवानि स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहणणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्य पण्य अन्तर्मुहूर्त्त, उत्कृष्ट पण्य अन्तर्मुहूर्त्तनी (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक देवानि स्थिति डेटली ? (गोयमा ! जहणणेण अट्टारससागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ उक्कोसेण एगुणवीस सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त ओगुण अठार सागरोपम, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त ओगुणीस सागरोपमनी ।

(पाणए कप्पे देवाणं पुच्छा ?) प्राणत कल्पमा देवानि स्थिति डेटली ? (गोयमा ! जहणणेण एगुणवीसं सागरोवमाइ, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमाइ) गौतम !

पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एकोनविंशतिः सागरोपमाणिः अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन विंशतिः सागरोपमानि अन्तर्मुहूर्तानानि, आरणे कल्पे देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन विंशतिः सागरोपमाणि, उत्कृष्टेन एकविंशतिः सागरोपमाणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन विंशतिः सागरोपमानि अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन एकविंशतिः सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि, अच्युते कल्पे देवानां पृच्छा,

वीसं सागरोवमाइं) हे गौतम ! जघन्य उन्नीस सागरोपम, उत्कृष्ट वीस सागरोपम की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगूणवीसं सागरोवमाइ अंतोसुहुत्तूणाइं, उक्कोसेण वीस सागरोवमाइ अंतोसुहुत्तूणाइ) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम उन्नीस सागरोपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम वीस सागरोपम की ।

(आरणे कल्पे देवाणं पुच्छा ?) आरण कल्प में देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं वीसं सागरोवमाइ, उक्कोसेणं एककीस वीसं सागरोवमाइं) हे गौतम ! जघन्य वीस सागरोपम की, उत्कृष्ट इक्कीस सागरोपम की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तयाणं

जघन्य ओगणीस सागरोपम, उत्कृष्ट वीस सागरोपमनी (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकेनी स्थिति केटली ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं) गौतम जघन्य पण्य अने उत्कृष्ट पण्य अन्तर्मुहूर्त (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकेनी स्थिति केटली ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगूणवीस सागरोवमाइं, अतोसुहुत्तूणाइं, उक्कोसेण वीसं सागरोवमाइं अतोसुहुत्तूणाइं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओछा ओगणीस सागरोपमनी अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओछा वीस सागरोपमनी

(आरणे कल्पे देवाणं पुच्छा ?) आरणकल्पमां देवानी स्थिति केटली ? (गोयमा ! जहण्णेण वीसं सागरोवमाइ, उक्कोसेण एककीस सागरोवमाइं) गौतम ! जघन्य वीससागरोपमनी, उत्कृष्ट ओक्कीस सागरोपमनी (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त देवानी स्थिति केटली ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं) गौतम ! जघन्य पण्य अने उत्कृष्ट पण्य अन्तर्मुहूर्तनी (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्त देवाकी स्थिति केटली ? (गोयमा ! जहण्णेण वीसं सागरोवमाइ, अंतोसुहु,

गौतम ! जघन्येन एकविंशतिः सागरोपमाणि, उत्कृष्टेन द्वाविंशतिः सागरोप-
मानि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्,
पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एकविंशतिः सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तो-
नानि, उत्कृष्टेन द्वाविंशतिः सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि

टीका—व्याख्या सुगमा ॥ सू० ९ ॥

पुच्छा ?) पर्याप्तक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं
वीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेण एगवीसं सागरोवमाइं
अंतोमुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त कम वीस सागरोपम
की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त कम इक्कीस सागरोपम की ।

(अच्चुए कप्पे देवाणं पुच्छा ?) अच्युत कल्प में देवों की स्थिति
कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगवीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं
वावीसं सागरोवमाइं) हे गौतम ! जघन्य इक्कीस सागरोपम की,
उत्कृष्ट बाईस सागरोपम की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्त देवों
की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतो-
मुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त्त की (पज्ज-
त्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक देवों की स्थिति की पृच्छा ? (गोयमा !
जहण्णेणं इक्कीस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं वावीस
सागरो इं अंतोमुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त कम
इक्कीस सागरोपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त कम बाईस सागरो-
की । ॥९॥

टीकार्थ—व्याख्या स्पष्ट है ॥९॥

तूणाइं उक्कोसेण एगवीस सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइं) गौतम । जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त
ओछा वीस सागरोपमनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त ओछा ऐकवीस सागरोपमनी।

(अच्चुर कप्पे देवाण पुच्छा ?) अच्युतकल्पमा देवानि स्थिति केटली ?
(गोयमा ! जहण्णेण एगवीसं सागरोवमाइं उक्कोसेण वावीसं सागरोवमाइं)
गौतम । जघन्य ऐकवीस सागरोपमनी, उत्कृष्ट आवीस सागरोपमनी (अप-
ज्जत्तयाण पुच्छा ?) अपर्याप्त देवानि स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण वि
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) गौतम । जघन्य पण्य अने उत्कृष्ट पण्य अन्तर्मुहूर्त्तनी
(पज्जत्तयाण पुच्छा ?) पर्याप्तक देवानि स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण
इक्कीस सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेण वावीसं सागरोवमाइं अंतो-
मुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त ओछा ऐकवीससागरोपमनी, उत्कृष्ट
अन्तर्मुहूर्त्त ओछा आवीससागरोपमनी ॥सू०९॥

टीकार्थ—व्याख्या स्पष्ट छे.

उक्कोसेणं सत्तावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं मज्झिमउव-
 रिमगेविज्जग देवाणं पुच्छा गोयमा ! जहण्णेणं सत्तावीसं
 सागरोवमाइं, उक्कोसेणं अट्टावीसं सागरोवमाइं, अपज्जत्तयाणं
 पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्त-
 याणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं सत्तावीसं सागरोवमाइं अंतो-
 मुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अट्टावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं,
 उवरिमहेट्ठिमगेविज्जग देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं अट्टा-
 वीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं एगूणतीसं सागरोवमाइं, अपज्ज-
 त्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतो-
 मुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं अट्टावीसं
 सागरोवमाइं, अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं एगूणतीसं सागरोव-
 माइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उवरिममज्झिमगेवेज्जग देवाणं पुच्छा,
 गोयमा ! जहण्णेणं एगूणतीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं तीसं
 सागरोवमाइं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि उक्को-
 सेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं
 एगूणतीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तीसं साग-
 रोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइं, उवरिमगेवेज्जगदेवाणं पुच्छा,
 गोयमा ! जहण्णेणं तीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं एक्कतीसं
 सागरोवमाइं, अपज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण वि
 उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं
 तीसं सागरोवमाइं, अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं एक्कतीसं साग-
 रोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, विजयवेजयंतजयंत अपराजितेसु णं
 भंते ! देवाणं केवइयं कालं ठिईं पणत्ता ? गोयमा ! जह-
 ण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, पज्जत्तयाणं पुच्छा, गोयमा !
 जहण्णेणं एक्कतीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं

તેત્તીસં સાગરોવમાઈ અંતોમુહુત્તુનાઈ, સવ્વટ્ઠુસિદ્ધદેવાણં ભંતે !
 કેવઈયં કાલં ઠિઈ પળ્ણત્તા ? ગોયમા ! અજહળ્ણમણુક્કોસેણં
 તેત્તીસં સાગરોવમાઈ ઠિઈ પળ્ણત્તા, સવ્વટ્ઠુસિદ્ધગદેવાણં અપજ્જ-
 ત્તયાણં પુચ્છા, ગોયમા ! જહળ્ણેણ વિ ઉક્કોસેણ વિ અંતોમુ-
 હુત્તં, સવ્વટ્ઠુસિદ્ધગદેવાણં પજ્જત્તયાણં કેવઈયં કાલં ઠિઈ પળ્ણત્તા ?
 ગોયમા ! અજહળ્ણમણુક્કોસં તેત્તીસં સાગરોવમાઈ અંતોમુહુ-
 ત્તુનાઈ ઠિઈ પળ્ણત્તા ॥સૂ. ૧૦॥

॥ પળ્ણત્તયાણં અજહળ્ણેણ ચરુત્થં ઠિઈપદં સમત્તં ॥

છાયા—અધસ્તનાધસ્તનઐવેયકદેવાનાં પૃચ્છા, ગૌતમ ! જઘન્યેન દ્વાવિંશતિઃ
 સાગરોપમાણિ, ઉત્કુળ્ણેન ત્રયોવિંશતિઃ સાગરોપમાણિ, અપર્યાપ્તકાનાં પૃચ્છા,
 ગૌતમ ! જઘન્યેનાપિ ઉત્કુળ્ણેનાપિ અન્તમુહૂર્તમ્, પર્યાપ્તકાનાં પૃચ્છા, ગૌતમ !

ઐવેયકાદિ સ્થિતિ-વક્તવ્યતા

શબ્દાર્થ—(હેટ્ઠિમહેટ્ઠિમ ગેવિજ્જગદેવાણં પુચ્છા ?) અધસ્તન-અધ-
 સ્તન અર્થાત્ નીચે વાલે તીન ઐવે વિમાનો મેં જો સવ સે નીચે
 હૈ, ઉસમેં રહને વાલે દેવોં કી સ્થિતિ કી પૃચ્છા-અર્થાત્ સ્થિતિ કિતની
 હૈ ? (ગોયમા ! જહળ્ણેણં ઘાવીસં સાગરોવમાઈ, ઉક્કોસેણં તેવીસં
 સાગરોવમાઈ) હે ગૌતમ ! જઘન્ય ઘાવીસ સાગરોપમ કી, ઉત્કુળ્ણ તેવીસ
 સાગરોપમ કી (અપજ્જત્તયાણં પુચ્છા ?) વહાં કે અપર્યાપ્તકોં કી સ્થિતિ
 કિતની ? (ગોયમા) હે ગૌતમ ! (જહળ્ણેણ વિ ઉક્કોસેણ વિ અંતો-
 મુહુત્તં) જઘન્ય ધી ઓર ઉત્કુળ્ણ ધી અન્તમુહૂર્ત કી (પજ્જત્તયાણં
 પુચ્છા ?) પર્યાપ્તક દેવોં કી સ્થિતિ કિતની ? (ગોયમા ! જહળ્ણેણં

ઐવેયકાદિ સ્થિતિ-વક્તવ્યતા

શબ્દાર્થ—(હેટ્ઠિમહેટ્ઠિમગેવિજ્જગદેવાણં પુચ્છા ?) અધસ્તન-અધસ્તન અર્થાત્
 નીચેવાળા ત્રણુ ઐવેયક વિમાનોમા જે બધાથી નીચે છે, તેમા રહેવાવાળા દેવોની
 સ્થિતિની પૃચ્છા અર્થાત્ સ્થિતિ કેટલી છે ? (ગોયમા ! જહળ્ણેણં ઘાવીસ સાગરોવ
 માઈ, ઉક્કોસેણં તેવીસ સાગરોવમાઈ) હે ગૌતમ ! જઘન્ય ઘાવીસ સાગરોપમની ઉત્કુળ્ણ
 તેવીસ સાગરોપમની હોય છે (અપજ્જત્તયાણં પુચ્છા ?) ત્યાંના અપર્યાપ્તોની સ્થિતિ
 કેટલી છે ? (ગોયમા) હે ગૌતમ ! (જહળ્ણેણ વિ ઉક્કોસેણ વિ અંતોમુહુત્તં) જઘન્ય
 પણુ અને ઉત્કુળ્ણ પણુ અન્તમુહૂર્તની હોય છે. (પજ્જત્તયાણં પુચ્છા ?) પર્યાપ્તક દેવોની

जघन्येन द्वाविंशतिः सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन त्रयोविंशतिः सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि, अधस्तनमध्यमग्रैवेयकदेवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन त्रयोविंशतिः सागरोपमाणि, उत्कृष्टेन चतुर्विंशतिः सागरोपमाणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि, उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन त्रयोविंशतिः सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन चतुर्विंशतिः सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि, अधस्तनोपरिमग्रैवेयकदेवानां पृच्छा,

बावीसं सागरोवमाहं अंतोमुहुत्तूणाह, उक्कोसेणं तेवीसं सागरोवमाहं अंतोमुहुत्तूणाहं हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं कम बाईस सागरोपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं कम तेईस सागरोपम की ।

(हेट्टिममज्झिम गेविज्जगदेवाणं पुच्छा ?) अधस्तन मध्यम ग्रैवेयक के देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं तेवीसं गरोवमाहं, उक्कोसेणं चउवीसं सागरोवमाह) हे गौतम ! जघन्य तेईस सागरोपम की और उत्कृष्ट चौबीस सागरोपम की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं तेवीसं सागरोवमाहं अंतोमुहुत्तूणाहं उक्कोसेणं चउवीसं सागरोवमाह अंतोमुहुत्तूणाह) हे गौतम ! जघन्य तेईस सागरोपम में अन्तर्मुहूर्त कम, उत्कृष्ट चौबीस सागरोपम में अन्तर्मुहूर्त कम की ।

स्थिति डेटली डडी छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं बावीसं सागरोवमाहं अंतोमुहुत्तूणाह उक्कोसेणं तेवीसं सागरोवमाहं अंतोमुहुत्तूणाहं) गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं ओछा भावीस सागरोपमनी छे उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं ओछा तेवीस सागरोपमनी डोय छे (हेट्टिममज्झिमगेविज्जगदेवाण पुच्छा ?) अधस्तन मध्यम ग्रैवेयकना देवानी स्थिति डेटली छे ? (गोयमा ! जहण्णेण तेवीसं सागरोवमाहं, उक्कोसेण चउवीस सागरोवमाहं) जघन्य तेवीस सागरोपमनी अने उत्कृष्ट बावीस सागरोपमनी डोय छे (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकेनी स्थिति डेटली ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) गौतम ! जघन्य पल्ल अने उत्कृष्ट पल्ल अन्तर्मुहूर्तनी डोय छे (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकेनी स्थिति डेटली छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं तेवीसं सागरोवमाहं अंतोमुहुत्तूणाहं, उक्कोसेण चउवीसं सागरोवमाहं अंतोमुहुत्तूणाहं) गौतम ! जघन्य तेवीस सागरोपमना अन्तर्मुहूर्तं ओछा उत्कृष्ट बावीस सागरोपमना अन्तर्मुहूर्तं ओछानी

गौतम ! जघन्येन चतुर्विंशतिः सागरोपमाणि, उत्कृष्टेन पञ्चविंशति सागरोपमाणि अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन चतुर्विंशतिः सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन पञ्चविंशतिः सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि, मध्यमाधस्तनत्रैवेयकदेवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पञ्चविंशतिः सागरोपमाणि, उत्कृष्टेन षड्विंशतिः सागरो-

(हेट्टिमउवरिमगेविज्जग देवाणं पुच्छा ?) अधस्तन-उपरितन त्रैवेयक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा जहण्णेणं चउवीसं सागरोवमाइ, उक्कोसेणं पणवीसं सागरोवमाइ) हे गौतम ! जघन्य चौवीस सागरोपम की, उत्कृष्ट पञ्चीस सागरोपम की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउवीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं पणवीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइ) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम चौवीस सागरोपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम पञ्चीस सागरोपम की ।

(मज्झिम हेट्टिमगेविज्जगदेवाणं पुच्छा ?) मध्यम-अधस्तन अर्थात् मध्य के तीन त्रैवेयकों में सब से नीचे के त्रैवेयक के देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं पणवीसं सागरोवमाइं,

(हेट्टिमउवरिमगेविज्जगदेवाणं पुच्छा ?) अधस्तन उपरितन त्रैवेयक देवानी स्थिति कितनी है ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउवीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं पणवीसं सागरोवमाइ) हे गौतम ! जघन्य चौवीस सागरोपमनी, उत्कृष्ट पञ्चीस सागरोपमनी डाय छे. (अपज्जत्तयाण पुच्छा ?) अपर्याप्त देवानी स्थिति कितनी है ? (गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य पथु अने उत्कृष्ट पथु अन्तर्मुहूर्तनी डाय छे (पज्जत्तयाण पुच्छा ? पर्याप्तकेनी स्थिति कितनी है ? (गोयमा ! जहण्णेणं चउवीसं सागरोवमाइ, अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं पणवीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइ) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओछा चौवीस सागरोपमनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओछा पञ्चीस सागरोपमनी डाय छे

(मज्झिम हेट्टिम गेविज्जगदेवाणं पुच्छा ?) मध्यम-अधस्तन अर्थात् मध्यम त्रय त्रैवेयकमा अधाधी नीचेना त्रैवेयकना देवानी स्थिति कितनी है ? (गोयमा ! जहण्णेणं पणवीस सागरोवमाइ, उक्कोसेणं छउवीस सागरोवमाइं) हे गौतम ! जघन्य

पमाणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पञ्चविंशतिः सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तो-
नानि, उत्कृष्टेन पञ्चविंशतिः सागरोपमाणि, अन्तर्मुहूर्तो-
नानि, मध्यममध्यम-
त्रैवेयकदेवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन षड्विंशतिः सागरोपमाणि, उत्कृष्टेन
सप्तविंशतिः सागरोपमाणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टे-
नापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन पञ्चविंशतिः सागरो-

उक्कोसेणं छव्वीसं सागरोवमाइं) हे गौतम ! जघन्य पचचीस सागरोपम
की, उत्कृष्ट छव्वीस सागरोपम की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्या-
प्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि
अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की ।

(पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा !
जहण्णेणं पणवीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य
अन्तर्मुहूर्त कम पचचीस सागरोपम की (उक्कोसेणं छव्वीसं सागरो-
वमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम छव्वीस सागरोपम की ।

(मज्झिममज्झिमगेविज्जगदेवाणं पुच्छा ?) मध्यम-मध्यम
त्रैवेयक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं छव्वीसं साग-
रोवमाइं, उक्कोसेणं सत्तवीसं सागरोवमाइं) हे गौतम ! जघन्य
छव्वीस सागरोपम की, उत्कृष्ट सताईस सागरोपम की (अपज्जत्त-
याणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकों की कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य भी और उत्कृष्ट भी

पचीस सागरोपम, अने उत्कृष्ट छव्वीस सागरोपमनी होय छे (अपज्जत्तयाणं
पुच्छा ?) अपर्याप्तकेनी स्थिति केटली छे ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेणं वि
अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य पण्य अने उत्कृष्ट पण्य अन्तर्मुहूर्तनी होय
छे. (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकेनी स्थिति केटली छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं
पणवीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं छव्वीसं सागरोवमाइं) हे गौतम !
जघन्य अन्तर्मुहूर्तं ओछा पचीस सागरोपमनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं ओछा
छव्वीस सागरोपमनी छे.

(मज्झिम मज्झिम गेविज्जगदेवाणं पुच्छा ?) मध्यम-मध्यम त्रैवेयक देवोनी
स्थिति केटली छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं छव्वीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्तवीसं
सागरोवमाइं) हे गौतम ! जघन्य छव्वीस सागरोपमनी, उत्कृष्ट मत्थावीस
सागरोपमनी होय छे (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकेनी स्थिति केटली छे ?
(गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य पण्य अने उत्कृष्ट

पमाणि, अन्तर्मुहूर्तो नानि, उत्कृष्टेन सप्तविंशतिः सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तो नानि, मध्यमोपरिमत्रैवेयकदेवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन सप्तविंशतिः सागरोपमाणि, उत्कृष्टेन अष्टाविंशतिः सागरोपमाणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम् पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन सप्तविंशतिः सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तो नानि, उत्कृष्टेन अष्टाविंशतिः सागरो-

अन्तर्मुहूर्त की (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की कितनी ? (गोयमा जहण्णेणं छवीसं सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं सत्तावीसं सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम छवीस सागरोपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम सताईस सागरोपम की ।

(मज्झिम उवरिमगेविज्जगदेवाणं पुच्छा ?) मध्यम उपरितन त्रैवेयक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं सत्तावीसं सागरोवमाइ, उक्कोसेणं अट्ठावीसं सागरोवमाइ) हे गौतम ! जघन्य सताईस सागरोपम की, उत्कृष्ट अट्ठाईस सागरोपम की (अपञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवों की कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं सत्तावीसं सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं अट्ठावीसं सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ) हे गौतम !

पथु अन्तर्मुहूर्तनी छे (पञ्जत्तयाण पुच्छा ?) पर्याप्तकेनी स्थिति केटली छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं छवीसं सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेण सत्तावीस सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओछा छवीस सागरोपमनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओछा सत्तावीस सागरोपमनी होय छे

(मज्झिम उवरिम गेविज्जगदेवाण पुच्छा ?) मध्यम उपरितन त्रैवेयक देवोनी स्थिति केटली छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं सत्तावीस सागरोवमाइ, उक्कोसेण अट्ठावीसं सागरोवमाइ) हे गौतम ! जघन्य सत्तावीस सागरोपमनी, उत्कृष्ट अट्ठावीस सागरोपमनी (अपञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवोनी स्थिति केटली छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेण वि अन्तोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य पथु अने उत्कृष्ट पथु अन्तर्मुहूर्तनी (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकेनी स्थिति केटली छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं सत्तावीस सागरोवमाइ, अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं अट्ठावीसं सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओछा सत्तावीस सागरोपमनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओछा अट्ठावीस सागरोपमनी होय छे

પમાણિ, અપર્યાપ્તકાનાં પૃચ્છા, ગૌતમ ! જઘન્યેનાપિ ઉત્કૃષ્ટેનાપિ અન્તર્મુહૂર્ત્તમ્, પર્યાપ્તકાનાં પૃચ્છા, ગૌતમ ! જઘન્યેન પશ્ચવિંશતિઃ સાગરોપમાણિ અન્તર્મુહૂર્ત્તો-
નાનિ, ઉત્કૃષ્ટેન પશ્ચવિંશતિઃ સાગરોપમાણિ, અન્તર્મુહૂર્ત્તોનાનિ, મધ્યમમધ્યમ-
પ્રૈવેયકદેવાનાં પૃચ્છા, ગૌતમ ! જઘન્યેન પશ્ચવિંશતિઃ સાગરોપમાણિ, ઉત્કૃષ્ટેન
સપ્તવિંશતિઃ સાગરોપમાણિ, અપર્યાપ્તકાનાં પૃચ્છા, ગૌતમ ! જઘન્યેનાપિ ઉત્કૃષ્ટે-
નાપિ અન્તર્મુહૂર્ત્તમ્, પર્યાપ્તકાનાં પૃચ્છા, ગૌતમ ! જઘન્યેન પશ્ચવિંશતિઃ સાગરો-

ઉક્કોસેર્ણ છઠ્ઠીસં સાગરોવમાઈ) હે ગૌ — ! જઘન્ય પચ્ચીસ સાગરોપમ
કી, ઉત્કૃષ્ટ છઠ્ઠીસ સાગરોપમ કી (અપજ્જત્તયાર્ણ પુચ્છા ?) અપર્યા-
પ્તકોં કી સ્થિતિ કિતની ? (ગોયમા ! જહણ્ણેણ વિ ઉક્કોસેણ વિ
અંતોમુહુત્તં) હે ગૌતમ ! જઘન્ય ધી ઓર ઉત્કૃષ્ટ ધી અન્તર્મુહૂર્ત્ત કી !

(પજ્જત્તયાર્ણ પુચ્છા ?) પર્યાપ્તકોં કી સ્થિતિ કિતની ? (ગોયમા !
જહણ્ણેણં પળવીસં સાગરોવમાઈ અંતોમુહુત્તૂણાઈ) હે ગૌતમ ! જઘન્ય
અન્તર્મુહૂર્ત્ત કમ પચ્ચીસ સાગરોપમ કી (ઉક્કોસેર્ણ છઠ્ઠીસં સાગરો-
વમાઈ અંતોમુહુત્તૂણાઈ) ઉત્કૃષ્ટ અન્તર્મુહૂર્ત્ત કમ છઠ્ઠીસ સાગરોપમ કી !

(મઙ્ગિમમઙ્ગિમગેવિજ્જગદેવાર્ણ પુચ્છા ?) મધ્યમ-મધ્યમ
પ્રૈવેયક દેવોં કી સ્થિતિ કિતની ? (ગોયમા ! જહણ્ણેણં છઠ્ઠીસં સાગ-
રોવમાઈ, ઉક્કોસેર્ણ સત્તવીસં સાગરોવમાઈ) હે ગૌતમ ! જઘન્ય
છઠ્ઠીસ સાગરોપમ કી, ઉત્કૃષ્ટ સતાઈસ સાગરોપમ કી (અપજ્જત્ત-
યાર્ણ પુચ્છા ?) અપર્યાપ્તકોં કી કિતની ? (ગોયમા ! જહણ્ણેણ વિ
ઉક્કોસેર્ણ વિ અંતોમુહુત્તં) હે ગૌતમ ! જઘન્ય ધી ઓર ઉત્કૃષ્ટ ધી

પચ્ચીસ સાગરોપમ, અને ઉત્કૃષ્ટ છઠ્ઠીસ સાગરોપમની હોય છે (અપજ્જત્તયાર્ણ
પુચ્છા ?) અપર્યાપ્તકોંની સ્થિતિ કેટલી છે ? (ગોયમા ! જહણ્ણેણં વિ ઉક્કોસેર્ણ વિ
અંતોમુહુત્તં) હે ગૌતમ ! જઘન્ય પણ અને ઉત્કૃષ્ટ પણ અન્તર્મુહૂર્ત્તની હોય
છે (પજ્જત્તયાર્ણ પુચ્છા ?) પર્યાપ્તકોંની સ્થિતિ કેટલી છે ? (ગોયમા ! જહણ્ણેણં
પળવીસં સાગરોવમાઈ અંતોમુહુત્તૂણાઈ, ઉક્કોસેર્ણ છઠ્ઠીસ સાગરોવમાઈ) હે ગૌતમ !
જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત્ત ઓછા પચ્ચીસ સાગરોપમની, ઉત્કૃષ્ટ અન્તર્મુહૂર્ત્ત ઓછા
છઠ્ઠીસ સાગરોપમની છે.

(મઙ્ગિમ મઙ્ગિમ ગેવિજ્જગદેવાર્ણ પુચ્છા ?) મધ્યમ-મધ્યમ પ્રૈવેયક દેવોંની
સ્થિતિ કેટલી છે ? (ગોયમા ! જહણ્ણેણં છઠ્ઠીસં સાગરોવમાઈ, ઉક્કોસેર્ણ સત્તવીસ
સાગરોવમાઈ) હે ગૌતમ ! જઘન્ય છઠ્ઠીસ સાગરોપમની, ઉત્કૃષ્ટ સત્તવીસ
સાગરોપમની હોય છે. (અપજ્જત્તયાર્ણ પુચ્છા ?) અપર્યાપ્તકોંની સ્થિતિ કેટલી છે ?
(ગોયમા ! જહણ્ણેણં વિ ઉક્કોસેર્ણ વિ અંતોમુહુત્તં) હે ગૌતમ ! જઘન્ય પણ અને ઉત્કૃષ્ટ

पमाणि, अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन सप्तविंशतिः सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि, मध्यमोपरिमत्रैवेयकदेवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन सप्तविंशतिः सागरोपमाणि, उत्कृष्टेन अष्टाविंशतिः सागरोपमाणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन सप्तविंशतिः सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन अष्टाविंशतिः सागरो-

अन्तर्मुहूर्त की (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की कितनी ? (गोयमा जहण्णेणं छवीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं सत्तावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइ) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम छवीस सागरोपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त सताईस सागरोपम की ।

(मज्झिम उवरिमगेविज्जगदेवाणं पुच्छा ?) मध्यम उपरितन त्रैवेयक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं सत्तावीसं सागरावमाइ, उक्कोसेणं अट्टावीसं सागरोवमाइ) हे गौतम ! जघन्य सताईस सागरोपम की, उत्कृष्ट अट्टाईस सागरोपम की (अपञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवों की कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति कि नी ? (गोयमा ! जहण्णेणं सत्तावीसं सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं अट्टावीसं सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाइ) हे गौतम !

पणु अन्तर्मुहूर्तनी छे (पञ्जत्तयाण पुच्छा ?) पर्याप्तकेनी स्थिति केटली छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं छवीसं सागरोवमाइ अतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं सत्तावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) छे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओछा छवीस सागरोपमनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओछा सत्तावीस सागरोपमनी होय छे

(मज्झिम उवरिम गेविज्जगदेवाण पुच्छा ?) मध्यम उपरितन त्रैवेयक देवानी स्थिति केटली छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं सत्तावीस सागरोवमाइ, उक्कोसेण अट्टावीसं सागरोवमाइं) छे गौतम ! जघन्य सत्तावीस सागरोपमनी, उत्कृष्ट अट्टावीस सागरोपमनी (अपञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवानी स्थिति केटली छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेण वि अन्तोमुहुत्त) छे गौतम ! जघन्य पणु अने उत्कृष्ट पणु अन्तर्मुहूर्तनी (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकेवानी स्थिति केटली छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं सत्तावीस सागरोवमाइं, अतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अट्टावीसं सागरोवमाइ अतोमुहुत्तूणाइं) छे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओछा सत्तावीस सागरोपमनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ओछा अट्टावीस सागरोपमनी होय छे

पमाणि अन्तर्मुहूर्तौ नानि, उपरिमाधस्तनग्रैवेयक देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अष्टाविंशतिः सागरोपमाणि, उत्कृष्टेन एकोनत्रिंशत् सागरोपमाणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघ-येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन अष्टाविंशतिः सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तौ नानि, उत्कृष्टेन एकोनत्रिंशत् सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तौ नानि, उपरिममध्यमग्रैवेयकदेवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एकोनत्रिंशत् सागरोपमाणि उत्कृष्टेन त्रिंशत् सागरोपमाणि, जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं कम सताईस सागरोपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तं कम अट्ठाईस सागरोपम की ।

(उपरिमहेष्टिमगेविज्जगदेवाणं पुच्छा ?) उपरितन-अधस्तनग्रैवेयक के देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं अट्ठावीसं सागरोवमाइ, उक्कोसेणं एगूणतीसं सागरोवमाइ) हे गौतम ! जघन्य अट्ठाईस सागरोपम की, उत्कृष्ट उनतीस सागरोपम की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा) अपर्याप्तक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहत्त) जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त (पज्जत्तयाणं पुच्छा) पर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं अट्ठावीसं सागरोवमाइ अंतोमुहत्तूणाइ, उक्कोसेणं एगूणतीसं सागरोवमाइ अंतोमुहत्तूणाइ) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं कम अट्ठाईस सागरोपम, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तं कम उनतीस सागरोपम की ।

(उपरिम मज्झिमगेवेज्जगदेवाणं पुच्छा ?) उपरितन मध्यम ग्रैवेयक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगूणतीसं सागरोवमाइ, उक्कोसेणं तीसं सागरोवमाइ) हे गौतम ! जघन्य

(उपरिम हट्टिम गेविज्जगदेवाणं पुच्छा ?) उपरितन-अधस्तन ग्रैवेयकना देवानी स्थिति केटली छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं अट्ठावीसं सागरोवमाइ उक्कोसेण एगूणतीसं सागरोवमाइ) हे गौतम ! जघन्य अधथावीस सागरोपमनी उत्कृष्ट ओगण्ठुत्रीस सागरोपमनी थाय छे (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवानी स्थिति केटली छे ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहत्त) हे गौतम ! जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तदेवानी स्थिति केटली छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं अट्ठावीसं सागरोवमाइ अंतोमुहत्तूणाइ, उक्कोसेणं एगूणतीसं सागरोवमाइ अंतोमुहत्तूणाइ) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तं ओछा अधथावीस सागरोपमनी उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तं ओछा ओगण्ठुत्रीस सागरोपमनी थाय छे

(उपरिम मज्झिम गेवेज्जग देवाणं पुच्छा ?) उपरितन मध्यम ग्रैवेयक देवानी स्थिति केटली छे ? (गोयमा ! जहण्णेण एगूणतीसं सागरोवमाइ, उक्कोसेणं तीसं

अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्त-
कानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एकोनत्रिंशत् सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि,
उत्कृष्टेन त्रिंशत् सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि उपरिमोपरिमत्रैवेयकदेवानां
पृच्छा, गौतम ! जघन्येन त्रिंशत् सागरोपमाणि, उत्कृष्टेन एकत्रिंशत् सागरो-
पमाणि, अपर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्,
पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन त्रिंशत् सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि,

उनतीस सागरोपम, उत्कृष्ट तीस सागरोपम की (अपञ्जत्तयाणं
पुच्छा ?) अपर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य और उत्कृष्ट अन्तमु-
हूर्त्त (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा
जहण्णेणं एगूणतीसं सागरोवमाइं अतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तीसं
सागरोवमाइं अतोमुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त
उनतीस सागरोपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त क्रम तीस सागरोपम की
(उवरिमउवरिम गेवेज्जगदेवाणं पुच्छा ?) उपरितन-उपरि
त्रैवेयक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं तीसं सागरो-
इं, उक्कोसेणं एकतीसं सागरोवमाइं) हे गौतम ! जघन्य तीस
सागरो की, उत्कृष्ट इकतीस सागरोपम की (अपञ्जत्तयाणं पुच्छा)
अपर्याप्तक देवों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्को-
सेण वि अतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त की
(पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा !

सागरोवमाइं) हे गौतम ! जघन्य ओगणुत्रीस सागरोपमनी उत्कृष्ट त्रीस साग-
रोपमनी इडी छे (अपञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तदेवानी स्थिति डेटवी छे ?
(गोयमा जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य अने उत्कृष्ट
अन्तर्मुहूर्त्तनी डोय छे (पञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तदेवानी स्थिति डेटवी छे ?
(गोयमा ! जहण्णेण एगूणतीसं साग रोवमाइं अतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तीसं साग
रोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त ओछा ओगणुत्रीस
सागरोपमनी उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त ओछात्रीस सागरोपमनी डोय छे

(उवरिम-उवरिम गेवेज्जगदेवाणं पुच्छा ?) उपरितन-उपरितन त्रैवेयकदेवानी
स्थिति डेटवी इडेव छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं तीस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं एकतीसं
सागरोवमाइं) हे गौतम ! जघन्य त्रीस सागरोपमनी, उत्कृष्ट ओकत्रीस सागरो-
पमनी इडेव छे (अपञ्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तक देवानी स्थिति डेटवी छे ?
(गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य अने उत्कृष्ट

उत्कृष्टेन एकत्रिंशत् सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि, विजयवैजयन्तजयन्तापराजितेषु खलु भदन्त ! देवानां कियन्तं कालं स्थितिः ब्रह्मप्ता ? गौतम ! जघन्येन एकत्रिंशत् सागरोपमाणि उत्कृष्टेन त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि, अपर्याप्तकाना पृच्छा, गौतम ! जघन्येनापि उत्कृष्टेनापि अन्तर्मुहूर्तम्, पर्याप्तकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एकत्रिंशत् सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि, उत्कृष्टेन त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि अन्तर्मुहूर्तानानि, सर्वार्थसिद्धकदेवाना भदन्त !

जहण्णेणं तीसं सागरोवमाइ अतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं एकतीसं सागरोवमाइ अतोमुहुत्तूणाइ) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं कम तीस सागरोपम की, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं कम इकतीस सागरोपम की।

(विजयवैजयन्तजयन्तअपराजितेषु णं भन्ते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित विमानों में देवों की स्थिति कितने काल की कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं एकतीसं सागरोवमाइ, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइ) हे गौतम ! जघन्य एकतीस सागरोपम की, उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम की (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकों की स्थिति कितनी ? (गोयमा ! जहण्णेणं एकतीसं सागरोवमाइ अतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइ अतोमुहुत्तूणाइ) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं कम एकतीस सागरोपम और उत्कृष्टः

अन्तर्मुहूर्तानी होय छे (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकेनी स्थिति डेटवी छे ? (गोयमा ! जहण्णेण तीस सागरोवमाइ, अतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं एकतीसं सागरोवमाइ अतोमुहुत्तूणाइ) हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं ओछा तीस सागरोपमनी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं ओछा एकतीस सागरोपमनी होय छे

(विजय वैजयन्त जयन्त अपराजितेषु णं भन्ते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित विमानोभा देवानी स्थिति डेटवी क्षणनी कही छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं एकतीस सागरोवमाइ, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइ) हे गौतम ! जघन्य एकतीस सागरोपमनी, उत्कृष्ट तेतीस सागरोपमनी (अपज्जत्तयाणं पुच्छा ?) अपर्याप्तकेनी स्थिति डेटवी छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अतोमुहुत्त) हे गौतम ! जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तानी (पज्जत्तयाणं पुच्छा ?) पर्याप्तकेनी स्थिति डेटवी छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं एकतीसं सागरोवमाइ अतोमुहुत्तूणाइ, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइ अतोमुहुत्तूणाइ) हे गौतम !

ક્રિયન્તં કાલં સ્થિતિઃ પ્રજ્ઞા ? ગૌતમ ! અજઘન્યાનુત્કૃષ્ટમ્ ત્રયસ્ત્રિંશત્ સાગરો-
પમાણિ સ્થિતિઃ પ્રજ્ઞપ્તા, સર્વાર્થસિદ્ધકદેવાનામ્ અપર્યાપ્તકાનાં પૃચ્છા,
ગૌતમ ! જઘન્યેનાપિ ઉત્કૃષ્ટેનાપિ અન્તર્મુહૂર્તમ્, સર્ગર્થસિદ્ધદેવાનાં પર્યાપ્તકાનાં
ક્રિયન્તં કાલં સ્થિતિઃ પ્રજ્ઞપ્તા ? ગૌતમ ! અજઘન્યાનુત્કૃષ્ટમ્ ત્રયસ્ત્રિંશત્ સાગરો-
પમાણિ અન્તર્મુહૂર્તોનાનિ સ્થિતિઃ પ્રજ્ઞપ્તા, પ્રજ્ઞાપનાયાં ભગવત્યામ્ ચતુર્થમ્
સ્થિતિપદં સમાપ્તમ્ ॥ ટીકા—વ્યાख्या સુગમા ॥ સૂ ૦ ૧૦ ॥

इतिश्री विश्वविख्यात-जगद्बल्लभ-प्रसिद्धवाचकपञ्चदशभापाकलित-ललित
कलापालाप-प्रविशुद्धगद्यपद्यनैरुग्रन्यनिर्मापक - वादिमानमर्दक-श्री-
शाहू छत्रपतिकोल्हापुरराजप्रदत्त-‘जैनशास्त्राचार्य’-पदविभूषित-
कोल्हापुरराजगुरु-वालब्रह्मचारि जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर-
पूज्यश्री-घासीलाल-व्रतिविरचितायां श्री प्रज्ञापना-
सूत्रस्य प्रमेयवोधिकाख्यायां व्याख्यायां
॥ चतुर्थ स्थानपदम् समाप्तम् ॥

અન્તર્મુહૂર્ત કમ તેતીસ સાગરોપમ કી ।

(સવ્વટ્સિદ્ધદેવાણં મંતે ! કેવહ્યં કાલં ઠિઈં પળ્ણત્તા ?) હે
ભગવન્ ! સર્વાર્થ સિદ્ધ દેવોં કી કિતને કાલ કી સ્થિતિ કહી હૈ ?
(ગોયમા ! અજહળ્ણમણુકોસં તેત્તીસં સાગરોવમાઈં ઠિઈં પળ્ણત્તા)
હે ગૌતમ ! જઘન્ય ઓર ઉત્કૃષ્ટ મેદ સે રહિત તેતીસ સાગરોપમ કી
સ્થિતિ કહી હૈ । (સવ્વટ્સિદ્ધગ દેવાણં અપજ્જત્તયાણં પુચ્છા ?) અપ-
ર્યાપ્ત સર્વાર્થ સિદ્ધ વિમાન કે દેવોં કી સ્થિતિ કિતની ! (ગોયમા !
જહળ્ણેણ વિ ઉક્કોસેણ વિ અન્તોમુહૂત્ત) હે ગૌતમ ! જઘન્ય ઓર
ઉત્કૃષ્ટ અન્તર્મુહૂર્ત કી (સવ્વટ્સિદ્ધગદેવાણં પજ્જત્તયાણં કેવહ્યં

જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત ઓછા એકત્રીસ સાગરોપમની, ઉત્કૃષ્ટ અન્તર્મુહૂર્ત ઓછા
તેત્રીસ સાગરોપમની હોય છે.

(સવ્વટ્સિદ્ધદેવાણં મતે ! કેવહ્યં કાલં ઠિઈં પળ્ણત્તા ?) હે ભગવાન્ ! સર્વાર્થ સિદ્ધ
વિમાનવાસી દેવાની કેટલા કાળની સ્થિતિ કહી છે ? (ગોયમા ! અજહળ્ણમણુકોસ
તેત્તીસ સાગરોવમાઈં ઠિઈં પળ્ણત્તા) હે ગૌતમ ! જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ ભેદથી રહિત
તેતીસ સાગરોપમની સ્થિતિ કહી છે. (સવ્વટ્સિદ્ધગદેવાણં અપજ્જત્તયાણં પુચ્છા ?)
અપર્યાપ્ત સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનના દેવાની સ્થિતિ કેટલી છે ? (ગોયમા ! જહળ્ણેણ વિ
ઉક્કોસેણ વિ અન્તોમુહૂત્ત, હે ગૌતમ ! જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ અન્તર્મુહૂર્તની છે (સવ્વટ્-

कालं ठिई पणत्ता ?) सर्वार्थसिद्ध विमान के पर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल की कही है ? (गोयमा ! अजहणमणुक्कोसं तेत्तीसं सागरोवमाइं अतोसुहुत्तणाइं) हे गौतम ! जघन्य-उत्कृष्ट भेद से रहित अन्तर्मुहूर्त्त कम तेतीस सागरोपम की (ठिई) स्थिति (पणत्ता) कही है । ॥१०॥ टीकार्थ—व्याख्या स्पष्ट है ॥१०॥

श्री जैनचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्यश्री घासीलाल त्रतिविरचित
प्रज्ञापना सूत्र की प्रमेयबोधिनि व्याख्या में
॥ चौथा स्थान पद समाप्त ॥

खिद्ध देवाणं पज्जत्तयाणं केवइय कालं ठिई पणत्ता ?) सर्वार्थ सिद्ध विमानना पर्याप्त देवोनी स्थिति केटला काणनी क्खी छे ? (गोयमा ! अजहणमणुक्कोसं तेत्तीसं सागरोवमाइं अतोसुहुत्तणाइं) गौतम ! जघन्य अने उत्कृष्ट भेदथी रहित अन्तर्मुहूर्त्त बोधा तेतीस सागरोपमनी (ठिई) स्थिति (पणत्ता) क्खी छे ॥ १० ॥
टीकार्थ—व्याख्या स्पष्ट छे ॥ १० ॥

श्री जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री घासीलाल त्रतिविरचित प्रज्ञापना
सूत्रनी प्रमेयबोधिनी टीकातु बोधु स्थानपद समाप्त



अथ पञ्चमं पर्यायपदम्

मूलम्—कइविहा णं भंते ! पज्जवा पणत्ता ? गोयमा !
 दुविहा पज्जवा पणत्ता, तं जहा—जीवपज्जवा य, अजीव
 पज्जवा य, जीवपज्जवा णं भंते ! किं संखेज्जा असंखेज्जा
 अणंता ? गोयमा ! नोसंखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता, से केण-
 ट्ठेणंभंते ! एवं बुच्चइ—जाव पज्जवा नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा,
 अणंता ? गोयमा ! असंखिज्जा नेरइया, असंखिज्जा असुरकु-
 मारा, असंखिज्जा नागकुमारा, असंखिज्जा सुवण्णकुमारा, असं-
 खिज्जा विज्जुकुमारा, असंखिज्जा अगणिकुमारा, असंखिज्जा
 दीवकुमारा, असंखिज्जा उदहिकुमारा, असंखिज्जा दिसीकुमारा,
 असंखिज्जा वाउकुमारा, असंखिज्जा थणियकुमारा, असंखिज्जा
 पुढविकाइया, असंखिज्जा आउकाइया, असंखिज्जा तेउकाइया,
 असंखिज्जा वाउकाइया, अणंता वणप्फइकाइया, असंखिज्जा
 वेइंदिया, असंखिज्जा तेइंदिया, असंखिज्जा चउरिंदिया,
 असंखेज्जा पंचिंदियतिरिक्खज्जोणिया, असंखेज्जा मणुस्सा,
 असंखेज्जा वाणमंतरा असंखेज्जा जोइसिया, असंखेज्जा वेमा-
 णिया अणंता, सिद्धा, से एएणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ—
 ते णं नो संखिज्जा नो असंखिज्जा, अणंता ॥सू० १॥

छाया—कति विधाः खलु भदन्त ! पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! द्विविधाः
 पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा—जीवपर्यवाश्च, अजीवपर्यवाश्च, जीवपर्यवाः खलु भदन्त !

पंचमं पर्यायपदं

जीवपर्याय वक्तव्यता—

शब्दार्थ—(कइविहा णं) कितने प्रकार के (भंते !) हे भगवन् !
 (पज्जवा) पर्यव या पर्याय (पणत्ता ?) कहे हैं (गोयमा !) हे गौतम !

पथमं पर्याय पदं

शब्दार्थ—(कइविहा ण) डेटला प्रकारना (भंते !) हे भगवन् ! (पज्जवा)
 पर्यव अणर पर्याय (पणत्ता ?) कहे छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (दुविहा)

किं संख्येयाः, असंख्येयाः, अनन्ताः ? गौतम ! नो संख्येयाः, नो असंख्येयाः, अनन्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते-जीव पर्यवाः नो संख्येयाः नो असंख्येयाः अनन्ताः ? गौतम ! असंख्येयाः नैरयिकाः असंख्येयाः असुरकुमाराः, असंख्येयाः नागकुमाराः, असंख्येयाः सुवर्णकुमाराः असंख्येयाः विद्युत्कुमाराः, असंख्येयाः अग्निकुमाराः, असंख्येयाः द्वीपकुमाराः, असंख्येयाः उदधिकुमाराः,

(दुविहा) दो प्रकार के (पञ्जवा) पर्यव (पण्णत्ता) कहे हैं (तं जहा) वे इस प्रकार (जीव पञ्जवा य अजीव पञ्जवा य) जीव के पर्याय और और अजीव के पर्याय (जीव पञ्जवाणं भन्ते ! किं संखेज्जा, असंखेज्जा अणंता ?) हे भगवन् ! जीव के पर्याय क्या संख्यात है, असंख्यात हैं या अनन्त हैं ? (गोयमा ! नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता) हे गौतम ! न संख्यात हैं, न असंख्यात हैं, अनन्त हैं (से केणद्वेणं भन्ते ! एवं बुच्चइ-जीव पञ्जवा नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा अणंता ?) किस कारण भगवन् ! कहा कि जीव के पर्याय संख्यात नहीं असंख्यात नहीं, अनन्त हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (असंखिज्जा नेरइया) नारक असंख्यात हैं (असंखिज्जा असुरकुमारा) असंख्यात असुरकुमार हैं (असंखिज्जा नागकुमारा) असंख्यात नागकुमार हैं (असंखिज्जा सुवर्णकुमारा) असंख्यात सुव(र्ण)कुमार हैं (असंखिज्जा विज्जुकुमारा) असंख्यात विद्युत्कुमार हैं (असंखेज्जा अगणि कुमारा) असंख्यात अग्निकुमार हैं (असंखिज्जा दीव-

ये प्रकारना (पञ्जवा) पर्यव (पण्णत्ता) कथा छे (त जहा) तेओ आ रीते (जीव पञ्जवा य अजीवपञ्जवा य) एवना पर्याय अने अएवना पर्याय (जीवपञ्ज वाण भन्ते ! किं संखेज्जा, असंखेज्जा, अणंता) हे भगवन् ! एवना पर्याय शु स भ्यात होय छे, अस भ्यात छे, अण्ण अन्त होय छे ? (गोयमा ! नो संखेज्जा, नो अस दूद्वेण खेज्जा, अणता) हे गौतम ! न स भ्यात छे, न अस भ्यात छे, पण्ण अन्त छे (सेके द्वेणं भन्ते ! एव बुच्चइ-जीव पञ्जवा नो संखेज्जा, नो अस खेज्जा, अणंता ?) हे भगवन् कथा कारणे एवु कहु छे एवना पर्याय स भ्यात नथी, अस भ्यात नथी पण्ण अन्त छे ? (गोयमा ! हे गौतम ! (अस खिज्जा नेरइया) नारक अस भ्यात छे (अस खिज्जा असुरकुमारा) अस भ्यात असुरकुमार छे (अस खिज्जा नागकुमारा) अस भ्यात नागकुमार छे (अस खिज्जा सुवर्णकुमारा) अस भ्यात सुवर्णकुमार छे (अस खिज्जा विज्जुकुमारा) अस भ्यात विद्युत्कुमार छे (अस खिज्जा अगणि कुमारा) अस भ्यात अग्नि कुमार छे. (अस खेज्जा दीवकुमारा) अस भ्यात द्वीप

असंख्येयाः दिक्कुमाराः; असंख्येयाः वायुकुमाराः; असंख्येयाः स्तनिकुमाराः;
 असंख्येयाः पृथिवीकायिकाः; असंख्येयाः अप्कायिकाः; असंख्येयाः तेजः
 कायिकाः; असंख्येयाः वायुकायिकाः; अनन्ताः वनस्पतिकायिकाः; असंख्येयाः
 द्वीन्द्रियाः असंख्येयाः त्रीन्द्रियाः; असंख्येयाश्चतुरिन्द्रियाः; असंख्येयाः पञ्च-
 इन्द्रियतिर्यग्योनिकाः; असंख्येयाः मनुष्याः; असंख्येयाः वानव्यन्तराः; असं-
 ख्येयाः ज्योतिष्काः; असंख्येयाः वैमानिकाः; अनन्ताः सिद्धाः; तत् एतेनार्थेन

कुमारा) असंख्यात द्वीपकुमार हैं (असंखिज्जा उदधिकुमारा) असं-
 ख्यात उदधिकुमार हैं (असंखिज्जा दिसीकुमारा) असंख्यात दिशा-
 कुमार हैं (असंखिज्जा वाउकुमारा) असंख्यात वायुकुमार हैं (असं-
 खिज्जा थणियकुमारा) असंख्यात स्तनिकुमार हैं (असंखिज्जा पुढ-
 विकाइया) असंख्यात पृथ्वीकायिक (असंखिज्जा आउकाइया) असं-
 ख्यात अप्कायिक (असंखिज्जा तेउकाइया) असंख्यात तेजस्कायिक
 (असंखिज्जा वाउकाइया) असंख्यात वायुकायिक (अणता वणप्फइ-
 काइया) अनन्त वनस्पतिकायिक (असंखिज्जा वेइदिया) असंख्यात
 द्वीन्द्रिय (असंखिज्जा तेइदिया) असंख्यात त्रीन्द्रिय (असंखिज्जा
 चउरिन्द्रिया) असंख्यात चौइन्द्रिय (असंखिज्जा पंचिन्द्रियतिरिक्ख
 जोणिया) असंख्यात पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक (असंखिज्जा मणुस्सा)
 असंख्यात मनुष्य (असंखिज्जा वाणमन्तरा) असंख्यात वानव्यन्तर
 (असंखिज्जा जोइसिया) असंख्यात ज्योतिष्क (असंखिज्जा वैमाणिया)

कुमार छे. (अस खिज्जा उदधिकुमारा) असंख्यात उदधिकुमार छे. (असं खिज्जा
 दिसीकुमारा) असंख्यात दिशाकुमार छे. (असं खिज्जा वाउकुमारा) असंख्यात
 वायुकुमार छे (असं खिज्जा थणियकुमारा) असंख्यात स्तनिकुमार छे

(असं खिज्जा पुढविकाइया) असंख्यात पृथ्वीकायिक छे. (असं खिज्जा आउ-
 काइया) असंख्यात अप्कायिक छे. (असं खिज्जा तेउकाइया) असंख्यात तेज-
 स्कायिक छे (असं खिज्जा वाउकाइया) असंख्यात वायुकायिक (अणता वणप्फइकाइया)
 अनन्त वनस्पतिकायिक छे

(असं खिज्जा वेइदिया) असंख्यात द्वीन्द्रिय (असं खिज्जा तेइदिया) असंख्यात
 त्रीन्द्रिय (असं खिज्जा चउरिन्द्रिया) असंख्यात चार इन्द्रिय (असं खिज्जा पंचि-
 द्रियतिरिक्खजोणिया) असंख्यात पंचेन्द्रियतिर्यग्योनिक एते एते छे (असंखिज्जा
 मणुस्सा) असंख्यात मनुष्य (असं खिज्जा वाणमन्तरा) असंख्यात वानव्यन्तर
 (असं खिज्जा जोइसिया) असंख्यात ज्योतिष्क (असं खिज्जा वैमाणिया) असंख्यात

गौतम ! एवमुच्यते—ते सखु नो संख्येयाः नो असंख्येयाः, अनन्ताः ।

टीका—प्रथमे पदे जीवाजीवप्रज्ञापनाभेदेन प्रज्ञापनाया द्वैविध्यस्योक्तत्वेन जीवानाम् अजीवानाञ्च गुणापर्यायवद् द्रव्यलक्षणोक्तेः जीवाजीवपर्यायभेदान् प्ररूपयितुमाह—‘कइविद्वा णं भंते ! पज्जवा पण्णत्ता’ हे भदन्त ! कतिविधाः खलु पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? यद्यपि अनन्तरपदे नैरयिकादि पर्यायरूपेण प्राणिनामवस्थितिः, प्रतिपादितास्तथापि औदयिक क्षायोपशमिक क्षायिकभावाश्रयपर्यायाणामवधारणार्थं भगवान्—आह—‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘दुविद्वा पज्जवा पण्णत्ता ?’द्विविधाः

असंख्या वैमानिक (अणंता सिद्धा) अनन्त सिद्ध हैं (से एणद्वेणं गोयमा !) हे गौतम ! इस हेतु से (एवं वुच्चइ) ऐसा कहा जाता है (ते णं नो संखिज्जा, नो असंखिज्जा, अणंता) वे संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनन्त हैं । । १॥

टीकार्थ—प्रथम पद में प्रज्ञापना दो प्रकार की कही गई है—जीव प्रज्ञापना और अजीव प्रज्ञापना । जीव और अजीव द्रव्य हैं और द्रव्य का लक्षण गुण-पर्यायवत्त्व कहा गया है, अतएव इस पद में जीव और अजीव के पर्यायों का निरूपण किया जाता है—

प्रश्न किया गया है—हे भगवन् ! पर्याय कितने प्रकार के कहे गए हैं ? यद्यपि पिछले पद में नैरयिक आदि के रूप में जीवों की स्थिति रूप पर्याय का प्रतिपादन किया गया है, तथापि औदयिक, क्षायोपशमिक एवं क्षायिक भाव रूप जीव पर्यायों का तथा अजीव पर्यायों का निश्चय करने के लिए भगवान् उत्तर देते हैं—गौतम ! पर्यव दो प्रकार के हैं—जीवपर्यव और अजीव पर्यव । पर्यव, पर्याय, गुण,

वैमानिक (अणंता सिद्धा) अनन्त सिद्ध छे (से एणद्वेणं गोयमा !) आ हेतुधी हे गौतम ! (एवं वुच्चइ) अथ कडेवाथ छे (तेणं नो सखिज्जा, नो असखिज्जा, अणता) तेओ स ख्यात नडि अस ख्यात नडि. पखु अनन्त छे ॥ १ ॥

टीकार्थ—प्रथम पदमा भगवाने प्रज्ञापना छे प्रकारनी कडी छे एव प्रज्ञापना अने अएव प्रज्ञापना एव अने अएव द्रव्यतु लक्षणु शुभु-पर्यायत्व कडेल छे. तथी न आ पदमा एव अने अएवना पर्यायितु निइपणु कशथ छे

अश कथी छे के हे भगवन् ! पर्याय केटला प्रकारना कडेला छे ? ओ के पाछला पदमा नैरयिक आदिना इपमा एवोनी स्थिति इप पर्यायतु प्रतिपादन कशथेतु छे. तथापि औदयिक क्षयोपशमिक, तेमन क्षायिक भाव इप एव पर्यायोना तथा अएव पर्यायोना निश्चय करवाने माटे भगवान उत्तर आये छे—

हे गौतम ! पर्यव छे प्रकारना से—एव पर्यव अने अएव पर्यव, पर्यव,

पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, 'तं जहा-जीवपज्जवाय, अजीवपज्जवाय' जीवपर्यवाश्च, अजीव-पर्यवाश्च, तत्र पर्यवाः-पर्यायाः गुणाः विज्ञेयाः प्रमाः इत्येते सामानार्थाः अव-सेयाः औदयिकादि भावानाश्च जीवाश्रयतया प्रसिद्धत्वेऽपि पुद्गलवृत्तित्वेनापि उपलब्धेः जीवाजीवभेदेनौदयिकादि भावस्य द्वैविध्यात् प्रकृते न तन्निर्वचनविरोधः कश्चित् संभवति, अथ पर्यायपरिणामावगमाय गौतमः पृच्छति-'जीव पज्जवा णं किं संखेज्जा, असंखेज्जा, अणंता ?' हे भदन्त ! जीवपर्यवाः खलु किं संख्येया भवन्ति ? किं वा असंख्येया भवन्ति ? किं वा अनन्ता भवन्ति ? भगवान् उत्तरयति-'गोयमा !' हे गौतम ! 'नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा अणंता' जीव-पर्यायाः नो संख्येया भवन्ति, नो वा असंख्येया भवन्ति, अपि तु अनन्ता भवन्ति, गौतमस्तत्र कारणं पृच्छति-'से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जीव पज्जवा नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता ?' हे भद त ! अथ केनार्थेन-कथं तावत्-एवमुच्यते-जीवपर्यवाः नो संख्येयाः, नो वा असंख्येयाः, किन्तु अनन्ता भवन्तीति ? वनस्पतिसिद्धवर्जितानां सर्वेषां नैरयिकादीनां प्रत्येकमसंख्येयतया, संमूर्च्छिममनुष्यापेक्षया च मनुष्याणामसंख्येयत्वेन वनस्पतीनां सिद्धानाश्च-विशेष, धर्म, ये प्रायः समानार्थक शब्द हैं ।

पर्यायों का परिमाण जानने के लिए गौतम प्रश्न करते हैं-हे भगवन् ! जीव के पर्याय क्या संख्यात हैं या असंख्यात हैं अथवा अनन्त हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं-गौतम ! जीवपर्याय न तो संख्यात हैं, न असंख्यात हैं, किन्तु अनन्त हैं ।

श्री गौतम इसका कारण पूछते हैं-हे भगवन् ! किस हेतु से ऐसा कहा है कि जीव के पर्याय संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, किन्तु अनन्त हैं ? वनस्पतिकायिकों और सिद्धों को छोड़ कर नैरयिक आदि सभी असंख्यात-असंख्यात हैं, संमूर्च्छिम मनुष्यों की अपेक्षा

-पर्याय, शुभ, विशेष, धर्म ये धल्लेलागे समानार्थक शब्द छे.

पर्यायाना परिमाणु ळल्लवाने भाटे श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे-हे भगवन् !

लवना पर्याय शु संख्यात छे अगर तो असंख्यात छे ? अथवा अनन्त छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे-हे गौतम ! लव पर्याय न तो संख्यात छे, न असंख्यात छे, किन्तु अनन्त छे

श्री गौतमस्वामी हेतु कारण पूछे छे-हे भगवन् ! क्या हेतुथी ओवु कल्लु

छे के लवना पर्याय संख्यात नहिं, असंख्यात नहिं किन्तु अनन्त छे ?

वनस्पति कायिके अने सिद्धोने छोडीने नैरयिक आदि अथा असंख्यात-असं-

ख्यात छे, संमूर्च्छिम मनुष्योनी अपेक्षाओ मनुष्य पल्लु असंख्यात छे, वन-

પ્રત્યે રમનન્તત્ત્વેન પર્યાયવતામનન્તત્ત્વેન જીવપર્યાયાણામનન્તત્ત્વં ભવતીત્યભિપ્રાયેણ મગવાન્ ઉત્તરગતિ—‘ગૌતમ !’ હે ગૌતમ ! ‘અસંલિજ્જા નેરડયા’ અસંલ્યેયા નૈરયિકા ભવન્તિ, ‘અસંલિજ્જા અમુરકુમારા’ અસંલ્યેયા અમુરકુમારા ભવન્તિ, ‘અસંલેજ્જા નાગકુમારા’ અસંલ્યેયા નાગકુમારા ભવન્તિ, ‘અસંલિજ્જા સુવર્ણ કુમારા’ અસંલ્યેયા: સુવર્ણકુમારા ભવન્તિ, ‘અસંલિજ્જા વિદ્યુત્કુમારા’ અસંલ્યેયા: વિદ્યુત્કુમારા ભવન્તિ, ‘અસંલેજ્જા અગ્નિકુમારા’ અસંલ્યેયા અગ્નિકુમારા ભવન્તિ, ‘અસંલિજ્જા દ્વીપકુમારા’ અસંલ્યેયા દ્વીપકુમારા ભવન્તિ, ‘અસંલિજ્જા ઉદકિ કુમારા’ અસંલ્યેયા ઉદકિકુમારા ભવન્તિ, ‘અસંલિજ્જા દિસીકુમારા’ અસંલ્યેયા: દિક્કુમારા ભવન્તિ, ‘અસંલિજ્જા વાત્કુમારા’ અસંલ્યેયા: વાયુકુમારા ! ભવન્તિ ‘અસંલિજ્જા યણિયકુમારા’ અસંલ્યેયા: સ્તનિતકુમારા ભવન્તિ, ‘અસંલેજ્જા પુદરિકાદયા’ અસંલ્યેયા: પૃથિવીકાયિકા ભવન્તિ, ‘અસંલિજ્જા આરુકાદયા’ અસંલ્યેયા અપ્કાયિકા ભવન્તિ, ‘અસંલિજ્જા તેરુકાદયા’ અસંલ્યેયાસ્તેજ: કાયિકા ભવન્તિ, ‘અસંલેજ્જા વાત્કાદયા’ અસંલ્યેયા વાયુકાયિકા ભવન્તિ, ‘અર્ણતા વળ્લકાદયા’ અનન્તા: વનસ્પતિકાયિકા ભવન્તિ,

મનુષ્ય મ્હી અસંલ્યાત હૈં, વનસ્પતિકાયિક ઓર સિદ્ધ જીવ અનન્ત-અનન્ત હૈં । ઇસ પ્રકાર જવ પર્યાય વાલે અનન્ત હૈં તો પર્યાય મ્હી અનન્ત હી હૈં, ઇસ અભિપ્રાય સે મગવાન્ ઉત્તર દેતે હૈં—હે ગૌતમ ! નારક અસંલ્યાત હૈં, અસુરકુમાર અસંલ્યાત હૈં, નાગકુમાર અસંલ્યાત હૈં, સુવર્ણકુમાર અસંલ્યાત હૈં, વિદ્યુત્કુમાર અસંલ્યાત હૈં, અગ્નિકુમાર અસંલ્યાત હૈં, દ્વીપકુમાર અસંલ્યાત હૈં, ઉદકિકુમાર અસંલ્યાત હૈં, દિશાકુમાર અસંલ્યાત હૈં, વાયુકુમાર અસંલ્યાત હૈં, સ્તનિતકુમાર અસંલ્યાત હૈં, પૃથ્વીકાયિક અસંલ્યાત હૈં, અપ્કાયિક અસંલ્યાત હૈં, તેજસ્કાયિક અસંલ્યાત હૈં, વાયુકાયિક અસંલ્યાત હૈં, વનસ્પતિકાયિક અનન્ત હૈં, ક્ષીન્દ્રિય અસંલ્યાત હૈં, ત્રીન્દ્રિય અસં-

સ્પતિકાયિક, અને સિદ્ધ છુવ અનન્ત-અનન્ત છે એ રીતે બ્યારે પર્યાયવાળા અનન્ત છે તો પર્યાય પણ અનન્તજ છે.

આ અભિપ્રાયથી શ્રી ભગવાન્ ઉત્તર આપે છે—હે ગૌતમ ! નારક અસંલ્યાત છે, અસુરકુમાર અસંલ્યાત છે, નાગકુમાર અસંલ્યાત છે, સુવર્ણકુમાર અસંલ્યાત છે, વિદ્યુત્કુમાર અસંલ્યાત છે અગ્નિકુમાર અસંલ્યાત છે દ્વીપકુમાર અસંલ્યાત છે, ઉદકિકુમાર અસંલ્યાત છે દિશાકુમાર અસંલ્યાત વાયુકુમાર અસંલ્યાત હોય છે સ્તનિતકુમાર અસંલ્યાત હોય છે, પૃથ્વીકાયિક અસંલ્યાત છે, અપ્કાયિક અસંલ્યાત છે વનસ્પતિકાયિક અનન્ત છે ક્ષીન્દ્રિય

असंखेज्जा वेइंदिया' असंख्येयाः द्वीन्द्रिया भवन्ति; असंखेज्जतेइंदिया' असंख्येया
स्त्रीन्द्रिया भवन्ति, 'असंखेज्जा चउरिंदिया' असंख्येयाश्चतुरिन्द्रिया भवन्ति 'असं-
खेज्जा पंचिंदियतिरिक्खणिया' असंख्येयाः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका भवन्ति,
'असंखेज्जा मणुस्सा' असंख्येया मनुष्याः समूर्च्छिमा भवन्ति, असंखेज्जा वाण-
मंतरा' असंख्येया वानव्यन्तरा भवन्ति, 'असंखेज्जा जोइसिया' 'असंख्येया
ज्योतिष्का भवन्ति 'असंखेज्जा वेमाणिया' असंख्येया वैमानिका भवन्ति, 'अणंता
सिद्धा' अनन्ताः सिद्धा भवन्ति, 'से एणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ' हे गौतम !
तत्-अथ, एतेनार्थेन उपर्युक्तार्थेन, एवम्-उच्यते-'तेषां नो संखिज्जा. नो
असंखिज्जा, अणंता' ते खलु जीवपर्ययाः नो संख्येया भवन्ति, नो वा असं-
ख्येया भवन्ति, किन्तु अनन्ता भवन्ति, ॥ सू०१ ॥

नैरयिकादिपर्यायवक्तव्यता

मूलम्-नेरइयाणं भंते ! केवइया पज्जवा पणत्ता ? गोयमा !
अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-नेर-
इयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! नेरइए नेरइयस्स
दव्वट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए तुल्ले, ओगाहणट्टयाए सिय
हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए, जइ हीणे असंखिज्जइभाग-
हीणे वा, संखिज्जइभागहीणे वा, संखिज्जगुणहीणे वा, असं-
खिज्जगुणहीणे वा, अह अब्भहिए असंखिज्जइभागमब्भहिए
वा, संखिज्जइभागमब्भहिए वा, संखिज्जगुणमब्भहिए वा,

ख्यात हैं, चतुरिन्द्रिय असंख्यात हैं, पंचेन्द्रिय तिर्यच असंख्यात हैं,
मनुष्य असंख्यात हैं, वानव्यन्तर असंख्यात हैं, ज्योतिष्क असं-
ख्यात हैं, वैमानिक असंख्यात हैं और सिद्ध अनन्त हैं। इस हेतु से
गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि जीव के पर्याय संख्यात नहीं हैं,
असंख्यात भी नहीं हैं किन्तु अनन्त हैं ॥१॥

असंख्यात छे, त्रीन्द्रिय असंख्यात छे, चतुरिन्द्रिय असंख्यात छे. पञ्चेन्द्रिय
तिर्यच असंख्यात छे मनुष्य असंख्यात छे वानव्यन्तरदेवो असंख्यात छे,
ज्योतिष्कदेवो असंख्यात छे वैमानिकदेवो असंख्यात छे अने सिद्ध अनन्त छे.

आ डेतुथी डे गौतम । ओपु कडेवाय छे डे एवना पर्याय संख्यात नथी
असंख्यात पणु नथी किन्तु अनन्त छे. ॥ १ ॥

असंखिज्जगुणमव्वहिए वा, ठिईए सिय हीणे, सिय तुल्ले,
 सिय अव्वहिए, जइ हीणे अणंतपिज्जइभागहीणे वा, संखि-
 ज्जइभागहीणे वा, संखिज्जगुणहीणे वा, असंखिज्जगुणहीणे वा,
 अह अव्वहिए, असंखिज्जभागमव्वहिए वा, संखिज्जभाग-
 मव्वहिए वा, संखिज्जगुणमव्वहिए वा, असंखिज्जगुणपव्व-
 हिए वा, कालवणपज्जवेहिं सिय होणे, सिय तुल्ले, सिय
 अव्वहिए, जइ हीणे अणंतभागहीणे वा, असंखेज्जभागहीणे
 वा, संखिज्जभागहीणे वा, संखेज्जगुणहीणे वा, असंखिज्जगुण
 हीणे वा, अणंतगुणहीणे वा, अह अव्वहिए, अणंतभागम-
 व्वहिए वा, असंखेज्जभागमव्वहिए वा, संखेज्जभागमव्व-
 हिए वा, संखेज्जगुणमव्वहिए वा, असंखेज्जगुणमव्वहिए वा,
 अणंतगुणमव्वहिए वा, नीलवणपज्जवेहिं, लोहिधवणपज्ज-
 वेहिं, पीयवणपज्जवेहिं, हालिइवणपज्जवेहिं, सुक्खिल्लवण-
 पज्जवेहिं छट्टाणवडिए, सुब्बिभंगंधपज्जवेहिं, दुब्बिभंगंधपज्जवेहिं य
 छट्टाणवडिए, तित्तरसपज्जवेहिं, कळुअरसपज्जवेहिं, कसायरस-
 पज्जवेहिं, अंब्रिलरसपज्जवेहिं, अहुररसपज्जवेहिं, छट्टाणवडिए,
 कक्कडफासपज्जवेहिं, मउयफासपज्जवेहिं, गरुयफासपज्जवेहिं,
 लहुयफासपज्जवेहिं, सीयफासपज्जवेहिं, उसिणफासपज्जवेहिं,
 णिद्धफासपज्जवेहिं, लुक्खफासपज्जवेहिं, छट्टाणवडिए, आभि-
 णिवोहियनाणपज्जवेहिं, सुयनाणपज्जवेहिं, ओहिनाणपज्जवेहिं,
 मइअण्णाणपज्जवेहिं, सुयअण्णाणपज्जवेहिं विभंगनाणपज्ज-
 वेहिं, चक्खुदंसणपज्जवेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिं, ओहिदंसण-
 पज्जवेहिं, छट्टाणवडिए, से तेणट्टेणं गोयसा ! एवं बुच्चइ नेरइयाणं
 नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंतपि पज्जवा पण्णात्ता । सू० २॥

छाया-नैरयिकाणां भदन्त ! क्रियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनाद्येन भदन्त ! एवमुच्यते-नैरयिकाणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! नैरयिको नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया तुल्यः अवगाहनार्थतया स्यात् हीनः, स्यात् तुल्यः, स्यात् अभ्यधिकः, यदा हीनः असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अथ अभ्यधिकः-असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभा-

नैरयिकादि पर्याय वक्तव्यता-

शब्दार्थ—(नेरइयाणं भन्ते ! केवइया पज्जवा पणत्ता ?) भगवन् नारकों के कितने पर्याय हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं (ले केणट्टेणं भन्ते ! एवं बुच्चइ-नेरइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) किस हेतु से भगवन् ! ऐसा कहा कि नारकों के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (नेरइए नेरइयस्स) एक नारक दूसरे नारक से (द्व्वट्टयाए तुल्ले) द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य है (ओगाहणट्टयाए सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अब्भहिए) अवगाहना की अपेक्षा से स्यात् हीन, स्यात् तुल्य और स्यात् अधिक है (जइ) यदि (हीणे) हीन है (असखिज्जइभागहीणे वा संखेज्जइभाग हीणे वा) संख्यात भाग हीन है या असंख्यातभाग हीन है (संखेज्जगुणहीणे वा) या संख्यातगुण हीन है (असंखेज्जगुणहीणे वा) या असंख्यात गुणहीन है (अह अब्भहिए) यदि अधिक है (असंखेज्जइभागमव्भ-

नैरयिकादि पर्याय वक्तव्यता

शब्दार्थ—(नेरइयाणं भन्ते केवइया पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् नारकोंना केटला पर्याय छे ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय डोय छे (सेकेणट्टेणं भन्ते एवं बुच्चइ नेरइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता) हे भगवन् ! क्या हेतुथी जेवु कहु के नारकोंना अनन्त पर्याय छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (नेरइए नेरइयस्स) जेक नारक भीला नारकथी (द्व्वट्टयाए तुल्ले) द्रव्यनी अपेक्षाजे तुल्य छे (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशोनी अपेक्षाजे तुल्य छे (ओगाहणट्टयाए सिय हीणे, सियतुल्ले, सिय अब्भहिए) अवगाहनानी अपेक्षाजे स्यात् हीन स्यात् तुल्य स्यात् अधिक डोय छे (जइ) यदि (हीणे) हीन (असखिज्जइभाग हीणे वा संखेज्जइभाग हीणे वा) संख्यात भाग हीन छे अगर असंख्यात भाग हीन छे (संखेज्जगुणहीणे वा) या संख्यातगुण हीन डोय छे (असंखेज्जगुणहीणे वा) या असंख्यातगुण हीन डोय छे (अह अब्भहिए) यदि अधिक डोय छे. (असंखेज्जइभागमव्भ-

गाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, स्थित्वा स्यात् हीनः, स्यात् तुल्यः, स्यात् अभ्यधिकः, यद्वा हीनः-असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अथ अभ्यधिकः-असंख्येयभागभ्यधिको वा, संख्येयभागभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, कृष्णवर्णपर्ययैः स्यात् हीनः, हिए चा संखेज्जइभागमव्हिए वा) असंख्यात भाग अधिक है या संख्यात भाग अधिक है (संखेज्जगुणमव्हिए वा असंखिज्जगुणमव्हिए वा) संख्यातगुण अधिक या असंख्यातगुण अधिक है ।

(ठिईए) स्थिति की अपेक्षा से (सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अव्वहिए) स्यात् हीन, स्यात् तुल्य, स्यात् अधिक है (जइ हीणे असंखेज्जइभाग हीणे वा संखेज्जइभाग हीणे वा) यदि हीन है तो असंख्यातभाग हीन या संख्यातभाग हीन है (संखिज्जगुणहीणे वा असंखिज्जगुणहीणे वा) संख्यातगुणहीन या असंख्यातगुण हीन है (अइ अव्वहिए) अगर अधिक है तो (असंखिज्ज भागमव्हिए वा संखिज्जभागमव्हिए वा) असंख्यातभाग अधिक या संख्यातभाग अधिक है (संखिज्जगुणमव्हिए वा असंखिज्जगुणमव्हिए वा) संख्यातगुण अधिक या असंख्यातगुण अधिक है ।

(कालवणण पज्जवेहिं सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अव्वहिए) कृष्णवर्ण पर्यायो से स्यात् हीन, स्यात् तुल्य, स्यात् अधिक है (जइ

हिए वा संखेज्जइ भागमव्हिए वा) असंख्यात भाग अधिक छे या संख्यात भाग अधिक छे (संखेज्जगुणमव्हिए वा असंखिज्जगुणमव्हिए वा) संख्यातगुण अधिक या असंख्यात गुण अधिक छे (ठिईए) स्थितिनो अपेक्षासे (सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अव्वहिए) स्यात् हीन, स्यात् तुल्य, स्यात् अधिक छे (जइ हीणे असंखेज्जइ भाग हीणे वा संखेज्जभाग हीणे वा) ने हीन छे तो असंख्यात भाग हीन अथवा संख्यातभाग हीन छे (संखिज्जगुणहीणे वा असंखिज्जगुणहीणे वा) संख्यात गुण हीन अगर असंख्यातगुण हीन छे (अइ अव्वहिए अगर अधिक छे तो (असंखिज्जभागमव्हिए वा संखिज्जभागमव्हिए वा) असंख्यात भाग अधिक या संख्यात भाग अधिक छे (संखिज्जगुणमव्हिए वा असंखिज्जगुणमव्हिए वा) संख्यात गुण अधिक या असंख्यात गुण अधिक छे ।

(कालवणणपज्जवेहिं सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अव्वहिए) कृष्णवर्ण पर्यायो स्यात् हीन, स्यात् तुल्य, अने स्यात् अधिक छे (जइ हीणे अणंत-

स्यात् तुल्यः, स्यात् अभ्यधिकः, यदा हीनः—अनन्तभागहीनो वा, असंख्येय-
भागह नो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा,
अनन्तगुणहीनो वा अथ अभ्यधिकः—अनन्तभागाभ्यधिको वा, असंख्येयभागा-
भ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणा-
भ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा, नीलवर्णपर्यवैः, लोहितवर्णपर्यवैः, पीतवर्ण-
पर्यवैः, हारिद्रवर्णपर्यवैः, शुक्लवर्णपर्यवैः, पद्मस्थानपतितः, सुरभिः, पर्यवैः, दुर-

हीणे अणंतभागहीणे वा, असंखेज्जभागहीणे वा, संखिज्जभागहीणे
वा) यदि हीन है तो अनन्तभागहीन, असंख्यातभाग हीन वा संख्या-
तभागहीन (संखेज्जगुणहीणे वा असंखिज्जगुणहीणे वा अणंतगुण
हीणे वा) संख्यातगुण हीन, असंख्यातगुण हीन या अनन्तगुण हीन
है (अह अन्महिण) यदि अधिक है तो (अणंतभागमन्महिण वा, असं-
खेज्जभागमन्महिण वा, संखेज्जभागमन्महिण वा, संखेज्जगुणमन्म-
हिण वा, असंखेज्जगुणमन्महिण वा, अणंतगुणमन्महिण वा) अनन्त
भाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यात
गुण अधिक. असंख्यातगुण अधिक या अनन्तगुण अधिक है ।

(नीलवर्णपञ्जवेहिं, लोहियवर्णपञ्जवेहिं, पीयवर्णपञ्जवेहिं
हालिद्वर्ण पञ्जवेहिं, सुक्किल्लवर्णपञ्जवेहिं छट्ठाणवडिण) नील-
वर्ण पर्यायो से, रक्तवर्ण पर्यायो से, पीतवर्ण पर्यायो से, हारिद्रवर्ण
पर्यायो से, शुक्लवर्ण पर्यायो से षट् स्थानपतित हीनाधिक है ।

भाग हीणे, वा असंखेज्जभागहीणे वा संखिज्जभागहीणे वा) ने हीन होय
तो अनन्त भाग हीन, असंख्यात भाग हीन, अणन्त तो संख्यात भाग हीन
(संखेज्जगुणहीणे वा असंखिज्जगुणहीणे वा अणंतगुणहीणे वा) संख्यातगुण
हीन, असंख्यातगुणहीन अणन्त अनन्तगुण हीन छे (अह अन्महिण) ने अधिक
होय तो (अणंतभागमन्महिण वा, असंखेज्जभागमन्महिण वा संखेज्जगुणमन्महिण वा
संखेज्जगुणमन्महिण वा, असंखेज्जगुणमन्महिण वा, अणन्तगुणमन्महिण वा)
अनन्त भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्या-
तगुण अधिक, असंख्यातगुण अधिक अनन्तगुण अधिक छे

(नीलवर्णपञ्जवेहिं, लोहियवर्णपञ्जवेहिं, पीयवर्णपञ्जवेहिं, हालिद्वर्ण
पञ्जवेहिं, सुक्किल्लवर्णपञ्जवेहिं छट्ठाणवडिण) नील वर्ण पर्यायो, रक्तवर्ण
पर्यायो, पीतवर्ण पर्यायो, हारिद्रवर्ण पर्यायो शुक्लवर्ण पर्यायो
षट् स्थान पतित हीनाधिक छे.

भिगन्धपर्यवैश्च षट्सानपतितः, तित्तरसपर्यवैः, कटुकरसपर्यवैः कषायरसपर्यवैः, आम्लरसपर्यवैः, मधुररसपर्यवैः, पट्टस्थानपतितः, कर्कशास्पर्शपर्यवैः, मृदुकस्पर्शपर्यवैः गुरुकस्पर्शपर्यवैः, लघुकस्पर्शपर्यवैः शीतस्पर्शपर्यवैः, उष्णस्पर्शपर्यवैः, स्निग्धस्पर्शपर्यवैः, रूक्षस्पर्शपर्यवैः षट्सानपतितः, आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैः श्रुतज्ञानपर्यवैः अवबिज्ञानपर्यवैः मत्तज्ञानपर्यवैः श्रुताज्ञानपर्यवैः विभङ्गज्ञानपर्यवैः,

(सुविभगंधपञ्जवेहिं दुविभगंधपञ्जवेहिं य छट्टाणवडिए) सुगंध पर्यायों और दुर्गंध पर्यायों से षट्सानपतित हीनाधिकता है (तित्तरसपञ्जवेहिं, कटुकरसपञ्जवेहिं, कषायरसपञ्जवेहिं, अंबिलरसपञ्जवेहिं, महुररसपञ्जवेहिं छट्टाणवडिए) तित्तरस पर्यायों से, कटुकरस पर्यायों से, कषायरस पर्यायों से, आम्लरस पर्यायों से और मधुररस पर्यायों से षट्सानपतित हीनाधिकता है ।

(कक्कडफासपञ्जवेहिं, अउयफासपञ्जवेहिं, गरुयफासपञ्जवेहिं, लहुयफासपञ्जवेहिं, सीयफासपञ्जवेहिं, उसिणफासपञ्जवेहिं, णिद्धफासपञ्जवेहिं, लुक्खफासपञ्जवेहिं छट्टाणवडिए) कर्कशास्पर्श पर्यायों से, मृदुकस्पर्श पर्यायों से, गुरुस्पर्श पर्यायों से, लघुस्पर्श पर्यायों से, शीतस्पर्श पर्यायों से, उष्णस्पर्श पर्यायों से, स्निग्धस्पर्श पर्यायों से, रूक्षस्पर्श पर्यायों से षट्सानपतित हीनाधिकता है ।

(आभिनिबोहियनाणपञ्जवेहिं) आभिनिबोधिक ज्ञान पर्यायों से (सुयनाणपञ्जवेहिं) श्रुतज्ञान पर्यायों से (ओहिनाणपञ्जवेहिं)

(सुविभगंधपञ्जवेहिं दुविभगंधपञ्जवेहिं छट्टाणवडिए) सुगंध पर्यायों अने दुर्गंध पर्यायों पट्टस्थानपतित हीनाधिकता छे

(तित्तरसपञ्जवेहिं, कटुकरसपञ्जवेहिं, कषायरसपञ्जवेहिं अंबिलरसपञ्जवेहिं, महुररसपञ्जवेहिं, छट्टाणवडिए) तित्तरस पर्यायों कटुकरस पर्यायों कषायरस, पर्यायों, आम्लरस पर्यायों अने मधुररस पर्यायों पट्टस्थानपतित हीनाधिकता छे

(कक्कडफासपञ्जवेहिं, अउयफासपञ्जवेहिं, गरुयफासपञ्जवेहिं लहुयफासपञ्जवेहिं, सीयफासपञ्जवेहिं, उसिणफासपञ्जवेहिं णिद्धफासपञ्जवेहिं लुक्खफासपञ्जवेहिं, छट्टाणवडिए) कर्कशास्पर्श पर्यायों, मृदुकस्पर्श पर्यायों गुरुस्पर्श पर्यायों लघुस्पर्श पर्यायों, शीतस्पर्श पर्यायों, उष्णस्पर्श पर्यायों, स्निग्धस्पर्श पर्यायों, रूक्षस्पर्श पर्यायों पट्टस्थानपतित हीनाधिकता छे

(आभिनिबोहियनाणपञ्जवेहिं) अपविज्ञान पर्यायों (सुयनाणपञ्जवेहिं)

चक्षुर्दर्शनपर्यवेः, अचक्षुर्दर्शनपर्यवेः, आग्निद्वर्गनपर्यवेः पटस्थानपतितः, तत् तेनार्थेन गौतम ! एवमुच्यते-नैरयिकाणां नो संख्ययाः नो असंख्येयाः अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ता ॥

टीका-अनन्तरं सामान्येन पर्यायवतामनन्तत्वेन पर्यायाणामानन्त्यसंभवेऽपि पर्यायवतामानत्याभावस्ये कथं पर्यायाणामानन्त्यमित्यभिप्रायेण गौतमः पृच्छति-‘नेरइयाणं भंते ! केवइया पज्जवा पणत्ता ?’ हे भदन्त ! नैरयिकाणां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् उत्तरयति-‘गोदमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता अवधिज्ञान पर्यायो से (मइअण्णाण पज्जवेहि) मति-अज्ञान पर्यायो से (सुयअण्णाण पज्जवेहिं) श्रुताज्ञान पर्यायो से (विभंगनाण पज्जवेहिं) विभंगज्ञान के पर्यायो से (चक्खुदंसणपज्जवेहिं) चक्षुदर्शन के पर्यायो से (अचक्खुदंसणपज्जवेहिं) अचक्षुदर्शन के पर्यायो से (ओहिदंसणपज्जवेहिं) अवधिदर्शन के पर्यायो से (छट्ठाणवडिए) पटस्थानपतित हीनाधिकता है (से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं वुच्चई) इस हेतु से गौतम ! ऐसा कहा जाता है (नेरइयाणं नो संखिज्जा, नो असंखिज्जा अणंता पज्जवा पणत्ता) नारकों के संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं वरन् अनन्त पर्याय कहे हैं ॥२॥

टीकार्थ-सामान्यतः जहाँ पर्यायवान् अनन्त होते हैं वहाँ पर्याय भी अनन्त होते हैं, किन्तु जब पर्यायवान् अनन्त न हों वहाँ पर्याय अनन्त कैसे हो सकते हैं ? इस अभिप्राय से गौतम प्रश्न करते हैं- भगवन् ! नैरयिक जीवों के पर्याय कितने कहे गए हैं ?

हि) श्रुतज्ञान पर्यायोथी (ओहिनाणपज्जवेहि) अपधिज्ञान पर्यायोथी (मइ अण्णाण पज्जवेहि) मति-अज्ञान पर्यायोथी (सुयअण्णाण पज्जवेहि) श्रुताज्ञान पर्यायोथी (विभंगनाणपज्जवेहि) विभंग ज्ञानना पर्यायोथी (चक्खुदंसणपज्जवेहि) चक्षुदर्शनना पर्यायोथी (अचक्खुदंसणपज्जवेहि) अचक्षुदर्शनना पर्यायोथी (ओहिदंसणपज्जवेहि) अपधि दर्शनना पर्यायोथी (छट्ठाणवडिए) पटस्थान पतित हीनाधिकता छे (से तेणद्वेणं गोयमा ! एव वुच्चई) आ डेतुथी गौतम ! आभ कडेवाथ छे (नेरइयाणं नो संखिज्जा, नो असंखिज्जा, अणंता पज्जवा पणत्ता) नारकोना संख्यात नहि, असंख्यात नहि, परन्तु अनन्त पर्याय कइया छे ॥ २ ॥

टीकार्थ-सामान्यत न्या पर्यायवान् अनन्त थाय छे, त्या पर्याय पण्णु अनन्त थाय छे, किन्तु न्यारे पर्यायवान् अनन्त न होय त्या पर्याय पण्णु अनन्त केवी रीते होय शक्ये ? आ अलिप्रायथी श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे- हे भगवन् ! नैरयिक जीवों के पर्याय कितने कहे गए हैं ?

पञ्जवा पणत्ता' नैरयिकाणाम् अनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः, गौतमस्तत्र कारणं पृच्छति—'से क्णट्टेणं भंते ! एवं बुच्चञ्ज-नेरइयाणं अणंता पञ्जवा पणत्ता ?' हे भदन्त ! तन्-अथ केनार्थेन-केन कारणेन, एवमुच्यते-नैरयिकाणाम् अनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् तत्र हेतुं प्रतिपादयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'नेरइए नेरइयस्स दब्बट्टयाए तुल्ले' नैरयिको नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, तथा चेदमपि नैरयिकजीवद्रव्यमेकसंख्याक्रान्तमिति नैरयिकेण नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यत्वेन एकस्यापि द्रव्यस्य अनन्तपर्यायतया पर्यायाणामानन्त्यमुपपद्यते,

अथ प्रदेशार्थतामधिकृत्य तुल्यत्वमाह—'पएसट्टयाए तुल्ले' प्रदेशार्थतया नैरयिको नैरयिकस्य तुल्यो भवति तथा च अस्यापि नैरयिक जीवद्रव्यस्य लोकाकाशप्रदेशपरिमाणप्रदेशत्वेन प्रदेशार्थतयापि नैरयिको नैरयिकस्य तुल्यो भवति एतेन प्रदेशवत् अप्रदेशवत् भेदेन द्रव्यस्य द्वैविध्येन परमाणोरप्रदेशत्वम्, द्विप्रदेश-त्रिप्रदेशादिकस्य तु सप्रदेशत्वम् इति फलितम्, एतच्च द्रव्यद्वैविध्यं पुद्गलास्तिकाय

भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! नैरयिकों के पर्याय अनन्त कहे हैं । गौतम कारण पूछते हैं—भगवन् ! किस कारण से नैरयिकों के अनन्त पर्याय कहे हैं ?

भगवान् कारण बतलाते हैं—गौतम ! प्रत्येक नारक दूसरे नारक से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य हैं, अर्थात् प्रत्येक नारक एक-एक जीव द्रव्य है, इस प्रकार द्रव्य की दृष्टि से उनमें भेद नहीं है । प्रदेशों की अपेक्षा से भी सभी नारक परस्पर तुल्य हैं, क्योंकि प्रत्येक नारक जीव लोकाकाश के चरावर असंख्यात प्रदेशवान् है, उनके प्रदेशों में किंचित् भी हीनाधिकता नहीं है । सप्रदेशी और अप्रदेशी का भेद सिर्फ पुद्गल में है, उसके अतिरिक्त सभी द्रव्य सप्रदेशी हैं । सभी

श्रीभगवन् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! नैरयिकेना पर्याय अनन्त क्ख्या छे श्री गौतमस्वामी कारणु पूछे छे—भगवन् ! कथा कारणुधी नैरयिकेना अनन्तपर्याय क्ख्या छे ?

श्री भगवन् कारणु बतावे छे—गौतम ! प्रत्येक नारक भीना नारकधी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य छे, अर्थात् प्रत्येक नारक एक-एक एव द्रव्य छे अ प्रकारे द्रव्यनी दृष्टिअे तेभनामा लेद होता नथी प्रदेशीनी अपेक्षाअे पणु अथा नारक पञ्जवा तुल्य रोय छे, केमके प्रत्येक नारक एव लोकाकाशना भराणर असंख्यात प्रदेशवान् छे, तेभना प्रदेशीमा क्छपणु हीनाधिकता थती नथी. सप्रदेशी अने अप्रदेशी लेद इत पुद्गलमा होय छे, तेना सिवायना अथा द्रव्ये सप्रदेशी

एव भवति, शेषाणि तु धर्मास्तिकायादीनि द्रव्याणि नियमतः सप्रदेशानि भवन्ति इत्यवसेयम्, 'ओगाहणद्वयाए सिय हीणे सिय तुल्ले, सिय अब्भहिए' अवगाहनार्थतया अवगाहनम् शरीरोच्छ्रयस्तदर्थतया नैरयिकोऽसंख्यातप्रदेशोऽपरस्य नैरयिकस्य स्यात्—कदाचित् अनेकान्तेन हीनो भवति, स्यात्—कदाचित् तुल्यो भवति, स्यात्—कदाचित्, अभ्यधिको भवति, तथाहि रत्नप्रभा पृथिवी-नैरयिकाणाम् वैक्रियशरीरस्यावगाहनाया जघन्येनाङ्गुलासंख्येयभागतया उत्कर्षेण तु सप्तधनुस्त्रिहस्तपङ्कगुलिप्रमाणतया उत्तरोत्तरासु च पृथिवीषु द्विगुणं द्विगुणं यावत् सप्तमन्नरकपृथिवीनैरयिकाणां जघन्येन अवगाहनायाः अङ्गुलस्यासंख्येय-भागतया, उत्कृष्टेन च पञ्चधनुः शतप्रमाणतया कदाचिद्धीनत्वं कदाचित्तुल्यत्वं कदाचिद्भ्यधिकत्वं भवति, तत्र 'जइहीणो असंखिज्जइ भागहीणे वा' यदा अव-

जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी ही होते हैं, अतएव प्रत्येक नारक जीव भी असंख्यात प्रदेशी है। मगर अवगाहना की अपेक्षा सच नारक तुल्य नहीं हैं। अवगाहना का अर्थ है शरीर की ऊंचाई। शरीर की ऊंचाई की अपेक्षा कोई नारक हीन होता है, कोई तुल्य होता है और कोई किसी से अधिक होता है। जैसे—रत्नप्रभा पृथिवी के नारकों के वैक्रियशरीर की जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग की है और उत्कृष्ट सात धनुष तीन हाथ और छह अंगुल की। आगे-आगे की पृथिवियों में दुगुनी-दुगुनी अाहना होती है। इस प्रकार सातवीं पृथिवी में जघन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग की और उत्कृष्ट पांच सौ धनुष की है। इस प्रकार किसी नारक से किसी नारक की अवगाहना हीन है, किसी की अधिक है और किसी-कसी की बराबर भी है। जो नारक अाहना से हीन है वह असंख्यातभाग

છે. બધા જીવ દ્રવ્ય અસંખ્યાત પ્રદેશી જ હોય છે, તેથીજ પ્રત્યેક નારક જીવ પણ અસંખ્યાત પ્રદેશી હોય છે પણ અવગાહનાની અપેક્ષાએ બધા નારક તુલ્ય હોતા નથી. અવગાહનાનો અર્થ છે શરીરની ઉચ્ચાઇ. શરીરની ઉચ્ચાઇની અપેક્ષાએ કોઇક નારક હીન હોય છે, કોઇ તુલ્ય હોય છે અને કોઇ કોઇનાથી અધિક પણ હોય છે. જેમ રત્નપ્રભા પૃથ્વીના નારકજીવોના વૈક્રિય શરીરની જઘન્ય અવગાહના અશુભના અસંખ્યાતમા ભાગની હોય છે અને ઉત્કૃષ્ટ સાત ધનુષ ત્રણ હાથ અને છ અશુભની. હોય છે આગળ આગળની પૃથ્વીઓમાં બમણી-બમણી અવગાહના હોય છે એ રીતે સાતમી પૃથ્વીમાં અશુભના અસંખ્યાતમા ભાગની અને ઉત્કૃષ્ટ પાચસો ધનુષની હોય છે એ રીતે કોઇ નારકથી કોઇ નારકની અવગાહના હીન હોય છે. કોઇની અધિક છે અને કોઇ કોઇની બરાબર છે. જે નારક

ગાહનાર્થતયા નૈરયિકો નૈરયિકસ્ય હીનો વિવક્ષિતઃ તદા અસંખ્યેયમાગહીનો વા ભવતિ, 'સંસ્ત્રિજ્જઙ્ગમાગહીને વા' સંખ્યેયમાગહીનો વા ભવતિ 'સંસ્ત્રિજ્જગુણહીને વા' સંખ્યેયગુણહીનો વા ભવતિ, 'અહ અઠ્ઠમહિં અસંસ્ત્રિજ્જઙ્ગમાગમઠ્ઠમહિં વા' અયામ્યધિકો યદા નૈરયિકો નૈરયિકાપૈક્ષયા વિવક્ષિતસ્તદા અસંખ્યેયમાગમ્યધિકો વા ભવતિ, 'સંસ્ત્રિજ્જમાગમઠ્ઠમહિં વા' સંખ્યેયમાગમ્યધિકો વા ભવતિ, 'સંસ્ત્રિજ્જગુણમઠ્ઠમહિં વા' સંખ્યેયગુણમ્યધિકો વા ભવતિ, 'અસંસ્ત્રિજ્જગુણમઠ્ઠમહિં વા' અસંખ્યેયગુણમ્યધિકો વા ભવતિ, એકસ્ય નૈરયિકસ્યોઽષ્ટસ્ત્વેન પશ્ચધનુઃશતપ્રમાણ- તયા અન્યસ્ય નૈરયિકસ્ય તુ ડ્વૈસ્ત્વેનાહ્ગુલાસંખ્યેયમાગહીન પશ્ચધનુઃશત-

હીન, સંખ્યાતમાગહીન, સંખ્યાતગુણહીન યા અસંખ્યાતગુણહીન હોતા હૈ । અગર અધિક હૈ તો અસંખ્યાત માગ અધિક, સંખ્યાતમાગ અધિક સંખ્યાતગુણ અધિક યા અસંખ્યાતગુણ અધિક હોતા હૈ । એક નારક કી અવગાહના પાંચસૌ ધનુષ કી હૈ ઓર દૂસરે કી અંગુલ કે અસંખ્યાતવે માગ કમ પાંચ સૌ ધનુષ કી, અંગુલ કા અસંખ્યાતવાં માગ પાંચ સૌ ધનુષ કા અસંખ્યાતવાં માગ હૈ, અતએવ જો નારક અંગુલ કે અસંખ્યાતવે માગ કમ પાંચ સૌ ધનુષ કી અવગાહના વાલા હૈ, વહ પાંચ સૌ ધનુષ કી અવગાહના વાલે કી અપેક્ષા અસંખ્યાતમાગ હીન હૈ ઓર પાંચ સૌ ધનુષ કી અવગાહના વાલા દૂસરે સે અસંખ્યાતમાગ અધિક હૈ । હસી પ્રકાર એક નારક પાંચ સૌ ધનુષ કી અવગાહના વાલા ઓર દૂસરા દો ધનુષ કમ પાંચ સૌ અર્થાત્ ૪૯૮ ધનુષ કી અવગાહના વાલા હૈ । દો ધનુષ પાંચ સૌ ધનુષ કા સંખ્યાતવાં

અવગાહનાર્થી હીન હોય છે તે અસખ્યાત ભાગહીન, સખ્યાતભાગ હીન સખ્યાત શુભહીન, યા અસખ્યાત શુભહીન હોય છે, અગર અધિક છે તો સખ્યાતભાગ અધિક, સખ્યાતશુભ અધિક, યા અસખ્યાતશુભ અધિક હોય છે એક નારકની અવગાહના પાચસો ધનુષની છે અને ખીલની અગુલના અસખ્યાતમા ભાગ એછા પાચસો ધનુષની, અગુલનો અસખ્યાતમા ભાગ પાચસો ધનુષનો અસખ્યાતમા ભાગ છે. તેથી જ નારક અગુલના અસખ્યાતમા ભાગ એછા પાચસો ધનુષની અવગાહના વાળા છે. તે પાચસો ધનુષની અવગાહના વાળાઓની અપેક્ષાએ સખ્યાત ભાગહીન છે અને પાચસો ધનુષની અવગાહના વાળા ખીલથી અસખ્યાત ભાગ અધિક છે. એ રીતે એક નારક પાચસો ધનુષની અવગાહના વાળા અને ખીલ એ ધનુષ એછા પાચસો ધનુષ અર્થાત્ ૪૯૮ ધનુષની અવગાહના વાળા હોય છે એ ધનુષ પાચસો ધનુષનો સખ્યાતમા ભાગ હોય છે તેથી જ

प्रमाणतया अङ्गुलासंख्येयभागस्य च पञ्चधनुःशतासंख्येयभागवृत्तित्वेन एको-
नैरयिकोऽङ्गुलासंख्येयभागहीन पञ्चधनुःशतप्रमाणः परिपूर्णपञ्चधनुः शतप्रमाणा
परनैरयिकापेक्षयाऽसंख्येयभागहीनो भवति, अन्यस्तु नैरयिकः पूर्वं नैरयि-
कापेक्षयाऽसंख्येयभाभ्यधिको भवति, एवमेव एको नैरयिक उच्चैस्त्वेन पञ्चधनुः
शतप्रमाणः, अन्यस्तु नैरयिक उच्चैस्त्वेन द्वित्रिधनुर्न्यून पञ्चधनुःशतप्रमाणस्ते
च द्वे त्रीणि वा धनुषि पञ्चानां धनुःशतानां संख्येयभागे वर्तन्ते तस्मात् एको
नैरयिकोऽन्यस्य परिपूर्ण पञ्चधनुःशतप्रमाणस्य नैरयिकस्यापेक्षया संख्येयभागहीनो
भवति, अन्यस्तु परिपूर्णपञ्चधनुःशतप्रमाणः पूर्वापेक्षया संख्येयभागाभ्यधिको
भवति, तथैव एको नैरयिक उच्चैस्त्वेन पञ्चविंशत्यधिकधनुःशतप्रमाणः, अन्यस्तु
परिपूर्णपञ्चधनुःशतप्रमाणः, पञ्चविंशत्यधिकश्च धनुःशतं चतुर्भिर्गुणितं पञ्चधनुः-
शतानि भवन्ति, तस्मात् पञ्चविंशत्यधिकधनुःशतप्रमाणोच्चैस्त्वोऽपि अन्यस्य
परिपूर्णपञ्चधनुःशत प्रमाणस्यापेक्षया संख्येयगुणहीनो भवति, अन्यस्तु तदपे-

भाग है, अतएव दूसरा नारक पहले से असंख्यातभाग हीन हुआ
और पहला पांच सौ धनुष की अवगाहना वाला दूसरे की अपेक्षा
संख्यात भाग अधिक अवगाहना वाला हुआ ।

इसी प्रकार कोई नारक एक सौ पच्चीस धनुष की अवगाहना
वाला है और दूसरा पूर्ण पांच सौ धनुष की अवगाहना वाला यहाँ
एक सौ पच्चीस धनुष के चौगुने पांच सौ धनुष होते हैं, अतएव एक-
सौ पच्चीस धनुष के अवगाहना वाला पांच सौ धनुष की अवगाहना
वाले से संख्यातगुण हीन हुआ और पांच सौ धनुष की अवगाहना
वाला एक सौ पच्चीस धनुष की अवगाहना वाले से संख्यातगुण
अधिक हुआ । इसी प्रकार कोई नारक अपर्याप्त अवस्था में अंगुल
के असंख्यातवे भाग की अवगाहना वाला है और दूसरा कोई पांच

भीले नारक पडेलाथी स ज्यात लाग हीन अने पडेले पाचसे धनुषनी
अवगाहनावाणे भीलनी अपेक्षासे स ज्यात लाग अधिक अवगाहना वाणे थये.

जेन् रीते केळ नारक जेकसे पच्चीस धनुषनी अवगाहना वाणे छे अने
भीले पूरु पाचसेनी अवगाहना वाणे अही जेकसे पच्चीस धनुषने चारे
शुधता पाचसे थाय छे, तेथीज जेकसे पचीस धनुषनी अवगाहनावाणा पाचसे
धनुषनी अवगाहनावाणाथी स ज्यात शुधुहीन थया अने पाचसे धनुषनी
अवगाहनावाणा जेक से पचीस धनुषनी अवगाहना वाणाथी स ज्यातशुधु
अधिक थया जेन् प्रकारे केळ नारक अपर्याप्त अवस्थाभा अशुलना अस-
ज्यातभा लागनी अवगाहना वाणे छे अने भीले केळ पाचसे धनुषनी अव-

क्षया परिपूर्णपञ्चधनुःशतप्रमाणः संख्येयगुणाभ्यधिको भवति, एवमेव एको नैरयिकोऽपर्याप्तावस्थायामङ्गुलासंख्येयभागवगाहो वर्तते अपरस्तु उच्चैस्त्वेन पञ्चधनुःशतप्रमाणोऽङ्गुलासंख्येयभागश्चासंख्येयेन गुणितः सन् पञ्चधनुःशत प्रमाणो भवति, तस्मात् अपर्याप्तावस्थायामङ्गुलासंख्येयभागप्रमाणोऽवगाहो वर्तमानः परिपूर्णपञ्चधनुःशत प्रमाणापेक्षया असंख्येयगुणहीनो भवति पञ्चधनुःशतप्रमाणस्तु तदपेक्षयाऽसंख्येयगुणाभ्यधिको भवति 'ठिईए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अन्म-हिए' स्थित्या-स्थित्यपेक्षया नैरयिको नैरयिकस्य स्यात् कदाचित्-अनेकान्तेन हीनो भवति, स्यात् कदाचित् तुल्यो भवति, स्यात्-कदाचित्-अभ्यधिको भवति, तथा च यथाऽवगाहनया हानौ वृद्धौ च चतुःस्थानपतितः प्रतिपादिस्तथा स्थित्यापि प्रतिपादनीयः, तदेव विशदयन्नाह- 'जइ हीणे असखिज्जइमागहीणे वा, संखिज्जइ-आगहीणे वा' यदा स्थित्यपेक्षया एको नैरयिकोऽन्य नैरयिकापेक्षया हीनो विव-

सौ धनुष की अवगाहना वाला अंगुल का असंख्यातवां भाग असंख्यात से गुणित होकर पांच सौ धनुष बनता है। अतएव अपर्याप्त अवस्था में अंगुल के असंख्यातवे भाग अवगाहना में वर्तमान नारक परिपूर्ण पांच सौ धनुष की अवगाहना वाले नारक से असंख्यातगुण हीन होता है और पांच सौ धनुष की अवगाहना वाला उससे असंख्यातगुणा अधिक होता है।

स्थिति की अपेक्षा से भी कोई नारक किसी नारक से कदाचित् हीन, कदाचित् तुल्य और कदाचित् अधिक होता है। जैसे अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित (चउठाणवडिया) हीनाधिकता का प्रतिपादन किया गया है, उसी प्रकार स्थिति की अपेक्षा से भी समझ लेना चाहिए। स्पष्टीकरण करते हुए शास्त्रकार कहते हैं- यदि हीन है तो असंख्यातभाग हीन या संख्यातभाग हीन होता है अथवा

गाहनावाणो छे, अशुबनो असंख्यातमे भाग असंख्यातथी शुद्धितथेने पायसो धनुष अने छे, तेथी न अपर्याप्त अवस्थाभा अशुबना अन्ख्यातभा भागनी अवगाहनाभा वर्तमान नारक परिपूर्ण पायसो धनुषनी अवगाहनावाणा तेभनाथी असंख्यातगुणा अधिक होय छे

स्थितिनी अपेक्षाये पल्लु कोठं नारक कोठं नारकथी कदाचित् हीन कदाचित् तुल्य अने कदाचित् अधिक होय छे नेम अवगाहनानी अपेक्षाये अतुस्थान पतित, (चउठाणवडिए) हीन अधिकतातु प्रतिपादन करवाभा आवेत्त छे कोन प्रकारे स्थितिनी अपेक्षाये पल्लु समल्लु वेपु नेधये स्पष्टीकरण करता गात्रउदे। कडे छे ने हीन होयतो असंख्यात भाग अन्तर न्ख्यात भाग हीन होय छे

क्षितस्तदा असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा भवति, एवं 'संखिज्ज-
गुणहीणे वा असंखिज्जगुणहीणे वा' संख्येयगुणहीनो वा असंख्येयगुणहीनो वा
भवति, 'अह अब्भहिए असंखिज्जभागमब्भहिए वा, संखिज्जभागमब्भहिए वा'
अथाभ्यधिको यदा एको नैरयिकोऽपरनैरयिकापेक्षया विवक्षितस्तदा स असं-
ख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा भवति, 'संखिज्जगुणमब्भहिए
वा, असंखिज्जगुणमब्भहिए वा' संख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति, असंख्येयगुणा-
भ्यधिको वा भवति,

अत्रेदं बोध्यम्—एको नैरयिकस्त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमस्थितिकः, अन्यस्तु सम-
यादि न्यूनस्त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमस्थितिको वर्तते, तत्र समयादिन्यून त्रयस्त्रिंशत्
सागरोपमप्रमाणस्थितिको नैरयिकः परिपूर्णत्रयस्त्रिंशत् सागरोपपरिधितिकु नैर-
यिकापेक्षयाऽसंख्येयभागहीनो भवति, परिपूर्णत्रयस्त्रिंशत् सागरोपमस्थितिकस्तु-
तदपेक्षयाऽसंख्येयभागाभ्यधिको भवति, समयादीनां सागरोपमापेक्षयाऽसंख्येय-
भागमात्रत्वात्, एवमेव एको नैरयिकस्त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमस्थितिकः अपरस्तु

संख्यातगुण हीन या असंख्यातगुण हीन होता है। अगर अधिक हो
तो एक नारक दूसरे नारक से असंख्यातभाग अधिक स्थिति वाला,
संख्यातभाग अधिक स्थिति वाला, असंख्यातगुण अधिक स्थिति
वाला या संख्यातगुण अधित स्थिति वाला होता है। उदाहरणार्थ—
एक नारक तेतीस सागरोपम स्थिति वाला है, और दूसरा एक-दो
समय कम तेतीस सागरोपम की स्थितिवाला है, तो एक-दो समय
तेतीस सागरोपम की स्थिति वाला पूर्ण तेतीस सागरोपम स्थिति
वाले से असंख्यातभाग हीन हुआ और तेतीस सागरोपम की स्थिति
वाला उससे असंख्यातभाग अधिक स्थिति वाला हुआ, क्योंकि
एक-दो समय, सागरोपम के असंख्यातवे भाग मात्र हैं। इसी प्रकार

अथवा स भ्यात शुष्णहीन अगर अस भ्यात शुष्ण हीन होय छे, अगर अधिक
होयतो ओक नारक भील नारकथी अस भ्यात लाग अधिक स्थितिवाणा,
स भ्यात लाग अधिक स्थितिवाणा, अस भ्यात शुष्ण अधिक स्थितिवाणा, अगर
स भ्यात शुष्ण अधिक स्थितिवाणा होय छे उदाहरणु तरीके—ओक नारक तेतीस
सागरोपमनी स्थितिवाणा छे भील ओक-असो समय ओछा तेतीस सागरो-
पमनी स्थितिवाणा छे, जे समय ओछा तेतीस सागरोपमनी स्थितिवाणा
पूर्ण तेतीस सागरोपम स्थितिवाणार्थी अस भ्यातलाग हीन थये अने तेतीस
सागरोपमनी स्थिति वाणा तेनाथी अस भ्यात लाग अधिक स्थितिवाणा थये
केभके ओक-जे समय, सागरोपमने अस भ्यात लाग मात्र छे, जे प्रकारे ओक

नैरयिकः पल्योपमन्यूनत्रयस्त्रिंशत् सागरोपमस्थितिको वर्तते, दशमिश्च पल्योपम-
कोटिकोटिभिरेकस्य सागरोपमस्य निष्पद्यमानतया पल्योपमैर्न्यूनस्थितिकः परिपूर्ण-
स्थितिक नैरयिकापेक्षया संख्येयभागहीनो भवति, परिपूर्णस्थितिकस्तु नैरयिक-
स्त्वदपेक्षा संख्येयभागाभ्यधिको भवति तथैवैको नैरयिक एकसागरोपमस्थितिकः,
अन्यस्तु परिपूर्णत्रयस्त्रिंशत् सागरोपमस्थितिको भवति, तत्रैक सागरोपमस्थि-
तिकः परिपूर्णस्थितिकनैरयिकापेक्षया संख्येयगुणहीनो भवति, एकसागरो-
पमस्य त्रयस्त्रिंशत्तागुणने परिपूर्णस्थितिकत्वरूपात्, परिपूर्णस्थितिकस्तु तदपेक्षया
संख्येयगुणाभ्यधिको भवति तथैव एको नैरयिको दशवर्षसहस्रस्थितिको भवति,
अन्यस्तु त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमस्थितिकः, दशवर्षसहस्राणाञ्च संख्येयरूपेण गुणने

एक नारक तेतीस सागरोपम की स्थिति वाला है और दूसरा पल्यो-
पम कम तेतीस सागरोपम की स्थिति वाला । दस कोडाकोडी पल्यो-
पम का एक सागरोपम होता है, अतएव पल्योपमों से हीन स्थिति
वाला पूर्ण तेतीस सागरोपम स्थिति वाले से संख्यातभाग हीन स्थिति
वाला हुआ और दूसरा संख्यातभाग अधिक स्थिति वाला हुआ ।
इसी प्रकार एक नारक एक सागरोपम की स्थिति वाला है और
दूसरा तेतीस सागरोपम की स्थिति वाला है, तो इनमें एक सागरो-
पम की स्थिति वाला तेतीस सागरोपम स्थिति वाले की अपेक्षा
संख्यातगुण हीन हुआ, क्योंकि एक सागर को तेतीस से गुणित
करने पर तेतीस सागर होते हैं । और तेतीस सागरोपम स्थिति वाला
उसकी अपेक्षा संख्यातगुण अधिक हुआ । इसी प्रकार एक न
दस हजार वर्ष की स्थिति वाला है और दूसरा तेतीस सागरोपम
स्थिति वाला, दस हजार को असंख्य बार गुणित करने पर तेतीस

नारक तेतीस सागरोपमनी स्थितिवाणो छे. अने भीले पल्योपम ज्योछा तेतीस
सागरोपमनी स्थितिवाणो, दश कोडा कोडी पल्योपमने ज्येक सागरोपम थाय
छे, तेथी न पल्योपमथी हीन स्थिति वाणो पूर्ण तेतीस सागरोपम स्थिति
वाणोथी स ज्य्यात साग हीन स्थितिवाणो थयो अने भीले स ज्य्यातसाग
अधिक स्थितिवाणो थाय छे ज्ये प्रकारे ज्येक नारक ज्येक सागरोपमनी स्थिति
वाणो छे, अने भीले तेतीस सागरोपमनी स्थितिवाणो छे, तो तेभा ज्येक साग-
रोपमनी स्थितिवाणो तेतीस सागरोपम स्थितिवाणानी अपेक्षाज्ये स ज्य्यात
शुषु हीन थयो ज्येभके ज्येक सागरने तेतीसथी शुषुवाथी तेतीस सागर थाय
छे. अने तेतीस सागरोपम स्थितिवाणा तेमनी अपेक्षाज्ये स ज्य्यात शुषु अधिक

त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमत्वात् दशवर्षसहस्रस्थितिको नैरयिकस्त्रयस्त्रिंशत् सागरोपम स्थितिकनैरयिकापेक्षयाऽसंख्येयगुणहीनो भवति, तदपेक्षया त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमस्थितिकस्तु असंख्येयगुणाभ्यधिको भवति इत्येवंरूपेण एकस्य नैरयिकस्यापरनैरयिकापेक्षया द्रव्यार्थतया प्रदेशार्थतया तुल्यत्वं प्रतिपादितम्, क्षेत्रतोऽवगाहनम्प्रति हीनाधिकत्वे चतुः स्थानपतितत्वं कालतोऽपि स्थितितो हीनाधिकत्वेन चतुः स्थानपतितत्वञ्च प्रतिपादितम्,

अथ भावतो हीनाधिकत्वं प्रतिपादयितुं प्रथमतः पुद्गलविपाकि नामकर्मोदयनिमित्तं जीवौदयिकभावाश्रयेण हीनाधिकत्वं प्ररूपयति—'कालवर्णणपञ्जवेहिं यसि होणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिण्' कृष्णवर्णपर्यवैः एको नैरयिकोऽपरनैर-

सागरोपम होते हैं, अतः दस हजार वर्ष की स्थिति वाला नारक तेतीस सागरोपम की स्थिति वाले नारक की अपेक्षा असंख्यातगुण हीन हुआ और उसकी अपेक्षा तेतीस सागरोपम की स्थिति वाला असंख्यातगुण अधिक स्थिति वाला हुआ ।

इस प्रकार एक नारक दूसरे नारक से द्रव्य और प्रदेश से तुल्य हैं, क्षेत्र से अवगाहना की दृष्टि से तथा काल से स्थिति की अपे चतुःस्थानपतित हीनाधिक है, यह प्रतिपादन क्रिया गया ।

अब भाव की अपेक्षा षट्स्थान पतित हीनाधिकता का प्रतिपादन करने के लिए शास्त्रकार सर्वप्रथम पुद्गलविपाकी नामकर्म के उदय से होने वाले औदयिक भाव का आश्रय लेकर हीनाधिकता की प्ररूपणा करते हैं—कृष्णवर्ण के पर्यायों की अपेक्षा एक नारक

थाय. એ પ્રકારે એક નારક દશ હજાર વર્ષની સ્થિતિવાળો છે અને બીજો તેત્રીસ સાગરોપમ સ્થિતિવાળો, દશ હજારને અસંખ્યવાર ગુણિત કરવાથી તેત્રીસ સાગરોપમ થાય છે તેથી દશ હજાર વર્ષની સ્થિતિ વાળો નારક તેત્રીસ સાગરોપમની સ્થિતિવાળા નારકની અપેક્ષાએ અસંખ્યાત ગુણુ હીન થયો અને તેની અપેક્ષાએ તેત્રીસ સાગરોપમની સ્થિતિવાળો અસંખ્યાત ગુણુ અધિક સ્થિતિ વાળો થયો.

આ પ્રકારે એક નારક બીજા નારકથી દ્રવ્ય અને પ્રદેશથી તુલ્ય છે. ક્ષેત્રથી અવગાહનાની દૃષ્ટિએ તથા કાળ સ્થિતિની અપેક્ષાએ ચતુઃસ્થાન પતિત બ અધિક છે આ પ્રતિપાદન કરાયું

હવે ભાવની અપેક્ષાએ ષટ્સ્થાન પતિત હીનાધિકતાનું પ્રતિ પાદન કરવા માટે શાસ્ત્રકાર સર્વ પ્રથમ પુદ્ગલ વિપાકી નામ કર્મના ઉદયથી થનાર ઔદાયિક ભાવનો આશ્રય લઇને હીનાધિકતાની પ્રરૂપણા કરે છે—કૃષ્ણ વર્ણના પર્યાયોની

ચિક્રાપેક્ષયા સ્યાન્-કદાચિત્ હીનો ભવતિ, સ્યાત્-કદાચિત્ તુલ્યો ભવતિ, સ્યાત્-કદાચિત્ અભ્યધિકો ભવતિ, તદેવ હીનાધિકત્વં વિશ્વદયિતુમાહ-

‘જહ હીને અણંતભાગહીને વા’ તત્ર યદા ઈકો નૈરચિક્રઃ કૃષ્ણવર્ણપર્યવૈઃ અન્ય નૈરચિક્રાપેક્ષયા હીનો વિવક્ષિતો ભવતિ તદા સ તદપેક્ષયાનન્તભાગહીનો વા ભવતિ, ‘અસંસ્વેજ્જભાગહીને વા’ અસંસ્વેયભાગહીનો વા ભવતિ, ‘સંસ્વેજ્જગુણહીને વા’ સંસ્વેયગુણહીનો વા ભવતિ ‘અસંસ્વેજ્જગુણહીને વા’ અસંસ્વેયગુણહીનો વા ભવતિ, ‘અણંતગુણહીને વા’ અનન્તગુણહીનો વા ભવતિ, ‘અહ અઠ્ઠમહિદ્, અણંતભાગમઠ્ઠમહિદ્ વા’ અથૈકો નૈરચિક્રઃ અન્ય નૈરચિક્રાપેક્ષયા કૃષ્ણવર્ણ પર્યવૈર-ભ્યધિકો યદિ વિવક્ષિતસ્તદા સ તદપેક્ષયા અનન્તભાગાભ્યધિકો વા ભવતિ, ‘અસંસ્વેજ્જભાગમઠ્ઠમહિદ્ વા’ અસંસ્વેયભાગાભ્યધિકો વા ભવતિ ‘સંસ્વેજ્જભાગમઠ્ઠમહિદ્ વા’ સંસ્વેયભાગાભ્યધિકો વા ભવતિ ‘સંસ્વેજ્જગુણમઠ્ઠમહિદ્ વા’ સંસ્વેયગુણાભ્યધિકો વા ભવતિ ‘અસંસ્વેજ્જગુણમઠ્ઠમહિદ્ વા’ અસંસ્વેયગુણાભ્યધિકો વા ભવતિ, ‘અણંતગુણમઠ્ઠમહિદ્ વા’ અનન્તગુણાભ્યધિકો વા ભવતિ, ઇત્ર ભાવાપેક્ષયા હીનત્વાભ્યધિકત્વં પ્રરૂપણે હાનો બૃદ્ધૌ ચ પ્રત્યેકં ષટ્ સ્થાનપતિતત્વં ભવતિ, દૂસરે નારક સે હીન હોતા હૈ, કોઈ કિસી સે તુલ્ય હોતા હૈ ‘ઔર કોઈ કિસી સે અધિક હોતા હૈ । ઈસ કંથન કા સ્પષ્ટીકરણ કરતે હૈ- યદિ ઈક નારક દૂસરે નારક સે કૃષ્ણવર્ણ કે પર્યાયો સે હીન હોતા હૈ તો અનન્તભાગ હીન હોતા હૈ, અસંસ્વ્યાતભાગ હીન હોતા હૈ, સંસ્વ્યાતભાગ હીન હોતા હૈ, સંસ્વ્યાતગુણ હીન હોતા હૈ, અસંસ્વ્યાતગુણ હીન હોતા હૈ યા અનન્તગુણ હીન હોતા હૈ । અગર અધિક હોતા હૈ તો અનન્તભાગ અધિક હોતા હૈ, અસંસ્વ્યાતભાગ અધિક હોતા હૈ, સંસ્વ્યાતભાગ અધિક હોતા હૈ, સંસ્વ્યાતગુણ અધિક હોતા હૈ, અસંસ્વ્યાતગુણ અધિક હોતા હૈ યા અનન્તગુણ અધિક હોતા હૈ યહ ષટ્ સ્થાનપતિત હીનતા ઔર અધિકતા હૈ । ઈસ ષટ્ સ્થાનપતિત હીના-

અપેક્ષાએ એક નારક ખીબ નારકથી હીન હોય છે કોઈ કોઈનાથી તુલ્ય હોય છે અને કોઈ કોઈનાથી અધિક હોય છે એ કંથનતુ સ્પષ્ટી કરણ કરે છે બે એક નારક ખીબ નારકથી કૃષ્ણ વર્ણના પર્યાયથી હીન હોય છે તો અનન્ત ભાગ હીન હોય છે અસંસ્વ્યાત ભાગહીન હોય છે. સંસ્વ્યાત ભાગ હીન હોય છે. સંસ્વ્યાત ગુણ હીન હોય છે, અસંસ્વ્યાત ગુણ હીન હોય છે અગર અનન્તગુણ હીન હોય છે અગર અધિક હોય તો અનન્ત ભાગ અધિક હોય છે અસંસ્વ્યાત ભાગ અધિક હોય છે, સંસ્વ્યાતગુણ અધિક હોય છે, અસંસ્વ્યાત ગુણ અધિક હોય છે અગર અનન્ત ગુણ અધિક હોય છે. આ છ સ્થાન પતિત હીનતા

षट्स्थानकेच यद्यदपेक्षयाऽनन्तभागहीनं भवति तस्य सर्वजीवानन्तकेन-भागस्य हरणे यल्लभ्यते तेनानन्तमेन भागेन हीनं भवति, यच्च यदपेक्षयाऽसंख्येयभाग-हीनं भवति तस्यापेक्षणीयस्या संख्येयलोकाकाशदेशप्रमाणराशिना भागस्य हरणे यल्लभ्यते, तावता भागेन न्यूनं भवति, यच्च यदधिकृत्य संख्येयभागहीनं भवति, तस्यापेक्षणीयस्योत्कृष्टसंख्येय भागस्य हरणे यल्लभो भवति, तेन हीनं बोध्यम् गुणनसंख्यायां तु यद्यतः संख्येयगुणं भवति तदवधिभूतमुत्कृष्ट संख्येय-केन गुणितं इद् यावद् भवति, तावत्प्रमाणं विज्ञेयम्, यच्च यतोऽसंख्येयगुणं भवति तदवधिभूतम् असंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणगुणकारेण गुण्यते, गुणितं सद् यावद् भवति तावदवसेयम्, यच्च यतोऽनन्तगुणं भवति तदवधिभूतं सर्व जीवानन्तकरूपेण गुणकारेण गुण्यते गुणितं सद् यावद् भवति तावत्प्रमाणम् अवसेयम्, तदेव विशदयन्नाह-

धिकता में जो जिससे अनन्तभाग हीन होता है, वह सर्वजीवानन्तक से भाग करने पर जो लब्ध हो उस अनन्तवे भाग से हीन समझना चाहिए। जो जिससे असंख्यातभाग हीन है, उसे असंख्यात लोकाकाश प्रदेश प्रमाणराशि से भाग करने पर जो लब्ध हो, उतने भाग कम समझना चाहिए। जो जिससे संख्यातभाग हीन हो उसे उत्कृष्ट संख्यक से भाग करने पर जो लब्ध हो उससे हीन समझना चाहिए। गुणनसंख्या में जो जिससे संख्येयगुणा होता है, उसे उत्कृष्ट संख्यक के साथ गुणित करने पर जो आवे उतना ज्ञाना चाहिए। जो जिससे असंख्यातगुणा है, उसे असंख्यात लोकाकाश प्रदेशों के प्रमाण की राशि से गुणाकार करके गुणित करना चाहिए और गुणाकार करने पर जो राशि लब्ध हो उतना समझना चाहिए। जो

अने अधिकता छे. आ छ स्थान पतित हीनाधिकताभा ने नेनाथी अनन्त भाग हीन होय छे ते सर्व लुपान्तकथी भाग करवाथी ने लब्ध थाय ते अनन्तभा भागथी हीन समज्वा नेधये. ने नेनाथी असंख्यात भागहीन छे ते असंख्यात लोकाकाश प्रदेश प्रमाण राशिथी भाग करवाथी ने लब्ध थाय तेदला भाग जोछा समज्वा नेधये ने नेनाथी संख्यात भाग हीन होय तेने उत्कृष्ट संख्यकथी भाग करवाथी ने लब्ध थाय तेनाथी हीन समज्वा नेधये शुष्ण संख्याभा ने नेनाथी संख्येय शुष्ण होय छे तेने उत्कृष्ट संख्येयकना साथे शुष्णित करवाथी ने आवे तेदला समज्वा नेधये. ने नेनाथी आसंख्यातशुष्ण छे, तेने असंख्यात लोकाकाश प्रदेशोना प्रमाणनी राशिथी शुष्णकार करीने शुष्णित करवा नेधये, अने शुष्णकार करवाथी ने राशि

‘નીલવન્નપજ્જવેહિં લોહિયવળ્ણપજ્જવેહિં’ નીલવર્ણપર્યવૈઃ, લોહિતવર્ણપર્યવૈઃ, ‘પીયવન્નપજ્જવેહિં’ પીતવર્ણપર્યવૈઃ ‘હાલિદ્ધવન્નપજ્જવેહિં’ હારિદ્રવર્ણપર્યવૈઃ ‘મુક્કિલ્લવન્નપજ્જવેહિં’ શુક્લવર્ણપર્યવૈશ્ચ ‘છટ્ટાણવહિં’ પદ્મસ્થાનપતિતો નૈરયિકુઃ નૈરયિકાન્તરાપેક્ષયા સ્યાત્ હીનો ભવતિ, સ્યાત્ તુલ્યો ભવતિ, સ્યાદ્ અભ્યધિકો ભવતિ, તત્ત્ર યદા હીનો વિવક્ષિતો ભવતિ તદા અનન્તભાગહીનો વા ભવતિ, અસંખ્યેય-ભાગહીનો વા ભવતિ, સંખ્યેયગુણહીનો વા ભવતિ, અસંખ્યેયગુણહીનો વા ભવતિ, અનન્તગુણહીનો વા ભવતિ, અથ યદાભ્યધિકો વિવક્ષિતસ્તદા અનન્તભાગાભ્યધિકો વા, અસંખ્યેયભાગાભ્યધિકો વા સંખ્યેયભાગાભ્યધિકો વા ભવતિ, સંખ્યેયગુણાભ્યધિકો વા ભવતિ, અસંખ્યેયગુણાભ્યધિકો વા ભવતિ, અનન્તગુણાભ્યધિકો

જિસસે અનન્તગુણા હૈ, ડસે સર્વજીવાનન્તક સે ગુણિત કરને પર જો સંખ્યા હો ઉતના સમઙ્ગના ઇાહિં. ડસી કો અધિક સ્પષ્ટ કરને કે લિષ્ટ કહા હૈ—નીલવર્ણ કે પર્યાયોં સે, લોહિત (રક્ત) વર્ણ કે પર્યાયોં સે, પીતવર્ણ કે પર્યાયોં સે, હારિદ્ર વર્ણ કે પર્યાયોં સે ઓર શુક્લવર્ણ કે પર્યાયોં સે પદ્મ સ્થાનપતિત ઇક નારક ડૂસરે નારક કી અપેક્ષા હીન, તુલ્ય ઇા અધિક હોતા હૈ. ડગર કોઈ હીન હૈ તો અનન્તભાગ હીન હોતા હૈ, અસંખ્યાતભાગ હીન હોતા હૈ, સંખ્યાતભાગ હીન હોતા હૈ, સંખ્યાતગુણ હીન હોતા હૈ, અસંખ્યાતગુણ હીન હોતા હૈ ઇા અનન્તગુણ હીન હોતા હૈ. ડગર અધિક હોતા હૈ તો અનન્તભાગ અધિક હોતા હૈ, અસંખ્યાતભાગ અધિક હોતા હૈ, સંખ્યાતભાગ અધિક હોતા હૈ, સંખ્યાતગુણા અધિક હોતા હૈ, અસંખ્યાતગુણા અધિક હોતા હૈ ઇા અનન્તગુણા અધિક હોતા હૈ.

લખ્થ થાય તેટલા સમજવા જોઈએ. જેનાથી અનન્તશુષ્ઠ છે. તેને સર્વ જીવા-ન્તકથી શુષ્ઠિત કરવાથી જે સખ્યા થાય તેટલા સમજવા જોઈએ

તેને વધારે સ્પષ્ટ કરવા માટે કહ્યું છે—નીલ વર્ણના પર્યાયોથી લોહિત (રક્ત) વર્ણના પર્યાયોથી, પીત વર્ણના પર્યાયોથી, હારિદ્રવર્ણના પર્યાયોથી અને શુક્લ વર્ણના પર્યાયોથી ‘છ સ્થાન પતિત એક નારક ખીબ નારકની અપેક્ષાએ હીન, તુલ્ય અથવા તે અધિક થાય છે. ડગર કોઈ હીન છે તો અનન્ત ભાગ હીન હોય છે, અસખ્યાત ભાગ હીન થાય છે, સખ્યાત ભાગ હીન થાય છે સખ્યાત શુષ્ઠ હીન થાય છે, અસખ્યાત શુષ્ઠ હીન થાય છે, ડગર અનન્તશુષ્ઠ હીન થાય છે ડગર અધિક થાય છે તો અનન્ત ભાગ અધિક થાય છે, અસખ્યાત ભાગ અધિક થાય છે, સખ્યાત ભાગ અધિક થાય છે સખ્યાત શુષ્ઠ અધિક થાય છે, અસખ્યાતશુષ્ઠ અધિક થાય છે અથવા અનન્ત શુષ્ઠ અધિક હોય છે.

वा भवति, तथा - 'गुच्छिभगं सपञ्जवेहि दृच्छिभगं सपञ्जवेहि य छट्टाणवटिष्' मृग्-
भिगन्सपर्यवेः दुग्भिगन्सपर्यवेथ पट्टस्थानपतितो नैरयिको नैरयिकान्तगपेऽया
स्यात् हीनः, स्यात् तुल्यः, स्यात् अभ्यधिको भवतिः तत्र यदा हीनो वि-
क्षितस्तदा अनन्तभागहीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा,
संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा भवति, अथा-
भ्यधिको यदा विवक्षितस्तदा अनन्तभागाभ्यधिको वा, असंख्येयभागाभ्यधिको
वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा,
अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवति, इति भावः ।

'तित्तरसपञ्जवेहि कटुकरसपञ्जवेहि, कपायरसपञ्जवेहि, अम्बलरसपञ्ज-
वेहि, महुररसपञ्जवेहि छट्टाणवटिष्' तित्तरसपर्यवेः, कटुकरसपर्यवेः, कपायरस-
पर्यवेः, अम्बलरसपर्यवेः, मधुररसपर्यवेथ पट्टस्थानपतितो नैरयिको नैरयिकान्तरा-
पेक्षया स्यात् हीनो वा, स्यात् तुल्यो वा, स्याद् अभ्यधिको वा भवति, तत्र यदा
हीनो विवक्षितस्तदा अनन्तभागहीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभाग-
हीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा

इसी प्रकार सुगन्ध और दुर्गन्ध के पर्यायों से भी एक नारक
दूसरे नारक की अपेक्षा पट्ट स्थानपतित हीनाधिक होता है । अगर
हीन है तो अनन्तभाग हीन होता है, असंख्यातभाग हीन होता है,
संख्यातभाग हीन होता है, संख्यातगुण हीन होता है, असंख्यातगुण
हीन होना है या अनन्तगुण हीन होता है । अगर अधिक होता है
तो अनन्तभाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यात भाग
अधिक, संख्यातगुण अधिक, असंख्यातगुण अधिक अथवा अनन्तगुण
अधिक होता है ।

तित्तरस के पर्यायों से, कटुकरस के पर्यायों से, कपायरस के
पर्यायों से, आम्बलरस के पर्यायों से एवं मधुररस के पर्यायों से भी

ये रीते सुगन्ध अने दुर्गन्धना पर्यायोथी पणु ओक नारक गीण नारकनी
अपेक्षाओ छ स्थान पतित हीनाधिक थाय छे. अगर हीन छे तो अनन्त भाग
हीन थाय छे, असंख्यात भाग हीन थाय छे, संख्यात हीन थाय छे. संख्यात
गुणहीन थाय छे, असंख्यात गुणहीन थाय छे अगर अनन्त गुण हीन थाय
छे अगर अधिक होय छे तो अनन्त भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक
संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक थाय छे

तित्तर रसना पर्यायोथी, कटुकर रसना पर्यायोथी, कपायर रसना पर्यायो
आम्बल रसना पर्यायोथी तेमज मधुर रसना पर्यायोथी पणु ओक नारक गीण

‘नीलवन्नपज्जवेहिं लोहियवण्णपज्जवेहिं’ नीलवर्णपर्यवैः, लोहितवर्णपर्यवैः, ‘पीयवन्नपज्जवेहिं’ पीतवर्णपर्यवैः ‘हालिद्वन्नपज्जवेहिं’ हारिद्रवर्णपर्यवैः ‘शुक्लवन्नपज्जवेहिं’ शुक्लवर्णपर्यवैश्च ‘सुद्धाणवडिए’ पदस्थानपतितो नैरयिकः नैरयिकान्तरापेक्षया स्यात् हीनो भवति, स्यात् तुल्यो भवति, स्याद् अभ्यधिको भवति, तत्र यदा हीनो विवक्षितो भवति तदा अनन्तभागहीनो वा भवति, असंख्येयभागहीनो वा भवति, संख्येयगुणहीनो वा भवति, असंख्येयगुणहीनो वा भवति, अनन्तगुणहीनो वा भवति, अथ यदाभ्यधिको विवक्षितस्तदा अनन्तभागाभ्यधिको वा, असंख्येयभागाभ्यधिको वा संख्येयभागाभ्यधिको वा भवति, संख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति, अनन्तगुणाभ्यधिको

जिससे अनन्तगुणा है, उसे सर्वजीवानन्तक से गुणित करने पर जो संख्या हो उतना समझना चाहिए। इसी को अधिक स्पष्ट करने के लिए कहा है—नीलवर्ण के पर्यायों से, लोहित (रक्त) वर्ण के पर्यायों से, पीतवर्ण के पर्यायों से, हारिद्र वर्ण के पर्यायों से और शुक्लवर्ण के पर्यायों से पद स्थानपतित एक नारक दूसरे नारक की अपेक्षा हीन, तुल्य या अधिक होता है। अगर कोई हीन है तो अनन्तभाग हीन होता है, असंख्यातभाग हीन होता है, संख्यातभाग हीन होता है, संख्यातगुण हीन होता है, असंख्यातगुण हीन होता है या अनन्तगुण हीन होता है। अगर अधिक होता है तो अनन्तभाग अधिक होता है, असंख्यातभाग अधिक होता है, संख्यातभाग अधिक होता है, संख्यातगुणा अधिक होता है, असंख्यातगुणा अधिक होता है या अनन्तगुणा अधिक होता है।

एवञ्च थाय तेटला समञ्जवा नेधञ्जे. नेनाथी अनन्तशुष्णु छे तेने सर्व एवा-
न्तकथी शुष्णित करवाथी ने सञ्ज्या थाय तेटला समञ्जवा नेधञ्जे

तेने वधारे रूपट करवा भाटे कलु छे—नील वर्णुना पर्यायोथी लोहित (रक्त) वर्णुना पर्यायोथी, पीत वर्णुना पर्यायोथी, हारिद्रवर्णुना पर्यायोथी अने शुक्ल वर्णुना पर्यायोथी छे स्थान पतित ज्येक नारक भीज नारकनी अपेक्षाजे हीन, तुल्य अथवा तो अधिक थाय छे. अगर कोठ हीन छे तो अनन्त भाग हीन होय छे, असञ्ज्यात भाग हीन थाय छे, सञ्ज्यात भाग हीन थाय छे सञ्ज्यात शुष्णु हीन थाय छे, असञ्ज्यात शुष्णु हीन थाय छे, अगर अनन्तशुष्णु हीन थाय छे अगर अधिक थाय छे तो अनन्त भाग अधिक थाय छे, असञ्ज्यात भाग अधिक थाय छे, सञ्ज्यात भाग अधिक थाय छे. सञ्ज्यात शुष्णु अधिक थाय छे, असञ्ज्यातशुष्णु अधिक थाय छे अथवा अनन्त शुष्णु अधिक होय छे.

वा भवति, तथा - 'मुष्मिभगंधपञ्जवेहि दृष्मिभगंधपञ्जवेहि य छट्टाणवडिण्' मुष्मिभगन्धपर्यवेः दृष्मिभगन्धपर्यवेः पटस्थानपतितो नैरयिको नैरयिकान्तगपेक्षया स्यात् हीनः, स्यात् तुल्यः, स्यात् अभ्यधिको भवति; तत्र यदा हीनो विप्रक्षितस्तदा अनन्तभागहीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा भवति, अथाभ्यधिको यदा विप्रक्षितस्तदा अनन्तभागाभ्यधिको वा, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवति, इति भावः ।

'तिक्तरसपञ्जवेहि कटुकरसपञ्जवेहि, कषायरसपञ्जवेहि, अम्बलरसपञ्जवेहि, महुररसपञ्जवेहि छट्टाणवडिण्' तिक्तरसपर्यवेः, कटुकरसपर्यवेः, कषायरसपर्यवेः, अम्बलरसपर्यवेः, महुररसपर्यवेः पटस्थानपतितो नैरयिको नैरयिकान्तरापेक्षया स्यात् हीनो वा, स्यात् तुल्यो वा, स्याद् अभ्यधिको वा भवति, तत्र यदा हीनो विप्रक्षितस्तदा अनन्तभागहीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा

इसी प्रकार सुगन्ध और दुर्गन्ध के पर्यायों से भी एक नारक दूसरे नारक की अपेक्षा पट् स्थानपतित हीनाधिक होता है । अगर हीन है तो अनन्तभाग हीन होता है, असंख्यातभाग हीन होता है, संख्यातभाग हीन होता है, संख्यातगुण हीन होता है, असंख्यातगुण हीन होता है या अनन्तगुण हीन होता है । अगर अधिक होता है तो अनन्तभाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यातगुण अधिक, असंख्यातगुण अधिक अथवा अनन्तगुण अधिक होता है ।

तिक्तरस के पर्यायों से, कटुकरस के पर्यायों से, कषायरस के पर्यायों से, आम्बलरस के पर्यायों से एवं महुररस के पर्यायों से भी

ये रीते सुगन्ध अने दुर्गन्धना पर्यायोधी पणु ओके नारक पीण नारकनी अपेक्षाये छ स्थान पतित हीनाधिक थाय छे. अगर हीन छे तो अनन्त भाग हीन थाय छे, असंख्यात भाग हीन थाय छे, संख्यात भाग हीन थाय छे, असंख्यात गुणहीन थाय छे, असंख्यात गुणहीन थाय छे अगर अनन्त गुण हीन थाय छे अगर अधिक होय छे तो अनन्त भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक थाय छे तिक्तरसना पर्यायोधी, कटुकरसना पर्यायोधी, कषायरसना पर्यायोधी आम्बलरसना पर्यायोधी तेमण महुररसना पर्यायोधी पणु ओके नारक पीण

भवति, अथाभ्यधिको यदा विवक्षितस्तदा अनन्तभागाभ्यधिको वा, असंख्येय-
भागाभ्यधिको वा भवति, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा,
असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवति, इति भावः ।

तथा 'कक्खड्फासपज्जवेहिं, मउयफासपज्जवेहिं, गरुयफासपज्जवेहिं, लहु-
यफासपज्जवेहिं, सीयफासपज्जवेहिं, उसिणफासपज्जवेहिं, निद्धफासपज्जवेहिं,
लुक्खफासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिण्' कर्कशस्पर्शपर्यवैः, मृदुस्पर्शपर्यवैः, गुरुस्पर्श-
पर्यवैः, लघुस्पर्शपर्यवैः, शीतस्पर्शपर्यवैः, उष्णस्पर्शपर्यवैः, स्निग्धस्पर्शपर्यवैः,
रूक्षस्पर्शपर्यवैश्च पट् स्थानपतितो नैरयिको नैरयिकान्तरापेक्षया स्यात् हीनो वा,
स्यात् तुल्यो वा, स्यात् अभ्यधिको वा भवति, तत्र यदा हीनो विवक्षितस्तदा अन-
न्तभागहीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो
वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा भवति, अथ यदा अभ्यधिको विव-

एक नारक दूसरे नारक से षट्स्थानपतित हीनाधिक होता है ।
अगर हीन होता है तो अनन्तभाग हीन, असंख्यातभाग हीन,
संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन, असंख्यातगुण हीन या अन-
न्तगुण हीन होता है । अगर अधिक होता है तो अनन्तभाग अधिक,
असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक,
असंख्यातगुण अधिक या अनन्तगुण अधिक होता है ।

कर्कशस्पर्श के पर्यायों से, मृदुस्पर्श के पर्यायों से, गुरुस्पर्श के
पर्यायों से, लघुस्पर्श के पर्यायों से, शीतस्पर्श के पर्यायों से, उष्ण-
स्पर्श के पर्यायों से एक नारक दूसरे नारक की अपेक्षा हीन, तुल्य
या अधिक होता है । अगर हीन है तो अनन्तभाग हीन, असंख्यात-
भाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन, असंख्यातगुण हीन,

नारकथी छ स्थान पतित हीनाधिक थाय छे जे हीन थाय छे तो अनन्त
भाग हीन, असंख्यात भाग हीन, संख्यात भाग हीन, संख्यात गुणहीन
असंख्यात गुण हीन अगर अनन्त गुण हीन थाय छे अगर अधिक थाय
छे तो अनन्त भाग अधिक असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक,
संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक अगर अनन्तगुण अधिक थाय छे.

कर्कश स्पर्शना पर्यायोथी, मृदुस्पर्शना पर्यायोथी, गुरुस्पर्शना पर्यायोथी
लघुस्पर्शना पर्यायोथी, शीतस्पर्शना पर्यायोथी, उष्णस्पर्शना पर्यायोथी, स्निग्ध
स्पर्शना पर्यायोथी, अने इक्ष स्पर्शना पर्यायोथी ओक नारक जील नारकनी अपे-
क्षाओ हीन, तुल्य अगर अधिक थाय छे अगर हीन छे तो अनन्त भाग
हीन असंख्यात भाग हीन, संख्यात भाग हीन, संख्यात गुण हीन असं-

क्षितस्तदा अनन्तभागाभ्यधिको वा, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवति इत्याशयः, तथैव 'आभिनिवोधिकज्ञानपर्ययैः, श्रुतज्ञानपर्ययैः, 'ओहित्ति.णपञ्जवेहि' अवधिज्ञानपर्ययैः, 'मटअन्नाणपञ्जवेहि' मत्त्यज्ञानपर्ययैः, 'मुग्गअण्णपञ्जवेहि' श्रुताज्ञानपर्ययैः 'विभंगनाणपञ्जवेहि' विभङ्गज्ञानपर्ययैः 'चत्तुदंमाणपञ्जवेहि, अचक्षुदंरणपञ्जवेहि' चक्षुर्दर्शनपर्ययैः, अचक्षुर्दर्शनपर्ययैः, 'ओहिदंरणपञ्जवेहि' अवधिदर्शनपर्ययैश्च 'छट्टाणवडिण्' पट्टस्थानपतितो नरयिको नरयिकान्तरापेक्षया स्यात् हीनो भवति, स्यात् तुल्यो भवति, स्यात् अभ्यधिको भवति, तत्र यदा हीनो विवक्षितस्तदा अनन्तभागहीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा, अनन्तगुण हीन होता है और यदि अधिक होना है तो अनन्तभाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक, असंख्यातगुण अधिक अथवा अनन्तगुण अधिक होता है।

अब क्षायोपशामिक भाव रूप पर्यायों से हीनाधिकता प्रदर्शित करते हैं—आभिनिवोधिक ज्ञान के पर्यायों से, श्रुतज्ञान के पर्यायों से, अवधिज्ञान के पर्यायों से, मत्त्यज्ञान के पर्यायों से श्रुताज्ञान के पर्यायों से, विभंगज्ञान के पर्यायों से, चक्षुर्दर्शन के पर्यायों से, अचक्षुर्दर्शन के पर्यायों से तथा अवधिदर्शन के पर्यायों से कोई नारक किसी अन्य नारक से हीन, अधिक या तुल्य होता है। अगर हीन है तो पट्टस्थानपतित हीन और अधिक है तो पट्टस्थानपतित अधिक होता है। यथा—जो जिससे हीन हैं वह अनन्तभाग हीन असंख्यात-

भ्यात गुण हीन अनन्त गुण हीन थाय छे अने जे अधिक थाय छे तो, अनन्त भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक अथवा अनन्त गुण अधिक अने छे दुबे क्षायोपशामिक भाव रूप पर्यायोधी हीनाधिकता प्रदर्शित करे छे—आभिनिवोधिक ज्ञानना पर्यायोधी, श्रुत ज्ञानना पर्यायोधी, अवधिज्ञानना पर्यायोधी, मत्त्यज्ञानना पर्यायोधी, श्रुताज्ञानना पर्यायोधी, विभंगज्ञानना पर्यायोधी, चक्षुर्दर्शनना पर्यायोधी, अचक्षुर्दर्शनना पर्यायोधी तथा अवधि दर्शनना पर्यायोधी, कोई नारक कोई भी नारकथी हीन अधिक अगर तुल्य होय छे. अगर हीन छे तो छ स्थान पतित हीन अगर अधिक छे तो छ स्थान पतित अधिक अने छे जेभके-जे जेनाथी हीन छे ते अनन्त भाग हीन,

संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुण-
हीनो वा भवति, अथाभ्यधिको यदा विवक्षितस्तदा अनन्तभागाभ्यधिको वा,
असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको
वा असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवति इत्याशयः,

अथ षट्स्थानपतितत्वस्वरूपं प्ररूप्यते—तत्र वस्तुतः कृष्णवर्णपर्यायपरिमाण-
स्थानन्तसंख्यकस्यापि असद्भावस्थापनया दशसहस्रपरिकल्पने सति तस्य शत-
परिमाणपरिकल्पनेन सर्वजीवानन्तकेन भागहरणे कृते शतस्य लब्धिर्भवति, तत्र
एकस्य नैरयिकस्य कृष्णवर्णपर्यायपरिमाणं दशसहस्राणि, अन्यस्य तु नैरयिकस्य
शतहीनानि दशसहस्राणि, शतञ्च सर्वजीवानन्तभागहारलब्धत्वादनन्ततमो भागो
भवति, तत्र यस्य नैरयिकस्य शतहीनानि दशसहस्राणि कृष्णवर्णपर्यायपरिमाणं

भाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन, असंख्यातगुण हीन
या अनन्तगुण हीन होता है। जो जिससे अधिक है वह उससे अनन्त-
भाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यात-
गुण अधिक, असंख्यातगुण अधिक या अनन्तगुण अधिक होता है।

षट्स्थानपतितत्व के स्वरूप का निरूपण किया जाता है—यद्यपि
कृष्णवर्ण के पर्यायों का परिमाण अनन्त है, फिर भी असत् कल्पना
से उसे दश हजार मान लिया जाए और सर्वजीवानन्तक को सौ
कल्पित कर लिया जाए। तो दस हजार में सौ का भाग देने पर सौ
की संख्या लब्ध होती है। इस प्रकार एक नारक के कृष्ण वर्ण के
पर्यायों का परिमाण दश सहस्र है, दूसरे के सौ कम दस हजार है।
सौ की संख्या सर्वजीवानन्तक में भाग देने पर लब्ध होने से अन-
न्तत्वां भाग है। तो जिस नारक के कृष्ण वर्ण के पर्याय सौ कम दश

असंख्यात भाग हीन, संख्यात भाग हीन, संख्यात गुणहीन, असं-
ख्यात गुण हीन अन्तर अनन्त गुण हीन होय छे जे जेनाथी अधिक छे,
ते तेनाथी अनन्त भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक,
संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक अन्तर अनन्त गुण अधिक होय छे

षट्स्थान पतितत्वना स्वरूपतु निरूपण कराय छे जे—कृष्णवर्णना पर्यायो
तु परिमाण अनन्त छे, तो पण असत् कल्पनाथी तेने दश हजार भागी
देवामा आने अने सर्व जीवानन्तकने सो कल्पित करी देवाय तो दस हजारभा
सो नो भाग देवाथी सोनी संख्या उपलब्ध थाय छे जे रीते जेक नारकना-
कृष्णवर्णना पर्यायोना परिमाण दश हजार छे, जीवना सो जोछा दश हजार
छे, सोनी संख्या सर्व जीवानन्तका भाग देवाथी थनार अनन्तसो भाग छे,

सोऽन्यस्य परिपूर्णदशसहस्रप्रमाण कृष्णवर्णपर्याय नैरयिकस्यापेक्षयाऽनन्तभाग-
हीनो व्यपदिश्यते, तदपेक्षयासोऽन्यः कृष्णवर्णपर्यायोऽनन्तभागाभ्यधिको व्य-
पदिश्यते, एवमेव कृष्णवर्णपर्यायपरिमाणस्य दशसहस्रसंख्यकस्यासंख्येय-
लोकाकाशप्रदेशप्रमाणपरिकल्पनेन पञ्चाशत् परिमाणेन भागहरणे कृते सति शत-
द्वयस्य लब्धिर्भवति, एषोऽसंख्येयतमो भागो व्यपदिश्यते, तत्रैकस्य नैरयिकस्य
शतद्वयहीनानि दशसहस्राणि कृष्णवर्णपर्यायाः भवन्ति, अन्यस्य नैरयिकस्य तु
परिपूर्णानि दशसहस्राणि कृष्णवर्णपर्यायाः भवन्ति, तत्र शतद्वयहीन दशसहस्र-
परिमाण कृष्णवर्णपर्यायः परिपूर्णकृष्णवर्णपर्याय नैरयिकापेक्षया असंख्येयभाग-
हीनो व्यवह्रियते, परिपूर्ण कृष्णवर्णपर्यायस्तु तदपेक्षयाऽसंख्येयभागाभ्यधिको-
व्यपदिश्यते, तथैव तस्यैव कृष्णवर्णपर्यायराशेः दशसहस्रसंख्यकस्योत्कृष्टसंख्येय-
कपरिमाणपरिकल्पितेन दशकपरिमाणेन भागहरणे कृते सति लब्ध सहस्र संख्यात-

सहस्र हैं, वह दश सहस्र कृष्णवर्ण पर्यायो वाले नारक की अपेक्षा
अनन्तभाग हीन कहलाता है। इसी प्रकार दश सहस्र परिमित
कृष्णवर्ण के पर्यायों में लोकाकाश के प्रदेशों के रूप में कल्पित पचास
से भाग किया जाय तो दो सौ की संख्या आती है, यह असंख्या-
तवां भाग कहलाता है। तात्पर्य यह हुआ कि किसी नारक के कृष्ण-
वर्ण के पर्याय दो सौ कम दश सहस्र हैं और किसी के पूरे दश
सहस्र हैं। इसमें से दो सौ कम दस हजार कृष्णवर्ण पर्याय वाला
परिपूर्ण दस हजार कृष्णवर्ण पर्याय वाले की अपेक्षा असंख्यातभाग
हीन कहलाता है और दस हजार कृष्णवर्ण पर्याय वाला असंख्यात-
भाग अधिक कहलाता है। इसी प्रकार पूर्वोक्त दश सहस्र संख्यक
कृष्णवर्ण पर्यायों में संख्यात परिमाण के रूप में कल्पित दश संख्या

तो वे नारकना कृष्ण वर्णना पर्याय सो ओछा दश हजार छे ते दश हजार
कृष्ण वर्ण पर्याय वाणा नारकानी अपेक्षाये अनन्त भाग हीन कडेवाय छे.
ये न प्रकारे दश हजार परिमित कृष्ण वर्ण पर्यायिमा लोकाकाशना प्रदेशाना
इपमा कल्पित पचासवा भागवाभा आवे तो णसेनी स भ्या आवे छे, ये
स भ्यातमा भाग कडेवाय छे तात्पर्य ये थयु के केछि नारकना कृष्णवर्णना
पर्याय णसे ओछा दश हजार छे अने केछिना दश हजार पुरा छे. तेओमाथी
णसे ओछा दश हजार कृष्णवर्ण पर्याय वाणा परिपूर्ण दश हजार कृष्णवर्ण
पर्यायवाणानी अपेक्षाये अस भ्यात भाग हीन कडेवाय छे, अने दश हजार
कृष्णवर्ण पर्यायवाणा अस भ्यात भाग अधिक कडेवाय छे. ये प्रकारे पूर्वोक्त
दश हजार स भ्यक कृष्णवर्ण पर्यायिमा स भ्यात परिमाणना इपमा कल्पित

તમો ભાગો ભવતિ, તત્રૈકસ્ય નૈરયિકસ્ય નવસહસ્રાણિ કૃષ્ણવર્ણપર્યાય પરિમાણં ભવતિ, અન્યસ્ય તુ દશસહસ્રાણિ, સહસ્રત્ર સંખ્યેયતમો ભાગો ભવતિ इत्येवं रीत्या नव सत्सपरिमाणकृष्णवर्णपर्यायः परिपूर्णकृष्णवर्णपर्याय नैरयिकापेक्षया संख्येय- भागहीनो व्यपदिश्यते तदपेक्षया अन्यस्तु संख्येयभागभ्यधिको व्यपदिश्यते, एवमेव एरुस्य नैरयिकस्य कृष्णवर्णपर्यायपरिमाणं सहस्रम्, अन्यस्य तु दशसह- स्राणि, तत्रोत्कृष्टं संख्यातकल्पेन दशकेन गुणितस्य सहस्रस्य दशसहस्रसंख्य- कत्वं भवति इति रीत्या सहस्रसंख्यककृष्णवर्णपर्यायो नैरयिकः दशसहस्र- संख्यककृष्णवर्णपर्यायनैरयिकापेक्षया संख्येयगुणहीनो भवति, तदपेक्षया परिपूर्ण कृष्णवर्णपर्यायस्तु संख्येयगुणाभ्यधिको व्यपदिश्यते, एवमेव एकस्य नैरयिकस्य कृष्णवर्णपर्यायात्न द्वे शते, अन्यस्य तु नैरयिकस्य परिपूर्णानि दशसहस्राणि, शत-

का भाग किया जाय तो एक सहस्र संख्या लब्ध होती है । यह संख्या दस हजार का संख्यातवां भाग है । मान लीजिए कि किसी नारक के कृष्णवर्ण पर्याय नौ हजार हैं और दूसरे के दश हजार हैं, तो नौ हजार कृष्णवर्ण पर्याय वाला परिपूर्ण दस हजार कृष्णवर्ण पर्यायों वाले नारक की अपेक्षा संख्यातभाग हीन हुआ और उसकी अपेक्षा दस हजार कृष्णवर्ण पर्याय वाला संख्यातभाग अधिक कहलाया ।

इसी प्रकार एक नारक के कृष्णवर्ण पर्यायों का परिमाण एक सहस्र है और दूसरे का परिमाण दश सहस्र । यहां उत्कृष्ट संख्यात के रूप में कल्पित दश संख्या के द्वारा हजार में गुणाकार किया जाय तो दश सहस्र संख्या आती है । इस प्रकार एक हजार कृष्ण- वर्ण पर्याय वाला नारक दस हजार संख्यक कृष्णवर्ण पर्याय वाले

દશ સંખ્યાનો ભાગ કરાય તો એક હજારની સંખ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. એ સંખ્યા દશ દશ હજારનો સંખ્યાતમો ભાગ છે માનીલો કે કેઈ નારકના કૃષ્ણ વર્ણ પર્યાય હજાર છે અને બીજાનો દશ હજાર છે તો સો હજાર કૃષ્ણ વર્ણ પર્યાય વાળા પરિપૂર્ણ દશ હજાર કૃષ્ણવર્ણ પર્યાયોવાળા નારકની અપેક્ષાએ સંખ્યાત ભાગહીન થયો અને તેની અપેક્ષાએ દશ હજાર કૃષ્ણવર્ણ પર્યાયવાળા સંખ્યાત ભાગ અધિક કહેવાયા

એ જ રીતે એક નારકને કૃષ્ણવર્ણ પર્યાયોનું પરિમાણ એક હજાર છે અને બીજાનું પરિમાણ દશ હજાર અહીં ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાત રૂપમાં કલ્પિત દશ સંખ્યાના દ્વારા હજારનો ગુણાકાર કરાય તો દશ હજાર સંખ્યા આવે. એ રીતે એક હજાર કૃષ્ણવર્ણ પર્યાય વાળા નારક દશ હજાર સંખ્યક કૃષ્ણ વર્ણ પર્યાય વાળા નારકની અપેક્ષાએ સંખ્યાત ગુણ હીન છે અને તેની અપે-

द्वयन्तु असंख्येय तेषां साक्षप्रदेगपरिमाण कल्पितेन पञ्चाशत् परिमाणेन गुणकेन गुणिते सति दशसहस्राणि भवन्ति, तत्र शतद्वयपरिमाण कृष्णवर्णपर्यायस्य नैरयिकस्य परिपूर्ण कृष्णवर्णपर्यायनैरयिकापेक्षया असंख्येयहीनत्वं बोध्यम्, तदपेक्षया तु अन्यस्यासंख्येयगुणाभ्यधिकत्वं विज्ञेयम्, एवमेकस्य नैरयिकस्य शतं कृष्णवर्णपर्यायपरिमाणम् अन्यस्य दशसहस्राणि, सर्वजीवानन्तपरिमाणपरिकल्पितेन शतगुणकेन गुणिते सति दशसहस्राणि भवन्ति, ततश्च शतपरिमाण कृष्णवर्णपर्यायो नैरयिकः परिपूर्णकृष्णवर्णपर्याय नैरयिकापेक्षया अनन्तगुणहीनो भवति, तदन्वस्तु तदपेक्षया अनन्तगुणाभ्यधिको भवति, इत्येवं रीत्या कृष्णवर्णपर्यायानभिनारक की अपेक्षा संख्यातगुण हीन है और उसकी अपेक्षा दस हजार कृष्णवर्ण पर्याय वाला संख्यातगुण अधिक है ।

इसी प्रकार एक नारक के कृष्णवर्ण पर्यायों का परिमाण दो सौ है और दूसरे नारक के कृष्णवर्ण-पर्यायों का परिमाण दस हजार है । दो सौ का यदि असंख्यात रूप में कल्पित पचास के साथ गुणा किया जाय तो दस हजार होता है । अतएव दो सौ कृष्णवर्ण पर्याय वाला नारक दस हजार कृष्णवर्ण पर्याय वाले नारक की अपेक्षा असंख्यातगुण हीन है, और उसकी अपेक्षा दस हजार कृष्णवर्ण पर्याय वाला असंख्यातगुण अधिक है । इसी प्रकार एक नारक के कृष्णवर्ण के पर्याय सौ हैं और दूसरे के दस हजार । सर्वजीवानन्तर परिमाण के रूप में परिकल्पित सौ के द्वारा सौ में गुणाकार किया जाय तो दस हजार की संख्या आती है । अतएव सौ कृष्णवर्ण पर्याय वाला नारक दस हजार कृष्णवर्ण पर्याय वाले नारक की अपेक्षा अनन्तगुण हीन हुआ और उसकी अपेक्षा दूसरा अनन्तगुण अधिक हुआ ।

क्षेत्रे दश हजार कृष्ण वर्ण पर्याय वाणा संख्यात शुभ्र अधिक छे

ये प्रकारे जेक नारकना कृष्ण वर्ण पर्यायिना परिमाणु जसो छे अने भील नारकना कृष्ण वर्ण पर्यायिना परिमाणु दश हजार छे. जसोना जे असंख्यात रूपमा कल्पित पचासनी साथे शुष्ठाकार कराय तो दश हजार थाय छे तेथी न जसो कृष्णवर्ण पर्याय वाणा नारक दश हजार कृष्ण वर्ण पर्याय वाणा नारकनी अपेक्षाजे असंख्यात शुभ्र हीन छे अने तेनी अपेक्षाजे दश हजार कृष्ण वर्ण पर्यायवाणा असंख्यात शुभ्र अधिक छे. जेन रीते जेक नारकना कृष्णवर्णना पर्याय सो छे अने भीलना दश हजार सर्व जीवानन्तक परिमाणुना रूपमा परिकल्पित सो वडे सोना शुष्ठाकार कराय तो दश हजारनी संख्या आवे छे तेथी न सो कृष्ण वर्ण पर्याय वाणा नारकनी अपेक्षाजे

लक्ष्य हानौ वृद्धौ च षट्स्थानपतितत्वं प्रतिपादितमेवं शेषवर्णगन्धरसस्पर्शैरपि प्रत्येकं षट्स्थानपतितत्वं प्रतिपत्तव्यम्, एवं पुद्गलविपाकि नामकर्मोदयजघन्य-जीवौदयिकभावाश्रयेण षट्स्थानपतितत्वमुक्तं तथा जीवाविपाकि ज्ञानावरणी-याद्यष्टदकर्मक्षयोपशमभावाश्रयेण आभिनिवोधिकज्ञानपर्यवार्दिभरपि प्रत्येकं षट्स्थानपतितत्वं स्वयमेवोदनीयम्, द्रव्यतस्तुल्यत्वकथनेन समूच्छिन्नं सर्वप्रमेद-निर्भेदवीजं मयूराण्डकरसवदनमिव्यक्तदेशकालक्रम प्रत्यवनद्धविशेषपरिणामयोग्यं द्रव्यं भवतीति सूचितम्, अवगाहनया चतुःस्थानपतितत्वकथनेन क्षेत्रतः संको-

यहां कृष्णवर्ण के पर्यायों को लेकर षट्स्थानपतित हानि-वृद्धि का प्रतिपादन किया गया, इसी प्रकार शेष वर्णों, गंधों, रसों और स्पर्शों को लेकर भी षट्स्थानपतित हानि-वृद्धि समझ लेनी चाहिए ।

जिस प्रकार पुद्गलविपाकी नामकर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले औदयिक भाव का आश्रय करके नारकों को षट्स्थानपतित कहा है, उसी प्रकार जीवविपाकी ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के क्षयो-पशम के उत्पन्न होने वाले क्षायोपशमिक भाव को लेकर आभिन-िवोधिकज्ञान आदि पर्यायों की अपेक्षा भी षट्स्थानपतित हानि-वृद्धि समझ लेनी चाहिए ।

सभी नारक द्रव्य की अपेक्षा तुल्य हैं, इस कथन के द्वारा यह सूचित किया है कि प्रत्येक नारक अपने आप में परिपूर्ण एवं स्व-तंत्र जीव द्रव्य है और यद्यपि कोई भी द्रव्य पर्यायों से सर्वथा रहित कदापि नहीं हो सकता तथापि पर्यायों की विवक्षा न करके केवल

अनन्त शुष्ण हीन थाय अने तेनी अपेक्षाये जीने अनन्त शुष्ण अधिक थाय अही कृष्ण वर्णना पर्यायेने लधने षट्स्थान पतित हानि वृद्धितु प्रतिपादन कर्तुं छे. ये कारणे शेष, वर्णा, गंधो रसो अने स्पर्शाने लधने पणु षट्स्थान पतित हानि-वृद्धि समल लेवी न्नेधये

ये प्रकारे पुद्गल विपाकी नामकर्मना उदयथी उत्पन्न थनारा औदयिक लावना आश्रये करीने नारकेने षट्स्थान पतित कहा छे, तेव रीते एव विपाकी ज्ञानावरणीय आदि कर्मना क्षयोपशमथी उत्पन्न थनारा क्षायोपशमिक लावने लधने आभिनिवोधिक ज्ञान आदि पर्यायेनी अपेक्षाये पणु षट्स्थान पतित हानि-वृद्धि समल लेवी न्नेधये

यथा नारके द्रव्यनीअपेक्षाये सरथा छे. ये कथन द्वारा येम सूचन कर्तुं छे के प्रत्येक नारकपोतपोतामा परिपूर्ण तेमव स्वतंत्र एव द्रव्य छे अने जो के कोष पणु द्रव्य पर्यायेथी सर्वथा रहित कदापि नथी छेध

चविकोचर्मा आत्मा भवति, ननु द्रव्यप्रदेशसंख्यया इति प्रतिपादितम्, स्थित्या चतुः स्थानपतितत्वकथनेन आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थिति निर्णयकाध्ययसाय स्थानामुत्कर्षपर्यवृत्तित्वमुपपादितम्, तद् विना स्थित्या चतुः स्थानपतितत्वायोगात् कृष्णादिपर्यायैः पदस्थानपतितत्वकथनेन यदा एकस्यापि नैरयिक्रम्यान्न्ताः पर्याय भवन्ति, तदा त्रिमुन वक्तव्यं सर्वेषां नैरयिज्ञाणामिति प्रदर्शितम्, अत्र नैरयिज्ञाणा पर्यायानन्त्यस्य प्रस्तावेऽपि द्रव्यक्षेत्रकालभावाभिधानेन सर्वेषां सर्वे स्वर्यायाः सममन्त्या भवन्ति अपि तु पदस्थानपतिताः सन्त एव तत्र पदस्थानपतितत्वं परिणामं विना न संभवति स न परिणामो यथोक्तस्वरूपस्य द्रव्यस्य शुद्ध द्रव्य की विवक्षा की जाय तो एक नारक से दूसरे नारक में कोई विशेषता नहीं है।

अवगाहना से चतुः स्थानपतित कहने से यह सिद्ध हुआ कि आत्मा कर्मादय के वशीभूत होकर संकोच-विकासशील है, मगर प्रदेशों की अपेक्षा न्यूनाधिक नहीं है। स्थिति से चतुः स्थानपतित कह कर यह सूचित किया है कि आयुर्कर्म की स्थिति उत्पन्न करने वाले जीव के अध्यवसायों में उत्कर्ष और अपकर्ष होता है। अध्यवसायों के उत्कर्ष और अपकर्ष के विना स्थिति चतुः स्थानपतित नहीं हो सकती।

कृष्णवर्ण आदि पर्यायों से पदस्थानपतित कह कर यह दिखलाया है कि जब एक कृष्णवर्ण को लेकर ही अनन्त पर्याय होते हैं तो सभी वर्णों के पर्यायों का तो कहना ही क्या? उक्त कथन से यह

शक्यता तथापि पर्यायिणी विवक्षा न करीने केवण शुद्ध द्रव्यी विवक्षा कराय तो अेक नारकथी णील नारकभा केऽथ विशेषता नथी.

अवगाहनाथी अतुः स्थान पतित कडेवाथी आ सिद्ध थयु के आत्मा कर्मादयने वशीभूत णीने स केऽथ विकास शील छे. परन्तु प्रदेशोनी अपे. क्षाये न्यूनाधिक नथी.

स्थितिथी अतु स्थान पतित कडिने अे सूचन कथुं के आयु कर्मनी स्थिति उत्पन्न करवावाणा एवना अध्यवसायोभा उत्कर्ष अने अपकर्ष थाय छे अध्यवसायोना उत्कर्ष अने अपकर्षना विना स्थिति अतु स्थान पतित नथी थथ शकती.

कृष्णवर्ण आदि पर्यायोथी पदस्थान पतित थाय छे अेम कडिने अे गताव्यु छे के ल्यारे अेक कृष्ण वर्णने लथने अ अनन्त पर्याय थाय छे तो णधा वर्णोना पर्यायोतु तो कडेवु अ शु ? आ कथनथी अे पणु सूचित करायुं छे के एव

भवतीति द्रव्यतस्तुल्यत्वं, तथा न कृष्णादिपर्यायैरेव पर्यायवान् जीवो भवति अपि तु तत्तत्क्षेत्र संकोचविकोचधर्मतयापि, तथा तत्तदध्यवसायस्थानयुक्ततयाऽपि इति सूचनार्थम् क्षेत्रकालाभ्यां चतुः, स्थानपतितत्वमुक्तमित्यावेदितम् ॥ सू० २ ॥

असुरकुमार पर्यायवक्तव्यता—

मूलम्—असुरकुमाराणं भंते । केवइया पज्जवा पणत्ता ? गोयमा । अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्टेणं भंते । एवं बुच्चइ असुरकुमाराणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! असुरकुमारे असुरकुमारस्स दव्वट्टयाए तुल्ले पपसट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए ठिईए चउट्टाणवडिए कालवणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए एवं नीलवणपज्जवेहिं लोहियवणपज्जवेहिं हालिद्वणपज्जवेहिं सुक्किल्लवणपज्जवेहिं सुब्भिगंधपज्जवेहिं दुब्भिगंधपज्जवेहिं तित्तरसपज्जवेहिं कडुयरसपज्जवेहिं कसायरसपज्जवेहिं महुररसपज्जवेहिं डफासपज्जवेहिं मउयफासपज्जवेहिं गरुयफासपज्जवेहिं लहुयफासपज्जवेहिं सीयफासपज्जवेहिं, उसिणफासपज्जवेहिं निद्धफासपज्जवेहिं लुक्खफासपज्जवेहिं आभिणिवोहियाणाणपज्जवेहिं सुयणाणपज्जवेहिं ओहिनाणपज्जवेहिं मइ अण्णाणपज्जवेहिं सुयअण्णाणपज्जवेहिं विभंगनाणपज्जवेहिं चक्खुदंसणपज्जवेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिं ओहिदंसणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए से एएणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ असुरकुमाराणं अनता पज्जवा पणत्ता एवं जहा नेरइया जहा असुरकुमारा तथा नागकुमारा वि जाव थणियकुमारा ॥ सू० ३ ॥

भी सूचित किया गया है कि जीव स्वनिमित्तक एवं परनिमित्तक विविध परिमाणों से युक्त होता है । कर्मादय से प्राप्त शरीर के अनुसार उसके प्रदेशों में संकोच-विस्तार तो होता है मगर न्यूनाधिकता नहीं होती है ॥२॥

स्वनिमित्तक तेभञ् पर निमित्तक विविध पण्डिआभाधी युद्धत थाय छे कर्मादयथी प्राप्त शरीरना अनुसार तेना प्रदेशोभा स कोच-विस्तार तो थाय छे परन्तु न्यूनाधिकता नथी थती ॥ २ ॥

छाया—असुरकुमाराणा भदन्त ! द्वियन्तः पर्ययाः प्रजज्ञाः ? गौतम ! अनन्ताः पर्ययाः प्रजज्ञाः, तत् देनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—असुरकुमाराणां अनन्ताः पर्ययाः प्रजज्ञाः ? गौतम ! असुरकुमारः असुरकुमारस्य व्याप्यतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, कृष्णवर्ण पर्यवैः षट्स्थानपतितः, एवं नीलवर्णपर्यवैः, लोहितवर्णपर्यवैः, हारिद्रवर्णपर्यवैः, शुक्लवर्णपर्यवैः, सुरभिगन्धपर्यवैः, दुर्गन्धपर्यवैः, तिलगन्धपर्यवैः,

असुरकुमार पर्याय वक्तव्यता

शब्दार्थ—(असुरकुमाराणां अन्ते ! केवद्वया पञ्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! असुरकुमारों के कितने पर्याय कहे हैं ? (गोथमा) हे गौतम ! (अणंता पञ्जवा पण्णत्ता) अनन्त पर्याय कहे हैं (मे केणट्ठे णं अन्ते ! एवं बुच्चद्व) किस हेतु से हे भगवन् ! ऐसा कहा जाता है कि (असुरकुमाराणां अणंता पञ्जवा) असुरकुमारों के अनन्त पर्याय हैं (गोथमा) हे गौतम ! (असुरकुमारे असुरकुमारस्स) एक असुरकुमार दूसरे असुरकुमार से (दन्वद्वयाए तुल्ले, पएसद्वयाए तुल्ले) द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है, प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य है (ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिण) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है (ठिईण चउट्टाणवडिण) स्थिति से चतुःस्थानपतित है (कालवण्ण पज्जवेहिं उट्टाणवडिण) कृष्णवर्ण पर्यायों से षट्स्थानपतित है (एवं) इसी प्रकार (नीलवण्ण पज्जवेहिं, लोहितवण्णपज्जवेहिं, हालिद्वण्णपज्जवेहिं, सुक्खिण्णवण्ण पज्जवेहिं) नीलवर्ण पर्यायों से, लोहित, हारिद्र, और शुक्लवर्ण

असुरकुमार पर्याय वक्तव्यता

कषायरसपर्यवैः, अम्लरसपर्यवैः, मधुररसपर्यवैः, कर्कशस्पर्शपर्यवैः, मृदुकस्पर्श-
पर्यवैः, गुरुकस्पर्शपर्यवैः, लघुकस्पर्शपर्यवैः, शीतस्पर्शपर्यवैः, उष्णस्पर्शपर्यवैः,
स्निग्धस्पर्शपर्यवैः, रूक्षस्पर्शपर्यवैः, आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैः, श्रुतज्ञानपर्यवैः,
अवधिज्ञानपर्यवैः, मत्त्यज्ञानपर्यवैः, श्रुताज्ञानपर्यवैः, विभङ्गज्ञानपर्यवैः, चक्षुर्दर्शन-
पर्यवैः, अचक्षुर्दर्शनपर्यवैः, अवधिदर्शनपर्यवैः, षट्स्थानपतितः, तत् एतेनार्येन

पर्यायों से (सुविभगंधपञ्जवेहिं दुविभगंधपञ्जवेहिं) सुगंध और दुर्गंध के
पर्यायों से (तित्तरसपञ्जवेहिं, कडुयरसपञ्जवेहिं कसायरसपञ्जवेहिं,
अंबिलरसपञ्जवेहिं, महुररसपञ्जवेहिं) तित्त-कडुक-कषाय-आम्ल-
मधुररस के पर्यायों से (कक्खडफासपञ्जवेहिं, मउयफासपञ्जवेहिं,
गरुयफासपञ्जवेहिं, लहुयफासपञ्जवेहिं, सीयफासपञ्जवेहिं, उसिण-
फासपञ्जवेहिं, णिद्धफासपञ्जवेहिं, लुक्खफासपञ्जवेहिं) कर्कश-मृदु-
गुरु-लघु-शीत-उष्ण-स्निग्ध और रूक्ष स्पर्श के पर्यायों से (आभि-
निबोहिद्य नाणपञ्जवेहिं, सुयनाणपञ्जवेहिं, ओहिनाणपञ्जवेहिं)
आभिनिबोधिकज्ञान के पर्यायों से, श्रुतज्ञान के पर्यायों से, अवधि-
ज्ञान के पर्यायों से (मइअण्णापञ्जवेहिं, सुयअण्णाणपञ्जवेहिं विभग-
नाणपञ्जवेहिं) मत्त्यज्ञान के पर्यायों से, श्रुताज्ञान के पर्यायों से, विभग-
ज्ञान के पर्यायों से (चक्खुदंसणपञ्जवेहिं, अचक्खुदंसणपञ्जवेहिं
ओहिदंसणपञ्जवेहिं) चक्षुर्दर्शन के पर्यायों से, अचक्षुर्दर्शन के पर्यायों
से, अवधिदर्शन के पर्यायों से (छट्ठाणवडिए) षट्स्थानपतित हैं (से)

पञ्जवेहिं, दुविभगंध पञ्जवेहिं) सुगन्ध अने दुर्गन्धना पर्यायोथी (तित्तरस पञ्ज
वेहिं, कडुयरस पञ्जवेहिं कसायरस पञ्जवेहिं, अंबिलरस पञ्जवेहिं, महुररस
पञ्जवेहिं) तित्त रस, कडुक, कषाय, आम्ल, मधुर रसना पर्यायोथी (कक्खड
फासपञ्जवेहिं मउयफासपञ्जवेहिं, गरुयफासपञ्जवेहिं, लहुयफासपञ्जवेहिं सीयफास-
पञ्जवेहिं उसिणफासपञ्जवेहिं, णिद्धफासपञ्जवेहिं, लुक्खफासपञ्जवेहिं) कर्कश,
मृदु, गुरु-लघु-शीत उष्ण स्निग्ध अने रूक्ष स्पर्शना पर्यायोथी (आभिनि-
बोहियनाणपञ्जवेहिं, सुयनाण पञ्जवेहिं) आभिनिबोधिक ज्ञानना पर्यायोथी
श्रुतज्ञानना पर्यायोथी, अवधिज्ञानना पर्यायोथी (मइअण्णाणपञ्जवेहिं सुयअण्णाण-
पञ्जवेहिं विभगणाणपञ्जवेहिं) मत्त्यज्ञानना पर्यायोथी, श्रुताज्ञानना पर्यायोथी
विभगज्ञानना पर्यायोथी (चक्खुदंसणपञ्जवेहिं अचक्खुदंसणपञ्जवेहिं ओहिदंसण-
पञ्जवेहिं) चक्षुर्दर्शनना पर्यायोथी, अचक्षुर्दर्शनना पर्यायोथी, अवधिदर्शनना
पर्यायोथी (छट्ठाणवडि) छ स्थान पतित छे (से) अथ (एण्णट्टेण) अे डेतुथी
(गोयमा) डे गीतम ! (एव बुच्च) अेभ कडेवाथ छे (असुरकुमारण अण्णता पञ्जवा

गौतम ! एवमुच्यते-असुरकुमाराणाम् अनन्ता पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ? एवं यथा नैर-
यिकाः, यथा असुरकुमाराः तथा नागकुमारा अपि यावत् स्तनितकुमाराः ।

टीका—अथामुरकुमागादि भवनपतीना पर्यायान प्ररूपयितुमाह—‘असुर-
कुमाराणं भंते ! केवइया पज्जवा पणत्ता ?’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त !
असुरकुमाराणां कियन्तः पर्ययाः प्रज्ञप्ता ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे
गौतम ! (अणंता पज्जवा पणत्ता) असुरकुमाराणा भवनपतीनाम् अनन्ताः पर्ययाः
—पर्यायाः, प्रज्ञप्ता, गौतमरतत्र कारणं पृच्छति—(से वेणट्टं णं भंते ! एवं वुच्चइ) हे
भदन्त ! तत्—अथ, केनार्येन—रुथं तावन्, एवम्—उत्तरीत्या उच्यते यत्—(असुर-
कुमाराणां अणंता पज्जवा पणत्ता ?) असुरकुमाराणाम् अनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ता
इति ? भगवान् हेतुं प्रतिपादयति—(गोयमा !) हे गौतम ! (असुरकुमारे असुर-
कुमारस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) असुरकुमारः असुरकुमारस्य द्रव्यार्थतया—द्रव्यार्थिक-
अथ (एएणट्टेणं) इस कारण (गोयमा) हे गौतम ! (एवं वुच्चइ) ऐसा
कहा जाता है (असुरकुमाराणं अणंता पज्जवा पणत्ता) असुर-
कुमारों के अनन्त पर्याय कहे हैं ।

(एवं) इस प्रकार (जहा) जैसे (नेरइया) नारक (जहा असुर-
कुमारा) जैसे असुरकुमार (तहा) उसी प्रकार (नागकुमारा वि जाव
थणियकुमारा) नागकुमार भी यावत् स्तनितकुमार ।

अथ असुरकुमार आदि भवनपतियों की प्ररूपणा की जाती है—

टीकार्थ—गौतम प्रश्न करते हैं—हे जगवन् ! असुरकुमारों के
वि ने पर्याय कहे गए हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—असुरकुमार भवन-
पतियों के अनन्त पर्याय कहे गए हैं । गौतम कारण पूछते हैं—भग-
वन् ! किस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि असुरकुमारों के अनन्त
पर्याय कहे गए हैं ? भगवान् हेतु का प्रतिपादन करते हैं—हे गौतम !

पणत्ता) असुरकुमारिना अनन्त पर्याय क्ख्वा छे (एव) ये रीते (जहा) जेम
(नेरइया) नारक (जहा) जेवा (असुर कुमारा) असुरकुमार (तहा) जेवा प्रक्षरना
(नागकुमारावि जाव थणियकुमारा) नागकुमार अने स्तनिकुमार पणु सभज्जवा.

टीकार्थ—इवे असुरकुमार विगेरे लवनपतियोनी प्रइपणु कराय छे
गौतम प्रश्न करे छे—हे जगवन् ! असुरकुमारिना केट्ठा पर्याय क्खेला छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—असुरकुमार लवनपतियोना अनन्त पर्याय
क्खेवाथेला छे

श्री गौतम पूछे छे—हे जगवन् ! कया हेतुधी जेम क्खेले छे के असुर
कुमारिना अनन्त पर्याय क्खेला छे ?

श्री भगवान् हेतुधुं प्रतिपादन करे छे—जेक असुरकुमार पीण असुर

नयेन, तुल्यो भवति, (पए०द्वयाए तुल्ये) प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, (ओगाह
णद्वयाए चउद्वाणवडिए) अवगाहनार्थतया-अवगाहनं-शरीरोच्छ्रयस्तदर्थतयेत्यर्थः,
असुरकुमारः चतुः स्थानपतितो भवति, तथा च स्याद्धीनः, स्यात्तुल्यः, स्याद-
भ्यधिकः, तत्र यदा हीनतया विवक्षितो भवति तदा असंख्येयभागहीनो वा,
संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा भवति, अथा-
भ्यधिकतया यदा विवक्षितो भवति तदा असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येय-
भागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति
इत्याशयः, 'टिईए चउद्वाणवडिए' स्थित्या आयुः कर्मानुभवलक्षण स्थित्यपेक्षये-
त्यर्थः, असुरकुमारश्चतुःस्थानपतितो भवति, तथा च स्याद्धीनः, स्यात्तुल्यः, स्या-

एक असुरकुमार दूसरे असुरकुमार से द्रव्यार्थिक नय से तुल्य है
अर्थात् जीवद्रव्य की दृष्टि से असुरकुमारों में परस्पर कोई अन्तर
नहीं है प्रदेशों की अपेक्षा से भी वे तुल्य हैं अर्थात् प्रत्येक असुर-
कुमार के आत्मप्रदेश बराबर हैं, उनमें कोई न्यूनाधिकता नहीं है।
अगर अवगाहना शरीर की ऊंचाई की अपेक्षा से कोई असुरकुमार
किसी असुरकुमार से हीन होता है, तुल्य होता है या अधिक होता
है। अगर हीन होता है तो असंख्यातभाग हीन होता है या संख्यात
भागहीन होता है या संख्यातगुणहीन होता है या असंख्यातगुण
हीन होता है। अगर अधिक होता है तो असंख्यातभाग अधिक होता
है, संख्यातभाग अधिक होता है, संख्यातगुण अधिक होता है अथवा
असंख्यातगुण अधिक होता है।

आयु कर्म का अनुभव करना स्थिति कहलाता है। इस स्थिति
की अपेक्षा से एक असुरकुमार दूसरे असुरकुमार से चतुःस्थानपतित

कुमारथी द्रव्यार्थिक नयथी तुल्य छे अर्थात् एव द्रव्यनी दृष्टिथी असुरकुमारभा
परस्पर केछ अन्तर नथी पण्य अवगाहना अर्थात् शरीरनी जायाधनी अपे-
क्षाये केछ असुरकुमार केछ असुरकुमारथी हीन होय छे, तुल्य होय छे, अगर
तो अधिक होय छे अगर हीन होय छे तो असंख्यात भाग हीन होय छे
अगरतो संख्यात भाग हीन होय छे अथवा संख्यातगुण हीन होय छे
अथवा असंख्यातगुण हीन होय छे अगर अधिक होय छे तो असंख्यात
भाग अधिक होय छे, संख्यात भाग अधिक होय छे, संख्यातगुण अधिक
होय छे अथवा असंख्यातगुण अधिक होय छे

आयु कर्मनी अनुभव करने ते स्थिति कहेवाय छे अे स्थितिनी अपे-
क्षाये अेक असुरकुमार नीना असुरकुमारथी अनु. स्थान पतित होय छे,

दभ्यधिकः, तत्र यदा हीनतया विवक्षितस्तदा असंख्येयभागहीनो वा, संख्येय-
भागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा असंख्येयगुणहीनो वा भवति, अथाभ्यधिकतया
विवक्षितस्तदा अतख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिका वा, संख्येय-
गुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति इत्याशयः, 'कालवर्णपञ्ज-
वेहि छद्वाणवड्डि' कृष्णवर्णपर्यवैरमुरकुमारः स्याद्दीनः, स्यात्तुल्यः स्यादभ्यधिको
भवति. तत्र यदा हीनतया विवक्षितो भवति तदा अनन्तभागहीनो वा, संख्येय-
भागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा,
अनन्तगुणहीनो वा भवति, अथाभ्यधिकतया यदा विवक्षितस्तदा अनन्तभागा-
भ्यधिको वा असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येय

होता है। तात्पर्य यह है कि कोई असुरकुमार किसी अन्य असुर-
कुमार की अपेक्षा स्थिति में हीन होता है, कोई किसी के बराबर
होता है, कोई किसी से अधिक होता है। अगर हीन होता है तो
असंख्यातभाग हीन होता है या संख्यात भाग हीन होता है या
संख्यातगुण हीन होता है या असंख्यातगुण हीन होता है। अगर
अधिक होता है तो असंख्यातभाग अधिक होता है या संख्यातभाग
अधिक होता है या संख्यातगुण अधिक होता है या असंख्यातगुण
अधिक होता है।

कृष्णवर्ण के पर्यायों की अपेक्षा कोई असुरकुमार किसी से हीन,
तुल्य या अधिक होता है। अगर हीन हो तो अनन्तभाग हीन, असं-
ख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन, असंख्यात
गुण हीन या अनन्तगुणहीन होता है। यदि अधिक होता है तो

तात्पर्य ये छे के केअ असुरकुमार केअ अन्य असुरकुमारनी अपेक्षाये स्थितिमा
हीन होय छे, केअ केअनी बराबर होय छे, केअ केअनाथी अधिक होय छे
अगर हीन होय तो असंख्यात भाग हीन थाय छे, अथवा संख्यात भाग
थाय छे अगर संख्यातगुण हीन थाय छे अथवा असंख्यात गुण हीन
भने छे अगरतो अधिक होयतो असंख्यात भाग अधिक होय छे अथवा
संख्यात भाग अधिक होय छे अथवा संख्यातगुण अधिक भने छे अगर
असंख्यात गुण अधिक थाय छे.

कृष्णवर्ण पर्यायिनी अपेक्षाये केअ असुरकुमार केअनाथी हीन, तुल्य
अगर अधिक भने छे. अगर हीन थाय छे तो अनन्त भागहीन, असंख्यात
भागहीन संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अथवा
अनन्त गुणहीन थाय छे. जे अधिक थाय छे तो अनन्त भाग अधिक,

गुणाभ्यधिको वा असंख्यायगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवति, 'एवं नीलवर्णपञ्जवेहिं लोहियवर्णपञ्जवेहिं' नीलवर्णपर्यवैः, लोहितवर्णपर्यवैः, 'हालिद्ववर्णपञ्जवेहिं' हारिद्रवर्णपर्यवैः, 'सुक्लिद्ववर्णपञ्जवेहिं' शुक्लवर्णपर्यवैः, 'सुद्विभगंधपञ्जवेहिं' सुरभिगन्धपर्यवैः, 'दुद्विभगंधपञ्जवेहिं' दुरभिगन्धपर्यवैः, 'तिक्तरसपञ्जवेहिं' तिक्तरसपर्यवैः, 'कडुकरसपञ्जवेहिं' कडुकरसपर्यवैः, 'कषायरसपञ्जवेहिं' कषायरसपर्यवैः, 'अंबिलरसपञ्जवेहिं' अम्बलरसपर्यवैः, 'मधुररसपञ्जवेहिं' मधुररसपर्यवैः, 'कर्कशस्पर्शपञ्जवेहिं' कर्कशस्पर्शपर्यवैः, 'प्रउयफासपञ्जवेहिं' मृदुकरसपर्यवैः, 'गरुयफासपञ्जवेहिं' गुरुकरसपर्यवैः, 'लहुयफासपञ्जवेहिं' लघुकरसपर्यवैः, 'सीयफासपञ्जवेहिं' शीतस्पर्शपर्यवैः, 'उष्णिणफासपञ्जवेहिं' उष्णस्पर्शपर्यवैः, 'णिद्धफासपञ्जवेहिं' स्निग्धस्पर्शपर्यवैः, 'लुक्खफासपञ्जवेहिं' रूक्षस्पर्शपर्यवैः, 'आभिणिरोहियणाणपञ्जवेहिं' आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैः, 'सुयणाणपञ्जवेहिं' श्रुतज्ञानपर्यवैः, 'ओहिणाणपञ्जवेहिं' अवधिज्ञानपर्यवैः, 'मइअणाणपञ्जवेहिं' मत्तज्ञानपर्यवैः, 'सुयअणाणपञ्जवेहिं' श्रुता-

अनन्तभाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक, असंख्यातगुण अधिक अथवा अनन्त गुण अधिक होता है।

इसी प्रकार नीलवर्ण पर्यायों से, लोहितवर्ण पर्यायों से, हारिद्रवर्ण पर्यायों से, शुक्लवर्ण पर्यायों से, सुगंध पर्यायों से, दुर्गंध पर्यायों से, तिक्तरस पर्यायों से, कडुकरस पर्यायों से, कषायरस पर्यायों से, अम्बलरस पर्यायों से, मधुररस पर्यायों से, कर्कशस्पर्श पर्यायों से, मृदुस्पर्श पर्यायों से, गुरुस्पर्श पर्यायों से, लघुस्पर्श पर्यायों से, शीतस्पर्श पर्यायों से, उष्णस्पर्श पर्यायों से, स्निग्धस्पर्श पर्यायों से, रूक्षस्पर्श पर्यायों से, तथा आभिनिबोधिक ज्ञान पर्यायों से, श्रुतज्ञान पर्यायों से, अवधिज्ञान पर्यायों से, मति-अज्ञान के पर्यायों से, श्रुत-

असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, असंख्यात गुण अधिक, संख्यात गुण अधिक अथवा अनन्तगुण अधिक होय छे

ऐ प्रकारे नीलवर्ण पर्यायोथी, लोहितवर्ण पर्यायोथी, हारिद्रवर्ण पर्यायोथी, शुक्लवर्ण पर्यायोथी, सुगन्ध पर्यायोथी, दुर्गन्ध पर्यायोथी, तिक्तरस पर्यायोथी, कडुकरस पर्यायोथी, कषायरस पर्यायोथी, अम्बलरस पर्यायोथी, मधुररस पर्यायोथी, कर्कश स्पर्श पर्यायोथी, मृदुस्पर्श पर्यायोथी, गुरुस्पर्श पर्यायोथी, लघुस्पर्श पर्यायोथी, शीतस्पर्श पर्यायोथी, उष्णस्पर्श पर्यायोथी, स्निग्ध स्पर्श पर्यायोथी, रूक्ष स्पर्श पर्यायोथी तथा आभिनिबोधिक ज्ञान पर्यायोथी, श्रुतज्ञानना पर्यायोथी अवधिज्ञान पर्यायोथी मति

ज्ञानपर्यवैः. 'विभंगनाणपञ्जवेहि' विभङ्गज्ञानपर्यवैः, 'चक्रवृन्दसणपञ्जवेहि' चक्रवृन्दसणपर्यवैः, 'अचवरमुदंसणपञ्जवेहि' अचक्रवृन्दसणपर्यवैः, 'ओहिदंसणपञ्जवेहि' अवधिदर्शनपर्यवैश्च 'छट्टाणवडिए' पट्टस्थानपतितोऽमुरकुमारः स्याद्धीनः, स्यात्तुत्य', स्यादभ्यधिको वा भवति, तत्र यदा हीनतया विवक्षितस्तदा अनन्त भागहीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा भवति, अथाभ्यधिकत्वेन यदा अमुरकुमारो विवक्षितस्तदा अनन्तभागाभ्यधिको वा, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवति इत्याशयः, तदुपसंहरन्नाह -'से एणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ' हे गौतम ! तत्-अथ एतेनार्थेन, एवम्-उत्तरीत्या, उच्यते यत्-'अमुरकुमाराणां अर्णता पज्जवा पणत्ता' अमुर-

अज्ञान के पर्यायों से, विभङ्गज्ञान के पर्यायों से, चक्रवृन्दसण के पर्यायों से, अचक्रवृन्दसण के पर्यायों से और अवधिदर्शन के पर्यायों से एक अमुरकुमार दूसरे अमुरकुमार से पट्टस्थानपतित हीन या अधिक होता है। अगर हीन हो तो अनन्तभाग हीन या असंख्यातभाग हीन या संख्यातभाग हीन, या संख्यातगुण हीन असंख्यातगुण हीन या अनन्तगुण हीन होता है। कदाचित् अधिक हो तो अनन्तभाग अधिक या असंख्यातभाग अधिक या संख्यातभाग अधिक, या संख्यातगुण अधिक या असंख्यातगुण अधिक या अनन्तगुण अधिक होता है।

उपसंहार करते हुए कहते हैं-हे गौतम ! इस हेतु से ऐसा कहा गया है कि अमुरकुमारों के अनन्त पर्याय हैं। इस प्रकार जैसी

अज्ञानना पर्यायोथी श्रुत अज्ञानना पर्यायोथी, विभङ्गज्ञानना पर्यायोथी, चक्रवृन्दसणना पर्यायोथी, अचक्रवृन्दसणना पर्यायोथी अने अवधिदर्शनना पर्यायोथी अथ अमुरकुमार भाग अमुरकुमारधी पट्टस्थान पतित हीन अगर तो अधिक होय छे अगर हीन होयतो अनन्त भाग हीन या असंख्यातभाग हीन अगर संख्यातभाग हीन अथवा संख्यातगुणहीन, असंख्यातगुणहीन, अथवा अनन्तगुण हीन थाय छे कदाचित् अधिक होय तो अनन्तभाग अधिक अथवा असंख्यात भाग अधिक वा संख्यात भाग अधिक संख्यात गुण अधिक अगर संख्यात गुण अधिक अगर अनन्तगुण अधिक होय छे

उपसंहार करता सूत्रकार कहे छे-हे गौतम ! जो हेतुथी ओषु कहेलु छे के अमुर कुमारोना अनन्त पर्याय छे. ओ रीते ओवी पडेला नारकोनी प्रश्नपणा करेवी

કુમારાણામ્ અનન્તાઃ પર્યવાઃ પ્રજ્ઞાતાઃ, 'એવં જહા નેરઙ્કયા' એવં-પૂર્વોક્તરીત્યા યથા નૈરયિકાઃ પ્રરૂપિતાઃ 'જહા અસુરકુમારા' યથા ચાસુરકુમારાઃ પ્રરૂપિતાઃ 'તહા નાગકુમારાવિ જાવ-થણિય ારા વિ' તથા નાગકુમારાઃ અપિ, યાવત્-સુવર્ણ-કુમારા અપિ, અગ્નિકુમારા અપિ, વિદ્યુત્કુમારા અપિ, ઉદધિકુમારા અપિ, દ્વીપ-કુમારા અપિ, દિશાકુમારા અપિ, પવનકુમારા અપિ, પ્રરૂપણીયાસ્તથા ચૈતેષામપિ અનન્તાઃ પર્યવાઃ પ્રજ્ઞાતાઃ, 'તત્ર પ્રત્યેકં દ્રવ્યાર્થતયા તુલ્યાઃ, અવગાહનાર્થતયા ચતુઃ સ્થાનપતિતાઃ, સ્થિત્યા ચતુઃસ્થાનપતિતાઃ, કૃષ્ણવર્ણપર્યવૈઃ, લોહિતવર્ણ-પર્યવૈઃ, હારિદ્રવર્ણપર્યવૈઃ, શુક્લવર્ણપર્યવૈઃ, સુરભિગન્ધપર્યવૈઃ દુરભિગન્ધપર્યવૈઃ, તિક્તરસપર્યવૈઃ, કટુકરસપર્યવૈઃ, કષાયરસપર્યવૈઃ, અમ્લરસપર્યવૈઃ મધુરરસપર્યવૈઃ, કર્કશસ્પર્શ્યવૈઃ, મૃદુરસપર્શ્યવૈઃ, ગુરુરસપર્શ્યવૈઃ, લઘુરસપર્શ્યવૈઃ, શીતસ્પર્શ-

પહ્લે નારકોં કી પ્રરૂપણા કી ગર્હૈ હૈ ઓર યહ અસુરકુમારોં કી પ્રરૂ-પણા કી ગર્હૈ હૈ, ઁસી પ્રકાર નાગકુમારોં સે લેકર સ્તનિતકુમારોં તક અર્થાત્ અગ્નિકુમારોં, વિદ્યુત્કુમારોં, ઉદધિકુમારોં, દ્વીપકુમારોં, દિશાકુમારોં, પવનકુમારોં ઓર સ્તનિતકુમારોં કી ભી પ્રરૂપણા સમજ્ઞ લેની ચાહિષ. ઁન સબ કે ભી અનન્ત પર્યાય હૈં. ચે સબ અસુરકુ-માર ભી દ્રવ્ય કી અપેક્ષા ઓર પ્રદેશોં કી અપેક્ષા તુલ્ય હૈં, અવગાહના કી અપેક્ષા ચતુઃસ્થાનપતિત હૈં, સ્થિતિ કી અપેક્ષા ભી ચતુઃસ્થાનપતિત હૈં. કૃષ્ણવર્ણ પર્યાયોં, નીલવર્ણ પર્યાયોં, લોહિતવર્ણ પર્યાયોં, પીતવર્ણ પર્યાયોં, શુક્લવર્ણ પર્યાયોં, સુરભિ-દુરભિગંધ પર્યાયોં, તિક્તરસ પર્યાયોં, કટુકરસ પર્યાયોં, કષાયરસ પર્યાયોં, અમ્લરસ પર્યાયોં, મધુરરસ પર્યાયોં, કર્કશસ્પર્શ પર્યાયોં, મૃદુરસપર્શ પર્યાયોં, ગુરુરસપર્શ

એ. અને આ અસુરકુમારોની પ્રરૂપણા કરેલી છે, એજ પ્રકારે નાગકુમારોથી લઇને સ્તનિતકુમારો સુધી અર્થાત્ અગ્નિકુમારો, વિદ્યુત્કુમારો, ઉદધિકુમારો, દ્વીપ કુમારો, દિશાકુમારો, પવનકુમારો, અને સ્તનિતકુમારોની પણ પ્રરૂપણા સમજ્ઞ લેવી જોઇએ. આ બધાના અનન્તપર્યાય છે. આ બધા અસુરકુમાર પણ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ અને પ્રદેશોની અપેક્ષાએ તુલ્ય છે, અવગાહનાની અપેક્ષાએ ચતુ સ્થાન પતિત છે, સ્થિતિની અપેક્ષાએ પણ ચતુ સ્થાન પતિત છે કૃષ્ણ વર્ણ પર્યાયો, નીલવર્ણ પર્યાયો, લોહિતવર્ણ પર્યાયો, પીતવર્ણ પર્યાયો, શુક્લવર્ણ પર્યાયો, સુરભિ-દુરભિ ગંધ પર્યાયો, તિક્ત રસ પર્યાયો, કટુક રસ પર્યાયો કષાય રસ પર્યાયો, અમ્લરસ પર્યાયો, મધુરરસ પર્યાયો કર્કશસ્પર્શ પર્યાયો મૃદુરસપર્શ પર્યાયો, ગુરુરસપર્શ પર્યાયો, લઘુરસપર્શ પર્યાયો, શીતસ્પર્શ પર્યાયો, ઉષ્ણરસપર્શ પર્યાયોથી, સ્નિગ્ધરસપર્શ પર્યાયો અને કટુરસપર્શ પર્યાયોથી તથા

र्यवैः, उष्णस्पर्शपर्यवैः, स्निग्धस्पर्शपर्यवैः, रूक्षस्पर्शपर्यवैः, आभिनयोपिकृञ्जान-
पर्यवैः, श्रुतज्ञानपर्यवैः, अवधिज्ञानपर्यवैः, मत्स्यज्ञानपर्यवैः, श्रुताज्ञानपर्यवैः, विभद्र-
ज्ञानपर्यवैः, चक्षुदर्शनपर्यवैः, अचक्षुदर्शनपर्यवैः, अवधिज्ञानपर्यवैश्च पदस्थानपतिता
भवन्ति तत् एतेनार्थेन नागकुमारादीनाम् अनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ॥ सू० ३ ॥

पृथिवीकायिकादि पर्यवक्तव्यता

मूलम्—पुढविकाइयाणं भंते ! केवइया पज्जवा पणत्ता ?

गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता से केणट्टेणं भंते । एवं तुच्चइ पुढ-
विकाइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! पुढविकाइए पुढ
कायइयस्स दव्वट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्टयाए
सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए । जइ हीणे असंखिज्जइभा
गहीणे वा संखिज्जइभागहीणे वा संखिज्जगुणाहीणे, असंखिज्जगु-
णहीणे वा अह अब्भहिए असंखिज्जइभागअब्भहिए वा संखिज्ज
इभागअब्भहिए वा संखिज्जगुण अब्भहिए वा ठिईए तिट्ठाण-
वडिए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए जइ हीणे असंखिज्ज
भागहीणे वा संखिज्जभागहीणे वा, संखिज्जगुणहीणे वा अह अ-
ब्भहिए असंखिज्जइभाग अब्भहिए वा संखिज्जइभाग अब्भहिए
वा संखिज्जगुण अब्भहिए वा वण्णेहिं गंधेहिं रसेहिं फासेहिं मइ
अण्णाणपज्जवेहिं सुय अण्णाणपज्जवेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिं
छट्ठाणवडिए । आउकाइयाणं भंते ! केवइया पज्जवा पणत्ता ?
गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता से केणट्टेणं भंते । एवं

पर्यायो, लघुस्पर्श पर्यायो, शीतस्पर्श पर्यायो, उष्णस्पर्श पर्यायो,
स्निग्ध स्पर्श और रूक्षस्पर्श पर्यायो से तथा आभिनयोधिकज्ञान,
श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मत्स्यज्ञान श्रुताज्ञान, विभद्रज्ञान, चक्षुदर्शन,
अचक्षुदर्शन और अवधिदर्शन के पर्याय से पदस्थानपतित हीनाधिक
हैं । इस हेतु से नागकुमार आदि के अनन्त पर्याय हैं ॥३॥

आभिनयोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मत्स्यज्ञान श्रुताज्ञान, विभद्रज्ञान,
चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अवधिदर्शनना पर्यायोपि पदस्थान पतित हीना
धिक छे. ये हेतुसे नागकुमार आदिना अनन्त पर्याय छे ॥ ३ ॥

बुच्चइ आउकाइयां अणंता पज्जवा पणत्ता ? आउकाइए
 आउकाइयस्स दब्बट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए तुल्ले ओगाह-
 णट्टयाए चउट्टाणवडिए ठिईए तिट्टाणवडिए वण्णगंधरसफा-
 समइ अण्णाण सुय अण्णाण अचक्खुदंसणपज्जवेहिं छट्टाणव-
 डिए तेउकाइयां पुच्छा, गोयमा । अणंता पज्जवा पणत्ता से
 केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ तेउकाइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?
 गोयमा ! तेउकाइए तेउकायस्स दब्बट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए
 तुल्ले ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए ठिईए तिट्टाणवडिए वण्ण-
 गंधरसफास मइ अण्णाण सुयअण्णाण अचक्खुदंसणपज्जवेहिं य
 छट्टाणवडिए वाउकाइयाणं पुच्छा गोयमा वाउकाइयाणं अणंता
 पज्जवा पणत्ता से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ वाउकाइयाणं
 अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! वाउकाइए वाउकाइयस्स
 दब्बट्टयाए तिट्टाणवडिए वण्णगंधरसफास मइअण्णाण सुयअ-
 ण्णाण अचक्खुदंसणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए वणस्सइकाइयाणं
 पुच्छा गोयमा । अणंता पज्जवा पणत्ता से केणट्टे भंते ! एवं
 बुच्चइ वणस्सइकाइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा !
 वणस्सइकाइए वणस्सइकाइयस्स दब्बट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए
 तुल्ले ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए ठिईए तिट्टाणवडिए वण्ण-
 गंधरसफास मइ अण्णाण सुय अण्णाण अचक्खुदंसणपज्जवेहिं
 य छट्टाणवडिए से एण्णट्टेणं गोयमा । एवं बुच्चइ वणस्सइकाइ-
 याणं अणंता पज्जवा पणत्ता ॥सू०४ ॥

छाया-पृथिवीकायिकाना भदन्त ! कियन्तः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः, गौतम ! अन-

पृथ्वीकायादि के पर्यायों की वस्तुव्यता

शब्दार्थ-(पुढविकाइयाणं भंते ! केवइया पज्जवा पणत्ता ?) हे

पृथ्वीकायादिकाना पर्यायिनी वस्तुव्यता

शब्दार्थ-(पुढविकाइयाणं भंते ! केवइया पज्जवा पणत्ता ?) हे लज्जवन् !

न्ता पर्यवा ! प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन मदन्त ! एतदुच्यते पृथिवीकायिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! पृथिवीकायिकः पृथिवीकायिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अत्रगाहनार्थतया स्याद्हीनः, स्यात्तुल्यः, स्यादभ्यधिकः, यदा हीनः असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अगाभ्यधिकः असंख्येयभागभ्यधिको वा, संख्येयभागभ्यधिको

भगवन् ! पृथिवीकायिकों के कितने पर्याय कहे हैं (गोयमा ! अणता पञ्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-पुढविकाइयाणं अणता पञ्जवा पणत्ता ?) भगवन् ! किस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीकायिकों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! पुढविकाइए पुढविकाइयरस दव्वट्ठयाए तुल्ले, पएसट्ठयाए तुल्ले) गौतम ! एक पृथ्वीकायिक दूसरे पृथ्वीकायिक से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य है (ओगाहणट्ठयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए) अवगाहना की अपेक्षा से स्यात् हीन है, स्यात् तुल्य है, स्यात् अधिक है (जइ हीणे) यदि हीन है (असंखेज्जइभाग हीणे वा संखेज्जइभाग हीणे वा, संखेज्जगुण हीणे वा असंखेज्जगुण हीणे वा) असंख्यातभाग हीन है या संख्यातभाग हीन है या संख्यातगुण हीन है अथवा असंख्यातगुण हीन है (अह अब्भहिए) अगर अधिक है (असखिज्जइभाग अब्भहिए वा संखिज्जइभाग अब्भहिए वा, संखिज्जगुण अब्भहिए वा, असंखिज्ज

पृथ्वीकायिकेना केटला पर्याय कइया छे ? (गोयमा ! अणता पञ्जवा पणत्ता) छे गौतम ! अनन्त पर्याय कइया छे (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ पुढविकाइयाणं अणता पञ्जवा पणत्ता ?) छे भगवन् ! क्या हेतुही अर्थ कइवाय छे के पृथ्वीकायिकेना अनन्त पर्याय कइया छे ? (गोयमा ! पुढविकाइए पुढविकाइयरस दव्वट्ठयाए तुल्ले, पएसट्ठयाए तुल्ले) छे गौतम ! एक पृथ्वीकायिक अनन्त पृथ्वीकायिकी द्रव्यकी अपेक्षाये तुल्य छे प्रदेशीनी अपेक्षाये तुल्य छे (ओगाहणट्ठयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए) अवगाहनानी अपेक्षाये स्यात् हीन छे, स्यात् तुल्य छे स्यात् अधिक छे (जइ हीणे) ने हीन छे (असंखेज्जइभाग हीणे वा संखेज्जइभागहीणेवा संखेज्ज गुण हीणे वा असंखेज्जगुण हीणे वा) असंख्यातभाग हीन छे अगर संख्यातभाग हीन छे अगर संख्यातगुण हीन अथवा संख्यातगुण हीन छे अगर (अह अब्भहिए) ने अधिक छे (असंखेज्जभाग अब्भहिए वा, संखेज्जभाग अब्भहिए वा, संखिज्जगुण अब्भहिए वा, असंखिज्जगुण

वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, स्थित्या त्रिस्थान-
पतितः-स्पाद्धीनः, स्पात्तुल्यः, स्याद्भ्यधिकः, यदा हीनोऽऽसंख्येयभागहीनो
वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, अथाभ्यधिकः असंख्येयभागा
भ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, वर्णैः, गन्धैः,
रसैः, स्पर्शैः मत्पज्ञानपर्यवैः, श्रुताज्ञानपर्यवैः, अचक्षुर्दर्शनपर्यवैः पटस्थानपतितः,
अष्कायिकानां यदन्त ! कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः

गुण अब्बहिए वा) असंख्यातभाग अधिक है, संख्यातभाग अधिक
है, संख्यातगुण अधिक या असंख्यातगुण अधिक है ।

(ठिईए तिट्ठाणवडिए) स्थिति से त्रिस्थानपतित है (सिय हीणे
सिय तुल्ले सिय अब्बहिए) कदाचित् हीन, कदाचित् तुल्य, कदाचित्
अधिक है (जइ हीणे असंखिज्जभाग हीणे वा, संखिज्जभाग हीणे वा,
संखिज्जगुण हीणे वा) अगर हीन है तो असंख्यातभाग हीन, संख्या
तभाग हीन या संख्यातगुण हीन है (अह अब्बहिए) यदि अधिक है
(असंखिज्जइभाग अब्बहिए वा, संखिज्जइभाग अब्बहिए वा, संखि-
ज्जगुणअब्बहिए वा) असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक है
संख्यातगुणा अधिक है (वणोहिं) वर्णोंसे (गंधेहिं) गंधों से (रसेहिं)
रसों से (फासेहिं) स्पर्शों से (मइअण्णाणपज्जवेहिं) मत्पज्ञान के
पर्यायों से (सुयअण्णाणपज्जवेहिं) श्रुताज्ञान के पर्यायों से (अचक्खुदस-
णपज्जवेहिं) अचक्षुदर्शन के पर्यायों से (छट्ठाणवडिए) पटस्थानपतित है

अब्बहिए वा) असंख्यात भाग अधिक छे, संख्यातभाग अधिक छे, संख्यातगुण
अधिक छे अगर असंख्यात गुण अधिक छे

(ठिईए तिट्ठाणवडिए) स्थितिथी त्रि स्थान पतित छे (सिय हीणे सिय-
तुल्ले सिय अब्बहिए) कदाचित् हीन, कदाचित् तुल्य, कदाचित् अधिक छे (जइ
हीणे असंखिज्जभागहीणे वा, संखिज्जभागहीणेवा, संखिज्जगुणहीणे वा) अगर
हीन छे तो असंख्यात भागहीन, संख्यात भाग हीन, अगर संख्यात गुण
हीन छे (अह अब्बहिए) तो अधिक छे (असंखिज्जइभाग अब्बहिए वा संखिज्जइ-
भाग अब्बहिए वा, संखिज्ज गुण अब्बहिए वा) असंख्यात भाग अधिक, संख्यात
भाग अधिक अगर संख्यात गुण अधिक छे (वणोहिं) वर्णोंथी (गंधेहिं) गंधथी
(रसेहिं) रसोथी (फासेहिं) स्पर्शोंथी (मइअण्णाण पज्जवेहिं) मत्पज्ञानना पर्यायोथी
(सुयअण्णाण पज्जवेहिं) श्रुताज्ञानना पर्यायोथी (अचक्खुदसणपज्जवेहिं) अचक्षु-
दर्शनना पर्यायोथी (छट्ठाणवडिए) पटस्थान पतित छे

प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते अप्कायिकानाम् अनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः, गौतम ! अप्कायिकः अप्कायिकस्य द्रव्यर्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया-
तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुः स्थानपतितः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्ध-
रसस्पर्शमत्यज्ञानश्रुताज्ञानाचक्षुदर्शनपर्यवैः षट्स्थानपतितः, तेजःकायिकानां

(आउकाइयाण भंते ! केचइया पज्जवा पण्णत्ता ?) भगवन् ! अप्का-
यिकों के कितने पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! अण ता पज्जवा पण्णत्ता)
गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ-आउका-
इयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! किस हेतु से ऐसा कहा
है कि अप्कायिकों के अनन्तपर्याय कहे गए हैं ? (गोयमा) हे गौतम !
(आउकाइए आउकाइयस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले) अप्कायिक दूसरे अप्का-
यिक से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है (पएसट्ठयाए तुल्ले) प्रदेशों की
अपेक्षा से तुल्य है (ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए) अवगाहना की
अपेक्षा से चतुःस्थानपतित है (ठिईए तिट्ठाणवडिए) स्थिति की
अपेक्षा से त्रिस्थानपतित है (वण्ण-गंध-रस-फास-मई-अण्णाण-सुय-
अण्णाण-अचक्खुदंसणपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श,
मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थान पतित हैं ।

(तेउकाइयाणं पुच्छा ?) तेजस्कायिकों के विषय में प्रश्न ? (गोयमा
अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केण-

(आउकाइयाण भंते ! केचइया पज्जवा पण्णत्ता ?) भगवन् अप्कायिकेना
डेट्ठा पर्याय क्ख्हा छे ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) गौतम ! अनन्त
पर्याय क्ख्हा छे (से केणट्ठेणं भंते ! एव वुच्चइ-आउकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता)
भगवन् ! क्या डेतुथी ओषु क्खु छे डे अप्कायिकेना अनन्त पर्याय क्खेला
छे ? (गोयमा !)डे गौतम ! (आउकाइए आउकाइयस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले) अप्कायिक
णीत्त अप्कायिकथी द्रव्यनी अपेक्षाओ तुल्य छे (पएसट्ठयाए तुल्ले) प्रदेशानी
अपेक्षाथी तुल्य छे (ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए) अवगाहनानी अपेक्षाओ
चतुःस्थानपतित छे (ठिईए तिट्ठाणवडिए) स्थितिनी अपेक्षाओ त्रिस्थान पतित
छे (वण्णगंधरसाफास मईअण्णाण सुयअण्णाण अचक्खुदंसणपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए)
वर्ण गंध, रस, स्पर्श, मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, अचक्षुदर्शनना पर्यायिथी
षट्स्थान पतित छे

(तेउकाइयाण पुच्छा ?) तेजस्कायिकेना विषयमां प्रश्न ? (गोयमा ! अणंता
पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय क्ख्हा छे (से केणट्ठेणं भंते ! (देव
प्र० ७२

पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते-
तेजःकायिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! तेजःकायिकस्तेजः
कायिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थान-
पतितः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शमत्यज्ञानश्रुताज्ञानाचक्षुर्दर्शन-
पर्यवैश्च पट्स्थानपतितः, वायुकायिकानां पृच्छा, गौतम ! वायुकायिकानाम्
अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते-वायुकायिकानाम-
नन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! वायुकायिको वायुकायिकस्य द्रव्यार्थतया-

द्वेणं भन्ते ! एवं बुच्चइ-तेउकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे
भगवन् ! किस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि तेजस्कायिकों के
अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (तेउकाइए तेउकाइयस्स
द्व्वट्ठयाए तुल्ले) एक तेजस्कायिक दूसरे तेजस्कायिक से द्रव्य की
अपेक्षा तुल्य है (पएसट्ठयाए तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य है
(ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित है
(ठिईए तिट्ठाणवडिए) स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थानपतित है (वण्ण-
गंध-रस-फास-मइअण्णाण-सुयअण्णाण-अचक्खुदंमण पज्जवेहिं
य छट्ठाणवडिए) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, अच-
क्षुदर्शन पर्यायों से षट्स्थानपतित है ।

(वाउकाइयाणं पुच्छा ?) वायुकायिकों के विषय में प्रश्न (गोयमा
अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केण-
द्वेणं भन्ते ! एवं बुच्चइ-वाउकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे
भगवन् ! किस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि वायुकायिकों के

बुच्चइ तेउकाइयाण अणता, पज्जवा पण्णत्ता ?) भगवन् ! क्या हेतुधी अेभ
उडेवाय छे उे तेजस्कायिकेना अनन्त पर्याय कइया छे (गोयमा !) उे गौतम !
(तेउकाइए तेउकाइयस्स द्व्वट्ठयाए तुल्ले) अेक तेजस्कायिक भील तेजस्कायिकधी
द्रव्यनी अपेक्षाअे तुल्य छे (पएसट्ठयाए तुल्ले) प्रदेशेनी अपेक्षाअे तुल्य छे
(ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए) अवगाहनाधी अतुस्थान पतित छे (ठिईए
तिट्ठाणवडिए) स्थितिनी अपेक्षाअे त्रिस्थान पतित छे (वण्ण गंध रस फास
मइ अण्णाण सुयअण्णाण अचक्खुदंमण पज्जवेहिं य छट्ठाणवडिए) वर्ण-गंध-रस-
स्पर्श-मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान अचक्षुदर्शन पर्यायेधी पट्स्थान पतित छे

(वाउकाइयाणं पुच्छा ?) वायुकायिकेना विषयभा पश्च (गोयमा !) गौतम !
(अणंता पज्जवा पण्णत्ता) गौतम ! अनन्त पर्याय कइया छे (से केणद्वेण भन्ते !
एव बुच्चइ वाउकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) भगवन् ! क्या हेतुधी अेवु

तुल्यः, प्रदेगार्थतया तुल्यः, अगगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या त्रिस्थान-
पतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शमत्यज्ञानश्रुताज्ञानाचक्षुर्दर्शनपर्यवैः पटस्थानपतितः,
वनस्पतिकायिकानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन
भदन्त ! एवमुच्यते-वनस्पतिकायिकानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम !
वनस्पतिकायिको वनस्पतिकायिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः,
अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्श-

अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा ! वाउकाइयस्स) हे गौतम ! एक वायु-
कायिक दूसरे वायुकायिक से (द्ववद्वयाए तुल्ले) द्रव्य की अपेक्षा से
तुल्य है (पएसद्वयाए तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य है (ओगा-
हणद्वयाए चउद्वणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित है (ठिईए
तिद्वणवडिए) स्थिति से त्रिस्थानपतित है (वण्ण-गंध-रस-फास-
मइअण्णाण-सुयअण्णाण-अचक्खुदंसण पज्जवेहिं छद्वणवडिए) वर्ण,
गंध, रस, स्पर्श, मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, अचक्षुदर्शन के पर्यायों से
षट्स्थानपतित है ।

(वणस्सइकाइयाणं पुच्छा ?) वनस्पतिकायिकों के विषय में प्रश्न
(गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं
(से केणद्वेणं भंते ! एवं बुच्चइ-वणस्सइकाइयाणं अणंता पज्जवा
पणत्ता ?) हे भगवन् ! किस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि वन-
स्पतिकायिकों के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा ! वणस्सइकाइए वण-
स्सइकाइयस्स) हे गौतम ! एक वनस्पतिकायिक दूसरे वनस्पतिकायिक
से (द्ववद्वयाए तुल्ले) द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है (पएसद्वयाए तुल्ले)

कडेवाय छे के वायुकायिकेना अनन्त पर्याय छे ? (गोयमा ! वाउकाइए वाउकाइयस्स)
गौतम ! वायुकायिक भील वायुकायिकथी (द्ववद्वयाए तुल्ले) द्रव्यनी अपेक्षाअे
तुल्य छे (पएसद्वयाए तुल्ले) प्रदेशेनी अपेक्षाअे तुल्य छे (ओगाहणद्वयाए चउ
द्वणवडिए) अवगाहनाथी चतु स्थान पतित छे (वण्ण गंध रस फास मइअ-
ण्णाण सुय अण्णाण अचक्खुदंसण पज्जवेहिं छद्वणवडिए) वर्ण-गंध-रस
स्पर्श, मत्यज्ञान-श्रुताज्ञान-अचक्षुदर्शनना पर्यायोथी षट्स्थान पतित छे

(वणस्सइ काइयाण पुच्छा ?) वनस्पतिकायिकेना विषयमा प्रश्न (गोयमा !
अणता पज्जवा पणत्ता) गौतम ! अनन्त पर्याय कक्षा छे (से केणद्वेणं भंते !)
हे भगवन् ! क्या हेतुथी अेम कडेवाय छे के वनस्पतिकायिकेना अनन्त पर्याय
छे ? (गोयमा ! वणस्सइकाइए वणस्सइकाइयस्स) गौतम ! अेक वनस्पतिकायिक
भील वनस्पतिकायिकथी (द्ववद्वयाए तुल्ले) द्रव्यनी अपेक्षाअे तुल्य छे

(पएसद्वयाए तुल्ले) प्रदेशेनी अपेक्षाअे तुल्य छे (ओगाहणद्वयाए चउद्वण

मत्यज्ञानश्रुताज्ञानाचक्षुर्दर्शनपर्यवैश्च षट्स्थानपतितः तत् एतेनार्थेन गौतम !
एवमुच्यते—वनस्पतिकायिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ।

टीका—अथ पृथिवीकायिकदीनां पर्यायान् प्ररूपयितुमाह—‘पुढविकाइया णं
भंते ! केवइया पज्जवा पणत्ता ?’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! पृथिवीकायिकानां
कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् उत्तरयति—‘गयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता-
पज्जवा पणत्ता ’ पृथिवीकायिकानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमस्तत्र
कारणं पृच्छति—‘से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा
पणत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन, एवमुच्यते—यत् पृथिवीकायिकानाम्
अनन्ताः पर्यवाः—पर्यायाः, प्रज्ञप्ताः इति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’

प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य है (ओगाहणद्वयाए चउट्ठाणवडिए) अव-
गाहना से चतुःस्थानपतित है (ठिईए, तिट्ठाणवडिए) स्थिति से त्रिस्थान-
पतित है (वण्ण-गंध-रस-फास-मइअण्णाण-सुयअण्णाण-अचक्खु-
दंसणपज्जवेहि च) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान और
अचक्षुदर्शन के पर्यायों से (छट्ठाणवडिए) षट्स्थानपतित है (से एए-
णट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ-वणस्सइकाइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता)
हे गौतम ! इस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि वनस्पतिकायिकों के
अनन्त पर्याय हैं ।

अब पृथ्वीकायिक आदि के पर्यायों से निरूपण किया जाता है—

टीकार्थ—गौतमस्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! पृथ्वीकायिक जीवों
के कितने पर्याय कहे गए हैं भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! अनन्त
पर्याय कहे गए हैं । गौतम कारण पूछते हैं—हे भगवन् ! किस कारण

वडिए) अवगाहना की अपेक्षा में चतुःस्थान पतित छे (ठिईए तिट्ठाण वडिए) स्थिति श्री
त्रयु स्थान पतित छे (वण्ण गंध रस फास मइअण्णाण सुयअण्णाण अचक्खु-सण
पज्जवेहि च) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, अने अचक्षुदर्शना
पर्यायोथी (छट्ठाणवडिए) छ स्थान पतित छे (से एण्णट्टेण गोयमा ! एवबुच्चइ
वणस्सइकाइयाण अणता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अहे हेतुअे अेम कडेवाय
छे के वनस्पतिकायिकेना अनन्त पर्याय छे

टीकार्थ—हुवे पृथ्वीकायिक आदिना पर्यायोतु निरूपयित्तराय छे—श्री गौतम-
स्वामी प्रश्न करे छे भगवन् पृथ्वीकायिक जीवाना डेटला पर्याय कडेवायेला छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! अनन्त पर्याय कडेला छे

श्री गौतमस्वामी कारण पूछे छे—भगवन् ! क्या काण्णवी अेम कडेवाय
छे के पृथ्वीकायिकेना अनन्त पर्याय छे ?

पृथिव्यादीनाञ्च स्थितिरुत्कृष्टेनापि संख्येयवर्षप्रमाणा भवति तस्मात्
नासंख्येयगुणवृद्धिहानिसंभवः, संख्येयासंख्येयभागाभ्यधिकसंख्येयगुणाभ्यधिक
रूपशेषवृद्धिहानि त्रिकसंभवस्तु-एकस्य पृथिवीकायिकस्य परिपूर्णद्वाविंशतिवर्ष-
सहस्राणि स्थितिः, अन्यस्य तु पृथिवीकायिकस्य समयन्यून द्वाविंशतिवर्षसहस्राणि
स्थितिः, तत्र परिपूर्णद्वाविंशतिवर्षसहस्रस्थितिकापेक्षया समयन्यूनद्वाविंशतिवर्ष-
सहस्रस्थितिकोऽसंख्येयभागहीनो भवति, तदपेक्षया अन्यस्तु असंख्येयभागा-
भ्यधिको भवति, तथा एकस्य पृथिवीकायिकस्य परिपूर्णानि द्वाविंशतिवर्षसह-
स्राणि स्थितिः, अन्यस्य अन्तर्मुहूर्तादि न्यूनानि द्वाविंशतिवर्षसहस्राणि, अन्त-
र्मुहूर्तादिकञ्च द्वाविंशतिवर्षसहस्राणां संख्येयतमो भागो भवति, तत्र परिपूर्ण-

होता है और एक मुहूर्त में पैसठ हजार पाँच सौ छत्तीस क्षुल्लक
भव होते हैं । यह कथन सूक्ष्म निगोद की अपेक्षा समझना चाहिये ।

पृथ्वीकायिक आदि की उत्कृष्ट स्थिति भी संख्यात वर्ष की ही
होती है, अतएव असंख्यातगुणा हानि या वृद्धि अर्थात् न्यूनाधिकता
नहीं हो सकती । रह गई संख्यातभाग, असंख्यातभाग और संख्या-
तगुणा वृद्धि-हानि, सो वह इस प्रकार है-एक पृथ्वीकायिक की
स्थिति परिपूर्ण बाईस हजार वर्ष की है और दूसरे की एक समय
कम बाईस हजार वर्ष की । इनमें से परिपूर्ण बाईस हजार वर्ष की
स्थिति वाले की अपेक्षा एक समय कम बाईस हजार की स्थिति
वाला असंख्यातभाग हीन कहलाएगा और दूसरा असंख्यातभाग
अधिक कहा जाएगा । इसी प्रकार एक की परिपूर्ण बाईस हजार की
स्थिति है और दूसरे की अन्तर्मुहूर्त आदि कम बाईस हजार वर्ष की ।

मुहूर्तमा पासठ हजार छत्तीस क्षुल्लक एव थाय छे आ कथन सूक्ष्म निगोदनी
अपेक्षाये समञ्जसु ज्ञेयञ्चे

पृथ्वीकायिक आदिनी उत्कृष्ट स्थिति पशु सख्यात वर्षानी न होय छे,
तेषी न असख्यात शुक्लाहानि अगरे वृद्धि अर्थात् न्यूनाधिकता थर्ष शकती
नथी रद्धिगथे सख्यातभाग, असख्यातभाग अने सख्यातशुक्ला वृद्धि हानि
ते आ प्रकारे छे जेक पृथ्वीकायिकनी स्थिति परिपूर्ण भावीस हजार वर्षनी
छे अने भावीस जेक समय जोछा भावीस हजार वर्षनी तेभनामाथी परि-
पूर्ण भावीस हजार वर्षनी स्थितिवाणानी अपेक्षाये जेक समय जोछा भावीस
वर्षनी स्थितिवाणा असख्यात भाग हीन कहेवाये अने भावीस तेनाथी अस-
ख्यात भाग अधिक कहेवाये जे प्रकारे जेकनी परिपूर्ण भावीस हजारनी

દ્વાવિંશતિવર્ષસહસ્રરિથતિક્રાપેક્ષયા અન્તર્મુહૂર્તાદિન્યુનદ્વાવિંશતિવર્ષસહસ્રસ્થિતિક્રઃ સંખ્યેયમાગહીનો ભવતિ, તદપેક્ષયા પરિપૂર્ણદ્વાવિંશતિવર્ષસહસ્રસ્થિતિક્રઃ સંખ્યેય-માગાભ્યધિકો ભવતિ, એવમેવૈકસ્ય દ્વાવિંશતિવર્ષસહસ્રાણિ સ્થિતિઃ, અન્યસ્યાન્ત-ર્મુહૂર્તમ્, માસો, વર્ષમ્, વર્ષમહસ્રં વા રિથતિઃ, અન્તર્મુહૂર્તાદિક્રઃ નિયતપરિ-માણસંખ્યયા ગુણિતં સત્ દ્વાવિંશતિવર્ષસહસ્રપ્રમાણં ગગતિ, તેન અન્તર્મુહૂર્તાદિ-પ્રમાણસ્થિતિક્રઃ પૃથિવીકાયિક્રઃ પરિપૂર્ણદ્વાવિંશતિવર્ષસહસ્રસ્થિતિક્ર પૃથિવી-કાયિકાન્તરાપેક્ષયા સંખ્યેયગુણહીનો ભવતિ, તદપેક્ષયા તુ પરિપૂર્ણદ્વાવિંશતિવર્ષ-સહસ્રસ્થિતિક્રઃ પૃથિવીકાયિક્રઃ સંખ્યેયગુણાભ્યધિકો बोध्यः तथैवाप्कायिका-दीनामपि चतुरिन्द्रियपर्यन्तानां स्वस्वोत्कृष्टरिथत्यनुपारेण स्थित्यपેક્ષયા ત્રિરથા-

યર્હા અન્તર્મુહૂર્ત્ આદિ વાઈસ હજાર વર્ષ ક્રા સંખ્યાતવાં ભાગ હૈ, અતએવ પૂર્ણ વાઈસ હજાર વર્ષ કી સ્થિતિ વાલે કી અપેક્ષા અન્તર્મુહૂર્ત કમ વાઈસ હજાર વર્ષ વાલા સંખ્યાતભાગ હીન હૈ ઓર ઉસકી અપેક્ષા પૂર્ણ વાઈસ હજાર વર્ષ કી સ્થિતિ વાલા સંખ્યાતભાગ અધિક હૈ । ઈસી પ્રકાર એક પૃથ્વીકાયિક કી વાઈસ હજાર વર્ષ કી સ્થિતિ હૈ ઓર દૂસરે કી અન્તર્મુહૂર્ત્ કી, એક માસ કી, એક વર્ષ કી યા એક હજાર વર્ષ કી સ્થિતિ હૈ । અન્તર્મુહૂર્ત્ આદિ કિસી નિયત સંખ્યા સે ગુણાકાર કરને પર વાઈસ હજાર વર્ષ કી સંખ્યા હોતી હૈ, અતએવ અન્તર્મુહૂર્ત્ આદિ કી આયુ વાલા પૃથ્વીકાયિક પૂર્ણ વાઈસ હજાર વર્ષ કી સ્થિતિ વાલે કી અપેક્ષા સંખ્યાતગુણ હીન હૈ ઓર ઈસકી અપેક્ષા વાઈસ હજાર વર્ષ કી સ્થિતિ વાલા સંખ્યાતગુણ અધિક હૈ ।

સ્થિતિ છે અને ખીલની અન્તર્મુહૂર્ત્ આદિ ઓછા ખાવીસ હજાર વર્ષના અહી અન્તર્મુહૂર્ત્ આદિ ખાવીસ હજાર વર્ષનો સખ્યાતભો ભાગ છે, તેથી જ પૂર્ણ ખાવીસ હજાર વર્ષની સ્થિતિવાળાઓની અપેક્ષાએ અન્તર્મુહૂર્ત્ ઓછા ખાવીસ હજાર વર્ષવાળા સખ્યાત ભાગ હીન છે અને તેની અપેક્ષાએ પૂર્ણ ખાવીસ હજાર વર્ષની સ્થિતિવાળા સખ્યાત ભાગ અધિક છે એ રીતે એક પૃથ્વીકાયિકની ખાવીસ હજાર વર્ષની સ્થિતિ છે અને ખીલની અન્તર્મુહૂર્ત્, એક માસની, એક વર્ષની અથવા એક હજાર વર્ષની સ્થિતિ છે અન્તર્મુહૂર્ત્ આદિ કોઈ નિયત સખ્યાથી શુભાકાર કરવાથી ખાવીસ હજાર વર્ષની સખ્યા થાય છે, તેથી જ અન્તર્મુહૂર્ત્ આદિની આયુષ્યવાળા પૃથ્વીકાયિક પૂર્ણ ખાવીસ હજાર વર્ષની સ્થિતિવાળાની અપેક્ષાએ સખ્યાત શુભાહીન છે અને એની અપે-ક્ષાએ ખાવીસ હજાર વર્ષની સ્થિતિવાળા સખ્યાતશુભા અધિક છે.

नपतितत्व विभावनीयम्, किन्तु 'वण्णेहिं गंनेहिं रसेहिं, फासेहिं' वर्णैः, गन्धैः, रसैः, स्पर्शैः, 'मइ अण्णाणपज्जवेहिं' मत्त्यज्ञानपर्यवैः, 'सुय अण्णाणपज्जवेहिं' श्रुताज्ञानपर्यवैः 'अचक्खुदंसणपज्जवेहिं' अचक्षुदर्शन पर्यवैश्च 'छट्ठाणवडिए' पदस्थानपतितः पृथिवीकायिकोऽवसेयः, तथा च वर्णगन्धरसस्पर्शमत्त्यज्ञानपर्यवश्रुताज्ञानपर्यवा चक्षुदर्शनपर्यवैरेकः पृथिवीकायिकः पृथिवीकायिकान्तरापेक्षया अनन्तभागहीनो वा असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवति इत्याशयः, गौतमः पृच्छति—'आउकाइया णं भंते ! केवहया पज्जवा पणत्ता ?' हे भदन्त ! अप्कायिकानां क्रियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पणत्ता' अप्कायिकानाम् अनन्ताः

हसी प्रकार अप्काय आदि चतुरिन्द्रिय पर्यन्त जीवों की अपनी अपनी स्थिति के अनुसार त्रिस्थानपतित समझ लेना चाहिए ।

मगर पृथ्वीकायिक जीव दूसरे किसी पृथ्वीकायिक की अपेक्षा वर्ण, गंध, रस और स्पर्श पर्यायों की अपेक्षा तथा मत्त्यज्ञान, श्रुताज्ञान तथा अचक्षुदर्शन पर्यायों की अपेक्षा षट्स्थानपतित समझना चाहिए । अतएव कोई पृथ्वीकायिक किसी पृथ्वीकायिक की अपेक्षा अनन्तभाग हीन, असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक और अनन्तगुण अधिक होता है ।

गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! अप्कायिकों के पर्याय कितने हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! अप्कायिकों के अनन्त पर्याय हैं । गौतम कारण पूछते हुए प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! किस

એજ રીતે અપ્કાયિક આદિ ચતુરિન્દ્રિય પર્યન્ત જીવોની પોતપોતાની સ્થિતિના અનુસાર ત્રિસ્થાન પતિત સમજ લેવા નેઇએ

પરન્તુ પૃથ્વીકાયિક જીવ બીજા કોઈ પૃથ્વીકાયિકની અપેક્ષાએ વર્ણ ગંધ રસ અને સ્પર્શ પર્યાયોની અપેક્ષાએ તથા મત્યજ્ઞાન, શ્રુતાજ્ઞાન તથા અચક્ષુ દર્શન પર્યાયોની અપેક્ષાએ ષટ્સ્થાન પતિત સમજવા નેઇએ. તેથીજ કોઈ પૃથ્વીકાયિકની અપેક્ષાએ અનન્ત ભાગ હીન અસંખ્યાત ભાગહીન, સંખ્યાત ભાગહીન સંખ્યાત ગુણ અધિક અસંખ્યાતગુણ અધિક અને અનન્તગુણ અધિક છે

શ્રી ગૌતમસ્વામી પ્રશ્ન કરે છે—ભગવાન્ અપ્કાયિકોના પર્યાય કેટલા છે ?

શ્રી ભગવાન્ ઉત્તર આપે છે—હે ગૌતમ ! અપ્કાયિકોના અનન્ત પર્યાય છે.

શ્રી ગૌતમ ! કારણ પૂછતા પ્રશ્ન કરે છે—ભગવાન્ ! કયા કારણસર એમ કહેવાય છે કે અપ્કાયિકોના અનન્ત પર્યાય છે ?

पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमस्तन ! हेतुं पृच्छति—‘से केणट्टेणं मंते ! एव वुच्चड—
आउकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ केनार्येन—रुथ
तावत्, एवमुच्यते—अप्कायिकानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान्
हेतुं प्रतिपादयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘आउकाइए आउकाइयस्स दव्वट्ट-
याए तुल्ले’ एकः अप्कायिकः अन्यस्य अप्कायिकस्य द्रव्यार्थतया—द्रव्यार्थिक-
नयेन तुल्यो भवति, ‘पएसट्टयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाह-
णट्टयाए चउट्टाणवडिए’ अवगाहनार्थतया चतुः स्थानपतितो भवति तथा
चैकोऽप्कायिकः अप्कायिकान्तरापेक्षया असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभाग-
हीनो वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवतीत्याजयः,
‘ठिईए तिट्टाणाडिए’ स्थित्या—स्थित्यपेक्षया एकोऽप्कायिकः अप्कायिकान्त-
रापेक्षया त्रिस्थानपतितो भवति, तथा चाप्कायिकः अप्कायिकान्तरापेक्षया असं-
ख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणाहीनो वा भवति, असं-
ख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा
भवतीति भावः, किन्तु—‘वण्णगंधरसफास मइ अण्णाण सुयअण्णाण अचक्खु-

हेतु से ऐसा कहा जाता है कि अप्कायिकों के अनन्त पर्याय हैं ?
भगवान् हेतु का प्रतिपादन करते हैं—हे गौतम ! एक अप्कायिक
दूसरे अप्कायिक से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है और प्रदेशों की दृष्टि
से भी तुल्य है । किन्तु अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित है ।
एक अप्कायिक दूसरे अप्कायिक से अवगाहना में असंख्यात भाग
हीन होता है या संख्यात भाग हीन होता है, संख्यातगुणा अधिक
होता है अथवा असंख्यातगुणा अधिक होता है । स्थिति की अपेक्षा
से एक अप्कायिक दूसरे अप्कायिक से त्रिस्थानपतित होता है,
अर्थात् असंख्यात भाग हीन, संख्यात भाग हीन या संख्यातगुण
हीन होता है अथवा असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक

श्री भगवान् हेतुसु प्रतिपादन करे छे—गौतम ! एक अप्कायिक भील
अप्कायिकथी द्रव्यनी दृष्टिसे तुल्य छे अने प्रदेशोनी दृष्टिसे पणु तुल्य छे.
किन्तु अवगाहनानी दृष्टिसे चतुस्थान पतित छे. एक अप्कायिक भील
अप्कायिकथी असंख्यात भागहीन थाय छे अगर संख्यात भागहीन थाय छे.
संख्यातगुणा अधिक थाय छे अथवा असंख्यातगुणा अधिक थाय छे स्थितिनी
अपेक्षासे एक अप्कायिक भील अप्कायिकथी त्रिस्थान पतित थाय छे, अर्थात्
असंख्यात भागहीन, संख्यातभाग हीन अगर संख्यातगुणाहीन थाय छे.
अथवा असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक अगर संख्यातगुणा अधिक

दंसण पञ्जवेहिं छट्टाणवडिण्' वर्ण गंधरसस्पर्शमत्यज्ञान श्रुताज्ञानाचक्षुर्दर्शन-
पर्यवैरेकोष्कायिकः अष्कायिकान्तरापेक्षया षट्स्थानपतितो—अनन्तभागहीनो वा,
असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येय-
गुणहीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा भवति, इत्याशयः, गौतमः पृच्छति—'तेउ-
काइयाणं पुच्छा' तेजःकायिकानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा,
भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणंता पञ्जवा पण्णत्ता' तेजः-
कायिकानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतमस्तत्र कारणं पृच्छति—'से केण-
ट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ' हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन कथं तावत् एवमुक्त-
रीत्या, उच्यते—'तेउकाइयाणं अणंता पञ्जवा पण्णत्ता' तेजःकायिकानाम् अनन्ताः
पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति भगवान् तत्र कारणं प्रतिपादयति—'गोयमा !' हे गौतम !
'तेउकाइए तेउकाइयस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले' तेजःकायिकः एकः, तेजःकायि-
कान्तरस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, 'पएसट्ठयाए तुल्ले' प्रदेशार्थतया तुल्यो

या संख्यातगुण अधिक होता है । किन्तु वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, मत्य-
ज्ञान और श्रुत अज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है, अर्थात्
अनन्तभाग हीन, असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यात
गुण हीन, असंख्यातगुण हीन अथवा अनन्तगुण हीन होता है ।

गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! तेजस्कायिकों के
कितने पर्याय हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! अनन्त पर्याय
हैं । गौतम इसका कारण पूछते हैं—हे भगवन् ! अनन्त पर्याय होने
का क्या कारण है ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! एक तेज-
स्कायिक दूसरे तेजस्कायिक से द्रव्य की दृष्टि से समान है और
प्रदेशों की दृष्टि से भी समान है किन्तु अवगाहना की दृष्टि से

होय छे. किन्तु वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, मत्यज्ञान अने श्रुताज्ञानना पर्यायिणी
षट्स्थान पतित थाय छे अर्थात् अनन्त भागहीन, असंख्यातभाग हीन,
संख्यात भागहीन संख्यातगुणहीन. असंख्यात गुणहीन अथवा अनन्तगुण
हीन थाय छे.

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—भगवन् ! तेजस्कायिकानां कितना पर्याय छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे.

श्री गौतमस्वामी अत्रुं कारण पूछे छे भगवन् अनन्तपर्याय होवानुं
शुं कारण छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—गौतम ! एक तेजस्कायिक अनन्ततेजस्कायिकधी
द्रव्यनी दृष्टिमे समान छे अने प्रदेशोनी दृष्टिमे पण्ण समान छे किन्तु

भवति, 'ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिए' अगगाहनार्थतया-शरीरोच्छ्रयतया तेजःकायिकश्चतुः स्थानपतितो भवति, तथा चैकस्तेजः कायिकस्तेजःकायिकान्तरस्यापेक्षया असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा भवति, 'ठिईए तिट्टाणवडिए' स्थित्या-आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया तेजःकायिक त्रिस्थानपतितो भवति-असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति, 'वण्णगंधरसफास मइअण्णाण सुयअण्णाय अचक्खुदंसण पज्जवेहि य छट्टाणवडिए' वर्णगन्धरसस्पर्शमत्यज्ञानश्रुताज्ञानाचक्षुर्दर्शनपर्यवैश्व, तेजःकाजिस्तेजःकायिकान्तरापेक्षया षट्स्थानपतितो भवति तथा च वर्णगन्धरसस्पर्शमत्यज्ञान श्रुता-

चतुःस्थानपतित होता है, अर्थात् एक तेजस्कायिक दूसरे तेजस्कायिक की अपेक्षा अवगाहना अर्थात् शरीर की ऊंचाई में अगर हीन होता है तो असंख्यात भाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन अथवा असंख्यातगुण हीन होता है और यदि अधिक होता है तो चतुःस्थानपतित अधिक होता है। स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थानपतित होता है, अर्थात् असंख्यात भाग हीन, संख्यात भाग हीन, संख्यातगुण हीन होता है या असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक या संख्यातगुण अधिक होता है।

वर्ण, गंध, रस स्पर्श, मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान और अचक्षुर्दर्शन के पर्यायों की अपेक्षा से एक तेजस्कायिक दूसरे तेजस्कायिक की अपेक्षा षट्स्थानपतित होता है, अर्थात् अनन्तभाग हीन, असंख्यात

अवगाहनानी दिष्टये चतु स्थान पतित थाय छे, अर्थात् एक तेजस्कायिक भील तेजस्कायिकनी अपेक्षाये अवगाहना अर्थात् शरीरनी उचाईमा अगर हीन भने छे तो असंख्यात भाग हीन, संख्यात भाग हीन, संख्यात गुणहीन अथवा असंख्यात गुण हीन थाय छे भने जे अधिक थाय छे तो चतु स्थान पतित अधिक थाय छे. स्थितिनी अपेक्षाये त्रिस्थान पतित थाय छे, अर्थात् असंख्यात भाग हीन, संख्यात भाग हीन, संख्यात गुणहीन थाय छे, अगर असंख्यात भाग अधिक संख्यात भाग अधिक अगर संख्यात गुण अधिक थाय छे.

वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, अने अचक्षुर्दर्शनना पर्यायानी अपेक्षाये एक तेजस्कायिक भील तेजस्कायिकनी अपेक्षाये षट्स्थान पतित भने छे. अर्थात् अनन्त भाग हीन, असंख्यात भाग हीन, संख्यात भाग हीन,

ज्ञानाचक्षुर्दर्शन पर्यवैःरेकस्तेजः कायिकस्तेजः कायिकान्तरापेक्षया अनन्तभाग-
हीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा,
असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा भवति इत्यर्थः, गौतमः पृच्छति-
'वाउकाइयाणं पुच्छा ?' वायुकायिकानां कियन्तः पर्यवा प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छति,
भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'वाउकाइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता'
वायुकायिकानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमस्तत्र कारणं पृच्छति—'से
केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चर' हे भदन्त ! तत् केनार्थेन—कथं तावत्, एवमुच्यते
'वाउकाइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?' वायुकायिकानाम् अनन्ताः पर्यवाः
प्रज्ञप्ताः इति ? भगवान् उत्तरयति—'गोयमा !' हे गौतम ! 'वाउकाइए वाउकाइ-
यस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले' वायुकायिको वायुकायिकान्तरस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो
भवति 'पएसट्ठयाए तुल्ले' प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, 'ओगाहणट्ठयाए चउ-
ट्ठाणवडिए' अवगाहनार्थतया शरीरोच्छ्वयार्थतया वायुकायिकः चतुःस्थानपतितो

भागहीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन, असंख्यातगुण हीन
या अनन्तगुण हीन होता है। इसका कारण तेजस्कायिकों के पर्याय
अनन्त कहे गए हैं।

गौतम-भगवन् ! वायुकायिकों के पर्याय कितने कहे हैं।

भगवान्-गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं।

गौतम-भगवन् ! किस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि वायुका-
यिकों के अनन्त पर्याय कहे हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! एक वायुकायिक दूसरे वायुकायिक की
अपेक्षा द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है और प्रदेशों की अपेक्षा से भी
तुल्य होता है, मगर अवगाहना की अपेक्षा उनमें तुल्यता नहीं
होती। एक वायुकायिक दूसरे वायुकायिक से चतुःस्थानपतित हीन

संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन अगर अनन्त गुण हीन थाय छे. ओ
कारण्ण तेजस्कायिकेना पर्याय अनन्त कहेवा छे

श्री गौतमस्वामी-भगवन् ! वायुकायिकेना पर्याय कहेवा कहेवा छे ?

श्री भगवान्-गौतम ! अनन्त पर्याय कहेवा छे.

श्री गौतमस्वामी-भगवन् कथा डेतुथी ओवु कहेवाय छे के वायुकायिकेना
अनन्त पर्याय कहेवा छे ?

श्री भगवान्-गौतम ! ओक वायुकायिक पील वायुकायिकेनी अपेक्षाओ
तुत्थ छे अने प्रदेशेनी अपेक्षाओ पल्ल तुत्थ अने छे पल्ल अवगाहनानी
अपेक्षाओ तेभनाभा तुत्थता डोती नथी ओक वायुकायिक पील वायुकायिकेनी
थतुस्थान पतित हीन अगर अधिक अने छे. अगर हीन छे तो

भवति, तथा चैको वायुकायिको वायुकायिकान्तरापेक्षया असंख्येयभाग हीनो वा, संख्येयभाग हीनो वा, संख्येयगुण हीनो वा, असंख्येयगुण हीनो वा भवति, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति, 'ठिईए तिट्टाणवडिए' स्थित्या-
आयुः कर्मानुभवरूपया, वायुकायिकत्रिस्थानपतितो भवति, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुण हीनो वा भवति, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, भवति 'वण्णगंधरस-
फासमइअण्णाण सुयअण्णाण अचक्खुदसणपज्जयेहिं छट्टाणवडिए' वर्णगंधरस-
स्पर्शमत्यज्ञानश्रुताज्ञाना चक्षुर्दर्शन पर्यत्रैको वायुकायिको वायुकायिकान्तरा-
पेक्षया षट्स्थानपतितो भवति, अनन्तभागहीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा,

या अधिक होता है। अगर हीन है तो असंख्यात भाग हीन, संख्यात भाग हीन, संख्यातगुण हीन अथवा असंख्यातगुण हीन होता है। यदि अधिक होता है तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक संख्यातगुण अधिक या असंख्यातगुण अधिक होता है।

एक वायुकायिक दूसरे वायुकायिक से स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थानपतित होता है, अर्थात् यदि हीन होता है तो असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन होता है और अधिक होता है तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक या संख्यात गुण अधिक या असंख्यात गुण अधिक होता है।

एक वायुकायिक दूसरे वायुकायिक से वर्ण, गंध, रस, स्पर्श मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान और अचक्षुदर्शन के पर्यायों की अपेक्षा षट्स्थानपतित हीन या अधिक होता है, अर्थात् अनन्तभाग हीन असं-

असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन अथवा असंख्यात गुणहीन होने से अधिक से तो असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक अगर संख्यात गुण अधिक थाय से

एक वायुकायिक भील वायुकायिकथी स्थितिथी अपेक्षासे त्रिस्थान पतित होने से, अर्थात् होने हीन होने से तो असंख्यात भागहीन संख्यातभाग हीन संख्यात गुणहीन, थाय से अधिक होने से तो असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक अगर संख्यात गुण अधिक थाय से

एक वायुकायिक भील वायुकायिकथी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, अने अचक्षुदर्शनना पर्यायानी अपेक्षासे षट्स्थान पतित हीन अगर अधिक थाय से, अर्थात् अनन्तभाग हीन, असंख्यात भागहीन संख्यात

संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुण हीनो वा, अनन्तभागाभ्यधिको वा, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति इत्याशयः, गौतमः पृच्छति—‘वणस्सइकाइयाणं पुच्छा’ वनस्पतिकायिकायिकानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ वनस्पतिकायिकानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमस्तत्र कारणं पृच्छति—‘से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ’ हे भदन्त ! तत् अथ केनाप्येन—कथं तावत्, एवमुक्त्तरीत्या, उच्यते—‘वणस्सइकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?’ वनस्पतिकायिकानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः इति ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘वणस्सइकाइए वणस्सइकाइयस्स दच्चद्वयाए तुल्ले’ वनस्पतिकायिको वनस्पतिकायिकान्तरस्य द्रव्यार्थतया—द्रव्यार्थिक नयेन, तुल्यो भवति ‘पएसद्वयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाह-

ख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन, असंख्यात गुण हीन या अनन्तगुण हीन होता है और जो अधिक है वह इसी प्रकार अधिक होता है। इस कारण वायुकायिकों के अनन्त पर्याय हैं।

गौतम—भगवन् ! वनस्पतिकायिकों के कितने पर्याय हैं ?

भगवान्—गौतम ! अनन्त पर्याय हैं।

गौतम—भगवन् ! किस हेतु से वनस्पतिकायिकों के अनन्त पर्याय कहे गए हैं।

भगवान्—हे गौतम ! एक वनस्पतिकायिक दूसरे वनस्पतिकायिक से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है, प्रदेशों की दृष्टि से भी तुल्य है, मगर शरीर की ऊंचाई रूप अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थान-

लागडीन स भ्यातशुष् डीन, अस भ्यातशुष् डीन, अग्न अनन्त शुष्डीन थाय छे अने ने अधिक छे ते आन रीते अधिक थाय छे. ओ अरशुष् वायुकायिकेनाअनन्तपर्याय छे.

श्री गौतमस्वामी—भगवन् ! वनस्पतिकायिकेना केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! अनन्त पर्याय छे.

श्री गौतमस्वामी—भगवन् कथा हेतुथी वनस्पतिकायिकेना अनन्त पर्याय कहेला छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! ओक वनस्पतिकायिक जीव वनस्पतिकायिकथी ड्यनी दृष्टिसे तुल्य छे, प्रदेशोनी दृष्टिसे पशु तुल्य छे, पशु शरीरनी ओ आध इप अवगाहनानी दृष्टिसे अतु स्थान पतित थाय छे, अर्थात् केध केडनी अपे-

णट्टयाए चउट्टाणवडिए' अवगाहनार्थतया-शरीरोच्छ्रयार्थतया वनस्पतिकायिक-
कश्चतुःस्थानपतितो भवति-असंख्येयभाग हीनो वा, संख्येयभाग हीनो वा,
संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुण हीनो वा भवति, असंख्येयभागाभ्यधिको
वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्य-
धिको वा भवति इत्याशयः, 'ठिईए तिट्टाणवडिए' स्थित्या-आयुः कर्मानु-
भवरूपया, वनस्पतिकायिकस्थानपतितो भवति-असंख्येयभागहीनो वा,
संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा भवति, असंख्येयभागाभ्यधिको वा,
संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा भवतीत्याशयः, 'वण्णगंध-
रसफासमइअण्णाण सुयअण्णाण अचक्खुदंसणपज्जवेहि य उट्टाणवडिए' वर्ण-
पतित होता है, अर्थात् कोई किसी की अपेक्षा असंख्यातभाग हीन
होता है, कोई किसी से सख्यातभाग हीन होता है, कोई किसी से
संख्यातगुण हीन होता है तो कोई किसी से असंख्यातगुण हीन
होता है। यदि अधिक हो तो कोई किसी से असंख्यातभाग अधिक
होता है, संख्यातभाग अधिक होता है, संख्यातगुण अधिक होता है
या असंख्यातगुण अधिक होता है।

आयुर्कर्म के अनुभव रूप स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थानपतित
होता है, अर्थात् असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन या संख्यात
गुण हीन होता है, असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक या
संख्यातगुण अधिक होता है।

वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान और अचक्षुदर्शन के
पर्यायों की अपेक्षा षट्स्थानपतित होता है, अर्थात् एक वनस्पति-

क्षाये असंख्यात भागहीन थाय छे, केअ केअनाथी संख्यात भागहीन थाय
छे, केअ केअनाथी संख्यात गुणहीन थाय छे' तो केअ केअनाथी असंख्यात
गुणहीन अने छे. जे अधिक थाय तो केअ केअनाथी असंख्यात भाग अधिक
थाय छे, संख्यात भाग अधिक थाय छे, संख्यात गुण अधिक थाय छे अगरे
असंख्यात गुण अधिक थाय छे

आयु, कर्मना अनुभव रूप स्थितिनी अपेक्षाये त्रिस्थान पतित अने छे.
अर्थात् असंख्यातभाग हीन संख्यातभाग हीन अगरे संख्यात गुणहीन थाय छे.
असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक अगरे संख्यातगुण अधिक थाय छे.

वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान अने अचक्षुदर्शनना पर्या-
येनी अपेक्षाये षट्स्थान पतित थाय छे अर्थात् एक वनस्पतिकायिक हीन
वनस्पतिकायिकनी अपेक्षाये वर्ण आदि पर्यायेनी दृष्टिअये अनन्त भागहीन

गन्धरसस्पर्शमत्यज्ञानश्रुताज्ञानाचक्षुर्दर्शनपर्यवैश्च वनस्पतिकायिकः पट्टस्थानपतितो भवति तथा च वर्णगन्धादि पर्यवैरेको वनस्पतिकायिको वनस्पतिकायिकान्तरापेक्षया अनन्तभागहीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा भवति, अनन्तभागाभ्यधिको वा, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवति इत्यर्थः, प्रकृतमुपसंहरन्नाह—‘से एणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ’ हे गौतम ! तत्—तस्मात्कारणात् एतेनार्थेन—उपर्युक्तरूपेण, एवमुत्तरीत्या उच्यते—‘वणस्सइकाइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता’ वनस्पतिकायिकानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः—प्रतिपादिताः सन्तीत्याशयः । ॥५०॥ ४॥

द्वीन्द्रियादि पर्यायवक्तव्यता—

मूलम्—वेइंदियाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! वेइंदिए वेइंदियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्टयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए जइ हीणे असंखिज्जइ भागहीणे वा संखिज्जइ भाग हीणे वा संखिज्जइ गुणहीणे वा असंखिज्जइ गुणहीणे वा अह अब्भहिए

कायिक दूसरे वनस्पतिकायिक की अपेक्षा वर्ण आदि पर्यायों की दृष्टि से अनन्तभाग हीन, असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन, असंख्यातगुण हीन या अनन्तगुण हीन होता है और यदि अधिक हो तो अनन्तभाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक, असंख्यातगुण अधिक अथवा अनन्तगुण अधिक होता है। इस कारण, हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि वनस्पतिकायिक जीवों के अनन्त पर्याय हैं ॥४॥

असंख्यातभाग हीन, संख्यात भागहीन, संख्यात शुष्णहीन, असंख्यात शुष्ण हीन अगर अनन्त शुष्णहीन थाय छे अने ने अधिक थाय तो अनन्त भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात शुष्ण अधिक असंख्यातशुष्ण अधिक अथवा अनन्तशुष्ण अधिक होय छे. अे शरणे हे गौतम ! अेषु कहेवाय छे के वनस्पति कायिक लोकोना अनन्त पर्याय छे ॥ ४ ॥

असंखिज्जङ्गभाग अब्भहिए वा संखिज्जङ्गभाग अब्भहिए वा
 संखिज्जगुणमब्भहिए वा असंखिज्जगुणमब्भहिए वा ठिईए
 तिट्ठणवडिए वण्णगंधरसफास आभिणिबोहिवनाण सुयनाण
 मइअण्णाण सुय अण्णाण अचक्खुदंसण पज्जवेहि य छट्ठण-
 वडिए एवं तेइंदियावि एवं चउरिंदिया वि नवरं दो दंसणा
 चक्खुदंसणं अचक्खुदंसणं पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जवा
 जहा नेरइयाणं तथा भाणियव्वा मणुस्साणं भंते ! केवइया
 पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता से केण-
 ट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ मणुस्साणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?
 गोयमा ! मणूसे मणूसस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले पएसट्ठयाए तुल्ले
 ओगाहणट्ठयाए चउट्ठणवडिए वण्णगंधरसफासआभिणिबोहि-
 यनाण सुयनाण ओहिनाण मणपज्जवनाण पज्जवेहिं छट्ठणव-
 डिए केवलनाणपज्जवेहिं तुल्ले तिहिं दंसणेहिं छट्ठणवडिए,
 केवल दंसणपज्जवेहि तुल्ले, वाणमंतरा ओगाहणट्ठयाए ठिईए
 चउट्ठणवडिया, वण्णाइहिं छट्ठणवडिया जोइसिया वेमाणिया
 वि, एवं चेव नवरं ठिईए तिट्ठणवडिया । सू०५॥

छाया-द्वीन्द्रियाणां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः तत् केनार्थेन
 भदन्त ! एवमुच्यते-द्वीन्द्रियाणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः? गौतम ! द्वीन्द्रियो

द्वीन्द्रियादि पर्याय वक्तव्यता-

शब्दार्थ—(वेइंदियाणं पुच्छा) द्वीन्द्रियों के विषय में प्रश्न—उनके
 पर्याय कितने हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम !
 अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ-वेइंदियाणं
 अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा जाता

द्वीन्द्रियादि पर्याय वक्तव्यता

शब्दार्थ—(वेइंदियाणं पुच्छा) द्वीन्द्रियोना विषयमा प्रश्न तेभना पर्याय केट्ठा
 छे ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) छे गौतम ! अनन्त पर्याय क्ख्या छे ? (से
 केणट्ठेणं भंते ! एव बुच्चइ वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) छे भगवन् । शा ३१३

गन्धरसस्पर्शमन्त्यज्ञानश्रुताज्ञानाचक्षुर्दृशनपर्यवेक्ष वनस्पतिक्रायिकः पट्टस्थानपतितो भवति तथा च वर्णगन्धादि पर्यायरेहो ननस्पतिक्रायिको वनस्पतिक्रायिकान्तरापेक्षया अनन्तभागहीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा भवति, अनन्तभागाभ्यधिको वा, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवति इत्यर्थः, प्रकृतमुपसंहरन्नाह—‘से एणट्ठणं गोयमा ! एवं बुच्चइं हे गौतम ! तत्-तस्मात्कारणात् एतेनार्येन-उपर्युक्तरूपेण, एवमुक्तरीत्या उच्यते—‘वणस्सइकाइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता’ वनस्पतिक्रायिकानाम् अनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः—प्रतिपादिताः सन्तीत्याशयः । ॥६००॥ ४॥

दीन्द्रियादि पर्यायवक्तव्यता—

मूलम्—वेइंदियाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! वेइंदिए वेइंदियस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले पएसट्ठयाए तुल्ले ओगाहणट्ठयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए जइ हीणे असंखिज्जइ भागहीणे वा संखिज्जइभाग हीणे वा संखिज्जइगुणहीणे वा असंखिज्जइगुणहीणे वा अह अब्भहिए

कायिक दूसरे वनस्पतिकायिक की अपेक्षा वर्ण आदि पर्यायों की दृष्टि से अनन्तभाग हीन, असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन, असंख्यातगुण हीन या अनन्तगुण हीन होता है और यदि अधिक हो तो अनन्तभाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक, असंख्यातगुण अधिक अथवा अनन्तगुण अधिक होता है। इस कारण, हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि वनस्पतिकायिक जीवों के अनन्त पर्याय हैं ॥४॥

असंख्यातभाग हीन, संख्यात भागहीन, संख्यात शुष्णहीन, असंख्यात शुष्ण हीन अगर अनन्त शुष्णहीन थाय छे अने जे अधिक थाय तो अनन्त भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात शुष्ण अधिक असंख्यातशुष्ण अधिक अथवा अनन्तशुष्ण अधिक डोय छे जे कारणे छे गौतम ! जेपु कडेवाय छे के वनस्पति कायिक एवोना अनन्त पर्याय छे ॥ ४ ॥

पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमस्तत्र ! हेतुं पृच्छति—‘से केणट्टेणं भंते ! एव युच्चइ—
आउकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अत्र केनार्थेन—अत्र
तावत्, एवयुच्यते—अप्कायिकानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान्
हेतुं प्रतिपादयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘आउकाइए आउकाइयस्स दच्चट्ट-
याए तुल्ले’ एकः अप्कायिकः अन्यस्य अप्कायिकस्य द्रव्यार्थतया—द्रव्यार्थिक-
नयेन तुल्यो भवति, ‘पएसट्टयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाह-
णट्टयाए चउट्टाणवडिए’ अवगाहनार्थतया चतुः स्थानपतितो भवति तथा
चैकोऽप्कायिकः अप्कायिकान्तरापेक्षया असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभाग-
हीनो वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवतीत्याजयः,
‘ठिईए तिट्टाणाडिए’ स्थितया—स्थित्यपेक्षया एकोऽप्कायिकः अप्कायिकान्त-
रापेक्षया त्रिस्थानपतितो भवति, तथा चाप्कायिकः अप्कायिकान्तरापेक्षया असं-
ख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणाहीनो वा भवति, असं-
ख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा
भवतीति भावः, किन्तु—‘वण्णगंधरसफास मइ अण्णाण सुयअण्णाण अचक्खु-

हेतु से ऐसा कहा जाता है कि अप्कायिकों के अनन्त पर्याय हैं ?
भगवान् हेतु का प्रतिपादन करते हैं—हे गौतम ! एक अप्कायिक
दूसरे अप्कायिक से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है और प्रदेशों की दृष्टि
से भी तुल्य है । किन्तु अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित है ।
एक अप्कायिक दूसरे अप्कायिक से अवगाहना में असंख्यातभाग
हीन होता है या संख्यातभाग हीन होता है, संख्यातगुणा अधिक
होता है अथवा असंख्यातगुणा अधिक होता है । स्थिति की अपेक्षा
से एक अप्कायिक दूसरे अप्कायिक से त्रिस्थानपतित होता है,
अर्थात् असंख्यात भाग हीन, संख्यातभाग हीन या संख्यातगुण
हीन होता है अथवा असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक

श्री भगवान् हेतुनु प्रतिपादन करे छे—गौतम ! ओक अप्कायिक णील
अप्कायिकथी द्रव्यनी दृष्टिओ तुल्य छे अने प्रदेशोनी दृष्टिओ पणु तुल्य छे.
किन्तु अवगाहनानी दृष्टिओ अतु स्थान पतित छे. ओक अप्कायिक णील
अप्कायिकथी असंख्यात लागडीन थाय छे अगर संख्यात लागडीन थाय छे.
संख्यातगुणा अधिक थाय छे अथवा असंख्यातगुणा अधिक थाय छे स्थितिनी
पेक्षाओ ओक अप्कायिक णील अप्कायिकथी त्रिस्थान पतित थाय छे, अर्थात्
“ हीन, संख्यातभाग हीन अगर संख्यातगुणहीन थाय छे.
ग अधिक, संख्यातभाग अधिक अगर संख्यातगुण अधिक

गन्धरसस्पर्शमत्स्यज्ञानश्रुताज्ञानाचक्षुर्दृशनपर्यवेश्च वनस्पतिक्रायिकः पट्टस्थानपतितो भवति तथा च वर्णगन्धादि पर्णवैरेको वनस्पतिक्रायिको वनस्पतिक्रायिका-न्तरापेक्षया अनन्तभागहीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा भवति, अनन्तभागाभ्यधिको वा, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्य-धिको वा भवति इत्यर्थः, प्रकृतपुत्रसंहरन्नाह—‘से एरणद्वणं गोयमा ! एवं बुच्चई’ हे गौतम ! तत्—तस्मात्कारणात् एतेनार्थेन—उपर्युक्तरूपेण, एवमुक्तरीत्या उच्यते—‘वणस्तइकाइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता’ वनस्पतिक्रायिकानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः—प्रतिपादिताः सन्तीत्याशयः । ॥४००॥ ४॥

द्वीन्द्रियादि पर्यायवक्तव्यता—

मूलम्—वेइंदियाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चई वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! वेइंदिए वेइंदियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले पएस्तट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्टयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए जइ हीणे असंखिज्जइ भागहीणे वा संखिज्जइभाग हीणे वा संखिज्जइगुणहीणे वा असंखिज्जइगुणहीणे वा अह अब्भहिए

कायिक दूसरे वनस्पतिक्रायिक की अपेक्षा वर्ण आदि पर्यायों की दृष्टि से अनन्तभाग हीन, असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन, असंख्यातगुण हीन या अनन्तगुण हीन होता है और यदि अधिक हो तो अनन्तभाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक अथवा अनन्तगुण अधिक होता है। इस कारण, हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि वनस्पतिक्रायिक जीवों के अनन्त पर्याय हैं ॥४॥

असंख्यातभाग हीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुण हीन अगर अनन्त गुणहीन थाय छे अने जे अधिक थाय तो अनन्त भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक असंख्यातगुण अधिक अथवा अनन्तगुण अधिक होय छे जे कारणे हे गौतम ! अपेक्षु कहेवाय छे के वनस्पति कायिक जीवोना अनन्त पर्याय छे ॥ ४ ॥

असंखिज्जइभाग अब्भहिए वा संखिज्जइभाग अब्भहिए वा
 संखिज्जगुणमब्भहिए वा असंखिज्जगुणमब्भहिए वा ठिईए
 तिट्ठाणवडिए वण्णगंधरसफास आभिणिबोहिवनाण सुयनाण
 मइअण्णाण सुय अण्णाण अचक्खुदंसण पज्जवेहि य छट्ठाण-
 वडिए एवं तेइंदियावि एवं चउरिंदिया वि नवरं दो दंसणा
 चक्खुदंसणं अचक्खुदंसणं पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जवा
 जहा नेरइयाणं तहा भाणियव्वा मणुस्साणं भंते ! केवइया
 पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता से केण-
 ट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ मणुस्साणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?
 गोयमा ! मणूसे मणूसस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले पएसट्ठयाए तुल्ले
 ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए वण्णगंधरसफासआभिणिबोहि-
 यनाण सुयनाण ओहिनाण मणपज्जवनाण पज्जवेहिं छट्ठाणव-
 डिए केवलनाणपज्जवेहि तुल्ले तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिए,
 केवल दंसणपज्जवेहिं तुल्ले, वाणमंतरा ओगाहणट्ठयाए ठिईए
 चउट्ठाणवडिया, वण्णाइहिं छट्ठाणवडिया जोइसिया वेमाणिया
 वि, एवं चेव नवरं ठिईए तिट्ठाणवडिया । सू०५॥

छाया—द्वीन्द्रियाणा पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः तत् केनार्थेन
 भदन्त ! एवमुच्यते—द्वीन्द्रियाणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः? गौतम ! द्वीन्द्रियो

द्वीन्द्रियादि पर्याय वक्तव्यता—

शब्दार्थ—(वेइंदियाणं पुच्छा) द्वीन्द्रियों के विषय में प्रश्न—उनके
 पर्याय कितने हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम !
 अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—वेइंदियाणं
 अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा जाता

द्वीन्द्रियादि पर्याय वक्तव्यता

शब्दार्थ—(वेइंदियाण पुच्छा) द्वीन्द्रियों के विषय में प्रश्न—तेमना पर्याय कितने
 हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से
 केणट्ठेणं भंते ! एव बुच्चइ वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! शा ३।३।३

द्वीन्द्रियस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया स्याद्धीनः, स्यात्तुल्यः, स्यादभ्यधिकः, यदा हीनः, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा अथाभ्यधिकः असंख्येयमागाभ्यधिको वा, संख्येयमागाभ्यधिको वा संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शाभिनिबोधिकज्ञानश्रुतज्ञानम-

है कि द्वीन्द्रियों के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा ! वेहंदिए वेइ दियस्स दब्बट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! द्वीन्द्रिय द्वीन्द्रिय से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है (एएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों से तुल्य है (ओगाहणट्टयाए सिय हीणे, सिय तुल्ले सिय अब्भहिए) अवगाहनां से स्यात् हीन, स्यात् तुल्य, स्यात् अधिक होता है (जइ हीणे) यदि हीन है तो (असंखेज्जइभाग हीणे वा) असंख्यात भाग हीन होता है (संखेज्जइभाग हीणे वा) या संख्यातभाग हीन होता है (संखेज्जइगुण हीणे वा) या संख्यातगुण हीन होता है (असंखेज्जइगुणहीणे वा) अथवा असंख्यातगुण हीन होता है (अइ अब्भहिए) अगर अधिक हो तो असंखेज्जइभाग अब्भहिए वा) असंख्यातभाग अधिक होता है (संखेज्जइभाग अब्भहिए वा) संख्यातभाग अधिक होता है (संखिज्जइगुणमव्भहिए वा) संख्यातगुण अधिक होता है (असंखिज्जइगुणमव्भहिए वा) अथवा असंख्यातगुण अधिक होता है ।

(ठिईए तिट्ठाणवडिए) स्थिति की अपेक्षा त्रिस्थानपतित है (वण्ण-

ओम इडेवाथ छे के द्वीन्द्रियोना अनन्त पर्याय छे ? (गोयमा ! वेहंदिए वेइदियस्स दब्बट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! द्वीन्द्रिय द्वीन्द्रियथी द्रव्यनी दृष्टिसे तुल्य छे (एएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशार्थी तुल्य छे (ओगाहणट्टयाए, सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए) अवगाहनाथी स्यात् हीन, स्यात् तुल्य, स्यात् अधिक भने छे (जइ हीणे) जे हीन छे तो (असंखेज्जइभागहीणेवा) असंख्यात भाग हीन थाय छे (संखेज्जइभागहीणे वा) संख्यात भाग हीन भने छे (संखेज्जइ गुणहीणे वा) अगर संख्यात-गुण हीन थाय छे (असंखेज्जइ गुणहीणे वा) अथवा असंख्यात गुणहीन थाय छे (अइ अब्भहिए) अगर अधिक थाय छे (असंखेज्जइ भाग अब्भहिए वा) असंख्यात भाग अधिक थाय छे (संखिज्जइ भाग अब्भहिए वा) संख्यातभाग अधिक थाय छे (संखिज्जइ गुण अब्भहिए वा) संख्यातगुण अधिक भने छे (असंखिज्जइ गुणमव्भहिए वा) अथवा असंख्यात गुण अधिक भने छे

(ठिईए तिट्ठाणवडिए) स्थितिनी अपेक्षासे त्रिस्थान पतित छे (वण्ण गधरस-

त्यज्ञानश्रुतज्ञानाचक्षुर्दर्शनपर्यवैश्च षट्स्थानपतितः, एवं त्रीन्द्रिया अपि, एवं चतुरिन्द्रिया अपि, नवरं द्वे दर्शने, चक्षुर्दर्शनम्, अचक्षुर्दर्शनम्, पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पर्यवा यथा नैरयिकाणां तथा भणितव्याः, मनुष्याणां भदन्त ! क्रियन्तः पर्यवाः प्र १ः? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त! एवमुच्यते—मनुष्याणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः? गौतम ! मनुष्यो मनुष्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः,

गंध रस फास—आभिणिबोहियणाण—सुयणाण—मइअण्णाण—सुयअण्णाण—अचक्खुदंसण पज्जवेहिं य) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, मत्यज्ञान, श्रुत—अज्ञान, अचक्षुदर्शन पर्यायों से (छट्ठाणवडिए) षट्स्थानपतित होता है ।

(एवं तेइंदिया वि) इसी प्रकार त्रीन्द्रिय (एवं चउरिंदिया वि) इसी र चौइन्द्रिय भी (नवरं) विशेष यह है कि (दो दंसणा—चक्खुदंसणं अचक्खुदंसणं) दो दर्शन—चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन ।

(पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जवा) पंचेन्द्रिय तिर्यचों के पर्याय (जहा नैरइयाणं) नारकों के समान (तहा भाणियव्वा) वैसे ही कहने चाहिये ।

(मणुस्साणं भंते ! केवइया पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! मनुष्यों के कितने पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ मणुस्साणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता) किस अपेक्षा से हे भगवन् ! ऐसा कहा जाता है कि मनुष्यों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा !)

फास आभिणिबोहियणाण सुयणाण मइअण्णाण सुयअण्णाण अचक्खुदंसण पज्जवेहिय) वर्णु गंध रस स्पर्श, आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान मत्यज्ञान श्रुताज्ञान, अचक्षुदर्शन पर्यायोथी (छट्ठाण वडिए) षट्स्थान पतित थाय छे

(एव तेइंदियावि) ये प्रकारे त्रीन्द्रिय पथु (एवं चउरिंदिया वि) ये शीते चतुरिन्द्रिय पथु (नवरं) विशेषता येके (दो दंसणा चक्खुदंसण अचक्खुदंसणं दर्शन ये—चक्षुदर्शन अने अचक्षुदर्शन

(पंचिंदिय तिरिक्खजोणियाण पज्जवा) पंचेन्द्रिय तिर्यथेना पर्याय (जहा नैरइयाणं) नारकेना समान (तहा भाणियव्वा) तेवाळ कडेवा नेधये

(मणुस्साण भंते ! केवइया पज्जवा पण्णत्ता) हे भगवन् ! मनुष्येना केटला पर्याय कथा छे ? (गोयमा ! अण ता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कथा छे (से वेणट्टेण भंते ! एवं वुच्चइ मणुस्साण अणंता पज्जवा पण्णत्ता) कथ अपेक्षाये भगवन् ! येम कडेवाय छे के मनुष्येना अनन्त पर्याय कथा छे ? (गोयमा !)

प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थान पतितो वर्णगन्धरसस्पर्शाभिनिबोधिकज्ञानध्रुतज्ञानावधिज्ञान मनःपर्यवज्ञानकेवलज्ञानपर्यवैस्तुल्यस्त्रिभिर्दर्शनैः षट्स्थानपतितः, केवलदर्शनपर्यवैस्तुल्यः, वानव्यन्तरा अवगानार्थतया स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णादिभिः षट्स्थानपतिताः, ज्योतिष्काः वैमानिका अपि एवञ्चैव, नवरं स्थित्या त्रिस्थानपतिताः॥

गौतम ! (मणूसे मणूसस दृष्ट्याए तुल्ले) मनुष्य मनुष्य से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है (पएसट्ट्याए तुल्ले) प्रदेशों से तुल्य है (ओगाहणट्ट्याए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित है । (ठिईए चउट्टाणवडिए-स्थिति से चतुःस्थानपतित है । (वण्ण-गंध-रस-फास-आभिणिबोहियनाण-सुयनाण-ओहिनाण-मणपज्जवनाण-पज्जवेहिं (छट्टाणवडिए) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित है (केवलणाणपज्जवेहिं तुल्ले) केवलज्ञान के पर्यायों से तुल्य है (तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए) तीन अज्ञान तीन दर्शनों से षट्स्थानपतित है (केवलदंसण पज्जवेहिं तुल्ले) केवलदर्शन के पर्यायों से तुल्य है ।

(वाणमंतरा ओगाहणट्ट्याए ठिईए चउट्टाणवडिया) वानव्यन्तर देव अवगाहना और स्थिति से चतुःस्थानपतित हैं (वण्णाइहिं छट्टाणवडिया) वर्ण आदि के पर्यायों से षट्स्थानपतित हैं (जोइसिया वेमाणिया वि एवं चेव) ज्योतिष्क, वैमानिक भी इसी प्रकार (नवरं

डे गौतम ! (मणूसे मणूसस दृष्ट्याए तुल्ले) मनुष्य मनुष्य की अपेक्षा तुल्य है (पएसट्ट्याए तुल्ले) प्रदेशों से तुल्य है, (ओगाहणट्ट्याए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थान पतित है (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थान पतित है (वण्णगंधरसफास आभिणिबोहियनाण सुयणाण ओहिनाण मणपज्जवनाणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) वर्ण गंध रस, स्पर्श, आभिनिबोधिकज्ञान श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञानना पर्यायों से षट्स्थान पतित है (केवलणाणपज्जवेहिं तुल्ले) केवलज्ञानना पर्यायों से तुल्य है (तिहिं अण्णाणेहिं छट्टाणवडिए) तीन अज्ञान त्रय दर्शन से षट्स्थान पतित है (केवलदंसणपज्जवेहिं तुल्ले) केवल दर्शनना पर्यायों से तुल्य है

(वाणमंतरा ओगाणट्ट्याए ठिईए चउट्टाणवडिया) वानव्यन्तर देव अवगाहना से चतुःस्थान पतित है (वण्णाइहिं छट्टाणवडिया) वर्ण आदिना पर्यायों से छ स्थान पतित है (जोइसिया वेमाणिया वि एवं चेव) ज्योतिष्क, वैमानिक पण्येन प्रकारे (नवरं ठिईए चउट्टाणवडिया) विशेषता से छ है

टीका-अथ द्वीन्द्रियादीनां पर्यायान् प्ररूपयितुमाह-‘वेइंदियाणं पृच्छा’ द्वीन्द्रियाणां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः? इति पृच्छा, भगवान् उत्तरयति-‘गोयमा!’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पणत्ता’ द्वीन्द्रियाणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमस्तत्र कारणं पृच्छति-‘से केणट्ठेणं भंने ! एवं वुच्चइ वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता? हे भदन्त ! तत्-अथ, केनार्थेन कथं तावत्, एवम्-उक्तरोत्या, उच्यते-द्वीन्द्रियाणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः? इति, भगवान् उत्तरयति-‘गोयमा!’ हे गौतम ! ‘वेइंदिए वेइंदियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले’ द्वीन्द्रियस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, ‘पएसट्टयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाहणट्टयाए’ अवगाहनार्थतया-शरीरोच्छ्रयार्थतया ‘सिय हीणे’

ठिईए तिट्ठाणवडिया) विशेषता यह कि स्थिति से त्रिस्थानपतित हैं ।

अब द्वीन्द्रिय आदि जीवों के पर्यायों की प्ररूपणा की जाती है-

टीकार्थ-सर्व प्रथम द्वीन्द्रियों के विषय में पृच्छा की गई है कि हे भगवन् ! द्वीन्द्रिय जीवों के कितने पर्याय हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं-हे गौतम ! द्वीन्द्रियों के अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम पुनः प्रश्न करते हैं-हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहते हैं कि द्वीन्द्रियों के अनन्त पर्याय हैं ?

भगवान्-गौतम ! एक द्वीन्द्रिय जीव दूसरे जीवों से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है अर्थात् सभी द्वीन्द्रिय जीव समान रूप से एक-एक जीव द्रव्य हैं, इस प्रकार द्रव्य की दृष्टि से उनमें कोई विशेषता नहीं है । प्रदेशों की दृष्टि से भी द्वीन्द्रिय-द्वीन्द्रिय में कोई विशेषता नहीं है, सब समान असरूपात् प्रदेशी है । मगर अवगाहना अर्थात्

स्थितिथी त्रिस्थान पतित छे

टीकार्थ-हुवे द्वीन्द्रिय आदि लुवेना पर्यायनी प्ररूपणा कराय छे सर्व प्रथम द्वीन्द्रिय लुवेना विषयमा पृच्छा कराछ छे के भगवन् ! द्वीन्द्रिय लुवेना केटवा पर्याय छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे-हे गौतम ! द्वीन्द्रियना अनन्त पर्याय छे

श्री गौतमस्वामी पुन प्रश्न करे छे-कथा कारणे ज्येभ कडे छे के द्वीन्द्रियेना अनन्त पर्याय छे ?

श्री भगवान्-गौतम ! ज्येक द्वीन्द्रिय लुवणीना द्वीन्द्रिय लुवथी द्रव्यनी दृष्टिजे तुल्य छे अर्थात् अथा द्वीन्द्रिय लुव समान रूपथी ज्येक ज्येक लुव द्रव्य छे ज्ये प्रकारे द्रव्यनी दृष्टिजे तेमनामा विशेषता नथी प्रदेशेनी दृष्टि ज्ये पथु द्वीन्द्रिय द्वीन्द्रियमा केछ विशेषता छे नहि अथा समान रूपथात्

स्याद्धीनो भवति, 'सिय तुल्ले' स्यात्—कदाचित् तुल्यो भवति, 'सिय अब्महिए' स्यात्—कदाचिद् अभ्यधिको भवति, तत्र 'जइ हीणे असंखिज्जइ भागहीणे वा' यदा हीनो विवक्षितस्तदा असंख्येयभागहीनो वा भवति, 'संखिज्जइ भागहीणे वा' संख्येयभागहीनो वा भवति, 'संखिज्जइ गुणहीणे वा' संख्येयगुणहीनो वा भवति, 'असंखिज्जइ गुणहीणे वा' असंख्येय गुणहीनो वा भवति, 'अह अब्महिए असंखिज्जभाग अब्महिए वा' अथाभ्यधिको यदा विवक्षितस्तदा असंख्येय-भागाभ्यधिको वा भवति, 'संखिज्जइ भाग अब्महिए वा' संख्येयभागाभ्यधिको वा भवति, 'संखिज्जगुणमब्महिए वा' संख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति, 'असंखिज्जगुणमब्महिए वा' असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति, 'ठिईए तिट्ठाणवडिए' स्थित्या—आयुः कर्मानुभवलक्षण स्थित्यपेक्षेत्यर्थः त्रिस्थानपतितो भवति तथा चैको द्वीन्द्रियो द्वीन्द्रियान्तरापेक्षया असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा भवति, असंख्येयभागाभ्यधिको वा भवति, संख्येय-

शरीर की ऊंचाई सब की समान नहीं होती। कोई किसी से हीन होता है, कोई किसी से तुल्य होता है और कोई किसी से अधिक होता है। यदि हीन हो तो असंख्यातभाग हीन होता है, संख्यात-भाग हीन होता है, संख्यातगुण हीन होता है अथवा असंख्यातगुण हीन होता है। अगर अधिक होता है तो असंख्यातभाग अधिक होता है, संख्यातभाग अधिक होता है, संख्यातगुण अधिक होता है अथवा असंख्यातगुण अधिक होता है।

स्थिति की अपेक्षा त्रिस्थानपतित है, अर्थात् एक द्वीन्द्रिय दूसरे द्वीन्द्रिय की अपेक्षा स्थिति की दृष्टि से असंख्यातभाग हीन होता है, संख्यातभाग हीन होता है अथवा संख्यातगुण हीन होता है।

प्रदेशी छे परन्तु अवगाहना अर्थात् शरीरनी छे काष्ठ अधानी सरभी नहीं होती काष्ठ काष्ठनाथी हीन होय छे, काष्ठ काष्ठनाथी तुल्य होय छे, अने काष्ठ काष्ठ-नाथी अधिक होय छे. जे हीन होय तो असंख्यातभाग हीन अने छे. संख्यातभाग हीन अने छे, संख्यातगुण हीन थाय छे, अथवा असंख्यात गुण हीन होय छे अगर अधिक होय छे तो असंख्यात भाग अधिक होय छे, संख्यात भाग अधिक होय छे, संख्यात गुण अधिक होय छे अथवा असंख्यात गुण अधिक होय छे

स्थितिनी अपेक्षाये त्रिस्थान पतित थाय छे. अर्थात् अके द्वीन्द्रिय भील द्वीन्द्रियनी अपेक्षाये स्थितिनी दृष्टिअे असंख्यात भागहीन थाय छे संख्यात भाग हीन थाय छे अथवा असंख्यात गुण हीन थाय छे अने जे

भागाभ्यधिको वा भवति, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति, इत्याशयः, 'वर्णगंधरसफासआभिनिवोहियनाणसुयनाणमइअण्णाणसुयअघ्णाणअनरवुदंसण-पज्जवेहि य छट्ठाणवडिह' वर्णगन्धरसस्पर्शाभिनिवोधिकज्ञानश्रुतज्ञानमत्यज्ञान श्रुताज्ञानाचक्षुर्दर्शनपर्यवैश्व द्वीन्द्रियो द्वीन्द्रियान्तरापेक्षया पट् स्थानपतितो भवति - अनन्तभागहीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुण-हीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा भवति, अनन्तभागाभ्य-धिको वा, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणा-भ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवति इत्या-शयः, 'एवं तेइंदियावि' एवम्-पूर्वोक्तरीत्या, त्रीन्द्रिया अपि, 'एवं चउरिंदियावि' एवम्-उपर्युक्तरीत्या, चतुरिन्द्रिया अपि द्वीन्द्रियवदेवावसेयाः, किन्तु 'नवरं दोदंसणा चक्खुदंसणं, अचक्खुदंसणं' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु द्वे दर्शने चतुरिन्द्रियाणां भवतः-चक्षुर्दर्शनञ्च, अचक्षुर्दर्शनञ्चेति, 'पंचिदियतिरिक्ख

और यदि अधिक हो तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक अथवा संख्यातगुण अधिक होता है ।

वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आभिनिवोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान और अचक्षुदर्शन के पर्यायों से पट्स्थानपतित होता है, अर्थात् एक द्वीन्द्रिय दूसरे द्वीन्द्रिय से अनन्तभाग हीन, असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन, असं-ख्यातगुण हीन अथवा अनन्तगुण हीन होता है । इसी तरह अधिक का भी झ लेना ।

इसी प्रकार त्रीन्द्रिय जीवों के विषय में भी समझ लेना चाहिए । चतुरिन्द्रिय जीवों के विषय में भी ऐसा ही कहना चाहिए, मगर चौद्विन्द्रियों में चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शन यों दो दर्शन कहना

अधिक होय तो असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक अथवा संख्यात गुण अधिक भने छे

वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आभिनिवोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान, मतिज्ञान, श्रुतअज्ञान, अने अक्षुदर्शनना पर्यायथी छ स्थान पतित भने छे अर्थात् एक द्वीन्द्रिय भील द्वीन्द्रियथी अनन्त भाग हीन, असंख्यात भाग हीन, संख्यात भाग हीन, संख्यात गुण हीन, असंख्यात गुण हीन अथवा अनन्त गुण हीन थाय छे ऐव प्रकारे अधिक पणु समञ्ज लेवा.

आ रीते द्वीन्द्रिय लोवोना विषयमा पणु समञ्ज लेवु नेधञ्जे. चतुरि-न्द्रिय लोवोना विषयमा पणु ऐम न् कडेवु नेधञ्जे. परन्तु चतुरिन्द्रियमा प्र० ७७

જોણિયાણં પજ્જવા જહા નેરઙ્કયાણં તઠ્ઠા માણિયવ્વા' પચ્ચેન્દ્રિયતિર્યગ્ગ્યોનિકાણં પર્યવાઃ યથા નૈરઙ્કાણાં પ્રતિપાદિતાસ્તથા ભણિતવ્વાઃ-પ્રતિપાદયિતવ્વાઃ, ગૌતમઃ પૃચ્છતિ-'મણુસ્સાણં ભંને ! કેવઙ્કયા પજ્જવા પળ્લણ્ણત્તા ?' હે ભદન્ત ! મનુષ્યાણાં ક્રિયન્તઃ પર્યવાઃ પ્રજ્ઞપ્પાઃ ? ભગવાન્ ઉત્તરયતિ 'ગોયમા ! હે ગૌતમ ! 'અળંતા પજ્જવા પળ્લણ્ણત્તા' મનુષ્યાણમ્ અનન્તાઃ પર્યવાઃ પ્રજ્ઞપ્પાઃ, ? ગૌતમઃ પૃચ્છતિ-'સે કેળ્લણ્ણેણં ભંને ! एवं बुद्धि' હે ભદન્ત ! ત્ત-અથ, કેનાર્યેન-કથં તાવત્, एवमुच्यते-'મણુસ્સાણં અળંતા પજ્જવા પળ્લણ્ણત્તા ?' મનુષ્યાણામ્ અનન્તાઃ પર્યવાઃ પ્રજ્ઞપ્પાઃ ? इति, ભગવાન્ ઉત્તરયતિ-'ગોયમા !' હે ગૌતમ ! 'મણુસે મણુસસ્સ દવ્વઠ્ઠયાए तुल्ले' મનુષ્યો મનુષ્યસ્ય દ્રવ્યાર્થતયા તુલ્યો ભવતિ, 'पएसट्टयाए तुल्ले' પ્રદેશાર્થતયા તુલ્યો ભવતિ 'ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवड्डिए' અવગાહનાર્થતયા-શરીરોચ્છ્યાર્થતયા મનુષ્યશ્ચતુઃસ્થાન પતિતો ભવતિ, તથા ચૈકો મનુષ્યો મનુષ્યાન્તરાપેક્ષયા યદા હીનતયા વિવક્ષિતસ્તદા અસંખ્યેયમાગાહીનો વા, સંખ્યેયમાગાહીનો

ચાહિએ, ક્યોંકિ ઉનમેં ચક્ષુદર્શન મી પાયા જાતા હૈ । પંચેન્દ્રિય તિર્યચોં કે પર્યાય નારક જીવોં કે સમાન કહને ચાહિએ ।

શ્રી ગૌતમ પુનઃ પ્રશ્ન કરતે હૈ-હે ભગવન્ ! મનુષ્યોં કે કિતને પર્યાય કહે ગએ હૈ ?

ભગવાન્-હે ગૌતમ ! અનન્ત પર્યાય કહે ગએ હૈ ।

ગૌતમ-કિસ કારણ સે ભગવન્ ! કહા જાતા હૈ કિ મનુષ્યોં કે અનન્ત પર્યાય કહે ગએ હૈ ?

ભગવાન્-એક મનુષ્ય દુસરે મનુષ્ય સે દ્રવ્ય કી અપેક્ષા તુલ્ય હૈ ઓર પ્રદેશોં કી અપેક્ષા મી તુલ્ય હૈ, મગર અવગાહના કી અપેક્ષા તુલ્ય નહીં હોતા-ચતુઃસ્થાનપતિત હોતા હૈ । અગર એક મનુષ્ય દુસરે

ચક્ષુદર્શન અને અચક્ષુદર્શન એમ બે દર્શન કહેવા બેધએ, કેમકે તેમનામા ચક્ષુ દર્શન પણ મળી આવે છે પચેન્દ્રિય તિર્યચોના પર્યાય નારક છવોના સમાન કહેવા બેધએ.

શ્રી ગૌતમસ્વામી પુનઃ પ્રશ્ન કરે છે-ભગવન્ ! મનુષ્યોના કેટલા પર્યાય કહેલા છે ?

શ્રી ગૌતમસ્વામી-શા કારણે ભગવન્ કહેવાય છે કે મનુષ્યોના અનન્ત પર્યાય કહેલા છે ?

શ્રી ભગવાન્-એક મનુષ્ય બીજા મનુષ્યથી, દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તુલ્ય અને પ્રદેશોની અપેક્ષાએ પણ તુલ્ય છે, પણ અવગાહનાની અપેક્ષાએ તુલ્ય નથી હોતા-ચતુસ્થાન પતિત હોય છે. અગર એક મનુષ્ય બીજા મનુષ્યથી હીન

वा संख्येयगुणहीनो वा असंख्येयगुणहीनो वा भवति, अथाभ्यधिकतया यदा विवक्षितो भवति तदा असंख्येयभागाभ्यधिको वा संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति, 'ठिईए चउट्टाण वडिए' स्थित्या-आयुःकर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया, मनुष्यो मनुष्यान्तरापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, तत्र यदा हीनत्वेन विवक्षितस्तदा असंख्येयभाग हीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा भवति, यदा अभ्यधिकत्वेन विवक्षितस्तदा असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति इत्याशयः, 'वण्णगंधरसफासआभिणिवोहियणाणसुयणाणओहिणाण मणपज्जवणाणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए केवलणाणपज्जवेहिं तुल्ले'

मनुष्य से हीन हो तो असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन या असंख्यातगुण हीन होता है। और यदि अधिक हो तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक अथवा असंख्यातगुण अधिक होता है।

एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित हीनाधिक होता है। अगर हीन हो तो असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन अथवा असंख्यातगुण हीन होता है। अगर अधिक हो तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक अथवा असंख्यातगुण अधिक होता है।

वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनः पर्यवज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है,

होय तो असंख्यात लागडीन, संख्यात लागडीन, संख्यातगुणहीन अगर असंख्यात गुण हीन होय छे, अने ने अधिक होय तो असंख्यात लाग अधिक, संख्यातलाग अधिक संख्यात गुण अधिक अथवा असंख्यात गुण अधिक होय छे.

अथ मनुष्य अथ मनुष्यथी स्थितिनी अपेक्षाये चतुःस्थान पतित हीन अगर अधिक होय छे. अगर हीन होय छे तो असंख्यात लागडीन, संख्यात लागडीन, संख्यात गुण हीन अथवा असंख्यात गुणहीन अने छे अगर अधिक होय छे तो असंख्यात लाग अधिक, संख्यात लाग अधिक संख्यात गुण अधिक अथवा असंख्यात गुण अधिक होय छे.

वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान अने मन पर्यवज्ञानना पर्यायैथी छ स्थान पतित थाय छे, केवलज्ञानना पर्यायैथी

वर्णगन्धरसस्पर्शाभिनिबोधिकज्ञानश्रुतज्ञानावधिज्ञान मनः पर्यवज्ञानपर्यवैः षट्-
स्थानपतितः केवलज्ञानपर्यवैरेको मनुष्यो मनुष्यान्तरस्य तुल्यो भवति, 'तिर्हि-
दंसणेहिं छद्वाणवडिण्' त्रिभिर्दर्शनैः मनुष्यः षट्स्थानपतितो भवति, तथाच
वर्णगन्धादिपर्यवैरेको मनुष्यो मनुष्यान्तरापेक्षया यदा हीनत्वेन विवक्षितस्तदा
अनन्तभागहीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुण-
हीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा भवति, अथाभ्यधिकत्वेन
यदा विवक्षितस्तदा अनन्तभागाभ्यधिको वा असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्ये-
यभागाभ्यधिको वा, संख्येगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्त-
गुणाभ्यधिको वा भवति, इत्याशयः, 'केवलदंसणपज्जवेहिं तुल्ले' केवलदर्शनपर्य-
वैरेको मनुष्यो मनुष्यान्तरस्य तुल्यो भवति, एककेवलिनः केवलदर्शनस्य अपर-

केवलज्ञान के पर्यायों से तुल्य होता है। तीन अज्ञान और तीन दर्शनों अर्थात् चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अवधिदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है और केवलदर्शन के पर्यायों से तुल्य होता है। -तात्पर्य यह है कि पांच ज्ञानों में से चार ज्ञान तथा तीन अज्ञान और चार दर्शनों में से तीन दर्शन क्षयोपशमिक हैं। वे ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं, किन्तु सब मनुष्यों का क्षयोपशम समान नहीं होता। क्षयोपशम में तरतमता को लेकर अनन्त भेद होते हैं, अतएव इनके पर्याय षट्स्थानपतित कहे गए हैं। मगर केवलज्ञान और केवलदर्शन क्षायिक हैं। वे ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मों के सर्वथा क्षीण होने पर ही उत्पन्न होते हैं, अतएव उनमें किसी प्रकार की हीनाधिकता नहीं

तुल्य होय छे. त्रषु अज्ञान अने त्रषु दर्शनों अर्थात् चक्षु दर्शन, अचक्षु-
दर्शन अने अवधि दर्शनना पर्यायीथी षट्स्थान पतित थाय छे अने केवल
दर्शनना पर्यायीथी तुल्य होय छे. तात्पर्य अे छे के पांच ज्ञानोभाथी चार
ज्ञान तथा त्रषु अज्ञान अने चार दर्शनोभाथी त्रषु दर्शन क्षयोपशमिक छे.
तेयो ज्ञानावरण अने दर्शनावरणना क्षयोपशमथी उत्पन्न थाय छे, पणु पधा
मनुष्योना क्षयोपशम समान नथी होतो क्षयोपशममा तरतमतानेदधने अनन्त
लेद थाय छे. तेथीअ तेमना पर्याय षट्स्थान पतित कडेला छे पणु केवल ज्ञान
अने केवल दर्शन क्षायिक छे तेयो ज्ञानावरण अने दर्शनावरण कर्मोनी साथे
सर्वथा क्षीण थवाथी अ उत्पन्न थाय छे, तेथीअ तेमनामा कोअ पणु प्रकारअ
हीनाधिक पणु नथी थतुं.

केवलिनः केवलदर्शनेन तुल्यत्वं भवतीति भावः । 'वाणमंतरा ओगाहणद्वयाए ठिइए चउट्टाणवडिया' वानव्यन्तरा अवगाहनार्थतया शरीरोच्छ्रयरूपतया, स्थित्या-आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया, चतुःस्थानपतिता भवन्ति तथा चैको वानव्यन्तरो वानव्यन्तरापेक्षया यदा हीनत्वेन विवक्षितस्तदा असंख्येय-भागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा भवति, यदातु अभ्यधिकत्वेन विवक्षितस्तदा असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा होती । जैसा एक मनुष्य का केवलज्ञान वैसा ही दूसरे सभी का, जैसा एक का केवलदर्शन वैसा सभी का । इस कारण यहां केवलज्ञान और केवलदर्शन के पर्याय तुल्य कहे हैं ।

वर्ण गंध आदि की अपेक्षा से जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से हीन विवक्षित किया जाता है तो अनन्तभाग हीन, असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन, असंख्यातगुण हीन अथवा अनन्तगुण हीन होता है । यदि अधिक विवक्षित किया जाता है तो अनन्तभाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, असंख्यातगुण अधिक और अनन्तगुण अधिक होता है ।

वानव्यन्तरदेव अवगाहना और स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थान-पतित हैं । अतएव जब एक वानव्यन्तर दूसरे वानव्यन्तर से हीन विवक्षित किया जाता है तो वह असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन अथवा असंख्यातगुण हीन होता है । जब

એમ એક મનુષ્યનું કેવલજ્ઞાન તેવું જ ખીબા બધાનું તેવું એકનું કેવલ દર્શન તેવું જ બધાનું એ કારણે અહીં કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનના પર્યાય તુલ્ય કહ્યા છે.

વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ આદિની અપેક્ષાએ બ્યારે એક મનુષ્ય એક મનુષ્યથી હીન વિવક્ષિત કરાય છે તો અનન્તભાગ હીન, અસંખ્યાત ભાગહીન, સખ્યાત ભાગ હીન, સખ્યાત ગુણહીન, અસખ્યાત ગુણહીન, અથવા અનન્ત ગુણહીન થાય છે એ અધિક વિવક્ષિત કરાય છે તો અનન્ત ભાગ અધિક અસખ્યાત ભાગ અધિક સખ્યાત ભાગ અધિક, સખ્યાત ગુણ અધિક, અસખ્યાતગુણ અધિક અને અનન્તગુણ અધિક હોય છે

વાનવ્યન્તર દેવ અવગાહના અને સ્થિતિની અપેક્ષાએ ચતુસ્થાન પતિત છે તેથી જ બ્યારે એક વાનવ્યન્તર ખીબા વાનવ્યન્તરથી હીન વિવક્ષિત કરાય તો તે અસખ્યાત ભાગ હીન, સખ્યાત ભાગહીન, સખ્યાત ગુણહીન અથવા

भवति इत्याशयः, 'वर्णाईहिं छद्वाणउडिया' वर्णादिभिः वानव्यन्तराः षट् स्थान-पतिता भवन्ति, तथा चैको वानव्यन्तरो वानव्यन्तरापेक्षया यदा वर्णादिपर्यवैः हीनत्वेन विवक्षितस्तदा अनन्तभागहीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येय भागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा अनन्तगुणहीनो वा भवति, यदा अभ्यधिकत्वेन विवक्षितस्तदा अनन्तभागाभ्यधिको वा असंख्येभा-गाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येय-गुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवति, इत्याशयः, 'जोइसिया वेमाणिया वि एवंवेव' ज्योतिष्काः वैमानिका अपि देवाः एवञ्चैव-वानव्यन्तरव-

अधिक विवक्षित किया जाता है तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यातगुण अधिक अथवा असंख्यातगुण अधिक होता है। एक वानव्यन्तर दूसरे वानव्यन्तर से वर्ण आदि की दृष्टि से षट्स्थानपतित हीनाधिक होता है। अर्थात् एक दूसरे से यदि हीन विवक्षित किया जाय तो अनन्तभाग हीन, असंख्यात भाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन, असंख्यातगुण हीन अथवा अनन्तगुण हीन होता है और यदि अधिक हो तो अनन्तभाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक, असंख्यातगुण अधिक अथवा अनन्तगुण अधिक होता है। इसी प्रकार नव उपयोग में भी षट्स्थानपतित कह देना चाहिये।

ज्योतिष्क देवों के विषय में भी इसी प्रकार कहना चाहिए। वैमानिक देवों के संबंध में भी ऐसा ही समझना चाहिए। वे भी

असंख्यात गुणहीन थाय छे न्यारे अधिक विवक्षित कराय छे तो असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक अथवा असंख्यात गुण अधिक थाय छे. अथवा वानव्यन्तर भीन वानव्यन्तरथी वरुं आदिनी दृष्टिअे षट्स्थान पतित हीनाधिक थाय छे. अर्थात् अथ गीनथी ने हीन विवक्षित कराय तो अनन्त भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुण हीन, असंख्यात गुणहीन, अथवा अनन्त गुणहीन होय छे अने ने अधिक होयतो अनन्तभाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यात भाग अधिक संख्यातगुण अधिक असंख्यातगुण अधिक अथवा अनन्तगुण अधिक अने छे अथ प्रकारे नव उपयोगमा पणु षट्स्थान पतित कही देवा नेथअे.

ज्योतिष्क देवाना विषयमा पणु आमर रीते कडेपु नेथअे वैमानिक देवाना सम्बन्धमा पणु आमर सम्बन्धु नेथअे. तेअे पणु अवगाहनानी दृष्टिअे

देव अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतिता भवन्ति षट्स्थानपतिता भवन्ति, किन्तु 'नवरं' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु 'ठिईए निट्टाणवडिया' स्थित्या-आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया, त्रिस्थानपतिता भवन्ति तथा चेको वैमानिकश्च वैमानिकान्तरापेक्षया यदा हीनत्वेन विवक्षितस्तदा अगंख्येभागहीनो वा, संख्येय-भागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा भवति अथ अभ्यधिकत्वेन यदा विवक्षितस्तदापि असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा भवतीत्याशयः, एतेन पञ्चेन्द्रियतिरश्चां मनुष्याणाञ्चोत्कर्षेण त्रीणि-पल्योपमानि स्थितिः प्रज्ञप्ता, पल्योपमस्य च असंख्येयवर्षसहस्रप्रमाणतया असंख्येयगुणवृद्धिहान्योरपि सभवेन चतुःस्थानपतितत्वं भवति, एवमेव वान-व्यन्तराणामपि जघन्येन दशवर्षसहस्रस्थितिकत्वेन उत्कर्षेण पल्योपमस्थितिकत्वात्

अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित और वर्ण आदि की दृष्टि से षट्स्थानपतित होते हैं। किन्तु इनमें विशेषता यह है कि ये ज्यो-तिष्क और वैमानिक स्थिति की दृष्टि से त्रिस्थानपतित हीनाधिक हैं। अगर एक को दूसरे से हीन विवक्षित किया जाय तो वह असंख्यात-भाग हीन, संख्यातभाग हीन या संख्यातगुण हीन होता है। अगर अधिक विवक्षित किया जाय तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यात-भाग अधिक अथवा संख्यातगुण अधिक होता है।

पंचेन्द्रिय तिर्थचों और मनुष्यों की स्थिति अधिक से अधिक तीन पल्योपम की कही गई है। पल्योपम असंख्यात हजार वर्षों का होता है, अतः उसमें असंख्यातगुणी वृद्धि और हानि का संभव होने से उसे चतुःस्थानपतित कहा है। इसी प्रकार वानव्यन्तरों की जघन्य दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट एक पल्योपम की स्थिति

चतुःस्थान पतित अने वर्ष आदिनी दृष्टिसे षट्स्थान पतित थाय छे पणु तेमा विशेषता ये छे के आ ज्योतिष्क अने वैमानिकदेव स्थितिनी दृष्टिसे त्रिस्थान पतित हीनाधिक छे अगर ऐकने भीजथी हीन विवक्षित कराय तो ते असंख्यात भाग हीन, संख्यात भागहीन अगर संख्यात गुण हीन थाय छे अगर अधिक विवक्षित कराय तो असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक अथवा संख्यात गुण अधिक थाय छे.

पंचेन्द्रिय तिर्थ चो अने मनुष्योनी स्थिति अधिकथी अधिक त्रयु पल्योपमनी कडेली छे. पल्योपम असंख्यात हजार वर्षोनी डोय छे तेथी तेमा अमंख्यात गणु वृद्धि अने हानिने स भव डोवाथी तेने चतुःस्थान पतित कडेल छे ऐ भ्रमारे वानव्यन्तराणी जघन्य दस हजार वर्षोनी अने उत्कृष्ट ऐक पल्यो-

-ચતુઃસ્થાનપતિતત્ત્વમુપપચ્ચતે, જ્યોતિષ્કાણાં જઘન્યેન પલ્યોપમાષ્ટભાગાયુષ્ય-
સદ્ભાવેન ઉત્કર્ષેણ વર્ષલક્ષાધિકપલ્યોપમાયુષ્ય સદ્ભાવેન ચ અસંખ્યેયગુણવૃદ્ધિ-
હાન્યસંભવાત્ ત્રિસ્થાનપતિતત્ત્વમ્ વૈમાનિકાનાશ્ચ જઘન્યેન પલ્યોપમાયુષ્યમ્,
ઉત્કૃષ્ટેન ત્રયસ્ત્રિંશત્ સાગરોપમાણિ આયુષ્યમ્, સાગરોપમસ્ય ચ દશકોટી-
કોટીસંખ્યેયપલ્યોપમપ્રમાણત્વેન તેષામપિ અસંખ્યેયગુણવૃદ્ધિહાન્યોરસંભવાત્
ત્રિસ્થાનપતિતત્ત્વં ભવતીતિ ફલિતમ્ ॥ ૬૦ ૫ ॥

નૈરયિકપર્યાયવક્તૃવ્યતા-

મૂલમ્—જહપ્નોગાહ્નગાણં મંતે ! નેરઙ્યાણં કેવઙ્યા
પજ્જવા પપ્પન્તા ? ગોયમા ! અણંતા પજ્જવા પપ્પન્તા સે કેણ-
ટ્ટેણં મંતે ! એવં વુચ્છઙ્ગ જહપ્નોગાહ્નગાણં નેરઙ્યાણં અણંતા
પજ્જવા પપ્પન્તેત્તિ ? ગોયમા ! જહપ્નોગાહ્નગાણં નેરઙ્ગ જહ-
ન્નોગાહ્નગાણં નેરઙ્ગસસ દઞ્વટ્ટયાણં તુલ્લે પપ્પસટ્ટયાણં તુલ્લે
હોતી હૈ, અતઃ વહ મ્હી ચતુઃસ્થાનપતિત હો સક્તી હૈ । મગર જ્યો-
તિષ્ક ઓર વૈમાનિક દેવોં કી સ્થિતિ મેં ત્રિસ્થાનપતિત હીનાધિકતા
હી હોતી હૈ ક્યોંકિ જ્યોતિષ્કોં કી જઘન્ય પલ્યોપમ કે આઠવે ભાગ
કી ઓર ઉત્કૃષ્ટ એક લાખ વર્ષ અધિક પલ્યોપમ કી સ્થિતિ હૈ, અત-
એવ ઉસમેં અસંખ્યાતગુણી હાનિ-વૃદ્ધિ કા સંભવ નહીં હૈ । વૈમાનિકોં
કી જઘન્ય પલ્યોપમ કી ઓર ઉત્કૃષ્ટ તેતીસ સાગર કી સ્થિતિ હૈ ।
સાગરોપમ દસ કોડાકોડી પલ્યોપમ કા હોતા હૈ, અતએવ યહાં મ્હી
અસંખ્યાતગુણી હાનિ-વૃદ્ધિ કા સંભવ નહીં હૈ । ઇસ પ્રકાર જ્યોતિષ્ક
ઓર વૈમાનિક દેવ સ્થિતિ કી અપેક્ષા સે ત્રિસ્થાનપતિત હીનાધિક
હી હોતે હૈ ॥૫॥

પમની સ્થિતિ હોય છે, તેથી તે પણ ચતુસ્થાન પતિત થઇ શકે છે. પણ
જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક દેવોની સ્થિતિમાં ત્રિસ્થાન પતિત હીનાધિકતા થાય
છે કેમકે જ્યોતિષ્કોની જઘન્ય પલ્યોપમના આઠમા ભાગની અને ઉત્કૃષ્ટ
એક લાખ વર્ષ અધિક પલ્યોપમની સ્થિતિ છે, તેથીજ તેમાં અસંખ્યાત ગુણ
હાનિવૃદ્ધિનો સભવ નથી વૈમાનિકોની જઘન્ય પલ્યોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ તેતીસ
સાગરની સ્થિતિ છે સાગરોપમ દસ કોડાકોડી પલ્યોપમનો હોય છે, તેથી અહીં
પણ અસંખ્યાત ગુણી હાનિ-વૃદ્ધિનો સભવ છે નહીં આ પ્રકારે જ્યોતિષ્ક અને
વૈમાનિકદેવ સ્થિતિની અપેક્ષાએ ત્રિસ્થાન પતિત હીનાધિક જ બને છે. ॥ ૫ ॥

ओगाहणट्टयाए तुल्ले ठिईए चउट्टाणवडिए वण्णगंधरत्तफास-
 पज्जवेहिं तिहिं नाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टा-
 णवडिए उक्कोसोगाहणगाणं भते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा
 पणत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता से केणट्टेणं
 भंते ! एवं बुच्चइ उक्कोसोगाहणयाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा
 पणत्ता ? गोयमा ! उक्कोसोगाहणए नेरइए उक्कोसोगाहणस्स
 नेरइयस्स दव्वट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए तुल्ले, ओगाहणट्ट-
 याए तुल्ले ठिईए सिय हीणे सिय तुल्ले, सिय अब्भहिए, जइ
 हीणे असंखिज्जभागहीणे वा संखिज्जभागहीणे वा । अह अब्भ-
 हिए असंखिज्जभाग अब्भहिएवा संखिज्जभाग अब्भहिएवा
 वण्णगंधरत्तफासपज्जवेहिं तिहिं नाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं-
 दंसणेहिं छट्टाणवडिए अजहण्णमणुक्कोसोगाहणाणं नेरइयाणं
 केवइया पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता
 से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ अजहण्णमणुक्कोसोगाहणाणं
 अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसोगा-
 हणए नेरइए अजहण्णमणुक्कोसोगाहणस्स नेरइयस्स दव्व-
 ट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्टयाए सिय हीणे
 सिय तुल्ले सिय अब्भहिए जइ हीणे असंखिज्जभागहीणे वा
 संखिज्जभागहीणे वा संखिज्जगुणहीणे वा असंखिज्जगुणहीणे
 वा अह अब्भहिए असंखिज्जभाग अब्भहिए वा संखिज्जभाग
 अब्भहिए वा संखिज्जगुण अब्भहिए वा असंखिज्जगुण
 अब्भहिए वा । ठिईए सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अब्भहिए,
 जइ हीणे असंखिज्जभागहीणे वा, संखिज्जभागहीणे वा, संखि-
 ज्जगुणहीणे वा, असंखिज्जगुणहीणे वा, अह अब्भहिए असं-
 खिज्जभाग अब्भहिए वा, संखिज्जभाग अब्भहिए वा, संखि-

ज्जगुण अब्भहिए वा, असंखिज्जगुण अब्भहिए वा, व गंध-
 रसफासपज्जवेहिं तिहिं नाणेहिं, तिहिं अण्णाणेहिं, तिहिं
 दंसणेहिं छट्टाणवडिए, से एएणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ अजह-
 णम क्कोसोगाहणाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा ण ।
 जहण्णठिइयाणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा प ।
 गोयमा ! अणं प । णत्ता से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ
 जहण्णठिइयाणं नेरइ णं अ । पज्जवा पणत्ता ? गोयमा !
 जह ठिइए नेरइए जहण्णठिइयस्स नेरइयस्स दव्वट्टयाए
 ल्ले पएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए ठिईए
 तुल्ले वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं तिहिं नाणेहिं, तिहिं अण्णा-
 णेहिं, तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए, एवं उक्कोसठिइएवि अज-
 हण्णमणुक्कोसठिइए वि नवरं सट्टाणे चउट्टाणवडिए जहण्ण-
 गुणकालगाणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?
 गोयमा ! अणंता पज्जवा प ता से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ
 जहण्णगुणकालगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?
 गोयमा ! जहण्णगुणकालए नेरइए जहण्णगुणकालगस्स नेरइय-
 स्स दव्वट्ट ए तुल्ले पएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्टयाए चउ-
 ट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए कालव यज्जवेहिं तुल्ले अव-
 सेसेहिं वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं तिहिं नाणेहिं तिहिं अण्णा-
 णेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए से एएणट्टेणं गोयमा ! एवं
 बुच्चइ जहण्णगुणकालगाणं नेरइयाणं अणंता वा पणत्ता एवं
 उक्कोसगुणकालए वि, अजह मणुक्कोसगुणकालए वि, एवं चेव,
 नवरं कालवण्ण वेहिं छट्टाणवडिए, एवं अवसेसा चत्तारि
 वण्णादो गंधा, पंचरसा, अट्टफासा भाणियव्वा जहण्णाभिणिवो-
 हियनाणीणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ? गोयमा !

जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता
से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं नेर-
इयाणं अणं वा णत्ता ? गोयमा ! जहण्णाभिणिबोहि-
यनाणी नेरइए जहण्णाभिणिबोहियस्स नाणिस्स नेरइयस्स
दब्बट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्टयाए चउट्टाण-
वडिए ठिईए चउट्टाणवडिए वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्टाण-
वडिए आभिणिबोहि णपज्जवेहिं तुल्ले, सुयनाणपज्जवेहिं,
ओहिणाणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए,
एवं उक्कोसाभिणिबोहियनाणी वि, अजहण्णमणुक्कोसाभिणि-
बोहियणाणी वि एवं चेव, णवरं आभिणिबोहियनाणपज्जवेहिं
सट्टाणे छट्टाणवडिए एवं यनाणी ओहिनाणी वि, नवरं, जस्स
नाणा तस्स अण्णाणा नत्थि जहा ना तथा अण्णावि भाणिय-
व्वा, नवरं जस्स णाणा तस्स नाणा न भवंति, जहण्णचक्खु-
दंसणीणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा पण्ण ? गायमा !
अणंता वा णत्ता, से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ जहण्णच-
क्खुदंसणीणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णे ? गोयमा !
जहण्णचक्खुदंसणीणं नेरइए जहण्णचक्खुदंसणिस्स नेरइयस्स
दब्बट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए ल्ले ओगाहट्टयाए चउट्टा-
डिए ठिईए चउट्टाणवडिए णगंधरसफासपज्जवेहिं तिहिं
नाणेहिं तिहिं णाणेहिं छट्टाणवडिए चक्खुदंस णपज्जवेहिं
तुल्ले अचक्खुदंसणपज्जवेहिं ओहिदंसणपज्जवेहिं छट्टाणव-
डिए एवं उक्कोसचक्खुदंसण वि, अजहण्णमणुक्कोस
दंसणी वि एवं चेव, नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए एवं अच-
क्खुदंसणी वि ओहिदंसणी वि ॥ ०६ ॥

छाया—जघन्यावगाहनकानां भदन्त ! नैरयिकाणां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? जौनम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तर्केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यावगाहनकानां नैरयिकाणां नानाः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यावगाहनको नैरयिको जघन्यावगाहनकस्य नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अगाहनार्थतया तुल्यः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैल्लिभिर्ज्ञानैः, त्रिभिर्दर्शनैः पट्ट स्थानपतितः, उत्कृष्टावगाहनकानां

नैरयिक पर्याय वक्तव्यता

शब्दार्थ—(जहण्णोगाहणगाणं भन्ते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले नैरयिकों के कितने पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भन्ते ! एवं वुच्चइ—जहण्णोगाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि जघन्य अवगाहना वाले नारकों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णोगाहणए नेरइए जहण्णोगाहणस्स नेरइयस्स दव्वइयाए तुल्ले) हे गौतम ! एक जघन्य अवगाहना वाला नारक दूसरे जघन्य अवगाहना वाले नारक से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है (पएसइयाए तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य है (ओगाहणइयाए तुल्ले) अवगाहना से तुल्य है (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित है (वण्ण-गंध-रस-फास पज्जवेहिं) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायों से (तिहिं नाणेहिं) तीन ज्ञानों से (तिहिं अण्णा-

नैरयिक पर्याय वक्तव्यता

शब्दार्थ—(जहण्णोगाहणगाणं भन्ते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! जघन्य अवगाहनावाणां नैरयिकेना केट्ठेणा पर्यायं कइया छे ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्तपर्याय कइया छे (से केणट्टेणं भन्ते ! एवं वुच्चइ—जहण्णोगाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! शांकारेण्णं अयं कइवायं छे के जघन्य अवगाहना वाणां नारकेना अनन्त पर्याय कइया छे (गोयमा ! जहण्णोगाहणए नेरइए जहण्णोगाहणस्स नेरइयस्स दव्वइयाए तुल्ले) हे गौतम ! अयं जघन्य अवगाहनावाणां नारकेण्णं अयं जघन्य अवगाहनावाणां नारकेण्णं, द्रव्येण्णं अपेक्षाये तुल्यं छे (पएसइयाए तुल्ले) प्रदेशेण्णं अपेक्षाये तुल्यं छे (ओगाहणइयाए तुल्ले) अवगाहनाथी तुल्यं छे (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी चतुःस्थान-पतितं छे (वण्ण गंध, रस-फास पज्जवेहिं) वर्ण, गंध, रस, स्पर्शेण्णं पर्यायेण्णं (तिहिं नाणेहिं) त्रयं ज्ञानेण्णं (तिहिं अण्णाणेहिं)

भदन्त ! नैरयिकाणाम् कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—उत्कृष्टावगाहनकानां नैरयिकाणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! उत्कृष्टावगाहनको नैरयिकः उत्कृष्टावगाहनकस्य नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया तुल्यः, स्थित्या स्याद्दीनः, स्यात्तुल्यः, स्यादभ्यधिकः, यदा हीनोऽसंख्येयभागहीनो वा, (तिहिं दंसणेहिं) तीन दर्शनों से (छट्टाणवडिए) षट्स्थानपतित है ।

(उक्कोसोगाहणगाणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?) उत्कृष्ट अवगाहना वाले नारकों के भगवन् ! कितने पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—उक्कोसोगाहणयाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! किस अपेक्षा से ऐसा कहा है कि उत्कृष्ट अवगाहना वाले नारकों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (उक्कोसोगाहणए नेरइए उक्कोसोगाहणस्स नेरइयस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) उत्कृष्ट अवगाहना वाला नारक उत्कृष्ट अहना वाले नारक से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य है (ओगाहणट्टयाए तुल्ले) अवगाहना से तुल्य है (ठिईए सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अब्भहिए) स्थिति से स्यात् हीन, स्यात् तुल्य, स्यात् अधिक है (जइ हीणे असंखिज्जभाग हीणे वा संखिज्जभागहीणे वा) यदि हीन है तो असंख्यातभाग हीन

त्रयु अज्ञानोत्थी (तिहिं दंसणेहिं) त्रयु दर्शनीत्थी (छट्टाणवडिए) छ स्थान पतित छे.

(उक्कोसोगाहणगाणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?) उत्कृष्ट अवगाहनावाणा नारकोना डे भगवन् ! केट्ठा पर्याय कइया छे ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) डे गौतम ! अनन्त पर्याय कइया छे (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—उक्कोसोगाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता) डे भगवन् ! कथं अपेक्षाये अये कइु छे डे उत्कृष्ट अवगाहनावाणा नारकोना अनन्त पर्याय कइया छे ? (गोयमा !) डे गौतम ! (उक्कोसोगाहणए नेरइए उक्कोसोगाहणस्स नेरइयस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) उत्कृष्ट अवगाहनावाणा नारक उत्कृष्ट अवगाहनावाणा नारकथी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य छे (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशीनी अपेक्षाये तुल्य छे (ओगाहणट्टयाए तुल्ले) अवगाहनाथी तुल्य छे. (ठिईए सिय हीणे सिय तुल्ले, सिय अब्भहिए) स्थितिथी स्यात् हीन, स्यात् तुल्य, स्यात् अधिक छे. (जइ हीणे असंखिज्ज भागहीणे वा संखिज्ज भाग हीणे वा) जे हीन छे तो असंख्यात भाग

संख्येयभागीनो वा, अथाभ्यधिकोऽसंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागा-
भ्यधिको वा, वर्णगन्धरसस्पर्शैः, त्रिभिः ज्ञानैः त्रिभिरज्ञानैः, त्रिभिर्दर्शनैः
षट्स्थानपतितः, अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकानां नैरयिकाणां कियन्तः पर्यवाः
प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते-
अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनां नैरयिकाणां नन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम !
घन्यानुत्कृष्टावगाहनको नैरयि तो अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकस्य नैरयिकस्य

संख्यातभाग हीन होता है (अह अन्महिए असंखिज्जभाग-
अन्महिए वा संखिज्जभागमन्महिए वा) यदि अधिक है तो असंख्यात
भाग अधिक या संख्यातभाग अधिक होता है (वण्ण-गंध-रस-
फास पज्जवेहिं) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायों से (तिहिं नाणेहिं)
तीन ज्ञानों से (तिहिं गाणेहिं) तीन अज्ञानों से (तिहिं दंसणेहिं)
तीन दर्शनों से (छट्ठाणवडिए) षट्स्थानपतित होता है ।

(अजहण्ण मणुक्कोसोगाहणाणं नेरइयाणं केवइया पज्जवा
पण्णत्ता ?) मध्यम अवगाहना वाले नारकों के कितने पर्याय कहे हैं ?
(गोयमा ! अणता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं
(से केणट्ठेणं भन्ते ! एवं वुच्चइ-अजहण्णमणुक्कोसोगाहणाणं नेरइयाणं
अणता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा
है कि मध्यम अवगाहना वाले नारकों के अनन्त पर्याय कहे हैं ?
(गोयमा) हे गौतम ! (अजहण्णमणुक्कोसोगाहणं नेरइए अजहण्ण-
मणुक्कोसोगाहणस्स नेरइयस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले) मध्यम अवगाहना

हीन अथवा संख्यातभाग हीन होय छे (अह अन्महिए असंखिज्जभागमन्महिए
वा संखिज्जभागमन्महिए वा) जो अधिक छे तो असंख्यातभाग अधिक अगरे
संख्यात भाग अधिक होय छे (वण्ण, गंध, रस, फास, पज्जवेहिं) वर्ण, गंध
रस, स्पर्शना पर्यायेथी (तिहिं गाणेहिं) त्रयु ज्ञानेथी (तिहिं अण्णणेहिं)
त्रयु अज्ञानेथी (तिहिं दंसणेहिं) त्रयु दर्शनेथी (छट्ठाणवडिए) छ स्थानपतित भने छे
(अजहण्णमणुक्कोसोगाहणाणं नेरइयाणं केवइया पज्जवा पण्णत्ता ?) मध्यम अव
गाहनावाणा नारकानां केटला पर्याय कइल छे । (गोयमा ! अणता पज्जवा पण्णत्ता)
हे गौतम ! अनन्त पर्याय कइल छे (से केणट्ठेणं भन्ते ! एवं वुच्चइ अजहण्ण-
मणुक्कोसोगाहणाणं नेरइयाणं अणता पज्जवा पण्णत्ता) भगवन् ! शा करणे
अएवु कइलुं छे के मध्यम अवगाहनावाणा नारकानां अनन्त पर्याय कइल
छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (अजहण्णमणुक्कोसोगाहणं नेरइए अजहण्णमणु-
क्कोसोगाहणस्स नेरइयस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले) मध्यम अवगाहनावाणा नारक
अवगाहनावाणा - नारक - मध्यम भील नारकथी इय्यनी अपेक्षाये तुल्य

द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः अवगाहनार्थतया स्याद्दिनः, स्यात्तुल्यः, स्यादभ्याधिकः, यदा हीनोऽसंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, अथाभ्यधिकोऽसंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, स्थित्या स्याद्दीनः स्यात्तुल्यः स्यादभ्यधिकः यदा हीनोऽसंख्येयभागहीनो वा, संख्येय-

वालो नारक मध्यम अ ।हना वाले अन्य नारक से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है (पएसद्वयाए तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है (ओगाहणद्वयाए सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अब्भहिए) अवगाहना की अपेक्षा स्यात् हीन, स्यात् तुल्य, स्यात् अधिक होता है (जइ हीणे असंखिज्जभाग हीणे वा संखिज्जभाग हीणे वा संखिज्जगुण हीणे वा असंखिज्जगुणहीणे वा) अगर हीन है तो असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन या असंख्यातगुण हीन होता है (अह अब्भहिए असंखिज्जभागमव्भहिए वा संखिज्जभागमव्भहिए वा संखिगुणमव्भहिए वा असंखिज्जगुणमव्भहिए वा) अगर अधिक है तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक, असंख्यातगुण अधिक होता है ।

(ठिईए सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अब्भहिए) स्थिति से स्यात् हीन, स्यात् तुल्य, स्यात् अधिक है (जइ हीणे) यदि हीन है (असंखिज्जभागहीणे वा, संखिज्जभागहीणे वा, संखिज्जगुणहीणे वा, असंखिज्जगुणहीणे वा) असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन,

छे (पएसद्वयाए तुल्ले) प्रदेशानी अपेक्षाये तुल्ये छे (ओगाहणद्वयाए सिए हीणे, सिय तुल्ले, सिय अब्भहिए) अवगाहनानी अपेक्षाये ये स्यात् हीन, स्यात् तुल्य, स्यात् अधिक थाय छे (जइ हीणे असंखिज्जभाग हीणे वा संखिज्जभागहीणे वा संखिज्जगुण हीणे, वा असंखिज्जगुणहीणे वा) अगर हीन छे तो असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन अगर असंख्यातगुण हीन छे (अह अब्भहिए असंखिज्जभागमव्भहिए वा संखिज्जभागमव्भहिए वा संखिज्जगुणमव्भहिए वा असंखिज्जगुणमव्भहिए वा) अगर अधिक छे तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक, असंख्यातगुण अधिक छे. (ठिईए सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अब्भहिए) स्थितिथी स्यात् हीन, स्यात् तुल्य, स्यात् अधिक छे (जइ हीणे) नो हीन छे (असंखिज्जभागहीणे वा, संखिज्जभागहीणे वा, संखिज्जगुणहीणे वा, असंखिज्जगुणहीणे वा) असंख्यातभाग

માગહીનો વા, સંસ્કૃત્યેયગુણહીનો વા, અસંસ્કૃત્યેયગુણહીનો વા, અથાભ્ય-
ધિકોડસંસ્કૃત્યેમાગાભ્યધિકો વા, સંસ્કૃત્યેયમામાભ્યધિકો વા, સંસ્કૃત્યેયગુણાભ્યધિકો
વા, અસંસ્કૃત્યેયગુણાભ્યધિકો વા, વર્ણગન્ધરસસ્પર્શપર્યવૈઃ, ત્રિભિઃ જ્ઞાનૈઃ, ત્રિભિર-
જ્ઞાનૈઃ, ત્રિભિર્દર્શનૈઃ પટસ્થાનપતિતઃ, તત્ એતેનાર્થેન ગૌતમ ! એવમુચ્યતે—અજ-
ઘન્યાનુત્કૃષ્ટાવગાહનકાનાં નૈરયિકાણામનન્તાઃ પર્યવાઃ પ્રજ્ઞાપ્તાઃ, જઘન્યસ્થિતિ-
કાનાં ભદન્ત ! નૈરયિકાણાં કિયન્તઃ પર્યવાઃ પ્રજ્ઞાપ્તાઃ ? ગૌતમ ! અનન્તઃ પર્યવાઃ
પ્રજ્ઞાપ્તાઃ, તત્ કેનાર્થેન ભદન્ત ! એવમુચ્યતે—જઘન્યસ્થિતિકાનાં નૈરયિકાણામ-

સંસ્કૃત્યાતગુણ હીન, યા અસંસ્કૃત્યાતગુણ હીન હૈ (અહ અવ્મહિએ) અગર
અધિક હૈ (અસંસ્કિજ્જભાગ અવ્મહિએ વા, સંસ્કિજ્જભાગ અવ્મહિએ
વા, સંસ્કિજ્જગુણ અવ્મહિએ વા અસંસ્કિજ્જગુણ અવ્મહિએ વા) અસં-
સ્કૃત્યાતભાગ અધિક, સંસ્કૃત્યાતભાગ અધિક, સંસ્કૃત્યાતગુણ અધિક યા
અસંસ્કૃત્યાતગુણ અધિક હૈ ।

(વર્ણ-ગંધ-રસ-ફાસ પજ્જવેહિં) વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ કે
પર્યાયોં સે (તિહિં નાણેહિં) ત્રીન જ્ઞાનોં સે (તિહિં અણ્ણાણેહિં) ત્રીન
અજ્ઞાનોં સે (તિહિં દંસણેહિં) ત્રીન દર્શનોં સે (છટ્ટાણવહિએ) ષટ્
સ્થાનપતિત હૈ (સે એણટ્ટેણં ગોયમા ! એવં વુચ્ચહ—અજહ્ણમણુક્કો-
સીગાહણાણં નેરહ્યાણં અણંતા પજ્જવા) હિસ કારણ સે ગૌતમ ! એસા
કહા હૈ કિ મઠ અવગાહના વાલે નારકોં કે અનન્ત પર્યાય હૈ ।

(જહ્ણણટિહ્યાણં અંતે ! નેરહ્યાણં કેવહ્યા પજ્જવા પણ્ણત્તા ?)
ભગવન્ ! જઘન્ય સ્થિતિવાલે નારકોં કે કિતતે પર્યાય હૈ । (ગોયમા !)
હે ગૌતમ ! (અણંતા પજ્જવા પણ્ણત્તા) અનન્ત પર્યાય હૈ (સે કેણટ્ટેણં

હીન, સંસ્કૃત્યાત ભાગ હીન, સંસ્કૃત્યાત ગુણુહીન અગર અસંસ્કૃત્યાત ગુણુહીન છે
(અહ અવ્મહિએ) અગર અધિક છે (અસંસ્કિજ્જભાગ અવ્મહિએ વા સંસ્કિજ્જભાગમવ્મહિએ
વા, સંસ્કિજ્જગુણ અવ્મહિએ વા અસંસ્કિજ્જગુણ અવ્મહિએ વા) અસંસ્કૃત્યાતભાગ અધિક,
સંસ્કૃત્યાતભાગ અધિક, સંસ્કૃત્યાતગુણુ અધિક અગર- અસંસ્કૃત્યાત ગુણુ અધિક છે.

(વર્ણ, ગંધ રસ, ફાસ, પજ્જવેહિં) વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શના પર્યાયોથી
(તિહિં નાણેહિં) ત્રણ જ્ઞાનોથી (તિહિં અણ્ણાણેહિં) ત્રણ અજ્ઞાનોથી (તિહિં દંસણેહિં)
ત્રણ દર્શનોથી (છટ્ટાણવહિએ) ષટ્સ્થાન પતિત છે (સે એણટ્ટેણ ગોયમા ! એવં વુચ્ચહ
- અજહ્ણમણુક્કોસીગાહણાણ નેરહ્યાણ અણંતા પજ્જવા) એ કારથી હે ગૌતમ !
એમ કહ્યું છે-કે મધ્યમ અવગાહનાના નારકોના અનન્ત પર્યાય છે. (જહ્ણણટિહ્યાણ
અંતે ! નેરહ્યાણં કેવહ્યા પજ્જવા પણ્ણત્તા) ભગવન્ ! જઘન્યસ્થિતિવાળા નારકોના કેટલા
પર્યાયો છે ? (ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (અણંતા પજ્જવા પણ્ણત્તા) અનન્ત પર્યાય

नन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यस्थितिको नैरयिको जघन्यस्थितिकस्य नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या तुल्यः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः त्रिभिः, ज्ञानैः, त्रिभिरज्ञानैः, त्रिभिर्दर्शनैः पदस्थानपतितः, एवमुत्कृष्टस्थितिकोऽपि, अजघन्यानुत्कृष्टस्थितिकोऽपि, नवरं स्वस्थाने चतुःस्थानपतितः, जघन्यगुणमालकाना भदन्त !

भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णठिइयाणं नेरइयाणं अणता पज्जवा पणत्ता ? किस कारण हे भगवन् ! ऐसा कहा है कि जघन्य स्थिति वाले नारकों के अनन्त पर्याय हे ? (गोयमा ! जहण्णठिइए नेरइए जहण्णठिइयस्स नेरइयस्स दब्बट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य स्थितिवाला नारक जघन्य स्थितिवाले दूसरे नारक से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है । (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य है (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना की अपेक्षा से चतुःस्थानपतित है (ठिईए तुल्ले) स्थिति से तुल्य है (वण्ण-गंधरसफास-पज्जवेहिं) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायों से (तिहिं नाणेहिं) तीन ज्ञानों से (तिहिं अण्णाणेहिं) तीन अज्ञानों से (तिहिं दंसणेहिं) तीन दर्शनों से (छट्टाणवडिए) षट् स्थानपतित है (एवं उक्कोसठिइए वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थितिवाला भी (अजहण्णमणुक्कोसठिइए वि) अजघन्य-अनुत्कृष्ट अर्थात् मध्यम स्थितिवाला भी इसी प्रकार (नवरं) विशेष यह कि (सट्टाणे) स्वस्थान में (चउट्टावडिए) चतुःस्थानपतित है ।

छे (से केणट्टेण भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णठिइयाणं नेरइयाणं अणता पज्जवा पणत्ता ?) क्या कारण है भगवन् ! ऐसा कहा है कि जघन्य स्थितिवाला नारकाना अनन्तपर्याय छे ? (गोयमा ! जहण्णठिइए नेरइए जहण्णठिइयस्स नेरइयस्स दब्बट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य स्थितिवाला नारक जघन्य स्थितिवाला भी नारकथी द्रव्यनी दृष्टिसे तुल्य छे (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशोनी अपेक्षासे तुल्य छे (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनानी अपेक्षासे चतुःस्थानपतित छे (ठिईए तुल्ले) स्थितिथी तुल्य छे (वण्ण-गंध-रस-फास पज्जवेहिं) पर्याय, रस, स्पर्शना पर्यायोथी (तिहिं नाणेहिं) त्रयु ज्ञानोथी (तिहिं अण्णाणेहिं) त्रयु अज्ञानोथी (तिहिं दंसणेहिं) त्रयु दर्शनोथी (छट्टाण वडिए) षट्स्थानपतित छे (एवं उक्कोसठिइए वि) ऐसे प्रकारे उत्कृष्ट स्थितिवाला पणु (अजहण्ण मणुक्कोसठिइए वि) अजघन्य अनुत्कृष्ट अर्थात् मध्यम स्थितिवाला पणु या प्रकारे (नवरं) विशेष या छे के (सट्टाणे) स्वस्थानमा (चउट्टावडिए) चतुःस्थानपतित छे,

एतेनार्थेन गौतम ! एवमुच्यते—जघन्यगुणकालकानां नैरयिकाणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, एवमुत्कृष्टगुणकालकोऽपि, अजघन्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि एवञ्चैव, नवरं कालवर्णपर्यवैः पट्स्थानपतितः, एवम् अवशेषाश्चत्वारो वर्णाः, द्वौ गन्धौ, पञ्चरसाः, अष्टौ स्पर्शाः भणितव्याः, जघन्याभिनिबोधिकज्ञानीनां भदन्त ! नैरयिकाणां कियन्तः पर्यवा प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्याभिनिबोधिकज्ञानिनां नैरयिकाणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्या-

तीन दर्शनों से (छट्टाणवडिए) षट् स्थान पतित है (से एणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ—जहणगुण कालगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता) इस कारण हे गौतम ! ऐसा कहा है कि जघन्यगुण काले नारकों के अनन्त पर्याय हैं (एवं उक्कोसगुणकालए वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट गुण काला नारक भी (अजहणमणुक्कोसगुण कालए वि) मध्यमगुण काला भी (नवरं) विशेष यह कि (कालवणपज्जवेहिं) छट्टाणवडिए) कृष्णवर्ण पर्यायों से पट् स्थान पतित है (एवं अवसेसा चत्तारि वण्णा) इसी प्रकार शेष चारों वर्ण (दो गंधा) दो गंध (पंच रसा) पांच रस (अट्टफासा) आठ स्पर्श (भाणियव्वा) कहने चाहिए ।

(जहण्णाभिणिवोहियनाणीणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा पणत्ता) भगवन् ! जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानवाले नारकों के कितने पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णाभिणिवोहियनाणीणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता (गौतम ! जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी नारकों के अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—

दर्शनाथी (छट्टाणवडिए) षट् स्थान पतित छे (से एणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ जहणगुणकालगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता) ओ करखे डे गौतम ! ओपु क्खु छे के जघन्य गुणु काणा नारकोना अनन्त पर्याय छे (एवं उक्कोसगुण-कालए वि) ओए रीते उत्कृष्ट गुणु काणा नारक पणु (अजहणमणुक्कोसगुण-कालए वि) मध्यम गुणु काणा पणु (नवरं) विशेष ओ छे के (कालवणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) कृष्ण वणुना पर्यायाथी छ स्थान पतित छे (एव अवसेसा चत्तारि वण्णा) ओ प्रकारे शेष आर वणु (दो गंधा) ओ गंध (पंच रसा) पाच रस (अट्ट फासा) आठ स्पर्श (भाणियव्वा) कडेवा जेछिओ

(जहण्णाभिणिवोहियनाणीणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा पणत्ता) डे भगवन् ! जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानवाणा नारकोना केटवा पर्याय क्ख्हा छे (गोयमा ! जहण्णाभिणिवोहियनाणीणं नेरइयाणं अणता पज्जवा पणत्ता) डे गौतम ! जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानी नारकोना अनन्त पर्याय क्ख्हा छे (से केणट्टेणं भंते !)

नैरयिकाणां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यगुणकालकानाम् नैरयिकाणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यगुणकालको नैरयिको जघन्यगुणकालकस्य नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः स्थित्या चतुःस्थानपतितः, कालवर्णपर्यवैस्तुल्यः, अवशेषैः वर्णगंधरसस्पर्शपर्यवैः, त्रिभिर्ज्ञानैः, त्रिभिरज्ञानैः, त्रिभिर्दर्शनैः, पट्स्थानपतितः, तत्

(जहण्णगुणकालगाणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?) भगवन् ! जघन्यगुणकाले नारकों के कितने पर्याय हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) गौतम ! अनन्त पर्याय हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—जहण्णगुणकालगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) किस कारण हे भगवन् ! ऐसा कहा जाता है कि जघन्यगुण काले नारकों के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा ! हे गौतम ! (जहण्णगुणकालए नेरइए जहण्णगुणकालगस्स नेरइयस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले) जघन्यगुण काला नारक जघन्यगुण काले नारक से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है (पएसट्ठयाए तुल्ले) प्रदेशों की दृष्टि से तुल्य है (ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए) अवगाहना से चतुः स्थानपतित है। (ठिईए चउट्ठाणवडिए) स्थिति से चतुः स्थानपतित है (काल वण्णपज्जवेहिं तुल्ले) कृष्णवर्ण के पर्याय से तुल्य है (अवसेसेहिं वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं) शेष वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से (तिहिं नाणेहिं) तीन ज्ञानों से (तिहिं अण्णाणेहिं) तीन अज्ञानों से (तिहिं दंसणेहिं)

(जहण्णगुणकालगाणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! जघन्य गुण काला नारकोना केट्ठया पर्याय छे ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे (से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—जहण्णगुणकालगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) शा कारणे हे भगवन् एवु कथु छे के जघन्य गुण काला नारकोना अनन्त पर्याय छे ? (गोयमा !) गौतम ! (जहण्णगुणकालए नेरइए जहण्णगुणकालगस्स नेरइयस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले) जघन्य गुण काला नारके जघन्य गुण काला नारकथी द्रव्यनी दृष्टिअे तुल्य छे (पएसट्ठयाए तुल्ले) प्रदेशानी अपेक्षाअे तुल्य छे (ओगाहणट्ठयाए—चउट्ठाण वडिए) अवगाहनाथी अतुःस्थान पतित छे (ठिईए चउट्ठाणवडिए) स्थितिथी अतुःस्थान पतित छे (कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले) कृष्णवर्णना पर्यायथी तुल्य छे (अवसेसेहिं वण्ण गंधरसफासपज्जवेहिं) शेष, वर्ण, गंध, रस, स्पर्शना, पर्यायथी (तिहिं नाणेहिं) त्रय ज्ञानेथी (तिहिं अण्णाणेहिं) त्रय अज्ञानेथी (तिहिं दंसणेहिं) त्रय

एतेनार्थेन गौतम ! एवमुच्यते—जघन्यगुणकालकानां नैरयिकाणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, एवमुत्कृष्टगुणकालकोऽपि, अजघन्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि एवञ्चैव, नवरं कालवर्णपर्यवैः पदस्थानपतितः, एवम् अवशेषाश्चत्वारो वर्णाः, द्वौ गन्धौ, पञ्चरसाः, अष्टौ स्पर्शाः भणितव्याः, जघन्याभिनिबोधिकज्ञानीना भदन्त ! नैरयिकाणां कियन्तः पर्यवा प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्याभिनिबोधिकज्ञानिनां नैरयिकाणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्या-

तीन दर्शनों से (छट्टाणवडिण) षट् स्थान पतित है (से एणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—जहणगुण कालगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता) इस कारण हे गौतम ! ऐसा कहा है कि जघन्यगुण काले नारकों के अनन्त पर्याय हैं (एवं उक्कोसगुणकालए वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट गुण काला नारक भी (अजहणमणुक्कोसगुण कालए वि) मध्यमगुण काला भी (नवरं) विशेष यह कि (कालवणपज्जवेहिं) छट्टाणवडिण) कृष्णवर्ण पर्यायों से पद स्थान पतित है (एवं अवसेसा चत्तारि वण्णा) इसी प्रकार शेष चारों वर्ण (दो गंधा) दो गंध (पंच रसा) पांच रस (अट्टफासा) आठ स्पर्श (भाणियच्चा) कहने चाहिए ।

(जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा पणत्ता) भगवन् ! जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानवाले नारकों के कितने पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता (गौतम ! जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी नारकों के अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ—

दर्शनेथी (छट्टाणवडिण) षट् स्थान पतित छे (से एणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ जहणगुणकालगाण नेरइयाणं अणता पज्जवा पणत्ता) अे डारखे डे गौतम ! अेपु इल्लु छे डे जघन्य गुणु डायाना नारकेना अनन्त पर्याय छे (एवं उक्कोसगुणकालए वि) अेव रीते उत्कृष्ट गुणु डायाना नारके यल्लु (अजहणमणुक्कोसगुणकालए वि) मध्यम गुणु डायाना यल्लु (नवरं) विशेष अे छे डे (कालवणपज्जवेहिं छट्टाणवडिण) कृष्ण वरुणना पर्यायेथी छ स्थान पतित छे (एवं अवसेसा चत्तारिवण्णा) अे प्रडारि शेष आर वरुणु (दो गंधा) डे गंध (पंच रसा) पाच रस (अट्ट फासा) आठ स्पर्श (भाणियच्चा) इडेया नेछिअे.

(जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा पणत्ता) डे लवणन् ! जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानवाणा नारकेना डेट्ठा पर्याय इल्लु छे (गोयमा ! जहण्णाभिणिबोहियनाणीण नेरइयाण अणता पज्जवा पणत्ता) डे गौतम ! जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानी नारकेना अनन्त पर्याय इल्लु छे (से केणट्टेणं भंते !)

भिनिबोधिकज्ञानीनां नैरयिकाणाम् अनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघ-
न्याभिनिबोधिकज्ञानी नैरयिको जघन्याभिनिबोधिकस्य ज्ञानिनो नैरयिकस्य
द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः,
स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः, पदस्थानपतितः आभिनि-
बोधिकज्ञानपर्यवैस्तुल्यः, श्रुतज्ञानपर्यवैः, अवधिज्ञानपर्यवैः पदस्थानपतितः
त्रिभिर्दर्शनैः पदस्थानपतितः, एवम् उत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञान्यपि, अजघ-

जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?
किस हेतु से भगवन् ! ऐसा कहा है कि जघन्य आभिनिबोधिक-
ज्ञानी नारकों के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जह-
ण्णाभिणिबोहियनाणी नेरइए) जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानी नारक
(जहण्णाभिणिबोहियस्स नाणिस्स नेरइयस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) जघन्य
आभिनिबोधिकज्ञानी नारक से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है (पएसट्ट-
याए तुल्ले) प्रदेशों की दृष्टि से तुल्य है (ओगाहणट्टयाए चउट्टाण
वडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित है (ठिईए चउट्टाणवडिए)
स्थिति से चतुःस्थानपतित है (वण्णगधरसफासपज्जवेहिं छट्टाण-
वणिए) वर्ण, गंध, रस, स्पर्शपर्यायों से षट्स्थानपतित है (आभिणि
बोहिय नाणपज्जवेहिं तुल्ले) आभिनिबोधिकज्ञान के पर्यायों से
तुल्य है (सुयनाणपज्जवेहिं, ओहि नाणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) श्रुत-
ज्ञान के पर्यायों से, एवं अवधिज्ञान के पर्यायों से षट् स्थान पतित है
(तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए) तीन दर्शनों से षट् स्थानपतित है

एवं बुच्चइ-जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं नेरइयाण अणंता पज्जवा पण्णत्ता) क्या
हेतुથી भगवन् ! એવું કહ્યું છે કે જઘન્ય આભિનિબોધિક જ્ઞાની નારકોના અનન્ત
પર્યાય કહ્યા છે ? (ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (જહણ્ણાભિનિબોહિયનાણી નેરइए) જઘન્ય
આભિનિબોધિક જ્ઞાની નારક (જહણ્ણાભિનિબોહિયસ્સ નાણિસ્સ નેરइयस्स दव्व-
ट्टयाए तुल्ले) જઘન્ય આભિનિબોધિક જ્ઞાની નારકથી દ્રવ્યની દૃષ્ટિએ તુલ્ય છે
(પएसट्टयाए तुल्ले) પ્રદેશોની દૃષ્ટિએ પણ તુલ્ય છે (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए)
अवगाहनाથી अतु स्थान पतित છે (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिએ अतु
स्थान पतित છે (वण्णगधरसफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) वर्णुं गंध रस
स्पर्शना पर्यायोથી છ स्थान પતિત છે (आभिणिबोहियनाणपज्जवेहिं तुल्ले)
आभिनियोधिक ज्ञानना पर्यायोથી तुल्य છે (सुयणाणपज्जवेहिं, ओहिनाणपज्जवेहिं
छट्टाणवडिए) श्रुतज्ञानना पर्यायोથી अने अवधिज्ञानना पर्यायोથી पदस्थान पतित
છ (तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए) ત્રણ દર્શનોથી છ स्थान पतित છે (एवं उक्तो-

न्यानुत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञान्यपि एवञ्चैव, नवरम् आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैः स्वस्थाने षट्स्थानपतितः, एवं श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञान्यपि, नवरं यस्य ज्ञानानि तस्य अज्ञानानि न सन्ति, यथा ज्ञानानि तथा अज्ञानान्यपि भणितव्यानि, नवरं यस्याज्ञानानि तस्य ज्ञानानि न भवन्ति, जघन्यचक्षुर्दर्शनीनां भदन्त ! नैरयिकाणां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत्केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते-जघन्य चक्षुर्दर्शनिको नैरयिको

(एवं उक्कोसाभिनिबोहियनाणी वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानी (अजहण मणुक्कोसाभिनिबोहियनाणी वि, मध्यम आभिनिबोधिकज्ञानी भी (एवं चेव) इसी प्रकार (नवरं) विशेष यह कि (आभिनिबोहियनाणपज्जवेहिं सट्ठाणे छट्ठाणवडिण्) अभिनिबोधिकज्ञान के पर्यायों से स्वस्थान में षट् स्थानपतित है (एवं सुयनाणी) इसी प्रकार श्रुतज्ञानी (ओहिनाणी वि) अवधिज्ञानी भी (नवरं) विशेष (जरस्स नाणा तस्स अण्णाणा नत्थि) जिसे ज्ञान होते हैं उसे अज्ञान नहीं होते (जहा नाणा तहा अण्णाणा वि भाणियव्वा) जैसे ज्ञान वैसे अज्ञान भी कहने चाहिए (नवरं जरस्स अन्नाणा तस्स नाणा न भवन्ति) विशेष यह कि जिसे अज्ञान है उसे ज्ञान नहीं होते ।

(जहण चक्खुदंसणीणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा पण्णत्ता ?) जघन्य चक्षुर्दर्शनी नारक के हे भगवन् ! कितने पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ जहण चक्खुदंसणीणं नेरइयाणं

साभिनिबोहियनाणी वि) એ પ્રકારે ઉત્કૃષ્ટ આભિનિબોધિક જ્ઞાની પણ (અજહણ મણુક્કોસાભિનિબોહિયાણાણી વિ) મધ્યમ આભિનિબોધિકજ્ઞાનિ પણ (એવં ચેવ) એ પ્રકારે (નવર) વિશેષ એ છે કે (આભિનિબોહિનાણપજ્જવેહિં સટ્ઠાણે છટ્ઠાણવડિણ્) આભિનિબોધિકજ્ઞાનના પર્યાયોથી સ્વસ્થાનમાં ષટ્સ્થાન પતિત છે (એવ સુયનાણી) એજ પ્રમાણે શ્રુતજ્ઞાની (ઓહિનાણી વિ) અવધિજ્ઞાની પણ (નવર) વિશેષ (જરસ્સ નાણા તસ્સ-અણ્ણાણા નત્થિ) જેને જ્ઞાન હોય છે તેને અજ્ઞાન નથી હોતું (જહા નાણા તહા અણ્ણાણા વિ ભાણિયવ્વા) જેવી રીતે જ્ઞાનનું કથન કર્યું છે તેજ રીતે અજ્ઞાનનું પણ કથન કરવું જોઈએ (નવર જરસ્સ અન્નાણા તસ્સ નાણા ન ભવન્તિ) વિશેષ એકે જેને અજ્ઞાન છે તેને જ્ઞાન નથી થતું (જહણ ચક્કુદસણીણં મંતે ! નેરइयाणं केवइया पज्जवा पण्णत्ता ?) जघन्य चक्षुर्दर्शनी नारकना हे भगवन् ! કેટલા પર્યાય કહ્યા છે (ગોયમા ! અણતા પજ્જવા પણ્ણત્તા) ગૌતમ ! અનન્ત પર્યાય કહ્યા છે (સે કેણટ્ઠેણં મંતે ! એવ બુચ્ચइ

भिनिबोधिकज्ञानीनां नैरयिकाणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्याभिनिबोधिकज्ञानी नैरयिको जघन्याभिनिबोधिकस्य ज्ञानिनो नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः, पदस्थानपतितः अभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैस्तुल्यः, श्रुतज्ञानपर्यवैः, अवधिज्ञानपर्यवैः पदस्थानपतितः त्रिभिर्दर्शनैः पदस्थानपतितः, एवम् उत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञान्यपि, अजघ-

जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? किस हेतु से भगवन् ! ऐसा कहा है कि जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानी नारकों के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णाभिणिबोहियनाणी नेरइए) जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानी नारक (जहण्णाभिणिबोहियस्स नाणिस्स नेरइयस्स द्धवट्टयाए तुल्ले) जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानी नारक से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों की दृष्टि से तुल्य है (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित है (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित है (वण्णगधरसफासपज्जवेहिं छट्टाणवणिए) वर्ण, गंध, रस, स्पर्शपर्यायों से षट्स्थानपतित है (आभिणिबोहिय नाणपज्जवेहिं तुल्ले) आभिनिबोधिकज्ञान के पर्यायों से तुल्य है (सुयणाणपज्जवेहिं, ओहि नाणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) श्रुतज्ञान के पर्यायों से, एवं अवधिज्ञान के पर्यायों से षट् स्थान पतित है (तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए) तीन दर्शनों से षट् स्थानपतित है

एवं बुच्चइ-जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता) कथा हेतुर्था भगवन् ! अपु कहुं छे के जघन्य आलिनिबोधिक् ज्ञानी नारकेना अनन्त पर्याय क्हा छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णाभिणिबोहियनाणी नेरइए) जघन्य आलिनिबोधिक् ज्ञानी नारक (जहण्णाभिणिबोहियस्स नाणिस्स नेरइयस्स द्धवट्टयाए तुल्ले) जघन्य आलिनिबोधिक् ज्ञानी नारकथी द्रव्यनी दृष्टिये तुल्य छे (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशोनी दृष्टिये पणु तुल्य छे (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनाथी यतु स्थान पतित छे (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिये यतु स्थान पतित छे (वण्णगधरसफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) वर्ण गंध रस स्पर्शना पर्यायोथी छ स्थान पतित छे (आभिणिबोहियनाणपज्जवेहिं तुल्ले) आलिनिबोधिक् ज्ञानना पर्यायोथी तुल्य छे (सुयणाणपज्जवेहिं, ओहिनाणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) श्रुतज्ञानना पर्यायोथी अने अवधिज्ञानना पर्यायोथी पदस्थान पतित छे (तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए) त्रणु दर्शनाथी छ स्थान पतित छे (एव उक्को-

न्यानुत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञान्यपि एवञ्चैव, नवरम् आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैः स्वस्थाने पदस्थानपतितः, एवं श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञान्यपि, नवरं यस्य ज्ञानानि तस्य अज्ञानानि न सन्ति, यथा ज्ञानानि तथा अज्ञानान्यपि भणितव्यानि, नवरं यस्याज्ञानानि तस्य ज्ञानानि न भवन्ति, जघन्यचक्षुर्दर्शनीना भदन्त ! नैरयिकाणां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत्केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते-जघन्य चक्षुर्दर्शनिको नैरयिको

(एवं उक्कोसाभिणिबोहियनाणी वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानी (अजहण्ण मणुक्कोसाभिणिबोहियणाणी वि) मध्यम आभिनिबोधिकज्ञानी भी (एवं चेव) इसी प्रकार (नवरं) विशेष यह कि (आभिणिबोहियनाणपज्जवेहिं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए) अभिनिबोधिकज्ञान के पर्यायों से स्वस्थान में पद स्थानपतित है (एवं सुयनाणी) इसी प्रकार श्रुतज्ञानी (ओहिनाणी वि) अवधिज्ञानी भी (नवरं) विशेष (जस्स नाणा त अण्णाणा नत्थि) जिसे ज्ञान होते हैं उसे अज्ञान नहीं होते (जहा नाणा तथा अण्णाणा वि भाणियव्वा) जैसे ज्ञान वैसे अज्ञान भी कहने चाहिए (नवरं जस्स अन्नाणा तस्स नाणा न भवन्ति) विशेष यह कि जिसे अज्ञान हैं उसे ज्ञान नहीं होते ।

(जहण्ण चक्खुदंसणीणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा पण्णत्ता ?) जघन्य चक्षुदर्शनी नारक के हे भगवन् ! कितने पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एव बुच्चइ जहण्ण चक्खुदंसणीणं नेरइयाणं

साभिणिबोहियनाणी वि) ये प्रकारे उत्कृष्ट आभिनिबोधिज्ञानी पणु (अजण्ण मणुक्कोसाभिणिबोहियाणाणी वि) मध्यम आभिनिबोधिज्ञानि पणु (एवं चेव) ये प्रकारे (नवर) विशेष ये छे डे (आभिणिबोहिनाणपज्जवेहिं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए) आभिनिबोधिज्ञानना पर्यायेथी स्वस्थानमा पदस्थान पतित छे (एव सुयनाणी) ये प्रमाणे श्रुतज्ञानी (ओहिनाणी वि) अवधिज्ञानी पणु (नवर) विशेष (जस्स नाणा तस्स अण्णाणा नत्थि) नेने ज्ञान डोय छे तेने अज्ञान नथी डेतु (जहा नाणा तथा अण्णाणा वि भाणियव्वा) येथी रीते ज्ञानपु कथन कथुं छे तेव रीते अज्ञानपु पणु कथन करपु नेधये (नवर जस्स अन्नाणा तस्स नाणा न भवन्ति) विशेष येडे नेने अज्ञान छे तेने ज्ञान नथी थपु (जहण्ण चक्खुदंसणीणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा पण्णत्ता ?) जघन्य चक्षुदर्शनी नारकना डे भगवन् ! डेटला पर्याय कक्षा छे (गोयमा ! अणता पज्जवा पण्णत्ता) गौतम ! अनन्त पर्याय कक्षा छे (से केणट्ठेणं भंते ! एव बुच्चइ

जघन्य चक्षुर्दर्शनिकस्य नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णगन्धरस-स्पर्शपर्यवैः, त्रिभिर्ज्ञानैः, त्रिभिरज्ञानैः पट्स्थानपतितः, चक्षुर्दर्शनपर्यवैस्तुल्यः, अचक्षुर्दर्शनपर्यवैः, अवधिदर्शनपर्यवैः पट्स्थानपतितः, एवमुत्कृष्टचक्षुर्दर्शन-

अणता पज्जवा पणत्ता) किस कारण से हे भगवन् ! ऐसा कहा कि जघन्य चक्षुर्दर्शनी नारकों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णचक्खुदंसणीणं नेरइए जहण्ण चक्खुदंसणिस्स नेरइयस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य चक्षुर्दर्शनी नारक जघन्य चक्षुर्दर्शनी नारक से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) (अवगाहना से चतुःस्थान पतित है (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित है (वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायों से (तिहिं नाणेहिं) तीन ज्ञानों से (तिहिं अण्णाणेहिं) तीन अज्ञानों से (छट्टाणवडिए) षट् स्थानपतित है (चक्खुदंसणपज्जवेहिं तुल्ले) चक्षुर्दर्शन के पर्यायों से तुल्य है (अचक्खुदंसणपज्जवेहिं ओहिदंसणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) अचक्षुर्दर्शन के पर्यायों से, अवधिदर्शन के पर्यायों से षट् स्थानपतित है (एवं उक्कोसचक्खुदंसणी वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट चक्षुर्दर्शनी भी (अजहण्णमणुक्कोस चक्खुदंसणी वि एवं चेव) अजघन्य-अनुत्कृष्ट चक्षुर्दर्शनी भी इसी प्रकार (नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए)

जहण्ण चक्खुदंसणीणं नेरइयाणं अणता पज्जवा पणत्ता) शा कारणे हे भगवन् ! ओम कहुं छे के जघन्य चक्षुर्दर्शनी नारकाना अनन्त पर्याय छे ? (गोयमा ! जहण्ण चक्खुदंसणीणं नेरइए जहण्ण चक्खुदंसणिस्स नेरइयस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य चक्षुर्दर्शनी नारक जघन्य चक्षुर्दर्शनी नारकथी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य छे (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशानी अपेक्षाये तुल्य छे (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनाथी अतु स्थान पतित छे (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी अतुःस्थान पतित छे (वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं) पणुं, गंध, रस, स्पर्शना पर्यायेथी (तिहिं नाणेहिं) त्रथु ज्ञानेथी (तिहिं अण्णाणेहिं) त्रथु अज्ञानेथी (छट्टाणवडिए) षट्स्थान पतित छे (चक्खुदंसणपज्जवेहिं तुल्ले) चक्षुर्दर्शनना पर्यायेथी तुल्य छे (अचक्खुदंसणपज्जवेहिं ओहिदंसणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) अचक्षुर्दर्शनना पर्यायेथी, अवधि दर्शनना पर्यायेथी षट्स्थान पतित छे (एवं उक्कोसचक्खुदंसणी वि) ओए प्रकारे उक्कट्टे चक्षुर्दर्शनी पणुं (अजहण्णमणुक्कोसचक्खुदंसणी वि एवं चेव) अजघन्य अनुत्कृष्ट चक्षुर्दर्शनी पणुं ओए प्रकारे (नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए) विशेष

कोऽपि, अजघन्यानुत्कृष्ट चक्षुर्दर्शनिकोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने पटस्थान-
पतितः, एवम् अचक्षुर्दर्शनिकोऽपि, अवधिदर्शनिकोऽपि ॥६॥

टीका—पूर्व सामान्येन नैरयिकादीना प्रत्येकं पर्यायानन्त्यं प्ररूपित,
सम्प्रति नेपामेव नैरयिकादीना जघन्योत्कृष्टाद्यवगाहनाद्यधिकृत्य प्रत्येकं पर्या-
यायं प्ररूपयितुमाह—‘जहण्णोगाहणाणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा पण्ण-
त्ता ?’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! जगन्यावगाहनकानां जघन्यम् अवगाहनम्—
शरीरोच्छ्रयो येषां ते जघन्यावगाहनकास्तेषामित्यर्थः, नैरयिकाणां क्रियन्तः
पर्यवाः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? भगवानाह—‘गोयसा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा
पण्णत्ता’ जघन्यावगाहनकानां नैरयिकाणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमस्तत्र
कारणं पृच्छति—‘से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ जहण्णोगाहणाणं नेरइयाणं

विशेष यह कि स्वस्थान में षट् स्थानपतित है (एवं अचक्षुर्दंसणी वि
ओहिदंसणी वि) इसी प्रकार अचक्षुर्दर्शनी भी, अवधिदर्शनी भी ।

टीकार्थ—पूर्व में सामान्य रूप से नारक आदि जीवों के पर्यायों
की अनन्तता का विचार किया गया था, अब उन्हीं की जघन्य उत्कृष्ट
तथा अजघन्य—अनुत्कृष्ट अवगाहना आदि के आधार से पर्यायों
के परिमाण का विचार किया जाता है

गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—भगवन् ! जिननारकों की अवगहना
जघन्य है उनके कितने पर्याय प्ररूपित किए गए हैं ? भगवान् उत्तर
देते हैं—हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाले नारकों के अनन्त पर्याय
कहे गए हैं ।

गौतमस्वामी कारण पृच्छते हैं प्रभो ! किस हेतु से ऐसा कहा जाता है
कि जघन्य अवगाहनावाले नारकों के अनन्तपर्याय कहे गए हैं ? भगवान्

ये हे स्वस्थानमा षट्स्थान पतित छे (एव अचक्षुर्दंसणी वि ओहिदंसणी वि)
ये शीते अचक्षुर्दर्शनी पणु अवधि दर्शनी पणु

टीकार्थ—पूर्वमा सामान्य उपथी नारक आदि लोकेना पर्यायिनी अन-
न्तता ना विचार कर्ये छे, हुवे तेमनी जघन्य, उत्कृष्ट, तथा अजघन्य—अनु-
त्कृष्ट अवगाहना आदिना आधारथी पर्यायिना परिमाणेना विचार कराय छे.

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! ये नारकेनी अवगाहना जघन्य
छे, तेमना केटला पर्याय प्ररूपित करायेला छे ?

श्रीभगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! जघन्य अवगाहनावाणा नारकेना
अनन्त पर्याय कइया छे ?

श्रीगौतमस्वामी कारण पृछे छे—हे प्रभो ! कथा हेतुथी ओम कइवाय छे हे

अणंता पज्जवा पणत्ता ?' तत्-अथ केनार्थेन-कथं तावत्, एवम् उक्तीत्या, उच्यते-यत् जघन्यावगाहनकानाम् नैरयिकाणां अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति,

भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहण्णोगाहणए नेरइए' जघन्यावगाहनको नैरयिकः 'जहण्णोगाहणस्स नेरइयस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले' जघन्यावगाहनकस्य नैरयिकस्य-नैरयिकान्तरस्य द्रव्यार्थतया-द्रव्यार्थिकनयेन, तुल्यो भवति 'पएसट्ठयाए तुल्ले' प्रदेशार्थतया-प्रदेशापेक्षया तुल्यो भवति, 'ओगाहणट्ठयाए तुल्ले' अवगाहनार्थतया शरीरोच्छ्रयरूपावगाहनापेक्षयाऽपि तुल्यो भवति, अयं भावः-'एकमपि द्रव्यमनन्तपर्यायमिति न्यायेन इदमपि नारकजीवद्रव्यमेकसंख्यावरूढम् अनन्तपर्यायं भवितुं मर्हति इत्यभिप्रायेण नैरयिको जघन्यावगाहनको जघन्यावगाहनकस्य नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवतीत्युक्तम्, एवमेव इदमपि नारकजीवद्रव्यं लोकाकाशप्रदेशपरिमाणप्रदेशमिति जघन्यावगाहनको नैरयिको जघन्यावगाहनकस्य नैरयिकस्य तुल्यो भवतीत्युक्तम्, तत्र प्रदेशवद्-अप्रदेशवद्

उत्तर देते हैं-हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाला एक नारक दूसरे जघन्य अवगाहना वाले नारक से द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य है ! अवगाहना की दृष्टि से तुल्य है-उसमें कोई हीनाधिकता का संभव नहीं है क्योंकि जघन्य अवगाहना का एक ही स्थान होता है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक द्रव्य अनन्त पर्याय वाला होता है, इस न्याय के अनुसार नारक जीवद्रव्य एक होते हुए भी अनन्त पर्याय वाला हो स े । अनन्त पर्याय वाला होते हुए भी वह द्रव्य से एक हैं जैसे कि अन्य नारक एक एक हैं। इसी प्रकार प्रत्येक नारक जीव लोक श प्रमाण असंख्यात प्रदेशों वाला होता है अतः प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है

जघन्य अवगाहनावाणा नारकेना अनन्त पर्याय कहेला छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे-हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाणो जेक नारक जीव जघन्य अवगाहनावाणा नारकथी द्रव्यनी अपेक्षाजे तुल्य छे अने प्रदेशेनी अपेक्षाजे तुल्य छे अने जे अवगाहनानी दृष्टिजे पणु तुल्य छे. तेमा केई हीनाधिकता स लवती नहीं, केमके जघन्य अवगाहनातु' जेक ज स्थान होय छे तात्पर्य' जे छे के प्रत्येक द्रव्य अनन्त पर्यायवाणा होय छे, जे न्यायना अनुसार नारक एव द्रव्य जेक होवा छता अनन्त पर्यायवाणा थर्क शके छे अनन्त पर्यायवाणा थवा छता ते द्रव्यथी जेक छे जेमके जधा अन्य नारके जेक जेक छे जे प्रकारे प्रत्येक नारक एव लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशोवाणा थाय छे, तेथी प्रदेशोनी अपेक्षाजे पणु ते तुल्य छे.

द्रव्यद्वैविध्यप्रदर्शनार्थं प्रदेशार्थतया तुल्यत्वाभिधानमवसेयम्, तत्र परमाणुप्रदेशः द्विप्रदेश निप्रदेशादि किन्तु प्रदेशवद भवति, एतच्च द्रव्यद्वैविध्यं पुद्गलस्ति-
काये एव भवति, शेषाणि तु धर्मास्तिकायाटीनि द्रव्याणि नियमतः सप्रदेशानि
बोव्यानि, किन्तु 'ठिईए चउट्टाणवडिए' स्थित्ता-आयु' जमानुधवलक्षणस्थि-
त्यपेक्षया- 'चउट्टाणवडिए' चतुःस्थानपतितो एतन्नि तथा च जघन्यावगाहनको
नैरयिको दशवर्षसहस्राणि स्थितिकोऽपि रत्नप्रभायां भवति, उत्कृष्टस्थितिकोऽपि
भवति अधःरासमनरक पृथिव्याम्, तस्मान् स्थित्यपेक्षया जघन्यावगाहनको नैर-
यिको जघन्यावगाहनकस्य नैरयिकस्य असंख्येयभागतीतो वा, संख्येयभाग-

प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, यह कथन इस तथ्य को प्रकट करता है कि द्रव्य दो प्रकार के होते हैं- सप्रदेश और अप्रदेश। परमाणु अप्रदेश है और स्कन्ध सप्रदेश द्रव्य है, यह दो भेद केवल पुद्गलद्रव्य में ही होते हैं। पुद्गल के अतिरिक्त धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य नियम से सप्रदेश ही होते हैं। कालद्रव्य भी सप्रदेश नहीं है

जघन्य अवगाहना वाले एक नारक से दूसरे जघन्य अवगाहना वाले नारक में इतनी समानता होने पर भी स्थिति में समानता ही, ऐसा नियम नहीं है। स्थिति की अपेक्षा यह चतुःस्थानपतित होता है। एक जघन्य अवगाहनावाला नारक दस हजार वर्ष की स्थितिवाला रत्नप्रभा पृथ्वी में भी होता है और एक उत्कृष्ट स्थिति वाला भी सातवीं पृथ्वी में होता है। इस कारण जघन्य अवगाहना वाला नारक स्थिति की अपेक्षा से असंख्यातभाग हीन संख्यातभाग हीन संख्या-
तगुण हीन या असंख्यातगुण हीन हो सकता है और जो अधिक

प्रदेशोनी अपेक्षाये तुल्य छे ये कथन आ तथ्यने प्रगट करे छे के द्रव्य
ये प्रकारना होय छे-सप्रदेश अने अप्रदेश परमाणु अप्रदेश अने स्कन्ध सप्रदेश
द्रव्य छे आ ये वेद केवण पुद्गल द्रव्यमा न थाय छे. पुद्गलना अतिरिक्त
धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य नियमथी सप्रदेश न अने छे (कालद्रव्य पणु सप्रदेश नथी)

जघन्य अवगाहना वाणा ओक नारकथी जीन जघन्य अवगाहनावाणा
नारकमा ओटली समानता होवा छता पणु स्थितिमा समानता होय न ओवे
नियम नथी स्थितिनी अपेक्षाये ते अतु स्थान पतित थाय छे ओक जघन्य
अवगाहनावाणा नारक दश हजार वर्षनी स्थितिवाणा रत्नप्रभा पृथ्वीमा पणु
थाय छे अने ओक उत्कृष्ट स्थितिवाणा पणु सातमी पृथ्वीमा थाय छे ओ
कारणे जघन्य अवगाहनावाणा नारक स्थितिनी अपेक्षाये असंख्यात भागहीन,
संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन अगर असंख्यात गुणहीन थप थके छे

हीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा भवति, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवतीति भावः, 'वर्णगंधरसफासपञ्जवेहि' वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः 'तिहिं नाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणमडिण्' त्रिभिः ज्ञानैः—मतिश्रुतावधिज्ञानैः, त्रिभिः अज्ञानैः—मत्यज्ञान श्रुताज्ञानविभङ्गलक्षणैः, त्रिभिर्दर्शनैः—चक्षु—अचक्षु—अवधिदर्शनरूपैः जघन्यावगाहनको नैरयिकः षट्स्थानपतितो भवति, तथा च जघन्यावगाहनको नैरयिको जघन्यावगाहनकस्य नैरयिकस्य वर्णादिभिः अनन्तभागहीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा भवति, अनन्तभागाभ्यधिको वा, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्य-
है वह असंख्येयभाग अधिक संख्येयभाग अधिक संख्येयगुण अधिक अथवा असंख्येयगुण अधिक भी हो सकता है ।

जघन्य अवगाहना वाला नरक वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से तीन ज्ञानों, तीन अज्ञानों और तीन दर्शनों के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है । तीन ज्ञान अर्थात् मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान, तीन अज्ञान अर्थात् मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान और विभङ्गज्ञान, तीन दर्शन अर्थात् चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अवधिदर्शन । तात्पर्य यह है कि एक जघन्य अवगाहना वाले नारक से दूसरे जघन्य अवगाहना वाले नारक में वर्ण आदि पूर्वोक्त के पर्याय अनन्तभाग हीन, असख्यातभागहीन संख्यातभागहीन संख्यातगुणहीन, असंख्यातगुण हीन और अनन्तगुण हीन हो सकते हैं और अधिक हों

अने अने अधिक छे ते असंख्येयभाग अधिक, संख्येयभाग अधिक, संख्येय गुण अधिक अथवा असंख्येय गुण अधिक पण थप शके छे

जघन्य अवगाहनावाणा नारक वर्ण, गंध, रस, अने स्पर्शना पर्यायेथी त्रिज्ञान, त्रि अज्ञान अने त्रि दर्शनेना पर्यायेथी षट्स्थान पतित अने छे. त्रिज्ञान अर्थात् मतिज्ञान, श्रुतज्ञान अने अवधिज्ञान त्रि अज्ञान अर्थात् मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान अने विभङ्गज्ञान, त्रि दर्शन अर्थात् चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन अने अवधि दर्शन तात्पर्य अे छे के अेक जघन्य अवगाहनावाणा नारकथी अण्णं जघन्य अवगाहनावाणा नारकमा वर्ण आदि पूर्वोक्तना पर्याय अनन्त भागहीन, असंख्यात भागहीन संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अने अनन्त गुणहीन थप शके छे अने अधिक होय ते अनन्तभाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण

धिको वा, सख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्य-
धिको वा भवति, तथाहि यदा गर्भव्युत्क्रान्तिक संज्ञिपञ्चेन्द्रियो नरकेपूत्पद्यते
तदा स नरकायुः संवेदनप्रथमसमय एव पूर्वापात्तौदारिकशरीरपरिशाटयति
तस्मिन्नेव समये सम्यग्दृष्टे स्त्रीणि ज्ञानानि मिथ्यादृष्टे स्त्रीणि अज्ञानानि समु-
त्पद्यन्ते तदनन्तरम् अविग्रहेण विग्रहेण वा गत्वा वैक्रियशरीरं समवहन्ति, यः पुनः
संमूर्च्छिमासंज्ञिपञ्चेन्द्रियो नरकेपूत्पद्यते तस्य तदानीं विभङ्गज्ञानं नास्तीति जघन्या-
वगाहनकस्यास्य नैरयिकस्याज्ञानानि भजनया अवसेया द्वेत्रीणिवेति भावः,

गौतमः पृच्छति—उकोसोगाहणगाणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा
पण्णात्ता ?' हे भदन्त ! उत्कृष्टावगाहनकानां नैरयिकाणां कियन्तः पर्यवाः—

तो अनन्तभाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक संख्यातभाग अधिक
संख्यातगुण अधिक असंख्यातगुण अधिक अथवा अनन्तगुण अधिक
भी हो सकते हैं। वह इस प्रकार—कोई गर्भजसंज्ञीपंचेन्द्रिय जीव नारक में
उत्पन्न होता है तब वह नारकायु के वेदन के प्रथमसमय में ही पूर्वप्राप्त
औदारिक शरीर का परिशाटन करता है, उसी समय सम्यग्दृष्टि को
तीन ज्ञान और मिथ्यादृष्टि को तीन अज्ञान उत्पन्न होते हैं। तत्प-
श्चात् अविग्रह अथवा विग्रह से गमन करके वैक्रियशरीर को धारण
करता है। किन्तु जो संमूर्च्छिम असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव नारक में उत्पन्न
होता है, उसे उस समय विभंगज्ञान नहीं होता, इस कारण जघन्य
अवगाहनावाले नारक को भजना से दो अथवा तीन अज्ञान होते हैं
ऐसा समझ लेना चाहिए।

गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—भगवन् ! उत्कृष्ट अवगाहना वाले
नारकों के कितने पर्याय कहे गए हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम !

अधिक, असंख्यात गुण अधिक अथवा अनन्त गुण अधिक पण्ण थथ शके छे.
ते आ रीते—न्यारे केधं गल्लं स री पञ्चेन्द्रिय एव नरकमा उत्पन्न थाय छे
त्यारे ते नरकायुना वेदनना प्रथम समयमा ए पूर्वा प्राप्त औदारिक शरीरतु
परिशाटन करे छे. तेण वभते सम्यग्दृष्टिने त्रणु ज्ञान अने मिथ्यादृष्टिने त्रणु
अज्ञान उत्पन्न थाय छे त्यार पछीथी अविग्रह अथवा विग्रहथी गमन करीने
वैक्रिय शरीरने धारण करे छे परन्तु वे संमूर्च्छिम असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय एव
नरकमा उत्पन्न थाय छे, तेने ते समये विभंगज्ञान नहीं होतु. ये कारणे
जघन्य अवगाहनावाणा नारकने लज्जाथी ये अथवा त्रणु अज्ञान थाय छे येम
समए वेपु जेधंये.

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! उत्कृष्ट अवगाहनावाणा नारकाना
केटला पर्याय कहेला छे ?

પર્યાયાઃ પ્રજ્ઞાસાઃ ? ભગવાન્ આહ—‘ગોયમા !’ હે ગૌતમ ! ‘અર્ણતા પજ્જવા પળ્ણત્તા’ ઉત્કૃષ્ટાવગાહનકાનાં નૈરયિકાણામ્ અનન્તાઃ પર્યાયાઃ પ્રજ્ઞાસાઃ, ગૌતમસ્તત્ર કારણં પૃચ્છતિ—‘સે કેણટ્ટેણં મંતે ! એવં વુચ્ચઈ’ હે મદન્ત ! તત્—અથ, કેનાથેન—કથં તાવત્, એવમુક્તરીત્યા ઉચ્ચતે યત્—‘ઉક્કોસોગાહણગાણં નેરહ્યાણં અર્ણતા પજ્જવા-પળ્ણત્તા ?’ ઉત્કૃષ્ટાવગાહનકાનાં નૈરયિકાણામ્ અનન્તાઃ પર્યાયાઃ—પર્યાયાઃ પ્રજ્ઞાસાઃ ? इति, ભગવાન્ આહ—ગોયમા !’ હે ગૌતમ ! ‘ઉક્કોસોગાહણે નેરહ્યે ઉક્કોસોગાહણસ્સ નેરહ્યસ્સ દવ્વટ્ટયાએ તુલ્લે’ ઉત્કૃષ્ટાવગાહનકો નૈરયિકઃ ઉત્કૃષ્ટાવગાહનકસ્ય નૈરયિકસ્ય દ્રવ્યાર્થતયા તુલ્યો ભવતિ, ‘પણ્ણસહ્યાએ તુલ્લે’ પ્રદેશાર્થતયા તુલ્યો ભવતિ, ‘ઓગાહણટ્ટયાએ તુલ્લે’ ઓવગાહનાર્થતયા તુલ્યો ભવતિ પ્રાગુક્તયુક્તેઃ, કિન્તુ ‘ઠિઈએ સિય હીણે, સિય તુલ્લે, સિય અબ્ભહિએ’ સ્થિત્યા—આયુઃ કર્માનુભવલક્ષણસ્થિત્યપેક્ષયા, સ્યાત્—કદાચિત્, હીનો ભવતિ, સ્યાત્—કદાચિત્ તુલ્યો ભવતિ, સ્યાત્—કદાચિત્ અભ્યધિકો ભવતિ, તત્ર ‘જઈ

ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના વાલે નારકોં કે અનન્ત પર્યાય હૈં । ગૌતમ કારણ પૂછતે હૈં—હે ભગવન્ ! કિસ કારણ એસા કહા ગયા હૈ કિ ? ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના વાલે નારકોં કે અનન્ત પર્યાય હૈં ? ભગવન્ ફરમાતે હૈં—હે ગૌતમ ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના વાલા એક નારક ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના વાલે દૂસરે નારક કી અપેક્ષા દ્રવ્ય સે તુલ્ય હોતા હૈ, પ્રદેશોં કી અપેક્ષા સે મી તુલ્ય હોતા હૈ ઓર અવગાહના સે મી તુલ્ય હોતા હૈ, ક્યોંકિ ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના કા એક હી સ્થાન હૈ, અસમેં કોઈ તારતમ્ય કા સંભવ નહી હૈ । ઝગર સ્થિતિ કી અપેક્ષા સ્યાત્ હીન હોતા હૈ, સ્યાત્ તુલ્ય હોતા હૈ । સ્યાત્ અધિક હોતા હૈ, અર્થાત્ યહ આવશ્યક નહી કિ ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના વાલે સમી નારકોં કી સ્થિતિ સમાન હી હો અથવા અસમાન હી હો । અસમાન હોતે હુએ યદિ હીન હૈ તો અસંલ્યાતમાગ

શ્રી ભગવાન્ । ઉત્તર આપે છે—હે ગૌતમ । ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના નારકોના અનન્ત પર્યાય છે

શ્રીગૌતમસ્વામી કારણ પૂછે છે—હે ભગવન્ । શા કારણથી એમ કહેવાયુ છે ?

શ્રી ભગવાન્ કહે છે—હે ગૌતમ । ઉત્કૃષ્ટ અવગાહનાવાળો એક નારક ઉત્કૃષ્ટ અવગાહનાવાળા બીજા નારકની અપેક્ષાએ દ્રવ્યથી તુલ્ય બને છે પ્રદેશોની અપેક્ષાએ પણ તુલ્ય થાય છે અને અવગાહનાથી પણ તુલ્ય થાય છે, કેમકે ઉત્કૃષ્ટ અવગાહનાનુ એક જ સ્થાન છે નેમા કોઈ તારતમ્યનો સંભવ નથી. પણ સ્થિતિની અપેક્ષાએ સ્યાત્ હીન થાય છે સ્યાત્ તુલ્ય થાય છે સ્યાત્ અધિક થાય છે અર્થાત્ તે આવશ્યક નથી કે ઉત્કૃષ્ટ અવગાહનાવાળા બધા નારકોની

हीणे असंखिज्जभागहीणे वा' यदा हीनो भवति तदा असंख्येयभाग हीनो वा भवति, 'संखिज्जभाग हीणे वा' संख्येयभागहीनो वा भवति, 'अह्म अह्म-हिए, असंखिज्जभाग अह्महिए वा, संखिज्जभाग अह्महिए वा' अथाभ्यधिको यदा भवति तदा असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा भवति, इत्येवं स्थित्यपेक्षया हानौ वृद्धौ च द्विस्थानपतितत्वं भवति नतु संख्येया-संख्येयगुणवृद्धिहानिरूप सम्मेलनेन चतुः स्थानपतितत्वं संभवति, उत्कृष्टागाहन-कानां नैरयिकाणां पञ्चधनुः शतप्रमाणत्वेन तेषाञ्च सप्तमनरकपृथिव्यां सत्त्वेन तत्र द्वाविंशतिः सागरोपमाणि जघन्येन स्थितेः सद्भावात्, उत्कृष्ट तु त्रय-त्रिंशत् सागरोपमाणि स्थितेः सद्भावाच्चासंख्येयसंख्येयभागहानिवृद्धचोरेव-संभवेन असंख्येय संख्येयगुण हानि वृद्धचोरसंभवात्, किन्तु 'वर्ण गंधरसफास-

हीन या संख्यात भाग हीन होता है और यदि अधिक हों तो असं-ख्यातभाग अधिक या संख्यातभाग अधिक भी हो सकता है। इस प्रकार स्थिति की अपेक्षा द्विस्थानपतितता समझनी चाहिए। यहाँ संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुण हानि वृद्धि मिलकर चतुःस्थान पतित हानि-वृद्धि नहीं होती इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट अवगाहना वाले नारक पाँचसौ धनुष्य की उंचाई के सातवें नरक में ही पाये जाते हैं। वहाँ जघन्य वाईस और उत्कृष्ट तेतीस सागरो-पम की स्थिति है। अतएव इस स्थिति में संख्यात-असंख्यातभाग हानि-वृद्धि ही हो सकती है, संख्यात-असंख्यातगुण हानि वृद्धि का संभव नहीं है।

किन्तु वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से, तीन ज्ञान, तीन

स्थिति समान न होय अथवा असमान न होय, समान न होया छता नो हीन थाय तो असंख्यात भागहीन वा संख्यात भागहीन थाय छे अने नो अधिक होय तो असंख्यात भाग अधिक अगर संख्यात भाग अधिक पणु भनी शके छे. ये रीते स्थितिनी अपेक्षाये द्विस्थान पतितता समंभवी नोछे अही' संख्यातगुणहानि अने असंख्यातगुणहानि-वृद्धि भणीने यतु स्थान पतित-हानि वृद्धि नथी थती येतु कारणु ये छे के उत्कृष्ट अवगाहनावाणा नारक पायसे धनुषनी उचाईना सातमा नरकमा न भणी आवे छे त्यां जघन्य भावीस अने उत्कृष्ट तेतीस सागरोपमनी स्थिति छे तेथी न ये स्थितिमा संख्यात असंख्यात भागहानि-वृद्धि थछे शके छे, संख्यात-असंख्यातगुण हानि-वृद्धिना संभव नथी

किन्तु पणु, गंध, रस, अने स्पर्शना पर्यायाधी त्रणुज्ञान, त्रणुअज्ञान

पञ्चवेर्हि' वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः, 'तिर्हि नाणेर्हि, तिर्हि अण्णाणेर्हि, तिर्हि दंस-
णेर्हि छद्वाणवडिण' त्रिमिज्ञानैः—मति श्रुतावधिज्ञानरूपैः, त्रिमिः अज्ञानैः—मत्य-
ज्ञान श्रुताज्ञानविभङ्गज्ञानरूपैः, त्रिमिः दर्शनैः—चक्षुरचक्षुरवधि दर्शनरूपैश्च उत्कृष्टा-
वगाहनको नैरयिकः पद स्थानपतितो भवति तथा च वर्णादिभिरुत्कृष्टावगाह-
नको नैरयिकः उत्कृष्टावगाहनकस्य नैरयिकान्तरस्य अनन्तभाग हीनो वा, असं-
ख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुण हीनो वा, असंख्येय-
गुणहीनो वा, अनन्तगुण हीनो वा भवति, अनन्तभागाभ्यधिको वा, असंख्येय-
भागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असं-
ख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवति इति भावः,

तत्रोत्कृष्टावगाहनकाना त्रीणि ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि वा नियमतोऽव-
सेयानि न तु भजनया, भजनाहेतोः संसृष्टिमासंज्ञि पञ्चेन्द्रियोत्पादस्य तेषां

अज्ञान और तीन दर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित हानि-वृद्धि
समझनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि एक उत्कृष्ट अवगाहना वाला
नारक दूसरे उत्कृष्ट अवगाहना वाले नारक की अपेक्षा से उक्त
वर्ण आदि अथवा ज्ञानादि पर्यायों से हीन होता है तो अनन्तभाग
हीन, असंख्यातभाग हीन, संख्यात भाग हीन, संख्यातगुणहीन
असंख्यातगुण हीन अथवा अनन्तगुण हीन होता है। और यदि
अधिक हुआ तो अनन्तभाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक संख्या-
तभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक असंख्यातगुण अधिक अथवा
अनन्तगुण अधिक होता है।

उत्कृष्ट अवगाहना वाले नारको में तीन ज्ञान अथवा तीन
अज्ञान नियम से होते हैं, भजना से नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट अव-
गाहना वाले नारकों में संसृष्टिम असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय की उत्पत्ति नहीं

अने त्रयु दर्शनना पर्यायिथी षट्स्थान पतित हानि-वृद्धि सभजवी लोभये
तात्पर्यं ये छे के अके उत्कृष्ट अवगाहनावाणो नारक भील उत्कृष्ट अवगाहना
वाणो नारकनी अपेक्षायो उक्तपण्यु आदि अथवा ज्ञानादि पर्यायिथी हीन थाय
छे तो अनन्त भाग हीन, असंख्यात भाग हीन, संख्यातभागहीन, संख्यात
गुणहीन, असंख्यात गुणहीन अथवा अनन्त गुणहीन थाय छे, अने लो अधिक
थाय तो अनन्त भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक
संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक अथवा अनन्तगुण अधिक थाय छे.

उत्कृष्ट अवगाहनावाणो नारकोभां त्रयु ज्ञान अथवा त्रयु अज्ञान नियमधी
थाय छे लोभनाथी नही, केभके उत्कृष्ट अवगाहनावाणो नारकोभा संसृष्टिम

मसंभवात्, गौतमः पृच्छति—‘अजहण्ण मणुक्कोसोगाहणगाणं नेरइयाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?’ हे भदन्त ! अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकानाम्—न जघन्यं न चोत्कृष्टम् अवगाहनं येषां ते अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकास्तेषां मध्यमावगाहनानामित्यर्थः, नैरयिक्राणां क्रियन्तः पर्यायाः—पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणत्ता पज्जवा पणत्ता’ अनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः तत्र कारणं पृच्छति—‘से केणहेणं भंते ! एवं बुच्चइ !’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनाथेन, केन कारणेन एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते यत्—अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकानां नैरयिक्राणामनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—‘अजहण्ण मणुक्कोसोगाह-
होती । उत्कृष्ट अवगाहना वाला नारक यदि सम्यग्दृष्टि हो तो उसमें तीन ज्ञान होते हैं और यदि मिथ्यादृष्टि हो तो तीन अज्ञान होते हैं ।

जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना वाले नारकों के संबन्ध में प्रश्न करने के पश्चात् गौतम अब अजघन्यानुत्कृष्ट अवगाहना वालों के विषय में प्रश्न करते हैं—

गौतम—हे भगवन् ! अजघन्य—अनुत्कृष्ट अर्थात् जो जघन्य भी नहीं है और जो उत्कृष्ट भी नहीं है ऐसी मध्यम अवगाहना वाले नारकों के कितने पर्याय कहे हैं ?

भगवान्—गौतम ! मध्यम अवगाहना वाले नारकों के भी अनन्त पर्याय कहे गए हैं ।

गौतम—भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि मध्यम अवगाहनावालों के अनन्त पर्याय कहे हैं ?

असंज्ञी पञ्चेन्द्रियनी उत्पत्ति नथी थती, उत्कृष्ट अवगाहनावाणा नारक जे सम्यग्दृष्टि होय तो तेमनामा त्रयु ज्ञान थाय छे अने जे मिथ्यादृष्टि होय तो त्रयु अज्ञान थाय छे

जघन्य अने उत्कृष्ट अवगाहनावाणा नारकेना स अन्धमा प्रश्न कर्या पछी गौतमस्वामी हुवे अजघन्यानुत्कृष्ट अवगाहनावाणाओना विषयमा प्रश्न करे छे—

श्रीगौतमस्वामी—हे लगवान् ! अजघन्य—अनुत्कृष्ट अर्थात् जे जघन्य नथी अने जे उत्कृष्ट पणु नथी ओवा मध्यम अवगाहनावाणा नारकेना केटला पर्याय कइला छे ?

श्री लगवान्—हे गौतम ! मध्यम अवगाहनावाणा नारकेना पणु अनन्त पर्याय कइला छे

श्रीगौतमस्वामी—हे लगवान् शा कारणे ओम कइवाय छे के मध्यम अवगाहना वाणां अनन्त पर्याय कइला छे ?

णाए नेरइए' अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनको नैरयिकः 'अजहणमणुकोसोगाहणस्स नेरइयस्स दब्बट्टयाए तुल्ले' अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकस्य नैरयिकस्य द्रव्यार्थ-तया तुल्यो भवति, 'पएसट्टयाए तुल्ले' प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, 'ओगाहण-ट्टयाए सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अब्भट्टिए' अवगाहनार्थतया स्यात्-कदा-चित् हीनो भवति, स्यात्-कदाचित् तुल्यो भवति, स्यात्-कदाचित् अभ्यधिको भवति, तत्र 'जइ हीणे असंखिज्जभागहीणे वा, संखिज्जभागहीणे वा' यदा हीनो भवति तदा असंख्येयभाग हीनो वा, संख्येयभाग हीनो वा, 'संखिज्ज-गुणहीणे वा, असंखिज्जगुणहीणे वा' संख्येयगुण हीनो वा, असंख्येयगुण हीनो वा भवति, 'अह अब्भट्टिए असंखिज्जभाग अब्भट्टिए वा, संखिज्जभाग अब्भट्टिए वा' अथाभ्यधिको यदा विवक्षितस्तदा असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा 'संखिज्जगुण अब्भट्टिए वा, असंखिज्जगुण अब्भट्टिए वा' संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति, अजघन्या-नुत्कृष्टावगाहनस्य सर्वं जघन्याङ्गुलासंख्येयभागात्परतः किञ्चित् बृहत्तराङ्गुला-

भगवान्—हे गौतम ! एक मध्यम अवगाहना वाला नारक दूसरे मध्यम अवगाहना वाले नारक से द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है, प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य है, मगर अवगाहना की अपेक्षा से हीन भी हो सकता है, तुल्य भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है । यदि हीन हुआ तो असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन या असंख्यातगुण हीन हो सकता है । यदि अधिक हुआ तो असंख्यातभाग अधिक संख्यातभाग अधिक, संख्यात-गुण अधिक अथवा असंख्यातगुण अधिक हो सकता है । मध्यम अवगाहना का अर्थ है जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना के बीच की अवगाहना । इस अवगाहना का जघन्य और उत्कृष्ट अव-

श्री लगवान्—गौतम ! એક મધ્યમ અવગાહનાવાળો નારક બીજા મધ્યમ અવગાહના વાળા નારકથી દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તુલ્ય છે પ્રદેશોની અપેક્ષાએ પણ તુલ્ય છે. પણ અવગાહનાની અપેક્ષાએ હીન પણ બની શકે છે, તુલ્ય પણ બની શકે છે અને અધિક પણ બની શકે છે જો હીન થાય તો અસંખ્યાત ભાગ હીન, સંખ્યાત ભાગ હીન, સંખ્યાત ગુણ હીન, અગર અસંખ્યાત ગુણ હીન થઈ શકે છે જો અધિક થાય તો અસંખ્યાત ભાગ અધિક, સંખ્યાત ભાગ અધિક, સંખ્યાત ગુણ અધિક અથવા અસંખ્યાત ગુણ અધિક થઈ શકે છે. મધ્યમ અવગાહનાનો અર્થ છે જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ અવગાહનાની વચ્ચેની અવગાહના એ અવગાહનાના જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ અવગાહનાની સમાન નિયત એક સ્થાન નથી

संख्येयभागादारभ्य यावदङ्गुलासंख्येयभागन्यूनानि पञ्च धनुः शतानि तावत् प्रमाणतया सामान्यनैरयिकवत् अवगाहनापेक्षया उक्त चतुःस्थानपतितत्वं संभवति, इत्याक्षयः, 'ठिईए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अम्महिए' स्थित्या-आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया अजघन्यानुत्कृष्टावगाहननो नैरयिकः अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकस्य नैरयिकस्य, स्यात्-कदाचित् हीनो भवति, यथात्-कदाचित् तुल्यो भवति, स्यात्-कदाचित् अभ्यतिक्रो भवति, तत्र 'जउ हीणे असंखिज्ज-भागहीणे वा, संखिज्जभाग हीणे वा' यदा हीनो निराक्षितस्तदा असंख्येयभाग हीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, 'संखिज्जगुणहोणे वा, असंखिज्जगुणहीणे वा' संख्येयगुण हीनो वा, असंख्येयगुण हीनो वा भवति इति चतुःस्थानपतितत्वम्,

गाहना के सत्रान नियत एक स्थान नहीं हैं। सर्व जघन्य अंगुल का असंख्यातवां भाग जघन्य अवगाहना है और पांच सौ धनुष उत्कृष्ट अवगाहना। इसके बीच की जितनी भी अवगाहनाएं होती हैं, वे सब मध्यम अवगाहना की श्रेणी में ही सम्मिलित हैं। इस प्रकार सर्व जघन्य अंगुल के असंख्यातवां भाग से अधिक से लगाकर अंगुल का असंख्यातवां भाग कम पांचसौ धनुष की अवगाहना मध्यम अवगाहना समझनी चाहिए। यह अवगाहना सामान्य नारक की अवगाहना के समान चतुःस्थानपतित हो सकती है।

अजघन्य-अनुत्कृष्ट अवगाहना वाला एक नारक दूसरे नारक से स्थिति की अपेक्षा हीन भी हो सकता है, तुल्य भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। अगर हीन हो तो असंख्यात भाग हीन, संख्यात भाग हीन, संख्यातगुण हीन अथवा असंख्यातगुण

होतु। सर्व जघन्य अंगुलना असंख्यातमा लाग जघन्य अवगाहना छे अने पाचसो धनुष उत्कृष्ट अवगाहना छे तेनी वयमा नेटवी पणु अवगाहनाओ भने छे ते भधी मध्यम अवगाहनानी श्रेणिमा ज सम्मिलित छे. ओ प्रकारे सर्व जघन्य अंगुलना असंख्यातमा लागथी अधिक नेहीने अंगुलना असंख्यातमा लाग कछो पाचसो धनुषनी अवगाहना मध्यम अवगाहना सम-जयी नेछये. आ अवगाहना सामान्य नारकनी अवगाहनाना समान चतुस्थान पतित भनी शके छे

अजघन्य-अनुत्कृष्ट अवगाहनावाणो ओक नारक भौल नारकथी स्थितिनी अपेक्षाओ हीन पणु भनी शके छे तुल्य पणु भनी शके छे अने अधिक पणु थछे शके छे अगर हीन थाय तो असंख्यात लागहीन, संख्यात लागहीन, संख्यातगुण हीन, अथवा असंख्यात गुणहीन थछे शके छे. ओ रीते

‘अह अब्महिण् असंखिज्जभाग अब्महिण् वा, अथाभ्यधिको यदा विव-
क्षितस्तदा असंख्येयभागाभ्यधिको वा, ‘संखिज्जभाग अब्महिण् वा’ संख्येय-
भागाभ्यधिको वा भवति, ‘संखिज्जगुणमब्महिण् वा, असंखिज्जगुणमब्म-
हिण् वा’ ‘संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति
दशवर्षसहस्रेभ्यः आरभ्योत्कृष्टतत्त्वयस्त्रिंशत्सागरोपमाणामपि तस्यां स्थित्या-
मुपलभ्यमानत्वात् किन्तु ‘वण्ण गंधरसफासपज्जवेहिं तिहिं नाणेहिं तिहिं
अण्णाणेहिं, तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिण्’ वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः, त्रिभिर्ज्ञानैः-
मति श्रुतावधिलक्षणज्ञानपर्यवैः त्रिभिरज्ञानैः-मति-अज्ञान श्रुताज्ञानविभङ्गज्ञान-
लक्षणज्ञानपर्यवैः, त्रिभिः दर्शनैः-चक्षु रचक्षुरवधिलक्षण दर्शनपर्यवैश्च अजघन्या-
नुत्कृष्टावगाहनको नैरयिकः षट्स्थानपतितो भवति, तथा च वर्णादिभिः अजघ-
न्यानुत्कृष्टावगाहनको नैरयिकः अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकस्य नैरयिकान्तरस्य

हीन हो सकता है। इस प्रकार चतुःस्थान पतित हीनता का संभव
है। और यदि कोई किसी से अधिक हुआ तो असंख्यात भाग
अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यातगुण अधिक अथवा असं-
ख्यातगुण अधिक भी हो सकता है। दस हजार वर्ष की जघन्य
स्थिति से लेकर उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम की स्थिति वाले नारक
भी मध्यम अवगाहनावाले हो सकते हैं, अतएव उनमें चतुःस्थान-
पतित हीनाधिकता का संभव है।

मध्यम अवगाहना वाले नारकों में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, तीन
तीन ज्ञान, तीन अज्ञान और तीन दर्शनों की अपेक्षा षट् स्थानपतित
हीनाधिकता होती है। अर्थात् एक मध्यम अवगाहना वाला नारक
दूसरे मध्यम अवगाहना वाले नारक की अपेक्षा वर्ण आदि पूर्वोक्त
की दृष्टि से अगर हीन हो तो अनन्त भाग हीन, असंख्यात भाग

चतुःस्थान पतित हीनतानो स लघु छे अने जे कोष कोषनाथी अधिक अने
तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक, अथवा
असंख्यातगुण अधिक पणु थर् शके छे एश हत्तर वर्षनी जघन्य स्थितिथी
एधने उत्कृष्ट तेतीस सागरोपमनी स्थितिवाणा नारक पणु मध्यम अवगाहना
वाणा थर् शके छे तेथीज तेमनाभा चतुःस्थान पतित हीनाधिकता स लघु छे

मध्यम अवगाहनावाणा नारकोभा वरु, गंध, रस, स्पर्श, त्रय ज्ञान,
त्रय अज्ञान अने त्रय दर्शनानी अपेक्षाये षट्स्थान पतित हीनाधिकता थाय
छे. अर्थात् एक मध्यम अवगाहनावाणा नारक जीव मध्यम अवगाहनावाणा
नारकनी अपेक्षाये वरु आदि पूर्वोक्त दृष्टिथी अगर हीन थाय तो अनन्त

अनन्तभागहीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुण-
हीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा भवति, अनन्तभागाभ्यधिको
वा, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको
वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवति इत्याशयः, प्रकृत-
मुपसंहरन्नाह—‘से एणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ—अजहणमणुक्कोसोगाहणाणं
नेरइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता’ हे गौतम ! तत्—अथ, एतेनार्थेन, एवमुक्त-
रीत्या, उच्यते—अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकानां नैरयिकाणाम् अनन्ताः पर्यवाः
प्रज्ञप्ता इति, गौतमः पृच्छति—जहण ठिइयाणं मंते ! नेरइयाणं केवदया पज्जवा
पणत्ता ? हे भदन्त ! जघन्यस्थितिकानां नैरयिकाणां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ?
भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पणत्ता’ जघन्यस्थि-
तिकानां नैरयिकाणाम् अनन्ताः पर्यवाः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘से

हीन, संख्यात भाग हीन, संख्यातगुण हीन, असंख्यातगुण हीन
अथवा अनन्तगुण हीन होता है। और यदि अधिक हो तो
अनन्त भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग
अधिक, संख्यातगुण अधिक, असंख्यातगुण अधिक अथवा अनन्त-
गुण अधिक भी हो सकता है।

अब प्रस्तुत प्रकरण का उपसंहार करते हैं—इस कारण हे गौतम !
ऐसा कहा जाता है कि अजघन्यानुत्कृष्ट अवगाहना अर्थात् मध्यम
अवगाहना वाले नारकों के अनन्त पर्याय हैं।

अब गौतम ! प्रश्न करते हैं—भगवन् ! जघन्य स्थिति वाले नारकों
के कितने पर्याय हैं ?

भगवान्—गौतम ! जघन्य स्थिति वाले नारकों के अनन्त पर्याय हैं।

लागहीन, असंख्यात लागहीन, संख्यात लागहीन, संख्यातगुण हीन, अ-
संख्यातगुणहीन थाय छे अथवा अनन्त गुणहीन थाय छे. अने जे अधिक थाय
तो अनन्त लाग अधिक, असंख्यातलाग अधिक संख्यात लाग अधिक, संख्यात
गुण अधिक, असंख्यातगुण अधिक, अथवा अनन्तगुण अधिक पण थय शके छे.

हुवे प्रस्तुत प्रकरणेनो उपसंहार करे छे—अकारणे हे गौतम ! अमे कडे-
वाय छे के अजघन्यानुत्कृष्ट अवगाहना अर्थात् मध्यम अवगाहनावाणा नारकेना
अनन्त पर्याय छे

हुवे श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—भगवन् ! जघन्य स्थितिवाणा नारकेना
केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! जघन्य स्थितिवाणा नारकेना अनन्त पर्याय छे,

‘अह अवमहि ए असंखिज्जभाग अवमहि ए वा, अथाभ्यधिको यदा विवक्षितस्तदा असंख्येयभागाभ्यधिको वा, ‘संखिज्जभाग अवमहि ए वा’ संख्येयभागाभ्यधिको वा भवति, ‘संखिज्जगुणमवमहि ए वा, असंखिज्जगुणमवमहि ए वा’ ‘संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति दशवर्षसहस्रेभ्यः आरभ्योत्कृष्टतस्त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणामपि तस्यां स्थित्यामुपलभ्यमानत्वात् किन्तु ‘वण्ण गंधरसफासपज्जवेहिं तिहि नाणेहिं तिहि अण्णाणेहिं, तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडि ए’ वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः, त्रिभिज्ञानैः—मति श्रुतावधिलक्षणज्ञानपर्यवैः त्रिभिरज्ञानैः—मति—अज्ञान श्रुताज्ञानविभङ्गज्ञानलक्षणाज्ञानपर्यवैः, त्रिभिः दर्शनैः—चक्षु रचक्षुस्वधिलक्षण दर्शनपर्यवैश्च अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनको नैरयिकः पट्स्थानपतितो भवति, तथा च वर्णादिभिः अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनको नैरयिकः अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकस्य नैरयिकान्तरस्य

हीन हो सकता है। इस प्रकार चतुःस्थान पतित हीनता का संभव है। और यदि कोई किसी से अधिक हुआ तो असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यातगुण अधिक अथवा असंख्यातगुण अधिक भी हो सकता है। दस हजार वर्ष की जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट तैत्तीस सागरोपम की स्थिति वाले नारक भी मध्यम अवगाहनावाले हो सकते हैं, अतएव उनमें चतुःस्थानपतित हीनाधिकता का संभव है।

म० अ० इहना वाले नारकों में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, तीन तीन न, तीन अज्ञान और तीन दर्शनों की अपेक्षा षट् स्थानपतित हीनाधिकता होती है। अर्थात् एक मध्यम अवगाहना वाला नारक दूसरे मध्यम अवगाहना वाले नारक की अपेक्षा वर्ण आदि पूर्वोक्त की दृष्टि से अगर हीन हो तो अनन्त भाग हीन, असंख्यात भाग

चतुःस्थान पतित हीनतासे सत्त्व छे अने जे केछ केछनाथी अधिक अने तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक, अथवा असंख्यातगुण अधिक पञ्च थर्ष शके छे दश हजार वर्षनी जघन्य स्थितिथी लधने उत्कृष्ट तैत्तीस सागरोपमनी स्थितिवाणा नारक पञ्च मध्यम अवगाहना वाणा थर्ष शके छे तेथीज तेमनामा चतुःस्थान पतित हीनाधिकता सत्त्व छे.

मध्यम अवगाहनावाणा नारकेमा वष्, गंध, रस, स्पर्श, पञ्च ज्ञान, पञ्च अज्ञान अने पञ्च दर्शनीनी अपेक्षासे षट्स्थान पतित हीनाधिकता थाथ छे अर्थात् जोके मध्यम अवगाहनावाणा नारक भीज मध्यम अवगाहनावाणा नारकनी अपेक्षासे वष् आदि पूर्वोक्त दृष्टिथी अगर हीन थाथ तो अनन्त

अनन्तभागहीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुण-
हीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा भवति, अनन्तभागाभ्यधिको
वा, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको
वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवति इत्याद्यः, प्रकृत-
मुपसंहरन्नाह—'से एषणट्टेणं गोयमा ! एव पुच्चइ—अजहणमणुत्तोमोगाहणाणं
नेरइयाणं अणत्ता पज्जवा पणत्ता' हे गौतम ! तन्—अत्र, एतेनार्थेन, एवमुक्त-
रीत्या, उच्यते—अजघन्यानुत्कृष्टावगाहना नैरयिकाणाम् अनन्ताः पर्यायाः
प्रज्ञप्ता इति, गौतमः पृच्छति—जहण ट्टिइयाणं भंते ! नेरइयाणं केइया पज्जवा
पणत्ता ? हे भदन्त ! जघन्यस्थितिकानां नैरयिकाणा क्रियन्तः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ?
भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणत्ता पज्जवा पणत्ता' जघन्यस्थि-
तिकाना नैरयिकाणाम् अनन्ताः पर्यायाः पर्यायाः प्रज्ञप्ता, गौतमः पृच्छति—'से
हीन, संख्यात भाग हीन, संख्यातगुण हीन, असंख्यातगुण हीन
अथवा अनन्तगुण हीन होता है। और यदि अधिक हो तो
अनन्त भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग
अधिक, संख्यातगुण अधिक, असंख्यातगुण अधिक अथवा अनन्त-
गुण अधिक भी हो सकता है।

अब प्रस्तुत प्रकरण का उपसंहार करते हैं—इस कारण हे गौतम !
ऐसा कहा जाता है कि अजघन्यानुत्कृष्ट अवगाहना अर्थात् मध्यम
अवगाहना वाले नारकों के अनन्त पर्याय हैं।

अब गौतम ! प्रश्न करते हैं—भगवन् ! जघन्य स्थिति वाले नारकों
के कितने पर्याय हैं ?

भगवान्—गौतम ! जघन्य स्थिति वाले नारकों के अनन्त पर्याय हैं।

लागहीन, अत्र प्यात लागहीन, स प्यात लागहीन, स प्यातशुष्प हीन, अ-
स प्यात शुष्पहीन थाय छे अथवा अनन्त शुष्पहीन थाय छे. अने जे अधिक थाय
तो अनन्त लाग अधिक, अस प्यातलाग अधिक स प्यात लाग अधिक, स प्यात
शुष्प अधिक, अस प्यातशुष्प अधिक, अथवा अनन्तशुष्प अधिक पण थय शके छे.

हुवे प्रस्तुत प्रकरणेनो उपसंहार करे छे—अये कारणे हे गौतम ! अये कहे-
वाय छे के अजघन्यानुत्कृष्ट अवगाहना अर्थात् मध्यम अवगाहनावाणा नारकेना
अनन्त पर्याय छे

हुवे श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—भगवन् ! जघन्य स्थितिवाणा नारकेना
केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! जघन्य स्थितिवाणा नारकेना अनन्त

‘अह अवमहिए असंखिज्जभाग अवमहिए वा, अथाभ्यधिको यदा विव-
क्षितस्तदा असंख्येयभागाभ्यधिको वा, ‘संखिज्जभाग अवमहिए वा’ संख्येय-
भागाभ्यधिको वा भवति, ‘संखिज्जगुणमवमहिए वा, असंखिज्जगुणमवम-
हिए वा’ ‘संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति
दशवर्षसहस्रेभ्यः आरभ्योत्कृष्टतस्त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणामपि तस्यां स्थित्या-
मुपलभ्यमानत्वात् किन्तु ‘वण्ण गंधरसफासपज्जवेहिं तिहि नाणेहिं तिहिं
अण्णाणेहिं, तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिए’ वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः, त्रिभिर्ज्ञानैः-
मति श्रुतावधिलक्षणज्ञानपर्यवैः त्रिभिरज्ञानैः-मति-अज्ञान श्रुताज्ञानविभङ्गज्ञान-
लक्षणाज्ञानपर्यवैः, त्रिभिः दर्शनैः-चक्षु रचक्षुरवधिलक्षण दर्शनपर्यवैश्च अजघन्या-
नुत्कृष्टावगाहनको नैरयिकः पट्टस्थानपतितो भवति, तथा च वर्णादिभिः अजघ-
न्यानुत्कृष्टावगाहनको नैरयिकः अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकस्य नैरयिकान्तरस्य

हीन हो सकता है। इस प्रकार चतुःस्थान पतित हीनता का संभव
है। और यदि कोई किसी से अधिक हुआ तो असंख्यात भाग
अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यातगुण अधिक अथवा असं-
ख्यातगुण अधिक भी हो सकता है। दस हजार वर्ष की जघन्य
स्थिति से लेकर उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम की स्थिति वाले नारक
भी मध्यम अवगाहनावाले हो सकते हैं, अतएव उनमें चतुःस्थान-
पतित हीनाधिकता का संभव है।

मध्यम अवगाहना वाले नारकों में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, तीन
तीन ज्ञान, तीन अज्ञान और तीन दर्शनों की अपेक्षा षट् स्थानपतित
हीनाधिकता होती है। अर्थात् एक मध्यम अवगाहना वाला नारक
दूसरे मध्यम अवगाहना वाले नारक की अपेक्षा वर्ण आदि पूर्वोक्त
की दृष्टि से अगर हीन हो तो अनन्त भाग हीन, असंख्यात भाग

चतुःस्थान पतित हीनतानो स लव छे अने जे डोछ डोछनाथी अधिक अने
तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक, अथवा
असंख्यातगुण अधिक पणु थर्छ शके छे दश हजार वर्षानी जघन्य स्थितिथी
लधने उत्कृष्ट तेतीस सागरोपमनी स्थितिवाणा नारक पणु मध्यम अवगाहना
वाणा थर्छ शके छे तेथीअ तेमनामा चतुःस्थान पतित हीनाधिकता स लवे छे

मध्यम अवगाहनावाणा नारकोमा वणु, गंध, रस, स्पर्श, त्रयु ज्ञान,
त्रयु अज्ञान अने त्रयु दर्शनीनी अपेक्षाये षट्स्थान पतित हीनाधिकता थाय
छे. अर्थात् अेक मध्यम अवगाहनावाणा नारक भीअ मध्यम अवगाहनावाणा
नारकनी अपेक्षाये वणु आदि पूर्वोक्त दृष्टिथी अगर हीन थाय तो अनन्त

केणद्वेणं भंते ! एवं वुरुचइ-जहण्णठिइयाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता' हे भदन्त ! तत्-अथ, केनार्थेन-कथं तावत्, एवम्-उक्तरीत्या, उच्यते यत्-जघन्यस्थितिकानां नैरयिकाणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह-‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णठिइए नेरइए’ जघन्यस्थितिको नैरयिकः ‘जहण्णठिइयस्स नेरइयस्स दन्वट्टयाए तुल्ले’ जघन्यस्थितिकस्य नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, ‘पएसट्टयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाहण्णट्टयाए चउट्टाणवडिए’ अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितो भवति, तथा च जगन्यस्थितिको नैरयिको जघन्यस्थितिकस्य नैरयिकान्तरस्य अवगाहनापेक्षया असंख्येयमागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा भवति, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति, इति भाषः,

गौतम-भगवन् ! किस हेतु से ऐसा कहा गया कि जघन्य स्थिति वाले नारकों के अनन्त पर्याय हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्य स्थिति वाला एक नारक जघन्य स्थितिवाले दूसरे नारक से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है, प्रदेशों की दृष्टि से भी तुल्य होता है, मगर अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थान पतित होता है । तात्पर्य यह कि एक जघन्य स्थिति वाला नारक दूसरे जघन्य स्थितिवाले नारक की अपेक्षा अवगाहना में यदि हीन है तो असंख्यात भाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन या असंख्यातगुण हीन होता है । यदि अधिक है तो असंख्यात भाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक अथवा असंख्यातगुण अधिक होता है । क्योंकि उस अवगाहना में जघन्य अंगुल

श्री गौतमस्वामी-भगवन् कथा हेतुथी अेम कहु छे के जघन्य स्थिति वाणा नारकाना अनन्त पर्याय छे ?

श्री भगवान् :-हे गौतम ! जघन्य स्थितिवाणा अेक नारक जघन्य स्थिति वाणा भीअ नारकथी द्रव्यनी दृष्टिअे तुल्य अने छे

प्रदेशानी अपेक्षाअे पणु तुल्य अने छे, पणु अवगाहनानी दृष्टिअे यतुः स्थान पतित थाय छे तात्पर्य अे छे के अेक जघन्य स्थितिवाणा नारक भीअ जघन्य स्थितिवाणा नारकानी अपेक्षाअे अवगाहनमा अे हीन होय तो असंख्यात भागहीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुणहीन मगर असंख्यात गुणहीन थाय छे अे अधिक होय तो असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यातगुण अधिक अथवा असंख्यातगुण अधिक थाय छे अेअे अे अवगाहनमा जघन्य अंगुलना असंख्यातमा भागथी दहनै ईत्कृन्ट

तस्यामवगाहनायां जघन्येनाद्गुत्यासंख्येयभागादारभ्यो-ऋतेन नक्षत्रनुपा-
 म्पलभ्यमानत्वात्, किन्तु 'ठिडि ए तुल्ये' स्थित्या आयुः समांनुभयत्वात्स्थित्य-
 पेक्षया तुल्यो भवति, 'वर्णग रसनकामपञ्चरोहि तिडि नाणेहि, तिडि भ्रन्ना
 णेहि, तिडि दंसणेहि छट्टाणपडिण्' वर्णगन्तरसस्पर्शपर्ययः, त्रिभिः ज्ञानः-मति
 श्रुतावधिरक्षणज्ञानपर्ययैः, त्रिभिः अज्ञानः-मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभद्ज्ञानलक्षण-
 ज्ञानपर्ययैः, त्रिभिः दर्शनः-बक्षुरचक्षुरवधिरक्षणदर्शनपर्ययैश्च जघन्यस्थितिको
 नैरयिकः पदस्थानपतितो भवति, तथा च वर्णादिभिः जघन्यस्थितिको नैरयिको
 जघन्यस्थितिकस्य नैरयिकान्तरस्य अनन्तभागहीनो वा, अमंख्येयभागहीनो वा,
 संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुण-
 हीनो वा भवति, अनन्तभागाभ्यधिको वा, अमंख्येयभागाभ्यधिको वा, मंख्ये-
 यभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, अमंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अन-

के असंख्यातवे' भाग से लेकर उत्कृष्ट सात धनुष तक पाई जाती है ।
 जघन्य स्थितिवाले एक नारक से जघन्य स्थितवाला दूसरा नारक
 स्थिति की दृष्टि से समान होता है, क्यों कि जघन्य स्थिति का एक
 ही नियत स्थान है, उसमें किसी प्रकार की, हीनाधिकता का संभव
 नहीं है । मगर वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से, तीन ज्ञान,
 तीन अज्ञान और तीन दर्शनों के पर्यायों से पद स्थानपतित होता
 है । अर्थात् एक दूसरे से अगर हीन हो तो अनन्तभाग हीन, असं-
 ख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन, अमंख्यातगुण
 हीन अथवा अनन्तगुण हीन होता है । और यदि अधिक हो तो
 अनन्तभाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक,
 संख्यातगुण अधिक, असंख्यातगुण अधिक अथवा अनन्तगुण
 अधिक होता है ।

सात धनुष सुधी भणी आवे छे.

जघन्य स्थितिवाणा ओक नारकथी जघन्य स्थितिवाणा भील नारक
 स्थितिनी दृष्टिओ समान थाय छे केमके जघन्य स्थितिनु ओक न नियत
 स्थान छे, तेभा केओ प्रकारनी हीनाधिकतानो स लव नथी पणु वरुण्, स ध, रस
 अने स्पर्शना पर्यायथी, त्रयुज्ञान, त्रयु अज्ञान, अने त्रयु दर्शनेना पर्यायथी
 पदस्थान पतित थाय छे. अर्थात् ओक भीलथी अगर हीन होय तो अनन्त
 भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भाग हीन संख्यात गुणहीन,
 असंख्यातगुण हीन अथवा अनन्तगुण हीन होय छे अने ओ अधिक होय तो
 अनन्तभाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यात
 गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक अथवा अनन्तगुण अधिक थाय छे. जघन्य

न्तगुणाभ्यधिको वा भवति जघन्यस्थितिकेऽपि नैरयिके त्रीणि अज्ञानानि केषाञ्चित् कदाचित्कतया अवसेयानि संमूर्च्छिमासङ्गिष्वेन्द्रियेभ्यः उत्पन्नानामपर्याप्तावस्थायां विभङ्गज्ञानाभावात् 'एव उक्कोसठिइए वि' एवम्-उत्करीत्या, उत्कृष्टस्थितिकोऽपि नैरयिकः उत्कृष्टस्थितिकस्य नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः उत्कृष्टस्थितिकस्य नैरयिकस्यावगाहनायाजघन्येनाङ्गुलासंख्येयभागादारभ्योत्कृष्टेन पञ्चधनुःशतानामुपलभ्यमानत्वात् स्थित्या तुल्यः, वर्णादिभिः षट्स्थानपतितो भवति, तथैव-'अजहणमणुकोसठिइएवि' अजघन्यानुत्कृष्ट स्थितिकोऽपि नैरयिकः अजघन्यानुत्कृष्टस्थितिकस्य नैरयिकान्त-

जघन्य स्थिति वाले नारक में तीन अज्ञान क्वचित् कदाचित् ही पाये जाते हैं क्योंकि संमूर्च्छिम असंज्ञी पंचेन्द्रियों से जो जीव नरक में उत्पन्न होते, हैं उनमें अपर्याप्त दशामें विभगज्ञान नही होता है ।

इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थिति वाला एक नारक दूसरे उत्कृष्ट स्थिति वाले नारक से द्रव्य की दृष्ट से तुल्य है मगर अवगाहना से चतुःस्थानपतित होता है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति वाला नारक अगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर पांच सौ धनुष्य तक की अवगाहना वाला होता है ।

उत्कृष्ट स्थिति वाला एक नारक दूसरे से स्थिति में तुल्य होता है किन्तु वर्णादि से षट्स्थानपतित होता है ।

इसी प्रकार मध्यम स्थिति वाले नारक के विषय में भी समझना चाहिए, अर्थात् मध्यम स्थिति वाला एक नारक मध्यम स्थिति वाले

स्थितिवाणा नारकमा त्रयु अज्ञान क्वचित् कदाचित् न भणी आवे छे. केमके संमूर्च्छिम असंज्ञी पंचेन्द्रियोथी ने एव नरकमा उत्पन्न थाय छे. तेओमां अपर्याप्त दशामा विलगज्ञान थतु नथी.

ओए प्रकारे उत्कृष्ट स्थितिवाणो ओक नारक भीला उत्कृष्ट स्थितिवाणा नारकथी द्रव्यनी दृष्टिओ तुल्य छे प्रदेशोनी अपेक्षाओ पषु तुल्य छे पषु अपगाहनाथी चतुःस्थान पतित थाय छे, केमके उत्कृष्ट स्थितिवाणा नारक अगुलना असंख्यातमा लागथी लधने पायसो धनुष सुधीनी अवगाहनावाणा थाय छे. उत्कृष्ट स्थिति वाणा ओक नारक भीला नारकथी स्थितिमा तुल्य होय छे परन्तु वर्णादिथी षट्स्थान पतित थाय छे

ओ रीते मध्यम स्थितिवाणा भीला नारकना विषयमा पषु समन्वु जेधओ अर्थात् मध्यम स्थितिवाणा ओक नारक मध्यम स्थितिवाणा भीला नारकथी

रस्य द्रव्यार्थतया नून्यः, प्रदेशार्थतया नून्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, वर्णादिभिः पदस्थानपतितो भवति, नित्यं 'नर' मद्राणे चउद्वाणवडिण्' नवरं-पूर्वापेक्षया विशेषम्बु, स्वस्थाने स्वस्थानापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति । तथा च जघन्यस्थितिके उत्कृष्टस्थितिके च नैरर्थिके स्थिन्या तुन्यन्यमभिरितम् अजघन्यानुत्कृष्टस्थितिके तु नैरर्थिके स्वस्थानेऽपि चतुःस्थानपतितत्वमवमेयम् समयाधिकदशवर्षमहमेभ्य आरभ्य उत्कृष्टेन नमयोन्नयप्रस्थित्यागरोपमप्रमाण-मुपलभ्यमानत्वादितिभावः, गौतमः पृच्छति-'जघ्णगणकालगाणं भन्ते ! नैर-इयाणं केवड्या पज्जवा पणत्ता ?' हे भदन्न ! जघन्यगुणकालकाना नैरर्थिकाणां कियन्तः पर्यवाः पर्यायाः प्रज्जप्ताः ? भगवान् भाव--'गोयमा !' 'अणंता पज्जवा पणत्ता' जघन्यगणकालकाना नैरर्थिकाणामनन्ताः पर्यायाः प्रज्जप्ताः,

दूसरे नारक से द्रव्य की दृष्टि से नून्य होना है, प्रदेशों की दृष्टि से भी तुल्य होना है मगर अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित और वर्ण गंध आदि की दृष्टि से पदस्थानपतित होता है । किन्तु पहले की अपेक्षा विशेषता इतनी है कि स्वस्थान की दृष्टि से वह चतुःस्थानपतित होता है । तात्पर्य यह है कि जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति वाले नारकों की स्थिति परस्पर तुल्य कही गई है, मगर मध्य स्थिति वालों की स्थिति परस्पर चतुःस्थानपतित है । कारण यह है कि मध्यम स्थिति तरनमभाव से अनेक प्रकार की है । एक समय अधिक दस हजार वर्ष से लेकर एक समय कम तेनीस सागरोपम तक की स्थिति मध्यम स्थिति में परिगणित है अतएव उसका चतुःस्थान पतित हीनाधिक होना स्वाभाविक ही है ।

गौतम-भगवन् ! जघन्यगुणकालक नारकों के कितने पर्याय हैं ?

द्रव्यकी दृष्टिसे तुल्य होने से, प्रदेशोकी दृष्टिसे पण तुल्य थाय से पण अवगाहनानी दृष्टिसे चतुःस्थान पतित थाय से किन्तु पडेलानी अपेक्षासे विशेषता ओटली से के स्वस्थानकी दृष्टिसे ते चतुःस्थान पतित होने से तात्पर्य से से के जघन्य स्थिति होने उत्कृष्ट स्थितिवाणा नारकोनी स्थिति परस्पर तुल्य कडेली से, पण मध्यम स्थितिवाणानी स्थिति परस्पर चतुःस्थान पतित से कारण था से के मध्यम स्थिति तरनम लावधी अनेक प्रकारनी से, ओके समय अधिक दश हजार वर्षधी लधने से, समय ओछा तेनीस सागरोपम बुधीनी स्थिति मध्यम स्थितिमा परिगणित से तेधीन तेतु चतुःस्थान पतित हीनाधिक थपुं स्वभाविक न से

श्री गौतमस्वामी-भगवन् ! जघन्य शुष्ण कालक नारकोना केटवा पर्याय से ?

न्तगुणाभ्यधिको वा भवति जघन्यस्थितिकेऽपि नैरयिके त्रीणि अज्ञानानि केषाञ्चित् कदाचित्कतया अवसेयानि समूर्च्छिमासंज्ञिषञ्चेन्द्रियेभ्यः उत्पन्नानामपर्याप्तावस्थायां विभङ्गज्ञानाभावात् 'एव उक्कोसठिइए वि' एवम्-उत्तरीत्या, उत्कृष्टस्थितिकोऽपि नैरयिकः उत्कृष्टस्थितिकस्य नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः उत्कृष्टस्थितिकस्य नैरयिकस्यावगाहनायाजघन्येनाङ्गुलासंख्येयभागादारभ्योत्कृष्टेन पञ्चधनुःशतानामुपलभ्यमानत्वात् स्थित्या तुल्यः, वर्णादिभिः षट्स्थानपतितो भवति, तथैव-'अजहण्णमणुक्कोसठिइएवि' अजघन्यानुत्कृष्ट स्थितिकोऽपि नैरयिकः अजघन्यानुत्कृष्टस्थितिकस्य नैरयिकान्त-

जघन्य स्थिति वाले नारक में तीन अज्ञान क्वचित् कदाचित् ही पाये जाते हैं क्योंकि समूर्च्छिम असंज्ञी पंचेन्द्रियों से जो जीव नरक में उत्पन्न होते, हैं उनमें अपर्याप्त दशामें विभगज्ञान नहीं होता है।

इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थिति वाला एक नारक दूसरे उत्कृष्ट स्थिति वाले नारक से द्रव्य की दृष्ट से तुल्य है मगर अवगाहना से चतुःस्थानपतित होता है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति वाला नारक अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर पांच सौ धनुष्य तक की अवगाहना वाला होता है।

उत्कृष्ट स्थिति वाला एक नारक दूसरे से स्थिति में तुल्य होता है किन्तु वर्णादि से षट्स्थानपतित होता है।

इसी प्रकार मध्यम स्थिति वाले नारक के विषय में भी समझना चाहिए, अर्थात् मध्यम स्थिति वाला एक नारक मध्यम स्थिति वाले

स्थितिवाणा नारकमा त्रयु अज्ञान क्वचित् कदाचित् न मणी आवे छे. केमके समूर्च्छिम असती पंचेन्द्रियेथी ने एव नरकमा उत्पन्न थाय छे. तेओमा अपर्याप्त दशामा विलगज्ञान थतु नथी.

ओए प्रकारे उत्कृष्ट स्थितिवाणे ओके नारक ओला उत्कृष्ट स्थितिवाणा नारकथी द्रव्यनी दृष्टिओ तुल्य छे. प्रदेशेनी अपेक्षाओ पणु तुल्य छे पणु अवगाहनाथी चतुःस्थान पतित थाय छे, केमके उत्कृष्ट स्थितिवाणा नारक अंगुलना असंख्यातमा लागथी लधने पायसो धनुष सुधीनी अवगाहनावाणा थाय छे उत्कृष्ट स्थिति वाणा ओके नारक ओला नारकथी स्थितिमा तुल्य होय छे परन्तु वर्णादिथी षट्स्थान पतित थाय छे

ओ रीते मध्यम स्थितिवाणा ओला नारकना विषयमा पणु ममन्नु ओधओ अर्थात् मध्यम स्थितिवाणा ओके नारक मध्यम स्थितिवाणा ओला नारकथी

रस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेगार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, वर्णादिभिः पट्स्थानपतितो भवति, निन्तु 'नवर सहाणे चउट्टाणवडिण्' नवरं-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु, स्वस्थाने स्वस्थानापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति । तथा च जघन्यस्थितिके उत्कृष्टस्थितिके च नैरयिके स्थित्या तुल्यत्वमभिहितम् अजघन्यानुत्कृष्टस्थितिके तु नैरयिके स्वस्थानेऽपि चतुःस्थापतितत्वमवसेयम् समयाधिकदशवर्षसहस्रेभ्य आरभ्य उत्कृष्टेन समयोनत्रयत्रिंशत्सागरोपमप्रमाण-मुपलभ्यमानस्वादितिभावः, गौतमः पृच्छति-'जहण्णगुणकालाणं भंते ! नेर-इयाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?' हे भदन्त ! जघन्यगुणकालकाना नैरयिकाणां कियन्तः पर्यवाः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् ब्रह्म-'गोयमा !' 'अणंता पज्जवा पणत्ता' जघन्यगुणकालकाना नैरयिकाणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः,

दूसरे नारक से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है, प्रदेशों की दृष्टि से भी तुल्य होना है मगर अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित और वर्ण गंध आदि की दृष्टि से षट्स्थानपतित होना है । किन्तु पहले की अपेक्षा विशेषना इतनी है कि स्वस्थान की दृष्टि से वह चतुःस्थानपतित होता है । तात्पर्य यह है कि जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति वाले नारकों की स्थिति परस्पर तुल्य कही गई है, मगर मध्य स्थिति वालों की स्थिति परस्पर चतुःस्थानपतित है । कारण यह है कि मध्यम स्थिति तरतमभाव से अनेक प्रकार की है । एक समय अधिक दस हजार वर्ष से लेकर एक समय कम तेतीस सागरोपम तक की स्थिति मध्यम स्थिति में परिगणित है अतएव उसका चतुःस्थान पतित हीनाधिक होना स्वाभाविक ही है ।

गौतम-भगवन् ! जघन्यशुणकालक नारकों के कितने पर्याय हैं ?

द्रव्यनी दृष्टिसे तुल्य भने છે, પ્રદેશોની દૃષ્ટિએ પણ તુલ્ય થાય છે પણ અવગાહનાની દૃષ્ટિએ ચતુઃસ્થાન પતિત થાય છે કિન્તુ પહેલાની અપેક્ષાએ વિશેષતા એટલી છે કે સ્વસ્થાનની દૃષ્ટિએ તે ચતુઃસ્થાન પતિત બને છે તાત્પર્ય એ છે કે જઘન્ય સ્થિતિ અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળા નારકોની સ્થિતિ પરસ્પર તુલ્ય કહેલી છે, પણ મધ્યમ સ્થિતિવાળાની સ્થિતિ પરસ્પર ચતુઃસ્થાન પતિત છે કારણ આ છે કે મધ્યમ સ્થિતિ તરતમ ભાવથી અનેક પ્રકારની છે, એક સમય અધિક દશ હજાર વર્ષથી લઇને એક સમય ઓછા તેત્રીસ સાગરોપમ સુધીની સ્થિતિ મધ્યમ સ્થિતિમા પરિગણિત છે. તેથીજ તેનુ ચતુઃસ્થાન પતિત હીનાધિક થવુ સ્વભાવિક જ છે

શ્રી ગૌતમસ્વામી-ભગવન્ ! જઘન્ય શુણ કાલક નારકોના કેટલા પર્યાય છે ?

गौतमः पृच्छति—‘से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहणणगुणकालगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ केनार्थेन कथं तावत्, एनम्—उत्तरीत्या, उच्यते यत् जघन्यगुणकालकानां नैरयिकाणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति भगवान् आह—‘गोथमा !’ हे गौतम ! ‘जहणणगुणकालए नेरइए जइणणगुणकालगस्स नेरइयस्स दव्यट्ठयाए तुल्ले’ जघन्यगुणकालको नैरयिको जघन्यगुणकालकस्य नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, ‘पएसट्ठयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए’ अवगाहनार्थतया चतुः स्थानपतितो भवति, तथा चासंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा भवति, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति, ‘ठिईए चउट्ठामवडिए’ स्थित्या आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया जघन्यगुणकालको नैरयिकः चतुः स्थानपतितो भवति, ‘कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले’ कृष्णवर्णपर्यवैः जघन्यगुणकालको नैरयिका जघन्य-

भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! इस प्रकार कहने का क्या कारण है ?

भगवन्—हे गौतम ! एक जघन्यगुण काला नारक दूसरे जघन्यगुण काले नारक से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है, प्रदेशों की दृष्टि से भी तुल्य है, मगर अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थान पतित होता है, अर्थात् असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन अथवा असंख्यातगुण हीन होता है । अगर अधिक हो तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक अथवा असंख्यात गुणअधिक होता है । स्थिति की अपेक्षा से भी चतुःस्थान पतित होता है । कृष्णवर्ण पर्याय से तुल्य होता है, अर्थात् जिस नारक में कृष्णवर्ण

श्री भगवान्—गौतम ! अनन्त पर्याय थे,

श्री गौतमस्वामी—ये प्रकारे कडेवाणु शु कारणु छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! येक जघन्य शुष्णु काणा नारक पीण जघन्य शुष्णु काणा नारकथी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य छे, प्रदेशोनी दृष्टिअये पणु तुल्य छे, पणु अवगाहणानी दृष्टिअये यतु स्थान पतित थाय छे अर्थात् असंख्यात भागहीन, संख्यातभागहीन, संख्यातगुणहीन अथवा असंख्यात शुष्णुहीन थाय छे. अगर अधिक होयतो असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक संख्यातगुण अधिक अथवा असंख्यात शुष्णु अधिक होय छे स्थितिनी अपेक्षाअये पणु यतु स्थान पतित थाय छे. कृष्णु वर्णु पर्यायथी तुल्य छे अर्थात् ओ नारकमा कृष्णु वर्णुना सर्व जघन्य अशमणी आवे छे त पीणु सर्व

गुणकालकस्य नैरयिकान्तरस्य तुल्यो भवति, 'अवसेसेहि वण्णगंधरसफासपज्जवेहि' अवशेषैः वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः 'तिहि नाणेहि' त्रिभिः ज्ञानैः—मतिश्रुतावधिलक्षणज्ञानपर्यवैः, 'तिहि अण्णाणेहि' त्रिभिः अज्ञानैः—मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभङ्गज्ञानलक्षणाज्ञानपर्यवैः 'तिहि दंसणेहि' त्रिभिः दर्शनैः—चक्षुरचक्षुरवधिलक्षणदर्शनपर्यवैश्च 'छट्ठाणवड्डिए' षट्स्थानपतितो भवति, तथा च शेष वर्णादिभिः जघन्यगुणकालको नैरयिको जघन्य गुणकालकस्य नैरयिकान्तरस्य अनन्तभागहीनो वा, असंख्येयभाग हीनो वा, संख्येयभाग हीनो वा, संख्येयगुण हीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुण हीनो वा भवति, अनन्तभागाभ्यधिको वा, असंख्येयगाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवतीति भावः,

का सर्व जघन्य अंश पाया जाता है दूसरे सर्व जघन्य अंश कृष्णवर्णवाले के तुल्य ही होता है, क्यों कि जघन्य का एक ही रूप है, उसमें विविधता या न्यूनाधिकता नहीं होती। कृष्णवर्ण के सिवाय शेष चार वर्णों के पर्यायों से, गंध, रस, स्पर्श, तीन ज्ञानों, तीन अज्ञानों और तीन दर्शनों के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है। इस प्र कृष्णवर्ण के अतिरिक्त शेष वर्ण आदि से जघन्यगुण काला नारक जघन्यगुण काले दूसरे नारक से अनन्तभाग हीन, असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन, असंख्यातगुण हीन अथवा अनन्तगुण हीन होता है। यदि अधिक हो तो अनन्त अधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यात अधिक, असंख्यातगुण अधिक अथवा अनन्तगुण अधिक होता ।

जघन्य अंश कृष्ण वर्णवाणना तुल्य जं अने छे, केभके जघन्यनुं अेक जं रूप छे, तेमा विविधता अंजर न्यूनाधिकता नथी थती. काला रंगना सिवाय शेष चार वर्णाना पर्यायेथी, गंध, रस, स्पर्श, त्रलुज्ञानो, त्रलु अज्ञानो अने त्रलु दर्शनाना पर्यायेथी षट्स्थान पतित अने छे. अे प्रकारे कृष्णवर्णुं सिवाय शेष वर्णुं आदिथी जघन्य गुणु काला नारक जघन्य गुणु काला पीन नारकथी अनन्त लागडीन, असंख्यात लागडीन, संख्यात लागडीन, संख्यात गुणुडीन, असंख्यात गुणुडीन अथवा अनन्त गुणुडीन थाय छे. जे अधिक होयतो अनन्त लाग अधिक, असंख्यात लाग अधिक, संख्यात लाग अधिक संख्यातगुणु अधिक, असंख्यात गुणु अधिक अथवा अनन्त गुणु अधिक थाय छे.

तदुपसंहरन्नाह—‘से एणद्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ—जहणणगुणकालगाणं नैरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णात्ता’ हे गौतम ! तत्—अथ, एतेनार्थेन उपर्युक्त-हेतुना, एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते—यत् जवन्यगुणकालकानां नैरयिकाणाम् अनस्तां; पर्ययाः पर्यायाः, प्रज्ञप्ताः इति, ‘एवं उकोसगुणकालएवि’ एवम्—पूर्वोत्तरीत्या, उत्कृष्टगुणकालकोऽपि नैरयिक उत्कृष्टगुणकालकस्य नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, कृष्णवर्णपर्यवैस्तुल्यः, अवशिष्टवर्णगन्धरसस्पर्श-पर्यवैः त्रिभिर्ज्ञानपर्यवैः, त्रिभिरज्ञानपर्यवैः, त्रिभिर्दर्शनपर्यवैश्च षट्स्थानपतितो भवति, इत्याशयः, ‘अजहणमणुकोसगुणकालएवि एवं चेव’ अजघन्यानुकृष्ट-गुणकालकोऽपि नैरयिकोऽजघन्यानुकृष्टगुणकालकस्य नैरयिकान्तरस्य, एव-श्वेव—पूर्वोक्तवदेव द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अनाग्राहनार्थतया चतुः

उपसंहार करते हुए कहते हैं—इस कारण से ऐसा कहा गया है कि जघन्यगुण काले नारक के अनन्त पर्याय कहै गए हैं ।

इसी प्रकार उत्कृष्ट गुण काले नारक के विषय में भी समझ लेना चाहिए, अर्थात् उत्कृष्ट गुण कालक एक नैरयिक उत्कृष्टगुण कालक दूसरे नैरयिक से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य हैं प्रदेशों की दृष्टि से भी तुल्य हैं, अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित हैं, स्थिति की दृष्टि से भी चतुःस्थानपतित है, कृष्ण वर्ण के पर्यायों की दृष्टि से तुल्य है, शेष चार वर्णों के, गंध, रस और स्पर्श के तीन ज्ञानों, तीन अज्ञानों और तीन दर्शनों के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है ।

मध्यमगुण काले नारक के विषय में भी इसी प्रकार कहना चाहिए, अर्थात् एक मध्यम कालगुण वाला नारक दूसरे मध्यम

उपसंहार करता छोड़े छे—आ प्रकारे ओपु छोडु छे के जघन्य गुण नारकनी अनन्त पर्याय छोडुला छे.

ओ ज रीते उत्कृष्ट शुष्ण काणा नारकना विषयमा समञ्ज देवु लेधये, अर्थात् उत्कृष्ट शुष्ण काणक ओक नैरयिक उत्कृष्ट शुष्ण काणक भीला नैरयिकथी द्रव्यनी दृष्टिओ तुल्य छे; प्रदेशोनी दृष्टिओ पणु तुल्य छे, अवगाहनानी दृष्टिओ यत् स्थानं पतित छे स्थितिनी दृष्टिओ पणु यत् स्थानपतित छे, कृष्ण वर्णना पर्यायिनी दृष्टिओ तुल्य छे, शेष चार वर्णोना गंध, रस, अने स्पर्शना, त्रयु ज्ञानो; त्रयु अज्ञानो अने त्रयु दर्शनाना पर्यायोथी षट्स्थान पतित अने छे.

मध्यम शुष्ण काणा नारकना विषयमा पणु ओज प्रकारे छोडु लेधये, अर्थात् ओक-मध्यम काणा शुष्णवाणा नारक भीला मध्यम काणा शुष्णवाणा नारकथी

स्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, किन्तु, 'नवरं कालवर्णपेज्ज-
वेहिं छद्वाणवडिए' नवरं-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु कृष्णवर्णपर्यवैरजघन्यानुत्कृष्टगुण-
कालको नैरयिकः षट्स्थानपतितो भवति 'एवं-भवसेसा चत्तारि वण्णा, दो
गंधा, पंच रसा अट्ट फासा भाणियव्वा' एव-तथैव, अवशेषाश्चत्वारो वर्णाः-
पीतरक्तहरितशुक्लरूपाः-द्वौ गन्धौ सुरभ्यगुरगिरुत्तौ, पञ्च रसाः-अम्भमयुर-
कपायकटुतिक्तरूपाः, अष्टौ स्पर्शाः-शीतोष्णमृदुर्कशलघुगुरुकं स्पर्शादिरूपाः,
भणितव्याः-षट्स्थानपतिचप्रयोजकतया वक्तव्या इत्यर्थः, गौतमः पृच्छति-
'जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पंज्जवा पणत्ता ?' हे
भदन्त ! जघन्याभिनिबोधिकज्ञानीना नैरयिकाणां कियन्तः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ?
भगवान् आह- 'गोयमा ! हे गौतम ! 'जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं नेरइयाणं
अणंता पज्जवा पणत्ता' जघन्याभिनिबोधिक ज्ञानिनां नैरयिकाणांस् अनन्ताः
पर्यायाः प्रज्ञप्ताः गौतम पृच्छति- 'से केणट्ठेगं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णाभिणिबो-

कालेगुण वाले नारक से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य हैं प्रदेशों की दृष्टि
से भी तुल्य है, मगर अबगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित है,
स्थिति को दृष्टि से भी चतुःस्थानपतित है, कृष्ण वर्ण पर्याय की
अपेक्षा षट्स्थानपतित है। शेष चार वर्गों दो गंधों पांच रसों एवं
आठ स्पर्शों की अपेक्षा भी षट्स्थानपतित कहना चाहिए।

गौतम-हे भगवान् ! जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी नारकों के
वि ने पर्याय हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी नारकों के
अनन्त पर्याय हैं।

गौतम-हे भगवान् ! किस कारण से ऐसा कहा है कि जघन्य आभि-
निबोधिकज्ञानी नारकों के अनन्त पर्याय हैं ? भगवान्-हे गौतम ! एक

द्रव्यनी दृष्टिसे तुल्य छे प्रदेशोनी दृष्टिसे पणु तुल्य छे पणु अत्रगाहनानी
दृष्टिसे चतु स्थान पतित छे, स्थितिनी दृष्टिसे पणु चतुःस्थान पतित छे,
कृष्ण वर्ण पर्यायनी अपेक्षासे षट्स्थान पतित छे शेष चार वर्णों, दो गंधों
पांच रसों तेमज आठ स्पर्शोनी अपेक्षासे पणु षट्स्थान पतित कडेवा लोछसे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवान् जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी नारकोना केटवा
पर्याय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी नारकोना अनन्त
पर्याय छे ?

हियनाणीणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?' हे भदन्त ! तत्-अथ, केनार्थे-कथं तावत्, एवम्-ीत्या, उच्यते-जघन्याभिनिबोधिक ज्ञानीनां नैरयिकाणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह-‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णाभिणिबोहियनाणी नैरइए’ जघन्याभिमिवोधिकज्ञानी नैरयिको ‘जहण्णाभिणिनोहि-नैरइयस्स दव्वइयाए तुल्ले’ जघन्याभिनिबोधिकस्य ज्ञानिनो नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति ‘पएसइयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, तथैव ‘ओग इयाए चउट्टाणवडिए’ अवगाहनार्थतया शरीरोच्छ्रयापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, ‘ठिईए चउट्टाणवडिए’ स्थित्या-आयुः कर्मानुभवलक्षण-स्थित्यपेक्षया, चतुःस्थानपतितो भवति, ‘वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए’

जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी दूसरे अभिनिबोधिक ज्ञानी से द्रव्य अपेक्षा तुल्य है, प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य है, किन्तु अवगना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित है, स्थिति की दृष्टि से भी चतुःस्थानपतित है, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों की अपेक्षा षट्स्थानपतित है ! आभिनिबोधिक ज्ञान के पर्यायों की अपेक्षा तुल्य है, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान के पर्यायों से षट्स्थान है । तीन दर्शनों की अपेक्षा षट्स्थानपतित है ।

उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानी के विषय में भी ऐसा ही कहना चाहिए अर्थात् एक उत्कृष्ट अभिनिबोधिक ज्ञानी दूसरे उत्कृष्ट अभिनिबोधिक ज्ञानी से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है, प्रदेशों की दृष्टि से भी तुल्य है, अवगाहना से चतुःस्थानपतित है, स्थिति से चतुःस्थानपतित

गौतमस्वामी-डे लगवन् शाकारुथी ओम कडेवामा आवे छे डे जघन्य आलिनिबोधिकज्ञानी नारकेना अनत पर्याय छे श्री लगवान् -डे गौतम । ओक जघन्य आलिनिबोधिकज्ञानी पील आलिनिबोधिकज्ञानीथी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य छे प्रदेशोनी अपेक्षाये पणु तुल्य छे, पणु अवगाहनानी दृष्टिओ अतु स्थान पतित छे, स्थितिनी दृष्टिओ पणु अतुःस्थान पतित छे. पणु, गंध, रस, अने स्पर्शनी पर्यायोनी अपेक्षाओ षट्स्थान पतित छे आलिनिबोधिक ज्ञानना पर्यायोनी अपेक्षाओ तुल्य छे, श्रुतज्ञान अने अवधिज्ञानना पर्यायोथी षट्स्थान पतित पणु दर्शनेनी अपेक्षाओ षट्स्थान पतित छे

अजघन्य-अनुकृष्ट अर्थात् मध्यम आलिनिबोधिक ज्ञानना विषयमा पणु ओमज्ज समज्जु ओधओ. अर्थात् ओक मध्यम आलिनिबोधिक ज्ञानी पील मध्यम आलिनिबोधिक ज्ञानीथी द्रव्यनी दृष्टिओ तुल्य छे प्रदेशोनी दृष्टिओ तुल्य छे. अवगाहनानी दृष्टिओ अतु स्थान पतित थाय छे स्थितिनी दृष्टिओ

वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, 'आभिनिवोद्दिगनाणपज्जवेहिं तुल्ले' आभिनिवोधिकज्ञानपर्यवैस्तुल्यो भवति, 'मुयनाणपज्जवेहिं, ओहिनाण-पज्जवेहिं छट्ठाणवडिण्' श्रुतज्ञानपर्यवैः, अविज्ञानपर्यवैश्च षट्स्थानपतितो भवति, 'तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिण्' त्रिभिर्दर्शनैः-चक्षुरचक्षुरवधिलक्षणदर्शनपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, 'एणं उटोसाभिणिगोद्दिग नाणीवि' एवम्-पूर्वोक्तरीत्या, उत्कृष्टाभिनिवोधिकज्ञानी अपि नैरयिकः उत्कृष्टाभिनिवोधिकज्ञानिनो नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितः, आभिनिवोधिकज्ञानपर्यवैस्तुल्यः, श्रुतज्ञानपर्यवैः, अविज्ञानपर्यवैः षट्स्थानपतितः, त्रिभिर्दर्शनैः षट्स्थानपतितो भवति, 'अजहणमणुकोसाभिणिगोद्दिगणाणीवि एवं चेव' अजनन्यानुत्कृष्टाभिनिवोधिकज्ञानि अपि नैरयिकः एव श्रैव पूर्वोक्त वदेव अजनन्यानुत्कृष्टाभिनिवोधिकज्ञानिनो नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितः, श्रुतज्ञानपर्यवैः, अविज्ञानपर्यवैः षट्स्थानपतितः, त्रिभिर्दर्शनैः षट्स्थानपतितो भवतीति भावः, किन्तु 'णरं आभिणिगोद्दिगनाणपज्जवेहिं सट्ठाणे छट्ठाणवडिण्' नवरं पूर्वापेक्षया

है, वर्ण गंध रस और स्पर्श से षट्स्थानपतित है, आभिनिवोधिक ज्ञान के पर्यायों से तुल्य है, श्रुतज्ञान और अविज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित है, तीन दर्शनों की अपेक्षा षट्स्थानपतित है।

अजघन्य-अनुत्कृष्ट अर्थात् मध्यम आभिनिवोधिक ज्ञानी के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। अर्थात् एक मध्यम आभिनिवोधिक ज्ञानी दूसरे मध्यम आभिनिवोधिक ज्ञानी से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है, प्रदेशों की दृष्टि से तुल्य है, अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित होता है, स्थिति की दृष्टि से भी चतुःस्थानपतित होता है, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है, श्रुतज्ञान और अविज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है, तीन दर्शनों के पर्यायों से भी षट्स्थानपतित होता है। विशेष यह है कि आभिनिवोधिक ज्ञान के पर्यायों की दृष्टि से स्वस्थान में भी षट्स्था-

पञ्च त्र्युत्थान पतित थाय छे, वर्ण, गंध, रस अने स्पर्शना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे श्रुतज्ञान अने अविज्ञानना पर्यायोथी छ स्थान पतित थाय छे, त्रयु दर्शनाना पर्यायोथी पञ्च छ स्थान पतित थाय छे, विशेष अये छे के आभिनिवोधिकज्ञानना पर्यायोथी दृष्टिके स्वस्थानमा पञ्च

विशेषस्तु—आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैः स्वस्थाने—स्थित्याम् पटस्थानपतितो भवति, 'एवं सुयनाणी ओहिनाणीवि' एवम्—पूर्वोक्तरीत्या, श्रुतज्ञानी अवधिज्ञानी अपि नैरयिकः श्रुतज्ञानिनः अधिज्ञानिनो नैरयिकस्य द्रव्यर्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थ-तया तुल्यः, अगगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शैः पटस्थानपतितः, आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैः पटस्थानपतितः, श्रुतज्ञानपर्यवैः, अवधिज्ञानपर्यवैः, त्रिभिर्दर्शनैः पटस्थानपतितो भवति, किन्तु—'णवरं जस्स नाणा तस्स अन्नाणा नत्थि' नवरम्—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु यस्य ज्ञानानि भवन्ति तस्य अज्ञानानि न भवन्ति, सम्यग्दृष्टेर्मिथ्यादृष्ट्युपमर्देन, नपतित होता है आर्थात् मध्यम आभिनिबोधिक ज्ञान वालों में भी परस्पर अनन्तभाग एवं अनन्तगुण न्यूनधिकता पाई जाती है ।

इसी प्रकार श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी के बिषय में भी समझ लेना चाहिए, अर्थात् एक श्रुतज्ञानी दूसरे श्रुत ज्ञानी नारक से तथा एक अवधिज्ञानी दूसरे अवधिज्ञानी नारक से द्रव्य और प्रदेशों को अपेक्षा तुल्य हैं अवगाहना और स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, वर्ण गंध, रस, स्पर्श, आभिनिबोधिक ज्ञान श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित है, तीन दर्शनों के पर्यायों से भी षट्स्थानपतित है । यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिसको ज्ञान होता है उसे, अज्ञान नहीं होता और जिसे अज्ञान होता है उसे ज्ञान नहीं होता । कारण यह है कि ज्ञानसम्यग्दृष्टि को और अज्ञान मिथ्यादृष्टि को होते हैं । जो सम्यग्दृष्टि होता है वह मिथ्या-दृष्टि नहीं होता और जो मिथ्यादृष्टि होता है वह सम्यग्दृष्टि नहीं

षट्स्थान पतित थाय छे, अर्थात् मध्यम आभिनिबोधिक ज्ञानवाणामा पणु परस्पर अनन्त गुणु न्यूनधिकता मणी आवे छे

એજ પ્રકારે શ્રુતજ્ઞાની અને અવધિજ્ઞાનીના વિષયમા પણ સમજ લેવું જોઈએ અર્થાત એક શ્રુતજ્ઞાની બીજા શ્રુતજ્ઞાની નારકથી તથા એક અવધિજ્ઞાની બીજા અવધિજ્ઞાની નારકથી દ્રવ્ય અને પ્રદેશોની અપેક્ષાએ તુલ્ય છે, અવગાહના અને સ્થિતિની અપેક્ષાએ ચતુ સ્થાન પતિત છે, વર્ણ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, આભિ-બોધિક જ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાનના પર્યાયોથી ષટ્સ્થાન પતિત છે, ત્રણ દર્શનોના પર્યાયોથી પણ ષટ્સ્થાન પતિત છે. આ સ્થાને આ વાત ધ્યાનમા રાખવી જોઈએ કે જેને જ્ઞાન થાય છે તેને અજ્ઞાન નથી થતું અને જેને અજ્ઞાન થાય છે તેને જ્ઞાન નથી થતું. કારણ કે જ્ઞાન સમ્યગ્દૃષ્ટિને અને અજ્ઞાન મિથ્યા દૃષ્ટિને થાય છે. જે સમ્યગ્દૃષ્ટિ હોય છે તે મિથ્યા દૃષ્ટિ નથી હોતા અને

मिथ्यादृष्टेश्च सम्यग्दृष्ट्युपमर्देनैव जायमानतया परस्परविरोधेन, सम्यग्दृष्टे-
ज्ञानानां, मिथ्यादृष्टेश्चाज्ञानानामेव संभवेन ज्ञानमद्भावेऽज्ञानासद्भावात् अज्ञान
सद्भावे च ज्ञानासद्भावात्, इत्यभिप्रायेणैवाह—‘जहा नाणा तथा अन्नाणावि
भाणियन्ना, नवरं जस्स अन्नाणा तस्स नाणा न भवंति’ यथा ज्ञानानि भणि-
तानि तथा अज्ञानान्यपि भणितव्यानि, किन्तु नवरं—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु—यस्य
अज्ञानानि भवन्ति तस्य ज्ञानानि न भवन्ति उभयैषां परस्परविरोधात्,

गौतमः पृच्छति—जहण्णचक्खुदंसणीणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा
पण्णत्ता ?’ हे भदन्त ! जघन्यचक्षुर्दर्शनीनां नैरयिकाणां क्रियन्तः पर्यवाः—पर्यायाः,
प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’
जघन्यचक्षुर्दर्शनीनां नैरयिकाणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमस्तत्र कारणं
पृच्छति—‘सेकेणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णचक्खुदंसणीणं नेरइयाणं अणंता
पज्जवा पण्णत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्येन—कथं तावत् एवम्—उत्तरीत्या,
उच्यते जघन्य चक्षुर्दर्शनीनां नैरयिकाणाम् अनन्ताः पर्यवा प्रज्ञप्ता इति ? भगवान्
कारणमाह—‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘जहण्णचक्खुदंसणीणं नेरइए’ जघन्य चक्षु-

होता, क्योंकि दोनों परस्पर विरुद्ध हैं ।

जैसा ज्ञानों के विषय में कहा है, वैसा ही अज्ञानों के विषय में भी
कहना चाहिए, विशेषता यह है कि जिस जीव में अज्ञान होता है
उसमें ज्ञान नहीं होता ।

गौतम—हे भगवन् ! जघन्य चक्षुर्दर्शनी नारकों के कितने पर्याय
कहे गए हैं ?

भगवान्—गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए हैं ।

गौतम—भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा गया है कि जघन्य चक्षुर्-
दर्शनी नारकों के अनन्त पर्याय कहे गए हैं ?

७ मिथ्यादृष्टि होय छे ते सम्यग्दृष्टि नथी होता, केमके णन्ते परस्पर विरुद्ध छे

७ेवु ज्ञानना विषयमा कळु छे—तेवु ७ अज्ञानना विषयमा पळु कडेवु
जेधजे, विशेषता जे छे के ७े लवमा अज्ञान होय छे तेमा ज्ञान नथी होतु .

श्री गौतमस्वामी—भगवन् जघन्य चक्षुर्दर्शनीनी नारकोना डेटला पर्याय
कडेला छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! अनन्त पर्याय कडेला छे

श्री गौतमस्वामी—भगवन् ! क्या कारणे जेवु कडेवु छे के जघन्य चक्षु
दर्शनी नारकोना अनन्त पर्याय कडेला छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जेक जघन्य चक्षुर्दर्शनी नारक भीज जघन्य

दर्शनी खलु नैरयिकः, 'जहण्णचक्खुदंसणिस्स नेरइयस्स दच्चट्टयाए तुल्ले' जघन्यचक्षुदर्शनिनो नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, 'पएमट्टयाए तुल्ले' प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, 'ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए' अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितो भवति तथाचावगाहनापेक्षया जघन्य चक्षुदर्शनी नैरयिको जघन्यचक्षुदर्शनिनो नैरयिकस्य असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा भवति, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवतीति भावः, 'ठिईए चउट्टाणवडिए' स्थित्या-आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, तदभिलापश्च पूर्ववत्स्वयमूहनीयः, 'वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं, तिहिं नाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं छट्टाणमडिए' वर्णगंधरसस्पर्शपर्यवैः, त्रिभिर्ज्ञानैः-मतिश्रुतावधिलक्षणज्ञानपर्यवैः, त्रिभिरज्ञानैः मत्यज्ञानश्रुताज्ञान-

भगवान्-गौतम ! एक जघन्य चक्षुदर्शनी नारक दूसरे जघन्य चक्षुदर्शनी नारक से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य है किन्तु अवागाहना की अपेक्षा से चतुःस्थान पतिन होता है । इस प्रकार एक जघन्य चक्षुदर्शनी नारक दूसरे जघन्य चतुदर्शनी नारक से अवगाहना की अपेक्षा असंख्यात भाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन अथवा असंख्यातगुण हीन होता है । यदि अधिक हो तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक संख्यातगुण अधिक अथवा असंख्यातगुण अधिक हो सकता है । स्थिति की अपेक्षा भी चतुःस्थानपतित होता है, उसका उच्चारण पहले के समान कर लेना चाहिए । वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों की अपेक्षा मति श्रुत और अवधि, इनके पर्यायों से तीन ज्ञान की अपेक्षा, मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान एवं विभंगज्ञान रूप तीन अज्ञानों की अपेक्षा

अक्षुदर्शनी नारकथी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य छे, प्रदेशोनी अपेक्षाये तुल्य छे पणु अवगाहनानी अपेक्षाये चतुःस्थान पतित थाय छे अे रीते अेक जघन्य अक्षुदर्शनी नारक जीव जघन्य अक्षुदर्शनी नारकथी अवगाहनानी अपेक्षाये असंख्यातभाग हीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन अथवा संख्यात गुणहीन थाय छे जे अधिक होय तो अरु संख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक अथवा असंख्यात गुण अधिक, अथ शक्ये छे स्थितिनी अपेक्षाये पणु अतु स्थान पतिन थाय छे तेनु उच्यथा रणु पडेलाना जेवु करी जेवु जेथ अे वणु, गंध, रस अने स्पर्शनी पर्यायेनी अपेक्षाये, मति, श्रुत अने अवधि अा त्रये ज्ञान पर्यायेनी अपेक्षाये मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, तेभज विलगज्ञान इप त्रय अज्ञानोनी अपेक्षाये परस्थान

विभङ्गलक्षणज्ञानपर्यवैश्व पटस्थानपतितो भवति, तदभिलापोऽपि पूर्ववदेवावसेयः
 'चक्रखुदंसणपज्जवेहिं तुल्ले' चक्षुर्दर्शनपर्यवैस्तुल्यो भवति, 'अचस्खुदंसणपज्जवेहिं
 ओहिदंसणपज्जवेहिं छट्ठाणवडिण्' अचक्षुर्दर्शनपर्यवैः अवधिदर्शनपर्यवैश्च पटस्थान-
 पतितो भवति, तदभिलापोऽपि पूर्ववदेव स्वयमूहः, 'एवं उक्कोसचक्रखुदंसणीवि'
 एवम्-पूर्वोक्तरीत्या, उत्कृष्ट चक्षुर्दर्शनो अपि नैरयिकः उत्कृष्टचक्षुर्दर्शनिनो
 नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुः
 स्थानपतितः, स्थिन्या चतुःस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः, त्रिभिर्ज्ञानैः
 त्रिभिरज्ञानैः पटस्थानपतितः, चक्षुर्दर्शनपर्यवैस्तुल्यः, अचक्षुर्दर्शनपर्यवैः, अवधि-

षट्स्थानपतित पूर्ववत् समझलेना चाहिए । चक्षुर्दर्शन पर्यायों की
 अपेक्षा तुल्य होता है, अचक्षुर्दर्शन पर्यायों की अपेक्षा षट्स्थानपतित
 तथा अवधिदर्शन के पर्यायों की अपेक्षा भी षट्स्थानपतित होता है ।
 षट्स्थानों का आलाप पूर्ववत् समझ लेना चाहिए ।

इसी प्रकार उत्कृष्ट चक्षुर्दर्शनी नारक के विषय में कहना चाहिए
 अर्थात् एक उत्कृष्ट चक्षुर्दर्शनी नारक दूसरे उत्कृष्ट चक्षुर्दर्शनी
 नारक की अपेक्षा द्रव्य से तुल्य हैं, प्रदेशों की अपेक्षा भी तुल्य होता
 है, अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित होता है, । स्थिति की
 अपेक्षा भी चतुःस्थानपतित होता है, वर्ण गंध, रस स्पर्श के
 पर्यायों से तीन ज्ञानों और तीन अज्ञानों के पर्यायों से षट्स्थान-
 पतित होता है, चक्षुर्दर्शन के पर्यायों से तुल्य होता है, अचक्षुर्दर्शन
 और अवधिदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है ।

अजघन्य अनुत्कृष्ट अर्थान् जो उत्कृष्ट भी नहीं, जघन्य भी
 नहीं अर्थात् मध्यम चक्षुर्दर्शनी नारक के विषय में भी इसी प्रकार

पतित पूर्वानी जेम समल्ल देवा जेधञ्जे यक्षुदर्शन, पर्यायिनी अपेक्षाञ्जे तुल्य
 होय छे अचक्षुर्दर्शन, पर्यायिनी अपेक्षाञ्जे षट्स्थान पतित तथा अवधिदर्शनना
 पर्यायिनी अपेक्षाञ्जे पणु षट्स्थानानु कथन पूर्ववत् सथल्ल देवु जेधञ्जे.
 जे प्रकारे उत्कृष्ट यक्षुदर्शनी नारकना विषयमा कडेवु जेधञ्जे. अर्थात्
 जेक उत्कृष्ट यक्षुदर्शनी नारक जौल उत्कृष्ट यक्षुदर्शनी नारकनी अपेक्षाञ्जे
 द्रव्यथी तुल्य छे अने प्रदेशीथी पणु तुल्य छे अवगाहननी अपेक्षाञ्जे यतु स्थान
 पतित थाय छे, स्थितिनी अपेक्षाञ्जे पणु यतु स्थान पतित छे. पणु गंध, रस
 स्पर्शना पर्यायिथी, त्रणु ज्ञानो अने त्रणु अज्ञानोना पर्यायिथी षट्स्थान पतित
 अने छे, यक्षुदर्शनना पर्यायिथी तुल्य अने छे अचक्षुर्दर्शनना अने अवधि-
 दर्शनना पर्यायिथी षट्स्थान पतित थाय छे

अजघन्य-अनुत्कृष्ट अर्थात् जे उत्कृष्ट पणु नहीं जघन्य पणु नहीं
 प्र० ८३

दर्शनपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, 'अजहणमणुकोसचक्खुदंसणीवि एवं चेव' अजघन्यानुत्कृष्ट चक्षुर्दर्शनी अपि नैरयिकः, एवञ्चैव-पूर्वोक्तवदेव, अजघन्यानुत्कृष्ट चक्षुर्दर्शनिनो नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या वर्णगंधरसस्पर्शपर्यवैः, त्रिभिर्ज्ञानैः, त्रिभिरज्ञानैः, षट्स्थानपतितः, चक्षुर्दर्शनपर्यवैस्तुल्यः, अचक्षुर्दर्शनपर्यवैः अवधिदर्शनपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, किन्तु 'सद्भाणे छद्धान्णडिण्' स्वस्थाने षट्स्थानपतितो भवति, तदभिलाषश्च पूर्ववदेव प्रसिद्धत्वात्स्वयमूहः, 'एवं अचक्खुदंसणीवि' एवम्-तथैव, जघन्य अचक्षुर्दर्शिनिकोऽपि नैरयिकः जघन्य अचक्षु-

कहना चाहिए, अर्थात् मध्यम चक्षुदर्शन का धारक एक नारक मध्यम चक्षुदर्शन के धारक दूसरे नारक से द्रव्य की अपेक्षा और प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य होता है, अवगाहना और स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित होता है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायों से तीन ज्ञानों और तीन अज्ञानों के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है, अचक्षुदर्शन एवं अवधिदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है। किन्तु स्वस्थान में भी षट्स्थानपतित होता है, अर्थात् एक मध्यम चक्षुदर्शन के धारक नारक की अपेक्षा दूसरे मध्यम चक्षुदर्शन के ही धारक नारक में षट्स्थानपतित हीनाधिकता होती है। उन षट्स्थानों का उच्चारण पूर्ववत् कर लेना चाहिए

अचक्षुदर्शनी नारक के विषय में भी ऐसा ही कहना चाहिए, अर्थात् एक जघन्य अचक्षुदर्शनी नारक दूसरे जघन्य

अर्थात् मध्यम चक्षुदर्शनी नारकना विषयमा पणु ओण् रीते कडेवु नेधञ्जे, अर्थात् मध्यम चक्षुदर्शनना धारक ओके नारक मध्यम चक्षुदर्शनना धारक भील नारकथी द्रव्यनी अपेक्षाञ्जे अने प्रदेशोनी अपेक्षाञ्जे तुल्य थाय छे, अवगाहना अने स्थितिनी अपेक्षाञ्जे चतुःस्थान पतित थाय छे. वर्ण, गंध, रस, स्पर्शना पर्यायोथी त्रणु ज्ञानो अने त्रणु अज्ञानोना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे अचक्षुदर्शन तेमण् अवधिदर्शनना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे, अचक्षुदर्शन तेमण् अवधिदर्शनना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे. किन्तु स्वस्थानमा पणु षट्स्थान पतित अने छे, अर्थात् ओके मध्यम चक्षुदर्शनना धारक नारकनी अपेक्षाञ्जे भील मध्यम चक्षुदर्शनना न धारक नारकमा षट्स्थान पतित हिनाधिकता थाय छे. आ छ स्थानोनु उच्चारण पूर्ववत् करी लेवु नेधञ्जे

अचक्षुदर्शनी नारकना विषयमा ओम न कडेवु नेधञ्जे. अर्थात् ओके जघन्य अचक्षुदर्शनी नारक भील जघन्य अचक्षुदर्शनी नारकनी अपेक्षाञ्जे

दर्शनिकस्य नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः, त्रिभिर्ज्ञानैः त्रिभिरज्ञानैः षट्स्थानपतितः, अचक्षुर्दर्शनपर्यवैः तुल्यः, अवधिदर्शनपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति तदभिलापोपि पूर्ववदेवावसेयः, 'ओहिदंसणीवि' अवधिदर्शनिकोऽपिनैरयिकः अवधिदर्शनिकस्य नैरयिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्ण-

अचक्षुदर्शनी नारक की अपेक्षा द्रव्य से तुल्य होता है, प्रदेशों से भी तुल्य होता है, अवगाहना और स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित होता है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, तीन ज्ञानों, तीन अज्ञानों तथा चक्षुःदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है, अचक्षुदर्शन के पर्यायों से तुल्य होता है, अवधिदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है। उत्कृष्ट अचक्षुदर्शनी के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। मध्यम अचक्षुदर्शनी के संबन्ध में ऐसा कहना चाहिए किन्तु उसे स्वस्थान में भी षट्स्थानपतित कहना चाहिए अर्थात् मध्यम अचक्षुदर्शनी एक नारक से मध्यम अचक्षुदर्शनी दूसरे नारक में षट्स्थानपतित हीनाधिकता होती है, क्योंकि मध्यम अचक्षुदर्शन का जघन्य और उत्कृष्ट अचक्षुदर्शन के समान एक स्थान नहीं होता।

अवधिदर्शनी नारक के संबन्ध में भी इसी प्रकार कहना चाहिए, अर्थात् एक जघन्य अवधिदर्शनी नारक से दूसरा जघन्य अवधिदर्शनी नारक द्रव्य और प्रदेशों से तुल्य होता है, अवगाहना

द्रव्यथी तुल्य होय छे. प्रदेशोथी पणु तुल्य होय छे. अवगाहना अने स्थितिनी अपेक्षाये यतु स्थान पतित होय छे, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, त्रणु अज्ञानो तथा अक्षुदर्शनना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे, अचक्षुदर्शनना पर्यायोथी तुल्य थाय छे, अवधिदर्शनना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे. उत्कृष्ट अचक्षुदर्शनना विषयमा पणु ओमळ समळपु लेधये. मध्यम अचक्षुदर्शनीना सम्बन्धमा ओमळ कडेपु लेधये परन्तु तेने स्वस्थानमा पणु षट्स्थान पतित कडेवा लेधये अर्थात् मध्यम अचक्षुदर्शनी ओक नारकथी मध्यम अचक्षुदर्शनी गीळ नारकमां षट्स्थान पतित हीनाधिकता थाय छे केमके मध्यम अचक्षुदर्शनना जघन्य अने उत्कृष्ट अचक्षुदर्शनना समान ओक स्थान नथी होतु.

अवधिदर्शनी नारकेना सम्बन्धमा पणु ओण प्रकारे कडेपु लेधये, अर्थात् ओक जघन्य अवधिदर्शनी नारकथी गीळ जघन्य अवधिदर्शनी नारक द्रव्य प्रदेशोथी तुल्य होय छे, अवगाहना अने स्थितिथी यतुस्थान पतित थाय

गन्धरसस्पर्शपर्ययैः, त्रिभिः ज्ञानैः त्रिभिरज्ञानैः षट्स्थानपतितः, चक्षुर्दर्शनपर्यय-
स्तुल्यः अचक्षुर्दर्शनपर्ययैः अवधिदर्शनपर्ययैः षट्स्थानपतितो भवति, तदभिला-
षकमथ पूर्ववदेवावसेयः ॥ सू. ६ ॥

मूलम्—जहणणोगाहगाणं भंते असुरकुमाराणं केवइया पज्जा
पणत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जा पणत्ता । से केणत्तेणं भंते ?
एवं वुच्चइ जहणणोगाहगाणं असुरकुमाराणं अणंता पज्जा
पणत्ता ? गोयमा ! जहणणोगाहणए असुरकुमारे जहणणोग-
हणस्स असुरकुमारस्स दच्चट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए तुल्ले,
ओगाहणट्टयाए तुल्ले, ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णाईहिं
छट्टाणवडिए, आभिणिवोहियणाणपज्जवेहिं सुयणाणपज्जवेहिं
ओहिणाणपज्जवेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं य छट्टाण-
वडिए एवं उक्कोसोगाहणए वि एवं अजहणणमणुवकोसोगाह
णए वि नवरं उक्कोसोगाहणए वि असुरकुमारे ठिईए चउट्टाण-
वडिए एवं जाव थणियकुमारा । ॥ सू०७ ॥

और स्थिति से चतुःस्थानपतित होता है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, तीन
ज्ञानों तथा तीन अज्ञानों के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है, चक्षु-
दर्शन और अचक्षुदर्शन के पर्यायों से भी षट्स्थानपतित होता है
किन्तु अवधिदर्शन के पर्यायों से तुल्य होता है । उत्कृष्ट अवधि-
दर्शन के विषय में तथा मध्यम अवधिदर्शन के विषय में भी ऐसा
—कहना चाहिए, मगर मध्यम अवधिदर्शन को स्वस्थान में भी षट्-
स्थानपतित कह लेना चाहिए ॥ ६ ॥

छे, वर्ण, गंध, रस स्पर्श, त्रिज्ञान, तथा त्रिज्ञे अज्ञानाना पर्यायेथी षट्स्थान
पतित थाय छे यक्षुदर्शनं अने अचक्षुदर्शनना पर्यायेथी पणु षट्स्थान पतित
थाय छे. पणु अवधिदर्शनना पर्यायेथी तुल्य अने छे, उत्कृष्ट अवधिदर्शनना
विषयमां पणु ओम व कडेवुं जेधजे, पणु मध्यम अवधिदर्शनने स्वस्थानमा
पणु षट्स्थान पतित कडेवुं जेधजे. ॥ ६ ॥

छाया—जघन्यावगाहनकानां भदन्त ! असुरकुमाराणां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ता पर्यवाः प्रज्ञप्ताः । तत् केनार्थेन भदन्त ! एव मुच्यते जघन्यावगाहनकानाम् असुरकुमाराणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यावगाहनकोऽसुरकुमारो जघन्यावगाहनकस्य असुरकुमारस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया तुल्यः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णादिभिः षट्स्थानपतितः, आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैः, श्रुतज्ञानपर्यवैः, अवधि-

असुरकुमारादिपर्यायवक्तव्यता

शब्दार्थ—(जहण्णोगाहगाणं भंते ! असुरकुमाराणां केवद्वया पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले असुरकुमारों के कितने पर्याय हैं ? (गोयमा अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णोगाहगाणं असुरकुमाराणां अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! किस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि जघन्य अवगाहना वाले असुरकुमारों के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा ! जहण्णोगाहणए असुरकुमारे जहण्णोगाहणस्स असुरकुमारस्स दव्वद्वयाए तुल्ले) हे गौतम ! एक जघन्य अवगाहना वाला असुरकुमार दूसरे जघन्य अवगाहना वाले असुरकुमार से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य हैं (एएसद्वयाए तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य है (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित है (वण्णाई हिं छट्टाणवडिए) वर्ण आदि से षट्स्थानपतित हैं (आभिणिबोहियनाण-पज्जवेहिं) आभिनिबोधि-ज्ञान के पर्यायों से (सुयनाणपज्जवेहिं)

असुरकुमारादि पर्याय वक्तव्यता.

शब्दार्थ—(जहण्णोगाहगाणं भंते ! असुरकुमाराणां केवद्वया पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाला असुरकुमारों के कितने पर्याय हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णोगाहगाणं असुरकुमाराणां अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! क्या हेतुથી ऐसा कहा गया है कि जघन्य अवगाहना वाले असुरकुमारों के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा ! जहण्णोगाहणए असुरकुमारे जहण्णोगाहणस्स असुरकुमारस्स दव्वद्वयाए तुल्ले) हे गौतम ! एक जघन्य अवगाहना वाला असुरकुमार दूसरे जघन्य अवगाहना वाले असुरकुमार से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है (एएसद्वयाए तुल्ले) अवगाहना की दृष्टि से तुल्य है (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति की चतुःस्थानपतित है (वण्णाई हिं छट्टाणवडिए) वर्ण आदि से षट्स्थानपतित है (आभिणिबोहियनाणपज्जवेहिं) आभिनिबोधि-ज्ञान के पर्यायों से (सुयनाणपज्जवेहिं)

ज्ञानपर्ययैः, त्रिभिर्ज्ञानैः, त्रिभिर्दर्शनैश्च पटस्थानपतितः, एवमुत्कृष्टावगाहन-
कोऽपि, एवम् अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकोऽपि, नवरम् उत्कृष्टावगाहनकोऽपि
असुरकुमारः स्थिन्या चतुः स्थानपतितः, एवं यावत् स्तनितकुमाराः ।

टीका—पूर्व सामान्यतोऽसुरकुमारादीनां पर्यायप्ररूपणं कृतम्, सम्प्रति
जघन्यावगाहनकानामसुरकुमारादीनां पर्यायं प्ररूपयितुमाह—‘जहण्णोगाहणगाणं
भंते । असुरकुमाराणं केवया पज्जवा पणत्ता ? गौतमः । पृच्छति—‘हे भदन्त ।
जघन्यावगाहनकानाम् जघन्यम् अजगाहन-शरीरोन्मूल्यो येषां ते जघन्यावगाह-
श्रुतज्ञान के पर्यायों से (ओहिणाणपज्जवेहिं) अवधिज्ञान के पर्यायों
से (तिहिं अण्णाणेहिं) तीन अज्ञानों से (तिहिं दंसणेहि य) और
तीन दर्शनों से (छट्ठाणवडिण) पटस्थानपतित है (एवं उक्कोसो-
गाहणए वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट अवगाहना वाला भी (एवं अज-
हण्णमणुक्कोसोगाहणए वि) इसी प्रकार मध्यम अवगाहना वाला भी
(नवरं) विशेष यह कि (उक्कोसोगाहणए वि असुरकुमारे ठिईए
चउट्ठाणवडिण) उत्कृष्ट अवगाहना वाला भी असुरकुमार स्थिति
से चतुःस्थानपतित है (एवं जाव थणियकुमारा) स्तनितकुमारों
तक इसी प्रकार जानना ।

टीकार्थ-पहले सामान्य रूप से असुरकुमारों आदि के पर्यायों की
प्ररूपणा की गई, अब जघन्य अवगाहना वाले आदि असुरकुमारों
के पर्यायों की प्ररूपणा की जाती है—

गौतम हे भगवन् ! जघन्य अवगाना वाले असुरकुमारों के
कितने पर्याय कहे गए हैं ?

श्रुतज्ञानना पर्यायथी (ओहिणाण पज्जवेहिं) अवधिज्ञानना पर्यायथी (तिहिं अण्णा
णेहिं) त्रयु अज्ञानाथी (तिहिं दंसणेहिं य) अने त्रयु दर्शनाथी (छट्ठाणवडिण)
पटस्थान पतित छे (एवं उक्कोसोगाहणए वि) अेअ प्रकारे उत्कृष्ट अवगाहना
वाणा पंथु (एव अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि) अेअ प्रकारे मध्यम अवगा-
हाहनावाणा पथु (नवरं) विशेष अे छे छे (उक्कोसोगाहणए वि असुरकुमारे ठिईए
चउट्ठाणवडिण) उत्कृष्ट अवगाहनावाणा पथु असुरकुमार स्थितिथी अतु स्थान
पतित छे (एवं जाव थणियकुमारा) स्तनितकुमारे सुधी अे प्रकारे जणुपु .

टीकार्थ—पडेला सामान्य रूपथी असुरकुमारो आदिना पर्यायिनी प्ररूपणु
करी. हुवे जघन्य अवगाहनावाणा असुरकुमारोना पर्यायिनी प्ररूपणु कराय छे

श्री गौतमस्वामी—भगवन् ! जघन्य अवगाहनावाणा असुरकुमारोना केटला
पर्याय कडेला छे ?

नकास्तेषामित्यर्थः, असुरकुमाराणां कियन्तः पर्यवाः—पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पणत्ता’ जघन्यावगाहनकानाम् असुरकुमाराणाम् अनन्ताः पर्यवाः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः, गौतमस्तत्र कारणं पृच्छति—‘से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णोगाहणमाणं असुरकुमाराणं अणंता पज्जवा पणत्ता’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन—कथं तावत्, एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते—यत्—जघन्यावगाहनकानाम् असुरकुमाराणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः इति ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! जहण्णोगाहणए असुरकुमारे जहण्णोगाहणस्स असुरकुमारस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले’ जघन्यावगाहनकोऽसुरकुमारो जघन्यावगाहनकस्य असुरकुमारस्य द्रव्यार्थतया द्रव्यार्थिकनयेन तुल्यो भवति ‘पएसट्ठयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया—प्रदेशापेक्षया, तुल्यो भवति, ‘ओगाहणट्ठयाए तुल्ले’ अवगाहनार्थतया—शरीरोच्छ्रयरूपतया तुल्यो भवति, ‘ठिईए चउट्ठाणवडिए’ स्थित्या—आयुः कर्मानुभवरूपस्थित्यपेक्षया, चतुःस्थानपतितो भवतिः, तथा च स्थित्य-

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाले असुरकुमारों के अनन्त पर्याय कहे गए हैं ।

गौ —हे भगवन् ! किस हेतु से ऐसा कहाजाता है कि जघन्य अवगाहना वाले असुरकुमारों के अनन्त पर्याय कहे हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! एक जघन्य अवगाहना वाला असुरकुमार दूसरे जघन्य अवगाहना वाले असुरकुमार से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है प्रदेशों की अपेक्षा भी तुल्य है, अवगाहना की अपेक्षा भी तुल्य है, किन्तु स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित होता है, अतएव एक जघन्य अवगाहनावाला असुरकुमार दूसरे जघन्य अवगाहना वाले असुरकुमार से स्थिति की अपेक्षा अगर हीन हो तो

श्री भगवान्—गौतम ! जघन्य अवगाहना वाला असुरकुमारोना अनन्त पर्याय कहेला छे

श्री गौतमस्वामी ! क्या हेतुथी ओम कहेवाय छे के जघन्य अवगाहना वाला असुरकुमारोना अनन्त पर्याय कहेला छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! ओक जघन्य अवगाहनावाला असुरकुमार भील जघन्य अवगाहनावाला असुरकुमारथी द्रव्यनी’ अपेक्षाओ तुल्य छे, प्रदेशोनी अपेक्षाओ पण तुल्य छे, अवगाहनानी अपेक्षाओ पण तुल्य छे किन्तु स्थितिनी अपेक्षाओ यतु स्थान पतित थाय छे, तेथीओ ओक जघन्य अवगाहनावाला असुरकुमार भील जघन्य अवगाहनावाला असुरकुमारथी स्थितिनी अपेक्षाओ अगर हीन होयतो अस जयात लागहीन, स जयातलाग हीन स जयात शुण्डीन

पेक्षया जघन्यावगाहनकोऽसुरकुमारो जघन्यावगाहनरुस्यासुरकुमारस्य असंख्येय
भाग हीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुण हीनो
वा भवति, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणा-
भ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति इति भावः, 'वण्णाडिहिं छद्वाणव
डिप्' वर्णादिभिः—वर्णगंधरसस्पर्शपर्यवैः जघन्यावगाहनकोऽसुरकुमारः षट् स्थान
पतितो भवति तदभिलापश्च पूर्ववदेव बोध्यः, 'आभिनिवोद्दिह्यनाणपज्जवेहिं'
आभिनिवोद्दिह्यनाणपज्जवेहिं, 'सुपनाणपज्जवेहिं' श्रुतज्ञानपर्यवैः 'ओदिनाणपज्जवेहिं'
अवधिज्ञानपर्यवैः, 'तिहिं अन्नाणेहिं' त्रिभिरज्ञानैः—मत्त्वज्ञानश्रुताज्ञानविभक्त-
लक्षणाज्ञानैः 'तिहिं दंसणेहि य छद्वाणवडिप्' त्रिभिर्दर्शनैश्च—चक्षुरसंभ्रुगवधि
लक्षणदर्शनपर्यवैः जघन्यावगाहनकोऽसुरकुमारः षट्स्थानपतितो भवति, तथा
च मतिज्ञानीभिः जघन्यावगाहनकोऽसुरकुमारो जघन्यावगाहनरुस्यासुरकुमारस्य
अनन्तभाग हीनो वा, असंख्येयभाग हीनो वा, संख्येयभाग हीनो वा, संख्येय-
गुण हीनो वा, असंख्येयगुण हीनो वा, अनन्तगुण हीनो वा भवति, अनन्त-
भागाभ्यधिको वा, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा,

असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन अथवा
असंख्यातगुण हीन होता हैं और यदि अधिक है तो असंख्यात भाग
अधिक, संख्यातभाग अधिक संख्यातगुण अधिक या असंख्यातगुण
अधिक होता है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायों से तथा आभिनि-
वोद्दिह्यनाण, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान तीन अज्ञानों और तीन दर्शनों
के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है, अर्थात् एक जघन्य अवगाहना-
वाला असुरकुमार दूसरे जघन्य अवगाहना वाले असुरकुमार से
अनन्त भागहीन असंख्यात भाग हीन संख्यात भाग हीन संख्यात-
गुणहीन असंख्यात गुण हीन अथवा अनन्तगुण हीन होता है, अगर
अधिक हो तो अनन्तभाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यात-

अथवा असंख्यात शुष्महीन थाय छे अने जे अधिक छे तो असंख्यात भाग
अधिक संख्यातभाग अधिक, संख्यातशुष्म अधिक, अथवा असंख्यात शुष्म अधिक
थाय छे. वर्ण, गंध, रस, स्पर्शना पर्यायों तथा आभिनिवोद्दिह्यनाण, श्रुतज्ञान,
अवधिज्ञान, त्रय अज्ञानो अने त्रय दर्शनोंना पर्यायों षट्स्थान पतित थाय
छे अर्थात् एक जघन्य अवगाहनावाणा असुरकुमार भील जघन्य अवगा-
हनावाणा असुरकुमारथी अनन्त भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात
भागहीन, संख्यात शुष्महीन, असंख्यात शुष्महीन अथवा अनन्त शुष्महीन
अने छे अगर अधिक होय तो अनन्तभाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक,

संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवतीति भावः, 'एवं उक्तोसोगाहण ए चि' एवम् पूर्वोक्तरीत्या, उत्कृष्टावगाहन-कोऽपि असुरकुमार उत्कृष्टावगाहनरूपासुरकुमारस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थ-तया तुल्यः, अवगाहनार्थतया तुल्यः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णादिभिः षट् स्थानपतितः, आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैः श्रुतज्ञानपर्यवैः, अवधिज्ञानपर्यवैः, त्रिभिरज्ञानै, त्रिभिर्दर्शनैश्च षट्स्थानपतितो भवति, 'एवं अजहणमणुकोसो-गाहण ए चि' एवम्-पूर्वोक्तवदेव अजघ्न्यानुत्कृष्टावगाहनरूपासुरकुमारः अजघ्न्यानुत्कृष्टावगाहनरूपासुरकुमारस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया तुल्यः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः वर्णादिभिः षट्स्थान

भाग अधिक, संख्यातगुण अधिक, असंख्यातगुण अधिक अथवा अनन्तगुण अधिक होता है ।

जैसा जघन्य अवगाहना वाले असुरकुमार के विषय में कहा, वैसा ही उत्कृष्ट अवगाहना वाले के विषय में भी कहना चाहिए, अर्थात् वह द्रव्य प्रदेशों और अवगाहना की अपेक्षा तुल्य होता है, स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित एवं वर्ण आदि के पर्यायों की अपेक्षा षट्स्थानपतित होता है । आभिनिबोधिकज्ञान के पर्यायों से श्रुतज्ञान के पर्यायों से, अवधिज्ञान के पर्यायों से, तीन दर्शनों से षट्स्थानपतित होता है ।

मध्यम अवगाहना वाले असुरकुमार के विषय में भी ऐसा ही कहना चाहिए अर्थात् मध्यम अवगाहना वाला एक असुरकुमार दूसरे असुरकुमार से द्रव्य तथा प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य होता है,

संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक, असंख्यातगुण अधिक अथवा अनन्तगुण अधिक थाय छे

नेपु मध्यम अवगाहनावाणा असुरकुमारना विषयमा कहु छे तेपु न उत्कृष्ट अवगाहनावाणाना विषयमा पणु कहेपु नेधये अर्थात् ते द्रव्य अने प्रदेशो तेमन अवगाहनानी अपेक्षाये तुल्य थाय छे, स्थितिनी अपेक्षाये चतुःस्थान पतित तेमन वणु आदिना पर्यायिनी अपेक्षाये षट्स्थान पतित थाय छे. आभिनिबोधिक ज्ञानना पर्यायिथी श्रुतज्ञानना पर्यायिथी, अवधिज्ञानना पर्यायिथी, त्रणु अज्ञानाथी, त्रणु दर्शनाथी षट्स्थान पतित थाय छे.

मध्यम अवगाहनावाणा असुरकुमारना विषयमा पणु नेपु न कहेपु. नेधये अर्थात् मध्यम अवगाहनावाणा ओक असुरकुमार अनि असुरकुमारथी द्रव्य तथा प्रदेशिनी अपेक्षाये तुल्य अने छे. अवगाहनानी अपेक्षाये तुल्य अने छे,

पेक्षया जघन्यावगाहनकोऽसुरकुमारो जघन्यावगाहनकस्यासुरकुमारस्य असंख्येय भाग हीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुण हीनो वा भवति, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति इति भावः, 'वण्णाइहिं छट्वाणवडिए' वर्णादिभिः—वर्णगंधरसस्पर्शपर्यवैः जघन्यावगाहनकोऽसुरकुमारः पट् स्थान पतितो भवति तदभिलाषश्च पूर्ववदेव बोध्यः, 'आभिनिवोहियनाणपज्जेवेहिं' आभिनिवोधिकज्ञानपर्यवैः, 'सुयनाणपज्जेवेहिं' श्रुतज्ञानपर्यवैः 'ओहिनाणपज्जेवेहिं' अवधिज्ञानपर्यवैः, 'तिहिं अन्नाणेहिं' त्रिभिरज्ञानैः—मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभ्रलक्षणाज्ञानैः 'तिहिं दंसणेहि य छट्वाणवडिए' त्रिभिर्दर्शनैश्च—चक्षुरचक्षुःअधि-लक्षणदर्शनपर्यवैः जघन्यावगाहनकोऽसुरकुमारः पट्स्थानपतितो भवति, तथा च मतिज्ञानीभिः जघन्यावगाहनकोऽसुरकुमारो जघन्यावगाहनकस्यासुरकुमारस्य अनन्तभाग हीनो वा, असंख्येयभाग हीनो वा, संख्येयभाग हीनो वा, संख्येयगुण हीनो वा, असंख्येयगुण हीनो वा, अनन्तगुण हीनो वा भवति, अनन्त-भागाभ्यधिको वा, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा,

असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन अथवा असंख्यातगुण हीन होता हैं और यदि अधिक हैं तो असंख्यात भाग अधिक, संख्यातभाग अधिक संख्यातगुण अधिक या असंख्यातगुण अधिक होता है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायों से तथा आभिनि-वोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान तीन अज्ञानों और तीन दर्शनों के पर्यायों से पट्स्थानपतित होता है, अर्थात् एक जघन्य अवगाहना-वाला असुरकुमार दूसरे जघन्य अवगाहना वाले असुरकुमार से अनन्त भागहीन असंख्यात भाग हीन संख्यात भाग हीन संख्यात-गुणहीन असंख्यात गुण हीन अथवा अनन्तगुण हीन होता है, अगर अधिक हो तो अनन्तभाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यात-

अथवा असंख्यात शुष्णहीन थाय छे अने जे अधिक छे तो असंख्यात भाग अधिक संख्यातभाग अधिक, संख्यातशुष्ण अधिक अथवा असंख्यात शुष्ण अधिक थाय छे। वर्ण, गंध, रस, स्पर्शना पर्यायिणी तथा आभिनिवोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, त्रय अज्ञानो अने त्रय दर्शनाना पर्यायिणी पट्स्थान पतित थाय छे अर्थात् एक जघन्य अवगाहनावाला असुरकुमार जीव जघन्य अवगाहनावाला असुरकुमारधी अनन्त भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात शुष्णहीन, असंख्यात शुष्णहीन अथवा अनन्त शुष्णहीन अने छे अगर अधिक होय तो अनन्तभाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक,

संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवतीति भावः, 'एवं उक्तोसोगाहण ए वि' एवम् पूर्वोक्तरीत्या, उत्कृष्टाऽगाहनकोऽपि असुरकुमार उत्कृष्टावगाहनरूपासुरकुमारस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया तुल्यः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णादिभिः षट् स्थानपतितः, आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैः श्रुतज्ञानपर्यवैः, अवधिज्ञानपर्यवैः, त्रिभिरज्ञानै, त्रिभिर्दर्शनैश्च षट्स्थानपतितो भवति, 'एवं अजहणमणुकोसोगाहण ए वि' एवम्-पूर्वोक्तवदेव अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकोऽपि असुरकुमारः अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनरूपासुरकुमारस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया तुल्यः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः वर्णादिभिः षट्स्थान भाग अधिक, संख्यातगुण अधिक, असंख्यातगुण अधिक अथवा अनन्तगुण अधिक होता है ।

जैसा जघन्य अवगाहना वाले असुरकुमार के विषय में कहा, वैसा ही उत्कृष्ट अवगाहना वाले के विषय में भी कहना चाहिए, अर्थात् वह द्रव्य प्रदेशों और अवगाहना की अपेक्षा तुल्य होता है, स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित एवं वर्ण आदि के पर्यायों की अपेक्षा षट्स्थानपतित होता है । आभिनिबोधिकज्ञान के पर्यायों से श्रुतज्ञान के पर्यायों से, अवधिज्ञान के पर्यायों से, तीन दर्शनों से षट्स्थानपतित होता है ।

मध्यम अवगाहना वाले असुरकुमार के विषय में भी ऐसा ही कहना चाहिए अर्थात् मध्यम अवगाहना वाला एक असुरकुमार दूसरे असुरकुमार से द्रव्य तथा प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य होता है,

संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक, असंख्यातगुण अधिक अथवा अनन्तगुण अधिक थाय छे

जेवु जघन्य अवगाहनावाणा असुरकुमारना विषयमा कहु छे तेवु ज उत्कृष्ट अवगाहनावाणाना विषयमा पणु कडेवु जेधये अर्थात् ते द्रव्य अने प्रदेशो तेमज अवगाहनानी अपेक्षाये तुल्य थाय छे, स्थितिनी अपेक्षाये चतु स्थान पतित तेमज वषु आदिना पर्यायीनी अपेक्षाये षट्स्थान पतित थाय छे. आभिनिबोधिक ज्ञानना पर्यायीथी श्रुतज्ञानना पर्यायीथी, अवधिज्ञानना पर्यायीथी, त्रणु अज्ञानेथी, त्रणुदर्शनेथी षट्स्थान पतित थाय छे

मध्यम अवगाहनावाणा असुरकुमारना विषयमा पणु जेवु ज कडेवु जेधये अर्थात् मध्यम अवगाहनावाणा जेक असुरकुमार जीन असुरकुमारथी द्रव्य तथा प्रदेशोनी अपेक्षाये तुल्य अने छे. अवगाहनानी अपेक्षाये तुल्य अने छे,

पतितः, आभिनिवोधिकज्ञानपर्यवैः, श्रुतज्ञानपर्यवैः, अग्रधिज्ञानपर्यवैः, त्रिभिरज्ञानैः, त्रिभिर्दर्शनैश्च षट्स्थानपतितो भवति, किन्तु 'नवमं उक्कोसोगाहण ए वि असुरकुमारे ठिईए चउट्टाणवडिए' नगरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु उत्कृष्टावगाहनकोऽपि असुरकुमारः स्थित्या-आयुः कर्मानुभनलक्षणस्थित्यपेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, 'एवं जाव थणियकुमारा' एवं-तथैव यावन्-नागकुमाराः सुवर्णकुमाराः, अग्निकुमाराः, विद्युत्कुमाराः उदधिकुमाराः, द्वीपकुमाराः, दिक्कुमाराः, पवनकुमाराः, स्तनितकुमाराः अपि जघन्यावगाहनकाः, उत्कृष्टावगाहनकाः, अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकाश्च यथायोग्यम् स्वस्वसजातीयापेक्षया द्रव्यार्थतया तुल्याः, प्रदेशार्थतया तुल्याः, अवगाहनार्थतया तुल्याः, स्थित्या-आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया चतुःस्थानपतिताः वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतिताः, आभिनिवोधिकज्ञानपर्यवैः, श्रुतज्ञानपर्यवैः, अग्रधिज्ञानपर्यवैः,

अवगाहना की अपेक्षा तुल्य होना हैं, किन्तु स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित होता है और वर्णादि के तथा आभिनिवोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, तीन अज्ञानों एवं तीन दर्शनों के पर्यायों की अपेक्षा षट्स्थानपतित होता है। विशेष यह है कि उत्कृष्ट अवगाहना वाला भी असुरकुमार स्थिति से चतुःस्थानपतित होता है।

स्तनितकुमारों तक इसी प्रकार कह लेना चाहिए। अर्थात् नागकुमार, सुवर्णकुमार, अग्निकुमार, विद्युत्कुमार, उदधिकुमार द्वीपकुमार, दिक्कुमार, पवनकुमार, स्तनितकुमार ये जघन्य अवगाहना वाले और मध्यम अवगाहना वाले यथायोग्य द्रव्य की अपेक्षा और प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य हैं अवगाहना की अपेक्षा तुल्य हैं, स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित हैं। तीन ज्ञानों, तीन अज्ञानों और तीन दर्शनों

पणु स्थितिनी अपेक्षाञ्चे चतुःस्थान पतित थाय छे अने वरुणादिना तथा आभिनिवोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान त्रणु अज्ञान तेमञ्च त्रणु दर्शनेना पर्यायेनी अपेक्षाञ्चे षट्स्थान पतित थाय छे विशेष अये छे के उत्कृष्ट अवगाहनावाणा पणु असुरकुमार स्थितिधी चतुःस्थान पतित थाय छे स्तनितकुमारे सुधी आरीते ञ्छेकेषु ञ्छेअर्थे अर्थात् नागकुमार, सुवर्णकुमार, अग्निकुमार विद्युत्कुमार द्वीपकुमार, दिक्कुमार, पवनकुमार अने स्तनितकुमार अये अथा ञ्छेअवगाहनावाणा, उत्कृष्ट अवगाहनावाणा, अने मध्यम अवगाहनावाणा यथा योग्य द्रव्यनी अपेक्षाञ्चे अने प्रदेशेनी अपेक्षाञ्चे तुल्य छे अवगाहनानी अपेक्षाञ्चे तुल्य छे स्थितिनी अपेक्षाञ्चे चतुःस्थान पतित छे, वर्ण, गंध, रस, स्पर्शना

त्रिभिरज्ञानपर्यवैः, त्रिभिर्दर्शनपर्ववैश्च पट् स्थानपतिता भवन्ति, तेषामालापकाश्च पूर्वोक्तरीत्या स्वयमेवावगन्तव्याः ॥ सू०७ ॥

पृथिवीकायिकादि पर्यायवक्तव्यता-

मूलम्-जहण्णोगाहणाणं भंते ! पुढविकाइयाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ जहण्णोगाहणाणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा । जहण्णोगाहणाणं पुढविकाइए जहण्णोगाहणाणस्स पुढविकाइयस्स दव्वट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणाट्टयाए तुल्ले ठिईए तिट्ठाणवडिए वण्णगंधरसफास पज्जवेहिं दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिं य छट्ठाणवडिए एवं उक्कोसोगाहणाणं वि अजहण्णमणुक्कोसोगाहणाणं वि एवं चेव नवरं सट्ठाणे चउट्ठाणवडिए जहण्णठिइयाणं पुढविकाइयाणं पुच्छा गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ जहण्णठिइयाणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णठिइए पुढविकाइए जहण्णठिइयस्स पुढविकाइयस्स दव्वट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणाट्टयाए चउट्ठाणवडिए ठिईए तुल्ले वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं मइअण्णाणपज्जवेहिं सुयअण्णाणपज्जवेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए एवं उक्कोसठिइए वि अजहण्णमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव नवरं सट्ठाणे तिट्ठाणवडिए जहण्णाणुणकालयाणं भंते ! पुढविकाइयाणं पुच्छा गोयमा !

की अपेक्षा षट्स्थानपतिता हैं । छह और चार स्थानों का उच्चारण पूर्ववत् स्वयं ही समझ लेना चाहिए ॥ ७ ॥

पर्यायो षट्स्थानपतिता छे त्रयु ज्ञानो, त्रयु अज्ञानो अने त्रयु दृशनेनी अपेक्षाये षट्स्थानपतिता छे छ अने चार स्थानोना उच्चारण पूर्ववत् गते न समझ लेवु नोधये ॥ ७ ॥

अणंता पज्जवा पणत्ता से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ जहणणगुणकालयाणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहणणगुणकालए पुढविकाइए जहणणगुणकालगस्स पुढविकाइयस्स दब्बट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए ठिईए तिट्ठाणवडिए कालवणणपज्जवेहिं तुल्ले अवसेसेहिं वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए दोहिं अन्नाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिं य छट्टाणवडिए एवं उक्कोसगुणकालए वि अजहणणमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच रसा अट्टफासा भाणियत्वा जहणणमइअन्नाणीणं भंते ! पुढविकाइयाणं पुच्छा गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ जहणणमइअन्नाणीणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहणण मइ अन्नाणी पुढवीकाइए जहणणमइ अन्नाणियस्स पुढविकाइयस्स दब्बट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए ठिईए तिट्ठाणवडिए वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए मइ अण्णाणापज्जवेहिं तुल्ले सुय अण्णाणपज्जवेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए एवं उक्कोसमइ अण्णाणी वि अजहणणमणुक्कोस मइ अन्नाणीवि एवं चेव नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए एवं सुय अन्नाणीवि अचक्खुदंसणीवि एवं चेव जाव वणप्फइकाइया ॥ सू०८ ॥

छाया—जवन्यावगाहनकानां भदन्त ! पृथिवीकायिकाना क्रियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्येन भदन्त ! एवमुच्यते—

पृथ्वीकायादिपर्यायवस्तुव्यता

शब्दार्थ—जहणणोगाहणाणं भंते ! पुढविकाइयाणं केवइया पज्जवा

पृथ्वीकायादि पर्याय वस्तुव्यता

शब्दार्थ—(जहणणोगाहणाणं भंते ! पुढविकाइयाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?) डे

जघन्यावगाहनकाना पृथिवीकायिकानामनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघ-
न्यावगाहनकः पृथिवीकायिको जघन्यावगाहनकस्य पृथिवीकायिकस्य द्रव्यार्थतया
तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया तुल्यः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः,
वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः, द्वाभ्याम् अज्ञानाभ्याम् अचक्षुर्दर्शनःपर्यवैश्च पट्ट स्थान-
पतितः, एवम् उत्कृष्टावगाहनकोपि, जघन्यानुत्कृष्टावगाहनकोऽपि एवञ्चैव

पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले पृथ्वीकायिको के
कितने पर्याय हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अन-
न्त पर्याय कहे गये हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ-जहण्णोगाहणाणं
पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! किस कारण से
ऐसा कहा है कि जघन्य अवगाहना वाले पृथ्वीकायिकों के अनन्त पर्याय
होते हैं ? (गोयमा ! जहण्णोगाहणए पुढविकाइए जहण्णोगाहणस्स
पुढविकाइयस्स दव्यट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाला
पृथ्वीकायिक जघन्य अवगाहना वाले दूसरे पृथ्वीकायिक से द्रव्य की
अपेक्षा तुल्य हैं (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है
(ओगाहणट्टयाए तुल्ले) अवगाहना से तुल्य है (ठिईए तिट्ठाणवडिए)
स्थिति से त्रिस्थानपतित है (वण्ण-गंध रस फासपज्जवेहिं) वर्ण, गंध,
रस और स्पर्श के पर्यायों से (दोहिं अण्णाणेहिं) दो अज्ञानों
से (अचक्खुदंसण पज्जवेहि य) और अचक्षुदर्शन के पर्यायों से
(छट्ठाणवडिए) षट्स्थानपतित है ।

(एव उक्कोसोगाहणए वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट अवगाहना

लगवन् । जघन्य अवगाहनावाणाणा पृथ्वीकायिकेना केट्ठा पर्याय छे ? (गोयमा ।
अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कछा छे (से केणट्टेण भंते ! एव
वुच्चइ जहण्णोगाहणाण पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे लगवन् शा कारखे
अेभ क्खु के जघन्य अवगाहनावाणा पृथ्वीकायिकेना अनन्त पर्याय थाय छे ?
(गोयमा ! जहण्णोगाहणए पुढविकाइए जहण्णोगाहणस्स पुढविकाइयस्स दव्यट्टयाए
तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य अवगाहनावाणा पृथ्वीकायिक जघन्य अवगाहनावाणा
भीण पृथ्वीकायिकथी द्रव्यनी अपेक्षाअे तुल्य छे (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशोनी
अपेक्षाअे तुल्य छे (ओगाहणट्टयाए तुल्ले) अवगाहनाथी तुल्य छे (ठिईए तिट्ठाण-
वडिए) स्थितिथी त्रिस्थान पतित छे (वण्ण, गंध, रस, फास पज्जवेहि) वरुण्ण,
गंध, रस, स्पर्शना पर्यायेथी (दोहिं अण्णाणेहिं) अे अज्ञानोथी (अचक्खुदंसण
पज्जवेहिं) अने अचक्षुदर्शनना पर्यायेथी (छट्ठाणवडिए) षट्स्थान पतित छे ।

(एवं उक्कोसोगाहणए वि) अेअ रीते उत्कृष्ट, अवगाहनावाणा पथु (अज-

नवरं स्वस्थाने चतुःस्थानपतितः, जघन्यस्थितिकानां पृथिवीकायिकानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते जघन्यस्थिकानां पृथिवीकायिकानां अनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यस्थितिक पृथिवीकायिको जघन्यस्थितिकस्य पृथिवीकायिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या तुल्यः, वर्णागंधरसस्पर्शपर्यवैः मत्यज्ञानपर्यवैः, श्रुताज्ञानपर्यवैः अचक्षुर्दर्शनपर्यवैः पदस्थानपतितः, एवम्

वाला भी (अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव) मध्यम अवगाहना वाला भी इसी प्रकार (नवरं सट्ठाणे चउट्ठाणवडिए) विशेष यह कि मध्यम अवगाहना वाला स्वस्थान में भी चतुःस्थानपतित है

(जहण्णट्ठिइयाणं पुढविकाइयाणं पुच्छा ?) जघन्य स्थिति वाले पृथिवीकायिकों के विषय में पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ-जहण्णट्ठिइयाणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) किस कारण से हे भगवन् ! ऐसा कहा जाता है कि जघन्य स्थिति वाले पृथिवीकायिकों के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा ! जहण्णट्ठिइए पुढविकाइए जहण्णट्ठिइयस्स पुढविकाइयस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य स्थिति वाला पृथिवीकायिक जघन्य स्थिति वाले पृथिवीकायिक से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है (पएसट्ठयाए तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है (ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित है (ट्ठिइए तुल्ले) स्थिति से तुल्य है (वण्ण-गंध रस-फास पज्जवेहिं) वर्ण,

हण्ण मणुक्कोसोगाहणए वि एव चेव) मध्यम अवगाहनावाला पथु ओव प्रकारे (नवर सट्ठाणे चउट्ठाणवडिए) विशेष ओ छे डे मध्यम अवगाहनावाला स्वस्थान मा पथु चतु स्थान पतित छे (जहण्णट्ठिइयाण पुढविकाइयाण पुच्छा ?) जघन्य स्थितिवाला पृथिवीकायिकेना विषयमा पृच्छा ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहा छे (से केणट्ठेणं भंते ! एव वुच्चइ-जहण्णट्ठिइयाणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता) सा कारणे लगवन् ओम कलु छे डे जघन्य स्थितिवाला पृथिवीकायिकेना अनन्त पर्याय छे (गोयमा ! जहण्णट्ठिइए पुढविकाइए जहण्णट्ठिइयस्स पुढविकाइयस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य स्थितिवाला पृथिवीकायिक जघन्य स्थितिवाला पृथिवीकायिकी—द्रव्यनी अपेक्षाओ तुल्य छे (पएसट्ठयाए तुल्ले) प्रदेशोनी अपेक्षाओ तुल्य छे (ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए) अवगाहनाधी चतु स्थानपतित छे (ट्ठिइए तुल्ले) स्थितिधी तुल्य छे (वण्ण, गंध, रस फासपज्जवेहिं) पथु, गंध, रस,

उत्कृष्टस्थितिकोऽपि अजघन्यानुत्कृष्टस्थितिकोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने त्रिस्थानपतितः, जघन्यगुणकालकानां भदन्त ! पृथिवीकायिकानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः, तत् वेनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यगुणकालकानां पृथिवीकायिकानामनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यगुणकालकः पृथिवीकायिको जघन्यगुणकालकस्य पृथिवीकायिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया

गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से (महअण्णाण पज्जवेहिं) मति-अज्ञान के पर्यायों से (सुयअण्णाणपज्जवेहिं) श्रुत-अज्ञान के पर्यायों से (अचक्खुदंसणपज्जवेहिं) अचक्षुदर्शन के पर्यायों से (छट्ठाणवडिए) षटस्थानपतित है (एव उक्कोसठिइए वि) उत्कृष्ट स्थिति वाला भी ऐसा ही (अजहण्णमणुक्कोसठिइए वि एव चैव) मध्यम स्थिति वाला भी ऐसा ही (नवर सट्ठाणे तिट्ठाणवडिए) विशेष यह कि स्वस्थान में भी त्रिस्थानपतित है

(जहण्णगुणकालयाणं भंते ! पुढविकाइयाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्यगुण कृष्ण पृथ्वीकायिकों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णगुणकालयाणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) किस कारण से हे भगवन् ! ऐसा कहा जाता है कि जघन्य गुण कृष्ण पृथ्वी कायिकोंके अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा ! जहण्णगुणकालए पुढविकाइए जहण्णगुणकालियस्स पुढविकाइयस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले) जघन्यगुण काला पृथ्वीकायिक जघन्यगुण काले

स्पर्शना पर्यायोधी (मह अण्णाण पज्जवेहिं) मति अज्ञानना पर्यायोधी (सुय अण्णाण पज्जवेहिं) श्रुत अज्ञानना पर्यायोधी (अचक्खुदंसण पज्जवेहिं) अचक्षु शर्दनना पर्यायोधी (छट्ठाणवडिए) षटस्थान पतित छे (एव उक्कोसठिइए वि) उत्कृष्ट स्थितिवाणाना स भधनु कथन पण्णु अेव प्रभाण्णु छे (अजहण्ण मणु क्कोसठिइए वि एव चैव) मध्यम स्थितिवाणा पण्णु (नवर सट्ठाणे तिट्ठाणवडिए) विशेष अेडे स्वस्थानमा पण्णु त्रिस्थान पतित छे

(जहण्णगुणकालयाणं भंते ! पुढविकाइयाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य गुण कृष्ण पृथ्वीकायिकोंकी पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे भगवन् ! अनन्त पर्याय कहे छे (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णगुणकालयाणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् कथा काले अेव प्रभाण्णु छे जघन्य गुण कृष्ण पृथ्वीकायिकोंना अनन्त पर्याय छे ? (गोयमा ! जहण्णगुणकालए पुढविकाइए जहण्णगुणकालियस्स पुढविकाइयस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले)

तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, कृष्णवर्णपर्यवै-
स्तुल्यः, अवशेषैः वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवै पट्स्थानपतितः, द्वाभ्याम् अज्ञानाभ्याम्
अचक्षुर्दर्शनपर्यवैश्च पट्स्थानपतितः, एवमुत्कृष्टगुणकालकोपि अजघन्यानुत्कृष्टगुण-
कालकोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने पट्स्थानपतितः, एवं पञ्चवर्णाः, द्वौ गन्धौ,
पञ्चरसाः, अष्टौ स्पर्शाः भणितव्याः, जघन्यमत्यज्ञानीनां भदन्त ! पृथिवीका-

पृथ्वीकायिक से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य हैं (पएसदृयाए तुल्ले) प्रदेशों
की अपेक्षा तुल्य है (ओगाहदृयाए चउद्वाणवडिए) अवगाहना
की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है (ठिईए तिद्वाणवडिए) स्थिति से
त्रिस्थानपतित है (कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले) कृष्णवर्ण के पर्यायों से
तुल्य है (अवसेसेहिं वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छद्वाणवडिए) शेष
वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित है (दोहिं अन्ना-
णेहिं) दो अज्ञानों के (अचक्खुदंसणपज्जवेहिं य) और अचक्षुर्दर्शन
के पर्यायों से (छद्वाणवडिए) षट्स्थानपतित है (एवं उक्कोस गुण
कालए वि) ऐसा ही उत्कृष्टगुण कृष्ण भी (अजहण्णमणुक्कोसगुण
कालए वि एव चेव) मध्यमगुण कृष्ण भी इसी प्रकार (नवरं) विशेष
यह कि (सद्वाणे छद्वाण वडिए) स्वस्थान में षट्स्थानपतित है

(एवं पंचवण्णा) ऐसे ही पांच वर्ण (दो गंधा) दो गंध (पंच रसा)
पांच रस (अट्टफासा) आठ स्पर्श (आणियव्वा) कहने चाहिए

(जहण्णमइअन्नाणीणं भंते ! पुढविकाइयाणं) हे भगवन् ! जघन्य
मति-अज्ञानी पृथ्वीकायिकों के विषय में प्रच्छा ? (गोयमा ! अर्णाता

शुष्ण काणा पृथ्वीकायिक जघन्य शुष्ण काणा पृथ्वीकायिकथी द्रव्यनी अपेक्षाये
तुल्य छे (पएसदृयाए तुल्ले) प्रदेशोनी अपेक्षाये तुल्य छे (ओगाहणदृयाए चउ-
द्वाणवडिए) अवगाहनानी अपेक्षाये चतु स्थान पतित छे (ठिईए तिद्वाणवडिए)
स्थितिथी त्रिस्थान पतित छे (कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले) कृष्ण वर्णना पर्यायोथी
तुल्य छे (अवसेसेहिं वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छद्वाणवडिए) शेष वर्ण, गंध,
रस, स्पर्शना पर्यायोथी षट्स्थान पतित छे (दोहिं अन्नाणेहिं) दो अज्ञानोथी
(अचक्खुदंसणपज्जवेहिं य) अने अचक्षुदर्शनना पर्यायोथी (छद्वाणवडिए) षट्-
स्थान पतित छे (एव उक्कोसगुणकालए वि) अमेव उत्कृष्ट शुष्ण कृष्ण पशु
(अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एव चेव) मध्यम शुष्ण कृष्ण पशु अमेव प्रकारे
(नवरं) विशेष अेके (सद्वाणे छद्वाणवडिए) स्वस्थानभा षट्स्थान पतित छे

(एव पंचवण्णा) अेव प्रमाणे पाच वर्ण (दो गंधा) दो गंध (पंच रसा)
पाच रस (अट्ट फासा) आठ स्पर्श (आणियव्वा) छडेवा जेधअे

(जहण्ण मइअन्नाणीणं भंते ! पुढविकाइयाणं) हे भगवन् ! जघन्य मति-

यिकानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रत्पताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एव-
 युच्यते—जघन्यमत्यज्ञानीनां पृथिवीकायिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम !
 जघन्यमत्यज्ञानी पृथिवीकायिको जघन्यमत्यज्ञानिनः पृथिवीकायिकस्य द्रव्यार्थ-
 तथा तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या
 त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवै पद् स्थानपतितः, मत्यज्ञानपर्यवैरतुल्यः,
 श्रुताज्ञानपर्यवैः, अचक्षुर्दर्शनपर्यवैः पद् स्थानपतितः, एवम् उत्कृष्टमत्यज्ञानी
 पञ्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणद्वेणं भंते
 एवं वुच्चइ—जहणमइअण्णाणीणं पुढविकाइयाणं अणंता पञ्जवा
 पणत्ता ?) हे भगवन् ! किसकारण ऐसा कहा गया कि जघन्य मति-
 ज्ञानी पृथ्वीकायिकों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहणमइ-
 अण्णाणी पुढविकाइए जहणमइअन्नाणिस्स पुढविकाइयस्स दव्वट्टयाए
 तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य मति—अज्ञानी पृथ्वीकायिक जघन्य मति
 अज्ञानी पृथ्वीकायिक से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है (पएसट्टयाए
 तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है (ओगाहणट्टयाए चउट्ठाणवडिए)
 अवगाहना की अपेक्षा से चतुःस्थानपतित है (ठिइए तिट्ठाणवडिए)
 स्थिति से त्रिस्थानपतित है (वण्णगंधरसफासपञ्जवेहिं छट्ठाणवडिए)
 वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, के पर्यायों से षट्स्थानपतित है (मइअण्णा-
 णपञ्जवेहिं तुल्ले) मति—अज्ञान के पर्यायों से तुल्य है (सुयअण्णा-
 णपञ्जवेहिं अचक्खुदंसणपञ्जवेहिं छट्ठाणवडिए) श्रुताज्ञान और
 अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित है (एवं उक्कोसमइअण्णाणी-

अज्ञानी पृथ्वीकायिकानां विषयमा पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पञ्जवा पणत्ता)
 हे गौतम ! अनन्त पर्याय कक्षा छे (से केणद्वेणं भंते ! एव वुच्चइ जहणमइ-
 अण्णाणीणं पुढविकाइयाण अणंता पञ्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! शां करणे अेभ
 क्खेले छे के जघन्य मति अज्ञानी पृथ्वीकायिकानां अनन्त पर्याय कक्षा छे ?
 (गोयमा ! जहणमइ अण्णाणी पुढविकाइए जहणमइ अन्नाणिस्स पुढविकाइयस्स
 दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य मति अज्ञानी पृथ्वीकायिक जघन्य मति
 अज्ञानी पृथ्वीकायिकी द्रव्यनी अपेक्षाअे तुल्य छे (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशोनी
 अपेक्षाअे तुल्य छे (ओगाहणट्टयाए चउट्ठाणवडिए) अवगाहनानी अपेक्षाअे चतु-
 स्थान पतित छे (ठिइए तिट्ठाणवडिए) स्थितिथी त्रिस्थान पतित छे (वण्ण
 गंधरसफासपञ्जवेहिं छट्ठाणवडिए) वर्ण, गंध, रस स्पर्शनी पर्यायेथी
 षट्स्थान पतित छे (मइ अण्णाणपञ्जवेहिं तुल्ले) मति, अज्ञानना पर्यायेथी
 तुल्य छे (सुयअण्णाणपञ्जवेहिं अचक्खुदंसणपञ्जवेहिं छट्ठाणवडिए) श्रुताज्ञान

अपि, अजघन्याजुत्कृष्टपत्यज्ञानी अपि एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने पट् स्थानपतितः एवं श्रुताज्ञानी अपि, अचक्षुर्दर्शनी अपि, एवञ्चैव यावत् वनस्पतिकायिकाः ॥८॥

टीका—अथ जघन्यावगाहनकानां पृथिवीकायिकानां पर्यवान् प्ररूपयितुं माह—‘जहण्णोगाहणणं भंते ! पुढविकाइयाणं केवइया पज्जवा पण्णत्ता ?’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! जघन्यावगाहनकानाम्—जघन्यम् अवगाहनं शरीरी-छयो येषां ते जघन्यावगाहनकारुतेपामित्यर्थः, पृथिवीकायिकानां क्रियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ जघन्यावगाहनकानां पृथिवीकायिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—जहण्णोगाहणणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन—कथं तावत्, एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते

वि) ऐसा ही उत्कृष्ट मति—अज्ञानी भी (अजहण्णमणुक्कोसमइ—अन्नाणी वि एवं चेव) मध्यम मति—अज्ञानी भी ऐसा ही (नवरं) विशेष यह कि (सट्ठाणे छट्ठाणवडिए) स्वस्थान में षट्स्थानपतित हैं (एवं सुयअण्णाणी वि) ऐसा ही श्रुताज्ञानी भी (अचक्खुदसणी-वि एव चेव) अचक्षुदर्शनी भी ऐसा ही (जाव वणप्फइकाइया) वनस्पतिकायिकों इसी प्रकार कहना चाहिए ।

टीकार्थ—अब जघन्य अवगाहना वाले पृथ्वीकायिकों के पर्यायों की प्ररूपणा की जाती है—

गौतम—जघन्य अवगाहना वाले पृथ्वीकायिकों के कितने पर्याय-कहे हैं ?

भगवन्—हे गौतम ? अनन्त पर्याय कहे हैं ।

अने अचक्षुदर्शनीना पर्यायिणी षट्स्थान पतित छे (एव उक्कोसमइअण्णाणी वि) ओए रीते उक्कृष्ट मति अज्ञानी पणु (अजहण्णमणुक्कोस मइअन्नाणी वि एव चेव) मध्यम मति—अज्ञानी पणु ओवीर रीते (नवर) विशेष ओ छे डे (सट्ठाणे छट्ठाणवडिए) स्वस्थानमा षट्स्थान पतित छे (एव सुयअण्णाणी वि) ओमए श्रुताज्ञानी पणु (अचक्खुदसणी वि एव चेव) अचक्षुदर्शनी पणु ओमए समएवा (जाव वणप्फइकाइया) वनस्पतिकायिके सुधी आए प्रकारे कडेए जेधओ

टीकार्थ—हुवे जघन्य अवगाहनावाला पृथ्वीकायिकेना पर्यायिणी अरूपणु कराय छे

श्रीगौतमस्वामी—डे भगवन् जघन्य अवगाहनावाला पृथ्वीकायिकेना डेटला पर्याय क्खे छे ?

श्री भगवान्—डे गौतम अनन्त पर्याय क्खे छे.

यत् जघन्यावगाहनकानां पृथिवीकायिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ता इति ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णोगाहणए पुढविकाइए’ जघन्यावगाहनकपृथिवीकायिकः ‘जहण्णोगाहणस्त पुढविकाइयस्स दन्वट्टयाए तुल्ले’ जघन्यावगाहनकस्य पृथिवीकायिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, ‘पएसट्टयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाहणट्टयाए तुल्ले’ अवगाहनार्थतया तुल्यो भवति, किन्तु ‘ठिईए तिट्ठाणवडिइए’ स्थित्या आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया त्रिस्थानपतितो भवति, येषां संख्येयवर्षायुष्कत्वात्, तच्च प्रागपि समुच्चय-पृथिवीकायिकवक्तव्यतायां प्रतिपादितमेव, तदभिलाषश्च—स्थित्यपेक्षया जघन्यावगाहनकस्य पृथिवीकायिकान्तरस्य असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा भवति न तु असंख्येयगुणहीनो भवति, प्रागुक्तयुक्तेः,

गौतम—हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा जाता है कि जघन्य अवगाहना वाले पृथ्वीकायिकों के अनन्त पर्याय कहे गए हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाला पृथ्वीकायिक दूसरे जघन्य अवगाहना वाले पृथ्वीकायिक से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, अवगाहना की अपेक्षा भी तुल्य होता है, किन्तु स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थानपतित होता है । कारण यह है कि पृथ्वीकायिकों की स्थिति संख्यात वर्ष की ही होती है । यह बात पहले समुच्चय पृथ्वीकायिकों की वक्तव्यता के प्रसंग में कही जा चुकी है । अतएव जघन्य अवगाहना वाला एक पृथ्वीकायिक दूसरे जघन्य अवगाहना वाले पृथ्वीकायिक की अपेक्षा अगर हीन हो तो असंख्यातभाग हीन संख्यातभाग हीन अथवा संख्यातगुण हीन होता है । पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार वह

श्री गौतमस्त्रामी—डे भगवन् शा कारणे अमे कडेवाय छे डे जघन्य अवगाहनावाणा पृथ्वीकायिकेना अनन्त पर्याय कडेवाय छे ?

श्री भगवान्—डे गौतम ! जघन्य अवगाहनावाणा पृथ्वीकायिक णीण जघन्य अवगाहनावाणा पृथ्वीकायिकथी द्रव्यनी अपेक्षाअे तुल्य छे प्रदेशेनी अपेक्षाअे तुल्य छे अने अवगाहनानी अपेक्षाअे पण तुल्य णे छे, किन्तु स्थितिनी अपेक्षाअे त्रिस्थान पतित थाय छे कारणे अे छे डे पृथ्वीकायिकेनी स्थिति संख्यात वर्षनी ज डोय छे अे वात पडेवा समुच्चय पृथ्वीकायिकेनी वक्तव्यताना प्रसंगमा कडेवाय गथ छे. तेथीज जघन्य अवगाहनावाणा अेक पृथ्वीकायिक णीण जघन्य अवगाहनावाणा पृथ्वीकायिकेनी अपेक्षाअे अगर हीन थाय तो असंख्यात भागहीन, संख्यात

एवम् असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति, न तु असंख्येयगुणाभ्यधिको भवति युक्तेः प्रागुपपादितत्वात्, तथा 'वर्णगंधरसफासपज्जवेहि' वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः, 'दोहिं अन्नाणेहि' द्वाभ्यामज्ञानाभ्याम् मत्यज्ञानश्रुताज्ञानलक्षणपर्यव्याभ्याम्, 'अचक्षुर्दसणपज्जवेहि च छट्ठाणवडिए' अचक्षुर्दर्शनपर्यवैश्च षट्स्थानपतितो भवति तदभिलापश्च पूर्वोपदर्शितदिशाऽवसेयः, अत्र प्ररूपणे पृथिवीकायिकानां सम्यक्त्वस्य तेषु मध्ये सम्यक्त्वसहितस्य चोत्पादासंभवेन अज्ञानद्वयमेव प्ररूपितम् न तु ज्ञानद्वयमिति- 'उभयाभावो पुढविकाइएसु' इति वचनप्रामाण्यात्,

असंख्यातगुण हीन नहीं हो सकता। अगर अधिक हो तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक अथवा संख्यातगुण अधिक ही होता है। वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायो से, दो अज्ञानो अर्थात् मत्यज्ञान और श्रुताज्ञान के पर्यायो से, तथा अचक्षुदर्शन के पर्यायो से षट्स्थानपतित होता है। इन षट्स्थानो का उच्चारण पूर्ववत् समझ लेना चाहिए। यहां यह ध्यानरखना चाहिए कि पृथ्वीकायिकजीवों में सम्यक्त्व नहीं होता और न सम्यग्दृष्टि जीव पृथ्वीकाय में उत्पन्न ही होते हैं। सभी पृथ्वीकायिक मिथ्यादृष्टि होते हैं, अतएव उनमें दो अज्ञान ही पाये जाते हैं। वहां ज्ञान का सदभाव नहीं है। इसी कारण यहां दो अज्ञानों की ही प्ररूपणा की गई है। इसी प्रकार पृथ्वीकायिकों में चक्षुरिन्द्रिय का अभाव होने से चक्षुदर्शन भी नहीं होता, अतएव सिर्फ अचक्षुदर्शन की ही प्ररूपणा की गई है।

लागहीन अथवा संख्यात गुणहीन होने से पूर्वोक्त युक्तिना अनुसार तो संख्यात गुण थप नहीं सकता. अगर अधिक होय तो असंख्यात लाग अधिक, संख्यात लाग अधिक अथवा संख्यात गुण अधिक न थाय से वर्युं गंध, रस, स्पर्शना पर्यायोथी, जे अज्ञानो अर्थात् मत्यज्ञान अने श्रुताज्ञानना पर्यायोथी तथा अचक्षुदर्शनना पर्यायोथी षट्स्थानपतित थाय से जे छ स्थानोना उन्वारण पूर्ववत् समझ लेवा लेथजे, अहिजे ध्यान राखवु लेथजे के पृथ्वीकायिक जेवोभा सम्यक्त्व नहीं होतु अने न सम्यग्दृष्टि एव पृथ्वी कायभा उत्पन्न थाय से. तथा पृथ्वीकायिक मिथ्यादृष्टि होय से तेथीन तेजोभा जे अज्ञान न मणी आवे से त्या ज्ञाननो सदभाव होतो नहीं जे कारणे अहि जे अज्ञानोनी न प्ररूपणा कराथ से जे प्रकारे पृथ्वीकायिकोभा चक्षुरिन्द्रियो अभाव होवाथी चक्षुदर्शन पण नहीं थतु, तेथीन इकत अचक्षुदर्शननी न प्ररूपणा कराथ से.

अत एवोक्तम्—‘दोहिं अण्णाणेहिं’ इति, ‘एवं उक्कोसोगाहणए वि’ एवम्—
उत्तरीत्या, उत्कृष्टावगाहनकोऽपि पृथिवीकायिकः उत्कृष्टावगाहनकस्य पृथिवी-
कायिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया तुल्यः,
स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः द्वाभ्यामज्ञानाभ्याम्, अचक्षु-
दर्शनपर्यवैश्च षट्स्थानपतितो भवति, ‘अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चैव’
अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकोऽपि पृथिवीकायिकः एवञ्चैव अजघन्यानुत्कृष्टावगा-
हनकस्य पृथिवीकायिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहना-
र्थतया तुल्यः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः द्वाभ्यामज्ञानाभ्याम् अचक्षुदर्शनपर्यवैश्च
षट्स्थानपतितो भवति, किन्तु ‘नवरं सट्ठाणे चउट्ठाणवडिए’ नवरं—पूर्वापेक्षया

इसी प्रकार उत्कृष्ट अवगाहना वाला एक पृथ्वीकायिक दूसरे
उत्कृष्ट अवगाहना वाले पृथ्वीकायिक से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है,
प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, अवगाहना की अपेक्षा भी तुल्य है,
किन्तु, स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थानपतित होता है, वर्ण, गंध, रस
और स्पर्श के पर्यायों से, दो अज्ञानों और अचक्षुदर्शन के पर्यायों
से षट्स्थानपतित होता है ।

मध्यम अवगाहना वाले पृथ्वीकायिक के विषय में भी ऐसा ही
कहना चाहिए, अर्थात् मध्यम अवगाहना वाला एक पृथ्वीकायिक
दूसरे मध्यम अवगाहना वाले पृथ्वी कायिक से द्रव्य और प्रदेशों
की अपेक्षा तुल्य है ।

मध्यम अवगाहना वालों में विशेषता यह है कि वे स्वस्थान में
भी चतुस्थानपतित होते हैं, अर्थात् एक मध्यम अवगाहना वाला
दूसरे मध्यम अवगाहना वाले से चतुस्थानपतित होता है, क्योंकि

येन प्रकारे उत्कृष्ट अवगाहनावाणा एक पृथ्वीकायिक भील उत्कृष्ट अव-
गाहनावाणा पृथ्वीकायिकथी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य छे, प्रदेशानी अपेक्षाये
तुल्य छे. अवगाहनानी अपेक्षाये तुल्य छे किन्तु स्थितिनी अपेक्षाये त्रिस्थान
पतित थाय छे वर्णु, गंध, रस अने स्पर्शनापर्यायेथी जे अज्ञान अने
अचक्षुदर्शनना पर्यायेथी षट्स्थान पतित अने छे.

मध्यम अवगाहनावाणा पृथ्वीकायिकना विषयमां पणु जेवु न कडेवु
नेछये. अर्थात् मध्यम अवगाहनावाणा एक पृथ्वीकायिक भील मध्यम अव-
गाहनावाणा पृथ्वीकायिकथी द्रव्य अने प्रदेशानी अपेक्षाये तुल्य छे.

मध्यम अवगाहनावाणामा विशेषता जे छे के तेजो स्वस्थानमां पणु
यतु स्थान पतित थाय छे. अर्थात् एक मध्यम अवगाहनावाणा भील मध्यम

विशेषस्तु स्वस्थाने—यस्मिन् स्वभवे—पृथिवीकायिक्रमवे प्रथममुत्पादस्तस्मिन्नेव पृथिवीकायिक्रमवे स्वस्थानव्यवहारो जायते, इति एतादृशे स्वस्थाने इत्यर्थः, तथा सति असंख्येयवर्षायुष्कस्यापि संभवेन, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येय-भागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा भवति, असंख्येय-भागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा असं-ख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति इत्येवं चक्षुःस्थानपतितो भवति न तु त्रिस्थान-पतित एव, गौतमः पृच्छति—‘जहण्णठिइयाण पुढविकाइयाणं पुच्छा’ हे भदन्त ! जघन्यस्थितिकानां जघन्या स्थितिरायुःकर्मानुभवलक्षणा येषां ते जघन्यस्थितिका-स्तेषामित्यर्थः, पृथिवीकायिकानां क्रियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ता इति पृच्छा, भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ जघन्यस्थितिकानां पृथिवीकायिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमस्तत्र कारणं पृच्छति—‘से केण-द्वेणं भते ! एवं वुच्चइ जहण्णठिइयाणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?’

सामान्य रूप से मध्यम अवगाहना होने पर भी वह विविध प्रकार की होती है। जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना की भांति उसका एक ही स्थान नहीं होता वर्ण, ग घ, रस और स्पर्श के पर्यायों से, अचक्षुदर्शन के पर्यायों से तथा दो अज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है।

गौतम— हे भगवन् ! जघन्य स्थिति वाले पृथिवीकायिकों के वि ने पर्याय कहे गए हैं ?

भगवन्—हे गौतम ! जघन्य स्थितिवाले पृथिवीकायिकों के अनन्त पर्याय कहे हैं।

गौतम—हे भगवन् ! किसकारण से ऐसा कहा है कि जघन्य स्थिति

अवगाहनावाणाथी अतुस्थान पतित हीनाधिक भवे छे. उभके सामान्य रूपथी मध्यम अवगाहनावाणा थवा छता पणु ते विविध प्रकारनी भवे छे. जघन्य भवे उत्कृष्ट अवगाहनानी जेभ तेनु अेक स्थान नथी छे।तु पणु, ग घ रस भवे स्पर्शना पर्यायेथी, अचक्षुदर्शनना पर्यायेथी तथा जे अज्ञानना पर्यायेथी षट्स्थान पतित थाय छे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य स्थितिवाणा पृथ्वीकायिकना उटला पर्याय कहेला छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य स्थितिवाणा पृथ्वीकायिकेना अनन्त पर्याय कहेला छे ?

श्री गौतमस्वामी—भगवन् ! शा कारणे अेषु कलु छे के जघन्य स्थिति वाणा पृथ्वीकायिकेना अनन्त पर्याय कहेला छे ?

हे भदन्त ! तत् अथ, केनार्थेन-कथं तावत्, एतद्-उक्तरीत्या, उच्यते यत्-जघन्यस्थितिकानां पृथिवीकायिकानाम् अनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? इति,

भगवान् आह-‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जघण्णठिइए पुढविकाइए जहण्ण-ठिइयस्स पुढविकाइयस्स’ जघन्यस्थितिः पृथिवीकायिको जघन्यस्थितिकस्य पृथिवीकायिकस्य ‘दब्बट्टयाए तुल्ले’ द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति ‘पएसट्टयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए’ अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितो भवति, तदभिन्नापक्रमश्च पूर्वोपदर्शितदिशा अवसेयः, ‘ठिइए तुल्ले’ स्थित्या-आयुःकर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया तुल्यो भवति, ‘वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं’ वर्णगंधरसस्पर्शपर्यवैः, ‘मइअन्णाण पज्जवेहिं’ मत्त्यज्ञानपर्यवैः, ‘सुयअण्णाणपज्जवेहिं’ श्रुताज्ञानपर्यवैः, ‘अचक्खुदंसणपज्जवेहिं’ अचक्षुदर्शनपर्यवैः ‘छट्टाणवडिए’ षट् स्थानपतितो भवति, तदभिलापस्तु पूर्वोपदर्शित दिशैव स्वयमूहः, ‘एवं उक्कोसठिःए दि’ एवम्-पूर्वोक्तरीत्या, उत्कृष्टस्थितिकोपि

वाले पृथ्वीकायिकों के अनन्त पर्याय कहे हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! एक जघन्य स्थिति वाला पृथ्वीकायिक दूसरे जघन्य स्थिति वाले पृथ्वीकायिक से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है, प्रदेशों की अपेक्षा भी तुल्य होता है अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित होता है, उनका उच्चारणपूर्ववत् कर लेना चाहिए । स्थिति की अपेक्षा तुल्य होता है, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायो से, मत्त्यज्ञान के पर्यायो से, श्रुताज्ञान के पर्यायो से तथा अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है । उनका उच्चारणपूर्ववत् कर लेना चाहिए ।

उत्कृष्ट स्थिति वाले पृथ्वीकायिक के विषय में भी ऐसा ही है, अर्थात् वह भी दूसरे उत्कृष्ट स्थिति वाले पृथ्वीकायिक की अपेक्षा

श्री भगवान्-हे गौतम ! एक जघन्य स्थितिवाला पृथ्वीकायिक भी जघन्य स्थितिवाला पृथ्वीकायिकी द्रव्यकी अपेक्षासे तुल्य होय छे प्रदेशोकी अपेक्षासे पण तुल्य होय छे अवगाहनानी अपेक्षासे चतुःस्थान पतित होय छे तेमना उच्चारण पूर्ववत् करी लेवा लेयसे स्थितिनी अपेक्षासे तुल्य थाय छे वर्ण, गंध, रस अने स्पर्शना पर्यायोथी, मत्त्यज्ञानना पर्यायोथी, श्रुताज्ञानना पर्यायोथी तथा अचक्षुदर्शना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे तेमना उच्चारण पूर्ववत् करी लेवा लेयसे

उत्कृष्ट स्थितिवाला पृथ्वीकायिकना विषयमा पण अेमज्ज छे, अर्थात् ते पण भी जघन्य उत्कृष्ट स्थितिवाला पृथ्वीकायिकनी अपेक्षासे द्रव्यथी तुल्य छे,

पृथिवीकायिकः, उत्कृष्टस्थितिकस्य पृथिवीकायिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितो भवति, स्थित्या तुल्यो भवति, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः मत्यज्ञानपर्यवैः, श्रुताज्ञानपर्यवैः, अचक्षुर्दर्शनपर्यवैः पट् स्थानपतितो भवति, 'अजहणमणुक्कोसठिइए वि एवं चैव' अजघन्यानुत्कृष्टस्थितिकोऽपि पृथिवीकायिकः एवं चैव-पूर्वोक्तरीत्या अजघन्यानुत्कृष्टस्थितिकस्य पृथिवीकायिकान्तरस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितो भवति, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः मत्यज्ञानपर्यवैः, श्रुताज्ञानपर्यवैः, अचक्षुर्दर्शनपर्यवैश्च पट्स्थानपतितो भवति, क्रिन्तु- 'नवरं सद्वाणे तिद्वाणवडिण्' नवरं-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्वस्थाने-स्वभवे स्रभवापेक्षयेत्यर्थः त्रिस्थानपतितो भवति न तु चतुःस्थान पतितः, तेषामसंख्येयवर्षायुष्काभावात्,

द्रव्य से तुल्य है, प्रदेशो से तुल्य है, अवगाहना से चतुःस्थानपतित होता है, स्थिति की अपेक्षा तुल्य है, वर्ण गंध रस और स्पर्श के पर्यायो से, मत्यज्ञान श्रुताज्ञान और अचक्षुदर्शन के पर्यायो से षट्स्थान पतित होता है ।

मध्यम स्थिति वाला पृथ्वीकायिक भी इसी प्रकार है । अर्थात् वह दूसरे मध्यम स्थिति वाले पृथ्वीकायिक की अपेक्षा द्रव्य और प्रदेशो से तुल्य है, अवगाहना से चतुःस्थानपतित, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, मत्यज्ञान श्रुताज्ञान तथा अचक्षुदर्शन के पर्यायो से षट्स्थानपतित है, मगर विशेषता इतनी ही है कि मध्यम स्थिति वाला स्वस्थान में भी त्रिस्थानपतित होना है अर्थात् एक मध्यम स्थिति वाला पृथ्वीकायिक दूसरे मध्यम स्थिति वाले पृथ्वीकायिक से स्थिति की दृष्टि से असंख्यातभाग हीन संख्यातभाग हीन या

प्रदेशोत्थी तुल्य छे, अवगाहनात्थी चतुःस्थान पतित थाय छे, स्थितिनी अपेक्षात्मे-तुल्य छे, वर्णु, गंध, रस, अने स्पर्शना पर्यायोत्थी, मत्यज्ञान, अने श्रुताज्ञान अने अचक्षुदर्शनना पर्यायोत्थी षट्स्थान पतित थाय छे

मध्यम स्थितिवाणा पृथ्वीकायिक पणु ओव प्रकारना छे अर्थात् ते भौल मध्यम स्थितिवाणा पृथ्वीकायिकनी अपेक्षात्मे द्रव्य अने प्रदेशोत्थी तुल्य छे, अवगाहनात्थी चतुःस्थान पतित वर्णु, गंध, रस, स्पर्श, मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान तथा अचक्षुदर्शनना पर्यायोत्थी षट्स्थान पतित छे, पणु विशेषता ओटलीव छे के मध्यम स्थितिवाणा स्वस्थानमा पणु त्रिस्थान पतित थाय छे अर्थात् ओके मध्यम स्थितिवाणा पृथ्वीकायिक भील मध्यम स्थितिवाणा पृथ्वीकायिकथी

गौतमः पृच्छति—‘जहण्णगुणकालयाणं भंते ! पुढविकाइयाणं पुच्छा’ हे भदन्त ! जघन्यगुणकालकानां पृथिवीकायिकानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा—भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ जघन्यगुणकालकानां पृथिवीकायिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्येण—कथं तावत् एवं—पूर्वोक्तरीत्या, उच्यते यत् जघन्यगुणकालकानां पृथिवीकायिकानामनन्ताः पर्यवाः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णगुणकालए पुढविकाइए’ जघन्यगुणकालकः पृथिवीकायिकः ‘जहण्णगुणकालगस्स पुढविकाइयस्स’ जघन्यगुणकालकस्य पृथिवीकायिकस्य ‘दव्वट्ठयाए तुल्ले’ द्रव्यार्थतया तुल्यः, ‘पएसट्ठयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यः ‘ओगाहणट्ठयाए’ अवगाहनार्थतया ‘चउट्ठाणवडिए’ चतुःस्थान पतितो भवति, ‘ठिइए तिट्ठाणवडिए’ स्थित्या त्रिस्थानपतितो भवति ‘कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले’ कृष्णवर्णपर्यव-

संख्यातगुण हीन होता है और अधिक ही तो इतना ही अधिक होता है। असंख्यात वर्ष की आयु न होने के कारण उसमें असंख्यात गुण हीनाधिकता नहीं होनी।

गौतम—हे भगवन् ! जघन्यगुण कृष्णवर्ण वाले पृथ्वीकायिकी के कितने पर्याय होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय होते हैं ?

गौतम—हे भगवन् अनन्त पर्याय होने का क्या कारण है ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्यगुण काला एक पृथ्वीकायिक दूसरे जघन्यगुण काले पृथ्वीकायिक से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, प्रदेशो की अपेक्षा तुल्य है, अवगाहना से चतुःस्थानपतिन है, स्थिति से

स्थितिनी दृष्टिअे अस्स ज्ज्यात भागहीन, स ज्ज्यात भागहीन, अथवा स ज्ज्यात शुष्णहीन थाय छे अने अधिक थाय तो अेट्ठवा न अधिक थाय छे अस्स-ज्ज्यात वर्षनी आयुअ्य होवाने कारअे तेमा अस्स ज्ज्यात शुष्ण हीनाधिकता नहीं थती.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य शुष्ण कृष्णवर्ण पृथ्वीकायिकेना केट्ठवा पर्याय थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय थाय छे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! अनन्त पर्याय थायतु शु कारअु छे ?

श्री भगवान् ! जघन्य शुष्ण काणा अेक पृथ्वीकायिक जीण जघन्य शुष्ण-काणा पृथ्वीकायिकथी द्रव्यनी अपेक्षाअे तुल्य छे प्रदेशेनी अपेक्षाअे तुल्य छे चतुःस्थान पतित छे, स्थितिथी त्रिस्थान पतित थाय छे, कृष्ण

स्तुल्यो भवति, 'अवसेसेहिं वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं' अवशेषैः वर्णगन्धरसस्पर्श-
पर्यवैः 'छट्ठानवडिए' षट्स्थानपतितो भवति, तदभिलापक्रमश्च पूर्ववदेव स्वयम-
वगन्तव्यः 'दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिय छट्ठानवडिए' द्वाभ्यामज्ञा-
नाभ्यां मत्यज्ञानश्रुताज्ञानलक्षणपर्यवाभ्याम् अचक्षुर्दर्शनपर्यवैश्च षट्स्थानपतितो
भवति, 'एवं उक्कोसगुणकालएवि' एवम्-पूर्वोपदर्शितदिशा, उत्कृष्टगुणकालकोपि;
पृथिवीकायिकः उत्कृष्टगुणकालस्य पृथिवीकायिकान्तरस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः,
प्रदेशार्थतया तुल्यः अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितो भवति स्थित्या त्रिस्थान-
पतितः, 'कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले' कृष्णवर्णपर्यवैस्तुल्यो भवति, अवशेषैः वर्ण-
गन्धरसस्पर्शपर्यवैः, षट्स्थानपतितो भवति, द्वाभ्यामज्ञानाभ्याम् अचक्षुर्दर्शनपर्य-
वैश्च षट्स्थानपतितो भवति, तदभिलापश्च पूर्वोक्तरीत्या स्वयमूहनीयः, 'अजहण्ण-
मणुक्कोसगुणकालएवि एवं चेव' अजघन्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि पृथिवीकायिकः,

त्रिस्थानपतित है, काले वर्ण की अपेक्षा तुल्य है, शेष वर्ण, गंध, रस
और स्पर्श के पर्यायों की अपेक्षा षट्स्थानपतित है, मत्यज्ञान, श्रुता-
ज्ञान और अचक्षुर्दर्शन के पर्यायों की अपेक्षा षट्स्थानपतित होता है।

इसी प्रकार उत्कृष्टगुण कृष्णवर्ण पृथ्वीकायिक के संबंध में भी
ना चाहिए। वह दूसरे उत्कृष्ट कृष्ण वर्ण वाले पृथ्वीकायिक से
द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, अवगाहना की अपेक्षा चतुः-
स्थानपतित होता है, स्थिति से त्रिस्थानपतित होता है, कृष्ण वर्ण
के पर्याय से तुल्य होता है, शेष वर्णों, गंध, रस, स्पर्श दो अज्ञानों
और अचक्षुर्दर्शन की अपेक्षा षट्स्थानपतित होता है। उन छह स्थानों
का उच्चारण पूर्ववत् कर लेना चाहिए।

मध्यमगुण काले पृथ्वीकायिक के संबंध में यही समझना चाहिए

वर्णना पर्यायार्थी तुल्य थाय छे, शेष वर्णों गंध, रस, स्पर्श जे अज्ञानो
अने अचक्षुर्दर्शननी अपेक्षाअये षट्स्थान पतित थाय छे, ते छ स्थानोना उच्यारणु
पूर्ववत् करी देवा लेधअये

अये प्रमाणे उत्कृष्टगुण कृष्णवर्ण पृथ्वीकायिकना संबंधमां पणु समथ
देवु. आ भीण उत्कृष्टगुण कृष्णवर्णवाणा पृथ्वीकायिकथी द्रव्य अने प्रदेशोनी
अपेक्षाअये तुल्य छे. अवगाहनानी अपेक्षाअये चतु स्थान पतित थाय छे. स्थितिनी
अपेक्षाथी त्रिस्थान पतित थाय छे. कृष्णवर्णना पर्यायार्थी तुल्य छे भाकीना वर्ण,
गंध, रस स्पर्श, जे अज्ञानो अने अचक्षुर्दर्शननी अपेक्षाअये षट्स्थान पतित थाय
छे. जे छ स्थानोनु उच्यारणु पूर्ववत् करी देवु.

मध्यमगुण काला पृथ्वीकायिकना सम्बन्धमा अये प्रमाणे समथ पुं लेधअये

एवञ्चैव-अजघन्यानुत्कृष्टगुणकालकस्य पृथिवीकायिकान्तरस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुस्थानपतितो भवति, कृष्णवर्ण पर्यवैः, तुल्यः, अवशेषैः वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवै पटस्थानपतितो भवति, द्वाभ्यामज्ञानाभ्याम्, अचक्षुदर्शनपर्यवैश्च पटस्थानपतितो भवति, किन्तु-‘णवरं सद्वाणे छद्वाणवडिण्’ नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु सास्थाने स्वभवे स्वभवान्तरापेक्षयेत्यर्थः पटस्थानपतितो भवति, ‘एवं पंचवर्णा’ एवं-पूर्वोक्तीत्या, पञ्चवर्णाः-कृष्णलो-

अर्थात् वह दूसरे मध्यमगुण वाले पृथ्वीकायिक की अपेक्षा द्रव्य से और प्रदेशों से तुल्य है, अवगाहना से चतुःस्थानपतित होता है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श दो अज्ञानो और अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है। विशेषता यह है कि एक मध्यम कृष्णवर्ण वाला पृथ्वीकायिक दूसरे मध्यम कृष्णवर्ण वाले की अपेक्षा भी षट्स्थानपतित होता है। तात्पर्य यह है कि जैसे जघन्य और उत्कृष्ट कृष्णवर्ण का स्थान एक ही होता है-उसमें न्यूनाधिकता का संभव नहीं उस प्रकार मध्यम कृष्णवर्ण का स्थान एक नहीं है। एक अंश वाला कृष्ण वर्ण जघन्य होता है और सर्वाधिक अंशों वाला कृष्ण वर्ण उत्कृष्ट कहलाता है। इन दोनों के मध्य में कृष्ण वर्ण के अनन्त विकल्प होते हैं, जैसे दो गुण काला, तीनगुण काला चारगुण, काला, दसगुण काला, संख्यातगुण काला, असंख्यातगुण काला आदि-आदि। इस प्रकार जघन्यगुण काले से ऊपर और उत्कृष्टगुण काले से नीचे कृष्ण वर्ण के मध्यम पर्याय अनन्त हैं अर्थात् जघन्य-

अर्थात् ते भील शुष्ण काणा पृथ्वीकायिकी अपेक्षान्ते द्रव्यथी अने प्रदेशोथी तुल्ये छे, अवगाहनाथी चतुःस्थान पतित थाय छे, वर्ण, गंध, रस स्पर्श, अज्ञानो अने अचक्षुदर्शनना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे विशेषता अे छे के अेके मध्यम कृष्ण वर्णवाणा पृथ्वीकायिक भील मध्यम कृष्ण वर्णवाणानी अपेक्षान्ते षट्स्थान पतित थाय छे तात्पर्य अेके जेवा जघन्य अने उत्कृष्ट कृष्ण वर्णना स्थान अेके न थाय छे-तेमा न्यूनाधिकतानो सकव न होतो नथी. अे प्रकारे मध्यम कृष्णवर्णना स्थान अेके नथी होतो अेके अशवाणा कृष्ण वर्ण जघन्य थाय छे अने सर्वाधिक अशवाणा कृष्णवर्ण उत्कृष्ट कहेवाय छे. आ जेठनी मध्यम कृष्ण वर्णना अनन्त विकल्प थाय छे, जेभ जे शुष्ण काणा, त्रिषु शुष्ण काणा, चार शुष्ण काणा दश शुष्ण काणा, असंख्यात शुष्णकाणा विगेरे विगेरे अे रीते जघन्य शुष्ण काणाथी उपर अने उत्कृष्ट शुष्ण काणाथी नीचे कृष्ण वर्णना मध्यम पर्याय अनन्त छे अर्थात् जघन्य शुष्ण कृष्ण

હિતહરિતપીતથુક્લરૂપાઃ, 'દો ગંધા' ઢ્વો ગન્ધી 'પંચરસા' પશ્ચરસાઃ—અમ્લમધુર-કટુકપાયતિક્તભેદાત્, 'અટ્ટફાસા' અઠ્ઠૌ સ્પર્શાઃ—શીતોષ્ણમૃદુર્કર્કશલઘુગુસ્ક-સ્નિગ્ધરૂક્ષભેદાત્ ભણિતવ્યાઃ,

ગૌતમઃ પૃચ્છતિ—'જઘ્ણમઃ અજ્ઞાણીણં મંતે ! પુઢવિકાહ્યાર્ણં પુચ્છા' હે મદન્ત ! જઘ્ણમત્યજ્ઞાનીના પૃથિવીકાયિકાના કિયન્તઃ પર્યાવાઃ—પ્રજ્ઞાતાઃ? ઇતિ પૃચ્છા ભગવાન આહ—'ગોયમા' હે ગૌતમ ! 'અણંતા પજ્જવા પણ્ણત્તા' જઘ્ણમત્યજ્ઞાનીનાં પૃથિવીકાયિકાનામનન્તાઃ પર્યાવાઃ પર્યાયાઃ પ્રજ્ઞાતાઃ,

ગુણ કૃષ્ણવર્ણ કા પર્યાય ઇક હૈ, ઉત્કૃષ્ટગુણ કૃષ્ણવર્ણ કા પર્યાય મી ઇક હૈ, મગર અજઘ્ણાનુત્કૃષ્ટ અર્થાત્ મધ્યમગુણ કૃષ્ણવર્ણ કૈ પર્યાય અનન્ત હૈં । યહી કારણ હૈ કિદો પૃથિવીકાયિક જીવ યદિ મધ્યમ-ગુણ કૃષ્ણવર્ણ હો તો મી ડનમ્ અનન્તગુણ હીનતા ઓર અધિકતા હો સકતી હૈ । ઇસી અભિપ્રાય સે યહાં સ્વસ્થાન મ્ મી પદ્સ્થાનપતિત કહા હૈ । અન્યત્ર મી સ્વસ્થાન મ્ જહાં હીનાધિકતા વતલાઈ ગઈ, હૈ યહી અભિપ્રાય યથાઘોગ્ય સમસ્ટલેના ઑહિણ ।

જૈસા કૃષ્ણ વર્ણ કા આશ્રય લેકર પ્રતિપાદન કિયા ગયા હૈ ડસી પ્રાકાર પાંચો વર્ણો, ઢોનો ગંધો, પાંચો રસો ઓર આઠો સ્પર્શો કા આશ્રય કરકે પ્રતિપાદન કરના ઑહિણ ।

ગૌતમ—હે મગવન્ ! જઘ્ણ મતિ—અજ્ઞાની પૃથિવીકાયિકજીવ કૈ કિતને પર્યાય હૈં ?

મગવાન્—હેગૌતમ ! અનન્ત પર્યાય હૈં ।

વર્ણના પર્યાય ઁક છે, ઉત્કૃષ્ટ કૃષ્ણવર્ણના પર્યાય પણ ઁક છે પણ અજઘ્ણા-નુત્કૃષ્ટ અર્થાત્ મધ્યમ ગુણ કૃષ્ણ વર્ણના પર્યાય અનન્ત છે આજ કારણ છે કે ઁ પૃથિવીકાયિક જીવને મધ્યમ ગુણ કૃષ્ણ વર્ણ હોય તો પણ તેઓમા અનન્ત ગુણહીનતા અને અધિકતા ધર્થ શકે છે. ઁજ અભિપ્રાયથી અહી સ્વસ્થાનમા પણ પદસ્થાન પતિત કહ્યા છે અન્યત્ર પણ સ્વસ્થાનમાં જ્યા હીનાધિકતા ખતાવેલી છે, ઁજ અભિપ્રાય યથા ઁગ્ય સમજી લેવો જોઈએ.

જેમ કૃષ્ણ વર્ણના આશ્રય લઈને પ્રતિપાદન કરાયું, ઁજ રીતે પાંચ વર્ણો અને ગંધો, પાંચે રસો, અને આઠે સ્પર્શોના આશ્રયે કરીને પ્રતિપાદન કરવું જોઈએ.

શ્રીગૌતમસ્વામી—હે ભગવાન્ ! જઘ્ણ મતિ અજ્ઞાની પૃથિવીકાયિક જીવોના કેટલા પર્યાય છે ?

શ્રી ભગવાન્—હે ગૌતમ અનન્ત પર્યાય છે.

गौतमः पृच्छति—‘से देणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहणमइअन्नाणीणं पुढवि-
काइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्येन कथं तावद्,
एवम् उवत्तरीत्या, उच्यते यत्—जघन्यमत्यज्ञानीना पृथिवीकायिकानामन्ताः
पर्यवाः प्रज्ञाः इति ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहन्न मइअण्णाणी
पुढविकाइए’ जघन्यमत्यज्ञानी पृथिवीकायिकः ‘जहण मइअण्णाणिसस पुढवि
काइयस्स दव्वट्टयाए तुल्ले’ जघन्यमत्यज्ञानिनः पृथिवीकायिकस्य द्रव्यार्थतया
तुल्यो भवति, ‘पएसट्टयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाहणट्टयाए
चउट्टाणवडिए’ अवगाहनार्थतया शरीरोच्छ्रयापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति,
तदभिलाषश्च पूर्वोक्तरीत्याऽवगन्तव्यः, किन्तु ‘ठिइए तिट्टाणवडिए’ स्थित्या—
आयुःकर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया त्रिस्थानपतितो भवति, न तु चतुःस्थान-
पतितः तेषां संख्येयवर्षायुष्कात्, ‘वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए’ वर्ण-
गन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, तदभिलाषश्च, पूर्ववदेव बोध्यः,
‘मइ अन्नाणपज्जवेहिं तुल्ले’ मत्यज्ञानपर्यवैस्तुल्यो भवति, ‘सुयअण्णाणपज्जवेहिं’

गौतम—हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? कि
जघन्य मति—अज्ञानी के अनन्त पर्याय हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्यमति—अज्ञानी एक पृथ्वीकायिक
जघन्य मति—अज्ञानी दूसरे पृथ्वीकायिक से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य
है, प्रदेशों, की अपेक्षा भी तुल्य होता है, अवगाहना की
अपेक्षा चतुःस्थानपतित होता है, उन चार स्थानों का उच्चारण
पूर्ववत् कर लेना चाहिए। स्थिति की अपेक्षा त्रिस्थानपतित होता है,
क्यों कि उनकी आयु संख्यात वर्ष की ही होती है। वर्ण, गंध,
रस और स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है, उनका उच्चा-
रण पूर्ववत् करलेना चाहिए। मति—अज्ञान के पर्यायों से तुल्य है,

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् शा कारणे अेम कडेवाय छे के जघन्य
मति अज्ञानीना अनन्त पर्याय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम जघन्य मति अज्ञानी अेक पृथ्वीकायिक
जघन्य मति अज्ञानी अेक पृथ्वीकायिकथी द्रव्यनी अपेक्षाअे तुल्य छे. प्रदेशोनी
अपेक्षाअे पण तुल्य थाय छे. अवगाहनानी अपेक्षाअे अतु स्थान पतित थाय
छे. आ चार स्थानोना उअ्यारणु पूर्ववत् करी देवा नेउअे. स्थितिनी अपे-
क्षाअे त्रिस्थान पतित अने छे. केअेके तेमनी आयु स अ्यात वर्षनी ज डोय
छे. वर्ण, गंध, रस, अने स्पर्शना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे,
तेमना उअ्यारणु पूर्वनी नेअज करी देवा नेउअे. मति—अज्ञानना पर्यायोथी

श्रुताज्ञानपर्यवैः 'अचरसुदंसणपज्जवेहि छट्ठाणवडिए' अचक्षुदर्शनपर्यवैः पटस्थान-
पतितो भवति, तदभिलापोऽपि पूर्वोक्तरीत्यैवावगन्तव्यः 'एवं उक्कोसमइअन्नाणी
वि' एवम्-उत्तरीत्या, उत्कृष्टमत्यज्ञानी अपि पृथिवीकायिकः उत्कृष्टमत्य
ज्ञानिनः पृथिवीकायिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाह-
नार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः पट-
स्थानपतितः, मत्यज्ञानपर्यवैरतुल्यः, श्रुताज्ञानपर्यवैः, अचक्षुदर्शनपर्यवैः,
पटस्थानपतितो भवति, 'अजहणमणुक्कोसमइअन्नाणी वि एवं चेव' अजघन्या-
नुत्कृष्टमत्यज्ञानी अपि पृथिवीकायिकः एवञ्चैव-अजघन्यानुत्कृष्टमत्यज्ञानिनः
पृथिवीकायिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया
चतुःस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः पटस्थानपतितः, मत्यज्ञानपर्यवैस्तुल्यः,
श्रुताज्ञानपर्यवैः अचक्षुदर्शनपर्यवैः पटस्थानपतितो भवति, 'नवरं सट्ठाणे सट्ठाण-

श्रुताज्ञान और अचक्षुदर्शन के पर्यायों से पटस्थानपतित होता है।
उत्कृष्ट मति अज्ञानों के विषय में भी इसी प्रकार समझना
चाहिए, अर्थात् एक उत्कृष्ट मत्यज्ञानी दूसरे उत्कृष्ट मत्यज्ञानी
की अपेक्षा द्रव्य और प्रदेशों से तुल्य है, अवगाहना से चतुःस्थान-
पतित है, स्थिति से त्रिस्थानपतित है, वर्णादि से षट्स्थानपतित है
मत्यज्ञान के पर्यायों से तुल्य है, श्रुताज्ञान और अचक्षुदर्शन के
पर्यायों से पटस्थानपतित होता है।

मध्यम मत्यज्ञानी के विषय में भी ऐसा ही कहना चाहिए
अर्थात् वह दूसरे मध्यम मत्यज्ञानी से द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा
तुल्य है, अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित होता है। श्रुता-
ज्ञान और अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित है। विशेष

तुल्य छे, श्रुताज्ञान अने अचक्षुदर्शनना पर्यायोथी षट्स्थान पतित होय छे.
उत्कृष्ट मति-अज्ञानीना विषयमा पणु अे रीते समणु लोथ अे अर्थात् अेक
उत्कृष्ट मत्यज्ञानी नील उत्कृष्ट मत्यज्ञानीनी अपेक्षाअे द्रव्य अने प्रदेशोथी
तुल्य अवगाहनार्थी चतु स्थान पतित छे, स्थितिथी त्रिस्थान पतित छे,
वर्णादिथी षट्स्थान पतित छे, मत्यज्ञानना पर्यायोथी तुल्य छे, श्रुताज्ञान अने
अचक्षुदर्शनना पर्यायोथी षट्स्थान पतित अने छे.

मध्यम मत्यज्ञानीना विषयमा पणु अेवु अे कडेवु लोथअे अर्थात् ते
नील मध्यम मत्यज्ञानीथी द्रव्य अने प्रदेशोनी अपेक्षाअे तुल्य छे, अवगा-
हनानी अपेक्षाअे चतु स्थान पतित अने वर्ण, गंध, रस तथा स्पर्शनी अपेक्षाअे
षट्स्थान पतित थाय छे. श्रुताज्ञान अने अचक्षुदर्शनना पर्यायोथी षट्स्थान

वडिण' नवरं पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्वस्थाने स्वतदभवान्तरापेक्षयेत्यर्थः, पट्-
स्थानपतितो भवति तदभिलाषश्च पूर्वोक्तवदेवावसेयः, 'एवं सुय अन्नाणी वि'
एवम्-उत्करीत्या, श्रुताज्ञानी अपि पृथिवीकायिको जघन्योत्कृष्टाजघन्यानुत्कृ-
ष्टभेदेन त्रिविधो द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुः
स्थानपतितः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, अजघन्यानुत्कृष्टस्तु पट्स्थानपतितः,
वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितः, श्रुताज्ञानपर्यवैरतुल्यः, मत्यज्ञानपर्यवैः अच-
क्षुर्दर्शनपर्यवैः पट्स्थानपतितः 'अचक्षुर्दंशणी वि एवं चैव' अचक्षुर्दर्शनी अपि
पृथिवीकायिकः एवञ्चैव अचक्षुर्दर्शनिनः पृथिवीकायिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः
प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः,

यह कि स्वस्थान अर्थान् मत्यज्ञान के पर्यायों से भी षट्स्थान
पतित है, इसका स्पष्टीकरण ऊपर किया जा चुका है ।

इसीप्रकार जघन्य श्रुताज्ञानी उत्कृष्ट श्रुताज्ञानी और मध्यम
श्रुताज्ञानी पृथ्वीकायिक के विषय में भी कह लेना चाहिए, अर्थात्
वह भी द्रव्य और प्रदेशों से तुल्य होता है, अवगाहना से चतुः-
स्थानपतित' स्थिति से त्रिस्थानपतित, वर्णादि से षट्स्थानपतित-
मत्यज्ञान और अचक्षुर्दर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है ।
श्रुताज्ञान के पर्यायों से जघन्य और उत्कृष्ट श्रुताज्ञानी पृथ्वीकायिक
तुल्य होता है, जब कि मध्यम श्रुताज्ञानी षट्स्थानपतित होता है ।

अचक्षुर्दर्शनी पृथ्वीकायिक के संबंध में भी इसी प्रकार कहना
चाहिए, अर्थात् एक अचक्षुर्दर्शनी पृथ्वीकायिक दूसरे से द्रव्य की
और प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, अवगाहना से चतुःस्थानपतित

पतित थाय छे विशेष ज्ये छे के स्वस्थान अर्थात् मत्यज्ञानना पर्यायोथी
पञ्च षट्स्थान पतित छे ज्येत्तु स्पष्टीकरणे उपर करायेलु छे.

ज्येत्तु प्रकारे जघन्य श्रुताज्ञानी, उत्कृष्ट श्रुताज्ञानी अने मध्यम श्रुताज्ञानी
पृथ्वीकायिकना विषयमां पञ्च कडेवुं ज्येत्तु, अर्थात् ते पञ्च द्रव्य अने प्रदेशोथी
तुल्य थाय छे, अवगाहनाथी चतुःस्थान पतित, स्थितिथी त्रिस्थान पतित
वर्णादिथी षट्स्थान पतित, मत्यज्ञान अने अचक्षुर्दर्शनिना पर्यायोथी षट्स्थान
पतित थाय छे श्रुताज्ञानना पर्यायोथी जघन्य अने उत्कृष्ट श्रुताज्ञानी पृथ्वीकायिक
तुल्य अने छे न्यारे मध्यम श्रुताज्ञानी षट्स्थान पतित थाय छे

अचक्षुर्दर्शनी पृथ्वीकायिकना सम्बन्धमा पञ्च ज्ये प्रकारे कडेवुं ज्येत्तु,
अर्थात् ज्येत्तु अचक्षुर्दर्शनी पृथ्वीकायिक भाँजथी द्रव्यनी अने प्रदेशोनी अपे-
क्षाज्ये तुल्य छे, अवगाहनाथी चतुःस्थान पतित, थाय छे, स्थितिथी त्रिस्थान

षट्स्थानपतितश्च वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितः, मत्स्यज्ञानपर्यवैः षट्स्थान-
पतितः, अचक्षुदर्शनपर्यवैस्तुल्यो भवति, 'जाव वणफडकाइया' यावत् अप्का-
यिकाः, तेजःकायिकाः, वायुकायिकाः, वनस्पतिकायिकाश्च जघन्योत्कृष्टजघ-
न्यानुत्कृष्टभेदेन त्रिविधाः अवगाहनस्थितिगुणकालरुमत्स्यज्ञानश्रुताज्ञानाचक्षुदर्शन-
भेदैर्भिन्नाः पृथिवीकायिकवदेव पूर्वोक्तरीत्या दिशाऽवसेयाः इति भावः ॥६०८॥

हीन्द्रियादिपर्यायवक्तव्यता—

मूलम्—जहण्णोगाहणगाणं भंते ! वेइंदियाणं पुच्छा ? गोयमा !

अणंता पज्जवा पणत्ता से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ जह-

ोगाहणगाणं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा !

जहण्णोगाहणए वेइंदिए जहण्णोगाहणस्स वेइंदियस्स दव्व-

ट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्टयाए तुल्ले ठिईए

तिट्ठाणवडिए वणगंधरसफासपज्जवेहिं दोहिं नाणेहिं दोहिं

अन्नाणेहिं अक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्ठाणवडिए एवं उक्कोसो-

गाहणंएवि णवरं णाणा णत्थि अजहण्णमण्णुक्कोसोगाहणंए जहा

होता है, स्थिति से त्रिस्थानपतित वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से षट्स्थान
पतित, मत्स्यज्ञान, श्रुताज्ञान के पर्यायो से षट्स्थानपतित होता है ।
अचक्षुदर्शन के पर्यायों से जघन्य और उत्कृष्ट अचक्षुदर्शनी तुल्य
तथा मध्यम अचक्षुदर्शनी षट्स्थानपतित होता है ।

इसी प्रकार वनस्पतिकायिक पर्यन्त यथायोग्य कहलेना चाहिए
अर्थात् अपकायिक तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक
के जघन्य, उत्कृष्ट तथा मध्यम विकल्प करके पृथ्वीकायिक के समान
ही द्रव्य, प्रदेश, अवगाहना, स्थिति, वर्ण आदि की अपेक्षा यथायोग्य
हीनाधिकता समझ लेनी चाहिए ॥ ८ ॥

पतित, वर्ण, रस, स्पर्श, गंधही षट्स्थान पतित, मत्स्यज्ञान, श्रुताज्ञानना-
पर्यायोही षट्स्थान पतित-थाय छे. अचक्षुदर्शनना पर्यायोही जघन्य अने
उत्कृष्ट अचक्षुदर्शनी तुल्य तथा मध्यम अचक्षुदर्शनी षट्स्थान पतित थाय छे

अने प्रकारे वनस्पतिकायिक पर्यन्त यथा योग्य कहेवा लोभये अर्थात्
अपकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक अने वनस्पतिकायिकना जघन्य उत्कृष्ट तथा
मध्यम विकल्प करीने पृथ्वीकायिकना समान व द्रव्य, प्रदेश, अवगाहना स्थिति
वर्ण आदिनी अपेक्षाये यथा योग्य हीनाधिकता समझ लेवा लोभये ॥ ८ ॥

जहणणोगहणए, णवरं सट्टाणे ओगहणाए चउट्टाणवडिए जह-
 णणठिइयाणं भंते पुच्छा गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता
 से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ जहणणठिइयाणं बेइंदियाणं
 अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहणणठिइए बेइंदिए
 जहणणठिइयस्स बेइंदियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए
 तुल्ले ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए ठिइए तुल्ले वण्णगंधरस-
 फासपज्जवेहिं दोहिं अन्नाणेहिं अचक्खुदंसपज्जवेहिंय छट्टाण-
 वडिए एवं उक्कोसठिइए वि नवरं दो णाणा अब्भहिया
 अजहणणमणुक्कोसठिइए जहा उक्कोसठिइए णवरं ठिइए
 तिट्टाणवडिए जहणणगुणकालगाणं बेइंदियाणं पुच्छा गोयमा !
 अणंता पज्जवा पणत्ता से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ जह-
 णणगुणकालगाणं बेइंदियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?
 गोयमा ! जहणणगुणकालए बेइंदिए जहणणगुणकालगस्स
 बेइंदियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए तुल्ले, ओगा-
 हणट्टयाए छट्टाणवडिए, ठिइए तिट्टाणवडिए, कालवण्ण-
 पज्जवेहिं तुल्ले अवसेसेहिं वण्णगंधरसफासरज्जवेहिं दोहिं
 नाणेहिं दोहिं अन्नाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिं य छट्टाणवडिए
 एवं उक्कोसगुणकालएवि अजहणणमणुक्कोसगुणकालए वि एवं
 चेव णवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच
 रसा अट्टफासा भाणियव्वा जहणणाभिणिबोहियनाणीणं भंते !
 बेइंदियाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अणंता
 पज्जवा पणत्ता से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ जहणणाभिणिबो-
 हियनाणीणं बेइंदियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा !
 जहन्नाभिणिबोहियणाणी वेइंदियए जहणणाभिणिबोहियणाणि-
 स्स दव्वट्टयाए तुल्ले पएसयट्टाए तुल्ले ओगाहणयाए चउट्टा-
 णवडिए ठिइए तिट्टाणवडिए वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्टाण-

वडिए आभिणिवोहियणाणपज्जवेहिं तुल्ले सुयनाणपज्जवेहिं
छट्टाणवडिए अचक्खुदंसणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए, एवं ज्ञे-
साभिणिवोहियणाणी वि अजहणमणुक्कोसाभिणिवोहियणाणी
वि एवं, नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए एवं सुयनाणी वि सुय
अन्नाणी वि अचक्खुदंसणी वि णवरं जत्थ णाणा तत्थ
अण्णाणा नत्थि जत्थ अण्णाणा तत्थ णाणा नत्थि जत्थ
दंसणं तत्थ णाणावि अण्णाणावि एवं तेइंदियाणवि चउरिंदि-
याण वि एवं चेव णवरं चक्खुदंसणं अब्भहियं ॥ सू०९ ॥

छाया—जघन्यावगाहनकानां भदन्त ! द्वीन्द्रियाणां पृच्छा, गौतम !
अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यावगाहनकानां
द्वीन्द्रियाणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यावगाहनको द्वीन्द्रियो
जघन्यावगाहनकस्य द्वीन्द्रियस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगा-

द्वीन्द्रियादिपर्यायवक्तव्यता

शब्दार्थ—(जहण्णोगाहणगाणं भंते ! वेइंदियाणं पुच्छा ?) हे भगवन् !
जघन्य अवगाहना वाले द्वीन्द्रिय जीवो के कितने पर्याय हैं ? (गोयमा !
अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं ? (से केणट्टेणं
भंते ! एवं चुच्चइ—जहण्णोगाहणगाणं वेइंदियाण अणंता पज्जवा
पण्णत्ता ?) किस हेतु से हे भगवन् ! ऐसा कहा है कि जघन्य अवगा-
हना वाले द्वीन्द्रियो के अनन्त पर्याय कहे हैं (गोयमा) हे गौतम !
(जहण्णोगाहणए वेइंदिए जहण्णोगाहणस्स वेइंदियस्स दब्बट्टयाए
तुल्ले) जघन्य अवगाहना वाला द्वीन्द्रिय सुघन्य अवगाहना वाले
द्वीन्द्रिय जीव से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों

द्वीन्द्रियादि पर्याय वक्तव्यता

शब्दार्थ—(जहण्णोगाहणगाणं भंते ! वेइंदियाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य
अवगाहनावाणा द्वीन्द्रिय एवेना केट्ठा पर्याय छे ? (गोयमा ! अणता पज्जवा
पण्णत्ता ?) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहा छे ? (से केणट्टेण भंते ! एव चुच्चइ
जहण्णोगाहणगाणं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् कथा हेतुथी
ओभ, कछु छे के जघन्य अवगाहनावाणा द्वीन्द्रियोना अनन्त पर्याय कहा छे
(गोयमा !) हे गौतम (जहण्णोगाहणए वेइंदिए जहण्णोगाहणस्स वेइंदियस्स दब्ब
ट्टयाए तुल्ले) जघन्य अवगाहनावाणा द्वीन्द्रिय जघन्य अवगाहनावाणा द्वीन्द्रिय
एवथी द्रव्यनी अपेक्षाओ तुल्य (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशोनी अपेक्षाओ तुल्य

हनार्थतया तुल्यः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः द्वाभ्यां
ज्ञानाभ्याम्, द्वाभ्यामज्ञानाभ्याम् अचक्षुर्दर्शनपर्यवैश्च पदस्थानपतितः, एवमुत्कृ-
ष्टावगाहनकोऽपि, नवरं ज्ञानानि न सन्ति, अजघ्न्यानुत्कृष्टावगाहनको यथा
जघन्यावगाहनकः, नवरं स्वस्थाने अवगाहनया चतुःस्थानपतितः, जघन्यस्थि-
तिकानां भदन्त ! द्वीन्द्रियाणां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत्-
केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते-जघन्यस्थितिकानां द्वीन्द्रियाणामनन्ताः पर्यवाः

की अपेक्षा तुल्य (ओगाहणद्वयाए तुल्ले) अवगाहना की अपेक्षा
तुल्य (ठिईए तिद्वाणवडिए) स्थिति की अपेक्षा त्रिस्थानपतित
(वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं) वर्ण गंध' रस, स्पर्श के पर्यायों से
(दोहिं नाणेहिं) दो ज्ञानों से (दोहिं अण्णाणेहिं) दो अज्ञानों से
(अचक्खुदंसणपज्जवेहिं य) और अचक्षुर्दर्शन के पर्यायों से (छद्वा-
णवडिए) षटस्थानपतित है (एवं उक्कोसोगाहणए वि) इसी प्रकार
उत्कृष्ट अवगाहना वाला भी (णवरं) विशेष (णाणा णत्थि) उत्कृष्ट
अवगाहना वाले में ज्ञान नहीं हैं (अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए जहा
जहण्णोगाहणए) मध्यम अवगाहना वाला जघन्य अवगाहना वाले
के समान (णवरं) विशेष (सद्वाणे ओगाहणए चउद्वाणवडिए) स्वस्थान
में अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है

(जहण्णठिइयाणं भंते ! वेइंदियाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य
स्थिति वाले द्वीन्द्रियों के विषय में पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा
पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ

(ओगाहणद्वयाए तुल्ले) अवगाहना की अपेक्षा से तुल्य (ठिईए तिद्वाणवडिए)
स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थान पतित (वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं) पार्श्व, गंध, रस,
स्पर्शना पर्यायार्थी (दोहिं नाणेहिं) ये ज्ञानार्थी (दोहिं अण्णाणेहिं) ये अज्ञानार्थी
(अचक्खुदंसण पज्जवेहिं य) अने अचक्षुर्दर्शनना पर्यायार्थी (छद्वाणवडिए) षटस्थान
पतित छे (एवं उक्कोसोगाहणए वि) ये रीते उत्कृष्ट अवगाहनावाणा पशु (नवरं)
विशेष (णाणा णत्थि) उत्कृष्ट अवगाहना वाणाभा ज्ञान नहीं छेतु (अजहण्ण
मणुक्कोसोगाहणए जहा जहण्णोगाहणए) मध्यम अवगाहनावाणा जघन्य अव-
गाहनावाणानी समान (णवरं) विशेष (सद्वाणे ओगाहणए चउद्वाण वडिए)
स्वस्थानभा अवगाहना की अपेक्षा से चतुःस्थान पतित छे

(जहण्णठिइयाणं भंते ! वेइंदियाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य स्थितिवाणा
द्वीन्द्रियोना विषयमा पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम अनन्त
पर्याय क्ख्या छे (से केणट्ठेणं भंते ! एव वुच्चइ-जहण्णठिइयाणं वेइंदियाणं अणंतां

प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यस्थितिको द्वीन्द्रियो जघन्यस्थितिकस्य द्वीन्द्रियस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुः स्थानपतितः, स्थित्या तुल्यः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः द्वाभ्याम् अज्ञानाभ्याम् अचक्षुर्दर्शनपर्यवैश्च षट्स्थानपतितः, एवमुत्कृष्टस्थितिकोऽपि, नवरं द्वे ज्ञाने अभ्यधिके, अजघन्यात्कृष्टस्थितिको यथा उत्कृष्टस्थितिको, नवरं स्थित्या त्रिस्थानपतितः जघन्यगुण-

-जहण्णट्ठिइयाणं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता) किस कारण से भगवन् ! ऐसा कहा है कि जघन्य स्थिति वाले द्वीन्द्रियों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ; जरण्णट्ठिइए वेइंदिए) जघन्य स्थिति वाला द्वीन्द्रिय (जहण्णट्ठिइयस्स वेइंदियस्स) जघन्य स्थिति वाले द्वीन्द्रिय से (दव्वट्टयाए तुल्ले) द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों से तुल्य है । ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित है (ठिईए तुल्ले) स्थिति से तुल्य है । वण्णगंध रस फास पज्जवेहिं) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायों से (दोहिं अण्णाणेहिं) दो अज्ञानों से (अचक्खुदंसणपज्जवेहि य) और अचक्षुर्दर्शन के पर्यायों से (उट्टाणवडिए) षट्स्थानपतित है (एवं उक्कोसट्ठिइए वि) इसीप्रकार उत्कृष्ट स्थिति वाला भी (नवरं दो णाणा अब्भहिया) विशेष यह कि उत्कृष्ट स्थिति वाले में दो ज्ञान अधिक कहने चाहिए (अजहण्णमणुक्कोसट्ठिइए जहा उक्कोसट्ठिइए णवरं ठिईए तिट्टाणवडिए) मध्यम स्थिति वाला उत्कृष्ट स्थिति वाले के समान विशेषता यह कि स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थानपतित है

पज्जवा पण्णत्ता) छे भगवन् शा कारणे ज्येम कलु के जघन्य स्थितिवाणा द्वीन्द्रियोना अनन्त पर्याय कहा छे ? (गोयमा ! जहण्ण ट्ठिइए वेइंदिए) जघन्य स्थितिवाणा द्वीन्द्रिय (जहण्णट्ठिइयस्स वेइंदियस्स) जघन्य स्थितिवाणा द्वीन्द्रियथी (दव्वट्टयाए तुल्ले) द्रव्यनी अपेक्षाय्मे तुल्य छे (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशोथी तुल्य छे (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनाथी चतुःस्थान पतित छे (ठिईए तुल्ले) स्थितिथी तुल्य छे (वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं) वर्ण, गंध, रस स्पर्शना पर्यायोथी (दोहिं अण्णाणेहिं) ये अज्ञानोथी (अचक्खुदंसणपज्जवेहि य) अने अचक्षुर्दर्शनना पर्यायोथी (उट्टाणवडिए) षट्स्थान पतित छे (एवं उक्कोसट्ठिइए वि) ज्ये प्रकारे उत्कृष्ट स्थितिवाणा पणु (नवर दो णाणा अब्भहिया) विशेष ज्ये छे के उत्कृष्ट स्थितिवाणामा ज्ये ज्ञान अधिक कडेवा ज्येथ्ये (अजहण्णमणुक्कोसट्ठिइए जहा उक्कोसट्ठिइए णवरं ठिईए तिट्टाणवडिए) मध्यमस्थिति वाणा उत्कृष्ट स्थितिवाणाना समान छे. विशेषता ज्ये के स्थितिनी अपेक्षाय्मे त्रिस्थान पतित छे

कालकानां द्वीन्द्रियाणां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केना-
थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यगुणकालकानाम् द्वीन्द्रियाणाम् अनन्ताः पर्यवाः
प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यगुणकालको द्वीन्द्रियो जघन्यगुणकालकस्य द्वीन्द्रियस्य
द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः अवगाहनार्थतया पटस्थानपतितः, स्थित्या
त्रिस्थानपतितः, कृष्णवर्णपर्यवैस्तुल्यः, अवशेषैः वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यन्तः द्वाभ्यां
ज्ञानाभ्याम्, द्वाभ्याम् अज्ञानाभ्याम्, अचक्षुर्दर्शनपर्यवैश्च पटस्थानपतितः, एव-

(जहण्णगुणकालगाणं वेइंदियाणं पुच्छा ?) जघन्यगुण काले
द्वीन्द्रियो के पर्याय कितने हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे
गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते एवं वुच्चइ—जहण्ण-
गुणका णं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) किसकारण से हे
भागवन् ! ऐसा कहा गया है कि जघन्यगुण काले द्वीन्द्रिय के अनन्त
पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णगुणकालए वेइंदिए) हे गौतम !
जघन्यगुणकाला द्वीन्द्रिय (जहण्णगुणकालगस्स वेइंदियस्स) जघन्य-
गुणकाले द्वीन्द्रिय से (दब्बट्टयाए तुल्ले) द्रव्य से तुल्य (पएसट्टयाए
तुल्ले) प्रदेशों से तुल्य (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना
से चतुः स्थान पतित है (ठिईए तिट्ठाणवडिए) स्थिति से त्रिस्थान
पतित है (कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले) कृष्णवर्ण के पर्यायों से
तुल्य (अवसेसेहिं वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं) शेष, वर्ण, गंध,
रस और स्पर्श के पर्यायों से (दोहिं नाणेहि) दो ज्ञानों से (दोहिं
अन्नाणेहिं) दो अज्ञानों से (अचक्खुइंसणपज्जवेहि य) और अचक्षु-

(जहण्णगुणकालगाण वेइंदियाण पुच्छा ?) जघन्य शुष्णकाणा द्वीन्द्रियना
पर्याय केट्ठा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कथा
छे (से केणट्ठेणं भंते । एवं वुच्चइ—जहण्णगुणकालगाण वेइंदियाण अणंता पज्जवा
पणत्ता) लगवन् शा कारणे अेम कल्लु छे के जघन्य शुष्ण काणा द्वीन्द्रियना
अनन्त पर्याय कथा छे ? (गोयमा ? जहण्ण गुणकालए वेइंदिए) हे गौतम !
जघन्य शुष्ण काणा द्वीन्द्रिय (जहण्ण गुणकालगस्स वेइंदियस्स) जघन्य शुष्ण
काणा द्वीन्द्रियथी (दब्बट्टयाए तुल्ले) द्रव्यथी तुल्य (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशोथी
तुल्य (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनाथी चतु स्थान पतित छे (ठिईए
तिट्ठाणवडिए) स्थितिथी त्रिस्थान पतित छे (कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले) कृष्ण
वर्णना पर्यायोथी तुल्य (अवसेसेहिं वण्णगंधरसकालज्जवेहिं) शेष वर्ण,
गंध, रस, अने स्पर्शना पर्यायोथी (दोहिं नाणेहि) दो ज्ञानोथी (दोहिं अन्नाणे

सुत्कृष्टगुणकालकोऽपि, अजघन्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने-
पटस्थानपतितः, एवं पञ्चवर्णाः, द्वौ गन्धौ, पञ्चरसाः, अष्टौ स्पर्शाः भणि-
तव्याः, जघन्याभिनिबोधिकज्ञानिनां भदन्त ! द्वीन्द्रियाणाम् कियन्तः पर्यवाः
प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एव-
मुच्यते—जघन्याभिनिबोधिकज्ञानिनां द्वीन्द्रियाणाम् अनन्ताः पर्यवाः
प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्याभिनिबोधिकज्ञानी द्वीन्द्रियो जघन्याभिनिबोधिज्ञा-

दर्शन के पर्यायों से (छट्टाणवडिऐ) षट्स्थापतित है (एवं उक्को-
सगुणकालए वि) इसीप्रकार उत्कृष्ट कालागुण वाला भी (अज
हण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव) मध्यमगुण कृष्ण भी इसी
प्रकार (णवरं सट्टाणे छट्टाणवडिऐ) विशेषता यह कि स्वस्थान में
भी वह षट्स्थानपतित है (एवं चेव पंच वण्णा) इसी प्रकार पांच
वर्णों (दो गंधा) दो गंधों (पंच रसा) पांच रसों (अट्टफासा)
आठो स्पर्शों का (भाणियव्वा) कथन करना चाहिए

(जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं भंते ! वेइंदियाणं) हे भगवन् !
जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी द्वीन्द्रियों के (केवइया पज्जवा पण्णत्ता
कितने पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम !
अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ—जहण्णाभि-
णिबोहियनाणीणं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) किस
कारण से भगवन् ! ऐसा कहा है कि जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी
द्वीन्द्रियो के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णाभिणि-

हि) जे अज्ञानोत्थी (अचक्खुंसणपज्जवेहिय) अने अत्यक्षुदर्शानना पर्यायोत्थी
(छट्टाण वडिऐ) षट्स्थान पतित छे (एवं उक्कोसगुणकालए वि) जे प्रकारे उत्कृष्ट
क्षण वाणा पण्णु (अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव) मध्यम गुण कृष्ण
पण्णु जे प्रकारे (णवर सट्टाणे छट्टाणवडिऐ) विशेषता जेके स्वस्थानमा पण्णु ते
षट्स्थान पतित छे (एवं चेव पंचवण्णा) जे रीते पाच वण्णो (दोगंधा) जे गंधा
(पंच रसा) पाच रसा (अट्ट फासा) आठ स्पर्शोत्तु (भाणियव्वा) कथन करपु जेअथे.

(जहण्णाभिणि बोहियनाणीणं भंते ! वेइंदियाणं) हे भगवन् ! जघन्य आभि-
निबोधिज्ज्ञानी द्वीन्द्रियोना (केवइया पज्जवा पण्णत्ता ?) डेटला पर्याय कइया
छे (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) गौतम ! अनन्त पर्याय कइया छे (से केण-
ट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ—जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा
पण्णत्ता ?) भगवन् ! शा कारणे जेअ कइया छे के जघन्य आभिनिबोधिज्ज्ञानी

निनो द्वीन्द्रियस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः; प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुः-
स्थानपतितः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितः,
आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैस्तुल्यः श्रुतज्ञानपर्यवैः षट्स्थानपतितः अचक्षुर्दर्शन
पर्यवैः षट्स्थानपतितः, एवम् उत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानी अपि, अजघन्यानुत्कृष्टा-
भिनिबोधिक ज्ञानी अपि एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने षट्स्थानपतितः, एवं श्रुत-

बोहियणाणी वेइंदिए जहण्णाभिणिबोहियणाणिस्स वेइंदिय
दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी द्वीन्द्रिय
दूसरे जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी द्वीन्द्रिय से द्रव्य की
अपेक्षा तुल्य है (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है
ओवगाहणट्टयाए चउट्ठाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित है
(ठिईअ तिट्ठाणवडिए) स्थिति से त्रिस्थापतित है (वण्णगंधरसफास-
पज्जवेहिं छट्ठाणवडिए) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायो से षट्-
स्थानपतित है (आभिणिबोहिनाणपज्जवेहिं तुल्ले) आभिनिबो-
धिक ज्ञान के पर्यायों से तुल्य है (सुयणाणपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए)
श्रुत ज्ञान के पर्यायो से षट्स्थानपतित है (अचक्खुदंसणपज्जवेहिं
छट्ठाणवडिए) अचक्षुर्दर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित है

(एवं उक्कोसाभिणिबोहियनाणी वि) उत्कृष्ट आभिनिबोधिक
ज्ञानी भी इसी ही प्रकार (अजहण्णमणुक्कोसाभिणिबोहियनाणी वि
एवं चेव) मध्यम आभिनिबोधिक ज्ञानी भी इसी प्रकार (नवरं

द्वीन्द्रियेना अनन्त पर्याय कक्षा छे ? (गोयमा । जहण्णाभिणिबोहियणाणी
वेइंदिए जहण्णाभिणिबोहियणाणिस्स वेइंदियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ।
जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी द्वीन्द्रिय भी जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी
द्वीन्द्रियधी द्रव्येना अपेक्षाम्हे तुल्य छे (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशेना अपेक्षाम्हे
तुल्य छे (ओगाहणट्टयाए चउट्ठाणवडिए) अवगाहनाधी चतुस्थान पतित छे
(ठिईअ तिट्ठाणवडिए) स्थितिधी त्रिस्थान पतित छे (वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं
छट्ठाणवडिए) वर्ण, गंध, रस, स्पर्शना पर्यायेधी षट्स्थान पतित छे (आभ-
निबोहियणाणपज्जवेहिं तुल्ले) आभिनिबोधिकज्ञानना पर्यायेधी तुल्य छे (सुय-
णाणपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए) श्रुतज्ञानना पर्यायेधी षट्स्थान पतित छे (अचक्खु-
दंसणपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए) अचक्षुर्दर्शनना पर्यायेधी षट्स्थान पतित छे

(एव उक्कोसाभिणिबोहिय नाणी वि) उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी पक्ष
मेवाज (अजहण्णमणुक्कोसाभिणिबोहियणाणि वि एवं चेव) मध्यम आभिनिबोधिक

मुक्तृष्टगुणकालकोऽपि, अजघन्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने-
षट्स्थानपतितः, एवं पञ्चवर्णाः, द्वौ गन्धौ, पञ्चरसाः, अष्टौ स्पर्शाः भणि-
तन्याः, जघन्याभिनिबोधिकज्ञानिनां भदन्त ! द्वीन्द्रियाणाम् कियन्तः पर्यवाः
प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्येण भदन्त ! एव-
मुच्यते—जघन्याभिनिबोधिकज्ञानिनां द्वीन्द्रियाणाम् अनन्ताः पर्यवाः
प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्याभिनिबोधिकज्ञानी द्वीन्द्रियो जघन्याभिनिबोधिज्ञा-

दर्शन के पर्यायों से (छट्ठाणवडिए) षट्स्थापतित है (एवं उक्को-
सगुणकालए वि) इसीप्रकार उत्कृष्ट कालागुण वाला भी (अज
हण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव) मध्यमगुण कृष्ण भी इसी
प्रकार (णवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए) विशेषता यह कि स्वस्थान में
भी वह षट्स्थानपतित है (एवं चेव पंच वण्णा) इसी प्रकार पांच
वर्णों (दो गंधा) दो गंधों (पंच रसा) पांच रसों (अट्टफासा)
आठो स्पर्शों का (भाणियच्वा) कथन करना चाहिए

(जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं भंते ! वेइंदियाणं) हे भगवन् !
जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी द्वीन्द्रियों के (केवइया पज्जवा पण्णत्ता
कितने पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम !
अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—जहण्णाभि-
णिबोहियनाणीणं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) किस
कारण से भगवन् ! ऐसा कहा है कि जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी
द्वीन्द्रियो के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णाभिणि-

हि) ओ अज्ञानोती (अचक्खुइसणपज्जवेहिय) अने अचक्षुइदर्शनना पर्यायोती
(छट्ठाण वडिए) षट्स्थान पतित छे (एवं उक्कोसगुणकालए वि) ओ प्रकारे उत्कृष्ट
काला वाला पणु (अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एव चेव) मध्यम गुणु कृष्णु
पणु ओ प्रकारे (णवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए) विशेषता ओके स्वस्थानमा पणु ते
षट्स्थान पतित छे (एव चेव पंचवण्णा) ओ रीते पाय वण्णा (दो गंधा) ओ गंधा
(पंच रसा) पाय रसा (अट्ट फासा) आठ स्पर्शांनु (भाणियच्वा) कथन करणु लोअे.

(जहण्णाभिणि बोहियनाणीणं भंते ! वेइंदियाणं) हे भगवन् ! जघन्य आभि-
निबोधिक ज्ञानी द्वीन्द्रियोना (केवइया पज्जवा पण्णत्ता ?) केटला पर्याय कइल
छे (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) गौतम ! अनन्त पर्याय कइल छे (से केण-
ट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा
पण्णत्ता ?) भगवन् ! शां कारणे ओम कइल छे के जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी

निनो द्वीन्द्रियस्य द्रव्यार्थतयातुल्यः प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुः-
स्थानपतितः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितः,
आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैस्तुल्यः श्रुतज्ञानपर्यवैः षट्स्थानपतितः अचक्षुदर्शन
पर्यवैः षट्स्थानपतितः, एवम् उत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानी अपि, अजघन्यानुत्कृष्टा-
भिनिबोधिक ज्ञानी अपि एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने षट्स्थानपतितः, एवं श्रुत-

बोहियणाणी वेडंदि ए जहण्णाभिणिबोहियणाणिस्स वेडंदिय
दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी द्वीन्द्रिय
दूसरे जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी द्वीन्द्रिय से द्रव्य की
अपेक्षा तुल्य है (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है
ओवगाहणट्टयाए चउट्टाणवडि ए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित है
(ठिईअ तिट्टाणवडि ए) स्थिति से त्रिस्थापतित है (वण्णगंधरसफास-
पज्जवेहिं छट्टाणवडि ए) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायों से षट-
स्थानपतित है (आभिणिबोहिनाणपज्जवेहिं तुल्ले) आभिनिबो-
धिक ज्ञान के पर्यायों से तुल्य है (सुयणाणपज्जवेहिं छट्टाणवडि ए)
श्रुत ज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित है (अचक्खुदंसणपज्जवेहिं
छट्टाणवडि ए) अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित है

(एवं उक्कोसाभिणिबोहियणाणी वि) उत्कृष्ट आभिनिबोधिक
ज्ञानी भी इसी ही प्रकार (अजहण्णमणुक्कोसाभिणिबोहियणाणी वि
एवं चेव) मध्यम आभिनिबोधिक ज्ञानी भी इसी प्रकार (नवरं

द्वीन्द्रियेना अनन्त पर्याय कक्षा छे ? (गोयमा । जहण्णाभिणिबोहियणाणी
वेडंदि ए जहण्णाभिणिबोहियणाणिस्स वेडंदियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम !
जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी द्वीन्द्रिय भी जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी
द्वीन्द्रियथी द्रव्यनी अपेक्षाय्ये तुल्य छे (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशोनी अपेक्षाय्ये
तुल्य छे (ओवगाहणट्टयाए चउट्टाणवडि ए) अवगाहनाथी चतुस्थान गतित छे
(ठिईअ तिट्टाणवडि ए) स्थितिथी त्रिस्थान पतित छे (वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं
छट्टाणवडि ए) वर्ण, गंध, रस, स्पर्शना पर्यायोथी षट्स्थान पतित छे (आभ-
निबोहियणाणपज्जवेहिं तुल्ले) आभिनिबोधिकज्ञानना पर्यायोथी तुल्य छे (सुय-
णाणपज्जवेहिं छट्टाणवडि ए) श्रुतज्ञानना पर्यायोथी षट्स्थान पतित छे (अचक्खु-
दंसणपज्जवेहिं छट्टाणवडि ए) अचक्षुदर्शनना पर्यायोथी षट्स्थान पतित छे

(एव उक्कोसाभिणिबोहिय नाणी वि) उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी पणु
ओवाअ (अजहण्णमणुक्कोसाभिणिबोहियणाणि वि एवं चेव) मध्यम आभिनिबोधिक

ज्ञानी अपि, श्रुताज्ञानी अपि, अचक्षुर्दर्शनी अपि, नवरं यत्र ज्ञानानि तत्र अज्ञानानि न सन्ति, यत्र अज्ञानानि तत्र ज्ञानानि न सन्ति, यत्र दर्शनं तत्र ज्ञानान्यपि अज्ञानान्यपि, एवं त्रीन्द्रियाणामपि चतुरिन्द्रियाणामपि एवञ्चैव, नवरं चक्षुर्दर्शनं मध्यधिकम् ॥

टीका--अथ द्वीन्द्रियादीनां चतुरिन्द्रयपर्यन्तानाम् जघन्याद्यवगाहनकादीनां पर्यवान् प्ररूपयितुमाह--'जहण्णोगाहणगाणं भंते ! वेइंदियाणं पुच्छा' गौतमः पृच्छति--हे भदन्त ! जघन्यावगाहनकानां द्वीन्द्रियाणां कियन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ?

सट्टाणे छट्टाणवडिए) विशेष यह कि स्वस्थान में भी अर्थात् आभिनिबोधिक ज्ञान में भी षट्स्थानपतित है (एवं सुयणाणी वि) श्रुतज्ञानी भी इसी प्रकार (सुयअणाणी वि) श्रुताज्ञानी भी इसी प्रकार (अचक्खुदंसणी वि) अचक्षुदर्शनी भी इसी प्रकार (नवरं) विशेष (जत्थ णाणा तत्थ अणाणा नत्थि जत्थ अणाणा तत्थ णाणा नत्थि) जहां ज्ञान है वहां अज्ञान नहीं हैं, एवं जहा अज्ञान है वहां ज्ञान नहीं है (जत्थ दंसणं तत्थ णाणावि अणाणा वि) जहां दर्शन है वहां ज्ञान भी या अज्ञान भी दोनो में कोई भी-हो सकते हैं (एवं तेइंदियाण वि) त्रीन्द्रिय भी इसी प्रकार (चउरिंदियाण वि एवं चेव) चौइन्द्रिय भी इसी प्रकार (नवरं चक्खुदंसणं अउमहियं विशेषता यह कि चौइन्द्रियों में चक्षुदर्शन अधिक कहना चाहिए

टीकार्थ--अथ द्वीन्द्रिय जीवों से लेकर चौइन्द्रिय जीवों तक के पर्यायों की प्ररूपणा की जाती है ।

गौतम प्रश्न करते हैं--भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले द्वीन्द्रिय

ज्ञानी पणु अे प्रकारे (नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए) विशेष अेके स्वस्थानभा पणु अर्थात् आभिनिबोधिक ज्ञानभा पणु षट्स्थान पतित छे (एवं सुयणाणी वि) श्रुतज्ञानी पणु अे प्रकारे (सुय अणाणी वि) श्रुताज्ञानी पणु अे प्रकारे (अचक्खुदंसणी वि) अचक्षुदर्शनी पणु अे प्रकारे (नवरं) विशेष (जत्थ णाणा तत्थ अणाणा नत्थि) अथा ज्ञान छे त्या अज्ञान न थी (जत्थ अणाणा तत्थ णाणा नत्थि) अथा अज्ञान छे त्या ज्ञान न थी (जत्थ दंसणं तत्थ णाणा वि अणाणा वि) अथा दर्शन छे त्या ज्ञान पणु डोअ छे अने अज्ञान पणु अन्नेमाथी डोअ पणु अेके डोअ शके छे (एवं तेइंदियाण वि) त्रीन्द्रिय पणु अे प्रकारे (चउरिंदियाण वि एवं चेव) चतुरिन्द्रिय पणु अे प्रकारे (नवरं चक्खुदंसणं अउमहियं) विशेषता अेके चतुरिन्द्रिया अक्षुदर्शन अधिक कहेतु नोथअे

टीकार्थ--हवे द्वीन्द्रिय लोवाथी लधने चतुरिन्द्रिय लोवा सुधीना पर्यायिनी प्ररूपणा कराय छे

इति पृच्छा, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ जघन्यावगाहनकानां द्वीन्द्रियणाम्—अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘से केणद्वेणं भंते ! एवं वुच्चइ’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्येन—कथं तावत् एवम्—उत्करीत्या, उच्यते—‘जहण्णोगाहणगाणं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?’ जघन्यावगाहनकानां द्वीन्द्रियाणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहन्नोगाहणए पेइंदिए’ जघन्यावगाहनको द्वीन्द्रियः ‘जहण्णोगाहणगस्स वेइंदियस्य दव्वट्टयाए तुल्ले’ जघन्यावगाहनकस्य द्वीन्द्रियस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, ‘पएसट्टयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाहणट्टयाए तुल्ले’ अवगाहनार्थतया शरीरोच्छ्रयतया तुल्यो भवति, ‘ठिईए तिट्ठाणवडिए’ स्थित्या—आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया त्रिस्थानपतितो भवति, ‘वण्णगंधंसफासपज्जवेहिं दोहिं नाणेहिं दोहिं अन्नाणेहिं’ वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः द्वाभ्यां ज्ञानाभ्याम्, द्वाभ्यामज्ञानाभ्याम् ‘अचक्खुदंसण-जीवो के कित्ते पर्याय हैं ?

भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम पुनः प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा जाता है कि जघन्य अवगाहना वाले द्वीन्द्रियों के अनन्त पर्याय हैं

भगवन्—हे गौतम ! एक जघन्य अवगाहना वाला द्वीन्द्रिय दूसरे जघन्य अवगाहना वाले द्वीन्द्रिय से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है, प्रदेशों की दृष्टि से भी तुल्य है, अवगाहना से भी तुल्य है, क्योंकि दोनों जघन्य अवगाहना वाले हैं और जघन्य अवगाहना का एक ही रूप होता है । उसमें कोई न्यूनाधिकता का संभव नहीं है । आयु कर्म के अनुभवरूप स्थिति की दृष्टि से त्रिस्थानपतित होता है । वर्ण, गंध,

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे छे भगवन् ! जघन्य अवगाहनावा ।। द्वीन्द्रिय एवोना केटवा पर्याय छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे

श्री गौतम पुन प्रश्न करे छे—शा कारणे ओम कडेवाय छे के जघन्य अवगाहना वाणा द्वीन्द्रियोना अनन्त पर्याय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! ओक जघन्य अवगाहनावाणा द्वीन्द्रिय भील जघन्य अवगाहनावाणा द्वीन्द्रियथी द्रव्यनी दृष्टिओ तुल्य छे, प्रदेशोनी दृष्टिओ पणु तुल्य छे, अवगाहनाथी पणु तुल्य छे, केभके गन्ने जघन्य अवगाहना वाणा छे अने जघन्य अवगाहनातु ओक ज रूप होय छे तेमा केअ न्यूनाधिकताओ स भव नथी. आयु कर्मानु अनुभव रूप स्थितिनी दृष्टिथी त्रिस्थान पतित थाय

पञ्जवेहि य छद्वाणवडिण्' अचक्षुर्दर्शनपर्ययैश्च पट् स्थानपतितो भवति, तदभिलापश्च पूर्वोक्तवदेवावसेयः, केषाञ्चिद् द्वीन्द्रियाणामपर्याप्तावस्थायां सास्वादनसम्यक्त्वोपलब्धेः, सम्यग्दृष्टेश्च ज्ञाने द्वे इति ज्ञानद्वयम्, अन्येषामज्ञानद्वयमित्यभिप्रायेणोक्तम्—द्राभ्यां ज्ञानाभ्यां, द्राभ्यामज्ञानाभ्यामिति, 'एवं उक्तोसो ग्राहणएवि' एवं—तथैव उत्कृष्टावगाहनकोऽपि द्वीन्द्रियः उत्कृष्टावगाहनकस्य द्वीन्द्रियस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया तुल्यः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्ययैः, द्राभ्यामज्ञानाभ्याम्, अचक्षुरस और स्पर्श के पर्यायों, दो ज्ञानों से एवं दो अज्ञानों से तथा अचक्षुदर्शन के पर्यायों से पट्स्थानपतित होता है।

उन षट्स्थानों का कथन पहले जैसा ही समझ लेना चाहिए। किन्हीं-किन्हीं द्वीन्द्रिय जीवों में अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त्व पाया जाता है और उस अवस्था में उसमें दो ज्ञान पाये जाते हैं, अतएव यहाँ दो ज्ञानों का भी कथन किया है। जिनमें सम्यक्त्व नहीं होता उनमें दो अज्ञान होते हैं, इस अभिप्राय से दो अज्ञानों का भी उल्लेख किया गया है,

उत्कृष्ट अवगाहना वाले द्वीन्द्रिय की वक्तव्यता भी इसी प्रकार समझनी चाहिए अर्थात् एक उत्कृष्ट अवगाहना वाला द्वीन्द्रिय दूसरे उत्कृष्ट अवगाहना वाले दो इन्द्रियवाले से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है, प्रदेशों की दृष्टि से भी तुल्य है अवगाहना की दृष्टि से भी तुल्य है, स्थिति की दृष्टि से त्रिस्थानपतित है, वर्ण गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से, दो अज्ञानों से तथा अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित

छे. वर्ण, गंध, रस अने स्पर्शना पर्यायिणी, जे ज्ञानोणी, जे अज्ञानोणी तथा अचक्षुदर्शनना पर्यायिणी षट्स्थान पतित थाय छे जे षट्स्थानानु कथन पढेवा जेवु जे समलु तेवु जेधजे डोध-डोध द्वीन्द्रिय लुवोभा अपर्याप्त अवस्थाभा सम्यक्त्व भणी आवे छे अने ते अवस्थाभा तेभा जे ज्ञान भणी आवे छे, तेथी जे अही जेज्ञानानु पळु कथन कथुं छे जेभा सम्यक्त्व नथी डोतु तेजोभा जे अज्ञान डोय छे जे अलिप्रायथी जे अज्ञानोना पळु उद्वेभ कराये छे

उत्कृष्ट अवगाहना वाणा द्वीन्द्रियनी वक्तव्यता पळु आज रीते सम-
जवी जेधजे अर्थात् जेक उत्कृष्ट अवगाहना वाणा द्वीन्द्रिय भील उत्कृष्ट
अवगाहनावाणा द्वीन्द्रियथी द्रव्यनी दृष्टिजे तुल्य छे, प्रदेशोनी दृष्टिजे पळु
तुल्य छे, अवगाहनानी दृष्टिजे पळु तुल्य छे, स्थितिनी दृष्टिजे त्रिस्थान पतित
छे. वर्ण, गंध, रस, अने स्पर्शना पर्यायिणी, जे अज्ञानोणी, तथा अचक्षु

દર્શનપર્યવેશ્ચ પદ્ સ્થાનપતિતો ભવતિ, કિન્તુ 'ળવરં ણાણા નત્થિ' નવરમ્-પૂર્વા-
પેક્ષયા વિશેષસ્તુ જ્ઞાને નસ્તઃ, ઉત્કૃષ્ટાવગાહનાયામ્ અપર્યાપ્તાવસ્થાયા અભાવેન
સાસ્વાદનસમ્યક્ત્વાનુપલમ્ભાત્ જ્ઞાનદ્વયાભાવ ઇતિ ભાવઃ, 'અજઘ્ણમણુકોસો-
ગાહણે જહા જઘ્ણોગાહણે' અજઘ્ન્યાનુત્કૃષ્ટાવગાહનકો દ્વીન્દ્રિયો યથા
જઘ્ન્યાવગાહનકો દ્વીન્દ્રિયઃ પ્રતિપાદિતસ્તથા પ્રતિપાદયિતચ્ચઃ, કિન્તુ 'ળવરં
સદ્વાપે ઓગાહણે ચડઢ્ઢાળવહિણે' નવરં પૂર્વાપેક્ષયા વિશેષસ્તુ સ્વસ્થાને-સ્થિતૌ,
અવગાહનયા શરીરોચ્છ્રયરૂપતયા ચતુઃ સ્થાનપતિતો ભવતિ, તથા ચાજઘ્ન્યાનુ-
ત્કૃષ્ટાવગાહનાયાઃ પ્રથમસમયાનન્તરસદ્ભાવેન અપર્યાપ્તાવસ્થાયામપિ તસ્યાઃ

હોતા હૈ । કિન્તુ જઘ્ન્ય અવગાહના વાલે કી અપેક્ષા ઉત્કૃષ્ટ અવગા-
હના વાલે મેં હતની વિશેષતા હૈ કિ ઇસમેં જ્ઞાન નહી હોતે ।
ઇસકા કારણ યહ હૈ કિ ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના કે સમય અપર્યાપ્ત
અવસ્થા નહી હોતી ઓર અપર્યાપ્ત અવસ્થા કે અભાવમેં સાસ્વાદન
સમકિત નહીં હો સકતા । અતઃૈવ યહાં દો જ્ઞાનોં કા ઉલ્લેખ
નહીં કરના ચાહિણે ।

મધ્યમ અવગાહના વાલે દ્વીન્દ્રિય કી વક્તવ્યતા જઘ્ન્ય અવગાહના
વાલે કે સમાન હી સમજલેના ચાહિણે, કિન્તુ વિશેષતા યહ હૈ કિ
મધ્યમ અવગાહના વાલા ઇક દ્વીન્દ્રિય મધ્યમ અવગાહના વાલે દૂસરે
દ્વીન્દ્રિય સે અવગાહના કી દૃષ્ટિ સે મી ચતુઃસ્થાનપતિત હોતા હૈ,
ક્યોંકિ મધ્યમ અવગાહના સવ ઇક-સી નહી હોતી ઇક મધ્યમ
અવગાહના દૂસરી મધ્યમ અવગાહના સે સંખ્યાતભાગહીન, અસંખ્યા-
તભાગહીન, હીન, સંખ્યાતગુણહીન ઓર અસંખ્યાતગુણ હીન તથા
હસી પ્રકાર અધિક મી હોસકતી હૈ । મધ્યમ અવગાહના અપર્યાપ્ત

દર્શના પર્યાયેથી પદસ્થાન પતિત થાય છે કિન્તુ જઘ્ન્ય અવગાહનાવાળાની
અપેક્ષાએ ઉત્કૃષ્ટ અવગાહનાવાળામા એટલી વિશેષતા છે કે તેમનામા જ્ઞાન
નથી હોતુ તેણુ કારણુ એ છે કે ઉત્કૃષ્ટ અવગાહનાના સમયે અપર્યાપ્ત અવ
સ્થા નથી થઈ શકતી. તેથીજ અહિં બે જ્ઞાનેનો ઉલ્લેખ ન કરવો જોઈએ.

મધ્યમ અવગાહનાવાળા દ્વીન્દ્રિયની વક્તવ્યતા પણ જઘ્ન્ય અવગાહના
વાળાના સમાનજ સમજવી જોઈએ. કિન્તુ વિશેષતા એ છે કે મધ્યમ અવ-
ગાહનાવાળો એક દ્વીન્દ્રિય મધ્યમ અવગાહનાવાળા ખીજ દ્વીન્દ્રિયથી અવગા
હનાની દૃષ્ટિએ પણ ચતુસ્થાન પતિત થાય છે, કેમકે મધ્યમ અવગાહના
બધી એક સરખી નથી હોતી એક મધ્યમ અવગાહના ખીજ મધ્યમ અવગાહનાથી
સખ્યાત ભાગહીન અસખ્યાત ભાગહીન, સખ્યાત ગુણહીન અને અસખ્યાત
ગુણહીન તથા એજ પ્રકારે અધિક પણ થઈ શકે છે. મધ્યમ અવગાહના અપ-

संभवेन सासादन सम्यक्त्ववतां ज्ञानद्वयम्, अन्येपाश्चाज्ञानद्वयं भवति इति ज्ञाने चाज्ञानेचेत्यभिप्रायेणाह—‘अजहणमणुक्कोसोगाहणए जहा जहण्णोगाहणए’ इति, गौतमः पृच्छति—‘जहण्णठिइयाणं भंते ! वेइंदियाणं पुच्छा’ हे भदन्त ! जघन्यस्थितिकाना द्वीन्द्रियाणां त्रियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा ! भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ जघन्यस्थितिकानां द्वीन्द्रियाणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘से केणट्ठेण भंते ! एवं वुच्चइ’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन—इत्थं तावत्, एवम्—उत्तरीत्या उच्यते ‘जहण्णठिइयाणं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?’ जघन्यस्थितिकानां द्वीन्द्रियाणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान्—आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णठिइए जहण्णठिइयस्स वेइंदियस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले’

अवस्था के प्रथम समय के अनन्तर ही आरंभ होजाती है अतएव अपर्याप्त दशा में भी उसका सद्भाव होता है । इस कारण सासादनसम्यक्त्व भी मध्यम अवगाहना के समय संभव है । इसीसे यहाँ दो ज्ञानों का भी सद्भाव हो सकता है । जिस द्वीन्द्रियों में सासादनसम्यक्त्व नहीं होता उनमें दो अज्ञान होते हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! जघन्य स्थिति वाले द्वीन्द्रिय जीवों के किनने पर्याय हैं !

भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! किसकारण से ऐसा कहाजाता है कि जघन्य स्थिति वाले द्वीन्द्रियों के अनन्त पर्याय हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! एक जघन्य स्थिति वाला द्वीन्द्रिय दूसरे

पर्याप्त अवस्थाना प्रथम समयना अनन्तर ए आरंभ थय नय छे. तेथीए अपर्याप्त दशामा पणु तेने सद्भाव डोय छे एे कारणे सासादन सम्यक्त्व पणु मध्यम अवगाहनाना समये सभाव छे तेथी अडि जे ज्ञानेने. पणु सद्भाव थय शके छे. जे द्वीन्द्रियोमा सासादन सम्यक्त्व नथी डोतु तेओमा जे अज्ञान डोय छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य स्थितिवाणा द्वीन्द्रिय जीवोना कटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! शा कारणे ओवु कडेवाय छे जे जघन्य स्थितिवाणा द्वीन्द्रियोना अनन्त पर्याय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! ओक जघन्य स्थितिवाणा द्वीन्द्रिय जीवु जघन्य

जघन्यस्थितिको द्वीन्द्रियो जघन्यस्थितिकस्य द्वीन्द्रियस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, 'पएसद्वयाए तुल्ले' प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, 'ओगाहणद्वयाए चउ-द्वानवडिए' अवगाहनार्थतया-शरीरोच्छ्रयापेक्षया चतुः स्थानपतितो भवति, 'ठिईए तुल्ले' स्थित्या-आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया तुल्यो भवति, 'वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं' वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः 'दोहिं अन्नाणेहिं' द्वाभ्याम् अज्ञानाभ्याम् 'अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्टाणवडिए' अचक्षुदर्शनपर्यवैश्च पट् स्थानपतितो भवति, तथा च जघन्यस्थितिकद्वीन्द्रियेषु अज्ञानद्वयमेवोक्तम्, न तु ज्ञानद्वयम् सर्वजघन्यस्थितिकस्य द्वीन्द्रियस्य लब्धपर्याप्तकतया लब्धपर्याप्तकेषु सासादनसम्यक्त्वदृष्टेरनुत्पादात् तत्र हेतुस्तु लब्धपर्याप्तकस्य सर्वसंविलष्टतया सासादनसम्यग्दृष्टेश्च किञ्चिच्छुभपरिणामतया तस्य तन्मध्येऽनुत्पादात् तत्रा-ज्ञानद्वयमेवोपलभ्यते न तु ज्ञानद्वयमिति बोध्यम्, किन्तु-उत्कृष्टस्थितिकद्वीन्द्रियेषु मध्ये सासादनसम्यक्त्वसहितस्याप्युत्पादेन ज्ञानद्वयस्यापि संभवादित्यभिप्राये-

जघन्य स्थिति वाले द्वीन्द्रिय से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है, प्रदेशों की दृष्टि से भी तुल्य है, अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित होता है, स्थिति की दृष्टि से तुल्य है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायों से दो अज्ञानों से तथा अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है। जघन्य स्थिति वाले द्वीन्द्रियो में दो अज्ञान ही कहे गए हैं उनमें दो ज्ञान नहीं पाये जाते। कारण यह है कि जघन्य स्थिति वाले द्वीन्द्रिय जीव में सासादन सम्यक्त्व नहीं होता, क्योंकि लब्धपर्याप्त कजीव अत्यन्त संविलष्ट होता है और सासादन सम्यक्त्व किञ्चित् शुभ परिणाम रूप है, अतएव सासादन सम्यग्दृष्टि का जघन्य स्थितिक द्वीन्द्रिय रूप में उत्पाद नहीं होता।

उत्कृष्ट स्थिति वाले द्वीन्द्रिय जीवों में सासादनसम्यक्त्व वाले जीव भी उत्पन्न हो सकते हैं। अतएव जो वक्तव्यता जघन्य स्थिति

स्थितिवाणा द्वीन्द्रियथी द्रव्यानी दृष्टिओ तुल्ये छे प्रदेशोनी दृष्टिओ पणु तुल्ये छे अवगाहनानी दृष्टिओ चतुस्थान पतित थाय छे, स्थितिनी दृष्टिओ तुल्ये छे वर्णु, गंध, रस, स्पर्शना पर्यायोथी, जे अज्ञानोथी तथा अचक्षुदर्शनना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे जघन्य स्थितिवाणा द्वीन्द्रियोमा जे अज्ञान छडेला छे. तेमनामा जे ज्ञान भणी आपता नथी कारणे ओ छे जे जघन्य स्थितिवाणा द्वीन्द्रिय एवमा सासादन सम्यक्त्व नथी छेतु. जेमके लब्धपर्याप्तक एव अत्यन्त संविलष्ट थाय छे अने सासादन सम्यक्त्व किञ्चित् शुभ परिणाम रूप छे तेथीज सासादन सम्यग्दृष्टिने जघन्य स्थितिक द्वीन्द्रियमा उत्पाद नथी थते. उत्कृष्ट स्थितिवाणा द्वीन्द्रिय रूपमा सासादन सम्यक्त्व वाणा एव पणु

गाह—‘एवं उक्कोसठिइए वि, नवरं दो नाणा अब्भहिआ’ एवम्—पूर्वोक्तरीत्या, उत्कृष्टस्थितिकोऽपि द्वीन्द्रियो वक्तव्यः, किन्तु नवरं—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु तत्र द्वे ज्ञाने अभ्यधिके भवति, ‘अजहणमणुकोसठिइए जहा उक्कोसठिइए’ अजघन्यानुत्कृष्टस्थितिको द्वीन्द्रियः यथा उत्कृष्टस्थितिको द्वीन्द्रियः प्रतिपादितस्तथा प्रतिपादनीयः किन्तु ‘णवरं ठिइए तिट्टाणवडिए’ नवरम्—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थित्या त्रिस्थानपतितो भवति, न तु तुल्य एवेति भावः, गौतमः पृच्छति—‘जहणगुणकालगाणं वेइंदियाणं पुच्छा’ हे भदन्त ! जघन्यगुणकालकानां द्वीन्द्रियाणां कियत्यः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह—गोयमा ! हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पणत्ता’ जघन्यगुणकालकानाम् द्वीन्द्रियाणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन—कथं तावत्, एवम्—उक्तरीत्या, उच्यते यत्—‘जहणगुण-

वाले द्वीन्द्रिय की कही है वही उत्कृष्ट स्थिति वाले की भी समझनी चाहिए मगर उसमें दो ज्ञानों का भी उल्लेख करना चाहिए।

मध्यम स्थिति वाले द्वीन्द्रिय की वक्तव्यता उत्कृष्टस्थिति वाले द्वीन्द्रिय के समान समझनी चाहिए, मगर इसमें स्थिति की अपेक्षा त्रिस्थानपतित कहना चाहिए, क्योंकि सभी मध्यम स्थिति वालों की स्थिति तुल्य नहीं होती है।

गौतम—हे भगवन् ! जघन्यगुण कृष्ण द्वीन्द्रिय जीव के कितने पर्याय कहे हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय होते हैं।

गौतम—हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा जाता है कि जघन्य गुण काले द्वीन्द्रिय के अनन्त पर्याय हैं ?

उत्पन्न थछ शके छे. तेथीज जे वक्तव्यता जघन्य स्थितिवाणा द्वीन्द्रियनी कही छे. जेज उत्कृष्ट स्थितिवाणानी पणु समजवी जेछजे. पणु तेमा जे ज्ञानेना पणु उल्लेख करये जेछजे मध्यम स्थितिवाणा द्वीन्द्रियनी वक्तव्यता उत्कृष्ट स्थितिवाणा द्वीन्द्रियना समान समजवी जेछजे. पणु तेमा स्थितिनी अपेक्षाजे त्रिस्थान पतित कडेवु जेछजे केमके भधा मध्यम स्थितिवाणाजोनी स्थिति सरणी नथी होती

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य गुण कृष्ण द्वीन्द्रिय एवना केटला पर्याय कइया छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम अनन्त पर्याय कइया छे.

श्रीगौतमस्वामी—शा कारणे जेम कडेवाय छे के जघन्य गुणकाणा द्वीन्द्रियना अनन्त पर्याय छे ?

कालगाणं वेद्दियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?' जघन्यगुणकालकानां द्वीन्द्रियाणा-
मनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः इति ? भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहण्णगुण-
कालए वेद्दिए' जघन्यगुणकालको द्वीन्द्रियो 'जहण्णगुणकालगस्स वेद्दियस्स
द्व्वट्ठयाए तुल्ले' जघन्यगुणकालकस्य द्वीन्द्रियस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति
'पएसट्ठयाए तुल्ले' प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, 'ओगाहणट्ठयाए छट्ठाणवडिए'
अवगाहनार्थतया—शरीरोच्छ्रयरूपतया, पट् स्थानपतितो भवति, तदभिलाषश्च
पूर्ववदेवावसेयः, ठिईए तिट्ठाणवडिए' स्थित्या—आयुःकर्मानुभवलक्षणस्थित्य-
पेक्षया त्रिस्थानपतितो भवति, नतु चतुः स्थानपतितः, तेषां संख्येयवर्षायुष्क-
त्वात् 'कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले' कृष्णवर्णपर्यवै स्तुल्यो भवति, 'अवसेसेहि
वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं' अवशेषैः वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः 'दोहिं नाणेहिं'
द्वाभ्यां ज्ञानाभ्याम् 'दोहिं अण्णाणेहिं' द्वाभ्यामज्ञानाभ्याम् 'अचक्खुदंसणपज्ज-

भगवान्—हे गौतम ! एक जघन्यगुण काला द्वीन्द्रिय दूसरे जघन्य
गुण काले द्वीन्द्रिय से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, प्रदेशों की अपेक्षा
भी तुल्य होता है, अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित होता
है। उन स्थानों का कथन पूर्ववत् समझ लेना चाहिए अर्थात्
असंख्यातसंख्यातभाग हीन संख्यात असंख्यातगुण हीन तथा इसी
प्रकार अधिक। स्थिति की दृष्टि से वह त्रिस्थानगतित होता है,
क्योंकि द्वीन्द्रिय की स्थिति संख्यात वर्षों की ही होती है, अत-
एव वह चतुःस्थानपतित नहीं हो सकती। वह कृष्ण वर्ण के
पर्यायों से तुल्य होता है, क्योंकि जघन्य कृष्ण वर्ण का एकहीरूप
का संभव है, उसमें हीनता या अधिकता का संभव नहीं है। शेष चार
वर्ण दो गर्धों, पांच रसों और आठ स्पर्शों की दृष्टि से दो ज्ञानों दो

श्री भगवान्—हे गौतम ! एक जघन्य गुण काला द्वीन्द्रिय जीन जघन्य
गुण काला द्वीन्द्रियथी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्ये छे प्रदेशोनी अपेक्षाये पण तुल्य
छे. अवगाहनानी दृष्टिअये चतुःस्थान पतित थाय छे ते स्थानानु कथन पूर्वनी
जेभज्ज समञ्ज देवु जेधअये अर्थात् असंख्यात संख्यात लाग हीन संख्यात
असंख्यात गुणहीन तथा जेज्ज प्रकारे अधिक, स्थितिनी दृष्टिअये ते त्रिस्थान
पतित थाय छे, केमके द्वीन्द्रियनी स्थिति संख्यात वर्षोनी ज्जाय छे, तेथीज्ज
चतु स्थान पतित न भनी शके. ते कृष्णवर्णना पर्यायोथी तुल्य थाय छे, केमके
जघन्य कृष्ण वर्णतु अके ज उय संख्यात छे तेभा हीनता—अधिकतानो संख्या
नथी शेष चार वर्णो, जे गर्धो, पांच रसो अने आठ स्पर्शोनी दृष्टिअये जे
ज्ञानो, जे अज्ञानो अने अशुद्धज्ञानो पर्यायोथी चतुस्थान पतित थाय छे.

वेहि य छद्वाणवदिए' अचक्षुर्दर्शनपर्यवैः, षट् स्थानपतितो भवति, तदभिलाषश्च पूर्ववदेव बोध्यः, 'एवं उक्रोसगुणकाल ए वि' एवम्-उत्करीत्या, उत्कृष्टगुणकालकोऽपि द्वीन्द्रियः उत्कृष्टगुणकालकस्य द्वीन्द्रियस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया षट्स्थानपतितः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, कृष्णवर्णपर्यवैस्तुल्यः, अवशिष्टवर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः, द्वाभ्यां ज्ञानाभ्याम्, द्वाभ्यामज्ञानाभ्याम्, अचक्षुर्दर्शनपर्यवैश्च षट्स्थानपतितो भवति, 'अजघ्न्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि द्वीन्द्रियः, एव श्वैर-अजघ्न्यानुत्कृष्टगुणकालस्य द्वीन्द्रियस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया षट्स्थानपतितः, कृष्णवर्णपर्यवैस्तुल्यः, अवशिष्ट वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः, द्वाभ्या ज्ञानाभ्याम् द्वाभ्याम् अज्ञानाभ्याम्, अचक्षुर्दर्शनप-

अज्ञानों और अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है।

इसी प्रकार उत्कृष्टगुण काला भी समझना चाहिए, अर्थात् एक उत्कृष्टगुण काला द्वीन्द्रिय दूसरे उत्कृष्टगुण काले द्वीन्द्रिय से द्रव्य की दृष्टि से और प्रदेशों की दृष्टि से तुल्य होता है। अवगाहना की दृष्टि से षट् स्थानपतित होता है, स्थिति से त्रिस्थानपतित है कृष्णवर्ण के पर्यायों से तुल्य होता है शेष वर्ण, गंधों, रसों के पर्यायों से दो ज्ञानों से तथा अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है।

मध्यमगुण काला द्वीन्द्रिय भी इसी प्रकार हैं अर्थात् एक मध्यमगुण काला दूसरे मध्यमगुण काले द्वीन्द्रिय से द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है। अवगाहना से षट् स्थानपतित होता है। स्थिति से त्रिस्थानपतित होता है। कृष्णवर्ण के पर्यायों से तुल्य होता है,

ये प्रकारे उत्कृष्ट गुणु काणा पणु समज्जा जेधये. अर्थात् एक उत्कृष्ट गुणु काणा द्वीन्द्रिय भावा उत्कृष्ट गुणु काणा द्वीन्द्रियधी द्रव्यनी दृष्टिमे अने प्रदेशोनी दृष्टिमे तुल्य थाय छे अवगाहनानी दृष्टिमे अतु स्थान पतित थाय छे स्थितिधी त्रिस्थान पतित थाय छे कृष्णवर्णुना पर्यायोधी तुल्य थाय छे, शेष वर्णु, गंधो, रसो अने स्पर्शोना पर्यायोधी, जे जानथो जे अज्ञानधी तथा अचक्षुदर्शनना पर्यायोधी षट्स्थान पतित थाय छे.

मध्यम गुणु काणा द्वीन्द्रिय पणु जे प्रकारे छे, अर्थात् एक मध्यम गुणु काणा भावा मध्यम गुणु काणा द्वीन्द्रियधी द्रव्य अने प्रदेशोनी अपेक्षामे तुल्य छे अवगाहनाधी षट्स्थान पतित थाय छे, स्थितिधी त्रिस्थान पतित थाय छे. कृष्ण वर्णुना पर्यायोधी तुल्य थाय छे, शेषवर्णु, गंधो रसो अने

यैश्च षट्स्थानपतितो भवति, 'गवरं सद्भाणे छट्टाणवडिण' नवरं-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु-सस्थाने-मध्यमगुणकालरूस्थाने षट्स्थानातितो भवति, 'एवं चैव पंचवण्णा, दो गधा, पच रसा, अट्टकासा भाणियव्या' एवं-पूर्वोक्तीत्या, पञ्चवर्णाः कृष्णादयः, द्वौ गन्धौ-सुरभ्यसुरभिरूपौ, पञ्चरसाः-अम्लादयः, अपट्टी-स्पर्शाः-शीतोष्णादयो भणितव्याः-वक्तव्याः, गौतमः पृच्छति-'जहण्णाभिणिवो-हियनाणीणं भंते ! वेइंदियाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?' हे भदन्त ! जघन्या-भिनिबोधि क्लृप्तानीनां द्वीन्द्रियाणां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पणत्ता' जघन्याभिनिबोधिक्लृप्तानीनां द्वीन्द्रियाणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति-'से वेणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ' हे भदन्त ! नत्-अथ, केनार्थेन कथं तावत् एवम्-उत्तरीत्या, उच्यते यत्-'जहण्णाभिणिवोहियनाणीणं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता' जघन्याभि-

शेष वर्णों गंधों, रसों और स्पर्शों से दो ज्ञानों से, दो अज्ञानों से तथा अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है। विशेषता यह है कि एक मध्यमगुण काला दूसरे मध्यमगुण काले द्वीन्द्रिय से काले वर्ण के पर्यायों से भी षट्स्थानपतित होता है, क्योंकि मध्यमगुण काला वर्ण अनन्तरतम रूप से अनन्त प्रकार का होता है।

इसी प्रकार पाँचों वर्णों, दोनों गंधों, पाँचों रसों और आठों स्पर्शों का कथन समझ लेना चाहिए

गौतम-हे भगवन् ! जघन्य आभिनिबोधिक्लृप्तानी द्वीन्द्रिय जीवों के कितने पर्याय हैं ?

भगवन्- हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ?

गौतम-हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

स्पर्शोथी, जे ज्ञानोथी, जे अज्ञानोथी तथा अचक्षुदर्शनना पर्यायोथी षट्स्थानपतित थाय छे विशेषता जे छे के जेक मध्य गुणु काणा पीला मध्यम गुणु काणा द्वीन्द्रियथी काणा वर्णना पर्यायोथी पणु षट्स्थानपतित थाय छे, केमके मध्यम गुणु काणा वर्णु अनन्तरतम रूपथी अनन्त प्रकारना थाय छे

जे प्रकारे पाये वर्णो, अन्ने गंधो, पाये रसो अन्ने आठ स्पर्शोतु कथन समझ लेवु जेधजे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् जघन्य आभिनिबोधिक्लृप्तानी द्वीन्द्रिय जीवोना केटवा पर्याय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जेस कहवानु शु कारण छे ?

निबोधिकज्ञानीनाम् द्वीन्द्रियाणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति,

भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णाभिणिबोहियणाणी वेइंदिए’ जघन्याभिनिबोधिकज्ञानी द्वीन्द्रियः ‘जहण्णाभिणिबोहियणाणिस्स वेइंदियस्स’ जघन्याभिनिबोधिकज्ञानिनो द्वीन्द्रियस्य ‘दच्चद्वयाए तुल्ले’ द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, ‘पएसद्वयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाहणद्वयाए चउठाणवडिए’ अवगाहनार्थतया चतुः स्थानपतितो भवति, ‘ठिईए तिट्ठाणवडिए’ स्थित्या त्रिस्थानपतितो भवति, ‘वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए’ वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, आभिणिबोहियणाणपज्जवेहिं तुल्ले’ आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैस्तुल्यो भवति, ‘सुयनापज्जवेहिं छट्ठाणवडिए’ श्रुतज्ञानपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, ‘अचक्खुदंसणपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए’ अचक्षुदर्शनपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, ‘एव उक्कोसाभिणिबोहियणाणीवि’ एवम्-एवम्-उक्तीत्या-उत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानी अपि द्वीन्द्रियः उत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानिनो द्वीन्द्रियस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थ-

भगवान्—हे गौतम ! एक जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी दूसरे जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानी से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है, प्रदेशों की दृष्टि से भी तुल्य होता है, अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित होता है, स्थिति की दृष्टि से त्रिस्थानपतित होता है वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है आभिबोधिक ज्ञान के पर्यायों से तुल्य है, श्रुतज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है और अचक्षुदर्शन के पर्यायों से भी षट्स्थानपतित होता है ।

उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी की प्ररूपणा भी इसी प्रकार की समझ लेनी चाहिए । अर्थात् एक उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी

श्री भगवान्—हे गौतम ! एक जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी भी जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानीकी द्रव्यकी दृष्टिसे तुल्य थाय छे, प्रदेशोनी दृष्टिसे पणु तुल्य थाय छे, अवगाहनानी दृष्टिसे अतुस्थान पतित थाय छे, स्थितिनी दृष्टिसे त्रिस्थान पतित थाय छे वणु, गंध, रस, अने स्पर्शोना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे, आभिनिबोधिकज्ञानना पर्यायोथी तुल्य छे, श्रुतज्ञानना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे, अने अचक्षुदर्शनना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे.

उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानीनी प्रउपणु पणु अने प्रकान्नी समणु लेवी नेधअ. अर्थात् एक उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी भी उत्कृष्ट आभिनिबोधिक

तथा चतुः स्थानपतितः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्-
स्थानपतितो भवति, आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैस्तुल्यः, श्रुतज्ञानपर्यवैः षट्स्थान-
पतितः, अचक्षुदर्शनपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, 'अजहणमणुक्कोसाभिनिबोधि-
यणाणोवि एवं चेव' अजघन्यानुत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानी अपि द्वीन्द्रियः
एवञ्चैव-पूर्वोक्तवदेव जघन्याभिनिबोधिकज्ञानी द्वीन्द्रियवदेवेत्यर्थः, 'नवरं
सद्वाणे छद्वाणवडिण्' नवरं-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्वस्थाने षट्स्थानपतितो

दूसरे उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानी से द्रव्य और प्रदेशों की दृष्टि से तुल्य, अवगाहना से चतुःस्थानपतित, स्थिति से त्रिस्थानपतित, वर्णादि से षट्स्थानपतित, आभिनिबोधिकज्ञान के पर्यायों से तुल्य श्रुतज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित तथा अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है ।

मध्यम आभिनिबोधिकज्ञानी के विषय में इसी प्रकार कहना चाहिए अर्थात् जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी के समान ही उसकी प्ररूपणा समझ लेनी चाहिए । विशेषता इतनी ही है कि मध्यम आभिनिबोधिकज्ञानी स्वस्थान में भी षट्स्थापतित है, अर्थात् एक मध्यम आभिनिबोधिकज्ञानी दूसरे मध्यम आभिनिबोधिकज्ञानी से षट्स्थानपतित हीनाधिक होता है, क्योंकि जैसे जघन्य और उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञान का एक-एक ही पर्याय है, वैसा मध्यम आभिनिबोधिकज्ञान का नहीं । उसके तो अनन्त हीनाधिक रूप पर्याय होते हैं । श्रुतज्ञान के पर्यायों से अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है ।

ज्ञानीथी द्रव्य अने प्रदेशानी दृष्टिअे तुल्य, अवगाहनाथी अतुःस्थान पतित स्थितिथी त्रिस्थान पतित, वर्ण आदिथी षट्स्थान पतित, आलिनिबोधिक् ज्ञानना पर्याथीथी तुल्य, श्रुतज्ञानना पर्याथीथी षट्स्थान पतित तथा अचक्षु दर्शनना पर्याथीथी षट्स्थान पतित थाय छे.

मध्यम आलिनिबोधिक्ज्ञानीना विषयथी अेव प्रकारे कडेवु जेधअे अर्थात् जघन्य आलिनिबोधिक्ज्ञानीनी समानअे तेमनी प्ररूपणा समअे लेवी जेधअे. विशेषता अेटलीअे छे के मध्यम आलिनिबोधिक्ज्ञानी स्वस्थानमां पअु षट्स्थान पतित छे अर्थात् अेक मध्यम आलिनिबोधिक्ज्ञानी भीअ मध्यम आलिनिबोधिक्ज्ञानीथी षट्स्थान पतित हीनाधिक थाय छे, केमके जेवा जघन्य अने उत्कृष्ट आलिनिबोधिक्ज्ञानना अेक अेकअे पर्याथे छे, जेवा मध्यम आलिनिबोधिक्ज्ञानना नथी तेनाते अनन्त हीनाधिक रूप पर्याथे थाय छे. श्रुतज्ञाना पर्याथीथी अने अचक्षुदर्शनना पर्याथीथी षट्स्थान पतित थाय छे.

निबोधिकज्ञानीनाम् द्वीन्द्रियाणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति,

भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णाभिणिवोहियणाणी वे इंदिए’ जघन्याभिनिबोधिकज्ञानी द्वीन्द्रियः ‘जहण्णाभिणिवोहियणाणिसस वेडंदियस्स’ जघन्याभिनिबोधिकज्ञानिनो द्वीन्द्रियस्य ‘दच्चट्टयाए तुल्ले’ द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, ‘एएसट्टयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाण्णट्टयाए चउट्टाणवडिए’ अवगाहनार्थतया चतुः स्थानपतितो भवति, ‘ठिईए तिट्टाणवडिए’ स्थित्या त्रिस्थानपतितो भवति, ‘वण्णागंधरसफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए’ वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, आभिणिवोहियणाणपज्जवेहिं तुल्ले’ आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैस्तुल्यो भवति, ‘सुयनापज्जवेहिं छट्टाणवडिए’ श्रुतज्ञानपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, ‘अच्चक्खुदसणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए’ अचक्षुदर्शनपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, ‘एव उक्कोसाभिणिवोहियणाणीवि’ एवम्-एवम्-उक्तीत्या-उत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानी अपि द्वीन्द्रियः उत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानिनो द्वीन्द्रियस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थ-

भगवान्—हे गौतम ! एक जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी दूसरे जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानी से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है, प्रदेशों की दृष्टि से भी तुल्य होता है, अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित होता है, स्थिति की दृष्टि से त्रिस्थानपतित होता है वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है आभिबोधिक ज्ञान के पर्यायों से तुल्य है, श्रुतज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है और अचक्षुदर्शन के पर्यायों से भी षट्स्थानपतित होता है ।

उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी की प्ररूपणा भी इसी प्रकार की समझ लेनी चाहिए । अर्थात् एक उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी

श्री भगवान्—हे गौतम ! एक जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी भील जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानीथी द्रव्यनी दृष्टिअे तुल्य थाय छे, प्रदेशानी दृष्टिअे पणु तुल्य थाय छे, अवगाहनानी दृष्टिअे चतुःस्थान पतित थाय छे, स्थितिनी दृष्टिअे त्रिस्थान पतित थाय छे वणु, गंध, रस, अने स्पर्शानी पर्यायीथी षट्स्थान पतित थाय छे, आभिनिबोधिकज्ञानना पर्यायीथी तुल्य छे, श्रुतज्ञानना पर्यायीथी षट्स्थान पतित थाय छे, अने अचक्षुदर्शनना पर्यायीथी षट्स्थान पतित थाय छे

उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानीनी प्ररूपणा पणु अेअ प्रकारनी समझ लेनी लेअेअे, अर्थात् एक उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी भील उत्कृष्ट आभिनिबोधिक

तथा चतुः स्थानपतितः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्-स्थानपतितो भवति, आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैस्तुल्यः, श्रुतज्ञानपर्यवैः षट्स्थान-पतितः, अचक्षुर्दर्शनपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, 'अजहण्णमणुक्कोसाभिणिबोधि-यणाणोवि एवं चेव' अजघन्यानुत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानी अपि द्वीन्द्रियः एवञ्चैव-पूर्वोक्तवदेव जघन्याभिनिबोधिकज्ञानी द्वीन्द्रियवदेवेत्यर्थः, 'नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए' नवरं-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्वस्थाने षट्स्थानपतितो

दूसरे उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानी से द्रव्य और प्रदेशों की दृष्टि से तुल्य, अवगाहना से चतुःस्थानपतित, स्थिति से त्रिस्थानपतित, वर्णादि से षट्स्थानपतित, आभिनिबोधिकज्ञान के पर्यायों से तुल्य श्रुतज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित तथा अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है ।

मध्यम आभिनिबोधिकज्ञानी के विषय में इसी प्रकार कहना चाहिए अर्थात् जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी के समान ही उसकी प्ररूपणा समझ लेनी चाहिए । विशेषता इतनी ही है कि मध्यम आभिनिबोधिकज्ञानी स्वस्थान में भी षट्स्थापतित है, अर्थात् एक मध्यम आभिनिबोधिकज्ञानी दूसरे मध्यम आभिनिबोधिकज्ञानी से षट्स्थानपतित हीनाधिक होता है, क्योकि जैसे जघन्य और उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञान का एक-एक ही पर्याय है, वैसा मध्यम आभि-निबोधिकज्ञान का नहीं । उसके तो अनन्त हीनाधिक रूप पर्याय होते हैं । श्रुतज्ञान के पर्यायों से अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थान-पतित होता है ।

ज्ञानीथी द्रव्य अने प्रदेशोनी दृष्टिओ तुल्य, अवगाहनाथी चतुःस्थान पतित स्थितिथी त्रिस्थान पतित, वर्ण आदिथी षट्स्थान पतित, आलिनिबोधिक ज्ञानना पर्यायोथी तुल्य, श्रुतज्ञानना पर्यायोथी षट्स्थान पतित तथा अचक्षु दर्शनना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे.

मध्यम आलिनिबोधिकज्ञानीना विषयथी ओव प्रकारे कडेवु ओधओ अर्थात् जघन्य आलिनिबोधिकज्ञानीनी समानव तेमनी प्ररूपणा समञ्ज देवी ओधओ विशेषता ओटलीव छे के मध्यम आलिनिबोधिकज्ञानी स्वस्थानमा पवु षट्स्थान पतित छे अर्थात् ओक मध्यम आलिनिबोधिकज्ञानी भीव मध्यम आलिनिबोधिकज्ञानीथी षट्स्थान पतित हीनाधिक थाय छे, केमके जेवा जघन्य अने उत्कृष्ट आलिनिबोधिकज्ञानना ओक ओक व पर्याय छे, जेवा मध्यम आलिनिबोधिकज्ञानना नथी तेनातो अनन्त हीनाधिक रूप पर्याय थाय छे, श्रुतज्ञाना पर्यायोथी अने अचक्षुदर्शनना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे.

भवति, 'एवं सुयनाणीवि' एवम्—उत्तरीत्या श्रुतज्ञानी अपि द्वीन्द्रियो बोध्यः, 'सुयअघ्राणीवि अचक्षुदंसणीवि' श्रुताज्ञानी अपि, अचक्षुदर्शनी अपि च द्वीन्द्रियो-ऽनसेयः, किन्तु—'णवर जत्थ णाणा तत्थ अघ्राणा नत्थि' नवरम्—पूर्वापेक्षया विशेष-स्तु यत्र ज्ञाने तत्र अज्ञाने नस्तः 'जत्थ अघ्राणा तत्थ णाणा नत्थि' यत्र अज्ञाने तत्र ज्ञाने न स्तः, किन्तु 'जत्थ दंसणं तत्थ णाणावि अघ्राणावि' यत्र दर्शनं तत्र ज्ञाने अपि, अज्ञाने अपि च भवतः प्रागुक्तयुक्तेः, एवं तेऽदियाणवि' एवं—तथैव द्वीन्द्रियाणामिव त्रीन्द्रियाणामपि बोध्यम्, 'चउरिदियाणवि एवं चेव' चतुरिन्द्रियाणामपि एवञ्चैव—द्वीन्द्रियत्रयेव बोध्यम्, किन्तु 'णवरं चवसुदंसणं अब्भहिंयं' नवरं—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु चतुरिन्द्रियाणां चक्षुदर्शनमभ्यधिकं वक्तव्यम् अन्यथा चतुरिन्द्रियत्वयोगासंभवात् इति तेषां चक्षुदर्शनालापकोपि वाच्यः ॥ सू. ९ ॥

इसी प्रकार श्रुतज्ञानी और श्रुताज्ञानी और अचक्षुदर्शनी द्वीन्द्रिय के विषय में समझना चाहिए। विशेष बात यह ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान नहीं और जहाँ अज्ञान है वहाँ ज्ञान नहीं। इस प्रकार एक ही जीव में एक साथ ज्ञान और अज्ञान नहीं रहते, किन्तु जहाँ दर्शन है वहाँ ज्ञान भी हो सकते हैं और अज्ञान भी हो सकते हैं। तात्पर्य यह कि दर्शन के साथ न ज्ञान का विरोध है और न अज्ञान का विरोध है। अज्ञान के साथ भी दर्शनोपयोग रहता है और ज्ञान के साथ भी।

द्वीन्द्रिय जीवों के समान त्रीन्द्रिय जीवों की भी प्ररूपणा कर लेनी चाहिए और चतुरिन्द्रिय जीवों की भी। किन्तु चतुरिन्द्रिय जीवों की प्ररूपणा में चक्षुदर्शन अधिक कहना चाहिए क्योंकि उनमें चक्षुदर्शन भी पाया जाता है ॥ ९ ॥

એજ પ્રકારે શ્રુતજ્ઞાની અને શ્રુતાજ્ઞાની અને અચક્ષુદર્શની દ્વીન્દ્રિયના વિષયમા પણ સમજાવેલું જોઈએ વિશેષ એ વાત ધ્યાનમા રાખવી જોઈએ. કે જ્યાં જ્ઞાન હોય છે, ત્યાં અજ્ઞાન નથી હોતું, અને જ્યાં અજ્ઞાન છે ત્યાં જ્ઞાન નથી હોતું, એ રીતે એકજ જીવમા એક સાથે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન નથી રહેતા. પણ જ્યાં દર્શન છે. ત્યાં જ્ઞાન પણ હોઈ શકે છે અને અજ્ઞાન પણ હોઈ શકે છે તાત્પર્ય એ છે કે દર્શનની સાથે ન જ્ઞાનનો વિરોધ છે અને ન અજ્ઞાનનો વિરોધ છે અજ્ઞાનની સાથે પણ દર્શનોપયોગ રહે છે અને જ્ઞાનની સાથે પણ

દ્વીન્દ્રિય જીવોના સમાન ત્રીન્દ્રિય જીવોની પણ પ્રરૂપણા કરી લેવી જોઈએ અને ચતુરિન્દ્રિય જીવોની પણ. કિન્તુ ચતુરિન્દ્રિય જીવોની પ્રરૂપણામાં ચક્ષુદર્શન અધિક કહેવું જોઈએ. કેમકે તેમનામાં ચક્ષુદર્શન પણ મળી આવે છે ॥ ૯ ॥

मूलम्—जहण्णोगाहणगाणं भंते ! पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं
 केवइया पज्जवा पणत्ता ? गोयसा ! अणंता पज्जवा पणत्ता,
 से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ जहण्णोगाहणगाणं पंचिदिय-
 तिरिक्खजोणियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयसा ! जहण्णो
 गाहणए पंचिदियतिरिक्खजोणिए जहण्णोगाहणगस्स पंचि-
 दियतिरिक्खजोणियस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले पएसट्ठयाए तुल्ले
 ओगाहणट्ठयाए तुल्ले ठिईए तिट्ठाणवडिए वण्णगंधरसफास-
 पज्जवेहिं दोहिं नाणेहिं दोहिं अन्नाणेहिं दोहिं दंसणेहिं छट्ठा-
 णवडिए, उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव, णवरं तिहिं नाणेहि
 तिहिं अन्नाणेहिं छट्ठाणवडिए, जहा उक्कोसोगाहणए तथा अजह-
 ण्णमणुक्कोसोगाहणएवि, णवरं ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए,
 ठिईए चउट्ठाणवडिए । जहण्णठिइयाणं भंते ! पंचिदियतिरि-
 क्खजोणियाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ? गोयसा ! अणंता
 पज्जवा पणत्ता से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णठिइयाणं
 पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयसा !
 जहण्णठिइए पंचिदियतिरिक्खजोणिए जहण्णठिइयस्स पंचि-
 दियतिरिक्खजोणियस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले, पएसट्ठयाए तुल्ले,
 ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए, ठिईए तुल्ले, वण्णगंधरसफास-
 पज्जवेहिं दोहिं अण्णाणेहिं दोहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिए, उक्कोस-
 ठिइएवि एवं चेव, णवरं दो नाणा, दो अन्नाणा, दो दंसणा,
 अजहण्णमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव, नवरं ठिईए चउट्ठाणव-
 डिए तिण्णिणाणा, तिण्णि अन्नाणा, तिन्नि दंसणा, जहण्णणुण-
 कालगाणं भंते ! पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा, गोयसा !
 अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ जहण्णणुण-
 कालगाणं पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता,

गोयमा ! जहण्णगुणकालए पंचिदियतिरिक्खजोणिए जह-
 ण्णगुणकालगस्स पंचिदियतिरिक्खजोणियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले
 पएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाण-
 वडिए, कालवण्णयज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्णगंधरसफास-
 पज्जवेहिं तिहिं नाणेहि तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाण-
 वडिए, एवं उक्कोसगुणकालए वि, अजहण्णमनुक्कोसगुणकाल-
 एवि एवं चेव, नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए, एवं पंच वन्ना, दो
 गंधा, पंचरसा, अट्टाफासा, जहण्णाभिणिबोहियणाणीणं भंते !
 पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं केवइया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा !
 अणंता पज्जवा पण्णत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णा-
 भिणिबोहियणाणीणं पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं अणता पज्जवा
 पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णाभिणिबोहियणाणी पंचिदियतिरि-
 क्खजोणिए जहण्णाभिणिबोहियणाणस्स पंचिदियतिरिक्खजो-
 णियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्टयाए
 चउट्टाणवडिए ठिईए चउट्टाणवडिए वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं
 छट्टाणवडिए आभिणिबोहियणाणपज्जवेहिं तुल्ले, सुयनाणपज्जवेहिं,
 छट्टाणवडिए चक्खुदंसणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए, अचक्खुदंसण-
 पज्जवेहिं छट्टाणवडिए, एवं उक्कोसाभिणिबोहियणाणीवि, णवरं
 ठिईए तिट्टाणवडिए, तिन्नि नाणा, तिन्नि दंसणा सट्टाणे तुल्ले,
 सेसेसु छट्टाणवडिए, अजहण्णमणुक्कोसाभिणिबोहियणाणी
 जहा उक्कोसाभिणिबोहियणाणी, नवरं ठिईए चउट्टाणवडिए,
 सट्टाणे छट्टाणवडिए, एवं सुयनाणी वि । जहण्णोहिनाणीणं
 भंते ! पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता
 पज्जवा पण्णत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ जह-
 ण्णोहिनाणीणं पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं अणंता पज्जवा

पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णोहिनाणीपंचिंदियतिरिक्खजोणिए
जहण्णोहिनाणीस्स पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स दव्वट्टयाए
तुल्ले, एएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाण-
वडिए ठिईए तिट्ठाणवडिए, वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं
आभिणिवोहियनाणसुयनाणपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए, ओहिनाण-
पज्जवेहिं तुल्ले, अन्नाणा नत्थि, चक्खुदंसणपज्जवेहिं अन्न-
क्खुदंसणपज्जवेहिं य ओहिदंसणपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए, एवं
उक्कोसोहिनाणी वि, अजहण्णोक्कोसोहिनाणी वि एवं चेव,
णवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए, जहा आभिणिवोहियनाणी
तहा मइअन्नाणी सुयअन्नाणी य, जहा ओहिनाणी तहा विभंग-
नाणी वि, चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी य जहा आभिणिवोहि-
यनाणी, ओहिदंसणी जहा ओहिनाणी, जत्थ नाणा तत्थ
अन्नाणा नत्थि, जत्थ अन्नाणा तत्थ नाणा नत्थि, जत्थ दंसणा
तत्थ णाणा वि अण्णाणा वि अत्थित्ति भाणियव्वं ॥सू० १० ॥

छाया-जघन्यावगाहनकानां भदन्त ! पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां कियन्तः
पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ता पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त !
एवमुच्यते जघन्यावगाहनकानां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानाम् अनन्ताः पर्यवाः

पंचेन्द्रियतिर्यचो के पर्यायां की वक्तव्यता

शब्दार्थ-(जहण्णोगाहणगाणं भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं
केवइया पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले पंचेन्द्रिय
तिर्यचो के कितने पर्याय हैं ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पणत्ता) हे
गौतम ! अनन्त पर्याय है (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णो-
गाहणगाणं पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं अणता पज्जवा पणत्ता ?)

पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोना पर्यायोनी वक्तव्यता

शब्दार्थ-(जहण्णोगाहणगाणं भंते ! पंचेन्द्रियतिरिक्खजोणियाणं केवइया पज्जवा
पणत्ता ?) हे भगवन् ! जघन्य अवगाहनावाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोना केवइया पर्याय
छे ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे (से केणट्टेणं भंते !
एवं बुच्चइ-जहण्णोगाहणगाणं पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं अणता पज्जवा पणत्ता ?)
हे भगवन् ! शांकारेण्ये एते उहेवाय छे के पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोना अमन्त पर्याय छे

प्रज्ञप्ताः? गौतम ! जघन्यावगाहनकः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्गोनिको जघन्यावगाहन-
कस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यग्गोनिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः,
अवगाहनार्थतया तुल्यः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः,
द्वाभ्यां ज्ञानाभ्याम् द्वाभ्याम् अज्ञानाभ्याम्, द्वाभ्यां दर्शनाभ्यां षट्स्थानपतितः,
उत्कृष्टावगाहनकोऽपि एवञ्चैव, नवरा त्रिभिर्ज्ञानैः, त्रिभिः अज्ञानैः षट्स्थान-
पतितः, यथा उत्कृष्टावगाहनकस्तथा अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकोऽपि, नवरम्

हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि पंचेन्द्रिय तिर्यचों के अनन्त पर्याय है ? (गोयमा ! जहण्णोगाहणए पंचिदियतिरिक्खजो-
णिए जहण्णोगाहणयस्स पंचिदियतिरिक्खजोणियस्स) जघन्य अवगा-
हना वाला पंचेन्द्रिय तिर्यच जघन्य अवगाहना वाले पंचेन्द्रिय तिर्यच
से (द्व्यद्वयाए तुल्ले) द्रव्य से तुल्य है (एएसद्वयाए तुल्ले) प्रदेशों से
तुल्य है (ओगाहणद्वयाए तुल्ले) अवगाहना से तुल्य है (ठिईए तिदूा-
णवडिए) स्थिति से त्रिस्थानपतित है (वण्ण गंध रस फासपज्जवेहिं)
वर्ण, गंध, रस स्पर्श के पर्यायों से (दोहिं नाणेहिं) दो ज्ञानों से
(दोहिं अन्नाणेहिं) दो अज्ञानों से (दोहिं दंसणेहिं) दो दर्शनों से
(छट्टाणवडिए) षट्स्थानपतित है

(उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव) उत्कृष्ट अवगाहना वाला भी
इसी प्रकार (नवरं) विशेष (तिहिं नाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं
दंसणेहिं छट्टाणवडिए) तीन ज्ञानों से तीन अज्ञान तीन दर्शन से
से षट्स्थानपतित है

(गोयमा ! जहण्णागाहणए पंचिदियतिरिक्खजोणिए जहण्णोगाहणयस्स पंचिदियतिरिक्ख
जोणियस्स) जघन्य अवगाहनावाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्यच जघन्य अवगाहनावाणा
पञ्चेन्द्रिय तिर्यचथी (द्व्यद्वयाए तुल्ले) द्रव्यथी तुल्ये छे (एएसद्वयाए तुल्ले)
प्रदेशोथी तुल्ये छे (ओगाहणद्वयाए तुल्ले) अवगाहनाथी तुल्ये छे (ठिईए तिदूाण
वडिए) स्थितिथी त्रिस्थान पतित छे (वण्ण-गंध-रस, फास पज्जवेहिं) वरुं गंध
रस-स्पर्शना पथयोथी (दोहिं णाणेहिं) जे ज्ञानोथी (दोहिं अन्नाणेहिं) जे अज्ञा-
नोथी (दोहिं दंसणेहिं) जे दर्शनाथी (छट्टाण वडिए) षट्स्थान पतित छे

(उक्कोसोगाहणए वि एव चेव) उत्कृष्ट अवगाहनावाणा पणु जे प्रकारे (नवरं)
विशेष (तिहिं णाणेहिं, तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाण वडिए) तणु ज्ञानोथी
तणु अज्ञानोथी, तणु दर्शनाथी षट्स्थान पतित छे.

यैश्च षट्स्थानपतितो भवति, 'णवरं सद्वाणे छट्टाणवडिण्' नवरं-पूर्वोपेक्षया विशेषस्तु-सस्थाने-मध्यमगुण कालरुस्थाने षट्स्थानपतितो भवति, 'एवं चैव पंचवर्णा, दो गंधा, पत्र रसा, अट्टासा भाणियव्या' एवं-पूर्वोक्तरीत्या, पञ्चवर्णाः कृष्णादयः, द्वौ गन्धौ-सुरभ्यसुरभिरूपौ, पञ्चरसाः-अम्लादयः, अष्टौ-स्पर्शाः-शीतोष्णादयो भणितव्याः-वक्तव्याः, गौतमः पृच्छति-'जहण्णाभिणिवो-हियनाणीणं भंते ! वेइंदियाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?' हे भदन्त ! जघन्या-भिनिवोधि कज्ञानीनां द्वीन्द्रियाणां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पणत्ता' जघन्याभिनिवोधिकज्ञानीनां द्वीन्द्रियाणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति-'से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ' हे भदन्त ! तत्-अथ, केनार्येण कथं तावत् एवम्-उत्तरीत्या, उच्यते यत्-'जहण्णाभिणिवोहियनाणीणं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता' जघन्याभि-

शेष वर्णों गंधों, रसों और स्पर्शों से दो ज्ञानों से, दो अज्ञानों से तथा अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है । विशेषता यह है कि एक मध्यमगुण काला दूसरे मध्यमगुण काले द्वीन्द्रिय से काले वर्ण के पर्यायों से भी षट्स्थानपतित होता है, क्योंकि मध्यमगुण काला वर्ण अन्तरतम रूप से अनन्त प्रकार का होता है ।

इसी प्रकार पाँचों वर्णों, दोनों गंधों, पाँचों रसों और आठों स्पर्शों का कथन समझ लेना चाहिए

गौतम-हे भगवन् ! जघन्य आभिनिवोधिकज्ञानी द्वीन्द्रिय जीवों के कितने पर्याय हैं ?

भगवन्- हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ?

गौतम-हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

स्पर्शाधी, जे ज्ञानोधी, जे अज्ञानोधी तथा अचक्षुदर्शनना पर्यायोधी षट्स्थानपतित थाय छे विशेषता जे छे के जेके मध्य गुणु काणा भील मध्यम गुणु काणा द्वीन्द्रियधी काणा वर्णुना पर्यायोधी पणु षट्स्थानपतित थाय छे, केभके मध्यम गुणु काणा वर्णु अन्तरतम रूपधी अनन्त प्रकारना थाय छे

जे प्रकारे पाये वर्णु, भन्ने गंधो, पाये रसो अने आठ स्पर्शोतु कथन समझ लेवु जेधजे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् जघन्य आभिनिवोधिक ज्ञानी द्वीन्द्रिय जीवोना केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जेभ कडेवातु शुं कारण छे ?

निबोधिकज्ञानीनाम् द्वीन्द्रियाणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति,

भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णाभिणिवोहियणाणी वेइंदिए’ जघन्याभिनिबोधिकज्ञानी द्वीन्द्रियः ‘जहण्णाभिणिवोहियणाणिसस् वेइंदियस्स’ जघन्याभिनिबोधिकज्ञानिनो द्वीन्द्रियस्य ‘दच्चद्वयाए तुल्ले’ द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, ‘पएसद्वयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाहणद्वयाए चउट्टाण वडिए’ अवगाहनार्थतया चतुः स्थानपतितो भवति, ‘ठिईए तिट्ठाणवडिए’ स्थित्या त्रिस्थानपतितो भवति, ‘वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए’ वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, आभिणिवोहियणाणपज्जवेहिं तुल्ले’ आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैस्तुल्यो भवति, ‘सुयनापज्जवेहिंछट्ठाणवडिए’ श्रुतज्ञानपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, ‘अचक्खुदंसणपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए’ अचक्षुर्दर्शनपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, ‘एव उक्कोसाभिणिवोहियणाणीवि’ एवम्-एवम्-उत्तरीत्या-उत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानी अपि द्वीन्द्रियः उत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानिनो द्वीन्द्रियस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थ-

भगवान्—हे गौतम ! एक जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी दूसरे जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानी से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है, प्रदेशों की दृष्टि से भी तुल्य होता है, अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित होता है, स्थिति की दृष्टि से त्रिस्थानपतित होता है वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है आभिबोधिक ज्ञान के पर्यायों से तुल्य है, श्रुतज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है और अचक्षुर्दर्शन के पर्यायों से भी षट्स्थानपतित होता है ।

उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी की प्ररूपणा भी इसी प्रकार की समझ लेनी चाहिए । अर्थात् एक उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी

श्री भगवान्—हे गौतम ! एक जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी भी जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानीसे द्रव्य की दृष्टिसे तुल्य थाय छे, प्रदेशोनी दृष्टिसे पण तुल्य थाय छे, अवगाहनानी दृष्टिसे चतुःस्थान पतित थाय छे, स्थितिनी दृष्टिसे त्रिस्थान पतित थाय छे वर्ण, गंध, रस, अने स्पर्शोना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे, आभिनिबोधिकज्ञानना पर्यायोथी तुल्य छे, श्रुतज्ञानना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे, अने अचक्षुदर्शनना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे

उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानीनी प्ररूपणा पण अने प्रकारनी समझ लेवी नैधये, अर्थात् एक उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी भी उत्कृष्ट आभिनिबोधिक

तथा चतुः स्थानपतितः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्-स्थानपतितो भवति, आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैस्तुल्यः, श्रुतज्ञानपर्यवैः षट्स्थान-पतितः, अचक्षुर्दर्शनपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, 'अजहण्णमणुक्कोसाभिणिबोधि-यणाणीवि एवं चेव' अजघन्यानुत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानी अपि द्वीन्द्रियः एवञ्चैव-पूर्वोक्तवदेव जघन्याभिनिबोधिकज्ञानी द्वीन्द्रियवदेवेत्यर्थः, 'नवरं सहाणे छट्ठाणवडिण्' नवरं-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्वस्थाने षट्स्थानपतितो

दूसरे उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानी से द्रव्य और प्रदेशों की दृष्टि से तुल्य, अजगाहना से चतुःस्थानपतित, स्थिति से त्रिस्थानपतित, वर्णादि से षट्स्थानपतित, आभिनिबोधिकज्ञान के पर्यायों से तुल्य श्रुतज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित तथा अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है ।

मध्यम आभिनिबोधिकज्ञानी के विषय में इसी प्रकार कहना चाहिए अर्थात् जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी के समान ही उसकी प्ररूपणा समझ लेनी चाहिए । विशेषता इतनी ही है कि मध्यम आभिनिबोधिकज्ञानी स्वस्थान में भी षट्स्थापतित है, अर्थात् एक मध्यम आभिनिबोधिकज्ञानी दूसरे मध्यम आभिनिबोधिकज्ञानी से षट्स्थानपतित हीनाधिक होता है, क्योकि जैसे जघन्य और उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञान का एक-एक ही पर्याय है, वैसा मध्यम आभि-निबोधिकज्ञान का नहीं । उसके तो अनन्त हीनाधिक रूप पर्याय होते हैं । श्रुतज्ञान के पर्यायों से अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थान-पतित होता है ।

ज्ञानीथी द्रव्य अने प्रदेशोनी दृष्टिओ तुल्य, अजगाहनाथी चतुःस्थान पतित स्थितिथी त्रिस्थान पतित, वर्ण आदिथी षट्स्थान पतित, आलिनिबोधि-क ज्ञानना पर्यायोथी तुल्य, श्रुतज्ञानना पर्यायोथी षट्स्थान पतित तथा अचक्षु दर्शनना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे.

मध्यम आलिनिबोधिकज्ञानीना विषयथी ओण प्रकारे कहेणु लोभओ अर्थात् जघन्य आलिनिबोधिकज्ञानीनी समानण तेमनी प्रइपणुण समणु लेची लोभओ विशेषता ओटलीण छे डे मध्यम आलिनिबोधिकज्ञानी स्वस्थानमा पणु षट्स्थान पतित छे अर्थात् ओक मध्यम आलिनिबोधिकज्ञानी ओण मध्यम आलिनिबोधिकज्ञानीथी षट्स्थान पतित हीनाधिक थाय छे, डेभके नेवा जघन्य अने उत्कृष्ट आलिनिबोधिकज्ञानना ओक ओक ण पर्याय छे, ओवा मध्यम आलिनिबोधिकज्ञानना नथी. तेनातो अनन्त हीनाधिक इप पर्याय थाय छे. श्रुतज्ञाना पर्यायोथी अने अचक्षुदर्शनना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे.

भवति, 'एवं सुयनाणीवि' एवम्-उत्तरीत्या श्रुतज्ञानी अपि द्वीन्द्रियो बोध्यः, 'सुयअन्नाणीवि अचक्खुदंसणीमि' श्रुताज्ञानी अपि, अचक्षुर्दर्शनी अपि च द्वीन्द्रियो-
 स्वसेयः, किन्तु- 'णवर जत्थ णाणा तत्थ अन्नाणा नत्थि' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेष-
 स्तु यत्र ज्ञाने तत्र अज्ञाने नस्तः 'जत्थ अन्नाणा तत्थ णाणा नत्थि' यत्र अज्ञाने
 तत्र ज्ञाने न स्तः, किन्तु 'जत्थ दंसणं तत्थ णाणावि अन्नाणावि' यत्र दर्शनं तत्र
 ज्ञाने अपि, अज्ञाने अपि च भवतः प्रागुक्तयुक्तेः, एवं तेऽदियाणवि' एवं-तथैव
 द्वीन्द्रियाणामिव त्रीन्द्रियाणामपि बोध्यम्, 'चउग्गिदियाणवि एवं चेव' चतुरिन्द्रि-
 याणामपि एवञ्चैव-द्वीन्द्रियवदेव बोध्यम्, किन्तु 'णवरं चक्खुदंसणं अब्भहिंयं'
 नवरं-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु चतुरिन्द्रियाणा चक्षुर्दर्शनमभ्यधिकं वक्तव्यम् अन्यथा
 चतुरिन्द्रियत्वयोगासंभवात् इति तेषा चक्षुर्दर्शनालापकोपि वाच्यः ॥ सू. ९ ॥

इसी प्रकार श्रुतज्ञानी और श्रुताज्ञानी और अचक्षुदर्शनी द्वीन्द्रिय के विषय में समझना चाहिए । विशेष बात यह ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान नहीं और जहाँ अज्ञान है वहाँ ज्ञान नहीं । इसप्रकार एक ही जीव में एक साथ ज्ञान और अज्ञान नहीं रहते, किन्तु जहाँ दर्शन है वहाँ ज्ञान भी होसकते हैं और अज्ञान भी होकते हैं । तात्पर्य यह कि दर्शन के साथ न ज्ञान का विरोध है और न अज्ञान का विरोध है । अज्ञान के साथ भी दर्शनोपयोग रहता है और ज्ञान के साथभी ।

द्वीन्द्रिय जीवों के समान त्रीन्द्रिय जीवों की भी प्ररूपणा करलेनी चाहिए और चतुरिन्द्रिय जीवों की भी । किन्तु चतुरिन्द्रिय जीवों की प्ररूपणा में चक्षुदर्शन अधिक कहना चाहिए क्योंकि उनमें चक्षुदर्शन भी पाया जाता है ॥ ९ ॥

એજ પ્રકારે શ્રુતજ્ઞાની અને શ્રુતાજ્ઞાની અને અચક્ષુદર્શની દ્વીન્દ્રિયના વિષયમા પણ સમજાવેવું જોઈએ વિશેષ એ વાત ધ્યાનમા રાખવી જોઈએ કે જ્યાં જ્ઞાન હોય છે, ત્યાં અજ્ઞાન નથી હોતું, અને જ્યાં અજ્ઞાન છે ત્યાં જ્ઞાન નથી હોતું, એ રીતે એકજ જીવમા એક સાથે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન નથી રહેતા પણ જ્યાં દર્શન છે. ત્યાં જ્ઞાન પણ હોઈ શકે છે અને અજ્ઞાન પણ હોઈ શકે છે તાત્પર્ય એ છે કે દર્શનની સાથે ન જ્ઞાનનો વિરોધ છે અને ન અજ્ઞાનનો વિરોધ છે અજ્ઞાનની સાથે પણ દર્શનોપયોગ રહે છે અને જ્ઞાનની સાથે પણ

દ્વીન્દ્રિય જીવોના સમાન ત્રીન્દ્રિય જીવોની પણ પ્રરૂપણા કરી લેવી જોઈએ અને ચતુરિન્દ્રિય જીવોની પણ કિન્તુ ચતુરિન્દ્રિય જીવોની પ્રરૂપણામા ચક્ષુદર્શન અધિક કહેવું જોઈએ. કેમકે તેમનામા ચક્ષુદર્શન પણ મળી આવે છે ॥ ૯ ॥

मूलम्—जहण्णोगाहणगाणं भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं
केवइया पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता,
से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ जहण्णोगाहणगाणं पंचिंदिय-
तिरिक्खजोणियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णो
गाहणए पंचिंदियतिरिक्खजोणिए जहण्णोगाहणगस्स पंचि-
दियतिरिक्खजोणियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए तुल्ले
ओगाहणट्टयाए तुल्ले ठिईए तिट्ठाणवडिए वणगंधरसफास-
पज्जवेहिं दोहिं नाणेहिं दोहिं अन्नाणेहिं दोहिं दंसणेहिं छट्टा-
णवडिए, उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव, णवरं तिहिं नाणेहिं
तिहिं अन्नाणेहिं छट्टाणवडिए, जहा उक्कोसोगाहणए तथा अजह-
णमणुक्कोसोगाहणएवि, णवरं ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए,
ठिईए चउट्टाणवडिए । जहण्णठिइयाणं भंते ! पंचिंदियतिरि-
क्खजोणियाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अणंता
पज्जवा पणत्ता से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णठिइयाणं
पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा !
जहण्णठिइए पंचिंदियतिरिक्खजोणिए जहण्णठिइयस्स पंचि-
दियतिरिक्खजोणियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए तुल्ले,
ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए तुल्ले, वणगंधरसफास-
पज्जवेहिं दोहिं अण्णाणेहिं दोहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए, उक्कोस-
ठिइएवि एवं चेव, णवरं दो नाणा, दो अन्नाणा, दो दंसणा,
अजहण्णमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव, नवरं ठिईए चउट्टाणव-
डिए तिण्णिणाणा, तिण्णिण अन्नाणा, तिन्नि दंसणा, जहण्णणुण-
कालगाणं भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा, गोयमा !
अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ जहण्णणुण-
कालगाणं पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता,

गोयमा ! जहण्णगुणकालए पंचिदियतिरिक्खजोणिए जह-
 षण्णगुणकालगस्स पंचिदियतिरिक्खजोणियस्स दब्बट्टयाए तुल्ले
 पएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाण-
 वडिए, कालवण्णयज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्णगंधरसफास-
 पज्जवेहिं तिहिं नाणेहि तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाण-
 वडिए, एवं उक्कोसगुणकालए वि, अजहण्णमनुक्कोसगुणकाल-
 एवि एवं चेव, नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए, एवं पंच वन्ना, दो
 गंधा, पंचरसा, अट्टफासा, जहण्णाभिणिबोहियणाणीणं भंते !
 पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ? गोयमा !
 अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णा-
 भिणिबोहियणाणीणं पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं अणता पज्जवा
 पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णाभिणिबोहियणाणी पंचिदियतिरि-
 क्खजोणिए जहण्णाभिणिबोहियणाणिसस्स पंचिदियतिरिक्खजो-
 णियस्स दब्बट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्टयाए
 चउट्टाणवडिए ठिईए चउट्टाणवडिए वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं
 छट्टाणवडिए आभिणिबोहियणाणपज्जवेहिं तुल्ले, सुयनाणपज्जवेहिं,
 छट्टाणवडिए चक्खुदंसणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए, अक्खुदंसण-
 पज्जवेहिं छट्टाणवडिए, एवं उक्कोसाभिणिबोहियणाणीवि, नवरं
 ठिईए तिट्टाणवडिए, तिस्सि नाणा, तिस्सि दंसणा सट्टाणे तुल्ले,
 सेसेसु छट्टाणवडिए, अजहण्णमणुक्कोसाभिणिबोहियणाणी
 जहा उक्कोसाभिणिबोहियणाणी, नवरं ठिईए चउट्टाणवडिए,
 सट्टाणे छट्टाणवडिए, एवं सुयनाणी वि । जहण्णोहिनाणीणं
 भंते ! पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता
 पज्जवा पणत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ जह-
 षण्णोहिनाणीणं पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं अणंता पज्जवा

णत्ता ? गोयमा ! जहण्णोहिनाणीपंचिंदियतिरिक्खजोणिए
जहण्णोहिनाणीस्स पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स दव्वट्टयाए
तुल्ले, पएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाण-
वडिए ठिईए तिट्ठाणवडिए, वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं
आभिणिबोहियनाणसुयनाणपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए, ओहिनाण-
पज्जवेहिं तुल्ले, अन्नाणा नत्थि, चक्खुदंसणपज्जवेहिं अच-
क्खुदंसणपज्जवेहिं य ओहिदंसणपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए, एवं
उक्कोसोहिनाणी वि, अजहण्णोक्कोसोहिनाणी वि एवं चेव,
णवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए, जहा आभिणिबोहियनाणी
तहा मइअन्नाणी सुयअन्नाणी थ, जहा ओहिनाणी तहा विभंग-
नाणी वि, चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी य जहा आभिणिबोहि-
यनाणी, ओहिदंसणी जहा ओहिनाणी, जत्थ नाणा तत्थ
अन्नाणा नत्थि, जत्थ अन्नाणा तत्थ नाणा नत्थि, जत्थ दंसणा
तत्थ णाणा वि अण्णाणा वि अत्थित्ति भाणियव्वं ॥सू० १० ॥

छाया-जघन्यावगाहनकानां भदन्त ! पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां कियन्तः
पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ता पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त !
एवमुच्यते जघन्यावगाहनकानां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानाम् अनन्ताः पर्यवाः

पंचेन्द्रियतिर्यचो के पर्यायां की वक्तव्यता

शब्दार्थ-(जहण्णोगाहणगाणं भते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं
केवइया पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले पंचेन्द्रिय
तिर्यचो के कितने पर्याय हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे
गौतम ! अनन्त पर्याय है (से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ-जहण्णो-
गाहणगाणं पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?)

पञ्चेन्द्रिय तिर्य चोना पर्यायोनी वक्तव्यता

शब्दार्थ-(जहण्णोगाहणगाणं भते ! पंचे दियतिरिक्खजोणियाणं केवइया पज्जवा
पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! जघन्य अवगाहनावाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्य चोना केट्ठा पर्याय
छे ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अन तपर्यायो छे. (से केणट्ठेणं भते !
एवं वुच्चइ-जहण्णोगाहणगाणं पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?)
हे भगवन् ! शा ३१२वे ओपु ३डेवाय छे के पञ्चेन्द्रिय तिर्य चोना अमन्त पर्याय छे

प्रज्ञप्ताः? गौतम ! जघन्यावगाहनकः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिको जघन्यावगाहन-
कस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः,
अवगाहनार्थतया तुल्यः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवै,
द्वाभ्यां ज्ञानाभ्याम् द्वाभ्याम् अज्ञानाभ्याम्, द्वाभ्यां दर्शनाभ्यां षट्स्थानपतितः,
उत्कृष्टावगाहनकोऽपि एवञ्चैव, नवर त्रिभिर्ज्ञानैः, त्रिभिः अज्ञानैः षट्स्थान-
पतितः, यथा उत्कृष्टावगाहनकस्तथा अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकोऽपि, नवरम्

हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि पंचेन्द्रिय तिर्यचो
के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा ! जहण्णोगाहणए पंचिन्द्रियतिरिक्खजो-
णिए जहण्णोगाहणयस्स पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणियस्स) जघन्य अवगा-
हना वाला पंचेन्द्रिय तिर्यच जघन्य अवगाहना वाले पंचेन्द्रिय तिर्यच
से (दन्वट्टयाए तुल्ले) द्रव्य से तुल्य है (पएसट्टयाए, तुल्ले) प्रदेशो से
तुल्य है (ओगाहणट्टयाए तुल्ले) अवगाहना से तुल्य है (ठिईए तिट्ठाण
वडिए) स्थिति से त्रिस्थानपतित है (वण्ण गंध रस फास पज्जवेहिं)
वर्ण, गंध, रस स्पर्श के पर्यायों से (दोहिं नाणेहिं) दो ज्ञानो से
(दोहिं अन्नाणेहिं) दो अज्ञानो से (दोहिं दंसणेहिं) दो दर्शनो से
(छट्ठाणवडिए) षट्स्थानपतित है

(उक्कोसोगाहणए वि एव चैव) उत्कृष्ट अवगाहना वाला भी
इसी प्रकार (नवरं) विशेष (तिहिं नाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं
दंसणेहिं छट्ठाणवडिए) तीन ज्ञानो से तीन अज्ञान तीन दर्शन से
से षट्स्थानपतित है

(गोयमा ! जहण्णाग हणए पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिए जहण्णोगाहणयस्स पंचिन्द्रियतिरिक्ख
जोणियस्स) जघन्य अवगाहनावाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्यच जघन्य अवगाहनावाणा
पञ्चेन्द्रिय तिर्यचथी (दन्वट्टयाए तुल्ले) द्रव्यथी तुल्ये छे (पएसट्टयाए तुल्ले)
प्रदेशोथी तुल्ये छे (ओगाहणट्टयाए तुल्ले) अवगाहनाथी तुल्ये छे (ठिईए तिट्ठाण
वडिए) स्थितिथी त्रिस्थान पतिते छे (वण्ण-गंध-रस, फास पज्जवेहिं) वर्णुं गंध
रस-स्पर्शना पर्यायोथी (दोहिं णाणेहिं) ये ज्ञानोथी (दोहिं अन्नाणेहिं) ये अज्ञा-
नोथी (दोहिं दंसणेहिं) ये दर्शनीथी (छट्ठाण वडिए) षट्स्थान पतिते छे

(उक्कोसोगाहणए वि एव चैव) उत्कृष्ट अवगाहनावाणा पणु ये प्रकारे (नवरं)
विशेष (तिहिं णाणेहिं, तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्ठाण वडिए) त्रयु ज्ञानोथी
त्रयु अज्ञानोथी, त्रयु दर्शनीथी षट्स्थान पतिते छे.

अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, जघन्यस्थितिकानां भदन्त ! पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यस्थितिकानां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यस्थितिकः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिको जघन्यस्थितिकस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य द्रव्यार्थतया

(जहा उक्कोसोगाहणए तहा अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि) जैसा उत्कृष्ट अवगाहना वाला वैसा ही अजघन्य अनुत्कृष्ट अर्थात् मध्यम अवगाहना वाला भी (नवरं ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिए) विशेप यह कि अवगाहना से चतुस्थानपतित है (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित है

(जहण्णठिइयाणं भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोगियाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! जघन्य स्थितिक पंचेन्द्रिय तिर्यचो के कितने पर्याय हैं ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं (से केणदूठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—जहण्णठिइयाणं पंचिंदियतिरिक्खजोगियाणं अणता पज्जवा पणत्ता?) हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि जघन्य स्थितिक पंचेन्द्रिय तिर्यच के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा) है गौतम ! (जहण्णठिइए पंचिंदियतिरिक्खजोगिए जहण्णठिइयस्स पंचिंदियतिरिक्खजोगियस्स) जघन्य स्थितिक पंचेन्द्रिय तिर्यच जघन्यस्थितिक दूसरे तिर्यच पंचेन्द्रिय से

(जहा उक्कोसोगाहणए तहा अजहण्णामणुक्कोसोगाहणए वि) जेम उत्कृष्ट अवगाहनावाणा तेमज्ज जघन्य—अनुत्कृष्ट अर्थात् मध्यम अवगाहनावाणा पथु (नवर ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिए) विशेप जे छे के अवगाहनाधी यतुःस्थान पतित छे (ठिइए चउट्टाणवडिए) स्थितिधी यतु स्थान पतित छे

(जहण्णठिइयाणं भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोगियाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! जघन्य स्थितिक पंचेन्द्रिय तिर्यचोना केटला पर्याय छे ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे (से केणदूठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—जहण्णठिइयाणं पंचिंदियतिरिक्खजोगियाणं अणता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! शा कारणे जेम कडेवाय छे के जघन्य स्थितिक पंचेन्द्रिय तिर्यचोना अनन्त पर्याय छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णठिइए पंचिंदियतिरिक्खजोगिए जहण्णठिइयस्स पंचिंदियतिरिक्खजोगियस्स) जघन्य स्थितिक पंचेन्द्रिय तिर्यचो जघन्य स्थितिको जोगी तिर्यचो पंचेन्द्रियधी (द्ववदूठयाए तुत्ते) द्रव्यधी

तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुः स्थानपतितः स्थित्या तुल्यः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः द्वाभ्यामज्ञानाभ्यां द्वाभ्यां दर्शनाभ्यां षट्स्थानपतितः उत्कृष्टस्थितिकोऽपि एवञ्चैव, नवरं द्वे ज्ञाने, द्वे अज्ञाने, द्वे दर्शने, अजघन्यानुत्कृष्टस्थितिकोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्थित्या चतुः स्थानपतितः, त्रीणि ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि, त्रीणि दर्शनानि, जघन्यगुणकालकानां भदन्त ! पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाना पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त !

(दन्वद्वयाए तुल्ले) द्रव्य से तुल्य है (पएसद्वयाए तुल्ले) प्रदेशो से तुल्य हैं (ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित है (ठिईए तुल्ले) स्थिति से तुल्य है (वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायों से (दोहिं अण्णाणेहिं) दो अज्ञानो से (दोहिं दंसणेहिं) दो दर्शनो से (छट्टाणवडिए) षट्स्थानपतित है

(उक्कोसठिईए वि एवं चेव) उत्कृष्टस्थितिवाला भी ऐसा ही है (णवरं दो णाणा दो अण्णाणा) विशेषता यह है कि दो ज्ञान और दो अज्ञान (दो दंसणा) दो दर्शन भी कहना !

(अजहण्णमणुक्कोसठिईए वि एवं चेव) मध्यम स्थिति वाला भी इसी प्रकार (नवरं) विशेष यह कि (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित (तिण्णि णाणा) तीन ज्ञान (तिन्नि अण्णाणा) तीन अज्ञान (तिन्नि दंसणा) तीन दर्शन

(जहण्णगुणकालगाणं भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छा ?) जघन्यगुणकाले पंचेन्द्रिय तिर्यच के हे भगवन् ! कितने पर्याय हैं ?

तुल्य छे (पएसद्वयाए तुल्ले) प्रदेशेथी तुल्य छे (ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनाथी चतुःस्थान पतित छे (ठिईए तुल्ले) स्थितिथी तुल्य छे (वण्ण गंधरसफासपज्जवेहिं) वणु, गंध, रस स्पर्शना पर्यायेथी (दोहिं अण्णाणेहिं) ये अज्ञानेथी (दोहिं दंसणेहिं) ये दर्शनेथी (छट्टाणवडिए) षट्स्थान पतित छे (उक्कोसठिईए वि एवं चेव) उत्कृष्ट स्थितिवाला पणु अवाण (णवर दो णाणा दो अण्णाणा) विशेषता अे छे के ये ज्ञान ये अज्ञान (दो दंसणा) ये दर्शन पणु क्खी छे. (अजहण्णमणुक्कोस ठिईए वि एवं चेव) मध्यम स्थितिवाला पणु अेण प्रकारे (नवरं) विशेष अे छे के (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी चतुःस्थान पतित छे (तिण्णि णाणा) त्रणु ज्ञानो (तिन्नि अण्णाणा) त्रणु अज्ञान (तिन्नि दंसणा) त्रणु दर्शन

(जहण्णगुणकालगाणं भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छा ?) अथ क्खु गुणुवाणा पंचेन्द्रिय तिर्यचना हे भगवन् ! केट्ठा पर्याय छे ? (गोय मा

एवमुच्यते-जघन्यगुणकालकानां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानामनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यगुणकालकः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिको जघन्यगुणकालकस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, कृष्णवर्णपर्यवैस्तुल्यः, अवशेषैः वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः त्रिभिः ज्ञानैः, त्रिभिरज्ञानैः, त्रिभिर्दर्शनैः पटस्थानपतितः, एवमुत्कृष्टगुणकालकोऽपि, अजघन्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि

(गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णगुणकालगाणं पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) किस कारण हे भगवन् ! ऐसा कहा जाता है कि जघन्यगुणकाले पंचेन्द्रिय तिर्यच के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णगुणकालए पंचिंदियतिरिक्खजोणिए) जघन्यगुणकाला पंचेन्द्रिय तिर्यच (जहण्णगुणकालगस्स पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स) जघन्यगुणकाले पंचेन्द्रिय तिर्यच से (द्व्वट्टयाए तुल्ले) द्रव्य से तुल्य है (एएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशां से तुल्य है (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित है (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित है (कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले) काले वर्ण के पर्यायों से तुल्य है (अवसेसेहिं वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं) शेष, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायों से (तिहिं नाणेहिं) तीन ज्ञानों से (तिहिं अण्णाणेहिं) तीन अज्ञानों से (तिहिं दंसणेहिं) तीन दर्शनों से (छट्टाणवडिए) षट्स्थानपतित है (एवं उक्कोसगुणकालए वि) इसी

अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ जहण्णगुणकालगाणं पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवान् ! का कारण हे भगवन् ! ऐसा कहा जाता है कि जघन्यगुणकाले पंचेन्द्रिय तिर्यच के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णगुणकालए पंचिंदियतिरिक्खजोणिए) जघन्यगुणकाला पंचेन्द्रिय तिर्यच (जहण्णगुणकालगस्स पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स) जघन्यगुणकाले पंचेन्द्रिय तिर्यच से (द्व्वट्टयाए तुल्ले) द्रव्य से तुल्य है (एएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों से तुल्य है (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थान पतित है (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थान पतित है (कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले) काले वर्ण के पर्यायों से तुल्य है (अवसेसेहिं वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं) शेष, वर्ण, गंध, रस स्पर्श के पर्यायों से (तिहिं नाणेहिं) तीन अज्ञानों से (तिहिं अण्णाणेहिं) तीन अज्ञानों से (तिहिं दंसणेहिं) तीन दर्शनों से (छट्टाणवडिए) षट्स्थान पतित है (एवं उक्कोसगुणकालए वि) हे भगवन् ! उक्कोसगुणकालए वि) हे भगवन् ! उक्कोसगुणकालए वि) हे भगवन् ! उक्कोसगुणकालए वि) हे भगवन् ! उक्कोसगुणकालए वि)

एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने पटस्थानपतितः, एवं पञ्चवर्णाः, द्वौ गन्धौ, पञ्चरसाः, अष्टौ स्पर्शाः, जघन्याभिनिबोधिकज्ञानिनां भदन्त ! पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थं भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्याभिनिबोधिकज्ञानिनां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्याभिनिबोधिकज्ञानी पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिको जघन्याभिनिबोधिकज्ञानिनः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः,

प्रकार उत्कृष्टगुण काला भी (अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव) मध्यमगुण काला भी इसी प्रकार (नवरं) विशेष यह कि (सट्टाणे छट्टाणवडिए) स्वस्थान में भी पटस्थानपतित है (एवं पंचवण्णा) इसी प्रकार पांचों वर्ण (दो गंधा) दोनों गंध (पंच रसा) पांचों रस (अट्ट कासा) आठों स्पर्श

(जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं भन्ते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी पंचेन्द्रिय तिर्थचों के कितने पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भन्ते ! एव बुच्चइ जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं तिरिक्खजोणियाणं अणता पज्जवा पणत्ता ?) किस कारण से हे भगवन् ! ऐसा कहा है कि जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानी तिर्थचों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णाभिणिबोहियनाणी पंचिंदियतिरिक्खजोणिए जहण्णाभिणिबोहिय नाणिस्स पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स, हे गौतम ? जघन्य आभिनिबोधिक

काला पथु (अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव) मध्यम गुण काला पथु येण प्रकारे (नवरं) विशेष ये छे के (सट्टाणे छट्टाणवडिए) स्वस्थानमा पथु पटस्थान पतित छे (एवं पंच वण्णा) ये प्रकारे पाये वरुं (दो गवा) ये गंध (पंचरसा) पाथ रस (अट्टकासा) आठं स्पर्शा

(जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं भन्ते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी पंचेन्द्रिय तिर्थचोना केटला पर्याय कइया छे ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कइया छे (से केणट्ठेणं भन्ते ! एव बुच्चइ जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं तिरिक्खजोणियाणं अणता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् शा काले येमं कइया छे के जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानी तिर्थचोना अनन्त पर्याय कइया छे ? (गोयमा ! जहण्णाभिनिबोहियनाणी पंचिंदियतिरिक्खजोणिए जहण्णाभिणिबोहियणाणिस्स पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स) हे गौतम ! जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी पंचेन्द्रिय

प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुः स्थानपतितः, स्थित्या चतुः स्थान-
पतितः वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितः, आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैस्तुल्यः,
श्रुतज्ञानपर्यवैः षट्स्थानपतितः चक्षुर्दर्शन पर्यवैः षट्स्थानपतितः, अचक्षुर्दर्शन-
पर्यवैः षट्स्थानपतितः एवम् उत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानी अपि, नवरं स्थित्या
त्रिस्थानपतितः त्रीणि ज्ञानानि, त्रीणि दर्शनानि स्वस्थाने तुल्यः, शेषेषु षट्-

ज्ञानी पञ्चेन्द्रिय तिर्यच दूसरे जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानी पञ्चेन्द्रिय
तिर्यच से (दृक्चट्टयाए तुल्ले) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है (पएसट्टयाए
तुल्ले) प्रदेशों से तुल्य है (ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना
से चतुःस्थानपतित (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित
(वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के
पर्यायों से षट्स्थानपतित (आभिणिबोहियनाणपज्जवेहिं तुल्ले) आभि-
निबोधिक ज्ञान के पर्यायों से तुल्य (सुयनाणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए)
श्रुतज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित (चक्खुदंसणपज्जवेहिं छट्टाणव-
डिए) चक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित (अचक्खुदंसणपज्जवेहिं
छट्टाणवडिए) अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित

(एवं उक्कोसाभिणिबोहियनाणी वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट आभि-
निबोधिक ज्ञानी भी (नवरं) विशेष (ठिईए तिट्टाणवडिए) स्थिति से
त्रिस्थानपतित (तिन्नि नाणा) तीन ज्ञान (निण्णि दंसणा) तीन दर्शन
(सट्टाणे तुल्ले) स्वस्थान में तुल्य (सेसेसु छट्टाणवडिए) शेष में षट्-

धीन जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी पञ्चेन्द्रिय तिर्यचार्थी (दृक्चट्टयाए तुल्ले)
द्रव्यकी अपेक्षायें तुल्य छे (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशीयें तुल्य छे (ओगाहणद्वयाए
चउट्टाणवडिए) अवगाहनायें चतुःस्थान पतित छे (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी
चतुःस्थान पतित छे (वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) वर्ण, गंध,
रस, स्पर्शना पर्यायेंथी षट्स्थान पतित छे (आभिणिबोहियनाणपज्जवेहिं
तुल्ले) आभिनिबोधिक ज्ञानना पर्यायेंथी तुल्य छे (सुयनाणपज्जवेहिं छट्टाण
वडिए) श्रुतज्ञानना पर्यायेंथी षट्स्थान पतित छे (चक्खुदंसण पज्जवेहिं छट्टाण
वडिए) चक्षुदर्शनना पर्यायेंथी षट्स्थान पतित (अचक्खुदंसणपज्जवेहिं छट्टाण
वडिए) अचक्षुदर्शनना पर्यायेंथी षट्स्थान पतित

(एवं उक्कोसाभिणिबोहियनाणी वि) ऐसे प्रकारे उत्कृष्ट आभिनिबोधिक
ज्ञानी पञ्च (नवरं) विशेष (ठिईए तिट्टाणवडिए) स्थितिथी त्रयुः स्थान पतित
(तिन्नि नाणा) त्रयुः ज्ञान (तिन्नि दंसणा) त्रयुः दर्शन (सट्टाणे तुल्ले) स्वस्थानमां
तुल्य (सेसेसु छट्टाणवडिए) शेषमा षट्स्थान पतित (अजहण्णमणुक्कोसाभिणि-

स्थानपतितः, अजघन्यानुत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानी यथा उत्कृष्टाभिनिबोधिक-
ज्ञानी, नवरं स्थित्या चतुःस्थानपतितः, स्वस्थाने षट्स्थानपतितः, एवं श्रुतज्ञानी
अपि, जघन्यावधिज्ञानिनां भदन्त ! पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पृच्छा, गौतम !
अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यावधिज्ञानीनां
पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यावधिज्ञानी
पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिको जघन्यावधिज्ञानिनः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य द्रव्यार्थतया
स्थानपतितं (अजहण्णमणुक्कोसाभिनिबोहियणाणी जहा उक्कोसाभि-
निबोहियणाणी) मध्यम आभिनिबोधिक ज्ञानी उत्कृष्ट आभिनिबो-
धिक ज्ञानी के समान (नवरं) विशेष (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति
से चतुस्थानपतित (सट्टाणे छट्टाणवडिए) स्वस्थान में षट्स्थानपतित
(एवं सुयनाणी वि) इसी प्रकार श्रुतज्ञानी भी

(जहण्णोहिनाणीणं भंते ! पंचिदियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छां)
हे भगवन् ! जघन्य अवधिज्ञानी पंचेन्द्रिय तिर्यचो के कितने पर्याय
कहे हैं ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय
कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णोहिनाणीणं पंचिदियति-
रिक्खजोगियाणं अणता पज्जवा पणत्ता ?) किस कारण से हे भगवन् !
ऐसा कहा है कि जघन्य अवधिज्ञानी पंचेन्द्रिय तिर्यचो के अनन्त
पर्याय हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णोहिनाणी पंचिदियतिरिक्ख-
जोगिए जहण्णोहिनाणिसस पंचिदिय तिरिक्खजोगियस्स) जघन्य
अवधिज्ञानी पंचेन्द्रिय तिर्यच जघन्य अवधिज्ञानी पंचेन्द्रिय तिर्यच से

बोहियणाणी जहा उक्कोसाभिनिबोहियणाणी) मध्यम आभिनिबोधिकज्ञानी उत्कृष्ट
आभिनिबोधिक ज्ञानीना समान (नवर) विशेष (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थि-
तिथी चतु स्थान पतित छे (सट्टाणे छट्टाणवडिए) स्वस्थानमा षट्स्थान पतित
(एवं सुयनाणी वि) ये प्रकारे श्रुतज्ञानी पणु समञ्जसा.

(जहण्णोहिनाणीणं भंते ! पंचिदियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छां) हे भगवन् !
जघन्य अवधिज्ञानी पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोना केटला पर्याय कथा छे ? (गोयमा !
अणता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कथा छे (से केणट्टेणं भंते !
एवं बुच्चइ—जहण्णोहिनाणीणं पंचिदियतिरिक्खजोगियाणं अणता पज्जवा पणत्ता)
हे भगवन् शा कारणे येवु कथु छे के जघन्य अवधिज्ञानी पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोना
अनन्त पर्याय छे (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णोहिनाणी पंचिदिय तिरिक्ख-
जोगिए जहण्णोहिनाणिसस पंचिदियतिरिक्खजोगियस्स) जघन्य अवधिज्ञानी
पञ्चेन्द्रिय तिर्यच जघन्य अवधिज्ञानी पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो, (एवमुच्यते)

तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुः स्थानपतितः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः आभिनिबोधिकज्ञानश्रुतज्ञानपर्यवैः पट्-स्थानपतितः अवधिज्ञानपर्यवैस्तुल्यः, अज्ञानानि न सन्ति, चक्षुर्दर्शनपर्यवैः अचक्षुर्दर्शनपर्यवैश्च अवधिदर्शनपर्यवैः पट्स्थानपतितः, एवमुत्कृष्टावधिज्ञानी अपि, अजघन्यानुत्कृष्टावधिज्ञानी अपि एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने पट्स्थान-पतितः, यथा आभिनिबोधिकज्ञानी तथा मत्तज्ञानी, श्रुताज्ञानी च, यथा (दन्वदृष्ट्याए तुल्ले) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य (पएसदृष्ट्याए तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य (ओगाहणदृष्ट्याए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित (ठिईए तिट्टाणवडिए) स्थिति से त्रिस्थानपतित (वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायों से (आभिणिबोहियनाणसुयणाणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) मतिज्ञान श्रुतज्ञान के पर्यायों से पट्स्थानपतित (ओहिनाणपज्जवेहिं तुल्ले) अवधिज्ञान के पर्यायों से तुल्य (अन्नाणा नत्थि) अज्ञान उसमें नहीं होते। (चक्खुदंसणपज्जवेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिं य) चक्षुर्दर्शन के पर्यायों और अचक्षुर्दर्शन के पर्यायों से (ओहिदंसणपज्जवेहिं) अवधिदर्शन के पर्यायों से (छट्टाणवडिए) पट्स्थानपतित (एवं उक्कोसो हिनाणी वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट अवधिज्ञानी भी (अजहणमणुक्को-सोहिनाणी वि एवं चेव) मध्यम अवधिज्ञानी भी इसी प्रकार (णवरं) विशेष (सट्टाणे छट्टाणवडिए) स्वस्थान में पट्स्थानपतित है

(जहा अभिणिबोहियनाणी तहा मइ अण्णाणी सुय अण्णाणी)

द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य (पएसदृष्ट्याए तुल्ले) प्रदेशानी अपेक्षाये तुल्य (ओगाहणदृष्ट्याए चउट्टाण वडिए) अवगाहनाथी चतुःस्थान पतित (ठिईए तिट्टाण वडिए) स्थितिनी त्रिस्थान पतित (वण्ण गंध रस फास पज्जवेहिं) पणुं गंध-रस-स्पर्शना पर्यायेथी (आभिणिबोहियनाण सुयणाणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) मतिज्ञान, श्रुतज्ञानना पर्यायेथी पट्स्थान पतित (ओहिनाणपज्जवेहिं तुल्ले) अवधि ज्ञानना पर्यायेथी तुल्य (अन्नाणा नत्थि) अज्ञान तेने नथी होतु (चक्खुदंसण पज्जवेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिं य) चक्षुदर्शनना पर्याये अने अचक्षुदर्शनना पर्यायेथी (ओहिदंसणपज्जवेहिं) अवधिज्ञानना पर्यायेथी (छट्टाणवडिए) पट्स्थान पतित (एवं उक्कोसोहिनाणी वि) ऐ रीते उत्कृष्ट अवधिज्ञानी पणु (अहणमणुक्कोसोहिनाणी वि एवं चेव) मध्यम अवधिज्ञानी पणु ऐ प्रकारे (णवरं) विशेष (सट्टाणे छट्टाणवडिए) स्वस्थानभा पट्स्थान पतित छे

(जहा आभिणिबोहियनाणी तहा मइ अण्णाणी सुय अण्णाणी) ७२०

स्थानपतितः, अजघन्यानुत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानी यथा उत्कृष्टाभिनिबोधिक-
ज्ञानी, नवरं स्थित्या चतुःस्थानपतितः, स्वस्थाने षट्स्थानपतितः, एवं श्रुतज्ञानी
अपि, जघन्यावधिज्ञानिना भदन्त ! पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाना पृच्छा, गौतम !
अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यावधिज्ञानीनां
पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यावधिज्ञानी
पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिको जघन्यावधिज्ञानिनः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य द्रव्यार्थतया

स्थानपतित (अजहण्णमणुक्कोसाभिणिबोहियनाणी जहा उक्कोसाभि-
णिबोहियनाणी) मध्यम आभिनिबोधिक ज्ञानी उत्कृष्ट आभिनिबो-
धिक ज्ञानी के समान (नवरं) विशेष (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति
से चतुस्थानपतित (सट्टाणे छट्टाणवडिए) स्वस्थान में षट्स्थानपतित
(एवं सुयनाणी वि) इसी प्रकार श्रुतज्ञानी भी

(जहण्णोहिनाणीणं भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा)
हे भगवन् ! जघन्य अवधिज्ञानी पंचेन्द्रिय तिर्यचों के कितने पर्याय
कहे हैं ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय
कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णोहिनाणीणं पंचिंदियति-
रिक्खजोणियाणं अणता पज्जवा पणत्ता ?) किस कारण से हे भगवन् !
ऐसा कहा है कि जघन्य अवधिज्ञानी पंचेन्द्रिय तिर्यचों के अनन्त
पर्याय हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णोहिनाणी पंचिंदियतिरिक्ख-
जोणिए जहण्णोहिनाणिस्स पंचिंदिय तिरिक्खजोणियस्स) जघन्य
अवधिज्ञानी पंचेन्द्रिय तिर्यच जघन्य अवधिज्ञानी पंचेन्द्रिय तिर्यच से

बोहियनाणी जहा उक्कोसाभिणिबोहियनाणी) मध्यम आभिनिबोधिकज्ञानी उत्कृष्ट
आभिनिबोधिक ज्ञानीना समान (नवर) विशेष (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थि-
तिथी अतु स्थान पतित छे (सट्टाणे छट्टाणवडिए) स्वस्थानमा षट्स्थान पतित
(एवं सुयनाणी वि) अये प्रकारे श्रुतज्ञानी यत्थु समञ्जसा.

(जहण्णोहिनाणीणं भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा) हे भगवन् !
जघन्य अवधिज्ञानी पंचेन्द्रिय तिर्यचोना केटला पर्याय कहे छे ? (गोयमा !
अणता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे छे (से केणट्टेणं भंते !
एवं बुच्चइ—जहण्णोहिनाणीणं पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं अणता पज्जवा पणत्ता)
हे भगवन् सा कारण्णु अेषु कहु छे के जघन्य अवधिज्ञानी पंचेन्द्रिय तिर्यचोना
अनन्त पर्याय छे (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णोहिनाणी पंचिंदिय तिरिक्ख-
जोणिए जहण्णोहिनाणिस्स पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स) जघन्य अवधिज्ञानी
पंचेन्द्रिय तिर्यच जघन्य अवधिज्ञानी पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी (द्ववट्टयाए तुल्ले)

तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुः स्थानपतितः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः आभिनिबोधिकज्ञानश्रुतज्ञानपर्यवैः षट्-स्थानपतितः अवधिज्ञानपर्यवैस्तुल्यः, अज्ञानानि न सन्ति, चक्षुर्दर्शनपर्यवैः अचक्षुर्दर्शनपर्यवैश्च अवधिदर्शनपर्यवैः षट्स्थानपतितः, एवमुत्कृष्टावधिज्ञानी अपि, अजघन्यानुत्कृष्टावधिज्ञानी अपि एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने षट्स्थान-पतितः, यथा आभिनिबोधिकज्ञानी तथा मत्तज्ञानी, श्रुताज्ञानी च, यथा (दृक्त्वद्वयाए तुल्ले) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य (पपमद्वयाए तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य (ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिण) अवगाहना से चतुःस्थानपतित (ठिईए तिट्टाणवडिण) स्थिति से त्रिस्थानपतिन (चण्णगंधरसफासपज्जवेहिं) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायों से (आभिणिबोहियनाणसुयणाणपज्जवेहिं छट्टाणवडिण) मतिज्ञान श्रुतज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित (ओहिनाणपज्जवेहिं तुल्ले) अवधिज्ञान के पर्यायों से तुल्य (अन्नाणा नत्थि) अज्ञान उसमें नहीं होते। (चक्खुदंसणपज्जवेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिं य) चक्षुदर्शन के पर्यायों और अचक्षुदर्शन के पर्यायों से (ओहिदंसणपज्जवेहिं) अवधिदर्शन के पर्यायों से (छट्टाणवडिण) षट्स्थानपतित (एवं उक्कोसो हिनाणी वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट अवधिज्ञानी भी (अजहणमणुक्को-सोहिनाणी वि एवं चेव) मध्यम अवधिज्ञानी भी इसी प्रकार (णवरं) विशेष (सट्टाणे छट्टाणवडिण) स्वस्थान में षट्स्थानपतित है

(जहा अभिणिबोहियनाणी तहा मइ अण्णाणी सुय अण्णाणी)

द्रव्यकी अपेक्षासे तुल्य (पपसद्वयाए तुल्ले) प्रदेशोकी अपेक्षासे तुल्य (ओगाह णद्वयाए चउट्टाण वडिण) अवगाहनाथी चतुःस्थान पतित (ठिईए तिट्टाण वडिण) स्थितिनी त्रिस्थान पतित (वण्ण गध रस फास पज्जवेहिं) वर्ण गंध-रस-स्पर्शना पर्यायोथी (आभिणिबोहियनाण सुयणाणपज्जवेहिं छट्टाणवडिण) मतिज्ञान, श्रुतज्ञानना पर्यायोथी षट्स्थान पतित (ओहिनाणपज्जवेहिं तुल्ले) अवधि ज्ञानना पर्यायोथी तुल्य (अन्नाणा नत्थि) अज्ञान तेने नथी छे। तु (चक्खुदंसण पज्ज-वेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिं य) चक्षुदर्शनना पर्यायो अने अचक्षुदर्शनना पर्यायोथी (ओहिदंसणपज्जवेहिं) अवधिज्ञानना पर्यायोथी (छट्टाणवडिण) षट्स्थान पतित (एवं उक्कोसोहिनाणी वि) से रीते उत्कृष्ट अवधिज्ञानी पणु (अहणमणुक्कोसोहिनाणी वि एवं चेव) मध्यम अवधिज्ञानी पणु से प्रकारे (णवरं) विशेष (सट्टाणे छट्टाणवडिण) स्वस्थानमां षट्स्थान पतित छे

(जहा आभिणिबोहियनाणी तहा मइ अण्णाणी सुय अण्णाणी) ७६९

अवधिज्ञानी तथा विभङ्गज्ञानी अपि, चक्षुर्दर्शनी, अचक्षुर्दर्शनी च यथा आभि-
निबोधिकज्ञानी, अवधिदर्शनी, यथा अवधिज्ञानी, यत्र ज्ञानानि, तत्र अज्ञानि
न सन्ति, यत्र अज्ञानानि तत्र ज्ञानानि न सन्ति, यत्र दर्शनानि तत्र ज्ञानान्यपि
अज्ञानान्यपि सन्तीन्ति भणितव्यम् ॥

टीका-अथ जघन्याद्यवगाहनकानां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्गोनिकानां पर्यवान् प्ररू-
पयितुमाह-‘जहण्णोगाहणमाणं भंते ! पंविदियतिरिक्खजीणियाणं केवइया
पज्जवा पण्णत्ता ?’ गौतमः पृच्छति-हे भदन्त ! जघन्यावगाहनकानां-जघन्यम्

जैसी आभिनिबोधिकज्ञानी की वक्तव्यता वैसी ही मत्यज्ञानी
और श्रुताज्ञानी की (जहा ओहिनाणी तहा विभंगनाणी वि) जैसी
अवधिज्ञानी की वक्तव्यता वैसी ही विभंगज्ञानी की (चक्खुदंसणी
अचक्खुदंसणी जहा आभिणिबोहियनाणी) चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी
आभिनिबोधिकज्ञानी के समान (ओहिदंसणी जहा ओहिनाणी) अव-
धिदर्शनी अवधिज्ञानी के समान (जत्थ नाणा तत्थ अन्नाणा नत्थि)
जहां ज्ञान हैं वहाँ अज्ञान नहीं है (जत्थ अण्णाणा तत्थ णाणा नत्थि)
जहां अज्ञान हैं वहां ज्ञान नहीं है (जत्थ दंसणा तत्थ णाणा वि
अण्णाणा वि अत्थित्ति भाणियव्वं) जहां दर्शन हैं वहां ज्ञान भी
और अज्ञान भी होते हैं ऐसा कहना चाहिए ।

टीकार्थ-अब जघन्य अवगाहनावाले पंचेन्द्रिय तिर्यच जीवो के
पर्यायों की प्ररूपणा की जाती है-

गौतम प्रश्न करते हैं-हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले पंचेन्द्रिय

रीते आभिनिबोधिकज्ञानीनी वक्तव्यता तेवीञ् रीते मत्यज्ञानी अने श्रुताज्ञानीनी
(जहा ओहिनाणी तहा विभंगनाणी वि) जेवी अवधिज्ञानीनी वक्तव्यता तेवीञ्
विलग्नज्ञानीनी (चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी जहा आभिणिबोहियनाणी) चक्षु-
दर्शनी अने अचक्षुदर्शनी आभिनिबोधिकज्ञानीना समान (ओहिदंसणी जहा
ओहिनाणी) अवधिदर्शनी अवधिज्ञानीना समान (जत्थ णाणा तत्थ अन्नाणा नत्थि)
ज्या ज्ञान छे त्या अज्ञान नथी (जत्थ अण्णाणा तत्थ णाणा नत्थि) ज्या अज्ञान
छे त्या ज्ञान नथी (जत्थ दंसणा तत्थ णाणा वि अण्णाणा वि अत्थित्ति भाणियव्वं)
ज्या दर्शन छे त्या ज्ञान पण्णु छे अने अज्ञान पण्णु होय छे जेपु कडेपु जेधंजे.

टीकार्थ-हुवे जघन्य अवगाहनावाला पंचेन्द्रिय तिर्यच जेवना पर्या-
यीनी प्ररूपणा कराय छे-

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे-हे भगवन् ! जघन्य अवगाहनावाला पंचे-

अवगाहनं-शरीरोच्छयो येषां ने जघन्यावगाहनकास्तेषां, पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनि-
कानां क्रियन्तः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह-‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘अणंता
पज्जवा पण्णत्ता’ जघन्यावगाहनकानां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानाम् अनन्ताः
पर्यायाः प्रज्ञप्ताः, गौतमस्तत्र कारणं पृच्छति-‘से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चइ-जह-
ण्णोगाहणगाणं पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?’ हे
भदन्त ! तत्-अथ, केनार्थेन-कथं तावत् एवम्-उत्तरीत्या, उच्यते जघन्यावगा-
हनकानां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानाम् अनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान्
आह-‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहन्णोगाहणए पंचिदियतिरिक्खजोणिए’ जघ-
न्यावगाहनकः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकः ‘जहण्णोगाहणयस्स पंचिदियतिरिक्ख
जोणियस्स दव्यद्वयाए तुल्ले’ जघन्यावगाहनकस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य
द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, एकञ्च द्रव्यमनन्तपर्यायं भवतीति न्यायेन एकत्व-
संख्याविशिष्टो द्रव्यरूपपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकोपि जघन्यावगाहनकः अनन्तपर्यायो
भवतीति भावः, एवं ‘पएसद्वयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, तथा च
द्रव्यस्य सप्रदेशाप्रदेशभेदेन द्वैविध्यात् परमाणुरूपपुद्गलद्रव्यस्याप्रदेशत्वेऽपि
स्कन्धरूपपुद्गलद्रव्यस्य सप्रदेशत्वेन स्कन्धद्रव्यस्यानन्तपर्यायसंभवात्, ‘ओगा-

तिर्यच के कितने पर्याय हैं ?

भगवान् ने उत्तर दिया हे गौतम ! पञ्चेन्द्रिय तिर्यचों के अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम पुनः प्रश्न करते हैं-हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यचों के अनन्त पर्याय हैं ?

भगवन्-हे गौतम ! एक जघन्य अवगाहना वाला पञ्चेन्द्रिय तिर्यच दूसरे जघन्य अवगाहना वाले पञ्चेन्द्रिय तिर्यच से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, प्रदेशों की अपेक्षा भी तुल्य है क्योंकि दोनों के ही लोकाकाशप्रमाण असंख्यात-असंख्यात प्रदेश होते हैं, अवगाहना की अपेक्षा

न्द्रिय तिर्यचोना केट्ठा पर्यायि छे ?

श्री भगवाने उत्तर आधे-हे गौतम ! पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोना अनन्त पर्यायि छे.

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे-हे भगवन् ! ओषुं क्खेवात्तुं शु कारणु छे के पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोना अनन्त पर्यायि छे ?

श्री भगवान्-गौतम ! ओक जघन्य अवगाहनावाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्यच अणीन जघन्य अवगाहनावाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्यचथी द्रव्यनी अपेक्षाओ तुल्य छे, प्रदेशोनी अपेक्षाओ पणु तुल्य छे, केभके अन्नेना लोकाकाश प्रमाणु अस प्यात अस प्यात प्रदेश होय छे. अवगाहनानी अपेक्षाओ पणु तुल्य छे, केभके

हणद्वयाए तुल्ले' अवगाहनार्थतया शरीरोच्छ्रयरूपतया तुल्यो भवति उभयेषामपि जघन्यावगाहनकत्वात् किन्तु 'ठिईए तिट्टाणवडिए' स्थित्या-आयुः कर्मानुभव-लक्षणस्थित्यपेक्षया, त्रिस्थानपतितो भवति न तु चतुः स्थानपतितः, पञ्चेन्द्रिय-तिर्यग्योनिकस्य संख्येयवर्षायुष्कस्यैव जघन्यावगाहनकत्वेन असंख्येयवर्षायुष्कस्य जघन्यावगाहनकत्वाभावात् तत्र कारणन्तु असंख्येयवर्षायुष्काणाम् पञ्चेन्द्रियतिरिश्चां महाशरीरतया कङ्ककुक्षिपरिणामत्वेन पुष्टाहारत्वात् प्रबलधातूपचयाच्च तेषां प्रशू-तशुक्रनिषेकसद्भावः, शुक्रनिषेकानुसारेण च तिर्यग्मनुष्याणामुत्पत्ति समयेऽव-गाहना भवतीति न तेषां जघन्यावगाहना संभवति अपितु संख्येयवर्षायुष्काणा-मेव तदवगाहना, संख्येयवर्षायुषश्च स्थित्यपेक्षया त्रिस्थानपतितएव भवन्ति न चतुःस्थानपतिताः, तदभिलाषाश्च पूर्वोपदर्शितदिशाऽवसेयाः, 'वण्णगंधरसफास-पज्जवेहिं दोहिं नाणेहिं' वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः, द्वाभ्यां ज्ञानाभ्यां-मतिश्रुतल-क्षणाभ्याम् 'दोहिं अन्नाणेहिं, दोहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए' द्वाभ्यामज्ञानाभ्याम्-

भी तुल्य है क्योंकि दोनों ही जघन्य अवगाहना वाले हैं किन्तु स्थिति अर्थात् आयु संबंधी कालमर्यादा की अपेक्षा त्रिस्थानपतित होता है, चतुःस्थानपतित नहीं होता क्योंकि जघन्य अवगाहना वाला पंचेन्द्रिय तिर्यच संख्यात वर्षों की आयु वाला ही होता है, असंख्यात वर्षों की आयु वाले के जघन्य अवगाहना नहीं होती। इसी से यहां जघन्य अवगाहना वाले को स्थिति की अपेक्षा त्रिस्थानपतित कहा है। उन स्थानों का उच्चारण पहले के समान समझ लेना चाहिए अर्थात् असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन और असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक तथा संख्यातगुण अधिक। वह वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से, मति-श्रुत रूप दो ज्ञानों से, मत्यज्ञान और श्रुताज्ञान रूप दो अज्ञानों

अने जघन्य अवगाहनावाणा छे, पणु स्थिति अर्थात् आयुस अ धि काण मर्यादांनी अपेक्षाअे त्रिस्थान पतित थाय छे, अतु स्थान पतित नथी थतां, केभके जघन्य अवगाहनावाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्यच संख्यात वर्षोनी आयुष्यवाणा अ अने छे, असंख्यात वर्षोनी आयुवाणांनी जघन्य अवगाहना नथी थती. तेथीअ अडीं जघन्य अवगाहनावाणाने स्थितिनी अपेक्षाअे त्रिस्थान पतित क्ख्हा छे ते त्रिस्थानोना क्ख्ख्वाअे पड्डेलांनी जेभ समल देवा जेध अे, अर्थात् असंख्यात लागडीन, संख्यात लागडीन, संख्यात शुषुडीन अने असंख्यात लाग अधिक, संख्यात लाग अधिक तथा संख्यात शुषु अधिक. ते वल्लुं, गंध रस अने स्पर्शना पर्यायेथी, मति-श्रुत रूप दो ज्ञानोथी, मत्यज्ञान अने श्रुता

मत्स्यज्ञानश्रुताज्ञानाभ्याम्, द्वाभ्यां दर्शनाभ्यां-चक्षुरचक्षुर्दर्शनाभ्यां पटस्थान-
पतितो भवति, तथा च जघन्यावगाहनकस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य संख्येय-
वर्षायुष्कस्यापर्याप्तत्वेन अपर्याप्तस्यापि तस्याल्पकायानां मध्ये समुत्पद्यमानतया-
ऽवधिविभङ्गज्ञानासंभवात्, ज्ञानद्वयम्, अज्ञानद्वयञ्चोक्तम्, यद्यप्यग्रे विभङ्गज्ञान-
सहितस्य नरकादुद्भूत्य संख्येयवर्षायुष्काणां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां मध्ये
समुत्पद्यमानत्वं वक्ष्यते तथापि तस्य महाकायेषु समुत्पद्यमानपरकतया अल्पकाय-
स्य विषयाभावात् न तेन कोऽपि विरोधः समुद्भावनीयस्तथा स्वामाव्यात्,
प्रकृतपटस्थानपतितत्वाभिलाषास्तु वर्षादिभिः जघन्यावगाहनक पञ्चेन्द्रियति-
र्यग्योनिको जघन्यावगाहनकस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य अनन्तभागहीनो वा,
असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येय-
गुणहीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा भवति, एवमेव अनन्तभागाभ्यधिको वा,
असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको
वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवति, इत्येवं रीत्या-

से चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शन के पर्यायों से षट्स्थान होता है।
यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जघन्य अहना वाला
पञ्चेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्त होता है और अपर्याप्त होकर अल्पकाय
वाले जीवों में उत्पन्न होता है अतएव उसमें अवधिज्ञान या विभंग-
ज्ञान का संभव नहीं है, । इस कारण यहाँ दो ज्ञानों और दो अज्ञानों
का ही उल्लेख किया गया है। यद्यपि आगे कहे गे कि कोई जीव
विभंगज्ञानके साथ नरक से निकल कर संख्यात वर्षों की आयु वाले
पञ्चेन्द्रिय तिर्यचों में उत्पन्न होता है तथापि वह महाकाय वालों में
ही उत्पन्न हो सकता है, अल्पकाय वालों में नहीं, अतः कोई विरोध
नहीं समझना चाहिए। अवगाहना में षट्स्थानपतित होता नहीं है।

ज्ञान रूप मे अज्ञानोत्थी, अक्षुदर्शन अने अचक्षुदर्शनना पयथिथी षट्स्थान
पतित थाय छे

अहि आ वात ध्यानमा राभवी लोभये के जघन्य अवगाहनावाणा
पञ्चेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्त थाय छे अने अपर्याप्त यधने अल्प काय वाणा
लुपोमा उत्पन्न थाय छे, तेथीअ तेमा अवधिज्ञान अग्रर विलग ज्ञानना स लव
नथी, अे कारणे अहि मे ज्ञान अने मे अज्ञानोना न उदमेथ करायो छे,
यद्यपि आगण क्लेशे के कोथ लव विलगज्ञाननी साथे नरकमाथी निकणीने
सभ्यात वर्षोनी आयुभ्यवाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोमा उत्पन्न थाय छे. तो पणु
ते महाकायवाणामां न उत्पन्न यधं थके छे अल्पकायवाणामां नहि तेथी कोथ
विरोध समभवो न लोभये, अवगाहनावाणामां षट्स्थान पतित अनन्तानथी.

हणद्वयाए तुल्ये' अवगाहनार्थतया शरीरोच्छ्रयरूपतया तुल्यो भवति उभयेयामपि जघन्यावगाहनकत्वात् किन्तु 'ठिईए तिद्वाणवडिए' स्थित्या-आयुः कर्मानुभव-लक्षणस्थित्यपेक्षया, त्रिस्थानपतितो भवति न तु चतुःस्थानपतितः, पञ्चेन्द्रिय-तिर्यग्योनिकस्य संख्येयवर्षायुष्कस्यैव जघन्यावगाहनकत्वेन असंख्येयवर्षायुष्कस्य जघन्यावगाहनकत्वाभावात् तत्र कारणन्तु असंख्येयवर्षायुष्काणाम् पञ्चेन्द्रियतिरथां महाशरीरतया कङ्ककुक्षिपरिणामत्वेन पुष्टाहारत्वात् प्रबलधातूपचयाच्च तेषां प्रभू-तशुक्रनिषेकसद्भावः, शुक्रनिषेकानुसारेण च तिर्यग्मनुष्याणामुत्पत्ति समयेऽव-गाहना भवतीति न तेषां जघन्यावगाहना संभवति अपितु संख्येयवर्षायुष्काणा-मेव तदवगाहना, संख्येयवर्षायुषश्च स्थित्यपेक्षया त्रिस्थानपतितएव भवन्ति न चतुःस्थानपतिताः, तदभिलाषाश्च पूर्वोपदर्शितदिशाऽवसेयाः, 'वण्णगंधरसफास-पज्जवेहिं दोहिं नाणेहिं' वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः, द्वाभ्यां ज्ञानाभ्यां-मतिश्रुतल-क्षणाभ्याम् 'दोहिं अन्नाणेहिं, दोहिं दंसणेहिं छद्वाणवडिए' द्वाभ्यामज्ञानाभ्याम्-

भी तुल्य है क्यों कि दोनों ही जघन्य अवगाहना वाले हैं किन्तु स्थिति अर्थात् आयु संबंधी कालमर्यादा की अपेक्षा त्रिस्थानपतित होता है, चतुःस्थानपतित नहीं होता क्योंकि जघन्य अवगाहना वाला पंचेन्द्रिय तिर्यच संख्यात वर्षों की आयु वाला ही होता है, असंख्यात वर्षों की आयु वाले के जघन्य अवगाहना नहीं होती। इसी से यहां जघन्य अवगाहना वाले को स्थिति की अपेक्षा त्रिस्थानपतित कहा है। उन स्थानों का उच्चारण पहले के समान समझ लेना चाहिए अर्थात् असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन और असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक तथा संख्यातगुण अधिक। वह वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से, मति-श्रुत रूप दो ज्ञानों से, मत्यज्ञान और श्रुताज्ञान रूप दो अज्ञानों

अने जघन्य अवगाहनावाणा छे, पणु स्थिति अर्थात् आयुसमधि काण मर्यादांनी अपेक्षाअे त्रिस्थान पतित थाय छे, अतु स्थान पतित नथी थतां, केअके जघन्य अवगाहनावाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्य अ संख्यात वर्षोंनी आयुष्यवाणा अ अने छे, अस संख्यात वर्षोंनी आयुवाणांनी जघन्य अवगाहना नथी थती. तेथीअ अडो' जघन्य अवगाहनावाणाने स्थितिनी अपेक्षाअे त्रिस्थान पतित क्ख्या छे ते त्रिस्थानोना उच्चारणु पडेलानी अेम समलु लेवा अेध अे, अर्थात् अस अ्यात लागडीन, संख्यात लागडीन, संख्यात गुणुडीन अने अस अ्यात लाग अधिक, संख्यात लाग अधिक तथा संख्यात गुणु अधिक. ते वणु, गंध रस अने स्पर्शना पर्यायोथी, मति-श्रुत रूप अे ज्ञानोथी, मत्यज्ञान अने श्रुता

मत्यज्ञानश्रुताज्ञानाभ्याम्, द्वाभ्यां दर्शनाभ्यां-चक्षुरचक्षुर्दर्शनाभ्यां पटस्थान-पतितो भवति, तथा च जघन्यावगाहनकस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य संख्येय-वर्षाद्युष्णस्यापर्याप्तत्वेन अपर्याप्तस्यापि तस्याल्पकायानां मध्ये समुत्पद्यमानतया-ऽवधिविभङ्गज्ञानासंभवात्, ज्ञानद्वयम्, अज्ञानद्वयञ्चोक्तम्, यद्यप्यग्रे विभङ्गज्ञान-सहितस्य नरकादुद्घृत्य संख्येयवर्षाद्युष्णाणां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां मध्ये समुत्पद्यमानत्वं वक्ष्यते तथापि तस्य महाकायेषु समुत्पद्यमानपरकतया अल्पकाय-स्य विषयाभावात् न तेन कोऽपि विरोधः समुद्भावनीयस्तथा स्वाभाव्यात्, प्रकृतपटस्थानपतितत्वामिलापास्तु वर्णादिभिः जघन्यावगाहनकः पञ्चेन्द्रियति-र्यग्योनिको जघन्यावगाहनकस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य अनन्तभागहीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येय-गुणहीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा भवति, एवमेव अनन्तभागाभ्यधिको वा, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवति, इत्येवं रीत्या-

से चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शन के पर्यायों से पटस्थानपतित होता है। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जघन्य अवगाहना वाला पंचेन्द्रिय तिर्यक् अपर्याप्त होता है और अपर्याप्त होकर अल्पकाय वाले जीवों में उत्पन्न होता है अतएव उसमें अवधिज्ञान या विभंग-ज्ञान का संभव नहीं है, इस कारण यहाँ दो ज्ञानों और दो अज्ञानों का ही उल्लेख किया गया है। यद्यपि आगे कहेगे कि कोई जीव विभंगज्ञानके साथ नरक से निकल कर संख्यात वर्षों की आयु वाले पंचेन्द्रिय तिर्यकों में उत्पन्न होता है तथापि वह महाकाय वालों में ही उत्पन्न हो सकता है, अल्पकाय वालों में नहीं, अतः कोई विरोध नहीं समझना चाहिए। अवगाहना में पटस्थानपतित होता नहीं है।

ज्ञान इष मे अज्ञानोधी, अक्षुदर्शन अने अचक्षुदर्शनना पर्यायोधी पटस्थान पतित थाय छे.

अहि आ वात ध्यानमा राषवी जोधये के जघन्य अवगाहनावाणा पंचेन्द्रिय तिर्यक् अपर्याप्त थाय छे अने अपर्याप्त थधने अल्प काय वाणा एवमा उत्पन्न थाय छे, तेथीज तेमां अवधिज्ञान अगरे विलग ज्ञाननो स लव नथी, ये कारणे अहि मे ज्ञान अने मे अज्ञानोने ज उद्वेष कराये छे. यद्यपि आगण कडेशे के डोळ एव विल अज्ञाननी साथे नरकमाथी निकपीने स अथात वर्षांनी आयुष्यवाणा पंचेन्द्रिय तिर्यकामा उत्पन्न थाय छे. तो पक्षु ते महाकायवाणामा ज उत्पन्न थधं शके छे. अल्पकायवाणामां नहि तेथी डोळ विरोध समजये न जोधये, अवगाहनावाणामां पटस्थान पतित अनंता नथी.

ऽवसेयाः, 'उक्तोसोगाहण ए वि एवं चेव' उत्कृष्टावगाहनकोऽपि पञ्चेन्द्रियतिर्य-
ग्योनिकः उत्कृष्टावगाहनकस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यग् योनिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः,
प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया तुल्यः स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्ध-
रसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितः, किन्तु 'णवरंतिहिं नाणेहिं तिहिं अन्नाणेहिं
छद्वाणवडिए' नवरं-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु त्रिभिर्ज्ञानैः-मतिश्रुतावधिलक्षणैः,
त्रिभिरज्ञानैः-मत्यज्ञान श्रुताज्ञानविभङ्गज्ञानरूपाज्ञानैश्च षट्स्थानपतितो भवति,
तत्र त्रीणि अज्ञानानि तु एवं रीत्याऽवसेयानि-यस्य योजनसहस्रं शरीरावगाहना
भवति स उत्कृष्टावगाहनकः संख्येयवर्षायुष्कः एव भवति पर्याप्तश्च, तस्मात्
तस्य त्रीणि अज्ञानानि संभवन्ति, स्थित्यपेक्षयापि चासौ पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक
उत्कृष्टावगाहनकस्त्रिस्थानपतित एव भवति न तु चतुः स्थानपतितः, 'तस्य

षट्स्थान का विवेचन पहले आ चुका है अतः यहाँ आवश्यक नहीं
इसी प्रकार उत्कृष्ट अवगाहना वाले की वक्तव्यता भी समझलेनी
चाहिए, अर्थात् एक उत्कृष्ट अवगाहना वाले पंचेन्द्रिय तिर्यच दूसरे
उत्कृष्ट अवगाहना वाले पंचेन्द्रिय तिर्यच से द्रव्य की दृष्टि से प्रदेशा
की दृष्टि से तथा अवगाहना की दृष्टि से तुल्य होता है, स्थिति की
दृष्टि से त्रिस्थानपतित होता है, वर्ण रस, गंध और स्पर्श के पर्यायों
से षट्स्थानपतित होता है। विशेष यह है कि उसमें तीन ज्ञान या
तीन अज्ञानका संभव है अतएव तीन ज्ञानों और तीन अज्ञानों से षट्-
स्थानपतित होता है। उसमें तीन अज्ञान इस प्रकार जानने चाहिए
जिस पंचेन्द्रिय तिर्यच की अवगाहना एक हजार योजन की होती है,
वह उत्कृष्ट अवगाहनावाला कहा जाता है। वह संख्यात वर्ष का
आयु वाला और पर्याप्त ही होता है। अतएव उसमें तीन

षट्स्थानतु विवेचन पड़ेला आवी गयु छे, तेथी अहिं कडेवातु आवश्यक नहीं.

अे प्रकारे उत्कृष्ट अवगाहनावाणानी वक्तव्यता पयु समलु लेवी लोधअे
अर्थात् उत्कृष्ट अवगाहनावाणा पंचेन्द्रिय तिर्य अ थील उत्कृष्ट अवगाहना
वाणा पंचेन्द्रिय तिर्य अथी द्रव्यनी :दृष्टिथी प्रदेशेथी दृष्टिथी तथा अवगाहनानी
दृष्टिथी तुल्य थाय छे, स्थितिनी दृष्टिथी त्रिस्थान पतित थाय छे. वषुं गंध
रस स्पर्शना पर्यायेथी षट्स्थान पतित थाय छे विशेष अे छे के तेभा त्रयु
ज्ञान अगर त्रयु अज्ञाननो स लव छे, तेथील त्रयु ज्ञानो अने त्रयु अज्ञानेथी षट्-
स्थान पतित थाय छे तेभा त्रयु अज्ञान आ रीते ललुवा लोधअे ले पंचेन्द्रिय
तिर्यअेथी अवगाहना अेक हजार योजननी थाय छे, ते उत्कृष्ट अवगाहना
वाणा कडेवाय छे, ते स भ्यात वर्षनी आयुवाणा अने पर्याप्त लु डोय छे.

संख्येयवर्पायुष्कत्वात्,

‘जहा उक्रोसोगाहणए तद्वा अजहणमणुक्रोसोगाहणएवि’ यथा उत्कृष्टाव-
गाहनरुः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकः प्रतिपादितस्तथा अजघन्यानुत्कृष्टावगाहन
कोऽपि पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकः प्रतिपादयितव्यः, किन्तु-‘णवरं ओगाहणट्टयाए
च उट्टाणवडिए’ नररं-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु-अवगाहनार्थतया शरीरोच्छ्रयापेक्षया
चतुः स्थानपतितो भवति, तस्य अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनरुस्य पञ्चेन्द्रियतिर्य-
ग्योनिकस्यासंख्येयावगाहनाया अपि संभवात्, ‘ठिईए चउट्टाणवडिए’ स्थित्या-
आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया चतुः स्थानपतितो भवति, अजघन्यानु-
त्कृष्टावगाहनरुस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्यासंख्येयवर्पायुष्कस्यापि संभवेन
पूर्वोक्तदिशा चतुः स्थानपतितत्वं तस्य संभवतीति भावः, गौतमः । पृच्छति-
‘जहणठिइयाणं भंते ! पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं केवइया पज्जवा पज्जत्ता ?’
हे भदन्त ! जघन्यस्थितिकानां-जघन्या स्थितिः-आयुः कर्मानुभवलक्षणा येषां
ते जघन्यस्थितिकास्तेषां, पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ?

अज्ञानका संभव हैं ।

मध्यम अवगाहना वाले पंचेन्द्रिय तिर्यच की वक्तव्यता उत्कृष्ट
अवगाहना वाले के समान समझनी चाहिए, किन्तु विशेषता यह
है कि अवगाहना की दृष्टि से वह चतुःस्थानपतित होता है, क्योंकि
मध्यम अवगाहना अनेक प्रकार की होती है । उसमें संख्यात-असं-
ख्यातगुण हीनाधिकित हो सकती है । स्थिति की अपेक्षा से वह
चतुःस्थानपतित भी है, क्योंकि मध्यम अवगाहनावाला असंख्यात
वर्ष की आयु वाला भी हो सकता है ।

गौतम-हे भगवन् ! जघन्य स्थिति वाले पंचेन्द्रिय तिर्यचो के
कितने पर्याय हैं ?

तेशीए तेमा ऋणु अज्ञाननेो स लव छे,

मध्यम अवगाहनावाणा, पञ्चेन्द्रिय तिर्यचनी वक्तव्यता उत्कृष्ट अवगा-
हनावाणानी समान समझनी लेथये किन्तु विशेषता ये छे के अवगाहनानी
दृष्टिसे ते चतुःस्थान पतित थाथ छे, केभके मध्यम अवगाहना अनेक प्रकारनी
होथ छे तेमा स ख्यात-अस ख्यात गुणहीनाधिक थथ शके छे स्थितिनी अपे-
क्षासे ते चतुःस्थान पतित पणु थथ लथ छे, केभके मध्यम अवगाहनावाणा
अस ख्यात वर्षनी आयुवाणा पणु थथ शके छे

श्री गौतम -हे भगवन् ! जघन्य स्थितिवाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्यचाना केदसा
पर्याय छे ?

भगवान् आह—‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ जघन्यस्थितिक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानाम् अनन्ताः पर्यवा प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णठिइयाणं पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्येन—कथं तावत्, एवम्—उत्तरोत्या, उच्यते यत् जघन्यस्थितिकानां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ता ? इति, भगवान्—आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णठिइए पंचिंदियतिरिक्खजोणिए’ जघन्यस्थितिकः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिको ‘जहण्णठिइयस्स पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स दब्बट्टयाए तुल्ले’ जघन्यस्थितिकस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, ‘पएसट्टयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए’ अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितो भवति, जघन्यस्थितिक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्यासंख्येयावगाहनाया अपि संभवेन उक्त चतुःस्थानपतितत्वं संभवति, ‘ठिइए तुल्ले’ स्थित्या—आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया जघन्यस्थितिक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिको जघन्यस्थितिक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य तुल्यो भवति, ‘वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं’ वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः, ‘दोहिं अन्नाणेहिं’ द्वाभ्याम् अज्ञानाभ्याम् ‘दोहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए’ द्वाभ्यां दर्शनाभ्यां षट्स्थानपतितो भवति, तथा च जघन्यस्थितिकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिके

भगवन्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य स्थितिक पंचेन्द्रिय तिर्यच दूसरे जघन्य स्थितिक पंचेन्द्रिय तिर्यच से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य, प्रदेशों की दृष्टि से भी तुल्य किंतु अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित होता है । स्थिति की दृष्टि से तुल्य है । वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से दो अज्ञानों से, तथा दो दर्शनों की अपेक्षा से षट्स्थानपतित होता है । ध्यान रखना चाहिए कि जघन्य स्थिति

श्री भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! येम कडेवातु शु कारणु छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! जघन्य स्थितिक पञ्चेन्द्रिय तिर्यच योनि जघन्य स्थितिक पञ्चेन्द्रिय तिर्यचयी द्रव्यनी दृष्टिअये तुल्य छे, प्रदेशोनी दृष्टिअये पणु तुल्य छे, पणु अवगाहनानी दृष्टिअये चतुःस्थान पतित थाय छे स्थितिनी दृष्टिअये तुल्य छे वर्णु, गंध, रस अने स्पर्शना पर्यायोथी, जे अज्ञानथी तथा जे दर्शनीनी अपेक्षाअये षट्स्थान पतित थाय छे. ध्यान राखतु जेधअये हे जघन्य स्थितिवाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्यचमा जे अज्ञान कडेवा छे,

अज्ञानद्वयमेवोक्तम् न तु ज्ञानद्वयम्, जघन्यस्थितिकस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य लब्ध्य पर्याप्तकस्यैव संभवेन तन्मध्ये सासादनसम्यग्दृष्टेरुत्पादासंभवात् तत्र ये अपर्याप्तका एव सन्तो म्रियन्ते न पुनः स्वयोग्य पर्याप्तीः सर्वाः प्राप्नुवन्ति ते लब्ध्यपर्याप्तका उच्यन्ते, ये च पुनः करणानि शरीरेन्द्रियाणि न तावन्निर्वर्तयन्ति अपि तु अवश्यं निर्वर्तयिष्यन्ति ते करणापर्याप्तका उच्यन्ते, तत्रैव सासादन-सम्यक्त्वं संभवति न तु लब्ध्यपर्याप्तकेषु इति भावः। 'उक्तोसटिइए वि एवं चेव' उत्कृष्ट स्थितिकोऽपि पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकः एवञ्चैत्र-जघन्यस्थितिक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकवदेव बोध्यः, किन्तु- 'णवरं दो नाणा, दो अन्नाणा, दो दंसणा'

वाले पंचेन्द्रिय तिर्यच में दो अज्ञान ही कहे गए हैं, उसमें दो ज्ञान नहीं होते, क्योंकि जघन्य स्थिति वाला पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्ध्यपर्याप्तक ही होता है और लब्ध्यपर्याप्तकों में सासादनसम्यग्दृष्टि की उत्पत्ति होती नहीं। जो जीव अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं और अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाते वे लब्ध्यपर्याप्तक कहलाते हैं। जिनकी अपने योग्य पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई हैं किन्तु अन्तर्मुहूर्त में ही पूरी होने वाली हों, उन्हें करणापर्याप्तक कहते हैं। सासादन सम्यक्त्व करणापर्याप्तन जीवों में हो सकता है लब्ध्यपर्याप्तकों में नहीं।

उत्कृष्ट स्थिति वाले पंचेन्द्रिय तिर्यच का कथन जघन्य स्थितिवाले के समान ही समझना चाहिए, मगर विशेष यह है कि उनमें दो ज्ञान, दो अज्ञान और दो दर्शन कहने चाहिए। उत्कृष्ट स्थिति वाले पंचेन्द्रिय तिर्यच तीन पत्योपम की स्थिति वाले होते हैं अतः उनमें नि से

तेमा जे ज्ञान नथी डोता डेभके जघन्य स्थितिवाणा पञ्चेन्द्रियतिर्यच लब्ध्यपर्याप्तक डोथ छे अने लब्ध्यपर्याप्तकेमा सासादन सम्यग्दृष्टिनी उत्पत्ति थती नथी. जे लुव अपर्याप्त अवस्थाभा ज मरी जथ छे अने पोताना योग्य पर्याप्तियेने पूर्ण नथी करता ते लब्ध्यपर्याप्तक कडेवाथ छे. जेजोनी पोताने योग्य पर्याप्तियो पुरी नथी थछ पल्ल अन्तर्मुहूर्तभाज पुरी थनारी डोथ तेभने करणापर्याप्त कडे छे. सासादन सम्यक्त्व करणापर्याप्तक लुवेमां डोछ शके छे, लब्ध्यपर्याप्तकेमा नही.

उत्कृष्ट स्थितिवाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोनु कथन जघन्य स्थितिवाणाना समानज समज्जु जेछे जे उत्कृष्ट स्थितिवाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्यच त्रल्ल पत्योपमनी स्थितिवाणा थथ छे, तेथी तेजोभा नियमथी जे ज्ञान जे अज्ञान जे

भगवान् आह—'गोयमा' हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पण्णात्ता' जघन्यस्थितिक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानाम् अनन्ताः पर्यवा प्रज्जसाः, गौतमः पृच्छति—'से केणट्ठेण भंते ! एवं बुचह—जहण्णाठिउयाणं पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणियाणं अणंता पज्जवा पण्णात्ता ?' हे भदन्त ! तन्—अथ, केनार्थेन—कथं तावत्, एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते यत् जघन्यस्थितिकाना पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्जसा ? इति, भगवान्—आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहण्णाठिउए पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिए' जघन्यस्थितिकः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिको 'जहण्णाठिउयस्स पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणियस्स ट्ठपट्ठयाए तुल्ले' जघन्यस्थितिकस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, 'पप्पसट्ठयाए तुल्ले' प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, 'ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवट्ठिए' भ्रवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितो भवति, जघन्यस्थितिक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्यसंख्येयावगाहनाया अपि संभवेन उक्त चतुःस्थानपतितत्वं संभवति, 'ठिउए तुल्ले' स्थित्या—आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया जघन्यस्थितिक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिको जघन्यस्थितिक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य तुल्यो भवति, 'वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं' वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः, 'दोहिं अन्नाणेहिं' द्वाभ्याम् अज्ञानाभ्याम् 'दोहिं दंसणेहिं छट्ठाणवट्ठिए' द्वाभ्यां दर्शनाभ्यां षट्स्थानपतितो भवति, तथा च जघन्यस्थितिकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिके

भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम—हे भगवान् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य स्थितिक पंचेन्द्रिय तिर्यच दूसरे जघन्य स्थितिक पंचेन्द्रिय तिर्यच से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य, प्रदेशों की की दृष्टि से भी तुल्य किंतु अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित होता हैं । स्थिति की दृष्टि से तुल्य है । वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से दो अज्ञानों से, तथा दो दर्शनों की अपेक्षा से षट्स्थानपतित होता है । ध्यान रखना चाहिए कि जघन्य स्थिति

श्री भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे.

श्री गौतमस्वाभी.—हे भगवान् ! जेभ कडेवावु शु कारणु छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! जघन्य स्थितिक पञ्चेन्द्रिय तिर्यच जीना जघन्य स्थितिक पञ्चेन्द्रिय तिर्यचथी द्रव्यनी दृष्टिअे तुल्य छे, प्रदेशीनी दृष्टिअे पणु तुल्य छे, पणु अवगाहनानी दृष्टिअे चतुःस्थान पतित थाय छे स्थितिनी दृष्टिअे तुल्य छे. पणु, गंध, रस अने स्पर्शना पर्यायेथी, जे अज्ञानथी तथा जे दर्शनीनी अपेक्षाअे षट्स्थान पतित थाय छे. ध्यान राखवु जेठअे हे जघन्य स्थितिवाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्यचभा जे अज्ञान कडेला छे,

अज्ञानद्वयमेवोक्तम् न तु ज्ञानद्वयम्, जघन्यस्थितिकस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य लब्ध्य पर्याप्तकस्यैव संभवेन तन्मध्ये सासादनसम्यग्दृष्टेरुत्पादासंभवात् तत्र ये अपर्याप्तका एव सन्तो म्रियन्ते न पुनः स्वयोग्य पर्याप्तीः सर्वाः प्राप्नुवन्ति ते लब्ध्यपर्याप्तका उच्यन्ते, ये च पुनः करणानि शरीरेन्द्रियाणि न तावन्निर्वर्तयन्ति अपि तु अवश्यं निर्वर्तयिष्यन्ति ते करणापर्याप्तका उच्यन्ते, तत्रैव सासादन-सम्यक्त्वं संभवति न तु लब्ध्यपर्याप्तकेषु इति भावः। 'उक्त्रोसठिडिए वि एवं चेव' उत्कृष्ट स्थितिकोऽपि पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकः एवञ्चैव-जघन्यस्थितिक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकवदेव बोध्यः, किन्तु- 'णवरं दो नाणा, दो अन्नाणा, दो दंसणा'

वाले पंचेन्द्रिय तिर्यच में दो अज्ञान ही कहे गए हैं, उसमें दो ज्ञान नहीं होते, क्योंकि जघन्य स्थिति वाला पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्ध्यपर्याप्तक ही होता है और लब्ध्यपर्याप्तकों में सासादनसम्यग्दृष्टि की उत्पत्ति होती नहीं। जो जीव अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं और अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाते वे लब्ध्यपर्याप्तक कहलाते हैं। जिनकी अपने योग्य पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई हैं किन्तु अन्तर्मुहूर्त में ही पूरी होने वाली हों, उन्हें करणापर्याप्तक कहते हैं। सासादन सम्यक्त्व करणापर्याप्तन जीवों में हो सकता है लब्ध्यपर्याप्तकों में नहीं।

उत्कृष्ट स्थिति वाले पंचेन्द्रिय तिर्यच का कथन जघन्य स्थितिवाले के समान ही समझना चाहिए, मगर विशेष यह है कि उनमें दो ज्ञान, दो अज्ञान और दो दर्शन कहने चाहिए। उत्कृष्ट स्थिति वाले पंचेन्द्रिय तिर्यच तीन पत्योपम की स्थिति वाले होते हैं अतः उनमें नि से

तेमा जे ज्ञान नथी होता डेमके जघन्य स्थितिवाणा पञ्चेन्द्रियतिर्यच लब्ध्यपर्याप्तक होय छे अने लब्ध्यपर्याप्तकोमा सासादन सम्यग्दृष्टिनी उत्पत्ति थती नथी. जे एव अपर्याप्त अपस्थाभा ज मरी जय छे अने पोताना योग्य पर्याप्तियोने पूर्ण नथी करता ते लब्ध्यपर्याप्तक कहेवाय छे. जेओनी पोताने योग्य पर्याप्तियो पुरी नथी थछ पण अन्तर्मुहूर्तभाज पुरी थनारी होय तेमने करणापर्याप्त कहे छे. सासादन सम्यक्त्व करणापर्याप्तक एवोमा होछ शके छे, लब्ध्यपर्याप्तकोमा नही.

उत्कृष्ट स्थितिवाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोनु कथन जघन्य स्थितिवाणाना समानज समजपु जोछ ओ. उत्कृष्ट स्थितिवाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्यच त्रण पत्योपमनी स्थितिवाणा थय छे, तेथी तेओमा नियमथी जे ज्ञान जे अज्ञान ज

नवरं-पूर्वापेक्षया विशेषन्तु द्वे ज्ञाने-मति श्रुतलक्षणे, द्वे अज्ञाने-मत्यज्ञान श्रुताज्ञानरूपे, द्वे दर्शने च मत्तः, उन्मृष्टस्थितिकस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य पत्योपमस्थितिकत्वेन नियमतोऽज्ञानद्वयं भाति, यदा तु पण्मायावशेषायुक्तौ वैमानिकेण वद्भाग्युक्तौ भवति तदा तस्य ज्ञानद्वयं भवति इत्यभिप्रायेणैत्र 'द्वे ज्ञाने द्वे अज्ञाने' इत्युक्तम्

'अजगणमणुषीसटिडग रि एत्रं चैव' अजगन्यानुन्मृष्टस्थितिकोऽपि पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकः एवञ्चैत्र-पूर्वप्रवेगामभेगः, किन्तु 'णत्रं टिडग चउट्टाणवडिए' स्थित्या-आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, अजगन्यानुन्मृष्टस्थितिकस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य संख्येयत्रपांयुक्तस्य असंख्येयत्रपांयुक्तस्यापि च समयोनत्रिपत्योपमस्थितिकस्य संभवे चतुःस्थानपति तत्त्वं संभवति, 'विप्रि णाणा तिन्नि डंमणा' त्रीणि ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि, दो ज्ञान दो अज्ञान ही होते हैं। जो ज्ञान वाले होते हैं वे वैमानिक की आयु वांधते हैं अतः उनमें दो ज्ञान होते हैं इस अभिप्राय से उनमें दो ज्ञान और दो अज्ञान कहे हैं,

मध्यम स्थितिवाले पंचेन्द्रिय तिर्यच की वक्तव्यता भी इसी प्रकार समझनी चाहिए मगर विशेष-यह है कि स्थिति की अपेक्षा वह चतुःस्थापतित होता है। मध्यम स्थिति वाला तिर्यच पंचेन्द्रिय संख्यात वर्ष की आयु वाला भी हो सकता है और असंख्यात वर्ष की आयु वाला भी होसकता है, क्योंकि एक समय कम तीन पत्योपम की आयु वाला भी मध्यमस्थितिक ही कहलाता है। इस कारण वह चतुःस्थापतित कहा गया है। उसमें तीन ज्ञान, तीन अज्ञान और तीन दर्शन कहना चाहिए।

डोय छे जे ज्ञानवाणा डोय छे, तेज्यो वैमानिकनी जे आयु णाधे छे. तेथी तेमनामा जे ज्ञान डोय छे. जे अलिप्रायथी तेज्योमा जे ज्ञान अने जे अज्ञान क्ख्या छे.

मध्यम स्थितिवाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्यचनी वक्तव्यता पणु जेज्ज प्रकारे समझनी जेधजे पणु विशेष जे छे के स्थितिनी अपेक्षाजे ते अतु स्थान पतित णने छे मध्यम स्थितिवाणा तिर्यच पञ्चेन्द्रिय संख्यात वर्षनी आयुधवाणा पणु थध शके छे अने असंख्यात वर्षनी आयुधवाणा पणु थध शके छे, केभके जोक समय जोधा तणु पत्योपमनी आयुवाणा पणु मध्यम स्थितिक जे कडेवाय छे जे कारणे ते अतु स्थान पतित कडेवा छे. तेमा तणु ज्ञान तणु अज्ञान अने तणु दर्शन कडेवा जेधजे,

त्रीणि दर्शनानि भवन्ति, गौतमः पृच्छति 'जहण्णगुणकालमाणं भंते ! पंचि-
दियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छा' हे भदन्त ! जघन्यगुणकालकानां पञ्चेन्द्रियतिर्य-
ग्योनिकानां कियन्तः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह—'गोयमा !'
हे गौतम ! 'अणंता पज्जावा पण्णत्ता' जघन्यगुणकालकानां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनि-
कानामनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—'से केणट्ठेण भंते ! एवं बुच्चइ-
जहण्णगुणकालमाणं पंचिदियतिरिक्खजोगियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?' हे
भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन—कथं तावत् एनम् उक्त्तरीत्या, उच्यते यत्—जघन्य-
गुणकालकानां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानाम् अनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ? इति,
भगवान् आह—'गोयमा' हे गौतम ! 'जहण्णगुणकालए पंचिदियतिरिक्खजोगिए'
जघन्यगुणकालकः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकः 'जहण्णगुणकालमास्स पंचिदियतिरिक्ख-
जोगियस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले' जघन्यगुणकालकस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य द्रव्या-
र्थतया तुल्यो भवति 'एएलट्ठयाए तुल्ले' प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, 'ओगाह-
णट्ठयाए चउट्ठाणवडिए' अवगाहनं—शरीरोच्छ्रयापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति,
तदभिलाषक्रमश्च पूर्वोक्तप्रदर्शितदिशा बोध्यः 'ठिइए चउट्ठाणवडिए' स्थित्या-
आयुःकर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, तदभिलाषोऽपि पूर्व-
चदेवावसेयः, 'कालवण्णपज्जवेहि तुल्ले' कृष्णवर्णपर्यवैस्तुल्यो भवति, 'अवसेसेहि

गौतम—हे भगवन् ! जघन्यगुण काले पंचेन्द्रिय तिर्यच के कितने पर्याय हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवान्—हे गौतम ! एक जघन्यगुण काला पंचेन्द्रिय तिर्यच दूसरे जघन्यगुण काले पंचेन्द्रिय तिर्यच से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है, प्रदेशो की दृष्टि से भी तुल्य होता है, अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित होता है, स्थिति से भी चतुःस्थानपतित होता है ।

श्रीगौतमस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य गुणकाला पञ्चेन्द्रिय तिर्यचना कितने पर्याय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे

श्री गौतम—हे भगवन् 'एवुं कडेवावुं शुं' कारण छे ?

श्रीभगवान्—हे गौतम ! एक जघन्य गुण काला पञ्चेन्द्रिय तिर्यचानी जघन्य गुण काला पञ्चेन्द्रिय तिर्यचानी दृष्टिसे तुल्य थाय छे प्रदेशोनी दृष्टिसे पञ्च तुल्य थाय छे अवगाहनानी दृष्टिसे चतुःस्थान पतित थाय छे स्थितिथी पञ्च चतुःस्थान पतित थाय छे कृष्णवर्णानी पर्यायानी अपे-

વળ્ણગંધરસફાસપજ્જવેહિં' અવશેષૈઃ વર્ણગન્ધરસસ્પર્શપર્યવૈઃ 'તિહિં નાણેહિં તિહિં
અન્નાણેહિં' ત્રિભિર્જ્ઞાનૈઃ—મતિ શ્રુતાવધિલક્ષણૈઃ, ત્રિભિરજ્ઞાનૈઃ—મત્યજ્ઞાન શ્રુતાજ્ઞાન
વિભજ્ઞાનલક્ષણાજ્ઞાનૈઃ 'તિહિં દંસણેહિં હૃદ્યાણવહિં' ત્રિભિઃ દર્શનૈઃ પદ્ સ્થાન-
પતિતો ભવતિ, 'एवं उक्कोसगुणकालएवि' 'एवं—तथैव—जघन्यगुणकालकवदेव
उत्कृष्टगुणकालकोऽपि पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकः उत्कृष्टगुणकालस्य पञ्चेन्द्रियतिर्य-
ग्योनिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थान-
पतितो भवति, स्थित्या—चतुः स्थानपतितो भवति, कृष्णवर्णपर्यवैस्तुल्यः, अव-
શેષૈઃ વર્ણગન્ધરસસ્પર્શપર્યવૈઃ ત્રિભિર્જ્ઞાનૈઃ ત્રિભિરજ્ઞાનૈઃ, ત્રિભિર્દર્શનૈઃ પદ્ સ્થાન-
પતિતો ભવતિ, 'अजहणमणुकोसगुणकालए वि एवं चेव' अजघन्यानुत्कृष्टगुण-
કાલકોઽપિ પચ્ચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકઃ एवञ्चैव—जघन्योत्कृष्टगुणकालकपञ्चेन्द्रिय

કૃષ્ણ વર્ણ કે પર્યાયો કી અપેક્ષા તુલ્ય હૈ, શેષ વર્ણો ગંધો, રસો, સ્પર્શો સે, ત્રીન જ્ઞાનો ત્રીન અજ્ઞાનો ઓર ત્રીન દર્શનો કી અપેક્ષા સે ષટ્સ્થાનપતિત હોતા હૈ ।

ઉત્કૃષ્ટગુણ કાલે કી વસ્તવ્યતા ધી ઈસી હી સમજની ચાહિયે
અર્થાત્ એક ઉત્કૃષ્ટગુણ કાલા પંચેન્દ્રિય તિર્યચ્ દૂસરે ઉત્કૃષ્ટ ગુણ-
કાલે પંચેન્દ્રિયતિર્યચ્ સે દ્રવ્ય ઓર પ્રદેશો કી દૃષ્ટિ સે તુલ્ય હોતા
હૈ, અવગાહના ઓર સ્થિતિ કી દૃષ્ટિ સે ચતુઃસ્થાનપતિત હોતા હૈ,
કૃષ્ણ વર્ણ કે પર્યાયો સે તુલ્ય, વર્ણ ગંધ, રસ ઓર સ્પર્શ કે પર્યાયો
સે તથા ત્રીન જ્ઞાનો ત્રીન અજ્ઞાનો ઓર ત્રીન દર્શનો સે ષટ્-
સ્થાનપતિત હોતા હૈ ।

મધ્યમગુણ કાલે પંચિન્દ્રિય તિર્યચ્ કી વસ્તવ્યતા ધી જઘન્ય
એવં ઉત્કૃષ્ટગુણ કાલે પંચેન્દ્રિય તિર્યચ્ કે સમાન સમજના ચાહિયે ।

જ્ઞાએ તુલ્ય છે, શેષ વર્ણો, ગંધો, રસો, સ્પર્શોથી, ત્રણ જ્ઞાનો ત્રણ અજ્ઞાનો
અને ત્રણ દર્શનોની અપેક્ષાએ ષટ્સ્થાન પતિત થાય છે

ઉત્કૃષ્ટ ગુણ કાળાની વસ્તવ્યતા પણ એવીજ સમજવી જોઈએ અર્થાત્
એક ઉત્કૃષ્ટ ગુણ કાળા પંચેન્દ્રિય તિર્યચ્ ઓળ ઉત્કૃષ્ટ ગુણ કાળા પંચેન્દ્રિય
તિર્યચ્થી દ્રવ્ય અને પ્રદેશોની દૃષ્ટિએ તુલ્ય થાય છે, અવગાહના અને
સ્થિતિની દૃષ્ટિએ ચતુઃસ્થાન પતિત થાય છે, કૃષ્ણ વર્ણના પર્યાયોથી તુલ્ય,
શેષ વર્ણો, ગંધ રસ અને સ્પર્શના પર્યાયોથી તથા ત્રણ જ્ઞાનો, ત્રણ અજ્ઞાનો
અને ત્રણ દર્શનોથી ષટ્સ્થાન પતિત થાય છે

મધ્યમ ગુણ કાળા પંચેન્દ્રિય તિર્યચ્ની વસ્તવ્યતા પણ જઘન્ય તેમજ
ઉત્કૃષ્ટ ગુણ કાળા પંચેન્દ્રિય તિર્યચ્ના સમાન સમજવી જોઈ એ. વિશેષ એ

તિર્યગ્યોનિકવદેવાવસેયઃ, 'નવરં સદ્ગુણે છટ્ઠાણવહિષ્' નવરમ્-પૂર્વાપેક્ષયા વિશેષસ્તુ સ્વસ્થાને-મધ્યમગુણકાલકાપેક્ષયા પદસ્થાનપતિતો ભવતિ, 'એવં પંચ-વજ્રા, દો ગંધા, પંચરસા, અદ્વપાસા' એવમ્-તથૈવ, પદ્મવર્ણા, દ્વૌ ગન્ધો, પદ્મ-રસાઃ, અઘ્રૌ સ્પર્શાઃ વક્તવ્યાઃ, ગૌતમઃ પૃચ્છતિ-'જહ્ણનાભિણિવોહિયણાણીં મંતે ! પંચિદિયતિરિક્ષજોણિયાણં કેવદ્યા પજ્જવા પણ્ણત્તા ?' હે મહન્ત ! જઘ-ન્યાભિણિવોધિકજ્ઞાનિનાં પદ્મેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકાનાં કિયન્તઃ પર્યવાઃ પ્રજ્ઞપ્પાઃ ?

મગવાન્ આહ-'ગોયમા !' હે ગૌતમ ! 'અર્ણતા પજ્જવા પણ્ણત્તા' જઘન્યાભિ-ણિવોધિકજ્ઞાનિના પદ્મેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકાનામનન્તાઃ પર્યવાઃ પ્રજ્ઞપ્પાઃ, ગૌતમઃ પૃચ્છતિ-'સે કેણદ્દેણં મંતે ! એવં ઘુચ્ચદ્-જહ્ણનાભિણિવોહિયણાણીં પંચિદિય-તિરિક્ષજોણિયાણં અર્ણતા પજ્જવા પણ્ણત્તા ?' હે મહન્ત ! તત્-અથ, કેનાર્યેન-કથં તાવત્ એવમ્-ઉક્તરીત્યા, ઉચ્યતે યત્-જઘન્યાભિણિવોધિકજ્ઞાનિના પદ્મેન્દ્રિય-તિર્યગ્યોનિકાના મનન્તાઃ પર્યવાઃ પ્રજ્ઞપ્પાઃ ? इति, મગવાન્ આહ-'ગોયમા !' હે ગૌતમ ! જહ્ણનાભિણિવોહિયણાણી પંચિદિયતિરિક્ષજોણિ' જઘન્યાભિણિવોધિ-કજ્ઞાની પદ્મેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકઃ 'જહ્ણનાભિણિવોહિયણાણિસ્સ પંચિદિયતિરિક્ષ-

વિશેષ યહ્ કિ મધ્યમગુણ કાલા સ્વસ્થાન મેં મી ષટ્સ્થાનપતિત હોતા હૈ, ક્યો કિ મધ્યમગુણ કાલા અનન્ત પ્રકાર કા હોતા હૈ, અતએવ ઉક્ષમેં ષટ્સ્થાનપતિત હીનાધિકતા કા સંભવ હૈ । હસ પ્રકાર પાંચો વર્ણો, દોનો ગંધો પાંચો રસો ઓર આઠોં સ્પર્શોં કી વક્ત-વ્યતા સમજલેની યાહિએ ।

ગૌતમ-હે મગવન્ ! જઘન્ય આભિણિવોધિક જ્ઞાની પંચેન્દ્રિય તિર્યંચો કે કિતને પર્યાય હૈં મગવન્-અનન્ત પર્યાય હૈં ।

ગૌતમ-હે મગવન્ ! હસ પ્રકાર કે કથન કા ક્યા કારણ હૈ ?

મગવાન્-હે ગૌતમ ! એક જઘન્ય આભિણિવોધિકજ્ઞાની દૂસરે જઘ-

છે કે મધ્યમ ગુણ કાળા સ્વસ્થાનમા પશુ ષટસ્થાન પતિત થાય છે, કેમકે મધ્યમ ગુણ કાળા અનન્ત પ્રકારના હોય છે, તેથી જ તેમા ષટસ્થાન પતિત હીના-ધિકતાનો સભવ છે એજ પ્રકારે પાચ વર્ણો અને ગંધો, પાચ રસો અને આઠે સ્પર્શોની વક્તવ્યા સમજ લેવી જોઈએ.

શ્રી ગૌતમસ્વામી-હે મગવન્ જઘન્ય આભિણિવોધિક જ્ઞાની પદ્મેન્દ્રિય તિર્યંચોના કેટલા પર્યાય છે ? શ્રી મગવાન્-હે ગૌતમ અનન્ત પર્યાય છે.

શ્રી ગૌતમ-હે મગવન્ આ પ્રકારના કથનનુ શુ કારણ છે ?

શ્રી મગવાન્-હે ગૌતમ ! એક જઘન્ય આભિણિવોધિક જ્ઞાની ખીલ જઘન્ય આભિણિવોધિક જ્ઞાનીથી દ્રવ્યથી અને પ્રદેશોથી તુલ્ય છે, અવગ્રાહનાથી અતુ-

जोगियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले' जघन्याभिनिबोधिकज्ञानिनः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्यो-
निकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति 'पएसट्टयाए तुल्ले' प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति,
'ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए' अवगाहनार्थतया चतुः स्थानपतितो भवति
'ठिईए चउट्टाणवडिए' स्थित्या-आयुः कर्मात्तुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया चतुः
स्थानपतितो भवति, असंख्येयवर्षायुषोऽपि पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य स्वभूमिकानु-
सारेण जघन्याभिनिबोधिकश्रुतज्ञानोपलम्भेन संख्येयवर्षायुषोऽसंख्येयवर्षायु-
पश्च जघन्याभिनिबोधिकश्रुतज्ञानसंभवेन स्थित्या चतुः-स्थानपतितो भवन्ती-
त्याशयः। 'वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए' वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः
षट्स्थानपतितो भवति, 'आभिणिबोहियनाणपज्जवेहिं तुल्ले' आभिनिबोधिक-
ज्ञानपर्यवैः तुल्यो भवति, 'सुयनाणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए' श्रुतज्ञानपर्यवैः षट्-
स्थानपतितो भवति, 'चक्खुदंसणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए' चक्षुर्दर्शनपर्यवैः षट्-
स्थानपतितो भवति, 'अचक्खुदंसणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए' अचक्षुर्दर्शनपर्यवैः
षट्स्थानपतितो भवति, 'एव उक्कोसाभिणिबोहियनाणीवि' एवम्-जघन्याभि-

न्य आभिनिबोधिक ज्ञानी से द्रव्य से और प्रदेशो से तुल्य है अव-
गाहना से चतुःस्थानपतित तथा स्थिति की अपेक्षा भी चतुःस्थान-
पतित होता है। असंख्यात वर्ष की आयु वाले पंचेन्द्रिय तिर्यच
में भी अपनी भूमिका के अनुसार जघन्य आभिनिबोधिकज्ञान
और श्रुतज्ञान पाये जाते हैं। इस प्रकार संख्यात वर्ष की आयु
वालों में जघन्य मतिश्रुतज्ञान का संभव होने से यहां स्थिति की अपे-
चतुस्थानपतित कहा है, वर्ण, गन्ध, और स्पर्श के पर्यायों से
षट्स्थानपतित होता है। आभिनिबोधिकज्ञान के पर्यायों से तुल्य होता
है। श्रुतज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है। चक्षुर्दर्शन
और अचक्षुर्दर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है।

स्थान, पतित तथा स्थितिनी अपेक्षाये पणु अतु स्थान पतित थाय छे.
असंख्यात वर्षनी आयुवाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्यचमा पणु पोतानी भूमिकाना
अनुसार जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञान अने श्रुतज्ञान भणी आवे छे. अे प्रकारे
संख्यात वर्षनी अने असंख्यात वर्षनी आयुवाणामा जघन्य मति-श्रुतज्ञानना
संभव होवाथी अहिं स्थितिनी अपेक्षाये अतु स्थान पतित कडेल छे. वर्ण,
रस, गंध अने स्पर्शना पर्यायोथी ते षट्स्थान पतित थाय छे आभिनि
बोधिक ज्ञानना पर्यायोथी तुल्य थाय छे. श्रुतज्ञानना पर्यायोथी षट्स्थान पतित
थाय छे. अक्षुर्दर्शन अने अचक्षुर्दर्शनना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे.

निबोधिकज्ञानीपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकवदेव उत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानी अपि, उत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानिनः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः पटस्थानपतितः, आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैस्तुल्यः, श्रुतज्ञानपर्यवैः पटस्थानपतितो भवति, चक्षुर्दर्शनपर्यवैः पटस्थानपतितो भवति, किन्तु 'णवरं ठिईए तिट्टाणवडिए' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थित्या आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया त्रिस्थानपतितो भवति, उत्कृष्टाभिनिबोधिकश्रुतज्ञानिनो नियमतः संख्येयवर्षायुष्कतया संख्येयवर्षायुष्कस्य च स्थित्या त्रिस्थानपतितत्वं भवति, तदभिलापश्च पूर्वोपदर्शितदिशाऽवसेयः, 'तिन्नि नाणा तिन्नि दंसणा' त्रीणि ज्ञानानि-मतिश्रुतावधिलक्षणानि, त्रीणि दर्शनानि भवन्ति, 'सट्टाणे तुख्खे' स्वस्थाने तुल्यो भवति, 'सेसेसु छट्टाणवडिए' शेषेषु पटस्थानपतितो भवति, 'अजहण्णमणुक्कोसाभिणिवोहियनाणी

उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी के विषय में भी इसी प्रकार समझना चाहिए, अर्थात् एक उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी दूसरे उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य, प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य, अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित, वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित आभिनिबोधिकज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित, चक्षुर्दर्शन के पर्यायों से भी षट्स्थानपतित होता है। किन्तु विशेषता यह है कि स्थिति की अपेक्षा से वह त्रिस्थानपतित होता है। उसमें तीन ज्ञान एवं तीन अज्ञानपायेजाते हैं। वह स्वस्थान में तुल्य है अर्थात् उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी एक तिर्यच पञ्चेन्द्रिय दूसरे उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ति० पं० ज्ञानी के तुल्य ही होता है। शेषमें षट्स्थानपतित होता है।

उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानीना विषयमा षष्णु आ प्रकारे समञ्जसु लोभये, अर्थात् एक उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी भील उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानीथी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य, प्रदेशोनी अपेक्षाये तुल्य, अवगाहनानी अपेक्षाये चतुःस्थान पतित, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्शना पर्यायोथी षट्स्थान पतित, आभिनिबोधिकज्ञानना पर्यायोथी तुल्य श्रुतज्ञानना पर्यायोथी षट्स्थान पतित चक्षुर्दर्शन अने चक्षुर्दर्शनना पर्यायोथी षष्णु षट्स्थान पतित अने छे, किन्तु विशेषता ये छे के स्थितिनी अपेक्षाये ते त्रिस्थान पतित अने छे तेमा षष्णु ज्ञान अने षष्णु अज्ञान मणी आवे छे. ते स्वस्थानमा तुल्य अर्थात् उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानी एक तिर्यच पञ्चेन्द्रिय भील उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानी तिर्यच पञ्चेन्द्रियना तुल्य न थाय छे. शेष षट्स्थान पतित थाय छे.

जोणियस्स दच्चद्वयाए तुल्ले' जघन्याभिनिबोधिकज्ञानिनः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्यो-
निकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति 'पएसद्वयाए तुल्ले' प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति,
'ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिए' अवगाहनार्थतया चतुः स्थानपतितो भवति
'ठिईए चउट्टाणवडिए' स्थित्या-आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया चतुः
स्थानपतितो भवति, असंख्येयवर्षायुषोऽपि पञ्चेन्द्रितिर्यग्योनिकस्य स्वभूमिकानु-
सारेण जघन्याभिनिबोधिकश्रुतज्ञानोपलम्भेन संख्येयवर्षायुषोऽसंख्येयवर्षायु-
पश्च जघन्याभिनिबोधिकश्रुतज्ञानसंभवेन स्थित्या चतुः-स्थानपतितो भवन्ती-
त्याशयः । 'वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए' वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः
षट्स्थानपतितो भवति, 'आभिणिबोहियनाणपज्जवेहिं तुल्ले' आभिनिबोधिक-
ज्ञानपर्यवैः तुल्यो भवति, 'सुयनाणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए' श्रुतज्ञानपर्यवैः षट्-
स्थानपतितो भवति, 'अचखुदंसणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए' चक्षुर्दर्शनपर्यवैः षट्-
स्थानपतितो भवति, 'अचखुदंसणपज्जवेहिं छट्टावणवडिए' अचक्षुर्दर्शनपर्यवैः
षट्स्थानपतितो भवति, 'एव उक्कोसाभिणिबोहियनाणीवि' एवम्-जघन्याभि-

न्य आभिनिबोधिक ज्ञानी से द्रव्य से और प्रदेशो से तुल्य है अव-
गाहना से चतुःस्थानपतित तथा स्थिति की अपेक्षा भी चतुःस्थान-
पतित होता है । असंख्यात वर्ष की आयु वाले पंचेन्द्रिय तिर्यंच
में भी अपनी भूमिका के अनुसार जघन्य आभिनिबोधिकज्ञान
और श्रुतज्ञान पाये जाते हैं । इस प्रकार संख्यात वर्ष की आयु
वालों में जघन्य मतिश्रुतज्ञान का संभव होने से यहाँ स्थिति की अपे-
क्षा चतुःस्थानपतित कहा है, वर्ण, गन्ध, और स्पर्श के पर्यायों से
षट्स्थानपतित होता है । आभिनिबोधिकज्ञान के पर्यायों से तुल्य होता
है । श्रुतज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है । चक्षुर्दर्शन
और अचक्षुर्दर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता ।

स्थान पतित तथा स्थितिनी अपेक्षाये षण्णु यतु स्थान पतित थाय छे.
असंख्यात वर्षनी आयुवाणा पंचेन्द्रिय तिर्यंचमा षण्णु पोतानी भूमिकाना
अनुसार जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञान अने श्रुतज्ञान भणी आवे छे. ये प्रकारे
संख्यात वर्षनी अने असंख्यात वर्षनी आयुवाणाभा जघन्य मति-श्रुतज्ञाननो
संभव होवाथी अडि स्थितिनी अपेक्षाये यतु स्थान पतित छेले छे. षण्णु,
रस, गंध अने स्पर्शना पर्यायोथी ते षट्स्थान पतित थाय छे आभिनि
बोधिक ज्ञानना पर्यायोथी तुल्य थाय छे. श्रुतज्ञानना पर्यायोथी षट्स्थान पतित
थाय छे. अक्षुर्दर्शन अने अक्षुर्दर्शनना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे.

निबोधिकज्ञानीपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकवदेव उत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानी अपि, उत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानिनः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितः, आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैस्तुल्यः, श्रुतज्ञानपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, चक्षुर्दर्शनपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, किन्तु 'णवरं ठिईए तिट्ठानवडिए' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थित्या आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया त्रिस्थानपतितो भवति, उत्कृष्टाभिनिबोधिकश्रुतज्ञानिनो नियमतः संख्येषवर्षायुष्कतया संख्येषवर्षायुष्कस्य च स्थित्या त्रिस्थानपतितत्वं भवति, तदभिलाषत्र पूर्वोपदर्शितदिशाऽवसेयः, 'तिन्नि नाणा तिन्नि दंसणा' त्रीणि ज्ञानानि-मतिश्रुतावविलक्षणानि, त्रीणि दर्शनानि भवन्ति, 'सट्ठाने तुल्ले' स्वस्थाने तुल्यो भवति, 'सेसेसु छट्ठानवडिए' शेषेषु षट्स्थानपतितो भवति, 'अजहणमणुकोसाभिणिवोहियनाणी

उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी के विषय में भी इसी प्रकार समझना चाहिए, अर्थात् एक उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी दूसरे उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य, प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य, अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित, वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित आभिनिबोधिकज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित, चक्षुदर्शन के पर्यायों से भी षट्स्थानपतित होता है। किन्तु विशेषता यह है कि स्थिति की अपेक्षा से वह त्रिस्थानपतित होता है। उससे तीन ज्ञान एवं तीन अज्ञानपायेजाते हैं। वह स्वस्थान में तुल्य है अर्थात् उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी एक तिर्थच पञ्चेन्द्रिय दूसरे उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ति० पं० ज्ञानी के तुल्य ही होता है। शेषमें षट्स्थानपतित होता है।

उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानीना विषयमा पणु आ प्रकारे समञ्जसु लोपये, अर्थात् अेक उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी भील उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानीधी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य, प्रदेशानी अपेक्षाये तुल्य, अवगाहनानी अपेक्षाये चतु-स्थान पतित, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्शनी पर्यायीधी षट्स्थान पतित, आभिनिबोधिकज्ञानना पर्यायीधी तुल्य श्रुतज्ञानना पर्यायीधी षट्स्थान पतित चक्षुदर्शन अने अचक्षुदर्शनना पर्यायीधी पणु षट्स्थान पतित अने छे, किन्तु विशेषता अे छे के स्थितिनी अपेक्षाये ते त्रिस्थान पतित अने छे तेमा त्रयु ज्ञान अने त्रयु अज्ञान मणी आवे छे. ते स्वस्थानमा तुल्य अर्थात् उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानी अेक तिर्थच पञ्चेन्द्रिय भील उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानी तिर्थच पञ्चेन्द्रियना तुल्य अे थाय छे. शेष षट्स्थान पतित थाय छे.

जहा उक्कोसाभिणिबोहियनाणी' अजघन्यानुत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानी यथा उत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानी प्रतिपादितस्तथा प्रतिपादनीयः, किन्तु 'णवर ठिईए चउट्टाणवडिए' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थित्या-आयुः कर्मानुभवलक्षण-णस्थित्यपेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, 'सट्टाणे छट्टाणवडिए' स्वस्थाने षट्स्थानपतितो भवति, 'एवं सुयनाणी वि' 'एवं पूर्ववदेव श्रुतज्ञानी अपि पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकः प्रतिपादनीयः,

गौतम ! पृच्छति- 'जहण्णोहिनाणीणं भंते ! पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा' हे भदन्त ! जघन्यावधिज्ञानिनां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह- 'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पणत्ता' जघन्यावधिज्ञानिनां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति- 'से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ-जहण्णोहिनाणीणं पंचिदिय-

मध्यम आभिनिबोधिकज्ञानी उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी के समान है, मगर स्थिति की दृष्टि से वह चतुःस्थानपतित होता है स्वस्थान अर्थात् आभिनिबोधिकज्ञान की दृष्टि से षट्स्थानपतित होता है, क्योंकि आभिनिबोधिकज्ञान के तरतम रूप पर्याय अनन्त होते हैं अतएव उसमें अनन्तगुणहीनता और अनन्तगुणअधिकता भी हो सकती है ।

जैसी आभिनिबोधिकज्ञानी पंचेन्द्रिय तिर्यच को वक्तव्यता कही है, वैसी ही श्रुतज्ञानी की वक्तव्यता भी समझ लेना चाहिए ।

गौतम-हे भगवन् ! जघन्य अवधिज्ञानी पंचेन्द्रिय तिर्यच के कितने पर्याय कहे हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं ।

मध्यम आभिनिबोधिक ज्ञानी उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानीना समान छे. पणु स्थितिनी दृष्टिअे ते अतु स्थान पतित थाय छे. स्वस्थान अर्थात् मध्यम आभिनिबोधिकज्ञाननी दृष्टिअे षट्स्थान पतित थाय छे केमके आभिनिबोधिक ज्ञानना तरतम पर्याय अनन्त थाय छे तेथी न तेमा अनन्त शुषु हीनता अने अनन्त शुषु अधिक पणु थथ शके छे

जेवी आभिनिबोधिक पञ्चेन्द्रिय तिर्य अनी वक्तव्यता कही छे तेवी न श्रुतज्ञाननी वक्तव्यता पणु समणु लेवी जेथ अे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जघन्य अवधिज्ञानी पञ्चेन्द्रिय तिर्य अना केटवा पर्याय कइया छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय कइया छे ?

तिरिक्खजोणियाणं अणंता पज्जाया यण्णत्ता ?' हे भदन्त ! तत् अथ, केनार्थन-
कथं तावत् एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते यत्—जघन्यावधिज्ञानिनां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्यो-
निकानामनन्ताः पर्ययाः प्रजप्ताः ? भगवान् आह—'गोयमा !, हे गौतम ! 'जह-
न्नोहि नाणी पंचिदियतिरिक्खजोणिण जहन्नोद्धिनाणिस्स पंचिदियतिरिक्खजोणि
यस्स दव्वट्टयाए तुल्ले' जघन्यावधिज्ञानी पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिको जघन्यावधि
ज्ञानिनः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिरुस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, 'पएसट्टयाए तुल्ले'
प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, 'ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिण' अवगाहनार्थतया—श-
रीरोच्छ्रयापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, 'ठिइए तिट्टाणवडिण' स्थित्या—आयुः
कर्मानुभवलक्षण स्थित्यपेक्षया त्रिस्थानपतितो भवति, असंख्येयवर्षायुषोऽवधि-
ज्ञानासंभवात्, 'वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं अभिणिवोहियनाणसुयनाणपज्जवेहिं छ-
ट्टाणवडिण' वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः आभिनिबोधिकज्ञानश्रुतज्ञानपर्यवैः, षट्स्थानप-
तितो भवति, ओहिनाणपज्जवेहिं तुल्ले' अवधिज्ञानपर्यवैस्तु तुल्यो भवति, 'अन्ना-
णा नत्थि' अज्ञानानि न सन्ति, अवधिज्ञानिनाम् अज्ञानानि न भवन्ति, 'चक्खुदं-
सणपज्जवेहिं' चक्षुर्दर्शनपर्यवैः, 'अचक्खुदंसणपज्जवेहिं' अचक्षुर्दर्शनपर्यवैः 'ओहि

गौतम—हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य अवधिज्ञानी पंचेन्द्रिय तिर्यच
दूसरे जघन्य अवधिज्ञानी पंचेन्द्रिय तिर्यच से द्रव्य की दृष्टि से
तुल्य, अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित तथा स्थिति की
अपेक्षा से त्रिस्थानपतित होता है, क्योंकि असंख्यात वर्ष की आयु
वाले को अवधिज्ञान नहीं हो सकता । वर्ण, गंध, रस और स्पर्श
के पर्यायों से, आभिनिबोधिक और श्रुतज्ञान के पर्यायों से षट्स्थान
पतित होता है । अवधिज्ञान के पर्यायों से तुल्य होता है । अवधि-
ज्ञानी में अज्ञान होते नहीं हैं । चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन और अव-
धिदर्शन के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है ।

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् शा कारणे ज्येत्तुं क्खेले छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य अवधिज्ञानी पञ्चेन्द्रिय तिर्यच जीन
जघन्य अवधिज्ञानी पञ्चेन्द्रिय तिर्यचार्थी द्रव्यनी दृष्टिज्ये तुल्य छे. प्रदेशोनी
दृष्टिज्ये तुल्य छे अवगाहनानी दृष्टिज्ये चतुःस्थान पतित तथा स्थितिनी अपेक्षाज्ये
त्रिस्थान पतित थाय छे, केमके असंख्यात वर्षानी आयुवाणाने अवधिज्ञान
नथी थर्ध शकत्तु, वर्ण, गंध, रस अने स्पर्शना पर्यायैथी आभिबोधिक्क अने
श्रुतज्ञानना पर्यायैथी षट्स्थान पतित थाय छे अवधिज्ञानना पर्यायैथी
तुल्य थाय छे. अवधिज्ञानीमा अज्ञान डोत्तु नथी. चक्षुर्दर्शन अचक्षुर्दर्शन अने
अवधिदर्शनना पर्यायैथी षट्स्थान पतित थाय छे.

દંસણપજ્જવેહિય' અવધિદર્શનપર્યવૈશ્વ 'છટ્ટાણવહિણ' ષટ્ સ્થાનપતિતો ભવતિ, 'એવં ઉકોસોહિનાણી વિ' એવમ્-તથૈવ જઘન્યાવધિજ્ઞાની પચ્ચેન્દ્રિયતિર્યગ્ગોનિકવદેવ ઉત્કૃષ્ટાવધિજ્ઞાની અપિ ઉત્કૃષ્ટાવધિજ્ઞાનિનઃ પચ્ચેન્દ્રિયતિર્યગ્ગોનિકસ્ય દ્રવ્યાર્થ- તયા તુલ્યો ભવતિ, પ્રદેશાર્થતયા તુલ્યો ભવતિ, અવગાહનાર્થતયા ચતુઃસ્થાન- પતિતઃ, સ્થિત્યા ત્રિસ્થાનપતિતઃ, વર્ણગન્ધરસસ્પર્શપર્યવૈઃ આભિનિબોધિકજ્ઞાન શ્રુતાજ્ઞાનપર્યવૈઃ, ષટ્સ્થાનપતિતઃ અવધિજ્ઞાનપર્યવૈસ્તુલ્યઃ, અજ્ઞાનાનિ ન ભવન્તિ, અચક્ષુર્દર્શનપર્યવૈઃ અવધિદર્શનપર્યવૈઃ ષટ્સ્થાનપતિતો ભવતિ, 'અજહન્નોકોસોહિ નાણી વિ' એવં ચેવ અજઘન્યાનુત્કૃષ્ટાવધિજ્ઞાની અપિ પચ્ચેન્દ્રિયતિર્યગ્ગોનિક, એવચ્ચેવ જઘન્યોત્કૃષ્ટાવધિજ્ઞાની પચ્ચેન્દ્રિયતિર્યગ્ગોનિકવદેવ પ્રતિપત્તવ્યઃ કિન્તુ 'ણવરં રાઘ્ણે છટ્ટાણવહિણ' નવરમ્-પૂર્વાપેક્ષયા વિશેષસ્તુ સ્વસ્થાને-સ્થિતો,

ઉત્કૃષ્ટ અવધિજ્ઞાની જઘન્યાવધિજ્ઞાની કે સમાન છે, અર્થાત્ એક ઉત્કૃષ્ટાવધિજ્ઞાની પંચેન્દ્રિય તિર્યચ દૂસરે ઉત્કૃષ્ટાવધિજ્ઞાની પંચેન્દ્રિય તિર્યચ સે દ્રવ્ય સે તુલ્ય, પ્રદેશો સે તુલ્ય, અવગાહના સે ચતુઃસ્થાનપતિત સ્થિતિ સે ત્રિસ્થાનપતિત, વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, આભિનિબોધિકજ્ઞાન તથા શ્રુતજ્ઞાન કે પર્યાયો સે ષટ્સ્થાનપતિત, અવધિજ્ઞાન કે પર્યાયો સે તુલ્ય, અજ્ઞાન ઉસમ્મેં હોતે નહીં, અચક્ષુર્દર્શન અચક્ષુર્દર્શન ઓર અવધિદર્શન કે પર્યાયો સે ષટ્સ્થાનપતિત હોતા છે ।

અજઘન્યાનુત્કૃષ્ટ અવધિજ્ઞાની પંચેન્દ્રિય તિર્યચ કે વિષય મેં મી હસી પ્રકાર જાનના ચાહિણ । વિશેષતા યહ છે છે કિ વહ સ્વસ્થાન મેં મી ષટ્સ્થાનપતિત હોતા છે અર્થાત્ એક મધ્યમ અવધિજ્ઞાની દૂસરે મધ્યમ અવધિજ્ઞાની પંચેન્દ્રિય તિર્યચ કી અપેક્ષા ષટ્સ્થાન- પતિત હીનાધિક હો સકતા છે ।

ઉત્કૃષ્ટ અવધિજ્ઞાની જઘન્યાવધિજ્ઞાનીના સમાન છે, અર્થાત્ એક ઉત્કૃષ્ટા- વધિજ્ઞાની પચ્ચેન્દ્રિય તિર્યચ બીજા ઉત્કૃષ્ટાવધિજ્ઞાની પચ્ચેન્દ્રિય તિર્યચથી દ્રવ્યથી તુલ્ય, પ્રદેશથી તુલ્ય, અવગાહનાથી ચતુસ્થાન પતિત સ્થિતિથી ત્રિસ્થાન પતિત, વર્ણ, ગંધ, રસ સ્પર્શ આભિનિબોધિક જ્ઞાન તથા શ્રુતજ્ઞાનના પર્યાયથી ષટ્સ્થાન પતિત, અવધિજ્ઞાનના પર્યાયથી તુલ્ય અજ્ઞાન તેમા હોતુ નથી, અચ્- દર્શન, અને અવધિદર્શનના પર્યાયથી ષટ્સ્થાન પતિત થાય છે

અજઘન્યાનુત્કૃષ્ટ અવધિજ્ઞાની પચ્ચેન્દ્રિય તિર્યચના વિષયમા પણ એજ રીતે બંધુબુ બંધએ. વિશેષતા એ છે કે તે સ્વસ્થાનમા પણ ષટ્સ્થાન પતિત થાય છે. અર્થાત્ એક મધ્યમ અવધિજ્ઞાની બીજા મધ્યમ અવધિજ્ઞાની પચ્ચે- ન્દ્રિય તિર્યચની અપેક્ષાએ ષટ્સ્થાન પતિત હીનાધિક થઈ શકે છે,

पटस्थानपतितो भवति, 'जहा आभिणिवोहियनाणी तहा मइ अघ्नाणी मय्य अन्नाणी य' यथा आभिनिवोधिकज्ञानी पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकः प्रतिपादितस्तथा मत्तयज्ञानी श्रुताज्ञानो च पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकः प्रतिपादयितव्यः 'जहा ओहिनाणी तहा विभंगनाणी वि' यथा अवधिज्ञानी पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकः प्रतिपादितस्तथा- विभङ्गज्ञानी अपि पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकः प्रतिपादयितव्यः, तथा चावधिज्ञानिवद् विभङ्गज्ञानी अपि पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकः स्थित्या त्रिस्थानपतितो भवति असंख्येयवर्षायुपो विभङ्गज्ञानासंभवात्, तथाचोक्तं ब्रह्मे टीकागात्र, 'ओहि विभंगेसु नियमा तिट्ठाणवडिए किं कारणं ! भवइ ओहिविभंगा असंखेज्जासाउयस्स नत्थि' इति 'चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी य जहा आभिणिवोहियनाणी' चक्षुर्दर्शनी अचक्षुर्दर्शनी च पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिको यथा आभिनिवोधिकज्ञानी पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकः प्रतिपादितस्तथा प्रतिपादनीयः 'ओहिदमणी जहा ओहिनाणी' अवधिदर्शनी पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिको यथा उक्तस्तथा अवधिज्ञानी पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिको वक्तव्यः 'जत्थ नाणा तत्थ अघ्नाणा नत्थि' यत्र ज्ञानानि भवन्ति तत्र अज्ञानानि

मत्तयज्ञानी और श्रुताज्ञानी की वक्तव्यता आभिनिवोधिकज्ञानी के समान एवं विभंगज्ञानी की वक्तव्यता अवधिज्ञानी के समान समझ लेनी चाहिए। इस प्रकार विभंगज्ञानी पञ्चेन्द्रियतिर्यच दूसरे विभंगज्ञानी पञ्चेन्द्रियतिर्यच से स्थिति की दृष्टि से त्रिस्थानपतित होता है, क्योंकि असंख्यात वर्ष की आयु वाले को विभंगज्ञान नहीं हो सकता। मूल और टीका में भी कहा है—'अवधिज्ञान और विभंगज्ञान में नियम से त्रिस्थानपतित होना है, क्या कारण है? कहते हैं—अवधिज्ञान और विभंगज्ञान असंख्यात वर्ष की आयु वाले को नहीं होते। चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी की वक्तव्यता आभिनिवोधिकज्ञानी के समान है। अवधिदर्शनी पञ्चेन्द्रियतिर्यच की वक्तव्यता अवधिज्ञानी पञ्चेन्द्रियतिर्यच के समान

मत्तयज्ञानी અને શ્રુતાજ્ઞાનીની વક્તવ્યતા આભિનિવોધિકજ્ઞાનીના સમાન મજ્જમવી તેમજ વિભંગજ્ઞાનીની વક્તવ્યતા અવધિજ્ઞાનીના સમાન સમજી લેવી જોઈએ એ પ્રકારે વિભંગજ્ઞાની પૈન્ચેન્દ્રિય તિર્યચ બીજા વિભંગજ્ઞાની પૈન્ચેન્દ્રિય તિર્યચથી સ્થિતિની દૃષ્ટિએ ત્રિસ્થાન પતિત થાય છે, કેમકે અસંખ્યાત વર્ષની આયુવાળાને વિભંગજ્ઞાન નથી ઘટ શકતું મૂળ ટીકામા પણ કહ્યું છે 'અવધિજ્ઞાન અને વિભંગજ્ઞાનમા નિયમથી ત્રિસ્થાન પતિત થઈ શકે છે, શુ કારણ છે? કહે છે—અવધિજ્ઞાન અને વિભંગજ્ઞાન અસંખ્યાત વર્ષની આયુવાળાને નથી હોતું, ચક્ષુદર્શની અને અચક્ષુદર્શનીની વક્તવ્યતા આભિનિવોધિક જ્ઞાનીના સમાન છે. અવધિદર્શની પૈન્ચેન્દ્રિય તિર્યચની વક્તવ્યતા

यत्वा, जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं मणुस्साणं केवइया पज्जवा
 पणत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्ठेणं भंते !
 एवं बुच्चइ-जहण्णाभिणिबोहियनाणीणं मणुस्साणं अणंता
 पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णाभिणिबोहियनाणी मणुसे
 जहण्णाभिणिबोहियणाणस्स मणुस्सस्स दव्वट्टयाए तुल्ले,
 पएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए ठिईए चउ-
 ट्टाणवडिए, वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए, आभिणि-
 बोहियनाणपज्जवेहिं तुल्ले सुयनाणपज्जवेहिं दोहिं दंसणेहिं
 छट्टाणवडिए एवं उक्कोसाभिणिबोहियनाणि वि, नवरं आभि-
 णिबोहियनाणपज्जवेहिं तुल्ले, ठिईए तिट्टाणवडिए, तिहि
 नाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए, अजहण्णमणुक्कोसाभि-
 णिबोहियनाणी जहा उक्कोसाभिणिबोहियनाणी, नवरं ठिईए
 चउट्टाणवडिए, सट्टाणे छट्टाणवडिए, एवं सुयनाणी वि । जह-
 ण्णोहिनाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?
 गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ
 जहण्णोहिनाणीणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा !
 जहण्णोहिनाणीमणुस्से जहण्णोहिनाणस्स मणुस्सस्स दव्वट्ट-
 याए तुल्ले, पएसट्टयाए तुल्ले, ओगाहणट्टयाए तिट्टाणवडिए,
 ठिईए तिट्टाणवडिए, वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं दोहिं नाणेहिं
 छट्टाणवडिए, ओहिनाणपज्जवेहिं तुल्ले, मणपज्जवनाणपज्जवेहि
 छट्टाणवडिए, तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए, एवं उक्कोसोहि-
 नाणि वि, अजहण्णमणुक्कोसोहिनाणी एवं चेव, नवरं ओगा-
 हणट्टयाए चउट्टाणवडिए, सट्टाणे छट्टाणवडिए, जहा ओहि-
 नाणी तथा मणपज्जवनाणी वि भाणियत्त्वे, नवरं ओगाहण-
 ट्टयाए तिट्टाणवडिए, जहा आभिणिबोहियनाणी तथा मइ-

अन्नाणी सुयअन्नाणां वि भाणियव्वे, जहा ओहिनाणी तथा विभंगनाणी वि भाणियव्वे, चक्खुदंसणी, अचक्खुदंसणी य जहा आभिणिबोहियणाणी, ओहिदंसणी जहा ओहिनाणी, जत्थ नाणा तत्थ अन्नाणा नत्थि, जत्थ अन्नाणा तत्थ नाणानत्थि, जत्थ दंसणा तत्थ जाणा वि अणणाणा वि, केवलनाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवइया पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ-केवलनाणीणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! केवलनाणी मणुसे केवलनाणिस्स मणुसस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले, पएसट्ठयाए तुल्ले ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए, ठिईए तिट्ठाणवडिए, वण्णगंधासफासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए, केवलनाणपज्जवेहिं केवलदंसणपज्जवेहि य तुल्ले, एवं केवलदंसणी वि मणुसे भाणियव्वे, वाणभंतरा जहा असुरकुमारा, एवं जोइसियवेमा णिया नवरं सट्ठाणे ठिईए तिट्ठाणवडिए भाणियव्वे, से तं जीवपज्जवा ॥सू० ११॥

छाया—जघन्यावगाहनकानां भदन्त ! मनुष्याणां क्रियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एव मुच्यते—जघन्या-

मनुष्यपर्याय वदतव्यता

शब्दार्थ—(जहण्णोगाहणगाणं भंते ! मणुस्साणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले मनुष्यों के कितने पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एव बुच्चइ—जहण्णोगाहणगाणं

मनुष्य पर्याय वदतव्यता

शब्दार्थ—(जहण्णोगाहणगाणं भंते ! मणुस्साणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! जघन्य अवगाहनावाणा मनुष्येना केटला पर्याय क्ख्वा छे ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय क्ख्वा छे (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णोगाहणगाणं मणुस्साणं अणता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! ॥

वगाहनकानां मनुष्याणामनन्ताः पर्यवाः प्रजप्ताः ? गौतम ! जघन्यावगाहनको मनुष्यो जघन्यावगाहनकस्य मनुष्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थता तुल्यः, अवगाहनार्थतया तुल्यः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः त्रिभिर्ज्ञानैः, द्वाभ्यामज्ञानाभ्यां, त्रिभिर्दर्शनैः षट्स्थानपतितः, उत्कृष्टावगाहनकोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्थित्या स्याद्धीनः, स्यात्तुल्यः, स्यादभ्यधिकः, यदा हीनः असंख्येयभागहीनः, अथाभ्यधिकः असंख्येयभागाभ्यधिकः, द्वे ज्ञाने, द्वे अज्ञाने,

मणुस्सागं अगंता पज्जवा पणत्ता ? किस कारण से हे भगवन् ! ऐसा कहा जाता है कि जघन्य अवगाहना वाले मनुष्यों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णोगाहणए मणूसे) जघन्य अवगाहना वाला मनुष्य (जहण्णोगाहणगस्स मणूस्सस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) जघन्य अवगाहना वाले मनुष्य से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों की दृष्टि से तुल्य है (ओगाहणट्टयाए तुल्ले) अवगाहना की अपेक्षा से तुल्य है (ठिईए तिट्ठाणवडिए) स्थिति से त्रिस्थानपतित है (वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं) वर्ण गंध रस स्पर्श के पर्यायों से (तिहिं नाणेहिं) तान ज्ञानों से (दोहिं अन्नाणेहिं) दो अज्ञानों से (तिहिं दंसणेहिं) तीन दर्शनों से (छट्ठाणवडिए) षट्स्थानपतित है (उक्कोसोगाहणए वि एव च्चैव) उत्कृष्ट अवगाहना वाला भी इसी प्रकार (नवर) विशेष (ठिईए सिय हीणे) स्थिति से कदाचित् हीन (सिय तुल्ले) कदाचित् तुल्य (सिय अच्चमहिए) कदाचित् अधिक होता है (जइ) यदि (हाणे) हीन है (असंखिज्जभाग

कारण्णे अमं कडेवाय छे के जघन्य अवगाहनावाणा मनुष्येना अनन्त पर्याय कथा छे (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णोगाहणए मणूसे) जघन्य अवगाहना वाणा मनुष्य (जहण्णोगाहणगस्स मणूस्सस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) जघन्य अवगाहना वाणा मनुष्यथी द्रव्यनी दृष्टिअे तुल्य छे (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशेानी दृष्टिथी तुल्य छे (ओगाहणट्टयाए तुल्ले) अवगाहनानी अपेक्षाअे तुल्य छे (ठिईए तिट्ठाण वडिए) स्थितिथी त्रिस्थान पतित छे (वण्ण, गंध, रस फासपज्जवेहिं) वर्ण, गंध, रस स्पर्शना पर्यायेथी (तिहिं नाणेहिं) त्रय ज्ञानेथी (दोहिं अन्नाणेहिं) अे अज्ञानेथी (तिहिं दंसणेहिं) त्रय दर्शनेथी (छट्ठाणवडिए) षट्स्थान पतित छे (उक्कोसोगाहणए वि एव च्चैव) उत्कृष्ट अवगाहनावाणा पणु अे प्रकारे (नवर) विशेष (ठिईए सियहीणे) स्थितिथी केअ वार हीन (सिय तुल्ले) केअ वार तुल्य (सिय अच्चमहिए) कदाचित् अधिक थाय छे (जइ) यदि (हाणे) हीन (असंखिज्जभागहीणे) अस्स थयात् भागहीन (अह अच्चमहिए) अगर अधिक

द्वे दर्शने, अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकोऽपि एवञ्चैव, नवरम् अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, आदिमैश्वर्युर्भिर्जनैः पटस्थानपतितः, केवलज्ञानपर्यवैस्तुल्यः, त्रिभिरज्ञानैः, त्रिभिर्दर्शनैः पटस्थानपतितः, केवलदर्शनपर्यवैस्तुल्यः, जघन्यस्थितिकानां भदन्त ! मनुष्याणां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते-जघन्यस्थितिकानां मनुष्याणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यस्थितिको

हीणे) असंख्यात भाग हीन (अह अवभहिए) अगर अधिक है (असंखेज्जइ भागअवभहिए) असंख्यातभाग अधिक है (दो नाणा) उसमें दो ज्ञान (दो अन्नाणा) दो अज्ञान (दो दंसणा) दो दर्शन (अजहणमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव) मध्यम अवगाहना वाला भी इसी प्रकार (नवरं ओगाहणदृयाए चउट्टाणवडिए) विशेष यह कि अवगाहना से चतुःस्थानपतित है (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित है (आइल्लेहिं चउहिं नाणेहिं) आदि के चार ज्ञानों से (छट्टाणवडिए) षटस्थानपतित (केवलनाणपज्जवेहिं तुल्ले) केवल ज्ञान के पर्यायों से तुल्य (तिहिं अण्णाणेहिं) तीन अज्ञानों से (तिहिं दंसणेहिं) तीन दर्शनों से (छट्टाणवडिए) षटस्थानपतित है (केवलदंसणपज्जवेहिं) केवलदर्शन के पर्यायों से (तुल्ले) तुल्य

(जहण्णठिइयाणं भंते ! मणुस्साणं) भगवन् ! जघन्य स्थिति वाले मनुष्यों के (केवइया पज्जवा पण्णत्ता) कितने पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णठिइयाणं मणु-

छे (असखिज्जइ भाग अवभहिए) असंख्यात भाग अधिक छे (दो नाणा) तेभा जे ज्ञान (दो अन्नाणा) जे अज्ञान (दो दंसणा) जे दर्शन (अजहणमणुक्कोसोगाहणए एवं चेव) मध्यम अवगाहनावाला पण्णत्ता प्रकारे वाणुवा (नवर ओगाहणदृयाए चउट्टाणवडिए) विशेष अके अवगाहनावालाथी अतुस्थान पतित छे (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी अतुस्थान पतित छे (आइल्लेहिं चउहिं नाणेहिं) आदिना चार ज्ञानोथी (छट्टाणवडिए) षटस्थान पतित (केवलनाणपज्जवेहिं तुल्ले) केवल ज्ञानना पर्यायोथी तुल्य (तिहिं अण्णाणेहिं) त्रय अज्ञानोथी (तिहिं दंसणेहिं) त्रय दर्शनोथी (छट्टाणवडिए) षटस्थान पतित छे (केवलदंसणपज्जवेहिं) केवल दर्शनना पर्यायोथी (तुल्ले) तुल्य

(जहण्णठिइयाणं भंते ! मणुस्साणं) हे भगवन् ! जघन्य स्थितिवाला मनुष्योना (केवइया पज्जवा पण्णत्ता) केटवा पर्याय कक्षा छे ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम अनन्त पर्याय कक्षा छे (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्ण-

मनुष्यः जघन्यस्थितिकस्य मनुष्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः
 अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, रित्यतया तुल्यः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः द्वाभ्या-
 मज्ञानाभ्यां द्वाभ्यां दर्शनाभ्यां षट्स्थानपतितः, एवम् उत्कृष्टस्थितिकोऽपि,
 नवरं द्वे ज्ञाने, द्वे अज्ञाने, द्वे दर्शने, अजघन्यालुत्कृष्टस्थितिकोऽपि एवञ्चैव,
 नवरं स्थित्या चतुःस्थानपतितः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः आदि-

स्साणं अणता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! किस कारण से
 ऐसा कहा गया है कि जघन्य स्थितिक मनुष्यों के अनन्त पर्याय
 कहे गए हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णठिइए मणुस्से) जघन्य
 स्थिति वाला मनुष्य (जहण्णठिइयस्स मणुस्सस्स) जघन्य स्थिति
 वाले मनुष्य से (द्वन्द्वयाए तुल्ले) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है (पग्गद्वयाए
 तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है (ओगाहणद्वयाए) अवगाहना
 से (चउट्टाणवडिए) चतुःस्थानपतित है (ठिईए तुल्ले) स्थिति से तुल्य है
 (वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायों से (दोहिं
 अन्नाणेहिं) दो अज्ञानों से (दोहिं दंसणेहिं) दो दर्शनों से (छट्टाणवडिए)
 षट्स्थानपतित है (एवं उक्कोसठिइए वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थिति
 वाला भी (नवरं) विशेष (दो नाणा) दो ज्ञान (दो अन्नाणा) दो
 अज्ञान (दो दंसणा) दो दर्शन कहना चाहिए

(अजहण्णमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव) मध्यमस्थितिक भी इसी
 प्रकार (नवरं) विशेष (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थान
 पतित (ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थान-

ठिइयाणं मणुस्साण अणता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! १। कारणे अपेधु कल्लु के
 जघन्य स्थितिक मनुष्येना अनन्त पर्याय कल्ला छे ? (गोयमा !) हे गौतम !
 (जहण्ण ठिईए मणुस्से) जघन्य स्थितिवाणा मनुष्य (जहण्णठिईयस्स मणुस्सस्स)
 जघन्य स्थितिवाणा मनुष्येथी (द्वन्द्वयाए तुल्ले) द्रव्यनी अपेक्षाम्मे तुल्य छे
 (पग्गद्वयाए तुल्ले) प्रदेशेनी अपेक्षाम्मे तुल्य छे (ओगाहणद्वयाए) अवगाहनाथी
 (चउट्टाणवडिए) चतुस्थान पतित छे (ठिईए तुल्ले) स्थितिथी तुल्य छे (वण्ण
 गंध रस फास पज्जवेहिं) वरुं गंध रस स्पर्शना पर्यायेथी (दोहिं अन्नाणेहिं)
 मे अज्ञानेथी (दोहिं दंसणेहिं) मे दर्शनेथी (छट्टाणवडिए) षट्स्थान पतित
 छे (एवं उक्कोसठिइए वि) एव प्रकारे उत्कृष्ट स्थितिवाणा पणु (नवरं) विशेष
 (दो नाणा) मे ज्ञान (दो अन्नाणा) मे अज्ञान (दो दंसणा) मे दर्शन कल्लेवा जेधम्मे
 (अजहण्णमणुक्कोसठिईए वि एवं चेव) मध्यम स्थिति वाणा पणु एव
 शीते समन्वा (नवरं) विशेष (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी चतुस्थान पतित

मैश्वतुर्भिर्ज्ञानैः षट्स्थानपतितः, केवलज्ञानपर्यवैस्तुल्यः, त्रिभिरज्ञानैः, त्रिभिर्दर्शनैः षट्स्थानपतितः केवलदर्शनपर्यवैस्तुल्यः, जघन्यगुणकालकानाम् भदन्त ! मनुष्याणां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते-जघन्यगुणकालकानां मनुष्याणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यगुणकालको मनुष्यो जघन्यगुणकालकस्य मनुष्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः,

पतित(आइल्लोहिं चउहिं नाणेहिं छट्टाणवडिए) आदि के चार ज्ञानों से षट्स्थानपतित (केवलनाणपज्जवेहिं तुल्ले) केवलज्ञान के पर्यायों से तुल्य (तिहिं अन्नाणेहिं तिहिं दसणेहिं छट्टाणवडिए) तीन अज्ञानों और तीन दर्शनों से षट्स्थानपतित (केवलदंसणपज्जवेहिं तुल्ले) केवलदर्शन के पर्यायों से तुल्य

(जहण्णगुणकालयाणं भंते ! मणुस्साणं केवइया पज्जवा पण्णत्ता) जघन्यगुण काले मनुष्यों के हे भगवन् ! कितने पर्याय कहे हैं ? (गो ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ-जहण्णगुणकालयाणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे भगवन् ! किसकारण से ऐसा कहा गया कि जघन्यगुण काले मनुष्यों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा) हे गौ ! (जहण्णगुणकालए मणुस्से) जघन्यगुण कालामनुष्य (जहण्णगुणकालग मणुस्सस्स) जघन्यगुण काले मनुष्य से (द्ववट्टयाए तुल्ले) द्रव्य से तुल्य (पएसइयाए तुल्ले) प्रदेशों से तुल्य (ओगाहणट्टयाए चउ-

(ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनाथी यतुःस्थान पतित छे (आइल्लोहिं चउहिं नाणेहिं छट्टाणवडिए) आदिना चार ज्ञानोथी षट्स्थान पतित (केवलनाणपज्जवेहिं तुल्ले) केवलज्ञानना पर्यायोथी तुल्य (तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए) त्रय अज्ञानो अने त्रय दर्शनीथी षट्स्थान पतित (केवलदंसणपज्जवेहिं तुल्ले) केवल दर्शनना पर्यायोथी तुल्य

(जहण्णगुणकालयाणं भंते ! मणुस्साणं केवइया पज्जवा पण्णत्ता ?) जघन्य गुणु काणा मनुष्येना हे भगवन् ! केटवा पर्याय कइया छे ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कइया छे (से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ-जहण्णगुणकालयाणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे भगवन् ! शा क्षश्से ओपुं कइए छे के जघन्य गुणु काणा मनुष्येना अनन्त पर्याय कइया छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णगुणकालए मणुस्से) जघन्य गुणु काणा मनुष्य (जहण्णगुणकालगस्स मणुस्सस्स) जघन्यगुणु काणा मनुष्यथी (द्ववट्टयाए तुल्ले) द्रव्यथी तुल्य

स्थित्या चतुःस्थानपतितः, कृष्णवर्णपर्यवैस्तुल्यः, अवशेषैः वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितः, चतुर्भिर्ज्ञानैः षट्स्थानपतितः, केवलज्ञानपर्यवैस्तुल्यः, त्रिभिर-ज्ञानैः षट्स्थानपतितः, केवलदर्शनपर्यवैस्तुल्यः, एवमुत्कृष्टगुणकालकोऽपि, अज-घन्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि एवञ्चैव नवरं स्वस्थाने षट्स्थानपतितः, एवं पञ्च-वर्णाः, द्वौ गन्धौ, पञ्चरसाः, अष्टौ स्पर्शाः भणितव्याः, जघन्याभिनिवोधिक-

द्वानवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित (कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले) कृष्ण वर्ण के पर्यायों से तुल्य (अवसेसेहिं वण्णगंधरसफासेहिं छट्टाणवडिए) शेष वर्ण गंध, रस और स्पर्श से षट्स्थानपतित (चउहिं नाणेहिं छट्टाणवडिए) चार ज्ञानों से षट्स्थानपतित (केवलनाणपज्जवेहिं तुल्ले) केवल ज्ञान के पर्यायों से तुल्य (तिहिं अन्नाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए) तीन अज्ञानों से तीन दर्शनों से षट्स्थानपतित (केवलदंसणपज्जवेहिं तुल्ले) केवलदर्शन के पर्यायों से तुल्य

(एवं उक्कोसगुणकालए वि) इसी प्रकार उत्कृष्टगुण कृष्ण भी (अजहण गुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव) मध्यमगुण कृष्ण भी इसी प्रकार (नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए) विशेषता यह कि स्वस्थान में भी षट्स्थानपतित है (एव पंचवण्णा) पांचों वर्ण (दो गंधा) दोनो गंध (पंच रसा) पांचों रस (अट्टफासा) आठ स्पर्श (भाणियव्वा) कहने चाहिए

(जहण्णाभिणिघोहियनाणीणं मणुस्साणं केवइया पज्जवा प-

(पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशोत्थी तुल्य (ओगाहट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनाथी अतु.स्थान पतित (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी अतुस्थान पतित (कालवण्ण-पज्जहिं तुल्ले) कृष्ण वर्णना पर्यायोत्थी तुल्य (अवसेसेहिं वण्णगंधरसफासेहिं छट्टाणवडिए) शेष वर्ण गंध रस अने स्पर्शथी षट्स्थान पतित (चउहिं नाणेहिं छट्टाणवडिए) आठ ज्ञानोत्थी षट्स्थान पतित छे (केवलनाणपज्जवेहिं तुल्ले) केवल-ज्ञानना पर्यायोत्थी तुल्य (तिहिं अन्नाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए) त्रय अज्ञानो, अने त्रय दर्शनाथी षट्स्थान पतित छे (केवलदंसणपज्जवेहिं तुल्ले) केवल दर्शनना पर्यायोत्थी तुल्य

(एवं उक्कोसगुणकालए वि) अथ प्रकारे उत्कृष्ट शुष्ण कृष्ण पशु (अज-हणमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव) अथे रीते मध्यम शुष्ण कृष्ण पशु (नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए) विशेषता अथे के स्वस्थानमा पशु षट्स्थान पतित छे (एवं पंच वण्णा) पांचे वर्ण (दो गंधा) अने गंधा (पंचरसा) पांचे रसे (अट्टफासा) आठे स्पर्श (भाणियव्वा) कहेवा जेधअथे

ज्ञानिनां मनुष्याणाम् कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्याभिनिबोधिकज्ञानिनां मनुष्याणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्याभिनिबोधिकज्ञानी मनुष्यो जघन्याभिनिबोधिकज्ञानिनो मनुष्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः पटस्थानपतितः, आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैस्तुल्यः, श्रुतज्ञानपर्यवैः द्वाभ्यां णत्ता ?) जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानी मनुष्यो के कितने पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ? अगंता पञ्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ—जहण्णाभिणिबोहिनाणीणं अगंता पञ्जवा पणत्ता ?) किसकारण से हे भगवन् ! ऐसा कहा जाता है कि जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानी मनुष्यों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णाभिणिबोहियनाणी मणूसे) हे गौतम ! जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानी मनुष्य (जहण्णाभिणिबोहिय णाणिस्स मणूस्सस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी मनुष्य से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों की दृष्टि से तुल्य है (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवड्डिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित (ठिईए चउट्टाणवड्डिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित (वण्णगंधरसफास पञ्जवेहिं छट्टाणवड्डिए) वर्ण, गंध, रस स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित (आभिणिबोहिय नाणपञ्जवेहिं तुल्ले) आभिनिबोधि

(जहण्णाभिणिबोहियनाणीण मणूस्साण केवइया पञ्जवा पणत्ता ?) जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानी मनुष्येना केटवा पर्याय कइया छे (गोयमा ! अगंता पञ्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कइया छे (से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ जहण्णाभिणिबोहियनाणीण मणूस्साणं अगंता पञ्जवा पणत्ता !) हे भगवन् ! शां करणे अेषु अह्णु छे के जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी मनुष्येना अनन्त पर्याय कइया छे ? (गोयमा ! जहण्णाभिणिबोहियनाणी मणूसे) हे गौतम ! जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानी मनुष्य (जहण्णाभिणिबोहियणाणिस्स मणूस्सस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी मनुष्यथी द्रव्येना दृष्टिअे तुल्य छे (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशेना दृष्टिअे तुल्य छे (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवड्डिए) अवगाहनाथी चतुःस्थान पतित (ठिईए चउट्टाणवड्डिए) स्थितिथी चतुःस्थान पतित (वण्णगंधरसफासपञ्जवेहिं छट्टाणवड्डिए) वर्णं गंध रस अने स्पर्शेना पर्यायेथी षट्स्थान पतित (आभिनिबोहियनाणपञ्जवेहिं तुल्ले) आभिनिबोधिकज्ञानेना पर्यायेथी तुल्य (सुयनाणपञ्जवेहिं) श्रुतज्ञानेना पर्यायेथी (बोहिं वसणेहिं) अे दर्शनेथी (छट्टाणवड्डिए)

दर्शनाभ्याम् षट्स्थानपतितः, एवमुत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानी अपि, नवरम्-
आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैः तुल्यः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, त्रिभिर्ज्ञानैः, त्रिभि-
दर्शनैः, षट्स्थानपतितः, अजघन्यानुत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानी यथा उत्कृष्टाभि-
निबोधिकज्ञानी, नवरं स्थित्या चतुःस्थानपतितः, स्वस्थाने षट्स्थानपतितः, एवं
श्रुतज्ञानी अपि, जघन्यावधिज्ञानिनां भदन्त ! मनुष्याणां कियन्तः, पर्यवाः

ज्ञान के पर्यायों से तुल्य (सुयनाणपञ्जवेहिं) श्रुतज्ञान के पर्यायों
से (दोहिं दंसणेहि) दो दर्शनों से (छट्टाणवडिए) षट्स्थानपतित
(एवं उक्कोसाभिणिबोहिकनाणी वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट आभिनि-
बोधिकज्ञानी भी (नवरं) विशेष (आभिणिबोहियनाणपञ्जवेहिं तुल्ले)
आभिनिबोधिकज्ञान के पर्यायों से तुल्य (ठिईए तिट्टाणवडिए) स्थिति
से त्रिस्थानपतित (तिहिं नाणेहिं) तृतीन ज्ञानों से (तिहिं दंसणेहिं)
तीन दर्शनों से (छट्टाणवडिए) षट्स्थानपतित (अजहण्णमणुक्कोसा-
भिणिबोहियनाणी जहा उक्कोसाभिणिबोहियनाणी) मध्यम आभि-
निबोधिक ज्ञानी जैसे उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानी (नवरं)
विशेष (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित (सट्टाणे
छट्टाणवडिए) स्वस्थान में षट्स्थानपतित (एवं सुयणाणी वि) इसी
प्रकार श्रुतज्ञानी भी

(जहण्णोहिनाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवइया पञ्जवा पणत्ता)
न्य अवधिज्ञानी मनुष्यों के हे भगवन् ! कितने पर्याय कहे हैं ?
(गोयमा ! अणंता पञ्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे

षट्स्थान पतित (एवं उक्कोसाभिणिबोहियनाणी वि) ज्येष्ठ प्रकारे उत्कृष्ट आभि-
निबोधिकज्ञानी पथु (नवर) विशेष (आभिणिबोहियनाणपञ्जवेहिं तुल्ले) आभिनि-
बोधिकज्ञानना पर्यायार्थी तुल्य (ठिईए तिट्टाणवडिए) स्थितिथी त्रिस्थान पतित
(तिहिं नाणेहि) त्रथु ज्ञानार्थी (तिहिं दंसणेहिं) त्रथु दर्शनार्थी (छट्टाणवडिए) षट्-
स्थान पतित (अजहण्णमणुक्कोसाभिणिबोहियनाणी जहा उक्कोसाभिणिबोहियनाणी)
मध्यम आभिनिबोधिक ज्ञानी जेवा उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानी (नवरं)
विशेष (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी अतु स्थान पतित (सट्टाणे छट्टाणवडिए)
स्वस्थानमा षट्स्थान पतित (एवं सुयणाणी वि) ज्येष्ठ प्रकारे श्रुतज्ञानी पथु

(जहण्णोहिनाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवइया पञ्जवा पणत्ता ?) अथ-
न्य अवधिज्ञानी मनुष्याणां हे भगवन् ! कितने पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ? अणंता
पञ्जवा पणत्ता ?) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणद्वेणं भंते ! एवं

प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—
जघन्यावधिज्ञानिनां मनुष्याणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यावधिज्ञानी
मनुष्यो जघन्यावधिज्ञानिनो मनुष्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया तुल्यः,
अवगाहनार्थतया त्रिस्थानपतितः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगंधरसस्पर्शपर्यवैः
द्वाभ्या ज्ञानाभ्यां षट्स्थानपतितः, अवधिज्ञानपर्यवैस्तुल्यः, मनःपर्यवज्ञानपर्यवैः
षट्स्थानपतितः, त्रिभिर्दर्शनैः षट्स्थानपतितः, एवमुत्कृष्टावधिज्ञानी अपि, अज-
घन्यानुत्कृष्टावधिज्ञानी एवञ्चैव, नवरम् अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्व-
स्थाने षट्स्थानपतितः, यथा अवधिज्ञानी तथा मनःपर्यवाज्ञानी अपि भणितव्यः,

हैं (से केणद्वेणं भंते एवं वुच्चवद्-जहण्णोहिनाणीणं मणुस्साण अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा कि जघन्य अवधिज्ञानी मनुष्यों के अनन्त पर्याय हैं (गोयमा ! जहण्णोहिनाणी मणुस्से जहण्णोहिनाणिस्स मणुस्सस्स दव्वद्वयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य अवधिज्ञानी मनुष्य जघन्य अवधिज्ञानी मनुष्य से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य हैं (पएसद्वयाए तुल्ले) प्रदेशों की दृष्टि से तुल्य हैं (ओगाहणद्वयाए तिद्वाणवडिए ठिइए तिद्वाणवडिए) अवगाहना और स्थिति से त्रिस्थानपतित है (वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं) वर्ण, गंध, रस स्पर्श के पर्यायों से (दोहिं नाणेहिं) दो ज्ञानों से (छट्टाणवडिए) षट्स्थानपतित है (ओहिनाणपज्जवेहिं तुल्ले) अवधिज्ञान के पर्यायों से तुल्य है (मणपज्जवनाणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) मनः-पर्यवज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित है (तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए) तीन दर्शनों से षट्स्थानपतित (एवं उक्कोसोहिनाणी वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट अवधिज्ञानी भी (अजहण्णमणुक्कोसोहिनाणी

वुच्चवद्-जहण्णोहिनाणीणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! शा
कारणे अेषु कल्लु छे के ञ्छन्य अवधिज्ञानी मनुष्येना अनन्त पर्याय छे (गोयमा !
जहण्णोनाणी मणुस्से जहण्णोहिनाणिस्स मणुस्सस्स दव्वद्वयाए तुल्ले) हे गौतम !
जघन्य अवधिज्ञानी मनुष्य जघन्य अवधिज्ञानी मनुष्यथी द्रव्यथी दृष्टिअे
तुल्य छे (पएसद्वयाए तुल्ले) प्रदेशेना दृष्टिअे तुल्य छे (ओगाहणद्वयाए तिद्वाण-
वडिए ठिइए तिद्वाणवडिए) अवगाहना अने स्थितिथी त्रिस्थान पतित छे (वण्ण-
गंधरसफासपज्जवेहिं) वर्ण, गंध, रस, स्पर्शा पर्यायेथी (दोहिं नाणेहिं) अे
ज्ञानेथी (छट्टाणवडिए) षट्स्थान पतित छे (ओहिनाणपज्जवेहिं तुल्ले) अवधि
ज्ञानेना पर्यायेथी तुल्य छे (मणपज्जवनाणपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) मन-पर्यव
ज्ञानेना पर्यायेथी षट्स्थान पतित छे (तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए) तथु
दर्शनेथी षट्स्थान पतित (एवं उक्कोसोहिनाणी वि) अे प्रकारे उत्कृष्ट अवधि-

नवरम् अवगाहनार्थतया त्रिस्थानपतितः, यथा आभिनिबोधिकज्ञानी तथा मत्यज्ञानी श्रुताज्ञानी अपि भणितव्यः, यथा अवधिज्ञानी तथा विभङ्गज्ञानी अपि भणितव्यः, चक्षुर्दर्शनी अचक्षुर्दर्शनी च यथा आभिनिबोधिकज्ञानी, अवधिदर्शनी यथा अवधिज्ञानी यत्र ज्ञानानि तत्र अज्ञानानि न सन्ति, यत्र अज्ञानानि तत्र ज्ञानानि न सन्ति, यत्र दर्शनानि तत्र ज्ञानान्यपि अज्ञानान्यपि, केवलज्ञानिनां भदन्त ! मनुष्याणां

एवं चेव) मध्यम अवधिज्ञानी इसी प्रकार (नवरं ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिए) विशेष यह कि अवगाहना से चतुःस्थानपतित है (सट्टाणे छट्टाणवडिए) स्वस्थान में घटूस्थानपतित है

(जहा ओहिनाणी तहा मणपज्जवनाणी वि भाणियव्वे) जैसा अवधिज्ञानी वैसा ही मनःपर्यवज्ञानी भी कहना चाहिए (नवरं ओगाहणद्वयाए तिट्टाणवडिए) विशेषता यह कि अवगाहना से त्रिस्थानपतित है (जहा आभिणिबोहियनाणी तहा मइअण्णाणी सुयअण्णाणी वि भाणियव्वे) मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी आभिनिबोधिकज्ञानी के समान कहना चाहिए (जहा ओहिनाणी तहा विभगनाणी वि भाणियव्वे) जैसे अवधिज्ञानी जैसे ही विभगज्ञानी भी कहना चाहिए (चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी य जहा आभिणिबोहियनाणी) चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी आभिनिबोधिकज्ञानी के समान (ओहिदंसणी जहा ओहिनाणी) अवधिदर्शनी अवधिज्ञानी के समान (जत्थ नाणा तत्थ अण्णाणा नत्थि) जहां

ज्ञानी यत्थ (अजहणमणुक्कोसोहिनाणी एव चेव) मध्यम अवधिज्ञानी ये प्रकारे (नवरं ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिए) विशेष ये छे के अवगाहनाथी यतुःस्थान पतित छे (सट्टाणे छट्टाणवडिए) स्वस्थानमा घटूस्थान पतित छे

(जहा ओहिनाणी तहा मणपज्जवनाणी वि भाणियव्वे) जैसा अवधिज्ञानी तेवाज् मनःपर्यवज्ञानी यत्थ कडेवा लेधंथे (नवरं ओगाहणद्वयाए तिट्टाणवडिए) विशेष येके अवगाहनाथी त्रिस्थान पतित छे (जहा आभिणिबोहियनाणी तहा मइअण्णाणी सुयअण्णाणी वि भाणियव्वे) मत्यज्ञानी अने श्रुताज्ञानी आभिनिबोधिकज्ञानीना समान कडेवा लेधंथे (जहा ओहिनाणी तहा विभगनाणी वि भाणियव्वे) जैसा अवधिज्ञानी तेवाज् विलगज्ञानी कडेवा लेधंथे. (चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी य जहा आभिणिबोहियनाणी) चक्षुदर्शनी अने अचक्षुदर्शनी आभिनिबोधिकज्ञानीना समान (ओहिदंसणी जहा ओहिनाणी) अवधिदर्शनी अवधिज्ञानी समान (जत्थ नाणा तत्थ अण्णाणा नत्थि) जथा ज्ञान छे त्या अज्ञान नथी

कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्येन भदन्त ! एवमुच्यते—केवलज्ञानिनो मनुष्याणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! केवलज्ञानी मनुष्यः केवलज्ञानिनो मनुष्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितः, केवलज्ञानपर्यवैः केवलदर्शनपर्यवैश्च तुल्यः, एवं केवलदर्शनी

ज्ञान हैं वहां अज्ञान नहीं है (जत्थ अण्णाणा तत्थ नाणा नात्थि) जहां अज्ञान हैं वहां ज्ञान नहीं है (जत्थ दसणा तत्थ णाणा वि अण्णाणा वि) जहां दर्शन हैं वहां ज्ञान भी और अज्ञान भी होते हैं

(केवलनाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! केवलज्ञानी मनुष्यों के कितने पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—केवलनाणीणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा जाता है कि केवलज्ञानी मनुष्यों के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा ! केवल नाणी मणूसे केवलनाणिस्स मणूसस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले) केवलज्ञानी मनुष्य केवलज्ञानी मनुष्य से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है (पएसट्ठयाए तुल्ले) प्रदेशों से तुल्य है (ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित है (ठिईए तिट्ठाणवडिए) स्थिति से त्रिस्थानपतित है (वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित है (केवलनाणपज्जवेहिं केवलदंसणपज्जवेहिं य तुल्ले)

(जत्थ अण्णाणा तत्थ णाणा णत्थि) न्या अज्ञानं छे त्या ज्ञानं नथी (जत्थ दंसणा तत्थ णाणा वि अण्णाणा वि) न्या दर्शनं छे, त्या ज्ञानं पणुं अने अज्ञानं पणुं छे। यं छे

(केवलनाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! केवलज्ञानी मनुष्येना डेट्ठा पर्यायं क्खंतां छे (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्यायं क्खंतां छे (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ केवलनाणीणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! सा कारणे अयेमं क्खेवायं छे के केवलज्ञानी मनुष्येना अनन्त पर्यायं छे ? (गोयमा ! केवलनाणी मणूसे केवलनाणिस्स मणूसस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले) केवलज्ञानी मनुष्य केवलज्ञानी मनुष्येना द्रव्येना दृष्टिसे तुल्यं छे (पएसट्ठयाए तुल्ले) प्रदेशेथी तुल्यं छे (ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए) अवगाहनेथी चतुःस्थानपतितं छे (ठिईए तिट्ठाणवडिए) स्थितिथी त्रिस्थानपतितं छे (वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए) वर्णं गंधं, रसं, स्पर्शं पर्यायेथी षट्स्थानपतितं छे (केवलनाणपज्जवेहिं

अपि मनुष्यो भणितव्यः, वानव्यन्तराः यथा असुरकुमाराः, एवं ज्योतिष्क वैमानिकाः, नवरं स्वस्थाने स्थित्या त्रिस्थानपतितो भणितव्यः, ते एते जीवपर्यवाः ।

टीका—अथ जघन्यावगाहनकादीनां मनुष्याणां पर्यायान् प्ररूपयितुमाह—‘जहण्णोगाहणगाण भंते ! मणुस्साणं केवइया पज्जवा पण्णत्ता ?’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! जघन्यावगाहनकानां—जघन्यम्—अवगाहनं शरीरोच्छ्रयो येषां ते जघन्यावगाहनकास्तेषां मनुष्याणां क्रियन्तः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् उत्तरयति—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ जघन्यावगाहनकानां मनुष्याणाम् अनन्ताः पर्यवा प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘से केणट्ठेणं भंते ! एवं

केवज्ञान और केवलदर्शन के पर्यायों तुल्य है (एवं केवलदंसणी वि मणूसे भाणियव्वे) इसी प्रकार केवलदर्शनी भी मनुष्य कहना चाहिए (वाणमंतरा जहा असुरकुमारा) वानव्यन्तर असुरकुमारों के समान (एवं जोइसियवेमाणिया) इसी प्रकार ज्योतिष्क और वैमानिक नवरं) विशेष (सट्ठाणे ठिईए तिट्ठाणवडिए) स्वस्थान में स्थिति से त्रिस्थानपतित (भाणियव्वे) कहना चाहिए (से सं जीवपज्जवा) जीवपर्यायों का निरूपण समाप्त

टीकार्थ—अब जघन्य आदि अवगाहना वाले मनुष्यों का निरूपण किया जाता है—

गौतम प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना अर्थात् शरीर की उँचाई वाले मनुष्यों के कितने पर्याय हैं ?

भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाले मनुष्यों के अनन्त पर्याय कहे गए हैं ।

केवलदंसणपज्जवेहिं तुल्ले) केवणज्ञान अने केवल दर्शनना पर्यायोथी तुल्य छे (एवं केवलदंसणी वि मणूसे भाणियव्वे) अेव प्रकारे केवल दर्शनी मनुष्य पण्ण कडेवा लेधंअे (वाणमंतरा जहा असुरकुमारा) वानव्यतर—असुरकुमारेना समान (एव जोइसियवेमाणिया) ज्योतिष्क अने वैमानिक (नवर) विशेष (सट्ठाणे ठिईए तिट्ठाणवडिए) स्वस्थानमा स्थितिथी त्रिस्थान पतित (भाणियव्वे) कडेवा लेधंअे (सिंत जीवपज्जवा) आ प्रकारे एव पर्यायोनु निरूपण कडेल छे

टीकार्थ— हुवे जघन्य आदि अवगाहनावाणा मनुष्योनु निरूपण कराय छे श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! जघन्य अवगाहनावाणा अर्थात्

शरीरनी उँचाईवाणा मनुष्योना केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! जघन्य अवगाहनावाणा मनुष्योना अनन्त पर्याय कडेला छे.

बुच्चइ-जहण्णोगाहणमाणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता' हे भदन्त ! तत्
 -अथ, केनार्येन कथं तावत्, एवम्-उत्तरीत्या उच्यते यत् जघन्यावगाहनकानां
 मनुष्याणाम् अनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? इति भगवान् आह-'गोयमा !' हे
 गौतम ! 'जहण्णोगाहणए मणुसे जहण्णोगाहणगस्स मणुस्सस्स दव्वट्टयाए तुल्ले'
 'जघन्यावगाहनको मनुष्यो जघन्यावगाहनकस्य मनुष्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो
 भवति, 'पएसट्टयाए तुल्ले' प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, 'ओगाहणट्टयाए'तुल्ले'
 अवगाहनार्थतया-शरीरोच्छ्रयापेक्षया तुल्यो भवति, 'ठिईए तिट्ठाणवड्डिए' स्थि-
 त्या-आयुः कर्मानुभवक्षणस्थित्यपेक्षया त्रिस्थानपतितो भवति, मनुष्यस्यापि
 जघन्यावगाहनकस्य नियमतः संख्येयवर्षायुष्कतया संख्येयवर्षायुष्कस्य च स्थि-
 त्यपेक्षया त्रिस्थानपतितत्वमेव संभवति न तु चतुःस्थानपतितत्वम्, तदभिलाष-
 स्तु-जघन्यावगाहनको मनुष्यो जघन्यावगाहनकस्य मनुष्यस्य स्थित्यपेक्षया असं-
 ख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा भवति, असं-
 ख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा संख्येयगुणाभ्यधिको वा
 भवतीति बोध्यः, 'वण्णगंधरसकासयपज्जवेहिं तिहिं नाणेहिं दोहिं अन्नाणेहिं

गौतम पुनः प्रश्न करते हैं-हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा
 है कि जघन्य अवगाहना वाले मनुष्यों के अनन्त पर्याय कहे गए हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाला एक मनुष्य
 दूसरे जघन्य अवगाहना वाले मनुष्य से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य
 होता है, प्रदेशों की अपेक्षा भी तुल्य होता है, अवगाहना से भी
 तुल्य होता है किन्तु स्थिति से त्रिस्थानपतित होता है, क्योंकि
 जघन्य अवगाहना वाला मनुष्य नियम से संख्यात वर्ष की आयु
 वाला ही होता है, अतएव असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन
 संख्यातगुण हीन या असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक

श्री गौतमस्वामी पुन प्रश्न करे छे-हे भगवन् ! शा कारणे ज्येपु कहुं
 छे के जघन्य अवगाहना वाला मनुष्याना अनन्त पर्याय कहेवायेला छे ?

श्रीभगवान्-हे गौतम ! जघन्य अवगाहनावाणो ज्येक मनुष्य जघन्य अवगा-
 हनावाणा भील मनुष्यथी द्रव्यनी अपेक्षाजे तुल्य होय छे प्रदेशोनी अपेक्षाजे
 पणु तुल्य होय छे, अवगाहनाथी पणु तुल्य होय छे परन्तु स्थितिथी त्रिस्थान
 पतित भने छे केभके जघन्य अवगाहनावाणा मनुष्य नियमथी स ज्थात
 वर्षनी आयुष्यवाणा ज होय छे, तेथी ज ते अस ज्थात भागहीन, स ज्थात
 भागहीन, स ज्थात शुलुहीन अजर अस ज्थात भाग अधिक, स ज्थात भाग
 अधिक अधवा स ज्थात शुलु अधिक थाय छे. ते वरुण, गध, रस. स्पर्शना

तिर्हि दंसर्णोह छट्टाणवडिण' वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः त्रिभिर्ज्ञानैः मति श्रुतावधि-
ज्ञानलक्षणैः, द्वाभ्यामज्ञानाभ्याम् मत्यज्ञान श्रुताज्ञानाभ्याम्, त्रिभिर्दर्शनैश्च षट्-
स्थानपतितो भवति, तत्र कस्यचित् तीर्थंकरस्य अनुत्तरोपपातिकदेवस्य वा
अप्रतिपतितावधिज्ञानेन जघन्यावगाहनायामुत्पादावस्थायामवधिज्ञानस्याप्युपल-
म्भात् 'त्रिभिर्ज्ञानै' रित्युक्तम्, विभङ्गज्ञानविशिष्टस्य तु नरकादुद्वृत्तस्य जघन्या-
वगाहनायां नोत्पादः संभवति तथा स्वभावत्वात्, अतो विभङ्गज्ञानानुप-
लम्भेन 'द्वाभ्यामज्ञानाभ्या' मित्युक्तम्, 'उक्तोसोगाहणए वि एवं चेव' उत्कृष्टा-
वगाहनकोऽपि मनुष्य एवञ्चैव-उत्कृष्टावगाहनकस्य मनुष्यस्य द्रव्यार्थतया

अथवा संख्यातगुण अधिक होता है। वह वर्ण गंध, रस, और
स्पर्श के पर्यायों से तीन ज्ञानों से अर्थात् मति श्रुत और अव-
धिज्ञानों से, मत्यज्ञान और श्रुताज्ञान इन दो अज्ञानों से तथा
चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अवधिदर्शन रूप तीन दर्शनों से
षट्स्थानपतित होता है, किसी तीर्थंकर का अथवा अनुत्तरोपपा-
तिक देव का अप्रतिपति अवधिज्ञान के साथ जघन्य अवगाहना में
उत्पाद होता है, तब जघन्य अवगाहना में भी अवधिज्ञान पाया
जाता है, अतएव यहाँ तीन ज्ञानों का कथन किया गया है। किन्तु
नारक से निकले हुए जीव का जघन्य अवगाहना में उत्पाद होता
नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, अतः जघन्य अवगाहना
में विभंगज्ञान नहीं पाया जा सकता, इस कारण यहाँ दो अज्ञानों
का ही उल्लेख किया गया है,

उत्कृष्ट अवगाहना वाले मनुष्य की भी इसी प्रकार की वक्तव्यता
समझनी चाहिए अर्थात् उत्कृष्ट अवगाहना वाला मनुष्य से द्रव्य और

पर्यायेथी, त्रयु ज्ञानोथी अर्थात् मति श्रुत अवधिज्ञानथी मत्यज्ञानथी अने
श्रुताज्ञान अने जे अज्ञानोथी तथा अक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन अने अवधिदर्शन
इय त्रयु दर्शनोथी षट्स्थान पतित थाय छे. न्यारे केथ तीर्थंकरने अथवा
अनुत्तरोपपातिक देवने अप्रतिपति अवधिज्ञानीनी साथे जघन्य अवगाहनामा
उत्पाद थाय छे त्यारे जघन्य अवगाहनामा पणु अवधिज्ञान मणी आवे छे
तेथीअ अडि त्रयु ज्ञानोतु कथन करायेतु छे पणु नरकमाथी निकणेदा एवनी
जघन्य अवगाहनामा उत्पत्ति थती नथी, केमके अनेमने स्वभावअने अनेवे छे
तेथी जघन्य अवगाहनामा विलगज्ञान नथी मणी आवतु अने कारणे अडि
जे अज्ञानोने अ उल्लेख कराये छे

उत्कृष्ट अवगाहनावाणा मनुष्यनी अने प्रकारनी वक्तव्यता समजणी लेथअने
अर्थात् उत्कृष्ट अवगाहनावाणा मनुष्य उत्कृष्ट अवगाहनावाणा मनुष्यथी द्रव्य

तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया तुल्यः, वर्णगन्धरसस्पर्श-
पर्यवैः पदस्थानपतितो भवति, किन्तु 'णवरं ठिर्ए सिय हीणे सिय तुल्ले
सिय अब्भहिए' नवरं-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थित्या-आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थि-
त्यपेक्षया, स्यात्-कदाचित् कश्चिद् हीनो भवति, स्यात्-कदाचित् कश्चित् तुल्यो
भवति, स्यात्-कदाचित् कश्चिद्भ्यधिको भवति, तत्र 'जइ हीणे असंपिज्जइ
भागहीणे, अह अब्भहिए असंखेज्जइभाग अब्भहिए' यदा हीनो विवक्षितस्तदा
असंख्येयभागहीनो भवति, अथ यदा अभ्यधिको विवक्षितस्तदा असंख्येयभागा-
भ्यधिको भवति, उत्कृष्टावगाहनकानां मनुष्याणां त्रिगव्यूतोच्छ्रयतया त्रिगव्यू-
तानाञ्च स्थितिर्जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागहीनत्रिपल्योपमानि, उत्कर्षेण तु
परिपूर्णत्रिपल्योपमानि भवन्ति त्रिपल्योपमासंख्येयभागश्च त्रिपल्योपमानाम-
संख्येयतमो भागो भवति, अतः पल्योपमासंख्येयभागहीन पल्योपमत्रयस्थितिकः,

प्रदेशों की दृष्टि से तुल्य है, अवगाहना से भी तुल्य होता है, वर्ण,
गंध, रस और स्पर्श से पदस्थानपतित होता है। स्थिति की दृष्टि
से स्यात् हीन भी होता है, तुल्य भी हो सकता है और अधिक
भी हो सकता है। अगर हीन हो तो असंख्यातभाग हीन होता है
और यदि अधिक हो तो असंख्यातभाग अधिक होता है। उत्कृष्ट
अवगाहना वाले मनुष्यों की अवगाहना तीन (गव्यूति) कोस की
होती है और उनकी स्थिति जघन्य पल्योपम के असंख्यातवे भाग
कम तीन पल्योपम की होती है और उत्कृष्ट पूर्ण तीन पल्योपम की।
तीन पल्योपम का असंख्यातवा भाग तीन पल्योपमों का असंख्यातवा
ही भाग है, अतएव जिस की स्थिति पल्योपम के असंख्यातवे भाग
कम तीन पल्योपम की होती है वह पूर्ण तीन पल्योपम की स्थिति वाले

अने प्रदेशानी दृष्टिसे तुल्य छे, अवगाहनाथी पणु तुल्य अने छे. वषु,
गंध, रस, अने स्पर्शथी पदस्थान पतित थाय छे. स्थितिनी दृष्टिथी स्यात्
हीन होय तो असंख्यात भागहीन थाय छे अने जे अधिक होय तो असं-
ख्यात भाग अधिक थाय छे उत्कृष्ट अवगाहनावाणा मनुष्यानी अवगाहना
त्रणु गव्यूति (कोस) नी होय छे अने तेमनी स्थिति जघन्य पल्योपमने
असंख्यातमे भाग ओछी त्रणु पल्योपमनी थाय छे अने उत्कृष्ट पूर्ण त्रणु
पल्योपमनी त्रणु पल्योपमने असंख्यातमे भाग त्रणु पल्योपमने असं-
ख्यातमे जे भाग छे, तेथी जे जेनी स्थिति पल्योपमने असंख्यातमे भाग
ओछी त्रणु पल्योपमनी थाय छे, ते पूर्ण त्रणु पल्योपमनी स्थितिवाणानी
अपेक्षासे असंख्यात भागहीन अने छे अने पूर्ण त्रणु पल्योपमवाणा तेमनी

परिपूर्णपल्योपमत्रयस्थितिकापेक्षयाऽसंख्येयभागहीनो भवति, तद्भिन्नस्तु तद-
पेक्षयाऽसंख्येयभागाभ्यधिको भवति, अन्यासा वृद्धिहानीनामनुपलम्भात्, 'दो
नाणा, दो अन्नाणा, दो दसणा' द्वे ज्ञाने-मति श्रुतज्ञानरूपे, द्वे अज्ञाने-मत्यज्ञान
श्रुताज्ञानरूपे, द्वे दर्शने च भवतः, तत्र कारणन्तु उत्कृष्टावगाहना मनुष्या असंख्येय-
वर्षायुषो भवति असंख्येयवर्षायुषाश्चावधिविगद्गज्ञानासंभवस्तथास्वाभावात्, अतो
द्वे एव ज्ञाने द्वे चाज्ञाने भवतः, 'अजहणमणुकोसोगाहण ए वि एवं चैव' अजघन्या-
नुत्कृष्टावगाहनकोऽपि मनुष्यः एवञ्चैव-अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकस्य मनुष्यस्य
द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति 'णवरं ओगाहणद्वया ए चउद्गाणवडि-
ए' नरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु अवगाहनार्थतया शरीरोच्छ्रयरूपतया, चतुःस्था-

की अपेक्षा असंख्यात-भागहीन होता है और पूर्ण तीन पल्योपम वाला
उसकी अपेक्षा असंख्यात-भाग अधिक स्थिति वाला होता है। इनमें
अन्य प्रकार की हीनता या अधिकता का सम्भव नहीं है।

उत्कृष्ट अवगाहना वाले मनुष्य में मति और श्रुत, ये दो ज्ञान
और मत्यज्ञान तथा श्रुताज्ञान ही पाये जाते हैं। दर्शन भी उनमें
दो ही होते हैं। इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट अवगाहना वाले
मनुष्य असंख्यात वर्ष की आयुवाले ही होते हैं और असंख्यात
वर्ष की आयु वालों में न अवधिज्ञान हो सकता है और न विभग-
ज्ञान ही क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। इस कारण उत्कृष्ट
अवगाहना वालों में दो ज्ञान और दो अज्ञान ही होते हैं,

मध्यम अवगाहना वालों की वस्तुव्यता भी इसी प्रकार समझ
लेनी चाहिए, अर्थात् वह द्रव्य की और प्रदेशों की दृष्टी से तुल्य

अपेक्षाये असंख्यात भाग अधिक स्थितिवाणा होय छे- तेमनामा अन्य
प्रकारनी हीनता अगर अधिकताना संभव न थी

उत्कृष्ट अवगाहनावाणा मनुष्यमा मति अने श्रुत ये अने ज्ञान अने
मत्यज्ञान तथा श्रुताज्ञान न भणी आवे छे दर्शन पणु तेओमा जे न होय
छे, तेनु कारणे ये छे के उत्कृष्ट अवगाहनावाणा मनुष्य असंख्यात वर्षनी
आयु वाणा न होय छे, अने असंख्यात वर्षनी आयुवाणाओमा अवधिज्ञान
थई शकतु नथी अने विलग ज्ञान पणु, केभडे तेमने स्वभाव न आवे छे
ये कारणे उत्कृष्ट अवगाहनावाणाओमा जे अज्ञान न होय छे.

मध्यम अवगाहनावाणाओनी वस्तुव्यता पणु ये प्रकारे समझ लेनी
जाईये अर्थात् ते द्रव्यनी अपेक्षाये अने प्रदेशोनी दृष्टीये तुल्य छे, विशेषे.

नपतितो भवति, अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकःसंख्येयवर्षायुष्कोऽपि भवति असं-
ख्येयवर्षायुष्कोपि, तत्र असंख्येयवर्षायुष्कोऽपि गव्युत द्वि गव्युतोऽद्यो भवति
अतोऽवगाहनापेक्षया चतुःस्थानपतितत्वं भवति, 'ठिईए चउट्टाणवडिए' स्थित्या
-आयुःकर्मानुभवलक्षणस्थित्या, चतुःस्थानपतितो भवति, प्रागुक्तयुक्तेः, 'आउ-
ल्लेहि चउहि नाणेहि छट्टाणवडिए' आद्यैश्चतुर्भिः ज्ञानैः-मति श्रुतापधिमनः-
पर्यवज्ञानलक्षणैः षट्स्थानपतितो भवति, तेषां चतुर्णामपि ज्ञानाना तत्तद्व्यादि
सापेक्षतया क्षयोपशमवैचित्र्यतस्तारतम्यसद्भावात् 'केवलनाणपज्जवेहि तुल्ले'
केवलज्ञानपर्यवैस्तुल्यो भवति, निःशेष स्वावरणक्षयेण प्रादुर्भूतस्य केवज्ज्ञानस्य

है, विशेषता यह है कि अवगाहना कि दृष्टि से चतुस्थानपतित होता है, क्योंकि मध्यम अवगाहना संख्यात वर्ष की आयु वाले की भी हो सकती है और असंख्यात वर्ष की आयु वाले की भी हो सकती है। असंख्यात वर्ष की आयु वाला भी एक या दो गव्युत की अवगाहनावाला होता है। अतः अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित कहा है। स्थिति की अपेक्षा मध्यम अवगाहना वाला चतुःस्थानपतित होता है इस संबंध में युक्ति पहले ही कही जा चुकी है। आदि के चार ज्ञानों अर्थात् मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यव ज्ञानों की अपेक्षा से षट्स्थानपतित होता है, क्योंकि ये चारों ज्ञान द्रव्य आदि की अपेक्षा रखते हैं तथा क्षयोपशमवैचित्र्य हैं और क्षयोपशम में विचित्रता होती है, अतएव उनमें तरतमना हीना स्वाभाविक है। वे केवलज्ञान के पर्यायों से तुल्य है, क्योंकि समस्त आचरणों के पूर्ण क्षय से उत्पन्न

पता ये छे के अवगाहनानी दृष्टिअे अतु स्थान पतित थाय छे, केमके मध्यम अवगाहना संख्यात वर्षनी आयुवाणानी पणु होए शके छे अने असंख्यात वर्षनी आयुवाणानी पणु थई शके छे. असंख्यात वर्षनी आयुवाणा पणु अेक अगरे जे गव्युतिनी अवगाहनावाणा होय छे तेथी अवगाहनानी अपेक्षाअे अतु स्थान पतित कइल छे स्थितिनी अपेक्षाअे मध्यम अवगाहनावाणा अतु स्थान पतित थाय छे, अे भाषनभा युक्ति आगण कइी हेवाए छे आदिना चार ज्ञानोभा अर्थात् मति, श्रुत, अवधि अने मन पर्यव ज्ञानोनी अपेक्षाअे षट्स्थान पतित थाय छे, केमके अे चारे ज्ञान द्रव्य आदिनी अपेक्षा राअे छे तथा क्षयोपशम न्य छे अने क्षयोपशमभा विचित्रता होय छे तेथीअे तरतमता थाय ते स्वाभाविक छे तेअे केवलज्ञानना पर्यायोथी तुल्य छे, केमके समस्त आवरणोना पूर्ण क्षयथी उत्पन्न थावावाणा केवलज्ञानभां होए पणु

પરિપૂર્ણપત્યોપમત્રયમ્થિતિકાપેક્ષયાડમંલ્યેયમાગહીના ભવતિ, તદ્ભિન્નસ્તુ તદ-
પેક્ષયાડસંસ્થેયમાગામ્પરિક્ષો ભવતિ, અન્યાસા વૃદ્ધિહાનીનામનુપલમ્ભાત્, 'દો
નાણા, દો અન્નાણા, દો દસણા' દ્વે જ્ઞાને-મતિ શ્રુતજ્ઞાનરૂપે, દ્વે અજ્ઞાને-મત્યજ્ઞાન
શ્રુતાજ્ઞાનરૂપે, દ્વે દર્શને ચ ભવતઃ, તત્ર કારણન્તુ ઉત્કૃષ્ટાવગાહના મનુષ્યા અસંસ્થેય-
વર્ષાયુષો ભવતિ અમસ્થેયવર્ષાયુષાન્નાર્વાચરિયદ્વિજ્ઞાનામભવમ્તથાસ્વામાવ્યાત્, અતો
દ્વે એવ જ્ઞાને દ્વે ચાજ્ઞાને ભવતઃ, 'અનદ્વષ્ટમણુતોમોગાહણાદિ એવં ચેવ' અજઘન્યા-
નુત્કૃષ્ટાવગાહનકાંડપિ મનુષ્યઃ પૂર્વઞ્ચ-અજઘન્યાનુત્કૃષ્ટાવગાહનકસ્ય મનુષ્યસ્ય
દ્રવ્યાર્થતયા તુલ્યઃ, પ્રદેશાર્થતયા તુલ્યો ભવતિ 'જવરં ઓગાહણદ્વયાદ ચડદ્વાણવહિ-
દ્' નરમ્-પૂર્વાપેક્ષયા વિશેષસ્તુ અવગાહનાર્થતયા ગરીરોચ્છયરૂપતયા, ચતુઃસ્થા-

કી અપેક્ષા અસંસ્થ્યાતભાગહીન હોના હૈં ઓર પૂર્ણ તીન પત્યોપમ વાલા
ઉસકી અપેક્ષા અસંસ્થ્યાતભાગ અધિક સ્થિતિ વાલા હોતા હૈં । ઇનમૈં
અન્ય પ્રકાર કી હીનતા યા અધિકતા કા સંભવ નહીં હૈં ।

ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના વાલે મનુષ્ય મે મતિ ઓર શ્રુત, યે દો જ્ઞાન
ઓર મત્યજ્ઞાન તથા શ્રુતાજ્ઞાન હી પાયે જાતે હૈં । દર્શન મી ડનમૈં
દો હી હોતે હૈં । ઇસકા કારણ યદ્ હૈં કિ ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના વાલે
મનુષ્ય અસંસ્થ્યાત વર્ષ કી આયુવાલે હી હોતે હૈં ઓર અસંસ્થ્યાત
વર્ષ કી આયુ વાલો મૈં ન અવધિજ્ઞાન હો સકતા હૈં ઓર ન વિભગ-
જ્ઞાન હી વર્ષોકિ ડનકા સ્વભાવ હો પેક્ષા હૈં । ઇસ કારણ ઉત્કૃષ્ટ
અવગાહના વાલો મૈં દો જ્ઞાન ઓર દો અજ્ઞાન હી હોતે હૈં,

મધ્યમ અવગાહના વાલો કો વક્તવ્યતા મી ઇસી પ્રકાર સમજ
લેની વાહિદ, અર્થાત્ વહ દ્રવ્ય કી ઓર પ્રદેશો કી દૃષ્ટી સે તુલ્ય

અપેક્ષાએ અસ ખ્યાત ભાગ અધિક સ્થિતિવાળા હોય છે તેમનામા અન્ય
પ્રકારની હીનતા અગર અધિકતાનો સંભવ જ નથી.

ઉત્કૃષ્ટ અવગાહનાવાળા મનુષ્યમા મતિ અને શ્રુત એ બન્ને જ્ઞાન અને
મત્યજ્ઞાન તથા શ્રુતાજ્ઞાન જ મળી આવે છે દર્શન પણ તેઓમા જે જ હોય
છે, તેનું કારણ એ છે કે ઉત્કૃષ્ટ અવગાહનાવાળા મનુષ્ય અસ ખ્યાત વર્ષની
આયુ વાળા જ હોય છે, અને અસ ખ્યાત વર્ષની આયુવાળાઓમા અવધિજ્ઞાન
થઈ શકતુ નથી અને વિભગ જ્ઞાન પણ, કેમકે તેમનો સ્વભાવ જ એવો છે.
એ કારણે ઉત્કૃષ્ટ અવગાહનાવાળાઓમા જે અજ્ઞાન જ હોય છે.

મધ્યમ અવગાહનાવાળાઓની વક્તવ્યતા પણ એ પ્રકારે સમજ લેવી
જોઈએ અર્થાત્ તે દ્રવ્યની અપેક્ષાએ અને પ્રદેશોની દૃષ્ટિએ તુલ્ય છે, વિશે.

नपतितो भवति, अजवन्पानुन्कृष्टावगाहनकः मन्त्रेयवर्षायुक्तोऽपि भवति अमं-
 ल्हेयवर्षायुक्तोपि, तत्र अमंल्लेयवर्षायुक्तोऽपि गन्धत द्वि गन्धतोऽप्यो भवति
 अतोऽवगाहनापेक्षया चतुःस्थानपतितत्वं भवति, 'मिर्दण् चट्टाणवटिण्' स्थिन्या
 -आयुःकर्मानुभवलक्षणस्थित्या, चतुःस्थानपतितो भवति, प्रागुक्तयुक्तः, 'आट-
 ल्लेहिं चउहिं नाणेहिं छट्टाणवटिण्' आद्यैश्चतुर्भिः ज्ञानैः-मति श्रुताप्रथिमनः-
 पर्यवज्ञानलक्षणैः पदस्थानपतितो भवति, तेषां चतुर्णामपि ज्ञानानां तत्त्वव्याप्ति
 सापेक्षतया क्षयोपशमवैचित्र्यतन्तारदम्यसद्भावात् 'केवलज्ञानपञ्जवेहिं तुल्ले'
 केवलज्ञानपर्यवैस्तुल्यो भवति, निःशेष स्वावगणत्रयेण प्रादुर्भूतम्य केवलज्ञानस्य

है, विशेषता यह है कि अवगाहना कि द्विष्टि से चतुस्थानपतित होता
 है, क्योंकि मध्यम अवगाहना संख्यात वर्ष की आयु वाले की भी हो
 सकती है और असंख्यात वर्ष की आयु वाले की भी हो सकती है।
 असंख्यात वर्ष की आयु वाला भी एक या दो गन्धत की अवगाह
 नावाला होता है। अतः अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित कहा
 है। स्थिति की अपेक्षा मध्यम अवगाहना वाला चतुःस्थानपतित होता
 है इस संबंध में युक्ति पहले ही कही जा चुकी है। आदि के चार ज्ञानों
 अर्थात् मति, श्रुत, अबधि और मनःपर्यव ज्ञानों की अपेक्षा से
 पदस्थानपतित होता है, क्योंकि ये चारों ज्ञान द्रव्य आदि की अपेक्षा
 रखते हैं तथा क्षयोपशमजन्य हैं और क्षयोपशम में विचित्रता होनी
 है, अनएव उनमें तरनमना हीना स्वाभाविक है। ये केवलज्ञान के
 पर्यायों से तुल्य हैं, क्योंकि समस्त आवरणों के पूर्ण क्षय से उत्पन्न

पता ये छे के अवगाहनानी दृष्टिसे अनु स्थान पतित थाय छे, केभके मध्यम
 अवगाहना संख्यात वर्षानी आयुवाणानी ५० छोड शके छे अने अर संख्यात
 वर्षानी आयुवाणानी ५० छड शके छे अर अ्यान वर्षानी आयुवाणा पछु
 ओक अगरे ये गन्धुतिनी अवगाहनावाजा होय छे तथी अवगाहनानी अपे
 क्षासे चतु स्थान पतित कहेड छे स्थितिनी अपेक्षासे मध्यम अवगाहनावाणा
 चतु स्थान पतित थाय छे, ये भाभनमा सुक्षित आगण कडी देवाड छे आदिना
 चार ज्ञानोभा अर्थात् मति, श्रुत अदधि अने मन पर्यव ज्ञानोनी अपेक्षासे
 पदस्थान पतित थाय छे, केभके ये चारि ज्ञान द्रव्य आदिनी अपेक्षा राजे छे,
 तथा क्षयोपशम जन्य छे अने क्षयोपशममा विचित्रता होय छे तथीच तर
 तमता थाय ते स्वाभाविक छे तेओ केवलज्ञानना पर्यायोधी तुल्य छे, केभके
 समस्त आवरणोना पूर्ण क्षयधी उत्पन्न धवावाणा केवलज्ञानमा होय पछु

परिपूर्णपल्योपमत्रयस्थितिकापेक्षयाऽमन्येयभागहीनो भवति, तद्भिन्नस्तु तद-
पेक्षयाऽसंख्येयभागाभधिको भवति, अन्यासा वृद्धिद्वानीनामनुपपन्नमात्, 'दो
नाणा, दो अज्ञाणा, दो दसणा' द्वे ज्ञाने-मति श्रु-ज्ञानरूपे, द्वे अज्ञाने-मत्यज्ञान
श्रुताज्ञानरूपे, द्वे दर्शने च भवतः, तत्र कारणन्तु उत्कृष्टावगाहना मनुष्या असंख्येय-
वर्षायुषो भवति असंख्येयवर्षायुषाश्चार्वात्रिविगङ्गजानामभवस्तथास्वाभाष्यात्, अतो
द्वे एव ज्ञाने द्वे चाज्ञाने भवतः, 'अजदणमणुकोमोगाहणए वि एवं चेव' अजघन्या-
नुत्कृष्टावगाहनकोऽपि मनुष्यः एवञ्च-अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनरुस्य मनुष्यस्य
द्रव्यार्थतया तुल्यः. प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति 'णवग् ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडि-
ए' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु अवगाहनार्थतया शरीरान्तर्यरूपतया, चतुःस्था-

की अपेक्षा अनंख्यात भागहीन होता है और पूर्ण तीन पल्योपम वाला
उसकी अपेक्षा असंख्यात भाग अधिक स्थिति वाला होता है। इनमें
अन्य प्रकार की हीनता या अधिकता का संभव नहीं है।

उत्कृष्ट अवगाहना वाले मनुष्य में मति और श्रुत, ये दो ज्ञान
और मत्यज्ञान तथा श्रुताज्ञान ही पाये जाते हैं। दर्शन भी उनमें
दो ही होते हैं। इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट अवगाहना वाले
मनुष्य असंख्यात वर्ष की आयुवाले ही होते हैं और असंख्यात
वर्ष की आयु वालों में न अवधिज्ञान हो सकता है और न विभग-
ज्ञान ही क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। इस कारण उत्कृष्ट
अवगाहना वालों में दो ज्ञान और दो अज्ञान ही होते हैं,

मध्यम अवगाहना वालों की वक्तव्यता भी इसी प्रकार समझ
लेनी चाहिए, अर्थात् वह द्रव्य की और प्रदेशों की दृष्टी से तुल्य

अपेक्षाओं असंख्यात लाग अधिक स्थितिवाला होय छे- तेमनामा अन्य
प्रकारनी हीनता अगर अधिकतानो स लव न नथी.

उत्कृष्ट अवगाहनावाणा मनुष्यमा मति अने श्रुत ओ अने ज्ञान अने
मत्यज्ञान तथा श्रुताज्ञान न भणी आवे छे दर्शन पणु तेओमा जे न होय
छे, तेनु कारण ओ छे के उत्कृष्ट अवगाहनावाणा मनुष्य असंख्यात वर्षनी
आयु वाणा न होय छे, अने असंख्यात वर्षनी आयुवाणाओमा अवधिज्ञान
थई शकतु नथी अने विलग ज्ञान पणु, केमके तेमना स्वभाव न ओवे। छे.
ओ कारणे उत्कृष्ट अवगाहनावाणाओमा जे अज्ञान न होय छे.

मध्यम अवगाहनावाणाओनी वक्तव्यता पणु ओ प्रकारे समल लेनी
जेईओ अर्थात् ते द्रव्यनी अपेक्षाओ अने प्रदेशोनी दृष्टिओ तुल्य छे, विशे

नपतितो भवति, अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनरुःमसंख्येयवर्षायुःकोऽपि भवति असं-
ख्येयवर्षायुःकोऽपि, तत्र असंख्येयवर्षायुःकोऽपि गव्युत त्रि गव्युतोऽप्युः भवति
अतोऽवगाहनापेक्षया चतुःस्थानपतितत्वं भवति, 'द्विष्टिण चउट्टाणवडिण्' स्थित्या
—आयुःकर्मानुभवलक्षणस्थित्या, चतुःस्थानपतितो भवति, प्रागुक्तयुक्तेः, 'आः-
ल्लेहिं चउट्टिं नाणेहिं छट्टाणवडिण्' आद्यैश्चतुर्भिः ज्ञानैः—मति श्रुतापरिमनः-
पर्यवज्ञानलक्षणैः पदस्थानपतितो भवति, तेषां चतुर्णामपि ज्ञानानां तत्तद्व्याप्ति
सापेक्षतया क्षयोपशमवैचित्र्यतस्तारतम्यसद्भावात् 'केवलज्ञानपञ्जवेहिं तुल्ले'
केवलज्ञानपर्यवैस्तुल्यो भवति, निःशेष स्वावगणक्षयेण प्रादुर्भूतस्य केवलज्ञानस्य

है, विशेषता यह है कि अवगाहना कि दृष्टि से चतुःस्थानपतित होना
है, क्योंकि मध्यम अवगाहना संख्यात वर्ष की आयु वाले की भी हो
सकती है और असंख्यात वर्ष की आयु वाले की भी हो सकती है।
असंख्यात वर्ष की आयु वाला भी एक या दो गव्युत की अवगाह
नावाला होता है। अतः अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित रहना
है। स्थिति की अपेक्षा मध्यम अवगाहना वाला चतुःस्थानपतित होता
है इस संबंध में युक्ति पहले ही कही जा चुकी है। आदि के चार ज्ञानों
अर्थात् मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यव ज्ञानों की अपेक्षा से
पदस्थानपतित होता है, क्योंकि ये चारों ज्ञान द्रव्य आदि की अपेक्षा
रखते हैं तथा क्षयोपशमजन्य है और क्षयोपशम में विचित्रता होती
है, अतएव उनमें तरतमना होना स्वाभाविक है। वे केवलज्ञान के
पर्यायों से तुल्य हैं, क्योंकि समस्त आवरणों के पूर्ण क्षय से उत्पन्न

पता ये छे डे अवगाहनानी दृष्टिअे अतु स्थान पतित थाय छे, डेमडे मध्यम
अवगाहना स भ्यात वर्षानी आयुवाणानी पञ्चु डोछ शके छे अने अम भ्यात
वर्षानी आयुवाणानी पञ्चु थर्थ शके छे अस भ्यात वर्षानी आयुवाणा पञ्चु
अेक अजर अे गव्युतिनी अवगाहनावाणा डोय छे तेथी अवगाहनानी अपे
क्षाअे अतु स्थान पतित कडेस छे. स्थितिनी अपेक्षाअे मध्यम अवगाहनावाणा
अतु स्थान पतित थाय छे, अे भावनमा युक्ति आगण कडी देवाछ छे. आदिनी
आर ज्ञानेभा अर्थात् मति, श्रुत, अवधि अने मन पर्यव ज्ञानानी अपेक्षाअे
पदस्थान पतित थाय छे, डेमडे अे आरे ज्ञान द्रव्य आदिनी अपेक्षा राअे छे
तथा क्षयोपशम जन्य छे अने क्षयोपशममा विचित्रता डोय छे तेथीअे तर
तमता थाय ते स्वाभाविक छे तेअे डेवणज्ञानना पर्यायेथी तुल्य छे, डेमडे
समस्त आवरणेना पूर्ण क्षयथी उत्पन्न थावाणा डेवणज्ञानमा डेछ पञ्चु

भेदाभावात्, 'तिहिं अन्नाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिष्' त्रिभिरज्ञानैः—मत्य-
ज्ञानश्रुताज्ञानविभङ्गज्ञानलक्षणैः, त्रिभिर्दर्शनैः—मतिश्रुतावधिदर्शनैः पट्टस्थान-
पतितो भवति, 'केवलदंसणपज्जवेहिं तुल्ले' केवलदर्शनपर्यवे स्तुल्यो भवति,
गौतमः पृच्छति—'जहण्णठिइयाणं भंते ! मणुस्साणं केवइया पज्जवा पण्णत्ता ?'
हे भदन्त ! जघन्यस्थितिकानां मनुष्याणां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? भगवान्
आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पण्णत्ता' जघन्यस्थितिकानां
मनुष्याणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतम ! पृच्छति—'से केणट्टेणं भंते ! एवं
बुच्चइ जहण्णठिइयाणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?' हे भदन्त ! तत्-
अथ, केनार्थेन—रुथं तावद्, एवम्—उत्तरतीत्या, उच्यते—यत्—जघन्यस्थितिकानां
मनुष्याणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—'गोयमा !' हे
गौतम ! 'जहण्णठिइए मणुस्से जहण्णठिइयस्स मणुस्स दव्वट्टयाए तुल्ले' जघ-
न्यस्थितिको मनुष्यो जघन्यस्थितिकस्य मनुष्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति,
'पएसट्टयाए तुल्ले' प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, 'ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिष्'

होने वाले केवलज्ञान में किसी भी प्रकार की तरतमता नहीं होती
तीन अज्ञानों और तीन दर्शनों से षट्स्थानपतित होता है। केवल-
दर्शन के पर्यायों से तुल्य होता है।

गौतम—हे भगवन् जघन्य स्थिति वाले मनुष्यों के पर्याय कितने
कहे गए हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं।

गौतम—हे भगवन् ! अनन्त कहने का कारण क्या है ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य स्थिति वाला एक मनुष्य दूसरे
जघन्य स्थिति वाले मनुष्य से द्रव्य और प्रदेशों की दृष्टि से तुल्य
होता है, अवगाहना से चतुःस्थानपतित, स्थिति की अपेक्षा तुल्य

प्रकारनी तरतमता नहीं थी। त्रयु अज्ञानो अने त्रयु दर्शनाथी षट्स्थान
पतित पर्याय छे. केवण दर्शनना पर्यायेथी तुल्य थाय छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य स्थितिवाणा मनुष्येना पर्याय केट्ठा
कडेला छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे

श्री गौतमस्वामी—अनन्त कडेवातु शु कारणु छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य स्थितिवाणो अक मनुष्य जघन्य स्थिति
वाणा भीण मनुष्यथी द्रव्य अने प्रदेशेानी दृष्टिअे तुल्य थाय छे, अवगाहनाथी
चतुःस्थान पतित, स्थितिनी अपेक्षाअे तुल्य तथा वणु, ग ध रस अने दपरशना

अवगाहनार्थतया-शरीरोन्मृग्यापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, 'टिङ्ग तुल्ले' स्थित्या-आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया तुल्यो भवति 'नण गं रसकास-पञ्जवेहिं' वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः, 'दोहिं अन्नाणेहिं दोहिं दंमणेहिं अट्टाणवडिए' द्वाभ्याम् अज्ञानाभ्याम्-मृत्युज्ञानश्रुताज्ञानाभ्याम् द्वाभ्यां दर्शनाभ्याम् षट्स्थान-पतितो भवति, नतु ज्ञानाभ्याम् 'संमूर्च्छिममनुष्याणामेव जघन्यस्थितिकृत्वेन' तेषाञ्च नियमतो मिथ्यादृष्टितया नेपामत्राने एव न तु ज्ञाने भवतः, 'एघं उक्को-सठिइएवि' एवम्-जघन्यस्थितिकमनुष्यवदेव उत्कृष्टस्थितिकोऽपि मनुष्य उत्कृष्टस्थितिकस्य मनुष्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाह-नार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या तुल्यः, वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थान-पतितो भवति, किन्तु-'नवरं दो नाणा दो अज्ञाणा दो दंसणा' चरम्-पूर्वापेक्षया तथा वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से तथा दो अज्ञानों और दो दर्शनों से षट्स्थानपतित होता है, यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि संमूर्च्छिम मनुष्य ही जघन्य स्थिति वाले होते हैं और वे नियम से मिथ्यादृष्टि ही होते हैं। अतःजघन्य स्थिति वाले मनुष्यों में दो अज्ञान ही हो सकते हैं, ज्ञान नहीं, इस कारण यहाँ ज्ञानों का उल्लेख नहीं किया गया है,

उत्कृष्ट स्थिति वाले मनुष्यों की प्ररूपणा भी इसी प्रकार कर लेनी चाहिए। अर्थात् उत्कृष्ट स्थितिक मनुष्य उत्कृष्ट स्थितिक मनुष्य से द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, अवगाहना से चतुः-स्थानपतित है स्थिति से तुल्य, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है। विशेषता यह है कि उत्कृष्ट स्थिति वाले मनुष्यों में दो ज्ञान, दो अज्ञान और दो दर्शन होते हैं। उत्कृष्ट

पर्यायोधी तथा जे अज्ञानि अने जे दर्शनाधी षट्स्थान पतित गने छे अही' जे ध्यान राखु जेछेके के संमूर्च्छिम मनुष्यज जघन्य स्थितिवाणा थाय छे अने तेजो नियमधी मिथ्यादृष्टि जे होय छे. तेथी जघन्य स्थितिवाणा मनुष्योमा जे अज्ञान जे होई शके छे ज्ञान नहिं जे धारणे अही ज्ञानने उद्वेग करेलो नही

उत्कृष्ट स्थितिवाणा मनुष्योनी प्ररूपणा पणु आ रीते करी लेवी जेछे जे अर्थात् उत्कृष्ट स्थितिक मनुष्य उत्कृष्ट स्थितिक मनुष्यधी द्रव्य अने प्रदेशोनी अपेक्षाजे तुल्य छे, अवगाहनाधी चतु स्थान पतित थाय छे, स्थितिधी तुल्य तथा वर्ण, गंध, रस अने स्पर्शना पर्यायोधी षट्स्थान पतित थाय छे, विशेषता जे छे के उत्कृष्ट स्थितिवाणा मनुष्योमां जे ज्ञान, जे अज्ञान अने

विशेषस्तु द्वे ज्ञाने-मतिश्रुतज्ञानरूपे, द्वे अज्ञाने-मत्यज्ञानश्रुताज्ञानरूपे, द्वे दर्शने अवसेये, उत्कृष्टस्थितिकानां मनुष्याणां त्रिपत्योपमायुष्यतया तेषां तावत् नियमतोऽज्ञाने भवतः, यदा तु पण्मासावशेषायुष्काः वैमानिकेषु वृद्धायुष्का भवन्ति, तदा सम्यक्तयलाभेन ज्ञानद्वायोपलम्भात्, असंख्येयवर्षायुष्काणामवधि-विभङ्गज्ञानाभावात् 'द्वे ज्ञाने द्वे अज्ञाने' इत्युक्तम् ननु त्रीणि ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि इति, 'अजहन्नमणुकोसठिइए वि एवं चैव' अजघन्यानुत्कृष्टस्थिति-कोऽपि मनुष्यः एवञ्चैव-जघन्योत्कृष्टस्थितिकमनुष्यवदेव अजघन्यानुत्कृष्ट-स्थितिकमनुष्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, किन्तु 'नवरं ठिडंए चउट्टाणवडिण' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थित्या-आयुः कर्मानुभवावगणस्थित्यपेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, 'ओगाहणट्टयाए चउट्टाण-

स्थिति वाले मनुष्यों की तीन पत्योपम की आयु होती है, अतएव उनमें नियम से दो ज्ञान दो अज्ञान ही पाये जाते हैं, जो ज्ञान वाले होते हैं वे वैमानिक की आयु का बन्ध करते हैं अतः उनमें दो ज्ञान पाये जाते हैं। असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों में अवधिज्ञान अथवा विभंग ज्ञान का अभाव होता है, इस कारण दो ज्ञानों और दो अज्ञानों का उल्लेख किया गया है, तीन ज्ञानों और तीन अज्ञानों का नहीं।

अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थिति वाले मनुष्यों की प्ररूपणा भी इसी प्रकार करनी चाहिए, अर्थात् एक मध्यम स्थिति वाला मनुष्य दूसरे मध्यम स्थिति वाले से द्रव्य की दृष्टि से और प्रदेशों की दृष्टि से तुल्य है, किन्तु स्थिति की अपेक्षा से चतुःस्थानपतित होता है, अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित होता है, आदि के चार

मे दर्शन होय छे उत्कृष्ट स्थितिवाणा मनुष्योनी त्रयु पत्योपमनी आयु होय छे, तेथीञ्च तेथोभा नियमथी मे ज्ञान मे अज्ञान ञ मणी आवे छे तेथो ज्ञानवाणा होय छे तेथो वैमानिकनी आयुनेो बन्ध करे छे. तेथी तेथोभा मे ज्ञान मजे छे अस यथात वर्षनी आयुवाणा मनुष्योभा अवधिज्ञान अथवा विभंग ज्ञाननेो अभाव होय छे, ओ कारणे मे ज्ञानोनेो उल्लेख कर्यो छे त्रयु ज्ञान अने त्रयु अज्ञाननेो नथी कर्यो

अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थितिवाणा मनुष्योनी प्ररूपणा पथु आवे शीते करवी जेधञ्जे. अर्थात् ओक मध्यम स्थितिवाणा मनुष्य भील मध्यम स्थिति वाणाथी द्रव्यनी दृष्टिओ अने प्रदेशोनी दृष्टिओ तुल्य छे परन्तु स्थितिनी अपेक्षाओ अतु स्थान पतित अने छे, अवगाहनानी दृष्टिओ पथु अतु स्थान

वडिए' अवगाहनार्थतया-गरीरोच्छ्रयापेक्षया, चतुःस्थानपतितो भवति, 'आइ-ल्लेहिं चउहिं नाणेहिं छट्टाणवडिए' आर्यैश्चतुर्भिर्जानैः पट्स्थानपतितो भवति, 'केवलनाणपज्जवेहिं तुल्ले' केवलज्ञानपर्यवैस्तुल्यो भवति, 'तिहिं अन्नाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए' त्रिभिर्जानैः-मत्स्यज्ञानश्रुताज्ञानविभङ्गज्ञानरूपैः, त्रिभिर्दर्शनैः पट्स्थानपतितो भवति, 'केवलदंसणपज्जवेहिं तुल्ले' केवलदर्शनपर्यवैस्तुल्यो भवति, गौतमः पृच्छति-'जहण्णगुणकालयाणं भंते ! मणुस्साणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?' हे भदन्त ! जघन्यगुणकालकानां मनुष्याणां कियन्तः पर्ययाः प्रजप्ताः ? भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पणत्ता' जघन्यगुणकालकानां मनुष्याणामनन्ताः पर्ययाः प्रजप्ताः, गौतमः पृच्छति-'से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ-जहण्णगुणकालयाणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?' हे भदन्त ! तत्-अथ, केनार्येन व थं तावत्, एवम्-उत्तरीत्या, उच्यते यत्-जघन्यगुणकालकानां मनुष्याणामनन्ताः पर्ययाः प्रजप्ताः ? इति, भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहण्णगुणकालए मणुसे जहण्णगुणकालगस्स मणु-सस्स दव्वट्टयाए तुल्ले' जघन्यगुणकालको मनुष्यो जघन्यगुणकालकस्य मनुष्यस्य

ज्ञानो से पट्स्थानपतित होता है, केवलज्ञान के पर्यायों से तुल्य, तीन अज्ञानों से पट्स्थान पतित, तीन दर्शनो से पट्स्थानपतित और केवलदर्शन के पर्यायों से तुल्य होता है ।

गौतम-हे भगवन् ! जघन्यगुण काले मनुष्य के कितने पर्याय कहे गए हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए हैं ।

गौतम-हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवान्-हे गौतम ! एक जघन्यगुण काला मनुष्य दूसरे जघन्य गुण काले मनुष्य से द्रव्य की दृष्टि से तथा प्रदेशो की दृष्टि से

पतित थाय छे, शक्यातना आर ज्ञानाथी पट्स्थान पतित थाय छे, केवल ज्ञानना पर्यायाथी तुल्य, त्रय अज्ञानाथी पट्स्थान पतित, त्रय दर्शनाथी पट्स्थान पतित अने केवण दर्शनना पर्यायाथी तुल्य थाय छे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जघन्य शुषु काणा मनुष्यना डेटला पर्याय कडेला छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय कडेला छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! ओम कडेवानु शु कारणु छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! ओक जघन्य शुषु काणा मनुष्य पीण जघन्य शुषु काणा मनुष्यथी द्रव्यनी दृष्टिओ तथा प्रदेशोनी दृष्टिओ तुल्य थाय छे,

द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, 'पप्सद्वयाए तुल्ले' प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, 'ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिए' अवगाहनार्थतया चतुस्थानपतितो भवति, 'ठिईए चउट्टाणवडिए' स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, 'कालवणपज्जवेहिं तुल्ले' कृष्णवर्णपर्यवैस्तुल्यो भवति, 'अवसेसेहिं वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए' अवशेषैः वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः पद् स्थानपतितो भवति, 'चउहिं नाणेहिं छट्टाणवडिए' चतुर्भिः ज्ञानैः—मतिश्रुतावधिमनःपर्यगज्ञानरूपैः पद् स्थानपतितो भवति, 'केवलनाणपज्जवेहिं तुल्ले' केवलज्ञानपर्यवैः तुल्यो भवति, 'तिहिं अन्नाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए' त्रिभिरज्ञानैः—मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभङ्गज्ञानरूपैः, निभिर्दर्शनैः पद्स्थानपतितो भवति, 'केवल दंसणपज्जवेहिं तुल्ले' केवलदर्शनपर्यवैः तुल्यो भवति । 'एवं उक्कोसगुणकालएवि' एवं—जघन्यगुणकालक मनुष्यवदेव उत्कृष्टगुणकालकोऽपि मनुष्यः उत्कृष्टगुणकालरूप्य मनुष्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, कृष्णवर्णपर्यवैस्तुल्यः, अवशेषैः वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः

तुल्य होता है, अवगाहना और स्थिति की अपेक्षा से चतुःस्थानपतित होता है, कृष्णवर्ण के पर्यायो से तुल्य है, शेष वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायो से चार ज्ञानों से षट्स्थानपतित, केवलज्ञान के पर्यायो से तुल्य, तीन अज्ञानों और तीन दर्शनो से षट्स्थानपतित तथा केवलदर्शन के पर्यायो से तुल्य होता है ।

उत्कृष्टगुण काला भी इसी प्रकार समझना चाहिए, अर्थात् उत्कृष्ट गुण काला दूसरे उत्कृष्ट गुण काले मनुष्य की अपेक्षा से द्रव्य और प्रदेशो की दृष्टि से तुल्य होता है, अवगाहना और स्थिति की अपेक्षा से चतुःस्थानपतित है, कृष्ण वर्ण के पर्यायो से तुल्य, शेष, वर्ण गंध, रस और स्पर्श के पर्यायो से षट्स्थान-

अवगाहना अने स्थितिनी अपेक्षाये अतुस्थान पतित थाय छे कृष्ण वर्णना पर्यायोधी तुल्य छे, शेष वर्ण, गंध, रस, स्पर्शना पर्यायोधी, चार ज्ञानोधी षट्स्थान पतित, केवल ज्ञानना पर्यायोधी तुल्य त्रय अज्ञानो अने त्रय दर्शनाधी षट्स्थान पतित तथा केवलदर्शनना पर्यायोधी तुल्य थाय छे

उत्कृष्ट शुष्ण काणा पञ्च आण प्रकारे समञ्ज देवा जेधये अर्थात् उत्कृष्ट शुष्ण काणा पीण उत्कृष्ट शुष्ण काणा मनुष्यनी अपेक्षाये द्रव्य अने प्रदेशीनी दृष्टिअे तुल्य थाय छे, अवगाहना अने स्थितिनी अपेक्षाये अतुस्थान पतित, कृष्णवर्णना पर्यायोधी तुल्य, शेष वर्ण, गंध, रस अने स्पर्शना पर्यायोधी षट्स्थान पतित चार ज्ञानोधी षट्स्थान पतित केवलज्ञानना पर्यायोधी

पदस्थानपतितः, चतुर्भिर्ज्ञानैः पदस्थानपतितः, केवलज्ञानपर्ययैस्तुल्यः, त्रिभिर-
ज्ञानैः, त्रिभिर्दर्शनैः पदस्थानपतितः, केवलदर्शनपर्ययैस्तुल्यो भवति, 'अजहण-
मणुकोसगुणकालएव एवं चेत्' अजघन्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि मनुष्यः, एव-
ञ्चैव-जघन्योत्कृष्टगुणकालमनुष्यवदेव बोध्यः, किन्तु- 'णवरं मृदाणे छद्मणवडिए'
नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्वस्थाने-पदस्थानपतितो भवति, 'एवं पंच वर्णा,
दो गंधा, पंचरसा, अट्टफासा भाणियच्चा' एवं-तथैव-उत्कृष्टगुणकालक मनुष्यव-
देव, पञ्चवर्णाः, द्वौ गन्धौ, पञ्चरसाः, अष्टौ स्पर्शाः भणितव्याः, एतद्गुणविशिष्टा
अपि मनुष्या जघन्योत्कृष्टाजघन्यानुत्कृष्टभेदेन विशिष्टा वक्तव्याः, गौतमः पृच्छति-
'जहण्णाभिणिवोहियनाणीणं मणुस्साणं केवट्या पज्जवा पणत्ता ?' जघन्याभि-
निवोधिकज्ञानिना मनुष्याणां कियन्तः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह-
'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणता पज्जवा पणत्ता' जघन्याभिनिवोधिकज्ञानिनां
पतित, चारज्ञानो से पदस्थानपतित, केवलज्ञान के पर्यायो से तुल्य,
तीन अज्ञानो और तीन दर्शनों की अपेक्षा पदस्थान पतित तथा
केवल दर्शन के पर्यायो से तुल्य होता है ।

मध्यमगुण कृष्ण भी इसी प्रकार समझना चाहिए अर्थात्
जघन्यगुण कृष्ण या उत्कृष्टगुण कृष्ण के समान ही उसकी प्ररूपणा
करनी चाहिए, विशेषता यह कि मध्यमगुण कृष्ण स्वस्थान में भी
पदस्थानपतित होता है, क्यों कि मध्यम कृष्ण वर्ण के अनन्त तरतम
रूप होते हैं । इसी प्रकार पांचो वर्ण, दोनो गंध, पांचो रस और
आठो स्पर्श कह लेना चाहिए,

गौतम-हे भगवन् ! जघन्य आभिनिवोधिकज्ञानी मनुष्य के
कितने पर्याय हैं ?

तुल्य त्रयु अज्ञानो अने त्रयु दर्शनानी अपेक्षाये पदस्थान पतित तथा
केवण दर्शनना पर्यायोथी तुल्य थाय छे

मध्यम शुष्ण कृष्ण पशु आ रीते समज्जवा जेधये अर्थात् जघन्यशुष्ण
कृष्ण अथवा उत्कृष्ट शुष्ण कृष्णना समान ज तेमनी प्ररूपणा करवी जेधये
विशेषता ये छे के मध्यम शुष्ण कृष्ण स्वस्थानमा पशु पदस्थान पतित अने
छे, केमके मध्यम कृष्ण वर्णना अनन्त तरतम रूप थाय छे. ये प्राकरे पाय
वर्ण, अने गंध, पाय रस अने आठे स्पर्श कडेवा जेधये.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जघन्य आभिनिवोधिकज्ञानी मनुष्यना
केटला पर्याय छे ?

मनुष्याणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णाभिणिबोहियणाणीणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन कथं तावत्, एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते यत्—जघन्याभिनिबोधिकज्ञानिनां मनुष्याणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णाभिणिबोहियणाणी मणुसे जहण्णाभिणिबोहियणाणिस्स मणुस्सस्स दब्बट्टयाए तुल्ले’ जघन्याभिनिबोधिकज्ञानी मनुष्यो जघन्याभिनिबोधिकज्ञानिनो मनुष्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, ‘पएसट्टयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए’ अवगाहनार्थतया—शरीरोच्छ्रयापेक्षया चतुः स्थानपतितो भवति, ‘ठिईए चउट्टाणवडिए’ स्थित्या—आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, ‘वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए’ वर्णगंधरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, ‘आभिणिबोहियणाणपज्जवेहिं तुल्ले’ आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैस्तुल्यो भवति, ‘सुयनाणपज्जवेहिं दोहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए’ श्रुतज्ञानपर्यवैः, द्वाभ्या दर्शनाभ्या षट्स्थानपतितो भवति, ज्ञानद्वयं दर्शनद्वयं बोध्यम्, तथा च जघन्याभिनिबोधिकज्ञानीमनुष्यस्य प्रबल ज्ञानावरणकर्मोदयसद्भावेन नियमतोऽवधिमनः पर्यवज्ञानविकलत्वात्, अन्यथा जघन्याभिनिबोधिकज्ञानत्वायोगात्, शेष ज्ञानदर्शना-

भगवन्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम—हे भगवान् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवान्—हे गौतम ! एक जघन्याभिनिबोधिकज्ञानी दूसरे जघन्याभिनिबोधिक ज्ञानी से द्रव्य और प्रदेशों से तुल्य, अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित, स्थिति से चतुःस्थानपतित, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से षट्स्थानपतित, आभिनिबोधिकज्ञान के पर्यायों से तुल्य श्रुतज्ञान के पर्यायों से तथा दो दर्शनों से षट्स्थानपतित होता है । जघन्याभिनिबोधिकज्ञानी के प्रबल ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होने

श्री भगवान्—हे गौतम अनन्त पर्याय छे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवान् ! ऐम कडेवातु शु कारणु छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! ऐक जघन्याभिनिबोधिक ज्ञानी जीव जघन्याभिनिबोधिक ज्ञानीथी द्रव्य अने प्रदेशेथी तुल्य, अवगाहनानी अपेक्षाये यतु-स्थान पतित, स्थितिथी यतु स्थान पतित, वर्ण, गंध, रस, स्पर्शथी षट्स्थान पतित, आभिनिबोधिक ज्ञानना पर्यायेथी तुल्य, श्रुतज्ञानना पर्यायेथी तथा ये दर्शनेथी षट्स्थान पतित थाय छे. जघन्याभिनिबोधिक ज्ञानीने

संभवादाभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैस्तुल्यः श्रुतज्ञानपर्यवैर्द्वीभ्यां दर्शनाभ्याञ्च पटस्थानपतितत्वमुक्तम्, 'एवं उक्तोसाभिनिबोधियनाणीमि' एवम् जघन्याभिनिबोधिकज्ञानमनुष्यवदेव उत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानी अपि मनुष्यः उत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानिनो मनुष्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अग्राहनार्थतया चतुः स्थानपतितः, स्थित्या चतुः स्थानपतितः, वर्णाग्न्यरसस्पर्शपर्यवैः पटस्थानपतितः, 'नवरं आभिनिबोधियनाणपज्जवेदि तुल्ले' नवरं पूर्वापेक्षया विशेषस्तु आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवैस्तुल्यो भवति, 'टिट्ठेण तिट्ठणवडिण्ण' स्थित्या-आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया त्रिस्थानपतितो भवति, 'तिट्ठिं नाणेहिं तिट्ठिं दंसणेहिं छट्ठणवडिण्ण' त्रिभिर्ज्ञानैः-मतिश्रुतावगिज्ञानरूपैः, त्रिभिर्दर्शनैः पटस्थानपतितो भवति तथा च उत्कृष्टाभिनिबोधिकज्ञानिनो मनुष्यस्य नियमतः

से अवधिज्ञान और मनःपर्यवज्ञान नहीं होते । इसी कारण यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया है,

उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी की प्ररूपणा जघन्य आभिनिबोधिकज्ञानी के समान समझना चाहिए, अर्थात् एक उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी दूसरे उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी से द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य, अवगाहना और स्थिति की अपेक्षा से चतुःस्थानपतित, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श की दृष्टि से पटस्थानपतित होता है । विशेषता यह है कि वह आभिनिबोधिकज्ञान के पर्यायो से तुल्य, स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थानपतित, तीन ज्ञानों और तीन दर्शनों से षटस्थानपतित होता है । उत्कृष्ट आभिनिबोधिकज्ञानी मनुष्य नियम से संख्यात वर्ष की आयु वाला ही होता है,

अथल ज्ञानावरणीय धर्मो उदय थवाथी अवधिज्ञान अने मन पर्यवज्ञान नथी डोतु अे न् कारणे अहि तेमनो उद्वेष नथी कथी.

उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानीनी अइयथा न्धन्य आभिनिबोधिकज्ञानीनी समान समन्वी अेधअे. अर्थात् अेक उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानीनी जील उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानीथी द्रव्य अने प्रदेशोनी अपेक्षाअे तुल्य, अवगाहना अने स्थितिनी अपेक्षाअे अतु स्थान पतित, वर्ण, गंध, रस, स्पर्शनी दृष्टिअे षटस्थान पतित थाय अे विशेषता अे अे के ते आभिनिबोधिक ज्ञानना पर्यायोथी तुल्य, स्थितिनी अपेक्षाअे त्रिस्थान पतित त्रयु ज्ञानो अने त्रयु दर्शनाथी षटस्थान पतित थाय अे उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञानी मनुष्य नियमथी संख्यात वर्षनी आयुवाणा न् डोय अे, असंख्यात वर्षनी आयुवाणो

गौतमः पृच्छति—‘जहण्णोहिनाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवडया पज्जवा पण्णत्ता ?’ हे भदन्त ! जघन्यावधिज्ञानिनां मनुष्याणां क्रियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ जघन्यावधिज्ञानिनां मनुष्याणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः गौतमः पृच्छति—‘से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चडं—जहण्णोहिनाणीणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन—कथं तावत्, एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते यत्—जघन्यावधिज्ञानिनां मनुष्याणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णोहिनाणी मणुस्से जहण्णोहिनाणिस्स मणुस्सस्स ढव्वट्टयाए तुल्ले’ जघन्यावधिज्ञानी मनुष्यो जघन्यावधिज्ञानिनो मनुष्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, ‘पएसट्टयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाहणट्टयाए तिट्ठाणवडिए’ अवगाहनार्थतया—शरीरोच्छ्रयापेक्षया, त्रिस्थानपतितो भवति, ‘ठईए तिट्ठाणवडिए’ स्थित्या—आयुर्कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया, त्रिस्थानपतितो भवति, ‘वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं’ वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः ‘दोहिं नाणेहिं छट्ठाणवडिए’ वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः, द्वाभ्यां ज्ञानाभ्याम्—मति श्रुतज्ञानरूपाभ्यां पट्-
 १।नं तिते भवति, ‘ओहिनाणपज्जवेहिं तुल्ले’ अवधिज्ञानपर्यवैस्तुल्यो भवति,
 २. ५ ज्जवेहिं छट्ठाणवडिए’ मनः पर्यवज्ञानपर्यवै पट्स्थानपतितो
 ‘तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिए’ त्रिभिर्दर्शनैः पट्स्थानपतितो भवति,

गौतमः पृच्छति—‘जहण्णोहिनाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवडया पज्जवा पण्णत्ता ?’ हे भदन्त ! जघन्यावधिज्ञानिनां मनुष्याणां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ जघन्यावधिज्ञानिनां मनुष्याणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः गौतमः पृच्छति—‘मे केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—जहण्णोहिनाणीणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन—कथं तावत्, एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते यत्—जघन्यावधिज्ञानिनां मनुष्याणाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णोहिनाणी मणुस्से जहण्णोहिनाणिस्स मणुस्सस्स ढव्वट्ठयाए तुल्ले’ जघन्यावधिज्ञानी मनुष्यो जघन्यावधिज्ञानिनो मनुष्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, ‘पएसट्ठयाए तुल्ले’ प्रदेगार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाहणट्ठयाए तिट्ठाणवडिए’ अवगाहनार्थतया—शरीरोच्छ्रयापेक्षया, त्रिस्थानपतितो भवति, ‘ठडिए तिट्ठाणवडिए’ स्थित्या—आयुकर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया, त्रिस्थानपतितो भवति, ‘वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं’ वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवः ‘दोहिं नाणेहिं छट्ठाणवडिए’ वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवः, द्वाभ्यां ज्ञानाभ्याम्—मति श्रुतज्ञानरूपाभ्यां पट्स्थानपतितो भवति, ‘ओहिनाणपज्जवेहिं तुल्ले’ अवधिज्ञानपर्यवस्तुल्यो भवति, ‘मणपज्जवनाणपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए’ मनः पर्यवज्ञानपर्यवत्रे पट्स्थानपतितो भवति, ‘तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिए’ त्रिभिर्दर्शनैः पट्स्थानपतितो भवति,

गौतम—हे भगवन् ! जघन्य अवधिज्ञानी मनुष्य के किनने पर्याय हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं,

गौतम—हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य अवधिज्ञानी मनुष्य जघन्य अवधिज्ञानी मनुष्य से द्रव्य और प्रदेशों की दृष्टि से तुल्य होता है, अवगाहना की दृष्टि से त्रिस्थानपतित, स्थिति की दृष्टि से त्रिस्थानपतित वर्ण, रस, गंध और स्पर्श के पर्यायों से तथा दो ज्ञानों से पट्स्थान-

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य अवधिज्ञानी मनुष्यना डेट्ठा पर्याय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम अनन्त पर्याय छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! ज्जेम डडेवातुं शुं कारणु छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य अवधिज्ञानी मनुष्य जघन्य अवधिज्ञानी मनुष्यथी द्रव्य अने प्रदेशोनी दृष्टिअे तुल्य थाय छे, अवगाहनानी दृष्टिअे त्रिस्थान पतित, स्थितिनी दृष्टिअे त्रिस्थान पतित, वर्णु, रस, गंध स्पर्शना

एवं उक्तोसोहि नाणीवि' एवं—जघन्यावधिज्ञानिमनुष्यवदेव उत्कृष्टावधिज्ञानि-
मनुष्योपि उत्कृष्टावधिज्ञानि मनुष्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः,
अवगाहनार्थतया त्रिस्थानपतितः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगंधरसस्पर्शपर्यवैः
द्वाभ्यां ज्ञानाभ्यां षट्स्थानपतितो भवति, त्रिभिर्दर्शनेः षट्स्थानपतितो भवति,
तथा च जघन्यावधिज्ञानि मनुष्ये उत्कृष्टावधिज्ञानिमनुष्ये चावगाहनापेक्षया त्रि-
स्थानपतितत्वमुक्तम्, यतो हि मनुष्याणां सर्वजघन्यावधिज्ञान यथोक्तस्वरूपं पार-
भविकं न संभवति अपि तु तद्भवभावि एव, तदपि च पर्याप्तावस्थायां भवतिः
पतित होता है। अवधिज्ञान के पर्यायों से तुल्य और मनःपर्यवज्ञान के
पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है। तीन दर्शनों से षट्स्थानपतित
होता है।

उत्कृष्ट अवधिज्ञानी की प्ररूपणा जघन्य अवधिज्ञानी के समान
समझनी चाहिए, अर्थात् उत्कृष्ट अवधिज्ञानी दूसरे उत्कृष्ट अवधि-
ज्ञानी से द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य, अवगाहना और स्थिति
की अपेक्षा से त्रिस्थानपतित, वर्ण, गंध, रसस्पर्श के पर्यायों से तथा
दो ज्ञानों से षट्स्थानपतित होता है, अवधिज्ञान के पर्यायों से तुल्य
होता है, मनःपर्यवज्ञान के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है, तीन
दर्शनों से षट्स्थानपतित होता है। जघन्य अवधिज्ञानी मनुष्य और
उत्कृष्ट अवधिज्ञानी मनुष्य अवगाहना की अपेक्षा से त्रिस्थानपतित
कहा गया है, इसका कारण यह है कि मनुष्यों में सर्व जघन्य अवधि-
ज्ञान पारभविक अर्थात् पूर्वभव से साथ आया हुआ नहीं, होता बल्कि

पर्यायोधी तथा ज्ञानधी षट्स्थान पतित थाय छे अवधिज्ञानना पर्यायोधी
तुल्य अने मन पर्यवज्ञानना पर्यायोधी षट्स्थान पतित थाय छे त्रयु दर्शनीधी
षट्स्थान पतित थाय छे.

उत्कृष्ट अवधिज्ञानीनी प्ररूपणा, जघन्य अवधिज्ञानीना समान समझनी
अर्थात् उत्कृष्ट अवधिज्ञानी भीज उत्कृष्ट अवधिज्ञानीधी द्रव्य अने प्रदेशोनी
अपेक्षाये तुल्य अवगाहना अने स्थितिनी अपेक्षाये त्रिस्थान पतित, वर्ण,
गंध, रस, स्पर्शना पर्यायोधी तथा ज्ञानधी षट्स्थान पतित थाय छे,
अवधिज्ञानना पर्यायोधी तुल्य थाय छे, मन पर्यवज्ञानना पर्यायोधी षट्स्थान
पतित थाय छे त्रयु दर्शनीधी षट्स्थान पतित थाय छे जघन्य अवधिज्ञानी
मनुष्य अने उत्कृष्ट अवधिज्ञानी मनुष्य अवगाहनानी अपेक्षाये त्रिस्थान पतित
कहेल छे, तेतुं कारणे जे छे के मनुष्यमा सर्व जघन्य अवधिज्ञान 'पारभविक
अर्थात् पूर्व लवनी साथे आवेल नधी डोतु, पणु जे लवस गंधी डोय छे

अपर्याप्तवस्थायां तद्योग्यविशुद्धयभावात्, उत्कृष्टावधिज्ञानमपि भावतत्थारित्रिणो मनुष्यस्य भवति, तस्मान् जघन्यावधिज्ञानी उत्कृष्टावधिज्ञानी च मनुष्योऽवगाहनया त्रिस्थानपतितो भवति इत्याशयः, 'अनहणमणुकोसोऽग्निनाणी एवं चैव' अजघन्यानुत्कृष्टावधिज्ञानी मनुष्यः एवञ्चैव-जघन्योत्कृष्टावधिज्ञानिमनुष्यवदेव-प्रतिपादनीयः किन्तु-‘णवरं ओगादणदृयाए चउट्टाणवडिए’ नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितो भवति, ‘सट्टाणे उट्टाणवडिए’ स्वस्थाने पट्स्थानपतितो भवति, तथा च अजघन्यानुत्कृष्टावधिज्ञान पारमविक्रमपि संभवति तस्मादपर्याप्तवस्थायामपि तस्य संभवेन अजघन्यानुत्कृष्टावधिज्ञानिनोऽवगाहनापेक्षया चतुःस्थानपतितत्प्रमुक्तम्, स्थित्यपेक्षया तु जघन्यावधिज्ञानि-उत्कृष्टावधिज्ञानि-अजघन्यानुत्कृष्टावधिज्ञानिनां त्रिस्थानपतितत्वं भवति, असंख्येयवर्षायुष्काणां मनुष्याणामवधिज्ञानासंभवात्, संख्येयवर्षायुष्काणाञ्च त्रिस्था-

उसी भव संबंधी होता है और वह भी पर्याप्त अवस्था में ही होता है। अपर्याप्त अवस्था में उसके योग्य विशुद्धि नहीं होती उत्कृष्ट अवधिज्ञान भी भाव से चारित्रवान् मनुष्य को होता है, इस कारण जघन्यावधिज्ञानी और उत्कृष्टावधिज्ञानी अवगाहना की दृष्टि से त्रिस्थानपतित ही हो सकता है,

मध्यम अवधिज्ञानी मनुष्य का प्रतिपादन जघन्य एवं उत्कृष्ट अवधिज्ञानी मनुष्य के समान ही समझना चाहिए किन्तु विशेष वात यह है कि अवगाहना की दृष्टि से वह चतुःस्थानपतित होता है तथा स्वस्थान में पट्स्थानपतित होता है मध्यम अवधिज्ञान पारमविक्रम भी हो सकता है, अतएव अपर्याप्त अवस्था में भी संभव होने से मध्यम अवधिज्ञानी को चतुःस्थानपतित कहा है। स्थिति की अपेक्षा जघन्य अवधिज्ञानी, उत्कृष्ट अवधिज्ञानी और मध्यम अवधिज्ञानी

अने ते पणु पर्याप्त अवस्थाभा न थाय छे अपर्याप्त अवस्थाभा तेने योग्य विशुद्धि नथी होती उत्कृष्ट अवधिज्ञान पणु भावथी चारित्रवान् मनुष्यने थाय छे, अे क्खण्णे जघन्य अवधिज्ञानी अने उत्कृष्ट अवधिज्ञानी अवगाहनानी दृष्टिअे त्रिस्थान पतित थछं शके छे मध्यम अवधिज्ञानी मनुष्यतु प्रतिपादन जघन्य तेमज्ज उत्कृष्ट अवधिज्ञानी मनुष्यना समानज्ज समज्जु जेधअे पणु विशेषवात अे छे के अवगाहनानी दृष्टिअे ते अतु स्थान पतित थाय छे तथा स्वस्थानमा पट्स्थान पतित थाय छे मध्यम अवधिज्ञानी पारमविक्रम पणु थछं शके छे, तेथी अपर्याप्त अवस्थाभा पणु स भाव होवाथी मध्यम अवधिज्ञानी ने अतु स्थान पतित क्खेद छे दिशन्तिनी अपेक्षाअे जघन्य अवधिज्ञानी

नपतितत्वमेव न तु चतुःस्थानपतितत्वं संभवति 'जहा ओद्दिनाणी तहा मणपज्ज-
वनाणी भाणियब्बे' यथा अवधिज्ञानी मनुष्यो भणितस्तथा मनःपर्यवज्ञानी
अपि मनुष्यो भणितव्यः, तथा च जघन्य मनःपर्यवज्ञानी उत्कृष्टमनः पर्यवज्ञानी
अजघन्यानुत्कृष्टमनः पर्यवज्ञानी च स्थित्यपेक्षया त्रिस्थानपतितो भवति, चारि-
त्रिणामेव मनः पर्यवज्ञानसद्भावेन तेषां संख्येयवर्षायुष्कत्वात्' किन्तु 'नवरं
ओगाहणद्वयाए तिद्वाणवडिए' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु अवगाहनार्थतया-
शरीरोद्भूयापेक्षया त्रिस्थानपतितो भवति, प्रागुक्तयुक्तेः, 'जहा आभिणिवोदिय-
नाणी तहा मइ अन्नाणी सुय अन्नाणी वि भाणियब्बे' यथा आभिनिवोधिक-

त्रिस्थानपतित ही होता है, क्योंकि असंख्यात वर्ष की आयु वाले
मनुष्यो में अवधिज्ञान का संभव नहीं है। वह संख्यात वर्ष की आयु
वालों को ही होता है और उनमें आयु की दृष्टि से त्रिस्थानपतितता
की ही संभव है, चतुःस्थानपतितता नहीं हो सकती।

मनःपर्यवज्ञानी मनुष्य की प्ररूपणा अवधिज्ञानी के समान ही
समझना चाहिए, अर्थात् जघन्य मनःपर्यवज्ञानी, उत्कृष्टमनःपर्यवज्ञानी
और अजघन्य-अनुकृष्टमनःपर्यवज्ञानी स्थिति से त्रिस्थानपतित होते
हैं, क्योंकि चारित्रवान् मनुष्य संख्यात वर्ष की आयु वाले ही होते
हैं विशेष यह कि मनःपर्यवज्ञानी अवगाहना की अपेक्षा त्रिस्थापतित
होते हैं, इस विषय में युक्ति पूर्ववत् ही समझ लेना चाहिए।

जैसे आभिनिवोधिकज्ञानी मनुष्य का प्रतिपादन किया गया
है, वैसा ही मति-अज्ञानी और श्रुत-अज्ञानीमनुष्य का भी समझ

उत्कृष्ट अवधिज्ञानी अने मध्यम अवधिज्ञानी त्रिस्थान पतित थाय छे, डेमडे
असंख्यात वर्षानी आयुवाणा मनुष्येमा अवधिज्ञानेना सखव नथी ते
संख्यात वर्षानी आयुवाणाओने न थाय छे अने तेमनामा आयुनी दृष्टिओ
त्रिस्थान पतितने न सखव छे. यतु स्थान पतितता नथी अनती

मनः पर्यवज्ञानी मनुष्यनी इद्रपण्णा अवधिज्ञानीना समानन समनषी
लेधओ. अर्थात् जघन्य मन पर्यवज्ञानी, उत्कृष्ट मनःपर्यवज्ञानी, अने अज-
घन्य अनुकृष्ट मन पर्यवज्ञानी स्थितिथी त्रिस्थान पतित थाय छे डेमडे चारि-
वान् मनुष्येनेन मन पर्यवज्ञान थध शके छे अने चारित्रवान् मनुष्य संख्यात
वर्षानी आयुवाणा न डोय छे विशेष ओडे मन पर्यवज्ञानी अवगाहनानी
अपेक्षाओ त्रिस्थान पतित थाय छे, ओ विषयमा युक्ति पूर्ववत् न
समल देवी लेधओ

नेपु आभिनिवोधिक ज्ञानी मनुष्यनु प्रतिपादन कथुं छे, तेपु न मति
अज्ञानी अने श्रुत-अज्ञानी मनुष्यनु पण्ण समल देपुं लेधओ अने नेवी

ज्ञानी मनुष्यः प्रतिपादितस्तथा मत्यज्ञानी श्रुताज्ञानी मनुष्योऽपि भणितव्यः 'जहा ओहिनाणी तहा विभंगनाणी वि भाणियव्वे' यथा अवधिज्ञानी मनुष्यो भणितस्तथा विभङ्गज्ञानी मनुष्योपि भणितव्यः, 'चक्रमुदंसणी अचक्रमुदंसणी य जहा आभिणिवोहियणाणी' चक्षुदर्शनीमनुष्यः, अचक्षुदर्शनी च मनुष्यो यथा आभिनिवोधिकज्ञानी मनुष्यः, प्रतिपादितस्तथैव प्रतिपादयितव्यः, ओहि दंसणी जहा ओहिनाणी' अवविदर्शनी मनुष्यो यथा अवधिज्ञानी मनुष्यः प्रतिपादितस्तथा प्रतिपादयितव्यः, 'जत्थ नाणा तत्थ अन्नाणा नत्थ' यत्र ज्ञानानि सन्ति तत्र अज्ञानानि न भवन्ति 'जत्थ दंसणा तत्थ णाणावि अन्नाणा वि' यत्र दर्शनानि भवन्ति तत्र ज्ञानान्यपि अज्ञानान्यपि भवन्ति, गौतमः पृच्छति—'केवल नाणीणं भंत । मणुस्साणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?' हे भदन्त ! केवलज्ञानिनां मनुष्याणां कियन्तः पर्यवाः प्रजप्ताः ? भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पणत्ता' केवलज्ञानिमनुष्याणामनन्ता पर्यवाः प्रजप्ताः, गौतमः

लेना चाहिए और जैसी अवधिज्ञानी मनुष्य की वक्तव्यता कही है वैसी ही विभंगज्ञानी मनुष्य की समझ लेनी चाहिए, चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी की प्ररूपणा आभिनिधिकज्ञानी के समान है । अवधिदर्शनी का प्रतिपादन अवधिज्ञानी मनुष्य के सदृश कहलेना चाहिए । यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि जहां ज्ञान होते हैं वहां अज्ञान नहीं होते और जहां अज्ञान होते हैं, वहां ज्ञान नहीं होते, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी हैं किन्तु दर्शनों के विषय में यह बात नहीं है । दर्शनों का न ज्ञान के साथ विरोध है, न अज्ञान के साथ । वे ज्ञान और अज्ञान दोनों के साथ रहते हैं, अतएव जहां दर्शन हैं वहां ज्ञान भी हो सकते हैं और अज्ञान भी हो सकते हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! केवलज्ञानी मनुष्यों के कितने पर्याय हैं ?

अवधिज्ञानी मनुष्यनी वक्तव्यता कही छे तेथील विभंग ज्ञानी मनुष्यनी समल देवी लेधये, यक्षु दर्शनी अने अचक्षुदर्शनीनी प्ररूपणा आभिनिधोधिनी ज्ञानीना समानल छे, अवधिदर्शनीनु प्रतिपादन अवधिज्ञानी मनुष्यना समान ल कडेपु लेधये. आ वात ध्यानभा राणवी लेधये के न्था ज्ञान होय छे त्या अज्ञान नथी होतु अने न्था अज्ञान होय छे त्या ज्ञान नथी होतु. केभके अने परस्पर विरोधी छे. यक्षु दर्शनीना विषयभा अये वात नथी. दर्शनीना न ज्ञान साथे विरोध छे के न अज्ञाननी साथे, ते ज्ञान अने अज्ञान अनेनी साथे रहे छे तेथील न्था दर्शन छे त्या ज्ञान यक्षु होध शके छे अने अज्ञान यक्षु होध शके छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! केवलज्ञानी मनुष्याना केवला पर्याय छे ?

पृच्छति—‘से केणद्वेणं भंते ! ‘एवं वुच्चइ—केवलनाणीणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन कथं तावत्, एवम्—उत्करीत्या, उच्यते यत् केवलज्ञानिनां मनुष्याणामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘केवलनाणी मणुसे केवलनाणिसस मणूससस दव्वट्टयाए तुल्ले’ केवलज्ञानी मनुष्यः केवलज्ञानिनो मनुष्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, ‘पएसट्टयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए’ अवगाहनार्थतया शरीरोच्छ्रयापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, अयं च केवलिसमुद्घातापेक्षया उक्तस्तथा च केवलिसमुद्घातगतस्य केवलिनो मनुष्यस्य अन्यकेवलिसंख्येयगुणाधिकवगाहनतया तदपेक्षया अन्यकेवलिनाम् असंख्येयगुणहीनावगाहनत्वात् ‘ठिईए तिट्टाणवडिए’ स्थित्या—स्वस्थानापेक्षया तु शेषाः केवलिनस्त्रिस्थानपतिता भवन्ति, इति स्थित्या त्रिस्थानपतितत्वमुक्तं तेषां संख्येयवर्षायुष्कत्वात्, ‘वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए’ वर्णगंधरस-

भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवान्—हे गौतम ! एक केवलज्ञानी मनुष्य दूसरे केवलज्ञानी मनुष्य से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है, प्रदेशों की दृष्टि से तुल्य होता है, अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित होता है । यह कथन केवलिसमुद्घात की अपेक्षा में समझना चाहिए, क्योंकि केवलिसमुद्घात करता हुआ केवली मनुष्य अन्य केवली मनुष्यों की अपेक्षा असंख्यातगुणी अधिक अवगाहना वाला होता है और उसकी अपेक्षा अन्य केवली असंख्यातगुण हीन अवगाहना वाले होते हैं । स्थिति की अपेक्षा केवली त्रिस्थानपतित हैं, क्योंकि सभी केवली संख्यात वर्ष की आयु वाले ही होते हैं । वर्ण, गंध, रस और स्पर्श

श्री भगवान् । हे गौतम । अनन्त पर्याय छे ।

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! ज्येम कडेवातु शु कारुणु छे ?

श्री भगवन्—हे गौतम ज्येक डेवलज्ञानी मनुष्य जीवत डेवलज्ञानी मनुष्यथी द्रव्यनी दृष्टिज्ये तुल्य थाय छे, प्रदेशानी दृष्टिज्ये तुल्य थाय छे, अवगाहनानी दृष्टिज्ये चतु स्थान पतित थाय छे आ कथन डेवली समुद्घातनी अपेक्षाज्ये समज्जु ज्ये, केमके समुद्घात करी रडेल डेवली मनुष्य अन्य डेवली मनुष्यनी अपेक्षाज्ये अस ज्थात गणुी अधिक अवगाहनावाणा थाय छे अन्ये तेमनी अपेक्षाज्ये अन्य डेवली अस ज्थात गुणुडीन अवगाहनावाणा थाय छे स्थितिनी अपेक्षाज्ये डेवली त्रिस्थान पतित थाय छे । केमके सधणा डेवली स ज्थात

स्पर्शपर्यवैः पट् स्थानपतितो भवति, केवलज्ञानपञ्जवेहिं, केवलदंसणपञ्जवेहि य तुल्ले' केवलज्ञानपर्यवैः, केवलदर्शनपर्यवैश्चः, तुल्यो भवति, 'पञ्चं केवल-दंसणी वि मणुसे भाणियव्वे' एवम्-केवलज्ञानमनुष्यवदेव, केवलदर्शनी अपि मनुष्यो भणितव्यः, तथा च केवलदर्शनीमनुष्यः केवलदर्शनिनो मनु-ष्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुः स्थान-पतितः, स्थित्या त्रिस्थानपतितः, वर्णगन्तरसस्पर्शपर्यवै पट्स्थानपतितः, केवल-ज्ञानपर्यवैः, केवलदर्शनपर्यवैश्च तुल्यो भवति इति भावः, 'वाणमंतरा जहा अमुर-कुमारा' वानव्यन्तराः यथा असुरकुमारः प्रतिपादितास्तथा प्रतिपत्तव्याः, 'एव जोइसिय वेमाणिया' एवम्-असुरकुमारवदेव ज्योतिष्कवैमानिका अपि देवाः-वक्तव्याः, किन्तु-एणवरं सट्टाणे ठिईए तिट्टाणवडिए' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेष-स्तु स्वस्थाने स्थित्या-आयुः कर्मानुभवलक्षणस्थित्यपेक्षया, त्रिस्थानपतितो भवति 'भणियव्वे' इति भणितव्यम्, प्रकृतसुपसंहरत्नाह- 'से चं जीवपज्जवा?' ते एते-पूर्वोक्ताः, जीवपर्यवाः ब्रह्मताः इति भावः ॥सू०११॥

के पर्यायों से पट्स्थानपतित होते हैं। केवलज्ञान के पर्यायों से तुल्य होते हैं, केवलदर्शन के पर्यायों से भी वे तुल्य होते हैं। केवलदर्शनी मनुष्य की वक्तव्यता भी इसी प्रकार की समझलेनी चाहिए, अर्थात् केवलदर्शनी मनुष्य केवलदर्शनी मनुष्य की अपेक्षा द्रव्य से तुल्य, प्रदेशों से तुल्य, अवगाहना से चतुःस्थानपतित, स्थिति से त्रिस्थान पतित, वर्ण गंध रस और स्पर्श के पर्यायों से पट्स्थानपतित तथा केवलज्ञान और केवलदर्शन के पर्यायों से तुल्य होता है।

वानव्यन्तर देवों की प्ररूपणा असुरकुमारों के समान है। ज्योतिष्कों और वैमानिक देवों की प्ररूपणा भी इसी प्रकार की समझनी चाहिए। विशेषता यह है कि वे स्वस्थान में स्थिति की अपेक्षा

वर्षनी आयुवाणं न् थायं छे, वरुं, गध, रस अने स्पर्शना पर्यायोथी पट्स्थान पतित थायं छे केवल ज्ञानना पर्यायोथी तुल्य थायं छे, केवल दर्शनना पर्यायोथी पणु तुल्य थायं छे, केवल दर्शनी मनुष्यनी वक्तव्यता पणु आण प्रकारे समञ्जो दीवी लोधये अर्थात् केवल दर्शनी मनुष्यनी अपेक्षाये द्रव्यथी तुल्य प्रदेशोथी तुल्य अवगाहनाथी यतु स्थान पतित, स्थितिथी त्रिस्थान पतित, वरुं, गध, रस अने स्पर्शना पर्यायोथी पट्स्थान पतित तथा केवल दर्शनना पर्यायोथी तुल्य थायं छे.

वानव्यन्तर देवोनी प्ररूपणा असुरकुमारोना समान छे. ज्योतिष्को अने वैमानिक देवोनी प्ररूपणा पणु ओण प्रकारे समञ्जो लोधये. विशेषता ये छे

अजीवपर्यायवक्तव्यता-

मूलम्—अजीव पञ्जवाणं भंते ! कइविहा पणत्ता गोयमा !
 दुविहा पणत्ता, तं जहा—रूवि अजीवपञ्जवा य, अरूवि अजीव-
 पञ्जवा य, अरूवि अजीवपञ्जवाणं भंते ! कइविहा पणत्ता ?
 गोयमा ! दसविहा पणत्ता, तं जहा—धम्मत्थिकाए धम्मत्थि-
 कायस्स देसे धम्मत्थिकायस्स पएसा, अहम्मत्थिकाए अहम्म-
 त्थिकायस्स देसे अहम्मत्थिकायस्स पएसा, आगासत्थिकाए
 आगासत्थिकायस्स देसे आगासत्थिकायस्स पएसा अद्धासमए,
 रूवि अजीवपञ्जवाणं भंते ! कइविहा पणत्ता ? गोयमा ! चउविहा
 पणत्ता, तं जहा—खंधा देसा, खंधा पएसा परमाणुपुगला,
 तेणं भंते ! किं संखेज्जा, असंखेज्जा, अणंता ? गोयमा ! नो
 संखेज्जा, नो असंखेज्जा अणंता, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ
 नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता ? गोयमा ! अणंता पर-
 माणुपुगला, अणंता दुपएसिया खंधा, जाव अणंता दस पए
 सिया खंधा, अणंता अणंत पएसिया खंधा, से तेणट्टेणं गोयमा !
 एवं बुच्चइ—तेणं नो संखिज्जा, नो असंखिज्जा, अणंता ॥सू० १२॥

त्रिस्थानपतित हैं,

उपसंहार करते हुवे सूत्रकार कहते हैं यह जीव के पर्यायों की
 प्ररूपणा समाप्त हुई ॥सू. ११॥

अजीवपर्यायवक्तव्या

शब्दार्थ—(अजीवपञ्जवाणं भंते कइविहा पणत्ता ?) हे भगवन् !
 अजीव के पर्याय कितने प्रकार के कहे हैं ? (गोयमा ! दुविहा

डे तेत्थे। स्वस्थानमा स्थितिनी अपेक्षाये त्रिस्थान पतित छे

उपस डार करता सूत्रकार कहे छे—आ लुवना पर्यायिनी प्रइपथु।
 समाप्त थर्थ ॥सू ११॥

हुवे अलुव पर्याय वक्तव्यता

शब्दार्थ—(अजीवपञ्जवाणं भंते ! कइ विहा पणत्ता ?) छे लगवान् ! अलुवना
 पर्याय डेटला कइला छे ? (गोयमा ! दुविहा पणत्ता) छे गौतम ! छे प्रकारना

छाया—अजीवपर्यवाः खलु भदन्त ! कतिविधाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम !
द्विविधाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा—रूप्यजीवपर्यवाश्च, अरूप्यजीवपर्यवाश्च, अरूप्यजीव-
पर्यवाः खलु भदन्त ! कतिविधाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! दशविधाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा
धर्मास्तिकायः, धर्मास्तिकायस्य देशः, धर्मास्तिकायस्य प्रदेशः, अधर्मास्ति-
कायः अधर्मास्तिकायस्य देशः, अधर्मास्तिकायस्य प्रदेशः आकाशास्ति-
कायः, आकाशास्तिकायस्य देशः, आकाशास्तिकायस्य प्रदेशः, अद्वासमयः,
रूप्यजीवपर्यवाः खलु भदन्त ! कतिविधाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! चतुर्विधाः

पण्णत्ता) हे गौतम ! दो प्रकार के कहे हैं (तं जहा) वे इस प्रकार
हैं (रुवि अजीवपज्जवा य अरुविअजीवपज्जवा य रूपी-अजीव
के पर्याय और अरूपीअजीव के पर्याय (अरुविअजीवपज्जवा णं भंते !
कइविहा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! अरूपी अजीव के पर्याय कितने
प्रकार के कहे हैं ? (गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता) हे गौतम ! दस प्रकार
के कहे हैं (तं जहा) वे इस प्रकार (धम्मत्थिकाए) धर्मास्तिकाय (धम्म-
त्थिकायस्स देसे) धर्मास्तिकायकादेश (धम्मत्थिकायस्स पएसा) धर्मा-
स्तिकाय के प्रदेश (अधम्मत्थिकाए) अधर्मास्तिकाय (अहम्मत्थिकाय-
स्स देसे) अधर्मास्तिकाय का देश (अहम्मत्थिकायस्स पएसा) अधर्मा-
स्तिकाय के प्रदेश (आगासत्थिकाए) आकाशास्तिकाय (आगासत्थि-
कायस्स देसे) आकाशास्तिकायका देश (आगासत्थिकायस्स पएसा)
आकाशास्तिकाय के प्रदेश (अद्वासमए) और अद्वासमय

(रुविअजीवपज्जवा णं भंते ! कइविहा पण्णत्ता ?) हे भगवन् !
रूपीअजीव के पर्याय कितने प्रकार के कहे हैं ? (गोयमा ! चउविहा

कइहा छे (तं जहा) ते आ प्रकारे छे (रुवि अजीवपज्जवा य अरुवि अजीव
पज्जवाय) इपी अणुवना पर्याय अने अइपी अणुवना पर्याय (अरुवि अजीव
पज्जवाण भते ! कइ विहा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! अइपी अणुव पर्याय केटला
कइहा छे (गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता) हे गौतम ! दस प्रकारना कइहा छे,
(तं जहा) ते आ प्रकारे (धम्मत्थिकाए) धर्मास्तिकाय (धम्मत्थिकायस्स देसे)
धर्मास्तिकायना देश (धम्मत्थिकायस्स पएसा) धर्मास्तिकायना प्रदेश (अधम्मत्थि-
काए) अधर्मास्तिकाय (अधम्मत्थिकायस्स देसे) अधर्मास्तिकायना देश (अह-
म्मत्थिकायस्स पएसा) अधर्मास्तिकायना प्रदेश (आगासत्थिकाए) आकाशास्तिकाय
(आगासत्थिकायस्स देसे) आकाशास्तिकायना देश (आगासत्थिकायस्स पएसा)
आकाशास्तिकायना प्रदेश (अद्वासमए) अने अद्वासमय

(रुवि अजीव पज्जवाणं भते ! कइविहा पण्णत्ता) हे भगवन् ! इपी अणुवना
पर्याय केटला प्रकारना कइहा छे ? (गोयमा ! चउविहा पण्णत्ता) हे गौतम ! आर

प्रज्ञप्ताः, तद्यथा-स्कन्धाः स्कन्धदेशाः स्कन्धप्रदेशाः परमाणु पुद्गलाः ते सखु भदन्त ! किं संख्येयाः, असंख्येयाः, अनन्ताः ? गौतम ! नो संख्येया, नो असंख्येयाः अनन्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते-नो संख्येयाः नो असंख्येयाः, अनन्ताः, ? गौतम ! अनन्ताः परमाणु पुद्गलाः, अनन्ताः द्विप्रदेशिकाः स्कन्धाः यावत्-अनन्ताः दश प्रदेशिकाः स्कन्धाः, अनन्ताः संख्येय प्रदेशिकाः स्कन्धा, अनन्ताः असंख्येयप्रदेशिकाः स्कन्धाः अनन्ताः अनन्तप्रदेशिणाः) हे गौतम ! चार प्रकार के कहे हैं (तं जहा) वे इस प्रकार (खंधा) स्कन (खंधदेशा) स्कंधदेश (खंधपणसा) स्कंधप्रदेश (परमाणु-पुद्गला) परमाणुपद्गल (ते णं भते !) हे भगवन् ! (किं संखेज्जा असंखेज्जा अणंता ?) ने क्या संख्यात, असंख्यात या अनन्त हैं ? (गोयमा ! नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता) हे गौतम ! वे संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनन्त हैं

(से केणट्टेणं भते ! एव वृचइ-नो संखेज्जा नो असंखेज्जा, अणंता) हे भगवन् ! किमकारण ऐसा कहा कि वे संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं अनन्त हैं (गोयमा ! अणंता परमाणुपुद्गला) हे गौतम ! परमाणुपुद्गल 'अनन्त हैं (अणंता दृपणसिया खंधा) द्विप्रदेशी स्कंध अनन्त हैं (जाव) यावत् (अणंता दसपणसिया खंधा) अनन्त दस प्रदेशी स्कंध हैं (अणंता संखेज्जपणसिया खंधा) अनन्त संख्यात-प्रदेशी स्कंध हैं (अणता असंखिज्जपणसिया खंधा) अनन्त असंख्यात-प्रदेशी स्कंध हैं (अणता अणंतपणसिया खंधा) अनन्त अनन्तप्रदेशी

प्रकारना इत्था छे (तं जहा) ते आ प्रकारे (खंधा) स्कंध (खंधदेशा) स्कंध देश (खंधपणसा) स्कंध प्रदेश (परमाणुपुद्गला) परमाणु पुद्गल (तेण भते !) हे भगवन् ! तेआ (किं संखेज्जा असंखेज्जा अणता ?) शु स ख्यात, असंख्यात अजर अनन्त छे ? (गोयमा ! नो संखेज्जा नो असंखेज्जा, अणता) हे गौतम ! संख्यात अजर असंख्यात नथी पणु अनन्त छे

(से केणट्टेण भते ! एव वृचइ-नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणता) हे भगवन् ! शा कारणे एषु कहु छे के संख्यात के असंख्यात नथी पणु अनन्त छे (गोयमा ! अणता परमाणुपुद्गला) हे गौतम ! परमाणु पुद्गल अनन्त छे (अणता दृपणसिया खंधा) द्विप्रदेशी स्कंध अनन्त छे (जाव) यावत् (अणता दस पणसिया खंधा) अनन्त दस प्रदेशी स्कंध छे (अणता संखेज्जपणसिया खंधा) अनन्त संख्यात प्रदेशी स्कंध छे (अणता असंखिज्जपणसिया खंधा) अनन्त असंख्यात प्रदेशी स्कंध अनन्त छे (अणता अणंतपणसिया खंधा) अनन्त प्रदेशी

शिकाः स्कन्धा, तत् तेनार्थेन गौतम ! एवमुच्यते-ते खलु नो संख्येयाः, नो असंख्येया अनन्ताः ।

टीका--जीवपर्यवग्ररूपणानन्तरं सम्प्रति अजीवपर्यायान् प्ररूपयितुमाह-
'अजीव पञ्जवाणं भंते ! कइविहा पणत्ता ?' हे भदन्त ! अजीवपर्यवाः खलु कति
विधाः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह-'गोयमा ! हे गौतम ! 'दुविहा पणत्ता' अजीव
पर्यवाः द्विविधाः प्रज्ञप्ताः, 'तं जहा-रुवि अजीवपञ्जवाय' अरुवि अजीव पञ्जवा
य, तद्यथा-रूप्यजीवपर्यवाश्च, अरूप्यजीवपर्यवाश्च, तत्र रूपम् विद्यते येषां ते
रूपिणः, रूपमिति गन्धरसस्पर्शानामप्युपलक्षणं बोध्यम्, ते च ते अजीवाश्चेति
रूप्यजीवास्तेषां पर्यवाः पर्यायाः, रूप्यजीवपर्यवाः पुद्गलपर्याया इत्यर्थः

स्कंध हैं (से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चह ते णं नो संखेज्जा नो
असंखेज्जा, अणंता) इस कारण हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि
वे न संख्यात हैं, न असंख्यात हैं अनन्त हैं ! ॥ १२ ॥

टीकार्थ-जीवों के पर्यायों की प्ररूपणा के अनन्तर अब अजीवों के
पर्यायों का निरूपण किया जाता है-

गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं-हे भगवन् ! अजीवपर्याय कितने
प्रकार के हैं ? भगवान् ने उत्तर दिया हे गौतम ! दो प्रकार के
कहे हैं-रूपी-अजीव पर्याय और अरूपी-अजीवपर्याय । जिनमें रूप
हो वे रूपी कहलाते हैं । यहाँ 'रूप' शब्द गंध, रस और स्पर्श
का उपलक्षण है, अतएव आशय यह हुआ कि जिसमें रस, गंध, रस
स्पर्श हो वह रूपी कहलाता है । रूपयुक्त अजीव को रूपी अजीवकहते
हैं । रूपी-अजीव पुद्गल ही होता है, अतएव रूपी-अजीव के पर्याय

स्कंध छे (से तेणट्टेण गोयमा एव वुच्चह तेणं नो संखेज्जा' नो असंखेज्जा,
अणंता) अे कारणे डे गौतम ! अेवु कडेवाय छे के तेअो न संख्यात छे,
न असंख्यात छे पणु अनन्त छे ॥ १२ ॥

टीकार्थ-अण्वेना पर्यायेनी प्ररूपणाना पछी डवे अण्वेना पर्यायेतुं
निरूपणु कराय छे

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे-हे भगवन् ! अण्व पर्याय केरना प्रकारना
कहा छे ?

श्री भगवन्-हे गौतम ! अे प्रकारना कहा छे-रूपी अण्व पर्याय
अने अरूपी अण्व पर्याय अेमा रूप डेवाय छे ते रूपी कडेवाय छे. अडिं
रूप, शब्द, रस, गंध अने स्पर्शतु उपलक्षणु छे, तेथी न आशय अे थये
के अेमां रूप गंध रस अने स्पर्श डेवाय ते रूपी कडेवाय छे रूप युक्त

તદ્ ભિન્ના:-અરુપ્યજીવપર્યાયાઃ, અમૂર્ત્તાજીવપર્યાયા ઇતિ ભાવઃ, ગૌતમઃ
 પૂચ્છતિ-અરુચિ અજીવ પચ્જગા ણં મંતે । રૂઢિવિહા પળ્ણત્તા ?' હે મદન્ત ! અરુ-
 પ્યજીવપર્યયાઃ સ્વત્વ કતિવિધાઃ પ્રજ્ઞપ્તાઃ ? મગવાન આદ-‘ગોયમા !’ હે ગૌતમ !
 ‘દસવિદ્વા પળ્ણત્તા’ અરુપ્યજીવપર્યયા દશવિધાઃ પ્રજ્ઞપ્તાઃ ‘તં જદ્વા-ધમ્મત્થિકાણ, ધમ્મસ્તિ-
 કાયસ્ય દેશઃ, ધર્માસ્તિકાયસ્ય પ્રદેશઃ, તત્ત્વ કૃત્સ્તન્મ્ અવયપિદ્રવ્યં ધર્માસ્તિકાયઃ
 તસ્યૈવ ધર્માસ્તિકાયસ્યાર્દ્ધાદિ રુપેણોઽગઃ ધર્માસ્તિકાયદેશઃ, તસ્યૈવ ધર્માસ્તિ-
 કાયસ્ય નિરંશાઃ અંગાઃ-ધર્માસ્તિકાયપ્રદેશા વ્યપદિશ્યન્તે, એવં ગીત્યા અધર્માસ્તિ-
 અર્થાત્ પુદ્ગલ કે પર્યાય । અરુપી અર્થાન્ અમૂર્ત્તા અજીવ કે પર્યાય
 અરુપી-અજીવપર્યાય કહ્લાલે ને ।

ગૌતમ પુનઃ પ્રશ્ન કરતે હૈ-હે મગવન્ ! અરુપી-અજીવ પર્યાય
 કે કિતને પ્રકાર હૈ !

મગવાન-ઉત્તર દેતે હૈ-ગૌતમ ! અરુપી-અજીવ કે પર્યાય દસ
 પ્રકાર કે કહે હૈ, વે ઇસ પ્રકાર હૈ-ધર્માસ્તિકાય, ધર્મા સ્તિકાય કા દેશ,
 ધર્માસ્તિકાય કે પ્રદેશ, અધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય કે દેશ,
 અધર્માસ્તિકાય કે પ્રદેશ, આકાશાસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય કા
 દેશ, આકાશાસ્તિકાય કે પ્રદેશ ઓર અદ્વાસમય’ સમ્પૂર્ણ અસં-
 રુયાત પ્રદેશો ધર્માસ્તિકાય કા પિણ્ડ ધર્માસ્તિકાય કહ્લાલા હૈ,
 ધર્માસ્તિકાય કે અર્દ્ધ આદિ ભાગ કો ધર્માસ્તિકાયદેશ કહ્લાલે હૈ ઓર
 ધર્માસ્તિકાય કે સવ સૂક્ષ્મ અંશ કો ધર્માસ્તિકાય પ્રદેશ કહ્લાલે હૈ ।
 ઇસી પ્રકાર અધર્માસ્તિકાય ઓર આકાશાસ્તિકાય આદિ કે ત્રિકો

અલ્પવને રૂપી અલ્પવ કહે છે. રૂપી અલ્પવ પુદ્ગલ જ હોય છે, તેથી જ
 રૂપી અલ્પવના પર્યાય અર્થાત્ પુદ્ગલના પર્યાય અરૂપી અર્થાત્ અમૂર્ત અલ્પવના
 પર્યાય અરૂપી-અલ્પવ પર્યાય કહેવાય છે.

શ્રી ગૌતમસ્વામી પ્રશ્ન કરે છે-હે ભગવન્ અરૂપી અલ્પવ પર્યાયના કેટલા
 પ્રકાર છે? શ્રી ભગવાન-હે ગૌતમ ! અરૂપી અલ્પવના પર્યાય દશ પ્રકારના
 કહ્યા છે, તેઓ આ પ્રકારે છે-ધર્માસ્તિકાય, ધર્માસ્તિકાયના દેશ, ધર્માસ્તિ-
 કાયના પ્રદેશ, અધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાયના દેશ, અધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશ
 આકાશાસ્તિકાય આકાશાસ્તિકાયના દેશ અને આકાશાસ્તિકાયના પ્રદેશ અદ્વાસમય,
 સ પૂર્ણ અસંખ્યાત પ્રદેશી ધર્માસ્તિકાયના પિંડ ધર્માસ્તિકાય કહેવાય છે.
 ધર્માસ્તિકાયના અર્ધ આદિ ભાગને ધર્માસ્તિકાય દેશ કહે છે અને ધર્માસ્તિકાયના
 અધાથી સૂક્ષ્મ અંશને ધર્માસ્તિકાયપ્રદેશ કહે છે. એજ રીતે અધર્માસ્તિ

काये आकाशास्तिकाये च त्रिकमाह—‘अहम्मत्थिकाए’ अहम्मत्थिकायस्स देसे, अहम्मत्थिकायस्स पएसा’ अमर्थास्तिकायः, अमर्थास्तिकायस्य देशः, अधर्मास्तिकायस्य प्रदेशः, ‘आगासत्थिकाए, आगासत्थिकायस्म देसे, आगासत्थिकायस्स पएसा’ आकाशास्तिकायः, आकाशास्तिकायस्य देशः, आकाशास्तिकायस्य प्रदेशः, ‘अद्धासमए’ अद्धासमयश्च दशमो बोध्यः, तत्र परस्परसम्भद्धात्मजावयवावयवनिस्वरूपं धर्मास्तिकायादिं वस्तु वर्तते इति सिद्धम्, यद्यप्यत्र पर्यायाणां प्ररूपयित्तुमुपक्रमात् तत्कथनस्यैव न्याय्यत्वेन द्रव्यमात्रप्ररूपणं कृतमिति न किमप्यनुचितम्, वस्तुतस्तु धर्मास्तिकायत्वं धर्मास्तिकाय देशत्वं, धर्मास्तिकायप्रदेशत्वम् इत्यादिना प्ररूपणमेव प्रकृतोपयोगिदृष्टव्यम्, इत्येवं रीत्या सान्निव्यात् प्रथमम् रूप्यजीवपर्यायाणां क्रमसत्त्वेऽपि तं परित्यज्य अरूप्यजीवपर्यायाणां प्ररूपणं कृतम्,

को समझ लेना चाहिए । दसवां अद्धाकाल है जो अप्रदेशी है । यद्यपि धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य है, यहां पर्यायों की प्ररूपणा की जा रही है, अतएव पर्यायों का कथन करना ही उचित था, द्रव्यका कथन करना उचित नहीं प्रतीत होता, तथापि पर्याय और पर्यायी अर्थान् द्रव्य कथंचित् अभिन्न हैं, यह प्रकट करने के लिए द्रव्यों का कथन किया गया है, अतएव कोई अनौचित्य नहीं है । वास्तव में तो धर्मास्तिकाय के पर्याय, धर्मास्तिकाय के देश के पर्याय, धर्मास्तिकाय के प्रदेशों आदि के पर्याय ही यहां विवक्षित हैं ।

यद्यपि पहले रूपी-अजीव का उल्लेख किया गया है इस कारण पहले उसी के पर्यायों की प्ररूपणा होनी चाहिए थी, किन्तु उस क्रम का त्याग करके प्रथम अरूपी-अजीव की प्ररूपणा की गई है ।

काय अने आकाशास्तिकाय आदिना त्रिकोने समञ्ज देवा नेधञ्जे दशमो अद्धा काण छे जे अप्रदेशी छे. जे के धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य छे, अही पर्यायीनी प्ररूपणा कराई रहीं छे, तेथी ज पर्यायीनु कथन करवु उचित छेतु. द्रव्यनु कथन करवु ते उचित न छेतु तथापि पर्याय अने पर्यायी अर्थात् द्रव्य कथंचित् अभिन्न छे, जे प्रकट करवाने माटे द्रव्यनु कथन करायु छे, तेथी कांछ अनौचित्य नहीं वास्तवभाते धर्मास्तिकायना पर्याय, धर्मास्तिकायना देशना पर्याय, धर्मास्तिकायना प्रदेशो आदिना पर्याय ज अही विवक्षित छे.

यद्यपि पहले रूपी अजीवना उल्लेख करेला छे जे माटे पहले तेना ज पर्यायीनी प्ररूपणा थी नेधञ्जे. पण ते कसना त्याग करीने प्रथम रूपी अजीवनी प्ररूपणा कराई छे.

अथ रूप्यजीवपर्ययान् प्ररूपयितुमाह—'रुद्रि अजीवपञ्जराणं भंते ! कडविहा पणत्ता ? हे भदन्त ! रूप्यजीवपर्ययाः सल्लु कतिविधाः प्रजज्ञाः ? भगवान् आह—गोयमा ! 'हे गौतम ! 'चउविहा पणत्ता' रूप्यजीवपर्यया श्रतुर्विधाः प्रजज्ञाः, 'तं जहा-संधा, 'संधदेशाः संधपएसा, परमाणुपोग्गला' तयथा-स्कन्धाः स्कन्धदेशाः, स्कन्ध प्रदेशाः परमाणु पुद्गलाश्च, गौतमः पृच्छति—'ते णं भंते ! किं संखेज्जा, असंखेज्जा अणंता ? 'हे भदन्त ! ते सल्लु स्कन्धादयः प्रत्येकं किं संखेयाः असंखेयाः अनन्ता वा भवन्ति ? भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'नो संखेजा, नो असंखेज्जा, अणंता' स्कन्धादयो नो संखेयाः, नो वा असंखेयाः अपि तु अनन्ता भवन्ति, गौतमस्तत्र कारणं पृच्छति—'से केणद्वेणं भंते ! एवं वुच्चइ-नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता ? 'हे भदन्त ! तत्-अथ, केनार्येण-कथं तावद्, एवमुक्तीत्या, उच्यते यत्-स्कन्धादयो नो संखेयाः, नो वा असंखेयाः अपि तु अनन्ता भवन्तीति ? भगवान् आह—'गोयमा ! हे गौतम ! 'अणंता

गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—भगवन् ! रूपी-अजीव के कितने पर्याय कहे हैं ? भगवान् ! उत्तर देते हैं—हे गौतम ! रूपी-अजीव के पर्याय चार प्रकार के कहे हैं—स्कंध, स्कंधदेश, स्कंध प्रदेश और परमाणुपुद्गल ।

गौतम—हे भगवन् ! स्कंध आदि क्या संख्यात हैं, या असंख्यात हैं अथवा अनन्त हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! न संख्यात हैं, न असंख्यात हैं, किन्तु अनन्त होते हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! किसकारण से ऐसा कहा जाता है, कि स्कंध आदि संख्यात नहीं असंख्यात भी नहीं परन्तु अनन्त हैं ?

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे-हे भगवन् ! इपी अणवना केटला पर्याय कइया छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे-हे गौतम ! इपी अणवना पर्याय चार प्रकारना कइया छे-छे-स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्ध प्रदेश, अने परमाणु पुद्गल.

श्री गौतम-हे भगवन् ! स्कन्ध आदि शु सख्यात छे अजर असख्यात छे अथवा अनन्त छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! न सख्यात छे, न असख्यात छे, पणु अनन्त होय छे.

श्री गौतम-हे भगवन् ! शा कारणे अेभ कडेवाय छे के स्कन्ध आदि सख्यात नहीं असख्यात पणु नहीं परन्तु अनन्त छे ?

परमाणु पुग्गला' अनन्ता परमाणुपुद्गला भवन्ति 'अणंता टुपएसिया संधा जाव अणंता दसपएसिया संधा' अनन्ता द्विप्रदेशिकाः स्कन्धाः, यावद्-अनन्ता त्रिप्रदेशिकादि नत्र प्रदेशिकान्ताः स्कन्धाः, अनन्ताः दश प्रदेशिकाः स्कन्धाः, 'अणंता संखिज्ज पएसिया संधा' अनन्ता संख्येयप्रदेशिकाः स्कन्धाः, 'अणंता अणंतपएसिया संधा' अनन्ताः अनन्तप्रदेशिकाः स्कन्धा भवन्ति, प्रकृतमुपसंहरन्नाह- 'से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-ते णं नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता ! हे गौतम ! तत्-अय, तेनार्येन, एवम्-उत्तरीत्या. उच्यते यत्-खलु स्कन्धादयो नो संख्येयाः, नो वा असंख्येयाः, अपि तु अनन्ता भवन्ति इत्याशयः ॥ सू० १३ ॥

परमाणु पुद्गल पर्याय वक्तव्यता

मूलम्-परमाणुपोग्गलाणं भंते ! केवइया पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ-परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! परमाणुपोग्गले परमाणुपोग्गलस्स दव्वट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए तुल्ले, ओगाहणट्टयाए तुल्ले ठिईए सिय हीणे, सिय

भगवान्-हे गौतम ! परमाणुपुद्गल अनन्त है, द्वि प्रदेशी स्कंध अनन्त हैं, यावत् दसप्रदेशी स्कंध अनन्त है अर्थात् त्रिप्रदेशी, चार-प्रदेशी, पंचप्रदेशी छह प्रदेशी, सातप्रदेशी, आठप्रदेशी, नौप्रदेशी, दशप्रदेशी स्कंध अनन्त हैं। इसी प्रकार संख्यातप्रदेशी स्कंध अनन्त है, असंख्यातप्रदेशी स्कंध अनन्त हैं और अनन्तप्रदेशी स्कंध भी अनन्त है। उपसंहार करते हुए कहते हैं-हे गौतम ! इस कारण ऐसा कहा जाता है कि स्कंध आदि संख्यात नहीं हैं असंख्यात भी नहीं हैं, परन्तु अनन्त है ॥ १२ ॥

श्री भगवान्-हे गौतम ! परमाणु पुद्गल अनन्त છે, દ્વિપ્રદેશી સ્કન્ધ અનન્ત છે, યાવત્ દશ પ્રદેશી સ્કન્ધ અનન્ત છે, અર્થાત્ ત્રિપ્રદેશી, ચાર પ્રદેશી, પંચ પ્રદેશી, છ પ્રદેશી, સાત પ્રદેશી, આઠ પ્રદેશી, ની પ્રદેશી સ્કન્ધ અનન્ત છે. એ જ પ્રકારે સંખ્યાત પ્રદેશી સ્કન્ધ અનન્ત છે, અસંખ્યાત પ્રદેશી સ્કન્ધ અનન્ત છે અને અનન્ત પ્રદેશી સ્કન્ધ પણ અનન્ત છે.

ઉપસંહાર કરતા પ્રભુ કહે છે-હે ગૌતમ ! એ કારણે એવું કહેવાય છે કે સ્કન્ધ આદિ સંખ્યાત નથી. અસંખ્યાત પણ નથી પરન્તુ અનન્ત છે ॥ ૧૨ ॥

तुल्ले, सिय आव्महिए, जइ हीणे, असंखेज्जइभाग हीणे वा, संखिज्जइभाग हीणे वा, संखिज्जइगुण हीणे वा, असंखिज्जइगुणहीणे वा, अह आव्महिए असंखिज्जइभाग आव्महिए वा, संखिज्जइभाग आव्महिए वा, संखिज्जगुणा आव्महिए वा, असंखिज्जगुण आव्महिए वा, कालवण्णपज्जवेहिं सिय हीणे सिय तुल्ले सिय आव्महिए, जइ हीणे अणंतभाग हीणे वा, असंखिज्जइभाग हीणे वा, संखिज्जइभाग हीणे वा, संखिज्जइगुण हीणे वा, असंखिज्जइगुण हीणे वा, अणंतगुणहीणे वा, अह आव्महिए अणंतभाग आव्महिए वा, असंखिज्जइभाग आव्महिए वा, संखिज्जगुण आव्महिए वा, असंखिज्जगुण आव्महिए वा, अणंतगुण आव्महिए वा, एवं अवसेस वन्नगंधरसफासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए फासाणं सिय उसिणणिद्धलुक्खेहिं छट्ठाणवडिए; से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ-परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता, दुपएसियाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता, से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ-दुपएसियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुपएसिए दुपएसियस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले, पएसट्ठयाए तुल्ले ओगाहणट्ठयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय आव्महिए, जइ हीणे पएसहीणे, अह आव्महिए पएसमव्महिए, ठिईए चउट्ठाणवडिए, वन्नाईहिं उवरिल्लेहि चउफ्फासेहिं य छट्ठाणवडिए, एवंपिपएसे वि, नवरं ओगाहणट्ठयाए सिय हीणे सिय तुल्ले, सिय आव्महिए, जइ हीणे पएस हीणे वा, दुपएस हीणे वा, अह आव्महिए पएसमव्महिए वा, दुपएसमव्महिए वा, एवं जाव दस पएसिए, नवरं ओगाहणाए, पएसपरिवुट्ठीए कायव्वा जाव दसपएसिए, नवरं नवपएस हीणत्ति, संखेज्जपएसियाणं

पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता ? से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ संखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! संखेज्जपएसिए संखेज्जपएसियस्स दब्बट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए सिय हीणे सिय तुल्ले, सिय अब्भहिए, जइ हीणे संखेज्जभागहीणे वा, संखिज्जगुण हीणे वा, अह अब्भहिए, एवं चेव, ओगाहणट्टयाए वि दुट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णाइ उवरिह्ल, चउफासपज्जवेहि य छट्टाणवडिए, असंखिज्जपएसियाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—असंखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! असंखिज्जपएसिए खंधे असंखिज्जपएसियस्स खंधस्स दब्बट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए, चउट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए, चउट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णाइउवरिह्ल चउफासेहि य छट्टाणवडिए । अणंतपएसियाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अणंतपएसिए खंधे अणंतपएसियस्स खंधस्स दब्बट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए । एगपएसो-गाढाणं पोग्गलाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—एगपएसोगाढाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! एगपएसोगाढे पोग्गले एगपएसोगाढस्स पोग्गलस्स दब्बट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए तुल्ले, ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णाई उवरिह्लचउफासेहिं छट्टाणवडिए एवं दुपएसोगाढे वि, संखिज्जपएसोगाढाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—संखिज्जपएसोगाढाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?

गोयमा ! संखिज्जपएसोगाढे पोग्गले संखिज्जपएसोगाढस्स
 पोग्गलस्स दव्वट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगा-
 हणट्टयाए दुट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णाइउवरिल्ल
 चउफासेहि य छट्टाणवडिए । असंखेज्जपएसोगाढाणं पुच्छा,
 गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं
 बुच्चइ-असंखिज्जपएसोगाढाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?
 गोयमा ! असंखेज्जपएसोगाढे पोग्गले असंखेज्जपएसोगाढस्स
 दव्वट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए
 चउट्टाणवडिए ठिईए चउट्टाणवडिए वण्णाइ अट्ट फासेहि
 छट्टाणवडिए, एगसमयठिइयाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता
 पज्जवा पण्णत्ता से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-एगसथयठिइयाणं
 अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! एगसमयठिइए पोग्गले एग-
 समयठिइयस्स पोग्गलस्स दव्वट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए छट्टा-
 णवडिए, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए तुल्ले वण्णाइ
 अट्ट फासेहि छट्टाणवडिए एवं जाव दस समयठिइए, संखे-
 ज्जसमयठिइयाणं एवं चेव, णवरं ठिईए दुट्टाणवडिए असं-
 खेज्जसमयठिइयाणं एवं चेव, नवरं ठिईए चउट्टाणवडिए,
 एगगुणकालगाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता,
 से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ एगगुणकालगाणं अणंता पज्जवा
 पण्णत्ता ? गोयमा ! एगगुणकालए पोग्गले एकगुणकालगस्स
 पोग्गलस्स दव्वट्टयाए तुल्ले पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगा-
 हणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, कालवण्ण-
 पज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्टाण-
 वडिए, अट्टफासेहिं छट्टाणवडिए, एवं जाव दसगुणकालए,
 संखेज्जगुणकालए त्ति, नवरं सट्टाणे चउट्टाणवडिए, एवं अणंत
 गुणकालए त्ति, नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए, एवं जहा कालवण्ण-

स्स वत्तव्वया भणिया तथा सेसाण त्ति वण्णगंधरसफासाणं
वत्तव्वया भाणियव्वा, जाव अणंतगुणल्लुक्खे ॥सू० १३॥

छाया—परमाणु पुद्गलानां भदन्त ! कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम !
परमाणु पुद्गलानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्येन भदन्त ! एवमुच्यते
—परमाणुपुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! परमाणुपुद्गलः परमाणु
पुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया तुल्यः,
स्थित्या स्याद्धीनः, स्यात्तुल्यः, स्यादभ्यधिकः, यदा हीनः असंख्येयभागहीनो

परमाणुपुद्गलपर्यायवक्ष्यता

शब्दार्थ—(परमाणुपोग्गलाणं भंते ! केवइया पज्जवा पण्णत्ता ?)
हे भगवन् ! परमाणुपुद्गलों के कितने पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! पर-
माणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! परमाणुपुद्गलों के
के अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एव बुच्चइ परमाणुपोग्ग-
लाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता) किस कारण से हे भगवन् ! ऐसा कहा
है कि परमाणुपुद्गलों के अनन्त पर्याय है ? (गोयमा) हे गौतम ! (परमा-
णुपोग्गले परमाणुपोगलस्स दव्वइयाए तुल्ले) एक परमाणुपुद्गल
दूसरे परमाणुपुद्गल से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है (पएसइयाए तुल्ले)
प्रदेशों की दृष्टि से तुल्य है (ओगाहणइयाए तुल्ले) अवगाहना की दृष्टि
से तुल्य है (ठिईए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए) स्थिति
की दृष्टि से कदाचित् हीन, कदाचित् तुल्य, कदाचित् अधिक है (जइ
हीणे) यदि हीन हो (असंखेज्जइभागहीणे वा संखेज्जइभागहीणे वा,

परमाणु पुद्गल पर्याय वक्तव्यता

शब्दार्थ—(परमाणुपोग्गलाणं भंते ! केवइया पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् !
परमाणु पुद्गलानां केतला पर्याय क्खामा छे ? (गोयमा ! परमाणुपोग्गलाण
अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! परमाणु पुद्गलानां अनन्त पर्याय छे
(से केणट्ठेणं भंते ! एव बुच्चइ—परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता) शा
कारणे हे भगवन् ! एवु क्खामा छे के परमाणु पुद्गलानां अनन्त पर्याय छे ?
(गोयमा !) हे गौतम ! (परमाणुपोग्गले परमाणुपोगलस्स दव्वइयाए तुल्ले)
एक परमाणु पुद्गल नील परमाणु पुद्गलधी द्रव्यनी दृष्टिअे तुल्य छे
(पएसइयाए तुल्ले) प्रदेशानी दृष्टिअे तुल्य छे (ओगाहणइयाए तुल्ले) अवगाह-
नानी दृष्टिअे तुल्य छे (ठिईए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए) स्थितिनी
दृष्टिअे कदाचित् हीन, कदाचित् तुल्य कदाचित् अधिक छे (जइ हीणे) अे हीन
छाय (असंखेज्जइभाग हीणे वा, संखेज्जइभाग हीणे वा, संखेज्जइ गुण हीणे वा

वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अथाभ्यधिकः असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, कृष्णवर्णपर्यवैः स्याद्हीनः, स्यात्तुल्यः, स्याद्भ्यधिकः, यदा हीनः अनन्तभागहीनो वा, असंख्येयभागहीनो वा, संख्येय भाग हीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा, अथाभ्यधिकः अनन्तभागाभ्यधिको वा, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संखेज्जइगुणहीणे वा असंखेज्जइगुणहीणे वा,) असंख्यातभागहीन संख्यातभाग हीन संख्यातगुण हीन या असंख्यातगुण हीन होता है (अह् अवभहिए) अगर अधिक हो (असंखेज्जइभाग अवभहिए वा, संखेज्जइभाग अवभहिए वा, संखेज्जइगुण अवभहिए वा, असंखेज्जइगुण अवभहिए वा) असंख्यातभाग अधिक संख्यातभाग अधिक, संख्यात गुण अधिक असंख्यातगुण अधिक, होता है

(कालवर्णपञ्जवेहिं सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अवभहिए) कृष्ण वर्ण के पर्यायों से कदाचित् हीन, कदाचित् तुल्य, कदाचित् अधिक होता है (जइ हीणे अणंतभागहीणे वा, असंखेज्जइभागहीणे वा संखेज्जइभाग हीणे वा, संखेज्जइगुणहीणे वा, असंखेज्जइगुणहीणे वा, अणंतगुणहीणे वा) यदि हीन हो तो अनन्तभागहीन असंख्यातभाग हीन संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन, असंख्यातगुणहीन अथवा अनन्तगुणहीन होता है (अह् अवभहिए अणंतभाग अवभहिए वा, असंखेज्जइभाग अवभहिए वा, संखेज्जइभाग अवभहिए वा, संखेज्जइगुण अवभहिए वा, असंखेज्जइ

असंखेज्जइ गुण हीणे वा) असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात शुष्ण हीन या असंख्यात शुष्णहीन थाय छे (अह् अवभहिए) अगर अधिक डोय छे तो (असंखेज्जइभाग अवभहिए वा, संखेज्जइभाग अवभहिए वा, संखेज्जइ गुण अवभहिए वा, असंखेज्जइ गुण अवभहिए वा) असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात शुष्ण अधिक, असंख्यात शुष्ण अधिक थाय छे

(कालवर्णपञ्जवेहिं सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अवभहिए) कृष्ण वर्णना पर्यायों से कदाचित् हीन कदाचित् तुल्य, कदाचित् अधिक थाय छे (जइ हीणे अणंतभाग हीणे वा, असंखेज्जइ भागहीणे वा, संखेज्जइ भागहीणे वा, संखेज्जइ गुणहीणे वा, असंखेज्जइगुणहीणे वा, अणंत गुणहीणे वा) नो हीन डोय तो अनन्त भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात शुष्ण हीन, असंख्यात शुष्णहीन अथवा अनन्त शुष्णहीन थाय छे (अह् अवभहिए अणंतभाग अवभहिए वा, असंखेज्जइ भाग अवभहिए वा संखेज्जइ भाग अवभ-

संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा, एवम् अवशेषवर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः पटस्थानपतितः, स्पर्शानां शीतोष्णस्निग्धरुक्षैः पटस्थानपतितः, तत् तेनार्थेन गौतम ! एवमुच्यते—परमाणुपुद्गलानामनन्ताः पर्यवा प्रज्ञप्ताः, द्विप्रदेशिकानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—द्विप्रदेशिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! द्विप्रदेशिको द्विप्रदेशिकस्य द्रव्यार्थतया

गुण अब्भहिए वा अणंतगुणअब्भहिए वा) यदि अधिक हो तो अनन्त भागअधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यात-तगुण अधिक असंख्यातगुण अधिक अथवा अनन्तगुण अधिक होता है (एवं अवसेसवर्णगंध रसफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) इसी प्रकार शेष वर्ण गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से पटस्थानपतित है (फासाणं सीय उसिणणिद्धलुक्खेहिं छट्टाणवडिए) स्पर्शों में शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्षस्पर्शों से पटस्थानपतित है (से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता) इस हेतु से हे गौतम ! ऐसा कहा है परमाणुपुद्गलों के अनन्त पर्याय हैं

(दुपएसियाणं पुच्छा ?) द्विप्रदेशी स्कंधों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चइ—दुपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता !) हे भगवन् किस कारण ऐसा कहा है कि द्विप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! दुपएसिए दुपएसियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम !

हिए वा संखेज्जइ गुण अब्भहिए वा असंखेज्जइ गुण अब्भहिए वा अणंत गुण अब्भहिए वा) जो अधिक होयतो अनन्त भाग अधिक, असंख्यातभाग अधिक संख्यात भाग अधिक, संख्यात शुष्ण अधिक, असंख्यात शुष्ण अधिक अथवा अनन्त शुष्ण अधिक थाय छे (एव अवसेसा वण्ण गंध रस फास पज्जवेहिं छट्टाण वडिए) जो प्रकारे शेष, वर्ण, गंध, रस अने स्पर्शाना पर्यायोथी पटस्थान पतित छे (फासाणं सीय उसिण णिद्ध लुक्खेहिं छट्टाणवडिए) स्पर्शोभा शीत, उष्ण, स्निग्ध अने रुक्ष पर्यायोथी पटस्थान पतित छे (से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता) जो हेतुथी ओषु कहु छे के हे गौतम ! परमाणु पुद्गलाना अनन्त पर्याय छे

(दुपएसियाणं पुच्छा ?) द्विप्रदेशी स्कंधोनी पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहु छे (से केणट्टेणं भते एव वुच्चइ—दुपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् शा कारणे ओषु कहु छे के दि

તુલ્યઃ પ્રદેશર્થતયા તુલ્યઃ અવગાહનાર્થતયા સ્યાદ્દીનઃ, સ્યાત્તુલ્યઃ, સ્યાદભ્ય-
ધિકઃ, યદા હીનઃ, પ્રદેશહીનઃ અયાભ્યધિકઃ-પ્રદેશાભ્યધિકઃ, સ્થિત્યા ચતુઃ
સ્થાનપતિતઃ, વર્ણાદિભિઃ, ઉપરિતનેશ્ચતુઃસ્પર્શૈશ્ચ પટ્ટસ્થાનપતિતઃ, એવં ત્રિપ્રદે
શિક્ષોઽપિ, નવરમ્ અવગાહનાર્થતયા સ્યાદ્દીનઃ, સ્યાત્તુલ્યઃ સ્યાદભ્યધિકઃ, યદા
હીનઃ પ્રદેશહીનો વા, દ્વિપ્રદેશહીનો વા, અયાભ્યધિકઃ પ્રદેશાભ્યધિકો વા, દ્વિ
પ્રદેશાભ્યધિકો વા, એવં યાવદ્-દશપ્રદેશિકઃ, નવરમ્-અવગાહનાયા, પ્રદેશપરિ-
દ્વિપ્રદેશી દ્વિ પ્રદેશો સે તુલ્ય (ઓગાહણદ્વયાપ્તિ સિય હીણે સિય તુલ્લે
સિય અવ્મહિણ) અવગાહના સે કદાચિત્ હીન, કદાચિત્ તુલ્ય, કદા-
ચિત્ અધિક (જહ્ હીણે પપ્સહીણે) અગર હીન હો તો એક પ્રદેશહીન
હોતા હૈ (અહ અવ્મહિણ પપ્સમવ્મહિણ) યદિ અધિક હો તો એક પ્રદેશ
અધિક હોતા હૈ (ઠિઈણ ચ્ચટ્ટાણવહિણ) સ્થિતિ સે ચતુઃસ્થાનપતિત હોતા
હૈ (વન્નાઈહિં ઉવરિલ્લેહિં ચ્ચઉપાસેહિ ય છટ્ટાણવહિણ) વર્ણ આદિ સે
ઔર ઉપર્યુકત સ્પર્શો સે પટ્ટસ્થાનપતિત હૈ

(એવં તિપ્પસે ચિ) ઈસી પ્રકાર ત્રિપ્રદેશી ખી (નવર) વિશેષ
(ઓગાહણદ્વયાપ્તિ સિય હીણે સિય તુલ્લે સિય અવ્મહિણ) અવગાહના સે
કદાચિત્ હીન, કદાચિત્ તુલ્ય, કદાચિત્ અધિક હોતા હૈ (જહ્ હીણે
પપ્સહીણે વા, દુપ્પસહીણે વા) યદિ હીન હો તો એક પ્રદેશ સે હીન યા
દો પ્રદેશો સે હીન હોતા હૈ (અહ અવ્મહિણ પપ્સમવ્મહિણ વા દુપ્પસ
મવ્મહિણ વા) અગર અધિક હો તો એક પ્રદેશ અધિક યા દો પ્રદેશ

પ્રદેશી સ્ક-ધેના અન-ત પર્યાય કહ્યા છે (ગોયમા ! દુપ્પસિણ દુપ્પસિયસ્સ
ક્વવ્વદ્વયાપ્તિ તુલ્લે) હે ગૌતમ ! દ્વિપ્રદેશા દ્વિપ્રદેશીથી દ્રવ્યની દ્વિગ્તિએ તુલ્ય છે, (પપ્-
સદ્વયાપ્તિ તુલ્લે) પ્રદેશોથી તુલ્ય (ઓગાહણદ્વયાપ્તિ સિય હીણે સિય તુલ્લે સિય અવ્મહિણ)
અવગાહનાથી કદાચિત્ હીન, કદાચિત્ તુલ્ય, કદાચિત્ અધિક (જહ્ હીણે પપ્સ
હીણે) અગર હીન હોય તો એક પ્રદેશ હીન બને છે (અહ અવ્મહિણ પપ્સ
મવ્મહિણ) યદિ અધિક હોય તો એક પ્રદેશ અધિક થાય છે (ઠિઈણ ચ્ચટ્ટાણ
વહિણ) સ્થિતિથી ચતુઃસ્થાન પતિત થાય છે (વન્નાઈહિં ઉવરિલ્લેહિં-ચ્ચઉપાસેહિય
છટ્ટાણવહિણ) વર્ણ આદિથી અને ઉપર્યુકત સ્પર્શોથી પટ્ટસ્થાન પતિત થાય છે

(એવ તિપ્પસે ચિ) એ રીતે ત્રિપ્રદેશી પણ (નવર) વિશેષ (ઓગાહણદ્વયાપ્તિ
સિય હીણે સિય તુલ્લે સિય અવ્મહિણ) અવગાહનાથી કદાચિત્ હીન, કદાચિત્ તુલ્ય,
કદાચિત્ અધિક થાય છે (જહ્ હીણે પપ્સ હીણે વા, દુપ્પસ હીણે વા) એ હીન થાય તો
એક પ્રદેશ હીન અગર એ પ્રદેશોથી હીન થાય છે (અહ અવ્મહિણ પપ્સમવ્મહિણ
વા દુપ્પસમવ્મહિણ વા) અગર અધિક હોય તો એક પ્રદેશ અધિક અગર એ

वृद्धिः कर्त्तव्या, यावद् दशप्रदेशिकः, नवरम् नव प्रदेशहीन इति, संख्येयप्रदेशिका-
कानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् फेनार्थेन भदन्त ! एवमु-
च्यते—संख्येयप्रदेशिकानां अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! संख्येयप्रदे-
शिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया स्याद्धीनः, स्यात्तुल्यः, स्याद्भ्य-
धिकः यदा हीनः संख्येयभागहीनो वा संख्येयगुणहीनो वा, अथाभ्यधिकः
एवञ्चैव, अवगाहनार्थतयापि द्विस्थानपतितः स्थित्या चतुःस्थानपतितः

अधिक होता है (एव जाव दसपएसिण) इसी प्रकार यावन् दशप्रदेशी
(नवरं नवपएसहीणत्ति) विशेष यह कि वह नौ प्रदेशों से हीन
तक होता है

(संखेज्जपएसियाणं पुच्छा ?) संख्यात प्रदेशी स्कंधों की पृच्छा ?
(गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से
केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—संखिज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता)
हे भगवन किस कारण ऐसा कहा कि संख्यातप्रदेशी स्कंधों के अनन्त
पर्याय कहे हैं (गोयमा ! संखेज्जपएसिण संखेज्जपएसियस्स दच्चट्ट-
याए तुल्ले) हे गौतम ! संख्यातप्रदेशी स्कंध संख्यातप्रदेशी
स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है (पएसट्टयाए सिय हीणे सिय
तुल्ले सिय अब्भहिए) प्रदेशों की दृष्टि से हीन हो सकता है, तुल्य
हो सकता है, अधिक हो सकता है (जइ हीणे संखेज्जभाग हीणे वा
संखेज्जगुणहीणे वा) यदि हीन है तो संख्यातभाग हीन या संख्यात
गुण हीन होता है (अह अब्भहिए एवं चेव) यदि अधिक हो तो इसी

प्रदेश अधिक थाय छे (एवं जाव दस पएसिण) ये रीते थावत् दश प्रदेशी
(नवरं नव पएसहीणत्ति) विशेष ये छे के ते नव प्रदेशोधी हीन सुधी थाय छे.

(संखेज्जपएसियाणं पुच्छा ?) संख्यात प्रदेशी स्कंधोनी पृच्छा
(गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे छे (से केणट्टेणं
भंते ! एवं बुच्चइ—संखिज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता) हे भगवन् ! सा कारणे
अवुं कल्लु छे के संख्यात प्रदेशी स्कंधोना अनन्त पर्याय कहे छे ? (गोयमा !
संखेज्जपएसिण संखेज्जपएसियस्स दच्चट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! संख्यात
प्रदेशी स्कंध संख्यात प्रदेशी स्कंधोधी द्रव्योनी अपेक्षाये तुल्य छे (पएसट्टयाए
सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए) प्रदेशोनी दृष्टिअे हीन थयं शके छे, तुल्य
थयं शके छे अधिक थयं शके छे (जइ हीणे संखेज्ज भागहीणे वा संखेज्जगुण
हीणे वा) जे हीन होय तो संख्यात भाग हीन वा संख्यात शुल्लुहीन थाय
छे. (अह अब्भहिए एवं चेव) जे अधिक होय तो आ प्रकारे—संख्यात भाग

તુલ્યઃ પ્રદેશાર્થતયા તુલ્યઃ અવગાહનાર્થતયા સ્યાદ્દીનઃ, સ્યાત્તુલ્યઃ, સ્યાદભ્યધિકઃ, યદા હીનઃ, પ્રદેશહીનઃ અથાભ્યધિકઃ-પ્રદેશાભ્યધિકઃ, સ્થિત્યા ચતુઃસ્થાનપતિતઃ, વર્ણાદિભિઃ, ઉપરિતનૈશ્ચતુઃસ્પર્શૈશ્ચ પટસ્થાનપતિતઃ, એવં ત્રિપ્રદેશિકોઽપિ, નવરમ્ અવગાહનાર્થતયા મ્યાદ્દીનઃ, મ્યાત્તુલ્યઃ સ્યાદભ્યધિકઃ, યદા હીનઃ પ્રદેશહીનો વા, દ્વિપ્રદેશહીનો વા, અથાભ્યધિકઃ પ્રદેશાભ્યધિકો વા, દ્વિપ્રદેશાભ્યધિકો વા, એવં યાવદ્-દશપ્રદેશિકઃ, નવરમ્-અવગાહનાયા, પ્રદેશપરિદ્વિપ્રદેશી દ્વિ પ્રદેશો સે તુલ્ય (ઓગાહણદ્વયાપ સિય હીણે સિય તુલ્લે સિય અઞ્મહિણ) અવગાહના સે કદાચિત્ હીન, કદાચિત્ તુલ્ય, કદાચિત્ અધિક (જહ્ હીણે પપ્સહીણે) અગર હીન હો તો એક પ્રદેશહીન હોતા હૈ (અહ્ અઞ્મહિણ પપ્સમઞ્મહિણ) યદિ અધિક હો તો એક પ્રદેશ અધિક હોતા હૈ (ઠિઈણ ચઙ્ઠાણવહિણ) સ્થિતિ સે ચતુઃસ્થાનપતિત હોતા હૈ (વન્નાઈહિં ઉવરિલ્લેહિં ચઙ્ઠાણવહિં ચ ઙ્ઠાણવહિણ) વર્ણ આદિ સે ઓર ઉપર્યુક્ત સ્પર્શો સે પટસ્થાનપતિત હૈ

(એવં તિપણસે વિ) ઇસી પ્રકાર ત્રિપ્રદેશી મી (નવરં) વિશેષ (ઓગાહણદ્વયાપ સિય હીણે સિય તુલ્લે સિય અઞ્મહિણ) અવગાહના સે કદાચિત્ હીન, કદાચિત્ તુલ્ય, કદાચિત્ અધિક હોતા હૈ (જહ્ હીણે પપ્સહીણે વા, દુપપ્સહીણે વા) યદિ હીન હો તો એક પ્રદેશ સે હીન યા દો પ્રદેશો સે હીન હોતા હૈ (અહ્ અઞ્મહિણ પપ્સમઞ્મહિણ વા દુપપ્સમઞ્મહિણ વા) અગર અધિક હો તો એક પ્રદેશ અધિક યા દો પ્રદેશ

પ્રદેશી સ્કન્ધેના અનન્ત પર્થાય કહ્યા છે (ગોયમા ! દુપણસિણ દુપણસિયસ્સ વ્વવદ્વયાપ તુલ્લે) હે ગૌતમ ! દ્વિપ્રદેશી દ્વિપ્રદેશીથી દ્રવ્યની દૃષ્ટિએ તુલ્ય છે, (પપ્સહીણે તુલ્લે) પ્રદેશીથી તુલ્ય (ઓગાહણદ્વયાપ સિય હીણે સિય તુલ્લે સિય અઞ્મહિણ) અવગાહનાથી કદાચિત્ હીન, કદાચિત્ તુલ્ય, કદાચિત્ અધિક (જહ્ હીણે પપ્સહીણે) અગર હીન હોય તો એક પ્રદેશ હીન બને છે (અહ્ અઞ્મહિણ પપ્સમઞ્મહિણ) યદિ અધિક હોય તો એક પ્રદેશ અધિક થાય છે (ઠિઈણ ચઙ્ઠાણવહિણ) સ્થિતિથી ચતુસ્થાન પતિત થાય છે (વન્નાઈહિં ઉવરિલ્લેહિં-ચઙ્ઠાણવહિણ) વર્ણ આદિથી અને ઉપર્યુક્ત સ્પર્શીથી પટસ્થાન પતિત થાય છે

(એવં તિપણસે વિ) એ રીતે ત્રિપ્રદેશી પણ (નવરં) વિશેષ (ઓગાહણદ્વયાપ સિય હીણે સિય તુલ્લે સિય અઞ્મહિણ) અવગાહનાથી કદાચિત્ હીન, કદાચિત્ તુલ્ય, કદાચિત્ અધિક થાય છે (જહ્ હીણે પપ્સહીણે વા, દુપપ્સહીણે વા) બે હીન થાય તો એક પ્રદેશ હીન અગર બે પ્રદેશીથી હીન થાય છે (અહ્ અઞ્મહિણ પપ્સમઞ્મહિણ વા દુપપ્સમઞ્મહિણ વા) અગર અધિક હોય તો એક પ્રદેશ અધિક અગર બે

वृद्धिः कर्त्तव्या, यावद् दशप्रदेशिकः, नवरम् नव प्रदेशहीन इति, संख्येयप्रदेशि-
काना पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन सद्गन्त ! एवमु-
च्यते—संख्येयप्रदेशिकाना अनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! संख्येयप्रदे-
शिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेजार्थतया स्याद्धीनः, स्यात्तुल्यः, स्यादभ्य-
धिकः यदा हीनः संख्येयभागहीनो वा संख्येयगुणहीनो वा, अथाभ्यधिकः
एवञ्चैव, अवगाहनार्थतयापि द्विस्थानपतितः स्थित्या चतुःस्थानपतितः

अधिक होता है (एव जाव दसपएसिए) इसी प्रकार यावन दशप्रदेशी
(नवरं नवपएसहीणत्ति) विशेष यह कि वह नौ प्रदेशों से हीन
तक होता है

(संखेज्जपएसियाणं पुच्छा ?) संख्यात प्रदेशी स्कंधों की पृच्छा ?
(गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से
केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—संखिज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता)
हे भगवन् किस कारण ऐसा कहा कि संख्यातप्रदेशी स्कंधों के अनन्त
पर्याय कहे हैं (गोयमा ! संखेज्जपएसिए संखेज्जपएसियस्स दव्वट्ट-
याए तुल्ले) हे गौतम ! संख्यातप्रदेशी स्कंध संख्यातप्रदेशी
स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है (पएसट्टयाए सिय हीणे सिय
तुल्ले सिय अब्भहिए) प्रदेशों की दृष्टि से हीन हो सकता है, तुल्य
हो सकता है, अधिक हो सकता है (जइ हीणे संखेज्जभाग हीणे वा
संखेज्जगुणहीणे वा) यदि हीन है तो संख्यातभाग हीन या संख्यात
गुण हीन होता है (अइ अब्भहिए एवं चैव) यदि अधिक हो तो इसी

प्रदेश अधिक थाय छे (एवं जाव दस पएसिए) ओ रीते यावत् दश प्रदेशी
(नवरं नव पएसहीणत्ति) विशेष ओ छे के ते नव प्रदेशोथी हीन सुधी थाय छे.

(संखेज्जपएसियाणं पुच्छा ?) संख्यात प्रदेशी स्कंधोनी पृच्छा
(गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे छे (से केणट्टेणं
भंते ! एवं बुच्चइ—संखिज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता) हे भगवन् ! सा कारणे
ओवु कहु छे के संख्यात प्रदेशी स्कंधोना अनन्त पर्याय कहे छे ? (गोयमा !
संखेज्जपएसिए संखेज्जपएसियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! संख्यात
प्रदेशी स्कंध संख्यात प्रदेशी स्कंधोनी द्रव्योनी अपेक्षाओ तुल्य छे (पएसट्टयाए
सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए) प्रदेशोनी दृष्टिओ हीन थध शके छे, तुल्य
थध शके छे अधिक थध शके छे (जइ हीणे संखेज्ज भागहीणे वा संखेज्जगुण
हीणे वा) ओ हीन होय तो संख्यात भाग हीन वा संख्यात गुणहीन थाय
छे. (अइ अब्भहिए एवं चैव) ओ अधिक होय तो आ प्रकारे—संख्यात भाग

वर्णादिभिरुपरितनचतुःस्पर्शपर्यवैश्च पटस्थानपतितः, असंख्येयप्रदेशिकानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः, प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते- असंख्येयप्रदेशिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! असंख्येयप्रदेशिकः स्कन्धः असंख्येयप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया चतुःस्थानपतितः, अवगाहनार्थतर्या चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः वर्णादिभिरुपरितनचतुःस्पर्शैश्च पटस्थानपतितः, अनन्तप्रदेशिकानां

प्रकार-संख्यातभाग अधिक या संख्यातगुण अधिक (ओगाहणद्वयाए दुट्टाणवडिए) अवगाहना से द्विस्थानपतित (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित (वण्णाइउवरिल्ल चउफासपज्जवेहि य छट्टाणवडिए) वर्णदि से तथा ऊपर कहे चार स्पर्शों के पर्यायों से षट्स्थानपतित

(असंखेज्जपएसियाणं पुच्छा ?) असंख्यातप्रदेशी स्कंधों की पृच्छा (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-असंखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा है कि असंख्यातप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा ! असंखिज्जपएसिए खंधे असंखिज्जपएसियस्स खंधस्स दंवट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! असंख्यातप्रदेशी स्कंध असंख्यातप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है (पएसद्वयाए चउट्टाणवडिए) प्रदेशों से चतुःस्थानपतित (ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से

अधिक अगर स ज्ञात शुषु अधिक (ओगाहणद्वयाए दुट्टाणवडिए) अवगाहनाथी द्विस्थान पतित (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी अतु स्थान पतित (वण्णाइ उवरिल्ल चउफास पज्जवेहि य छट्टाणवडिए) पशुादिथी तथा ऊपर कहेला चार स्पर्शाना पर्यायोथी षट्स्थान पतित

(असंखेज्जपएसियाणं पुच्छा ?) अस ज्ञात प्रदेशी स्कंधेनी पृच्छा ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे छे (से केणट्टेणभते ! एवं बुच्चइ-असंखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! शा कश्चे अेषु कल्लु छे के अस ज्ञात प्रदेशी स्कंधेना अनन्त पर्याय छे ? (गोयमा ! असंखिज्जपएसिए खंधे असंखिज्जपएसियस्स खंधस्स दंवट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! अस ज्ञात प्रदेशी स्कंध अस ज्ञात प्रदेशी स्कंधथी द्रव्यथी अपेक्षाये तुल्य छे (पएसद्वयाए चउट्टाण वडिए) प्रदेशेथी अतुःस्थान पतित (ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनाथी अतु स्थान पतित (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी अतुःस्थान पतित (वण्णाइ-उवरिल्ल चउफासेहि य छट्टाणवडिए)

पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः तत् केनार्थेन भदन्त ! एवं मुच्यते अनन्त प्रदेशिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ! गौतम ! अनन्तप्रदेशिकः स्कन्धः अनन्तप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया पटस्थानपतितः अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः स्थित्या चतुःस्थानपतितः वर्णगंधरसस्पर्शपर्यवैः पटस्थानपतितः, एकप्रदेशावगाढानां पुद्गलानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः

चतुःस्थानपतित(वण्णाइ-उवरिल्ल चउफासेहि य छट्ठाणवडिए) वर्णादि से तथा उपर्युक्त चार स्पर्शों से पटस्थानपतित

(अणंतपएसियाणं पुच्छा ?) अनन्तप्रदेशी स्कंधों के पर्यायों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भत्ते ! एवं वुच्चइ-अणंतपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता) हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा है कि अनन्त-प्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं (गोयमा ! अणंतपएसिण खंधे अणंतपएसियस्स खंधस्स दब्बट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! अनन्तप्रदेशी स्कंध अनन्तप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य हैं (पएसट्टयाए) प्रदेशों की अपेक्षा से (छट्ठाणवडिए) पटस्थानपतित है (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित है (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित है (वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए) वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायों से पटस्थानपतित है

(एगपएसोगाढाणं पोग्गलाणं पुच्छा ?) एक प्रदेश में अवगाढ पुद्गलों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम !

वर्णादिथी तथा उपर्युक्त चार स्पर्शाथी पटस्थान पतित

(अणंत पएसियाणं पृच्छा ?) अनन्त प्रदेशी स्कंधाना पर्यायानी पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भत्ते ! एवं वुच्चइ-अणंतपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता) हे भगवन् ! शांकारेण्णे अमे कल्लु छे के अनन्त प्रदेशी स्कंधाना अनन्त पर्याय कहे हैं (गोयमा ! अणंत पएसिण खंधे अणंत पएसियस्स खंधस्स दब्बट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! अनन्त प्रदेशी स्कंध भीष्ण अनन्त प्रदेशी स्कंधथी द्रव्यनी अपेक्षाअे तुल्य छे (पएसट्टयाए) प्रदेशानी अपेक्षाअे (छट्ठाणवडिए) पटस्थान पतित छे (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनाथी अतु स्थान पतित छे (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी अतु स्थान पतित छे (वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्ठाण वडिए) वर्ण, गंध, रस, स्पर्शाना पर्यायथी पटस्थान पतित छे

(एगपएसोगाढाणं पोग्गलाणं पुच्छा ?) एक प्रदेशमा अवगाढ पुद्गलानी

पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवं उच्यते—एकप्रदेशावगाढानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! एक प्रदेशावगाढः पुद्गलः एकप्रदेशावगाढस्य पुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया पटस्थान-पतितः, अवगाहनार्थतया तुल्यः स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णादिभि र्परितनचतुःस्पर्शः पटस्थानपतितः एवं द्विप्रदेशावगाढोऽपि, संख्येय-प्रदेशावगाढानां पृच्छा ! गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एव मुच्यते—संख्येयप्रदेशावगाढानामनन्ताः पर्यवा—प्रज्ञप्ता ? गौतम !

अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—एगपएसोगाढाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! किसकारण ऐसा कहा कि एक प्रदेश में अवगाढ पुद्गलों के अनन्त पर्याय हैं (गोयमा ! एगपएसोगाढे पोग्गले एगपएसोगाढस्स पोग्गलस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) एक प्रदेश में अवगाढपुद्गल दूसरे एक प्रदेश में अवगाढ पुद्गल से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है (पएसट्टयाए छट्टाणवडिए) प्रदेशों की दृष्टि से षटस्थान-पतित है (ओगाहणट्टयाए तुल्ले) अवगाहना से तुल्य है (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित है (वण्णाइउवरिल्ल चउ-फासेहिं छट्टाणवडिए) वर्णादि से तथा उपर्युक्त चार स्पर्शों से षटस्थानपतित है

(एवं दुपएसोगाढे वि) इसी प्रकार द्विप्रदेशावगाढ भी (संखिज्जपएसोगाढाणं पुच्छा ?) संख्यातप्रदेशावगाढ स्कंधों के पर्यायों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—संखिज्जपएसोगाढाणं अणंता पज्जवा पणत्ता)

पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—एगपएसोगाढाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! शांकारणे अमं कल्लुं छे के अेक प्रदेशावगाढ पुद्गलानां अनन्त पर्याय छे (गोयमा ! एगपएसोगाढे पोग्गले एगपएसोगाढस्स पोग्गलस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) अेक प्रदेशमा अवगाढ पुद्गल जीव अेक प्रदेशमा अवगाढ पुद्गलार्थी द्रव्यनी दृष्टिअे तुल्य छे (पएसट्टयाए छट्टाणवडिए) प्रदेशानी दृष्टिअे षटस्थान पतित छे (ओगाहणट्टयाए तुल्ले) अवगाहनाथी तुल्य छे (ठिईए चउट्टाण वडिए) स्थितिथी चतुःस्थान पतित छे (वण्णाइ उवरिल्ल चउफासेहिं छट्टाण वडिए) वर्णादिथी तथा उपर्युक्त चार स्पर्शाथी षटस्थान पतित छे

(एवं दुपएसोगाढे वि) अे रीते द्विप्रदेशावगाढपथु (संखिज्ज पएसोगाढाणं पुच्छा ?) संख्यात प्रदेशावगाढ स्कंधानां पर्यायानां पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एव

संख्येयप्रदेशावगाहः पुद्गलः संख्येय प्रदेशावगाहस्य पुद्गलस्य द्रव्यार्थ-
तया तुल्यः, प्रदेशार्थतया पटस्थानपतितः अवगाहनार्थतया द्वि स्थानपतितः,
स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णादिभिरुपरितनचतुःस्पर्शैश्च पटस्थानपतितः
असंख्येयप्रदेशावगाहानां पृच्छा गौतम ! अनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः तत् केनार्थेन
भदन्त ! एव मुच्यते—असंख्येयप्रदेशावगाहानामनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम !

हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा कि संख्यातप्रदेशावगाह पुद्गलों
के अनन्त पर्याय है ? (गोयमा ! संख्विज्जपएसोगाढे पोग्गले संख्विज्ज-
पएसोगाढस्स पोग्गलस्स दब्बट्टयाए तुल्ले) गौतम ! संख्यातप्रदेशावगाह
पुद्गल दूसरे संख्यातप्रदेशावगाह पुद्गल से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है
(पएसट्टयाए छट्टाणवडिण) प्रदेशों की अपेक्षा से पटस्थानपतित होता है
(ओगाहट्टयाए दुट्टाणवडिण) अवगाहना की अपेक्षा से द्विस्थानपतित है
(ठिईए चउट्टाणवडिण) स्थिति से चतुःस्थानपतित है (वण्णाइउवरिल्ल
चउफासेहिं य) वर्णादि से और उपर्युक्त चार स्पर्शों से (पटस्थान-
पतित है

(असंख्विज्जपएसोगाढाणं पुच्छा ?) असंख्यात प्रदेशों में अवगाहपुद्-
गलों के पर्यायों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे
गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ—असंख्विज्ज-
पएसोगाढाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! किसकारण से
ऐसा कहा जाता है कि असंख्यात प्रदेशों में अवगाह पुद्गलों के

वुच्चइ—संख्विज्ज पएसोगाढाणं अणता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! शा कारुणे
अपु कळु छे के स भ्यात प्रदेशावगाह पुद्गलाना अनन्त पर्याय छे ? (गोयमा !
संख्विज्जपएसोगाढे पोग्गले संख्विज्जपएसोगाढस्स पोग्गलस्स दब्बट्टयाए तुल्ले)
हे गौतम ! संख्यात प्रदेशावगाह पुद्गल गीण स भ्यात प्रदेशावगाह
पुद्गलथी द्रव्यनी अपेक्षाअे तुल्य छे (पएसट्टयाए छट्टाणवडिण) प्रदेशानी अपे-
क्षाअे पटस्थान पतित थाय छे (ओगाहणट्टयाए दुट्टाण वडिण) अवगाहनी अपेक्षाअे
द्विस्थान पतित छे (ठिईए चउट्टाणवडिण) स्थितिथी अतुःस्थान पतित छे
(वण्णाइ उवरिल्ल चउफासे हिय) वर्णादिथी अने उपर्युक्त चार स्पर्शाथी
पटस्थान पतित छे

(असंख्विज्ज पएसोगाढाण पुच्छा ?) असंख्यात प्रदेशोभा अवगाह पुद्गलाना
पर्यायानी पृच्छा ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त
पर्याय कळ्हा छे (से केणट्टेणं भंते ! एव वुच्चइ असंख्विज्जपएसोगाढाणं अणता
पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! शा कारुणे अम कळेवाय छे के अस भ्यात
प्रदेशोभा अवगाह पुद्गलाना अनन्त पर्याय छे ? (गोयमा ! असंख्विज्जपएसो

असंख्येयप्रदेशावगाढः पुद्गलः असंख्येयप्रदेशावगाढस्य पुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया षट्स्थानपतितः, अवगाहनार्थतया चतुः स्थानपतितः, स्थित्या चतुः स्थानपतितः, वर्णादिभिरण्टस्पर्शैः षट्स्थानपतितः एकसमयस्थितिकानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ता पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केऽर्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—एकसमयस्थितिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! एकसमयस्थितिकः पुद्गलः एकसमयस्थितिकस्य पुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया षट्-

अनन्त पर्याय हैं (गोयमा ! असंखेज्जपएसोगाढे पोगाले असंखेज्जपएसोगाढस्स पोगगलस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! असंख्यात प्रदेशों में अवगाढ पुद्गल दूसरे असंख्यात प्रदेशों में अवगाढ पुद्गल से द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है (पएसट्टयाए) प्रदेशों की अपेक्षा से (छट्टाणवडिए) षट्स्थानपतित है (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना की अपेक्षा से चतुस्थानपतित है (ठईए चउट्टाणवडिया) स्थिति से चतुःस्थानपतित है (वण्णाइअट्टफासेहिं छट्टाणवडिए) वर्णादि से तथा आठ स्पर्शों से षट्स्थानपतित है

(एगसमयठिइयाणं पुच्छा !) एक समय की स्थिति वालों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ—एगसमयठिइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि एक समय की स्थिति वालों के अनन्त पर्याय है ? (गोयमा ! एगसमय ठिइए पोगगले एगसमयठिइयस्स पोगगलस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! एक समय की

गाढे पोगगले असंखिज्जपएसोगाढस्स पोगगलस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! असंख्यात प्रदेशोभा अवगाढ पुद्गल जीव असंख्यात प्रदेशोभा अवगाढ पुद्गलस्य द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्ये छे (पएसट्टयाए) प्रदेशोनी अपेक्षाये (छट्टाणवडिए) षट्स्थान पतित छे (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनानी अपेक्षाये चतुःस्थान पतित छे (वण्णाइ अट्टफासेहिं छट्टाणवडिए) वर्णादि तथा आठ स्पर्शोथी षट्स्थान पतित छे

(एगसमयठिइयाणं पुच्छा ?) ओक सभयनी स्थितिनी पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहा छे (से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ एगसमयठिइयाणं अणता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! शा कारणे ओषु कडेवाय छे के ओक सभयनी स्थितिवाणाना अनन्त पर्याय छे ? (गोयमा ! एगसमयठिइए पोगगले एगसमयठिइयस्स पोगगलस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! ओक सभयनी स्थितिवाणा पुद्गल जीव ओक सभयनी स्थितिवाणा पुद्गलस्य

स्थानपतितः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः स्थित्या तुल्यः, वर्णादिभिरष्ट-
स्पर्शैः पटस्थानपतितः एवं यावद्-दशसमयस्थितिकः, संख्येयसमयस्थितिकाना-
मेवञ्चैव, नवरम्-स्थित्या द्विस्थानपतितः, असंख्येयसमयस्थितिकानामेवञ्चैव,
नवरं स्थित्या चतुःस्थानपतितः, एकगुणकालानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः
पर्यवाः प्रज्ञप्ताः तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते-एकगुणकालकानामनन्ताः पर्यवाः
प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! एकगुणकालकः पुद्गलः एकगुणकालकस्य पुद्गलस्य द्रव्या-

स्थितिचाला पुद्गल दूसरे एक समय की स्थिति वाले पुद्गल से द्रव्य
की दृष्टि से तुल्य है (पएसद्वयाग छट्टाणवडिए) प्रदेर्गों की अपेक्षा से
षट्स्थानपतित है (ओगाहणद्वयाग चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुः-
स्थानपतित है (ठिईए तुल्ले) स्थिति से तुल्य है (वण्णाइअट्टफासेहिं
छट्टाणवडिए) वर्णादि से तथा अष्ट स्पर्शों से षट्स्थानपतित है (एवं
जाव दससमयठिईए) इसी प्रकार यावत् दस समय की स्थिति वाला
(संखेज्जसमयठिईयाणं एव चैव) संख्यात समय की स्थिति वालों की
वक्तव्यता इसी प्रकार की (णवरं) विशेष (ठिईए दुट्टाणवडिए) स्थिति
से द्विस्थानपतित (असंखेज्जसमयठिईयाणं एव चैव) असंख्यात समय
की स्थिति वालों की प्ररूपणा ऐसी ही (नवरं) विशेष (ठिईए चउट्टाण-
वडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित

(एकगुणकालगाणं पुच्छा ?) एकगुणकाले की पृच्छा ? (गोयमा !
अर्णता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं
भंते ! एवं बुच्चइ-एकगुणकालगाणं अर्णता पज्जवा पणत्ता ?) किस

द्रव्यनी दृष्टिसे तुल्य छे (पएसद्वयाए छट्टाणवडिए) प्रदेशीनी अपेक्षासे षट्स्थान
पतित छे (ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनार्थी चतुःस्थान पतित छे
(ठिईए तुल्ले) स्थितिथी तुल्य छे (वण्णाइ अट्टफासेहिं छट्टाणवडिए) वर्णादिथी अने
अष्ट स्पर्शेथी षट्स्थान पतित छे (एवं जाव दस समयठिईए) से प्रकाश
यावत् दश समयनी स्थितिवाणा (संखेज्ज समय ठिईयाण एवं चैव) स भ्यात
समयनी स्थितिवाणानी वक्तव्यता आ प्रकारनी (णवर) विशेष (ठिईए दुट्टाण
वडिए) स्थितिथी द्विस्थान पतित (असंखेज्जसमय ठिईयाणं एव चैव) अस भ्यात
समयनी स्थितिवाणाथीनी प्ररूपणा सेवी छे (नवर) विशेष (ठिईएचउट्टाण
वडिए) स्थितिथी चतुःस्थान पतित

(एकगुणकालगाणं पुच्छा ?) अके शुष्प कालानी पृच्छा ? (गोयमा ! अणता
पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे छे (से केणट्टेण एवं बुच्चइ
एकगुणकालगाणं अर्णता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! आ कालसे अेषुं केषुं

र्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया षट्स्थानपतितः, अवगहनार्थतया चतुःस्थानपतितः स्थित्या चतुःस्थानपतितः कृष्णवर्णपर्यवैस्तुल्य अवशेषैः वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितः अष्ट स्पर्शैः षट्स्थानपतितः, एवं यावद् दशगुणकालकः, संख्येयगुणकालकोऽपि एवञ्चैव नवरं स्वस्थाने द्वि स्थानपतितः एवं असंख्येयगुणकालकोऽपि, नवरं स्वस्थाने चतुःस्थानपतितः, एवमनन्तगुणकालकोऽपि, नवरं

कारण हे भगवन् ! ऐसा कहा है कि एकगुण काले पुद्गलों के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा ! एगगुणकालए पोगगले एगगुणकालगस्स पोगगलगस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) एक गुण काला पुद्गल एक गुण काले दूसरे पुद्गल से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है (पएसट्टयाए छट्टाणवडिए) प्रदेशों की अपेक्षा से षट्स्थानपतित हैं (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित है (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित है (कालवण्ण पज्जवेहिं तुल्ले) कृष्ण वर्ण के पर्यायों से तुल्य है (अवसेसेहिं वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं) शेष वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पर्यायों से (छट्टाणवडिए) षट्स्थानपतित है (अट्टफासेहिं छट्टाणवडिए) आठ स्पर्शों से षट्स्थानपतित है (एवं जाव दसगुणकालए) इसी प्रकार यावत् दश गुण काला (संखेज्जगुणकालए वि एवं चेव) संख्यातगुण काला भी इसी प्रकार (नवरं) विशेष (सट्टाणे दुट्टाणवडिए) स्वस्थान में द्विस्थानपतित (एव असंखेज्जगुणकालए वि) इसी प्रकार असंख्यातगुणकाला भी (नवरं सट्टाणे

छे के अेक शुष्ण काणा पुद्गलोना अनन्त पर्याय कइया छे ? (गोयमा ! एग गुणकालए पोगगले एगगुणकालगस्स पोगगलगस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) अेक शुष्ण काणा पुद्गल अेक शुष्ण काणा गील पुद्गलथी द्रव्यनी दृष्टिअे तुल्य छे (पएसट्टयाए छट्टाणवडिए) प्रदेशानी अपेक्षाअे षट्स्थान पतित छे (अवगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनाथी अतुःस्थान पतित छे (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी अतुःस्थान पतित छे (कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले) कृष्ण वर्णना पर्यायथी तुल्य छे (अवसेसेहिं वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं) शेष वर्ण, गंध रस, स्पर्शना पर्यायथी (छट्टाणवडिए) षट्स्थान पतित छे (अट्टफासेहिं छट्टाणवडिए) आठ स्पर्शथी षट्स्थान पतित छे (एवं जाव दसगुणकालए) अे प्रकारे यावत् दश शुष्ण काणा (संखेज्जगुणकालए वि एवं चेव) संख्यात शुष्ण काणा पष्ण अे न प्रकारे (नवरं) विशेष (सट्टाणे दुट्टाणवडिए) स्वस्थानमा द्विस्थान पतित (एव असंखेज्जगुणकालए वि) अे प्रकारे असंख्यात शुष्ण काणा पष्ण (नवरं सट्टाणे चउट्टाणवडिए) विशेष अे छे के स्वस्थानमा अतुःस्थान पतित छे (एवं अणतगुणकालए

स्वस्थाने पदस्थानपतितः एवं यथा कृष्णवर्णस्य वक्तव्यता भणिता तथा गोपाणामपि वर्णगन्धरसस्पर्शानां वक्तव्यता भणितव्या, यावद् अनन्तगुणः रूक्षः ।

टीका—अयं क्रमानुसारेण परमाणु पुद्गलादीनां पर्यायान् प्ररूपयितुं प्रथमं सामान्येन परमाणुपुद्गलादयः प्ररूपणीयाः, तदनन्तरं त एव परमाणु पुद्गलादय एक प्रदेशाद्यवगाढाः प्ररूपणीयाः तदनन्तरं त एव परमाणुपुद्गला एक प्रदेशाद्यवगाढाः प्ररूपणीयाः, तदनन्तरम् त एव एकसमयादिस्थितिकाः तत एक गुणकालकादयः, तदनन्तरं जघन्याद्यवगाढनाप्रकारेण, ततो जघन्य स्थित्यादिना, तदनन्तरं जघन्यगुणकालकादिप्रकारेण, ततो जघन्य प्रदेशादि

चउद्गाणवडिण) विशेष यह कि स्वस्थान में चतुःस्थानपतित है (एवं अर्णतगुणकालण वि) इसी प्रकार अनन्तगुण काला भी (नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिण) विशेष यह कि स्वस्थान में पदस्थानपतित है (एवं जहा कालवणणस्स वत्तव्वया भणिया) जिस प्रकार काले वर्ण की वक्तव्यता कही (तहा सेसाणवि) उसी प्रकार शेष भी (वणणगंधरसफासाणं वत्तव्वया भाणियव्वा) वर्णों गंधों रसों, स्पर्शों की वक्तव्यता कहनी चाहिए (जाव अर्णतगुणलुक्खे) यावत् अनन्तगुण रूक्ष

टीकार्थ—अब क्रमानुसार परमाणुपुद्गल आदि की प्ररूपणा करनी चाहिए तदनुसार सर्वप्रथम सामान्य परमाणुपुद्गल आदि की प्ररूपणा की जायगी । तत्पश्चात् उन्हीं आकाश के एकप्रदेशादि में अवगाढ परमाणुपुद्गल आदि की, फिर एक समय आदि की स्थिति वाले परमाणु आदि की, तदनन्तर एकगुण काले आदि की जघन्य अवगाहना को लेकर, फिर जघन्य आदि स्थिति की दृष्टि से, फिर जघन्यगुण कृष्ण आदि रूप में फिर जघन्यप्रदेश आदि की

वि) ओ ७ रीते अनन्त शुष्ण काणा पथु (नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिण) विशेष ओ ३ स्वस्थानभा पदस्थान पतित छे (एव जहा कालवणणस्स वत्तव्वया भणिया) ओ रीते ७वी काणावर्णुनी व्यक्तव्यता कही (तहा सेसाण वि) तेवी रीते शेष पथु (वणणगंधरसफासाण वत्तव्वया भाणियव्वा) पणुी, गंधो, रसो अने स्पर्शोनी वक्तव्यता कहेवी लेधओ (जाव अर्णत गुण लुक्खे) यावत् अनन्त शुष्ण रूक्ष

टीकार्थ—इसे क्रमानुसार परमाणु पुद्गल आदिनी प्ररूपणा करवी लेधओ तदनुसार सर्व प्रथम सामान्य परमाणु पुद्गल आदिनी प्ररूपणा कराओ. तत्पश्चात् ओ ७ आकाशना ओक प्रदेशादिमा अवगाढ परमाणु पुद्गल आदिनी पछी ओक समय आदिनी स्थितिवाणा परमाणु आदिनी तदनन्तर ओक शुष्ण काणा आदिनी, त्पार पछी जघन्य आदि अवगाहनाओने लेधने इरी जघन्य

મેદેન, તથા—ચોક્તમ્—“અણુમાઙ્ ઓહિયાળં ચેત્તાદિપણ્સ સંગયાળ ચ । જહન્નાઙ્-વગાહનાઙ્ણ ચેવ જહન્નાદિદેસાળં” અળ્વાઘૌધિકાનાં ક્ષેત્રાદિપ્રદેશસંગતાનાઞ્ચ । જઘન્યાવગાહનાદીનાઞ્ચૈવ, જઘન્યાદિ દેશાનામ્, ઇતિ, અયમર્થઃ—પ્રથમમ્ અળ્વાઘૌધિકાનામ્—પરમાળ્વાદિ સમુચ્ચયપુદ્ગલાનામ્ પ્રરૂપણં કર્ત્વ્યમ્, તતઃ ક્ષેત્રાદિ પ્રદેશસંગતાનામ્, ક્ષેત્રપ્રદેશૈરેકાદિભિઃ સંગતાનાં પ્રરૂપણં કર્ત્વ્યમ્, તત આદિપદગ્રાહચૈકાલપ્રદેશૈઃ—એકાદિસમયૈઃ ભાવપ્રદેશૈઃ એકગુણકાલકાદિભિઃ સંગતાનાં પરમાળ્વાદિ પુદ્ગલાનાં પ્રરૂપણં કર્ત્વ્યમ્, તતો જઘન્યાવગાહનાદીનાં પ્રરૂપણં કર્ત્વ્યમ્, તદનન્તરં જઘન્યાદિ પ્રદેશાના પ્રરૂપણં કર્ત્વ્યમ્, તત્ર પ્રથમં

અપેક્ષા સે પરમાણુ આદિ પુદ્ગલો કી પ્રરૂપણા કી જાણ્ગી । કહા ઢી હૈ—પહલે સામાન્ય અણુ આદિ કી, ફિર ક્ષેત્રાદિ કે પ્રદેશોં મેં સંગત અણુ આદિ કી, ફિર જઘન્ય અવગાહના આદિ વાલોં કી તત્પશ્ચાત્ જઘન્યાદિ દેશ વાલોં કી પ્રરૂપણા કરની ઇાહિણ્ ।’ તાત્પર્ય યહ કિ સર્વપ્રથમ યહ પ્રરૂપણા કી જાણ્ગી કિ સામાન્ય રૂપ સે પરમાણુપુદ્ગલ આદિ કે કિતને પર્યાય હેં ? ફિર કિતને આકાશપ્રદેશોં મેં અવગાહ પરમાણુ આદિ કે કિતને પર્યાય હેં, યહ બતલાયા જાયગા । ફિર કિતની સ્તિતિ વાલે પરમાણુ આદિ કે કિતને પ્રદેશ હેં, યહ પ્રરૂપણા કી જાણ્ગી, ફિર એકગુણ કાલે આદિ પરમાણુપુદ્ગલોં કે કિતને પર્યાય હેં યહ પ્રરૂપણા કી જાણ્ગી । તદનન્તર જઘન્ય આદિ અવગાહના વાલે પરમાણુ આદિ કે પર્યાયોં કા પ્રરૂપણ કિયા જાણ્ગા ઓર ફિર જઘન્યાદિ પ્રદેશ વાલે પરમાણુ આદિ કે પર્યાયોં કા કથન કિયા જાણ્ગા ।

આદિ સ્થિતિની દૃષ્ટિએ, પછી જઘન્ય ગુણ કૃણુ આદિ રૂપમા વળી જઘન્ય પ્રદેશ આદિની અપેક્ષાએ પરમાણુ આદિ પુદ્ગલોની પ્રરૂપણા કરાશે. કહ્યું પણ છે—‘પહેલા સામાન્ય અણુ આદિની પછી ક્ષેત્રાદિના પ્રદેશોમા સંગત અણુ આદિની, પછી જઘન્ય અવગાહના આદિવાળાઓની તત્પશ્ચાત્ જઘન્યાદિ દેશવાળાઓની પ્રરૂપણા કરવી નેધએ.’ તાત્પર્ય એ છે કે સર્વ પ્રથમ એ પ્રરૂપણા કરાશે કે સામાન્ય રૂપથી પરમાણુ પુદ્ગલ આદિના કેટલા પર્યાય છે ? પછી કેટલા આકાશપ્રદેશોમા અવગાહ પરમાણુ આદિના કેટલા પર્યાય છે, એ બતાવાશે પછી કેટલી સ્થિતિવાળા પરમાણુ આદિના કેટલા પ્રદેશ છે, એ પ્રરૂપણા કરાશે પછી એક ગુણ કાળા આદિ પરમાણુ પુદ્ગલોના કેટલા પર્યાય છે, એ પ્રરૂપણા કરાશે. તદનન્તર જઘન્ય આદિ અવગાહનાવાળા પરમાણુ આદિના પર્યાયોનું પ્રરૂપણ કરાશે અને પછી જઘન્યાદિ પ્રદેશવાળા પરમાણુ આદિના પર્યાયોનું કથન કરાશે.

यथाक्रमं परमाणुपुद्गलादीनां प्ररूपणमाह—‘परमाणुपोग्गलाणं भंते ! केवट्या पज्जवा पणत्ता ?’ हे भदन्त ! परमाणुपुद्गलानां कियन्तः पर्यायाः—पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता’ परमाणुपुद्गलानाम् अनन्ताः पर्यायाः—पर्यायाः, प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘से केणट्टेणं भंते ! एव वुच्चइ—परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन कथं तावत्, एव सुक्तरीत्या, उच्यते यत्—परमाणुपुद्गलानाम् अनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? इति भगवान् आह—‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘परमाणुपोग्गले परमाणुपोग्गलस्स दव्वट्टयाए तुल्ले’ एकः परमाणु-पुद्गलः, परमाणुपुद्गलस्य—परमाणुपुद्गलान्तरस्येत्यर्थः द्रव्यार्थतया—द्रव्यार्थिकनयापेक्षया तुल्यो भवति, तथा च ‘एकञ्च द्रव्यमनन्तपर्यायम्, इति न्यायेन एकसंख्यावरुद्धस्यापि परमाणुपुद्गलस्य अनन्तपर्यायतया परमाणुपुद्गलाना-

इस क्रम के अनुसार सर्वप्रथम परमाणुपुद्गल आदि की प्ररूपणा की जाती है—

गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! परमाणुपुद्गलों के कितने पर्याय हैं ?

भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! परमाणुपुद्गलों के अनन्त पर्याय कहे गए हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवान्—हे गौतम ! एक परमाणुपुद्गल दूसरे परमाणुपुद्गल से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है । इस कथन के द्वारा परमाणु द्रव्य है, यह प्रतिपादन किया गया और प्रत्येक द्रव्य अनन्त पर्यायों से युक्त होता है, इस न्याय के अनुसार परमाणुपुद्गल के भी अनन्त पर्यायों

ये इमानुसार सर्व प्रथम परमाणु पुद्गलानी प्ररूपणा कराय छे.—

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! परमाणु पुद्गलाना केटला पर्याय छे. ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! परमाणु पुद्गलाना अनन्त पर्याय कहेला छे.

श्री गौतम—हे भगवन् ! जेवुं कहेवानु शु कारणु छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जेक परमाणु पुद्गल णीण परमाणु पुद्गलथी द्रव्यनी अपेक्षाजे तुल्य होय छे जे कथन द्वारा परमाणु—द्रव्य छे जे प्रति पादन करायु अने प्रत्येक द्रव्य अनन्त पर्यायिणी युक्त होय छे जे न्यायना अनुसार परमाणु पुद्गलना यल्लु अनन्त पर्यायिणुं विधान करायुं, जेक पर.

मनन्तपर्यायत्वसभावात्, एवं 'पएसद्वयाए तुल्ले' प्रदेशार्थतया-अवयवरूपांश-
राहित्यापेक्षया तुल्यो भवति, 'ओगाइणद्वयाए तुल्ले' अवगाहनार्थतया-अवगा-
हनमवगाहः उच्यस्तदपेक्षया तुल्यो भवति किन्तु 'ठिईए सिय हीणे, सिय
तुल्ले, सिय अब्महिए' स्थित्या-अवस्थानापेक्षया, स्यात्-कदाचित् कश्चित् हीनो
भवति, स्यात्-कदाचित् कश्चित् तुल्यो भवति, स्यात्-कदाचित् कश्चिद् अभ्य-
धिको भवति, तत्र चतुः स्थानपतितत्वं प्रतिपादयितुमाह-'जइ हीणे असंखिज्जइ
भागहीणे वा, संखिज्जइभागहीणे वा, संखिज्जगुणहीणे वा, असंखिज्जगुणहीणे
वा' यदा हीनो विवक्षितस्तदा असंख्येयभागहीनो वा भवति, संख्येयभाग हीनो
वा भवति, संख्येयगुणहीनो वा भवति, असंख्येयगुणहीनो वा भवति, परमाणु
पुद्गलस्य जघन्येन समयादारभ्य उत्कृष्टेना संख्येयकालमवस्थानसद्भावात्,

का विधान किया गया। एक परमाणु दूसरे परमाणु से द्रव्य की अपेक्षा
तुल्य होता है और प्रदेश की अपेक्षा भी तुल्य होता है, क्योंकि प्रत्येक
परमाणु निरश ही होता है। अवगाहना की अपेक्षा भी तुल्य है, क्यों
कि परमाणु नियम से आकाश के एक ही प्रदेश में अवगाहन करके
रहता है, कोई भी ऐसा परमाणु नहीं जो एक से अधिक आकाश
प्रदेशों में अवगाह सके। मगर स्थिति की दृष्टि से एक परमाणु दूसरे
परमाणु से कदाचित् हीन भी होता है, तुल्य भी हो सकता है और
अधिक भी हो सकता है। अगर हीन हो तो असंख्यातभाग हीन,
संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन अथवा असंख्यात गुण हीन
होता है, क्योंकि परमाणु की जघन्य स्थिति एक समय की और
उत्कृष्ट असंख्यात काल की है, अर्थात् कोई परमाणु रूप पर्याय में
कम से कम एक समय तक रहता है और अधिक से अधिक असं-

भाष्ये श्रील परमाणुधी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्ये होय छे अने प्रदेशनी अपे-
क्षाये पणु तुल्ये होय छे, केमके प्रत्येक परमाणु निरश न होय छे अवगाहनानी
अपेक्षाये पणु तुल्ये छे केमके परमाणु निश्चयी आकाशना ओके न प्रदेशभा
अवगाहना करी रहे छे, केध पणु ओवेो परमाणु नधी के ने ओकेधी अधिक
आकाश प्रदेशोभां अवगाही शके. पणु स्थितिनी दृष्टिओ ओके परमाणु श्रील
परमाणुधी कदाचित् हीन पणु थाय छे, तुल्ये पणु थाय छे, अने अधिक पणु
थधे शके छे अगर हीन होय तो असंख्यात लागहीन, संख्यातलाग हीन
संख्यात गुणहीन अथवा असंख्यात गुणहीन थाय छे, केमके परमाणुनी
जघन्य स्थिति ओके समयनी अने उत्कृष्ट असंख्यात कालनी छे, अर्थात्
केध परमाणु परमाणु इप पर्यायभा ओछाभा ओछा ओके समय सुधी रहे

एवम्—‘अह अब्भहिए असंखिज्जइभागअब्भहिए वा, संखिज्जइभागअब्भहिए वा, संखिज्जगुण अब्भहिए वा, असंखिज्जगुणअब्भहिए वा’ अथाभ्यधिको यदा विवक्षितस्तदा असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येय-गुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति इति स्थित्यपेक्षया उक्ता

अथ कृष्णवर्णपर्यवैः पट्स्थानपतितत्पमा—‘कालवर्णपञ्जवेहिं सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए’ कृष्णवर्णपर्यवैः स्यात्—कदाचित् कश्चित् हीनो भवति, स्यात्—कदाचित् कश्चित् तुल्यो भवति, स्यात्—कदाचित् कश्चित्-अभ्यधिको भवति, तत्र—‘जइ हीणे अणंतभागहीणे वा, असंखिज्जइभाग हीणे वा, संखिज्जइभागहीणे वा, संखिज्जगुणहीणे वा, असंखिज्जगुणहीणे वा, अणंतगुण हीणे वा’ यदा हीनो विवक्षितस्तदा अनन्तभाग हीनो वा, असंख्येय-भागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा’ संख्येयगुणहीनो वा असंख्येयगुण-हीनो वा, अनन्तगुणहीनो वा भवति, तथा च कृष्णादिवर्णपर्यायैः पट्स्थान-पतितत्वं भवति एकस्यापि परमाणु पुद्गलस्य पर्यायानन्त्यस्याविरुद्धत्वात्, अथ परमाणोरप्रदेशतया कथं पर्यायानन्त्यम् संभवति पर्यायानन्त्ये नियमतः

ख्यात काल तक रह सकता है, अतएव स्थिति की अपेक्षा से एक परमाणु दूसरे परमाणु से चतुःस्थानपतित हीन होता है। अगर अधिक हो तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यात-गुण अधिक अथवा असंख्यातगुण अधिक होता है।

कृष्ण वर्ण के पर्यायों की अपेक्षा कोई किसी से हीन, कोई किसी से अधिक होता है यदि हीन हो तो अनन्तभाग हीन, असंख्यात-भाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन, असंख्यातगुण हीन, अथवा अनन्तगुण हीन होता है।

प्रश्न किया जा सकता है कि प्रदेशहीन परमाणु में अनन्त पर्याय

छे अने अधिकथी अधिक अस ज्यात काण सुधी रही शके छे, तेथीज स्थितिनी अपेक्षाअे अेक परमाणु थील परमाणुथी चतुःस्थान पतित हीन थाय छे अगर अधिक थाय तो अस ज्यात लाग अधिक, स ज्यात लाग अधिक स ज्यात शुष्ण अधिक अथवा अस ज्यात शुष्ण अधिक थाय छे,

कृष्ण वर्णना पर्यायेनी अपेक्षाअे केअ केअनाथी हीन, केअ केअनाथी तुल्य अथवा केअ केअनाथी अधिक थाय छे, जे हीन थायतो अनन्तलागहीन अस ज्यात लागहीन स ज्यात लागहीन स ज्यात शुष्णहीन अस ज्यात शुष्ण हीन अथवा अनन्त शुष्ण हीन थाय छे,

प्रश्न करी शक्य छे के प्रदेशहीन परमाणुमा अनन्त पर्यायेनी शी रीते

सप्रदेशत्वप्रसक्तेरितिचेदत्रोच्यते-परमाणोः द्रव्यरूपतया सांशत्वाभावेन अप्रदेश-
त्वस्य सत्त्वेऽपि कालभावाभ्याम् सप्रदेशत्वसंभवात्, 'अपएसो द्रव्यद्वयाए'
अप्रदेशो द्रव्यार्थतया इति वचनप्रामाण्यात्, एवमेव 'अह अब्भहिए अणंतभाग-
अब्भहिए वा' असंखिज्जइभाग अब्भहिए वा, संखिज्जइभाग अब्भहिए वा
संखिज्जइगुण अब्भहिए वा, असंखिज्जगुण अब्भहिए वा, अणंतगुण अब्भहिए
वा' अथाभ्यधिको यदा विवक्षितस्तदा अनन्तभागाधिको वा, असंख्येय
भागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा,
असंख्येयगुणाभ्यधिको वा, अनन्तगुणाभ्यधिको वा भवति, 'एवं अवसेस-
वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्ठाणवडििए' एवम्-तथैव-कृष्णवर्णपर्यव्रवदेव अव-
शेषवर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैः पट्टस्थानपतितो भवति, पट्टस्थानपतितत्वाभिलापस्तु

किस प्रकार संभव हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह कि परमाणु
को जो अप्रदेशी कहा है सो द्रव्य की अपेक्षा से ही समझना चाहिए
काल और भाव की अपेक्षा से वह अप्रदेशी या निरंश नहीं है। कहा
भी है- 'अपएसो द्रव्यद्वयाए' द्रव्य की अपेक्षा से ही परमाणु अप्रदेशी
है, क्योंकि एक ही परमाणु में भी अनन्त गुण पर्यायों की सत्ता है।

अगर एक परमाणु दूसरे परमाणु से अधिक हो तो अनन्तभाग
अधिक, असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण
अधिक, असंख्यातगुण अधिक और अनन्तगुण अधिक होता है, इस
प्रकार अधिकता की दृष्टि से भी षट्स्थानपतित है। इसी प्रकार कृष्ण
वर्ण के पर्यायों के समान शेष वर्णों गंधों, रसों और स्पर्शों से भी
षट्स्थानपतित समझना चाहिए। इन षट् स्थानों का उच्चारण पहले

स भव यद्य शक्ये छे? अे प्रश्नो उत्तर अे छे के परमाणुने ने अप्रदेशी कह्यो
छे ते द्रव्यनी अपेक्षाअे न समञ्जवानो छे, काण अने लावनी अपेक्षाअे ते
अप्रदेशी अगर निरंश नथी. कहु पणु छे 'अपएसोद्रव्यद्वयाए' द्रव्यनी अपेक्षाअे
न परमाणु अप्रदेशी छे, केमके अेक न परमाणुभा भील परमाणुथी पणु अनन्त
गणु पर्यायिनी सत्ता छे

अगर अेक परमाणु भील परमाणुथी अधिक होय तो अनन्त लाग
अधिक, असंख्यात लाग अधिक, संख्यात लाग अधिक, संख्यात गुण अधिक
असंख्यात गुण अधिक अने अनन्त गुण अधिक थाय छे अे रीते अधिक-
तानी दृष्टिअे पणु षट्स्थान पतित छे अे रीते कृष्ण वर्णना पर्यायिनी समान
शेष वर्णों, गंधों, रसों स्पर्शोंना पर्यायिथी पणु षट्स्थान पतित समञ्जवा नेछअे
अे षट्स्थानोनु उच्चारण पडेखानी अराअर करी देवुं नेछअे. पणु थ्य न.भा

प्रागुक्तरीत्या स्वयमूहनीयः, 'फासाणं सीय उसिण निद्ध लुक्खेहिं छट्ठाणवडिण' स्पर्शानां शीतोष्णस्निग्धरूक्षैश्चतुर्भिरेव पटस्थानपतितः परमाणु पुद्गलो भवति तथाहि परमाणुपुद्गलादीनामसंख्यातप्रदेशस्क्रन्धपर्यन्तानां कतिपयानामनन्त-प्रादेशिकानामपि स्क्रन्धानां तथैवैकप्रदेशावगाढानां यावत् संख्यातप्रदेशावगाढानां शीतोष्णस्निग्धरूक्षरूपाणां चतुर्णामेव स्पर्शानां सदृभावेन तेनैव परमाणु पुद्गलादीनां पटस्थानपतितत्वं वक्तव्यं नेतरैरिति तात्पर्यमवसेयम्, प्रकृतमुप-संहरन्नाह—'से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता' हे गौतम ! तत्—अथ, तेनार्थेन एवमुक्तरीत्या उच्यते यत्—परमाणुपुद्-गलानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः इति सम्प्रति स्क्रन्धवक्तव्यतामाह—गौतमः पृच्छति ? 'दुपएसियाणं पुच्छा' हे भदन्त ! द्विप्रदेशिकानां स्क्रन्धानां कियन्तः

के समान कर लेना चाहिए । किन्तु ध्यान में रखना चाहिए कि एक परमाणु में आठ स्पर्शों में से सिर्फ शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष ये चार स्पर्श ही होते हैं । और न केवल परमाणु में बल्कि असंख्यात-प्रदेशी तक के स्क्रन्ध में भी चार स्पर्श ही पाये जाते हैं कोई-कोई अनन्तप्रदेशो स्क्रन्ध भी ऐसे होते हैं जिनमें चार ही स्पर्श होते हैं । उसी प्रकार एक प्रदेश में अवगाढ से लेकर संख्यात प्रदेशों में अव-गाढ स्क्रन्ध भी चार स्पर्श वाले होते हैं । अतएव शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष, इन चार स्पर्शों की अपेक्षा से ही परमाणु को पटस्थान-पतित समझना चाहिए ।

अब प्रकृत का उपसंहार करते हुए कहते हैं—हे गौतम ! इस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि परमाणुपुद्गलों के अनन्त पर्याय कहे गए हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! द्विप्रदेशी स्क्रन्धों के कितने पर्याय कहे हैं ?

राणवु ळेधञ्जे के अेक परमाणुमा आठ स्पर्शोभाथी' इकत शीत, उष्ण, स्निग्ध अने इक्ष आ आर स्पर्श ७ होय छे. अने केवण परमाणुमा ७ नडि पणु संख्यात प्रदेशी सुधीना स्क्रन्धोभां पणु आर स्पर्श ७ भणी आवे छे. केध केध अनन्त प्रदेशी स्क्रन्धमा पणु अेवु अने छे के जेमा आर ७ स्पर्श होय छे अे रीते अेक प्रदेशीमा अवगाढथी लधने संख्यात प्रदेशीमा अवगाढ स्क्रन्ध पणु आर स्पर्शवाणा होय छे. तेथी ७ शीत, उष्ण, स्निग्ध अने इक्ष अे आर स्पर्शोनी अपेक्षाअे ७ परमाणु ने पटस्थान पतित समज्जवा ळेधअे.

इवे प्रकृताने उपसंहार करता कडे छे के—हे गौतम ! अे हेतुथी अेम कडेवाय छे के परमाणु पुद्गलोना अनन्त पर्याय कडेला छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! द्विप्रदेशी स्क्रन्धोना केदला पर्याय कह्या छे ?

પર્યવાઃ પ્રજ્ઞપ્તાઃ ? इति पृच्छा, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ द्वि प्रदेशिकस्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ दुपएसियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन—कथं तावद्, एव मुक्तरीत्या उच्यते यत्—द्विप्रदेशिकानां स्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘दुपएसिए दुपएसियस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले’ द्वि प्रदेशिकः स्कन्धः द्विप्रदेशिकस्य स्कन्धान्तरस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, तथा च एकं द्रव्यमनन्तपर्यायमिति नियमात् द्विप्रदेशिकस्कन्धोऽपि एकत्वसंख्यावरुद्धोऽपि द्रव्यतया अनन्तपर्यायो भवति, ‘एसट्ठयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाहणट्ठयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए’ अवगाहनार्थतया—आकारोच्छ्रयापेक्षया, स्यात्, कदाचित् कश्चिद्धीनो भवति, स्यात्—कदाचित् कश्चित् तुल्यो भवति, स्यात्—कदाचित् कश्चिद्भ्यधिको भवति, तत्र यदा द्वावपि द्विप्रदेशिकौ स्कन्धौ द्विप्रदेशावगाढौ एकप्रदेशावगाढौ वा

भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा गया है कि द्विप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! एक द्विप्रदेशी स्कंध दूसरे द्विप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है, प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य होता है मगर अवगाहना की दृष्टि से कदाचित् हीन, कदाचित् तुल्य और कदाचित् अधिक होता है । जब दो द्विप्रदेशी स्कंध आकाश के दो दो प्रदेशों में अवगाढ हों अथवा दोनों एक-एक प्रदेश में अवगाढ हो, तब उनकी अवगाहना तुल्य होती है, किन्तु जब एक द्विप्रदेशी

श્રી ભગવાન્—હે ગૌતમ ! અનન્ત પર્યાય કહેલા છે

શ્રી ગૌતમસ્વામી—હે ભગવાન્ શા કારણે એવું કહેલું છે કે દ્વિપ્રદેશી સ્કન્ધાના અનન્ત પર્યાય કહ્યા છે ?

શ્રી ભગવાન્ હે ગૌતમ ! એક દ્વિપ્રદેશી સ્કન્ધ બીજા દ્વિપ્રદેશી સ્કન્ધથી દ્રવ્યની દૃષ્ટિએ તુલ્ય થાય છે, પ્રદેશોની અપેક્ષાએ પણ તુલ્ય થાય છે, પણ અવગાહનાની દૃષ્ટિએ કદાચિત્ તુલ્ય, અને કદાચિત્ અધિક થાય છે. ન્યારે એ દ્વિપ્રદેશી સ્કન્ધ આકાશના બે બે પ્રદેશોમાં અવગાઠ થાય અથવા બન્ને એક એક પ્રદેશમાં અવગાઠ થાય ત્યારે તેમની અવગાહના તુલ્ય હોય છે, પણ ન્યારે એક દ્વિપ્રદેશી સ્કન્ધ એક પ્રદેશોમાં અવગાઠ થાય છે અને બીજા બે પ્રદેશોમાં, તે તેઓમાં અવગાહનાની દૃષ્ટિએ હીનાધિકના થાય છે, બે એક

भवतस्तदा तुल्यावगाहनौ, यदा तु एको द्विप्रदेशावगाहोऽन्यस्तु एकप्रदेशावगाहो भवति तदा एकप्रदेशावगाहो द्विप्रदेशावगाहापेक्षया प्रदेशहीनो भवति, द्विप्रदेशावगाहस्तु तदपेक्षया प्रदेशाभ्यधिको भवति इत्यभिप्रायेणैवाह 'जड हीणे पएसहीणे, अह अहमहि ए पएसमन्महि ए' यदा हीनो विवक्षितस्तदा प्रदेशहीनो भवति, अथ यदा अभ्यधिको विवक्षितस्तदा प्रदेशाभ्यधिकोऽवसेयः इत्याशयः, 'ठिईए चउट्टाणवडिए, स्थित्या-कालमर्यादया चतुस्थानपतितो भवति, तदभिलापस्तु पूर्वोक्तरीत्यैवावसेयः 'वण्णाई हिं उवरिल्लेहिं चउफासेहिं य छट्टाणवडिए' वर्णादिभिः वर्णगन्धरसैः, उपरितनै श्रुतिभिस्पर्शैश्च षट्स्थानपतितो भवति, तदभिलापोऽपि पूर्वोक्तरीत्यैव बोध्यः, 'एवं तिपएसेऽवि' एवम्-तथैव-द्वि प्रदेशिकवदेव,

स्कंध एक प्रदेश में अवगाह हो और दूसरा दो प्रदेशों में, तो उनमें अवगाहना की दृष्टि से हीनाधिकता होती है। जो एक प्रदेश में अवगाह है वह दो प्रदेशों में अवगाह स्कंध की अपेक्षा एक प्रदेशहीन अवगाहना वाला कहलाता है और जो दो प्रदेशों में अवगाह है, वह एकप्रदेशावगाह की अपेक्षा एक प्रदेश अधिक अवगाहना वाला है। द्विप्रदेशी स्कंधों को अवगाहना में इससे अधिक होनाधिकता का संभव नहीं है। स्थिति की अपेक्षा एक द्विप्रदेशी स्कंध दूसरे द्विप्रदेशी स्कंध से चतुःस्थानपतित होता है। वर्ण आदि की अपेक्षा से तथा पूर्वोक्त चार (शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष) स्पर्शों की अपेक्षा से षट्स्थानपतित होता है। इन स्थानों का कथन पहले के ही समान समझना चाहिए।

द्विप्रदेशी स्कंध की जैसी वक्तव्यता कही है वैसी ही त्रिप्रदेशी स्कंध की भी समझ लेना चाहिए विशेषता यह है कि अवगाहना की

प्रदेशमा अवगाह छे ते जे प्रदेशोमा अवगाह स्कन्धनी अपेक्षाये अेक प्रदेश हीन अवगाहनावाणो कडेवाय छे अने जे जे प्रदेशोमा अवगाह छे, ते अेक प्रदेशावगाहनी अपेक्षाये अेक प्रदेश अधिक अवगाहनावाणा छे द्विप्रदेशी स्कन्धोनी अवगाहनामा तेनाथी अधिक हीनाधिकतानो सलव नथी स्थितिनी अपेक्षाये अेक द्विप्रदेशी स्कन्ध भील द्विप्रदेशी स्कन्धथी अतु स्थान पतित थाय छे वषु' आहिनी अपेक्षाये तथा पूर्वोक्त चार (शीत, उष्ण, स्निग्ध रूक्ष) स्पर्शोनी अपेक्षाये षट्स्थान पतित थाय छे. अे स्थानोनु कथन पडेलानी समान जे समज्जु जेधये.

द्विप्रदेशी स्कन्धनी जेवी वक्तव्यता कही छे तेवीज त्रिप्रदेशी स्कन्धनी पषु समज्जु लेवी जेधये. विशेषता अे छे के अवगाहनानी अपेक्षाये ते

त्रिप्रदेशिकोऽपि स्कन्धोऽवसेयः, किन्तु 'नवरं ओगाहणद्वयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु अवगाहनार्थतया-आकारा-पेक्षया त्रिप्रदेशिकः स्कन्धास्त्रिप्रदेशिकस्कन्धस्य स्यात्-कदाचित् हीनः स्यात् कदाचित् तुल्यः, स्यात्-कदाचित् अभ्यधिको भवेत्, तत्र-'जइ हीणे पएस हीणे वा' यदा हीनो विवक्षितस्तदा प्रदेशहीनो वा भवति, द्विप्रदेशहीनो वा भवति, 'अह अब्भहिए पएसमव्भहिए वा दुपएसमव्भहिए वा' अथ अभ्यधिको यदा विवक्षित-स्तदा प्रदेशाभ्यधिको वा द्विप्रदेशाभ्यधिको वा भवति 'एवं जाव दसपएसिए' एवं-तथैव-त्रिप्रदेशिकवदेव, यावत्-चतुः प्रदेशिक पञ्चप्रदेशिकः षट्प्रदेशिकः, सप्तप्रदेशिकः, अष्टप्रदेशिकः, नवप्रदेशिकः, दशप्रदेशिकश्च स्कन्धः प्रतिपादयितव्यः किन्तु-'नवरं ओगाहणद्वयाए पएसपरिवुड्डी कायव्वा जाव दसपएसिए'

अपेक्षा वह स्यात् ही, स्यात् तुल्य और स्यात् अधिक होता है । अगर हीन हो तो एक प्रदेशहीन अथवा द्विप्रदेशहीन है और यदि अधिक हो तो एकप्रदेशाधिक अथवा द्विप्रदेशाधिक होता है । तात्पर्य यह है कि तीन प्रदेशों का पिण्ड त्रिप्रदेशी स्कंध कहलाता है । वह आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकता है, दो प्रदेशों में भी रह सकता है और तीन प्रदेशों में भी रह सकता है । तीन अकाश प्रदेशों से अधिक में उसकी अवगाहना का संभव नहीं है । ऐसी अवस्था में उनकी अवगाहना में यदि हीनता और अधिकता हो तो एक या दो आकाशप्रदेशों की ही हो सकती है अधिक की नहीं हो सकती ।

त्रिप्रदेशी स्कंध के सामान दशप्रदेशी स्कंध तक की वक्तव्यता समझ लेना चाहिए, अर्थात् चार प्रदेशी पांचप्रदेशी, छहप्रदेशी, सात-प्रदेशी, आठप्रदेशी, नौप्रदेशी, और दशप्रदेशी, स्कंध की वक्तव्य-

स्यात् हीन, स्यात् तुल्य, अने स्यात् अधिक थाय छे. अगर हीन होय तो ओक प्रदेश हीन अथवा द्विप्रदेश हीन थाय छे, अने ले अधिक होय तो ओक प्रदेशाधिक अथवा द्विप्रदेशाधिक थाय छे, तात्पर्य ओ छे के त्रयु प्रदेशोना पिण्ड त्रिप्रदेशी स्कंध कडेवाय छे ते आकाशना ओक प्रदेशमा पणु रही शके छे जे प्रदेशमा पणु रही शके छे. अने त्रयु प्रदेशोमा पणु रही शके छे त्रयु आकाश प्रदेशोथी अधिकमा तेनी अवगाहनाने स लव नथी. आ परिस्थितिमा तेमनी अवगाहनमा ले हीनता अगर अधिकता होय तो ओक अगर जे आकाश प्रदेशोनी न होय शके छे. अधिकनी नथी थतो.

त्रिप्रदेशी स्कन्धना समान दश प्रदेशी स्कन्ध सुधीनी वक्तव्यता समझ लेवी नोछो, अर्थात् चार प्रदेशी पांच प्रदेशी, छ प्रदेशी, सात प्रदेशी, आठ प्रदेशी नौ प्रदेशी अने दश प्रदेशी स्कन्धनी वक्तव्यता त्रिप्रदेशी लेवी समझवी नोछो.

नवरम्-विशेषस्तु अवगाहनायां प्रदेशवृद्धिः कर्त्तव्या यावत्-चतुःप्रदेशिके, पञ्चप्रदेशिके, षट्प्रदेशिके, सप्तप्रदेशिके, अष्टप्रदेशिके, नवप्रदेशिके, दश-प्रदेशिके च स्कन्धे इत्यर्थः, अवगाहनापेक्षया उत्तरोत्तरमेकैकप्रदेशवृद्धिःकार्या दशप्रदेशिकस्कन्धपर्यन्तमिति भावः किन्तु-‘णवरं नवपएसहीणत्ति’ नवरम्-विशेषस्तु यावद्-नवप्रदेशहीनो वक्तव्य इत्यर्थः, अयं भावः-यदा द्वावपि त्रिप्रदेशिकौ स्कन्धौ त्रिप्रदेशावगाढौ, द्विप्रदेशावगाढौ, एकप्रदेशावगाढौ वा भवत-स्तदा तुल्यौ, यदा तु एकस्त्रिप्रदेशिकः स्कन्धस्त्रिप्रदेशावगाढो वा द्विप्रदेशाव-गाढो वा भवति अन्यस्तु त्रिप्रदेशिकः स्कन्धो द्विप्रदेशावगाढो भवति, एकप्रदे-

ता त्रिप्रदेशी जैसी समझनी चाहिए। विशेषता यह है कि दशप्रदेशी स्कंध को नवप्रदेशहीन कहना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जब दो त्रिप्रदेशी स्कंध तीन-तीन प्रदेशों में दो-दो प्रदेशों में अथवा एक-एक प्रदेशों में अवगाह होते हैं तब वे अवगाहना की दृष्टि से परस्पर तुल्य होते हैं, किन्तु जब एक त्रिप्रदेशी स्कंध त्रिप्रदेशावगाह और दूसरा द्विप्रदेशावगाह होता है तो वह एकप्रदेशहीन होता है, यदि एक प्रदेशावगाह होता है तो द्विप्रदेशहीन होता है त्रिप्रदेशावगाह दो प्रदेशावगाह से एकप्रदेशाधिक होता है और एकप्रदेशावगाह से द्विप्रदेशाधिक होता है। इस प्रकार एक-एक प्रदेश बढ़ाकर चारप्रदेशी से लेकर दशप्रदेशी तक के स्कंधों में अवगाहना की अपेक्षा से हानि-वृद्धि कह लेना चाहिए। दशप्रदेशी स्कंध में हीनता इस प्रकार कही जाएगी—दशप्रदेशी स्कंध जब हीन विवक्षित किया जाता है तो एक प्रदेश-

विशेषता आ छे के दश प्रदेशी स्कंधने नव प्रदेश हीन कहेये जेधये तात्पर्य जे छे के-न्यारे जे त्रिप्रदेशी स्कंध त्रय त्रय प्रदेशोभा जे जे प्रदेशोभा अथवा जेक जेक प्रदेशमां अवगाह थाय छे त्यारे तेज्या अवगाहनानी दृष्टिये परस्पर तुल्य थाय छे परन्तु न्यारे जेक प्रदेशी स्कंध त्रिप्रदेशमां अवगाह भने अने पील द्विप्रदेशावगाह थाय छे तो ते जेक प्रदेश हीन थाय छे जे जेक प्रदेशावगाह थाय छे तो द्विप्रदेश हीन थाय छे, त्रिप्रदेशावगाह जे प्रदेशावगाहथी जेक प्रदेशाधिक थाय छे अने जेक प्रदेशावगाहथी द्विप्रदेशाधिक थाय छे जे रीते जेक जेक प्रदेशवधारीने चार प्रदेशी लधने दश प्रदेशी सुधीना स्कन्धोभा अवगाहनानी अपेक्षाये हानि वृद्धि कही लेवी जेधये. दश प्रदेशी स्कन्धमा हीनता आ प्रकारे कहेवासे—दश प्रदेशी स्कन्ध न्यारे हीन विवक्षित कराय छे त्यारे जेक प्रदेश हीन, द्विप्रदेश हीन, यावत् नव प्रदेश हीन भने

शावगाढो वा भवति तदा यथाक्रमं त्रिप्रदेशावगाढद्विप्रदेशावगाढापेक्षया द्विप्रदेशावगाढके प्रदेशावगाढौ एक प्रदेशहीनौ भवतः, त्रिप्रदेशावगाढ द्विप्रदेशावगाढ द्विप्रदेशावगाढौ तु तदपेक्षया एक प्रदेशाभ्यधिकौ भवतः, त्रिप्रदेशावगाढ द्विप्रदेशावगाढौ तु तदपेक्षया एकप्रदेशाभ्यधिकौ भवतः, यदा तु एकस्त्रिप्रदेशिकः स्कन्धस्त्रिप्रदेशावगाढो भवति, अन्य एक प्रदेशावगाढो भवति तदा त्रिप्रदेशावगाढापेक्षया एकप्रदेशावगाढो द्वि प्रदेशहीनो भवति, त्रिप्रदेशावगाढस्तु तदपेक्षया एक प्रदेशावगाढो द्वि प्रदेशहीनो भवति, त्रिप्रदेशावगाढस्तु तदपेक्षया द्विप्रदेशाभ्यधिको भवति एवं रीत्या एकैकप्रदेशपरिवर्द्धनेन चतु प्रदेशिकादिषु दशप्रदेशिकपर्यन्तेषु स्कन्धेषु अवगाहनापेक्षया हानि वृद्धी वक्तव्ये तत्र दशप्रदेशिके स्कन्धे तदभिलापो यथा- 'यदा हीनो विवक्षितस्तदा प्रदेशहीनो वा द्विप्रदेशहीनो वा, यावद् नवप्रदेशहीनो वा, अथ यदा अभ्यधिको विवक्षितस्तदा प्रदेशाभ्यधिको वा द्विप्रदेशाभ्यधिको वा, यावद् नवप्रदेशाभ्यधिको वा भवति, इत्येव बोध्यः, श्रीगौतमः पृच्छति—'संखेज्जपएसियाणं पुच्छा, हे भदन्त ! संख्येयप्रदेशिकानां स्कन्धानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ता ? इति पृच्छा, भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणता पज्जवा पणत्ता' संख्येयप्रदेशिकस्कन्धानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—'से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—सखेज्जपएसियाणं अणता पज्जवा पणत्ता ?' हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन कथं तावत्. एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते यत्—संख्येयप्रदेशिकानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ता ? इति, भगवान् आह—

हीन, द्विप्रदेशहीन, यावत् नौ प्रदेशहीन होता है और यदि अधिक विवक्षित किया जाय तो एकप्रदेशाधिक यावत् नवप्रदेशाधिक होता है।

गौतम—हे भगवन् ! संख्यातप्रदेशी स्कन्धों के कितने पर्याय हैं ?

भगवन्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए हैं।

गौ —हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवान्—गौतम ! संख्यातप्रदेशी एक स्कन्ध दूसरे संख्यातप्रदेशी स्कन्ध से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है, और वह द्रव्य है इस कारण

छे अने जे अधिक विवक्षित कराय तो एक प्रदेशाधिक, द्विप्रदेशाधिक यावत् नव प्रदेशाधिक थाय छे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् स ख्यात प्रदेशी स्कन्धना डेटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय डहेला छे.

श्री —गौतम ! हे भगवन् अने शु कारण छे ?

श्री भगवान् हे गौतम ! स ख्यात प्रदेशी एक स्कन्ध गीला स ख्यात प्रदेशी स्कन्धधी द्रव्यनी दृष्टिसे तुल्य छे, अने ते द्रव्य छे, अने कारणे अनन्त

‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘संखेज्जपएसिए संघे संखेज्जपएसियस्स संघस्स दच्च
दयाए तुल्ले’ संख्येयप्रदेशिकः स्कन्धः संख्येयप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया
तुल्यो भवति, प्रत्येकञ्च द्रव्यमनन्तपर्याय भवतीति न्यायेय संख्येयप्रदेशिकस्य
स्कन्धस्य द्रव्यत्वेन अनन्तपर्यायसंभवात्, ‘पएसट्टयाए सिय हीणे, सिय तुल्ले,
सिय अब्भहिए’ प्रदेशार्थतया स्यात्-कदाचित्, कश्चिद् हीनो भवति, स्यात्-
कदाचित् कश्चिद् तुल्यो भवति, स्यात्-कदाचित् कश्चिद् अभ्यधिको
भवति, तत्र ‘जइ हीणे संखेज्जभागहीणे वा, संखेज्जगुणहीणे वा’ यदा हीनो
विवक्षितस्तदा संख्येयभागहीनो वा भवति, संख्येयगुणहीनो वा भवति, ‘अह
अब्भहिए एवं चेव’ अथ अभ्यधिको यदा विवक्षितस्तदा, एवञ्चैव-पूर्वोक्तवदेव
संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति इति भावः ‘ओगा-
हणट्टयाए वि दुट्ठाणवडिए’ अवगाहनार्थतयापि संख्येयप्रदेशिकः स्कन्धो द्विस्थान-
पतितो भवति, तथा च संख्यातभागेन संख्यातगुणेन च हीनोऽभ्यधिकोवाऽवगा-
हनापेक्षया संख्येयप्रदेशिकः स्कन्धो वक्तव्यः इत्याशयः, ‘ठिईए चउट्ठाणवडिए,

अनन्त पर्याय वाला भी है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अनन्त पर्याय वाला ही
होता है। वह प्रदेशों की दृष्टि से कदाचित् हीन, कदाचित् तुल्य और
कदाचित् अधिक भी हो सकता है। यदि हीन हो तो संख्यातभाग हीन
अथवा संख्यात गुण हीन होता है, अगर अधिक हो तो भी इसीप्रकार
अर्थात् संख्यातभाग अधिक अथवा संख्यातगुण अधिक होना है। यह
द्विस्थानपतित हैं। अवगाहना की दृष्टि से भी वह द्विस्थानपतित होता
है अर्थात् संख्यातभाग हीन अथवा संख्यातगुण हीन होता है। तथा
संख्यातभाग अधिक और संख्यातगुण अधिक होता है। स्थिति की
अपेक्षा से वह चतुःस्थानपतित होता है, अतएव एक संख्यातप्रदेशी

पर्यायवाणा पणु छे, डेभके प्रत्येक द्रव्य अनन्त पर्याय वाणा न थाय छे, ते
प्रदेशोनी दृष्टिअे कदाचित् हीन, कदाचित् तुल्य, अने कदाचित् अधिक थए
शके छे जे हीन होय तो स ख्यात लागहीन अथवा स ख्यात गुणहीन
थाय छे अगर अधिक होय तो पणु अेन प्रकारे अर्थात् स ख्यात लाग
अधिक अथवा स ख्यात गुण अधिक थाय छे. आ द्विस्थान पतित छे अव-
गाहनानी दृष्टिअे पणु ते द्विस्थान पतित थाय छे अर्थात् स ख्यात लाग
हीन अथवा स ख्यात गुणहीन थाय छे. तथा स ख्यात लाग अधिक अने
स ख्यात गुण अधिक थाय छे स्थितिनी अपेक्षाअे ते चतु स्थान पतित थाय

स्थित्या अवस्थानापेक्षया, संख्येयप्रदेशिकः स्कन्धश्चतुःस्थानपतितो भवति, तथा च स्थित्यपेक्षया संख्येयप्रदेशिकः स्कन्धः संख्येयप्रदेशिकस्कन्धस्य असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा भवति, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति, 'वण्णाइ उवरिल्ला चउफासपज्जवेहिय छट्ठाणवडिए' वर्णादिभिः-वर्णगन्धरसैः, उपरितनचतुःस्पर्शपर्यवैश्च-शीतोष्णस्निग्धरूक्ष स्पर्शपर्यवैरित्यर्थः, षट्स्थानपतितो भवति, तदभिच्छापस्तु पूर्वोक्तरीत्याऽवसेयः, गौतमः पृच्छति-‘असंखिज्जपएसियाणं पुच्छा?’ हे भदन्त ! असंख्येयप्रदेशिकानां स्कन्धानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह-‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ असंख्येय-

स्कन्ध दूसरे संख्यातप्रदेशी स्कन्ध से स्थिति में असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन अथवा असंख्यातगुण हीन होता है। अधिक हो तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक अथवा असंख्यातगुण अधिक होता है। वर्णादिकी अपेक्षा से तथा उपर्युक्त चार अर्थात् शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष स्पर्शों की अपेक्षा से षट्स्थानपतित होता है। उनका कथन पूर्ववत् समझ लेना चाहिए।

गौतम-असंख्यातप्रदेशी स्कन्धों की पृच्छा, अर्थात् हे भगवान् ! असंख्यातप्रदेशी स्कन्धों के कितने पर्याय कहे हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! असंख्यातप्रदेशी स्कन्धों के अनन्त पर्याय कहे हैं।

छे, तेथी न् अेक स ख्यात प्रदेशी स्कन्ध भील स ख्यात प्रदेशी स्कन्धथी स्थितिमा अस ख्यात लागडीन, स ख्यात लागडीन स ख्यात गुणुडीन अथवा अस ख्यात गुणुडीन थाय छे. अधिक होय तो अस ख्यात लाग अधिक स ख्यात भाग अधिक, स ख्यातगुण अधिक अथवा अस ख्यात गुण अधिक थाय छे, वर्णादिनी अपेक्षाअे तथा उपर्युक्त चार अर्थात् शीत, उष्ण, स्निग्ध अने रूक्ष स्पर्शोंनी अपेक्षाअे षट्स्थान पतित थाय छे तेमतु कथन पूर्ववत् समझ लेवु लेधअे

श्री गौतमस्वामी-अस ख्यात प्रदेशी स्कन्धानी पृच्छा, अर्थात् हे भगवान् ! अस ख्यात प्रदेशी स्कन्धाना केटला पर्याय कइल छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अस ख्यात प्रदेशी स्कन्धाना अनन्त पर्याय कइल छे,

प्रदेशिकस्कन्धानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति 'से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-असंखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?' हे भदन्त ! तत्-अथ, केनार्थेन-कथं तावद्, एवम्-उत्तरीत्या, उच्यते यत्-असंख्येय प्रदेशिकस्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह- 'गोयमा !' हे गौतम ! 'असंखेज्जपएसिए खंधे असंखेज्जपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले' असंख्येयप्रदेशिकः स्कन्धः, असंख्येयप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, प्रत्येकञ्च द्रव्यमनन्तपर्यायमितिन्यायेन असंख्येयप्रदेशिकस्कन्धस्यापि द्रव्यत्वेन अनन्तपर्यायसंभवात्, 'पएसट्टयाए चउट्टाणवडिए' प्रदेशार्थतया असंख्येयभागसंख्येयभागसंख्येयगुणासंख्येयगुणैः प्रदेशापेक्षया असंख्येयप्रदेशिकस्कन्धस्य चतुःस्थानपतितत्वमसेयम् 'ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए' अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितो भवति, अत्रापि असंख्यातसंख्यातभाग संख्यातासंख्यातगुणैश्चतुःस्थानपतितत्वं बोध्यम् 'ठिईए चउट्टाणवडिए' स्थित्या अवस्थानापेक्षया, असंख्येयप्रदेशिकः स्कन्धश्चतुःस्थानपतितो भवति, 'वण्णाइ उवरिल्लचउफासेहिय छट्टाणवडिए'

गौतम-हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा गया है कि असंख्यातप्रदेशी स्कंधों के अनन्त प्रदेश हैं ?

भगवान्-हे गौतम ? एक असंख्यातप्रदेशी स्कंध दूसरे असंख्यातप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है । प्रदेशों की अपेक्षा से एक असंख्यात प्रदेशी स्कंध दूसरे असंख्यातप्रदेशी स्कंध से चतुःस्थानपतित होता है, अवगाहना की अपेक्षा से भी चतुःस्थानपतित होता है, अर्थात् असंख्यातभागहीन, संख्यातभागहीन, संख्यातगुणहीन और असंख्यातगुण हीन है । स्थिति की अपेक्षा भी चतुःस्थानपतित है । वर्ण आदि से तथा उपर्युक्त चार शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष स्पर्शों से षट्स्थानपतित होता है ।

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! शा कारणे एषु कल्लुं छे डे असंख्यात प्रदेशी स्कन्धाना अनन्त प्रदेशे छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! एक असंख्यात प्रदेशी स्कन्ध भील असंख्यात प्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य छे. प्रदेशोनी अपेक्षाये एक असंख्यात प्रदेशी स्कन्ध भील असंख्यात प्रदेशी स्कन्धथी चतु स्थान पतित थाय छे, अवगाहनानी अपेक्षाये यल्लु चतु स्थान पतित थाय छे अर्थात् असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन अने असंख्यात गुणहीन छे. स्थितिनी अपेक्षाये यल्लु चतु स्थान पतित छे वल्लु आदिथी तथा उपर्युक्त शीत, उष्ण, स्निग्ध अने रूक्ष ये चार स्पर्शथी षट्स्थान पतित थाय छे.

स्थित्या अवस्थानापेक्षया, संख्येयप्रदेशिकः स्कन्धश्चतुःस्थानपतितो भवति, तथा च स्थित्यपेक्षया संख्येयप्रदेशिकः स्कन्धः संख्येयप्रदेशिकस्कन्धस्य असंख्येयभागहीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, असंख्येयगुणहीनो वा भवति, असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति, 'वण्णाइ उवरिल्ला चउफासपज्जवेहिय छट्ठाणवडिए' वर्णादिभिः-वर्णगन्धरसैः, उपरितनचतुःस्पर्शपर्यवैश्व-शीतोष्णस्निग्धरूक्ष स्पर्शपर्यवैरित्यर्थः, षट्स्थानपतितो भवति, तदभिलापस्तु पूर्वोक्तरीत्याऽवसेयः, गौतमः पृच्छति-‘असंखिज्जपएसियाणं पुच्छा ?’ हे भदन्त ! असंख्येयप्रदेशिकानां स्कन्धानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह-‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णात्ता’ असंख्येय-

स्कन्ध दूसरे संख्यातप्रदेशी स्कन्ध से स्थिति में असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन अथवा असंख्यातगुण हीन होता है। अधिक हो तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक अथवा असंख्यातगुण अधिक होता है। वर्णादिकी अपेक्षा से तथा उपर्युक्त चार अर्थात् शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष स्पर्शों की अपेक्षा से षट्स्थानपतित होता है। उनका कथन पूर्ववत् समझ लेना चाहिए।

गौतम-असंख्यातप्रदेशी स्कन्धों की पृच्छा, अर्थात् हे भगवन् ! असंख्यातप्रदेशी स्कन्धों के कितने पर्याय कहे हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! असंख्यातप्रदेशी स्कन्धों के अनन्त पर्याय कहे हैं।

छे, तेथी न् ओक स ज्ज्यात प्रदेशी स्कन्ध भील स ज्ज्यात प्रदेशी स्कन्धथी स्थितिभा अस ज्ज्यात लागहीन, स ज्ज्यात लागहीन स ज्ज्यात शुण्डीन अथवा अस ज्ज्यात शुण्डीन थाय छे. अधिक होय तो अस ज्ज्यात लाग अधिक स ज्ज्यात लाग अधिक, स ज्ज्यातशुण् अधिक अथवा अस ज्ज्यात शुण् अधिक थाय छे, वर्णादिनी अपेक्षाये तथा उपर्युक्त चार अर्थात् शीत, उष्ण, स्निग्ध अने रूक्ष स्पर्शोनी अपेक्षाये षट्स्थान पतित थाय छे तेमनु कथन पूर्ववत् समझ लेवु नेधये

श्री गौतमस्वामी-अस ज्ज्यात प्रदेशी स्कन्धोनी पृच्छा, अर्थात् हे भगवन् ! अस ज्ज्यात प्रदेशी स्कन्धोना केटल पर्याय कहा छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अस ज्ज्यात प्रदेशी स्कन्धोना अनन्त पर्याय कहा छे,

प्रदेशिकस्कन्धानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति 'से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ-असंखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?' हे भदन्त ! तत्-अथ, केनार्थेन-कथं तावद्, एवम्-उत्तरीत्या, उच्यते यत्-असंख्येय प्रदेशिकस्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'असंखेज्जपएसिए खंधे असंखेज्जपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले' असंख्येयप्रदेशिकः स्कन्धः, असंख्येयप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, प्रत्येकञ्च द्रव्यमनन्तपर्यायमितिन्यायेन असंख्येयप्रदेशिकस्कन्धस्यापि द्रव्यत्वेन अनन्तपर्यायसंभवात्, 'पएसट्टयाए चउट्टाणवडिए' प्रदेशार्थतया असंख्येयभागसंख्येयभागसंख्येयगुणासंख्येयगुणैः प्रदेशापेक्षया असंख्येयप्रदेशिकस्कन्धस्य चतुःस्थानपतितत्वमसेयम् 'ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए' अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितो भवति, अत्रापि असंख्यातसंख्यातभाग संख्यातासंख्यातगुणैश्चतुःस्थानपतितत्वं बोध्यम् 'ठिईए चउट्टाणवडिए' स्थित्या अवस्थानापेक्षया, असंख्येयप्रदेशिकः स्कन्धश्चतुःस्थानपतितो भवति, 'वण्णाइ उवरिल्लचउफासेहिय छट्टाणवडिए'

गौतम-हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा गया है कि असंख्यातप्रदेशी स्कंधों के अनन्त प्रदेश है ?

भगवान्-हे गौतम ? एक असंख्यातप्रदेशी स्कंध दूसरे असंख्यातप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है । प्रदेशों की अपेक्षा से एक असंख्यात प्रदेशी स्कंध दूसरे असंख्यातप्रदेशी स्कंध से चतुःस्थानपतित होता है, अवगाहना की अपेक्षा से भी चतुःस्थानपतित होता है, अर्थात् असंख्यातभागहीन, संख्यातभागहीन, संख्यातगुणहीन और असंख्यातगुण हीन है । स्थिति की अपेक्षा भी चतुःस्थानपतित है । वर्ण आदि से तथा उपर्युक्त चार शीत, उष्ण, सिग्ध और ... स्पर्शों से षट्स्थानपतित होता है ।

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! शा कारणे अेषु कल्लु छे के असंख्यात प्रदेशी स्कन्धेनान् अनन्त प्रदेशे छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अेक असंख्यात प्रदेशी स्कन्ध णीण्ण असंख्यात प्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी अपेक्षाअे तुल्ये छे. प्रदेशेनानी अपेक्षाअे अेक असंख्यात प्रदेशी स्कन्ध णीण्ण असंख्यात प्रदेशी स्कन्धथी अतु स्थान पतित थाय छे, अवगाहनानी अपेक्षाअे पल्लु अतु स्थान पतित थाय छे अर्थात् असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन अने असंख्यात गुणहीन छे. स्थितिनी अपेक्षाअे पल्लु अतु स्थान पतित छे वल्लु आदिथी तथा उपर्युक्त शीत, उष्ण, सिग्ध अने इक्ष अे चार स्पर्शथी षट्स्थान पतित थाय छे,

वर्णादिभिः—वर्णगन्धरसैः, उपरितनचतुःस्पर्शैश्च—शीतोष्णस्निग्धरूपस्पर्शैरसं-
ख्येयप्रदेशिकः स्कन्धः षट्स्थानपतितो भवति, गौतमः पृच्छति—‘अणंतपए-
सियाणं पुच्छा’ हे भदन्त ! अनन्तप्रदेशिकानां—स्कन्धाना कियन्तः पर्यवाः
प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह—‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा
पणत्ता !’ अनन्तप्रदेशिकस्कन्धानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—
‘से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—अणंतपएसियाणं ‘अणंता पज्जवा पणत्ता ?’
हे भदन्त ! तत् अथ केनार्थेन—कथं तावद्, एवम्—उक्तरीत्या उच्यते यत्—अनन्त
प्रदेशिकस्कन्धानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—‘गोयमा !
हे गौतम ! ‘अणतपएसिए खंधे अणंत पएसियस्स रंधस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले’
अनन्तप्रदेशिकः स्कन्धः अनन्तप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो
भवति, तथा च प्रत्येकञ्च द्रव्यमनन्तपर्यायमिति न्यायेन अनन्तप्रदेशिकस्कन्ध-
स्यापि द्रव्यत्वेन अनन्तपर्यायसंभवात् ‘पएसट्ठयाए छट्ठाणवडिए’ प्रदेशार्थतया
अनन्तप्रदेशिकः स्कन्धः षट्स्थानपतितो भवति, ‘ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए’
अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितो भवति ‘ठिईए चउट्ठाणवडिए, स्थित्या अवस्था-
नापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति ‘वण्णगंधरसफासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए’ वर्ण-
गन्धरसस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, तथा च अनन्तप्रदेशिकस्कन्धोऽपि
अवगाहनापेक्षया चतुःस्थानपतित एव भवति न तु षट्स्थानपतितः, तस्यानन्त-

गौतम—हे भगवन् ! अनन्तप्रदेशी स्कंधों के कितने पर्याय हैं ?

भगवन्—हे गौतम ! अनन्तप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं ?

गौतम—हे भगवन् ! ऐसा कहने क्या कारण है ?

भगवान्—गौतम ! एक अन्तप्रदेशी स्कंध दूसरे अनन्तप्रदेशी स्कंध
से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है प्रदेशों की अपेक्षा षट्स्थानपतित
होता है, अवगाहना से चतुःस्थानपतित, स्थिति से भी चतुःस्थानपतित
तथा वर्ण गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है ।

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! अनन्त प्रदेशी स्कन्धाना केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! अनन्त प्रदेशी स्कन्धाना अनन्त पर्याय कहे छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! ज्येभ कडेवातु शु कारु छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! ज्येभ अनन्त प्रदेशी स्कन्ध जीव अनन्त प्रदेशी
स्कन्धथी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य अने छे, प्रदेशोनी अपेक्षाये षट्स्थान पतित
थाय छे, अवगाहनाथी चतु स्थान पतित, स्थितिथी पण् चतु स्थान पतित
तथा पण्, गंध, रस, अने स्पर्शना पर्यायोथी षट्स्थान पतित छे. अही

પ્રદેશાવગાહનાયા અસંભવેન અનન્તભાગાનન્તગુણાભ્યા નાનિ વૃદ્ધયસંભવાત્, વર્ણ-
ગન્ધાદિભિસ્તુ પટ્સ્થાનપતિત એવ મ્ભવતિ વર્ણાદિપર્યવૈરનન્તભાગાનન્તગુણાભ્યા-
મપિ હાનિ વૃદ્ધિ સંભવાત્, તદભિલાપસ્તુ—વર્ણાદિ પર્યવૈરનન્તપ્રદેશિકઃ સ્કન્ધો-
ડનન્તપ્રદેશિકસ્કન્ધસ્ય અનન્તભાગહીનો વા, અસંખ્યેયભાગહીનો વા, સંખ્યેય-
ભાગહીનો વા, સંખ્યેયગુણ હીનો વા, અસંખ્યેયગુણ હીનો વા અનન્તગુણહીનો
વા મ્ભવતિ, એવમ્ભ્યધિક્કાલાપોડપિ અવગન્તવ્યઃ ગૌતમઃ પૃચ્છતિ—‘એગપ્સોગા-
દાણં પોગ્મલાણં પુચ્છા’ હે મદન્ત ! એક પ્રદેશાવગાહાના પુદ્ગલાના ક્રિયન્તઃ
પર્યવાઃ પ્રજ્ઞપ્તાઃ ? ઇતિ પૃચ્છા, મ્ભવાન્ આહ—‘ગૌયમા !’ હે ગૌતમ ! ‘અળંતા

યર્હા યહ ધ્યાન મેં રખના ચાહિએ કિ અનન્તપ્રદેશી સ્કન્ધ મ્ભી અવગા
હના કી અપેક્ષા ચતુઃસ્થાનપતિત હી હોતા હે પટ્સ્થાનપતિત નહી હો
સકતા ક્યોંકિ લોકાકાશ કે અસંખ્યાત પ્રદેશ હી હૈ ઓર અનન્તપ્રદેશી
સ્કન્ધ મ્ભી અસંખ્યાત પ્રદેશોં મેં હી અવગાહન કરતા હૈ, અતએવ અન-
ન્તભાગ એવ અનન્તગુણ હાનિ વૃદ્ધિ કા સંભવ નહી હૈ । હાં, વર્ણાદિ કે
પર્યાયોં સે વહ પટ્સ્થાનપતિત હૈ અર્થાત્ એક અનન્તપ્રદેશી સ્કન્ધ દૂસરે
અનન્તપ્રદેશી સ્કન્ધ સે વર્ણાદિ કી દૃષ્ટિ સે અનન્તભાગ હીન અસંખ્યાત-
ભાગ હીન, સંખ્યાત ભાગ હીન, સંખ્યાતગુણ હીન, અસંખ્યાતગુણ હીન
હોતા હૈ । હસી પ્રકાર અધિક મ્ભી હોતા હૈ ।

ગૌતમ—હે મ્ભગવન્ ! અકાશ કે એક પ્રદેશ મેં અવગાહ પુદ્ગલોં
કે કિતને પર્યાય હેં ?

મ્ભગવાન્—હે ગૌતમ ! અનન્ત પર્યાય હેં ।

એ ધ્યાન રાખવુ જોઈ એ કે અનન્ત પ્રદેશી સ્કન્ધ પણ અવગાહનાની અપેક્ષાએ
ચતુઃસ્થાન પતિત થાય છે. પટ્સ્થાન પતિત નથી થઈ શકતા, કેમકે લોકાકાશના
અસખ્યાત પ્રદેશ જ છે અને અનન્ત પ્રદેશી સ્કન્ધ પણ અસખ્યાત પ્રદેશમા
જ અવગાહના કરે છે, તેથી જ અનન્ત ભાગ તેમજ અનન્ત ગુણહાનિ—વૃદ્ધિનો
સંભવ નથી, હા વર્ણાદિના પર્યાયોથી પટ્સ્થાન પતિત છે અર્થાત્ એક અનન્ત
પ્રદેશી સ્કન્ધ ખીજ અનન્ત પ્રદેશી સ્કન્ધથી વર્ણાદિની દૃષ્ટિએ અનન્ત ભાગહીન,
અસખ્યાત ભાગહીન સખ્યાત ભાગહીન, સખ્યાત ગુણહીન, અસખ્યાત ગુણહીન
અથવા અનન્ત ગુણહીન થાય છે, એજ પ્રકારે અધિક પણ થાય છે.

શ્રી ગૌતમસ્વામી—હે ભગવન્ ! આકાશના એક પ્રદેશમા અવગાહ પુદ્ગલોના
કેટલા પર્યાય છે ?

શ્રી ભગવાન્—હે ગૌતમ ! અનન્ત પર્યાય છે.

पञ्जवा पण्णत्ता' एक एदेशावगाढानां पुद्गलानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—'से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—एगपएसोगाढाणं पोग्गलाणं अणंता पञ्जवा पण्णत्ता ?' हे भदन्त ! तत् अथ, केनार्येन—कर्यं तावत् एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते यत्—एकप्रदेशावगाढानां पुद्गलानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'एगपएसोगाढे पोग्गले एगपएसोगाढस्स पोग्गलस्स दव्वट्टयाए तुल्ले' एक प्रदेशावगाढः पुद्गलः एक प्रदेशावगाढस्य पुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति 'पएसट्ठयाए छट्ठाणवडिए' प्रदेशार्थतया पटस्थानपतितो भवति, 'ओगाहणट्टयाए तुल्ले' अवगाहनार्थतया तुल्यो भवति, 'ठिईए चउट्ठाणवडिए, स्थित्या—अवस्थानापेक्षा, चतुःस्थानपतितो भवति, तथा च विवक्षितैकप्रदेशावगाढं परमाणादिकं द्रव्यम्, अपरैकप्रदेशावगाढं द्वि प्रदेशिकादिकं द्रव्यमिति द्रव्यार्थतया तुल्यत्वम् प्रदेशार्थतया पटस्थानपतितत्वं भवति अनन्तप्रदेशिकस्यापि स्कन्धस्य एकस्मिन् आकाशप्रदेशे—अवगाहनसंभवात् एवं स्थितिभावापेक्षया चतुःस्थानपतितत्वं भवति, 'वण्णाइ

गौतम—हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा कि एक प्रदेशावगाढ पुद्गलों के अनन्त पर्याय हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! एकप्रदेशावगाढ एक पुद्गल दूसरे एकप्रदेशावगाढ पुद्गल से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है प्रदेशों की अपेक्षा षटस्थान पतित होता है, अवगाहना से तुल्य है और स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित होता है और वर्णादि की अपेक्षा से षटस्थानपतित होता है । तात्पर्य यह है कि आकाश के एक प्रदेश में अवगाढ परमाणु भी द्रव्य है और किसी दूसरे एक प्रदेश में अवगाढ द्विप्रदेशी आदि पुद्गल भी द्रव्य हैं अतएव वे द्रव्य की दृष्टि से तुल्य हैं, मगर प्रदेशों की दृष्टि से उनमें षटस्थानपतित हानि—वृद्धि हो सकती है, क्योंकि एकप्रदेशी

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् शा कारणे एवु कलु छे के अक प्रदेशावगाढ पुद्गलाना अनन्त पर्याय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम । अक प्रदेशावगाढ अक पुद्गल भील अक प्रदेशा गाढ पुद्गलथी द्रव्यनी अपेक्षाअे तुल्य छे प्रदेशोनी अपेक्षाअे षटस्थान पतित अने छे. अवगाहनाथी तुल्य छे पणु स्थितिनी अपेक्षाअे चतुःस्थान पतित थाय छे अने वर्णादिनी अपेक्षाअे षटस्थान पतित थाय छे. तात्पर्य अे छे के आकाशना अक प्रदेशमा अवगाढ परमाणु पणु द्रव्य छे अने केअ भील प्रदेशमा अवगाढ द्विप्रदेशी आदि पुद्गल पणु द्रव्य छे, तेथी न तेअो द्रव्यनी दृष्टिअे तुल्य छे, पणु प्रदेशोनी द्रव्यअे तेअोमा षटस्थान पतित हानि—वृद्धि

उवरिल्ल चरुफासेहिं छद्वाणवडिण्' वर्णादिभिः, उपरितन चतुःस्पर्शैः शीतोष्ण-
स्निग्धरुक्षैः षट्स्थानपतितो भवति, 'एवं दुपएसोगादेवि' एवम्-तथैव-एक-
प्रदेशावगाढवदेव द्विप्रदेशावगाढोऽपि पुद्गलो वक्तव्यः, गौतमः पृच्छति-
'संखिज्जपएसोगाढाणं पुच्छ' संख्येयप्रदेशावगाढानां पुद्गलानां कियन्तः पर्ययाः
प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह-'गोयमा ! हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा
यणत्ता ?' संख्येयप्रदेशावगाढानां पुद्गलानाम् अनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ?
गौतम ! पृच्छति-'से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चड-सखेज्जपएसोगाढाणं अणता
पज्जवा पणत्ता ?' हे भदन्त ! तत्-अथ, केनाथैन-कथ तावद् एवम्-उत्तरीत्या
उच्यते यत्-संख्येयप्रदेशावगाढानां पुद्गलानामनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ? इति,
भगवान् आह-'गोयमा !, हे गौतम ! 'सखेज्जपएसोगाढस्स पोग्गलस्स दव्व-
ट्ठयाए तुल्ले' संख्येयप्रदेशावगाढस्य पुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, 'पए-

परमाणु भी एक प्रदेश में रहता है और अनन्त प्रदेशों की संख्या भी एक ही प्रदेश में रह सकता है। अतः अवगाहना से तुल्य है स्थिति की अपेक्षा से चतुःस्थानपतित होता है, वर्णादि से तथा शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष स्पर्शों से षट्स्थानपतित होता है। इसी प्रकार द्विप्रदेशावगाह से दशप्रदेशावगाह तक के पुद्गल के विषय में भी कह लेना चाहिये

गौ -हे भगवन् ! संख्यात प्रदेशों में अवगाह पुद्गलों के कितने पर्याय कहे हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं'

गौतम-हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवन्-हे गौतम ! संख्यातप्रदेशावगाह एक पुद्गल दूसरे संख्या-

यथ शके छे, केभके ओक न प्रदेशी परमाणु पणु ओक प्रदेशमां रडे छे. अने अनन्तप्रदेशी स्कन्ध पणु ओकन प्रदेशमां रडी शके छे. तेथी अवगाहनाथी तुल्य छे स्थितिनी अपेक्षाये चतुःस्थान पतित थाय छे, वर्णादिथी तथा शीत, उष्ण, स्निग्ध अने रुक्ष स्पर्शोथी षट्स्थान पतित थाय छे ओन प्रकारे द्विप्रदेशावगाहथी दश प्रदेशावगाह सुधी पुद्गलना विषयमा पणु कडेवु जेधजे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! संख्यात प्रदेशों में अवगाह पुद्गलाना कितने पर्याय कहे हैं ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं।

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! ऐसे कहने का क्या कारण है ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! संख्यात प्रदेशावगाह एक पुद्गल भी

सद्व्याए छट्टाणवडिए' प्रदेशार्थतया षट्स्थानपतितो भवति, 'ओगाहणद्वयाए दुहाणवडिए' अवगाहनार्थतया द्वि स्थानपतितो भवति, तथा च अवगाहनापेक्षया संख्येयप्रदेशावगाढः पुद्गलः संख्येयप्रदेशावगाढस्य संख्येयभाग हीनः संख्येयगुणहीनो वा भवति, संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति, 'ठिईए चउट्टाणवडिए' स्थित्या-अवस्थानापेक्षया संख्येयप्रदेशावगाढः पुद्गलः संख्येयप्रदेशावगाढस्य पुद्गलस्य असंख्येयभाग हीनो वा, संख्येयभागहीनो वा, संख्येयगुण हीनो वा असंख्येयगुणहीनो वा भवति असंख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयभागाभ्यधिको वा; संख्येयगुणाभ्यधिको वा असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवतीति भावः, 'वण्णाइउवरिल्ल चउफासेहिय छट्टाणवडिए' वर्णादिभिः उपरितनचतुःस्पर्शैश्च-शीतोष्णस्निग्धरूक्षस्पर्शपर्यवै षट्स्थानपतितो भवति तद्भिलापस्तु पूर्वोक्तरीत्याऽवगन्तव्यः, गौतमः, पृच्छति-'असंखेज्जपएसोगाढाणं

तप्रदेशावगाढ पुद्गल से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है प्रदेशों की अपेक्षा षट्स्थानपतित होता है, अवगाहना की अपेक्षा द्विस्थानपतित होता है अर्थात् संख्यातभाग हीन अथवा संख्यातगुण हीन होता है और यदि अधिक हो तो संख्यातभाग अधिक या संख्यातगुण अधिक होता है । स्थिति की अपेक्षा से चतुःस्थानपतित होता है, अर्थात् एक संख्यात प्रदेशावगाढ पुद्गल दूसरे संख्यातप्रदेशावगाढ पुद्गल से असंख्यातभाग हीन संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन अथवा असंख्यातगुण हीन होता है । यदि अधिक हो तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक अथवा असंख्यातगुण अधिक होता है । वर्णादि की अपेक्षा तथा उपर्युक्त चार स्पर्शों की अपेक्षा षट्स्थानपतित होता है ।

संख्यात प्रदेशावगाढ पुद्गलधी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्ये छे, प्रदेशानी अपेक्षाये षट्स्थान पतित थाय छे अवगाहनानी अपेक्षाये द्विस्थान पतित अने छे अर्थात् संख्यातभाग हीन, अथवा संख्यात शुष्णहीन थाय छे अने ने अधिक थायतो संख्यात भाग अधिक अगर संख्यात शुष्ण अधिक थाय छे स्थितिनी अपेक्षाये चतु स्थान पतित थाय छे, अर्थात् अने संख्यात प्रदेशावगाढ पुद्गल धीन संख्यात प्रदेशावगाढ पुद्गलधी असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात शुष्णहीन अथवा असंख्यातशुष्ण हीन थाय छे ने अधिक छेय तो असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात शुष्ण अधिक अथवा असंख्यात शुष्ण अधिक थाय छे वर्णादिनी अपेक्षाये तथा उपर्युक्त चार स्पर्शानी अपेक्षाये षट्स्थान पतित थाय छे.

पृच्छा ?' असंख्येयप्रदेशावगाढानां पुद्गलानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह—'गोयमा ! हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पणत्ता' असंख्येय-प्रदेशावगाढानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतम ! पृच्छति—'से केण-द्वेणं भंते ! एवं बुच्चइ-असंखेज्जपएसोगाढाणं अणंता पज्जवा पणत्ता?' हे भदन्त ! तत्-अथ, केनार्थेन-अथं तावद्, एवम्-उक्तगित्या, उच्यते यद्-असंख्येयप्रदेशा-वगाढानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह 'गोयमा !' हे गौतम ! 'असंखेज्जपएसोगाढे पोग्गले' असंख्येयप्रदेशावगाढः पुद्गलः 'असं-खेज्जपएसोगाढस्स पोग्गलस्स द्दव्वट्टयाए तुल्ले' असंख्येयप्रदेशावगाढस्य पुद्-गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, प्रत्येकञ्च द्रव्यमनन्तपर्यायमिति न्यायेन असं-ख्येयप्रदेशावगाढस्यापि पुद्गलस्य द्रव्यत्वेन अनन्तपर्यायसंभवात् 'पएसट्टयाए छट्ठाणवड्डिए' प्रदेशार्थतया-प्रदेशापेक्षया पट्टस्थानपतितो भवति, असंख्येय-प्रदेशावगाढस्य पुद्गलस्य अनन्तप्रदेशानामपि संभवात् 'ओगाढणट्टयाए चउ-ट्टाणवड्डिए' अवगाढनार्थतया-अवगाढनापेक्षया, चतुःस्थानपतितो भवति, असं-ख्येयप्रदेशावगाढस्य पुद्गलस्य अनन्तप्रदेशावगाढनाया असंभवात्, 'टिड्डीए चउ-

गौतम-हे भगवन् ! असंख्यात प्रदेशों में अवगाढ पुद्गलों के कितने पर्याय हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम-हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा गया कि असंख्यात प्रदेशों में अवगाढ पुद्गलों के अनन्त पर्याय हैं ?

भगवन्-हे गौतम ! असंख्यात प्रदेशों में अवगाढ एक पुद्गल दूसरे असंख्यात प्रदेशों में अवगाढ पुद्गल से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है, और प्रत्येक द्रव्य अनन्त पर्याय वाला होता है, इस न्याय से असंख्यातप्रदेशों में अवगाढ पुद्गल भी द्रव्य होने के कारण अनन्त

श्री गौतमस्वामी-हे भगवान् ! असंख्यात प्रदेशोभा अवगाढ पुद्गलोना केटवा पर्याय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवान् शा कारणे अेषुं कट्टेलु छे हे असंख्यात प्रदेशोभा अवगाढ पुद्गलोना अनन्त पर्याय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! असंख्यात प्रदेशोभा अवगाढ अेषु पुद्गल णीज असंख्यात प्रदेशोभा अवगाढ पुद्गलथी द्रव्येनी दृष्टिअे तुल्य थाय छे अने प्रत्येक द्रव्य अनन्त पर्याय वाण होय छे, अे न्याये असंख्यात प्रदेशोभा अवगाढ पुद्गल पण्ण द्रव्य होवाने कारणे अनन्त पर्याय वाणुं छे.

द्वानवडिण्' स्थित्या-अवस्थानापेक्षया, चतुःस्थानपतितो भवति, 'वृणाइ अह-
 फासेहिं छद्धानवडिण्' वर्णादिभिः, अष्ट स्पर्शैश्च षट्स्थानपतितो भवति, गौतमः
 पृच्छति-'एगसमयठिइयाणं पुच्छा' हे भदन्त ! एकसमयस्थितिकानां पुद्ग-
 लानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह-'गोयमा ! हे
 गौतम ! 'अणंता पज्जवा पणत्ता' एक समयस्थितिकानां पुद्गलानामनन्ताः
 पर्यवाः प्रज्ञप्ताः गौतमः पृच्छति-'से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ-एगसमयठिइ-
 याणं अणता पज्जवा पणत्ता ?' हे भदन्त ! तत्-अथ केनार्थेन-कथं तावद्,
 एवम्-उत्तरीत्या, उच्यते यत्-एकसमयस्थितिकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः

पर्याय वाला है। प्रदेशों की अपेक्षा वह षट्स्थानपतित होता है, क्योंकि
 असंख्यातप्रदेशावगाह पुद्गल अनन्तप्रदेशी भी हो सकता है। अव-
 गाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित होता है, क्योंकि अनन्तप्रदेशों में
 किसी पुद्गल की अवगाहना का संभव ही नहीं है, क्योंकि लोकाकाश
 के असंख्यात ही प्रदेश हैं जिनमें पुद्गलों का अवगाह है। स्थिति की
 अपेक्षा वह चतुःस्थानपतित होता है। वर्ण, गंध, रस और आठों
 स्पर्शों की अपेक्षा वह षट्स्थानपतित होता है।

एक समय की स्थिति वाले पुद्गलों की पृच्छा, अर्थात् गौतम
 प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! एक समय की स्थिति वाले पुद्गलों के
 कितने पर्याय हैं ?

भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं।

गौतम—हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा जाता है कि एक
 समय की स्थिति वाले पुद्गलों के अनन्त पर्याय हैं ?

प्रदेशोनी अपेक्षाये ते षट्स्थान पतित थाय छे केमके अनन्त प्रदेशावगाह
 पुद्गल अनन्त प्रदेशी पण् थय थके छे अवगाहनानी दृष्टिअे चतुःस्थान
 पतित थाय छे केमके अनन्त प्रदेशोभा केअि पुद्गलानी अवगाहनानी स लव
 न् नथी, केमके लोकाकाशना असंख्यात न् प्रदेश छे, वेओभा पुद्गलोनी
 अवगाह छे स्थितिनी अपेक्षाअे ते चतुःस्थान पतित थाय छे वल्लु, गंध,
 रस अने आठे स्पर्शोनी अपेक्षाअे षट्स्थान पतित थाय छे

ओक समयनी स्थितिवाणा पुद्गलोनी पृच्छा, अर्थात् गौतमस्वामी प्रश्न
 करे छे.—हे भगवन् ! ओक समयनी स्थितिवाणा पुद्गलोना केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान् उत्तर आये छे के—हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे,

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! सा कारणे अेषु कडेवाय छे के ओक
 समयनी स्थितिवाणा पुद्गलना अनन्त पर्याय छे ?

प्रज्ञप्ताः ? इति भगवान् आह—गोयमा ! हे गौतम ! 'एगसमयठिइए पोग्गले' एकसमयस्थितिकः पुद्गलः 'एगसमयठिइयस्त पोग्गलस्त दव्वट्टयाए तुल्ले' एकसमयस्थितिकस्य पुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, 'पएसट्टयाए छहाणवडिए' प्रदेशार्थतया षट्स्थानपतितो भवति, 'ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए' अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितो भवति, 'ठिइए तुल्ले' स्थित्या तुल्यो भवति, 'वण्णाड अट्टफासेहिं छट्टाणवडिए' वर्णादिभिः अष्टस्पर्शैश्च षट्स्थानपतितो भवति, 'एवं जाव दससमयठिइए' एवम्—उत्तरीत्या, यावद्-द्वित्रिचतुःपञ्च षट्सप्ताष्ट नवदशसमयस्थितिकः पुद्गलो वक्तव्यः, 'संखेज्जसमयठिइयाणं एवं चेव' संख्येयसमयस्थितिकानां पुद्गलानाम् एवञ्चैव—एकसमयस्थितिकपुद्गलवदेव वक्तव्यम्, किन्तु—'णवरं ठिइए ट्टट्टाणवडिए' नवरम्—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थित्या—अवस्थानापेक्षया द्विस्थानपतितो भवति, तथा च संख्येयभाग हीनो वा, संख्येयगुणहीनो वा, इत्येवं द्वि स्थानपतितत्वं बोध्यम्

भगवान्—हे गौतम ! एक समय की स्थिति वाला एक पुद्गल दूसरे एक समय की स्थिति वाले पुद्गल से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है, प्रदेशों की अपेक्षा षट्स्थानपतित होता है, अवगाहना से चतुःस्थानपतित और स्थिति की अपेक्षा से तुल्य होता है । वर्ण आदि से तथा आठों स्पर्शों की अपेक्षा से षट्स्थानपतित होता है ।

इसी प्रकार दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ और दस समय की स्थिति वाले पुद्गल के विषय में भी समझना चाहिए । संख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गलों की वक्तव्यता भी इसी प्रकार की कहनी चाहिए । विशेषता यह है कि स्थिति की अपेक्षा वे द्विस्थानपतित होते हैं, अर्थात् संख्यातभाग हीन अथवा संख्यातगुण

श्री भगवान्—हे गौतम ! એક સમયની સ્થિતિવાળું એક પુદ્ગલ ખીલ એક સમયની સ્થિતિવાળા પુદ્ગલથી દ્રવ્યની દૃષ્ટિએ તુલ્ય હોય છે, પ્રદેશોની અપેક્ષાએ ષટ્સ્થાન પતિત થાય છે. અવગાહનાથી ચતુઃસ્થાન પતિત અને સ્થિતિની અપેક્ષાએ તુલ્ય હોય છે. વર્ણુ આદિથી તથા આઠે સ્પર્શોની અપેક્ષાએ ષટ્સ્થાન પતિત હોય છે

એજ પ્રકારે એ, ત્રણ, ચાર, પાચ, છ, સાત, આઠ, નવ અને દશ સ્થિતિવાળા પુદ્ગલોના વિષયમા પણ સમજવું જોઈએ. સંખ્યાત સમયની સ્થિતિવાળા પુદ્ગલોની વક્તવ્યતા પણ આવી જ નાતની કહેવી જોઈએ. વિશેષાતા એ છે કે સ્થિતિની અપેક્ષાએ તેઓ દ્વિસ્થાન પતિત થાય છે, અર્થાત્ સંખ્યાત ભાગહીન અથવા સંખ્યાત શુભ્વીન થાય છે અને જો અધિક હોય

एवमेव संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा, इत्येवञ्च द्विस्थान पतितत्व भवति, 'असंखेज्जसमयठिदयाणं एवं चेव !' असंख्येयसमयस्थितिकानां पुद्गलानाम् एवञ्चैव-एकसमयस्थितिकपुद्गलवदेव वक्तव्यता वक्तव्या, किन्तु 'णवरं ठिईए चउट्टाणवडिई, नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, तदभिलापस्तु पूर्वोक्तरीत्याऽवसेयः, असंख्येयसमयस्थितिपुद्गलस्य संख्येया संख्येयभागगुणसंभवात्, गौतमः पृच्छति-'एगुणकालगाणं पुच्छा !' हे भदन्त ! एकगुणकालकानां पुद्गलानां कियन्तः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह-'गोयमा ! 'हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पण्णत्ता' एकगुणकालकानां पुद्गलानाम् अनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति-'से केणट्ठेणं भंते ! एव वुच्चइ-'एकगुणकालगाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?' हे भदन्त ! तत्-अथ, केनार्थेन-कथं तावद्, एवम् उक्तरीत्या, उच्यते यत्-एकगुणकालकानां पुद्गलानाम् अनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ? इति भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'एगुणकालए पोग्गछे, एकगुणकालकः पुद्गलः 'एकगुणकालगस्स पोग्गलस्स

हीन होते हैं और यदि अधिक हो तो संख्यातभाग अधिक या संख्यातगुण अधिक होते हैं ।

असंख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गलों का कथन भी इसी प्रकार है, परन्तु स्थिति की अपेक्षा वह चतुःस्थानपतित होते हैं, क्योंकि असंख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गलों की स्थिति में अधिक से अधिक असंख्यातभाग या असंख्यातगुण हानिवृद्धि ही हो सकती है ।

गौतम-हे भगवन् ! एक गुण काले पुद्गलों के कितने पर्याय हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम-है भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा है ?

भगवान्-हे गौतम ! एक गुण काला एक पुद्गल दूसरे एक गुण

तो सभ्यात भाग अधिक अगरे सभ्यात शुष्प अधिक थाय छे.

सभ्यात समयनी स्थितिवाणा पुद्गलानु कथन पण्ण अेव प्रकारे छे परन्तु स्थितिनी अपेक्षाअे ते अतुस्थान पतित थाय छे, केमके असभ्यात समयनी स्थितिवाणा पुद्गलानु स्थितिमा अधिकथी अधिक सभ्यात भाग वा असभ्यात शुष्पहानि-वृद्धि न थठ शके छे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! अेक शुष्पकाणा पुद्गलानु केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् शा कारणे अेम कल्लु छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अेक शुष्प काणु अेक पुद्गल भाणु अेक शुष्प काणा

द्वन्द्वयाए तुल्ये' एकगुणकालकस्य पुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, 'पए-सद्वायाए छट्टाणवडिए' प्रदेशार्थतया पटस्थानपतितो भवति, 'ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए' अवगाहनार्थतया-अवगाहनापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, 'ठिईए चउट्टाणवडिए' स्थित्या-अवस्थानापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति 'काल-वण्णपज्जवेहि तुल्ये' कृष्णवर्णपर्यवैस्तुल्यो भवति उभयोरपि कृष्णवर्णपर्याय सद्भावात्, 'अवसेसेहि वण्णगंधरसफासपज्जवेहि छट्टाणवडिए' अवशेषैः वर्णगंधरस-स्पर्शपर्यवैः पटस्थानपतितो भवति, 'एवं जाव दसगुणकालए, एवम्-पूर्वोक्तरीत्या, यावद् द्वित्रि चतुःपञ्च पट्सप्ताष्ट नवदशगुणकालकः पुद्गलो वक्तव्यः, 'संखेज्ज-गुणकालएवि एत्तं चेव, संख्येयगुणकालकोऽपि पुद्गलः एवञ्चैव-एकगुणकालक-वदेवावसेयः, किन्तु 'णवरं सट्टाणे दुट्टाणवडिए, नवरं-पूर्वापेक्षया विशेषतस्तु स्वस्थाने-स्वस्थानापेक्षया द्विस्थानपतितो भवति, तथा च सरयेयभागदीनो वा संख्येयगुणहीनो वा इत्येव द्विस्थानपतितत्वं भवति, एवमेव संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति इत्येवञ्च द्विस्थानपतितत्वं बोध्यम्,

काले पुद्गल से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है, प्रदेशो की दृष्टि से षट्स्थानपतित होता है, अवगाहना से चतुःस्थानपतित होता है स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित होता है कृष्ण वर्ण के पर्यायो से तुल्य होता है, क्योंकि दोनों में कृष्ण वर्ण का एक-एक गुण अर्थात् अंश ही पाया जाता है। शेष वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है। इसी प्रकार दशगुण काले तक के पुद्गल के विषय में भी समझ लेना चाहिए। संख्यातगुण काले पुद्गल का कथन भी इसी प्रकार करना चाहिए, परन्तु विशेषता यह कि उसे स्वस्थान में द्विस्थापित कहना चाहिए, अर्थात् या तो संख्यातभाग हीन कृष्ण होता है अथवा संख्यातगुण कृष्ण होता है, यदि अधिक हो

पुद्गलथी द्रव्यनी दृष्टिञ्चे तुल्य थाय छे. प्रदेशोनी दृष्टिञ्चे षट्स्थान पतित थाय छे अवगाहनाथी चतुःस्थान पतित थाय छे, स्थितिनी अपेक्षाञ्चे चतुःस्थान पतित थाय छे, कृष्णवर्णना पर्यायोथी तुल्य होय छे, केमके जन्नेमां कृष्णवर्णना जेक जेक शुष्ण अर्थात् अश न मणी आवे छे शेष वर्ण, गंध, रस अने स्पर्शना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे. जेन प्रकारे दश शुष्ण काणा सुधीना पुद्गलोना विषयमा पणु समञ्ज लेवु जेधञ्चे सञ्ख्यातशुष्ण काणा पुद्गलतु कथन पणु आन प्रकारे करवु जेधञ्चे, परन्तु विशेषता जे छे तेने स्वस्थानमा द्विस्थान पतित कडेवु जेधञ्चे, अर्थात् अगर तो सञ्ख्यात भागहीन कृष्ण होय छे अथवा सञ्ख्यात शुष्ण कृष्ण होय छे. जे अधिक होय

‘एवं असंखिज्जगुणकालएवि’ एवम्—एकगुणकालकवदेव असंख्येयगुणकाल-
कोऽपि पुद्गलो वक्तव्यः किन्तु—‘णवरं सट्ठाणे चउट्ठाणवडि’ नवरम्—पूर्वापेक्षया
विशेषस्तु स्वस्थाने चतुस्थानपतितो भवति, संख्यातासंख्यातभागगुणहानि वृद्धि-
संभवात्, ‘एवं अणंतगुणकालए वि’ एवम् एकगुणकालक पुद्गलकवदेव अनन्त-
गुणकालकोऽपि पुद्गलो वक्तव्यः किन्तु ‘णवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए’ नवरम् पूर्वा-
पेक्षया विशेषस्तु स्वस्थाने—स्वस्थानापेक्षया षट्स्थानपतितो भवति अनन्तगुणकालक
पुद्गलस्य अनन्तासंख्यातसंख्यातभागगुणहानिवृद्धिसंभवात् ‘एवं जहा काल-
वण्णस्स वत्तव्वया भणिया तथा सेसाणवि वण्णगंधरसफासाणं वत्तव्वया भाणियव्वा
जाव अणंतगुणलुक्खे’ एवम्—पूर्वोक्तरीत्या यथा कृष्णवर्णस्य वक्तव्यता भणिता
तथा शेषाणामपि वर्णगन्धरसस्पर्शानां वक्तव्यता भणितव्या यावद्—लोहित
हरित पीतशुक्लवर्णादीनाम् एकादि—अनन्तगुणरूपपर्यन्तानां वक्तव्यता
वक्तव्येत्याशयः ॥सूत्र०१३॥

तो संख्यातभागगुण अधिक अथवा असंख्यातगुण अधिक होता है ।
इसी प्रकार असंख्यातगुण काले पुद्गल के संबंध में भी कहना चाहिए ।
किन्तु उसमें विशेषता यह है कि वह स्वस्थान में चतुःस्थानपतित होता
है । अनन्तगुण काले पुद्गल की वक्तव्यता भी ऐसी ही है, परन्तु उसमें
विशेषता यह है कि वह स्वस्थान में अर्थात् कृष्ण वर्ण की अपेक्षा षट्-
स्थानपतित हीनाधिक होता है क्योंकि अनन्त गुण काले एक पुद्गल में
दूसरा अनन्त गुण काला पुद्गल अनन्तभागहीन, असंख्यातभाग हीन,
संख्यातभाग हीन संख्यातगुण हीन, असंख्यात गुण हीन और
अनन्तगुण हीन हो सकता है और यदि अधिक हो तो इसी प्रकार
अधिक भी हो सकता है । जैसे कृष्ण वर्ण की वक्तव्यता कही, वैसे

तो सभ्यात लाग अधिक अथवा सभ्यात शुष् अधिक होय छे अे प्रकारे
असभ्यात शुष् काणा पुद्गलना सम्बन्धमा पष् कडेवु लोभये. किन्तु तेमा
विशेषता अे छे के ते स्वस्थानमा चतु स्थान पतित थाय छे. अनन्त शुष्
शुष् काणा पुद्गलनी वक्तव्यता पष् अेवी न छे, परन्तु तेमा विशेषता अे
छे के ते स्वस्थानमा अर्थात् कृष्ण वर्णनी अपेक्षाअे षट्स्थान पतित हीनाधिक
थाय छे, केमके अनन्त शुष् काणा अेक पुद्गलमा भील अनन्त शुष् काणा
पुद्गल अनन्त लागडीन, असभ्यात लागडीन, सभ्यात लागडीन, सभ्यात
शुष्डीन, असभ्यात शुष्डीन अने अनन्त शुष्डीन थध शके छे—अने लो
अधिक होय तो अे नारे प्रकारे अधिक पष् थध शके छे, नेम कृष्ण वर्णनी

मूलम्—जहन्नोगाहणगाणं भंते ! दुपएसियाणं पुच्छा,
 गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—
 जहण्णोगाहणगाणं दुपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?
 गोयमा ! जहण्णोगाहणए, दुपएसिए खंधे जहण्णोगाहणस्स
 दुपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए तुल्ले,
 ओगाहणट्टयाए तुल्ले ठिईए चउट्टाणवडिए, कालवण्ण-
 पज्जवेहिं छट्टाणवडिए; सेस वण्णगंधरसपज्जवेहिं छट्टाण-
 वडिए, सीयउसिणणिद्धल्लुक्खफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए,
 उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव, अजहण्णमणुक्कोसोगाहणओ
 नत्थि जहण्णोगाहणयाणं भंते ! तिपएसियाणं पुच्छा, गोयमा !
 अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जह-
 ण्णोगाहणगाणं तिपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?
 गोयमा ! जहा दुपएसिए जहण्णोगाहणए, उक्कोसोगाहणए
 वि एवं चेव, एवं अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि, जहण्णोगा-
 हणयाणं भंते ! चउपएसियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहा जहन्नो-
 गाहणए दुपएसिए तथा जहण्णोगाहणए चउप्पएसिए, एवं
 जहा उक्कोसोगाहणए दुपएसिए तथा उक्कोसोगाहणए चउप्पए
 सिए, वि, एवं अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि चउप्पएसिए,
 णवरं ओगाहणट्टयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए,
 जइ हीणे पएसहीणे, अह अब्भहिए पएस अब्भहिए । एवं
 जाव दस पएसिए णेयव्वं, णवरं अजहमणुक्कोसोगाहणए पएस

ही शेष वर्णों की गंधों की, रसों की और स्पर्शों की भी समझ लेनी चाहिए, यावत् अनन्तगुण रूक्ष तक इसी प्रकार कहना चाहिए ॥१३॥

वक्रतव्यता कडी तेवी व शेषवर्णानी, ग धोनी, रसोनी अने स्पर्शोनी पणु समल्ल
 देवी नेधेये यावत् अनन्त शुष्क रूक्ष सुधी अे प्रकारे कडेवु' नेधे अे ॥ १३ ॥

परिवुद्धी कायवा, जात्र दस पएसियस्स सत्त पएसा परि-
वड्ढिज्जंति, जहण्णोगाहणगाणं भंते ! संखेज्जपएसियाणं
पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता ? से केणट्ठेणं भंते !
एवं वुच्चइ—जहण्णोगाहणगाणं संखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा
पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए संखेज्जपएसिए जहण्णो-
गाहणगस्स संखिज्जपएसियस्स दब्बट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए
दुट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए तुल्ले, ठिईए चउट्टाणवडिए,
वण्णाइचउफासपज्जवेहि य छट्टाणवडिए, एवं उक्कोसोगाहणए
वि, अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव, नवरं सट्टाणे
दुट्टाणवडिए, जहण्णोगाहणगाणं भंते ! असंखिज्जपएसियाणं
पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्ठेणं भंते ! एवं
वुच्चइ—जहण्णोगाहणगाणं असंखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा
पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए असंखिज्जपएसिए खंधे
जहण्णोगाहणगस्स असंखिज्जपएसियस्स खंधस्स दब्बट्टयाए
तुल्ले, पएसट्टयाए, चउट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए, तुल्ले
ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णाइउवरिह्छ फासेहि य छट्टाणवडिए
एवं उक्कोसोगाहणए वि, अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं
चेव, नवरं सट्टाणे चउट्टाणवडिए, जहण्णोगाहणगाणं भंते !
अणंतपएसियाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता ?
से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—जहण्णोगाहणगाणं अणंतपए-
सियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए
अणंतपएसिए खंधे जहण्णोगाहणगस्स अणंतपएसियस्स खंध
स्स दब्बट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहण-
ट्टयाए तुल्ले, ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णाइउवरिह्छ चउफा-
सेहि छट्टाणवडिए, उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव, नवरं ठिईए

वि तुल्ले, अजहणमणुक्कोसोगाहणगाणं भंते । अणंतपएसि-
याणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्टेणं भंते ।
एवं बुच्चइ-अजहणमणुक्कोसोगाहणगाणं अणंतपएसियाणं
अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अजहणमणुक्कोसोगाहणए
अणंतपएसिए खंधे अजहणमणुक्कोसोगाहणगस्स अणंतपए-
सियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए,
ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए वण्णाइ
अट्टासेहिं छट्टा गवडिए, जहण्णठिइयाणं भंते ! परमाणुपोग्गलाणं
पुच्छा, गोयमा ' जहण्णठिइयाणं परमाणुपुग्गलाणं अणंता पज्जवा
पणत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णठिइयाणं परमाणु-
पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णठिइए पर-
माणुपोग्गले जहण्णठिइयस्स परमाणुपोग्गलस्स दव्वयाए तुल्ले,
पएसट्टयाए तुल्ले, ओगाहणट्टयाए तुल्ले, ठिईए तुल्ले, वण्णाइ-
दुफासेहिं य छट्टाणवडिए, एवं उक्कोसठिइए वि, अजहणमणु-
क्कोसठिइए वि एवं चेत्र, नवरं ठिईए चउट्टाणवडिए, जहण-
ठिइयाणं दुपएसियाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा
पणत्ता, से केणट्टेणं गोयमा ! बुच्चइ-जहण्णठिइयाणं दुपए-
सियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णठिइए दुप-
एसिए जहण्णठिइयस्स दुपएसियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले, पएस-
ट्टयाए तुल्ले, ओगाहणट्टयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भ-
हिए, जइ हीणे पएसहीणे, अह अब्भहिए, पएसअब्भहिए,
ठिईए तुल्ले, वण्णाइ चउफासेहिं य छट्टाणवडिए, एवं उक्कोस-
ठिइए वि. अजहणमणुक्कोसठिइए वि एवं चेत्र नवरं ठिईए
चउट्टाणवडिए, एवं जाव दस पएसिए, नवरं पएसपरिवुड्डी
कायव्वा, ओगाहणट्टयाए तिसुवि गमएसु जाव दस पएसिए एवं
पएसो परिवड्डीज्जंति, जहण्णठिइयाणं भंते ! संखेज्जपएसियाणं

पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्ठेणं भंते ! एवंबुच्चइ—जहण्णठिइयाणं संखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णठिइए संखेज्जपएसिए खंधे जहण्णठिइयस्स संखिज्जपएसियस्स खंधस्स दब्बट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए दुट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए दुट्टाणवडिए, ठिईए तुल्ले, वण्णाइ चउफासेहि य छट्टाणवडिए, एवं उक्कोसठिइए वि अजहण्णमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव, नवरं ठिईए चउट्टाणवडिए, जहण्णठिइयाणं असंखेज्जपएसियाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णठिइयाणं असंखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णठिईए असंखेज्जपएसिए जहण्णठिइयस्स असंखेज्जपएसियस्स दब्बट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए चउट्टाणवडिए ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए तुल्ले वण्णाइ उवरिल्ल चउफासेहि य छट्टाणवडिए, एवं उक्कोसठिइए वि, अजहण्णमणुक्कोसठिईए एवं चेव, णवरं ठिईए चउट्टाणवडिए, जहण्णठिइयाणं अणंतपएसियाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णठिइयाणं अणंतपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णठिइयस्स अणंतपएसियस्स दब्बट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए तुल्ले, वण्णाइ अट्टाफासेहि य छट्टाणवडिए, एवं उक्कोसठिइए वि, अजहण्णमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव, नवरं ठिइए, चउट्टाणवडिए, ॥सू० १४॥

द्विप्रदेशिकादि वक्तव्यता

शब्दार्थ—(जहण्णोगाहणगाणं भंते ! दुपएसियाणं पुच्छा ?) हे भग-

द्विप्रदेशिक आदि वक्तव्यता

शब्दार्थ—(जहण्णोगाहणगाणं भंते ! दुपएसियाणं पुच्छा) हे भगवन् वक्तव्य

छाया-जघन्यावगाहनकानां भदन्त ! द्विप्रदेशिकानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त, एवमुच्यते-जघन्यावगाहनको द्विप्रदेशिकः स्कन्धो जघन्यावगाहनरसस्य द्विप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया तुल्यः अवगाहनार्थतया तुल्यः, स्थित्या चतुस्थानपतितः कृष्णवर्णपर्यवैः पटस्थानपतितः शेषवर्णगन्धरसपर्यवैः पटस्थानपतितः, शीतोष्णस्निग्ध रूक्ष स्प-

वन् ! जघन्य अवगाहना वाले द्विप्रदेशी पुद्गलों के संबंध में प्रश्न ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ-जहण्णोगाहणगाणं दुपएसियाणं अणता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा गया है कि जघन्य अवगाहना वाले द्विप्रदेशी पुद्गलों के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा ! जहण्णोगाहणए दुपसिए खंधे जहण्णोगाहणस्स दुपएसियस्स खंधस्स दव्यट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाला द्विप्रदेशी स्कंध जघन्य अवगाहना वाले द्विप्रदेशी स्कंध से द्रव्य को दृष्टि से तुल्य है (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है (ओगाहणट्टयाए तुल्ले) अवगाहना की अपेक्षा तुल्य है (ठिईए चउट्टाणवडिए स्थिति से चतुःस्थानपतित है (कालवण्णपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) काले वर्ण के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है (सेसवण्णगंधरस पज्जवेहिं छट्टाणवडिए) शेष वर्ण, गंध, रस के पर्यायों से षट्स्थानपतित (सीय-उसिण-णिद्ध-लुक्खफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष स्पर्शों से षट्स्थानपतित होता है

अवगाहनावाणा द्विप्रदेशी पुद्गलेना सम्बन्धमा प्रश्न ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भते ! एव वुच्चइ-जहण्णोगाहणगाणं दुपएसियाणं अणता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! शा कारणे अणु कहुं के जघन्य अवगाहनावाणा द्विप्रदेशी पुद्गलेना अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णोगाहणए दुपसिए खंधे जहण्णोगाहणस्स दुपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाणा द्विप्रदेशी स्कन्ध जघन्य अवगाहनावाणा द्विप्रदेशी स्कन्धो द्रव्यानी दृष्टिये तुल्ये छे (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशोनी अपेक्षाये तुल्ये छे (ओगाहणट्टयाए तुल्ले) अवगाहनानी अपेक्षाये तुल्ये छे (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी अतु स्थान पतित छे (कालवण्णपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) काला वरुणा पर्यायथी षट्स्थान पतित थाय छे (सेसवण्णगंधरसपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) शेष वरुण, गंध, रसना पर्यायोथी षट्स्थान पतित थाय छे (सीय उसिण णिद्ध लुक्खफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) शीत, उष्ण, स्निग्ध अने रूक्ष स्पर्शोथी षट्स्थान पतित थाय छे (से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-

शंपर्यवैः पदस्थानपतितः तत् तेनार्थेन गौतम ! एवम् उच्यते—जघन्यावगाहनकानां द्विप्रदेशिकानां पुद्गलानां अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, उत्कृष्टावगाहनकोऽपि एवञ्चैव अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनको नास्ति जघन्यावगाहनकानां भदन्त ! त्रिप्रदेशिकानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यावगाहनकानां त्रिप्रदेशिकानामनन्ताः पर्यवाः, प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! यथा द्विप्रदेशिको जघन्यावगाहनकः, उत्कृष्टावगाहनकोऽपि एवञ्चैव, एवं अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकोऽपि, जघन्यावगाहनकानां भदन्त ! चतुः प्रदेशी

(से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ—जहण्णोगाहणयाणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता) इस कारण से हे गौतम ! ऐसा कहा है कि जघन्य अवगाहना वाले पुद्गलों के अनन्त पर्याय हैं

(उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव) उत्कृष्ट अवगाहना वाला भी ईसी प्रकार (अजहण्णमणुक्कोसोगाहणओ नत्थि) मध्यम अवगाहना वाला द्विप्रदेशी स्कंध नहीं होता

(जहण्णोगाहणयाणं भंते ! तिपएसियाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले त्रिप्रदेशी पुद्गलों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णोगाहणयाणं तिपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) किस कारण से हे भगवन् ! ऐसा कहा है कि जघन्य अवगाहना वाले त्रिप्रदेशी पुद्गलों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहा दुपएसिए जहण्णोगाहणए उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव) हे गौतम ! जैसे जघन्य अवगाहना वाला द्विप्रदेशी वैसा ही जघन्य अवगाहना वाला और

जहण्णोगाहणयाणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) ओ कारुथी डे गौतम ! ओपुं क्खु छे डे जघन्य अवगाहनावाणा पुद्गलेाना अनन्त पर्याय छे (उक्कोसोगाहणए वि एव चेव) उत्कृष्ट अवगाहनावाणा पणु ओ प्रकारे (अजहण्णमणुक्कोसोगाहणओ नत्थि) मध्यम अवगाहना वाणा द्विप्रदेशी स्कंध नहीं होता

(जहण्णोगाहणयाणं भंते ! तिपएसियाणं पुच्छा ?) डे भगवन् ! जघन्य अवगाहनावाणा त्रिप्रदेशी पुद्गलेाना पृच्छा (गोयमा ! अणता पज्जवा पणत्ता) डे गौतम ! अनन्त पर्याय क्खु छे (से केणट्टेणं भंते ! एव बुच्चइ जहण्णोगाहणयाणं तिपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) शा कारुथे डे भगवन् ! ओपुं क्खु छे डे जघन्य अवगाहनावाणा त्रिप्रदेशी पुद्गलेाना अनन्त पर्याय क्खु छे ? (गोयमा ! जहा दुपएसिए जहण्णोगाहणए उक्कोसोगाहणए वि एव चेव) डे गौतम ! जेम जघन्य अवगाहनावाणा द्विप्रदेशी तेमज्ज जघन्य अवगाहना वाणा अने उत्कृष्ट अव-

कानां पृच्छा, गौतम ! यथा जघन्यावगाहनको द्विप्रदेशिकस्तथा जघन्यावगाहन-
कश्चतुः प्रदेशिकः एवं यथा उत्कृष्टावगाहनको द्विप्रदेशिकस्तथा उत्कृष्टावगाहन-
कश्चतुः प्रदेशिकोऽपि, एवम्—अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकोऽपि चतुःप्रदेशिकः, नव-
रम् अवगाहनार्थतया स्याद्हीनः, स्यात् तुल्यः, स्याद्भ्यधिकः, यदा हीनः प्रदेश
हीनः, अथाभ्यधिकः प्रदेशाभ्यधिकः, एवं यावद् दशप्रदेशितो ज्ञातव्यः, नवरम्

उत्कृष्ट अवगाहना वाला त्रिप्रदेशी (एवं अजहणमणुकोसोगाहणए
वि) इसी प्रकार मध्यम अवगाहना वाला भी

(जहणोगाहणयाणं भंते ! चउपसियाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य
अवगाहना वाले चौप्रदेशी के पर्यायों के विषय में प्रश्न ? (गोयमा !
जहा जहणोगाहणए दुपएसिए तथा चउप्पएसिए) हे गौतम ! जैसे
जघन्य अवगाहना वाला द्विप्रदेशी उसी प्रकार चतुःप्रदेशी (एवं जहा
उक्कोसोगाहणए दुपएसिए तथा उक्कोसोगाहणए वउप्पएसिए वि) इस
प्रकार जैसा उत्कृष्ट अवगाहना वाला द्विप्रदेशी वैसा उत्कृष्ट अवगाहना
वाला चतुःप्रदेशी (एवं अजहणमणुकोसोगाहणए वि चउप्पएसिए)
इसी प्रकार मध्यम अवगाहना वाला चौप्रदेशी भी (नवरं ओगा-
हणद्वयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए) विशेष यह कि
अवगाहना से कदाचित् हीन, कदाचित् तुल्य और कदाचित् अधिक
होता है (जइ हीणे पएसहीणे) यदि हीन हो तो प्रदेशहीन (अह
अब्भहिए पएसअब्भहिए) अगर अधिक हो तो प्रदेशाधिक (एवं जाव
दसपएसिए णेयव्वं) इस प्रकार यावन् दशप्रदेशी समझना चाहिए

गाहना वाला त्रिप्रदेशी (एवं अजहणमणुकोसोगाहणए वि) ओए रीते मध्यम
अवगाहना वाला पथु

(जहणोगाहणयाणं भंते ! चउपसियाणं पुच्छा) हे भगवन् ! जघन्य अव-
गाहनावाला चार प्रदेशीना पर्यायिना विषयमा प्रश्न ? (गोयमा ! जहा
जहणोगाहणए दुपएसिए तथा चउप्पएसिए) हे गौतम ! जेभ जघन्य अवगा-
हनावाला द्विप्रदेशी ओए रीते चतुःप्रदेशी (एव जहा उक्कोसोगाहणए चउप्प-
एसिए वि) ओ रीते जेभ उत्कृष्ट अवगाहनावाला द्विप्रदेशी तेभए उत्कृष्ट अव-
गाहना वाला चतुःप्रदेशी (एवं अजहणमणुकोसोगाहणए वि चउप्पएसिए) ओ
रीते मध्यम अवगाहनावाला चार प्रदेशी पथु (नवर ओगाहणद्वयाए सिय हीणे
सिय तुल्ले सिय अब्भहिए) विशेष ओ के अवगाहनाथी कदाचित् हीन, कदाचित्
तुल्य अने कदाचित् अधिक थाय छे (जइ हीणे पएसहीणे) ओ हीन होय तो
प्रदेश हीन (अह अब्भहिए पएस अब्भहिए) अगर अधिक तो प्रदेशाधिक (एवं

—अनघन्यानुत्कृष्टावगाहनके प्रदेशपरिवृद्धिः कर्त्तव्या यावद् दशप्रदेशिकस्य सप्त-
प्रदेशाः परिवर्द्धिष्यन्ते जघन्यावगाहनकानां भदन्त ! संख्येयप्रदेशिकानां पृच्छा,
गौतम ! अनन्ताः, पर्यवाः प्रज्ञप्ताः तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यावगाह-
नकानां संख्येयप्रदेशीकानां अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ! गौतम ! जघन्यावगाहनकः
संख्येयप्रदेशिको जघन्यावगाहनकस्य संख्येयप्रदेशिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदे-
शार्थतया द्विस्थानपतितः अवगाहनार्थतया तुल्यः स्थित्या चतुःस्थानपतितः,

(णवरं अजहण्णुक्कोसोगाहणए पएसवुद्धी कायव्वा) विशेष यह कि
मध्यम अवगाहना वाले में एक-एक प्रदेश की वृद्धि करना चाहिए
(एवं जाव दसपएसियस्स सत्तपएसा परिवद्धिज्जंति) इस प्रकार
यावत् दशप्रदेशी के सात प्रदेश बढ़ते हैं

(जहण्णोगाहणगाणं भंते ! संखेज्जपएसियाणं पुच्छा ?) हे भगवन् !
जघन्य अवगाहना वाले संख्यात प्रदेशी पुद्गलों की पृच्छा ? (गोयमा !
अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं
भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णोगाहणगाणं संखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा
पण्णत्ता ?) किसकारण से हे भगवन् ! ऐसा कहा है कि जघन्य अवगा-
हना वाले संख्यात प्रदेशी पुद्गलों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा !
जहण्णोगाहणए संखेज्जपएसिए जहण्णोगाहणगस्स संखिज्जपएसियस्स
द्व्वट्ठयाए तुल्ले) हे गौतम जघन्य अवगाहना वाला एक संख्यात
प्रदेशी पुद्गल दूसरे जघन्य अवगाहना वाले संख्यात प्रदेशी पुद्गल

जाव दस पएसिए णेयव्व) से प्रकारे यावत् दश प्रदेशी समन्वा नेधंसे
(णवरं अजहण्णुक्कोसोगाहणए पएसवुद्धी कायव्वा) विशेष से के मध्यम अव-
गाहना वाणाभा सेक सेक प्रदेशनी वृद्धि करवी नेधंसे (एवं जाव दसपएसि-
यस्स सत्त पएसा परिवद्धिज्जंति) से रीते यावत् दश प्रदेशीना सात प्रदेश वधे से
(जहण्णोगाहणगाणं भंते ! संखेज्जपएसियाणं पुच्छा ?) हे भगवन् जघन्य अव-
गाहनावाणा संख्यात प्रदेशी पुद्गलाना पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा
पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे से (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णो-
गाहणगाणं संखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता) शा कारणे हे भगवन् ! सेपुं
कहे से के जघन्य अवगाहनावाणा संख्यात प्रदेशी पुद्गलाना अनन्त पर्याय
कहे से ? (गोयमा ! जहण्णोगाहणए संखेज्जपएसिए जहण्णोगाहणगस्स संखिज्ज-
पएसियस्स द्व्वट्ठयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य अवगाहनावाणा सेक संख्यात
प्रदेशी पुद्गल नील जघन्य अवगाहनावाणा संख्यात प्रदेशी पुद्गलाना नील
दृष्टिसे तुल्य से (पएसट्ठयाए दुट्ठाणवड्ढिणं) प्रदेशीनी दृष्टिसे द्विस्थान पतित

वर्णादिभिश्चतुः स्पर्शपर्यवैश्व षट्स्थानपतितः एवं उत्कृष्टावगाहनकोऽपि, अजन्यानुत्कृष्टावगाहनकोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने द्विस्थानपतितः, जघन्यावगाहनकानां भदन्त ! असंख्येयप्रदेशिकानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते जघन्यावगाहनकानामसंख्येयप्रदेशिकानामनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः गौतम ! जघन्यावगाहनकः असंख्येयप्रदेशिकः स्कन्धो जघन्यावगाहनकस्य असंख्येयप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया चतुः

से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है (पएसद्वयाए दुट्टाणवडिए) प्रदेशों की दृष्टि से द्विस्थानपतित (ओगाहणद्वयाए तुल्ले) अवगाहना की अपेक्षा से तुल्य (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थान पतित (वण्णाइ चउफासपज्जवेहिय छट्टाणवडिए) वर्णादि से तथा चार स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित (एवं उक्कोसोगाहणए वि इसी प्रकार उत्कृष्ट अवगाहना वाला भी (अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव) मध् अवगाहना वाला भी इसी प्रकार (णवरं सट्टाणे दुट्टाणवडिए) विशेष यह कि स्वस्थान में वह द्विस्थानपतित है

(जहण्णोगाहणगाणं भंते ! असंखिज्जपएसियाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले असंख्यात प्रदेशी स्कंधों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भते ! एवं बुच्चइ-जहण्णोगाहणगाणं असंखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा कि जघन्य अवगाहना वाले असंख्यातप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णोगाहणए असंखिज्जपएसिए खंधे जहण्णोगाह-

(ओगाहणद्वयाए तुल्ले) अवगाहना की अपेक्षा से तुल्य (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित (वण्णाइ चउफासपज्जवेहिय छट्टाणवडिए) वर्णादि से तथा चार स्पर्शों के पर्यायों से षट्स्थान पतित (एवं उक्कोसोगाहणए वि) के प्रकार उत्कृष्ट अवगाहनावाला पण्णु (अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव) मध्यम अवगाहनावाला पण्णु आ प्रकारे (णवरं सट्टाणे दुट्टाणवडिए) विशेष से के स्वस्थान में द्विस्थान पतित है।

(जहण्णोगाहणगाणं भंते ! असंखिज्जपएसियाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य अवगाहनावाला असंख्यात प्रदेशी स्कंधों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भते ! एवं बुच्चइ-जहण्णोगाहणगाणं असंखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता) हे भगवन् ! इस कारण से कहा कि जघन्य अवगाहनावाला असंख्यात प्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णोगाहणए असंखिज्जपएस-

—अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनके प्रदेशपरिवृद्धिः कर्त्तव्या यावद् दशप्रदेशिकस्य सप्त प्रदेशाः परिवर्द्धिष्यन्ते जघन्यावगाहनकानां भदन्त ! संख्येयप्रदेशिकानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः, पर्यवाः प्रज्ञप्ताः तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यावगाहनकानां संख्येयप्रदेशीकानां अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ! गौतम ! जघन्यावगाहनकः संख्येयप्रदेशिको जघन्यावगाहनकस्य संख्येयप्रदेशिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया द्विस्थानपतितः अवगाहनार्थतया तुल्यः स्थित्या चतुःस्थानपतितः,

(गवरं अजहण्णुक्कोसोगाहणए पएसबुद्धी कायव्वा) विशेष यह कि मध्यम अवगाहना वाले में एक-एक प्रदेश की वृद्धि करना चाहिए (एवं जाव दसपएसियस्स सत्तपएसा परिवद्धिज्जन्ति) इस प्रकार यावत् दशप्रदेशी के सात प्रदेश बढते हैं

(जहण्णोगाहणगाणं भंते ! संखेज्जपएसियाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले संख्यात प्रदेशी पुद्गलों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णोगाहणगाणं संखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) किसकारण से हे भगवन् ! ऐसा कहा है कि जघन्य अवगाहना वाले संख्यात प्रदेशी पुद्गलों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णोगाहणए संखेज्जपएसिए जहण्णोगाहणगस्स संखिज्जपएसियस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले) हे गौतम जघन्य अवगाहना वाला एक संख्यात प्रदेशी पुद्गल दूसरे जघन्य अवगाहना वाले संख्यात प्रदेशी पुद्गल

जाव दस पएसिए णेयव्व) એ પ્રકારે યાવતૂ દશ પ્રદેશી સમજવા બેઠએ (ગવર અજહણ્ણુક્કોસોગાહણે પસબુદ્ધી કાયવ્વા) વિશેષ એ કે મધ્યમ અવગાહના વાળામાં એક એક પ્રદેશના વૃદ્ધિ કરવી બેઠએ (એવં જાવ દસપસિયસ્સ સત્ત પપસા પરિવદ્ધિજ્જન્તિ) એ રીતે યાવતૂ દશ પ્રદેશીના સાત પ્રદેશ વધે છે (જહણ્ણોગાહણગાણં ભંતે ! સંખેજ્જપસિયાણં પુચ્છા ?) હે ભગવન્ જઘન્ય અવગાહનાવાળા સખ્યાત પ્રદેશી પુદ્ગલોની પૃચ્છા ? (ગોયમા ! અણંતા પજ્જવા પણત્તા) હે ગૌતમ ! અનન્ત પર્યાય કહ્યા છે (સે કેણટ્ઠેણં ભંતે ! એવ બુચ્ચઈ—જહણ્ણોગાહણગાણં સંખેજ્જપસિયાણં અણંતા પજ્જવા પણત્તા) શા કારણે હે ભગવન્ ! એવુ કહ્યુ છે કે જઘન્ય અવગાહનાવાળા સખ્યાત પ્રદેશી પુદ્ગલોના અનન્ત પર્યાય કહ્યા છે ? (ગોયમા ! જહણ્ણોગાહણે સંખેજ્જપસિએ જહણ્ણોગાહણસ્સ સંખિજ્જપસિયસ્સ દવ્વટ્ઠયાએ તુલ્લે) હે ગૌતમ ! જઘન્ય અવગાહનાવાળા એક સખ્યાત પ્રદેશી પુદ્ગલ બીજા જઘન્ય અવગાહનાવાળા સખ્યાત પ્રદેશી પુદ્ગલોથી દ્રવ્યની દૃષ્ટિએ તુલ્ય છે (પસદ્ઢયાએ દુદ્ધાણવદ્ધિએ) પ્રદેશોની દષ્ટિએ દ્વિસ્થાન પતિત

वर्णादिभिश्चतुः स्पर्शपर्यवैश्व परस्थानपतितः एवं उत्कृष्टावगाहनकोऽपि, अजन्यानुत्कृष्टावगाहनकोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने द्विस्थानपतितः, जघन्यावगाहनकानां भदन्त ! असंख्येयप्रदेशिकानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते जघन्यावगाहनकानामसंख्येयप्रदेशिकानामनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः गौतम ! जघन्यावगाहनकः असंख्येयप्रदेशिकः स्कन्धो जघन्यावगाहनकस्य असंख्येयप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया चतुः

से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है (पएसद्वयाए दुट्टाणवडिए) प्रदेशों की दृष्टि से द्विस्थानपतित (ओगाहणद्वयाए तुल्ले) अवगाहना की अपेक्षा से तुल्य (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थान पतित (वण्णाइ चउप्फासपज्जवेहिय छट्टाणवडिए) वर्णादि से तथा चार स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित (एवं उक्कोसोगाहणए वि इसी प्रकार उत्कृष्ट अवगाहना वाला भी (अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चैव) मध् अवगाहना वाला भी इसी प्रकार (णवरं सट्टाणे दुट्टाणवडिए) विशेष यह कि स्वस्थान में वह द्विस्थानपतित है

(जहण्णोगाहणगाणं भन्ते ! असंखिज्जपएसियाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले असंख्यात प्रदेशी स्कंधों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणन्ता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भन्ते ! एवं बुच्चइ-जहण्णोगाहणगाणं असंखेज्जपएसियाणं अणन्ता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा कि जघन्य अवगाहना वाले असंख्यातप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णोगाहणए असंखिज्जपएसिए खंधे जहण्णोगाह-

(ओगाहणद्वयाए तुल्ले) अवगाहना की अपेक्षा से तुल्य (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित (वण्णाइ चउप्फासपज्जवेहिय छट्टाणवडिए) वर्णादि से तथा चार स्पर्शों के पर्यायों से षट्स्थान पतित (एवं उक्कोसोगाहणए वि) एव प्रकार उत्कृष्ट अवगाहनावाला पणु (अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एव चैव) मध्यम अवगाहनावाला पणु या प्रकारे (णवरं सट्टाणे दुट्टाणवडिए) विशेष से के स्वस्थान में वे द्विस्थान पतित थे

(जहण्णोगाहणगाणं भन्ते ! असंखिज्जपएसियाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य अवगाहनावाला असंख्यात प्रदेशी स्कंधों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणन्ता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भन्ते ! एवं बुच्चइ-जहण्णोगाहणगाणं असंखेज्जपएसियाणं अणन्ता पज्जवा पणत्ता) हे भगवन् ! शा कारण से ऐसा कहा कि जघन्य अवगाहनावाला असंख्यात प्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णोगाहणए असंखिज्ज पए

स्थानपतितः, अवगाहनार्थतया तुल्यः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः वर्णादिभिरुपरितनस्पर्शैश्च पदस्थानपतितः एवमुत्कृष्टावगाहनकोऽपि, अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने चतुःस्थानपतितः जघन्यावगाहनकानां भदन्तः ! अनन्तप्रदेशिकानां पुच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः तत् केनार्थेन भदन्तः एवमुच्यते— जघन्यावगाहनकानामनन्तप्रदेशिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ?

णगस्स असखिज्जपएसियस्स खंधस्स दच्चट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाला असंख्यातप्रदेशी स्कंध जघन्य अवगाहना वाले असंख्यातप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की द्रष्टि से तुल्य (पएसट्टयाए चउट्टाणवडिए) प्रदेशों की अपेक्षा से चतुःस्थानपतित (ओगाहणट्टयाए तुल्ले) अवगाहना से तुल्य (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित (वण्णाइ उवरिल्लफासेहि य छट्टाणवडिए) वर्णादि से तथा उपर के चार स्पर्शों से षट्स्थानपतित (एव उक्कोसोगाहणए वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट अवगाहना वाला भी (अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव) मध्यम अवगाहना वाला भी इसी प्रकार (नवरं सट्टाणे चउट्टाणवडिए) विशेषता यह कि स्वस्थान में चतुःस्थानपतित

(जहण्णोगाहणगार्णं भन्ते ! अणंतपएसियाणं पुच्छा ?) हे भगवन ! जघन्य अवगाहना वाले अनन्त प्रदेशी स्कंधों की पुच्छा ? (गोयमा ! अणन्ता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भन्ते एवं बुच्चइ—जहण्णोगाहणगार्णं अणंतपएसियाणं अणन्ता पज्जवा

सिए खवे जहण्णोगाहणगस्स असखिज्जपएसियस्स खंधस्स दच्चट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य अवगाहनावाणा अस्स भ्यात प्रदेशी स्कंध जघन्य अवगाहनावाणा अस्स भ्यात प्रदेशी स्कंधधी द्रव्यनी द्रष्टिअये तुल्य (पएसट्टयाए चउट्टाणवडिए) प्रदेशीनी अपेक्षाअये अतुःस्थान पतित (ओगाहणट्टयाए तुल्ले) अवगाहनाधी तुल्य (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिधी अतुःस्थान पतित (वण्णाइ उवरिल्लफासेहिय छट्टाणवडिए) वर्णादिधी तथा उपरना आर स्पर्शाधी षट्स्थानपतित (एवं उक्कोसोगाहणए वि) अये प्रकारे उत्कृष्ट अवगाहनावाणा पणु (अजहण्ण मणुक्कोसोगाहणए वि एव चेव) मध्यम अवगाहना वाणा पणु अये रीते (नवरं सट्टाणे चउट्टाण वडिए) विशेषता अये के स्वस्थानभा अतुःस्थान पतित छे

(जहण्णोगाहणगार्णं भन्ते ! अणंतपएसियाणं पुच्छा ?) हे भगवन ! जघन्य अवगाहनावाणा अनन्त प्रदेशी स्कंधानी पुच्छा ? (गोयमा ! अणन्ता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे छे (से केणट्टेणं भन्ते ! एवं बुच्चइ जहण्णोगाहणगार्णं अणंतपएसियाणं अणन्ता पज्जवा पणत्ता) हे भगवन ! शाकारणु अये कडेवाय छे के जघन्य अवगाहनावाणा अनन्त प्रदेशी स्कंधानी अनन्त

गौतम ! जघन्यावगनकोऽनन्तप्रदेशिकः स्कन्धो जघन्यावगाहनकस्य अनन्त प्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया पटस्थानपतितः, अवगाहना-
 र्थतया तुल्यः स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णादिभिरुपरितनचतुःस्पर्शः पटस्थान-
 पतितः, उत्कृष्टावगाहनकोऽपि एवञ्चैव, नवरम्-स्थित्या तुल्यः अजघन्यानुत्कृ-
 ष्टावगानकानां भदन्त ! अनन्तप्रदेशिकानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ता पर्ययाः
 प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकानाम-
 नन्तप्रदेशिकानामनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः' गौतम ! अजघन्यानुत्कृष्टावगाहन
 पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! किसकारण ऐसा कहा जाता है कि जघन्य
 अवगाहना वाले अनन्त प्रदेशी स्कंधो के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा !
 जहण्णोगाहणण अणंतपएसिण खंधे जहण्णोगाहणगस्स अणंतपएसिय-
 स्स खंधस्स दच्चद्वयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाला अन-
 न्तप्रदेशी स्कंध जघन्य अवगाहना वाले अनन्तप्रदेशी स्कंध से द्रव्य
 की दृष्टि से तुल्य है (पएसद्वयाए छट्टाणवडिए) प्रदेशों की अपेक्षा से
 षट्स्थानपतित है (ओगाहणद्वयाए तुल्ले) अवगाहना की अपेक्षा से
 तुल्य है (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित है (वण्णा-
 इउवरिल्लचउफासेहिं छट्टाणवडिए) वर्णादि से तथा ऊपर के चार स्पर्शों
 से षट्स्थानपतित है (उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव) उत्कृष्ट अवगाहना
 वाला भी इसी प्रकार (नवरं ठिईए वि तुल्ले) विशेष यह कि स्थिति
 से वह तुल्य है

(अजहण्णमणुक्कोसोगाहणगणं भंते ! अणंतपएसियाणं पुच्छा ?)
 हे भगवन् ! मध्यम अवगाहना वाले अनन्तप्रदेशी स्कंधों के पर्यायों

पर्याय छे ? (गोयमा ! जहण्णोगाहणण अणंतपएसिए खंधे जहण्णोगाहणगस्स
 अणंतपएसियास खंधस्स दच्चद्वयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य अवगाहनावाणा
 अनन्तप्रदेशी स्कंध जघन्य अवगाहनावाणा अनन्तप्रदेशी स्कंधी द्रव्यनी
 दृष्टिसे तुल्य छे (पएसद्वयाए छट्टाणवडिए) प्रदेशोनी अपेक्षासे पटस्थान पतित
 छे (ओगाहणद्वयाए तुल्ले) अवगाहनानी अपेक्षासे तुल्य छे (ठिईए चउट्टाणवडिए)
 स्थितिथी अणुस्थान पतित छे (वण्णाइ उउवरिल्ल चउफासेहिं छट्टाणवडिए)
 वर्णादिथी तथा उपरनी चार स्पर्शाथी पटस्थान पतित छे (उक्कोसोगाहण वि एवं
 चेव) उत्कृष्ट अवगाहनावाणा पणु अणु प्रकारे (नवरं ठिईए वि तुल्ले) विशेष
 अणु छे स्थितिथी पणु ते तुल्य छे

(अजहण्ण मणुक्कोसोगाहणगणं भंते ! अणंतपएसियाण पुच्छा ?) हे
 भगवन् ! मध्यम अवगाहनावाणा अनन्त प्रदेशी स्कंधोना पर्यायानी पृच्छा ?

कोऽनन्तप्रदेशिकः स्कन्धः अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकस्य अनन्तप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया पटस्थानपतितः, अवगाहकार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णादिभिरष्टस्पर्शैः षट्स्थानपतितः, जघन्यस्थितिकानां भदन्त ! परमाणुपुद्गलानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यस्थितिकानां परमाणुपुद्गलानामनन्ताः, पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यस्थितिकः परमाणुपुद्गलो जघन्य-

की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ अजहणमणुक्कोसो-गाहणगणं अणंतपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! किसकारण ऐसा कहा कि मध्यम अवगाहना वाले अनन्तप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! अजहणमणुक्कोसोगाहणए अणंतपएसिए खंधे अजहणमणुक्कोसोगाहणगस्स अणंतपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) मध्यम अवगाहना वाला अनन्तप्रदेशी स्कंध मध्यम अवगाहना वाले अनन्त प्रदेशी स्कंध से द्रव्य से तुल्य (पएसट्टयाए छट्ठाणवडिए) प्रदेशों से षट्स्थानपतित (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुस्थानपतित (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुस्थानपतित (वण्णाइ अट्टफासेहिं छट्ठाणवडिए) वर्णादि से तथा आठ स्पर्शों से षट्स्थानपतित

(जहणणठिइयाणं भंते ! परमाणुपुद्गलानं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य स्थितिक परमाणुपुद्गलों के कितने पर्याय हैं ? (गोयमा ! अणंता

(गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ—अजहणमणुक्कोसोगाहणगणं अणंतपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! शांकारण्येणु कहुं के मध्यम अवगाहनावाणा अनन्त प्रदेशी स्कंधानां अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! अजहणमणुक्कोसोगाहणए अणंतपएसिए खंधे अजहणमणुक्कोसोगाहणगस्स अणंतपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) मध्यम अवगाहनावाणा अनन्त प्रदेशी स्कंध मध्यम अवगाहनावाणा अनन्त प्रदेशी स्कंधी द्रव्य दृष्टिसे तुल्य (पएसट्टयाए छट्ठाणवडिए) प्रदेशी षट्स्थान पतित (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनाधी यतु स्थान पतित (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिधी यतु स्थान पतित (वण्णाइ अट्टफासेहिं छट्ठाण वडिए) वर्णादिधी तथा आठ स्पर्शधी षट्स्थान पतित

(जहणणठिइयाणं भंते ! परमाणुपुद्गलानं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य स्थितिक परमाणु पुद्गलानां के कितने पर्याय हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम !

स्थितिकस्य परमाणुपुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया तुल्यः, स्थित्या तुल्यः, वर्णादिभिः द्विस्पर्शाभ्याञ्च षट्स्थानपतितः, एवमुत्कृष्टस्थितिकोऽपि, अजघन्यानुत्कृष्टस्थितिकोऽपि एवञ्चैव, नवरम्-स्थित्या चतुःस्थानपतितः, जघन्यस्थितिकानां द्विप्रदेशिकानां पृच्छा गौतम ! अनन्ताः पर्ययाः ब्रह्मप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते-जघन्यस्थि-

पञ्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं (से केणट्टेणं भते । एव बुच्चइ-जहण्णठिइयाणं परमाणुपुग्गलाणं अणंता पञ्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि जघन्य स्थिति वाले परमाणुपुद्गलों के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा ! जहण्णठिइए परमाणु-पोद्गले जहण्णाठिइयस्स परमाणुपोद्गलस्स दब्बट्टयाए तुल्ले) गौतम ! जघन्य स्थिति वाला परमाणुपुद्गल दूसरे जघन्य स्थिति वाले परमाणुपुद्गल से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेश से तुल्य (ओगाहणट्टयाए तुल्ले) अवगाहना से तुल्य (ठिइए तुल्ले) स्थिति से तुल्य (वण्णाइडुफासेहि य) वर्णादि तथा दो स्पर्शों से (छट्टाणवडिए) षट्स्थानपतित (एवं उक्कोसठिइए वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थिति वाला भी (अजहण्णमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव) मध्यम स्थिति वाला भी इसी प्रकार (नवरं ठिइए चउट्टाणवडिए) विशेष यह कि स्थिति से चतुस्थानपतित है

(जहण्णठिइयाणं दुपएसियाणं पुच्छा ?) जघन्य स्थिति वाले द्विप्रदेशी स्कंधों के पर्यायों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पञ्जवा पणत्ता)

अनन्त पर्याय छे (से केणट्टेण भते ! एव बुच्चइ जहण्णठिइयाणं परमाणुपुग्गलाण अणता पञ्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! शा कारणे अेभ कडेवाय छे के जघन्य-स्थितिवाणा परमाणु पुद्गलाना अनन्त पर्याय छे ? (गोयमा ! जहण्णठिइए परमाणुपोगले जहण्णठिइयस्स परमाणुपोगलस्स दब्बट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य स्थितिवाणा परमाणु पुद्गल भाण जघन्य स्थितिवाणा परमाणु पुद्गलथा द्रव्यनी दृष्टिअे तुल्य (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशीथी तुल्य (ओगाहणट्टयाए तुल्ले) अवगाहनाथी तुल्य (ठिइए तुल्ले) स्थितिथी तुल्य (वण्णाइ डुफासेहि य) वर्णादिथी तथा अे स्पर्शीथी (छट्टाणवडिए) षट्स्थान पतित (एवं उक्कोसठिइए वि) अेवी ज रीते उत्कृष्ट स्थितिवाणा पण्ण (अजहण्ण मणुक्कोसठिइए वि एव चेव) मध्यम अवगाहनावाणा पण्ण अे ज रीते (नवरं ठिइए चउट्टाणवडिए) विशेष अे के स्थितिथी यत्तु स्थान पतित छे

(जहण्णठिइयाणं दुपएसियाणं पुच्छा ?) जघन्य स्थितिवाणा द्विप्रदेशी स्कंधाना पर्यायानि पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पञ्जवा पणत्ता) हे गौतम !

तिकानां द्विप्रदेशिकानामनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यस्थितिको द्विप्रदेशिको जघन्यस्थितिकस्य द्विप्रदेशिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थापेक्षया तुल्यः, अवगाहनार्थतया स्याद्धीनः, स्यादुल्यः स्यादभ्यधिकः यदा हीनः, प्रदेशहीनः अथाभ्यधिकः प्रदेशाभ्यधिकः, स्थित्या तुल्यः, वर्णादिभिश्चतुःस्पर्शैश्च षट्स्थानपतितः, एवम् उत्कृष्टस्थितिकोऽपि, अजघन्यानुत्कृष्टस्थितिकोऽपि एवञ्चैव, नवरम् स्थित्या चतुस्थानपतितः एवं यावद्-दशप्रदेशिकः, नवरं प्रदेशपरिवृद्धिः कर्तव्या, अवगाहनार्थतया त्रिष्वपि गमकेषु यावद् दश प्रदेशिके एवं

हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चइ-जहण्णट्ठिइयाणं दुपएसियाणं अणता पज्जवा पणत्ता ?) किस कारण से हे भगवन् ! ऐसा कहा है कि जघन्य स्थिति वाले द्विप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय हैं (गोयमा ! जहण्णट्ठिइए दुपएसिए जहण्णट्ठिइयस्स दुपएसियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य स्थितिक द्विप्रदेशी जघन्य स्थितिक द्विप्रदेशी से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है (ओगाहणट्टयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए) अवगाहना से कदाचित् हीन, कदाचित् तुल्य और कदाचित् अधिक होता है (जइ हीणे पएसहीणे) यदि हीन हो तो एक प्रदेशहीन हो ता है (अह अब्भहिए पएसअब्भहिए) अगर अधिक है तो एक प्रदेशाधिक होता है (ठिइए तुल्ले) स्थिति से तुल्य (वण्णाइचउफासेहि य छट्ठाणवडिए) वर्णादि से तथा चार स्पर्शों से षट्स्थानपतित (एवं उक्कोस ठिइए वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थिति वाला भी (अजहण्णमणुक्कोसठिइए वि एवं) अजघन्य-अनुत्कृष्ट अर्थात् मध्यम स्थिति

अनन्त पर्याय कहा छे (से केणट्टेण भते ! एवं वुच्चइ जहण्णट्ठिइयाणं दुपएसियाण अणता पज्जवा पणत्ता) शा कारणे डे भगवन् ! एषु कल्लु के जघन्य स्थितिवाणा द्विप्रदेशी स्कंधाना अनन्त पर्याय छे ? (गोयमा ! जहण्ण ट्ठिइए दुपएसिए जहण्णट्ठिइयस्स दुपएसियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य स्थितिक द्विप्रदेशी जघन्य स्थितिक द्विप्रदेशीथी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य छे (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशीनी अपेक्षाये तुल्य छे (ओगाहणट्टयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए) अवगाहनाथी कदाचित् हीन, कदाचित् तुल्य, अने कदाचित् अधिक थाय छे (अह अब्भहिए पएस अब्भहिए) अगर अधिक छे तो ओके प्रदेशाधिक थाय छे (ठिइए तुल्ले) स्थितिथी तुल्य (वण्णाइ चउफासेहि य छट्ठाणवडिए) वर्णादिथी तथा चार स्पर्शोथी षट्स्थान पतित (एवं उक्कोसठिइए वि) ओ प्रकारे उत्कृष्ट स्थितिवाणा पल्लु (अजहण्णमणुक्कोसठिइए वि एवं चैव)

प्रदेशाः परिवर्द्धिष्यन्ते, जघन्यस्थितिकानां भदन्त ! संख्येयप्रदेशिकानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ता पर्यायाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते- जघन्यस्थितिकानां संख्येयप्रदेशिकानामनन्ता, पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यस्थितिकः संख्येयप्रदेशिकः स्कन्धो जघन्यस्थितिकस्य संख्येयप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया द्विस्थानपतितः अवगाहनार्थतया द्विस्थानपतितः

भी इसी प्रकार (नवरं ठिईए चउट्टाणवडिण) विशेष यह कि स्थिति से चतुःस्थानपतित है (एवं जाव दसपएसिए) इसी प्रकार याचत् दश प्रदेशी (नवरं पएसवुड्डी कायव्वा) विशेषता यह कि प्रदेशो की वृद्धि करनी चाहिए (ओगाहणट्टयाए तिसु वि गमेसु जाव दसपएसिए एव) अवगाहना के तीनों गमों में दशप्रदेशी स्कंध तक ऐसा ही कहना चाहिए (पएसो परिवड्ढिज्जंति) प्रदेशों की वृद्धि हो जाती है

(जहण्णठिइयाणं भंते ! संखेज्जपएसियाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य स्थिति वाले संख्यातप्रदेशी स्कंधों के पर्याय कितने कहे हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णठिइयाणं संखेज्जपएसियाणं अणत्ता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि जघन्यस्थितिक संख्यातप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णठिइए संखेज्जपएसिए खंधे जहण्णठिइयस्स संखिज्जपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य स्थिति वाला

अजघन्य अतुट्टुट्ठ अर्थात् मध्यम स्थितिवाणा पणु ओ प्रकारे (नवरं ठिईए चउट्टाण वडिण) विशेष ओ के स्थितिथी अतु स्थान पतित छे (एवं जाव दस पएसिए) ओ प्रकारे याचत् दश प्रदेशी (नवरं पएस वुड्ढि कायव्वा) विशेषता ओ के प्रदेशोथी वृद्धि करनी लेधओ (ओगाहणट्टयाए तिसु वि गमेसु जाव दस पएसिए एव) अवगाहनाना त्रणे गमेसा दश प्रदेशी स्कंध मुधी ओपु' ओ कडेपु लेध ओ (पएसो परिवड्ढिज्जंति) प्रदेशोनी वृद्धि थध लय छे

(जहण्णठिइयाणं भंते ! संखेज्जपएसियाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य स्थितिवाणा संख्यात प्रदेशी स्कंधोना पर्याय केटवा कक्षा छे ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कक्षा छे (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णठिइयाणं संखेज्जपएसिए अणत्ता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! शकारणे ओम कडेपय छे के जघन्य स्थितिक संख्यात प्रदेशी स्कंधोना अनन्त पर्याय कक्षा छे ? (गोयमा ! जहण्णठिइए संखेज्जपएसिए खंधे जहण्णठिइयस्स संखिज्जपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्लो) हे गौतम ! जघन्य स्थितिवाणा संख्यात प्रदेशी स्कंध थीण जघन्य स्थितिवाणा संख्यात प्रदेशी स्कंधथी

स्थित्या तुल्यः वर्णादिभिश्चतुःस्पर्शैश्च षट्स्थानपतितः एवमुत्कृष्टस्थिकोऽपि अजघन्यानुत्कृष्टस्थितिकोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्थित्या चतुःस्थानपतितः, जघन्यस्थितिकानाम् असंख्येयप्रदेशिकानाम् पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते जघन्य स्थितिकानामसंख्येयप्रदेशिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम : जघन्यस्थितिकः असंख्येयप्रदेशिको

संख्यातप्रदेशी स्कंध दूसरे जघन्य स्थिति वाले संख्यातप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य (पएसद्वयाए दुद्वाणवडिए) प्रदेशों की दृष्टि से द्विस्थानपतित (ओगाहणद्वयाए दुद्वाणवडिए) अवगाहना से द्विस्थानपतित (ठिईए तुल्ले) स्थिति से तुल्य (वण्णाइ चउफासेहिय छद्वाणवडिए) वर्णादि से तथा चार स्पर्शों से षट्स्थानपतित है (एवं उक्कोसठिइए वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थिति वाला भी (अजहणमणुक्कोसठिइए एवं चैव) मध्यम स्थिति वाला भी इसी प्रकार (नवरं ठिईए चउद्वाणवडिए) विशेष यह कि स्थिति से चतुःस्थानपतित है

(जहण्णठिइयाण असंखेज्जपएसियाणं पुच्छा) हे भगवन् ! जघन्य स्थितिवाले असंख्यातप्रदेशी स्कंधों के कितने पर्याय हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणद्वेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णठिइयाणं असंखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि जघन्यस्थितिक असंख्यातप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं। (गोयमा ! जहण्णठिइए असंखेज्जपएसिए जहण्णठिइयस्स असंखेज्ज

द्रव्येणी दृष्टिअे तुल्ये छे (पएसद्वयाए दुद्वाणवडिए) प्रदेशेणी दृष्टिअे द्विस्थानपतित (ठिईए तुल्ले) स्थितिथी तुल्ये (वण्णाइ चउफासेहिय छद्वाणवडिए) वर्णादिथी तथा चार स्पर्शाथी षट्स्थानपतित छे (एवं उक्कोसठिइए वि) अे प्रकारे उत्कृष्ट स्थितिवाणा पथु (अजहणमणुक्कोसठिइए एव चैव) मध्यम स्थितिवाणा पथु अेव प्रकारे (नवरं ठिईए चउद्वाणवडिए) विशेषे अे छे के स्थितिथी चतुस्थानपतित छे

(जहण्णठिइयाणं असंखेज्जपएसियाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य स्थितिवाणा असंख्यात प्रदेशी स्कंधेणा केटला पर्याय छे ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहेला छे (से केणद्वेणं भंते ! एव बुच्चइ-जहण्णठिइयाणं असंखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे भगवन् ! सा कारणे अेवु कहेवाय छे के जघन्य स्थितिक असंख्यात प्रदेशी स्कंधेणा अनन्त पर्याय कहेला छे (गोयमा ! जहण्णठिइए असंखेज्जपएसिए

जघन्यस्थितिकस्य असंख्येयप्रदेशिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया चतुः-
स्थानपतितः अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या तुल्यः, वर्णादिभिः,
उपरितन चतुःस्पर्शैश्च पटस्थानपतितः, एवम् उत्कृष्टस्थितिकोऽपि अजघन्यानु-
त्कृष्टस्थितिक एवञ्चैव, नवरम् स्थित्या चतुःस्थानपतितः जघन्यस्थितिकानाम
नन्तप्रदेशिकानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ता पर्ययाः प्रज्ञप्ताः तत् केनार्थेन भदन्त !
एवमुच्यते—जघन्यस्थितिकानामनन्तप्रदेशिकानामनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ?
गौतम ! जघन्यस्थितिकोऽनन्तप्रदेशिको जघन्यस्थितिकस्य अनन्तप्रदेशिकस्य

परसियस्स दब्बट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य स्थिति वाला असं
ख्यातप्रदेशी स्कंध जघन्य स्थितिवाले असंख्यातप्रदेशी स्कंध से द्रव्य
की अपेक्षा तुल्य है (परसट्टयाए चउट्टाणवडिए) प्रदेशों की अपेक्षा
चतुःस्थानपतित (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुः-
स्थानपतित (ठिईए तुल्ले) स्थिति से तुल्य (वण्णाइ उवरिल्लचउफासेहि
य छट्टाणवडिए) वर्णादि से तथा ऊपर के चार स्पर्शों से पटस्थान-
पतित है (एवं उक्कोसटिइए वि) इसी प्रकार उत्कृष्टस्थितिवाला भी
(अजहणमणुक्कोसटिइए एवं चैव) मध्यमस्थितिवाला भी इसी
प्रकार (नवरं ठिईए चउट्टाणवडिए) विशेषता यह कि स्थिति से
चतुःस्थानपतित होता है ।

(जहणणठिइयाणं अणंयपरसियाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य
स्थितिवाले अनन्तप्रदेशी स्कंधों के कितने पर्याय हैं ? (गोयमा ! अणंता
पज्जवा पण्णत्ता) गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते एवं
बुच्चइ—जहणणठिइयाणं अणंनपरसियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?

जहणणठिइयस्स असंखेज्जपरसियस्स दब्बट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य स्थिति-
वाला असं ख्यात प्रदेशी स्कंध जघन्य स्थितिवाला असं ख्यात प्रदेशी स्कंधी
द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य छे (परसट्टयाए चउट्टाणवाडाण) प्रदेशीनी अपेक्षाये
अतु स्थान पतित (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनाथी अतु स्थान
पतित (ठिईए तुल्ले) स्थितिथी तुल्य (वण्णाइ उवरिल्ल चउफासेहि य छट्टाणवडिए)
वर्णादिथी तथा उपरना आर स्पर्शाथी पटस्थान पतित छे (एव उक्कोसटिइए
वि) ये प्रकारे उत्कृष्ट स्थितिवाला पथु (अजहणमणुक्कोसटिइए एव चैव)
मध्यम स्थितिवाला पथु येव रीते (नवरं ठिईए चउट्टाणवडिए) विशेषता ये
के स्थितिथी अतु स्थान पतित थाय छे.

(जहणणठिइयाण अणंतपरसियाणं पुच्छा ?) जघन्य स्थितिवाला अनन्त
प्रदेशी स्कंधीना केट्ठा पर्याय छे ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम !
अनन्त पर्याय क्ख्या छे (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ जहणणठिइयाणं अणत

द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया पटस्थानपतितः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थान-
पतितः, स्थित्या तुल्यः, वर्णादिभिः, अष्टस्पर्शैश्च पटस्थानपतितः, एवमुत्कृष्टा-
स्थितिकोतिकोऽपि, अजघन्यानुत्कृष्टस्थितिकोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्थित्या
चतुःस्थानपतितः ।

टीका—अथ जघन्याववगाहनकानां द्विप्रदेशिकादिस्कन्धानां पर्यवान् प्ररूप-
वितुमाह—‘जहण्णोयाहणगाणं भंने ! दुपएसियाणं पुच्छा ?’ गौतमः पृच्छति-

हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा है कि जघन्य स्थिति वाले
अनन्तप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा ! जहण्णठिइए
अणंतपएसिए जहण्णठिइयस्स अणंतपएसियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले)
हे गौतम ! जघन्य स्थिति वाला अनन्तप्रदेशी स्कंध जघन्य स्थिति
वाले अनन्तप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है (पएसट्टयाए
छट्ठाणवडिए) प्रदेशों की अपेक्षा षट्स्थानपतित (ओगाहणट्टयाए चउ-
ट्टाणवडिए) अवगाहना की अपेक्षा से चतुःस्थानपतित (ठिईए तुल्ले)
स्थिति से तुल्य (वण्णाइअट्टफासेहिं य छट्ठाणवडिए) वर्णादि से तथा
आठ स्पर्शों से षट्स्थानपतित होता है (एव उक्कोसठिइए वि) इसी
प्रकार उत्कृष्ट स्थिति वाला भी इसी प्रकार (नवरं ठिईए चउट्टाणवडिए)
विशेषता यह कि स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित होता है ।

टीकार्थ—अथ द्विप्रदेशी आदि स्कंधों की जघन्य उत्कृष्ट मध्यम
अवगाहना, स्थिति आदि के आधार पर उनके पर्यायों की प्ररूपणा की
जाती है—

पएसियाण अणता पज्जवा पणत्ता) हे भगवन् ! शा क्षरत्ते अेषु कल्लु छे के
जघन्य स्थितिवाणा अनन्त प्रदेशी स्कन्धाना अनन्त पर्याय कल्लु छे ?
(गोयमा ! जहण्णठिइए अणतपएसिए जहण्णठिइयस्स अणतपएसियस्स दव्वट्टयाए
तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य स्थितिवाणा अनन्त प्रदेशी स्कन्ध जघन्य स्थिति-
वाणा अनन्त प्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य छे (पएसट्टयाए छट्ठाण-
वडिए) प्रदेशोनी अपेक्षाये षट्स्थान पतित छे (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए)
अवगाहनाथी अपेक्षाये यतु स्थान पतित (ठिईए तुल्ले) स्थितिथी तुल्य (वण्णाइ
अट्टफासेहिं य छट्ठाणवडिए) वर्णादिथी तथा आठ स्पर्शोथी षट्स्थान पतित छे
(एवं उक्कोसठिइए वि) ये रीते उत्कृष्ट स्थितिवाणा पल्लु (अजहण्णमणुकोस-
ठिइए वि एवं चैव) मध्यम स्थितिवाणा पल्लु अेव प्रकारे (नवरं ठिइए चउ
ट्टाणवडिए) विशेष अे के स्थितिथी अपेक्षाये यतु स्थान पतित थाय छे

टीकार्थ—हुवे द्विप्रदेशी आदि स्कंधोनी जघन्य, उत्कृष्ट मध्यम अवगाहना,
स्थिति आदिना आधार पर तेभना पर्यायोनी प्ररूपणा कराय छे

हे भदन्त ! जघन्यावगाहनकानां द्विप्रदेशिकानां स्कन्धानां कियन्तः पर्यवः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पणत्ता’ जघन्यावगाहनकानां द्विप्रदेशिकानां स्कन्धाना अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः गौतमः पृच्छति—‘से केणट्ठेणं संने ! एवं बुच्चइ—जहण्णोगाहणगाणं दुपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?’ हे—भदन्त—तत्—अय—केनार्थेन कथं तावद्, एवम्—उक्तरीत्या, उच्यते यत्—जघन्यावगाहनकानां द्विप्रदेशिकानां स्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णोगाहणए दुपएसिए संधे’ जघन्यावगाहनको द्विप्रदेशिकः स्कन्धः, जहण्णोगाहणस्स दुपएसियस्स संधस्स दब्बट्ठयाए तुल्ले’ जघन्यवगाहनकस्य द्विप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, ‘पएसट्ठयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, उभयोरपि द्विप्रदेशिकतया प्रदेशापेक्षया तुल्यत्वं भवति, उभयोश्च जघन्यावगाहनकतया अवगाहना

गौतमस्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले द्विप्रदेशी स्कंधों के पर्यायों की पृच्छा ? अर्थात् उनके कितने पर्याय हैं ? भगवान् ! उत्तर देते हैं—हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाले द्विप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! किस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि जघन्य अवगाहना वाले द्विप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय हैं ?

भगवन्—हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाला एक द्विप्रदेशी स्कंध जघन्य अवगाहना वाले दूसरे द्विप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, प्रदेशों की अपेक्षा भी तुल्य ही होता है, दोनों जघन्य अवगाहना वाले होने से अवगाहना की दृष्टि से भी तुल्य होते हैं । किन्तु

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे थे—हे भगवन् ! जघन्य अवगाहनावाणा द्विप्रदेशी स्कन्धाना पर्यायानि पृच्छा ? अर्थात् तेमना केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! जघन्य अवगाहनावाणा द्विप्रदेशी स्कन्धाना अनन्त पर्याय छे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! शा डेतुधी ओम कडेवाय छे के जघन्य अवगाहनावाणा द्विप्रदेशी स्कन्धाना अनन्त पर्याय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य अवगाहनावाणा ओक द्विप्रदेशी स्कन्ध जघन्य अवगाहनावाणा भील द्विप्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी अपेक्षाओ तुल्य छे, प्रदेशानी अपेक्षाओ पण तुल्य न थाय छे, अन्ने जघन्य अवगाहना वाणा डोवाथी अवगाहनानी दृष्टिओ पण तुल्य थाय छे, किन्तु स्थितिनी अपेक्षाओ यत्तुस्थान

पेक्षयापि तुल्यत्वं भवति, किन्तु 'ठिईए चउट्टाण ाडिए' स्थित्या अवस्थानापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, तदभिलापस्तु—असंख्येयभागहीनो वा संख्येयभागहीनो वा संख्येयगुणहीनो वा असंख्येयगुणहीनो वा भवति असंख्येयभागाभ्यधिको वा संख्येयभागाभ्यधिको वा, संख्येयगुणाभ्यधिको वा असंख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति, इति बोध्यः, 'कालवण्णपज्जवेहि छट्टाणवडिए' कृष्णवर्णपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति' तदभिलापोऽपि अनन्तभागानन्तगुणहीनाधिकाभ्यां सह पूर्वोक्तचतुष्टय संमेलनेन स्वयमूहनीयः, 'सेस वण्णगंधरसपज्जवेहि छट्टाणवडिए' शेषवर्णगंधरसपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, 'सीयउसिणणिद्धलुक्खफासपज्जवेहि छट्टाणवडिए' शीतोष्णस्निग्धरूक्षस्पर्शपर्यवैः षट्स्थापतितो भवति' जघन्यावगाहनके द्विप्रदेशिकस्कन्धेषु एतेपामेव चतुर्णांस्पर्शपर्यवाना संभवात् तदन्येषां कर्कशादि चतुःस्पर्शपर्यवानां तत्रासंभवात्' प्रकृतमुपसंहरन्नाह—'से तेणट्टेणं गयोमा ! एवं बुच्चइ

स्थिति की अपेक्षा से चतुस्थानपतित होते हैं, अर्थात् असंख्यातभाग हीन, संख्यातभागहीन संख्यातगुणहीन अथवा असंख्यातगुणहीन होते हैं, अगर अधिक हो तो असंख्यातभाग अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक अथवा असंख्यातगुण अधिक होता है। कृष्ण वर्ण के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है। उन षट्स्थानों का कथन पूर्ववत् समझ लेना चाहिए। शेष वर्णों गंधों रसों की अपेक्षा भी षट्स्थानपतित होता है। शीत, उष्ण स्निग्ध और रूक्ष, इन चार स्पर्शों की अपेक्षा भी षट्स्थानपतित होता है जघन्य अवगाहना वाले द्विप्रदेशी स्कंधों में यही चार स्पर्श पाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त कर्कश आदि चार स्पर्श नहीं होते। अब उपसंहार करते हैं, इस

पतित थाय छे. अर्थात् असंख्यात लागडीन, संख्यात लागडीन संख्यातगुण हीन अथवा असंख्यात गुणहीन थाय छे, अगर अधिक होय तो असंख्यात लाग अधिक संख्यात लाग अधिक, संख्यात गुण अधिक अथवा असंख्यात गुण अधिक थाय छे कृष्ण वर्णना पर्यायोत्थी षट्स्थान पतित थाय छे ये षट्स्थानोतु कथन पूर्ववत् समझ लेवु लक्षणे शेष वर्णों, गंधों, रसोंकी अपेक्षाये पणु षट्स्थान पतित थाय छे शीत, उष्ण, स्निग्ध अने रूक्ष, ये चार स्पर्शोंकी अपेक्षाये पणु षट्स्थान पतित थाय छे जघन्य अवगाहनावाणा द्विप्रदेशी स्कन्धोमा आने चार स्पर्श भणी आवे छे तेमना सिवाय कर्कश आदि चार स्पर्श नथी होता हुवे उपसंहार करे छे—ये चारणु छे गीतम। एवु कहेसय छे के जघन्य अवगाहनावाणा द्विप्रदेशी स्कन्धोना अनन्त पर्याय कहेला छे.

—हे गौतम ! तत्—अथ' तेनार्थेन' एवम्—उक्तरीत्या उच्यते यत्—'जहण्णोगाहणगणं दुपएसियाणं पोग्गलाणं अणता पज्जवा पणत्ता' जघन्यावगाहनकानाम् एकाकाश प्रदेशावगाहनवताम् द्विप्रदेशिकानां पुद्गलानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, 'उकोसोगाहणएवि एवं चेव' उत्कृष्टावगाहनकोऽपि द्विप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः, एवञ्चैव—जघन्यावगाहनकद्विप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धवदेवावसेयः, किन्तु 'अजहणमणुक्कोसोगाहणओ नत्थि' अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकः—मध्यमावगाहनको द्विप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धो नास्ति द्विप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्य जघन्यावगाहना एकप्रदेशात्मिका भवति, उत्कृष्टावगाहना तु द्विप्रदेशात्मिका भवति, तयोरपान्तरालाभावेन मध्यमावगाहनाया अभावात्, गौतमः पृच्छति—'जहण्णोगाहणयाणं भंते ! तिपएसियाणं पुच्छा' हे भदन्त ! जघन्यावगाहनकानाम् एकाकाशप्रदेशावगाहनामित्यर्थः त्रिप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानां कियन्तः पर्यवाः कारण हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि जघन्य अवगाहना वाले द्विप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे गए हैं ।

उत्कृष्ट अवगाहना वाले द्विप्रदेशी स्कंध की प्ररूपणा भी इसी प्रकार करना चाहिए, मध्यम अवगाहना वाला द्विप्रदेशी स्कंध होता ही नहीं है क्योंकि दो परमाणुओं का पिण्ड द्विप्रदेशी स्कंध कहलाता है । उसकी अवगाहना या तो आकाश के एक प्रदेश में होगी अथवा अधिक से अधिक दो आकाश प्रदेशों में होगी । एक प्रदेश में जो अवगाहना होती है वह जघन्य अवगाहना है और दो प्रदेशों में जो अवगाहना है, वह उत्कृष्ट है । इन दोनों के बीच की कोई अवगाहना नहीं हो सकती, अतएव मध्यम अवगाहना का अभाव है ।

गौतम—हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले अर्थात् आकाश के एक प्रदेश में रहे हुए त्रिप्रदेशी स्कंध के पर्याय कितने हैं ?

उत्कृष्ट अवगाहनावाला द्विप्रदेशी स्कन्धनी प्ररूपणु पणु ओण प्रकारे करवी नेधमे. मध्यम अवगाहनावाला द्विप्रदेशी स्कन्ध डोता न् नथी, केभके पे परमाणुओनो पिड द्विप्रदेशी स्कन्ध कडेवाय छे. तेभनी अवगाहना आकाशना ओक प्रदेशमा थसे अथवा अधिक पे आकाश प्रदेशमा थसे ओक प्रदेशमा ने अवगाहना थाय छे ते जघन्य अवगाहना छे. अने पे प्रदेशोमा ने अवगाहना छे, ते उत्कृष्ट छे. ओ अन्नेनी वच्येनी केध अवगाहना नथी थध शकती, तेथी न् मध्यम अवगाहनाना अलाव छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य अवगाहनावाला अर्थात् आकाशना ओक प्रदेशमा रहेला त्रिप्रदेशी स्कन्धना पर्याय केतला ?

प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णात्ता ?’ जघन्यावगाहनकानां त्रिप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ! गौतमः पृच्छति—‘से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णोगाहणगाणं तिपएसियाणं ‘अणंता पज्जवा पण्णात्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन—कथं तावत्—एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते यत्—जघन्यावगाहनकानां त्रिप्रदेशिकानां पुद्गल स्कन्धानां मनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहा दुपएसिए जहण्णोगाहणए’ यथा द्विप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धो जघन्यावगाहनकः प्रतिपादितः तथा त्रिप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धोऽपि जघन्यावगाहनकः प्रतिपत्तव्यः ‘उक्कोसोगाहणएवि एवं चेव’ एवं उत्कृष्टावगाहनकोऽपि एवमेव आकाशस्य त्रिप्रदेशावगाहनकोऽपीत्यर्थः त्रिप्रदेशिकः पुद्गल स्कन्धः एवञ्चैव—जघन्यावगाहनकं द्विप्रदेशिकं पुद्गल स्कन्धवदेवावसेयः, ‘एव अजहण्णमणुक्कोसोगाहणएवि’ एवम्—उत्तरीत्या, अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकोऽपि त्रिप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः जघ-

भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय है ।

गौतम—हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा गया कि जघन्य अवगाहना वाले त्रिप्रदेशी स्कन्धों के कितने पर्याय हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाला एक त्रिप्रदेशी स्कन्ध दूसरे जघन्य अवगाहना वाले त्रिप्रदेशी स्कन्ध से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है, इत्यादि प्ररूपणा द्विप्रदेशी स्कन्ध के समान ही समझना चाहिए ।

उत्कृष्ट अवगाहना वाला अर्थात् आकाश के तीन प्रदेशों में स्थित त्रिप्रदेशी स्कन्ध भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिए । मध्यम अवगाहना वाले त्रिप्रदेशी स्कन्ध की प्ररूपणा भी जघन्य अवगाहना वाले द्विप्रदेशी स्कन्ध के समान ही समझना चाहिए, त्रिप्रदेशी पुद्गल

श्री भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे.

श्री गौतमस्वामी—भगवन् ! ओम शा कारणे कडेवायु के जघन्य अवगाहनावाणा त्रि प्रदेशी स्कन्धाना अनन्त पर्याय छे ?

श्री भगवन्—हे गौतम ! जघन्य अवगाहनावाणा ओक त्रिप्रदेशी स्कन्ध भील जघन्य अवगाहनावाणा त्रिप्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यथी दृष्टिये तुल्य छे, इत्यादि प्ररूपणा द्विप्रदेशी स्कन्धना समान ज समल देवी लेथ्ये.

उत्कृष्ट अवगाहनावाणा अर्थात् आकाशना त्रय प्रदेशोभा स्थित त्रिप्रदेशी स्कन्ध पणु ओज प्रकारे समल देवी लेथ्ये. मध्यम अवगाहनावाणा त्रिप्रदेशी स्कन्धनी प्ररूपणा पणु जघन्य अवगाहनावाणा द्विप्रदेशी स्कन्धना समान समन्वी लेथ्ये. त्रिप्रदेशी पुद्गल स्कन्धनी जघन्य अवगाहना ओक आकाश प्रदेशभां,

न्यावगाहनक द्विप्रदेशिक पुद्गलस्कन्धवदेवासेयः, त्रिप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्य जघन्यावगाहना एकप्रदेशरूपा द्विप्रदेशरूपा मध्यमावगाहना भवति, त्रिप्रदेशरूपा च उत्कृष्टावगाहना भवति, अतएवात्र जघन्यानुत्कृष्टरूपमध्यमावगाहनापि भणिता, गौतमः पृच्छति—‘जहण्णोगाहणमाणं भंते ! चउप्पएसियाणं पुन्छा’ हे भदन्त ! जघन्यावगाहनकानाम् एकाकाशप्रदेशावगाहनवतामित्यर्थः चतुःप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानाम् क्रियन्तः पर्ययाः प्रजज्ञाः ? इति पृच्छा, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहा जहण्णोगाहणए दुपएसिए तहा जहण्णोगाहणए चउप्पएसिए’ यथा जघन्यावगाहनको द्विप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः प्रतिपादितस्तथा जघन्यावगाहनकश्चतुःप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धोऽपि प्रतिपत्तव्यः, ‘एवं जहा उक्कोसोगाहणए दुपएसिए तहा उक्कोसोगाहणए चउप्पएसिए वि’ एवं—पूर्वोक्तीत्या यथा उत्कृष्टावगाहनको द्विप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः प्रतिपादितस्तथा उत्कृष्टावगाहनकश्चतुःप्रदेशिकोऽपि प्रतिपादनीयः ‘एवं अजहण्णमण्णुक्कोसोगाहणए वि चउप्पएसिए’ एवम्—पूर्वोक्तीत्या अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकोऽपि—मध्यमावगाहनकः चतुःप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः प्रतिपत्तव्यः, किन्तु—‘णवरं ओगाहणट्टयाए

स्कन्धकी जघन्य अवगाहना एक आकाशप्रदेश में, मध्यम अवगाहना दो आकाश प्रदेशों में तथा उत्कृष्ट अवगाहना तीन प्रदेशों में होती है अतएव यहाँ मध्यम अवगाहना का भी प्रतिपादन किया है।

गौतम प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले अर्थात् आकाश के एक प्रदेश में स्थित चतुःप्रदेशी स्कन्ध के कितने पर्याय कहे हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जैसा जघन्य अवगाहना वाला द्विप्रदेशी वैसा ही जघन्य अवगाहना वाला चौप्रदेशी । इसी प्रकार उत्कृष्ट अवगाहना वाले द्विप्रदेशी स्कन्ध की जैसी प्ररूपणा की है, वैसी ही उत्कृष्ट अवगाहना वाले चौप्रदेशी की भी समझ लेना चाहिए इसी प्रकार

मध्यम अवगाहना के आकाश प्रदेशमा तथा उत्कृष्ट अवगाहना त्रयु प्रदेशोमा थाय छे. तेथी न् अही मध्यम अवगाहनातु पणु प्रतिपादन करायु छे.

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! जघन्य अवगाहनावाणा अर्थात् आकाशना अेक प्रदेशमा स्थित चतुःप्रदेशी स्कन्धना केटला पर्याय कइला छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जेवा जघन्य अवगाहनावाणा द्विप्रदेशी तेवाज्ज जघन्य अवगाहनावाणा चार प्रदेशी अे रीते उत्कृष्ट अवगाहनावाणा द्विप्रदेशीस्कन्धनी जेवी प्ररूपणा करी छे तेवी न् उत्कृष्ट अवगाहनावाणा चार प्रदेशीनी पणु समझ लेवी जेथअे अेज्ज प्रकारे मध्यम अवगाहनावाणा चतुः-

प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णात्ता ?’ जघन्यावगाहनकानां त्रिप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धानासु अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः । गौतमः पृच्छति—‘से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णोगाहणगाणं तिपएसियाणं ‘अणंता पज्जवा पण्णात्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन—कथं तावत्—एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते यत्—जघन्यावगाहनकानां त्रिप्रदेशिकानां पुद्गल स्कन्धानां मनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहा दुपएसिए जहण्णोगाहणए’ यथा द्विप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धो जघन्यावगाहनकः प्रतिपादितः तथा त्रिप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धोऽपि जघन्यावगाहनकः प्रतिपत्तव्यः ‘उक्कोसोगाहणएवि एवं चेव’ एवं उत्कृष्टावगाहनकोऽपि एवमेव आकाशस्य त्रिप्रदेशावगाहनकोऽपीत्यर्थः त्रिप्रदेशिकः पुद्गल स्कन्धः एवञ्चैव—जघन्यावगाहनक द्विप्रदेशिक पुद्गल स्कन्धवदेवावसेयः, ‘एवं अजहण्णमणुक्कोसोगाहणएवि’ एवम्—उत्तरीत्या, अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकोऽपि त्रिप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः जघ-

भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा गया कि जघन्य अवगाहना वाले त्रिप्रदेशी स्कन्धों के कितने पर्याय हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाला एक त्रिप्रदेशी स्कन्ध दूसरे जघन्य अवगाहना वाले त्रिप्रदेशी स्कन्ध से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है, इत्यादि प्ररूपणा द्विप्रदेशी स्कन्ध के समान ही समझना चाहिए ।

उत्कृष्ट अवगाहना वाला अर्थात् आकाश के तीन प्रदेशों में स्थित त्रिप्रदेशी स्कन्ध भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिए । मध्यम अवगाहना वाले त्रिप्रदेशी स्कन्ध की प्ररूपणा भी जघन्य अवगाहना वाले द्विप्रदेशी स्कन्ध के समान ही समझना चाहिए, त्रिप्रदेशी पुद्गल

श्री भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे.

श्री गौतमस्वामी—भगवन् ! जेभ शा कारणे कडेवायु के जघन्य अवगाहनावाणा त्रि प्रदेशी स्कन्धाना अनन्त पर्याय छे ?

श्री भगवन्—हे गौतम ! जघन्य अवगाहनावाणा जेके त्रिप्रदेशी स्कन्ध भीजा जघन्य अवगाहनावाणा त्रिप्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी दृष्टिजे तुल्य छे, धत्यादि प्ररूपणा द्विप्रदेशी स्कन्धना समान ज समल लेवी जेधजे.

उत्कृष्ट अवगाहनावाणा अर्थात् आकाशना त्रय प्रदेशोभा स्थित त्रिप्रदेशी स्कन्ध पणु जेज प्रकारे समल लेवे जेधजे. मध्यम अवगाहनावाणा त्रिप्रदेशी स्कन्धनी प्ररूपणा पणु जघन्य अवगाहनावाणा द्विप्रदेशी स्कन्धना समान ममथी जेधजे. त्रिप्रदेशी पुद्गल स्कन्धनी जघन्य अवगाहना जेके आकाश प्रदेशभा,

न्यावगाहनक द्विप्रदेशिक पुद्गलस्कन्धवदेवासेयः, त्रिप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्ध-
स्य जघन्यावगाहना एकप्रदेशरूपा द्विप्रदेशरूपा मध्यमावगाहना भवति, त्रिप्रदेश-
रूपा च उत्कृष्टावगाहना भवति, अतएवात्र जघन्यानुत्कृष्टरूपमव्यमावगाहनापि
भणिता, गौतमः पृच्छति—‘जहण्णोगाहणमाणं भन्ते ! चउप्पएसियाणं पुन्छा’
हे भदन्त ! जघन्यावगाहनकानाम् एकाकाशप्रदेशावगाहनवतामित्यर्थः चतुःप्रदे-
शिकानां पुद्गलस्कन्धानाम् कियन्तः पर्यवाः ? इति पृच्छा, भगवान्
आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहा जहण्णोगाहणए दुपएसिए तहा जहण्णोगाह-
णए चउप्पएसिए’ यथा जघन्यावगाहनको द्विप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः प्रति-
पादितस्तथा जघन्यावगाहनकश्चतुःप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धोऽपि प्रतिपत्तव्यः, ‘एवं
जहा उक्कोसोगाहणए दुपएसिए तहा उक्कोसोगाहणए चउप्पएसिए वि’ एवं-
पूर्वोक्तरीत्या यथा उत्कृष्टावगाहनको द्विप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः प्रतिपादितस्तथा
उत्कृष्टावगाहनकश्चतुःप्रदेशिकोऽपि प्रतिपादनीयः ‘एवं अजण्णमण्णुक्कोसोगाहणए
वि चउप्पएसिए’ एवम्—पूर्वोक्तरीत्या अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकोऽपि—मध्यमा-
वगाहनकः चतुःप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः प्रतिपत्तव्यः, किन्तु—‘णवरं ओगाहणट्टयाए

स्कन्धकी जघन्य अवगाहना एक आकाशप्रदेश में, मध्यम अवगाहना
दो आकाश प्रदेशों में तथा उत्कृष्ट अवगाहना तीन प्रदेशों में होनी
है अतएव यहाँ मध्यम अवगाहना का भी प्रतिपादन किया है।

गौतम प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले अर्थात्
आकाश के एक प्रदेश में स्थित चतुःप्रदेशी स्कन्ध के कितने पर्याय
कहे हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जैसा जघन्य अवगाहना वाला द्विप्रदेशी
वैसा ही जघन्य अवगाहना वाला चौप्रदेशी । इसी प्रकार उत्कृष्ट अव-
गाहना वाले द्विप्रदेशी स्कन्ध की जैसी प्ररूपणा की है, वैसी ही उत्कृष्ट
अवगाहना वाले चौप्रदेशी की भी समझ लेना चाहिए इसी प्रकार

मध्यम अवगाहना के आकाश प्रदेशमा तथा उत्कृष्ट अवगाहना पणु प्रदेशे-
थाय छे. तेथी न अही मध्यम अवगाहनातु पणु प्रतिपादन करायु छे

श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! जघन्य अवगाहनावाणा अर्थात्
आकाशमा ओक प्रदेशमा स्थित चतुःप्रदेशी स्कन्धमा केटला पर्याय करे छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जेवा जघन्य अवगाहनावाणा द्विप्रदेशी तेव न
जघन्य अवगाहनावाणा चार प्रदेशी ओ रीते उत्कृष्ट अवगाहनावाणा द्वि
प्रदेशीस्कन्धनी जेवी प्ररूपणा करी छे तेवी न उत्कृष्ट अवगाहनावाणा चार
प्रदेशीनी पणु समझ देवी जेधओ ओन प्रकारे मध्यम अव

सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु अवगाहनार्थतया-अवगाहनापेक्षया, स्यात्-कदाचित् कश्चित् हीनो भवति, स्यात्-कदाचित् कश्चित् तुल्यो भवति, स्यात्-कदाचित् कश्चित् अभ्यधिको भवति, तत्र 'जइ हीणे पएसहीणे' यदा हीनो प्रदेशहीनो भवति, 'अह अब्भहिए पएसअब्भहिए' अथ-यदा अभ्यधिको विवक्षितस्तदा प्रदेशाभ्यधिको भवति, तथा चतुःप्रदेशस्य पुद्गलस्कन्धस्य जघन्यावगाहना एकप्रदेशरूपा, उत्कृष्टावगाहना च चतुःप्रदेशरूपा भवति, मध्यमावगाहनातु द्विविधा भवति द्वि प्रदेशरूपा, त्रिप्रदेशरूपा च, तत्र मध्यमावगाहनकश्चतुःप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धो मध्यमावगाहनकः चतुःप्रदेशिक पुद्गलस्कन्धापेक्षया यदा हीनो विवक्षितस्तदा प्रदेशतो हीनो भवति, अथ यदा अभ्यधिको विवक्षितस्तदा प्रदेशतोऽभ्यधिको भवति, एवमेव पञ्चप्रदे-

मध्यम अवगाहना वाला चतुःप्रदेशी स्कंध भी समझलेना चाहिए' किन्तु उसे अधगाहना की अपेक्षा कदाचित् हीन, कदाचित् तुल्य और कदाचित् अधिक कहना चाहिए। अगर हीन होता है तो एक प्रदेश से हीन और यदि अधिक होता है तो एक प्रदेश से अधिक होता है। तात्पर्य यह है कि चौप्रदेशी स्कंध की जघन्य अवगाहना एक प्रदेश में एवं उत्कृष्ट अवगाहना चार प्रदेशों में होती है। मध्यम अवगाहना दो प्रकार की है-दो प्रदेशों में और तीन प्रदेशों में अतएव मध्यम अवगाहना वाले एक चौप्रदेशी स्कंध से दूसरे मध्यम अवगाहना वाला चौप्रदेशी स्कंध यदि अवगाहना से हीन होगा तो एक प्रदेशहीन ही होगा और जो अधिक है वह भी एक प्रदेशाधिक ही होगा। इससे अधिक हीनाधिकता उनमें नहीं हो सकती।

प्रदेशी स्कन्ध पञ्च समञ्ज देवा जेधञ्जे. परन्तु अवगाहनानी अपेक्षाञ्जे कदाचित् हीन, कदाचित् तुल्य, अने कदाचित् अधिक कडेवी जेधञ्जे. जे हीन अने छे तो अके प्रदेशथी हीन अने जे अधिक थाय छे तो अके प्रदेश अधिक थाय छे. तात्पर्य अे छे के चार प्रदेशी स्कन्धनी जघन्य अवगाहना अके प्रदेशमा तेमज उत्कृष्ट अवगाहना चार प्रदेशमा थाय छे. मध्यम अवगाहना जे प्रकारनी छे-जे प्रदेशीमा अने त्रञ्च प्रदेशीमा तेथी ज मध्यम अवगाहना वाणा अके चार प्रदेशी स्कन्धथी जीञ्ज मध्यम अवगाहनावाणा चार प्रदेशी स्कन्ध जे अवगाहनाथी हीन थये तो अके प्रदेशज हीन थये, अने जे अधिक थाय तो ते पञ्च अके प्रदेश अधिक ज अनये. तेनाथी अधिक हीनाधिकता छे तेञ्जेमा थथ शक्ती नथी.

शादिषु पुद्गलस्कन्धेषु मध्यमावगाहनामधिकृत्य प्रदेशपरिवृद्ध्या वृद्धिर्हानिश्च तावद् वक्तव्या यावद् दशप्रदेशके पुद्गलस्कन्धे सप्त प्रदेशपरिवृद्धिर्भवति, इत्यभिप्रायेणाह—'एवं जाव दस पएसिए णेयव्वं, णवरं अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए पएसपरिवुद्धिं कायव्वा जाव दसपएसियस्स सत्त पएसो परिवुद्धिज्जन्ति' एवम्—पूर्वोक्तरीत्येव, यावत्—पञ्च षट् सप्ताष्ट नवप्रदेशिकः पुद्गल स्कन्धो ज्ञातव्यः, किन्तु नवरम्—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनके पुद्गलस्कन्धे प्रदे-शपरिवृद्धिः कर्तव्या यावद्—पञ्च षट् सप्ताष्ट नवदशप्रदेशिकस्य पुद्गल स्कन्धस्य द्वि त्रि चतुःपञ्च षट् सप्तप्रदेशाः परिवृद्धिं गन्ते, तत्र दशप्रदेशिकस्कन्धे तदभिलापो यथा—अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनको दशप्रदेशिक पुद्गलस्कन्धः अजघ-न्यानुत्कृष्टावगाहनकस्य दशप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्य अवगाहनापेक्षया स्या-

इसी प्रकार पंचप्रदेशी आदि पुद्गल स्कंधों में मध्यम अवगाहना को लेकर एक एक प्रदेश की वृद्धि करते हुए वृद्धि—हानि कहनी चाहिए, यावत् दशप्रदेशी स्कंध में प्रदेशों की वृद्धि होती है। इसी अभिप्राय से कहा है—इसी प्रकार पंचप्रदेशी, षट्प्रदेशी, सप्त प्रदेशी, अष्टप्रदेशी और नवप्रदेशी पुद्गल स्कंध को भी समझ लेना चाहिए, विशेषता यह है कि मध्यम अवगाहना वाले स्कंध, में एक एक प्रदेश की वृद्धि करलेनी चाहिए, तदनुसार पांचप्रदेशी स्कंध में दो, षट्स्थानप्रदेशी स्कंध में तीन, सप्तप्रदेशी स्कंध में चार, अष्टप्रदेशी स्कंध में पांच, नवप्रदेशी स्कंध में छह और दसप्रदेशी स्कंध में सात प्रदेशों की हानि वृद्धि होती है। इस प्रकार दशप्रदेशी स्कंध के विषय में कहा जाएगा—एक मध्यम अवगाहना वाले दशप्रदेशी स्कंध से अव-

એજ રીતે પાચ પ્રદેશી આદિ પુદ્ગલ સ્કન્ધોમા મધ્યમ અવગાહના ને લઇને એક એક પ્રદેશની વૃદ્ધિ કરતા જઇને—વૃદ્ધિ હાની કહેવી જોઇએ, યાવત્ દશ પ્રદેશી સ્કન્ધમા સાત પ્રદેશોની વૃદ્ધિ થાય છે એ અભિપ્રાયથી કહ્યું છે એજ રીતે પચ પ્રદેશી, ષટ પ્રદેશી, સપ્ત પ્રદેશી, અષ્ટ પ્રદેશી, અને નવ પ્રદેશી પુદ્ગલ સ્કન્ધને પણ સમજી લેવો જોઇએ, વિશેષતા એ છે કે મધ્યમ અવગાહનાવાળા સ્કન્ધમા એક એક પ્રદેશની વૃદ્ધિ કરી લેવી જોઇએ, તદનુ-સાર પાચ પ્રદેશી સ્કન્ધમા એ, ષટ્પ્રદેશી સ્કન્ધમા ત્રણ સપ્ત પ્રદેશી સ્કન્ધમા ચાર, અષ્ટ પ્રદેશી સ્કન્ધમા પાચ, નવ પ્રદેશી સ્કન્ધમા છ અને દશ પ્રદેશી સ્કન્ધમા સાત પ્રદેશોની હાનિ વૃદ્ધિ થાય છે, તેમ સમજવું જોઇએ. એ પ્રકારે દશ પ્રદેશી સ્કન્ધના વિષયમા એમ કહેવાશે કે એક મધ્યમ અવગાહનાવાળા દશ પ્રદેશી સ્કન્ધ બીજા મધ્યમ અવગાહનાવાળા દશ પ્રદેશી સ્કન્ધથી અવગાહનાની

સિય હીને સિય તુલ્લે સિય અઞ્મહિઈ' નવરમ્-પૂર્વાપેક્ષયા વિશેષસ્તુ અવગા-
 હનાર્થતયા--અવગાહનાપેક્ષયા, સ્યાત્-કદાચિત્ કશ્ચિત્ હીનો ભવતિ, સ્યાત્-
 કદાચિત્ કશ્ચિત્ તુલ્યો ભવતિ, સ્યાત્-કદાચિત્ કશ્ચિત્ અભ્યધિકો ભવતિ,
 તત્ર 'જદ્ હીને પપ્સહીને' યદા હીનો પ્રદેશહીનો ભવતિ, 'અહ અઞ્મહિઈ
 પપ્સઅઞ્મહિઈ' અથ-યદા અભ્યધિકો વિવક્ષિતસ્તદા પ્રદેશાભ્યધિકો ભવતિ, તથા
 ચતુઃપ્રદેશસ્ય પુદ્ગલસ્કન્ધસ્ય જઘન્યાવગાહના ઈકપ્રદેશરૂપા, ઉત્કૃષ્ટાવગાહના ચ
 ચતુઃપ્રદેશરૂપા ભવતિ, મધ્યમાવગાહનાતુ દ્વિવિયા ભવતિ દ્વિ પ્રદેશરૂપા, ત્રિપ્રદેશ-
 રૂપા ચ, તત્ર મધ્યમાવગાહનક્રન્ધુઃપ્રદેશિકઃ પુદ્ગલસ્કન્ધો મધ્યમાવગાહનકઃ ચતુઃ
 પ્રદેશિક પુદ્ગલસ્કન્ધાપેક્ષયા યદા હીનો વિવક્ષિત સ્તદા પ્રદેશતો હીનો ભવતિ,
 અથ યદા અભ્યધિકો વિવક્ષિતસ્તદા પ્રદેશતોઽભ્યધિકો ભવતિ, એવમેવ પञ્ચપ્રદે-

મધ્યમ અવગાહના ત્રાલા ચતુઃપ્રદેશી સ્કન્ધ મ્હી સમજ્જલેના ચાહિઈ
 કિન્તુ ઉસે અધગાહના કી અપેક્ષા કદાચિત્ હીન, કદાચિત્ તુલ્ય
 ઔર કદાચિત્ અધિક કહના ચાહિઈ । અગર હીન હોતા હૈ તો
 ઈક પ્રદેશ સે હીન ઔર યદિ અધિક હોતા હૈ તો ઈક પ્રદેશ સે અધિક
 હોતા હૈ । તાત્પર્ય યહ હૈ કિ ચૌપ્રદેશી સ્કન્ધ કી જઘન્ય અવગાહના
 ઈક પ્રદેશ મેં ઈવં ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના ચાર પ્રદેશોં મેં હોતી હૈ ।
 મધ્યમ અવગાહના દો પ્રકાર કી હૈ-દો પ્રદેશોં મેં ઔર ત્રીન પ્રદેશોં
 મેં અતઃપ્ચ મધ્યમ અવગાહના વાલે ઈક ચૌપ્રદેશી સ્કન્ધ સે દૂસરે
 મધ્યમ અવગાહના વાલા ચૌપ્રદેશી સ્કન્ધ યદિ અવગાહના સે હીન હોગા
 તો ઈક પ્રદેશહીન હી હોગા ઔર જો અધિક હૈ વહ મ્હી ઈક પ્રદેશા-
 ધિક હી હોગા । હસસે અધિક હીનાધિકતા ડનમેં નહી હો સકતી ।

પ્રદેશી સ્કન્ધ યજ્ઞ સમજ્જ લેવા નેધએ. પરન્તુ અવગાહનાની અપેક્ષાએ કદા-
 ચિત્ હીન, કદાચિત્ તુલ્ય, અને કદાચિત્ અધિક કહેવી નેધએ. ને હીન
 અને છે તો એક પ્રદેશથી હીન અને ને અધિક થાય છે તો એક પ્રદેશ
 અધિક થાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે ચાર પ્રદેશી સ્કન્ધની જઘન્ય અવગાહના
 એક પ્રદેશમા તેમજ ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના ચાર પ્રદેશમા થાય છે મધ્યમ અવ-
 ગાહના બે પ્રકારની છે-બે પ્રદેશોમા અને ત્રણ પ્રદેશોમા તેથી જ મધ્યમ
 અવગાહના વાળા એક ચાર પ્રદેશી સ્કન્ધથી બીજા મધ્યમ અવગાહનાવાળા
 ચાર પ્રદેશી સ્કન્ધ ને અવગાહનાથી હીન થશે તો એક પ્રદેશજ હીન થશે.
 અને ને અધિક થાય તો તે યજ્ઞ એક પ્રદેશ અધિક જ બનશે. તેનાથી
 અધિક હીનાધિકતા છે તેઓમા થઈ શકતી નથી.

शादिषु पुद्गलस्कन्धेषु मध्यमावगाहनामधिकृत्य प्रदेशपरिवृद्ध्या वृद्धिर्हानिश्च तावद् वक्तव्या यावद् दशप्रदेशके पुद्गलस्कन्धे सप्त प्रदेशपरिवृद्धिर्भवति, इत्यभिप्रायेणाह—‘एवं जाव दस एसिए जेयव्वं, णवरं अजहण्णमणुकोसोगाहणए एसपरिवुद्धि कायन्ना जाव दसएसियस्स सत्त एसए परिवुद्धिज्जन्ति’ एवम्—पूर्वोक्तरोत्येव, यावत्—पञ्च पट् सप्ताष्ट नवप्रदेशिकः पुद्गल स्कन्धो जातव्यः, किन्तु नवरम्—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनके पुद्गलस्कन्धे प्रदेशपरिवृद्धिः कर्त्तव्या यावद्—पञ्च पट् सप्ताष्ट नवदशप्रदेशिकस्य पुद्गल स्कन्धस्य द्वि त्रि चतुःपञ्च पट् सप्तप्रदेशाः परिवृद्धिंप्नन्ते, तत्र दशप्रदेशिकस्कन्धे तदभिलापो यथा—अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनको दशप्रदेशिक पुद्गलस्कन्धः अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकस्य दशप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्य अवगाहनापेक्षया स्या-

इसी प्रकार पंचप्रदेशी आदि पुद्गल स्कंधों में मध्यम अवगाहना को लेकर एक एक प्रदेश की वृद्धि करते हुए वृद्धि—हानि कहनी चाहिए, यावत् दशप्रदेशी स्कंध में प्रदेशों की वृद्धि होती है। इसी अभिप्राय से कहा है—इसी प्रकार पंचप्रदेशी, षट्प्रदेशी, सप्त प्रदेशी, अष्टप्रदेशी और नवप्रदेशी पुद्गल स्कंध को भी समझ लेना चाहिए, विशेषता यह है कि मध्यम अवगाहना वाले स्कंध, में एक एक प्रदेश की वृद्धि करलेनी चाहिए, तदनुसार पांचप्रदेशी स्कंध में दो, षट्स्थानप्रदेशी स्कंध में तीन, सप्तप्रदेशी स्कंध में चार, अष्टप्रदेशी स्कंध में पांच, नवप्रदेशी स्कंध में छह और दसप्रदेशी स्कंध में सात प्रदेशों की हानि वृद्धि होती है। इस प्रकार दशप्रदेशी स्कंध के विषय में कहा जाएगा—एक मध्यम अवगाहना वाले दशप्रदेशी स्कंध से अव-

येन रीते पाच प्रदेशी आदि पुद्गल स्कन्धोमा मध्यम अवगाहना ने लधने अेक अेक प्रदेशनी वृद्धि करता ळधने—वृद्धि हानी कडेवी ळेधअे, यावत् दश प्रदेशी स्कन्धमा सात प्रदेशोनी वृद्धि थाय छे अे अलिप्रायथी कछु छे अेन रीते पाच प्रदेशी, षट् प्रदेशी, सप्त प्रदेशी, अष्ट प्रदेशी, अने नव प्रदेशी पुद्गल स्कन्धने पणु समलु लेवा ळेधअे, विशेषता अे छे के मध्यम अवगाहनावाणा स्कन्धमा अेक अेक प्रदेशनी वृद्धि करी लेवी ळेधअे, तदनुसार पाच प्रदेशी स्कन्धमा अे, षट्प्रदेशी स्कन्धमा त्रणु सप्त प्रदेशी स्कन्धमा चार, अष्ट प्रदेशी स्कन्धमा पाच, नव प्रदेशी स्कन्धमा छ अने दश प्रदेशी स्कन्धमा सात प्रदेशोनी हानि वृद्धि थाय छे, तेम समलु ळेधअे. अे प्रकारे दश प्रदेशी स्कन्धना विषयमा अेम कडेवाशे के अेक मध्यम अवगाहनावाणा दश प्रदेशी स्कन्ध ळील मध्यम अवगाहनावाणा दश प्रदेशी स्कन्धथी अवगाहनानी

सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु अवगाहनार्थतया-अवगाहनापेक्षया, स्यात्-कदाचित् कश्चित् हीनो भवति, स्यात्-कदाचित् कश्चित् तुल्यो भवति, स्यात्-कदाचित् कश्चित् अभ्यधिको भवति, तत्र 'जइ हीणे पएसहीणे' यदा हीनो प्रदेशहीनो भवति, 'अह अब्भहिए पएसअब्भहिए' अथ-यदा अभ्यधिको विवक्षितस्तदा प्रदेशाभ्यधिको भवति, तथा चतुःप्रदेशस्य पुद्गलस्कन्धस्य जघन्यावगाहना एकप्रदेशरूपा, उत्कृष्टावगाहना च चतुःप्रदेशरूपा भवति, मध्यमावगाहनात् द्विविधा भवति द्वि प्रदेशरूपा, त्रिप्रदेशरूपा च, तत्र मध्यमावगाहनकश्चतुःप्रदेशिः पुद्गलस्कन्धो मध्यमावगाहनकः चतुःप्रदेशिक पुद्गलस्कन्धापेक्षया यदा हीनो विवक्षितस्तदा प्रदेशतो हीनो भवति, अथ यदा अभ्यधिको विवक्षितस्तदा प्रदेशतोऽभ्यधिको भवति, एवमेव पञ्चप्रदे-

मध्यम अवगाहना वाला चतुःप्रदेशी स्कंध भी समझलेना चाहिए' किन्तु उसे अधगाहना की अपेक्षा कदाचित् हीन, कदाचित् तुल्य और कदाचित् अधिक कहना चाहिए। अगर हीन होता है तो एक प्रदेश से हीन और यदि अधिक होता है तो एक प्रदेश से अधिक होता है। तात्पर्य यह है कि चौप्रदेशी स्कंध की जघन्य अवगाहना एक प्रदेश में एवं उत्कृष्ट अवगाहना चार प्रदेशों में होती है। मध्यम अवगाहना दो प्रकार की है-दो प्रदेशों में और तीन प्रदेशों में अतएव मध्यम अवगाहना वाले एक चौप्रदेशी स्कंध से दूसरे मध्यम अवगाहना वाला चौप्रदेशी स्कंध यदि अवगाहना से हीन होगा तो एक प्रदेशहीन ही होगा और जो अधिक है वह भी एक प्रदेशाधिक ही होगा। इससे अधिक हीनाधिकता उनमें नहीं हो सकती।

प्रदेशी स्कन्ध पञ्च समष्टि देवा लोभञ्जे. परन्तु अवगाहनानी अपेक्षाञ्जे कदाचित् हीन, कदाचित् तुल्य, अने कदाचित् अधिक कहेवी लोभञ्जे. जे हीन अने छे तो जेक प्रदेशथी हीन अने जे अधिक थाय छे तो जेक प्रदेश अधिक थाय छे. तात्पर्य जे छे के चार प्रदेशी स्कन्धनी जघन्य अवगाहना जेक प्रदेशमा तेमज उत्कृष्ट अवगाहना चार प्रदेशमा थाय छे मध्यम अवगाहना जे प्रकारनी छे-जे प्रदेशोमा अने त्रि प्रदेशोमां तेथी ज मध्यम अवगाहना वाणा जेक चार प्रदेशी स्कन्धथी जील मध्यम अवगाहनावाणा चार प्रदेशी स्कन्ध जे अवगाहनाथी हीन थरी तो जेक प्रदेशज हीन थरी. अने जे अधिक थाय तो ते पञ्च जेक प्रदेश अधिक ज अनरी. तेनाथी अधिक हीनाधिकता छे तेजोमा थछ शकती नथी.

शादिषु पुद्गलस्कन्धेषु मध्यमावगाहनामधिकृत्य प्रदेशपरिवृद्ध्या वृद्धिर्हानिश्च तावद् वक्तव्या यावद् दशप्रदेशके पुद्गलस्कन्धे सप्त प्रदेशपरिवृद्धिर्भवति, इत्यभिप्रायेणाह—'एवं जाव दस पएसिए जेयच्चं, णवरं अजघण्णमणुत्तोमोगाहणए पएसपरिवुद्धि क्कायव्जा जाव दसपएसियस्स सत्त पएमा परिवुट्टिज्जंति' एवम्—पूर्वोक्तरीत्येव, यावत्—पञ्च पट् सप्ताष्ट नवप्रदेशिकः पुद्गल स्कन्धो ज्ञातव्यः, किन्तु नवरम्—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनके पुद्गलस्कन्धे प्रदेशपरिवृद्धिः कर्त्तव्या यावद्—पञ्च पट् सप्ताष्ट नवदशप्रदेशिकस्य पुद्गल स्कन्धस्य द्वि त्रि चतुःपञ्च पट् सप्तप्रदेशाः परिवृद्धिं गन्ते, तत्र दशप्रदेशिकस्कन्धे तदभिलापो यथा—अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनको दशप्रदेशिक पुद्गलस्कन्धः अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकस्य दशप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्य अत्रगाहनापेक्षया स्या-

इसी प्रकार पंचप्रदेशी आदि पुद्गल स्कंधों में मध्यम अवगाहना को लेकर एक एक प्रदेश की वृद्धि करते हुए वृद्धि—हानि कहनी चाहिए, यावत् दशप्रदेशी स्कंध में प्रदेशों की वृद्धि होती है। इसी अभिप्राय से कहा है—इसी प्रकार पंचप्रदेशी, षट्प्रदेशी, सप्त प्रदेशी, अष्टप्रदेशी और नवप्रदेशी पुद्गल स्कंध को भी समझ लेना चाहिए, विशेषता यह है कि मध्यम अवगाहना वाले स्कंध, में एक एक प्रदेश की वृद्धि कर लेनी चाहिए, तदनुसार पांचप्रदेशी स्कंध में दो, षट्स्थानप्रदेशी स्कंध में तीन, सप्तप्रदेशी स्कंध में चार, अष्टप्रदेशी स्कंध में पांच, नवप्रदेशी स्कंध में छह और दसप्रदेशी स्कंध में सात प्रदेशों की हानि वृद्धि होती है। इस प्रकार दशप्रदेशी स्कंध के विषय में कहा जाएगा—एक मध्यम अवगाहना वाले दशप्रदेशी स्कंध से अव-

ज्जेव रीते पाच प्रदेशी आदि पुद्गल स्कन्धोमा मध्यम अवगाहना ने लधने जेक जेक प्रदेशानी वृद्धि करता ज्जधने—वृद्धि हानी कडेवी जेधजे, यावत् दश प्रदेशी स्कन्धमा सात प्रदेशोनी वृद्धि थाय छे जे अलिप्रायथी कहु छे ज्जेव रीते पाच प्रदेशी, षट् प्रदेशी, सप्त प्रदेशी, अष्ट प्रदेशी, ज्जने नव प्रदेशी पुद्गल स्कन्धने पणु समणु लेवो जेधजे, विशेषता जे छे के मध्यम अवगाहनावाणा स्कन्धमा जेक जेक प्रदेशानी वृद्धि करी लेवी जेधजे, तदनुसार पाच प्रदेशी स्कन्धमा जे, षट्प्रदेशी स्कन्धमा त्रणु सप्त प्रदेशी स्कन्धमा चार, अष्ट प्रदेशी स्कन्धमा पाच, नव प्रदेशी स्कन्धमा छ ज्जने दश प्रदेशी स्कन्धमा सात प्रदेशोनी हानि वृद्धि थाय छे, तेम समणुवु जेधजे. जे प्रकारे दश प्रदेशी स्कन्धना विषयमा जेम कडेवाशे के जेक मध्यम अवगाहनावाणा दश प्रदेशी स्कन्ध जौवा मध्यम अवगाहनावाणा दश प्रदेशी स्कन्धथी अवगाहनानी

हीनः स्यात्तुल्यः, स्यादभ्यधिकः, तत्र यदा हीनो वा भवति, अथ यदा अभ्यधिको विवक्षितस्तदा प्रदेशाभ्यधिको वा द्विप्रदेशाभ्यधिको वा, त्रिप्रदेशाभ्यधिको वा, चतुःप्रदेशाभ्यधिको वा भवति, इति ! गौतमः पृच्छति—‘जहण्णो-गाहणगाणं भंते ! संखेज्जपएसियाणं पुच्छा’ हे भदन्त ! जघन्यावगाहनकानां संख्येयप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानां क्रियन्तः पर्यवा प्रज्ञप्ताः, भगवान् आह—‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पणत्ता’ जघन्यावगाहनकानां संख्येय-प्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानां अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतमः पृच्छति—‘से केणट्ठेणं भंते ! ‘एवं वुच्चइ—जहण्णोगाहणगाणं संखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता’ हे भदन्त ! तत् अथ, केनार्येण—कथं तावत्, एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते यद्—जघन्यावगाहनकानां संख्येयप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानां अनन्ताः पर्यवाः

गाहना की दृष्टि कदाचित् हीन कदाचित् तुल्य और कदाचित् अधिक होता है। यदि हीन विवक्षित किया जाय तो एक प्रदेश से हीन, दो प्रदेशों से हीन, तीन प्रदेशों से हीन चारप्रदेशों से हीन, पांच-प्रदेशों से हीन, छह प्रदेशों से हीन अथवा सातप्रदेशों हीन होता है, यदि अधिक विवक्षित किया तो एक प्रदेश से अधिक, दो प्रदेशों से अधिक, तीन प्रदेशों से अधिक, चार प्रदेशों से अधिक, पांच प्रदेशों से अधिक, छह प्रदेशों से अधिक अथवा सात प्रदेशों से अधिक होता है।

गौतम—हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले संख्यातप्रदेशी स्कंधों के कितने पर्याय हैं ?

भगवन्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए हैं

गौतम—हे भगवान् ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है जघन्य

दृष्टिसे कदाचित् हीन, कदाचित् तुल्य, कदाचित् अधिक थाय छे जे हीन विवक्षित कराय तो जेक प्रदेशी हीन, जे प्रदेशी हीन, त्रयु प्रदेशी हीन चार प्रदेशी हीन, पाय प्रदेशी हीन, छ प्रदेशी हीन, अथवा सात प्रदेशी हीन थाय छे, जे अधिक विवक्षित कराय तो जेक प्रदेशी अधिक जे प्रदेशी अधिक, त्रयु प्रदेशी अधिक, चार प्रदेशी अधिक, पाय प्रदेशी अधिक, छ प्रदेशी अधिक अथवा सात प्रदेशी अधिक थाय छे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य अवगाहनावाणा सभ्यात प्रदेशी स्कन्धाना केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहेला छे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! शा कारणे जेवु कहेवाय छे के जघन्य

प्रज्ञप्ताः इति ? भगवान् आह—‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘जहण्णोगाहणए संखे-
ज्जपएसिए’ जघन्यावगाहनकः संख्यातप्रदेशिकः स्क्रन्धः ‘जहण्णोगाहणगम्स’
जघन्यावगाहनकस्य ‘संखिज्जपएसियस्स’ संख्यातप्रदेशिकस्य ‘ढव्वट्टयाए तुल्ले’
द्रव्यार्थतया तुल्यः ‘पएसट्टयाए दुद्दाणवडिए’ प्रदेशार्थतया द्विस्थानपतितः ‘ओगा-
हणट्टयाए तुल्ले’ अत्रगाहनापेक्षया तुल्यः ‘टिईण चउट्टाणवडिए’ स्थित्या चतुः-
स्थानपतितः ‘वण्णाडचउफासपज्जवेहि य छट्टाणवडिए’ वर्णादि चतुस्पर्शपर्यवैः
पट्स्थानपतितो भवति ‘एणं उकोसोगाहणए वि’ एवमेव उत्कृष्टावगाहनकोऽपि
बोध्यः ‘अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एणं चेव’ मध्यमावगाहनकोऽप्येवमेव
अवगाहना वाले संख्यातप्रदेशीस्कंध के अनन्त पर्याय हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! एक जघन्य अवगाहना वाला संख्यात-
प्रदेशी स्कंध दूसरे जघन्य अवगाहनावाले संख्यातप्रदेशी स्कंध से
द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है । प्रदेशों की दृष्टि से द्विस्थानपतित होता
है, अर्थात् जघन्य अवगाहना वाला संख्यातप्रदेशी एक स्कंध दूसरे
जघन्य अवगाहना वाले संख्यातप्रदेशी स्कंध से संख्यातप्रदेश
हीन अथवा संख्यातगुणप्रदेशहीन होता है । और यदि अधिक विव-
क्षित हो तो संख्यातभागप्रदेशाधिक या संख्यातगुणप्रदेशाधिक होता
है । अवगाहना से तुल्य होता है, क्योंकि दोनों ही जघन्य अवगाहना
वाले हैं । स्थिति की दृष्टि से चतुस्थानपतित होता है, अर्थात् असं-
ख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन, संख्यातगुण हीन अथवा असं-
ख्यातगुण हीन होता है । अधिक विवक्षित होतो असंख्यातभाग
अधिक, संख्यातभाग अधिक, संख्यातगुण अधिक या असंख्यात-

अवगाहनावाणा संख्यात प्रदेशी स्कन्धना अनन्त पर्याय छे ?

श्रीभगवान्—हे गौतम ! एक जघन्य अवगाहनावाणा संख्यात प्रदेशी स्कन्ध
भील जघन्य अवगाहनावाणा संख्यात प्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी दृष्टिसे तुल्य
छे. प्रदेशोनी दृष्टिसे द्विस्थान पतित थाय छे. अर्थात् जघन्य अवगाहना
वाणा संख्यात प्रदेशी स्कन्ध भील जघन्य अवगाहनावाणा संख्यात प्रदेशी
स्कन्धथी संख्यात भाग प्रदेश हीन अथवा संख्यातगुण प्रदेश हीन थाय
छे, जो अधिक विवक्षित होय तो संख्यात भाग प्रदेशाधिक अगर संख्यात
गुण प्रदेशाधिक थाय छे, अवगाहनासे तुल्य थने छे. केभके गन्ने जघन्य
अवगाहनावाणा छे, स्थितिनी दृष्टिसे यतु स्थानपतित थाय छे. अर्थात् असं-
ख्यात भाग हीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, अथवा असंख्यात
गुण हीन थाय छे अधिक विवक्षित होय तो असंख्यात भाग अधिक, संख्यात
भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, वा असंख्यात गुण अधिक थाय छे,

‘नवरं सद्भाणे दुद्भाणवडिण्’ नवरं विशेषस्तु मध्यमावगाहनको संख्यातप्रदेशी पुद्गलस्कन्धः द्विस्थानपतितो भवति ‘जहण्णोगाहणगाणं असंखिज्जपएसियाणं पुच्छा’ जघन्यावगाहकानामसंख्येयप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानां कियन्तः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ? इति प्रश्नः ‘गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ हे गौतम ! अनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः गौतमः पृच्छति—‘से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—‘जहण्णो-गुण अधिक होता है। वर्ण आदि तथा चार स्पर्शों के पर्यायों से अर्थात् शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष स्पर्श से पट्टस्थानपतित होता है।

उत्कृष्ट अवगाहना वाले संख्यात प्रदेशी स्कन्ध के पर्यायों की प्रख्यणा जघन्य अवगाहना वाले संख्यातप्रदेशी स्कन्ध के पर्यायों के समान समझना चाहिए। मध्यम अवगाहना वाले संख्यातप्रदेशी स्कन्ध को भी इसी प्रकार कहना चाहिए, परन्तु वह स्वस्थान में द्विस्थानपतित होता है अर्थात् मध्यम अवगाहना वाला संख्यातप्रदेशी पुद्गल स्कन्ध दूसरे मध्यम अवगाहना वाले संख्यातप्रदेशी स्कन्ध से अवगाहना की दृष्टि से संख्यातभागहीन अथवा संख्यातगुण हीन होता है या संख्यातभाग अधिक और संख्यातगुण अधिक होता है।

गौतम—हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले असंख्यातप्रदेशी स्कन्धों के कितने पर्याय हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाले अर्थात् अकाश के एक ही प्रदेश में स्थित असंख्यातप्रदेशी पुद्गलस्कन्धों के अनन्त पर्याय हैं ?

वर्ण आदि तथा चार स्पर्शोंना पर्यायथी अर्थात् शीत, उष्ण स्निग्ध अने रूक्ष स्पर्शोथी पट्टस्थान पतित थाय छे.

उत्कृष्ट अवगाहनावाणा स ज्ज्यात प्रदेशी स्कन्धना पर्यायिनी प्रज्ञप्ता जघन्य अवगाहना वाणा स ज्ज्यात प्रदेशी स्कन्धना पर्यायिना समान सम ज्वी जेधये मध्यम अवगाहनावाणा स ज्ज्यात प्रदेशी स्कन्धने पण्णये प्रकारे कडेवे जेधये, परन्तु ते स्थानमा द्विस्थानपतित थाय छे, अर्थात् मध्यम अवगाहनावाणा स ज्ज्यात प्रदेशी स्कन्धथी अवगाहनानी दृष्टिजे स ज्ज्यात लाग हीन अथवा स ज्ज्यात शुष्णहीन थाय छे अजर स ज्ज्यात लाग अधिक अने स ज्ज्यात शुष्ण अधिक थाय छे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य अवगाहनावाणा अस ज्ज्यात प्रदेशी स्कन्धोना केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य अवगाहनावाणा अर्थात् आकाशना ज्येक ज प्रदेशमा स्थित अस ज्ज्यात प्रदेशी पुद्गल स्कन्धोना अनन्त पर्याय छे

गाहणगणं' तद् अथ केनार्थेन केन कारणेन एवं उक्तरीत्या कथ्यते यद् जघ-
न्यावगाहनकार्णा 'असंखिज्जपएसियाणं' असंख्येयप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानां
'अणंता पज्जवा पणत्ता' अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः कथिता इति भगवा-
नुत्तरयति 'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहण्णोगाहणए असंखेज्जपएसिए संये
जहण्णोगाहणमस्स असंखिज्जपएसियस्स संघस्स दब्बट्टयाए तुल्ले' जघन्या-
वगाहनक्रोऽसंख्येयप्रदेशिकः स्कन्धो जघन्यावगाहनकस्य असंख्येयप्रदेशिकस्य
स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, 'पएसट्टयाए चउट्टाणवडिए' प्रदेशा-
र्थतया चतुःस्थानपतितो भवति, 'ओगाहणट्टयाए तुल्ले' अवगाहनार्थतया
अवगाहनापेक्षया तुल्यो भवति, 'ठिईए चउट्टाणवडिए' स्थित्या चतुःस्थानपतितो
भवति, 'वण्णाइ उवरिल्लफासेहिय छट्टाणवडिए' वर्णादिभिः उपरितनचतुः
स्पर्शैश्च-शीतोष्णस्निग्धरूक्ष स्पर्शपर्यवैः पट्स्थानपतितो भवति, 'एवं उक्कोसो-
गाहणए वि, एवं-अघन्यावगाहनकासंख्येयप्रदेशिकस्कन्धवदेव उत्कृष्टावगाहनक्रो-

गौतम-हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या हेतु है ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाले असंख्यातप्रदेशी
पुद्गलस्कंध दूसरे जघन्य अवगाहनावले असंख्यातप्रदेशी पुद्गल
स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है । प्रदेशों की अपेक्षा चतुःस्थान-
पतित होता है, अवगाहना की अपेक्षा तुल्य है, स्थिति की अपेक्षा
चतुःस्थानपतित होता है और वर्ण, गंध, रस तथा शीत, उष्ण, स्निग्ध
और रूक्ष स्पर्श की अपेक्षा से षट्स्थानपतित होता है ।

जघन्य अवगाहना वाले असंख्यातप्रदेशी पुद्गलस्कंध के समान
ही उत्कृष्ट अवगाहना वाले असंख्यातप्रदेशी स्कंध की प्ररूपणा
समझ लेनी चाहिए' मध्यम अवगाहना वा ले अर्थात् आकाश के दो

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! येम कडेवानो शे हेतु छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य अवगाहनावगाणा असंख्यात प्रदेशी
येक पुद्गल स्कंध भोज जघन्य अवगाहनावगाणा असंख्यात प्रदेशी पुद्गल
स्कंधधी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य छे. प्रदेशोनी अपेक्षाये अतु स्थान पतित
अने छे अवगाहनानी अपेक्षाये तुल्य छे. स्थितिनी अपेक्षाये अतु स्थान
पतित अने छे अने वर्ण, गंध, रस, तथा शीत, उष्ण, स्निग्ध अने रूक्ष
स्पर्शनी अपेक्षाये षट्स्थानपतित थाय छे.

जघन्य अवगाहनावगाणा असंख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कन्धना समान
उत्कृष्ट अवगाहनावगाणा असंख्यात प्रदेशी स्कन्धनी प्ररूपणा समल देवी जेधजे
मध्यम अवगाहनावगाणा अर्थात् आकाशना जेथी लधने संख्यात प्रदेशीसां

प्यसंख्येयप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धः प्रतिपत्तव्यः 'अजहण्णणुकोसोगाहणए वि एवं वेव' अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकोऽपि असंख्येयप्रदेशिक पुद्गलस्कन्धः आकाशस्य द्व्यादिसंख्येयपर्यन्तप्रदेशावगाहनकः एवं चैव-जघन्यावगाहनकासंख्येयप्रदेशिक पुद्गलस्कन्धघदेव अवगन्तव्यः किन्तु-‘नवरं सट्ठाणे चउट्ठाणवडिए’ नवरम्-पूर्वा-पेक्षया विशेषस्तु स्वस्थाने-स्वस्थानापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, स्वस्थाने संख्येयप्रदेशिकस्कन्धस्य तु द्विस्थानपतितत्वमेवोक्तम्, गौतमः पृच्छति-‘जहण्णोगाहणगाणं भंते ! अणंतपएसियाणं पुच्छा’-हे भदन्त ! जघन्यावगाहन-कानाम् एकाकाशप्रदेशावगाहनवताम् अनन्तप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ?’ इति पृच्छा, भगवान् आह-‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पणत्ता !’ जघन्यावगाहनकानामनन्तप्रदेशिकानां पुद्गल-स्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति-‘से केणट्ठेणं भंते ! एवं खुच्चइ-जहण्णोगाहणगाणं अणंतपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्-अथ, केनार्थेन कथं तावत्, एवम्-उत्तरीत्या, उच्यते यत्-जघन्यावगाह-नकानामनन्तप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानां अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह-‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णोगाहणए अणंतपएसिए खंधे

से लेकर संख्यात प्रदेशों में स्थित पुद्गलस्कंध की वस्तुव्यता भी इसी प्रकार है मगर इसमें विशेषता यह है कि यह स्वस्थान में चतुः-स्थानपतित है जब कि संख्यातप्रदेशी स्कंध स्वस्थान में द्विस्थानपतित ही हो सकता है ।

गौतम-हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले अनन्तप्रदेशी पुद्गल-स्कंधों के कितने पर्याय हैं ?

भगवन्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम-हे भगवन् ! अनन्त पर्याय कहने का क्या हेतु है ?

भगवान्-हे गौतम ! एक जघन्य अवगाहना वाला अनन्तप्रदेशी

स्थित पुद्गल स्कन्धनी वस्तुव्यता यत्तु आ प्रधरनी छे, यत्तु तेमा विशेषता अे छे के अे स्वस्थानमां यत्तु स्थान पतित छे, न्यारे स भ्यात प्रदेशी स्कन्ध स्वस्थानमा द्विस्थान पतित अ थथ शकै छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् जघन्य अवगाहनावाला अनन्त प्रदेशी पुद्गल स्कन्धना केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! अनन्त पर्याय कडेवानो शो डेतु छे ?

श्री भगवान् ! हे गौतम ! अेक जघन्य अवगाहनावाला अनन्त प्रदेशी

जहण्णोगाहणगस्स अणंतपएसियस्स संधस्स दब्बट्टयाए तुल्ले' जघन्यावगाहन-
कोऽनन्तप्रदेशिकः स्कन्धो जघन्यावगाहनकस्य अनन्तप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य
द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, 'पएसट्टयाए छट्टाणवडिए' प्रदेशार्थतया पट्स्थान-
पाततो भवति, अनन्तप्रदेशिकस्कन्धस्य संख्यातासंख्यातानन्तप्रदेशसंभवात्, पट्-
स्थानपतितत्वं संभवति, 'ओगाहणट्टयाए तुल्ले' अवगाहनापेक्षया तुल्यो भवति,
'ठिईए चउट्टाणवडिए, स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, तथा चोत्कृष्टाव-
गाहनकोऽनन्तप्रदेशिकः स्कन्धः समस्त लोकव्यापी भवति, सचाचित्तमहास्कन्धः
केवलं समुद्घातकर्म पुद्गलस्कन्धो वा भवति तयोश्च द्वयोरपि दण्डकपाटमन्धा-
न्तपूरणलक्ष चतुःसमयप्रमाणत्वेन तुल्यकालत्वं भवति इति भावः 'वण्णाइ
उवरिल्ल चउफासेहि छट्टाणवडिए' वर्णादिभिः, उपरितन चतुःस्पर्शैः पट्स्थान-
पतितो भवति, 'उक्कोसोगाहणएवि एवं चेव' उत्कृष्टावगाहनकोऽपि अनन्त-
प्रदेशिकः स्कन्ध एवश्चैव-जघन्यावगाहनकानन्तप्रदेशिक स्कन्धइदेव प्रतिपत्तव्यः,
किन्तु 'णवरं ठिईए वि तुल्ले' नवरं-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थित्यापि तुल्यो
भवति, 'अजहण्णमणुक्कोसोगाहणगाणं भंते ! अणत्तपएसियाणं पुञ्जा' हे

पुद्गलस्कंध दूसरे जघन्य अवगाहना वाले अनन्तप्रदेशी स्कंध से द्रव्य
की अपेक्षा तुल्य है। प्रदेशों की अपेक्षा पट्स्थानपतित होता है,
क्योंकि उसमें संख्यात-असंख्यात-अनन्त भाग हीनाधिक एवं
संख्यात असंख्यात अनन्तगुण हीनाधिक प्रदेश हो सकते हैं। अव-
गाहना की दृष्टि से तुल्य होता है, स्थिति की से चतुःस्थापतित होता
है। वर्ण आदि तथा उपर्युक्त चार स्पर्शों की अपेक्षा से पट्स्थान
पतित होता है। उत्कृष्ट अवगाहना वाले अनन्तप्रदेशी स्कंध की
प्ररूपणा भी ऐसी समझना चाहिए, किन्तु यह स्थिति से तुल्य होता है।

मध्यम अवगाहना वाले अर्थात् आकाश के दो आदि प्रदेशों से
लेकर असंख्यात प्रदेशों में रहे हुए अनन्तप्रदेशी स्कंधों के कितने
पर्याय हैं ?

पुद्गल स्कंध पीला जघन्य अवगाहनावाला अनन्त प्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी
अपेक्षाये तुल्य, प्रदेशोनी अपेक्षाये पटस्थान पतित थाय छे, केभके तेमां
संख्यात-असंख्यात अनन्त लागहीनाधिक अने संख्यात-असंख्यात, अनन्त
शुष्णहीनाधिक प्रदेश थं शके छे अवगाहनानी दृष्टिअये तुल्य थाय छे. स्थितिनी
दृष्टिअये अतु स्थानपतित थाय छे वणु आदि तथा उपर्युक्त चार स्पर्शोनी
अपेक्षाअये पटस्थान पतित थाय छे. उत्कृष्ट अवगाहनावाला अनन्त प्रदेशोनी प्र-
पञ्जा पञ्च अेवी रीते व समजी लोथअे. किन्तु ते स्थितिअये पञ्च तुल्य थाय छे.
मध्यम अवगाहनावाला अर्थात् आकाशना अे आदि प्रदेशोथी लथं ने

भदन्त ! अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकानाम् अनन्तप्रदेशिकानां स्कन्धानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह 'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणता पज्जवा पणत्ता' अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकानामनन्त प्रदेशिकस्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—'से केणट्टेणं भंते ! 'एवं वुच्चइ—अजहणमणुक्कोसो-गाहणगाणं अणंतपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?' हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन—कथं तावद्—एवं उक्त्वा, उच्यते—अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकानामनन्तप्रदेशिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति भगवान् आह—'गोयमा ! हे गौतम ! 'अजहणमणुक्कोसोगाहणए अणंतपएसिए खंधे' अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकोऽनन्तप्रदेशिकः स्कन्धः 'अजहणमणुक्कोसोगाहणगस्स अणंतपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले' अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकस्य अनन्तप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति 'पएसट्टयाए छट्ठाणवडिए' प्रदेशार्थतया षट्स्थानपतितो भवति, 'ओगाहणट्टयाए चउट्ठाणवडिए' अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितो भवति 'ठिईए चउट्ठाणवडिए' स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, 'वण्णाइ अट्टफासेहिं छट्ठाणवडिए' वर्णादिभिः अष्टस्पर्शाः षट्स्थानपतितो भवति,

भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! मध्यम अवगाहना वाले अनन्त प्रदेशी स्कन्धों के अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवान्—हे गौतम ! मध्यम अवगाहना वाला अनन्त प्रदेशी स्कन्ध मध्यम अवगाहना वाले अनन्तप्रदेशी स्कन्ध से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है, प्रदेशों की दृष्टि से षट्स्थान पतित होता है, अवगाहना की अपेक्षा से चतुःस्थानपतित और स्थिति की अपेक्षा से भी चतुःस्थानपतित होता है । वर्ण आदि की अपेक्षा से तथा आठों स्पर्शों की अपेक्षा षट्स्थानपतित होता है ।

गौतम—हे भगवन् ! जघन्य स्थिति वाले परमाणुपुद्गलों के कितने पर्याय हैं ?

असंख्यात प्रदेशीभा रडेल्ला अनन्त प्रदेशी स्कन्धाना केटला पर्याय छे ?

श्री लगवान् उत्तर आपे छे के छे गौतम ! मध्यम अवगाहना वाणा अनन्त प्रदेशी स्कन्धाना अनन्त पर्याय छे.

श्री गौतमस्वामी—लगवान् ! जेवु कडेवात्तं शु कारणु छे ?

श्री लगवान्—छे गौतम ! मध्यम अवगाहना वाणा अनन्त प्रदेशी स्कन्ध मध्यम अवगाहनावाणा अनन्त प्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी दृष्टिअे तुल्य थाय छे प्रदेशीनी दृष्टिअे षट्स्थान पतित थाय छे, अवगाहनानी अपेक्षाअे चतुःस्थान पतित अने स्थितिनी अपेक्षाअे पणु चतुःस्थान पतित थाय छे वणु आदिनी अपेक्षाअे तथा आठे स्पर्शांनी अपेक्षाअे षट्स्थान पतित अने छे.

गौतमः पृच्छति—‘जहण्णठिइयाणं भंते ! परमाणुपोग्गलाणं पुञ्जा’ हे भदन्त ! जघन्यस्थितिकानां परमाणुपुद्गलानां कियन्तः पर्यया प्रज्ञप्ताः, इति पृच्छा, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ अनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः, जघन्यस्थितिकानां परमाणुपुद्गलानामनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ! गौतम ! पृच्छति—‘से केणट्ठेणं भंते ! एव वुच्चइ—जहण्णठिइयाणं परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन एवमुच्यते—जघन्यस्थितिकानां परमाणुपुद्गलानामनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णठिइए’ परमाणुपोग्गले जहण्णठिइयस्स परमाणुपोग्गलस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले’ जघन्यस्थितिकः परमाणुपुद्गलो जघन्यस्थितिकस्य परमाणुपुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति तथा च प्रत्येकं च द्रव्यमनन्तपर्यायमिति न्यायेन परमाणुपुद्गलस्यापि जघन्यस्थितिकस्य द्रव्यत्वेन अनन्तपर्यायसंभवात् ‘पएसइयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया—प्रदेशापेक्षया तुल्यो भवति, ‘ओगाट्ठणइयाए तुल्ले’ अवगाहनार्थतया—अवगाहनापेक्षया तुल्यो भवति, ‘ठिइए तुल्ले’ स्थित्या तुल्यो भवति ‘घण्णाइ दुफासेहिय छट्ठाणवडिए’ वर्णादिभिः, द्वि स्पर्शाभ्याञ्च—शीतोष्ण लक्षणाभ्यां पट् स्थानपतितो भवति, ‘एवं उक्कोसठिइएवि’ एवम्—जघन्यस्थि-

भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! जघन्य स्थितिवाले परमाणुपुद्गल के अनन्त पर्याय हैं ऐसा कहने का क्या कारण है ? भगवान्—हे गौतम ! जघन्य स्थिति वाला एक परमाणुपुद्गल जघन्य स्थिति वाले दूसरे परमाणुपुद्गल से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है, प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य होता है, अवगाहना से तुल्य होता है, स्थिति से तुल्य होता है, वर्णादि से तथा दो स्पर्शों से षट्स्थानपतित होता है ।

उत्कृष्ट स्थिति वाले पुद्गलपरमाणु की प्ररूपणा जघन्य स्थिति

गौतमस्वामी—हे भगवन् जघन्य स्थितिवाला परमाणु पुद्गलाना इट्ठा पर्याय क्खं छे ?

श्री भगवन्—हे गौतम ! अनन्त पर्यायो क्खं छे

श्री गौतमस्वामी हे भगवन् जघन्य स्थितिवाला परमाणु पुद्गलाना अनन्त पर्याय छे अणं क्खेवात्तु शु कारणु छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य स्थितिवाला अणं परमाणु पुद्गल जघन्य स्थितिवाला अणं परमाणु पुद्गलथी द्रव्यनी दृष्टिथी तुल्य छे प्रदेशोनी अपेक्षाथी पणु तुल्य होय छे. अवगाहनाथी पणु तुल्य होय छे. स्थितिथी पणु तुल्य होय छे वर्णादिथी तथा ये स्पर्शाथी पट्स्थान पतित थाय छे.

तिक परमाणुपुद्गलवदेव उत्कृष्ट स्थितिकोऽपि परमाणुपुद्गलोऽवगन्तव्यः 'अज-
हण्णमणुकोसठिइए चि एवं चेव' अजघन्यानुत्कृष्टस्थितिकोऽपि परमाणुपुद्गलः,
एवञ्चैव-जघन्यस्थितिक परमाणुपुद्गलवदेवावसेयः, किन्तु 'नवरं ठिईए चउट्टाण
वडिए' नवरम् पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, गौतमः
पृच्छति, 'जहण्णठिइयाणं दुपएसियाणं पुच्छा' जघन्यस्थितिकानाम् एक समय,
स्थितिमताम् द्विप्रदेशिकानां पुद्गलानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा,
भगवान् आह- 'गोयमा ! हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पणत्ता' जघन्यस्थिति-
कानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः गौतमः पृच्छति- 'से केणट्टेणं मंते !
एवं वुच्चइ-जहण्णठिइयाणं दुपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता' ? हे भदन्त !
तत्-अथ केनार्थेन-कथं तावद् एवम्-उत्तरीत्या उच्यते यद्-जघन्यस्थितिकानां
द्विप्रदेशिकानाम् पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, इति, भगवान् आह-गोयमा !
हे गौतम ! 'जहण्णठिइए दुपएसिए जहण्णठिइयस्स दुपएसियस्स दव्वहयाए
तुरले' जघन्यस्थितिको द्विप्रदेशिकः पुद्गल स्कन्धोद्विप्रदेशिकस्य जघन्यस्थिति

वाले के समान समझना चाहिए । मध्यम स्थिति वाले परमाणुपुद्गलकी प्ररूपणा भी इसी प्रकार की है, मगर विशेषता यह है कि मध्यम स्थिति वाला एक परमाणुपुद्गल दूसरे मध्यम स्थिति वाले परमाणुपुद्गल से स्थिति से चतुःस्थानपतित होता है ।

गौतम-हे भगवन् जघन्य स्थिति वाले अर्थात् एक समय की स्थिति वाले द्विप्रदेशी स्कंधों के कितने पर्याय हैं ?

भगवान्- अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम-हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्य स्थितिक एक द्विप्रदेशी स्कंध दूसरे

उत्कृष्ट स्थितिवाणा पुद्गल परमाणुनी अइपण्णा जघन्य स्थितिवाणानी
समान समञ्जसी ओधञ्जे मध्यम स्थितिवाणा परमाणु पुद्गलनी अइपण्णा पण्ण
ओधी नतनी छे, पण्ण विशेषता ओ छे के मध्यम स्थितिवाणा ओक परमाणु
पुद्गल थील मध्यम स्थितिवाणा परमाणु पुद्गलथी स्थितिओ यतु स्थान
पतित थाय छे.

श्री गौतमस्वामी-जघन्य स्थितिवाणा अर्थात् ओक समयनी स्थितिवाणा
द्विप्रदेशी स्कन्धाना केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! ओम कडेवातु शु कारण छे ?

श्री भगवान्- हे गौतम ! जघन्य स्थितिक ओक द्विप्रदेशी स्कन्ध थील

कस्य पुद्गलस्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति उभयोरपि द्विप्रदेशगत्वात्, 'ओगाहणदृष्ट्याए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए' अवगाहनार्थतया-अवगाहनापेक्षया स्यात्-कदाचित् कश्चिद् हीनो भवति, स्यात्-कदाचित् कश्चित् तुल्यो भवति, स्यात्-कदाचित्-कश्चिद् अभ्यधिको भवति, तत्र 'जइ हीणे पए-सहीणे' यदा हीनो विवक्षितस्तदा प्रदेशहीनो भवति, 'अह अब्भहिए पए-स अब्भहिए, अथ-यदा अभ्यधिको विवक्षितस्तदा प्रदेशाभ्यधिको भवति 'ठिईए तुल्ले' स्थित्या तुल्यो भवति, 'घण्णाइ चउफासेहिय छट्टाणवडिए' वर्णादिभिः, चतुःस्पर्शैश्च-शीतोष्णस्निग्धरूक्षस्य स्पर्शस्य पर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, जघन्यस्थितिक द्विप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धे शेषस्पर्शपर्यवामंभवात् 'एवं उक्कोसठिइए वि' एवम् जघन्यस्थितिक द्विप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धवदेव, उत्कृष्ट स्थितिकद्विप्रदेशिक पुद्गलस्य स्कन्धोऽपि अवगन्तव्यः, 'अजहणमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव' अजघन्यानुत्कृष्टस्थितिकोऽपि द्विप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः एवञ्चैव-जघन्यस्थितिक-द्विप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धवदेव अवगन्तव्यः किन्तु- 'णवरं ठिईए चउट्टाणवडिए,

जघन्य स्थितिक द्विप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है, प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य होता है, क्योंकि दोनों ही दो-दो प्रदेश वाले हैं, अवगाहना की अपेक्षा स्यात् हीन, स्यात् तुल्य और स्यात् अधिक होता है, यदि हीन हो तो एकप्रदेशहीन और अधिक हो तो एक प्रदेशाधिक होता है। स्थिति की अपेक्षा से तुल्य होता है और वर्णादि से तथा चार-शीत, उष्ण स्निग्ध और रूक्ष स्पर्शों से षट्-स्थानपतित होता है। शेष चार स्पर्श उसमें होते नहीं हैं। उत्कृष्ट स्थिति वाले द्विप्रदेशी स्कंध की प्ररूपणा भी इसी प्रकार समझनी चाहिए। म-यम स्थिति वाले द्विप्रदेशी स्कंध की प्ररूपणा भी ऐसी ही है, मगर उसमें विशेषता यह है कि वह स्थिति से चतुःस्थानपति

जघन्य स्थितिक द्विप्रदेशी स्कन्धकी द्रव्यकी अपेक्षासे तुल्य थाय छे, प्रदेशोकी अपेक्षासे तुल्य थाय छे, केमके णन्ने ज णे णे प्रदेशवाणा छे. अवगाहनानी अपेक्षासे स्यात् हीन, स्यात् तुल्य अने स्यात् अधिक थाय छे. जे हीन होय तो जेके प्रदेश हीन अने अधिक होय तो जेके प्रदेशशी अधिक थाय छे स्थितिनी अपेक्षासे तुल्य थाय छे अने वर्णादिथी तथा चार उष्ण शीत स्निग्ध अने रूक्ष स्पर्शाथी षट्स्थान पतितथाय छे. शेष चार स्पर्श तेमा होता नथी उत्कृष्ट स्थितिवाणा द्विप्रदेशी स्कन्धनी प्ररूपणा पणु आ प्रकारे समजवी लेउंजे. मध्यम स्थितिवाणा द्विप्रदेशी स्कन्धनी प्ररूपणा पणु आवी ज छे. पणु तेमा विशेषता जे छे के ते स्थितिथी अतु स्थान पतित

तिक परमाणुपुद्गलवदेव उत्कृष्ट स्थितिकोऽपि परमाणुपुद्गलोऽवगन्तव्यः 'अज-
हण्णमणुक्कोसट्ठिए वि एवं चेव' अजवन्मानुत्कृष्टस्थितिकोऽपि परमाणुपुद्गलः,
एवञ्चैव-जघन्यस्थितिक परमाणुपुद्गलवदेवावसेयः, किन्तु 'नवरं ठिईए चउट्ठण
वड्डिए' नवरम् पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, गौतमः
पृच्छति, 'जड्ढण्णठिईयाणं दुपएसियाणं पुच्छा' जघन्यस्थितिकानाम् एक समय,
स्थितिमताम् द्विप्रदेशानां पुद्गलानां क्रियन्तः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा,
भगवान् आह- 'गोयमा ! हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पण्णत्ता' जघन्यस्थिति-
कानां पुद्गलानामनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः गौतमः पृच्छति- 'से केणट्ठेणं भंते !
एवं बुच्चइ-जड्ढण्णठिईयाणं दुपएसियाण अणंता पज्जवा पण्णत्ता' ? हे भदन्त !
तत्-अथ केनार्येन-कथं तावद् एवम्-उत्तरीत्या उच्यते यद्-जघन्यस्थितिकाना
द्विप्रदेशिकानाम् पुद्गलानामनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः, इति, भगवान् आह-गोयमा !
हे गौतम ! 'जड्ढण्णठिईए दुपएसिए जड्ढण्णठिईयस्स दुपएसियस्स दव्वहयाए
तुल्ले' जघन्यस्थितिको द्विप्रदेशिकः पुद्गल स्कन्धोद्विप्रदेशिकस्य जघन्यस्थिति

वाले के समान समझना चाहिए। मध्यम स्थिति वाले परमाणुपुद्गल की प्ररूपणा भी इसी प्रकार की है, मगर विशेषता यह है कि मध्यम स्थिति वाला एक परमाणुपुद्गल दूसरे मध्यम स्थिति वाले परमाणुपुद्गल से स्थिति से चतुःस्थानपतित होता है।

गौतम-हे भगवन् जघन्य स्थिति वाले अर्थात् एक समय की स्थिति वाले द्विप्रदेशी स्कंधों के कितने पर्याय हैं ?

भववान्- अनन्त पर्याय हैं।

गौतम-हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्य स्थितिक एक द्विप्रदेशी स्कंध दूसरे

उत्कृष्ट स्थितिवाणा पुद्गल परमाणुनी प्रइपण्णा जघन्य स्थितिवाणानी
समान समञ्जी जेधञ्जे मध्यम स्थितिवाणा परमाणु पुद्गलानी प्रइपण्णा पण्ण
जेवी जतनी छे, पण्ण विशेषता जे छे के मध्यम स्थितिवाणा जेक परमाणु
पुद्गल जेज मध्यम स्थितिवाणा परमाणु पुद्गलथी स्थितिजे यतु स्थान
पतित थय छे

श्री गौतमस्वामी-जघन्य स्थितिवाणा अर्थात् जेक समयनी स्थितिवाणा
द्विप्रदेशी स्कन्धाना केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जेम केडेवानु शु कारण छे ?

श्री भगवन्- हे गौतम ! जघन्य स्थितिक जेक द्विप्रदेशी स्कन्ध जेज

कस्य पुद्गलस्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति उभयोरपि द्विप्रदेशवत्त्वात्, 'ओगाहणद्वयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए' अवगाहनार्थतया-अवगाहनापेक्षया स्यात्-कदाचित् कश्चिद् हीनो भवति, स्यात्-कदाचित् कश्चित् तुल्यो भवति, स्यात्-कदाचित्-कश्चिद् अभ्यधिको भवति, तत्र 'जइ हीणे पए-सहीणे' यदा हीनो विवक्षितस्तदा प्रदेशहीनो भवति, 'धठ अब्भहिए पए-सहीणे, अथ-यदा अभ्यधिको विवक्षितस्तदा प्रदेशाभ्यधिको भवति 'ठिईए तुल्ले' स्थित्या तुल्यो भवति, 'वण्णाइ चउफासेहिय छट्ठाणवडिए' वर्णादिभिः, चतुःस्पर्शैश्च-शीतोष्णस्निग्धरूक्षस्य स्पर्शस्य पर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, जघन्यस्थितिक द्विप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धे शेषस्पर्शपर्यवाप्तं भवात् 'एवं उकोसठिईए वि' एवम् जघन्यस्थितिक द्विप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धवदेव, उत्कृष्ट स्थितिकद्विप्रदेशिक पुद्गलस्य स्कन्धोऽपि अवगन्तव्यः, 'अजहणमणुकोसठिईए वि एवं चेव' अजघन्याजुत्कृष्टस्थितिकोऽपि द्विप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः एवञ्चैव-जघन्यस्थितिक-द्विप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धवदेव अवगन्तव्यः किन्तु- 'णवरं ठिईए चउट्ठाणवडिए,

जघन्य स्थितिक द्विप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है, प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य होता है, क्योंकि दोनों ही दो-दो प्रदेश वाले हैं, अवगाहना की अपेक्षा स्यात् हीन, स्यात् तुल्य और स्यात् अधिक होता है, यदि हीन हो तो एकप्रदेशहीन और अधिक हो तो एक प्रदेशाधिक होता है। स्थिति की अपेक्षा से तुल्य होता है और वर्णादि से तथा चार-शीत, उष्ण स्निग्ध और रूक्ष स्पर्शों से षट्स्थानपतित होता है। शेष चार स्पर्शों उसमें होते नहीं हैं। उत्कृष्ट स्थिति वाले द्विप्रदेशी स्कंध की प्ररूपणा भी इसी प्रकार समझनी चाहिए। मध्यम स्थिति वाले द्विप्रदेशी स्कंध की प्ररूपणा भी ऐसी ही है, मगर उसमें विशेषता यह है कि वह स्थिति से चतुःस्थानपतित

जघन्य स्थितिक द्विप्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य थाय छे, प्रदेशीनी अपेक्षाये तुल्य थाय छे, डेभके ञन्ने न् ञे ञे प्रदेशवाणा छे. अवगाहनाणी अपेक्षाये स्यात् हीन, स्यात् तुल्य अने स्यात् अधिक थाय छे. ञे हीन डेय तो ञेक प्रदेश हीन अने अधिक डेय तो ञेक प्रदेशथी अधिक थाय छे स्थितिनी अपेक्षाये तुल्य थाय छे अने वर्णादिथी तथा चार उष्ण शीत स्निग्ध अने रूक्ष स्पर्शथी षट्स्थान पतितथाय छे. शेष चार स्पर्श तेमा डेता नथी उत्कृष्ट स्थितिवाणा द्विप्रदेशी स्कन्धनी प्ररूपणा पणु आ प्रकारे समन्वी लोभये. मध्यम स्थितिवाणा द्विप्रदेशी स्कन्धनी प्ररूपणा पणु आवी न् छे पणु तेमा विशेषता अये छे के ते स्थितिथी अतु स्थान पतित

नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थित्या चतुःस्थानपतितो भाति, 'एवं जाव दसपए-सिए' एवम्-पूर्वोक्तरीत्या, यावद्-त्रि चतुः पञ्चपट् सप्ताष्ट नवदश प्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धो वक्तव्यः किन्तु- 'णवरं पएसपरिवुड्ढीकायव्या' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु प्रदेशपरिवृद्धिः कर्तव्याः 'ओगाहणहयाए तिसु वि गमएसु जाव दसपएसिए एवं पएसा परिवदृद्धिज्जति' अत्रगाहनार्थतया, अत्रगाहनापेक्षया त्रिष्वपि गमकेषु जघन्योत्कृष्टा जघन्यानुत्कृष्ट रूपेषु यावत् त्रि चतुः पञ्च पट्सप्ताष्ट नव दशप्रदेशके पुद्गलस्कन्धे, एवम्-उपवृत्तरीत्या प्रदेशाः परिवर्द्धिष्यन्ते, गौतमः पृच्छति- 'जहण्णठिइयाणं भंते ! संखिज्जपएसियाणं पुच्छा' हे भदन्त ! जघन्यस्थितिकानां संख्येयप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानां क्रियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह- 'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पणत्ता' जघन्यस्थितिकानां संख्येयप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतमः पृच्छति- 'से केणट्ठेणं भंते ! 'एवं बुचड-जहण्णठिइयाणं संखिज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?' हे भदन्त ! तत्-अथ, केनार्थेन-कथं तावद्, एवम्-उक्तरीत्या, उच्यते यद्-जघन्यस्थितिकानां संख्येयप्रदेशिकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह- 'गोयमा !' हे गौतम ! जहण्णठिइयस्स संखेज्जपएसियस्स खंधस्स दव्वहयाए

होता है इसी प्रकार त्रिप्रदेशी, चतुःप्रदेशी पञ्चप्रदेशी, षट्प्रदेशी, सप्तप्रदेशी अष्टप्रदेशी और नवप्रदेशी और दशप्रदेशी पुद्गलस्कन्ध भी समझ लेना चाहिए, मगर इनमें अनुक्रम से एक-एक प्रदेश की वृद्धि करनी चाहिए, जैसा कि पहले कहा जा चुका है ।

गौतम-हे भगवन् ! जघन्यस्थितिक संख्यातप्रदेशी पुद्गलस्कन्धा के कितने पर्याय हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम-हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण हैं ?

थाय छे ओ रीते त्रिप्रदेशी, चार प्रदेशी, पच प्रदेशी, षट्प्रदेशी, सप्तप्रदेशी अष्टप्रदेशी नव प्रदेशी अने दश प्रदेशी, पुद्गल स्कन्ध पणु समलु देवा लेधये. पणु तेओभा अनुकमथी ओक ओक प्रदेशनी वृद्धि करनी लेधये ने पडेला कळी दिधेद छे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जघन्य स्थितिक सख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कन्धाना केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ओषु कडेवालु शु कारणु छे ?

तुल्ये' जघन्य स्थितिकः संख्येयप्रदेशिकः स्वन्यो जघन्यस्थितिकस्य संख्येय-
प्रदेशिकस्य स्वन्यस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, 'परसद्व्याए दुट्टाणवडिए,
प्रदेशार्थतया-प्रदेशापेक्षया द्विस्थानपतितो भवति, संख्येयभागहीनो वा संख्ये-
यगुणहीनो वा भवति, इत्येवं द्विस्थानपतितत्वं बोध्यम्, 'ओगाहणद्व्याए दुट्टाण-
वडिए'-अवगाहनार्थतया-अवगाहनापेक्षया द्विस्थानपतितो भवति, तदभिलापः
उपर्युक्तरूपो बोध्यः, 'ठिईए तुल्ये' स्थित्या तुल्यो भवति, उभयेपामपि जघन्य-
स्थितिकत्वात्. 'वण्णाइ चउफासेहिं य छट्टाणवडिए' वर्णादिभिश्चतुः स्पर्शेश्च-
शीतोष्णस्निग्धरूक्षस्पर्शैः षट्स्थानपतितो भवति, 'एवं उक्कोसटिइएवि' एवं-
जघन्यस्थितिकसंख्येयप्रदेशिकपुद्गलस्वन्यवदेव उत्कृष्टस्थितिकोऽपि संख्येय-
प्रदेशिक पुद्गलस्वन्योऽनगन्तव्यः 'अजहणमणुकोसटिइएवि एवं चेव' अज-
घन्यानुत्कृष्टस्थितिकोऽपि जघन्यस्थितिक संख्येयप्रदेशिकपुद्गलस्वन्यवदेव

भगवान्-हे गौतम ! एक जघन्य स्थितिक संख्यातप्रदेशी स्कंध
दूसरे जघन्य स्थितिक संख्यात प्रदेशी स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा
तुल्य है, प्रदेशो की अपेक्षा द्विस्थानपतित होता है, अर्थात्
हीन हो तो संख्यात भाग हीन या संख्यातगुण हीन होता है
अधिक हो तो संख्यातभाग अधिक अथवा संख्यातगुण अधिक होता
है । अवगाहना की अपेक्षा भी द्विस्थानपतित होता है, उसका उच्चा-
रण पूर्ववत् कर लेना चाहिए, स्थिति की अपेक्षा तुल्य होता है, क्यों
कि दोनों जघन्य स्थिति वाले हैं वर्णादि की अपेक्षा से तथा चार
स्पर्शों-शीत, उष्णस्निग्ध और रूक्ष-से षट्स्थान पतित होता है । इसी
प्रकार उत्कृष्टस्थितिक संख्यातप्रदेशी स्कंध की प्ररूपणा करनी चाहिए
मध्यम स्थिति वाला संख्यातप्रदेशी स्कंध भी इसी प्रकार का है, किन्तु
स्वस्थान में अर्थात् स्थिति की अपेक्षा वह चतुःस्थानपतित होता है ।

श्री भगवान्-हे गौतम ! एक जघन्य स्थितिक संख्यात प्रदेशी
स्कंध भी जघन्य स्थितिक संख्यात प्रदेशी स्कंधकी द्रव्यकी अपेक्षा
तुल्य है, प्रदेशोकी अपेक्षा द्विस्थान पतित थाय है, अर्थात् हीन
होय तो संख्यात भाग हीन, अगर संख्यात गुणहीन थाय है, अधिक होय
तो संख्यात भाग अधिक अथवा संख्यात गुण अधिक होय है अवगाहनानी
अपेक्षाये पणु द्विस्थान पतित थाय है, तेनु' उत्कृष्टस्थितिक पूर्ववत् करी वेपु'
नेधये स्थितिनी अपेक्षाये तुल्य थाय है, केमके पन्ने जघन्य स्थितिवाणा
छे वर्णादिनी अपेक्षाये तथा चार स्पर्शों-शीत उष्ण, स्निग्ध अने रूक्ष-थी
षट्स्थान पतित थाय है. ये प्रकारे उत्कृष्ट स्थितिक संख्यात प्रदेशी स्कंधनी
प्ररूपणा करवी नेधये. मध्यम स्थितिवाणा संख्यात प्रदेशी स्कंध पणु ये

बोधयः, किन्तु—‘णवरं ठिईए चउट्टाणवडिए’ नवरम्—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, गौतमः पृच्छति—‘जहण्णठिइयाणं असंखियज्जपएसियाणं पुच्छा’ हे भदन्त ! जघन्यस्थितिकानाम् असंख्येयप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ जघन्यस्थितिकानामसंख्येयप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘से केणट्ठेणं मंते ! एवं वुच्चद—जहण्णठिइयाणं असंखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ हे भदन्त ! तत्—अय, केनार्थेन—ऋथं तावद्, एवम्—उक्तरीत्या उच्यते यत् जघन्यस्थितिकानाम् असंख्येयप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति भगवान् आह—‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘जहण्णठिइए असंखेज्जपएसिए जहण्णठिइयस्स असंखिज्जपएसियस्स दग्गट्ठयाए तुल्ले’ जघन्यस्थितिकः असंख्येयप्रदेशिकः पुद्गल स्कन्धो जघन्यस्थितिकस्य असंख्येयप्रदेशिकस्य पुद्गल स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, तथा च प्रत्येकं द्रव्यमनन्तपर्यायमिति न्यायेन जघन्यस्थितिकासंख्येयप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्यपि द्रव्यत्वेन अनन्तपर्यायसंभवात्, ‘एसट्ठयाए चउट्टाणवडिए’ प्रदेशार्थतया—प्रदेशापेक्षया चतुः-

गौतम—हे भगवन् ! जघन्य स्थितिक असंख्यातप्रदेशी पुद्गलस्कन्धो के कितने पर्याय हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! किसकारण ऐसा कहा जाता है कि जघन्य स्थितिवाले असंख्यातप्रदेशी पुद्गलस्कन्ध के अनन्त पर्याय हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! एक जघन्यस्थितिक असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध दूसरे जघन्यस्थितिक असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है, प्रदेशों की दृष्टि से चतुःस्थानपतित होता है, अवगहना की

प्रकारनां छे, किन्तु स्वस्थानभा अर्थात् स्थितिनी अपेक्षाये ते अतु स्थान पतित थाय छे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य स्थितिक असंख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कन्धानां कितना पर्याय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् शां कारणे अतु कडेवाय छे के जघन्य स्थितिवाणा असंख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कन्धना अनन्त पर्याय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! अक जघन्यस्थितिक असंख्यात प्रदेशी स्कन्ध श्रील जघन्य स्थितिक असंख्यात प्रदेशी स्कन्धानी द्रव्यानी दृष्टिअये तुल्य

स्थानपतितो भवति, 'ओगाहणवृयाए चउट्ठाणवडिए' अवगाहनार्थतया-
 अवगाहनापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, 'ठिईए तुल्ले' स्थित्या तुल्यो भवति,
 उभयेषामपि जघन्यस्थितिकत्वात् 'वण्णाइ उवरिल्ल चउफासेहिय छट्ठाणवडिए'
 वर्णादिभिः उपरितन चतुःस्पर्शैश्च-शीतोष्णस्निग्धस्कृष्णस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितो
 भवति, 'एवं उक्कोसठिइए वि' एवम्-जघन्यस्थितिकासंख्येयप्रदेशिकपुद्गल-
 स्कन्धः प्रतिपत्तव्यः, 'अजहणमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव' अजघन्यानुत्कृष्ट
 स्थितिकोऽपि असंख्येयप्रदेशिक पुद्गलस्कन्धः, एवञ्चैव-जघन्यस्थितिकासंख्येय
 प्रदेशिकपुद्गलस्कन्धवदेव अवगन्तव्यः, किन्तु- 'णवर ठिईए चट्ठाणवडिए'
 नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, गौतमः पृच्छति-
 'जहण्णठिइयाणं अणंतपएसियाणं पुच्छा' हे भदन्त ! जघन्यस्थितिकानाम्
 अनन्तप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानां क्रियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा,
 भगवान् आह- 'गोयमा ! हे गौतम ! 'अणंता पज्जावा पण्णत्ता' जघन्यस्थिति-
 द्रष्टि से चतुःस्थानपतिन होता है, स्थिति की अपेक्षा से तुल्य है क्योंकि
 दोनों जघन्य अर्थात् एक समय की स्थिति वाले हैं, वर्णादि की अपेक्षा
 से तथा ऊपर के चार स्पर्शों की अपेक्षा से षट्स्थानपतित होता है ।
 उत्कृष्टस्थितिक असंख्यातप्रदेशी स्कंध भी इसीप्रकार समझलेना
 चाहिए । मध्यमस्थिति वाले असंख्यातप्रदेशी स्कंध की वक्तव्यता भी
 ऐसी ही है, किन्तु स्थिति की अपेक्षा वह चतुःस्थानपतित होता है
 क्योंकि मध्यम स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति की तरह एक
 रूप नहीं होता, उसमें विविधता होनी है ।

गौतम-हे भगवन् ! जघन्य स्थिति वाले अनन्तप्रदेशी स्कंधों के
 कितने पर्याय हैं ?

थाय छे प्रदेशीनी दृष्टिये चतुःस्थान पतित थाय छे, अवगाहनानी दृष्टिये
 चतुःस्थान पतित थाय छे, स्थितिनी अपेक्षाये तुल्य छे केमके णन्ने जघन्य
 अर्थात् ओक समयनी स्थितिवाणा छे, वर्णादिनी अपेक्षाये तथा उपरना चार
 स्पर्शादीं षट्स्थान पतित णने छे. उत्कृष्ट स्थितिक असंख्यात प्रदेशी स्कंध
 पणु आ रीते समञ्ज देवे ओधये. मध्यम स्थितिवाणा असंख्यात प्रदेशी
 स्कंधनी वक्तव्यता पणु ओवीज छे, किन्तु स्थितिनी अपेक्षाये ते चतुःस्थान
 पतित णने छे, केमके मध्यम स्थितिना जघन्य णने उत्कृष्ट स्थितिनी जेम
 ओक रूप नथी यता, तेमा विविधता होय छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जघन्य स्थितिवाणा अनन्त प्रदेशी
 स्कन्धानां कितना पर्याय छे ?

बोधः, किन्तु—‘णवरं ठिर्इए चउट्टाणवडिए’ नवरम्—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, गौतमः पृच्छति—‘जहण्णठिइयाणं असंखिज्जपएसियाणं पुच्छा’ हे भदन्त ! जघन्यस्थितिकानाम् असंख्येयप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ जघन्यस्थितिकानामसंख्येयप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णठिइयाणं असंखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन—कथं तावद्, एवम्—उक्त्तरीत्या उच्यते यत् जघन्यस्थितिकानाम् असंख्येयप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति भगवान् आह—‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘जहण्णठिइए असंखेज्जपएसिए जहण्णठिइयस्स असंखिज्जपएसियस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले’ जघन्यस्थितिकः असंख्येयप्रदेशिकः पुद्गल स्कन्धो जघन्यस्थितिकस्य असंख्येयप्रदेशिकस्य पुद्गल स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, तथा च प्रत्येकं द्रव्यमनन्तपर्यायमिति न्यायेन जघन्यस्थितिकासंख्येयप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्यपि द्रव्यत्वेन अनन्तपर्यायसंभवात्, ‘पएसट्ठयाए चउट्टाणवडिए’ प्रदेशार्थतया—प्रदेशापेक्षया चतुः-

गौतम—हे भगवन् ! जघन्य स्थितिक असंख्यातप्रदेशी पुद्गलस्कन्धों के कितने पर्याय हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! किसकारण ऐसा कहा जाता है कि जघन्य स्थितिवाले असंख्यातप्रदेशी पुद्गलस्कन्ध के अनन्त पर्याय हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! एक जघन्यस्थितिक असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध दूसरे जघन्यस्थितिक असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है, प्रदेशों की दृष्टि से चतुःस्थानपतित होता है, अवगहना की

प्रकारेणो छे, किन्तु स्वस्थानभा अर्थात् स्थितिनी अपेक्षाये ते अतु स्थान पतित थाय छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य स्थितिक असंख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कन्धाना डेटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् शा कारणे अतु कडेवाय छे डे जघन्य स्थितिवाणा असंख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कन्धाना अनन्त पर्याय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! अेक जघन्यस्थितिक असंख्यात प्रदेशी स्कन्ध प्रीण जघन्य स्थितिक असंख्यात प्रदेशी स्कन्धधी द्रव्यनी दृष्टिअे तुल्य

स्थानपतितो भवति, 'ओगाहणद्वयाए चउट्ठाणवडिए' अवगाहनार्थतया-
 अवगाहनापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, 'ठिईए तुल्ले' स्थित्या तुल्यो भवति,
 उभयेपामपि जघन्यस्थितिकत्वात् 'वण्णाड उवरिल्ल चउफासेहिय छट्ठाणवडिए'
 वर्णादिभिः उपरितन चतुःस्पर्शैश्च-शीतोष्णस्निग्धरूक्षस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितो
 भवति, 'एवं उक्कोसठिइए वि' एवम्-जगन्यस्थितिकासंख्येयप्रदेशिकपुद्गल-
 स्कन्धः प्रतिपत्तव्यः, 'अजहणमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव' अजघन्यानुत्कृष्ट
 स्थितिकोऽपि असंख्येयप्रदेशिक पुद्गलस्कन्धः, एवञ्चैव-जघन्यस्थितिकासंख्येय
 प्रदेशिकपुद्गलस्कन्धवदेव अवगन्तव्यः, किन्तु-'णवर ठिईए चट्ठाणवडिए'
 नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, गौतमः पृच्छति-
 'जहण्णठिइयाणं अणंतपएसियाणं पुच्छा' हे भदन्त ! जघन्यस्थितिकानाम्
 अनन्तप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानां कियन्तः पर्यवाः प्रजप्ताः ? इति पृच्छा,
 भगवान् आह-'गोयमा ! हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पण्णत्ता' जघन्यस्थिति-
 द्रष्टि से चतुःस्थानपतित होता है, स्थिति की अपेक्षा से तुल्य है क्योंकि
 दोनों जघन्य अर्थात् एक समय की स्थिति वाले हैं, वर्णादि की अपेक्षा
 से तथा ऊपर के चार स्पर्शों की अपेक्षा से षट्स्थानपतित होता है ।
 उत्कृष्टस्थितिक असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध भी इसीप्रकार समझलेना
 चाहिए । मध्यमस्थिति वाले असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध की वक्तव्यता भी
 ऐसी ही है, किन्तु स्थिति की अपेक्षा वह चतुःस्थानपतित होता है
 क्योंकि मध्यम स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति की तरह एक
 रूप नहीं होता, उसमें विविधता होनी है ।

गौतम-हे भगवन् ! जघन्य स्थिति वाले अनन्तप्रदेशी स्कन्धों के
 कितने पर्याय हैं ?

थाय छे प्रदेशोनी दृष्टिये अतुःस्थान पतित थाय छे, अवगाहनानी दृष्टिये
 अतुःस्थान पतित थाय छे, स्थितिनी अपेक्षाय्ते तुल्य छे केमके ण्णे जघन्य
 अर्थात् ओक समयनी स्थितिवाणा छे, वर्णादिनी अपेक्षाय्ते तथा उपरना चार
 स्पर्शोधी षट्स्थान पतित णे छे. उत्कृष्ट स्थितिक असंख्यात प्रदेशी स्कन्ध
 पण्णत्ता आ रीते समञ्ज लेवे ओधये. मध्यम स्थितिवाणा असंख्यात प्रदेशी
 स्कन्धनी वक्तव्यता पण्णत्ता ओवीज छे, किन्तु स्थितिनी अपेक्षाय्ते ते अतुःस्थान
 पतित णे छे, केमके मध्यम स्थितिना जघन्य अणे उत्कृष्ट स्थितिनी ओम
 ओक इय नथी थता, तेमा विविधता होय छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जघन्य स्थितिवाणा अनन्त प्रदेशी
 स्कन्धानां कितना पर्याय छे ?

बोध्यः, किन्तु-‘णवरं ठिईए चउट्टाणवडिए’ नवरम्-पूर्वार्पणया विशेषस्तु स्थि-
त्या चतुःस्थानपतितो भवति, गौतमः पृच्छति-‘जहण्णठिइयाणं असंखिज्जपए-
सियाणं पुच्छा’ हे भदन्त ! जघन्यस्थितिकानाम् असंख्येयप्रदेशिकानां पुद्गलस्क-
न्धानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह-‘गोयमा !’ हे गौतम !
‘अणता पज्जवा पण्णत्ता’ जघन्यस्थितिकानामसंख्येयप्रदेशिकानां पुद्गलस्क-
न्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति-‘से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चद-
जहण्णठिइयाणं असंखेज्जपएसियाणं अणता पज्जवा पण्णत्ता’ हे भदन्त ! तत्-
अथ, केनार्थेन-रूथं तावद्, एवम्-उत्तरीत्या उच्यते यत् जघन्यस्थितिकानाम्
असंख्येयप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति भगवान्
आह-‘गोयमा ! हे गौतम !’ ‘जहण्णठिइए असंखेज्जपएसिए जहण्णठिइयस्स
असंखिज्जपएसियस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले’ जघन्यस्थितिकः असंख्येयप्रदेशिकः
पुद्गल स्कन्धो जघन्यस्थितिकस्य असंख्येयप्रदेशिकस्य पुद्गल स्कन्धस्य
द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, तथा च प्रत्येकं द्रव्यमनन्तपर्यायमिति न्यायेन
जघन्यस्थितिकासंख्येयप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्यपि द्रव्यत्वेन अनन्तपर्याय-
संभवात्, ‘एसट्ठयाए चउट्टाणवडिए’ प्रदेशार्थतया-प्रदेशार्पणया चतुः-

गौतम-हे भगवन् ! जघन्य स्थितिक असंख्यातप्रदेशी पुद्गल-
स्कंधों के कितने पर्याय हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम-हे भगवन् ! किसकारण ऐसा कहा जाता है कि जघन्य
स्थितिवाले असंख्यातप्रदेशी पुद्गलस्कंध के अनन्त पर्याय हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! एक जघन्यस्थितिक असंख्यातप्रदेशी स्कंध
दूसरे जघन्यस्थितिक असंख्यातप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य
होता है, प्रदेशों की दृष्टि से चतुःस्थानपतित होता है, अवगहना की

प्रकारने छे, किन्तु स्वस्थानमा अर्थात् स्थितिनी अपेक्षाये ते चतु स्थान
पतित थाय छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जघन्य स्थितिक असंख्यात प्रदेशी पुद्गल
स्कन्धाना केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् शा कारणे जेतु कडेवाय छे के जघन्य
स्थितिवाला असंख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कन्धाना अनन्त पर्याय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जेक जघन्यस्थितिक असंख्यात प्रदेशी स्कन्ध
प्रीला जघन्य स्थितिक असंख्यात प्रदेशी स्कन्धानी द्रव्यनी दृष्टिजे तुल्य

स्थानपतितो भवति, 'ओगाहणद्वयाए चउट्ठाणवडिए' अवगाहनार्थतया-
 अवगाहनापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, 'ठिईए तुल्ले' स्थित्या तुल्यो भवति,
 उभयेषामपि जघन्यस्थितिकत्वात् 'वण्णाइ उवरिल्ल चउफासेहिय छट्ठाणवडिए'
 वर्णादिभिः उपरितन चतुःस्पर्शैश्च-शीतोष्णस्निग्धरूक्षस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितो
 भवति, 'एवं उक्कोसठिइए वि' एवम्-जघन्यस्थितिकासंख्येयप्रदेशिकपुद्गल-
 स्कन्धः प्रतिपत्तव्यः, 'अजहणमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव' अजघन्यानुत्कृष्ट
 स्थितिकोऽपि असंख्येयप्रदेशिक पुद्गलस्कन्धः, एवञ्चैव-जघन्यस्थितिकासंख्येय
 प्रदेशिकपुद्गलस्कन्धवदेव अवगन्तव्यः, किन्तु-'णवर ठिईए चट्ठाणवडिए'
 नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, गौतमः पृच्छति-
 'जहण्णठिइयाणं अणंतपएसियाणं पुच्छा' हे भदन्त ! जघन्यस्थितिकानाम्
 अनन्तप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा,
 भगवान् आह-'गोयमा ! हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पण्णत्ता' जघन्यस्थिति-

द्रष्टि से चतुःस्थानपतित होता है, स्थिति की अपेक्षा से तुल्य है क्योंकि
 दोनों जघन्य अर्थात् एक समय की स्थिति वाले हैं, वर्णादि की अपेक्षा
 से तथा ऊपर के चार स्पर्शों की अपेक्षा से षट्स्थानपतित होता है ।
 उत्कृष्टस्थितिक असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध भी इसीप्रकार समझलेना
 चाहिए । मध्यमस्थिति वाले असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध की वक्तव्यता भी
 ऐसी ही है, किन्तु स्थिति की अपेक्षा वह चतुःस्थानपतित होता है
 क्योंकि मध्यम स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति की तरह एक
 रूप नहीं होता, उसमें विविधता होती है ।

गौतम-हे भगवन् ! जघन्य स्थिति वाले अनन्तप्रदेशी स्कन्धों के
 कितने पर्याय हैं ?

थाय छे प्रदेशीनी दृष्टिअये अतुःस्थान पतित थाय छे, अवगाहनानी दृष्टिअये
 अतुःस्थान पतित थाय छे, स्थितिनी अपेक्षाअये तुल्य छे केमके अन्ने जघन्य
 अर्थात् अेक समयनी स्थितिवाणा छे, वर्णादिनी अपेक्षाअये तथा उपरना चार
 स्पर्शाथी षट्स्थान पतित अने छे. उत्कृष्ट स्थितिक असंख्यात प्रदेशी स्कन्ध
 पणु आ रीते समञ्ज देवे. मध्यमे मध्यम स्थितिवाणा असंख्यात प्रदेशी
 स्कन्धनी वक्तव्यता पणु अेवीअ छे, किन्तु स्थितिनी अपेक्षाअये ते अतु स्थान
 पतित अने छे, केमके मध्यम स्थितिना जघन्य अने उत्कृष्ट स्थितिनी अेव
 अेक रूप नथी थता, तेमा विविधता होय छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जघन्य स्थितिवाणा अनन्त प्रदेशी
 स्कन्धानां कितने पर्याय छे ?

कानाम् अनन्तप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धानाम् अनन्ता पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णठिइयाणं अणंतपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्येन कथं तावद्, एवम्-उत्तरीत्या उच्यते यत्, जघन्यस्थितिकानामनन्तप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धानामनन्ताः पर्यवा प्रज्ञप्ता ? इति, भगवान् आह—‘भोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्ण-ठिइए अणंतपएसिए जहण्णठिइयस्स अणतपएसियस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले’ जघन्यस्थितिकोऽनन्तप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धो जघन्यस्थितिकस्य अनन्त-प्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, तथा च प्रत्येकं द्रव्यमनन्तपर्यायभित्तिन्यायेन जघन्यस्थितिकानन्तप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धस्यापि द्रव्यत्वेन अनन्तपर्यायसंभवात्, ‘पएसट्ठयाए छट्ठाणवडिए’ प्रदेशार्थतया प्रदेशापेक्षया पट्टस्थानपतितो भवति, अनन्तप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धस्य संख्याता संख्यातानन्तप्रदेशसंभवात् पट्टस्थानपतितत्व बोध्यम्, ‘ओगाहण्हयाए चउट्ठाण-वडिए’ अवगाहनार्थतया—अवगाहनापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, जघन्य-स्थितिकानन्तप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धस्य अवगाहनापेक्षया अनन्तभागगुणहीना-धिकत्वासंभवात्, ‘ठिईए तुल्ले’ स्थित्या तुल्यो भवति उभयेपामपि जघ-न्यस्थितिकत्वात्, ‘वण्णाइ अट्टफासेहिय छट्ठाणवडिए’ वर्णादिभिः अष्ट स्पर्शश्च पट्टस्थानपतितो भवति, ‘एवं उक्कोसठिइए वि’ एवम्—जघन्यस्थितिकानन्त-प्रदेशिकपुद्गलस्कन्धवदेव उत्कृष्टस्थितिकोऽपि अनन्तप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धो-

भगवान्—हे गौतम अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहाजाता है ?

भगवान्—हे गौतम ! एक जघन्यस्थितिक अनन्तप्रदेशी स्कंध दूसरे जघन्य स्थितिक अनन्त प्रदेशीस्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है, प्रदेशों की अपेक्षा से षट्स्थानपतित होता है, अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित होता है, स्थिति की अपेक्षा तुल्य है, वर्णादि तथा आठ स्पर्शों की अपेक्षा से षट्स्थानपतित होता है । इसी प्रकार

श्री भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे

श्रीगौतमस्वामी—शा कारण्णे ज्येम कडेवामा आवेल छे ?

श्री गौतमस्वामी—हे गौतम ! ज्येक जघन्य स्थितिक अनन्त प्रदेशी स्कन्ध पील जघन्य स्थितिक अनन्त प्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी अपेक्षाजे तुल्य थाय छे प्रदेशीनी अपेक्षाजे पट्टस्थान पतित थाय छे, अवगाहनानी अपेक्षाजे अतु स्थान पतित थाय छे स्थितिनी अपेक्षाजे तुल्य छे वर्णादि तथा आठ स्पर्शानी अपेक्षाजे पट्टस्थान पतित थाय छे जे प्रकारे उत्कृष्ट स्थितिषु पद्यु समल देवु ज्येधजे. अजघन्य—अनुत्कृष्ट अर्थात् मध्यम स्थितिवाणा अनन्त

उवसेययः 'अजहणमणुकोसठिइएवि एवं चेव 'अजघन्यानुकृष्टस्थितिकोऽपि अनन्तप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धः 'एवञ्चैव-जघन्यस्थितिज्ञानन्तप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धदेवावसेयः, किन्तु-'णवरं ठिईए चउट्टाणवडिए' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति तदभिलापस्तु पूर्वोक्तरीत्या वगन्तव्यः इत्याशयः ॥सूत्र०१४॥

जघन्यगुणकालकादि पर्याय वक्तव्यता

मूलम्-जहणगुणकालयाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहणगुणहालयाणं पराणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहणगुणकालए परमाणुपोग्गले जहणगुणकालगस्स परमाणुपोग्गलस्स दव्वट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए तुल्ले, ओगाहणट्टयाए तुल्ले ठिईए चउट्टाणवडिए, कालवणपज्जवेहिं तुल्ले अवसेसा वण्णा नत्थि, गंधरसदुफासपज्जवेहि य छट्टाणवडिए, एवं उक्कोसगुणकालए वि, एवम-जहणमणुकोसगुणकालए वि, णवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए, जहणगुणकालयाणं भंते ! दुपएसिययाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहणगुणकालयाणं दुपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहणगुणकालए दुपएसिए जहणगुणकालगस्स दुपएसियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्टयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए, जइ हीणे पएसहीणे, अह

उत्कृष्ट स्थिति का भी समझलेना चाहिये अजघन्य अनुकृष्ट अर्थात् मध्यम स्थिति वाले अनन्तप्रदेशी स्कन्ध की वक्तव्यता भी ऐसी ही जनना चाहिए मगर उसमें विशेषता यह है कि उसे स्थिति की अपे चतुःस्थानपतित कहना चाहिए और उन चार स्थानों का उच्चारण पूर्ववत् समझलेना चाहिए ॥ १४ ॥

प्रदेशी स्कन्धनी वक्तव्यता पण्णे अपी ७ लक्ष्मणी लोभये पण्णे अपि विशेषता अपे छे के तेने स्थितिनी अपेक्षाय्ये यत्तु स्थान पतित उड्डेव लोभये अने ते अर स्थानोवुं उच्चाराण्णु पूर्ववत् समल्ले वेवु लोभये ॥ १४ ॥

अब्भहिए पएस अब्भहिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, कालवण-
 पज्जवेहिं तुल्ले, अबसेस वण्णाइ उवरिल्ल चउफासेहि य
 छट्टाणवडिए, एवं उक्कोसगुणकालए वि, अजहन्नमणुक्कोसगुण-
 कालए वि एवं चेव, नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए, एवं जाव दस
 पएसिए, नवरं पएस परिवुड्ढी ओगाहणाए तहेव जहण्ण-
 गुणकालयाणं भंते ! संखिज्जपएसियाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता
 पज्जवा पण्णत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णगुणकाल
 याणं संखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा !
 जहण्णगुणकालए संखिज्जपएसिए जहण्णगुणकालगस्स संखि-
 ज्जपएसियस्स दब्बट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए दुट्टाणवडिए,
 ओगाहणट्टयाए, दुट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, कालवण-
 पज्जवेहिं तुल्ले, अबसेसेहिं वण्णाइ उवरिल्ल चउफासेहि य
 छट्टाणवडिए, एवं उक्कोसगुणकालए वि, एवं अजहण्णमणुक्कोस-
 गुणकालए वि, नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए, जहण्णगुणकालयाणं
 भंते ! असंखेज्जपएसियाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता,
 से केणट्टेणं भंते ! एवंबुच्चइ—जहण्णगुणकालयाणं असंखेज्जप-
 सिए जहण्णगुणकालगस्स असंखेज्जपएसियस्स दब्बट्टयाए तुल्ले,
 पएसट्टयाए, चउट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, कालवणपज्ज-
 वेहिं तुल्ले, अबसेसेहिं वण्णादि उवरिल्ल चउफासेहि य छट्टाण-
 वडिए, ओगाहणट्टयाए, चउट्टाणवडिए, एवं उक्कोसगुणकालए
 वि अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव, नवरं सट्टाणे छट्टा-
 णवडिए, जहण्णगुणकालयाणं भंते ! अणंतपएसियाणं पुच्छा,
 गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं
 बुच्चइ—जहण्णगुणकालयाणं अणंतपएसियाणं अणंता पज्जवा प-

पणत्ता ? गोयमा ! जहण्यगुणकालए अणंतपएसिए जहण्यगुण-
 कालयस्स अणंतपएसियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए छट्टा-
 णवडिए, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए,
 कालवण्णपज्जेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्णाइ अट्टाफासेहि य
 छट्टाणवडिए, एवं उक्कोसगुणकालए वि, अजहण्यमणुक्कोसगुण-
 कालए वि एवं चेव, तवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए, एवं नील-
 लोहियहालिइ सुक्किल्लसुविभगंधदुविभगंधतित्तकडुकसायअंवि-
 लयहुररसपज्जेवेहि य वत्तव्वया भाणियव्वा, नवरं परमाणुपोग्ग-
 लस्स सुविभगंधस्स दुविभगंधो न भण्णइ, दुविभगंधस्स सुविभ-
 गंधो वा न भण्णइ, तित्तस्स अवसेसं न भण्णइ, एवं कडुया
 दीण वि, अवसेसं तं चेव, जहण्यगुणकक्खड्डाणं अणंतपए-
 सियाणं खंधाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से
 केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्यगुणकक्खड्डाणं अणंतपए-
 सियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्यगुणकक्खडे
 अणंतपएसिए जहण्यगुणकक्खड्डस्स अणंतपएसियस्स दव्व-
 ट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए चउ-
 ट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णगंधरसेहिं छट्टाणवडिए,
 कक्खड्डासपज्जेवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं सत्तफासपज्जेवेहिं छट्टाण-
 वडिए, एवं उक्कोसगुणकक्खडे वि, अजहण्यमणुक्कोसगुण-
 कक्खडे वि एवं चेव, नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए, एवं मउय-
 गरुयलहुए वि भाणियव्वे, जहण्यगुणसीयाणं भंते ! परमा -
 पोग्गलाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केण-
 ट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्यगुणसीयाणं परमाणुपोग्गलाणं
 अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्यगुणसीए परमाणु-
 पोग्गले जहण्यगुणसीयस्स परमाणुपोग्गलस्स दव्वट्टयाए तुल्ले,

पएसट्टयाए तुल्ले, ओगाहणट्टयाए तुल्ले, ठिईए चउट्टाणवडिए,
 वण्णगंधरसेहिं छट्टाणवडिए, सीयफासपज्जवेहिं य तुल्ले,
 उसिणफासो न भण्णइ, णिद्धल्लुक्खफासपज्जवेहिं य छट्टाण-
 वडिए, एवं उक्कोसगुणसीए वि, अजहण्णमणुक्कोसगुणसीए वि,
 एवं चेव, नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए, जहण्णगुणसीयाणं
 दुपएसियाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता,
 से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णगुणसीयाणं दुपए-
 सियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णगुण-
 सीए दुपएसिए जहण्णगुणसीयस्स दुपएसियस्स दव्वट्टयाए
 तुल्ले, पएसट्टयाए तुल्ले, ओगाहणट्टयाए सिय हीणे, सिय
 तुल्ले, सिय अब्भहिए, जइ हीणे, पएसहीणे, अह अब्भहिए
 पएस अब्भहिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णगंधरसपज्जवेहिं
 छट्टाणवडिए, सीय फासपज्जवेहिं तुल्ले, उसिणणिद्धल्लुक्ख-
 फासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए, एवं उक्कोसगुणसीए वि, अजहण्ण-
 मणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव, णवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए, एवं
 जाव दसपएसिए, नवरं ओगाहणट्टयाए पएसपरिवुट्ठी काय-
 व्वा, जाव दस पएसियस्स नव पएसो तुट्ठिज्जंति, जहण्ण-
 गुणसीयाणं संखेज्जपएसियाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा
 पण्णत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णगुणसियाणं संखे-
 ज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णगुण-
 सीए संखेज्जपएसिए जहण्णगुणसीयस्स संखेज्जपएसियस्स
 दव्वट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए दुट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए दुट्टा-
 णवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णादीहिं छट्टाणवडिए, सीय-
 फासपज्जवेहिं तुल्ले, उसिणणिद्धल्लुक्खेहिं छट्टाणवडिए, एवं
 उक्कोसगुणसीए वि, अजहण्णमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव,

नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए, जहण्णगुणसीयाणं असंखिज्जपए-
सियाणं पुच्छा, गोयमा! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्टेणं
भंते! एवं बुच्चइ—जहण्णगुणसीयाणं असंखेज्जपएसियाणं अणंता
पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णगुणसीए असंखेज्जपएसिए
जहण्णगुणसीयस्स असंखेज्जपएसियस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले, पए-
सट्टयाए चउट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए
चउट्टाणवडिए, वण्णाइ पज्जवेहिं छट्टाणवडिए, सीयफासपज्ज-
वेहिं तुल्ले, अदसेसेहिं सत्तफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए, एवं
उक्कोसगुणसीए वि, अजहण्णमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव,
नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए, एवं उसिणणिद्धलुक्खे जहा सीते,
परमाणुपोग्गलस्स तहेव पडिवक्खो सव्वेसिं न भण्णइत्ति
भाणियव्वं ॥सू० १५॥

छाया—जघन्यगुणकालकानां परमाणुपुद्गलानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः
पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यगुणकालकानां परमाणु
पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यगुणकालकः परमाणुपुद्गलो

वर्गादिपर्यायवक्यव्यता

शब्दार्थ—(जहण्णगुणकालयाणं परमाणुपुद्गलाणं पुच्छा ?) जघन्य-
गुण काले परमाणुपुद्गलों के पर्यायों की पृच्छा ? (गोयमा अणंता
पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते
एवं बुच्चइ—जहण्णगुणकालयाणं परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा-
पणत्ता ?) किस कारण से हे भगवन् ! ऐसा कहा है कि जघन्यगुण काले
परमाणुपुद्गलों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णगुणकालए

वर्णादि पर्याय वक्तव्यता

शब्दार्थ—(जहण्णगुणकालयाणं परमाणुपोग्गलाणं पुच्छा ?) जघन्य गुण
काला परमाणु पुद्गलाना पर्यायानि पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता)
हे गौतम ! अनन्त पर्याय कथा छे (से केणट्टेणं भंते ! एव बुच्चइ जहण्णगुण-
कालयाण परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) शा कारण्थी हे भगवन् !
ओपुं कलुं छे के जघन्य गुण काला परमाणु पुद्गलाना अनन्त पर्याय कथा

पएसद्वयाए तुल्ले, ओगाहणद्वयाए तुल्ले, ठिईए चउट्टाणवडिए,
 वण्णगंधरसेहिं छट्टाणवडिए, सीयफासपज्जवेहिं य तुल्ले,
 उसिणफासो न भण्णइ, णिद्धल्लुक्खफासपज्जवेहिं य छट्टाण-
 वडिए, एवं उक्कोसगुणसीए वि, अजहण्णमणुक्कोसगुणसीए वि,
 एवं चेव, नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए, जहण्णगुणसीयाणं
 दुपएसियाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता,
 से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णगुणसीयाणं दुपए-
 सियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णगुण-
 सीए दुपएसिए जहण्णगुणसीयस्स दुपएसियस्स दव्वट्टयाए
 तुल्ले, पएसद्वयाए तुल्ले, ओगाहणद्वयाए सिय हीणे, सिय
 तुल्ले, सिय अब्भहिए, जइ हीणे, पएसहीणे, अह अब्भहिए
 पएस अब्भहिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णगंधरसपज्जवेहिं
 छट्टाणवडिए, सीय फासपज्जवेहिं तुल्ले, उसिणणिद्धल्लुक्ख-
 फासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए, एवं उक्कोसगुणसीए वि, अजहण्ण-
 मणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव, नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए, एवं
 जाव दसपएसिए, नवरं ओगाहणद्वयाए पएसपरिवुड्डी काय-
 व्वा, जाव दस पएसियस्स नव पएसो बुद्धिज्जंति, जहण्ण-
 गुणसीयाणं संखेज्जपएसियाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा
 पण्णत्ता, से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णगुणसियाणं संखे-
 ज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णगुण-
 सीए संखेज्जपएसिए जहण्णगुणसीयस्स संखेज्जपएसियस्स
 दव्वट्टयाए तुल्ले, पएसद्वयाए दुट्टाणवडिए, ओगाहणद्वयाए दुट्टा-
 णवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णादीहिं छट्टाणवडिए, सीय-
 फासपज्जवेहिं तुल्ले, उसिणणिद्धल्लुक्खेहिं छट्टाणवडिए, एवं
 उक्कोसगुणसीए वि, अजहण्णमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव,

नवरं सदृशे छद्मगणवडिष्, जहणगुणसीयाणं असंखिज्जपए-
सियाणं पुच्छा, गोयमा! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्टेणं
भंते! एवं बुच्चइ—जहणगुणसीयाणं असंखेज्जपएसियाणं अणंता
पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहणगुणसीए असंखेज्जपएसिए
जहणगुणसीयस्स असंखेज्जपएसियस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले, पए-
सट्टयाए चउट्टाणवडिष्, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिष्, ठिईए
चउट्टाणवडिष्, वण्णाइ पज्जवेहिं छद्मगणवडिष्, सीयफासपज्ज-
वेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं सत्तफासपज्जवेहिं छद्मगणवडिष्, एवं
उक्कोसगुणसीए वि, अजहणमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चैव,
नवरं सदृशे छद्मगणवडिष्, एवं उसिणणिद्धलुक्खे जहा सीते,
परमाणुपोग्गलस्स तहेव पडिवक्खो सव्वेसिं न भण्णइत्ति
भाणियव्वं ॥सू० १५॥

छाया—जघन्यगुणकालकानां परमाणुपुद्गलानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः
पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यगुणकालकानां परमाणु
पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यगुणकालकः परमाणुपुद्गलो

वर्गादिपर्यायवक्ष्यव्यता

शब्दार्थ—(जहणगुणकालयाणं परमाणुपुद्गलाणं पुच्छा ?) जघन्य-
गुण काले परमाणुपुद्गलों के पर्यायों की पृच्छा ? (गोयमा अणंता
पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते
एवं बुच्चइ—जहणगुणकालयाणं परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा-
पणत्ता ?) किस कारण से हे भगवन् ! ऐसा कहा है कि जघन्यगुण काले
परमाणुपुद्गलों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहणगुणकालए

वर्णादि पर्याय वक्तव्यता

शब्दार्थ—(जहणगुणकालयाणं परमाणुपोग्गलाणं पुच्छा ?) जघन्य शुष्
काणां परमाणु पुद्गलानां पर्यायानां पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता)
हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एव बुच्चइ जहणगुण-
कालयाणं परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) शा कारव्युत्थी हे भगवन् !
अपुं कहुं छे के जघन्य शुष् काणां परमाणु पुद्गलानां अनन्त पर्याय कहे हैं

जघन्यगुणकालकस्य परमाणुपुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेगार्थतया तुल्यः
 अवगाहनार्थतया तुल्यः स्थित्या चतुःस्थानपतितः, कृष्णवर्णपर्यवैः तुल्यः, अव-
 शेषावर्णा न सन्ति, गन्धरसद्विस्पर्शपर्यवैश्च पटस्थानपतितः, एवम् उत्कृष्टगुण-
 कालकोऽपि, एवं अजन्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि, नवरं स्वस्थाने पटस्थान-
 पतितः, जघन्यगुणकालकानां भदन्त ! द्विप्रदेशिकानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः
 परमाणुपोगगले जहण्णगुणकालगस्स परमाणुपोगगलस्स दव्वट्टयाए तुल्ले)
 हे गौतम ! जघन्यगुण काला परमाणुपुद्गल जघन्यगुण काले परमाणुपुद्गल
 से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेगों से तुल्य (ओग-
 हणट्टयाए तुल्ले) अवगाहना से तुल्य (टिईए चट्टाणवडिए) स्थिति से
 चतुःस्थानपतित (कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले) काले वर्ण के पर्यायों से
 तुल्य (अवसेसा) शेष (वण्णा) वर्ण (नत्थि) नहीं होते (गंधरसदु
 फासपज्जवेहि य छट्टाणवडिए) गंध, रस, दो स्पर्श के पर्यायों से
 पटस्थानपतित

(एवं उक्कोसगुणकालए वि) इसी प्रकार उत्कृष्टगुण काला पर-
 माणु भी (एवमजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि) इसी प्रकार मध्यम
 गुण काला भी (गवरं सट्टाणे छट्टाण वडिए) विशेष यह कि स्वस्थान
 में पटस्थानपतित है

(जहण्णगुणकालयाणं भंते ! दुपएसियाणं पुच्छा ?) हे भगवन !
 जघन्यगुण काले द्विप्रदेशी स्कर्धों के पर्यायों की पृच्छा ? (गोयमा अणंता
 पज्जवा पणन्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं

छे ? (गोयमा ! जहण्णगुणकालए परमाणुपोगगले जहण्णगुणकालगस्स परमाणुपोगगल-
 स्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य शुष्ण काणा परमाणु जघन्यशुष्ण काणा
 परमाणु पुद्गलार्थी द्रव्यनी दृष्टिओ तुल्य छे (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशीार्थी तुल्य
 छे (ओगाहणट्टयाए तुल्ले) अवगाहनाार्थी तुल्य (टिईए चट्टाणवडिए) स्थितिार्थी
 चतु स्थान पतित (कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले) काला वर्णना पर्यायार्थी तुल्य
 (अवसेसा) शेष (वण्णा) वर्ण (नत्थि) नहीं होता (गव रस दुफास पज्जवेहिं
 छट्टाणवडिए) गंध, रस, दो स्पर्शना पर्यायार्थी पटस्थान पतित

(एवं उक्कोसगुणकालए वि) ओ रीते उत्कृष्ट शुष्ण काणा परमाणु पणु
 (एवमजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि) ओ रीते मध्यमशुष्ण काणा पणु (गवरं सट्टाणे
 छट्टाणवडिए) विशेष ओ के स्वस्थानमा पटस्थान पतित छे

(जहण्णगुणकालयाणं भंते ! दुपएसियाणं पुच्छा) हे भगवन ! जघन्य
 शुष्ण काणा द्विप्रदेशी स्कर्धेना पर्यायनी पृच्छा (गोयमा ! अणंता पज्जवा

पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एव मुच्यते जघन्यगुणकालकाना द्वि
प्रदेशिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यगुणकालको द्विप्रदेशिको
जघन्यगुणकालकस्य द्विप्रदेशिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया तुल्यः, अव-
गाहनार्थतया स्याद्हीनः स्यात्तुल्यः, स्यादभ्यधिकः, यदा हीनः प्रदेशहीनः,
अथाभ्यधिकः प्रदेशाभ्यधिकः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, कृष्णवर्णपर्यवै स्तुल्यः,
अवशेषवर्णादिभिरुपरितनचतुःस्थानैश्च पदस्थानपतितः, एवमुत्कृष्टगुणकाल-

वुच्चर्ह—जहणगुणकालयाणं दुपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?)
किस कारण हे भगवन ! ऐसा कहा जाता है कि जघन्यगुण काले द्विप्रदेशी
स्कंध के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहणगुणकालए दुपएसिए)
हे गौतम ! जघन्यगुण काला द्विप्रदेशी स्कंध (जहणगुणकालियस्स
दुपएसियस्स) जघन्यगुण काले द्विप्रदेशी स्कंध से (द्व्यट्ठयाए तुल्ले)
द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है (ओगाणट्ठयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय
अवमहिए) अवगाहना की अपेक्षा से स्यात् हीन, स्यात् तुल्य स्यात्
अधिक (जइ हीणे पएसहीणे) यदि हीन है तो एक प्रदेश से हीन (अह
अवमहिए पएस अवमहिए) अगर अधिक है तो एक प्रदेश से अधिक
(ठिइए चउट्ठाण वटिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित (कालवण्णपज्जवेहिं
तुल्ले) कृष्णवर्ण के पर्यायों से तुल्य (अवसेसवण्णाइ उवरिल्ल चउफा-
सेहि य छट्ठाणवडिए) शेष वर्णादि से तथा उपर के चार स्थानों से
षट्स्थानपतित होता है ।

पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कक्षा छे (से केणट्ठेण भते ! एव वुच्चर्ह—जह-
णगुणकालयाणं दुपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) शा कारणे हे भगवन !
अपु कडेवाय छे के जघन्य गुण काला द्विप्रदेशी स्कन्धना अनन्त पर्याय
कक्षा छे ? (गोयमा ! जहणगुणकालए दुपएसिए) हे गौतम ! जघन्य गुण
काला द्विप्रदेशी स्कन्ध (जहणगुणकालयस्स दुपएसियस्स) जघन्य गुण काला
द्विप्रदेशी स्कन्धथी (द्व्यट्ठयाए तुल्ले) द्रव्यथी अपेक्षाये तुल्य छे (पएस सट्ठयाए तुल्ले)
प्रदेशीथी अपेक्षाये तुल्य छे (ओगाणट्ठयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अवम-
हिए) अवगाहनाथी अपेक्षाये स्यात् हीन, स्यात् तुल्य, स्यात् अधिक (जइ
हीणे पएसहीणे) जे हीन छेय तो अेक प्रदेशथी हीन (अह अवमहिए पएस
अवमहिए) अगर अधिक छे तो अेक प्रदेशथी अधिक (ठिइए चउट्ठाणवडिए)
स्थितिथी अतुःस्थान पतित (कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले) कृष्ण वर्णना पर्यायेथी
(अवसेस वण्णाइ उवरिल्ल चउफासेहि य छट्ठाणवडिए) शेष वर्णादिथी तथा उप-
रना चार स्थानथी षट्स्थान पतित थाय छे

कोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने पदस्थानपतितः, 'एवं यावद् दशप्रदेशिको, नवरम्-प्रदेशपरिवृद्धिः, अवगाहनया तथैव, जघन्यगुणकालकानां भदन्त ! संख्येय-प्रदेशिकानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते-जघन्यगुणकालकानां संख्येयप्रदेशिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यगुणकालकः संख्येयप्रदेशिको जघन्यगुणकालकस्य संख्येयप्रदेशिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया द्विस्थानपतितः अवगाहनार्थतया द्वि

(एवं उक्कोसगुणकालए वि) इसी प्रकार उत्कृष्टगुण कृष्ण भी (अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव) मध्यमगुण काला भी इसी प्रकार (नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए) विशेष यह कि स्वस्थान में पदस्थान-पतित (एवं जाव दसपएसिए) इसी प्रकार यावत् दसप्रदेशीं (नवरं) विशेष (पएसवुड्ढी) प्रदेश की वृद्धि करनी चाहिए (ओगाहाणाए तहेव) अवगाहना से उसी प्रकार

(जहण्णगुणकालियाणं भंते ! संखेज्जपएसियाणं पुच्छा ?) जघन्यगुण काले संख्यातप्रदेशी स्कंधों की पृच्छा (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एव वुच्चइ जहण्णगुणकालियाणं संखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) किस कारण से हे भगवन् ! ऐसा कहा जाता है कि जघन्यगुण काले संख्यातप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं (गोयमा ! संखेज्जपएसिए जहण्णगुणकालए संखेज्जपएसियस्स जहण्णगुणकालयस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले) हे गौतम ! संख्यातप्रदेशी जघन्यगुण काला संख्यातप्रदेशी

(एव उक्कोसगुणकालए वि) એ પ્રકારે ઉત્કૃષ્ટ ગુણ કૃષ્ણ પણ (અજહણ્ણ મણુક્કોસગુણકાલએ વિ એવં ચેવ) મધ્યમ ગુણ કાળા પણ એ પ્રકારે (નવરં સટ્ઠાણે છટ્ઠાણવડિએ) વિશેષ એ છે કે સ્વસ્થાનમાં પદસ્થાનપતિત (એવં જાવ દસપએસિએ) એ પ્રકારે યાવત્ દશ પ્રદેશી (નવર) વિશેષ (પએસવુડ્ઢી) પ્રદેશની વૃદ્ધિ કરવી નોઈએ (ઓગાહાણાએ તહેવ) અવગાહનાથી એ પ્રકારે

(જહણ્ણગુણકાલયાણં ભંતે ! સંખેજ્જપએસિયાણં પુચ્છા ?) જઘન્ય ગુણ કાળા સંખ્યાત પ્રદેશી સ્કન્ધોની પૃચ્છા ? (ગોયમા ! અણંતા પજ્જવા પણત્તા) હે ગૌતમ ! અનન્ત પર્યાય કહ્યા છે (સે કેણટ્ઠેણ ભંતે ! એવ વુચ્ચઇ-જહણ્ણગુણ કાલયાણ સંખેજ્જપએસિયાણ અણંતા પજ્જવા પણત્તા ?) શા કારણે હે ભગવન્ ! એવુ કહેવાય છે કે જઘન્ય ગુણકાળા સંખ્યાત પ્રદેશી સ્કન્ધોના અનન્ત પર્યાય કહ્યા છે ? (ગોયમા ! સંખેજ્જપએસિએ જહણ્ણગુણકાલએ સંખેજ્જપએસિયસ્સ જહણ્ણગુણકાલયસ્સ દવ્વટ્ઠયાએ તુલ્લે) હે ગૌતમ ! સંખ્યાત પ્રદેશી જઘન્ય ગુણ

स्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, कृष्णवर्णपर्यवैस्तुल्यः, अवशेषैः वर्णादि-
-उपरितनचतुःस्पर्शैश्च पदस्थानपतितः, एवमुत्कृष्टगुणकालकोऽपि एवम् अजघ-
न्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि, नवरं स्वस्थाने पदस्थानपतितः, जघन्यगुणकालकानां
भदन्त ! असंख्येयप्रदेशिकानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत्
केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते जघन्यगुणकालकानामसंख्येयप्रदेशिकानामनन्ताः

जघन्यगुण काले पुद्गलस्कंध से द्रव्य से तुल्य (पएसट्टयाए) प्रदेशों से
दुद्गाणवडिए) द्विस्थानपतित (ओगाहणद्वयाए दुद्गाणवडिए) अवगाहना
से द्विस्थानपतित (ठिईए चड्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित
(कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले) कृष्ण वर्ण के पर्यायों से तुल्य (अवसेसेहिं
उवरिल्लचउफासेहि य) वर्णादि से तथा ऊपर के चार स्पर्शों से (छट्टा-
णवडिए) षट्स्थानपतित

(एवं उक्कोसगुणकालए वि) इसी प्रकार उत्कृष्टगुण काला भी
(एवं अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि) इसी प्रकार मध्यमगुण काला
भी (नवरं) विशेष (सट्टाणे छट्टाणवडिए) स्वस्थान में पदस्थानपतित है
(जहण्णगुणकालयाणं भंते ! असंखेज्जपएसियाणं पुच्छा ?) जघन्य-
गुण कालेअसंख्यातप्रदेशी स्कंधों के हे भगवन् ! कितने पर्याय हैं ?
(गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं (से केण-
द्वेणं भंते ! एवं वुच्चइ-जहण्णगुणकालयाणं असंखेज्जपएसियाणं अणंता
पज्जवा पणत्ता) किस कारण हे भगवन् ! ऐसा कहा है कि जघन्य

हाणा णील संख्यात प्रदेशी जघन्य शुष्ण हाणा पुद्गल स्कंधी द्रव्यी तुल्य
(पएसट्टयाए) प्रदेशी (दुद्गाणवडिए) द्विस्थान पतित (ओगाहणद्वयाए दुद्गाण
वडिए) अवगाहनाथी द्विस्थान पतित (ठिईए चड्टाण वडिए) स्थितिथी चतुः-
स्थान पतित (कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले) कृष्ण वर्णा पर्यायथी तुल्य (अव-
सेसेहिं उवरिल्लचउफासेहि य) वर्णादिथी तथा उपरना चार स्पर्शथी (छट्टाण
वडिए) षट्स्थान पतित

(एवं उक्कोसगुणकालए वि) ये प्रकारे उत्कृष्ट शुष्ण हाणा पथु (एवं अजह-
ण्णमणुक्कोसगुणकालए वि) ये रीते मध्यम शुष्ण हाणा पथु (नवरं विशेष
(सट्टाणे छट्टाणवडिए) स्वस्थानमा षट्स्थान पतित

(जहण्णगुणकालयाणं भंते ! असंखेज्जपएसियाणं पुच्छा ?) जघन्य शुष्ण हाणा
असंख्यात प्रदेशी स्कंधानां हे भगवन् ! इतदा पर्यायं छे ? (गोयमा !
अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्यायं छे (से केणद्वेणं भंते ! एवं
वुच्चइ-जहण्णगुणकालयाणं असंखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता) शा
कारणे हे भगवन् ! एषु कथं छे हे जघन्य शुष्ण हाणा असंख्यात प्रदेशी

पर्ववाः प्रज्ञप्ताः ? इति गौतम ! जघन्यगुणकालकोऽसंख्येयप्रदेशिको जघन्य-
गुणकालकस्यासंख्येयप्रदेशिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया चतुःस्थान-
पतितः स्थित्या चतुःस्थानपतितः, कृष्णवर्णपर्यवै स्तुल्यः, अवशेषैर्वर्णादि उपरि-
तन चतुःस्पर्शैश्च पटस्थानपतितः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, एवमुत्कृष्ट-
गुणकालकोऽपि, अजघन्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने पट-
स्थानपतितः, जघन्यगुणकालकानां भदन्त ! अनन्तप्रदेशिकानां पृच्छा, गौतम !

गुण काले असंख्यातप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय हैं (गोयमा ! जह-
णगुणकालए असंखेज्जपएसिण) हे गौतम ! जघन्यगुण काला असं
ख्यातप्रदेशी स्कंध (जहणगुणकालगस्स असंखेज्जपएसियस्स दब्बद्व-
याए तुल्ले) जघन्यगुणकाले असंख्यातप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की दृष्टि
से तुल्य (एएसद्वयाए चउट्टाणवडिए) प्रदेशों की दृष्टि से चतुःस्थानपतित
(ओगहणद्वयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित है (ठिईए
चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित (कालवणपज्जवेहिं तुल्ले)
कृष्ण वर्ण के पर्यायों से तुल्य (अवसेसेहिं वण्णादि-उवरिल्लफासे-
हिय छट्टाणवडिए) शेष वर्णादि से तथा ऊपर के चार स्पर्शों से पट-
स्थानपतित

(एवं उक्कोसगुणकालए वि) इसी प्रकार उत्कृष्टगुण काला असं-
ख्यातप्रदेशी स्कंध भी (अजहणमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव)
मध्यमगुण काला भी इसी इसी प्रकार (नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए)
विशेष यह कि स्वस्थान में पटस्थानपतित है

स्कंधीना अनन्त पर्याय छे ? (गोयमा ! जहणगुणकालए असंखेज्जपएसिण)
हे गौतम ! जघन्य गुण काला असंख्यात प्रदेशी स्कंध (जहण गुणकालगस्स
असंखेज्जपएसियस्स दब्बद्वयाए तुल्ले) जघन्य गुण काला असंख्यात प्रदेशी
स्कंधथी द्रव्यनी दृष्टिसे तुल्य छे (एएसद्वयाए चउट्टाणवडिए) प्रदेशीनी दृष्टिसे
चतुःस्थान पतित (ओगहणद्वयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनाथी चतुःस्थान
पतित छे (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी चतुःस्थान पतित (कालवणपज्जवेहिं
तुल्ले) कृष्ण वर्णना पर्यायोथी तुल्य (अवसेसेहिं वण्णादि-उवरिल्ल चउफासेहिय
छट्टाण वडिए) शेष वर्णादिथी तथा उपरना चार स्पर्शोथी पटस्थान पतित

(एवं उक्कोसगुणकालए वि) ओ प्रकारे उत्कृष्ट गुण काला असंख्यात
प्रदेशी स्कंध पणु (अजहणमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव) मध्यम गुणकाला पणु
ओ प्रकारे (नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए) विशेष ओके स्वस्थानमा पटस्थान पतित छे

अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते-जघन्यगुणकाल-
कानामनन्तप्रदेशिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यगुणकाल-
कोऽनन्तप्रदेशिको जघन्यगुणकालकस्य अनन्तप्रदेशिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः,
प्रदेशार्थतया पटस्थानपतितः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुः
स्थानपतितः, कृष्णवर्णपर्यवै रतुल्यः, अवशेषैर्घणादि- अष्टस्पर्शश्च पटस्थान-

(जहण्णगुणकालयाणं संते ! अणंतपएसियाणं पुच्छा ?) हे भग-
वन् ! जघन्यगुण कृष्ण अनन्तप्रदेशी स्कंधो की पृच्छा ? (गोयमा !
अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केण-
ट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णगुणकालयाणं अणंतपएसियाणं अणंता
पज्जवा पणत्ता ?) किस कारण हे भगवन् ! ऐसा कहा कि अनन्तप्रदेशी
जघन्यगुण काले स्कंधों के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा ! जहण्णगुण
कालए अणंतपएसिए जहण्णगुणकालयस्स अणंतपएसियस्स दव्वट्ठ-
याए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्यगुण कृष्ण अनन्तप्रदेशी स्कंध जघन्य-
गुणकृष्ण अनन्तप्रदेशी स्कंधों से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है (पएस-
ट्टयाए) प्रदेशों की अपेक्षा (छट्ठाणवडिए) षट्स्थानपतित (ओगाह-
णट्टयाए चउट्ठाणवडिए) अवगाहना से चतुस्थानपतित (ठिईए चउट्ठा-
णवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित (कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले) काले
वर्ण के पर्यायों से तुल्य (अवसेसेहिं वण्णाइ-अट्टफासेहिं य छट्ठाण-
वडिए) शेष वर्ण आदि से तथा आठ स्पर्शों से षट्स्थानपतित

(जहण्णगुणकालयाण भंते ! अणंतपएसियाण पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य
गुण कृष्ण अनन्त प्रदेशी स्कंधोनी पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता)
हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहा है (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ जहण्णगुण
कालयाणं अणंतपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) शा ३२७ हे भगवन् !
अबु कहुं छे डे अनन्त प्रदेशी जघन्य गुणकाणा स्कंधोना अनन्त पर्याय
छे ? (गोयमा ! जहण्णगुणकालए अणंतपएसिए जहण्णगुणकालयस्स अणंत
पएसियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य गुण कृष्ण अनन्त प्रदेशी
स्कंध जघन्य गुण कृष्ण अनन्त प्रदेशी स्कंधोनी द्रव्योनी अपेक्षाअे तुल्य
छे (पएसट्टयाए) प्रदेशोनी अपेक्षाअे (छट्ठाणवडिए) षट्स्थान पतित (ओगा-
हणट्टयाए चउट्ठाणवडिए) अवगाहनाथी अतु स्थान पतित (ठिईए चउट्ठाण
वडिए) स्थितिथी अतु स्थान पतित (कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले) काणा वरुण्णा
पर्यायोथी तुल्य (अवसेसेहिं वण्णाइ-अट्टफासेहिं य छट्ठाणवडिए) शेष वरुं
आदिथी तथा आठ स्पर्शोथी षट्स्थान पतित

पतितः एवमुत्कृष्टगुणकालकोऽपि, अजघ्न्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने पटस्थानपतित, एवं नीललोहित हरिद्र शुक्लसुरभिगन्ध दुरभिगन्धतित्तकटुकपायाम्लमधुररसपर्यवैश्च वक्तव्यता भणितव्या, नवरं परमाणुपुद्गलस्य सुरभिगन्धस्य दुरभिगन्धो न भण्यते, दुरभिगन्धस्य सुरभिगन्धो न भण्यते, तित्तस्य अवशेषं न भण्यते, एवं कटुकादीनामपि, अवशेषं तच्चैव, जघन्यगुणकर्कशानाम् अनन्तप्रदेशिकानां स्कन्धानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत्

(एव उक्कोसगुणकाल ए वि) इसी प्रकार उत्कृष्टगुण काला भी (अजहण्णमणुक्कोसगुणकाल ए वि एव चैव) मध्यमगुण काला भी इसी प्रकार (नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए) विशेष यह कि स्वस्थान में पटस्थानपतित है (एवं नीललोहित्य हालिद्रसुक्किल्लसुविभंगंधदुविभंगंधतित्तकटुकसायअंबिलमधुररसपज्जवेहि य वत्तव्वया भाणियव्वा) इसी प्रकार नील, रक्त, पीत, शुक्ल वर्ण, सुगंध, दुर्गन्ध, तित्त, कटुक, कषाय, खट्टे, मीठे रस के पर्यायों से भी वक्तव्यता कहनी चाहिए (नवरं) विशेष (परमाणुपोग्गलस्स सुविभंगंधस्स दुविभंगंधो न भण्णइ) सुगंध वाले परमाणुपुद्गल में दुर्गंध नहीं कहना (दुविभंगंधस्स सुविभंगंधो न भण्णइ) दुर्गंध वाले में सुगंध नहीं कहना (तित्तस्स अवसेसा न भण्णइ) तित्त रसवाले में शेष रस नहीं कहना (एवं कटुयादीण वि) इसी प्रकार कटुक रस वाले आदि में भी (अवसेसं तं चैव) शेष वही

(जहण्णगुणकक्खडाणं अणंतपएसियाणं खंधाणं पुच्छा ?) जघन्य

(एवं उक्कोसगुणकाल ए वि) ये प्रकारे उत्कृष्ट शुभ्र डाणा पशु (अजहण्ण मणुक्कोसगुणकाल ए वि एवं चैव) मध्यम शुभ्र डाणा पशु ये ७ प्रकारे (नवर सट्टाणे छट्टाणवडिए) विशेष ये के स्वस्थानमा पटस्थान पतित छे (एव नील लोहित्य हालिद्र सुक्किल्ल सुविभंगंध दुविभंगंध तित्त कटु कसाय अंबिल मधुररस पज्जवेहिय वत्तव्वया भाणियव्वा) ये प्रकारे नील-रस पीत, शुक्ल, पशु सुगंध, दुर्गंध, तित्त, कटुक, कषाय, भाटा, भीडा रसना पयथिनी पशु वक्तव्यता कडेवी जेधये (नवर) विशेष (परमाणुपोग्गलस्स सुविभंगंधस्स दुविभंगंधो न भण्णइ) सुगंधवाणा परमाणु पुद्गलमा दुर्गंध डोती नथी (दुविभंगंधरस सुविभंगंधो न भण्णइ) दुर्गंधवाणामा सुगंध न कडेवी (तित्तस्स अवसेसा न भण्णइ) तित्त रसवाणामा शेष रस न कडेवा (एवं कटुयादीण वि) ये प्रकारे कटुक रसवाणा आदिमा पशु (अवसेसं तं चैव) विशेष ते ७

(जहण्णगुणकक्खडाणं अणंतपएसियाणं खंधाणं पुच्छा ?) जघन्य शुभ्र

केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यगुणकर्कशानामनन्तप्रदेशिकानां स्कन्धानाम-
नन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यगुणकर्कशोऽनन्तप्रदेशिको जघन्यगुणकर्क-
शस्य अनन्तप्रदेशिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया पटस्थानपतितः, अव-
गाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णगन्धरसैः पटस्थान-
पतितः कर्कशस्पर्शपर्यवै स्तुल्यः, अवशेषैः सप्तस्पर्शपर्यवैः पटस्थानपतितः, एव

गुण कर्कश अनन्तप्रदेशी स्कन्धोकी वृच्छा ? (गोयमा ! अणता पज्जवा
पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं
बुच्चइ—जहण्णगुणकक्खड्डाणं अणंतपएसियाणं अणता पज्जवा
पणत्ता ?) हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा कि जघन्यगुण कर्कश
अनन्तप्रदेशी स्कन्धों के अनन्त पर्याय कहे हैं (गोयमा ! जहण्णगुण-
कक्खड्डे अणंतपएसिए) हे गौतम ! जघन्यगुण कर्कश अनन्तप्रदेशी
स्कन्ध (जहण्णगुणकक्खड्डस्स अणंतपएसियस्स) जघन्य गुण कर्कश
अनन्तप्रदेशी स्कन्ध से (द्व्वट्टयाए तुल्ले) द्रव्य से तुल्य (पएसट्टयाए
छट्टाणवड्डिए) प्रदेशों से षट्स्थापतित (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवड्डिए)
अवगाहना से चतुःस्थानपतित (ठिईए चउट्टाणवड्डिए) स्थिति से चतुः-
स्थापनतित (वण्णगंधरोहिं छट्टाणवड्डिए) वर्णों, गंधों, रसों से षट्-
स्थानपतित (कक्खड्डफासपज्जवेहिं तुल्ले) कर्कश स्पर्श के पर्यायों से
तुल्य (अवसेसेहिं सत्तफासपज्जवेहिं छट्टाणवड्डिए) शेष सात स्पर्शों
के पर्यायों से षट्स्थापनपतित

कर्कश अनन्त प्रदेशी स्कन्धानी वृच्छा ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पणत्ता)
हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्ण गुण
कक्खड्डाण अणंतपएसियाण अणता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! या कारणसे
ऐसे कहे हैं जघन्य गुण कर्कश अनन्त प्रदेशी स्कन्धाना अनन्त पर्याय
कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णगुणकक्खड्डे अणंतपएसिए) हे गौतम ! जघन्य
गुण कर्कश अनन्त प्रदेशी स्कन्ध (जहण्णगुणकक्खड्डस्स अणंतपएसियस्स) जघन्य
गुण कर्कश अनन्त प्रदेशी स्कन्ध (द्व्वट्टयाए तुल्ले) द्रव्य से तुल्य (पएसट्टयाए
छट्टाणवड्डिए) प्रदेशोत्थी षट्स्थान पतित (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवड्डिए) अव-
गाहनात्थी चतुःस्थान पतित (ठिईए चउट्टाणवड्डिए) स्थितित्थी चतुःस्थान पतित
(वण्णगंधरसेहिं छट्टाणवड्डिए) वर्णोत्थी, गंधोत्थी, रसोत्थी षट्स्थान पतित (कक्खड्ड
फासपज्जवेहिं तुल्ले) कर्कश स्पर्शाना पर्यायोत्थी तुल्य (अवसेसेहिं सत्तफास
पज्जवेहिं छट्टाणवड्डिए) शेष सात स्पर्शाना पर्यायोत्थी षट्स्थान पतित

मुत्कृष्टगुणकर्कशोपि, अजघन्यानुत्कृष्टगुणकर्कशोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने पटस्थानपतितः, एवं मृदुकगुरुकलपुका अपि भणितव्याः, जघन्यगुणशीताना भदन्त ! परमाणुपुद्गलानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यगुणशीताना परमाणुपुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यगुणशीतः परमाणु पुद्गलो जघन्यगुणशीतस्य परमाणुपुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया तुल्यः,

(एवं उक्कोसगुणकक्खडे वि) इसी प्रकार उत्कृष्टगुण कर्कश भी (अजहणमणुक्कोसगुणकक्खडे वि एवं चेव) मध्यमगुण कर्कश भी इसी प्रकार (नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए), विशेष यह कि स्वस्थान में पटस्थानपतित (एवं मउय गुरुयल्लहुयवि भाणियव्वे) इसी प्रकार मृदु, गुरु, लघु स्पर्श भी कहना चाहिए

(जहणगुणसीयाणं भंते ! परमाणुपोग्गलाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्यगुण शीत परमाणुपुद्गलों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—जहणगुणसीयाणं परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? किस कारण से हे भगवन् ! ऐसा कहा जाता है कि जघन्यगुण शील परमाणुपुद्गलो के अनन्त पर्याय कहे हैं ! (गोयमा ! जहणगुणसीए परमाणुपोग्गले) हे गौतम ! जघन्यगुण शील परमाणुपुद्गल (जहणगुणसीयस्स परमाणुपोग्गलस्स) जघन्यगुण शीत परमाणुपुद्गल से (द्ववट्टयाए तुल्ले) द्रव्य से तुल्य (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों से तुल्य

(एवं उक्कोसगुणकक्खडे वि) ओ७ रीते उत्कृष्ट गुणु कर्कश पथु (अजहणमणुक्कोसगुणकक्खडे वि एवं चेव) मध्यम गुणु कर्कश पथु ओ७ रीते (नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए) विशेष ओ के स्वस्थानमा पटस्थानपतित (एव मउय गुरुय लहुय वि भाणियव्वे) ओ रीते मृदु उरु लघु स्पर्श पथु कडेवा ओधओ

(जहणगुणसीयाणं भंते ! परमाणुपोग्गलाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य गुणु शीत परमाणु पुद्गलौनी पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं ? (से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—जहणगुणसीयाणं परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हा कारण से हे भगवन् ! ओपु कडेवाय छे के जघन्य गुणु शीत परमाणु पुद्गलौना अनन्त पर्याय कहे हैं (गोयमा ! जहणगुणसीयस्स परमाणुपोग्गलस्स) जघन्य गुणु शीत परमाणु पुद्गलौनी (द्ववट्टयाए तुल्ले) द्रव्यथी तुल्य (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशोंथी तुल्य (ओगाहणट्टयाए तुल्ले) अवगाहनार्थी तुल्य (ट्टिइए वसट्टाण-

स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णगन्धरसैः षट्स्थानपतितः, शीतस्पर्शपर्यवैश्च तुल्यः, उष्णस्पर्शो न भण्यते, रिनग्धरूक्षस्पर्शपर्यवै षट्स्थानपतितः, एवमुत्कृष्टगुण-शीतोऽपि, अजघन्यानुत्कृष्टगुणशीतोऽपि एवञ्चैव नवरं स्वस्थाने षट्स्थानपतितः, जघन्यगुणशीतानां द्विप्रदेशिकानां पृच्छा गौतम ! अनन्ता : पर्यवा प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यशीतानां द्विप्रदेशिकानामनन्ता पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ?

(ओगाहणद्वयाए तुल्ले) अवगाहना से तुल्य (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित (वण्णगंधरसेहि छट्टाणवडिए) वर्ण, गंध, रस से षट्स्थानपतित (सीयफासपज्जवेहि य तुल्ले) शीत स्पर्श के पर्यायों से तुल्य (उसिणफासो न भण्णइ (उष्ण स्पर्श नहीं कहना (णिद्धलुक्खफासपज्जवेहि य छट्टाणवडिए) स्निग्ध और रूक्ष स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित (एवं उक्कोसगुणसीए वि) इसी प्रकार उत्कृष्टगुण शीत भी (अजहण्णमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव) मध्यमगुण शीत भी इसी प्रकार (नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए) विशेष यह कि स्वस्थान में षट्स्थानपतित है

(जहण्णगुणसीयाणं दुपएसियाणं पुच्छा ?) जघन्यगुण शीत द्विप्रदेशी स्कंधों के पर्यायों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते एवं वुच्चइ—जहण्णगुणसीयाणं दुपएसियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) किस कारण से हे भगवन् ! ऐसा कहा है कि जघन्यगुण शीत द्विप्रदेशी स्कंधों के

वडिए) स्थितिथी यतु स्थान पतित (वण्णगंधरसेहि छट्टाणवडिए) वर्ण, गंध रसथी षट्स्थान पतित (सीय फासपज्जवेहि य तुल्ले) शीत स्पर्शना पर्यायेथी तुल्य (उसिणफासो न भण्णइ) उष्ण स्पर्श नहीं कडेवे (णिद्ध लुक्ख फासपज्जवेहिय छट्टाणवडिए) स्निग्ध अने रूक्ष स्पर्शना पर्यायेथी षट्स्थान पतित (एवं उक्कोसगुणसीए वि) अे प्रकारे उत्कृष्ट शुष्ण शीत पष्ण (अजहण्णमणुक्कोसगुणसीएवि एवं चेव) मध्यम शुष्ण शीत पष्ण अेअ प्रकारे (नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए) विशेष अे के स्वस्थानमा षट्स्थान पतित छे

(जहण्णगुणसीयाणं दुपएसियाणं पुच्छा ?) जघन्य शुष्ण शीत द्विप्रदेशी स्कन्धाना पर्यायेथी पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कह्ता छे (से केणट्ठेण एव वुच्चइ—जहण्णगुणसीयाणं दुपएसियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) शा कारणे छे भगवन् ! अेषु कहु छे के जघन्य शुष्ण शीत द्विप्रदेशी स्कन्धाना अनन्त पर्याय कह्ता छे ? (गोयमा ! जहण्ण

गौतम ! जघन्यगुणशीतो द्विप्रदेशिको जघन्यगुणशीतस्य द्विप्रदेशिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया स्याद् हीनः, स्यात्तुल्यः स्यादभ्यधिकः, यदा हीनः प्रदेशहीनः, अथाभ्यधिकः प्रदेशाभ्यधिकः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः वर्णगन्धरसपर्यवैः षट्स्थानपतितः, शीतस्पर्शपर्यवैः स्तुल्यः, उष्णस्निग्धरूक्षस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितः, एवमुत्कृष्टगुणशीतोऽपि अजघन्यानुत्कृष्टगुणशीतोऽपि एवञ्चैव, नवरं रसस्थाने षट्स्थानपतितः एवं यावद् दशप्रदेशिकः,

अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयना ! जहण्णगुणसीए दुपएसिए) हे गौतम ! जघन्यगुणशीत अंश वाला द्विप्रदेशी (जहण्णगुणसीयस्स दुपएसियस्स) जघन्यगुण शीत अंश वाले द्विप्रदेशी स्कंध से (द्वद्वयाए तुल्ले) द्रव्य से तुल्य (पएसद्वयाए तुल्ले) प्रदेशों से तुल्य (ओगाहणद्वयाए सिय हीणे सिय तुल्ले, सिय अब्महिए) अवगाहना से कदाचित् हीन, कदाचित् तुल्य, कदाचित् अधिक जइ होण पएसहीणे) यदि हीन हो तो एक प्रदेश हीन अह अब्महिए) यदि अधिक हो तो एक प्रदेश अधिक (ठिईए चउट्टाणवाडिए) स्थात से चतुःस्थानपतित (वण्णगंधरसपज्जवेहि छट्टाणवाडिए) वर्ण, गंध, रस के पर्यायों से षट्स्थानपतित (सीय फास पज्जवेहिं तुल्ले) शीत स्पर्श के पर्यायों से तुल्य (उसिणणिद्धलुक्खफासपज्जवेहिं छट्टाणवाडिए) उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित

(एवं उक्कोसगुणसीए वि) इसी प्रकार उत्कृष्टगुण शीत अंशों वाला भी (अजहण्णमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चैव) मध्यमगुण शीत

गुण सीए दुपएसिइ) हे गौतम ! जघन्य गुणशीत अंशवाला द्विप्रदेशी (जहण्णगुणसीयस्स दुपएसियस्स) जघन्य गुण शीत अंशवाला द्विप्रदेशी स्कंधों (द्वद्वयाए तुल्ले) द्रव्यों तुल्य (पएसद्वयाए तुल्ले) प्रदेशों तुल्य (ओगाहणद्वयाए सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अब्महिए) अवगाहनार्थी कदाचित् हीन कदाचित् तुल्य, कदाचित् अधिक (जइ हीणे पएस हीणे) नो हीन होय तो अेक प्रदेश हीन (अह अब्महिए, पएस अब्महिए) यदि अधिक होय तो अेक प्रदेश अधिक (ठिईए चउट्टाणवाडिए) स्थितिथी अतु स्थान पतित (वण्णगंधरस पज्जवेहिं छट्टाणवाडिए) वर्ण, गंध रसना पर्यायोंथी षट्स्थान पतित (सीय फास पज्जवेहिं तुल्ले) शीत स्पर्शना पर्यायोंथी तुल्य (उसिण णिद्ध लुक्ख फास पज्जवेहिं छट्टाण वाडिए) उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष स्पर्शना पर्यायोंथी षट्स्थान पतित थाय छे.

(एवं उक्कोसगुणसीए वि) अेज प्रकार उत्कृष्ट गुण शीत अंशवाला पथु (अजहण्णमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चैव) मध्यम गुण शीत पथु अेज

नववम्-अवगाहनार्थतया प्रदेशपरिवृद्धिः कर्त्तव्या, यावद् दशप्रदेशिकस्य नव-
प्रदेशाः वर्द्धिष्यन्ते, जघन्यगुणशीतानां संख्येयप्रदेशिकानां पृच्छा, गौतम !
अनन्ताः पर्यावाः प्रज्ञप्ताः ? तत् केनार्थेन-भदन्त ! एवमुच्यते- जघन्यगुणशीतानां
संख्येयप्रदेशिकानामनन्ताः पर्यावाः प्रज्ञप्ताः गौतम ! जघन्यगुणशीतः संख्येयप्रदे-
शिको जघन्यगुणशीतस्य संख्येयप्रदेशिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया

श्री इसी प्रकार (नवरं सद्भाणे छट्टाणवडिए) विशेष यह कि वह स्वस्थान
में पट्टस्थानपतित है (एव जाव दसपणलिए) इसी प्रकार दशप्रदेशी
स्कंध तक कहना चाहिए (नवरं ओगाहणट्टयाए पएसबुड्ढी कायव्वा)
विशेष यह कि अवगाहना की अपेक्षा से प्रदेशों की वृद्धि करनी
चाहिए (जाव दसपएसियरस नव पएससा वड्ढिज्जति) यावत् दशप्रदेशी
के नव प्रदेश बढ़ते हैं

(जहण्णगुणसीयाणं संखेज्जपएसियाणं पुच्छा) जघन्यगुण
शीत संख्यात प्रदेशी स्कंधों की पृच्छा ?) गोयमा ! अणंता
पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं
भंते एवं वुच्चइ-जहण्णगुणसीयाणं संखेज्जपएसियाणं अणंता-
पज्जवा पणत्ता ?) किस कारण से हे भगवन् ! ऐसा कहा जाता है
संख्यातप्रदेशी जघन्यगुण शीत के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा ! जह-
ण्णगुणसीए संखेज्जपएसिए जहण्णगुणसीयस्स संखेज्जपएसियस्स
दव्वट्टयाए तुल्ले) जघन्यगुण शीत संख्यातप्रदेशी स्कंध जघन्यगुण
शीत संख्यातप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है (पएसट्टयाए

प्रकारे (नवरं सद्भाणे छट्टाणवडिए) विशेष ओके ते स्वस्थानमा पट्टस्थान पतित
छे (एवं जाव दस पएसिए) ओअ प्रकारे दश प्रदेशी स्कंध सुधी कडेपु नेधओ
(नवरं ओगाहणट्टयाए पएसबुड्ढी कायव्वा) विशेष ओ के अवगाहनानी अपे-
क्षाओ प्रदेशोनी वृद्धि करनी नेधओ (जाव दस पएसियरस नवपएससा वड्ढिज्जति)
यावत् दश प्रदेशीना नव प्रदेश वधे छे (जहण्णगुणसीयाणं संखेज्जपएसियाण
पुच्छा ?) जघन्य गुण शीत संख्यात प्रदेशी स्कंधोनी पृच्छा ? (गोयमा !
अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कइया छे (से केणट्टेणं भंते !
एवं वुच्चइ-जहण्णगुणसीयाणं संखेज्जपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) शा
कारणे हे लगवन् ओपु कडेवाय छे के संख्यात प्रदेशी जघन्य गुण शीतना
अनन्त पर्याय छे ? (गोयमा ! जहण्णगुणसीए संखेज्जपएसिए जहण्णसीयस्स
संखेज्जपएसिपस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) जघन्य गुण शीत संख्यात प्रदेशी स्कंध
जघन्य गुण शीत संख्यात प्रदेशी स्कंधोनी द्रव्योनी अपेक्षाओ तुल्य छे (पएस

द्विस्थानपतितः, अवगाहनार्थतया द्विस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः
वर्णादिभिः षट्स्थानपतितः शीतस्पर्श पर्यत्रै स्तुल्यः उष्णस्निग्धरूक्षैः षट्स्थान-
पतिताः एवमुत्कृष्टगुणशीतोऽपि, अजन्यानुत्कृष्टगुणशीतोऽपि एवञ्चैव, नवरं
स्वस्थाने षट्स्थानपतितः । जघन्यगुणशीतानाम् असंख्येयप्रदेशिकानां पृच्छा,
गौतम ! अनन्ताः पर्यत्राः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते-
जघन्यगुणशीतानामसंख्येयप्रदेशिकानामनन्ताः पर्यत्राः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघ-

दुद्वाणवडिए) प्रप्रशोःकी अपेक्षा द्विस्थानपतित है (ओगाहणद्वयाए
दुद्वाणवडिए) अवगाहना नी अपेक्षा से द्विस्थानपतित है (ठिईए चउ-
द्व्यावडिए) स्थिति की अपेक्षा से चतुःस्थानपतित है (वण्णादिहिं छद्वा-
णवडिए) वर्णादि की अपेक्षा से षट्स्थानपतित है (सीयफासपज्जवेहिं
तुल्ले) शीत स्पर्श के पर्यायों से तुल्य है (उसिणणिद्धलुक्खेहिं छद्वा
णवडिए) उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष स्पर्शों से षट्स्थानपतित है (एवं उक्को-
सगुणसीए वि) इसी प्रकार उत्कृष्टगुण शीत भी (अजहणमणुक्कोस-
गुणसीए वि एवं चेव) मध्यगुण शीत भी इसी प्रकार (नवरं सद्वाणे
छद्वाणवडिए) विशेष यह कि स्वस्थान में षट्स्थानपतित है

(जहणगुणसीयाणं असंखिज्जपएसियाणं पुच्छा ?) जघन्यगुण
शीत असंख्यातप्रदेशी स्कंधों के पर्यायों के विषय में प्रश्न (गोयमा !
अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणद्वेणं
भंते ! एवं बुच्चइ-जहणगुणसीयाणं असंखेज्जपएसियाणं अणंता
पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा जाता है कि

सद्वयाए दुद्वाणवडिए) प्रदेशोनी अपेक्षाये द्विस्थान पतित छे (ओगाहणद्वयाए
दुद्वाणवडिए) अवगाहनानी अपेक्षाये द्विस्थान पतित छे (ठिईए चउद्वाण
वडिए) स्थितिनी अपेक्षाये चतुःस्थान पतित छे (वण्णादिहिं छद्वाणवडिए)
वर्णादिनी अपेक्षाये षट्स्थान पतित छे (सीय फासपज्जवेहिं तुल्ले) शीत
स्पर्शोना पर्यायोथी तुल्य छे (उसिणणिद्ध लुक्खेहिं छद्वाणवडिए) उष्ण, स्निग्ध
रूक्ष स्पर्शोथी षट्स्थान पतित छे (एवं उक्कोसगुणसीए वि) ओ प्रकारे उत्कृष्ट
गुण शीत पण्ण (अजहणमणुक्कोसगुणसीए वि एव चेव) मध्यम गुण शीत पण्ण
ओ प्रकारे (नवरं सद्वाणे छद्वाणवडिए) विशेष ओ के स्वस्थानमा षट्स्थान पतित छे

(जहणगुणसीयाणं असंखिज्जपएसियाणं पुच्छा ?) जघन्य गुण शीत
असंख्यात प्रदेशी स्कंधोना पर्यायोना विषयमा प्रश्न ? (गोयमा ! अणता पज्जवा
पणत्ता ?) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कक्षा छे ? (से केणद्वेणं भंते ! एव बुच्चइ
जहणगुणसीयाणं असंखेज्जपएसियाणं अणता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन्,

न्यगुणशीतोऽसंख्येयप्रदेशिको जघन्यगुणशीतस्य असंख्येयप्रदेशिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया चतुःस्थानपतितः अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः स्थित्या चतुःस्थानपतितः वर्णादिपर्यवैः षट्स्थानपतितः, शीतस्पर्शपर्यवैः तुल्यः उष्णस्निग्धरूक्षस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितः, एवमुत्कृष्टगुणशीतोऽपि अजघन्यानुत्कृष्टगुणशीतोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने षट्-

असंख्यातप्रदेशी जघन्यगुणशीत स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णगुणसीए असंखेज्जपएसिए जहण्णगुणसीयस्स असंखेज्जपएसियस्स दब्बट्टयाए तुल्ले) जघन्यगुण शीत असंख्यात-प्रदेशी स्कंध जघन्यगुण शीत असंख्यातप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य (पएसट्टयाए चउट्टाणवडिए) प्रदेशों की अपेक्षा चतुःस्थानपतित (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित (वण्णाइपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) वर्ण आदि पर्यायों से षट्स्थानपतित (सीयफासपज्जवेहिं तुल्ले) शीत स्पर्श के पर्यायों से तुल्य (उसिणणिद्धलुक्खपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष पर्यायों से षट्स्थानपतित (एवं उक्कोसगुणसीए वि) इसी प्रकार उत्कृष्टगुण शीत भी (अजहण्णमणुक्कोसगुणसीए वि एव चैव) मध्यमगुण शीत भी इसी प्रकार (नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए) विशेष यह कि स्वस्थान में षट्स्थान पतित होता है

शा कारणे अेम क्खेवाय छे के असंख्यात प्रदेशी जघन्य गुण शीत स्कंधाना अनन्त पर्याय क्ख्हा छे ? (गोयमा ! जहण्णगुणसीए असंखेज्जपएसिए जहण्णगुणसीयस्स असंखेज्जपएसियस्स दब्बट्टयाए तुल्ले) जघन्य गुण शीत असंख्यात प्रदेशी स्कंध जघन्य गुण शीत असंख्यात प्रदेशी स्कंधथी द्रव्यनी दृष्टिअे तुल्य (पएसट्टयाए चउट्टाणवडिए) प्रदेशीनी अपेक्षाअे अतु स्थान पतित (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनार्थी अतु स्थान पतित (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी अतुःस्थान पतित (वण्णाइपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) वर्ण आदि पर्यायोथी षट्स्थान पतित (सीय फास पज्जवेहिं तुल्ले) शीत स्पर्शना पर्यायोथी तुल्य

(उसिणणिद्धलुक्खपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) उष्ण स्निग्ध अने रूक्ष पर्यायोथी षट्स्थान पतित (एवं उक्कोसगुण सीएवि) अेव प्रमाणे उत्कृष्ट शीत पर्यायो पणु समञ्जा (अजहण्णमणुक्कोस गुणसीए वि एवं चैव) मध्यम गुण शीत पर्यायो पणु अेव प्रमाणेना समञ्जा. (नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए)

स्थानपतितः जघन्यगुणशीतानामनन्तप्रदेशिकानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यगुणशीतानामनन्तप्रदेशिकानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यगुणशीतोऽनन्तप्रदेशिको जघन्यगुणशीतस्य अनन्तप्रदेशिकस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया षट्स्थानपतितः, अवगाहनार्थतया—चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णादि-

(जहण्णगुणसीयाणं अणंतपएसियाणं पुच्छा ?) जघन्यगुण शीत अनन्तप्रदेशी स्कंधों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एव वुच्चइ—जहण्णगुणसीयाणं अणंतपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) किस अपेक्षा से हे भागवन् ! ऐसा कहा जाता है कि जघन्यगुण शीत अनन्तप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णगुणसीए अणंतपएसिए जहण्णगुणसीयस्स अणंतपएसियस्स दव्यट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्यगुण शीत अनन्त प्रदेशी स्कंध जघन्यगुण शीत अनन्तप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य (एएसट्टयाए छट्ठाणवडिए) प्रदेशों की अपेक्षा षट्स्थानपतित (ओगाणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना की अपेक्षा चतुस्थानपतित (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित (वण्णाइपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए) वर्णादि के पर्यायों से षट्स्थानपतित (सीयफासपज्जवेहिं तुल्ले) शीत स्पर्श के पर्यायों तुल्य से अबसेसेहिं

विशेषता ये छे के स्वस्थानमां षट्स्थान पतित थाय छे.

(जहण्णगुणसीयाणं अणंतपएसियाणं पुच्छा) जघन्य गुणु शीत अन त प्रदेश वाणा स्केधेना स भ धमा प्रश्न छे.

(गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे गौतम ! अन त पर्याय कहा छे. (से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ जहण्णगुणसीयाणं अणंतपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) क्या कारणुथी हे भगवन् येम कहुं छे के जघन्य गुणु शीत अन त प्रदेशी स्केधेना अनन्त पर्यायेक ह्या छे ? (गोयमा ! जहण्णगुणसीए अणंतपएसिए जहण्णगुणसीयस्स अणंतपएसियस्स दव्यट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य गुणु शीत अन त प्रदेशी स्केध जघन्य गुणु शीत अन त प्रदेशी स्केधथी द्रव्यनी अपेक्षाथी तुल्य छे (एएसट्टयाए छट्ठाणवडिए) प्रदेशोनी अपेक्षाये षट्स्थान पतित (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनाथी अतु स्थानपतित (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी अतुःस्थान पतित (वण्णाइपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए) वर्णादि पर्यायथी षट्स्थान पतित (सीयफासपज्जवेहिं तुल्ले) शीत स्पर्शना पर्यायेथी तुल्य

पर्यवैः षट्स्थानपतितः, शीतरुपर्शपर्यवै स्तुल्यः, अत्रशेषैः सप्तस्पर्शपर्यवैः षट्स्थान-
पतितः, एवमुत्कृष्टगुणशीतोऽपि, अजघन्यानुत्कृष्टगुणशीतोऽपि एवञ्चैव, नवरं
स्वस्थाने षट्स्थापतितः, एवमुष्णस्निग्धरूक्षाः यथाशीतः । परमाणुपुद्गलस्य
तथैव प्रतिपक्षः सर्वैः न भण्यते इति भणितव्यम् ।

सत्तफासपञ्जवेहिं छद्वाणवडिए) शेष सात स्पर्शों से षट्स्थान-
पतित (एव उक्कोसगुणसीए वि) इसी प्रकार उत्कृष्टगुण शीत
भी (अजहणमणुक्कोसगुणसीए वि एव चैव) मध्यमगुण शीत भी
इसी प्रकार (नवरं सद्वाणे छद्वाणवडिए) विशेष यह कि स्वस्थान में वह
षट्स्थानपतित है (एव उसिणाणिद्वरुक्खे जहा सीते) उष्ण, स्निग्ध
और रूक्ष स्पर्श शीत स्पर्शों के समान

(परमाणुपोग्गलस्स) परमाणुपुद्गल का (तहेव) उसी प्रकार (पडि-
वक्खो) प्रतिपक्ष (सत्वेहिं) सबका (न भण्णइ) नहीं कहा जाता (इति
भाणियव्व) ऐसा कहना चाहिए'

टीकार्थ—अब जघन्यगुणकाले आदि परमाणुपुद्गल आदि के पर्यायों
की प्ररूपणा की जाती है—

कृष्ण, नील आदि के वर्णों के दो प्रकार गंध के, पाँच प्रकार
के रस के और आठों प्रकार के स्पर्शों के तरतमभाव की अपेक्षा से
अनन्त अनन्त भेद होते हैं । तदनुसार कृष्ण वर्ण भी अनन्त प्रकार

(अवसेसेहिं सत्तफासपञ्जवेहिं छद्वाणवडिए) शेष सात स्पर्शोत्थी षट्स्थान
पतित (एव उक्कोसगुण सीए वि) ये ७ प्रकारे उत्कृष्ट शुष्ण शीत पष्ण (अज
हणमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चैव) मध्यम शुष्ण शीत पष्ण ये ७ प्रकारे (नवरं सद्वाणे
छद्वाणवडिए) विशेष ये ६ स्वस्थानभा ते षट्स्थान पतित छे (एवं उसिण
णिद्वरुक्खे जहा सीते) उष्ण, स्निग्ध अने इक्ष स्पर्श शीत स्पर्शना समान

(परमाणुपोग्गलस्स) परमाणु पुद्गलना (तहेव) ते ७ प्रकारे (पडिवक्खो)
प्रतिपक्ष (सत्वेहिं) अधाना (न भण्णइ) नहीं कहेवाता (इति भाणियव्वं) ये ७
कहेवु जेधं ये.

टीकार्थ—हवे ७धन्य शुष्ण काणा आदि परमाणु पुद्गल आदिना
पर्यायिनी प्ररूपणा कराय छे—

कृष्ण नील आदि वर्णोना ये प्रकारना गंध, पांच प्रकारना रस, अने
आठ प्रकारना स्पर्शोना तरतम भावनी अपेक्षाये अनन्त-अनन्त भेद थाय
छे. तदनुसार कृष्ण वर्णु पष्ण अनन्त प्रकारना छे कृष्ण वर्णुनी अधाथी ओधी

ટીકા—અથ જઘન્યગુણકાલકાદિ પરમાણુ પુદ્ગલાદીનાં પર્યાયાન્ પ્રરૂપ-
યિતુમાહ—‘જહ્ણગુણકાલયાણં મંતે ! પરમાણુપોગ્ગલાણં પુચ્છા!’ હે મદન્ત !
જગન્યગુણકાલકાનાં પરમાણુપુદ્ગલાના ક્રિયન્તઃ પર્યવાઃ પ્રજ્ઞપ્તાઃ ? મગવાન્ આહ—
‘ગૌતમા ! ‘હે ગૌતમ ! ‘અણંતા પજ્જવા પણ્ણત્તા’ જઘન્યગુણકાલકાનાં પરમાણુ-
કા હૈ । કૃષ્ણ વર્ણ કાં સ્વ સે કમ માત્રા જિસમેં પાઈ જાતી હૈ, વહ
પુદ્ગલ જઘન્યગુણ કાલા’ કહ લાતા હૈ’ યહાં ગુણ’ શબ્દ અ શ યા માત્રા
કા વાચક હૈ । જઘન્યગુણ કા અર્થ હૈ—સ્વ સે કમ અ શ । દૂસરે
શબ્દોં મેં યોં કહ સકતે હૈં કિ જિસ પુદ્ગલ મેં કેવલ ઇક ડિગ્રી કા
કાલાપન હો—જિસસે કમ કાલાપન કા સંભવ હી ન હો, વહ જઘન્યગુણ
કાલા કહલાતા હૈ । ઇસી પ્રકાર કાલેપન કે સ્વ સે અધિક અ શ
જિસમેં પાઈ જાઈ વહ ઉત્કૃષ્ટગુણ કાલા સમજ્ઞના ચાહિઈ । ઇક અ શ
કાલેપન સે અધિક ઓર સ્વસે અધિક—અન્તિમ કાલેપન સે ઇક અ શ
કમ તક કા કાલા મધ્યમગુણ કાલા કહલાતા હૈ । ઇસી પ્રકાર જઘ-
ન્યગુણ નીલ પીત આદિ વર્ણોં કે વિષય મેં, જઘન્યગુણ ગંધ, રસ, સ્પર્શ
આદિ કે વિષય મેં મી સમજ્ઞ લેના ચાહિઈ’ ગૌતમ પ્રશ્ન કરતે હૈ—
હે મગવાન્ જઘન્યગુણ કૃષ્ણ પરમાણુપુદ્ગલોં કે કિતને પર્યાય હૈ ?

મગવાન્—હે ગૌતમ ! જઘન્યગુણ કૃષ્ણ પરમાણુપુદ્ગલોં કે અનન્ત
પર્યાય કહે હૈં ।

માત્રા જેમા મળી આવે છે, તે પુદ્ગલ જઘન્ય ગુણ કાળા કહેવાય છે અહીં
ગુણ શબ્દ અ શ અગર માત્રાનો વાચક છે જઘન્ય ગુણનો અર્થ છે—મધાથી
ઓછા અંશ ખીલ શબ્દોમા એમ કહી શકીએ છીએ કે જે પુદ્ગલમાં
કેવળ એક ડીગ્રીનું કાળા પણ હોય જેનાથી ઓછા કાળાપણાનો સભવ ન
હોય તે જઘન્ય ગુણ કાળા કહેવાય છે. એજ પ્રકારે કાળા પણાનો મધાથી
વધારે અંશ જેમા મળી આવે તેને ઉત્કૃષ્ટ ગુણ કાળા સમજવા બેઠએ. એક
અંશ કાળા પણથી અધિક અને મધાથી અધિક—અન્તિમ કાળા પણથી એક
અંશ ઓછા સુધીના કાળા મધ્યમ ગુણ કાળા કહેવાય છે, એજ પ્રકારે જઘન્ય
ગુણ નીલ પીત આદિવર્ણોના વિષયમા, જઘન્ય ગુણ, રસ સ્પર્શ આદિના
વિષયમા પણ સમજી લેવું બેઠએ.

શ્રી ગૌતમસ્વામી પ્રશ્ન કરે છે—હે ભગવાન્ ! જઘન્ય ગુણ કૃષ્ણ પરમાણુ
પુદ્ગલોના કેટલા પર્યાય છે ?

શ્રી ભગવાન્ :— હે ગૌતમ ! જઘન્ય ગુણ કૃષ્ણ વર્ણ પરમાણુ પુદ્ગલોના
અનન્ત પર્યાય કહ્યા છે.

पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ—‘जहणगुणकालयाणं परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्येण—कथं तावद्, एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते यत्—जघन्य गुणकालकानां परमाणुपुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहणगुणकालए परमाणुपोग्गळे’ जघन्यगुण-कालकः परमाणुपुद्गलः, ‘जहणगुणकालगस्स परमाणुपोग्गलस्स ट्व्वट्टयाए तुल्ले’ जघन्यगुणकालस्य परमाणुपुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, तथा च प्रत्येकं द्रव्यमनन्तपर्यायमितिन्यायेन जघन्यगुणकालकपरमाणु पुद्गलस्यापि द्रव्यत्वेन अनन्तपर्यायसंभवात्, ‘पएसट्टयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाहणट्टयाए तुल्ले’ अवगाहनार्थतया—अवगाहनापेक्षया तुल्यो भवति, ‘ठिंईए चउट्टाणवडिंए’ स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, ‘कालवण्णपज्जवेहि तुल्ले’ कृष्णवर्णपर्यवैः तुल्यो भवति, ‘अवसेसा वण्णा नत्थि’ अवशेषाः वर्णाः लोहिता दयो न सन्ति—तत्र न भवन्ति, तस्य जघन्यगुणकालकत्वात् ‘गधरस दुफास-पज्जवेहि य छट्टाणवडिंए’ गन्धरस द्विस्पर्शपर्यवैश्च षट्स्थानपतितो भवति, ‘एवं उक्कोसगुणकालए वि’ एवम्—जघन्यगुणकालक परमाणुपुद्गलवदेव उत्कृष्टगुण-

हे गौतम—हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्यगुण काला एक परमाणुपुद्गल दूसरे जघन्यगुण काले परमाणुपुद्गल से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है, प्रदेश की अपेक्षा से तुल्य होता है, अवगाहना से भी तुल्य होता है, स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित होता है, कृष्ण वर्ण के पर्यायों की अपेक्षा तुल्य होता है, शेष वर्ण उसमें होते नहीं हैं, क्योंकि उसमें कृष्ण वर्ण है और परमाणु में एक ही वर्ण हो सकता है, गंध, रस और दो स्पर्शों की अपेक्षा से षट्स्थानपतित होता है। इसी प्रकार उत्कृष्ट-गुण काला पुद्गलपरमाणु भी समझ लेना चाहिए’ मध्यमगुण काले परमाणु की वक्तव्यता भी इसी प्रकार की जाननी चाहिए। मध्य-

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ज्येभ कडेवातु शु कारणु छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम जघन्य शुष्काणा ज्येभ परमाणु पुद्गल जीण जघन्य शुष्काणा परमाणु पुद्गलथी द्रव्यनी अपेक्षाज्ये तुल्य थाय छे. प्रदेशानी अपेक्षाज्ये तुल्य थाय छे, अवगाहनार्थी पणु तुल्य थाय छे स्थितिनी अपे. क्षाज्ये चतुःस्थान पतित थाय छे कृष्ण वर्णना पर्यायीनी अपेक्षाज्ये तुल्य थाय छे शेष वर्ण तेमा डोता नथी, केमके तेमा कृष्ण वर्णु छे अने परमाणुमां ज्येभ ज वर्णु डोठ शके छे गध, रस अने जे स्पर्शानी अपेक्षाज्ये ते षट्स्थान पतित थाय छे. ज्येवी ज रीते उत्कृष्ट शुष्काणा पुद्गल परमाणु पणु समणु देवा जेधज्ये. मध्यम शुष्काणा परमाणुनी वक्तव्यता पणु आण प्रकरनी

ટીકા—અથ જઘન્યગુણકાલક્રાદિ પરમાણુ પુદ્ગલાદીના પર્યાયાન્ પ્રરૂપ-
યિતુમાહ—‘જહ્ણગુણકાલયાણં મંતે ! પરમાણુપોગલાણં પુચ્છા!’ હે મદન્ત !
જગન્યગુણકાલક્રાના પરમાણુપુદ્ગલાના ક્રિયન્તઃ પર્યવાઃ પ્રજ્ઞાઃ ? મગવાન્ આહ—
‘ગોયમા ! ‘હે ગૌતમ ! ‘અણંતા પજ્જવા પણ્ણત્તા’ જઘન્યગુણકાલક્રાનાં પરમાણુ-
કા હૈ । કૃષ્ણ વર્ણ કાં સવ સે કમ માત્રા જિસમેં પાઈ જાતી હૈ, વહ
પુદ્ગલ જઘન્યગુણ કાલા’ કહ લાતા હૈ’ યહાં ગુણ’ શબ્દ અ શ યા માત્રા
કા વાચક હૈ । જઘન્યગુણ કા અર્થ હૈ—સવ સે કમ અ શ । દૂસરે
શબ્દોં મેં યોં કહ સકતે હુંં કિ જિસ પુદ્ગલ મેં કેવલ એક ડિગ્રી કા
કાલાપન હો—જિસસે કમ કાલાપન કા સંભવ હી ન હો, વહ જઘન્યગુણ
કાલા કહલાતા હૈ । ઇસી પ્રકાર કાલેપન કે સવ સે અધિક અ શ
જિસમેં પામ જાઈ વહ ઉત્કૃષ્ટગુણ કાલા સમજના યાહિયે । એક અ શ
કાલેપન સે અધિક ઓર સવસે અધિક-અન્તિમ કાલેપન સે એક અ શ
કમ તક કા કાલા મધ્યમગુણ કાલા કહલાતા હૈ । ઇસી પ્રકાર જઘ-
ન્યગુણ નીલ પીત આદિ વર્ણોં કે વિષય મેં, જઘન્યગુણ ગંધ, રસ, સ્પર્શ
આદિ કે વિષય મેં મી સમજ લેના યાહિયે’ ગૌતમ પ્રશ્ન કરતે હૈ—
હે મગવાન્ જઘન્યગુણ કૃષ્ણ પરમાણુપુદ્ગલોં કે કિતને પર્યાય હૈં ?

મગવાન્—હે ગૌતમ ! જઘન્યગુણ કૃષ્ણ પરમાણુપુદ્ગલોં કે અનન્ત
પર્યાય કહે હૈં ।

માત્રા જેમાં મળી આવે છે, તે પુદ્ગલ જઘન્ય ગુણ કાળા કહેવાય છે અહીં
ગુણ ક્ષુદ્ર અ શ અગર માત્રાનો વાચક છે. જઘન્ય ગુણનો અર્થ છે—બધારી
ઓછા અંશ ખીલ શબ્દોમા એમ કહી શકીએ છીએ કે જે પુદ્ગલમા
કેવળ એક ડીગ્રીનું કાળા પણ હોય જેનાથી ઓછા કાળાપણાનો સભવ ન
હોય તે જઘન્ય ગુણ કાળા કહેવાય છે. એજ પ્રકારે કાળા પણાનો બધારી
વધારે અંશ જેમા મળી આવે તેને ઉત્કૃષ્ટ ગુણ કાળા સમજવા ભેદએ. એક
અંશ કાળા પણથી અધિક અને બધારી અધિક-અન્તિમ કાળા પણથી એક
અંશ ઓછા સુધીના કાળા મધ્યમ ગુણ કાળા કહેવાય છે, એજ પ્રકારે જઘન્ય
ગુણ નીલ પીત આદિવર્ણોના વિષયમા, જઘન્ય ગુણ, રસ સ્પર્શ આદિના
વિષયમા પણ સમજ લેવું ભેદએ.

શ્રી ગૌતમસ્વામી પ્રશ્ન કરે છે—હે ભગવાન્ ! જઘન્ય ગુણ કૃષ્ણ પરમાણુ
પુદ્ગલોના કેટલા પર્યાય છે ?

શ્રી ભગવાન્— હે ગૌતમ ! જઘન્ય ગુણ કૃષ્ણ વર્ણ પરમાણુ પુદ્ગલોના
અનન્ત પર્યાય કહ્યા છે.

पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ—‘जहण्णगुणकालयाणं परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्येन—अथ तावद्, एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते यत्—जघन्य गुणकालकानां परमाणुपुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णगुणकालए परमाणुपोग्गळे’ जघन्यगुण-कालकः परमाणुपुद्गलः, ‘जहण्णगुणकालगस्स परमाणुपोग्गलस्स दव्वट्टयाए तुल्ले’ जघन्यगुणकालस्य परमाणुपुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, तथा च प्रत्येकं द्र-यमनन्तपर्यायमितिन्यायेन जघन्यगुणकालकपरमाणु पुद्गलस्यापि द्रव्यत्वेन अनन्तपर्यायसंभवात्, ‘पएसट्टयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, ‘ओगाहणट्टयाए तुल्ले’ अवगाहनार्थतया—अवगाहनापेक्षया तुल्यो भवति, ‘ठिईए चउट्टाणवडिए’ स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, ‘कालवण्णपज्जवेहि तुल्ले’ कृष्णवर्णपर्यवैः तुल्यो भवति, ‘अवसेसा वण्णा नत्थि’ अवशेषाः वर्णाः लोहिता दयो न सन्ति—तत्र न भवन्ति, तस्य जघन्यगुणकालकत्वात् ‘गंधरस दुफास-पज्जवेहि य छट्टाणवडिए’ गन्धरस द्विस्पर्शपर्यवैश्च षट्स्थानपतितो भवति, ‘एवं उक्कोसगुणकालए वि’ एवम्—जघन्यगुणकालक परमाणुपुद्गलवदेव उत्कृष्टगुण-

हे गौतम—हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्यगुण काला एक परमाणुपुद्गल दूसरे जघन्यगुण काले परमाणुपुद्गल से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है, प्रदेश की अपेक्षा से तुल्य होता है, अवगाहना से भी तुल्य होता है, स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित होता है, कृष्ण वर्ण के पर्यायों की अपेक्षा तुल्य होता है, शेष वर्ण उसमें होते नहीं हैं, क्योंकि उसमें कृष्ण वर्ण है और परमाणु में एक ही वर्ण हो सकता है, गंध, रस और दो स्पर्शों की अपेक्षा से षट्स्थानपतित होता है । इसी प्रकार उत्कृष्ट-गुण काला पुद्गलपरमाणु भी समझ लेना चाहिए’ मध्यमगुण काले परमाणु की वक्तव्यता भी इसी प्रकार की जाननी चाहिए । मध्य-

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ज्येष्ठे देवात्तु शु कर्णु छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम जघन्य शुष्काणा ज्येष्ठ परमाणु पुद्गल भी जघन्य शुष्काणा परमाणु पुद्गलार्थी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य थाय छे प्रदेशनी अपेक्षाये तुल्य थाय छे, अवगाहनाथी पणु तुल्य थाय छे स्थितिनी अपे-क्षाये चतुःस्थान पतित थाय छे कृष्ण वर्णुना पर्यायिनी अपेक्षाये तुल्य थाय छे. शेष वर्णु तेमा होता नथी, केमके तेमा कृष्ण वर्णु छे अने परमाणुमा ज्येष्ठ ४ वर्णु होथ शके छे गंध, रस अने ये स्पर्शानी अपेक्षाये ते षट्स्थान पतित थाय छे. ज्येष्ठ ४ रीते उत्कृष्ट शुष्काणा पुद्गल परमाणु पणु समलु देवा ज्येष्ठे. मध्यम शुष्काणा परमाणुनी वक्तव्यता पणु आण प्रकारनी

कालकोऽपि परमाणुपुद्गलोऽवसेयः 'एवमजहन्नमणुक्कोसगुणकाल ए वि' एवं-
जघन्यगुणकालरु परमाणुपुद्गलवदेव अजघन्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि परमाणु
पुद्गलोऽवगन्तव्यः, 'णचर सट्टाणे छट्टाणवडिण्' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु
स्वस्थाने स्वस्थानापेक्षया पट्टस्थानपतितो भवति, 'जहण्णगुणकालयाणं भंते !
दुपएसियाणं पुच्छा' हे भदन्त ! जघन्यगुणकालकानां द्विप्रदेशिकानां
क्रियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह-गोयमा ! हे गौतम !
'अणंता पज्जवा पण्णत्ता ! जघन्यगुणकालकानां द्विप्रदेशिकानां पुद्गलानाम्
अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः गौतमः पृच्छति-'से केणट्टेणं भंते ! 'एवं वुच्चइ-
जहण्णगुणकालयाणं दुपएसियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता' हे भदन्त ! तत्-अथ,
केनार्थेन-कथं तावद्, एवम्-उत्तरीत्या उच्यते यद् जघन्यगुणकालकानां द्विप्रदे-
शिकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह-'गोयमा !
हे गौतम ! 'जहण्णगुणकाल ए दुपएसिए' जघन्यगुणकालको द्विप्रदेशिकः पुद्-
गलस्कन्धः, 'जहण्णगुणकालगस्स दुपएसियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले' जघन्यगुण-
कालकस्य द्विप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, तथा च

मगुण काले परमाणु पुद्गल मे विशेषता यह है कि वह स्वस्थान में
भी पट्टस्थानपतित होता है, क्योंकि मध्यमगुण काले वर्ण के तरतम
के आधार पर अनन्त भेद का संभव है ।

गौतम ! हे भगवन् ! जघन्यगुण कृष्ण द्विप्रदेशी पुद्गलस्कन्धों
के कितने पर्याय हैं ?

भगवान् हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम- हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवान् हे-गौतम ! एक जघन्यगुण कृष्ण द्विप्रदेशी स्कन्ध दूसरे
जघन्यगुण कृष्ण द्विप्रदेशी स्कन्ध से द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है,

जलुवी जेधंजे. मध्यम शुष्ण काणा परमाणु पुद्गलमा विशेषता जे छे के ते
स्वस्थानमां पष्ण पट्टस्थान पतित थाय छे, केमके मध्यम शुष्णकाणा वष्णना
तरतमताना आधार पर अनन्त लेह स लवे छे.

श्रीगौतमस्वामी-हे भगवन् जघन्य शुष्ण कृष्ण द्विप्रदेशी पुद्गल स्कन्धना
केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहा छे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् तेम कडेवानु शु कारणु छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जेके जघन्य शुष्ण कृष्ण द्विप्रदेशी स्कन्ध गील
जघन्य शुष्ण कृष्ण द्वि प्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी अपेक्षाजे तुल्य छे, प्रदेशीनी

प्रत्येकं द्रव्यमनन्तपर्यायमिति नियमेन जघन्यगुणकालक द्विप्रदेशिरुपदुगलस्कन्धस्यापि द्रव्यत्वेन अनन्तपर्यायसंभवात् 'पएसट्टयाए तुल्ले' प्रदेशार्थतया तुल्यः 'ओगाहणाट्टयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए' अवगाहनार्थतया-अवगाहनापेक्षया स्यात् कदाचित् कश्चिद् हीनो भवति, स्यात् -कदाचित् कश्चित्तुल्यो भवति स्यात्-कदाचित् कश्चिदभ्यधिको भवति, तत्र 'जइ हीणे पएसहीणे' यदा हीनो विवक्षित स्तदा प्रदेशहीनो भवति, 'अह अब्भहिए पएग अब्भहिए' अथ अभ्यधिको यदा विवक्षित स्तदा प्रदेशाभ्यधिको वा भवति, द्वि प्रदेशिरुपदुगलस्कन्धस्य अवगाहनापेक्षया एकस्य हीनत्व विवक्षणे प्रदेशहीनत्वं भवति, अन्यस्य अधिकत्वविवक्षणेऽपि प्रदेशाभ्यधिकत्वं भवति, द्विप्रदेशिकत्वात्, 'ठिईए चउट्टाणवडिए' स्यित्या चतुःस्थानपतितो भवति 'कालवण्णपज्जवेहि तुल्ले' कृष्णवर्णपर्यवै स्तुल्यो भवति 'अवसेसवण्णाइ उवरिल्ल चउफासेहिय छट्टाणवडिए'

प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य है, क्योंकि दोनों के ही दो-दो प्रदेश होते हैं। अवगाहना की अपेक्षा से कोई किसी से हीन भी हो सकता है कोई किसी से अधिक भी हो सकता है, कोई किसी से तुल्य भी हो सकता है। अगर हीन हो तो एक एक प्रदेश कम अवगाहना वाला हो सकता है और यदि अधिक हो तो एक प्रदेश अधिक अवगाहना वाला हो सकता है। तात्पर्य यह है कि द्विप्रदेशी स्कंध की अवगाहना में एक प्रदेशी से अधिक न्यूनाधिक अवगाहना का संभव नहीं है। मगर स्थिति की अपेक्षा उनमें चतुःस्थानपतित हीनाधिकता हो सकती है। कृष्ण वर्ण के पर्यायों से वह तुल्य होता है, क्योंकि दोनों जघन्यगुण कृष्ण है। शेष वर्णों आदि तथा ऊपर के चार-

अपेक्षाओं पणु तुल्य छे. केमके भन्नेना जे-जे प्रदेश थाय छे अवगाहनानी अपेक्षाओं केअ केअनाथी हीन पणु थथ शके छे अने केअ केअनाथी अधिक पणु थथ शके छे, केअ केअनाथी तुल्य पणु थथ शके छे. अगर हीन होय तो ओके ओके प्रदेश कम अवगाहनावाणा थथ शके छे, अने जे अधिक होय तो ओके प्रदेश अधिक अवगाहनावाणा थथ शके छे, तात्पर्य ओ छे के द्विप्रदेशी स्कन्धनी अवगाहनामा ओके प्रदेशथी अधिक न्यूनाधिक अवगाहनाने स लव होतो नथी, पणु स्थितिनी अपेक्षाओं तेमा चतुस्थान पतित हीनाधिकता थथ शके छे कृष्ण वर्णना पर्यायोथी ते तुल्य थाय छे केमके भन्ने जघन्य गुण कृष्ण छे शेष वर्णों आदि तथा ऊपरना चार अर्थात् शीत, उष्ण, सिन्ध अने इक्ष स्पर्शाना पर्यायोनी अपेक्षाओं षटस्थान पतित थाय छे.

કાલકોઽપિ પરમાણુપુદ્ગલોઽવસેયઃ 'एवमजहन्नमणुकोसगुणकालए वि' एवं-
 जघन्यगुणकालरु परमाणुपुद्गलवदेव अजघन्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि परमाणु
 पुद्गलोऽवगन्तव्यः, 'णवर सट्टाणे छट्टाणघडिए' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु
 स्वस्थाने स्वस्थानापेक्षया षट्स्थानपतितो भवति, 'जहण्णगुणकालयाणं भंते !
 दुपएसियाणं पुच्छा' हे भदन्त ! जघन्यगुणकालकानां द्विप्रदेशिकानां
 क्रियन्तः पर्येवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह-गोयमा ! हे गौतम !
 'अणंता पज्जवा पण्णत्ता ! जघन्यगुणकालकाना द्विप्रदेशिकानां पुद्गलानाम्
 अनन्ताः पर्येवाः प्रज्ञप्ताः गौतमः पृच्छति-'से केणट्टेण भंते ! 'एवं बुच्चइ-
 जहण्णगुणकालयाणं दुपएसियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता' हे भदन्त ! तत्-अथ,
 केनार्थेन-कथं तावद्, एवम्-उक्तरीत्या उच्यते यद् जघन्यगुणकालकाना द्विप्रदे-
 शिकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्येवाः प्रज्ञप्ता ? इति, भगवान् आह-'गोयमा !
 हे गौतम ! 'जहण्णगुणकालए दुपएसिए' जघन्यगुणकालको द्विप्रदेशिकः पुद्-
 गलस्कन्धः, 'जहण्णगुणकालगस्स दुपएसियस्स दव्वहयाए तुत्थे' जघन्यगुण-
 कालकस्य द्विप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, तथा च

मगुण काले परमाणु पुद्गल मे विशेषता यह है कि वह स्वस्थान में
 भी षट्स्थानपतित होता है, क्योंकि मध्यमगुण काले वर्ण के तरतम
 के आधार पर अनन्त भेद का संभव है ।

गौतम ! हे भगवन् ! जघन्यगुण कृष्ण द्विप्रदेशी पुद्गलस्कंधों
 के कितने पर्याय हैं ?

भगवान् हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम- हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवान् हे-गौतम ! एक जघन्यगुण कृष्ण द्विप्रदेशी स्कंध दूसरे
 जघन्यगुण कृष्ण द्विप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है,

જાણવી જોઈએ. મધ્યમ ગુણ કાળા પરમાણુ પુદ્ગલમા વિશેષતા એ છે કે તે
 સ્વસ્થાનમાં પણ ષટ્સ્થાન પતિત થાય છે, કેમકે મધ્યમ ગુણકાળા વર્ણના
 તરતમતાના આધાર પર અનન્ત ભેદ સભવે છે.

શ્રીગૌતમસ્વામી-હે ભગવન્ જઘન્ય ગુણ કૃષ્ણ દ્વિપ્રદેશી પુદ્ગલ સ્કન્ધના
 કેટલા પર્યાય છે ?

શ્રી ભગવાન્-હે ગૌતમ ! અનન્ત પર્યાય કહ્યા છે

શ્રી ગૌતમસ્વામી-હે ભગવન્ તેમ કહેવાનું શું કારણ છે ?

શ્રી ભગવાન્-હે ગૌતમ ! એક જઘન્ય ગુણ કૃષ્ણ દ્વિપ્રદેશી સ્કન્ધ બીજા
 જઘન્ય ગુણ કૃષ્ણ દ્વિ પ્રદેશી સ્કન્ધથી દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તુલ્ય છે, પ્રદેશોની

अवशेषवर्णादि उपरितन चतुःस्पर्शैश्च शीतोष्णस्निग्धरूक्षस्पर्शपर्यवैः पटस्थान-
पतितो भवति, 'एव उक्कोसगुणकालएवि' एवम्-जघन्यगुणकालकवदेव उत्कृष्ट-
गुणकालकोऽपि द्विप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धः प्रतिपत्तव्यः, 'अजहण्णमणुक्कोसगुण-
कालए वि एवं चैव' अजघन्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि द्विप्रदेशिक पुद्गलस्कन्धः,
एवं चैव-जघन्यगुणकालकवदेव अवगन्तव्यः, किन्तु- 'णवर सट्ठाणे छट्ठाणवडिए'
नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्वस्थाने पटस्थानपतितो भवति 'एवं जाव दसपए-
सिए' एवम्-जघन्यगुणकालकद्विप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धवदेव यावत्-त्रिचतुःपञ्च-
पट्सप्ताष्टनवदशप्रदेशिको जघन्यगुणकालकः पुद्गलस्कन्धः प्रतिपत्तव्यः, 'णवर
पएसपरिवुद्धी 'नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु उत्तरोत्तरक्रमेण प्रदेशपरिवृद्धिः कर्त्त-

अर्थात् शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष स्पर्शों के पर्यायों की अपेक्षा
से पटस्थानपतित होता है। इसी प्रकार उत्कृष्टगुण कृष्ण द्विप्रदेशी
स्कन्ध के विषय में भी समझ लेना चाहिए। मध्यमगुण कृष्ण द्विप्रदेशी
स्कन्ध की प्ररूपणा भी इसी प्रकार करनी चाहिए, मगर उसमें विशेष-
पता यह है कि वह स्वस्थान में पटस्थानपतित होता है, अर्थात् एक
मध्यमगुण कृष्ण द्विप्रदेशी स्कन्ध दूसरे मध्यमगुण कृष्ण द्विप्रदेशी स्कन्ध
से अनन्तभाग असंख्यातभाग, संख्यातभाग, संख्यातगुण, असं-
ख्यातगुण और अनन्तगुण हीनाधिक होसकता है।

जघन्यगुण कृष्ण द्विप्रदेशी स्कन्ध की जैसी प्ररूपणा की गई है,
वैसी ही दसप्रदेशी स्कन्ध तक की प्ररूपणा समझ लेनी चाहिए,
अर्थात् त्रिप्रदेशी, चौप्रदेशी, पंचप्रदेशी षट्प्रदेशी, सप्तप्रदेशी, अष्ट-
प्रदेशी नवप्रदेशी और दसप्रदेशी स्कन्ध की वक्तव्यता द्विप्रदेशी स्कन्ध

એજ પ્રકારે ઉત્કૃષ્ટ ગુણ કૃષ્ણ દ્વિપ્રદેશી સ્કન્ધના વિષયમા પણ સમજી
લેવું જોઈએ મધ્યમ ગુણ કૃષ્ણ દ્વિપ્રદેશી સ્કન્ધની પ્રરૂપણા પણ એજ પ્રકારે
કરવી જોઈએ પણ તેમા વિશેષતા એ છે કે તે સ્વસ્થાનમા પટસ્થાન પતિત
થાય છે, અર્થાત્ એક મધ્યમ ગુણ કૃષ્ણ દ્વિપ્રદેશી સ્કન્ધ થીજ મધ્યમ ગુણ
કૃષ્ણ દ્વિપ્રદેશી સ્કન્ધથી અનન્ત ભાગ અસખ્યાત ભાગ, સખ્યાત ભાગ,
સખ્યાતગુણ અસખ્યાત ગુણ, અને અનન્ત ગુણ હીનાધિક થઈ શકે છે

જઘન્ય ગુણ કૃષ્ણ દ્વિપ્રદેશી સ્કન્ધની જેવી પ્રરૂપણા કરાએલ છે, તેવીજ
દશ પ્રદેશી સ્કન્ધ સુધીની પ્રરૂપણા સમજી લેવી જોઈએ અર્થાત્ દ્વિપ્રદેશી,
ત્રિપ્રદેશી, ચાર પ્રદેશી, પાચ પ્રદેશી, છપ્રદેશી, સાત પ્રદેશી, આઠ પ્રદેશી,
નવ પ્રદેશી અને દશ પ્રદેશી સ્કન્ધની વક્તવ્યતા દ્વિપ્રદેશી સ્કન્ધના સમાન
છે. તેમા વિશેષતા એ છે કે તેઓમા ઉત્તરોત્તર પ્રદેશોની વૃદ્ધિ કરી લેવી જોઈએ.

व्याः 'ओगाहणाए तहेव' अवगाहनया-अनगाहनापेक्षया जघन्यगुणकालकः
 त्र्यादिदशपर्यन्त पुद्गलस्कन्धस्तथैव-द्विप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धवदेवावगन्तव्यः तथा
 च द्रव्यार्थतया अनन्तपर्यायः इत्यादि पूर्वोक्तरीत्या ज्ञातव्यः । गौतमः पृच्छति
 -'जहण्णगुणकालयाणं भंते ! संखेज्जपएसियाणं पुच्छा' हे भदन्त ! जघन्यगुण-
 कालकानां संख्येयप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति
 पृच्छा, भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पण्णत्ता ! जघन्य-
 गुणकालकानां संख्येयप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः,
 गौतमः पृच्छति-'से केणट्ठेणं भंते ! एव बुच्चइ-'जहण्णगुणकालयाणं संखेज्ज-
 पएसियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता' हे गौतम ! तत्-अथ, केनार्थेन-कथं तावद्,
 एवं-उक्तरीत्या, उच्यते-यद्-जघन्यगुणकालकानां संख्येयप्रदेशिकानां पुद्गल
 स्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम !
 'जहण्णगुणकालए संखेज्जपएसिए' जघन्यगुणकालकः संख्येयप्रदेशिकः पुद्गल
 स्कन्धः, 'जहण्णगुणकालजस्स संखेज्जपएसियस्स दव्वट्ठयाए तुत्थले' जघन्यगुण-
 कालकस्य संख्येयप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति,

के समान है । उसमें विशेषता इतनी ही है कि उनमें उत्तरोत्तर प्रदेशों की वृद्धि करनी चाहिए ।

गौतम-हे भगवन् ! जघन्यगुण कृष्ण संख्यातप्रदेशी पुद्गल स्कंधों के कितने पर्याय हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्यगुण कृष्ण संख्यातप्रदेशी पुद्गलस्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं ।

गौतम-हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्यगुणकृष्ण संख्यातप्रदेशी पुद्गलस्कंध दूसरे जघन्यगुण कृष्ण संख्यातप्रदेशी पुद्गलस्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है, प्रदेशों की अपेक्षा से वह द्विस्थानपतित होता

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जघन्यगुण कृष्ण संख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कन्धाना केटला पर्याय कक्षा छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य गुण कृष्ण संख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कन्धाना अनन्त पर्याय कक्षा छे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जेपुं कडेवानु शु कारणु छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य गुण कृष्ण संख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कंध पीण जघन्यगुण कृष्ण संख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कन्धथी द्रव्यनी अपेक्षाजे तुल्य थाय छे. प्रदेशीनी अपेक्षाजे ते द्विस्थान पतित थाय छे

प्रत्येकं च द्रव्यमनन्तपर्यायमिति न्यायेन जघन्यगुणकालकस्य संख्येयप्रदेशिक-
पुद्गलस्कन्धस्यापि द्रव्यत्वेन अनन्तपर्यायसंभवात्, 'एषसद्व्याएदुद्वाणवडिए'
प्रदेशार्थतया-प्रदेशापेक्षया द्विस्थानपतितो भवति, तथाच-संख्येयभागहीनः
संख्येयगुणहीनो वा इत्येवम् द्विस्थानपतितत्वमवसेयम्, एवं संख्येय भागाभ्य-
धिकः संख्येयगुणाभ्यधिको वा भवति, इत्येवञ्चापि द्विस्थानपतितत्वमवसेयम्,
'ओगाहणद्व्याए दुद्वाणवडिए' अवगाहनार्थतया-अवगाहना पेक्षयापि द्विस्थान-
पतितो भवति, तदभिलापस्तु उपर्युक्तरूपो बोध्यः, 'ठिईए चउद्वाणवडिए' स्थित्या
चतुःस्थानपतितो भवति, संख्यातासंख्यातभागगुणहीन वृद्धिभ्यां चतुःस्थानपति
त्वमवसेयम्, 'कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले' कृष्णवर्णपर्यवैस्तुल्यो भवति, 'अवसेसेहिं
वण्णाइ उवरिल्ल चउफासेहिय छद्वाणवडिए' अवशेषैः वर्णादिभिः उपरितन चतुः
स्पर्शैश्च-शीतोष्णस्निग्धरूक्षस्पर्शपर्यवैः पट्स्थानपतितो भवति, 'एवं उक्कोस-
गुणकालए वि' एवम्-जघन्यगुणकालकवदेव उत्कृष्टगुणकालकोऽपि संख्येय-

है अर्थात् संख्यातभागहीन अथवा संख्यातगुणहीन होता है और
यदि अधिक हो तो संख्यातभाग अधिक अथवा संख्यातगुण अधिक
होता है। अवगाहना की दृष्टि से वह द्विस्थानपतित होता है। उन
का उच्चारण पूर्ववत् ही कर लेना चाहिए। स्थिति की अपेक्षा चतुः-
स्थानपतित होता है, अर्थात् असंख्यातभाग हीन, संख्यातभाग हीन,
संख्यातगुण हीन अथवा असंख्यातगुण हीन होता है। यदि अधिक
हो तो इसी प्रकार अधिक होता है। कृष्ण वर्ण के पर्यायों से तुल्य
होता है। शेष वर्ण आदि से तथा शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष-
इन चार स्पर्शों को अपेक्षा से षट्स्थानपतित होता है।

उत्कृष्टगुण कृष्ण संख्यातप्रदेशी स्कन्ध की प्ररूपणा भी इसी

अर्थात् संख्यात भाग हीन अथवा संख्यात गुणहीन थाय छे अने ने
अधिक होय तो संख्यात भाग अधिक अथवा संख्यात गुण अधिक थाय छे.
अवगाहनानी दृष्टिथी ते द्विस्थान पतित थाय छे तेमना उच्चारण पूर्ववत्
करी देवा नेअथे स्थितिनी अपेक्षाथे चतुःस्थान पतित थाय छे अर्थात्
संख्यात भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन अथवा असं
ख्यात गुणहीन थाय छे. ने अधिक होय तो अथवा प्रकारे अधिक थाय छे.
कृष्ण वर्णना पर्यायथी तुल्य थाय छे शेष वर्ण आदिथी तथा शीत, उष्ण,
स्निग्ध अने रूक्ष अथे चार स्पर्शनी अपेक्षाथे षट्स्थान पतित थाय छे,

उत्कृष्ट गुण कृष्ण संख्यात प्रदेशी स्कन्धनी प्ररूपणा पण अथे प्रकारे

प्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धो वक्तव्यः, 'एवं अजहण्णमणुकोसगुणकालए वि' एवं-
जघन्यगुणकालकवदेव अजघन्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि संख्येयप्रदेशिकः पुद्-
गलस्कन्धोऽवगन्तव्यः, 'नवरं सट्ठाणे छट्ठायवडिए' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु
स्वस्थाने-स्वस्थानापेक्षया पट्स्थानपतितो भवति गौतमः पृच्छति-'जहण्णगुण-
कालयाणं भंते ! असंखेज्जपएसियाणं पुच्छा' हे भदन्त ! जघन्यगुणकालकानाम्
संख्येयप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा,
भगवान् आह-'गोयमा ! हे गौतम ! 'अणता पज्जवा पण्णत्ता' जघन्यगुणकाल-
कानाम् असंख्येयप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः गौतमः
पृच्छति-'से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहण्णगुणकालयाणं असंखेज्जपएसि-
याणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?' हे भदन्त ! तत्-अथ केनार्थेन-कथं तावद्,
एवम्-उत्तरीत्या, उच्यते यद्-जघन्यगुणकालकानां असंख्येयप्रदेशिकानाम-
नन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति भगवान् आह-'गोयमा ! हे गौतम ! 'जहण्णगुण-
कालए असंखेज्जपएसिए' जघन्यगुणकालकोऽसंख्येयप्रदेशिकः पुद्गल स्कन्धः,
'जहण्णगुणकालगस्स असंखेज्जपएसियस्स दव्वट्ठयाप तुल्ले' जघन्यगुणकालकस्य

प्रकार समझना चाहिए। मध्यमगुण कृष्ण संख्यातप्रदेशी स्कंध के
संबंध में भी ऐसा ही जानना चाहिए मगर इसमें विशेषता इ ती
है कि यह मध्यमगुण कृष्ण संख्यातप्रदेशी स्कंध स्वस्थान में अर्थात्
कृष्ण वर्ण के पर्यायों में भी षट्स्थानपतित होता है।

गौतम-हे भगवन् ! जघन्यगुण कृष्ण असंख्यातप्रदेशी पुद्गल
स्कंध के कितने पर्याय कहे हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं।

गौतम-हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवन्-हे गौतम ! एक जघन्यगुण काला असंख्यातप्रदेशी पुद्-

समञ्जी लोथये. मध्यम गुण कृष्ण संख्यात प्रदेशी स्कन्धना समन्धमा
पण्ण येमण्ण समण्वु लोथये. पण्ण तेमा विशेषता येट्ठी छे के ये मध्यम
गुण कृष्ण संख्यात प्रदेशी स्कन्ध स्वस्थानमा अर्थात् कृष्ण वर्णना पर्यायोमा
पण्ण षट्स्थान पतित थाय छे,

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जघन्य गुण कृष्ण असंख्यात प्रदेशी
पुद्गल स्कन्धना डेट्ठा पर्याय कथा छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय कथा छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवान् ! येम कडेवानु शु कारण्ण छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! येक जघन्य गुण काला असंख्यात प्रदेशी

असंख्येयप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, 'पएसद्वयाए चउट्टाणवडिए' प्रदेशार्थतया-प्रदेशापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, असंख्येय-प्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्य संख्यातासंख्यातप्रदेशभागगुणहानिवृद्धिभ्यां चतुःस्थानपतितत्वभवसेयम्, 'ठिइए चउट्टाणवडिए' स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, 'कालवण्णपज्जेहिं तुल्ले' कृष्णवर्णपर्यवैः तुल्या भवति, 'अवसेसेहिं, वण्णादि उवरिल्ल चउफासेहिय छट्टाणवडिए' अवशेषैर्वर्णादिभिः, उपरितन चतुःस्पर्शैश्च पट्टस्थानपतितो भवति, 'ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिए' अवगाह-नार्थतया-अवगाहनापेक्षया, चतुःस्थानपतितो भवति, 'एव उक्कोसगुणकालएवि' एवम्-जघन्यगुणकालकवदेव, उत्कृष्टगुणकालकोऽपि असंख्येयप्रदेशिकः पुद्-गलस्कन्धः अवगन्तव्याः, 'अजहणमणुक्कोसगुणकालएवि एवं चेव, अजघन्या-नुत्कृष्टगुणकालकोऽपि असंख्येयप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्ध एवञ्चैव-जघन्यगुण-

गलस्कन्ध दूसरे जघन्यगुण काले असंख्यात प्रदेशी पुद्गलस्कन्ध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है, प्रदेशों की अपेक्षा चतुःस्थानपतित होता है, अर्थात् असंख्यातप्रदेशी एक स्कन्ध में दूसरे असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध की अपेक्षा असंख्यातभाग, संख्यातभाग, संख्यातगुण, असं-ख्यातगुण प्रदेशों की न्यूनाधिकता हो सकती है। स्थिति को अपेक्षा से वह चतुःस्थानपतित होता है कृष्ण वर्ण के पर्यायों से तुल्य होता है। शेष वर्णों तथा ऊपर के स्पर्शों की अपेक्षा से षट्स्थानपतित होता है। अवगाहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित होता है।

उत्कृष्टगुण कृष्ण वर्ण वाले असंख्यातप्रदेशी पुद्गलस्कन्ध के विषय में भी इसी प्रकार कहना चाहिए। मध्यमगुण कृष्ण वर्ण वाले असंख्यातप्रदेशीस्कन्ध की प्ररूपणा भी ऐसी ही कहना चाहिए, मगर

पुद्गल जीन जघन्य गुणुकाणा असंख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कन्धथी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य थाय छे, प्रदेशीनी अपेक्षाये चतु स्थान पतित थाय छे, अर्थात् असंख्यात प्रदेशी ज्येष्ठ स्कन्धमा जीन संख्यात प्रदेशी स्कन्धनी अपेक्षाये असंख्यात भाग, संख्यात भाग, संख्यात गुण असंख्यात गुण प्रदेशीनी न्यूनाधिकता थय शक्ये छे. स्थितिनी अपेक्षाये ते चतु स्थान पतित थाय छे. कृष्ण वर्णना पर्यायिथी तुल्य थाय छे शेष वर्णो तथा उपरना चार स्पर्शोनी अपेक्षाये षट्स्थान पतित थाय छे. अवगाहनानी दृष्टिजे चतु स्थान पतित थाय छे.

उत्कृष्ट गुण कृष्ण वर्णवाणा असंख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कन्धना विषयमा यथु जे प्रकारे कहेतु जेथजे. मध्यम गुण कृष्ण वर्णवाणा असंख्यात प्रदेशी

कालकवदेव बोध्यः, किन्तु 'णवरं सद्वाणे छद्वाणवडिण्' नवरम् पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्वस्थानापेक्षया पदस्थानपतितो भवति, गौतमः पृच्छति—'जहण्णगुणकालयाणं भंते ! अणंतपएसियाणं पुच्छा ?' हे भदन्त ! जघन्यगुणकालकानाम् अनन्तप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पण्णात्ता' जघन्यगुणकालकानामनन्तप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतमः पृच्छति—'से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—जहण्णगुणकालयाणं अणंतपएसियाणं 'अणंता पज्जवा पण्णात्ता' हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन—कथं तावद्, एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते यद्—जघन्यगुणकालकानामनन्तप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहण्णगुणकालए अणंत पएसिए' जघन्यगुणकालकोऽनन्तप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः 'जहण्णगुणकालयस्स अणंत पएसियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले' जघन्यगुणकालकस्य अनन्तप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, प्रत्येकं च द्रव्यमनन्तपर्यायमिति न्यायेन अनन्तप्रदेशिकस्यापि द्रव्यत्वेन अनन्तपर्यायसंभवात्, 'पएसइयाए छद्वाणवडिण्' प्रदेशिकार्थतया पदस्थानपतितो भवति, 'ओगाहणइयाए चउट्टाणवडिण्' इसने विशेषता यह है कि यह स्वस्थान में पदस्थानपतित होता है ।

गौतम—हे भगवन् ! जघन्यगुण काले अनन्तप्रदेशी पुद्गलस्कंधों के कितने पर्याय हैं ?

भगवन्—अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवन्—हे गौतम ! एक जघन्यगुण काला अनन्तप्रदेशी पुद्गलस्कंध दूसरे जघन्यगुण काले अनन्तप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है प्रदेशों की दृष्टि से पदस्थानपतित होता है, अव-

स्कन्धनी अइपण्णा पण्णु अयेवी ज कडेवी जेधंणे, पण्णु तेमा विशेषता अये छे के अये स्वस्थानभां पण्णु पदस्थान पतित थाय छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य गुण काला अनन्त प्रदेशी पुद्गल स्कन्धीना केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्—अनन्त पर्याय छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् अयेम कडेवात्तुं शुं काश्णु छे.

श्री भगवान् ! हे गौतम ! अयेक जघन्य गुण काला अनन्त प्रदेशी पुद्गल स्कन्ध जीव जघन्य गुण काला अनन्त प्रदेशी स्कन्धधी द्रव्यनी दृष्टिअये तुल्य थाय छे, प्रदेशीनी दृष्टिअये पदस्थान पतित थाय छे. अवगाहणानी दृष्टिअये

अवगाहनार्थतया—अवगाहनापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, 'ठिईए चउट्टाण-
डिए' स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, 'कालवण्णपज्जवेहि तुल्ले' कृष्णवर्ण-
पर्यवै स्तुल्यो भवति, 'अवसेसेहि वण्णाइ अट्टपासेहिय छट्टाणवडिए' अवशेषैः
वर्णादिभिः अष्टरूपैश्च षट्स्थानपतितो भवति 'एवं उक्तोसगुणकालए वि' एवम्
—जघन्यगुणकालकवदेव, उत्कृष्टगुणकालकोऽपि अनन्तप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः
प्रतिपत्तव्यः 'अजहणमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव' अजघन्यानुत्कृष्टगुण-
कालकोऽपि अनन्तप्रदेशिपुद्गलस्कन्धः, एवञ्चैव जघन्यगुणकालकवदेवावगन्त-
व्यः, किन्तु 'णवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए' नवरम्—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्वस्थाने-
स्वस्थानापेक्षया षट्स्थानपतितो भवति 'एवं नीललोहिय हालिइ सुविकल्ल-
सुन्निगंध दुन्निगंध तिच्च कडुकसाय अंविळमहुररस पज्जवेहिय वत्तव्वया भाणि-
यव्वा' एवम्—कृष्णवर्णपर्यायवदेव, नीललोहित हरिद्र शुक्लसुरभिगंध दुर्भि-

गहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित होता है, स्थिति की अपेक्षा चतुः-
स्थानपतित होता है, काले वर्ण के पर्यायों से तुल्य होता है, शेष
वर्णादि से तथा आठ स्पर्शों से षट्स्थानपतित होता है ।

इसी प्रकार उत्कृष्टगुण काला अनन्तप्रदेशी पुद्गलस्कन्ध भी
समझ लेना चाहिए । मध्यमगुण कृष्ण पुद्गलस्कन्ध का प्ररूपणा भी
इसी प्रकार की करनी चाहिए । मगर मध्यमगुण काले अनन्तप्रदेशी
स्कन्ध में जघन्य एव उत्कृष्टगुण काले अनन्तप्रदेशी स्कन्ध की अपेक्षा
विशे । यह है कि वह स्वस्थान मे भी षट्स्थानपतित होता है ।

नील, रक्त, पीत और शुक्ल वर्ण, सुरभिगंध, दुर्भिगंध,
तिक्त, कटुक, कषाय, अम्ल और मधुर रस के पर्यायों की भी कृष्ण

चतुःस्थान पतित थाय छे, स्थितिनी अपेक्षाअये चतु स्थान पतित थाय छे
ठाणा वरुणा पर्यायाथी तुल्य थाय छे, शेष वरुणादिथी तथा आठ स्पर्शाथी
षट्स्थान पतित थाय छे.

अेव प्रकारे उत्कृष्ट शुष्ण ठाणा अनन्त प्रदेशी पुद्गल स्कन्ध पञ्चसमञ्ज
देवा नेधअये. मध्यम शुष्ण कृष्ण पुद्गल स्कन्धनी प्ररूपणा पञ्च अेव प्रकारे
करवी नेधअये. पञ्च मध्यम शुष्ण ठाणा अनन्त प्रदेशी स्कन्धमा जघन्य तेमञ्ज
उत्कृष्ट शुष्ण ठाणा अनन्त प्रदेशी स्कन्धनी अपेक्षाअये विशेषता अे छे के ते
स्वस्थानमा पञ्च षट्स्थान पतित थाय छे.

नील, रक्त, पीत अने शुक्लवरुणा, सुरभिगंध, दुर्भिगंध, तिक्त, कटुक,
कषाय, अम्ल अने मधुर रसना पर्यायाथी पञ्च कृष्ण वरुणाथी प्ररूपणाथी समान

गंध तित्त कटुककफायाम्लमधुरपर्यवैश्च वक्तव्यता भणितव्या, किन्तु—'णवर परमाणुपुद्गलस्य सुभिगंधस्य दुर्भिगंधो न भण्णइ' नवरम्—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु परमाणुपुद्गलस्य सुरभिगन्धस्य दुरभिगंधो न भण्यते, उभयोः परस्परविरोधेन एकत्र स्थातुमशक्यत्वात्, एवं 'दुर्भिगंधस्य सुभिगंधो न भण्णइ' दुरभिगन्धस्य परमाणुपुद्गलस्य सुरभिगन्धो वा न भण्यते, प्रागुक्तयुक्तेः, एवमेव 'तित्तस्य अवसेस न भण्णइ' तित्तस्य रसस्य अवशेषैरसः कटुकादि न भण्यते, तेषामपि परस्परविरोधेन एकत्र स्थातुमशक्यत्वात्, 'एवं कडुयादीणवि' एवम्—तित्करसवदेव कटुकादीनामपि रसानां वक्तव्यता भाणितव्या, 'अवसेसं तं चैव ! अवशेषं, तच्चैव पूर्वोक्तवदेवावसेयम्, गौतमः पृच्छति—'जहण्णगुणकक्ख-डाणं अणंतपएसियाणं खंधाणं पुच्छा ? 'जघन्यगुणकर्कशनामनन्तप्रदेशिकानां वर्ण की प्ररूपणा के समान प्ररूपणा समझ लेनी चाहिए। विशेष बात यह है कि जिस परमाणुपुद्गल में सुरभिगंध होती है, उसमें दुरभिगंध नहीं होती और जिसमें दुरभिगंध हो उसमें सुरभिगंध नहीं होती, क्योंकि परमाणु एक गंध वाला ही होता है। अतएव जहां गंध का कथन किया जाय वहां दूसरी गंध का अभाव कहना चारिए। दूसरी बात यह है कि जहां तित्त रस होता है वहां शेष कटुकरस आदि नहीं होते, क्योंकि उनमें भी परस्पर विरोध है। इसी प्रकार कटुक रस आदि के विषय में भी समझ लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जहां एक रस हो वहां दूसरे सभी रसों का अभाव समझका चाहिए। शेष पूर्ववत् ही कहना चाहिए।

गौतम—हे भगवन् ! जघन्यगुण (कर्कश) कठोर अनन्तप्रदेशी पुद्गलस्कंधों के पर्याय कितने हैं ?

प्रश्नपुत्रा समञ्ज लेवी नेधञ्जे. विशेष वातञ्जे छे के ने परमाणु पुद्गलमा सुरभि गंध डोय छे तेमां दुरभिगंध नथी डोतो, अने नेमा दुरभिगंध डोय तेमा सुरभिगंध नथी डोतो केमके परमाणु अेक गंधवाणा न् डोय छे तेथीन न्या अेक गंधनु कथन कराय त्या भील गंधनो अलाव कडेवे नेधञ्जे थील वातञ्जे छे के न्या तित्त रस डोय छे, त्या शेष कटुक रस आदि नथी डोता, केमके तेमनामा पणु परस्पर विरोध छे. अेन प्रकारे कटुक आदिना विषयमा पणु समञ्ज लेवु नेधञ्जे तात्पर्य अे छे के न्या अेक रस डोय त्या भील अंधा रसेनो अलाव समञ्जे नेधञ्जे, आकी पूर्ववत् न् कडेवु नेधञ्जे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य गुण कर्कश (कठोर) अनन्त प्रदेशी पुद्गल स्कन्धोना पर्याय केटला ?

अवगाहनार्थतया—अवगाहनापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, 'ठिईए चउट्टण डिए' स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, 'कालवण्णपज्जवेहि तुल्ले' कृष्णवर्ण पर्यवै स्तुल्यो भवति, 'अवसेसेहि वण्णाइ अट्टफासेहिय छट्टाणवडिए' अवशेषैः वर्णादिभिः अष्टस्पर्शैश्च षट्स्थानपतितो भवति 'एवं उकोसगुणकालए वि' एवम्—जघन्यगुणकालकवदेव, उत्कृष्टगुणकालकोऽपि अनन्तप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः प्रतिपत्तव्यः 'अजहणमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव' अजघन्यानुकृष्ट गुण कालकोऽपि अनन्तप्रदेशिपुद्गलस्कन्धः, एवञ्चैव जघन्यगुणकालकवदेवावगन्त व्यः, किन्तु 'णवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए' नवरम्—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्वस्थाने—स्वस्थानापेक्षया षट्स्थानपतितो भवति 'एवं नीललोहिय हालिइ सुविकल्ल सुग्भिगंध दुग्भिगंध तित्त कडुकसाय अंविळमहुररस पज्जवेहिय वत्तव्या भाणियव्वा' एवम्—कृष्णवर्णपर्यायवदेव, नीललोहित हारिद्र शुक्लसुरभिगंध दुरभि-

गहना की दृष्टि से चतुःस्थानपतित होता है, स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित होता है, काले वर्ण के पर्यायों से तुल्य होता है, शेष वर्णादि से तथा आठ स्पर्शों से षट्स्थानपतित होता है ।

इसी प्रकार उत्कृष्टगुण काला अनन्तप्रदेशी पुद्गलस्कन्ध भी समझ लेना चाहिए । मध्यमगुण कृष्ण पुद्गलस्कन्ध का प्ररूपणा भी इसी प्रकार की करनी चाहिए । मगर मध्यमगुण काले अनन्तप्रदेशी स्कन्ध में जघन्य एव उत्कृष्टगुण काले अनन्तप्रदेशी स्कन्ध की अपेक्षा विशेषता यह है कि वह स्वस्थान में भी षट्स्थानपतित होता है ।

नील, रक्त, पीत और शुक्ल वर्ण, सुरभिगंध, दुरभिगंध, तिक्त, कडुक, कषाय, अम्ल और मधुर रस के पर्यायों की भी कृष्ण

चतुःस्थान पतित थाय छे, स्थितिनी अपेक्षाये चतुःस्थान पतित थाय छे. काणा वर्णना पर्यायोथी तुल्य थाय छे, शेष वर्णादिथी तथा आठ स्पर्शोथी षट्स्थान पतित थाय छे.

अेव प्रकारे उत्कृष्ट गुण काणा अनन्त प्रदेशी पुद्गल स्कन्ध पणु समल्ल देवा लेधये. मध्यम गुण कृष्ण पुद्गल स्कन्धनी अइपणुा पणु अेव प्रकारे करवी लेधये. पणु मध्यम गुण काणा अनन्त प्रदेशी स्कन्धमा जघन्य तेमल्ल उत्कृष्ट गुण काणा अनन्त प्रदेशी स्कन्धनी अपेक्षाये विशेषता अे छे के ते स्वस्थानमा पणु षट्स्थान पतित थाय छे

नील, रक्त, पीत अने शुक्लवर्ण, सुरभिगंध, दुरभिगंध, तिक्त, कडुक, कषाय, अम्ल अने मधुर रसना पर्यायोथी पणु कृष्ण वर्णनी अइपणुानी समान

गंध तित्त कटुककपायाम्लमधुरपर्यवैश्च वक्तव्यता भणितव्या, किन्तु—‘गवर परमाणुपोग्गलस्स सुब्भिगंधस्स दुब्भिगंधो न भण्णइ’ नवरम्—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु परमाणुपुद्गलस्य सुरभिगन्धरस्य दुरभिगंधो न भण्यते, उभयोः परस्परविरोधेन एकत्र स्थातुमशक्यत्वात्, एवं ‘दुब्भिगंधस्स सुब्भिगंधो न भण्णइ’ दुरभिगन्धस्य परमाणुपुद्गलस्स सुरभिगन्धो वा न भण्यते, प्रागुक्तयुक्तेः, एवमेव ‘तित्तस्स अवसेस न भण्णइ’ तित्तस्य रसस्य अवशेषैरसः कटुकादि न भण्यते, तेषामपि परस्परविरोधेन एकत्र स्थातुमशक्यत्वात्, ‘एवं कडुयादीणवि’ एवम्—तिकरसवदेव कटुकादीनामपि रसानां वक्तव्यता भाणितव्या, ‘अवसेसं तं चेव ! अवशेषं, तच्चैव पूर्वोक्तवदेवावसेयम्, गौतमः पृच्छति—‘जहण्णगुणकक्खडाणं अणंतपएसियाणं खंधाणं पुच्छा ? ‘जघन्यगुणकर्कशनामनन्तप्रदेशिकानां वर्ण की प्ररूपणा के समान प्ररूपणा समझ लेनी चाहिए । विशेष बात यह है कि जिस परमाणुपुद्गल में सुरभिगंध होती है, उसमें दुरभिगंध नहीं होती और जिसमें दुरभिगंध हो उसमें सुरभिगंध नहीं होती, क्योंकि परमाणु एक गंध वाला ही होता है । अतएव जहां गंध का कथन किया जाय वहां दूसरी गंध का अभाव कहना चारिए । दूसरी बात यह है कि जहां तित्त रस होता है वहां शेष कटुकरस आदि नहीं होते, क्योंकि उनमें भी परस्पर विरोध है । इसी प्रकार कटुक रस आदि के विषय में भी समझ लेना चाहिए । तात्पर्य यह है कि जहां एक रस हो वहां दूसरे सभी रसों का अभाव समझका चाहिए । शेष पूर्ववत् ही कहना चाहिए ।

गौतम—हे भगवन् ! जघन्यगुण (कर्कश) कठोर अनन्तप्रदेशी पुद्गलस्कंधों के पर्याय कितने हैं ?

प्र३प३। सम३ देवी ढेध३ये. विशेष वात ३े ३े के ३े परमा३ु पुद्गलमां सुरभि गध डोय ३े तेमां दुरभिगध नथी डोतो, अने ३ेमा दुरभिगध डोय तेमा सुरभिगध नथी डोतो केमके परमा३ु ३ेक गधवाणा ३े डोय ३े तेथी३े न्या ३ेक गधनु कथन कराय त्या भी३ल गधनेा अलाव डडेवेा ढेध३ये भी३ल वात ३े ३े के न्यां तिक्त रस डोय ३े, त्या शेष कटुक रस आदि नथी डोता, केमके तेमनामा प३ु परस्पर विरोध ३े. ३े३े प्रकारे कटुक आदिना विषयमा प३ु सम३ देवु ढेध३ये तात्पर्य ३े ३े के न्या ३ेक रस डोय त्या भी३ल अथा रसोनेा अलाव सम३वेा ढेध३ये, भा३ी पूर्ववत् ३े डडेवु ढेध३ये.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य गुण कर्कश (कठोर) अनन्त प्रदेशी पुद्गल स्कंधोना पर्याय कितने हैं ?

स्कन्धनां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह—गोयमा ! हे गौतम ! 'अणंता पञ्जवा पण्णत्ता ?' 'जघन्यगुणकर्कशानामनन्तप्रदेशिकानां स्कन्धाना मनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—से केणट्टेणं भंते ! एवं कुच्चइ—जहण्णगुणकक्खड्डाणं अणंतं पएसियाणं अणंता पञ्जवा पण्णत्ता ? हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्येन—कथं तावद् एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते यद्—जघन्यगुणकर्कशानामनन्तप्रदेशिकाना पुद्गलस्कंधानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—'गोयमा ! हे गौतम ! 'जहण्णगुणकक्खडे अणंतपएसिए' जघन्यगुणकर्कशोऽनन्तप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः, 'जहण्णगुणकक्खड्डस्स अणंतपएसियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले' जघन्यगुणकर्कशस्य अनन्तप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, तथा च प्रत्येकं च द्रव्यमनन्तपर्यायमिति न्यायेन अनन्तप्रदेशिकस्यापि अनन्तपर्यायसंभवात् 'पएसट्टयाए छट्ठाणवडिए' प्रदेशार्थतया षट्स्थानपतितो भवति. 'ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए' अवगाहनार्थतया—अवगाहनापेक्षया—चतुःस्थानपतितो भवति, 'टिईए चउट्टाणवडिए' स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, 'कक्खड्डफासपज्जवेहिं तुल्ले' कर्कशस्पर्शपर्यवैस्तुल्यो

भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवन्—हे गौतम ! एक जघन्यगुण कर्कश अनन्तप्रदेशी स्कंध दूसरे जघन्यगुण कर्कश अनन्तप्रदेशीस्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है । क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के अनन्त पर्याय होते हैं और अनन्तप्रदेशी स्कंध भी द्रव्य है अतः उसमें भी अनन्त पर्यायका संभव है । वह प्रदेशों की अपेक्षा षट्स्थानपतित होता है, अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित होता है, स्थिति को अपेक्षा चतुःस्थानपतित और वर्ण, गंध तथा रस की अपेक्षा षट्स्थानपतित होता है । कर्कश

श्री भगवान्—हे अनन्त पर्याय छे

श्री गौतमस्वामी— हे भगवन् ! जेवु कडेवातु शु कारणु छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जेक जघन्य गुणु कर्कश अनन्त प्रदेशी स्कन्ध भीन जघन्य गुणु कर्कश अनन्त प्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी अपेक्षाजे तुल्य थाय छे, केमके प्रत्येक द्रव्य अनन्तपर्यायवाणु थाय छे अने अनन्तप्रदेशी स्कन्ध पणु द्रव्य छे, तेथी तेमा पणु अनन्त पर्यायनी स लव छे ते प्रदेशोनी अपेक्षाजे षट्स्थान पतित अने छे, अवगाहनानी अपेक्षाजे अतु स्थान पतित थाय छे, स्थितिनी अपेक्षाजे अतु स्थान पतित अने वणु, गंध, रसनी अपेक्षाजे षट्स्थान पतित थाय छे. कर्कश स्पर्शनी दृष्टिजे तुल्य थाय छे अने शेष

भवति 'अवसेसेहिं सत्तपासपज्जवेहिं छद्वाणवडिए' अवशेषैः सप्तस्पर्शपर्यवैः षट् स्थानपतितो भवति, 'एवं उक्कोसगुणककखडेवि' एवम्—जघन्यगुणकर्कशदेव, उत्कृष्टगुणकर्कशोऽपि अनन्तप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धोऽवसेयः, 'अजहणमणु-क्कोसगुणककखडेवि एवं चेव' अजघन्यानुत्कृष्टगुणकर्कशोऽपि अनन्तप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः, एवञ्चैव जघन्यगुणकर्कशानन्तप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धवदेव अव-गन्तव्यः, किन्तु,—णवरं सद्वाणे छद्वाणवडिए' नवरम्—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्व-स्थानापेक्षया षट्स्थानपतितो भवति, 'एवं मउयगुरुयलहुय वि भाणियव्वे' एवम्—कर्कशस्पर्शप्रदेव मृदुकगुरुकलघुकस्पर्शोऽपि भणितव्यः, गौतमः पृच्छति—'जहणगुणशीयाणं भंते ! परमाणुपोग्गलाणं पुच्छा' हे भदन्त ! जघन्यगुण-शीतानां परमाणुपुद्गलानां कियन्तः पर्यवा प्रज्ञप्ता ? इति पृच्छा भगवान् आह—'गोयमा ! हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पणत्ता ?' जघन्यगुणशीतानां पर-माणु पुद्गलानाम् अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतमः पृच्छति—'से केणट्ठेणं भंते !

स्पर्श की दृष्टि से तुल्य होता है और शेष सात स्पर्श के पर्यायों से भी षट्स्थानपतित होता है ।

इसी प्रकार उत्कृष्टगुण कर्कश अनन्तप्रदेशी स्कन्ध भी स चाहिए । मध्यगुण कर्कश के संबंध में भी ऐसा ही कहना चाहिए, किन्तु उसमें विशेषता यह है स्वस्थान की अपेक्षा भी अर्थात् कर्कश स्पर्श से भी वह षट्स्थानपतित होता है । मृदु, और लघु स्पर्श भी ऐसे ही समझने चाहिए ।

गौतम—हे भगवन् ! जघन्यगुण शीत परमाणुपुद्गलों के कितने पर्याय कहे गए हैं !

भगवन्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

सात स्पर्शना पर्यायिणी पणु छ स्थान पतित थाय छे,

अण प्रकारे उत्कृष्ट गुणु कर्कश अनन्त प्रदेशी स्कन्ध पणु समलु लेवा न्नेधये मध्यम गुणु कर्कशना सम्बन्धमा पणु अणु न कडेवु न्नेधये पणु तेमा विशेषता अणु छे के स्वस्थाननी अपेक्षाअणु पणु अर्थात् कर्कश 'स्पर्शथी पणु ते षट्स्थान पतित थाय छे मृदु, अणु अणु लघु स्पर्श' पणु अणुवोणु समलु लेवा न्नेधये

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य गुणु शीत परमाणु पुद्गलाना डेटवा पर्याय कडेवायेवा छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! अनन्त पर्याय कहेवा छे,

एवं वुच्चइ-जहण्णगुणसीयाणं परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?' हे भदन्त ! तत्-अथ-केनार्थेन कथं तावद्, एवम्-उत्तरीत्या, उच्यते यत्-जघन्यगुणशीतानां परमाणुपुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह-‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णगुणसीए परमाणुपोग्गले’ जघन्यगुणशीतः परमाणुपुद्गलः ‘जहण्णगुणसीयस्स परमाणुपोग्गलस्स दन्वट्टयाए तुल्ले’ जघन्यगुणशीतस्य परमाणुपुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, ‘पएसट्टयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया प्रदेशापेक्षया तुल्यो भवति ‘ओगाहणट्टयाए तुल्ले’ अवगाहनापेक्षया तुल्यो भवति, ‘ठिईए चउट्टाणवडिए’ स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, ‘सीयफासपज्जवेहिय तुल्ले’ शीतस्पर्शपर्यवैश्च तुल्यो भवति, तत्र जघन्यगुणशीते परमाणुपुद्गले-‘उसिणफासो न भण्णइ’ उष्णस्पर्शो न भण्यते, शीतोष्णस्पर्शयोः परस्परं विरोधात् एकत्रावस्थानासंभवः, ‘णिद्धल्लुक्खफासपज्जवेहिय छट्टाणडिए’ स्निग्धरूक्षरर्शपर्यवैश्च षट्स्थानपतितो भवति ‘एवं उक्कोसगुणसीए वि’ एवम् जघन्यगुणशीतवदेव उत्कृष्टगुणशीतोऽपि परमाणुपुद्गलोऽवसेयः ‘अजहण्णमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव’ अजघन्यानुत्कृष्टगुणशीतोऽपि परमाणुपुद्गलः, एवञ्चैव-जघन्यगुणइति वदेव

भगवन्-हे गौतम ! एक जघन्यगुण शीत परमाणुपुद्गल दूसरे जघन्यगुण शीत परमाणुपुद्गल से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है, प्रदेशा की अपेक्षा तुल्य होता है, अवगाहना की अपेक्षा भी तुल्य होता है, स्थिति से चतुस्थानपतित वर्ण, गंध और रस से षट्स्थानपतित तथा शीत स्पर्श के पर्यायों से तुल्य होता है । जघन्यगुण शीत पुद्गलपरमाणु में उष्ण स्पर्श नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शीत और उष्ण स्पर्श परस्पर विरोधी होने के कारण एक ही परमाणु में नहीं रह सकते । वह स्निग्ध, तथा रूक्ष स्पर्शों से षट्स्थानपतित होता है । उत्कृष्टगुण शीत भी इसी प्रकार समझना चाहिए । मध्यम-

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् जेषु कडेवानु शुं कारणु छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जेके जघन्य शुष्ण शीत परमाणु पुद्गल जीव जघन्य शुष्ण शीत परमाणु पुद्गलथी द्रव्यनी अपेक्षाजे तुल्य थाय छे प्रदेशानी अपेक्षाजे तुल्य थाय छे, अवगाहनानी अपेक्षाजे यत्तु तुल्य थाय छे स्थितिथी चतुःस्थान पतित वरुण, गंध अने रसथी षट्स्थान पतित तथा शीत स्पर्शनी पर्यायथी तुल्य थाय छे. जघन्य शुष्ण शीत पुद्गल परमाणुमा उष्ण स्पर्शन कडेवा जेधजे, केमके शीत अने उष्ण स्पर्श परस्पर विरोधी डेवाने कारणु जेके ज परमाणुमा नथी रडी शकता. ते स्निग्ध तथा उक्ष स्पर्शथी षट्स्थान पतित थाय छे, उत्कृष्ट शुष्ण शीत यत्तु जे प्रकारे समल देवा जेधजे. मध्यम

अवगन्तव्यः किन्तु—‘णवरं सद्भाणे छद्वाणवडिण्’ नवरम्—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्व-
स्थाने स्वस्थानापेक्षया षट्स्थानपतितो भवति, गौतमः पृच्छति—‘जहण्णगुण-
सीयाणं दुपएसियाणं पृच्छा’ जघन्यगुणशीतानां द्विप्रदेशिकानां कियन्तः पर्यवाः
प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ जघन्य-
गुणशीतानां द्विप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानामनन्ताः पर्यवा प्रज्ञप्ताः, गौतमः
पृच्छति—‘से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ जहण्णगुणसीयाणं दुपएसियाणं अणंता
पज्जवा पण्णत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन—कयं तावद्, एवम्—उत्तरीत्या
उच्यते यद्—जघन्यगुणशीतानां द्विप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः
प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘जहण्णगुणसीए दुपएसिए
जहण्णगुणसीयस्स दुपएसियस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले’ जघन्यगुणशीतो द्विप्रदेशिकः
पुद्गलस्कन्धो जघन्यगुणशीतस्य द्विप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्य द्रव्यार्थतया
तुल्यो भवति ‘पएसट्ठयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया प्रदेशापेक्षया तुल्यो भवति,
‘ओगाहणट्ठयाए—सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिण्’ अवगाहनार्थतया—

गुण शीत परमाणुपुद्गल की प्रप्ररूणा भी जघन्यगुण शीत परमाणु के
समान ही है विशेषता यह है कि स्वस्थान में भी षट्स्थानपतित होता है
गौतम—हे भगवन् ! जघन्यगुण शीत द्विप्रदेशी स्कंधों के कितने
पर्याय हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्यगुण शीत द्विप्रदेशी स्कंधों के अनन्त
पर्याय कहे गए हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! ऐसा कहने क्या कारण है ?

भगवन्—हे गौतम ! जघन्यगुण शीत एक द्विप्रदेशी स्कंध दूसरे
जघन्यगुण शीत द्विप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है,
प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य होता है, अवगाहना की अपेक्षा से हीन

गुण शीत परमाणु पुद्गलानी प्रइपणा पणु जघन्य गुणु शीत परमाणुना
समानञ्छे. विशेषता अे अे के ते स्वस्थानमा पणु षट्स्थान पतित भने अे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य गुणु शीत द्विप्रदेशी स्कन्धाना
केटला पर्याय अे ?

श्रीभगवान्—जघन्यगुणु शीत द्विप्रदेशी स्कन्धाना अनन्त पर्याय अेडला अे.

श्री गौतम—हे भगवन् ! अेवु अेडेवातु शु अारणु अे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य गुणु शीत अेक द्विप्रदेशी स्कन्ध जीव
जघन्य गुणु शीत द्विप्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी अपेक्षाअे तुल्य थाय अे प्रदेशोनी
अपेक्षाअे तुल्य थाय अे, अवगाहनानी अपेक्षाअे हीन पणु थअे शके अे,

एवं बुच्चइ-जहणगुणसीयाणं परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? हे भदन्त ! तत्-अथ-केनार्थेन कथं तावद्, एवम्-उक्त्तरीत्या, उच्यते यत्-जघन्यगुणशीतानां परमाणुपुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह-‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहणगुणसीए परमाणुपोग्गले’ जघन्यगुणशीतः परमाणुपुद्गलः ‘जहणगुणसीयस्स परमाणुपोग्गलस्स दव्वट्टयाए तुल्ले’ जघन्यगुणशीतस्य परमाणुपुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, ‘पएसट्टयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया प्रदेशापेक्षया तुल्यो भवति ‘ओगाहणट्टयाए तुल्ले’ अवगाहनार्थतया-अवगाहनापेक्षया तुल्यो भवति, ‘ठिईए चउट्टाणवडिए’ स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, ‘सीयफासपज्जवेहिय तुल्ले’ शीतस्पर्शपर्यवैश्व तुल्यो भवति, तत्र जघन्यगुणशीते परमाणुपुद्गले-‘उसिणफासो न भण्णइ’ उष्णस्पर्शो न भण्यते, शीतोष्णस्पर्शयोः परस्परं विरोधात् एकत्रावस्थानासंभवः, ‘णिद्धल्लुक्खफासपज्जवेहिय छट्टाणडिए’ स्निग्धरूक्षस्पर्शपर्यवैश्व षट्स्थानपतितो भवति ‘एवं उक्कोसगुणसीए वि’ एवम् जघन्यगुणशीतवदेव उत्कृष्टगुणशीतोऽपि परमाणुपुद्गलोऽवसेयः ‘अजहणमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव’ अजघन्यानुत्कृष्टगुणशीतोऽपि परमाणुपुद्गलः, एवञ्चैव-जघन्यगुणइति वदेव

भगवन्-हे गौतम ! एक जघन्यगुण शीत परमाणुपुद्गल दूसरे जघन्यगुण शीत परमाणुपुद्गल से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है, प्रदेशा की अपेक्षा तुल्य होता है, अवगाहना की अपेक्षा भी तुल्य होता है, स्थिति से चतुस्थानपतित वर्ण, गंध और रस से षट्स्थानपतित तथा शीत स्पर्श के पर्यायों से तुल्य होता है । जघन्यगुण शीत पुद्गलपरमाणु में उष्ण स्पर्श नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शीत और उष्ण स्पर्श परस्पर विरोधी होने के कारण एक ही परमाणु में नहीं रह सकते । वह स्निग्ध, तथा रूक्ष स्पर्शों से षट्स्थानपतित होता है । उत्कृष्टगुण शीत भी इसी प्रकार समझना चाहिए । मध्यम-

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् जेषु कडेवानु शु कारणु छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जेक जघन्य गुणु शीत परमाणु पुद्गल जीन जघन्य गुणु शीत परमाणु पुद्गलथी द्रव्यनी अपेक्षाजे तुल्य थाय छे प्रदेशनी अपेक्षाजे तुल्य थाय छे, अवगाहनानी अपेक्षाजे पणु तुल्य थाय छे स्थितिथी अतुःस्थान पतित वर्णु, गंध अने रसथी षट्स्थान पतित तथा शीत स्पर्शना पर्यायिथी तुल्य थाय छे, जघन्य गुणु शीत पुद्गल परमाणुमा उष्ण स्पर्शन कडेवे जेधजे, केमके शीत अने उष्ण स्पर्श परस्पर विरोधी होवाने कारणे जेक न परमाणुमा नहीं रही शकता, ते स्निग्ध तथा रूक्ष स्पर्शोधी षट्स्थान पतित थाय छे, उत्कृष्ट गुणु शीत पणु जे प्रकारे समणु लेवे जेधजे, मध्यम

अवगन्तव्यः किन्तु—‘णवरं सद्वाणे छद्वाणवडिण्’ नवरम्—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्व-
स्थाने स्वस्थानापेक्षया षट्स्थानपतितो भवति, गौतमः पृच्छति—‘जहण्णगुण-
सीयाणं दुपएसियाणं पुच्छा’ जघन्यगुणशीतानां द्विप्रदेशिकानां कियन्तः पर्यवाः
प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—‘गोयना !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ जघन्य-
गुणशीतानां द्विप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानामनन्ताः पर्यवा प्रज्ञप्ताः, गौतमः
पृच्छति—‘से केणट्टेणं भंते ! एवं चुच्चवइ जहण्णगुणसीयाणं दुपएसियाणं अणंता
पज्जवा पण्णत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन—कथं तावद्, एवम्—उत्तरीत्या
उच्यते यद्—जघन्यगुणशीतानां द्विप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः
प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘जहण्णगुणसीए दुपएसिए
जहण्णगुणसीयस्स दुपएसियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले’ जघन्यगुणशीतो द्विप्रदेशिकः
पुद्गलस्कन्धो जघन्यगुणशीतस्य द्विप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्य द्रव्यार्थतया
तुल्यो भवति ‘पएसट्ठयाए तुल्ले’ प्रदेशार्थतया प्रदेशापेक्षया तुल्यो भवति,
‘ओगाहणट्टयाए—सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिण्’ अवगाहनार्थतया—

गुण शीत परमाणुपुद्गल की प्रप्ररूणा भी जघन्यगुण शीत परमाणु के
समान ही है विशेषता यह है कि स्वस्थान में भी षट्स्थानपतित होता है
गौतम—हे भगवन् ! जघन्यगुण शीत द्विप्रदेशी स्कंधों के कितने
पर्याय हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्यगुण शीत द्विप्रदेशी स्कंधों के अनन्त
पर्याय कहे गए हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! ऐसा कहने क्या कारण है ?

भगवन्—हे गौतम ! जघन्यगुण शीत एक द्विप्रदेशी स्कंध दूसरे
जघन्यगुण शीत द्विप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है,
प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य होता है, अवगाहना की अपेक्षा से हीन

शुष्ण शीत परमाणु पुद्गलानी अरुपणु पणु जघन्य शुष्ण शीत परमाणुना
समानअ छे. विशेषता अे छे के ते स्वस्थानमा पणु षट्स्थान पतित अने छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य शुष्ण शीत द्विप्रदेशी स्कन्धाना
केटला पर्याय छे ?

श्रीभगवान्—जघन्यशुष्ण शीत द्विप्रदेशी स्कन्धाना अनन्त पर्याय कडेला छे.

श्री गौतम—हे भगवन् ! अेषु कडेवानु शु कारणु छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य शुष्ण शीत अेक द्विप्रदेशी स्कन्ध जीण
जघन्य शुष्ण शीत द्विप्रदेशी स्कन्धधी द्रव्यनी अपेक्षाअे तुल्य थाय छे प्रदेशोनी
अपेक्षाअे तुल्य थाय छे, अवगाहनानी अपेक्षाअे हीन पणु धरु शके छे,

अवगाहनापेक्षया, स्यात्-कदाचित् कश्चिद् हीनो भवति, स्यात्-कदाचित् कश्चित् तुल्यो भवति, स्यात्-कदाचित्-कश्चिद्भ्यधिको भवति तत्र 'जइ हीणे पएसहीणे' यदा हीनो विवक्षित स्तदा प्रदेशहीनो भवति, 'अह अब्महिप एस अब्महिप' अथ यदा अभ्यधिको विवक्षित स्तदा प्रदेशाभ्यधिको भवति, 'ठईए चउट्टाणवडिए' स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, 'वण्णगंधरस-पज्जवेहिं छट्ठाणवडिए' वर्णगन्धरसपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, 'सीयफास पज्जवेहिं तुल्ले' शीतस्पर्शपर्यवैस्तुल्यो भवति, 'उसिणणिद्ध लुक्खफासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए' उष्णस्निग्धरूक्षस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, 'एवं उक्कोसगुण-सीए वि' एवम्-जघन्यगुणशीतवदेव, उत्कृष्टगुणशीतोऽपि द्विप्रदेशिकः पुद्गल स्कन्धोऽवसेयः, 'अजहणमणुकोसगुणसीए वि एवंचेव' अजघन्यानुत्कृष्टगुण शीतोऽपि द्विप्रदेशिकः स्कन्धः एवञ्चैव-जघन्यगुणशीतवदेव वक्तव्यः, किन्तु-'णवरं सट्टाणे छट्ठाणवडिए' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्वस्थाने-स्वस्थानापेक्षया षट्स्थानपतितो भवति, 'एवं जाव दसपएसिए' एवम्-द्विप्रदे-

भी हो सकता है, तुल्य भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है । यदि हीन हो तो एक प्रदेशसे हीन होता है और यदि अधिक हो तो एक प्रदेश से अधिक होता है । स्थिति से चतुःस्थानपतित, वर्ण गंध और रस के पर्यायों से षट्स्थानपतित और शीत स्पर्श के पर्यायों से तुल्य होता है । उष्ण, स्निग्ध तथा रूक्ष स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है ।

इसी प्रकार उत्कृष्टगुण शीत भी समग्र लेना चाहिए और मध्यमगुण शीत भी इसी प्रकार जानना चाहिए । मध्यमगुण शीत में विशेषता यह है कि वह स्वस्थान में भी षट्स्थानपतित होता है । त्रिप्रदेशी, चौप्रदेशी, पंचप्रदेशी, छहप्रदेशी, सातप्रदेशी आठ प्रदेशी

तुल्य पणु थथ शके छे अने अधिक पणु थथ शके छे. जे हीन होय तो ओक प्रदेशथी हीन थाय छे अने जे अधिक होय तो ओक प्रदेशथी अधिक थाय छे. स्थितिथी चतुःस्थान पतित, पणु, गंध अने रसना पर्यायथी छ स्थान पतित अने शीत स्पर्शना पर्यायथी तुल्य थाय छे, उष्ण स्निग्ध तथा रूक्ष स्पर्शना पर्यायथी षट्स्थान पतित थाय छे.

ओक प्रकारे उत्कृष्ट गुणु शीत पणु समग्र लेवा जेथजे अने मध्यम गुणु शीत पणु ओक प्रकारे जानवा जेथजे. मध्यम गुणु शीतमा विशेषता जे छे के ते स्वस्थानमा पणु षट्स्थान पतित थाय छे ओक प्रकारे त्रिप्रदेशी आठ प्रदेशी, पंच प्रदेशी, छ प्रदेशी, सात प्रदेशी, आठ प्रदेशी, नौ प्रदेशी

शिकोऽपि पुद्गलस्कन्धः प्रतिपत्तव्यः, किन्तु 'णवरं ओगाहणट्ठयाए पएसपरि-
बुद्धीकायन्वा' नरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु अत्रगाहनार्थतया-अनगाहनापेक्षया
प्रदेशपरिवृद्धिः कर्त्तव्या, 'जाव दसपएसियस्स नवपएसा बुद्धिज्जंति' यावत्-
त्रिचतुः पञ्च पट्समाष्ट नवदशप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य नवप्रदेशाः वर्द्धिष्यन्ते
इत्याशयः, गौतमः पृच्छति-'जहण्णगुणसीयाणं संखेज्जपएसियाणं पुच्छा ?'
जघन्यगुण शीतानाम् संख्येयप्रदेशिकानां स्कन्धानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ?
इति पृच्छा, भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पण्णत्ता,
जघन्यगुणशीतानां संख्येयप्रदेशिकानां स्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः । गौतमः
पृच्छति-'से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ-'जहण्णगुणसीयाण संखेज्जपएसियाणं
अणंता पज्जवा पण्णत्ता' हे भइन्त ! तत्-अथ, केनार्थेन-कथं तावद्, एवम्-
उक्तरीत्या उच्यते यत्-जघन्यगुणशीतानां संख्येयप्रदेशिकानां स्कन्धानामनन्ताः
पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहण्णगुणसीए
सखेज्जपएसिए' जघन्यगुणशीतः संख्येयप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः, 'जहण्णगुण-

नौप्रदेशी और दशप्रदेशी पुद्गलस्कन्ध की भी प्ररूपणा कर लेनी

चाहिए, मगर अवगाहना की अपेक्षा से उनमें उत्तरोत्तर प्रदेशों की

वृद्धि करनी चाहिए, यावत् दशप्रदेशी स्कन्ध के नौप्रदेशों की वृद्धि

करनी चाहिए ।

गौतम-हे भगवन् ! जघन्यगुण शीत संख्यातप्रदेशी स्कन्धो के

कितने पर्याय कहे गए हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए हैं ।

गौतम-हे भगवन् ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्यगुण शीत संख्यातप्रदेशी एक स्कन्ध

दूसरे जघन्यगुण शीत संख्यातप्रदेशी स्कन्ध से द्रव्य की अपेक्षा

अने दश प्रदेशी पुद्गल स्कन्धनी पणु प्रइपणु करी लेवी नेधये, पणु अण-

गाहणानी अपेक्षाये तेओमा उत्तरोत्तर प्रदेशोनी वृद्धि करवी नेधये. यावत्

दश प्रदेशी स्कन्धना नव प्रदेशीनी वृद्धि करवी नेधये.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जघन्य गुणु शीत सख्यात प्रदेशी
स्कन्धाना केटला पर्याय कडेला छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय कडेला छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! ओम कडेवानु शु प्रथोवन छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य गुणु शीत सख्यात प्रदेशी ओक
स्कन्ध णीण जघन्य गुणु शीत सख्यात प्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी अपेक्षाये

અવગાહનાપેક્ષયા, સ્યાત્-કદાચિત્ કશ્ચિદ્ હીનો ભવતિ, સ્યાત્-કદાચિત્ કશ્ચિત્ તુલ્યો ભવતિ, સ્યાત્-કદાચિત્-કશ્ચિદ્-અધિકો ભવતિ તત્ર 'જહ્ હીને પપ્સહીને' યદા હીનો વિવક્ષિત સ્તદા પ્રદેશહીનો ભવતિ, 'અહ અન્મહિં પપ્સ અન્મહિં' અથ યદા અધિકો વિવક્ષિત સ્તદા પ્રદેશાધિકો ભવતિ, 'ઠર્ણ ચઠ્ઠાણવહિં' સ્થિત્યા ચતુઃસ્થાનપતિતો ભવતિ, 'વળ્ણગંધરસ પજ્જવેહિં છટ્ઠાણવહિં' વર્ણગન્ધરસપર્યવૈઃ પદ્સ્થાનપતિતો ભવતિ, 'સીયફાસ પજ્જવેહિં તુલ્લે' શીતસ્પર્શપર્યવૈસ્તુલ્યો ભવતિ, 'ઉસિણ્ણિન્દ્ધ લુક્કસફાસપજ્જવેહિં છટ્ઠાણવહિં' ઉ'ણ્ણસ્નિગ્ધસ્પર્શપર્યવૈઃ પદ્સ્થાનપતિતો ભવતિ, 'એવં ઉક્કોસગુણ-સીય વિ' એવમ્-જઘન્યગુણશીતવદેવ, ઉત્ક્રુષ્ટગુણશીતો'પિ દ્વિપ્રદેશિકઃ પુદ્ગલ સ્કન્ધો'સ્વસેયઃ, 'અજહ્ણમણુકોસગુણસીય વિ એવંવેવ' અજઘન્યાનુત્ક્રુષ્ટગુણ શીતો'પિ દ્વિપ્રદેશિકઃ સ્કન્ધઃ એવંવેવ-જઘન્યગુણશીતવદેવ વક્તવ્યઃ, કિન્તુ-'ળવરં સદ્ધાણે છટ્ઠાણવહિં' નવરમ્-પૂર્વાપેક્ષયા વિશેષસ્તુ સ્વસ્થાને-સ્વસ્થાનાપેક્ષયા પદ્સ્થાનપતિતો ભવતિ, 'એવં જાવ દસપપ્સિય' એવમ્-દ્વિપ્રદે-

ભી હો સકતા હૈ, તુલ્ય ભી હો સકતા હૈ ઓર અધિક ભી હો સકતા હૈ । યદિ હીન હો તો એક પ્રદેશસે હીન હોતા હૈ ઓર યદિ અધિક હો તો એક પ્રદેશ સે અધિક હોતા હૈ । સ્થિતિ સે ચતુઃસ્થાનપતિત, વર્ણ ગંધ ઓર રસ કે પર્યાયોં સે પદ્સ્થાનપતિત ઓર શીત સ્પર્શ કે કે પર્યાયોં સે તુલ્ય હોતા હૈ । ઉષ્ણ, સ્નિગ્ધ તથા રુક્ષ સ્પર્શ કે પર્યાયોં સે પદ્સ્થાનપતિત હોતા હૈ ।

હસી પ્રકાર ઉત્ક્રુષ્ટગુણ શીત ભી સમજ લેના યાહિય ઓર મધ્યમગુણ શીત ભી હસી પ્રકાર જાનના યાહિય । મધ્યમગુણ શીત મેં વિશેષતા યહ હૈ કિ વહ સ્વસ્થાન મેં ભી પદ્સ્થાનપતિત હોતા હૈ । ત્રિપ્રદેશી, ચૌપ્રદેશી, પંચપ્રદેશી, છહપ્રદેશી, સાતપ્રદેશી આઠ પ્રદેશી

તુલ્ય પણ થઈ શકે છે અને અધિક પણ થઈ શકે છે. જો હીન હોય તો એક પ્રદેશથી હીન થાય છે અને જો અધિક હોય તો એક પ્રદેશથી અધિક થાય છે. સ્થિતિથી ચતુઃસ્થાન પતિત, વર્ણ, ગંધ અને રસના પર્યાયથી છ સ્થાન પતિત અને શીત સ્પર્શના પર્યાયથી તુલ્ય થાય છે, ઉષ્ણ સ્નિગ્ધ તથા રુક્ષ સ્પર્શના પર્યાયથી પદ્સ્થાન પતિત થાય છે.

એજ પ્રકારે ઉત્ક્રુષ્ટ ગુણ શીત પણ સમજ લેવા જોઈએ અને મધ્યમ ગુણ શીત પણ એજ પ્રકારે જાણવા જોઈએ મધ્યમ ગુણ શીતમા વિશેષતા એ છે કે તે સ્વસ્થાનમાં પણ પદ્સ્થાન પતિત થાય છે એજ પ્રકારે ત્રિપ્રદેશી ચાર પ્રદેશી, પંચ પ્રદેશી, છ પ્રદેશી, સાત પ્રદેશી, આઠ પ્રદેશી, ની પ્રદેશી

शिकोऽपि पुद्गलस्कन्धः प्रतिपत्तव्यः, किन्तु 'णवरं ओगाहणट्ठयाए एएसपरि-
बुद्धीकायवा' नररम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु अत्रगाहनार्थतया-अवगाहनापेक्षया
प्रदेशपरिवृद्धिः कर्त्तव्या, 'जाव दसपएसियस्स नवपएसा बुद्धिज्जंति' यावत्-
त्रिवतुः पञ्च पट्सप्पट नवदशप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य नवप्रदेशाः वर्द्धिष्यन्ते
इत्याशयः, गौतमः पृच्छति-'जहण्णगुणसीयाणं संखेज्जपएसियाणं पुच्छा ?'
जघन्यगुण शीतानाम् संख्येयप्रदेशिकानां स्कन्धानां क्रियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ?
इति पृच्छा, भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पण्णत्ता,
जघन्यगुणशीतानां संख्येयप्रदेशिकानां स्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः । गौतमः
पृच्छति-'से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चद्-'जहण्णगुणसीयाणं संखेज्जपएसियाणं
अणंता पज्जवा पण्णत्ता' हे भदन्त ! तत्-अथ, केनार्थेन-कथं तावद्, एवम्-
उक्तरीत्या उच्यते यत्-जघन्यगुणशीतानां संख्येयप्रदेशिकानां स्कन्धानामनन्ताः
पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहण्णगुणसीए
संखेज्जपएसिए' जघन्यगुणशीतः संख्येयप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः, 'जहण्णगुण-

नौप्रदेशी और दशप्रदेशी पुद्गलस्कन्ध की भी प्ररूपणा कर लेनी
चाहिए, मगर अवगाहना की अपेक्षा से उनमें उत्तरोत्तर प्रदेशों की
वृद्धि करनी चाहिए, यावत् दशप्रदेशी स्कन्ध के नौप्रदेशों की वृद्धि
करनी चाहिए ।

गौतम-हे भगवन् ! जघन्यगुण शीत संख्यातप्रदेशी स्कन्धो के
कितने पर्याय कहे गए हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए हैं ।

गौतम-हे भगवन् ऐसा कहने का क्या कारण हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्यगुण शीत संख्यातप्रदेशी एक स्कन्ध
दूसरे जघन्यगुण शीत संख्यातप्रदेशी स्कन्ध से द्रव्य की अपेक्षा

अने दश प्रदेशी पुद्गल स्कन्धनी पणु प्रइपणा करी लेवी जेधजे, पणु अव-
गाहनानी अपेक्षाजे तेओमा उत्तरोत्तर प्रदेशीनी वृद्धि करवी जेधजे. यावत्
दश प्रदेशी स्कन्धना नव प्रदेशीनी वृद्धि करवी जेधजे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जघन्य शुष्ण शीत संख्यात प्रदेशी
स्कन्धानां केटला पर्याय कडेला छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय कडेला छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जेभ कडेवातु शुं प्रयोजन छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य शुष्ण शीत संख्यात प्रदेशी जेक
स्कन्ध पीन जघन्य शुष्ण शीत संख्यात प्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी अपेक्षाजे

अवगाहनापेक्षया, स्यात्-कदाचित् कश्चिद् हीनो भवति, स्यात्-कदाचित् कश्चित् तुल्यो भवति, स्यात्-कदाचित्-कश्चिद्भ्यधिको भवति तत्र 'जइ हीणे पएसहीणे' यदा हीनो विवक्षित स्तदा प्रदेशहीनो भवति, 'अह अब्महिए पएस अब्महिए' अथ यदा अभ्यधिको विवक्षित स्तदा प्रदेशाभ्यधिको भवति, 'ठईए चउट्टाणवडिए' स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, 'वण्णगंधरस-पज्जवेहिं छट्टाणवडिए' वर्णगन्धरसपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, 'सीयफास पज्जवेहिं तुल्ले' शीतस्पर्शपर्यवैस्तुल्यो भवति, 'उसिणणिद्ध लुक्खफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए' उष्णस्निग्धरूक्षस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, 'एवं उक्कोसगुण-सीए वि' एवम्-जघन्यगुणशीतवदेव, उत्कृष्टगुणशीतोऽपि द्विप्रदेशिकः पुद्गल स्कन्धोऽवसेयः, 'अजहण्णमणुक्कोसगुणसीए वि एवंचेव' अजघन्यानुत्कृष्टगुण-शीतोऽपि द्विप्रदेशिकः स्कन्धः एवञ्चैव-जघन्यगुणशीतवदेव वक्तव्यः, किन्तु- 'णवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्वस्थाने-स्वस्थानापेक्षया षट्स्थानपतितो भवति, 'एवं जाव दसपएसिए' एवम्-द्विप्रदे-

भी हो सकता है, तुल्य भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है । यदि हीन हो तो एक प्रदेशसे हीन होता है और यदि अधिक हो तो एक प्रदेश से अधिक होता है । स्थिति से चतुःस्थानपतित, वर्ण गंध और रस के पर्यायों से षट्स्थानपतित और शीत स्पर्श के पर्यायों से तुल्य होता है । उष्ण, स्निग्ध तथा रूक्ष स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है ।

इसी प्रकार उत्कृष्टगुण शीत भी समझ लेना चाहिए और मध्यमगुण शीत भी इसी प्रकार जानना चाहिए । मध्यमगुण शीत में विशेषता यह है कि वह स्वस्थान में भी षट्स्थानपतित होता है । त्रिप्रदेशी, चौप्रदेशी, पंचप्रदेशी, छहप्रदेशी, सातप्रदेशी आठ प्रदेशी

तुल्य षष्ठ थछ शके छे अने अधिक षष्ठ थछ शके छे. ले हीन डोय तो अेक प्रदेशथी हीन थाय छे अने ले अधिक डोय तो अेक प्रदेशथी अधिक थाय छे. स्थितिथी चतुःस्थान पतित, वर्ण, गंध अने रसना पर्यायथी छ स्थान पतित अने शीत स्पर्शना पर्यायथी तुल्य थाय छे, उष्ण स्निग्ध तथा रूक्ष स्पर्शना पर्यायथी षट्स्थान पतित थाय छे.

अेव प्रकारे उत्कृष्ट शुषु शीत षष्ठ समथु लेवा लेथअे अने मध्यम शुषु शीत षष्ठ अेव प्रकारे लषुवा लेथअे मध्यम शुषु शीतमा विशेषता अे छे के ते स्वस्थानमा षष्ठ षट्स्थान पतित थाय छे अेव प्रकारे त्रिप्रदेशी आठ प्रदेशी, पंच प्रदेशी, छ प्रदेशी, सात प्रदेशी, आठ प्रदेशी, नौ प्रदेशी

शिकोऽपि पुद्गलस्कन्धः प्रतिपत्तव्यः, किन्तु 'णवरं ओगाहणट्ठयाए एएसपरि-
बुद्धीकायन्वा' नवरम्-पूर्वापेक्षया विभेपस्तु अवगाहनार्थतया-अवगाहनापेक्षया
प्रदेशपरिवृद्धिः कर्त्तव्या, 'जाव दसपएसियस्स नवपएसा बुद्धिज्जंति' यावत्-
त्रिचतुः पञ्च पट्सप्पाष्ट नवदशप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य नवप्रदेशाः वर्द्धिप्यन्ते
इत्याशयः, गौतमः पृच्छति-'जहण्णगुणसीयाणं संखेज्जपएसियाणं पुच्छा ?'
जघन्यगुण शीतानाम् संख्येयप्रदेशिकानां स्कन्धानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ?
इति पृच्छा, भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पण्णत्ता,
जघन्यगुणशीतानां संख्येयप्रदेशिकानां स्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः । गौतमः
पृच्छति-'से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चद्-'जहण्णगुणसीयाणं संखेज्जपएसियाणं
अणंता पज्जवा पण्णत्ता' हे भद्दन्त ! तत्-अथ, केनार्येन-कथं तावद्, एवम्-
उत्तरीत्या उच्यते यत्-जघन्यगुणशीतानां संख्येयप्रदेशिकानां स्कन्धानामनन्ताः
पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहण्णगुणसीए
संखेज्जपएसिए' जघन्यगुणशीतः संख्येयप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः, 'जहण्णगुण-

नौप्रदेशी और दशप्रदेशी पुद्गलस्कन्ध की भी प्ररूपणा कर लेनी
चाहिए, मगर अवगाहना की अपेक्षा से उनमें उत्तरोत्तर प्रदेशों की
वृद्धि करनी चाहिए, यावत् दशप्रदेशी स्कन्ध के नौप्रदेशों की वृद्धि
करनी चाहिए ।

गौतम-हे भगवन् ! जघन्यगुण शीत संख्यातप्रदेशी स्कन्धो के
कितने पर्याय कहे गए हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए हैं ।

गौतम-हे भगवन् ऐसा कहने का क्या कारण हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्यगुण शीत संख्यातप्रदेशी एक स्कन्ध
दूसरे जघन्यगुण शीत संख्यातप्रदेशी स्कन्ध से द्रव्य की अपेक्षा

अने दश प्रदेशी पुद्गल स्कन्धनी पणु प्रपणु करी लेवी जेधये, पणु अव-
गाहणानी अपेक्षाये तेज्यामा उत्तरोत्तर प्रदेशोनी वृद्धि करवी जेधये. यावत्
दश प्रदेशी स्कन्धना नव प्रदेशीनी वृद्धि करवी जेधये.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जघन्य गुण शीत संख्यात प्रदेशी
स्कन्धानां केटला पर्याय कडेला छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय कडेला छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जेम कडेवानु शु प्रयोजन छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य गुण शीत संख्यात प्रदेशी जेक
स्कन्ध पीण जघन्य गुण शीत संख्यात प्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी अपेक्षाये

सीयस्स संखेज्जपएसियस्स दव्वट्टयाए तुल्ले' जघन्यगुणशीतस्य संख्येयप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवन्ति, 'पएसट्टयाए दुट्ठाणवडिए' प्रदेशार्थतया प्रदेशापेक्षया द्विस्थानपतितो भवति, 'ठिइए चउट्ठाणवडिए' स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, 'वण्णादीहिं छट्ठाणवडिए' वर्णादिभिः षट्स्थानपतितो भवति, 'सीय ऋसपज्जवेहिं तुल्ले' शीतस्पर्शपर्यवैस्तुल्यो भवति, 'उसिणणिद्ध-लुक्खेहिं छट्ठाणवडिए' उष्णस्निग्धस्फैः षट्स्थानपतितो भवति, 'एवं उक्कोसगुण-सीए वि' एवम् जघन्यगुणशीतवदेव, उत्कृष्टगुणशीतोऽपि संख्येयप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धोऽवसेयः 'अजहण्णमणुक्कोसगुणसीए एवं चेव' अजन्यानुत्कृष्टगुणशीतोऽपि संख्येयप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः एवञ्चैव-जघन्यगुणशीतवदेवाव-गन्तव्यः, किन्तु 'णवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्वस्थाने-स्वस्थानापेक्षया षट्स्थानपतितो भवति, गौतमः पृच्छति-'जहण्णगुण-सीयाणं असंखिज्जपएसियाणं पुच्छा' जघन्यगुणशीतानाम् असंख्येयप्रदेशिकानां स्कन्धानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा,

भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पणत्ता' जघन्यगुणशीतानामसंख्येयप्रदेशिकानां स्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः,

तुल्य, प्रदेशों की अपेक्षा द्विस्थानपतित, अवगाहना की अपेक्षा द्विस्थानपतित, स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित, वर्ण आदि से षट्स्थानपतित और शीत स्पर्शों की अपेक्षा षट्स्थानपतित होता है

उत्कृष्टगुण शीत संख्यातप्रदेशी स्कन्ध भी जघन्यगुण शीत संख्यातप्रदेशी स्कन्ध के समान ही समझना चाहिए मध्यमगुण शीत भी इसी प्रकार है, मगर इसमें विशेषता यह है कि वह स्वस्थान में षट्स्थानपतित होता है

गौतम-हे भगवन् ! जघन्यगुण शीत असंख्यातप्रदेशी पुद्गल-स्कन्धों के कितने पर्याय हैं ?

तुल्य प्रदेशोनी अपेक्षाये द्विस्थान पतित, अवगाहनानी अपेक्षाये द्विस्थान पतित स्थितिनी अपेक्षाये चतुःस्थान पतित, वर्ण आदिथी षट्स्थान पतित अने शीत स्पर्शाना पर्यायथी तुल्य थाय छे. उष्ण, स्निग्ध अने इक्ष स्पर्शोनी अपेक्षाये षट्स्थान पतित थाय छे.

उत्कृष्ट शुष्ण शीत सख्यात प्रदेशी स्कन्ध पञ्च जघन्य शुष्ण शीत सख्यात प्रदेशी स्कन्धना समानञ्च समञ्जसा लोभये, मध्यम शुष्ण शीत अये प्रकारना छे. पञ्च तेमा विशेषता अये छे के अये स्वस्थानमा पञ्च षट्स्थान पतित थाय छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जघन्य शुष्ण शीत असंख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कन्धोना कितना पर्याय छे ?

गौतमः पृच्छति—‘से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ जहण्णगुणसीयाणं असंखेज्ज-
पएसियाणं अणंता पज्जवां पणत्ता’ हे भदन्त ! तत्—अथ केनाथेन—कथं तावद्,
एवम्—उक्तरीत्या उच्यते यद्—जघन्यगुणशीतानाम् असंख्येयप्रदेशिकानाम्
स्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम !
‘जहण्णगुणसीए असंखेज्जपएसिए’ जघन्यगुणशीतोऽसंख्येयप्रदेशिकः पुद्गल-
स्कन्धः, ‘जहण्णगुणसीयस्स असंखेज्जपएसियस्स दच्चट्टयाए तुल्ले’ जघन्यगुण-
शीतस्य असंख्येयप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, ‘पए-
सट्टयाए चउट्टाणवडिए’ प्रदेशार्थतया चतुःस्थानपतितो भवति, ‘ओगाहणट्टयाए
चउट्टाणवडिए’ अवगाहनार्थतया—अवगाहनापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति,
‘ठिइए चउट्टाणवडिए’ स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, ‘वण्णाइपज्जवेहिं
छट्टाणवडिए’ वर्णादिपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, ‘सीयफासपज्जवेहिं तुल्ले’
शीतस्पर्शपर्यवैस्तुल्यो भवति, उभयेषामपि जघन्यगुणशीतस्पर्शवत्त्वात् ‘उसिण-
णिद्धल्लुक्खफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए’ उष्णस्निग्धरूक्षस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितो

भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्यगुण शीत असंख्यातप्रदेशी एक
पुद्गलस्कन्ध दूसरे जघन्यगुण शीत असंख्यात प्रदेशी पुद्गलस्कन्ध से
द्रव्य की अपेक्षा तुल्य, प्रदेशों की अपेक्षा चतुःस्थानपतित, अव-
गाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित स्थिति, की अपेक्षा चतुःस्थान-
पतित, वर्ण आदि की अपेक्षा षट्स्थानपतित और शीत स्पर्श के
पर्यायों से तुल्य होता है. क्योंकि दोनों जघन्यगुण शीत है । उष्ण
स्पर्श, स्निग्ध स्पर्श तथा रूक्ष स्पर्श की अपेक्षा षट्स्थानपतित है ।

श्री भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! ज्येभ उडेवातु शुं कारण छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य गुण शीत असंख्यात प्रदेशी ज्येभ
पुद्गल भीज्ज जघन्य गुण शीत असंख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कन्धथी द्रव्यनी
अपेक्षाज्जे तुल्य, प्रदेशोनी अपेक्षाज्जे अतु स्थान पतित, अवगाहनानी अपे-
क्षाज्जे अतु स्थान पतित, स्थितिनी अपेक्षाज्जे अतु स्थान पतित, वर्ण आदिनी
अपेक्षाज्जे षट्स्थान पतित अने शीत स्पर्शनी पर्यायोथी तुल्य थाय छे, जेभजे
अने जघन्य गुण शीत छे उष्ण स्पर्श, स्निग्ध स्पर्श तथा रूक्ष स्पर्शनी
अपेक्षाज्जे षट्स्थान पतित थाय छे.

भवति, 'एवं उक्त्वा सगुणसीए वि' एवम्—जघन्यगुणशीतनदेव उत्कृष्टगुणशीतोऽपि असंख्येयप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धो वक्तव्यः, 'अजहणमणुक्त्वा सगुणसीए वि एवं चेव' अजघन्यानुत्कृष्टगुणशीतोऽपि असंख्येयप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः एवञ्चैव जघन्यगुणशीतासंख्येयप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धवदेवावसेयः, किन्तु—'णवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए' नवरम् पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्वस्थाने—स्वस्थानापेक्षया पट्स्थानपतितो भवति, गौतमः पृच्छति 'जहणगुणसीथाणं अणंतपएसियाणं पुच्छा' हे भदन्त ! जघन्यगुणशीतानामनन्तप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छति, भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पणत्ता' जघन्यगुणशीतानामनन्तप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—'से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ 'जहणगुणसीयाणं अणंतपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता' हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्थेन—कथं तावत्, एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते यद् जघन्यगुणशीतानामनन्तप्रदेशिकानां पुद्गलस्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति,

भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहणगुणसीए अणंतपएसिए जह-

इसी प्रकार उत्कृष्टगुण असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध की प्ररूपणा समझनी चाहिए और मध्यमगुण शीत असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध के संबंध में भी ऐसा ही कहना चाहिए । किन्तु मध्यमगुण शीत में विशेषता यह है कि यह स्वस्थान में भी पट्स्थानपतित होता है ।

गौतम—हे भगवन् ! जघन्यगुण शीत अनन्तप्रदेशी स्कन्धों के कितने पर्याय हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! जघन्यगुण शीत अनन्तप्रदेशी स्कन्ध के अनन्तपर्याय हैं, ऐसा कहने का क्या कारण है ?

श्रेष्ठ प्रकारे उत्कृष्ट गुण असंख्यात प्रदेशी स्कन्धनी प्ररूपणा समझनी लोभये अने मध्यम गुण शीत असंख्यात प्रदेशी स्कन्धना सम्यग्धमा पणु अमज्ज कडेवु लोपये. पणु मध्यम गुण शीतमां विशेषता अये छे के अये स्वस्थानमा पणु पटस्थान पतित थाय छे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवान् ! जघन्य गुण शीत अनन्त प्रदेशी स्कन्धानां कितने पर्याय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य गुण शीत अनन्त प्रदेशी स्कन्धानां अनन्त पर्याय छे, अये कडेवानु शु कारणु छे ?

णगुणसीयस्य अणंतपएसियस्य द्रव्यद्वयाए तुल्ये' जघन्यगुणशीतोऽनन्तप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धो जघन्यगुणशीतस्यानन्तप्रदेशिकस्य पुद्गलस्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, 'पएसद्वयाए छट्टाणवडिए' प्रदेशार्थतया पटस्थानपतितो भवति, 'ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिए' अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितो भवति, 'ठिइए चउट्टाणवडिए' स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, 'वण्णाइपज्जवेहिं छट्टाणवडिए' वर्णादि पर्यवैः पटस्थानपतितो भवति, 'सीयफासपज्जवेहिं तुल्ये' शीतस्पर्शपर्यवैस्तुल्यो भवति, 'अपसेसेहिं सत्तफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए' अवशेषैः सप्तस्पर्शपर्यवैः पटस्थानपतितो भवति, 'एवं उक्कोसगुणसीए वि' एवं-जघन्यगुणशीतवदेव उत्कृष्टगुणशीतोऽपि अनन्तप्रदेशिकपुद्गलस्कन्धो वक्तव्यः, 'अजहणमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव' अजन्यानुत्कृष्टगुणशीतोऽपि अनन्तप्रदेशिकः पुद्गलस्कन्धः एवञ्चैव-जघन्यगुणशीतवदेवावसेयः, किन्तु 'णवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए' नवरम् पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्वस्थाने-स्वस्थानपेक्षया पटस्थान-

भगवान् हे गौतम ? जघन्यगुण शीत अनन्तप्रदेशी स्कंध दूसरे जघन्यगुण शीत अनन्तप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य प्रदेशों की अपेक्षा षट्स्थानपतित अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित, वर्ण आदि के पर्यायों की अपेक्षा षट्स्थानपतित, शीत स्पर्श के पर्यायों से तुल्य और शेष सात स्पर्शों के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है ।

इसी प्रकार उत्कृष्टगुण शीत अनन्तप्रदेशी स्कंध की भी प्ररूपणा समझनी चाहिए और मध्यमगुण शीत अनन्तप्रदेशी की भी । किन्तु मध्यमगुण शीत अनन्तप्रदेशी स्कंध स्वस्थान की अर्थात् शीत स्पर्श की अपेक्षा भी षट्स्थानपतित होता है ।

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य गुण शीत अनन्त प्रदेशी स्कंध भी जघन्य गुण शीत अनन्त प्रदेशी स्कंधकी द्रव्यकी अपेक्षासे तुल्य प्रदेशोकी अपेक्षासे षट्स्थान पतित, अवगाहनानी अपेक्षासे चतु स्थान पतित स्थितिनी अपेक्षाथी चतु स्थानपतित, पणु आदिना पर्यायोनी अपेक्षासे षट्स्थानपतित, शीत स्पर्शना पर्यायोथी तुल्य, अने शेष सात स्पर्शोना पर्यायोथी षट्स्थानपतित थाय छे.

अने प्रकारे उत्कृष्ट गुण शीत अनन्त प्रदेशी स्कंधनी पणु अइपणु समल्लेखी नेछे अने मध्यम गुण शीत अनन्त प्रदेशीनी पणु परन्तु मध्यम गुण शीत अनन्त प्रदेशी स्कंध स्वस्थाननी अर्थात् शीत स्पर्शनी अपेक्षासे पणु षट्स्थान पतित थाय छे,

પતિતો ભવતિ, 'एवं उसिणणिद्धलुक्खे जहा सीए' एवम्-पूर्वोक्तरीत्या उष्ण-
स्निग्धरूक्षस्पर्शोऽपि यथा शीतस्पर्शः प्रतिपादितस्तथा प्रतिपत्तव्यः, 'परमाणु-
पोगलस्स तहेव पडिवक्खो सव्वेसिं न भण्णइ त्ति भाणियव्वं' परमाणुपुद्गलस्य
तथैव-पूर्वोक्त शीतस्पर्शपरमाणुपुद्गलवदेव प्रतिपक्षैः विरुद्धैः सर्वैः स्पर्शैर्न
भण्यते इति भणितव्यं-वक्तव्यमिति भावः । तथाहि शीतस्पर्शस्य उष्णस्पर्शेन,
स्निग्धस्य रूक्षस्पर्शेन, मृदुकस्पर्शस्य कर्कशस्पर्शेन लघुकस्पर्शस्य गुरुकस्पर्शेन च
विरोधात् स्व स्व विरुद्धपर्यायो न वक्तव्यः ॥ सू० १५ ॥

सामान्यस्कन्धपर्यायवक्तव्यता—

मूलम्—जहणणपएसियाणं भंते ! खंधाणं पुच्छा, गोयमा !
अणंता पज्जवा पण्णत्ता, से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्ण-

उष्णस्पर्श स्निग्धस्पर्श और रूक्षस्पर्श की वक्तव्यता शीत-
स्पर्श की वक्तव्यता के समान ही समझना चाहिए । यहाँ यह बात
ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे शीत स्पर्श का प्रतिपक्ष उष्ण स्पर्श
परमाणु में नहीं होता अतएव उसका कथन नहीं किया गया है उसी
र अन्य स्पर्शों में भी उसका प्रतिपक्ष स्पर्श परमाणु में नहीं
होता अतएव उसका कथन नहीं करना चाहिए जैसे । स्निग्ध स्पर्श
का प्रतिपक्ष रूक्ष स्पर्श है, जिस परमाणु में स्निग्धस्पर्श होगा उसमें
रूक्ष स्पर्श नहीं होगा, जिसमें रूक्ष स्पर्श होगा उसमें स्निग्ध स्पर्श
नहीं होगा । इसी प्रकार मृदु कर्कश स्पर्श परस्पर विरोधी हैं ।
लघु और गुरु स्पर्श परस्पर विरोधी है । एक ही परमाणु में ये विरोधी
स्पर्श भी नहीं हो सकते अतएव परमाणु में इनका उल्लेख नहीं
करना चाहिए ॥ १५ ॥

ઉષ્ણ સ્પર્શ, સ્નિગ્ધ સ્પર્શ અને રૂક્ષ સ્પર્શની વક્તવ્યતા શીત સ્પર્શની,
વક્તવ્યતાના સમાનજ સમજવી જોઈએ. અહિં આ વાત ધ્યાનમાં રાખવી
જોઈએ કે જેમ શીત સ્પર્શનો પ્રતિપક્ષ ઉષ્ણ સ્પર્શ પરમાણુમાં નથી હોતો,
તેથીજ એવું કથન નથી કર્યું. એજ પ્રકારે અન્ય સ્પર્શોમાં પણ તેમનો પ્રતિ
પક્ષ સ્પર્શ પરમાણુમાં નથી હોતો, તેથી જ તેમનું કથન નહીં કરવું જોઈએ.
જેમ સ્નિગ્ધ સ્પર્શનો પ્રતિપક્ષ રૂક્ષ સ્પર્શ છે, જે પરમાણુમાં સ્નિગ્ધ સ્પર્શ
હશે તેમાં રૂક્ષ સ્પર્શ નહીં હોય, જેમાં રૂક્ષ સ્પર્શ હશે તેમાં સ્નિગ્ધ સ્પર્શ
નહીં હોય એજ પ્રકારે મૃદુ અને કર્કશ સ્પર્શ પરસ્પર વિરોધી છે, લઘુ અને
ગુરુ સ્પર્શ પરસ્પર વિરોધી છે. એક જ પરમાણુમાં આ વિરોધી સ્પર્શ
નથી હોઈ શકતા, તેથી જ પરમાણુમાં એમનો ઉલ્લેખ ન કરવો જોઈએ ॥ ૧૫ ॥

पएसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्ण-
 पएसिए खंधे जहण्णपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले,
 पएसट्टयाए तुल्ले, ओगाहणट्टयाए सिय हीणे सिय तुल्ले
 सिय अब्भहिए, जइ हीणे पएस हीणे अह अब्भहिए
 पएसमव्भहिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णगंधरसउवरिल्ल-
 चउफासपज्जवेहि छट्टाणवडिए, उक्कोसपएसियाणं भंते ! खंधाणं
 पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्टेणं भंते !
 एवं बुच्चइ—उक्कोसपएसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?
 गोयमा ! उक्कोसपएसिए खंधे उक्कोसपएसियस्स खंधस्स दव्व-
 ट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए तुल्ले ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए,
 ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णाइ अट्टाफासपज्जवेहिं य छट्टाण-
 वडिए, अजहण्णमणुक्कोसपएसियाणं भंते ! खंधाणं केवइया
 पज्जवा पणत्ता, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से
 केणट्टेणं एवं बुच्चइ—अजहण्णमणुक्कोसपएसियाणं खंधाणं
 अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसपएसिए
 खंधे अजहण्णमणुक्कोसपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले,
 पएसट्टयाए, छट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए, चउट्टाणवडिए,
 ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णाइ अट्टाफासपज्जवेहिं य छट्टाणवडिए,
 जहण्णोगाहणगाणं भंते ! पोग्गलाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता
 पज्जवा पणत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णोगाह-
 णगाणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णो-
 गाहणए पोग्गले जहण्णोगाहणस्स पोग्गलस्स दव्वट्टयाए तुल्ले,
 पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए तुल्ले, ठिईए चउ-
 ट्टाणवडिए, वण्णाइ उवरिल्लफासेहिं य छट्टाणवडिए, उक्कोसो-
 गाहणए वि एवं चेव, णवरं ठिईए तुल्ले, अजहण्णमणुक्कोसो-
 गाहणगाणं भंते ! पोग्गलाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा

पणत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-अजहणमणुक्कोसो-
गाहणगाणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अजह-
णमणुक्कोसोगाहणए पोग्गले अजहणमणुक्कोसोगाहणगस्स
पोग्गलस्स दब्बट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगा-
हणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णाइ अट्ट-
फासपज्जवेहि य छट्टाणवडिए, जहणणठिइयाणं भंते ! पोग्गलाणं
पुच्छा, गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्टेणं भंते !
एवं बुच्चइ-जहणणठिइयाणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?
गोयमा ! जहणणठिइए पोग्गले जहणणठिइयस्स पोग्गलस्स
दब्बट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए
चउट्टाणवडिए, ठिईए तुल्ले, वण्णाइ अट्टफासपज्जवेहि य
छट्टाणवडिए, एवं उक्कोसठिइए वि, अजहणमणुक्कोसठिइए
वि एवं चेव, नवरं ठिईए वि चउट्टाणवडिए, जहणणगुणकाल-
याणं भंते ! पोग्गलाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ? गोयमा !
अणंता पज्जवा पणत्ता, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जहणण-
गुणकालयाणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा !
जहणणगुणकालए पोग्गले जहणणगुणकालयस्स पोग्गलस्स
दब्बट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए चउ-
ट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, कालवणपज्जवेहि तुल्ले,
अवसेसेहि वण्णगंधरसफासपज्जवेहि य छट्टाणवडिए, से तेण-
ट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ-जहणणगुणकालयाणं पोग्गलाणं
अणंता पज्जवा पणत्ता, एवं उक्कोसगुणकालए वि अजहणण-
मणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव, नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए,
एवं जहा कालवणपज्जवाणं वत्तव्वया भणिया तथा सेसाण
वि वण्णगंधरसफासाणं वत्तव्वया भाणियव्वा, जाव अजहणण-

मणुकोसल्लुक्खे, सट्टाणे छट्टाणवडिए, से त्तं रूवि अजीव पज्जवा,
से त्तं अजीव पज्जवा, इति पण्णवणाए भगवईए विसेसपयं
समत्तं ॥ सू० १६ ॥

छाया—जघन्यप्रदेशिकानां भदन्त ! स्कन्धानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः
पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यप्रदेशिकानां स्कन्धा-
नामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यप्रदेशिकः स्कन्धो जघन्यप्रदेशिक-
स्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया स्याद्धीनः
स्यात्तुल्यः, स्यादभ्यधिकः, यदा हीनः प्रदेशहीनः, अथ अभ्यधिकः प्रदेशा-

सामान्य स्कन्धपर्यायवक्तव्यता

शब्दार्थ—(जहण्णपएसियाणं भंते ! खंधाणं पुच्छा ?) हे भगवन् !
जघन्य प्रदेशी स्कंधों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता)
हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ जहण्णपए-
सियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! किसकारण
ऐसा कहा कि जघन्य प्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं (गोयमा !
जहण्णपएसिए खंधे जहण्णपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे
गौतम ! जघन्यप्रदेशी स्कंध जघन्यप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की दृष्टि से
तुल्य (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य (ओगाहणट्टयाए
सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए) अवगाहना की दृष्टि से कदा-
चित् हीन, कदाचित् तुल्य, काचित् अधिक (जइ हीणे पएसहीणे)
यदि हीन हो तो एक प्रदेशहीन (अह अब्भहिए पएसअब्भहिए

सामान्य स्कन्ध पर्याय वक्तव्यता

शब्दार्थ—(जहण्णपएसियाणं भंते ! खंधाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य
प्रदेशी स्कन्धानी पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम !
अनन्त पर्याय कइया छे (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णपएसियाणं खंधाणं
अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! शा क्खे ज्जेम कइ छे के जघन्य
प्रदेशी स्कन्धाना अनन्त पर्याय कइया छे ? (गोयमा ! जहण्णपएसिए खंधे
जहण्णपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य प्रदेशी स्कन्ध
जघन्य प्रदेशी स्कन्धार्थी द्रव्यनी दृष्टिसे तुल्य (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशोनी
अपेक्षासे तुल्य (ओगाहणट्टयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिय) अवगाह-
नानी दृष्टिसे कदाचित् हीन, कदाचित् तुल्य कदाचित् अधिक (जइ हीणे पएस

भ्यधिकः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णगन्धरसोपरितनः चतुःस्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितः, उत्कृष्टप्रदेशिकानां भदन्त ! स्कन्धानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—उत्कृष्टप्रदेशिकानां स्कन्धानामन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! उत्कृष्टप्रदेशिकः स्कन्धः उत्कृष्टप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णादि अष्टस्पर्शपर्यवैश्च षट्स्थानपतितः,

अगर अधिक हो तो एक प्रदेश अधिक (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित (वण्ण गंधरसउवरिल्ल चउफासेहिं छट्टाणवडिए) वर्ण, गंध, रस और ऊपर के चार स्पर्शों से षट्स्थानपतित

(उक्कोसपएसियाणं भंते ! खंधाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! उत्कृष्ट प्रदेश वाले स्कंधों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—उक्कोसपएसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) किस कारण हे भगवन् ? ऐसा कहा जाता है कि उत्कृष्ट प्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (उक्कोसपएसिए खंधे उक्कोसपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) उत्कृष्ट प्रदेशी स्कंध, उत्कृष्ट प्रदेशी स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों से तुल्य होता है (ओगाहणट्टयाए) अवगाहना से (चउट्टाणवडिए) चतुःस्थानपतित (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित (वण्णा-

हीणे) ने डीन डोय तो अेक प्रदेश डीन (अह अब्भहिए पएसम्महिए) अगर अधिक डोय तो अेक प्रदेश अधिक (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी अतु स्थान पतित (वण्णगंधरसउवरिल्ल चउफासेहिं छट्टाणवडिए) वर्ण, गंध, रस अने ऊपरना आर स्पर्शथी षट्स्थानपतित थाय छे.

(उक्कोसपएसियाणं भंते ! खंधाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! उत्कृष्ट प्रदेशवाणा स्कन्धानी पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे छे (से केणट्ठेणं भंते एवं बुच्चइ—उक्कोसपएसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) शा ऊपरछे हे भगवन् ! अेम कडेवाय छे के उत्कृष्ट प्रदेशी स्कन्धाना अनन्त पर्याय कहे छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (उक्कोसपएसिए रथे उक्कोसपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) उत्कृष्ट प्रदेशी स्कंध उत्कृष्ट प्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी अपेक्षाअे तुल्य छे (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशीथी तुल्य थाय छे (ओगाहणट्टयाए) अवगाहनाथी (चउट्टाणवडिए) अतु स्थान पतित (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी अतुःस्थानपतित (वण्णाइ अट्टाफासपज्जवेहिंय छट्टाणवडिए) वर्णादिथी

अजघन्यानुत्कृष्टप्रदेशिकानां भदन्त ! स्कन्धानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ?
 गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—अजघन्या-
 नुत्कृष्टप्रदेशिकानां स्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अजघन्यानुत्कृ-
 ष्टप्रदेशिकः स्कन्धोऽजघन्यानुत्कृष्टप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदे-
 शार्थतया षट्स्थानपतितः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्था-
 नपतितः, वर्णादि अष्टस्पर्शपर्यवैश्च षट्स्थानपतितः, जघन्यावगाहनकानां भदन्त !

इ अट्टफासेपज्जवेहि य छट्ठाणवडिए) वर्णादि से तथा आठ स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है

(अजहणमणुक्कोसपएसियाणं खंधाणं केवइया पज्जवा पणत्ता)
 मध्यमप्रदेशी स्कंधों के कितने पर्याय कहे हैं (गोयमा अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ—अजहणमणुक्कोसपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?)
 किस कारण हे भगवन् ! ऐसा कहा है कि मध्यमप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! अजहणमणुक्कोसपएसिए खंधे अजहणमणुक्कोमपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! मध्यमप्रदेशी स्कंध मध्यमप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है (पएसट्टयाए छट्ठाणवडिए) प्रदेशों से षट्स्थानपतित होता है (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित होता है (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित होता है (वण्णाइ-अट्टफासपज्जवेहि य) वर्णादि से तथा आठ स्पर्शों के पर्यायों से (छट्ठा-

तथा आठ स्पर्शानां पर्यायैथी षट्स्थान पतित एने छे

(अजहणमणुक्कोसपएसियाणं खंधाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?) मध्यम प्रदेशी स्कन्धानां केट्ठा पर्याय क्ख्या छे ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय क्ख्या छे (से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ—अजहणमणुक्कोसपएसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पणत्ता) शां कारणे हे भगवन् ! एते क्ख्या छे के मध्यम प्रदेशी स्कन्धानां अनन्त पर्याय क्ख्या छे (गोयमा ! अजहणमणुक्कोसपएसिए खंधे अजहणमणुक्कोसपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! मध्यम प्रदेशी स्कन्ध मध्यम प्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी दृष्टिसे तुल्य थाय छे (पएसट्टयाए छट्ठाणवडिए) प्रदेशैथी षट्स्थान पतित थाय छे (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनाथी चतुःस्थान पतित थाय छे (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी चतुःस्थान पतित थाय छे (वण्णाइ अट्टफासपज्जवेहि य) वर्णादिथी तथा आठ स्पर्शानां पर्यायैथी (छट्ठाणवडिए) षट्स्थान पतित थाय छे

भ्यधिकः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णगन्धरसोपरितनः चतुःस्पर्शपर्यवैः पट्स्थानपतितः, उत्कृष्टप्रदेशिकानां भदन्त ! स्कन्धानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—उत्कृष्टप्रदेशिकानां स्कन्धानामन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! उत्कृष्टप्रदेशिकः स्कन्धः उत्कृष्टप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदेशार्थतया तुल्यः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, वर्णादि अपट्स्पर्शपर्यवैश्च पट्स्थानपतितः,

अगर अधिक हो तो एक प्रदेश अधिक (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुस्थानपतित (वण्ण गंधरसउवरिल्ल चउफासेहिं छट्टाणवडिए) वर्ण, गंध, रस और ऊपर के चार स्पर्शों से पट्स्थानपतित

(उक्कोसपएसियाणं भंते ! खंधाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! उत्कृष्ट प्रदेश वाले स्कंधों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—उक्कोसपएसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) किस कारण हे भगवन् ? ऐसा कहा जाता है कि उत्कृष्ट प्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (उक्कोसपएसिए खंधे उक्कोसपएसियस्स खंधस्स दब्बट्टयाए तुल्ले) उत्कृष्ट प्रदेशी स्कंध, उत्कृष्ट प्रदेशी स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशों से तुल्य होता है (ओगाहणट्टयाए) अवगाहना से (चउट्टाणवडिए) चतुःस्थानपतित (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित (वण्णा-

हीणे) जे डीन डोय तो ओक प्रदेश डीन (अह अम्महिए पएसमम्महिए) अगर अधिक डोय तो ओक प्रदेश अधिक (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी अतुःस्थान पतित (वण्णगंधरसउवरिल्ल चउफासेहिं छट्टाणवडिए) वर्ण, गंध, रस अने ऊपरना चार स्पर्शथी पट्स्थानपतित थाय छे.

(उक्कोसपएसियाणं भंते ! खंधाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! उत्कृष्ट प्रदेशवाणा स्कन्धानी पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कथा छे (से केणट्ठेणं भंते एवं बुच्चइ—उक्कोसपएसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) सा कारणे हे भगवन् ! ओम कडेवाय छे के उत्कृष्ट प्रदेशी स्कन्धाना अनन्त पर्याय कथा छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (उक्कोसपएसिए खंधे उक्कोसपएसियस्स खंधस्स दब्बट्टयाए तुल्ले) उत्कृष्ट प्रदेशी स्कंध उत्कृष्ट प्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य छे (पएसट्टयाए तुल्ले) प्रदेशीथी तुल्य थाय छे (ओगाहणट्टयाए) अवगाहनाथी (चउट्टाणवडिए) अतुःस्थान पतित (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी अतुःस्थानपतित (वण्णाइ अट्टाफासपज्जवेहिं छट्टाणवडिए) वर्णादिथी

अजघन्यानुत्कृष्टप्रदेशिकानां भदन्त ! स्कन्धानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—अजघन्या-
नुत्कृष्टप्रदेशिकानां स्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अजघन्यानुत्कृ-
ष्टप्रदेशिकः स्कन्धोऽजघन्यानुत्कृष्टप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदे-
शार्थतया षट्स्थानपतितः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्था-
नपतितः, वर्णादि अष्टस्पर्शपर्यवैश्च षट्स्थानपतितः, जघन्यावगाहनकानां भदन्त !

इ अट्टफासेपज्जवेहि य छट्ठाणवडिए) वर्णादि से तथा आठ स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है

(अजहणमणुक्कोसपएसियाणं खंधाणं केवइया पज्जवा पणत्ता) मध्यमप्रदेशी स्कंधों के कितने पर्याय कहे हैं (गोयमा अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—अजहणमणुक्कोसपएसियाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) किस कारण हे भगवन् ! ऐसा कहा है कि मध्यमप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! अजहणमणुक्कोसपएसिए खंधे अजहणमणुक्कोमपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! मध्यमप्रदेशी स्कंध मध्यमप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है (पएसट्टयाए छट्ठाणवडिए) प्रदेशों से षट्स्थानपतित होता है (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित होता है (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित होता है (वण्णाह-अट्टफासपज्जवेहि य) वर्णादि से तथा आठ स्पर्शों के पर्यायों से (छट्ठा-

तथा आठ स्पर्शानां पर्यायेथी षट्स्थान पतित भवे छे

(अजहणमणुक्कोसपएसियाणं खंधाणं केवइया पज्जवा पणत्ता ?) मध्यम प्रदेशी स्कन्धानां केटला पर्याय कइया छे ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कइया छे (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—अजहणमणु-
क्कोसपएसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पणत्ता) शा कारणे छे भगवन् ! एवुं कइया छे के मध्यम प्रदेशी स्कन्धानां अनन्त पर्याय कइया छे (गोयमा ! अज-
हणमणुक्कोसपएसिए खंधे अजहणमणुक्कोसपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! मध्यम प्रदेशी स्कन्ध मध्यम प्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यनी दृष्टिअे तुल्य थाय छे (पएसट्टयाए छट्ठाणवडिए) प्रदेशीथी षट्स्थान पतित थाय छे (ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहनाथी चतुःस्थान पतित थाय छे (ठिईए चउट्टाणवडिए) स्थितिथी चतुःस्थान पतित थाय छे (वण्णाह अट्टफासपज्जवेहि य) वर्णादिथी तथा आठ स्पर्शानां पर्यायेथी (छट्ठाणवडिए) षट्स्थान पतित थाय छे

पुद्गलानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः तत् केनार्थेन भदन्त ! एव-
मुच्यते—जघन्यावगाहनकानां पुद्गलानां अनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम !
जघन्यावगाहनकः पुद्गलो अघन्यावगाहनकस्य पुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः प्रदे-
शार्थतया पटस्थानपतितः, अघगाहनार्थतया तुल्यः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः,
वर्णादि—उपरितन चतुःस्पर्शैश्च पटस्थानपतितः, उत्कृष्टान्नागाहनकोऽपि एवञ्चैव,
नवरं स्थित्या तुल्यः, अजघन्यानुत्कृष्टान्नागाहनकानां भदन्त ! पुद्गलानां पृच्छा,

णवडिए) पटस्थानपतित होता है

(जहण्णोगाहणगाणं भंते ! पोग्गलाणं पुच्छा ?) हे भगवन् !
जघन्य अवगाहना वाले पुद्गलों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता)
हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते एवं बुच्चइ
जहण्णोगाहणगाणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् !
किस कारण ऐसा कहा गया है कि जघन्य अवगाहना वाले पुद्गलों के
अनन्त पर्याय कहे हैं (गोयमा ! जहण्णोगाहणए पोग्गले जहण्णोगा-
हणगस्स पोग्गलस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य अवगाहना
वाला पुद्गल जघन्य अवगाहना वाले पुद्गल से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य
(पएसट्ठयाए छट्ठाणवडिए) प्रदेशों की अपेक्षा पटस्थानपतित (ओगाहण-
ट्ठयाए तुल्ले) अवगाहना से तुल्य (ठिईए चउट्ठाणवडिए) स्थिति से चतुः-
स्थानपतित (वण्णाइ उवरिल्लफारोहि य छट्ठाणवडिए) वर्ण आदि से तथा
ऊपर के चार स्पर्शों से पटस्थानपतित (उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव)
उत्कृष्ट अवगाहना वाला भी इसी प्रकार (णवरं) विशेष (ठिईए तुल्ले)

(जहण्णोगाहणगाणं भंते ! पोग्गलाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य अव-
गाहना वाला पुद्गलों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम !
अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णोगाहणगाणं पोग्ग-
लाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! शा ४२७ अं ३६ वायु ३६ के
जघन्य अवगाहनावाला पुद्गलों के अनन्त पर्याय कहे हैं (गोयमा ! जहण्णो-
गाहणए पोग्गले जहण्णोगाहणगस्स पोग्गलस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य
अवगाहनावाला पुद्गल जघन्य अवगाहनावाला पुद्गल से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य
है (पएसट्ठयाए छट्ठाणवडिए) प्रदेशों की दृष्टि से पटस्थान पतित (ओगाहणट्ठयाए
तुल्ले) अवगाहनावाला तुल्य (ठिईए चउट्ठाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थान पतित
(वण्णाइ उवरिल्ल फारोहि य छट्ठाणवडिए) वर्ण आदि से तथा ऊपरना चार
स्पर्शों से पटस्थान पतित (उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव) उत्कृष्ट अवगाहना

गौतम ! अनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—अजन्यानुत्कृ-
 ष्टावगाहनकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अजन्यानुत्कृष्टा-
 वगाहनकः पुद्गलकोऽजहणमणुकुलोसोगाहणस्य पुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः,
 प्रवेशार्थतया षट्स्थानपतितः, अवाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुः-
 स्थानपतितः, वर्णादि अष्ट रर्षपर्यवेक्ष्य षट्स्थानपतितः, जघन्यस्थितिकानां
 भदन्त ! पुद्गलानां पृच्छा, गौतम ! अनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन

स्थिति से तुल्य होता है (अजहणमणुकुलोसोगाहणगाणं भन्ते ! पोग्ग-
 लाणं पुच्छा ?) मध्यम अवगाहनावाले हे भगवन् ! पुद्गलों की पृच्छा ?
 (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से
 केणट्ठेणं भन्ते ! एवं बुच्चइ—(अजहणमणुकुलोसोगाहणगाणं पोग्गलाणं
 अणंता पज्जवा पण्णत्ता) किस प्कारण हे भगवन् ! ऐसा कहा कि
 मध्यम अवगाहना वाले पुद्गलों के अनन्त पर्याय कहे हैं (गोयमा !
 अजहणमणुकुलोसोगाहणए पोग्गले) हे गौतम ! मध्यम अवगाहना
 वाला पुद्गल (अजहणमणुकुलोसोगाहणगस्स पोग्गलस्स द्दव्वट्ठयाए
 तुल्ले) मध्यम अवगाहना वाले पुद्गल से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य (पए-
 सट्ठयाए छट्ठाणवडिए) प्रदेशों की अपेक्षा से षट्स्थानपतित (ओगाहण-
 ट्ठयाए चउट्ठाणवडिए) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित (ठिईए
 चउट्ठाणवडिए) स्थिति से चतुःस्थानपतित (वण्णाह—अट्ठफासपज्जवेहि
 य छट्ठाणवडिए) वर्णादि से तथा आठ स्पर्शों के पर्यायों षट्स्थानपतित

वाणा पथु अे प्रकारे (नवर) विशेष (ठिईए तुल्ले) स्थितिथी तुल्य थाय अे
 (अजहणमणुकुलोसोगाहणगाणं भन्ते ! पोग्गलाणं पुच्छा ?) मध्यम अवगाहना
 वाणा अे भगवन् ! पुद्गलानां पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) अे
 गौतम ! अनन्त पर्याय कहे अे (से केणट्ठेणं भन्ते ! एवं बुच्चइ—अजहणमणुकुलोसो-
 गाहणगाणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता) शा कारणे अे भगवन् ! अेवुं
 कथु अे अे मध्यम अवगाहनावाणा पुद्गलानां अनन्त पर्याय कहे अे (गोयमा
 अजहणमणुकुलोसोगाहणए पोग्गले) अे गौतम ! मध्यम अवगाहनावाणा पुद्गल
 (अजहणमणुकुलोसोगाहणस्स पोग्गलस्स द्दव्वट्ठयाए तुल्ले) मध्यम अवगाहनावाणा
 पुद्गलथी द्रव्यनी अपेक्षाअे तुल्य (पएसट्ठयाए छट्ठाणवडिए) प्रदेशानी अपे-
 क्षाअे षट्स्थान पतित (ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए) अवगाहनानी अपेक्षाअे
 चतु स्थान पतित (ठिईए चउट्ठाणवडिए) स्थितिथी चतुःस्थान पतित (वण्णाह
 अट्ठफासपज्जवेहि य छट्ठाणवडिए) वर्णादिथी तथा आठ स्पर्शानां पर्यायथी
 षट्स्थान पतित थाय अे.

भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यस्थितिकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ?
 गौतम ! जघन्यस्थितिकः पुद्गलो जघन्यस्थितिकस्य पुद्गलस्य द्रव्यार्थतया
 तुल्यः, प्रदेशार्थतया पटस्थानपतितः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थि-
 त्या तुल्यः, वर्णादि—अण्टस्पर्शपर्यवैश्च पटस्थानपतितः, एवमुक्तुपटस्थितिकोऽपि,
 अजघन्यानुत्क्रांटास्थितिकोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्थित्यापि चतुःस्थानपतितः,

(जहण्णट्टिइयाणं भंते पोग्गलाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य
 स्थिति वाले पुद्गलों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता)
 हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते एवं बुच्चइ—जह-
 ण्णट्टिइयाणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! किस
 काहण ऐसा कहाजाता है कि जघन्य स्थिति वाले पुद्गलों के अनन्त
 पर्याय हैं ? (गोयमा ! जहण्णट्टिइए पोग्गले जहण्णट्टिइयस्स पोग्ग-
 लस्स दब्बट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य स्थिति वाला पुद्गल जघन्य
 स्थिति वाले पुद्गल से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है (पएसट्टयाए
 छट्टाणवडिए) प्रदेशों की अपेक्षा से पटस्थानपतित होता है (ओगाहण-
 ट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित होता है (ठिईए
 तुल्ले) स्थिति से तुल्य होता है (वण्णाइ—अट्टफासपज्जवेहिय छट्टाण-
 वडिए) वर्ण आदि से तथा आठ स्पर्शों के पर्यायों से पटस्थानपतित
 होता है (एवं उक्कोसट्टिइए वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थिति वाला भी
 (अजहण्णमणुक्कोसट्टिइए वि एवं चेव) मध्यम स्थिति वाला भी इसी
 प्रकार (नवरं ठिईए वि चउट्टाणवडिए) विशेष यह कि स्थिति की

(जहण्णट्टिइयाणं भंते ! पोग्गलाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य स्थिति
 वाणा पुद्गलानां पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त
 पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णट्टिइयाणं पोग्गलाणं अणंता
 पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! शाश्वतेषु एषु कथं च एते जघन्य स्थितिवाणा
 पुद्गलानां अनन्त पर्याय ए ? (गोयमा ! जहण्णट्टिइए पोग्गले जहण्णट्टिइयस्स
 पोग्गलस्स दब्बट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य स्थितिवाणा पुद्गल जघन्य
 स्थितिवाणा पुद्गलार्थी द्रव्यार्थे तुल्ये थाय ए (पएसट्टयाए छट्टाण
 वडिए) प्रदेशान्ती अपेक्षाये पटस्थान पतिते थाय ए (ओगाहणट्टयाए चउट्टाण
 वडिए) अवगाहनार्थी चतुःस्थान पतिते थाय ए (ठिईए तुल्ले) स्थितिर्था तुल्ये
 थाय ए (वण्णाइ—अट्टफास पज्जवेहिय छट्टाणवडिए) वर्ण आदिर्था तथा आठ
 स्पर्शानां पर्यायार्थी पटस्थान पतिते थाय ए (एवं उक्कोसट्टिइए वि) ए ज
 प्रकारे उत्कृष्ट स्थितिवाणा पण्ण (अजहण्णमणुक्कोसट्टिइए वि एवं चेव) मध्यम

जघन्यगुणकालकानां भदन्त ! पुद्गलानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यगुणकालकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यगुणकालकः पुद्गलो जघन्यगुणकालकस्य पुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया पदस्थानपतितः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, कृष्णवर्णपर्यवैस्तुल्यः, अवशेषैः वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैश्च पदस्थानपतितः, तत् तेनार्थेन गौतम !

अपेक्षा भी चतुःस्थानपतित होता है

(जहण्णगुणकालयार्णं भंते ! पोग्गलाणं केवइया पज्जवा पण्णत्ता) हे भगवन् ! जघन्यगुण काले पुद्गलों के कितने पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ जहण्णगुणकालयार्णं पोग्गलाण अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा जाता, है कि जघन्यगुण काले पुद्गलों के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा ! जहण्णगुणकाले पोग्गले जहण्णगुणकालयस्स पोग्गलस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्यगुण काले पुद्गल से दूसरा जघन्यगुण काला पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है (पएसट्ठयाए छट्ठाणवडिए) प्रदेशों की अपेक्षा पदस्थानपतित होता है (ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए) अवगाहना से चौस्थानपतित होता है (ठिईए चउट्ठाणवडिए) स्थिति से चौस्थानपतित होता है (कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले) (काले वर्ण के पर्याय

स्थितिवाणा पणु अेअ प्रकारे (नवरं ठिईए वि चउट्ठाण वडिए) विशेष अे के स्थितिनी अपेक्षाअे पणु अतु स्थान पतित थाय छे

(जहण्णगुणकालयार्णं भंते ! पोग्गलाणं केवइया पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! जघन्य गुणु काणा पुद्गलाना केटला पर्याय कइया छे ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कइया छे ? (से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ जहण्णगुणकालयार्णं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! सा कारणे अेवु कडेवाय छे के जघन्य गुणु काणा पुद्गलाना अनन्त पर्याय छे ? (गोयमा ! जहण्णगुणकाले पोग्गले जहण्णगुणकालयस्स पोग्गलस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य गुणु काणा पुद्गलथी भीअ जघन्य गुणु काणा पुद्गल द्रव्यनी अपेक्षाअे तुल्य थाय छे (पएसट्ठयाए छट्ठाणवडिए) प्रदेशानी अपेक्षाअे पदस्थान पतित थाय छे (ठिईए चउट्ठाणवडिए) स्थितिथी थार स्थान पतित थाय छे (कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले) काणा वणुना पर्यायोथी

भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यस्थितिकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ?
 गौतम ! जघन्यस्थितिकः पुद्गलो जघन्यस्थितिकस्य पुद्गलस्य द्रव्यार्थतया
 तुल्यः, प्रदेशार्थतया पटस्थानपतितः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थि-
 त्या तुल्यः, वर्णादि—अणुस्पर्शपर्ययैश्च पटस्थानपतितः, एवमुत्कृष्टस्थितिकोऽपि,
 अजघन्यानुत्कृष्टस्थितिकोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्थित्यापि चतुःस्थानपतितः,

(जहण्णठिइयाणं भंते पोग्गलाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य
 स्थिति वाले पुद्गलों की पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता)
 हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते एवं वुच्चइ—जह-
 ण्णठिइयाणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! किस
 काहण ऐसा कहा जाता है कि जघन्य स्थिति वाले पुद्गलों के अनन्त
 पर्याय हैं ? (गोयमा ! जहण्णठिइए पोग्गले जहण्णठिइयस्स पोग्ग-
 लस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य स्थिति वाला पुद्गल जघन्य
 स्थिति वाले पुद्गल से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है (एएसट्टयाए
 छट्टाणवडिए) प्रदेशों की अपेक्षा से पटस्थानपतित होता है (ओगाहण-
 ट्टयाए चउट्टाणवडिए) अवगाहना से चतुःस्थानपतित होता है (ठिईए
 तुल्ले) स्थिति से तुल्य होता है (वण्णाइ—अट्टफासपज्जवेहिय छट्टाण-
 वडिए) वर्ण आदि से तथा आठ स्पर्शों के पर्यायों से पटस्थानपतित
 होता है (एव उक्कोसठिइए वि) इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थिति वाला भी
 (अजहण्णमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव) मध्यम स्थिति वाला भी इसी
 प्रकार (नवरं ठिईए वि चउट्टाणवडिए) विशेष यह कि स्थिति की

(जहण्णठिइयाणं भंते ! पोग्गलाणं पुच्छा ?) हे भगवन् ! जघन्य स्थिति
 वाणा पुद्गलानां पृच्छा ? (गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता) हे गौतम ! अनन्त
 पर्याय कहे हैं (से केणट्टेणं भंते ! एव वुच्चइ—जहण्णठिइयाणं पोग्गलाणं अणंता
 पज्जवा पणत्ता ?) हे भगवन् ! शांकारणे एवु कडेत्थं ए के जघन्य स्थितिवाणा
 पुद्गलानां अनन्त पर्याय ए ? (गोयमा ! जहण्णठिइए पोग्गले जहण्णठिइयस्स
 पोग्गलस्स दव्वट्टयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्य स्थितिवाणा पुद्गल जघन्य
 स्थितिवाणा पुद्गलस्य द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य थाय ए (एएसट्टयाए छट्टाण
 वडिए) प्रदेशानी अपेक्षाये पटस्थान पतित थाय ए (ओगाहणट्टयाए चउट्टाण
 वडिए) अवगाहनार्थी चतुःस्थान पतित थाय ए (ठिईए तुल्ले) स्थितिथी तुल्य
 थाय ए (वण्णाइ—अट्टफास पज्जवेहिय छट्टाणवडिए) एवु आदिथी तथा आठ
 स्पर्शानां पर्यायिथी पटस्थान पतित थाय ए (एव उक्कोसठिइए वि) ए ए
 प्रकारे उत्कृष्ट स्थितिवाणा एवु (अजहण्णमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव) मध्यम

जघन्यगुणकालकानां भदन्त ! पुद्गलानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जघन्यगुणकालकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्यगुणकालकः पुद्गलो जघन्यगुणकालकस्य पुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यः, प्रदेशार्थतया पटस्थानपतितः, अवगाहनार्थतया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या चतुःस्थानपतितः, कृष्णवर्णपर्यवैस्तुल्यः, अवज्ञेयैः वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैश्च पटस्थानपतितः, तत् तेनार्थेन गौतम !

अपेक्षा भी चतुःस्थानपतित होता है

(जहणगुणकालयाणं भन्ते ! पोग्गलाणं केवइया पज्जवा पण्णत्ता) हे भगवन् ! जघन्यगुण काले पुद्गलों के कितने पर्याय कहे हैं ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं (से केणट्ठेणं भन्ते ! एवं बुच्चइ जहणगुणकालयाणं पोग्गलाण अणता पज्जवा पण्णत्ता) हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा जाता, है कि जघन्यगुण काले पुद्गलों के अनन्त पर्याय हैं ? (गोयमा ! जहणगुणकालए पोग्गले जहणगुणकालयस्स पोग्गलस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले) हे गौतम ! जघन्यगुण काले पुद्गल से दूसरा जघन्यगुण काला पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है (पएसट्ठयाए छट्ठाणवडिए) प्रदेशों की अपेक्षा षट्स्थानपतित होता है (ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए) अवगाहना से चौस्थानपतित होता है (ठिईए चउट्ठाणवडिए) स्थिति से चौस्थानपतित होता है (कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले (काले वर्ण के पर्याय

स्थितिवाणा पणु अेअ प्रकारे (नवर ठिईए वि चउट्ठाण वडिए) विशेष अे डे स्थितिनी अपेक्षाअे पणु अतु स्थान पतित थाय छे

(जहणगुणकालयाणं भन्ते ! पोग्गलाणं केवइया पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! अधन्य शुष्णु काणा पुद्गलद्वीना डेट्ठा पर्याय कइया छे ? (गोयमा ! अणता पज्जवा पण्णत्ता) हे गौतम ! अनन्त पर्याय कइया छे ? (से केणट्ठेणं भन्ते ! एवं बुच्चइ जहणगुणकालयाणं पोग्गलाणं अणता पज्जवा पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! शा कारणे अेषु कडेवाय छे डे अधन्य शुष्णु काणा पुद्गलद्वीना अनन्त पर्याय छे ? (गोयमा ! जहणगुणकालए पोग्गले जहणगुणकालयस्स पोग्गलस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले) हे गौतम ! अधन्य शुष्णु काणा पुद्गलद्वीणीणी अधन्य शुष्णु काणा पुद्गल द्रव्यनी अपेक्षाअे तुल्य थाय छे (पएसट्ठयाए छट्ठाणवडिए) प्रदेशीनी अपेक्षाअे षट्स्थान पतित थाय छे (ठिईए चउट्ठाणवडिए) स्थितिधी मार स्थान पतित थाय छे (कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले) काणा पणुना पर्यायेधी

एवमुच्यते-जघन्यगुणकालकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, एवमुत्कृष्ट-
गुणकालकोऽपि, अजघन्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि एवञ्चैव, नवरं स्वस्थाने षट्-
स्थानपतितः, एवं यथा कृष्णवर्णपर्ययानां वक्तव्यता भणिता तथा शेषाणामपि
वर्णगन्धरसस्पर्शानां वक्तव्यता भणितव्या, यावद्-अजघन्यानुत्कृष्टरूक्षः, स्व-

से तुल्य होता है (अवसेसेहिं वण्णगंधरसफासपज्जवेहि ः छट्ठाणव-
डिए) शेष वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के पर्यायों से षट्स्थानपतित
होता है (से तेणट्ठेणं गोचमा ! एवं बुच्चइ) हे गौतम ! इस कारण ऐसा
कहा जाता है कि (जहण्णगुणकालयाणं पोग्गलाणं अणता पज्जवा
पण्णत्ता) जघन्यगुण काले पुद्गलों के अनन्त पर्याय कहे हैं

(एवं उक्कोसगुणकालए वि) इसी प्रकार उत्कृष्टगुण कृष्ण भी
(अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव) मध्यमगुण कृष्ण भी
इसी प्रकार (णवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए) विशेष यह स्वस्थान में भी षट्-
स्थानपतित होता है (एवं जहा कालवण्णपज्जवाणं वत्तव्वया भणिया
तहा सेसाण वि) इस प्रकार जैसी काले वर्ण की वक्तव्यता कही वैसी
शेष (वण्णगंधरसफासाणं वत्तव्वया भाणियव्वा) वर्ण, गंध, रस और
स्पर्श के पर्यायों की वक्तव्यता कहनी चाहिए (जाव) यावत् (अजह-
ण्णमणुक्कोसलुक्खे) मध्यमगुण रूक्ष (सट्ठाणे छट्ठाणवडिए) स्वस्थान
में षट्स्थानपतित है (से तं रुविअजीवपज्जवा) यह रूपी अजीवों के

तुल्य थाय छे (अवसेसेहिं वण्ण गंध रस फास पज्जवेहिंय छट्ठाण वडिए) शेष
वर्ण, गंध, रस, स्पर्शानां पर्यायाधी षट्स्थान पतित थाय छे (से तेणट्ठेणं
गोचमा ! एव बुच्चइ) हे गौतम ! ये कारणे येम कडेवाय छे के (जहण्ण
गुणकालयाणं पोग्गलाणं अणता पज्जवा पण्णत्ता) जघन्य शुष्ण काणा पुद्गलानां
अनन्त पर्याय कहे छे

(एवं उक्कोसगुणकालए वि) ये प्रकारे उत्कृष्ट शुष्ण कृष्ण पक्षु (अज-
हण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव) मध्यम शुष्ण कृष्ण पक्षु येअ प्रकारे (नवरं
सट्ठाणे छट्ठाणवडिए) विशेष ये के स्वस्थानमा पक्षु षट्स्थान पतित थाय
छे (एवं जहा कालवण्णपज्जवाणं वत्तव्वया भणिया तहा सेसाण वि) ये प्रकारे
येवी काणा वर्णानी वक्तव्यता कही तेवी शेष (वण्णगंधरसफासाणं वत्तव्वया
भाणियव्वा) वर्ण, गंध, रस अने स्पर्शानां पर्यायानां वक्तव्यता कडेवी नेअ ये
(जाव) यावत् (अजहण्णमणुक्कोसलुक्खे) मध्यम शुष्ण रूक्ष (सट्ठाणे छट्ठाणवडिए)
स्वस्थानमा षट्स्थान पतित थाय छे (से तं रुवि अजीव पज्जवा) आ इधी

:थाने पदस्थानपतितः, ते एते रूप्यजीवपर्यवाः, ते एते अजीवपर्यवाः, इति प्रज्ञापनाया भगवत्या विशेषपद समाप्तम् ॥सू० १६॥

टीका—अथ सामान्यतो जघन्यादि प्रदेशिकानां स्कन्धानां पर्यवान् प्ररूपयितुमाह—‘जहण्णपएसियाणं भंते ! खंधाणं पुच्छा’ हे भदन्त ! जघन्यप्रदेशिकानां स्कन्धानां क्रियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पणत्ता’ जघन्यप्रदेशिकानां स्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—जहण्णपएसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्—अथ, केनार्येण कथं तावद्, एवम्—उत्तरीत्या, उच्यते यद्—जघन्यप्रदेशिकानां स्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णपएसिए खंधे जहण्णपएसियस्स खंधस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले’ जघन्यप्रदेशिकः स्कन्धो पर्यायं ह्युए (से सं अजीवपज्जवा) यह अजीव पर्यायं ह्युए (इतिपणवणाए भगवईए विसेसपयं समत्तं) इस् प्रकारं प्रज्ञापना भगवति का विशेष पद समाप्तं हुआ ।

टीकार्थ—अब सामान्यरूप से जघन्यप्रदेशी आदि पुद्गलों के पर्यायों को प्ररूपणा की जाती है—

गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—भगवन् ! जघन्यप्रदेशी स्कंधों के कितने पर्याय हैं ?

भगवान् हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम हे भगवान् ! किस कारण ऐसा कहा जाता है कि जघन्य प्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं ?

भगवन् हे गौतम ! जघन्यप्रदेशी एक स्कंध दूसरे जघन्यप्रदेशी

अथ पर्यायं थया (इति पणवणाए भगवईए विसेसपयं समत्तं) आ प्रकारे प्रज्ञापना भगवतीतु विशेष पद समाप्तं थयु.

टीकार्थ—इसे सामान्य रूपे जघन्य प्रदेशी आदि पुद्गलाना पर्यायिणी प्ररूपणा कराय छे

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे :-भगवन् ! जघन्य प्रदेशी स्कन्धाना केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान् :-हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे

श्री गौतमस्वामी :-हे भगवन् ! शा कारणे ओषु कडेल छे के जघन्य प्रदेशी स्कन्धाना अनन्त पर्याय कथा छे ?

श्री भगवान् :-हे गौतम ! जघन्य प्रदेशी ओक स्कन्ध जीण जघन्य

जघन्यप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, तथा च प्रत्येकक द्रव्य-
मनन्तपर्यायमिति न्यायेन जघन्यप्रदेशिकस्कन्धस्यापि द्रव्यत्वेन अनन्तपर्यायसंभ-
वात्, 'पएसदृयाए तुल्ले' प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, 'ओगाहनदृयाए सिय
हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए' अवगाहनार्थतया—अवगाहनापेक्षया, स्यात्-
कदाचित्—कश्चित् हीनो भवति, स्यात्—कदाचित् कश्चित् तुल्यो भवति, स्यात्-
कदाचित्—कश्चिद्भ्यधिको भवति, तत्र 'जइ हीणे पएस हीणे' यदा हीनो विव-
क्षितस्तदा प्रदेशहीनो भवति, 'अह अब्भहिए पएसमव्भहिए' अथ यदा अभ्यधिको
विवक्षितस्तदा प्रदेशाभ्यधिको भवति, तथा च जघन्यप्रदेशिकस्कन्धस्य द्विप्रदे-
शात्मकतया यदा द्वावपि द्विप्रदेशिकी स्कन्धी द्विप्रदेशावगाढौ, एकप्रदेशावगाढौ
वा भवतस्तदा तुल्यावगाहनी व्यपदिश्यते, यदा तु एको द्विप्रदेशावगाढोऽन्यस्तु

स्कंध से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है, प्रत्येक द्रव्य अनन्त
पर्याय वाला होता है इस नियम के अनुसार जघन्यप्रदेशी स्कंध भी
द्रव्य होने के कारण अनन्त पर्याय वाला है। वह प्रदेशों की अपेक्षा
से भी तुल्य होता है। अवगाहना की अपेक्षा से हीन भी हो सकता
है, तुल्य भी हो सकता है और अधिक भी सकता है। अर्थात् कोई
किसी से हीन, कोई किसी से तुल्य और कोई किसी से अधिक होता
है। यदि हीन की विवक्षा की जाय तो एक प्रदेश से हीन होता है
और अधिक हो तो एक प्रदेश अधिक अवगाहना वाला होता है।
तात्पर्य यह है कि जघन्य प्रदेशी स्कंध द्विप्रदेशी होता है। द्विप्रदेशी
स्कंध या तो अकाश के एक प्रदेश में अवगाढ होता है या अधिक से
अधिक दो प्रदेशों में। ऐसी स्थिति में अगर अवगाहना में हीनाधि-

प्रदेशी स्कन्धधी द्रव्यनी दृष्टिये तुल्ये छे, प्रत्येक द्रव्य अनन्त पर्याय
वाणा छाय छे अने नियमानुसार जघन्य प्रदेशी स्कन्ध पणु द्रव्य डोवाना
कारणे अनन्त पर्यायवाणु छे. ते प्रदेशीनी अपेक्षाये पणु तुल्य थाय छे. अव-
गाहनानी अपेक्षाये हीन पणु थछे शके छे, तुल्य पणु थछे शके छे. अने
अधिक पणु थछे शके छे, अर्थात् कोछ कोछनाथी हीन, कोछ कोछनाथी तुल्य
अने कोछ कोछनाथी अधिक थाय छे अने हीननी विवक्षा कराय तो अने प्रदेशी
हीन थछे शके छे अने अने अधिक डोय तो अने प्रदेश अधिक अवगाहना
वाणा थाय छे. तात्पर्य अने छे के जघन्य प्रदेशी स्कन्ध द्विप्रदेशी थाय छे.
द्विप्रदेशी स्कन्ध या तो आकाशना अने प्रदेशमा अवगाढ थाय छे अगर
अधिकथी अधिक अने प्रदेशीमा. आवी स्थितिमा अगर अवगाहनामा हीनाधि-

एकप्रदेशावगाहो भवति तदा एकप्रदेशावगाहो द्विप्रदेशावगाहापेक्षया प्रदेशहीनो भवति, द्विप्रदेशावगाहस्तु तदपेक्षया प्रदेशाभ्यधिको भवति इति भावः, 'ठिईए चउट्टाणवडिए' स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, 'वण्णगंधरसउवरिल्लचउफास-पज्जवेहिं छट्टाणवडिए' वर्णगन्धरसैरुपरितन चतुःस्पर्शपर्यवैः-शीतोष्णस्निग्धरूक्ष-स्पर्शपर्यवैः षट्स्थानपतितो भवति, 'उक्कोसपएसियाणं भंते ! खंधाणं पुच्छा' हे मदन्त ! उत्कृष्टप्रदेशिकानाम् अनन्तप्रदेशिकानामित्यर्थः स्फुन्धानां क्रियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह- 'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणता पज्जवा पणत्ता' उत्कृष्टप्रदेशिकानां स्फुन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति- 'से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ-उक्कोसपएसियाणं खंधाणं अणता

कता हो तो एक प्रदेश की ही हो सकता है । अधिक हीनाधिकता का संभव ही नहीं है । जो दो जघन्यप्रदेशी स्कंध एक प्रदेश में अवगाह हैं, उनमें अवगाहना की दृष्टि से तुल्यता है दो प्रदेशों में जो अवगाह हैं वे भी तुल्य अवगाहना वाले हैं । एक जघन्यप्रदेशी स्कंध दूसरे जघन्यप्रदेशी स्कंध से स्थिति में चतुःस्थानपतित होता है, वर्ण आदि से तथा शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष स्पर्शों के पर्यायों से षट्स्थान पतित होता है ।

भगवन् ! उत्कृष्टप्रदेशी स्कंधों की पृच्छा ? अर्थात् उत्कृष्टप्रदेशी स्कंधों के कितने पर्याय होते हैं ?

भगवान् उत्तर देते हैं-गौतम ! उत्कृष्टप्रदेशी स्कंधों के अनन्त पर्याय होते हैं ।

गौतम हे-भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा है कि उत्कृष्ट प्रदेशी

धिकता थाय तो ओक प्रदेशनी थछं शकं छे अधिक हीनाधिकतानो स भव थतो नथी जे जे जघन्य प्रदेशी स्कन्ध ओक प्रदेशथी अवगाह छे, तेमा अवगाहनानी दृष्टिओ तुल्यता छे. जे प्रदेशोमा जे अवगाह छे, तेओ पण तुल्य अवगाहना वाजा छे पण ओक जघन्य प्रदेशी स्कन्ध जीना जघन्य प्रदेशी स्कन्धथी स्थितिमा यत्तु स्थान पतित थाय छे वणुं आदिथी तथा शीत, उष्ण, स्निग्ध अने रूक्ष स्पर्शोना पर्यायोथी षट्स्थान पतित छे

हे भगवन् ! उत्कृष्ट प्रदेशी स्कन्धोनी पृच्छा ? अर्थात् उत्कृष्ट प्रदेशी स्कन्धोना केटला पर्याय थाय छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे-हे गौतम ! उत्कृष्ट प्रदेशी स्कन्धोना अनन्त पर्याय थाय छे.

श्री गौतमस्वामी .-हे भगवन् ! शा धारणे ओवु कलु छे के उत्कृष्ट

पञ्जवा पण्णत्ता' हे भदन्त ! तत्-अथ, केनार्थेन-कथं तावद्, एवम्-उत्तरीत्या उच्यते यद्-उत्कृष्टप्रदेशिकानां स्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'उक्कोसपएसिए खंधे उक्कोसपएसियस्स खंधस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले' उत्कृष्टप्रदेशिकः स्कन्धः उत्कृष्टप्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, 'पएसट्ठयाए तुल्ले' प्रदेशार्थतया तुल्यो भवति, 'ओगाहणट्ठयाए चउट्ठानवडिए' अवगाहनार्थतया-अवगाहनापेक्षया चतुःस्थान-पतितो भवति, 'ठिईए चउट्ठानवडिए' स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, 'वण्णाइ अट्ठफासपज्जवेहि य छट्ठानवडिए' वर्णादिभिरण्टस्पर्शपर्यवैश्च षट्स्थानपतितो भवति, 'अजहण्णमणुक्कोसपएसियाणं भंते ! खंधाणं केवइया पज्जवा पण्णत्ता' अजघन्यानुत्कृष्टप्रदेशीकानां भदन्त ! स्कन्धानां क्रियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पण्णत्ता' अजघन्यानुत्कृष्ट-प्रदेशिकानां स्कन्धानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? गौतमः पृच्छति-'से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ-'अजहण्णमणुक्कोसपएसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?'

स्कंधों के अनन्त पर्याय कहे हैं ?

भगवन्-हे गौतम ! उत्कृष्टप्रदेशी एक दूसरे उत्कृष्टप्रदेशी स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है, प्रदेशों अपेक्षा भी तुल्य होता है। अवगाहना की अपेक्षा से चतुःस्थानपतित होता है, स्थिति की अपेक्षा से भी चतुःस्थानपतित होता है, वर्णादि से तथा आठ स्पर्शों के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है।

गौतम-अजघन्य अनुत्कृष्टप्रदेशी स्कंधों के कितने पर्याय हैं ?

भगवन्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं।

गौतम-हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा है कि अजघन्य

प्रदेशी स्कन्धाना अनन्त पर्याय क्ख्हा छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! उत्कृष्ट प्रदेशी ओक्क स्कन्ध थील्ल उत्कृष्ट प्रदेशी स्कन्धथी द्रव्यानी अपेक्षाये तुल्ल्ये होय छे प्रदेशीनी अपेक्षाये पण्ण तुल्ल्ये थाय छे. अवगाहनानी अपेक्षाये अतु स्थान पतित थाय छे स्थितिनी अपेक्षाये पण्ण अतु स्थानपतित थाय छे वर्णादिथी तथा आठ स्पर्शाना पर्यायिथी षट्स्थान पतित थाय छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! अजघन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशी स्कन्धाना केट्ठ्वा पर्याय क्ख्हा छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय क्ख्हा छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! शा कारणे अयं क्खुं छे के अजघन्य

हे भदन्त ! तत् केनार्थेन—रुथं तावद् एनम्—उत्तरीत्या, उच्यते यद्—अजघन्या-
नुत्कृष्टप्रदेशिकानां स्कन्धानामनन्ताः पर्यया प्रज्ञप्ताः ? इति भगवान् आह—
'गोयमा ! हे गौतम ! 'अजहणमणुकोसपएसिए खंधे' अजघन्यानुत्कृष्टप्रदेशिकः
स्कन्धः, 'अजहणमणुकोसपएसियरस खंधस्स दव्वट्टयाए तुल्ले' अजघन्यानुत्कृष्ट-
प्रदेशिकस्य स्कन्धस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, तथा च प्रत्येकं च द्रव्यमनन्त-
पर्यायमितिन्यायेन अजघन्यानुत्कृष्टप्रदेशिकस्कन्धस्यापि द्रव्यत्वेन अनन्तपर्याय
संभवात्, 'पएसट्टयाए छट्ठाणवडिए' प्रदेशार्थतया—प्रदेशापेक्षया पट्स्थानपतितो
भवति, 'ओगाहणट्टयाए चउट्ठाणवडिए' अवगाहनार्थतया—अवगाहनापेक्षया चतुः-
स्थानपतितो भवति, 'ठिईए चउट्ठाणवडिए' स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति,
'वण्णाइ अट्टफासपज्जवेहि य छट्ठाणवडिए' वर्णादिभिः, अट्टस्पर्शपर्यवैश्व पट्-
स्थानपतितो भवति, गौतमः पृच्छति—'जहणोगाहणगाणं भंते ! पोग्गलानं
पुच्छा' हे भदन्त ! जघन्यावगाहनकानाम् एकप्रदेशावगाहनवताम् पुद्गलानां
कियन्तः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम !
'अणंता पज्जवा पणत्ता' जघन्यावगाहनकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्ययाः प्रज्ञप्ताः,

अनुत्कृष्ट (मध्यम) प्रदेशी स्कंधो के अनन्त पर्याय हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! एक मध्यमप्रदेशी स्कंध दूसरे मध्यमप्रदेशी
स्कंध से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है, प्रदेशों की अपेक्षा षट्स्थान
पतित होता है अवगाहना की अपेक्षा चौरथानपतित होता है, स्थिति
की अपेक्षा भी चौस्थानपतित होता है और वर्ण आदि तथा आठ
स्पर्शों की अपेक्षा षट्स्थानपतित होता है ।

गौतम—हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाले पुद्गलों के कितने
पर्याय हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाले पुद्गलों के अनन्त

अनुत्कृष्ट (मध्यम) प्रदेशी स्कन्धाना अनन्त पर्याय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! मध्यम प्रदेशी स्कन्ध भील मध्यम प्रदेशी
स्कन्धथी द्रव्यनी अपेक्षाये तुल्य थाय छे. प्रदेशोनी अपेक्षाये षट्स्थान पतित
थाय छे अवगाहनानी अपेक्षाये चतु स्थान पतित थाय छे स्थितिनी अपे-
क्षाये षण् चतुःस्थान पतित थाय छे अने षण् आदि तथा आठ स्पर्शोनी
अपेक्षाये षट्स्थान पतित थाय छे.

श्री गौतस्वामी—हे भगवन् ! जघन्य अवगाहना वाणा पुद्गलोना केटला
पर्याय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य अवगाहना वाणा पुद्गलोना अनन्त

गौतमः पृच्छति—‘से केगद्वेषं भंते ! एवं बुच्चइ—जहण्णोगाहणमाणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?’ हे भदन्त ! तत् अथ, केनार्थेन—कथं तावद्, एवम्—उत्करीत्या, उच्यते यद्—जघन्यावगाहनकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अहण्णोगाहणए पोग्गले जहण्णो-गाहणगस्स पोग्गलस्स दच्चद्वयाए तुल्ले’ जघन्यावगाहनकः पुद्गलो जघन्या-वगाहनकस्य पुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, ‘पएसद्वयाए छट्ठाणवडिए’ प्रदेशार्थतया—प्रदेशापेक्षया, पट्स्थानपतितो भवति, ‘ओगाहणद्वयाए तुल्ले’ अवगाहनार्थतया—अवगाहनापेक्षया तुल्यो भवति, उभयेयामपि जघन्यावगाहनक-त्वात्, ‘ठिईए चउट्ठाणवडिए’ स्थित्या—अवस्थानापेक्षया चतुस्थानपतितो भवति, ‘वण्णाइ उवरिल्लफासेहि य छट्ठाणवडिए’ वर्णादिभिः उपरितन चतुःस्पर्श-शीतोष्णस्निग्धरूक्षस्पर्शपर्यवैः पट्स्थानपतितो भवति, ‘उक्कोसोगाहणए वि एवं पर्याय हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

भगवान्—हे गौतम ! एक जघन्य अवगाहना वाला पुद्गल दूसरे जघन्य अवगाहना वाले पुद्गल से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है, प्रदेशों की अपेक्षा पट्स्थानपतित होता है, अवगाहना की अपेक्षा तुल्य होता है क्योंकि दोनों ही जघन्य अवगाहना वाले हैं, स्थिति की दृष्टि से चतुःस्थानपतित होता है, वर्णादि की अपेक्षा से तथा ऊपर के चार अर्थात् शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष स्पर्शों की अपेक्षा से पट्स्थानपतित होता है ।

उत्कृष्ट अवगाहना वाले अर्थात् असंख्यातप्रदेशों में अवगाह पुद्गलों के पर्याय भी ऐसे ही समझने चाहिए मगर इसमें विशेषता

पर्याय छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जेषु क्खेवानु शुं प्रथोअन छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जेके जघन्य अवगाहनावाणा पुद्गल जीअ जघन्य अवगाहनावाणा पुद्गलद्वीथी द्रव्यनी अपेक्षाजे तुल्य थाय छे, प्रदेशोनी अपेक्षाजे पट्स्थान पतित थाय छे अवगाहनानी अपेक्षाजे तुल्य थाय छे, केमके अन्ने जघन्य अवगाहना वाणा छे स्थितिनी दृष्टिजे अतु स्थान पतित थाय छे. वर्णादिनी अपेक्षाजे तथा उपरना आर अर्थात् शीत, उष्ण स्निग्ध अने इक्ष स्पर्शोनी अपेक्षाजे पट्स्थान पतित थाय छे.

उत्कृष्ट अवगाहनावाणा अर्थात् असंख्यात प्रदेशोमा अवगाह पुद्गलोना पर्याय पणु जेवाअ समज्जवा जेधंजे, पणु तेमा विशेषता जे छे के जे स्थितिनी

चेव' उत्कृष्टावगाहनकोऽपि असंख्यातप्रदेशावगाहनकः पुद्गलः, एवञ्चैव-जघ-
न्यावगाहनकपुद्गलवदेव विज्ञेयः, किन्तु 'णवरं ठिईए तुल्ले' नवरम्-पूर्वापेक्षया
विशेषस्तु स्थित्या तुल्यो भवति, 'अजहणमणुकोसोगाहणगाणं भते ! पोग्गलाणं
पुच्छा' हे भदन्त ! अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकानां द्विप्रदेशिकादि संख्यातप्रदे-
शपर्यन्तावगाहनवताम् पुद्गलानां क्रियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भग-
वान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणंता पज्जवा पणत्ता' अजघन्यानुत्कृष्टा-
वगाहनकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति-'से केणट्ठेणं
भंते ! एवं वुच्चइ-'अजहणमणुकोसोगाहणगाणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा
पणत्ता ?' हे भदन्त ! तत्-अथ, केनार्थेन-कथं तावद्, एवम्-उत्तरीत्या उच्यते
यद्-अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति,
भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'अजहणमणुकोसोगाहणए पोग्गले' अज-
घन्यानुत्कृष्टावगाहनकः पुद्गलः 'अजहणमणुकोसोगाहणगस्स पोग्गलस्स दव्व-
द्वयाए तुल्ले' अजघन्यानुत्कृष्टावगाहनकस्य पुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति,

यह है कि यह स्थिति की दृष्टि से तुल्य होता है ।

गौतम ! हे भगवन् मध्यम अवगाहनावाले पुद्गलों के कितने पर्याय है ?

भगवान्-हे गौतम ! मध्यम अवगाहनावाले पुद्गलों के अनन्त पर्याय है ।

गौतम-हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा गया है कि मध्यम अवगाहना वाले पुद्गलों के अनन्त हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! मध्यम अवगाहना वाला एक पुद्गल दूसरे मध्यम अवगाहना वाले पुद्गल से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है, प्रदेशों की अपेक्षा षट्स्थानपतित होता है, अवगाहना की अपेक्षा से

दृष्टिसे तुल्य भने छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! मध्यम अवगाहना वाला पुद्गलाना डेटदा पर्याय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! मध्यम अवगाहना वाला पुद्गलाना अनन्त पर्याय छे ?

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! सा कारणे अयेम कडेलु छे के मध्यम अवगाहना वाला पुद्गलाना अनन्त पर्याय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! मध्यम अवगाहना वाला अयेक पुद्गल भील मध्यम अवगाहनावाला पुद्गलथी द्रव्यनी दृष्टिसे तुल्य थाय छे. प्रदेशानी अपेक्षासे षट्स्थान पतित थाय छे. अवगाहनानी अपेक्षासे अतु स्थान पतित

‘पएसद्वयाए छद्वाणवडिए’ प्रदेशार्थतया पटस्थानपतितो भवति, ‘ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिए’ अवगाहनार्थतया-अवगाहनापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, ‘ठिईए चउद्वाणवडिए’ स्थित्या-अवस्थानापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, ‘वण्णाइ अट्टाफासपज्जवेहि य छद्वाणवडिए’ वर्णादिभिः, अष्टस्पर्शपर्यवैश्च पटस्थानपतितो भवति; गौतमः पृच्छति-‘जहण्णठिइयाणं भंते ! पोग्गलाणं पुच्छा’ हे भदन्त ! जघन्यस्थितिकानां पुद्गलानां कियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह-‘गोयमा !’ हे गौतम ? ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ जघन्यस्थितिकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति-‘से केणट्टेण भंते ! एवं बुच्चइ-‘जहण्णठिइयाणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?’ हे भदन्त ! तत्-अथ, केनार्येन-कथं तावद् एवम्-उत्तरोत्त्या, उच्यते यद्-जघन्यस्थितिकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः इति, भगवान् आह-‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णठिईए पोग्गले जहण्णठिइयस्स पोग्गलस्स दव्वद्वयाए तुल्ले’ जघन्यस्थितिकः पुद्गलो जघन्यस्थितिकस्य पुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, प्रत्येकञ्च द्रव्यमनन्तपर्यायमितिन्यायेन जघन्यस्थितिक पुद्गलस्यापि द्रव्यत्वेन अनन्तपर्यायसंभवात् ‘पएसद्वयाए छद्वाणवडिए’ प्रदेशार्थतया-प्रदेशापेक्षया पटस्थानपतितो भवति, ‘ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिए’ अवगाहनार्थतया-अवगाहनापेक्षया चतुःस्थानपतित होता है, स्थिति की अपेक्षा से भी चतुःस्थानपतित होता है, वर्णादि अर्थात् वर्ण, गंध और रस की तथा आठ स्पर्शों की अपेक्षा षट्स्थानपतित होता है ।

गौतम-हे भगवन् ! जघन्य स्थिति वाले पुद्गलो के कितने पर्याय हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं ।

गौतम-हे भगवन् ! ऐसा कहने का कारण है ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्य स्थिति वाला एक पुद्गल दूसरे जघन्य स्थिति वाले पुद्गल से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है, प्रदेशों

‘थाय छे, स्थितिनी अपेक्षाये पण्ण यत्तु स्थान पतित थाय छे, वर्णादि अर्थात् वर्ण’, गंध अने रसनी तथा आठ स्पर्शोंनी अपेक्षाये पटस्थान पतित थाय छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जघन्य स्थितिवाणा पुद्गलोना केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय कला छे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जेपु कडेवातु शु कारणु छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य स्थितिवाणा जेठ पुद्गल पीण जघन्य स्थितिवाणा पुद्गलथी द्रव्यनी दृष्टिजे तुल्य थाय छे. प्रदेशानी दृष्टिजे षट्स्थान

चतुःस्थानपतितो भवति, 'ठिईए तुल्ले' स्थित्या तुल्यो भवति, 'घण्णाइ अट्ट-
 फासपज्जवेहि य छट्ठाणवडिए' वर्णादिभिः, अष्टस्पर्शपर्यवैश्च षट्स्थानपतितो
 भवति, 'एवं उक्कोसठिईए वि' एदम्-जघन्यस्थितिकपुद्गलवदेव उत्कृष्टस्थिति-
 कोऽपि पुद्गलोऽवगन्तव्यः, 'अजहण्णमणुक्कोसठिईए वि एवं चेव' अजघन्यानु-
 त्कृष्टस्थितिकोऽपि पुद्गलः, एवञ्चैव-जघन्यस्थितिकपुद्गलवदेव वक्तव्यः, किन्तु
 'णवरं ठिईए वि चउट्ठाणवडिए' नररम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थित्यापि-चतुः-
 स्थानपतितो भवति, गौतमः पृच्छति-'जहण्णगुणकालयाणं भते ! पोग्गलाणं
 केवइया पज्जवा पणत्ता ?' हे भदन्त ! जघन्यगुणकालकानां पुद्गलानां कियन्तः
 पर्यवा प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'अणंता
 पज्जवा पणत्ता ?' जघन्यगुणकालकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ?
 गौतमः पृच्छति-'से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ-जहण्णगुणकालयाण पोग्गलाणं

की दृष्टि से षट्स्थानपतित होता है, अवगाहना की दृष्टि से चौस्थान
 पतित होता है, स्थिति की अपेक्षा से तुल्य है, वर्ण आदि से तथा
 आठ स्पर्शों के पर्यायों से षट्स्थानपतित होता है । उत्कृष्ट स्थिति
 वाले पुद्गल की प्ररूपणा भी इसी प्रकार करनी चाहिए और मध्यम
 स्थिति वाले पुद्गल का कथन भी इसी प्रकार समझना चाहिए, मगर
 मध्यम स्थिति वाले पुद्गल में विशेषता यह है स्थिति की दृष्टि से वह
 चतुःस्थानपतित होता है ।

गौतम-हे भगवन् ! जघन्यगुण काले पुद्गलों के कितने पर्याय हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय हैं ।

गौतम-हे भगवन् ! किस कारण ऐसा कहा गया कि जघन्यगुण

पतित थाय छे, अवगाहनानी दृष्टिअे आर स्थान पतित थाय छे, स्थितिनी
 अपेक्षाअे तुल्य छे, वर्णुं आदिथी तथा आठे स्पर्शांना पर्यायिथी षट्स्थान
 पतित थाय छे. उत्कृष्ट स्थितिवाणा पुद्गलानी प्ररूपणा पणु अेण प्रकारे करणी
 जेधअे अने मध्यम स्थितिवाणा पुद्गलवतु कथन पणु अेण प्रकारे समज्जवु
 जेधअे, पणु मध्यम स्थितिवाणा पुद्गलौमा विशेषता अे छे के स्थितिनी
 दृष्टिअे ते चतुःस्थान पतित थाय छे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जघन्य शुभ्र काला पुद्गलौना केटवा
 पर्याय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् शा कारणे अेषु कडेहु छे के जघन्य शुभ्र

‘पएसद्वयाए छट्टाणवडिए’ प्रदेगार्थतया पट्स्थानपतितो भवति, ‘ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिए’ अवगाहनार्थतया-अप्रगाहनापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, ‘ठिईए चउट्टाणवडिए’ स्मिन्या-अप्रस्थानापेक्षया चतुःस्थानपतितो भवति, ‘वण्णाइ अट्टफासपज्जवेट्टि य छट्टाणवडिए’ वर्णादिभिः, अष्टस्पर्शपर्यवैत्र पट्स्थानपतितो भवति; गौतमः पृच्छति-‘जहण्णठिइयाणं भंते ! पोग्गलाणं पुच्छा’ हे भदन्त ! जघन्यस्थितिकानां पुद्गलानां क्रियन्तः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः ? नि पृच्छा, भगवान् आह-‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणंता पज्जवा पण्णत्ता’ जघन्यस्थितिकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति-‘से केणट्ठेण भंते ! एवं बुच्चइ-‘जहण्णठिइयाणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?’ ह भदन्त ! तत्-अथ, केनार्थेन-कथं तावद् एवम्-उक्तरीत्या, उच्यते यद्-जघन्यस्थितिकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः इति, भगवान् आह-‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णठिईए पोग्गले जहण्णठिइयस्स पोग्गलस्सा दव्वद्वयाए तुल्ले’ जघन्यस्थितिकः पुद्गलो जघन्यस्थितिकस्य पुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, प्रत्येकञ्च द्रव्यमनन्तपर्यायमितिन्यायेन जघन्यस्थातक पुद्गलस्यापि द्रव्यत्वेन अनन्तपर्यायसंभवात् ‘पएसद्वयाए छट्टाणवडिए’ प्रदेगार्थतया-प्रदेगापेक्षया पट्स्थानपतितो भवति, ‘ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिए’ अवगाहनार्थतया-अवगाहनापेक्षया चतुःस्थानपतित होता है, स्थिति की अपेक्षा से भी चतुःस्थानपतित होता है, वर्णादि अर्थात् वर्ण, गंध और रस की तथा आठ स्पर्शों की अपेक्षा पट्स्थानपतित होता है।

गौतम-हे भगवन् ! जघन्य स्थिति वाले पुद्गलो के कितने पर्याय हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय कहे हैं।

गौतम-हे भगवन् ! ऐसा कहने का कारण है ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्य स्थिति वाला एक पुद्गल दूसरे जघन्य स्थिति वाले पुद्गल से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य होता है, प्रदेशों

थाय छे, स्थितिनी अपेक्षाअे पण्ण चतुःस्थान पतित थाय छे, वर्णादि अर्थात् वर्ण, गंध अने रसनी तथा आठ स्पर्शोंनी अपेक्षाअे पट्स्थान पतित थाय छे.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जघन्य स्थितिवाला पुद्गलौना केटला पर्याय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! अनन्त पर्याय कथा छे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! अेषु कडेवातु शु कारणु छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य स्थितिवाला अेक पुद्गल भील जघन्य स्थितिवाला पुद्गलथी द्रव्यनी दृष्टिअे तुल्य थाय छे. प्रदेशनी दृष्टिअे पट्स्थान

बुद्ध-‘जहणमणुकालयाणं पोगमलाणं अणता पज्जवा पणत्ता’ हे गौतम ! तत् अथ तेनार्थेन एवम्-उत्तरीत्या, उच्यते यद्-जघन्यगुणकालकानां पुद्गलानामनन्ताः पर्यायाः प्रज्ञप्ताः, ‘एवं उक्कोसगुणकाल ए वि’ एवम्-जघन्यगुणकालकपुद्गलवदेव उत्कृष्टगुणकालकोऽपि पुद्गलो वक्तव्यः, ‘अजहणमणुकोसगुणकाल ए वि एवं चेव’ अजघन्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि पुद्गलः, एवञ्चैव-जघन्यगुणकालकपुद्गलवदेव वक्तव्यः, किन्तु ‘णवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिण्’ नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्वस्थाने स्वस्थानापेक्षया पटस्थानपतितो भवति ‘एवं जहा कालवण्णपज्जवाणं वत्तव्वया भणिया तथा सेसाण वि वण्णगंधरसफासाणं वत्तव्वया भणियव्वा’ एवम्-पूर्वोत्तरीत्या, यथा कृष्णवर्णपर्यावानां वक्तव्यता भणिता तथा शोषाणामपि वर्णगन्धरसस्पर्शानाम् वक्तव्यता भणितव्या, ‘जाव अजहणमणुक्कोसलुक्खे’ यावद्-जघन्यरूप उत्कृष्टरूप अजघन्यानुत्कृष्टरूपपर्यन्तानां वक्तव्यता

अब प्रस्तुत प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं- गौतम ! इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि जघन्यगुण काले पुद्गलों के अनन्त पर्याय कहे गए हैं

इसी प्रकार उत्कृष्टगुण काले पुद्गल की वक्तव्यता समझना चाहिए । मध्यमगुण काले पुद्गल का कथन भी ऐसा ही है अर्थात् जघन्यगुण के सदृश ही है । विशेषता यह है कि मध्यमगुण काला स्वस्थान में भी षट्स्थानपतित होता है, अर्थात् एक मध्यमगुण काले पुद्गल से दूसरे मध्यमगुण काले पुद्गल में कृष्णवर्ण की अनन्तभाग एवं अनन्तगुण हीनता और अधिकता भी हो सकती है क्योंकि मध्यमगुण के अनन्त विकल्प हैं ।

कृष्ण वर्ण की वक्तव्यता के समान ही शोष वर्णों की, गंधों की,

हुवे प्रस्तुत प्रकरणेन। उपसंहार कर्ता भगवान् कहे छे-हे गौतम ! आ कामल्ले ओपु कडेवाय छे के जघन्य शुष्ण काणा पुद्गलाना अनन्त पर्याय कडेवायेदा छे.

अब प्रकारे उत्कृष्ट शुष्ण काणा पुद्गलानी वक्तव्यता पणु समज्जवी नेधंअे मध्यम शुष्ण काणा पुद्गलानु कथन पणु ओपु ज छे अर्थात् जघन्य शुष्णाना सदृश ज छे. विशेषता अे छेके मध्यम शुष्ण काणा स्वस्थानमा पणु षट्स्थान पतित थाय छे, अर्थात् अेके मध्यम शुष्ण काणा पुद्गलथी भीअ मध्यम शुष्ण काणा पुद्गलमा कृष्ण वर्णानी अनन्त भाग तेमज्ज अनन्त शुष्ण हीनता अने अधिकता पणु थध शके छे, केअके मध्यम शुष्णाना अनन्त विकल्प छे.

अर्णता पञ्जचा पण्णत्ता' हे भदन्त ! तत्-अथ, केनार्थेन-कथं तावद्, एवम्-उक्तरीत्या, उच्यते यद्-जघन्यगुणकालकाना पुद्गलानामनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः? इति, भगवान् आह-'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहण्णगुणकालए पोग्गले' जघन्यगुणकालकःपुद्गलः 'जहण्णगुणकालयस्स पोग्गलस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले' जघन्यगुणकालकस्य पुद्गलस्य द्रव्यार्थतया तुल्यो भवति, प्रत्येकञ्च द्रव्यमनन्तपर्यायमिति नियमेन जघन्यगुणकालकस्य पुद्गलस्यापि द्रव्यत्वेन अनन्तपर्यायसंभवात्, 'पएसट्ठयाए छट्ठाणवडिए' प्रदेशार्थतया-प्रदेशापेक्षया पटस्थानपतितो भवति, 'ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए' अवगाहनार्थतया-अवगाहनापेक्षया चतुस्थानपतितो भवति, 'ठिईए चउट्ठाणवडिए' स्थित्या चतुःस्थानपतितो भवति, 'कालवण्णपज्जवेहि तुल्ले' कृष्णवर्णपर्यवस्तुल्यो भवति उभयेषामपि जघन्यगुण कृष्णवर्णसद्भावात्, 'अवसेसेहि वण्णगंधरसफासपज्जवेहि य छट्ठाणवडिए' अशेषैः वर्णगन्धरसस्पर्शपर्यवैश्च पटस्थानपतितो भवति, प्रकृतमुपसंहरन्नाह-'से तेणट्ठेण गोयमा ! एवं काले पुद्गल्लो के अनन्त पर्याय हे ?

भगवान्-हे गौतम ! एक जघन्यगुण काला पुद्गल दूसरे जघन्य गुण काले पुद्गल से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य होता है क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अनन्त पर्याय वाला होता है, इस नियम के अनुसार जघन्यगुण काला पुद्गल भी द्रव्य होने के कारण अनन्त पर्याय वाला है। जघन्य गुण काला पुद्गल दूसरे जघन्यगुण काले पुद्गल से प्रदेशों की अपेक्षा पटस्थापपतित होता है। अवगाहना की अपेक्षा से चतुस्थानपतित होता है और स्थिति को अपेक्षा से पटस्थानपतित होता है। कृष्ण वर्ण के पर्यायों से तुल्य होता है, क्योंकि दोनों जघन्यगुण अर्थात् कम से कम अंश वाले कृष्ण वर्णवान् हैं। शेष वर्णों, गंधों, रसों और स्पर्शों के पर्यायों की अपेक्षा पटस्थानपतित होता है।

काणा पुद्गलाना अनन्त पर्याय छे ?

श्री लघवान्-हे गौतम ! एक जघन्य शुष्ण काणा पुद्गल जील जघन्य शुष्ण काणा पुद्गलथी द्रव्यणी अपेक्षाये तुल्य थाय छे केमके प्रत्येक द्रव्य अनन्त पर्यायवाणु थाय छे, ये नियमानुसार जघन्य शुष्ण काणा पुद्गल पणु द्रव्य डोवाना कारुण्ये अनन्त पर्यायवाणा छे. जघन्य शुष्ण काणा पुद्गल जील जघन्य शुष्ण काणा पुद्गलथी प्रदेशानी अपेक्षाये पटस्थान पतित थाय छे. अवगाहनानी अपेक्षाये चतुस्थान पतित थाय छे अने स्थितिनी अपेक्षाये पणु पटस्थान पतित थाय छे. कृष्ण वर्णना पर्यायथी तुल्य थाय छे केमके अने जघन्य शुष्ण अर्थात् जोछामा जोछा अशवाणा कृष्ण वर्णवान् छे शेष वर्णो गंधो, रसो अने स्पर्शानी पर्यायानी अपेक्षाये पटस्थान पतित थाय छे.

बुद्धि-‘जहणगुणकालयाणं पोग्गलाणं अणता पज्जवा पण्णात्ता’ हे गौतम ! तत्
 अथ तेनार्थेन एवम्-उत्तरीत्या, उच्यते यद्-जघन्यगुणकालकानां पुद्गलाना-
 मनन्ताः पर्यवाः प्रज्ञप्ताः, ‘एवं उक्कोसगुणकालए वि’ एवम्-जघन्यगुणकालक
 पुद्गलवदेव उत्कृष्टगुणकालकोऽपि पुद्गलो वक्तव्यः, ‘अजहणमणुक्कोसगुणकालए
 वि एवं चेव’ अजघन्यानुत्कृष्टगुणकालकोऽपि पुद्गलः, एवञ्चैव-जघन्यगुणकालक-
 पुद्गलवदेव वक्तव्यः, किन्तु ‘णवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए’ नवरम्-पूर्वापेक्षया विशे-
 पस्तु स्वस्थाने स्वस्थानापेक्षया षट्स्थानपतितो भवति ‘एवं जहा कालवण्ण-
 पज्जवाणं वत्तव्वया मणिया तथा सेसाण वि वण्णगंधरसफासाणं वत्तव्वया भाणि-
 यव्वा’ एवम्-पूर्वोत्तरीत्या, यथा कृष्णवर्णपर्यवानां वक्तव्यता भणिता तथा
 शेषाणामपि वर्णगन्धरसस्पर्शानाम् वक्तव्यता भणितव्या, ‘जाव अजहणमणुक्को-
 सलुक्खे’ यावद्-जघन्यरूक्ष उत्कृष्टरूक्ष अजघन्यानुत्कृष्टरूक्षपर्यन्तानां वक्तव्यता

अब प्रस्तुत प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान् कहते हैं-
 गौतम ! इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि जघन्यगुण काले
 पुद्गलों के अनन्त पर्याय कहे गए हैं

इसी प्रकार उत्कृष्टगुण काले पुद्गल की वक्तव्यता समझना
 चाहिए। मध्यमगुण काले पुद्गल का कथन भी ऐसा ही है अर्थात्
 जघन्यगुण के सदृश ही है। विशेषता यह है कि मध्यमगुण काला
 स्वस्थान में भी षट्स्थानपतित होता है, अर्थात् एक मध्यमगुण काले
 पुद्गल से दूसरे मध्यमगुण काले पुद्गल में कृष्णवर्ण की अनन्तभाग
 एवं अनन्तगुण हीनता और अधिकता भी हो सकती है क्योंकि
 मध्यमगुण के अनन्त विकल्प हैं।

कृष्ण वर्ण की वक्तव्यता के समान ही शेष वर्णों की, गंधों की,

इवे प्रस्तुत प्रकण्ठने। उपसहार करता भगवान् कडे छे-हे गौतम !
 आ कामणे अेवु कडेवाय छे के जघन्य शुष्ण काणा पुद्गलाना अनन्त पर्याय
 कडेवायेला छे

अेव प्रकारे उत्कृष्ट शुष्ण काणा पुद्गलानी वक्तव्यता पणु समजवी जेधंअे
 मध्यम शुष्ण काणा पुद्गलतु कथन पणु अेवु ज छे अर्थात् जघन्य शुष्णना
 सदृश ज छे. विशेषता अे छेके मध्यम शुष्ण काणा स्वस्थानमा पणु षट्स्थान
 पतित थाय छे, अर्थात् अेक मध्यम शुष्ण काणा पुद्गलथी णीज मध्यम शुष्ण
 काणा पुद्गलमा कृष्ण वर्णनी अनन्त लाग तेमज अनन्त शुष्ण हीनता अने
 अधिकता पणु थधं शके छे, केमके मध्यम शुष्णना अनन्त विकल्प छे.

भणितव्या, 'सद्वाणे छद्वाणवडिण' स्वस्थानापेक्षया पटस्थानपत्नितो भवति, 'से चं रूवि अजीवपज्जवा' ते एते-उपर्युक्ता अजीवर्ययाः प्रज्ञप्ताः-प्रतिपादिताः 'इति षण्णवणाए भगवईए विसेमपर्यं समत्तं' इति प्रज्ञापनायां भगवत्यां पञ्चम-पर्यायपदं समाप्तम् ॥सू० १६॥

इतिश्री विश्वविख्यात-जगद्गुरु-प्रसिद्धवाचस्पत्यश्रद्धाभाषाकल्पित-ललित कलापालापकप्रविशुद्धगद्यापद्यानेऽग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-श्री-शाहू छत्रपतिकोल्हापुरराजप्रदत्त-'जैनशास्त्राचार्य'-पदविभूषित-कोल्हापुरराजगुरु-बालब्रह्मचारि जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्री-घासीलाल-व्रतिविरचिताया श्री प्रज्ञापना-सूत्रस्य प्रमेयबोधिनिव्याख्यायां व्याख्यायां

॥ पञ्चमं पर्यायपदं समाप्तम् ॥

रसों की और स्पर्शों की वक्तव्यता भी समझलेना चाहिए, और मध्यम गुण रूक्ष स्पर्श तक इसी प्रकार कह लेना चाहिए । मध्यमगुण वाले सभी वर्णोंदि स्वस्थान में भी पटस्थानपतित होते हैं ।

यह स्त्री अजीवों की वक्तव्यता हुई और साथ ही अजीव पर्यायों की वक्तव्यता पूर्ण हुई अगवती प्रज्ञापना का विशेषपद समाप्त ॥

श्री जैनचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्यश्री घासीलाल व्रतिविरचित
प्रज्ञापना सूत्र की प्रमेयबोधिनि व्याख्या में
॥ पांचवां पर्याय पद समाप्त ॥

कृष्ण वर्णुनी वक्तव्यतानी समाने शेष वर्णुनी, ग घोनी, रसोनी अने स्पर्शोनी वक्तव्यता पणु समल देवी नेधये, अने मध्यम गुणु रूक्ष स्पर्श सुधी अने प्रकारे कहेतु नेधये मध्यम गुणु वाणा यथा वर्णुदि स्वस्थानमा पणु पटस्थान पतित थाय छे

आ इपी अणुवोनी वक्तव्यता थध अने साथे न अणुव पर्यायोनी वक्तव्यता पणु पूर्ण थध.

श्री जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्यश्री घासीलालव्रतिविरचित प्रज्ञापना सूत्रनी प्रमेयबोधिनी टीकातु पायत्रु पर्यायपद समाप्त

॥ अगवती प्रज्ञापनातु विशेष पद समाप्त ॥



अथ पष्ठ पदं प्रारभ्यते
अधिकारविषय संग्रहणीगाथा—

मूलम्—बारस चउवीसाइं सअंतरं एगसंसयकत्तोयं ।

उव्वहण परभवियाउयंच अट्टेव आगरिसा ॥१॥

छाया—द्वादश चतुर्विंशतिः, सान्तरम्, एक समये कृतम् ।

उद्वर्तना, पारभविकायुक्ञ्च अष्टावेव आकर्षा ॥ १ ॥

टीका—पञ्चमे पदे औदयिकक्षयोपशमिकक्षायिकभावाश्रयः पर्यायपरिणामनिर्णयः कृतः, अथ पष्ठे पदे औदयिक क्षायोपशमिकविषयान् प्राणिनामुपपातोद्वर्तनादीन् प्ररूपयितुं प्रथममादौ विषय (अधिकार) संग्रहणीगाथा माह—बारस चउवीसाइं स अंतरं एगसंसयकत्तोयं । उव्वहण परभविया उयंच अट्टेव आगरिसा ॥ १ ॥ इति तत्र प्रथमं सामान्येन नरकादिगतिषु उप-

षष्ठ पद

अधिकारसंग्रहणी गाथा का शब्दार्थ

(बारस) बारह (चउवीसाइं) चौबीस (सअंतरं) अन्तरसहित (एग समय) एक समय (कत्तो य) कहाँ से ? (उव्वहण) उद्वर्तना (परभवियाउयं च) और परभव संबंधी आयु (अट्टेव आगरिसा) ठ आकर्ष ॥ १ ॥

टीकार्थ—पंचम पद में औदयिक, क्षायोपशमिक और क्षारि भाव के निमित्त से होने वाले जीव के पर्यायों का निरूपण किया गया है। इस छठे पद में कर्मों के उदय तथा क्षयोपशम से होने वाले प्राणियों के उपपात, उद्वर्तन आदि की प्ररूपणा करने के लिए प्रारंभ में विषयसंग्रहणीगाथा कहते हैं—इस पद में पहले

छट्ठुं पद

अधिकार संग्रहणी गाथानो अर्थ

शब्दार्थ—(बारस) बार (चउवीसाइ) चौबीस (सअंतर) अन्तर सहित (एगसमय) एक समय (कत्तोय) कहां से (उव्वहणा) उद्वर्तना (परभवियाउ च) अने परभव संबंधी आयु (अट्टेव आगरिसा) आठ आकर्ष ॥ ११

टीकार्थ—पाचमा पदमां औदयिक क्षयोपशमिक अने क्षायिक भावना निमित्तथी यथावाणा एवना पर्यायेतु निरूपणु करवामा आयुं छे. आ छट्ठुं पदमा कर्मोना उदय तथा क्षयोपशमथी यथावाणा प्राणियोना उपपात उद्वर्तना विगेशनी प्ररूपणु करवा भाटे प्रारभमा विषय संग्रहणी गाथा कहे छे.

आ पदमा पडेदा सामान्यपणुथी नरकादि गतियोमा उपपात अने

पातविरहस्य च उद्वर्तनाविरहस्य च चारसं द्वादशमुहूर्ताः प्रमाणं वक्तव्यम्, तदनन्तररत्नप्रभादि नैरयिकादिभेदेषु उपपातविरहस्य उद्वर्तनाविरहस्य च 'चउवीसाई' चतुर्विंशति मुहूर्ताः नरकादिगतिषु प्रत्येकं वक्तव्याः, तदनन्तरम् 'स अंतरं' सान्तरम् स व्यवधानम् नैरयिकादयः समुत्पद्यन्ते, निरन्तरञ्च—अव्यवधानम् चापि नैरयिकादयः उत्पद्यन्ते इति वक्तव्यम् तदनन्तरम् 'एगसमग' एकसमयेन नैरयिकादयः प्रत्येकं कियन्तः उत्पद्यन्ते, कियन्तो वा उद्वर्तन्ते ? इति प्ररूपणीयम्, तदनन्तरम्—'फत्तोय' कुतश्च स्थानाद्भवाद्वा नैरयिकादय उत्पद्यन्ते ? इति निरूपणीयम्, तदनन्तरम् 'उव्वहणा' नरकाद् उद्वृत्ताः सन्तो नैरयिकादयः कुत्र उत्पद्यन्ते ? इति प्रतिपादनीयम्, तदनन्तरम् 'परभधियाउयंच' कियद् भागाव-

सामान्य रूप से नरकादि गतियों में उपपात और उद्वर्तना के विरह को चारह मुहूर्त का प्रमाण कहा जाएगा, तत्पश्चात् रत्नप्रभा आदि नारकभूमियों में उपपातविरह एवं उद्वर्तनाविरह के चौबीस मुहूर्त कहे जाएँगे। तत्पश्चात् यह निरूपण किया जाएगा कि नारक आदि सान्तर अर्थात् व्यवधानसहित भी उत्पन्न होते हैं और निरन्तर (लगातार) भी उत्पन्न होते हैं। फिर यह बतलाया जाएगा कि आदि एक समय में कितने नारकों आदि का उपपात और उद्वर्तन होता है ? तदनन्तर यह प्ररूपण किया जाएगा कि नारक आदि किस स्थान से या किस भव से उत्पन्न होते हैं ? उसके बाद नारक आदि निकल कर कहाँ उत्पन्न होते हैं ? इसकी प्ररूपणा की जाएगी तत्पश्चात् यह कहेंगे कि वर्त्तमान भव की कितनी आयु शेष रहने पर नारक आदि आगामी भव की आयु का बन्ध करते हैं ?

उद्वर्तनाना विरहने भार मुहुर्तानुं प्रभाषु कडेवामा आवशे ते पछी रत्नप्रभा विगेरे नारक भूमिथेमा उपपात विरह अने उद्वर्तनाना चोवीस मुहुर्त कडेवामा आवशे ते पछीथी नारक विगेरे मातर अर्थात् व्यवधान सहित पञ्च उत्पन्न थाय छे, अने निरन्तर (लागठ) पञ्च उत्पन्न थाय छे. ओतु निरपञ्च कराशे. ते पछी ओ जताववामा आवशे के—ओक समथमा डेटवा नारक विगेरेना उपपात अने उद्वर्तना थाय छे ? ते पछी ओ प्ररूपणु करावामा आवशे के नारक विगेरे क्या स्थानेथी अगर क्या लवथी उत्पन्न थाय छे ? ते पछी नारक आदिमाथी नीकणीने क्या उत्पन्न थाय छे ? ते प्ररूपणु कराशे ते पछी ओ कडेवामा आवशे के वर्त्तमान लवनी डेटवी आयु पाकी रहे तयारे नारक विगेरे आगामी लवनी आयुने अन्ध करे छे ? छेवटे वधारेमा वधारे डेटवा

शेषेऽनुभूयमानवर्तमान भवायुष नैरयिकादयो जीवाः पारभविकायुष्कञ्च-पर-
भवसम्बन्धि आयुष्यं बध्नन्ति ? इति वक्तव्यम्, तदनन्तरम्-‘अद्वेव आगरिसा’
कियद्भिराकर्षैरुत्कृष्टेन नैरयिकादय आयुर्वन्धका भवन्तीति जिज्ञासायाम्
अष्टावैव आकर्षा वक्तव्या इति गाथा संक्षेपार्थः ।

उपपातोद्वर्तनावक्तव्यता—

मूलम्—निरयगईणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववा-
एणं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं
बारसमुहुत्ता, तिरियगईणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उव-
वाएणं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एणं समयं उक्कोसेणं
बारसमुहुत्ता, मणुयगईणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववा-
एणं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एणं समयं उक्कोसेणं
बारसमुहुत्ता, देवगईणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववा-
एणं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एणं समयं उक्कोसेणं बार-
समुहुत्ता, सिद्धिगईणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया सिद्धि-
णाए पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एणं समयं उक्कोसेणं
छम्मासा, निरयगईणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववट्टणाए
पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं बारस-
मुहुत्ता, तिरियगईणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उवट्टणाए
पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एणं समयं, उक्कोसेणं बारस-
मुहुत्ता, मणुयगईणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उवट्टणाए
पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एणं समयं उक्कोसेणं बारस-
मुहुत्ता, देवगईणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववट्टणाए

अन्त में अधिक से अधिक कितने आकर्षों द्वारा नारक आदि आयु
का बन्ध करते हैं ? इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर आठ आकर्ष
कहे जाएँगे । यह संग्रहिणीगाथा का संक्षेप में अर्थ यहा गया ।

आकर्षों द्वारा नारक आदिना आयुनो बध करे छे ? आ प्रभाषेनी ज्ञासा
थवाथी आठ आकर्ष कडेवाभा आवशे आ रीते आ संग्रहणी गाथानो संक्षेपथी
अर्थ कडेवाभा आये छे.

પણ્ણત્તા ? ગોયમા ! જહ્ણ્ણેણં ઇમં સમયં, ઉક્કોસેણં વારસ-
મુહુત્તા, દારં ॥સૂ૦ ૧॥

છાયા-નિરયગતિઃ સ્વલ્લ મદન્ત ? કિયન્તં કાલં વિરહિતા ઉપપાતેન પ્રજ્ઞા
હે ગૌતમ ! જઘન્યેન ઇકં સમયમ્, ઉત્કૃષ્ટેન દ્વદશમુહૂર્તાન્, તિર્યગ્ગતિઃ સ્વલ્લ
મદન્ત ! કિયન્તં કાલં વિરહિતા ઉપપાતેન પ્રજ્ઞા ? હે ગૌતમ ! જઘન્યેન ઇકં
સમયમ્ ઉત્કૃષ્ટેન દ્વાદશ મુહૂર્તાન્ મનુષ્યગતિઃ સ્વલ્લ મદન્ત ! કિયન્તં કાલં

ઉપપાત-ઉદ્વર્તના-વક્તવ્યતા

શબ્દાર્થ-(નિરયગઈ) નરકગતિ (ળં) વાક્યાલંકાર (મંતે !) હે ભગ-
વન્ ! (કેવહ્યં) કિતને (કાલ) કાલતક (વિરહિયા) રહિત (ઉવવા-
ણં) ઉપપાત સે (પણ્ણત્તા) કહી ગઈ ? (ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (જહ-
ણ્ણેણં) જઘન્ય અર્થાત્ કમ સે કમ (ઇકં સમયં) ઇક સમય તક
(ઉક્કોસેણં વારસ મુહુત્તા) અધિક સે અધિક વારહ મુહૂર્તતક

(તિરિયગઈ ણં મંતે ! કેવહ્યં કાલં વિરહિયા ઉવવાણં પણ્ણત્તા ?)
હે ભગવન્ ! તિર્યચગતિ કિતને કાલ તક ઉપપાત સે રહિત કહી ગઈ હૈ ?
(ગોયમા ! જહ્ણ્ણેણં ઇમં સમય ઉક્કોસેણં વારસ મુહુત્તા) હે ગૌતમ !
જઘન્ય ઇક સમય, ઉત્કૃષ્ટ વારહ મુહૂર્ત તક

(મણુયગઈ ણં મંતે ! કેવહ્યં કાલં વિરહિયા ઉવવાણં પણ્ણત્તા ?)
હે ભગવન્ ! મનુષ્યગતિ કિતને કાલ તક ઉપપાત સે રહિત કહી ગઈ
હૈ ? (ગોયમા ! જહ્ણ્ણેણં ઇમં સમય ઉક્કોસેણં વારસ મુહુત્તા) હે

ઉપપાત ઉદ્વર્તના—વક્તવ્યતા

શબ્દાર્થ-(નિરય ગઈ) નરક ગતિ (ળં) વાક્યાલંકાર (મંતે !) ભગવન્ !
(કેવહ્યં) કેટલા (કાલ) કાળ સુધી (વિરહિયા) રહિત (ઉવવાણં) ઉપપાતથી
(પણ્ણત્તા) કહેવાઈ છે (ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (જહ્ણ્ણેણં) જઘન્ય અર્થાત્ ઓછામાં
ઓછા (ઇકં સમયં) ઇક સમય સુધી (ઉક્કોસેણં વારસ મુહુત્તા) અધિકથી અધિક
બાર મુહૂર્ત સુધી

(તિરિયગઈ ણં મંતે ! કેવહ્યં કાલં વિરહિયા ઉવવાણં પણ્ણત્તા ?) હે ભગવન્ !
તિર્યચગતિ કેટલા સમય સુધી ઉપપાતથી રહિત કહેવામાં આવી છે (ગોયમા !
જહ્ણ્ણેણં ઇમં સમય ઉક્કોસેણં વારસ મુહુત્તા) હે ગૌતમ ! જઘન્ય ઇક સમય,
ઉત્કૃષ્ટ બાર મુહૂર્ત સુધી

(મણુયગઈ ણં મંતે ! કેવહ્યં કાલં વિરહિયા ઉવવાણં પણ્ણત્તા) હે ભગવન્ !
મનુષ્ય ગતિ કેટલા કાળ સુધી ઉપપાતથી રહિત કહેલી છે ? (ગોયમા ! જહ-
ણ્ણેણં ઇમં સમય ઉક્કોસેણ વારસ મુહુત્તા) હે ગૌતમ ! જઘન્ય ઇક સમય ઉત્કૃષ્ટ

विरहिता उपपातेन प्रज्ञप्ता ? हे गौतम ! जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन द्वादश
मुहूर्तान् देवगतिः खलु भदन्त ! कियन्तं कालं विरहिता उपपातेन प्रज्ञप्ता ?
हे गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन द्वादशमुहूर्तान् सिद्धगतिः खलु
भदन्त ! कियन्तं कालं विरहिता सिद्ध्या प्रज्ञप्ता ! हे गौतम ! जघन्येन एकं
समयम् उत्कृष्टेन षड्मासान् निरयगतिः खलु भदन्त ! कियन्तं कालं विरहिता
उद्वर्तनया प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन द्वादश मुहूर्तान्,

गौतम ! जघन्य एक समय तक, उत्कृष्ट बारह मुहूर्त्त तक

(देवगई णं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?)
हे भगवन् ! देवगति कितने काल तक उपपात से रहित कही गई है ?
(गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता) हे गौतम !
जघन्य एक समय तक, उत्कृष्ट बारहमुहूर्त्त तक

(सिद्धगई णं भंते ! केवइयं कालं विरहिया सिद्धिणाए पणत्ता ?)
हे भगवन् ! सिद्धगति कितने काल तक सिद्धि से रहित कही गई
है ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं छम्मासा) हे गौ !
जघन्य एक समय तक, उत्कृष्ट छहमहीनों तक

(निरयगई णं भंते केवइयं कालं विरहिया उव्वट्टणाए पणत्ता ?)
हे भगवन् ! निरयगति कितने काल तक उद्वर्त्तना से रहित कही गई
है ? (गोयमा ! जहण्णेणं एकं समय उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता)
हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट बारह मुहूर्त्त (तिरियगई णं

भार मुहुत्तं सुधी

(देवगईणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?) हे भगवन् !
देव गति केटवा काण सुधी उपपातथी रहित कही छे ? (गोयमा ! जहण्णेण
एगं समयं उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य एक समय उत्कृष्ट
भार मुहुत्तं सुधी

(सिद्ध गईणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया सिद्धिणाए पणत्ता ?) हे भगवन् !
सिद्ध गति केटवा काण सुधी सिद्धिथी रहित कहेवी छे ? (गोयमा ! जहण्णेण
एगं समयं उक्कोसेणं छम्मासा) हे गौतम ! जघन्य एक समय सुधी, उत्कृष्ट
छ महीना सुधी

(निरयगईणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उव्वट्टणाए पणत्ता ?) हे भगवन् !
नरक गति केटवा समय सुधी उद्वर्त्तनाथी रहित कहेवाथ छे ? (गोयमा ! जह-
ण्णेण एकं समयं, उक्कोसेण वारस मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य एक समय,
उत्कृष्ट भार मुहुत्तं

तिर्यग्गतिः खलु भदन्त । कियन्त कालं विरहिता उद्वर्तनया प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन द्वादश मुहूर्तान् मनुष्यगतिः खलु भदन्त ! कियन्तं कालं विरहिता उद्वर्तनया प्रज्ञप्ता ! गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन द्वादश मुहूर्तान्, देवगतिः खलु भदन्त ! कियन्तं कालं विरहिता उद्वर्तनया प्रज्ञप्ता ? गौतम ! जघन्येन एक समयम् उत्कृष्टेन द्वादश मुहूर्तान् ।

टीका—अथ उपर्युक्त सग्राहक गार्थार्थमेव क्रमेण विशदयितुमाह—‘निरयग-ईणं भन्ते ! केवइयं कालं विरहिया उववायेणं पण्णत्ता ? गौतमः पृच्छति-हे

भन्ते ! केवइय काल विरहिया उव्वट्टणाए ?) हे भगवन् ! तिर्यचगति कितने काल तक उद्वर्तना से रहित कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य एक समय तक, उत्कृष्ट वारह मुहूर्त तक (मणुयगईणं भन्ते ! केवइयं काल विरहिया उव्वट्टणाए ?) हे भगवन् ! मनुष्यगति कितने काल तक उद्वर्तना से रहित कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य एक समय तक, उत्कृष्ट वारह मुहूर्त तक (देवगईणं भन्ते ! केवइयं काल विरहिया उव्वट्टणाए पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! देवगति कितने काल तक उद्वर्तना से रहित कही है ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य एक समय तक, उत्कृष्ट वारह मुहूर्त तक

टीकार्थ—अव उल्लिखित संग्रहिणी गाथा के अर्थ का नाम से वि

(तिरिय गईणं भन्ते ! केवइय काल विरहिया उव्वट्टणाए पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! तिर्यच गति केटला काण सुधी उद्वर्तनाथी रहित कडेली छे ? (गोयमा ! जहण्णेण एग समयं उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य अेक समय, उत्कृष्ट वार मुहूर्त सुधी

(मणुय गईणं भन्ते ! केवइयं कालं विरहिया उव्वट्टणाए पण्णत्ता) हे भगवन् ! मनुष्यगति केटला काण सुधी उद्वर्तनाथी रहित कडेली छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं वारह मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य अेक समय, उत्कृष्ट वार मुहूर्त सुधी

(देव गईणं भन्ते ! केवइयं काल विरहिया उव्वट्टणाए पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! देव गति केटला काण सुधी उद्वर्तनाथी रहित कडेली छे ? (गोयमा ! जहण्णेण एगं समयं उक्कोसेणं वारह मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य अेक समय, उत्कृष्ट वार मुहूर्त सुधी

टीकार्थ—इवे उल्लिखित संग्रहिणी गाथाना अर्थानु कथी विवेचन

भदन्त ! निरयगतिः—नरकगतिः नामकर्मोदय जनितो जीवस्यौदयिको भावः, तस्यैकत्वात् सप्तपृथिवीव्यापकत्वाच्चैकवचनं बोध्यम् अत एव सप्तानां पृथिवीनां संग्रहो भवति, कियन्तं कालम्—कियत्कालपर्यन्तम्, उपपातेन—उपपत्तनमुपपातः तद्भिन्नगतिकानां प्राणिनां नैरयिकत्वेनोत्पादस्तेन, विरहिता शून्या, प्रज्ञप्ता—भगवता प्ररूपिता ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णेणं एक्कं समयं उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता’ जघन्वेन एकं समयम्—एक समयपर्यन्तम्, उत्कृष्टेन द्वादश मुहूर्तान्—द्वादश मुहूर्त पर्यन्तम् निरयगतिरुत्पातेन विरहिता भव-

विवेचन किया जाता है—

निरयगति अर्थात् नरकगतिनामकर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला जीव का औदयिक भाव । एक है और सातों पृथिवियों में व्यापक है, इस कारण उसके लिए एकवचन का प्रयोग किया गया है । इस (निरयगइ) शब्द से सातों नरकभूमियों का संग्रह हो जाता है ! गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! निरयगति कितने काल तक उपपात से रहित कही गई है ? किसी अन्य गतिसे मरकर नारक के रूप में उत्पन्न होना उपपात कहलाता है । तात्पर्य यह है कि कितने समय तक किसी नये नारक का जन्म नहीं होता—अर्थात् नरकगति नये नारक के जन्म से रहित कितने काल रहती हैं ?

भगवान् इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—हे गौतम ! कम से कम एक समय और अधिक से अधिक बारह मुहूर्त तक नरकगति उपपात से विरहित होती है । बारह मुहूर्त के बाद अवश्य ही कोई

कराय छे

निरय गति अर्थात् नरक गति नाम कर्मना उदयथी उत्पन्न थनारा लुपना औदयिक भाव ते अेक छे अने भील साते पृथिवीभा व्यापक छे, अे कारणे तेभने भाटे अेक वचनने प्रयोग करायो छे. आ ‘निरय गइ’ शब्दथी साते नरक भूमियोने संग्रह थथ नय छे

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! निरय गति केटला काण सुधी उपपातथी रहित कडेली छे ? केअ अन्य गतिथी मरीने नारकना रूपभां उत्पन्न थयु ते उपपात कडेवाय छे तात्पर्य अे छे के केटलाक समय सुधी केअ नवा नारकने जन्म नथी थतो अर्थात् नरक गति नवा नारकना जन्मथी रहित केटला समय सुधी रहे छे ?

श्री भगवन् आ कथनने उत्तर आपे छे—हे गौतम ! ओछाभा ओछा अेक समय अने अधिकथी अधिक बार मुहूर्त सुधी नरक गति उपपातथी

तीत्यर्थः अथाग्रे एकस्यामपि पृथिव्यां चतुर्विंशतिमुहूर्तप्रमाणस्य उत्पातविरहस्य वक्ष्यमाणतया कथं सर्वं पृथिवी समुदायापेक्षया द्वादश मुहूर्तं प्रमाण उत्पातविरहः संगच्छते इति चेदत्रोच्यते—रत्नप्रभादिषु एकैरुपृथिवी निर्द्धारणेन चतुर्विंशति मुहूर्तादि प्रमाणस्य उपपातविरहस्य संभवेऽपि सप्त पृथिवी समुदायापेक्षया अनुपातेन द्वादशमुहूर्तप्रमाणस्यैव उत्पातविरहस्योपलम्भात् ? द्वादशमुहूर्तानन्तरमवश्यमन्यतरस्यां पृथिव्या मुत्पादसंभवात्, तथैव केवल वेदसा उपलब्धेः सत्त्वात्, एवमेव यथा निरयगति रुक्कण्डेन द्वादश मुहूर्तान् उत्पातेन विरहिता प्रतिपादिता तथैव तिर्यग्मनुष्य देवगतयोऽपि उत्कण्डेन द्वादशमुहूर्तानेव उत्पातेन विरहिताः

जीव नरकगति में उत्पन्न होता है। प्रश्न किया जा सकता है कि आगे एक ही पृथ्वी में भी चौबीस मुहूर्त प्रमाण सादि उपपातविरह कहा जाएगा, ऐसी स्थिति में अर्थात् सामान्य रूप से बारह मुहूर्त का ही उपपातविरह कहना कैसे संगत हो सकता है ? इसका उत्तर आदि इस प्रकार है—रत्नप्रभा आदि एक एक पृथ्वी में उपपात विरह चौबीस मुहूर्त आदि का होने पर भी सामान्य रूप से नरक गति में उपपात का विरह बारह मुहूर्त प्रमाण ही होता है, क्योंकि बारह मुहूर्त बीतने पर किसी न किसी पृथ्वी में अवश्य ही किसी जीव की उत्पत्ति होती है। भगवान ने केवलज्ञान से ऐसा ही जाना है।

जैसे नरकगति उत्कण्ड बारह मुहूर्त तक उपपात से रहित कही गई है उसी प्रकार तिर्यचगति, मनुष्यगति और देव गति भी उत्कण्ड बारह मुहूर्त तक ही उपपात से रहित होती है। किन्तु सिद्धगति का

रहित होय छे आर मुहूर्तना पछी अवश्य कोठ ने कोठ नरक गतिमा उत्पन्न थाय छे.

प्रश्न करो शक्य छे के आगण ओक पृथ्वीमा पषु बोवीस मुहूर्त प्रमाण सादि उपपात विरह कडेवाशे, ओवी स्थितिमा समुदाय रूपमा अर्थात् सामान्य रूपथी आर मुहूर्तना न उपपात विरह कडेवे ते केवी रीते संगत थथ शके ?

तेनो उत्तर आ रीते छे—रत्नप्रभा आदि ओक ओक पृथ्वीमा उपपातने विरह बोवीस मुहूर्त आदिने थवा छता पषु सामान्य रूपथी नरक गतिमा उपपातने विरह आर मुहूर्त प्रमाण न होय छे, केभके आर मुहूर्त वीती नता कोठने कोठ पृथ्वीमा अवश्य न कोठ एवनी उत्पत्ति थाय छे लगवाने केवणज्ञानथी ओवु लण्डु छे.

जेभ नरक गति उत्कण्ड आर मुहूर्त सुधी उपपातथी रहित कडेवी छे, ओ न प्रकारे तिर्यच गति, मनुष्य गति आने देव गति पषु उत्कण्ड आर

प्रतिचक्ष्याः किन्तु सिद्धगति स्तकृष्टेन पद्मासान् उत्पातेन विरहिता बोध्या, एवमेवोद्धर्त्तनापि अवसेया नवरं सिद्धाना मुद्धर्त्तनाऽभावेन तद्गतिरुद्धर्त्तनया विरहिता न वक्तव्या तेषां साध्यपर्यवसितकालतया शाश्वतत्वादित्यभिप्रायेण विशदयितु माह—तिरियगइणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?' हे भदन्त ! तिर्यगगतिः खलु कियन्तं कालम्—कियत्कालपर्यन्तम् उपपातेन विरहिता शून्या प्ररूपिता ? भगवान् आह—'गोयमा' हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता' जघन्थेन एरुं समयम् उत्कृष्टेन द्वादश मुहूर्तान् तिर्य-

उपपात विरह उत्कृष्ट छह माह का है। अर्थात् एक जीव के सिद्ध होने के पश्चात् अगर कोई जीव सिद्ध न हो तो छह मास तक न हो, ऐसा संभव है, मगर छह मास के अनन्तर समय में कोई न कोई जीव अवश्य ही मोक्ष में जाता है।

इसी प्रकार उद्धर्त्तना अर्थात् किसी गति से निकलना भी कह लेना चाहिए। अगर सिद्धगति में गया हुआ जीव फिर कभी निकलता नहीं अर्थात् सिद्ध गति से उद्धर्त्तना नहीं होती है, इस कारण वहां उद्धर्त्तना का विरह काल भी नहीं है। वहां तो उद्धर्त्तनाविरह सदैव है क्योंकि सिद्ध पर्याय सादि होने पर भी अनन्त है। सिद्ध जीव सदा काल सिद्ध ही रहते हैं। इसी अभिप्राय से कहा गया है—हे भगवन् ! तिर्यच गति कितने काल तक उपपात से रहित होती है ? अर्थात् कितने काल तक कोई जीव तिर्यचगति में नहीं उत्पन्न होता ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! जघन्थ

मुद्धर्त्त सुधी न उपपातथी रहित थाय छे परन्तु सिद्धगतिना उपपातविरह उत्कृष्ट छ मासना छे. अर्थात् ओक एवना सिद्ध थया पछी अगर कोछ एव सिद्ध न थाय तो छ मास सुधी न थाय, ओवो स लव छे, पणु छ मास पछीना समयमा कोछने कोछ एव अवश्य न मोक्षमा लय छे.

ओ रीते उद्धर्त्तना अर्थात् कोछ गतिथी नीकणवाना स भ धमां पणु कडेवु लोछओ पणु सिद्ध गतिमा गओवो एव इरीथी कडि नीकणतो नथी अर्थात् सिद्ध गतिथी उद्धर्त्तना नथी थती, ओ कारणे त्या उद्धर्त्तनानो विरह काण पणु नथी. त्या तो उद्धर्त्तनानो विरह सदैव छे, केमके सिद्ध पर्याय सादि होवा छता अनन्त छे सिद्ध एव सदाकाण सिद्ध न रहे छे ओ अलिप्रायथी कडेवायेवु छे—हे भगवन् ! तिर्यच गति केटला काण सुधी उपपातथी रहित होय छे ? अर्थात् केटला समय सुधी कोछ एव तिर्यच गतिमा नथी उत्पन्न थतो ?

ગતિરૂપપાતેન વિરહિતા પ્રજ્ઞા, ગૌતમઃ પૃચ્છતિ—‘મણુયર્ગઈણં મંતે ! કેવઈયં ક્કાલં વિરહિયા ઉવવાયેણં પ્ણત્તા ?’ હે ભદન્ત ! મણુપ્યગતિઃ સ્વલ્લ ક્રિયન્તં કાલં—કિયત્કાલપર્યન્તમ્, ઉપપાતેન વિરહિતા પ્રજ્ઞા ? ભગવાન્ આહ ‘ગોયમા !’ હે ગૌતમ ! ‘જહ્ણેણં ઇગં સમયં ઉવકોસેણં વારસ મુહુત્તા’ જઘન્યેન ઇકં સમયમ્ ઉત્કૃષ્ટેન દ્વાદશમુહૂર્તાન્ મણુપ્યગતિરૂપપાતેન વિરહિતા પ્રજ્ઞા । ગૌતમઃ ! પૃચ્છતિ ‘દેવર્ગઈણં મંતે ! કેવઈયં કાલં વિરહિયા ઉવવાયેણં પ્ણત્તા ?’ હે ભદન્ત ! દેવગતિઃ સ્વલ્લ ક્રિયન્તં કાલમ્ ઉપપાતેન વિરહિતા પ્રજ્ઞા ? ભગવાન્ આહ—‘ગોયમા !’ હે ગૌતમ ! ‘જહ્ણેણં ઇગં સમયં ઉવકોસેણં વારસમુહુત્તા’ જઘન્યેન ઇકં સમયમ્ ઉત્કૃષ્ટેન દ્વાદશ મુહૂર્તાન્ યાવત્ દેવગતિ રૂપપાતેન વિરહિતા પ્રજ્ઞા । ગૌતમઃ પૃચ્છતિ—‘સિદ્ધર્ગઈણં મંતે ! કેવઈયં કાલં વિરહિયા સિજ્ઞણાણ પ્ણત્તા ?’ હે ભદન્ત !

એક સમય તક ઓર ઉત્કૃષ્ટ વારહ મુહૂર્ત તક તિર્યચગતિ ઉપપાત સે વિરહિત હોતી હૈ ।

ગૌ —હે ભગવન્ ! મણુપ્યગતિ કિતને કાલ તક ઉપપાત સે રહિત હોતી હૈ ?

ભગવાન્—હે ગૌતમ ! જઘન્ય ઇક સમય, ઉત્કૃષ્ટ વારહ મુહૂર્ત તક મણુપ્યગતિ ઉપપાત સે વિરહિત રહતી હૈ ।

ગૌતમ—હે—ભગવન્ ! દેવગતિ કિતને કાલ તક ઉપપાત સે રહિત કહી ગઈ હૈ ?

ભગવાન્—હે ગૌતમ ! જઘન્ય ઇક સમય ઓર ઉત્કૃષ્ટ વારહ મુહૂર્ત ।

ગૌતમ—હે ભગવન્ ! સિદ્ધગતિ કિતને કાલ તક સિદ્ધિ સે રહિત

શ્રી ભગવાન્ ઉત્તર આપે છે—હે ગૌતમ ! જઘન્ય ઓક સમય સુધી અને ઉત્કૃષ્ટ ઓર સુદૂર્ત સુધી તિર્યચ ગતિ ઉપપાતથી રહિત થાય છે.

શ્રી ગૌતમસ્વામી હે ભગવન્ ! મણુપ્ય ગતિ કેટલા સમય સુધી ઉપપાતથી રહિત હોય છે ?

શ્રી ભગવાન્—હે ગૌતમ ! જઘન્ય ઓક સમય ઉત્કૃષ્ટ ઓર સુદૂર્ત સુધી મણુપ્ય ગતિ ઉપપાતથી વિરહિત રહે છે.

શ્રી ગૌતમસ્વામી—હે ભગવન્ ! દેવ ગતિ કેટલા કાળ સુધી ઉપપાતથી રહિત કહેલી છે ?

શ્રી ભગવાન્— હે ગૌતમ ! જઘન્ય ઓક સમય અને ઉત્કૃષ્ટ ઓર સુદૂર્ત સુધી.

શ્રી ગૌતમસ્વામી—હે ભગવન્, સિદ્ધ ગતિ કેટલા કાળ સુધી સિદ્ધિથી

सिद्धिगतिः खलु कियन्तकालम् सिद्ध्या विरहिता प्रज्ञप्ता ? भगवान् आह 'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं छम्मासा' जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन षड्मासान् यावत् सिद्धगतिरूपपातेन विरहिता प्रज्ञप्ता । अयोद्-वर्तनामधिकृत्य गौतमः पृच्छति- निरयगईणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उच्चट्टणाए पणत्ता ? हे भदन्त ! निरयगतिः खलु कियन्तं कालम् उद्वर्तनया विरहिता-शून्या प्रज्ञप्ता-प्ररूपिता ? भगवान् आह- 'गोयमा !' हे गौतम ! जहण्णेणं एकं समयं, उक्कोसेणं चारस मुहुत्ता' जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन द्वादश मुहूर्तान् निरयगति रुद्वर्तनया विरहिता प्रज्ञप्ता । गौतमः पृच्छति 'तिरिय-गईणं भंते ! केवइयं विरहिया उच्चट्टणाए पणत्ता ?' हे भदन्त ! तिरियगतिः खलु कियन्तं कालम् उद्वर्तनया विरहिता प्रज्ञप्ता भगवान् आह 'गोयमा !' हे गौतम !

होती है !

भगवान्-हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट छहम तक सिद्धगति सिद्धि से विरहित होती है, अर्थात् कम से एक समय ऐसा होता है जब कोई जीव मोक्ष नहीं प्राप्त करता और अति से अधिक छहमास तक कोई जीव मोक्ष नहीं जाता । छह माह वीतने पर अवश्य ही कोई न कोई जीव मुक्ति प्राप्त करता है ।

गौतम-हे भगवन् ! नरकगति कितने काल तक उद्वर्त्तना से रहित कही गई है ? अर्थात् ऐसा कितना समय है जब कि कोई भी जीव नरक से न निकले ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्य एक समय और उत्कृष्ट बारह मुहूर्त्त गौतम-हे भगवन् ! तिर्यचगति कितने काल तक उद्वर्त्तना से

रहित थाय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य एक समय उत्कृष्ट छ मास सुधी सिद्धगति सिद्धिथी रहित होय छे, अर्थात् ओछामा ओछो एक समय ओवो होय छे न्यारे कोय एव मोक्ष नहीं प्राप्त करतो अने अधिकमा अधिक छ मास सुधी कोय एव मोक्षे नहीं जतो. छ मास गया पछी अवश्य कोय न कोय एव मुक्ति प्राप्त करे छे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! नरक गति केटला समय सुधी उद्वर्-तनाथी रहित कहेली छे ? अर्थात् ओवो केटला समय छे के न्यारे कोय पणु एव नरकथी पहार न नीकणे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य एक समय अने उत्कृष्ट पार मुहूर्त्त, श्री गौतमस्वामी-तिर्यच गति केटला समय सुधी उद्वर्त्तनाथी रहित

‘जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता’ जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन द्वादश मुहूर्तान् यावत् तिर्यग्गति रुद्वर्तनया विरहिता प्रज्ञप्ता, गौतमः पृच्छति ‘मनुष्यगर्हणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उच्चट्टणाए पणत्ता ?’ हे भदन्त ! मनुष्यगतिः कियन्तं कालम् उद्वर्तनया विरहिता-सून्या प्रज्ञप्ता ? भगवान् आह-‘गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता’ जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन द्वादशमुहूर्तान् यावत् मनुष्यगतिरुद्वर्तनया विरहिता प्रज्ञप्ता, गौतमः पृच्छति-‘देवगर्हणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उच्चट्टणाए पणत्ता ?’ हे भदन्त ! देवगति खलु कियन्तं कालम् उद्वर्तनया विरहिता प्रज्ञप्ता ? भगवान् आह-‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता’ जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन द्वादश मुहूर्तान् यावत् देवगतिरुद्वर्तनया विरहिता

रहित कही गई हैं ?

भगवन्-हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट बारह मुहूर्त्त पर्यन्त उद्वर्त्तना से विरहित कही गई है ।

गौतम-हे भगवन् ! मनुष्यगति कितने काल तक उद्वर्त्तना से रहित कही है ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्य एक समय तक और उत्कृष्ट बारह मुहूर्त्त तक

गौतम-हे भगवन् ! देवगति कितने काल उद्वर्त्तना से रहित कही गई है ?

भगवान्-हे गौतम ! एक समय तक उत्कृष्ट बारह मुहूर्त्त तक उद्वर्त्तना से रहित कही है ।

कहेली छे ?

श्री लगवान्-हे गौतम ! जघन्य ओक समय, उत्कृष्ट बार मुहूर्त्त पर्यन्त उद्वर्त्तनाथी रहित कहेली छे ?

श्री गौतमस्वामी-हे लगवान् ! मनुष्य गति केटला काण सुधी उद्वर्त्तनाथी रहित कहेली छे ?

श्री लगवान्-हे गौतम ! जघन्य ओक समय सुधी अने उत्कृष्ट बार मुहूर्त्त सुधी.

श्री गौतमस्वामी- हे लगवान् देव गति केटला समय सुधी-उद्वर्त्तनाथी रहित कहेली छे ?

श्री लगवान्-हे गौतम ! जघन्य ओक समय सुधी अने उत्कृष्ट बार मुहूर्त्त सुधी उद्वर्त्तनाथी रहित कहेली छे.

प्रज्ञप्ता प्ररूपिता, सिद्धानाञ्चोद्धर्तनाभावात् तेषां तन्निरूपणं न कृतम् 'दारं' इति द्वारम् प्रथमं समाप्तम् ।

विशेषोपपात वक्तव्यता-

मूलम्—रयणप्पभा पुढवि नेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता, सक्करप्पभापुढवि नेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं सत्तराइंदियाणि वालुयप्पभापुढवि नेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अद्धमासं, पंकप्पभा पुढविनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं मासं, धूमप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं दो मासा, तमापुढविनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चत्तारि मासा, अहे सत्तमापुढविनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं छम्मासा, असुरकुमाराणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं

सिद्धों की उद्धर्तना होती नहीं है, अतएव उसका निरूपण नहीं किया है ॥ १ ॥

प्रथम द्वार समाप्त

सिद्धोनी उद्धर्तना यती नथी, तेथी अ तेनु निरूपणु नथी करायु'

॥ १ ॥ प्रथम द्वार समाप्त

विशेषोपपात वक्तव्यता

समयं उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता, नागकुमाराणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता, एवं वणकुमाराणं विज्जुकुमाराणं, अग्गिकुमाराणं दीवकुमाराणं, दिसाकुमाराणं उदहिकुमाराणं, वाउकुमाराणं, थणियकुमाराणं पत्तेयं जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता, पुढविकाइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ? अणुसमयम-विरहियं उववाएणं पणत्ता, एवं आउकाइयाण वि, तेउकाइयाण वि, वाउकाइयाण वि, वणस्सइकाइयाण वि अणुसमयं अविरहिया उववाएणं पणत्ता, बेइंदियाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं, एवं तेइंदियचउरिंदिया, संमुच्छिमपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अंतो-हुत्तं गब्भवक्कतियपंचेइंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं बारसमुहुत्ता, संमुच्छिममणुस्साणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता, गब्भवक्कतियमणुस्साणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता, जोइसियाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता, सोहम्मं कप्पे देवाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता, ईसाणे कप्पे देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउ-

व्वासं मुहुत्ता ? सणकुमारे कप्पे देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जह
 ण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं णव राइंदियाइं वीसाय मुहुत्ता !
 माहिंदे देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्को-
 सेणं बारस राइंदियाणि दस मुहुत्ता, वंभलोए देवाणं पुच्छा,
 गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अद्धतेवीसं राइं-
 दियाइं, लंतगदेवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं,
 उक्कोसेणं पणतालीसं राइंदियाइं, महासुक्कदेवाणं पुच्छा,
 गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं असीई राइंदियाइं
 सहस्सारे देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं,
 उक्कोसेणं राइंदियसयं, आणय देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जह-
 ण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जमासा, पाणयदेवाणं
 पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखिज्जवासा
 अच्चुयदेवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्को-
 सेणं संखिज्जवासा हिट्ठिमगेविज्जाणं पुच्छा, गोयमा ! जह-
 ण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखिजाइं वा याइं, मज्झिम-
 गेविज्जाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं
 संखिजाइं वाससहस्साइं, उवरिमगोवज्जाणं पुच्छा, गोयमा !
 जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखि जाइं वाससयसहस्साइं,
 विजयवेजयंतजयंत अपराजितदेवाणं पुच्छा, गोयमा ! जह-
 ण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं, सव्वट्टसिद्धग-
 देवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं
 पलिभ्रोवमस्स संखिज्जइभागं, सिद्धाणं भंते ! केवइयं कालं
 विरहिया सिज्झणाए पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं,
 उक्कोसेणं छम्मासा ॥ सू० २॥

छाया-रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकाः खलु भदन्त ! कियन्तं कालं विरहिता उपपातेन प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन चतुर्विंशतिः मुहुर्तान्, शर्कराप्रभापृथिवी नैरयिकाः खलु भदन्त ! कियन्तं कालम् विरहिता उपपातेन प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन सप्तरात्रिन्दिनानि, वालुकाप्रभापृथिवीनैरयिकाः खलु भदन्त ! कियन्तं कालं विरहिता उपपातेन प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन अर्द्धमासम्, पङ्कप्रभा

विशेषोपपातवक्तव्यता

शब्दार्थ-(रयण्यप्रभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?) भगवन् ! रत्नप्रभा पृथ्वी के नारक कितने काल तक उपपात से रहित कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं) हे गौतम ! जघन्य एक समयतक (उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता) उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त (सक्करप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?) हे भगवन् ! शर्कराप्रभा के नारक कितने समय तक उपपात से रहित कहे गए हैं ! (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं सत्त राइंदियाणि) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट सात रात्रि दिन (वालुयप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं ?) वालुकाप्रभा पृथ्वी के नारक कितने काल तक उपपात से रहित कहे गए हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं अर्द्धमासं) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अर्द्धमास तक (पङ्कप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उव-

शब्दार्थ-(रयण्यप्रभा पुढवि नेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?) हे भगवन् ! रत्नप्रभा पृथ्वीना नारक डेटला समय सुधी उपपातधी रहित कइला छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं) हे गौतम ! जघन्य ओक समय सुधी (उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता) उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त

(सक्करप्पभा-पुढवि-नेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?) हे भगवन् ! शर्कराप्रभाना नारक डेटला समय सुधी उपपातधी रहित कइला छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं सत्त राइंदियाणि) हे गौतम ! जघन्य ओक समय, उत्कृष्ट सात रात्रि दिवस

(वालुयप्पभा पुढवि नेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?) हे भगवन् ! वालुकाप्रभा पृथ्वीना नारक डेटला काल सुधी उपपातधी रहित कइला छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अर्द्धमासं) हे गौतम ! जघन्य ओक समय, उत्कृष्ट अर्द्धमास सुधी

पृथिवी नैरयिकाः खलु भदन्त ! कियन्तं कालं विरहिता उपपातेन प्रज्ञप्ताः ?
 गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन मासम् धूमप्रभापृथिवी नैरयिकाः खलु
 भदन्त ! कियन्तं कालं विरहिता उपपातेन प्रज्ञप्ताः गौतम ! जघन्येन एकं समयम्
 उत्कृष्टेन द्वौ मासौ, तमापृथिवी नैरयिकाः खलु भदन्त ! कियन्तं कालं विरहिता
 उपपातेन प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन चतुरोमासान्,
 अवः सप्तमपृथिवीनैरयिकाः खलु भदन्त ! कियन्तं कालं विरहिताः उपपातेन

वाएणं पणत्ता ?) हे भगवन् ! पंकप्रभा पृथ्वी के नारक कितने काल
 तक उपपात से रहित कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्को-
 सेणं मासं) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट एक मास
 (धूमप्रभापुढविनेरइया णं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं
 पणत्ता ?) हे भगवन् ! धूमप्रभा पृथ्वी के नारक कितने काल तक उप-
 पात से रहित कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं
 दो मासा) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट दो मास तक (तमा-
 पुढवि नेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं ?) हे
 वन ! तमःप्रभा पृथ्वी के नारक कितने काल तक उपपात से रहित
 कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं चत्तारि मासा)
 हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चार महिने तक (अहे सत्तमा-
 पुढविनेरइया णं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?)
 सातवीं पृथ्वीके नारक हे भगवन् ! कितने काल तक उपपात से रहित

(पंकप्रभा पुढवि नेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?)
 हे भगवन् ! पंकप्रभा पृथ्वीना नारक इटला काण सुधी उपपातथी रहित
 कइया छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं मासं) हे गौतम ! जघन्य
 ओक समय उत्कृष्ट ओक मास सुधी

(धूमप्रभा पुढवि नेरयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?)
 हे भगवन् ! धूमप्रभा पृथ्वीना नारक इटला समय सुधी उपपातथी रहित
 कइया छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं दो मासा) हे गौतम !
 जघन्य ओक समय, उत्कृष्ट दो मास सुधी

(तमा पुढवि नेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?)
 हे भगवन् ! तम प्रभा पृथ्वीना नारक इटला समय सुधी उपपातथी रहित
 कइया छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चत्तारि मासा) हे गौतम !
 जघन्य ओक समय, उत्कृष्ट चार महिना सुधी

(अहे सत्तमा पुढवि नेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं
 पणत्ता ?) हे भगवन् ! सातवीं पृथ्वीना नारक इटला समय सुधी उप-

प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन पद्मासान्, असुरकुमाराः खलु भदन्त ! कियन्तं कालं विरहिता उपपातेन प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन चतुर्विंशतिं मुहूर्तान् नागकुमाराः खलु भदन्त ! कियन्तं कालं विरहिता उपपातेन प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन चतुर्विंशतिं मुहूर्तान्, एवं सुवर्णकुमाराणाम्, विद्युत्कुमाराणाम्, अग्निकुमाराणाम्, द्वीपकुमाराणाम्, दिक्कुमाराणाम्, उदधिकुमाराणाम्, वायुकुमाराणाम्, स्तनितकुमाराणाम्, प्रत्येकं जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन चतुर्विंशतिं मुहूर्तान्, पृथिवीकायिकाः खलु भदन्त ! कियन्तं कालं विरहिता उपपातेन प्रज्ञप्ताः ?

कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय उक्कोसेणं छम्मासा) हे गौतम ! जघन्य एक समय तक एवं उत्कृष्ट छह मास तक

(असुरकुमाराणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! असुरकुमार कितने काल तक उपपात से रहित कहे गए हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य एक समय तक, उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त तक (एवं) इसी प्रकार (सुवर्णकुमाराणं) सुवर्णकुमारों का (विज्जुकुमाराणं) विद्युत्कुमारों का (अग्गिकुमाराणं) अग्निकुमारों का (दीवकुमाराणं) द्वीपकुमारों का (दिसाकुमाराणं) दिशा कुमारों का (उदहिकुमाराणं) उदधिकुमारों का (वाउकुमाराणं) वायुकुमारों का (थणियकुमाराणं) स्तनितकुमारों का (पत्तेयं) प्रत्येक का (जहण्णेणं एगं समयं) जघन्य एक समय (उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता) उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त उपपात विरह कहना

पातथी रद्धित क्खे। छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय उक्कोसेणं छम्मासा) हे गौतम ! जघन्य ओक समय, उत्कृष्ट छ मास सुधी

(असुरकुमाराणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! असुरकुमार डेट्ठा। क्खे। सुधी उपपातथी रद्धित क्खे। छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य ओक समय उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त सुधी (एवं) ओ प्रकारे (सुवर्ण कुमाराणं) सुवर्णकुमारोना (विज्जुकुमाराणं) विद्युत्कुमारोना (अग्गिकुमाराणं) अग्निकुमारोना (दीवकुमाराणं) द्वीपकुमारोना (दिसाकुमाराणं) दिशा कुमारोना (उदहिकुमाराणं) उदधिकुमारोना (वाउकुमाराणं) वायुकुमारोना (थणियकुमाराणं) स्तनितकुमारोना (पत्तेयं) प्रत्येकना (जहण्णेणं एगं समयं) जघन्य ओक समय (उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता) उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त उपपात रद्धित क्खे।

गौतम ! अनुसमयम् अविरहिताः उपपातेन प्रज्ञप्ताः एवम् अप्कायिकानामपि तेजःकायिकानामपि, वायुकायिकानामपि, वनस्पतिकायिकानामपि अनुसमयम् अविरहिताः उपपातेन प्रज्ञप्ताः, द्वीन्द्रियाः खलु भदन्त ! कियन्तं कालं विरहिताः उपपातेन प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन अन्तर्मुहूर्तम्, एवं त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रियाः, समूर्च्छिम पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः खलु भदन्त कियन्तं कालं विरहिता उपपातेन प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन

(पुढविकाइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उवाएणं पण्णत्ता हे भगवन् । पृथिवीकायिक कितने काल तक उपपात से रहित कहे हैं ? (गोयमा ! अनुसमयमविरहियं उववाएणं पण्णत्ता) हे गौतम ! प्रत्येक समय विना विरह के उपपात कहा है (एवं आउकाइयाण वि) इसी प्रकार अप्कायिकों का भी (तेउकाइयाण वि) तेजस्कायिकों का भी (वाउकाइयाण वि) वायुकायिकों का भी (वणस्सइकाइयाण वि) वनस्पतिकायिकों का भी (अणुसमय) प्रतिसमय (अविरहिया) विरह से रहित (उववाएणं) उपपात से (पण्णत्ता) कहे हैं

(वेइदियाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ?) हे भगवन् । द्वीन्द्रिय जीव कितने काल तक उपपात से रहित कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेणं अतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त तक (एवं तेइदिय चउरिदिया) इसी प्रकार त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय

समुच्छिमपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवइयं कालं विर

(पुढविकाइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ?) हे भगवन् । पृथिवीकायिक डेटवा समय सुधी उपपातथी रहित कहेला छे ? (गोयमा ! अनुसमयमविरहिय उववाएणं पण्णत्ता ?) हे गौतम ! प्रत्येक समय विरह विना उपपात कहेला छे (एवं आउकाइयाणं वि) तेजस्कायिकों का भी (वाउकाइयाण वि) वायुकायिकों का भी (वणस्सइकाइयाण वि) वनस्पतिकायिकों का भी (अणुसमय) प्रति समये (अविरहिया) विरह रहित (उववाएणं) उपपातथी (पण्णत्ता) कहेला छे

(वेइदियाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ?) हे भगवन् । द्वीन्द्रिय एव डेटवा प्राण सुधी उपपातथी रहित कहेला छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेणं अतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त सुधी (एवं तेइदिय चउरिदिय) अतीते त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय

अन्तमुहूर्तम्, गर्भव्युत्क्रान्तिक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः खलु भदन्त ! कियन्तं कालं विरहिता उपपातेन प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन द्वादशतुहूर्तान्, संमूर्च्छिममनुष्याः खलु भदन्त ! कियन्तं ! कालं विरहिता उपपातेन प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्येन एक समयम्, उत्कृष्टेन चतुर्विंशतितुहूर्तान्, गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्याणां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन

हिया उववाएणं पणत्ता ?) हे भगवन् ! संमूर्च्छिम पंचेन्द्रिय तिर्यच कितने काल तक उपपात से रहित कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य एक समय उत्कृष्ट अन्तमुहूर्त तक (गवभवकंकतियपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवइयं काल विरहिया उववाएणं पणत्ता ?) हे भगवन् ! गर्भजपंचेन्द्रिय तिर्यच कितने काल तक उपपात से रहित कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य एक समय उत्कृष्ट बारह मुहूर्त तक (संमुच्छिममणुस्साणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?) हे भगवन् ! संमूर्च्छिम मनुष्य कितने काल उपपात से रहित कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त तक (गवभवकंकतियमणुस्सा णं पुच्छा ?) गर्भज मनुष्यों के संबंध में प्रश्न ? (गोयमा !

(संमुच्छिम पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?) हे भगवन् ! संमूर्च्छिम पंचेन्द्रिय तिर्यच कितने काल उपपात से रहित कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तमुहूर्त

(गवभवकंकतिय पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?) हे भगवन् ! गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यच कितने काल उपपात से रहित कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट बारह मुहूर्त सुधी

(संमुच्छिम मणुस्साणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?) हे भगवन् ! संमूर्च्छिम मनुष्य कितने काल उपपात से रहित कहे हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त सुधी

(गवभवकंकतिय मणुस्साणं पुच्छा ?) गर्भज मनुष्यों के संबंध में प्रश्न ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य

द्वादशमुहूर्तान्, वानव्यन्तराणां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन चतुर्विंशतिमुहूर्तान् ज्योतिष्काणां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन चतुर्विंशतिमुहूर्तान्, सौधर्मे कल्पे देवाः खलु भदन्त ! कियन्तं कालं विरहिताः उपपातेन ब्रह्मप्ता ? जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन चतुर्विंशति मुहूर्तान् इशाने कल्पे देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन चतुर्विंशतिमुहूर्तान् सनत्कुमारे कल्पे देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एकं समयम्,

जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं चारस मुहुत्ता) हे गौतम जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चारह मुहूर्त्त तक

(वाणमंतराणं पुच्छा ?) वानव्यन्तर देवों के विषय में प्रश्न ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता) गौतम ! जघन्य एक समय तक, उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त्त तक (जोइसियाणं पुच्छा ?) ज्योतिष्कों के विषय में प्रश्न ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त्त तक

(सोहम्मे कप्पे देवाणं भते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं ?) हे भगवन् ! सौधर्मकल्प में देव कितने काल तक उपपात से विरहित कहे गए हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त्त तक (ई णे कप्पे देवाणं पुच्छा) ईशानकल्पमें देवों के उपपात के विरह का प्रश्न ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता) हे गौ !

એક સમય, ઉત્કૃષ્ટ ચાર મુહૂર્ત સુધી

(વાણમંતરાણં પુચ્છા ?) વાનવ્યન્તર દેવાના વિષયમાં પ્રશ્ન ? (ગોયમા ! જહણ્ણેણં એગં સમયં, ઉક્કોસેણં ચરવ્વીસં મુહુત્તા) હે ગૌતમ ! જઘન્ય એક સમય ઉત્કૃષ્ટ ચૌવીસ મુહૂર્ત સુધી

(જોઈસિયાણં પુચ્છા ?) જ્યોતિષકોના વિષયમાં પ્રશ્ન ? (ગોયમા ! જહણ્ણેણં એગં સમયં ઉક્કોસેણં ચરવ્વીસં મુહુત્તા) હે ગૌતમ ! જઘન્ય એક સમય, ઉત્કૃષ્ટ ચૌવીસ મુહૂર્ત સુધી

(સોહમ્મે કપ્પે દેવાણં ભત્તે ! કેવઈયં કાલં વિરહિયા ઉવવાએણં પણ્ણત્તા ?) હે ભગવન્ ! સૌધર્મ કલ્પમાં દેવ કેટલા સમય સુધી ઉપપાતથી વિરહિત કહેલા છે ? (ગોયમા ! જહણ્ણેણં એગ સમયં, ઉક્કોસેણં ચરવ્વીસં મુહુત્તા) હે ગૌતમ ! જઘન્ય એક સમય, ઉત્કૃષ્ટ ચૌવીસ મુહૂર્ત સુધી

(ઈશાણકલ્પે દેવાણ પુચ્છા ?) ઈશાન કલ્પમાં દેવાના ઉપપાતના વિરહને પ્રશ્ન ? (ગોયમા ! જહણ્ણેણં એગ સમય ઉક્કોસેણં ચરવ્વીસં મુહુત્તા) હે ગૌતમ !

उत्कृष्टेन नव रात्रिदिनानि विंशति मुहूर्ताः माहेन्द्रे कल्पे देवानां पृच्छा गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन द्वादशरात्रिदिनानि दशमुहूर्तान् ब्रह्मलोकं देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एक समयम् उत्कृष्टेन अर्द्धत्रयोविंशतिरात्रि दिनानि, लान्तकदेवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन पञ्च-चत्वारिंशद्वात्रिदिनानि, महाशुक्रदेवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एक सम-

जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त तक (सर्गकुमारे कप्ये देवाणं पुच्छा ?) सनत्कुमार कल्प में देवों के उपपात के विरह का प्रश्न ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं णव राइंदियाइं वीसं मुहुत्ताइं) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट नौ रात्रि-दिन और बीस मुहूर्त तक (माहिंदे देवाणं पुच्छा ?) माहेन्द्र कल्प में देवों के उपपात विरह की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं बारस राइंदियाइं दसमुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चारह रात्रि-दिन और दस मुहूर्त (बंभलोए देवाणं पुच्छा ?) ब्रह्मलोक कल्प के देवों संबंधी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अद्धतेवीसं राइंदियाइं) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साठे बाईस रात्रि दिन (लंतगदेवाणं पुच्छा ?) लान्तक कल्प के देवों संबंधी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं पणतालीसं राइंदियाइं) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट पैतालीस रात्रि दिन (महासुक्के देवाणं पुच्छा ?) महा-

जघन्य ओक समय उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त सुधी

(सर्गकुमारे कप्ये देवाणं पुच्छा ?) सनत्कुमार कल्पमा देवाना उपपातना विरहणे प्रश्न ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं णव राइंदियाइं वीसं मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य ओक समय, उत्कृष्ट नव रात दिन अने वीस मुहूर्त सुधी

(माहिंदे देवाणं पुच्छा ?) माहेन्द्र कल्पमा देवाना उपपात विरहणे प्रश्न ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं बारस राइंदियाइं दस मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य ओक समय, उत्कृष्ट बार रात्रि दिन अने दश मुहूर्त

(बंभलोए देवाणं पुच्छा ?) ब्रह्मलोक कल्पमा देवाना सम्बन्धी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं अद्धतेवीसं राइंदियाइं) हे गौतम ! जघन्य ओक समय, उत्कृष्ट साठे बावीस रात्रि दिन

(लंतगदेवाणं पुच्छा ?) लान्तक कल्पमा देवाना पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं पणतालीसं राइंदियाइं) हे गौतम ! जघन्य ओक समय, उत्कृष्ट पिस्तालीस रात्रि दिन

यम् उत्कृष्टेन अशीतिरात्रिदिनानि, सहस्रारे देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एक समयम् उत्कृष्टेन रात्रिदिनशतम्, आनतदेवानां पृच्छा गौतम ! जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन संख्येयमासान्, प्राणत देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन संख्येय मासान् आरणदेवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन संख्येयवर्षाणि, अच्युतदेवानां पृच्छा, गौतम ! जघ-

ककल्प के देवों के संबंध में पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं असीई राइंदियाइं) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अस्सी रात्रिदिन (सहस्रारे देवाणं पुच्छा ?) सहस्रार कल्प में देवों संबंधी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेण राइंदियसयं) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट एक सौ रात्रिदिनो (आणय देवाणं पुच्छा ?) अनन्त कल्प के देवों संबंधी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं संखेज्जमासा) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात मास तक (पाणयदेवाणं पुच्छा ?) प्राणत के उपपातविरह की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जमासा) हे गौतम ! जघन्य एक स , उत्कृष्ट संख्यात मास (आरणदेवाणं पुच्छा ?) आरणदेवों सबन्धी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखिज्जवासा) हे गौतम ! जघन्य

(महासुकके देवाणं पुच्छा ?) महाशुक कल्पना देवानां सभन्धी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण एगं समयं, उक्कोसेणं असीई राइंदियाइ) हे गौतम ! जघन्य एक समय अने उत्कृष्ट असे रात्रि दिवस

(सहस्रारे देवाणं पुच्छा ?) सहस्रार कल्पना देवानां सभन्धी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण एगं समय उक्कोसेण राइंदियसय) हे गौतम ! जघन्य एक समय उत्कृष्ट असे रात्रि दिन

(आणयदेवाण पुच्छा ?) आनत कल्पना देवानां सभन्धी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण एगं समय, उक्कोसेणं संखेज्जमासा) हे गौतम ! जघन्य एक समय उत्कृष्ट सभ्यात मास सुधी

(पाणय देवाण पुच्छा ?) प्राणत देवाना उपपात विरहनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण एगं समय, उक्कोसेण संखेज्जमासा) हे गौतम ! जघन्य एक समय उत्कृष्ट सभ्यात मास

(आरणदेवाण पुच्छा ?) आरण देवानां सभन्धी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण एगं समय, उक्कोसेण संखिज्जवासा) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट सभ्यात वर्ष

उत्कृष्टेन नव रात्रिदिनानि विंशति मुहूर्त्ताः माहेन्द्रे कल्पे देवानां पृच्छा गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन द्वादशरात्रिदिनानि दशमुहूर्त्तान् ब्रह्मलोके देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एक समयम् उत्कृष्टेन अर्द्धत्रयोविंशतिरात्रि दिनानि, लान्तकदेवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन पञ्च-चत्वारिंशद्द्वारात्रिदिनानि, महाशुक्रदेवाना पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एक सम-

जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त्त तक (सणकुमारे कल्पे देवाणं पुच्छा ?) सनत्कुमार कल्प में देवों के उपपात के विरह का प्रश्न ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं णव राइंदियाइं वीसं मुहुत्ताइं) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट नौ रात्रि-दिन और बीस मुहूर्त्त तक (माहिंदे देवाणं पुच्छा ?) माहेन्द्र कल्प में देवों के उपपात विरह की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस राइंदियाइं दसमुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चारह रात्रि-दिन और दस मुहूर्त्त (बंभलोए देवाणं पुच्छा ?) ब्रह्मलोक कल्प के देवों संबंधी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अद्धतेवीसं राइंदियाइं) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साठे बाईस रात्रि दिन (लंतगदेवाणं पुच्छा ?) लान्तक कल्प के देवों संबंधी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं पणतालीसं राइंदियाइं) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट पैतालीस रात्रि दिन (महासुक्के देवाणं पुच्छा ?) महा-

जघन्य अेक समय उत्कृष्ट बाेवीस मुहूर्त्त सुधी

(सणकुमारे कल्पे देवाण पुच्छा ?) सनत्कुमार कल्पमा देवाना उपपातना विरहणे प्रश्न ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं णव राइंदियाइं वीसं मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य अेक समय, उत्कृष्ट नव रात दिन अने वीस मुहूर्त्त सुधी

(माहिंदे देवाण पुच्छा ?) माहेन्द्र कल्पमा देवाना उपपात विरहणे प्रश्न ? (गोयमा ! जहण्णेण एगं समय उक्कोसेण चारस राइंदियाइं दस मुहुत्ता) हे गौतम ! जघन्य अेक समय, उत्कृष्ट चार रात्रि दिन अने दश मुहूर्त्त

(बंभलोए देवाण पुच्छा ?) ब्रह्मलोक कल्पमा देवाना सम्बन्धी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण एगं समय उक्कोसेणं अद्धतेवीसं राइंदियाइ) हे गौतम ! जघन्य अेक समय, उत्कृष्ट साठे बाेवीस रात्रि दिन

(लंतगदेवाण पुच्छा ?) लान्तक कल्पमा देवाना पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेण पणतालीसं राइंदियाइ) हे गौतम ! जघन्य अेक समय, उत्कृष्ट पैतालीस रात्रि दिन

यम् उत्कृष्टेन अशीतिरात्रिदिनानि, सहस्रारे देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एक समयम् उत्कृष्टेन रात्रिदिनशतम्, आनतदेवानां पृच्छा गौतम ! जघन्येन एक समयम् उत्कृष्टेन संख्येयमासान्, प्राणत देवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एक समयम् उत्कृष्टेन संख्येय मासान् आरणदेवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एक समयम्, उत्कृष्टेन संख्येयवर्षाणि, अन्युतदेवानां पृच्छा, गौतम ! जघ-

शुककल्प के देवों के संबंध में पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं असीई राइंदियाडं) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अस्सी रात्रिदिन (सहस्रारे देवाणं पुच्छा ?) सहस्रार कल्प में देवों संबंधी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं राइदियसयं) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट एक सौ रात्रिदिनो (आणय देवाणं पुच्छा ?) अनन्त कल्प के देवों संबंधी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं संखेज्जमासा) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात मास तक (पाणयदेवाणं पुच्छा ?) प्राणत के उपपातविरह की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जमासा) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात मास (आरणदेवाणं पुच्छा ?) आरणदेवों संबंधी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखिज्जवासा) हे गौतम ! जघन्य

(महाशुकके देवाण पुच्छा ?) महाशुक कल्पना देवाना सभन्धी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण एगं समय, उक्कोसेणं असीई राइंदियाड) हे गौतम ! जघन्य ओक समय अने उत्कृष्ट ओ सी रात्रि दिवस

(सहस्रारे देवाणं पुच्छा ?) सहस्रार कल्पमा देवा सभन्धी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण एगं समयं उक्कोसेण राइदियसय) हे गौतम ! जघन्य ओक समय उत्कृष्ट ओक सौ रात्रि दिन

(आणयदेवाण पुच्छा ?) आनत कल्पना देवा सभन्धी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण एगं समय, उक्कोसेणं संखेज्जमासा) हे गौतम ! जघन्य ओक समय उत्कृष्ट संख्यात मास सुधी

(पाणय देवाण पुच्छा ?) प्राणत देवाना उपपात विरहनी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जमासा) हे गौतम ! जघन्य ओक समय उत्कृष्ट संख्यात मास

(आरणदेवाण पुच्छा ?) आरण देवा सभन्धी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण एगं समय, उक्कोसेण संखिज्जवासा) हे गौतम ! जघन्य ओक समय, उत्कृष्ट संख्यात वर्ष

न्येन एक समयम् उत्कृष्टेन संख्येयवर्षाणि, अधस्तनग्रैवेयकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन संख्येयानि वर्षशतानि, मध्यम ग्रैवेयकार्णा पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एक समयम् उत्कृष्टेन संख्येयानि वर्षसहस्राणि उपरिमग्रैवेयकानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन संख्येयानि वर्षशतसहस्राणि, विजयवैजयन्तजयन्तापराजितानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एकं

एक समय, उत्कृष्ट संख्यातवर्ष (अच्युतदेवाणं पृच्छा ?) अच्युत देवों संबंधी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं, समयं उक्कोसेणं संखिज्जवासा) हे गौतम ! जघन्य एक समय उत्कृष्ट संख्यात वर्ष ।

(हिट्ठिमगेविज्जाणं पृच्छा ?) अधस्तन ग्रैवेयकों के संबंध में पृच्छा (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखिज्जाइं वाससयाइं) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात सौ वर्ष (मज्झिमगेविज्जाणं पृच्छा ?) मध्यम ग्रैवेयकों संबंधी प्रश्न ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखिज्जाइं वाससहस्साइं) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात हजार वर्ष (उपरिमगेविज्जाणं पृच्छा ?) ऊपरी ग्रैवेयकों संबंधी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं संखिज्जाइं वाससयसहस्साइं) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात लाख वर्ष

(विजयवैजयं जयंत अपराजिय देवाणं पृच्छा ?) विजय, वैजयन्त

(अच्युतदेवाण पृच्छा ?) अच्युत देवों संबंधी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय उक्कोसेणं संखिज्जवासा) हे गौतम ! जघन्य एक समय उत्कृष्ट संख्यात वर्ष

(हिट्ठिम गेविज्जाणं पृच्छा ?) अधस्तन ग्रैवेयकानां संबंधी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं संखिज्जाइ वाससयाइ) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात सौ वर्ष

(मज्झिम गेविज्जाण पृच्छा ?) मध्यम ग्रैवेयकानां संबंधी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं संखिज्जाइ वाससहस्साइ) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात हजार वर्ष

(उपरिम गेविज्जाण पृच्छा ?) ऊपरी ग्रैवेयकों संबंधी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेण संखिज्जाइ वाससयसहस्साइ) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात लाख वर्ष

(विजय वैजयंत जयन्त अपराजियदेवाण पृच्छा ? विजय, वैजयन्त, जयन्त,

समयम्, उत्कृष्टेन असंख्येयं कालम्, सर्वार्थसिद्धकदेवानां पृच्छा, गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन पत्योपमस्य संख्येयभागम्, सिद्धाः खलु भवन्त । कियन्तं कालं विरहिता सिद्ध्या ब्रह्मज्ञाः ? गौतम ! जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन पद्ममासान् ।

टीका--पूर्वोक्तरीत्या उत्कृष्टेन द्वादश मुहूर्तान् यावत् सामान्य नैरयिकादीनामुत्पातोद्वर्तना विरहविषयकं प्रथमं द्वारं प्ररूप्य अथ विशेष नैरयिकादीनामुत्कृष्टेन चतुर्विंशति मुहूर्तादिपर्यन्तमुत्पातोद्वर्तनाविरहविषयकं द्वितीयं द्वारं

जयन्त, अपराजित देवो संबन्धी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट असंख्यात काल (सव्वट्टसिद्धगदेवाणं पुच्छा ?) सर्वार्थसिद्ध के देवों में उपपात के विरह की पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं पलिओवमस्स संखेज्जभागं) जघन्य एक समय उत्कृष्ट पत्योपम का संख्यातवां भाग

(सिद्धाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया सिद्धाणाए पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! सिद्ध जीवों की सिद्धि का विरहकाल कितना कहा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं छम्मासा) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट छहमास ॥ २ ॥

टीकार्थ-पीछले सूत्र में चतलाया गया था कि नारक आदि कों के उपपात और उद्वर्तन के विरह का काल चारह मुहूर्त है, अर्थात् नरकगति में अगर कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हो तो चारह मुहूर्त

अपराजित देवो सम्बन्धी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेण एगं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं) हे गौतम ! जघन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्यात काल (सव्वट्टसिद्धग देवाणं पुच्छा ?) सर्वार्थ सिद्धिना देवोभा उपपातना विरहणी पृच्छा ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स संखेज्जभागं) हे गौतम जघन्य एक समय, उत्कृष्ट पत्योपमना संख्यातयो भाग

(सिद्धाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया सिद्धाणाए पण्णत्ता ?) हे भगवन् ! सिद्ध जीवोनी सिद्धिना विरहं कालं केट्ठो छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं) उक्कोसेणं छम्मासा) हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट छ मास ॥ २ ॥

टीकार्थ-पाछला सूत्रमा यताव्यु डेतुं के नारक आदिदेवोना उपपात अने उद्वर्तनान्त विरहोना कालं चार मुहूर्तं छे. अर्थात् नरक गतिमां अगर कोई पणु एव उत्पन्न न थाय तो, चार मुहूर्तं सुधी उत्पन्न नहीं थता अण

पण्णत्ता ! हे भदन्त ! शर्कराप्रभापृथिवी नैरयिकाः कियन्तं कालम् उपपातेन विरहिता प्रज्ञप्ता ? भगवान् आह—गोयमा ? हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं सत्त राइंदियाणि' जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन सप्त रात्रिं दिनानियावत् शर्कराप्रभापृथिवी नैरयिकाः उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—'वाल्लयप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ?' हे भदन्त ! वाल्लकाप्रभापृथिवीनैरयिकाः सल्ल कियन्तं कालम् उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ! भगवान् आह—'गोयमा ! हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं अद्धमासं' जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन अर्द्धमासं यावत् वाल्लकाप्रभापृथिवी नैरयिकाः उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः गौतमः पृच्छति—'पंकप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववायेणं पण्णत्ता ? हे भदन्त ! पङ्कप्रभापृथिवीनैरयिकाः सल्ल कियन्तं कालं यावत्, उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ! भगवान् आह—'गोयमा ! हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगं

गौतम—हे भगवन् ! शर्कराप्रभा पृथ्वी के नारक कितने काल उपपात से रहित होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय तक और उत्कृष्ट रात—दिन तक, अर्थात् शर्कराप्रभा में अगर कोई नारक उत्पन्न न हो तो अधिक से अधिक सात रात दिन तक उत्पन्न नहीं होता ।

गौतम—हे भगवन् ! वाल्लकाप्रभा पृथ्वी के नारक कितने काल तक उपपात से विरहित होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अर्द्ध मास तक

गौतम—हे भगवन् ! पंकप्रभा पृथ्वी के नारक कितने काल तक उपपात से विरहित कहे हैं ?

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् शर्कराप्रभा पृथ्वीना नारक डेटला काण सुधी उपपातथी रडित होय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य ओक समय सुधी अने उत्कृष्ट सात रात दिन सुधी अर्थात् शर्कराप्रभाभा डेअर नारक उत्पन्न न थाय तो अधिकथी अधिक सात रात दिन सुधी उत्पन्न नथी थता.

श्री गौतमस्वामी :—हे भगवन् वाल्लकाप्रभा पृथ्वीना नारक डेटला काण सुधी उपपातथी विरडित अने छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य ओक समय, उत्कृष्ट अर्द्ध मास सुधी.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! पंकप्रभा पृथ्वीना नारक डेटला काण सुधी उपपातथी विरडित कइया छे ?

समयं उक्कोसेणं मासं' जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन मास यावत् पद्मप्रभा-
 पृथिवी नैरयिकाः उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः गौतमः पृच्छति—'धूमप्रभापु
 ष्विनैरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववायेणं पणत्ता ?' हे भदन्त !
 धूमप्रभापृथिवीनैरयिकाः खलु कियन्तं कालम् उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ?
 भगवान् आह 'गोयमा ! हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगं समयम्, उक्कोसेणं दो मासा'
 जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन द्वौ मासौ यावत् धूमप्रभापृथिवी नैरयिकाः उप-
 पातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—'तमापुढविनेरइयाणं भंते ! केव-
 इयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?' हे भदन्त ! तमापृथिवी नैरयिकाः
 खलु कियन्तं कालं यावत् उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ! भगवान् आह—
 'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं चत्तारि मासा' जघन्येन
 एकं समयम् उत्कृष्टेन चतुरो मासान् यावत् तमापृथिवीनैरयिकाः उपपातेन
 विरहिताः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—'अहे सत्तमापुढविनेरइयाणं भंते ! केवइयं
 कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?' हे भदन्त ! अधः सप्तमपृथिवीनैरयिकाः
 खलु कियन्तं कालम् उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ! भगवान् आह—'गोयमा !

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक उत्कृष्ट एक मास तक ।

गौतम—हे भगवन् ! धूमप्रभा पृथ्वी के नारक कितने काल तक
 उपपात से विरहित कहे हैं ?

भगवान्—जघन्य एक समय उत्कृष्ट दो मास तक ।

गौतम—तमःप्रभा पृथ्वी के नारक कितने काल तक उपपात से
 विरहित कहे हैं ?

भगवान्—जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चार मास तक ।

गौतम—हे भगवन् ! अधःसप्तम पृथ्वी के नारक कितने काल तक
 उपपात से विरहित कहे हैं ?

श्री भगवान् :-डे गौतम ! जघन्य ओक समय, उत्कृष्ट ओक मास सुधी.

श्री गौतमस्वामी—डे भगवन् ! धूमप्रभा पृथ्वीना नारक डेटला समय
 उपपातधी रडित कहेल छे ?

श्री भगवान्—डे गौतम ! जघन्य ओक समय, उत्कृष्ट दो मास सुधी.

श्री गौतमस्वामी—डे भगवन् ! तम.प्रभा पृथ्वीना नारक डेटला समय
 सुधी उपपातधी रडित कहेल छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! जघन्य ओक समय, उत्कृष्ट चार मास सुधी.

श्री गौतमस्वामी—डे भगवन् ! अधःसप्तम पृथ्वीना नारक डेटला काल
 सुधी उपपातधी विरहित कहेल छे ?

हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं छम्मासा' जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन पद्दमासान् यावत् । अथ सप्तम पृथिवीनैरयिकाः उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः । गौतमः पृच्छति—'असुरकुमाराणं भंते ! केवडयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?' हे भदन्त ! असुरकुमाराः खलु कियन्तं कालम् उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता' जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन चतुर्विंशतिमुहूर्तान् यावत् असुरकुमारा उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः । गौतमः पृच्छति—'नागकुमाराणं भंते ! केवडयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?' हे भदन्त ! नागकुमाराः खलु कियन्तं कालम् उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता' जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन चतुर्विंशति मुहूर्तान् यावत् नागकुमाराः उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः । 'एवं सुवर्णकुमाराणं' एवम् असुरकुमारादिवदेव सुवर्णकुमाराणाम्,

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट छहमासतक ।

गौतम—हे भगवन् ! असुरकुमारों के उपपात का विरह कितने काल का कहा है अर्थात् कोई भी जीव असुरकुमार जाति में यदि उत्पन्न न हो तो कितने काल तक उत्पन्न न हो ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय तक उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त तक असुरकुमारों के विरह कहा है ?

गौतम—हे भगवन् ! नागकुमारों के उपपात का विरह कितने काल का कहा है ?

भगवान्—जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त तक ।

असुरकुमारों के समान ही सुवर्णकुमारों विद्युत्कुमारों, अग्नि-

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट छ मास सुधी.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! असुरकुमारोना उपपातनो विरह डेटला काणनो क्खो छे ? अर्थात् केछ पण्णु एव असुरकुमार जतिमां जे उत्पन्न न थाय तो डेटला समय सुधी उत्पन्न न थाय ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय सुधी, उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त सुधी असुरकुमारोना उपपातनो विरह क्खेत्तो छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! नागकुमारोना उपपातनो विरह डेटला समयनो क्खो छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त सुधी असुरकुमारोनी समान ज सुवर्णकुमारो, विद्युत्कुमारो, अग्निकुमारो,

‘विञ्जुकुमाराणं’ विद्युत्कुमाराणाम्, ‘अग्निकुमाराणं’ अग्निकुमाराणाम्, ‘दीव-
कुमाराणं’ द्वीपकुमाराणाम्, ‘दिसाकुमाराणं’ दिशाकुमाराणाम्, ‘उदहिकुमाराणं’
उदधिकुमाराणाम्, ‘वाउकुमाराणं’ वायुकुमाराणाम्, ‘थणियकुमाराणं’ स्तनित-
कुमाराणाम्, ‘पत्तेयं जहण्णेणं एगं समयं’ प्रत्येकम्, जघन्येन एकं समयम्
‘उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता’ उत्कृष्टेन चतुर्विंशति मुहूर्तान् यावत् उपपातेन
विरहितं वक्तव्यम्, गौतमः पृच्छति—‘पुढविकाइयाणं भंते ! केवइयं काल विरहिया
उववाएणं पणत्ता ?’ हे भदन्त ! पृथिवीकायिका खलु कियन्तं कालम् उपपातेन
विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणुसमयमविरहियं
उववाएणं पणत्ता’ अनुसमयम्—प्रतिसमयम् उपपातेन अविरहिताः पृथिवीका-
यिकाः प्रज्ञप्ताः ‘एव आउकाइयाण वि’ एवम् पृथिवीकायिकवदेव अप्कायिकाना-
मपि ‘तेउकाइयाण वि’ तेजःकायिकानामपि ‘वाउकाइयाण वि’ वायुकायिका-
नामपि ‘वणस्सइकाइयाण वि’ वनस्पतिकायिकानामपि ‘अणुसमयं अविरहिया
कुमारो, द्वीपकुमारो, दिशाकुमारो, उदधिकुमारो वायुकुमारो और
स्तनिकुमारो में से प्रत्येक के उपपात का विरह जघन्य एक समय
तक और उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त तक समझना चाहिए ।

गौतम—हे भगवन् ! पृथ्वीकायिकों के उपपात का विरह कितने
काल का है ?

भगवान्—हे गौतम ! पृथ्वीकायिक प्रत्येक समय उपपात से अवि-
रहित हैं, अर्थात् वे प्रतिसमय उत्पन्न होते रहते हैं कोई एक भी समय
ऐसा नहीं जब पृथ्वीकायिकों का उपपात न होता हो । पृथ्वीकायिकों
के समान अप्कायिकों का तथा तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पति
काय के जीवों का भी निरन्तर प्रतिसमय उपपात कहना चाहिए ।

द्वीपकुमारो, दिशाकुमारो, उदधिकुमारो, वायुकुमारो, अने स्तनितकुमारोमाथी
प्रत्येकना उपपातनो विरह जघन्य ओक समय सुधी अने उत्कृष्ट चौबीस
मुहूर्त सुधी समज्जेवे ज्ञेय्ये

श्री गौतमस्वामी—पृथ्वीकायिकेना उपपातनो विरह केटवो काण क्खो छे ?
श्री भगवान्—हे गौतम ! पृथ्वीकायिक प्रत्येक समय उपपातथी अविरहित छे
अर्थात् तेज्जे प्रति समय उत्पन्न थया करे छे, केध ओक पणु जेवो समय
नथी के पृथ्वीकायिकेनो उपपात न थतो होय. पृथ्वीकायिकेनी समान अप्का-
यिकेना, तथा तेजस्कायिक, वायुकाय, अने वनस्पतिकायना जेवोना पणु निरन्तर
प्रतिसमय उपपात क्खेवे ज्ञेय्ये. तेमना उपपातमा पणु ओक समयनो पणु
विरह नथी होतो.

उक्त्वाएणं पण्णत्ता' प्रत्येकम् अनुसमयम्-प्रतिममयम् उपपातेन अविरहितं प्रज्ञप्तम् गौतमः पृच्छति-‘वेइंदियाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उक्त्वाएणं पण्णत्ता ?’ हे भदन्त ! द्वीन्द्रियाः खलु कियन्तं कालम् उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह-‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहूत्तं’ जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन अन्तर्मुहूर्तं यावत् द्वीन्द्रियाः उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः । ‘एवं तेइंदिय चउरिंदिया’ एवम्-द्वीन्द्रियवदेव त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिया अपि जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन अन्तर्मुहूर्तम् यावत् उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति-‘संमुच्छिमपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उक्त्वाएणं पण्णत्ता ?’ हे भदन्त ! संमुच्छिमपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः खलु कियन्तं कालम् उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह-‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं अंतोमुहूत्तं’ जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन अन्तर्मुहूर्तम् यावत्, संमुच्छिमपञ्चेन्द्रियतिर्यग्यो

इनके उपपात में भी एक समय का भी विरह नहीं होता ।

गौतम-हे भगवन् ! द्वीन्द्रियजीवों के उपपात का विरह कितने तक कहा है ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्य एक समय तक, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त तक द्वीन्द्रियों के उपपात का विरह कहा है । इसी प्रकार त्रिन्द्रिय जीवों ना उपपातविरह भी जघन्य एक समय तक और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त समझना चाहिए ।

गौतम-हे भगवन् ! समूर्च्छिम पंचेन्द्रिय तिर्यचों के उपपात का विरह कितने काल तक होता है ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्य एक समय तक और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त तक उपपातविरह होता है ।

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! द्वीन्द्रिय एवेना उपपाततो विरहं केट्ठा सुधीं कडेल्लं छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य ऐकं समयं सुधीं, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं सुधीं, द्वीन्द्रियोना विरहं कड्ढो छे ऐल्लं प्रकारे त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय एवेना उपपाततो विरहं पण्णं जघन्य ऐकं समयं सुधीं, अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं सुधीं सभल्लेवे जेधंअ

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! समूर्च्छिम पंचेन्द्रिय तिर्यचोना उपपाततो विरहं केट्ठा काणं सुधीं थायं छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य ऐकं समयं सुधीं अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं सुधीं उपपात विरहं थायं छे ।

‘विज्जुकुमाराणं’ विद्युत्कुमाराणाम्, ‘अग्गिकुमाराणं’ अग्निकुमाराणाम्, ‘दीवंकुमाराणं’ द्वीपकुमाराणाम्, ‘दिसाकुमाराणं’ दिशाकुमाराणाम्, ‘उदहिकुमाराणं’ उदधिकुमाराणाम्, ‘वाउकुमाराणं’ वायुकुमाराणाम्, ‘थणियकुमाराणं’ स्तनितकुमाराणाम्, ‘पत्तेयं जहण्णेणं एगं समयं’ प्रत्येकम्, जघन्येन एकं समयम् ‘उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता’ उत्कृष्टेन चतुर्विंशति मुहूर्तान् यावत् उपपातेन विरहितं वक्तव्यम्, गौतमः पृच्छति—‘पुढविकाइयाणं भंते ! केवइयं काल विरहिया उववाएणं पणत्ता ?’ हे भदन्त ! पृथिवीकायिका खलु कियन्तं कालम् उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अणुसमयमविरहियं उववाएणं पणत्ता’ अनुसमयम्—प्रतिसमयम् उपपातेन अविरहिताः पृथिवीकायिकाः प्रज्ञप्ताः ‘एव आउकाइयाण वि’ एवम् पृथिवीकायिकवदेव अप्कायिकानामपि ‘तेउकाइयाण वि’ तेजःकायिकानामपि ‘वाउकाइयाण वि’ वायुकायिकानामपि ‘वणस्सइकाइयाण वि’ वनस्पतिकायिकानामपि ‘अणुसमयं अविरहिया

कुमारो, द्वीपकुमारो, दिशाकुमारो, उदधिकुमारो वायुकुमारो और स्तनिकुमारो में से प्रत्येक के उपपात का विरह जघन्य एक समय तक और उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त तक समझना चाहिए ।

गौतम—हे भगवन् ! पृथ्वीकायिकों के उपपात का विरह कितने काल का है ?

भगवान्—हे गौतम ! पृथ्वीकायिक प्रत्येक समय उपपात से अविरहित हैं, अर्थात् वे प्रतिसमय उत्पन्न होते रहते हैं कोई एक भी समय ऐसा नहीं जब पृथ्वीकायिकों का उपपात न होता हो । पृथ्वीकायिकों के समान अप्कायिकों का तथा तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पति काय के जीवों का भी निरन्तर प्रतिसमय उपपात कहना चाहिए ।

द्वीपकुमारो, दिशाकुमारो, उदधिकुमारो, वायुकुमारो, अने स्तनितकुमारोमाथी प्रत्येकना उपपातने विरह जघन्य एक समय सुधी अने उत्कृष्ट चोवीस मुहूर्त सुधी समज्ये लोछये

श्री गौतमस्वामी—पृथ्वीकायिकेना उपपातने विरह केटवो काण क्खो छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! पृथ्वीकायिक प्रत्येक समय उपपातथी अविरहित छे अर्थात् तेजो प्रति समय उत्पन्न थया करे छे, केछि एक पणु ज्येवो समय नथी के पृथ्वीकायिकेना उपपात न थतो डोय. पृथ्वीकायिकेनी समान अप्कायिकेना, तथा तेजस्कायिक, वायुकाय, अने वनस्पतिकायना ज्येवोना पणु निरन्तर प्रतिसमय उपपात क्खेवो लोछये. तेमना उपपातमां पणु एक समयना पणु विरह नथी डोतो.

उववाएणं पणत्ता' प्रत्येकम् अनुसमयम्-प्रतिसमयम् उपपातेन अविग्रहितं प्रज्ञप्तम् गौतमः पृच्छति- 'वेइंदियाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?' हे भदन्त ! द्वीन्द्रियाः खलु कियन्तं कालम् उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह- 'गोयमा' हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगं समयं, उवकोसेणं अंतोमुहुत्तं' जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन अन्तर्मुहूर्तं यावत् द्वीन्द्रियाः उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः । 'एवं तेइंदिय चउरिंदिया' एवम्-द्वीन्द्रियवदेव त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिया अपि जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन अन्तर्मुहूर्तम् यावत् उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति- 'संमुच्छिमपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?' हे भदन्त ! संमुच्छिमपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः खलु कियन्तं कालम् उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह- 'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगं समयं उवकोसेणं अंतोमुहुत्तं' जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन अन्तर्मुहूर्तम् यावत्, संमुच्छिमपञ्चेन्द्रियतिर्यग्यो-

इनके उपपात में भी एक समय का भी विरह नहीं होता ।

गौतम-हे भगवन् ! द्वीन्द्रियजीवों के उपपात का विरह कितने काल तक कहा है ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्य एक समय तक, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त तक द्वीन्द्रियों के उपपात का विरह कहा है । इसी प्रकार त्रिन्द्रिय जीवों ना उपपातविरह भी जघन्य एक समय तक और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त समझना चाहिए ।

गौतम-हे भगवन् ! समूर्छिम पंचेन्द्रिय तिर्यंचों के उपपात का विरह कितने काल तक होता है ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्य एक समय तक और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त तक उपपातविरह होता है ।

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! द्वीन्द्रिय एवेना उपपातने विरह केट्ठा सुधी कहेल छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य अेक समय सुधी, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त सुधी, द्वीन्द्रियोने विरह कहेल छे अेव प्रकारे त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय एवेना उपपातने विरह पणु जघन्य अेक समय सुधी, अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त सुधी समज्जे अेधअे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! समूर्छिम पंचेन्द्रिय तिर्यंचोना उपपातने विरह केट्ठा काण सुधी थाय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य अेक समय सुधी अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त सुधी उपपात विरह थाय छे.

निकाः उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः गौतमः पृच्छति—‘गवभवकंकतिय पंचिदिय-
तिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता’ हे भदन्त !
गर्भव्युत्क्रान्तिक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः कियन्तं कालमुपपातेन विरहिताः
प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णेणं एणं समयम् उक्को-
सेणं वारसमुहुत्ता’ जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन द्वादशमुहूर्तान् यावत् गर्भव्यु-
त्क्रान्तिक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—
‘संमुच्छिममणुस्साणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पणत्ता ?’ हे
भदन्त ! संमुच्छिममणुस्साः खलु कियन्तं कालम् उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ?
भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णेणं एणं समयं, उक्कोसेणं चउ-
व्वीसं मुहुत्ता’ जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन चतुर्विंशति मुहूर्तान् यावत् संमु-
च्छिममणुस्साः उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः । गौतमः पृच्छति—‘गवभवकंकतिय
मणुस्साणं पुच्छा’ गर्भव्युत्क्रान्तिकमणुस्साः खलु कियन्तं कालमुपपातेन

गौतम—हे भगवान् ! गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यचो के उपपात का
विरह कितने काल का कहा है ?

भगवन्—हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट बारह मुहूर्त
तक गर्भज पञ्चेन्द्रियतिर्यचो का विरह कहा है ।

गौतम—हे भगवन् ! संमुच्छिम मणुस्सो के उपपात का विरह
कितने काल तक कहा है ।

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त तक ।

गौतम—हे भगवन् ! गर्भज मणुस्सो के उपपात का विरह कि
काल तक कहा है ?

भगवन्—हे गौतम ! जघन्य एक समय तक उत्कृष्ट बारह

गौतम—हे भगवन् ! वानव्यन्तर देवो का कितने काल तक उपपात
का विरह कहा गया है ?

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! गर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोना उपपातेन
विरह कितने काल का कहा है ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट बारह मुहूर्त सुधी
गर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोना विरह समय कितने काल का कहा है ?

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! संमुच्छिम मणुस्सोना उपपातेन विरह
कितने काल का कहा है ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय सुधी उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त सुधी।

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! गर्भज मणुस्सोना उपपातेन विरह कितने
काल का कहा है ?

विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णेण एगं समयं, उक्कोसेणं वाररागुहुत्ता’ जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन द्वादशगुहूर्तान् यावत् गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्याः उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः । गौतमः पृच्छति—‘वाणमंतराणं पुच्छा’ वानव्यन्तराः खलु कियन्तं कालमुपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः । इति पृच्छा, भगवान् आह—‘गोयमा ?’ हे गौतम ! ‘जहण्णेण एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं गुहुत्ता’ जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन चतुर्विंशति गुहूर्तान् यावत्, वानव्यन्तराः उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः । गौतमः पृच्छति—‘जोइसियाणं पुच्छा’ ज्योतिष्काः खलु कियन्तं कालमुपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं गुहुत्ता’ जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन चतुर्विंशति गुहूर्तान् यावत्, ‘ज्योतिष्काः उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः । गौतमः पृच्छति—‘सोहम्मं कप्पे देवाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उक्वाएणं पणत्ता ?’ हे भदन्त ! सौधर्मे कल्पे देवाः खलु कियन्तं कालम् उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय तक, उत्कृष्ट चौबीस गुहूर्त तक वानव्यन्तरों का उपपात विरह कहा गया है ।

गौतम—हे भगवन् ! ज्योतिष्क देवों के उपपात का विरह कितने काल तक कहा है ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय तक, उत्कृष्ट चौबीस गुहूर्त तक ।

गौतम—हे भगवन् ! सौधर्म कल्प में देवों के उपपात का विरह कितने काल तक कहा है ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय तक, उत्कृष्ट चौबीस गुहूर्त तक

श्रीभगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय अने उत्कृष्ट बार गुहूर्त सुधीना.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! वानव्यन्तर देवाना केटला समय सुधी उपपातने विरह कहेवाये छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय सुधी, उत्कृष्ट चौबीस गुहूर्त सुधी वानव्यन्तराने उपपात विरह कहेल छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! ज्योतिष्क देवाना उपपातने विरह केटला काण सुधी कहेल छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय सुधी उत्कृष्ट चौबीस गुहूर्त सुधी

चउव्वीसं मुहुत्ता' जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन चतुर्विंशति मुहूर्तान् यावत् सौधर्म देवाः उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? गौतमः पृच्छति—'इसाणे कल्पे देवाणं पुच्छा' ईशाने कल्पे देवाः खलु कियन्तं कालन् उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह—'गोयमा' हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता' जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन चतुर्विंशति मुहूर्तान् यावत् ईशानदेवाः उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—'सण्-कुमारे कल्पे देवाणं पुच्छा' सनत्कुमारे कल्पे देवाः खलु कियन्तं कालमुपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा, भगवान् आह—'गोयमा' हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं णव राइंदियाइ' जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन नव रात्रिदिनानि यावत् सनत्कुमारे देवा उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—'माहेन्द्रे कल्पे देवाणं पुच्छा' माहेन्द्रे कल्पे देवानां पृच्छा, तथा च माहेन्द्रे कल्पे देवाः कियन्तं कालमुपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—'गोयमा'

गौ -हे भगवन् ! ईशान कल्प में देवों के उपपात का विरह कितने काल तक कहा है ?

भ न-गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त्त तक।

गौतम-हे भगवन् ! सनत्कुमार कल्प में देवों के उपपात का विरह वि ने काल तक कहा है ?

भगवान्-जघन्य एक समय, उत्कृष्ट नौ रात्रि दिन तक तथा बीस र्त का

गौतम-हे भगवन् ! माहेन्द्र कल्प में देवों के उपपात का विरह कितने काल तक कहा गया है ?

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! सौधर्म कल्पमा देवाना उपपातने विरह डेटला काण सुधी कहेल छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य ओक समय सुधी उत्कृष्ट चोवीस मुहूर्त्त सुधी.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! इसान कल्पमा देवाना उपपातने विरह डेटला काण सुधी कहेल छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य ओक समय उत्कृष्ट चोवीस मुहूर्त्त सुधी.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! सनत्कुमार कल्पमा देवाना उपपातने विरह डेटला काण सुधी कहेल छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य ओक समय, उत्कृष्ट नव रात्रि दिवस सुधी तथा बीस मुहूर्त्तने.

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! माहेन्द्र कल्पमा देवाना उपपातने विरह डेटला समय सुधी कहेल छे ?

हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं वारसराइंदियाणि दसमुहुत्ता' जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन द्वादश रात्रि दिनानि दशमुहूर्ताश्च यावत् माहेन्द्र-देवा उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः गौतमः पृच्छति—'वंभलोए देवाणं पुच्छा' ब्रह्मलोके देवानां पृच्छा, तथा च ब्रह्मलोके देवाः कियन्तं कालमुपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—'गोयमा' हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं अद्धतेवीसं राइंदियाइं' जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन अर्द्धत्रयो-विंशति रात्रि दिनानि—सार्द्धं द्वाविंशति रात्रि दिनानि इत्यर्थः ब्रह्मलोक देवा उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—'लंतगदेवाणं पुच्छा' लान्तक-देवानां पृच्छा तथा च लान्तक देवाः कियन्तं कालमुपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—'गोयमा' हे गौतम ! 'जहण्णेणं एग समयं उक्कोसेणं पणतालीसं राइंदियाइं' जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन पञ्चचत्वारिंशद् रात्रिदिनानि यावत् लान्तकदेवा उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—'महासुक्कदेवाणं

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चारह रात्रिदिन और दस मुहूर्त्त का

गौतम—हे भगवन् ! ब्रह्मलोक कल्प में देवों के उपपात का विरह कितने काल तक कहा है ?

भगवान्—जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साठे चाईस रात्रिदिन का ।

गौतम—हे भगवन् ! लान्तक कल्प में देवों के उपपात का विरह कितने काल तक कहा है ?

भगवान्—जघन्य एक समय, उत्कृष्ट पैतालीस रात्रिदिन तक ।

गौतम—हे भगवन् ! महाशुक्र देवों के उपपात का विरह कितने

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चार रात्रि दिन अने दस मुहूर्त्तना।

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! ब्रह्मलोक कल्पमां देवाना उपपातना विरह केटलां काण सुधी कडेल छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय उत्कृष्ट साठे आवीस रात्रि दिवसना।

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् लान्तक कल्पमा देवाना उपपातना विरह केटला काण सुधी कडेल छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट पिस्तालीस रात्रि दिवस सुधी।

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् महाशुक्र कल्पमा देवाना उपपातना विरह

पुच्छा' महाशुक्रदेवानां पृच्छा, तथा महाशुक्र देवाः कियन्तं कालमुपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं असीईराइंदियाइं' जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन अशीति रात्रिदिनानि महाशुक्र देवा उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—'सहस्रारे देवाणं पुच्छा' सहस्रारे कल्पे देवानां पृच्छा, तथा च सहस्रारकल्पदेवाः कियन्तं कालमुपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः । भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं राइंदियसयं' जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन रात्रिदिन शतं सहस्रारकल्प देवा उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—'आणय देवाणं पुच्छा' आनतदेवानां पृच्छा, तथा च आनतकल्पदेवाः कियन्तं कालमुपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—'गोयमा' हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं संखेज्जमासा' जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन संख्येय-

काल तक कहा है ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय तक, उत्कृष्ट अस्सी रात्रि दिन तक

गौतम—हे भगवन् ! सहस्रार कल्प में देवों के उपपात का विरह कितने काल तक कहा है ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय तक उत्कृष्ट सौ रात्रि दिन तक

गौतम—हे भगवन् ! आनत कल्प में देवों के उपपात का विरह कितने काल तक कहा है ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात मास तक आनतकल्प में उपपातधिरह कहा है ।

कैटला काण सुधी कडेल छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय सुधी, उत्कृष्ट अस्सी रात्रि दिवस सुधी.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! सहस्रार कल्पमां देवाना उपपातना विरह

कैटला काण सुधी कडेल छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय सुधी, उत्कृष्ट सौ रात्रि दिवस सुधी.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! आनत कल्पमा देवाना उपपातना विरह

कैटला काण सुधी कडेल छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात मास

मासान् यावत् आनत कल्प देवा उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः गौतमः पृच्छति—
 'पाणय देवाणं पुच्छ' प्राणतदेवानां पृच्छा, तथा च प्राणत कल्प देवाः क्रियन्तं
 कालमुपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ! भगवान् आह—'गोयमा' हे गौतम ! 'जह-
 ण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जमासा' जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन
 संख्येयमासान् यावत् प्राणतकल्पदेवा उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः, गौतमः
 पृच्छति 'आरण देवाणं पुच्छ' आरणदेवानां पृच्छा, तथा च आरणकल्पदेवाः
 क्रियन्तं कालमुपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—'गोयमा' हे गौतम !
 'जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं संखिज्जवासा' जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन
 संख्येयवर्षाणि यावत्, आरणकल्पदेवा उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः गौतमः
 पृच्छति—'अच्युतदेवाणं पुच्छ' अच्युतदेवानां पृच्छा, तथा च अच्युतकल्पदेवाः
 क्रियन्तं कालमुपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—'गोयमा' हे गौतम !
 'जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं संखिज्जवासा' जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन

गौतम—हे भगवन् ! प्राणत कल्प में देवों के उपपात का विरह
 कितने काल तक कहा

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय उत्कृष्ट संख्यात मास तक ।

गौतम—हे भगवन् ! आरण कल्प में देवों के उपपात का विरह
 कितने काल तक कहा है ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात वर्षों तक

गौतम—हे भगवन् ! अच्युत कल्प में देवों के उपपातका विरह
 कितने काल तक कहा है ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय उत्कृष्ट संख्यात वर्षों तक ।

सुधी आनत कल्पमा उपपात विरह कह्यो छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! प्राणत कल्पमा देवाना उपपातने विरह
 केटला काण सुधी कह्यो छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य ओक समय, उत्कृष्ट संख्यात मास सुधी.

श्री गौतमस्वामी—भगवन् ! आरण कल्पमा देवाना उपपातने विरह
 केटला समय सुधी कहेल छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! जघन्य ओक समय सुधी. उत्कृष्ट संख्यात
 वर्षों सुधी.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् अच्युत कल्पमा देवाना उपपातने विरह
 केटला समय सुधी कहेल छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य ओक समय सुधी उत्कृष्ट संख्यात

संख्येयवर्षाणि यावत् अच्युतकल्पदेवा उपपानेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘हिद्विमगेविज्जाणं पुच्छा’ अधस्तन ग्रैवेयकाणां पृच्छा, तथा चाधस्तन-ग्रैवेयकाः कियन्तं कालमुपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं संखिज्जाइं वाससयाइं’ जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन संख्येयानि वर्षशतानि यावत् अधस्तनग्रैवेयकाः उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘मज्झिमगेविज्जाणं पुच्छा’ मध्यम ग्रैवेयकाणां पृच्छा, तथा च मध्यम ग्रैवेयकाः कियन्तं कालमुपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं वाससइस्साइं’ जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन संख्येयानि वर्षसहस्राणि यावत् मध्यमग्रैवेयकाः उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः गौतमः पृच्छति, ‘उवरिमगेविज्जाणं पुच्छा’ उपरितन ग्रैवेयकाणां पृच्छा, तथा चोपरितनग्रैवेयकाः किय-

गौतम—हे भगवन् ? अधस्तन अर्थात् नीचे के तीन ग्रैवेयकों में कितने काल तक उपपात का विरह रहता है ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात सौ वर्षों तक नीचे के ग्रैवेयकों में उपपात का विरह रहता है ।

गौतम—हे भगवन् ! मध्य के ग्रैवेयकों में कितने काल तक उपपात का विरह रहता है ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात हजार वर्षों तक ।

गौतम—हे भगवन् ! उपरितन अर्थात् ऊपर के तीन ग्रैवेयकों में कितने काल तक उपपात का विरह रहता है ?

वर्षों सुधी.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! अधस्तन अर्थात् नीचेना त्रयु ग्रैवेयकेभां डेटला काण सुधी उपपातने विरह रहे छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट सौ वर्षों सुधी नीचेना ग्रैवेकेभां उपपातने विरह रहे छे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! मध्यना ग्रैवेयकेभां डेटला काण सुधी उपपातने विरह रहे छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय उत्कृष्ट संख्यात हजार वर्षों सुधी.

गौतमस्वामी—हे भगवन् ! उपरितन अर्थात् उपरना त्रयु ग्रैवेयकेभां डेटला काण सुधी उपपातने विरह रहे छे ?

न्तं कालमुपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—‘गोयमा’ हे गौतम !
 ‘जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं संखिज्जाइं वाससयसहस्साइं’ जघन्येन एकं
 समयम्, उत्कृष्टेन संख्येयानि वर्षशतसहस्राणि यावत् उपरितनग्रैवेयका उप-
 पातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘विजयवेजयंतजयंतअपराजिय
 देवाणं पुच्छा’ विजयवैजयन्त जयन्तापराजितदेवानां पृच्छा, तथा च विजय-
 वैजयन्तजयन्तापराजितदेवाः कियन्तं कालमुपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः
 भगवान् आह—‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं-
 कालं’ जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन असंख्येय कालं यावत् विजयवैजयन्त
 जयन्तापराजित देवा उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः, गौतमः पृच्छति—‘सव्वट्ठ-
 सिद्धगदेवाणं पुच्छा’ सर्वार्थसिद्धकदेवानां पृच्छा, तथा च सर्वार्थसिद्धकदेवाः
 कियन्तं कालमुपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—‘गोयमा’ हे गौतम !
 ‘जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं पल्लिओवमस्स संखिज्जइभागं’ जघन्येन एकं

भगवान्—हे गौतम जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात लाख
 वर्षों तक

गौतम—हे भगवन् ! विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित
 नामक अनुत्तर विमानों में देवों के उपपात का विरह कितने काल
 तक रहता है ?

गौतम—हे भगवन् ! सर्वार्थसिद्ध नामक अनुत्तर विमान में देवों
 के उपपात का विरह कितने काल तक कहा है ?

भगवान्—हे गौतम ! सर्वार्थसिद्ध विमान में देवों के उपपात का
 विरह जघन्य एक समय तक, उत्कृष्ट पत्त्योपम के संख्यातवे' भाग
 तक का कहा है ।

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात लाख
 वर्ष सुधी

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! विजय, वैजयन्त, जयन्त अने अप-
 राजित नामक अनुत्तर विमानोमा देवाना उपपातनो विरह डेटला काण
 सुधी रडे छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्यात काण सुधी.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् सर्वार्थ सिद्ध अनुत्तर विमानमा देवाना
 उपपातनो विरह डेटला काण सुधी कडेल छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! सर्वार्थ सिद्ध विमानमा देवाना उपपातनो
 विरह जघन्य एक समय सुधी, उत्कृष्ट पत्त्योपमना संख्यातमा भाग सुधीना
 कडेल छे ?

समयम् उत्कृष्टेन पलयोपमस्य संख्येयभागं यावत् सर्वार्थसिद्धकदेवाः उपपातेन विरहिताः प्रज्ञप्ताः गौतमः पृच्छति सिद्धाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया सिञ्जणाए पणत्ता' हे भदन्त ! सिद्धा खलु कियन्तं कालं सिद्ध्या विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवान् आह—'गोयमा' हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं छम्मासा' जघन्येन एकं समयम् उत्कृष्टेन पइमासान यावत् सिद्धा सिद्ध्याः विरहिताः प्रज्ञप्ताः ।

विशेषोद्वर्तनावक्तव्यता—

मूलम्—रघणप्पभापुढवि नेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उवट्टणाए पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता एवं सिद्धवज्जा उवट्टणा वि भाणियव्वा जाव अणुत्तरोववाइयत्ति, णवरं जोइसियवेमाणिएसु चयणंति अहिलावो कायव्वो, दारं ॥सू० ३॥

छाया—रत्नप्रभापृथिवी नैरयिका खलु भदन्त ! कियन्तं कालं विरहिता उद्वर्त्तनया प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन चतुर्विंशतिं मुहु-

गौतम—हे भगवन् ! सिद्धजीवों की सिद्धि का विरह काल कितना कहा है ? अर्थात् किसी भी जीव को सिद्धि प्राप्त न हो तो कितने काल तक प्राप्त न हो ?

भगवान्—जघन्य एक समय तक उत्कृष्ट छह मास तक ॥२॥

शब्दार्थ—(रघणप्पभापुढवि नेरइया) रत्नप्रभा पृथ्वी के नारक (णं) वाक्याल कार (भंते !) हे भगवन् ! (केवइयं) कितने (कालं) काल तक (विरहिया) विरह युक्त (उवट्टणाए) उद्वर्त्तना से (पणत्ता) कहेगाए हैं (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं) जघन्य (एगं समयं) एक समय

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! सिद्ध लोकोनी सिद्धिने विरह काल केटवा कहे छे ? अर्थात् केछ पण लोकोने सिद्धि प्राप्त न थाय तो केटवा समय सुधी प्राप्त न थाय ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्य ओके समय सुधी उत्कृष्ट छ मास सुधी ॥२॥

शब्दार्थ—(रघणप्पभापुढवि नेरइया) रत्नप्रभा पृथ्वीना नरकभा 'ण' (वाक्याल कार) (भंते !) हे भगवन् ! (केवइयं) केटवा (कालं) काल सुधी (विरहिया) विरह युक्त (उवट्टणाए) उद्वर्त्तनाथी (पणत्ता) कहेला छे (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं) जघन्य (एगं समयं) ओके समय (उक्कोसेणं) उत्कृष्ट (चउव्वीसं

तान् एनं गित्त्वर्जा उद्धर्तनाऽपि भणितव्या, यागन् अनुत्तरोपपातिका इति, नवरम् ज्योतिष्क वैमानिकेषु चयनमिति अभिलाषः कर्तव्यः, द्वारम् ।

टीका—पूर्वोक्तरीत्या रत्नप्रभादि पृथ्वी नैरयिकादीनामुत्पादविरहकालं प्ररूप्य सम्प्रति तेषामेवोद्धर्तनाविरहकालं प्ररूपयितुमाह—‘रयणप्पभापुढवि नेर-इयाणं अंते ! केनटयं कालं निरदिया उवट्टणाए पणत्ता ?’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! रत्नप्रभापृथ्वी नैरयिकाः खलु क्रियन्तं कालम् उद्धर्तनया विरहिताः प्रज्ञप्ताः ? भगवानाह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णेणं एग समयं उकोसेणं (उत्कोसेणं) उत्कूट (अउव्वीस सुहुत्ता) चौवीस मुहूर्त तक (एवं) इस प्रकार (सिद्धवज्जा) सिद्धों को छोड़ कर (उवट्टणा वि) उद्धर्तना भी (भाणियव्वा) करनी चाहिए (जाव अणुत्तरोववाइयत्ति) यावत् अनुत्तरौपपातिकों तक (णवर) विशेषता यह कि (जोइसियवेमाणिएसु) ज्योतिष्क और वैमानिक दोनों में (चयणं ति) चयन ऐसा (अहिलावो) अभिलाष-शब्द प्रयोग (कायव्वो) करना चाहिए

टीकार्थ—पूर्वोक्त प्रकार से रत्नप्रभा आदि पृथिवियों के नारक आदि का उपपातविरह के काल की प्ररूपणा कर के अब उनकी उद्ध-वर्तना के विरहकाल की प्ररूपणा करने के लिए कहते हैं

गौतम प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! रत्नप्रभा पृथ्वी के नारक कितने काल तक उद्धर्तना से रहित होते हैं ? अर्थात् रत्नप्रभा पृथ्वी से कोई भी नारक यदि न निकले तो कितने काल तक न निकले ?

भगवान्—हे गौतम ! रत्नप्रभा पृथ्वी के नारकों की उद्धर्तना के

सुहुत्ता) शेषीस सुहुर्त (एवं) ये रीते (सिद्ध वज्जा) सिद्धो सिपायना (उव-ट्टणा वि) उद्धर्तना यथु (भाणियव्वा) कडेवी जेधये (जाव अणुत्तरोववाइयत्ति) अनुत्तरोपपातिक सुधी (णवर) विशेषता येके (जोइसिय वेमाणिएसु) ज्योतिष्क अने वैमानिक हेवोमा (चयणंति) यथन येवु (अहिलावो) अभिलाष-शब्द प्रयोग (कायव्वो) करवो जेधये

टीकार्थ—पूर्वोक्त प्रकारથી रत्नप्रभा आदि पृथ्वीयेना नारको आदिना उपपात विरहना कालनी प्रश्नपुा करीने डवे तेमनी उद्धर्तनाना विरह कालनी प्रश्नपुा करवा माटे कडे छे—

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! रत्नप्रभा पृथ्वीना नारक केटवो समय सुधी उद्धर्तनाथी रहित थाय छे ? अर्थात् रत्नप्रभा पृथ्वीथी केथ यथु नारक जे न नीकणे तो केटवा काल सुधी न नीकणे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! रत्नप्रभा पृथ्वीना नारकेनी उद्धर्तनाना विर-

चउन्विसं गृह्यता' जघन्येन एक समयम्, उत्कृष्टेन चतुर्विंशतिं गृह्यतां यावत्
रत्नप्रभापृथिवी नैरयिकाः उद्वर्तनया विरहिताः प्रज्ञप्ताः, 'एवं सिद्धवज्रा उवष्टणा
वि भाणियन्वा जाव अणुत्तरोववाइयत्ति' एवम् पूर्वोक्तोपपातरीत्या सिद्धवर्जा-
सिद्धवर्जिता, उद्वर्तनापि भणितव्या वक्तव्या यावत्-शर्कराप्रभापृथिवी नैरयिकादि
असुरकुमारादि दश भवनपति-पृथिवीकायिकादि पञ्चैकेन्द्रियविकलेन्द्रियसंमूर्च्छि-
मगर्भव्युत्क्रान्तिकपञ्चैन्द्रियतिर्यग्योनिकमनुष्यवानव्यन्तरज्योतिष्कसौधर्मादि द्वा-
दशवैमानिकदेव नव ग्रैवेयक विजयादि पञ्चानुत्तरौपपातिका इत्यन्तम्, किन्तु
'णवरं जोइसियवेमाणिएसु चयणंति अहिलावो कायव्वो' नवरम्-पूर्वोक्तापेक्षया
विशेषस्तु ज्योतिष्कवैमानिकेषु च्यवनमिति अमिलापः कर्तव्यः, न तु उद्वर्तना
इत्यमिलापः, ज्योतिष्कवैमानिकानां च्यवनस्यैव संभवेन तेषामुद्वर्तनाया अभावा-
दित्याशयः, 'दारं' द्वितीयं चतुर्विंशतिं गृह्यतां विषयकं द्वारं समाप्तम् ।

विरह का जघन्य काल तक एक समय और उत्कृष्ट काल चौबीस
सं है। उद्वर्तना के विरह का यही काल सिद्धों को छोड़ कर अनु-
त्तरोपपातिक विमानों तक सर्वत्र कह लेना चाहिए अर्थात् शर्कराप्रभा
आदि के नारकों, असुर कुमार आदि दश भवनपतियों, पृथिवी
कायिक आदि पांच एकेन्द्रियों विकलेन्द्रियों सं मूर्च्छिम तथा गर्भजतिर्यच
पंचेन्द्रियों, मनुष्यों, वानव्यन्तरों, ज्योतिष्कों, सौधर्मादि द्वादश
कल्पोपपन्न देवों नवग्रैवेयक देवों और विजय आदि पांच अनुत्तर-
विमानों के देवों तक यही उद्वर्तना के विरह का काल कहना चाहिए
किन्तु ज्योतिष्क और वैमानिक देवों में उद्वर्तना, शब्द का प्रयोग न
करके च्यवन, शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों
जातियों के देवों का उद्वर्तन नहीं होता है, पर च्यवन होता है, अर्थात्
ये देव मरकर ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जाते ॥३॥

चतुर्विंशति द्वार समाप्त

इतो जघन्य काण अेक समय अने उत्कृष्ट काण चोवीस गृह्यतां छे उद्वर्त-
नाना विरहने आञ्ज काण सिद्धोने छोडीने अनुत्तरौपपातिक विमाना सुधी
सर्वत्र कडेवो जेधये. अर्थात् शर्कराप्रभा आदिना नारको, असुरकुमार आदि
दश भवनपतियो, पृथिवीकायिक आदि पाच अेकेन्द्रियो, विकलेन्द्रियो, संमू-
च्छिम तथा गर्भज तिर्यच पंचेन्द्रियो, वानव्यन्तरा, ज्योतिष्का, सौधर्मादि
दश कल्पोपपन्न देवा, नव ग्रैवेयक देवा, अने विजय आदि पाच अनुत्तर
विमानाना देवा सुधी आञ्ज उद्वर्तनाना विरहने समय कडेवो जेधये परन्तु
ज्योतिष्क अने वैमानिक देवाना 'उद्वर्तना' शब्दने प्रयोग न करीने 'च्यवन'
शब्दने प्रयोग करवो जेधये, केमके अे अने जतिना देवाना उद्वर्तना

सान्तरनिरन्तरोपपातद्वारवक्तव्यता-

मूलम्-नेरइयाणं भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ? गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति, तिरिक्खजोणियाणं भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ? गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति, मणुस्साणं भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ? गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति ? देवाणं भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ? गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति, रयणप्पभापुढवि नेरइयाणं भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ? गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति, एवं जाव अहे सत्तमाए संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति, असुरकुमारा देवा णं भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति, गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति निरंतरं पि उववज्जंति ? एवं जाव थणिय माराणं संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति, पुढविकाइयाणं भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ? गोयमा ! नो संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति, एवं जाव वणस्सइकाइया नो संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति, वेइंदियाणं भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ? गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति, एवं जाव पंचिदियतिरिक्खजोणिया, मणुस्साणं भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ? गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं

थती नथी. पणु न्यवन थाथ छे, अर्थात् अ हेव भरीने उपरथी नीथे आथे छे नीथेथी उपर नथी जता ॥ ३ ॥

श्रीश्रीश्री द्वार समाप्त

पि उववज्जंति, एवं वाणमंतराजोइसिया सोहम्मीसाणसणं-
कुमार माहिंदवंभलोयलंतगमहासुक्कसहस्सार आणयपाणय-
आरणच्चुअहिट्टिमगेविज्जगमज्झिमगेविज्जगउपरिमगेविज्जगवि-
जयवेजयंत जयंत अपराजित सव्वट्टिसिद्धदेवाय संतरं पि उव-
वज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति, सिद्धाणं भंते । किं संतरं
सिज्झंति, निरंतरं सिज्झंति ? गोयमा । संतरं पि सिज्झंति,
निरंतरं पि सिज्झंति ॥सू० ४॥

छाया—नैरयिकाः खलु भदन्त ! किं सान्तरम् उपपद्यन्ते, निरंतर उपपद्य-
न्ते ? गौतम ! सान्तरमपि उपपद्यन्ते, निरन्तरमपि उपपद्यन्ते, तिर्यग्योनिकाः खलु
भदन्त ! किं सान्तरम् उपपद्यन्ते, निरन्तरम् उपपद्यन्ते ? गौतम ! सान्तरमपि उप-
पद्यन्ते, निरन्तरमपि उपपद्यन्ते, मनुष्याः खलु भदन्त ! किं सान्तरम् उपपद्यन्ते,

सान्तर-निरन्तरोपपात वक्तव्यता

शब्दार्थ—(नैरइयाणं भंते ! किं संतरं उववज्जंति निरंतरं उववज्जं-
ति ?) हे भगवन् ! नैरयिक क्या सान्तर उत्पन्न होते हैं ? अथवा निरन्तर
(गोयमा संतरं पि उववज्जंति निरंतरं पि उववज्जंति) हे गौतम !
सान्तर भी उत्पन्न होते हैं, निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं (तिरिक्ख
जोणियाणं भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ?) हे भग-

! तिर्यच क्या सान्तर उत्पन्न होते हैं या निरन्तर उत्पन्न होते हैं !
(गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति निरंतरं पि उववज्जंति ?) हे गौतम !
सान्तर भी उत्पन्न होते हैं निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं (मणुस्सा णं

सान्तर-निरन्तरोपपात वक्तव्यता

शब्दार्थ—(नैरइयाणं भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति) हे
भगवन् ! नैरयिक थु सान्तर उत्पन्न थाय छे अथवा निरन्तर उत्पन्न थाय
छे ? (गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति निरंतरं पि उववज्जंति) हे गौतम ! सान्तर
पणु उत्पन्न थाय छे, निरन्तर पणु उत्पन्न थाय छे (तिरिक्खजोणियाणं भंते !
किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ?) हे भगवन् ! तिर्यच थु सान्तर
उत्पन्न थाय छे अथवा निरन्तर उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! संतरं पि
उववज्जंति निरंतरं पि उववज्जंति) हे गौतम ! सान्तर पणु उत्पन्न थाय छे,

निरन्तरम् उपपद्यन्ते, गौतम ! सान्तरमपि उपपद्यन्ते, निरन्तरमपि उपपद्यन्ते, देवाः खलु भदन्त ! किं सान्तरमुपपद्यन्ते ? निरन्तरमुपपद्यन्ते, गौतम ! सान्तरमपि उपपद्यन्ते, निरन्तरमपि उपपद्यन्ते, रत्नप्रभापृथिवी नैरयिकाः खलु भदन्त ! किं सान्तरमुपपद्यन्ते, निरन्तरमुपपद्यन्ते ? गौतम ! सान्तरमपि उपपद्यन्ते निरन्तरमपि उपपद्यन्ते । एवं यावत् अथःसप्तम्यां सान्तरमपि उपपद्यन्ते,

भते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ? हे भगवन् ! मनुष्य कया सान्तर उत्पन्न होते हैं अथवा निरन्तर उत्पन्न होते हैं ? (देवाणं भते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ?) हे भगवन् ! कया देव सान्तर उत्पन्न होते हैं अथवा निरन्तर उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति) हे गौतम ! सान्तर भी उत्पन्न होते हैं, निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं

(रयणप्पमापुढवि नेरइया णं भते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ? रत्नप्रभा पृथिवी के नारक कया सान्तर उत्पन्न होते हैं या निरन्तर होते हैं ? (गोयमा ! संतरपि उववज्जंति निरंतरंपि उववज्जंति (गौतम ! सान्तर भी उत्पन्न होते हैं, निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं (एव जाव अहे सत्तमाए) इसी प्रकार सातवीं नरकभूमि तक (संतरंपि उववज्जंति निरंतरंपि उववज्जंति) सान्तर भी उत्पन्न होते हैं, निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं

निरन्तर पणु उत्पन्न थाय छे ? (मणुस्साण भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतर उववज्जंति ?) हे भगवन् ! मनुष्य शु सान्तर उत्पन्न थाय छे, अथवा निरन्तर उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! संतरपि उववज्जंति निरंतरंपि उववज्जंति) हे गौतम ! सान्तर पणु उत्पन्न थाय छे अने निरन्तर पणु उत्पन्न थाय छे. (देवाणं भंते ! किं संतरं उववज्जंति निरंतरं उववज्जंति ?) हे भगवन् ! शु देव सान्तर उत्पन्न थाय छे अथवा निरन्तर उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति) हे गौतम ! सान्तर पणु उत्पन्न थाय छे, निरन्तर पणु उत्पन्न थाय छे.

(रयणप्पमा पुढवि नेरइयाणं भते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतर उववज्जंति ?) हे भगवन् ! रत्नप्रभा पृथिवीना नारक शु सान्तर उत्पन्न थाय छे हे निरन्तर उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति) हे गौतम ! सान्तर पणु उत्पन्न थाय छे, निरन्तर पणु उत्पन्न थाय छे (एवं जाव अहे सत्तमाए) अे प्रकारे सातमी नारकभूमि सुधी (संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति) सान्तर पणु उत्पन्न थाय छे, निरंतर पणु उत्पन्न थाय छे

निरन्तरमपि उपपद्यन्ते । असुरकुमार देवाः खलु भदन्त ! किं सान्तरमुपपद्यन्ते, निरन्तरमुपपद्यन्ते ? गौतम ! सान्तरमपि उपपद्यन्ते निरन्तरमपि उपपद्यन्ते, एवं यावत् स्तनितकुमाराः खलु सान्तरमपि उपपद्यन्ते, निरन्तरमपि उपपद्यन्ते, पृथिवीकायिकाः खलु भदन्त ! किं सान्तरमुपपद्यन्ते, निरन्तरमुपपद्यन्ते ? गौतम ! नो सान्तरमुपपद्यन्ते, निरन्तरमुपपद्यन्ते, एवं यावत्-वनस्पति-कायिकाः नो सान्तरमुपपद्यन्ते, निरन्तरमुपपद्यन्ते, द्वीन्द्रियाः खलु भदन्त ! किं सान्तरमुपपद्यन्ते, निरन्तरमुपपद्यन्ते ? गौतम ! सान्तरमपि उपपद्यन्ते, निरन्तरमपि

(असुरकुमारदेवा णं भन्ते ! किं संतरं उववज्जन्ति, निरंतरं उववज्जन्ति ?) हे भगवन् ! असुरकुमार देव क्या सान्तर उत्पन्न होते हैं अथवा निरन्तर उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! संतरंपि उववज्जन्ति निरंतरपि उववज्जन्ति) गौतम ! सान्तर भी उत्पन्न होते हैं, निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं (एवं जाव थणियकुमारा) इसी प्रकार स्तनित कुमारों तक (संतरंपि उववज्जन्ति, निरंतरंपि उववज्जन्ति) सान्तर भी उत्पन्न होते हैं, निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं

(पुढविकाइया णं भन्ते ! किं संतरं उववज्जन्ति, निरंतरं उववज्जन्ति ?) हे भगवन् पृथिवी कायिक क्या निरन्तर उत्पन्न होते हैं अथवा सान्तर उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! नो संतरं उववज्जन्ति, निरंतरं उववज्जन्ति हे गौतम ! सान्तर नहीं उत्पन्न होते, निरन्तर उत्पन्न हैं (एवं जाव वणस्सइकाइया) इसी प्रकार यावत् वनस्पतिकायिक (नो संतरं उववज्जन्ति निरंतरं उववज्जन्ति सान्तर नहीं उत्पन्न होते हैं, निरन्तर उत्पन्न होते हैं

(असुरकुमाराणं भन्ते ! किं संतरं उववज्जन्ति, निरंतरं उववज्जन्ति ?) हे भगवन् ! असुरकुमार देव शु सान्तर उत्पन्न थाय्ये अथवा निरन्तर उत्पन्न थाय्ये ? (गोयमा ! संतरं पि उववज्जन्ति, निरंतरं पि उववज्जन्ति) हे गौतम ! सान्तरं पथु उत्पन्न थाय्ये निरन्तरं पथु उत्पन्न थाय्ये (एवं जाव थणिय कुमारा) अे प्रकारे स्तनित कुमारे सुधी (संतरं पि उववज्जन्ति, निरन्तरं पि उववज्जन्ति) सान्तरं पथु उत्पन्न थाय्ये, निरन्तरं पथु उत्पन्न थाय्ये

(पुढविकाइयाणं भन्ते ! किं संतरं उववज्जन्ति, निरंतरं उववज्जन्ति ?) हे भगवन् ! पृथ्वीकायिक शु सान्तर उत्पन्न थाय्ये, निरन्तरं उत्पन्न थाय्ये ? (गोयमा ! नो संतरं उववज्जन्ति, निरन्तरं उववज्जन्ति) हे गौतम ! सान्तरं उत्पन्न नथी थत्ता, निरन्तरं उत्पन्न थाय्ये (एवं जाव वणस्सई काइया) अेरीते थावत् वनस्पतिकायिक (नो संतरं उववज्जन्ति, निरन्तरं उववज्जन्ति) सान्तरं नथी उत्पन्न थत्ता, निरन्तरं उत्पन्न थाय्ये

उपपद्यन्ते, निरन्तरमुपपद्यन्ते, एवं यावत् पञ्चेन्द्रियतिर्थग्योनिष्ठाः मनुष्याः खलु भवन्त ! किं सान्तरमुपपद्यन्ते, निरन्तरमुपपद्यन्ते ? गौतम ! सान्तरमपि उपपद्यन्ते, निरन्तरमपि उपपद्यन्ते, एवं वानव्यन्तराज्योतिष्काः सौधर्मेशानसनत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मलोकलान्तकमहाशुकसहस्रारआनतप्राणतारणाच्युताधस्तनग्रैवेयक-मध्यमग्रैवेयकोपरितनग्रैवेयकविजयवैजयन्तजयन्तापराजितसर्वार्थसिद्धदेवाश्चसान्त-

(वेइंदिया णं भते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जति ?)

भगवन् ! द्वीन्द्रिय क्या सान्तर उत्पन्न होते हैं या निरन्तर उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! संतरंपि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जति) गौतम ! सान्तर भी उत्पन्न होते हैं, निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं (एवं जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिया) इसी प्रकार पंचेन्द्रियतिर्थच्योनिक तक् कहना

(मणुस्साणं भंते ! किं संतरं उववज्जंति निरंतरं उववज्जंति) हे

भगवन् ! मनुष्य क्या सान्तर उत्पन्न होते हैं अथवा निरन्तर उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! संतरंपि उववज्जंति, निरंतरंपि उववज्जंति) गौतम ! सान्तर भी उत्पन्न होते हैं, निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं (एवं वाणमंतरा जोइसिया) इसी प्रकार वानव्यन्तर और ज्योतिष्क (सोहम्मीसाणसणकुमार माहिंद वंभलोग लंतग महासुक्क सहस्रार आणय पाणय आरण च्चुअ हिट्ठिमगेविज्जग मज्झिमगेविज्जग उवरिमगेविज्जग विजय वेजयंत जयंत अपराजित सव्वट्टसिद्धदेवाय) सौधर्म, ईशान सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक लान्तक, महाशुक सरस्वार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, अधस्तन ग्रैवेयक, मध्यम-

(वेइंदियाणं भते ! किं संतरं उववज्जति, निरंतरं उववज्जंति ?) हे भगवन् ! द्वीन्द्रिय शु सान्तर उत्पन्न थाय छे अगर निरंतर उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! संतर पि उववज्जंति, निरंतर पि उववज्जंति) हे गौतम ! सान्तर पणु उत्पन्न थाय छे, निरन्तर पणु उत्पन्न थाय छे (एवं जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिया) अथ प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्थच्योनिक सुधी थुडेदा छे

(मणुस्साणं भंते ! किं संतरं उववज्जति, निरन्तरं उववज्जंति ?) हे भगवन् ! मनुष्य शु सान्तर उत्पन्न थाय छे के निरन्तर उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! संतर पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जति) हे गौतम ! सान्तर पणु उत्पन्न थाय छे अने निरन्तर पणु उत्पन्न थाय छे (एवं वाणमंतरा जोइसिया) अथ रीते वानव्यन्तर अने अथोतिष्क (सोहम्मी-साण-सणकुमार-माहिंद-वंभलोज लंतग महासुक्क-सहस्रार-आणय-पाणय-आरण-च्चुअ-हिट्ठिमगेविज्जग-मज्झिमगेविज्जग-उवरिमगेविज्जग-विजय-वेजयंत-जयन्त-अपराजित-सव्वट्टसिद्ध देवाय) सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तक, महाशुक, सहस्रार,

रमपि उपपद्यन्ते, निरन्तरमपि उपपद्यन्ते, सिद्धाः खलु भदन्त ! किं सान्तरं सिध्यन्ति, निरन्तरं सिध्यन्ति ? गौतम ! सान्तरमपि सिध्यन्ति, निरन्तरमपि सिध्यन्ति ॥ सू० ४ ॥

टीका—अथ तृतीयं सान्तरनिरन्तरद्वारमधिकृत्य प्ररूपयितुमाह—‘नेरइयाणं भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति’ ‘गौतमः पृच्छति’—हे भदन्त ! नेरयिकाः खलु किं सान्तरम्—काल व्यनधानेन उपपद्यन्ते, किं वा निरन्तरम्—कालाव्यवधानेन निरवच्छिन्नमित्यर्थः, उपपद्यन्ते’ भगवान् आह—‘गोयमा’ हे

त्रैवेयक, उपरितन त्रैवेयक, विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्ध विमान के देशों भी (संतरंपि उववज्जति निरंतरंपि उववज्जंति) सान्तर भी उत्पन्न होते हैं, निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं

(सिद्धाणं भंते ! किं संतरं सिज्झंति निरंतरं सिज्झंति) हे भगवन् ! सिद्ध क्या सान्तर सिद्ध होते हैं अथवा निरन्तर सिद्ध होते हैं (गोयमा ! संतरंपि सिज्झति, निरंतरंपि सिज्झंति) हे गौतम ! सान्तर भी सिद्ध होते हैं, निरन्तर भी सिद्ध होते हैं

टीकार्थ—अब तीसरे सान्तर और निरन्तर द्वार के आधार से प्ररूपणा की जाती है—

गौतमस्वामी प्रश्न करते हैं हे भगवन् ! नारक जीव क्या सान्तर अर्थात् बीच बीच में कुछ समय छोड़ कर उत्पन्न होते हैं अथवा निरन्तर अर्थात् लगातार प्रत्येक समय उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! नारक जीव सान्तर भी उत्पन्न होते हैं और

आनत, प्राणुत, आरणु, अरुथुत, अधरतन, त्रैवेक, मध्यम त्रैवेयक, उपरितन त्रैवेयक, विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित अने सर्वार्थ सिद्ध विमानना द्वेषे पणु (संतरं पि उववज्जति, निरंतरं पि उववज्जंति) सान्तरं पणु उत्पन्नं थायं छे, निरन्तरं पणु उत्पन्नं थायं छे

(सिद्धाणं भंते ! किं संतरं सिज्झंति, निरंतरं सिज्झंति) हे भगवन् ! सिद्धं शु सान्तरं सिद्धं थायं छे अथवा निरन्तरं सिद्धं थायं छे ? (गोयमा ! संतरं पि सिज्झति, निरंतरं पि सिज्झंति) हे गौतम ! सान्तरं पणु सिद्धं थायं छे, निरन्तरं पणु सिद्धं थायं छे

टीकार्थ—इसे त्रीन् सान्तर अने निरन्तर द्वारना आधारथी प्ररूपणा करायं छे. श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! नारक एव शु सान्तरं अर्थात् वयमा वयमा थोडा समय छोडीने उत्पन्न थायं छे. अथवा निरन्तरं अर्थात् सतत प्रत्येक समयमा उत्पन्न थायं छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! नारक एव सान्तरं पणु उत्पन्नं थायं छे. अने

गौतम ! 'संतरं पि उववज्जंति, निरंतरंपि उववज्जंति' कदाचित् सान्तरमपि नैरयिका उत्पद्यन्ते, अथ कदाचित् निरन्तरमपि नैरयिका उपपद्यन्ते, तेषां तथा स्वभावत्वात् गौतमः पृच्छति--'तिरिक्त्तुजोणियाणं भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ? हे भदन्न ! तिर्यग्गोनिक्काः खलु किं सान्तरम् उपपद्यन्ते, किं वा निरन्तरमुपपद्यन्ते' भगवान् आह--'गोयमा !' हे गौतम ! 'संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति' कदाचित् सान्तरमपि तिर्यग्गोनिक्का उपपद्यन्ते, कदाचित् निरन्तरमपि तिर्यग्गोनिक्काः उपपद्यन्ते अत्रापि स्वभाव एव कारणम् गौतमः पृच्छति--'मणुस्साणं भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ? हे भदन्न ! मनुष्याः खलु किं सान्तरमुपपद्यन्ते, किं वा निरन्तरमुपपद्यन्ते ? भगवान् आह--'गोयमा !' हे गौतम ! 'संतरं पि उववज्जंति, निर-

निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं तात्पर्य यह कि कभी कभी नारक जीवों की उत्पत्ति लगातार होती रहती है बीच में कोई समय खाली नहीं जाता और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी उत्पत्ति में काल का व्यवधान पड़ जाता है ।

गौतम-हे भगवन् ! तिर्यक् सान्तर उत्पन्न होते हैं अथवा निरन्तर उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! सान्तर भी उत्पन्न होते हैं और निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं । इसका कारण स्वभाव ही है ।

गौतम-हे भगवन् मनुष्य सान्तर उत्पन्न होते हैं अथवा निरन्तर उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! कदाचित् सान्तर भी उत्पन्न होते हैं, कदा-

निरन्तर पणु उत्पन्न थाय छे तात्पर्य अये छे डे डेड डेड वण्ठे नारक लुवेनी उत्पत्ति सतत थया करे छे, वयंमा डेड समय णादी नथी जते, अने क्यारेड क्यारेड अेषु पणु अने छे डे तेमनी उत्पत्तिमा डणणु व्यवधान आवी जय छे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! तिर्यक् सान्तर उत्पन्न थाय छे अथवा निरन्तर उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! सान्तर पणु उत्पन्न थाय छे, निरन्तर पणु उत्पन्न थाय छे तेनु कारण स्वभाव एव छे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! मनुष्य सान्तर उत्पन्न थाय छे डे निरन्तर उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! कदाचित् सान्तर पणु उत्पन्न थाय छे, कदाचित् निरन्तर पणु उत्पन्न थाय छे आवा प्रकारनी उत्पत्तिमा सर्वत्र स्वभाव एव कारण छे

तरं पि उपवज्जंति' कदाचित् सान्तरमपि मनुष्या उपपद्यन्ते, कदाचित् निरन्तर-
मपि मनुष्या उपपद्यन्ते, सर्वत्र स्वभाव एव तथोत्पादे हेतुः गौतमः पृच्छति—'देवाणं
भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति' हे भदन्त ! देवाः खलु किं
सान्तरमुपपद्यन्ते, किं वा निरन्तरमुपपद्यन्ते ? भगवान् आह—'गोयमा !' हे
गौतम ! 'संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति' कदाचित् सान्तरमपि देवा
उपपद्यन्ते, कदाचित् निरन्तरमपि देवा उपपद्यन्ते, तेषामपि तथा स्वभावत्वात्,
गौतमः पृच्छति—'रयणप्पभापुढवि नेरदयाणं भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरं-
तरं उववज्जंति' हे भदन्त ! रत्नप्रभापृथिवी नैरयिकाः खलु किं सान्तरमुपपद्यन्ते,
किं वा निरन्तरमुपपद्यन्ते ? भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'संतरं पि
उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति' कदाचित् रत्नप्रभापृथिवी नैरयिकाः सान्-
रमपि उपपद्यन्ते, कदाचित् निरन्तरमपि उपपद्यन्ते, 'एवं जाव अहे सत्तमाए
चित् निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार के उत्पाद में सर्वत्र
स्वभाव ही कारण है ।

गौतम—हे भगवान् ! देव क्या सान्तर उत्पन्न होते हैं या निरन्तर
उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम कदाचित् सान्तर भी उत्पन्न होते हैं, कदाचित्
निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! रत्नप्रभा पृथिवी के नारक सान्तर उत्पन्न
होते हैं अथवा निरन्तर उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! रत्नप्रभा के नारक कदाचित् सान्तर भी
उत्पन्न होते हैं कदाचित् निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार
शर्कराप्रभा बालुकाप्रभा, पंकप्रभा धूमप्रभा, तमःप्रभा तथा तमस्तमः-
प्रभा पृथिवी के नारक भी कदाचित् सान्तर और कदाचित् निरन्तर

श्री गौतमस्वामी—हे भगवान् ! देव शु सान्तर उत्पन्न थाय छे ? अथवा
निरन्तर उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! कदाचित् सान्तर पणु उत्पन्न थाय छे कदा-
चित् निरन्तर पणु उत्पन्न थाय छे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! रत्नप्रभा पृथ्वीना नारक सान्तर उत्पन्न
थाय के निरन्तर उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! रत्नप्रभा पृथ्वीना नारक कदाचित् सान्तर
उत्पन्न थाय छे, के कदाचित् निरन्तर पणु उत्पन्न थाय छे. अे प्रकारे शर्करा
प्रभा, बालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तम प्रभा तथा तमस्तमःप्रभा, पृथ्वीना

संतरंपि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति' एवम्—रत्नप्रभापृथिवी नैरयिकवदेव, यावत् शर्कराप्रभा—वालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा—धूमप्रभा—तमा अधःसप्तमपृथिवी नैरयिकाश्चापि कदाचित् सान्तरमपि उपपद्यन्ते, कदाचित् निरन्तरमपि उपपद्यन्ते तेषां तथोत्पादे स्वभाव एव शरणम्, गौतमः पृच्छति—'असुरकुमाराणं भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति' हे भदन्त ! असुरकुमाराः खलु किं सान्तरं मुपपद्यन्ते किं वा निरन्तरमुपपद्यन्ते, भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'संतरंपि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति' असुरकुमाराः कदाचित् सान्तरमपि उपपद्यन्ते, कदाचित् निरन्तरमपि उपपद्यन्ते, 'एवं जाव थणियकुमाराणं संतरंपि उववज्जंति, निरंतरंपि उववज्जंति' एवम्—असुरकुमारवदेव, यावत्—सुवर्णकुमारनागकुमार अग्निकुमार विधुत्कुमार—उदधिकुमार द्वीपकुमार—दिवकुमार पवनकुमार स्तनितकुमाराः खलु कदाचित् सान्तरमपि उपपद्यन्ते कदाचित् निरन्तरमपि उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'पुढविकाइयाणं

उत्पन्न होते हैं ! उनके इस प्रकार के उत्पाद का कारण उनका उस प्रकार का स्वभाव ही है ।

गौतम—हे भगवन् ! असुरकुमार क्या सान्तर उत्पन्न होते हैं अथवा निरन्तर उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम असुरकुमार कभी सान्तर भी उत्पन्न होते हैं कभी निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार सुवर्णकुमार, नागकुमार, अग्निकुमार, विधुत्कुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार, पवनकुमार और स्तनितकुमार भी कभी सातर उत्पन्न होते हैं कभी निरन्तर उत्पन्न होते हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! । पृथिवीकायिक क्या सान्तर उत्पन्न होते

नारक पणु कदाचित् सान्तर अने कदाचित् निरन्तर उत्पन्न थाय छे. तेमनी आवा प्रकारनी उत्पत्तिनु कारणु तेमना आवा प्रकारना स्वभावनु ज छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! असुरकुमार शु सान्तर उत्पन्न थाय छे, अथवा निरन्तर उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! असुरकुमार क्यारेक सान्तर पणु उत्पन्न थाय छे, क्यारेक निरंतरं पणु उत्पन्न थाय छे. ओज प्रकारे सुवर्णकुमार, नागकुमार, अग्निकुमार, विधुत्कुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार, दिक्कुमार, पवनकुमार, अने स्तनितकुमार पणु केळ केळ वभते सान्तर उत्पन्न थाय छे, क्यारेक क्यारेक निरंतरं उत्पन्न थाय छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! पृथ्वीकायिक सान्तर उत्पन्न थाय छे, अथवा निरंतरं उत्पन्न थाय छे ?

भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ? हे भदन्त ! पृथिवीकायिकाः खलु किं सान्तरमुपपद्यन्ते, किं वा निरन्तरमुपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा’ हे गौतम ? ‘णो संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति’ पृथिवीकायिका नो सान्तरमुपपद्यन्ते, किन्तु निरन्तरमेवोपपद्यन्ते, तेषामपि तथा स्वभावत्वात्, ‘एवं जाव वणस्सइकाट्टयाण संतरं उववज्जंति’ एवम्—पृथिवीकायिकवदेव यावत्—अप्कायिकाः तेजःकायिकाः, वायुकायिकाः वनस्पतिकायिका नो सान्तरमुपपद्यन्ते, निन्तु निरन्तरमेव उपपद्यन्ते तेषामपि तथा स्वभावत्वात्, गोतमः पृच्छति—‘वेइंदियाणं भंते ! किं संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ? हे भदन्त ! द्वीन्द्रियाः खलु किं सान्तरमुपपद्यन्ते, किं वा निरन्तरमुपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति’ द्वीन्द्रियाः कदाचित् सान्तरमपि उपपद्यन्ते, कदाचित् निरन्तरमपि उपपद्यन्ते, हैं अथवा निरन्तर उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! पृथिवीकायिक सान्तर नहीं उत्पन्न होते, अर्थात् उनकी उत्पत्ति में काल का कभी व्यवधान नहीं होता, वे निरन्तर अर्थात् प्रतिसमय उत्पन्न होते रहते हैं, उनका भी ऐसा ही स्वभाव है। इसी प्रकार वनस्पतिकाय तक अर्थान् अप्काय, तेजःकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के जीव निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं, उनकी उत्पत्ति में भी कभी समय का अन्तर नहीं पडता।

गौतम—हे भगवन् ! द्वीन्द्रिय क्या सान्तर उत्पन्न होते हैं या निरन्तर उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! कभी सान्तर भी उत्पन्न होते हैं कभी निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं। पंचेन्द्रिय तिर्यचों तक इसी प्रकार

श्री भगवान्—हे गौतम ! पृथ्वीकायिक सान्तर उत्पन्न नहीं थता, अर्थात् तेमनी उत्पत्तिमा काणत्तु क्यारेय व्यवधान नहीं थतु, तेओ निरंतर अर्थात् प्रति समय उत्पन्न थया ज करे छे, तेमनो पणु तेवो ज स्वभाव छे. ओ रीते वनस्पतिकाय सुधी अर्थात् अप्काय, तेज काय, वायुकाय, अने वनस्पतिकायना एव निरन्तर उत्पन्न थया ज करे छे, तेमनी उत्पत्तिमा क्यारेय समयत्तु अन्तर नहीं पडत्तु

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! द्वीन्द्रिय एव शु सान्तर उत्पन्न थाय छे के निरन्तर उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! केअ वार सान्तर पणु उत्पन्न थाय छे, केअ वार निरन्तर, पणु उत्पन्न थाय छे. पंचेन्द्रिय तिर्यचो सुधी ओ ज रीते

‘एवं जाव पंचिदियतिरिक्सजोणिया’ एवम् द्वीन्द्रियवदेव यावत्. त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रियपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः कदाचित् सान्तरम्पि उपपद्यन्ते, कदाचित् निरन्तरम्पि उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—‘मणुस्साणं भंते ! ऋ संतरं उववज्जति, निरंतरं उववज्जंति ?’ हे भदन्त ! मनुष्याः खलु किं सान्तरमुपपद्यन्ते किं वा निरन्तरमुपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘संतरंपि उववज्जंति, निरतरं पि उववज्जंति’ मनुष्याः कदाचित् सान्तरम्पि उपपद्यन्ते, निरन्तरम्पि उपपद्यन्ते, ‘एवं वाणमंतराजोडसिया’ एवम्—मनुष्यवदेव वानव्यन्तराः ज्योतिष्काः ‘सोहम्मीसाणसणकुमारमाहिंदवंभलोयलंतगमहासुकसहस्सार आणय-पाणय आरणअच्चुअहिट्टिमगेविज्जगमज्झिमगेविज्जगउवरिल्लमगेविज्जगविजयवे-जयंतजयंतअपराजित सव्वट्ठसिद्ध देवाय’ सौधर्मेशानसनत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मलोक-लान्तक महाशुकसहस्रारानतप्राणतारणाच्युताधस्तनग्रैवेयकमध्यमग्रैवेयकोपरितन-ग्रैवेयकविजयवेजयन्तजयन्तापराजितसर्वार्थसिद्धदेवाश्च ‘संतर पि उववज्जति

कहना चाहिए, अर्थात् त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय तिर्यंच भी इसी प्रकार सान्तर और निरन्तर उत्पन्न होते हैं।

गौतम—हे भगवन् ! मनुष्य क्या सान्तर उत्पन्न होते हैं या निरन्तर उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! मनुष्य कदाचित् सान्तर भी उत्पन्न होते हैं कदाचित् निरन्तर भी उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार वानव्यन्तरों और ज्योतिष्कों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, महेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तक, महाशुक, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, निचले ग्रैवेयक, विचले ग्रैवेयक और ऊपरले ग्रैवेयक, विजय, वैजयन्त, जयन्त अपराजित और सर्वार्थसिद्ध देव भी

कडेवु नोधये अर्थात् त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, अने पंचेन्द्रिय तिर्यं च पणु ये न प्रकारे सान्तर अने निरंतर उत्पन्न थाय छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! मनुष्य शु सान्तर उत्पन्न थाय छे के निरन्तर उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! मनुष्य कदाचित् सान्तर पणु उत्पन्न थाय छे, कदाचित् निरंतर पणु उत्पन्न थाय छे. ये रीते वानव्यन्तरा अने ज्योतिष्काना विषयभा पणु समणु लेवु नोधये. सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तक, महाशुक, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, निचला ग्रैवेयक, विचला ग्रैवेयक, अने ऊपरतु ग्रैवेयक, विजय वैजयन्त, जयन्त, अपराजित अने सर्वार्थ सिद्ध पणु कदाचित् सान्तर अने कदाचित् निरंतर उत्पन्न थाय छे.

निरंतरं पि उव्वज्जंति' कदाचित् सान्तरमपि उपपद्यन्ते, कदाचित् निरन्तरमपि उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'सिद्धाणं भंते ! किं संतरं सिज्झंति, निरंतरं सिज्झंति ?' हे भदन्त ! सिद्धाः खलु किं सान्तरं सिध्यन्ति, किं वा निरन्तरं सिध्यन्ति ? भगवानाह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'संतरं पि सिज्झंति, निरंतरं पि सिज्झंति' सिद्धाः कदाचित् सान्तरमपि सिध्यन्ति, कदाचित् निरन्तरमपि सिध्यन्ति, तथा स्वभावात् ॥सू० ४॥

सान्तरनिरन्तरोद्धर्तना वक्तव्यता—

मूलम्—नेरइयाणं भंते ! किं संतरं उव्वट्ठंति, निरंतरं उव्वट्ठंति ? गोयमा ! संतरं पि उव्वट्ठंति, निरंतरं पि उव्वट्ठंति, एवं जहा उववाओ भणिओ तथा उव्वट्ठणापि सिद्धवज्जा भाणिययव्वा, जाव वेमाणिया, णवरं जोइसियवेमाणिएसु चयणंति अहिलावो कायव्वो दारं ॥सू० ५॥

छाया—नैरयिकाः खलु भदन्त ! किं सान्तरमुद्धर्तन्ते, निरन्तरमुद्धर्तन्ते ? गौतम ! सान्तरमपि उद्धर्तन्ते, निरन्तरमपि उद्धर्तन्ते, एवं यथा उपपातो भणि-

कदाचित् सान्तर और कदाचित् निरन्तर उत्पन्न होते हैं ।

भगवन्—हे गौतम ! सिद्धजीव क्या सान्तर सिद्ध होते हैं अथवा निरन्तर सिद्ध होते रहते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! कदाचित् सान्तर भी सिद्ध होते हैं, कदाचित् निरन्तर भी सिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥

सान्तर निरन्तर उद्धर्तनावक्तव्यता

टीकार्थ—(नेरइया णं भंते ! किं संतरं उव्वट्ठंति, निरंतरं उव्वट्ठंति ? हे भगवन् ? नैरयिक क्या सान्तर उद्धर्तन करते हैं या निरन्तर उद्धर्तन करते हैं (गोयमा ! संतरं पि उव्वट्ठंति, निरंतरपि उव्वट्ठंति) हे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! सिद्ध एव शु सान्तर सिद्ध थाय छे ? अथवा निरन्तर सिद्ध थथ रडे छे ?

श्री भगवान् ! हे गौतम ! कदाचित् सान्तर पणु सिद्ध थाय छे कदाचित् निरन्तर पणु सिद्ध थाय छे ॥ ४ ॥

सान्तर—निरन्तर उद्धर्तना वक्तव्यता

शब्दार्थ—(नेरइयाणं भंते ! किं संतरं उव्वट्ठंति, निरंतरं उव्वट्ठंति ?) हे भगवन् ! नैरयिक शु सान्तर उद्धर्तन करे छे अगर निरन्तर उद्धर्तन करे छे (गोयमा ! संतरं पि उव्वट्ठंति निरंतरं पि उव्वट्ठंति) हे गौतम ! सान्तर पणु

तस्तथा उद्धर्तनापि सिद्धवर्जा भणितव्या, यावद् वैमानिकाः नवरं ज्योतिष्कवैमानिकेषु च्यवनमिति अभिलापः कर्तव्यः, द्वारम् ॥ सू० ५ ॥

टीका—अथ नैरयिकादीनामुद्धर्तनां प्ररूपयितुमाह—‘नेरडयाण भंते ! किं संतरं उव्वट्ठंति, निरंतरं उव्वट्ठंति ?’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! नैरयिकाः खलु किं सान्तरम्—किञ्चित्कालव्यवधानेन, उद्धर्तन्ते, किंवा निरन्तरम्—निरवच्छिन्नम् किञ्चित्कालव्यवधानेन सततमित्यर्थः उद्धर्तन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा ! हे

हे गौतम ! सान्तर भी उद्धर्त्तन करते हैं, निरन्तर भी उद्धर्त्तन करते हैं (एवं) इस प्रकार (जहा) जैसा (उव्वाओ भणिओ) उत्पाद कहा (तहा) उसी प्रकार (उव्वट्ठणा वि) उद्धर्त्तना भी (सिद्धवज्जा) सिद्धों को छोड़कर (भाणियव्वा) कहनी चाहिए (जाव वेमाणिया) वैमानिकों तक (नवरं जोइसियवेमाणिएसु चयणंति अहिलावो कायव्वो) विशेष यह कि ज्योतिष्क और वैमानिकों में ‘च्यवन’ ऐसा शब्द प्रयोग करना चाहिए द्वार’

टीकार्थ—अब नैरयिक आदि जीवों की उद्धर्त्तना की प्ररूपणा की जाती है—

गौ प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! नारकजीव सान्तर उद्धर्त्तन करते हैं ? अर्थात् नरक से नारक जीवों के निकलने में बीच बीच में समय का व्यनधान होता है, या निरन्तर अर्थात् लगातार प्रत्येक समय निकलते ही रहते हैं ?

भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! नारकजीव कभी सान्तर भी

उद्धर्त्तन करे छे. निरन्तर पणु उद्धर्त्तन करे छे (एवं) आ रीते (जहा) जेवे। (उव्वाओ भणिओ) उत्पाद क्खो (तहा) जेअ प्रकारे (उव्वट्ठणा वि) उद्धर्त्तना पणु (सिद्ध वज्जा) सिद्ध सिवाय (भाणियव्वा) क्खेवी जेअजे (जाव वेमाणिया) वैमानिके सुधी (नवरं जोइसिय वेमाणिएसु चयणंति अहिलावो कायव्वो) विशेष जे के ज्योतिष्क अने वैमानिकेभा ‘च्यवन’ जेवे शब्द प्रयोग करवे जेअजे ॥ २ ॥

टीकार्थ—जुवे नैरयिक आदि जेवोनी उद्धर्त्तनानी प्ररूपणा कराय छे श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! नारक जेव सान्तर उद्धर्त्तना करे छे अथवा निरन्तर उद्धर्त्तना करे छे ? अर्थात् नरकथी नारक जेवोने निकलवामा वयमा वयमा समयनुं व्यवधान थाय छे, अगर निरन्तर अर्थात् सतत प्रत्येक समय निकलता अ रहे छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! नारक जेव केअ वार सान्तर

गौतम ! 'संतरं पि उवद्धंति, निरंतरं पि उवद्धंति ?' नैरयिकाः कदाचित् सान्तरमपि उद्वर्तन्ते, कदाचित् निरन्तरमपि उद्वर्तन्ते ? 'एवं जहा उववाओ भणिओ तहा उव्वट्टणापि सिद्धवज्जा भाणियव्वा जाव वेमाणिया' एवम् पूर्वोक्तरीत्या, यथा उपपातो भणितस्तथा उद्वर्तनापि सिद्धवर्जा भणितव्या, यावद्-असुरकुमारादि भवनपति पृथिवीकायिकादि पञ्चैकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकमनुष्यवानव्यन्तरज्योतिष्कवैमानिकग्रवेयकपञ्चानुत्तरोपपातिका अपि वक्तव्याः, किन्तु 'णवरं जोरसियवेमाणिएसु चयणंति अद्विञ्चवो कायव्वो' नवरम्, विशेषस्तु ज्योतिष्कवैमानिकेषु च्यवनमिति अभिलापः कर्तव्यः, तेषामुद्वर्तनाया अभावात्, तथा च असुरकुमारादि वानव्यन्तरान्ताः जीवाः कदाचित् सान्तरमपि उद्वर्तन्ते, कदाचित् निरन्तरमपि उद्वर्तन्ते, ज्योतिष्कवैमानिकास्तु कदाचित् सान्तरमपि च्यवन्ति, कदाचित् निरन्तरमपि च्यवन्ति इत्येवमभिलापः कर्तव्यः इत्यागयः, 'दारं' इति तृतीयं द्वारम् समाप्तम् ॥सू० ५॥

उद्वर्तन करते हैं कभी निरन्तर भी उद्वर्तन करते हैं। इस प्रकार जैसी उत्पाद की प्ररूपणा की है, वैसी ही उद्वर्तना की भी प्ररूपणा करनी चाहिए, केवल सिद्धों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सिद्धों की उद्वर्तना होती नहीं है, अर्थात् एकवार सिद्ध होने के पश्चात् कोई सिद्ध गति से लौटता नहीं है।

तात्पर्य यह है कि असुरकुमार आदि भवनपति, पृथिवीकायिक आदि पांच एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियतिर्यच, मनुष्य, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क, कल्पोपपन्न वैमानिक, नवग्रैवेयक तथा पांच अनुत्तर विमान, इन सब के विषय में भी इसी प्रकार कहना चाहिए, मगर विशेष यह है कि ज्योतिष्कों और वैमानिकों के विषय में उद्वर्तना शब्द का प्रयोग न करके 'च्यवन' शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसका कारण पहले बतलाया जा चुका है ॥ ५ ॥

तृतीय द्वार समाप्त

पञ्च उद्वर्तना करे छे, कोछ वार निरन्तर पञ्च उद्वर्तन करे छे ओ प्रकारे जेवी उत्पादनी प्ररूपणा करी छे तेवी उद्वर्तनानी पञ्च प्ररूपणा करवी जेछओ, केवण सिद्धने छोडी देवा जेछओ, केभके सिद्धोनी उद्वर्तना थती नथी, अर्थात् ओक वार सिद्ध थया पछी कोछ सिद्धगतिभाथी पाछे करतो नथी.

तात्पर्य ओ छे के असुरकुमार आदि भवनपति, पृथिवीकायिक आदि पाञ्च एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, तिर्यच, मनुष्य, वानव्यन्तर ज्योतिष्क, कल्पोपपन्न, वैमानिक, नव ग्रैवेयक तथा पाञ्च अनुत्तर विमान आ अधाना विषयभा पञ्च ओ प्रकारे कहेवु जेछओ. पञ्च विशेष आ छे के ज्योतिष्को अने

मूलम्—नेरइयाणं भंते ! एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? गोयमा ! जहणणेणं एक्को वा, दो वा, तिन्नि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा उववज्जंति, एवं जाव अहे सत्त-
 माए, असुरकुमाराणं भंते ! एगसमएणं केवइया उववज्जंति,
 गोयमा ? जहणणेणं एक्को वा, दो वा, तिन्नि वा, उक्कोसेणं
 संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा, एवं नागकुमारा जाव थणियकुमारा
 वि भाणियत्वा, पुढविकाइयाणं भंते ! एगसमएणं केवइया
 उववज्जंति ? गोयमा ! अणुसमयं अविरहियं असंखेज्जा उवव-
 ज्जंति, एवं जाव वाउकाइया, वणस्सइकाइयाणं भंते ! एगसम-
 एणं केवइया उववज्जंति ? गोयमा ! सट्टाणुववाइयं वायं पडुच्च
 अणुसमयं अविरहिया अणंता उववज्जंति, परट्टाणुववाइयं
 पडुच्च अणुसमयं अविरहिया असंखेज्जा उववज्जंति ? वेइदियाणं
 भंते ! केवइया एगसमएणं उववज्जंति ? गोयमा ! जहणणेणं
 एगो वा, दो वा, तिन्नि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा,
 एवं तेइंदिया चउरिंदिया, संमुच्छिमपंचिंदियतिरिक्खजोणिया-
 गवभवक्कंतिय पंचिंदियतिरिक्खजोणिया संमुच्छिममणुस्सा
 वाणमंतरजोइसिय सोहम्मीसाण सणंकुमारमाहिंद वंभलोय-
 लंतगमहासुक्कसहस्सार कप्पदेवा ते जहा नेरइया, गवभवक्कं-
 तियमणूस आगयपाणयअरणअच्चुअगेवेज्जमअणुत्तरोववाइया
 य एते जहणणेणं इक्को वा, दो वा, तिन्नि वा, उक्कोसेणं
 संखेज्जा उववज्जंति, सिद्धाणं भंते ! एगसमएणं केवइया
 सिज्जंति ? गोयमा ! जहणणेणं एक्कं वा, दो वा, तिन्नि वा,
 उक्कोसेणं अट्ट सयं ॥सू० ६॥

वैभानिकेना विषयभा उद्भवर्तना शब्दने प्रयोग न करता “अ्यवन” शब्दने
 प्रयोग करवे न्नेधये, येतु कारणु आगण गतावेद छे ॥ ५ ॥

तृतीय द्वार समाप्त

गौतम ! 'संतरं पि उवद्वंति, निरंतरं पि उवद्वंति ?' नैरयिकाः कदाचित् सान्तरमपि उद्वर्तन्ते, कदाचित् निरन्तरमपि उद्वर्तन्ते ? 'एवं जहा उववाओ भणिओ तथा उव्वट्टणापि सिद्धवज्जा भाणियव्वा जाव वेमाणिया' एवम् पूर्वोक्तरीत्या, यथा उपपातो भणितस्तथा उद्वर्तनापि सिद्धवर्जा भणितव्या, यावद्-असुरकुमारादि भवनपति पृथिवीकायिकादि पञ्चैकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियतिर्यग्यो-निकमनुष्यज्ञानव्यन्तरज्योतिष्कवैमानिकग्रवेयकपञ्चानुचरोपपातिका अपि वक्तव्याः, किन्तु 'णवरं जोरसियवेमाणिएसु चयणंति अहिञ्जावो कायव्वो' नवरम्, विशेषस्तु ज्योतिष्कवैमानिकेषु च्यवनमिति अभिलापः कर्तव्यः, तेषामुद्वर्तनाया अभावात्, तथा च असुरकुमारादि वानव्यन्तरान्ताः जीवाः कदाचित् सान्तरमपि उद्वर्तन्ते, कदाचित् निरन्तरमपि उद्वर्तन्ते, ज्योतिष्कवैमानिकास्तु कदाचित् सान्तरमपि च्यवन्ति, कदाचित् निरन्तरमपि च्यवन्ति इत्येवमभिलापः कर्तव्यः इत्याशयः, 'दारं' इति तृतीयं द्वारम् समाप्तम् ॥६०॥ ५॥

उद्वर्तन करते हैं कभी निरन्तर भी उद्वर्तन करते हैं। इस प्रकार जैसी उत्पाद की प्ररूपणा की है, वैसी ही उद्वर्तना की भी प्ररूपणा करनी चाहिए, केवल सिद्धों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सिद्धों की उद्वर्तना होती नहीं है, अर्थात् एकवार सिद्ध होने के पश्चात् कोई सिद्ध गति से लौटना नहीं है।

तात्पर्य यह है कि असुरकुमार आदि भवनपति, पृथिवीकायिक आदि पांच एकैन्द्रिय विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियतिर्यच, मनुष्य, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क, कल्पोपपन्न वैमानिक, नवग्रवेयक तथा पांच अनुत्तर विमान, इन सब के विषय में भी इसी प्रकार कहना चाहिए, मगर विशेष यह है कि ज्योतिष्कों और वैमानिकों के विषय में उद्वर्तना शब्द का प्रयोग न करके 'च्यवन' शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसका कारण पहले बतलाया जा चुका है ॥ ५ ॥

तृतीय द्वार समाप्त

पणु उद्वर्तना करे छे, केध वार निरन्तर पणु उद्वर्तन करे छे अे प्रकारे लेवी उत्पादनी प्ररूपणा करी छे तेवी उद्वर्तनानी पणु प्ररूपणा करवी लेधअे, केवण सिद्धने छोडी देवा लेधअे, केमडे सिद्धोनी उद्वर्तना थती नथी, अर्थात् अेके वार सिद्ध थया पछी केध सिद्धगतिमाथी पाछे इरतो नथी.

तात्पर्य अे छे के असुरकुमार आदि भवनपति, पृथिवीकायिक आदि पांच अेकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, तिर्यच, मनुष्य, वानव्यन्तर ज्योतिष्क, कल्पोपपन्न, वैमानिक, नव ग्रवेयक तथा पांच अनुत्तर विमान आ अधाना विषयमां पणु अे प्रकारे कडेपु लेधअे. पणु विशेष आ छे के ज्योतिष्के अने

छाया—नैरयिकाः खलु भदन्त ! एक समयेन कियन्तः उपपद्यन्ते, गौतम ! जघन्येन एको वा, द्वौ वा त्रयो वा, उत्कृष्टेन संख्येया वा, असंख्येया वा, उपपद्यन्ते, एवं यावत् अधःसप्तम्याम्, असुरकुमाराः खलु भदन्त ! एक समयेन कियन्तः उपपद्यन्ते ? गौतम ! जघन्येन एको वा, द्वौ वा, त्रयो वा, उत्कृष्टेन संख्येया वा, असंख्येया वा, एवं नागकुमाराः, यावत् स्तनितकुमाराः अपि भणितव्याः, पृथिवीकायिकाः खलु भदन्त ! एक समयेन कियन्तः उपपद्यन्ते

एक समय द्वार—वक्तव्यता

शब्दार्थ—(नेरह्या णं भंते ! एगसमएणं केवह्या उववज्जंति ?) हे भगवन् एक समय में कितने नैरयिक उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा) हे गौतम ! कम से कम एक, दो तीन (उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा उववज्जंति) उत्कृष्ट संख्यात अथवा असंख्यात उत्पन्न होते हैं (एवं जाव अहेसत्तमाए) इसी प्रकार सातवी पृथ्वी तक समझ लेना

(असुरकुमारा णं भंते ! एगसमएणं केवह्या उववज्जंति ?) हे भगवन् ! असुरकुमार एक समय में कितने उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा, दो वा तिन्नि वा) हे गौतम ! कम से कम एक, दो, तीन (उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा) उत्कृष्ट संख्यात या असंख्यात (एवं नागकुमारा जाव धणिय कुमारा वि) इसी प्रकार नागकुमार यास्तु स्तनित कुमार भी (भाणियव्वा) कहने चाहिए

अेक समय द्वार—वक्तव्यता

शब्दार्थ—(नेरइयाणं भंते ! एगसमएणं केवह्या उववज्जंति ?) हे भगवन् ! अेक समयमा डेट्ठा नैरयिक उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा) हे गौतम ! ओछामा ओछा अेक, डे, अगर त्थु (उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा उववज्जंति) उत्कृष्ट संख्यात अथवा असंख्यात उत्पन्न थाय छे (एवं जाव अहे सत्तमाए) अे प्रकारे सातमी पृथ्वी सुधी

(असुरकुमारणं भंते ! एग समएण केवह्या उववज्जंति ?) हे भगवन् ! असुरकुमार अेक समयमा डेट्ठा उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा) हे गौतम ! ओछामा ओछा अेक, डे, त्थु (उक्कोसेण संखेज्जा वा असंखेज्जा वा उववज्जंति) उत्कृष्ट संख्यात अथवा असंख्यात (एवं नागकुमारा जाव धणियकुमारा वि) अे प्रकारे नागकुमार यावत् स्तनित कुमार त्थु (भाणियव्वा) छडेवा नोथअे.

गौतम ! अनुसमयम् अविरहितम् असंख्येया उपपद्यन्ते, एव यावत् वायुकायिकाः वनस्पतिकायिकाः खलु भदन्त ! एक समयेन क्रियन्तः उपपद्यन्ते ? गौतम ! स्वस्थानोपपातिकं प्रतीत्य अनुसमयम् अविरहिता अनन्ताः उपपद्यन्ते ? परस्थानोपपातिकं प्रतीत्य अनुसमयम् अविरहिता असंख्येया उपपद्यन्ते, द्वीन्द्रियाः खलु भदन्त ! कियन्त एक समयेन उपपद्यन्ते ? गौतम ! जघन्येन एको वा द्वौ वा

(पृथ्वीकाइया णं भंते ! एगसमएणं केवइया उववज्जंति ?) हे भगवन् ! पृथ्वीकायिक एक समय में कितने उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (अणुसमयं) प्रत्येक समय (अविरहियं) विना विरह के (असंखेज्जा उववज्जंति) असंख्यात उत्पन्न होते हैं (एवं जाव वाउकाइया) इसी प्रकार यावत् वायुकायिक (वणस्सइकाइया णं भंते ! एगसमएणं केवइया उववज्जंति ?) हे भगवन् ! वनस्पतिकायिक एक समय में कितने उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सट्टाणुववाइयं पडुच्च अणुसमयं अविरहिया अणंता उववज्जंति) स्वस्थान में उपपात की अपेक्षा प्रतिसमय, विना विरह के अनन्त वनस्पति जीव उत्पन्न होते रहते हैं (परट्टाणुववाइयं पडुच्च अणुसमयं अविरहिया असंखेज्जा उववज्जंति) परस्थान में उपपात की अपेक्षा प्रतिसमय, विना विरह के असंख्यात वनस्पति जीव उत्पन्न होते हैं

(वेइंदिया णं भंते ! केवइया एगसमएणं उववज्जंति ?) हे भगवन् ! द्वीन्द्रिय एक समय में कितने उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं

(पृथ्वीकाइयाणं भंते ! एग समएणं केवइया उववज्जंति ?) हे भगवन् ! पृथ्वीकायिक एक समयमा डेट्ठा उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (अणुसमयं) प्रत्येक समय (अविरहियं) विरह विना (असंखेज्जा उववज्जंति) असंख्यात उत्पन्न थाय छे

(एवं जाव वाउकाइया) ये रीते यावत् वायुकायिक (वणस्सइकाइयाणं भंते ! एग समएणं केवइया उववज्जंति ?) हे भगवन् ! वनस्पतिकायिक एक समयमा डेट्ठा उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (सट्टाणुववाइयं पडुच्च अणुसमयं अविरहिया अणंता उववज्जंति) स्वस्थानमा उपपातनी अपेक्षाये प्रति समय, विना विरहना अनन्त वनस्पति एव उत्पन्न थता रहे छे (परट्टाणुववाइयं पडुच्च अणुसमयं अविरहिया असंखेज्जा उववज्जंति) परस्थानमा उपपातनी अपेक्षाये प्रति समय, विना विरहना असंख्यात वनस्पति एव उत्पन्न थाय छे.

(वेइंदियाणं भंते ! केवइया एगसमएणं उववज्जंति ?) हे भगवन् ! द्वीन्द्रिय एक समयमा डेट्ठा उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं एगो वा दो वा

त्रयो वा, उत्कृष्टेन संख्येया वा असंख्येया वा, एवं त्रीन्द्रिया शत्रुरिन्द्रियाः, समुच्छिन्नमपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका गर्भव्युत्क्रान्तिक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः समुच्छिन्नमनुष्या वानव्यन्तरज्योतिष्क सौधर्मेशान सनत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मलोकलान्तक-महाशुकसहस्रारकल्पदेवास्ते यथा नैरयिकाः गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्यानतप्राण-तारणाच्युतग्रैवेयकानुत्तरोपपातिकाश्चेते जघन्येन एको वा द्वौ वा, त्रयो वा, उत्कृष्टेन संख्येया उपपद्यन्ते सिद्धाः खलु भवन्त ! एक समयेन कियन्तः सिध्यन्ति ? गौतम ! जघन्येन एको वा, द्वौ वा, त्रयो वा, उत्कृष्टेन अपृथगतम् ।

एगो वा दो वा तिग्नि वा) हे गौतम ! जघन्य एक, दो या तीन (उक्कोसे-
णं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा ?) उत्कृष्ट संख्यात अथवा असंख्यात
(एवं तेइंदिया) इसी प्रकार त्रीन्द्रिय (चउरिंदिया) चौइन्द्रिय (समु-
च्छिन्नमपंचिदियतिरिक्खजोणिया) समुच्छिन्न पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक
(गर्भवक्कंतियपंचिदियतिरिक्खजोणिया) गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यच
(समुच्छिन्नमणुरसा) समुच्छिन्न मनुष्य (वाणमंतर-जोइसिय-सोहम्मी-
साणसणकुमार माहिन्द वंभलोय लंतग महासुकसहस्रार कल्प-
देवा ते जहा नेरइया) वानव्यन्तर, ज्योतिष्क, सौधर्म ईशान,
सनत्कुमार, माहेन्द्र ब्रह्मलोक, लान्तक, महाशुक एव सहस्रार कल्प के
देव नारको के समान) गर्भवक्कंतिय मणूस आणय पाणय आरण
अच्युय गेवेज्ज अणुत्तरोववाइया य) गर्भज मनुष्य, आनत प्राणत
आरण अच्युत कल्पों के देव ग्रैवेयक और अनुत्तरोपपातिक देव
(एते जहण्णेणं इक्को वा दोवा तिग्नि वा) ये जघन्य एक, दो या तीन
(उक्कोसेणं संखिज्जा उववज्जंति) उत्कृष्ट संख्यात उत्पन्न होते हैं

तिग्नि वा) हे गौतम ! जघन्य एक, दो या तीन (उक्कोसेण संखेज्जा वा
असंखेज्जा वा) उत्कृष्ट संख्यात अथवा असंख्यात (एवं तेइंदिया) ये प्रकारे
त्रीन्द्रिय (चउरिंदिया) शत्रुरिन्द्रिय (समुच्छिन्नमपंचिदियतिरिक्खजोणिया) समुच्छिन्न
पंचेन्द्रियतिर्यग्योनिक (गर्भवक्कंतिय पंचिदियतिरिक्खजोणिया) गर्भज पंचे-
न्द्रिय तिर्यच (समुच्छिन्नमणुरसा) समुच्छिन्न मनुष्य (वाणमंतर-जोइसिय
सोहम्मीसाणसणकुमार माहिन्द-वंभलोय-लंतग-महासुक-सहस्रार-कल्पदेवा ते जहा
नेरइया) वानव्यन्तर, ज्योतिष्क, सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र,
ब्रह्मलोक, लान्तक, महाशुक, तेमव सहस्रार कल्पदेवा देव नारकोना समान
(गर्भवक्कंतिय-मणूस, आणय, पाणय, आरण, अच्युय, गेवेज्जग-अणुत्तरोववाइ-
याय) गर्भव मनुष्य, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत कल्पदेवा देव, ग्रैवेयक
और अनुत्तरोपपातिक देव (एते जहण्णेण इक्को वा, दो वा तिग्नि वा) ये
जघन्य एक, दो, त्रय (उक्कोसेणं संखिज्जा उववज्जंति) उत्कृष्ट संख्यात उत्पन्न

टीका—अथ नैरयिकादीनामेकसमयेनोपपात वक्तव्यता प्ररूपयितुमाह—
 'नैरइयाणं भंते ! एगसमएणं केवइया उववज्जंति' गौतमः पृच्छति—हे भदन्त !
 नैरयिकाः सल्ल एक समयेन एकस्मिन् समये कियन्तः उपपद्यन्ते भगवानाह—
 'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहण्णेणं एक्को वा, दो वा, तिन्नि वा, उक्कोसेणं संखे-
 ज्जा वा, असंखेज्जा वा, उववज्जंति' जघन्येन एक्को वा द्वौ वा, त्रयो वा नैर-
 यिकाः एकसमये उपपद्यन्ते, उत्कृष्टेन तु संख्येया वा असंख्येया वा नैरयिका
 एकस्मिन् समये उपपद्यन्ते 'एवं जाव अहे सत्तमाए' एवम् पूर्वोक्त नैरयिकरीत्या,
 यावत् रत्नप्रभा शर्कराप्रभा बालुकाप्रभा पङ्कप्रभा धूमप्रभा तमाऽधःसप्तमपृथिवी

(सिद्धा णं भंते ! एगसमएणं केवइया सिज्झ ति) हे भगवन् ! सिद्ध
 एक समय में कितने सिद्ध होते हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा,
 दोवा तिन्नि वा) हे गौतम ! जघन्य एक, दो या तीन (उक्कोसेणं
 अट्टसयं) उत्कृष्ट एक सौ आठ ।

टीकार्थ—अब यह प्ररूपणा की जाती है कि एक समय में नारक
 आदि जीव कितनी संख्या में उत्पन्न होते हैं ?—

गौतम स्वामी कहते हैं—भगवन् ! एक समय में कितने नारक
 उत्पन्न होते हैं ?

भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! एक समय में कम से कम
 एक दो अथवा तीन नारक उत्पन्न होते हैं और अधिक से
 अधिक संख्यात अथवा असंख्यात उत्पन्न होते हैं ? इसी प्रकार रत्न-
 प्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा और
 तमस्तमःप्रभा पृथ्वी के नारक भी एक समय में जघन्य एक, दो या

थाय छे 'सिद्धाण भंते ! एगसमएण केवइया सिज्झंति) हे भगवन् ! सिद्ध अेक
 समयमा केट्ठा सिद्ध थाय छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा)
 हे गौतम ! जघन्य अेक, वे, अगार त्रणु (उक्कोसेणं अट्टसयं) उत्कृष्ट अेकसो आठ

टीकार्थ—डुवे अे प्रइपण्णा कराय छे के अेक समयमा नारक आदि एव
 केट्ठी स भ्यामा उत्पन्न थाय छे ?

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् अेक समयमा केट्ठा नारक
 उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान् उत्तर आये छे—हे गौतम ! अेक समयमां अेछामां
 अेछा अेक, वे अगार त्रणु नारक उत्पन्न थाय छे अने अधिकथी अधिक
 संख्यात अथवा असंख्यात उत्पन्न थाय छे. अेज प्रकारे रत्नप्रला, शर्करा
 प्रला, बालुकाप्रला, पङ्कप्रला, धूमप्रला, तमःप्रला अने तमस्तमःप्रला पृथ्वीना

नैरयिका एकस्मिन् समये जघन्येन एको वा द्वौ वा, त्रयो वा, उत्कृष्टेन संख्येया वा असंख्येया वा उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति 'असुरकुमाराणं भंते ! एग समएणं केवइया उववज्जंति ? हे भदन्त ! असुरकुमाराः खलु एक समयेन कियन्तः उपपद्यन्ते ? भगवानाह—'गोयमा' हे गौतम ! 'जहण्णेणं एको वा, दो वा, तिन्नि वा उक्कोसेणं संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा' जघन्येन एको वा, द्वौ वा, त्रयो वा, असुरकुमारा एकस्मिन् समये, उत्कृष्टेन संख्येया वा असंख्येया वा उपपद्यन्ते 'एवं नागकुमारा जाव थणियकुमारा वि भाणियन्वा' एवम् असुरकुमारवदेव नागकुमारा यावत् सुवर्णकुमाराः अग्निकुमारा विद्युत्कुमाराः उदधिकुमारा द्वीपकुमारा दिक्कुमारा पवनकुमारा स्तनितकुमारा अपि भणितव्याः गौतमः पृच्छति—'पुदविकाइयाणं भंते ! एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? हे भदन्त ! पृथिवीका यिकाः खलु एकसमयेन कियन्त उपपद्यन्ते ? भगवानाह—'गोयमा' हे गौतम !

तीन और उत्कृष्ट संख्यात या असंख्यात उत्पन्न होते हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! एक समय में असुरकुमार कितने उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक, दो या तीन और उत्कृष्ट संख्यात असंख्यात उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार नागकुमारों से लेकर स्तनितकुमारों तक समझना चाहिए, अर्थात् नागकुमारों, सुवर्णकुमारों, अग्निकुमारों, विद्युत्कुमारों, उदधिकुमारों, द्वीपकुमारों, दिक्कुमारों, पवनकुमारों और स्तनितकुमारों की वक्तव्यता भी कहलेनी चाहिए ।

गौतम—हे भगवान् पृथिवीकायिक एक समय में कितने उत्पन्न होते हैं ?

नारक पण्ये एक समयमा जघन्ये एक, दो, अगरे त्रण्ये, अने उत्कृष्ट संख्यात अगरे असंख्यात उत्पन्न थाय छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! एक समयमा असुरकुमार डेटला उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जघन्ये एक दो त्रण्ये अने उत्कृष्ट संख्यात अगरे असंख्यात उत्पन्न थाय छे अने प्रकारे नागकुमारोथी लधने स्तनित कुमारो सुधी समज्जु जेधये अर्थात् नागकुमारो सुवर्णकुमारो, अग्निकुमारो विद्युत्कुमारो, उदधिकुमारो, द्वीपकुमारो, दिक्कुमारो, पवनकुमारो, अने स्तनित कुमारोनी वक्तव्यता पण्ये कडेवी जेधये.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! पृथ्वीकायिक एक समयमा डेटला उत्पन्न थाय छे ?

‘अणु यं अविरहियं असंखेज्जा उववज्जंति’ अनुसमयम् प्रतिसमयम्, अविर-
हितम् अशून्यम्, निरन्तरमित्यर्थः असंख्येया पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते ‘एवं
जाव वाउकाइया’ एवं पृथिवीकायिकरीत्या, यावत्-अपकायिकाः तेजःकायिकाः
वायुकायिका अपि अनुसमयम् अविरहितम् सततम् असंख्येया उपपद्यन्ते इत्या-
शयः’ गौतमः पृच्छति-‘घणस्सइकाइयाणं भंते ! एगसमएणं केवडया उवव-
ज्जंति’ हे भदन्त ! वनस्पतिकायिकाः खलु एक समयेन एकस्मिन् समये,
कियन्तः उपपद्यन्ते, भगवानाह-‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘सट्ठाणुदवाट्टय पडुच्च
अणुसमयं अविरहिया अणता उववज्जंति’ स्वस्थानौपपातिक प्रतीत्य-स्वस्थानम्
वनस्पतीनां वनस्पतित्वम् तस्मिन् उपपात एव औपपातिकस्तं प्रतीत्य तदपेक्षया
यदा अनन्तर भववनस्पतिकायिका एव पुनरपि वनस्पतिषु एव उत्पद्यमानाः
प्ररूप्यन्ते तदेत्यर्थः अनुसमयम्-प्रतिसमयम् अविरहितम्, सर्वकालम् अन-
न्तावनस्पतिकायिका उपपद्यन्ते प्रतिनिगोदमसंख्येयभागस्य निरन्तरमुत्पद्यमान

भगवान्-हे गौतम ! प्रत्येक समय, लगातार असंख्यात पृथिवी-
कायिक उत्पन्न होते रहते हैं इसी प्रकार अपकायिकों, तेजःकायिकों,
वायुकायिकों के विषय में भी समझ लेना चाहिए, अर्थात् वे भी
प्रत्येक समय लगातार असंख्यात-असंख्यात उत्पन्न होते रहते हैं ।

गौ -हे भगवन् ! एक समय में कितने वनस्पतिकायिक उत्पन्न
होते हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! स्वस्थान में उत्पत्ति की अपेक्षा प्रत्येक समय
में निरन्तर अनन्तवनस्पतिकायिक उत्पन्न होते हैं क्योंकि प्रत्येक
निगोद में असंख्यात भाग का निरन्तर उत्पाद और उद्घर्तन होता
रहता है और वे वनस्पतिकायिक अनन्त होते हैं । यहाँ स्वस्थान का

श्री भगवन्-हे गौतम ! प्रत्येक समय अविरत संख्यात असंख्यात
पृथ्वीकायिक उत्पन्न थाय छे (थता रहे छे) ज्येण प्रकारे अपकायिके, तेजसाका-
यिके, वायुकायिकेना विषयमा पणु समणु वेवु ज्येण्ये अर्थात् ज्ये पणु
प्रत्येक समय अविरत असंख्यात असंख्यात उत्पन्न थता रहे छे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! ज्येक समयमा केट्ठा वनस्पतिकायिक
उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान् ! हे गौतम ! स्वस्थानमा उत्पत्तिनी अपेक्षाज्ये प्रत्येक सभ-
यमा निरन्तर अनन्त वनस्पतिकायिक उत्पन्न थाय छे केमके प्रत्येक निगोदमां
असंख्यात भागना निरन्तर उत्पाद ज्ये उद्घर्तन थता रहे छे ज्ये ते
वनस्पतिकायिके अनन्त होय छे. अह्मी स्वस्थाननेो अर्थं वनस्पति लव सभ-

त्वेन उद्वर्तमानत्वेन चोपलभ्यमानत्वात् तेषाञ्च वनस्पतिकायिकानामनन्त-
त्वात् किन्तु 'परद्वानुववाइय पडुच्च अणुसमयं अविरहिया असंखेज्जा उवव-
ज्जंति' परस्थानोपपातिकम्-परस्थानमपृथिवीकायिकादयस्तेषु उपपात एव औप-
पातिकस्तम् प्रतीत्य पृथिवीकायिकाद्युपपातापेक्षया यदा पृथिवीकायिकादय
सम्भवादुद्बृत्त्य वनस्पतिषु उत्पद्यमानाः प्ररूप्यन्ते तदेत्यर्थः अनुसमयम् प्रतिसम-
यम् अविरहितम्-सर्वकालम् असंख्येया उपपद्यन्ते इति वक्तव्यम्, पृथिवीका-
यिकादीनामसंख्येयत्वात्, गौतमः पृच्छति- 'वेइंदियाणं भंते ! केवइया एग-
समएणं उववज्जंति ? हे भदन्त ! द्वीन्द्रियाः खलु कियन्त एकसमयेन
उपपद्यन्ते ? भगवानाह- 'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहण्णेणं एगो वा, दो वा,

अर्थ वनस्पति भव सरञ्जना चाहिए । जो वनस्पतिकायिक जीव मर
कर पुनः वनस्पतिकाय में ही उत्पन्न होते हैं उनका उत्पाद स्वस्थान में
उत्पाद कहलाता है और जब पृथ्वीकाय आदि किसी अन्य काय का जीव
वनस्पतिकाय में उत्पन्न होता है तब उसका उत्पाद परस्थान उत्पाद
कहलाता है । परस्थान उत्पाद की अपेक्षा प्रतिसमय निरन्तर असं-
ख्यात जीवों का उपपात होता है क्योंकि पृथ्वीकाय आदि के जीव असं-
ख्यात हैं । तात्पर्य यह है कि एक समय में वनस्पतिकाय से मर कर
वनस्पतिकाय में ही उत्पन्न होने वाले जीव अनन्त होते हैं एव अन्य
कार्यों से मर कर वनस्पिकाय में उत्पन्न होने वाले असंख्यात असं-
ख्यात हैं ।

गौतम-हे भगवन् ! एक समय में द्वीन्द्रिय जीव कितने उत्पन्न
होते हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! जघन्य एक दो या तीन और उत्कृष्ट

एवो जेधजे जे वनस्पतिकायिक एव मरीने इरीथी वनस्पति कायमा
उत्पन्न थाय छे. तेमना उत्पादने स्वस्थानमा उत्पाद कडेवाय छे अने न्यारे
पृथ्वीकाय आदि केअ अन्य कायनो एव वनस्पति कायमा उत्पन्न थाय छे त्तारे
तेनो उत्पाद परस्थान उत्पाद कडेवाय छे. परस्थान उत्पादनी अपेक्षाये प्रति
समय निरन्तर अम ज्ज्यात एवोने उपपात थाय छे, केमके पृथ्वीकाय आदिना
एव अस्स ज्ज्यात छे तात्पर्यजे के जेके समयमा वनस्पतिकायथी मरीने वन
स्पति कायमा उत्पन्न थनारा एव अनन्त होय छे तेमज्ज अट्ठकायोथी
मरीने वनस्पतिकायमा उत्पन्न थनारा अस्स ज्ज्यात छे

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् ! जेके समयमा द्वीन्द्रिय एव केटला
उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! जघन्य जेके, जे के त्रय, उत्कृष्ट स ज्ज्यात

तिन्नि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा, अमंखेज्जा वा' जघन्येन एको वा, द्वौ वा, त्रयो वा, उत्कृष्टेन संखयेया वा, असंखयेया वा द्वीन्द्रिया एकस्मिन् समये उपपद्यन्ते 'एवं तेइंदिया चउरिंदिया' एवम् द्वीन्द्रियवदेव त्रीन्द्रियाश्चतुरिन्द्रिया अपि जीवा जघन्येन एको वा द्वौ वा त्रयो वा उत्कृष्टेन संखयेया वा असंखयेया वा एकस्मिन् समये उपपद्यन्ते इत्याशयः, 'संमुच्छिमपंचिंदियतिरिखजोणिया' संमुच्छिमपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः 'गठभववकंतियपंचिंदियतिरिखजोणिया' गर्भव्युत्क्रान्तिकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः 'संमुच्छिममणुस्सा' संमुच्छिममनुष्याः, 'वाणमंतरजोइसिय सोइम्मीसाणमणंकुमारमाहिंदवंभलोयन्तगमहामुक्कसहरसारकप्पदेवा ते जहा नेरइया' वानव्यन्तरज्योतिष्कसौधर्मेशानसनत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मलोकलान्तकमहाशुक्रसहस्रारकल्पदेवास्ते यथा नैरयिकाः प्रतिपादितास्तथा प्रतिपत्तव्याः 'गठभवकंतियमणुसआणयपाणयआरणअच्चु भगेवेज्जगअणुत्तरोववाइया य एते जहण्णेणं एक्को वा, दो वा, तिन्नि वा, उक्कोसेणं सखिज्जा उववज्जंति' गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्यानतप्राणतारणाच्युतत्रैवेयकानुत्तरौपपातिकाश्च एते जघन्येन एको वा, द्वौ वा, त्रयो वा. उत्कृष्टेन संखयेया एकस्मिन् समये उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'सिद्धाणं भंते! एग समएण केवइया सिज्ज ति?' हे भदन्त ! सिद्धाः खलु

सख्यात अथवा असंख्यात उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय भी जघन्य एक, दो या तीन और उत्कृष्ट संख्यात अथवा असंख्यात समझने चाहिए संमुच्छिम पंचेन्द्रिय तिर्यचो गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यचो, संमुच्छिममनुष्यो वानव्यन्तरो, ज्योतिष्को, सौधर्म ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र ब्रह्मलोक लान्तक महाशुक्र, सहस्रार कल्प के देवों की प्ररूपणा नारकों के समान समझनी चाहिए । गर्भज मनुष्यों आनत, प्राणत आरण अच्युत त्रैवेयक और अनुत्तरौपपातिक देवों का जघन्य उपपात एक, दो अथवा तीन का तथा उत्कृष्ट संख्यात का एक समय में होता है ।

अथवा असंख्यात उत्पन्न थाय छे ओर प्रकारे त्रीन्द्रिय अने चतुरिन्द्रिय पणु जघन्य ओके, जे अगर त्रणु अने उत्कृष्ट संख्यात अथवा असंख्यात सम जवा जेई ओ. संमुच्छिम पंचेन्द्रिय तिर्यचो, गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यचो, संमुच्छिम मनुष्यो, वान व्यन्तरो, ज्योतिष्को, सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तक, महाशुक्र, सहस्रार कल्पना देवोनी प्ररूपणा नारकोना समान समजयी जेईओ गर्भज मनुष्यो, आनत प्राणत आरण अच्युत त्रैवेयक अने अनुत्तरौपपातिक देवोनी जघन्य उपपात ओके-जे त्रणु तथा उत्कृष्ट संख्यातने ओके समथभा थाय छे.

एक समयेन कियन्तः सिध्यन्ति ? भगवानाह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णेणं एक्कं वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं अट्ठसयं’ जघन्येन एक्को वा, द्वौ वा त्रयो वा, उत्कृष्टेन अष्टोत्तरशतम् एकस्मिन् समये सिद्धा सिध्यन्ति ॥ ६ ॥

मूलम्—नेरइयाणं भन्ते ! एगसमएणं केवइया उवट्ठंति ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा, दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा उवट्ठंति, एवं जहा उववाओ भणिओ तथा उव्वट्ठणा वि भाणियव्वा जाव अणुत्तरोववाइया, णवरं जोइसिय वेमाणियाणं चयणेणं अहिलावो कायव्वो दारं ॥सू० ७॥

छाया—नैरयिकाः खलु भदन्त ! एक समयेन कियन्तः उद्वर्तन्ते ? गौतम ! जघन्येन एको वा, द्वौ वा, त्रयो वा, उत्कृष्टेन संख्येया वा, असंख्येया वा, उद्वर्तन्ते, एवं यथा उपपातो भणितस्तथा उद्वर्तनापि भणितव्या यावद् अनु-

गौतम—हे भगवन् ! एक समय में कितने जीव सिद्धि प्राप्त करते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक, दो, तीन, उत्कृष्ट एक सौ आठ जीव एक समय में सिद्ध होते हैं ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—(नेरइया णं भन्ते ! एगसमएणं केवइया उव्वट्ठंति ? हे भगवन् ! एक समय में नारक कितने निकलते हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा) हे गौतम ! जघन्य एक, दो या तीन (उक्कोसेणं संखेज्जा वा) असंखेज्जा वा उत्कृष्ट संख्यात अथवा असंख्यात (उव्वट्ठंति) निकलते हैं (एव) इस प्रकार (जहा) जैसा (उववाओ भणिओ) उपपात कहा (तहा) उसी प्रकार (उव्वट्ठणा वि भाणियव्वा) उद्वर्तना

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! एक समयमा डेटला एव सिद्धि प्राप्त करे छे ?

श्री भगवान्—हे-गौतम ! जघन्य एक समयमा, जे अगार त्रयु, उत्कृष्ट एक से आठ एव एक समयमा सिद्ध थाय छे ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—(नेरइयाणं भन्ते ! एग समएणं केवइया उव्वट्ठंति) हे भगवन् ! एक समयमा डेटला नारक नरकधी अडार नीकणे छे ? (गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिन्निवा) हे गौतम ! जघन्य एक, जे अगार त्रयु (उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा) उत्कृष्ट संख्यात अथवा असंख्यात (उव्वट्ठंति) नीकणे छे (एवं) अे प्रकारे

त्तरौपपातिकाः नवरं ज्योतिष्कवैमानिकानां च्यवनेन अभिलापः कर्तव्यो द्वारम् ।
 टीका—अथ नैरयिकादीनामेकसमयेनोद्धर्तना प्ररूपयितुमाह—‘नेरडयाणं
 भंते ! एगसमएणं केवइया उवहुंति ?’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! नैरयिकाः
 खलु एकसमयेन कियन्तः उद्धर्तन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा’ हे गौतम !
 ‘जहण्णेणं एक्को वा दो वा, तिननि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा उव-
 हुंति’ जघन्येन एको वा द्वौ वा, त्रयो वा, उत्कृष्टेन संख्येया वा असंख्येया वा
 नैरयिका एकस्मिन् समये उद्धर्तन्ते, ‘एवं जहा उववाओ भणिओ तथा उवट्टणा
 वि भाणियच्चा’ एवम् पूर्वोत्तरीत्या यथा उपपातो भणितस्तथोद्धर्तनापि नैरयि-
 कादीनाम् भणितव्या—वक्तव्या, ‘जाव अणुत्तरोववाइया’ यावत्—असुरकुमारादि
 दशभवनपति पृथिवीकायिकादि पञ्चैकेन्द्रियविकलेन्द्रिय पञ्चैन्द्रियसंमूर्च्छिमतिर्य-
 ग्योनिकगर्भव्युत्क्रान्तिकपञ्चैन्द्रियतिर्यग्योनिरु संमूर्च्छिममनुप्यवानव्यन्तरज्योति-
 ष्कसौधर्मेशानसनत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मलोकलान्तकमहाशुक्रसहस्रारकल्पदेवगर्भव्यु -
 त्क्रान्तिकमनुष्यानतप्राणतारणाच्युतग्रैवेयकानुत्तरौपपातिकाः चतुर्विंशतिदण्डक
 पदप्रतिपाद्याः वक्तव्याः किन्तु ‘णवरं’ जोइसियवेमाणियाणं चयणेणं अहिलावो
 कायव्वो’ नवरम्—विशेषस्तु ज्योतिष्कवैमानिकानां च्यवनेन अभिलापः कर्तव्यो-
 न तु उद्धर्तनया, तेषां च्यवनस्यैव संभवेन उद्धर्तनाया असंभवादित्याशयः तदभि-
 लापस्तु ज्योतिष्काः खलु भदन्त ! एकसमयेन कियन्तश्च्यवन्ति ? गौतम !
 जघन्येन एको वा, द्वौ वा, त्रयो वा, उत्कृष्टेन संख्येया एकस्मिन् समये ज्यो-
 तिष्काश्च्यवन्ति, एवं वैमानिकानामपि अभिलापोऽवसेयः, ‘दारं’ इति चतुर्थ
 द्वारं समाप्तम् ॥ सू० ७ ।

पञ्चमद्वारवक्तव्यता

मूलम्—नेरडयाणं भंते ! कयोहिंतो उववज्जं ते ? किं नेर-
 इएहिंतो उववज्जंति तिरिक्खजोगिएहिंतो उववज्जंति, मणु-

भी कहनी चाहिए (जाव अणुत्तरोववाइया) यावत् अनुत्तरौपपाति क
 (नवरं जोइसिय वेमाणियाणं चयणेणं अहिलावो कायव्वो) विशेष
 यह कि ज्योतिष्क और वैमानिकों के लिए ‘च्यवन’ शब्द का प्रयोग
 करना चाहिए ॥ द्वार ॥ ७ ॥

(जहा) नेवा (उववाओ भणिओ) उपपात कधी (तहा) ते रीते (उव्वट्टणा वि
 भाणियच्चा) उद्धर्तना पणु कडेयी नेधं ये (जाव अणुत्तरोववाइया) अनुत्तरौ-
 पपातिक पर्थन्त (नवरं जोइसिय वेमाणियाणं चयणेणं अहिलावो कायव्वो) विशेष
 ये के ज्योतिष्क अने वैमानिकेना भाटे “च्यवन” शब्दने प्रयोग करवे नेधंये ॥७॥

स्तेहिंतो उववज्जंति, देवेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! नो
 नेरइएहिंतो उववज्जंति तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति,
 मणुस्सेहिंतो उववज्जंति नो देवेहिंतो उववज्जंति, जइ तिरि-
 क्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो
 उववज्जंति, बेइंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, तेइंदिय-
 तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, चउरिदियतिरिक्खजोणिए-
 हिंतो उववज्जंति, पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति,
 गोयमा ! नो एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो, नो बेइंदियतिरि-
 क्खजोणिएहिंतो, नो तेइंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो, नो चउ-
 रिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, पंचिंदियतिरिक्खजो-
 णिएहिंतो उववज्जंति, जइ पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उव-
 वज्जंति, किं जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति,
 थलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, खहयरपंचि-
 दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! जलयरपंचि-
 दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, थलयरपंचिंदियतिरिक्ख-
 जोणिएहिंतो उववज्जंति, खहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो
 उववज्जंति । जइ जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उवव-
 ज्जंति, किं संमुच्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उव-
 वज्जंति, गभवक्कंतियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो
 उववज्जंति ? गोयमा ! संमुच्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए
 हिंतो उववज्जंति, गभवक्कंतियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए
 हिंतो उववज्जंति, जइ संमुच्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए-
 हिंतो उववज्जंति, किं पज्जत्तयसंमुच्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्ख-
 जोणिएहिंतो उववज्जंति किं अपज्जत्तयसंमुच्छिमजलयरपंचिदि-

यतिरिक्खजोगिण्हितो उववज्जंति ? गोयमा ! पज्जत्तयसंमुच्छि-
मजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिण्हितो उववज्जंति, नो अपज्ज-
त्तयसंमुच्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिण्हितो उववज्जंति,
जइ गब्भवक्कंतियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिण्हितो उवव-
ज्जंति, किं पज्जत्तयगब्भवक्कंतियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगि-
ण्हितो उववज्जंति, अपज्जत्तयगब्भवक्कंतियजलयरपंचिंदिय-
तिरिक्खजोगिण्हितो उववज्जंति गोयमा ! पज्जत्तयगब्भवक्कं-
तियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिण्हितो उववज्जंति नो अप-
ज्जत्तयगब्भवक्कंतियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिण्हितो उव-
वज्जंति, जइ थलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिण्हितो उववज्जंति,
परिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिण्हितो उववज्जंति, गो-
यमा ! चउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिण्हितो उववज्जंति,
परिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिण्हितोऽवि उववज्जंति,
जइ चउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिण्हितो उववज्जंति,
किं संमुच्छिमेहितो उववज्जंति, गब्भवक्कंतियेहितो उवव-
ज्जंति ? गोयमा ! संमुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्ख-
जोगिण्हितोऽवि उववज्जंति, गब्भवक्कंतियचउप्पयथलयरपंचि-
दियतिरिक्खजोगिण्हितोऽवि उववज्जंति, जइ संमुच्छिमचउप्प-
यथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिण्हितो उववज्जंति, किं पज्जत्तग-
संमुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिण्हितो उववज्जं-
ति ? अपज्जत्तय चउप्पयथलयर संमुच्छिपंचिंदियतिरिक्खजोगि-
ण्हितो उववज्जंति ? गोयमा ! पज्जत्तगसंमुच्छिमचउप्पयथलयर
पंचिंदियतिरिक्खजोगिण्हितो उववज्जंति, नो अपज्जत्तगसंमु-
च्छिमचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिण्हितो उववज्जंति,
जइ गब्भवक्कंतियचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिण्हितो

स्तेर्हितो उववज्जंति, देवेर्हितो उववज्जंति ? गोयमा ! नो
 नेरइएर्हितो उववज्जंति तिरिक्खजोणिएर्हितो उववज्जंति,
 मणुस्सेर्हितो उववज्जंति नो देवेर्हितो उववज्जंति, जइ तिरि-
 क्खजोणिएर्हितो उववज्जंति, कि एग्गिंदियतिरिक्खजोणिएर्हितो
 उववज्जंति, वेइंदियतिरिक्खजोणिएर्हितो उववज्जंति, तेइंदिय-
 तिरिक्खजोणिएर्हितो उववज्जंति, चउरिदियतिरिक्खजोणिए-
 र्हितो उववज्जंति, पंचिंदियतिरिक्खजोणिएर्हितो उववज्जंति,
 गोयमा ! नो एग्गिंदियतिरिक्खजोणिएर्हितो, नो वेइंदियतिरि-
 क्खजोणिएर्हितो, नो तेइंदियतिरिक्खजोणिएर्हितो, नो चउ-
 रिंदियतिरिक्खजोणिएर्हितो उववज्जंति, पंचिंदियतिरिक्खजो-
 णिएर्हितो उववज्जंति, जइ पंचिंदियतिरिक्खजोणिएर्हितो उव-
 वज्जंति, किं जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएर्हितो उववज्जंति,
 थलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएर्हितो उववज्जंति, खहयरपंचि-
 दियतिरिक्खजोणिएर्हितो उववज्जंति ? गोयमा ! जलयरपंचि-
 दियतिरिक्खजोणिएर्हितो उववज्जंति, थलयरपंचिंदियतिरिक्ख-
 जोणिएर्हितो उववज्जंति, खहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएर्हितो
 उववज्जंति । जइ जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएर्हितो उवव-
 ज्जंति, किं संमुच्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएर्हितो उव-
 वज्जंति, गब्भवक्कंतियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएर्हितो
 उववज्जंति ? गोयमा ! संमुच्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए
 र्हितो उववज्जंति, गब्भवक्कंतियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए
 र्हितो उववज्जंति, जइ संमुच्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए-
 र्हितो उववज्जंति, किं पज्जत्तयसंमुच्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्ख-
 जोणिएर्हितो उववज्जंति किं अपज्जत्तयसंमुच्छिमजलयरपंचिंदि-

यतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! पज्जत्तयसंमुच्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, नो अपज्जत्तयसंमुच्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, जइ गढभवक्कंतियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं पज्जत्तयगढभवक्कंतियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, अपज्जत्तयगढभवक्कंतियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति गोयमा ! पज्जत्तयगढभवक्कंतियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति नो अपज्जत्तयगढभवक्कंतियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, जइ थलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, परिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, गोयमा ! चउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, परिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतोऽवि उववज्जंति, जइ चउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं संमुच्छिमेहिंतो उववज्जंति, गढभवक्कंतियेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! संमुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतोऽवि उववज्जंति, गढभवक्कंतियचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतोऽवि उववज्जंति, जइ संमुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं पज्जत्तगसंमुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? अपज्जत्तय चउप्पयथलयर संमुच्छिपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! पज्जत्तगसंमुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, नो अपज्जत्तगसंमुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, जइ गढभवक्कंतियचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो

उववज्जन्ति, किं संखेज्जवासाउ अगबभवक्कन्तियचउप्पयथलयर-
 पंचिंदियतिरिक्खजोगिएहिंतो उववज्जन्ति, असंखेज्जवा उय
 गबभवक्कन्तियचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिएहिंतो उ-
 ववज्जन्ति ? गोयमा ! संखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जन्ति, नो
 असंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जन्ति । जइ संखेज्जवासाउयगबभ-
 वक्कन्तियचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिएहिंतो उवव-
 ज्जन्ति, किं पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयगबभवक्कन्तियचउप्पयथलयर-
 पंचिंदियतिरिक्खजोगिएहिंतो उववज्जन्ति, अपज्जत्तयसंखेज्जवा-
 साउयगबभवक्कन्तियचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिएहिं-
 तो उववज्जन्ति ? गोयमा ! पज्जत्तेहिंतो उववज्जन्ति नो अपज्जत्त-
 यसंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जन्ति, जइ परिसप्पथलयरपंचिं-
 दियतिरिक्खजोगिएहिंतो उववज्जन्ति, किं उरपरिसप्पथलयर-
 पंचिंदियतिरिक्खजोगिएहिंतो उववज्जन्ति, भुयपरिसप्पथलयर
 पंचिंदियतिरिक्खजोगिएहिंतो उववज्जन्ति ? गोयमा ! दोहिंतो
 वि उववज्जन्ति ॥सू० ९॥

छाया—नैरयिकाः खलु भदन्त ! केभ्य उपपद्यन्ते ? किं नैरयिकेभ्यः
 उपपद्यन्ते, तिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, देवेभ्य उपपद्य-
 न्ते ? गौतम ! नो नैरयिकेभ्य उपपद्यन्ते, तिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, मनुष्येभ्य

पांचवां कुतः द्वार

शब्दार्थ—(नेरइया णं भन्ते ! कओहिंतो उववज्जन्ति ?) हे भगवन् !
 नैरयिक कहां से उत्पन्न होते हैं ? (किं नेरइएहिं तो उववज्जन्ति ?)
 क्या नैरयिकों से उत्पन्न होते हैं ? (तिरिक्खजोगिएहिंतो उववज्जन्ति ?)
 तिर्यग्योनिकों से उत्पन्न होते हैं ? (मणुस्सेहिंतो उववज्जन्ति ? मनुष्यों
 से उत्पन्न होते हैं ? (देवेहिंतो उववज्जन्ति) देवों से उत्पन्न होते हैं ?

पांच्यु कुत द्वार

शब्दार्थ—(नेरइयाण भन्ते ! कओहिंतो उववज्जन्ति) हे भगवन् ! नैरयिक
 क्याथी उत्पन्न थाय छे ? (किं नेरइएहिंतो उववज्जन्ति ?) थु नैरयिकोभाथी
 उत्पन्न थाय छे ? (तिरिक्खजोगिएहिंतो उववज्जन्ति ?) तिर्यग्योनिकोभाथी
 उत्पन्न थाय छे ? (मणुस्सेहिन्तो उववज्जन्ति) मनुष्योभाथी उत्पन्न थाय छे ?

उपपद्यन्ते, नो देवेभ्य उपपद्यन्ते, यदितिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते किम् एकेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, द्वीन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, त्रीन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, चतुरिन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! नो एकेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः, नो द्वीन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः, नो त्रीन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः, नो चतुरिन्द्रियतिर्यग्यो-

(गोयमा) हे गौतम ! (नो नेरइएहिंतो उववज्जंति) नैरयिकों से उत्पन्न नहीं होते हैं (तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं (मणुस्सेहिंतो उववज्जंति) मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं (नो देवेहिंतो उववज्जंति) देवों से उत्पन्न नहीं होते

(जइ) यदि तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) तिर्यच योनिकों से उत्पन्न होते हैं (किं एगिंदियतिरिक्खजोणिए हिंतो उववज्जंति) क्या एकेन्द्रिय तिर्यचयोनिकों से उत्पन्न होते हैं ? (वेइंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) द्वीन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं ? (तेइंदियतिरिक्खजोणिए हिंतो उववज्जंति ?) त्रीन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं ? (चउरिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) चौइन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं ? (पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?) पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (नो एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो) न एकेन्द्रिय तिर्यक्योनियों से (नो वेइंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो) न द्वीन्द्रिय तिर्यचों से (नो तेइंदियतिरि-

(देवोहिंतो उववज्जंति ?) देवोथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (नो नेरइएहिंतो उववज्जंति) नैरयिकोथी उत्पन्न नहीं थता (तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे (मणुस्सेहिंतो उववज्जंति) मनुष्योथी उत्पन्न थाय छे (नो देवोहिंतो उववज्जंति) देवोथी उत्पन्न नहीं थता

(जइ) यदि (तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) तिर्यच येनिडेथी उत्पन्न थाय छे (किं एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) शु अकेन्द्रिय तिर्यच येनिडेथी उत्पन्न थाय छे ? (वेइंदिय तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) द्वीन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ? (तेइंदिय तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) त्रीन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ? (चउरिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) चार इन्द्रियवाणा तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे (पंचिंदिय तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) प येन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (नो एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो) न अकेन्द्रिय तिर्यचोथी (नो वेइंदिय तिरिक्खजोणिएहिंतो) न द्वीन्द्रिय तिर्यचोथी (नो तेइंदिय

પૃષ્ઠેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે, કિં સમૂચ્છિમજલચરપૃષ્ઠેન્દ્રિય તિર્યગ્યોનિકે-
 ભ્ય ઉપપદ્યન્તે, ગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિક્કજલચરપૃષ્ઠેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે ?
 ગૌતમ ! સમૂચ્છિમજલચરપૃષ્ઠેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે, ગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિક્કજ-
 લચરપૃષ્ઠેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે, યદિ સમૂચ્છિમજલચરપૃષ્ઠેન્દ્રિયતિર્યગ્યો-
 નિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે, પર્યાપ્તસમૂચ્છિમજલચરપૃષ્ઠેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે ?

(જહ જલચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ) યદિ જલ-
 ચર પૃષ્ઠેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં તો (કિં સમુચ્છિમજલ-
 ચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ ?) કયા સમુચ્છિમ જલ-
 ચર પંચેન્દ્રિય તિર્યગ્યોનિકોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં ? (ગઽમ્બવકકતિયજલ-
 ચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ ?) ગર્ભ જલચરપંચેન્દ્રિય
 તિર્યગ્યોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં ? (ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (સમુચ્છિમજલ-
 ચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ) સમૂચ્છિમ જલચર
 પંચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં (ગઽમ્બવકકતિય જલચર
 પંચિદિયતિરિક્ષજોણિર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ) ગર્ભજલચરપંચેન્દ્રિય-
 તિર્યગ્યોં સે ઉત્પન્ન હોતે હે (જહ સમુચ્છિમજલચરપંચિદિયતિરિક્ષ-
 જોણિર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ) યદિ સમૂચ્છિમ જલચરપંચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોં સે
 ઉત્પન્ન હોતે હૈં (કિં પજ્જત્તયસમુચ્છિમજલચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિર્ણિ-
 તો ઉવવજ્જંતિ ?) કયા પર્યાપ્ત સમૂચ્છિમજલચર પંચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોં સે
 ઉત્પન્ન હોતે હૈં ? (કિં અપજ્જત્તયસમુચ્છિમજલચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિ-
 ણિર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ ?) કયા અપર્યાપ્તસમૂચ્છિમજલચર પંચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોં

(જહ જલચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ) ને જલચર પાણીમાં
 રહેવાવાળા પૃષ્ઠેન્દ્રિય તિર્યગ્યોનિકોથી ઉત્પન્ન થાય છે (કિં સમુચ્છિમજલ
 ચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ ?) શુ સમૂચ્છિમ જલચર પૃષ્ઠેન્દ્રિય-
 તિર્યગ્યોનિકોથી ઉત્પન્ન થાય છે ? (ગઽમ્બવકકતિય જલચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિર્ણિ-
 તો ઉવવજ્જંતિ ?) ગર્ભજ જલચર પૃષ્ઠેન્દ્રિય તિર્યગ્યોથી ઉત્પન્ન થાય છે ?
 (ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (સમુચ્છિમ જલચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ ?)
 સમૂચ્છિમ જલચર પૃષ્ઠેન્દ્રિય તિર્યગ્યોનિકોથી ઉત્પન્ન થાય છે (ગઽમ્બ-
 વકકતિય જલચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ) ગર્ભજ જલચર પૃષ્ઠેન્દ્રિય
 તિર્યગ્યોથી ઉત્પન્ન થાય છે (જહ સમુચ્છિમ જલચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિર્ણિ-
 તો ઉવવજ્જંતિ) ને સમૂચ્છિમ જલચર પૃષ્ઠેન્દ્રિય તિર્યગ્યોથી ઉત્પન્ન થાય
 છે (કિં પજ્જત્તય સમુચ્છિમ જલચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ ?) શુ

किम् अपर्याप्तकसंमूर्च्छिमजलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! पर्याप्तकसंमूर्च्छिमजलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, नो अपर्याप्तकसंमूर्च्छिमजलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते यदि गर्भव्युत्क्रान्तिकजलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते कि पर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिकजलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, अपर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिकजलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! पर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिकजलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्यो-

से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! पञ्जत्तयसंमुच्छिमजलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिणएहिंतो उववज्जंति, नो अपज्जत्तयसंमुच्छिमजलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिणएहिंतो उववज्जंति) हे गौतम ! पर्याप्तक संमूर्च्छिम जलयर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्त संमूर्च्छिम जलयर पंचेन्द्रियतिर्यचो से नहीं उत्पन्न होते हैं (जइ गवभवक्कंतिय जलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिणएहिंतो उववज्जंति) यदि गर्भजजलयर पंचेन्द्रियतिर्यचो से उत्पन्न होते हैं (किं पज्जत्तयगवभवक्कंतिय जलयर पंचिदियतिरिक्खजोगिणएहिंतो उववज्जंति, अपज्जत्तयगवभवक्कंतिय जलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिणएहिंतो उववज्जंति ?) तो क्या पर्याप्त गर्भज जलयर पंचेन्द्रियतिर्यचो से उत्पन्न होते हैं या अपर्याप्त गर्भज जलयर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! पज्जत्तयगवभवक्कंतियजलयर पंचिदियतिरिक्खजोगिणएहिंतो उववज्जंति,

पर्याप्त संमूर्च्छिम जलयर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न थाय छे ? (किं अपज्जत्तय संमुच्छिमजलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिणएहिंतो उववज्जंति) शु अपर्याप्त संमूर्च्छिम जलयर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! पज्जत्तय संमुच्छिम जलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिणएहिंतो उववज्जंति नो अपज्जत्तय संमुच्छिम जलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिणएहिंतो उववज्जंति) हे गौतम ! पर्याप्त संमूर्च्छिम जलयर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न थाय छे. अपर्याप्त संमूर्च्छिम जलयर पंचेन्द्रिय तिर्यचो नहीं (नथी) उत्पन्न थता (जइ गवभवक्कंतिय जलयर पंचिदियतिरिक्खजोगिणएहिंतो उववज्जंति) ने गर्भव जलयर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न थाय छे (किं पज्जत्तय गवभवक्कंतिय जलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिणएहि तो उववज्जंति, अपज्जत्तय गवभवक्कंतिय जलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिणएहिंतो उव वज्जंति ?) तो शु पर्याप्त गर्भव जलयर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न थाय छे अगरे अपर्याप्त गर्भव जलयर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! पज्जत्तयगवभवक्कंतिय जलयर पंचिदियतिरिक्खजोगिणएहिंतो उववज्जंति, नो अपज्जत्तय गवभवक्कंतिय जलयर पंचिदियतिरिक्खजोगिणएहिंतो उववज्जंति) हे गौतम !

નિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે, નો અપર્યાપ્તકર્મવ્યુત્ક્રાન્તિકજલચરપદ્મચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે, યદિ સ્થલચરપદ્મચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે, કિં ચતુષ્પદ સ્થલ-
ચરપદ્મચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે, પરિસર્પસ્થલચરપદ્મચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે ? ગૌતમ ! ચતુષ્પદસ્થલચરપદ્મચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે, પરિ-
સર્પસ્થલચરપદ્મચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્યોઽપિ ઉપપદ્યન્તે, યદિ ચતુષ્પદસ્થલચરપદ્મચે-
ન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે, કિં સંમુચ્છિમેભ્ય ઉપપદ્યન્તે, ગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિ-

નો અપજ્જન્તયગઘ્ભવક્રંતિય જલચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિણિહિંતો ઉવવજ્જંતિ) હે ગૌતમ ! પર્યાપ્ત ગર્ભજ જલચર તિર્યચ પંચેન્દ્રિયોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં, અપર્યાપ્ત ગર્ભજ જલચર તિર્યચ પંચેન્દ્રિયોં સે નહીં ઉત્પન્ન હોતે (જહ ધલચર પંચિદિયતિરિક્ષજોણિણિહિંતો ઉવવજ્જંતિ કિં ચઽપ્પયથલચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિણિહિંતો ઉવવજ્જંતિ પરિ-
સપ્પથલચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિણિહિંતો ઉવવજ્જંતિ ?) અગર સ્થ-
લચર પંચેન્દ્રિય તિર્યચોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં તો કયા ચતુષ્પદ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યચોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં, યા પરિસર્પ સ્થલચર પંચે-
ન્દ્રિય તિર્ય ચોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં ? (ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (ચઽપ્પયથ ધલચર પંચિદિયતિરિક્ષજોણિણિહિંતો ઉવવજ્જંતિ, પરિસપ્પથલચર-
પંચિદિયતિરિક્ષજોણિણિહિંતોઽપિ ઉવવજ્જંતિ) ચતુષ્પદ સ્થલચર પંચે-
ન્દ્રિય તિર્યચો સે મી ઉત્પન્ન હોતે હૈં ઓર પરિસર્પસ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યચોં સે મી ઉત્પન્ન હોતે હૈં ।

(જહ ચઽપ્પયથલચર પંચિદિયતિરિક્ષજોણિણિહિંતો ઉવવજ્જંતિ, કિં સંમુચ્છિમેહિંતો ઉવવજ્જંતિ, ગઘ્ભવક્રંતિણિહિંતો ઉવવજ્જંતિ ?

પર્યાપ્ત ગર્ભજ જલચર તિર્યચ પંચેન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થાય છે, અપર્યાપ્ત ગર્ભજ જલચર તિર્યચ પંચેન્દ્રિયોથી નથી ઉત્પન્ન થતા (જહ ધલચરપંચિદિય તિરિક્ષજોણિણિહિંતો ઉવવજ્જંતિ કિં ચઽપ્પયથલચરપંચિદિય તિરિક્ષજોણિણિહિંતો ઉવવજ્જંતિ ? પરિસપ્પથલચરપંચિ દિયતિરિક્ષજોણિણિહિંતો ઉવવજ્જંતિ ?) અગર સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યચોથી ઉત્પન્ન થાય છે તો શુ ચતુષ્પદ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યચોથી ઉત્પન્ન થાય છે, અગર પરિસર્પ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય ઉત્પન્ન થાય છે ? (ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (ચઽપ્પયથલચરપંચિ દિયતિરિક્ષ જોણિણિહિંતો ઉવવજ્જંતિ પરિસપ્પથલચરપંચિ દિય તિરિક્ષજોણિણિહિંતો ઉવવજ્જંતિ) ચતુષ્પદ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યચોથી પણ ઉત્પન્ન થાય છે, અને પરિસર્પ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યચોથી પણ ઉત્પન્ન થાય છે

(જહ ચઽપ્પયથલચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિણિહિંતો ઉવવજ્જંતિ, કિં સંમુચ્છિમે

કેમ્ય ઉપપદ્યન્તે ? ગૌતમ ? સંમૂર્ચ્છિમ ચતુષ્પદસ્થલચરપञ્ચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકે-
 મ્યોડપિ ઉપપદ્યન્તે, ગર્ભવ્યુત્ક્રાલિતઋચતુષ્પદસ્થલચરપञ્ચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેમ્યોડપિ
 ઉપપદ્યન્તે, યદિ સંમૂર્ચ્છિમ ચતુષ્પદસ્થલચરપञ્ચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેમ્ય ઉપપદ્યન્તે,
 કિં પર્યાપ્તઋસંમૂર્ચ્છિમ ચતુષ્પદસ્થલચરપञ્ચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેમ્ય ઉપપદ્યન્તે, અપ-
 ર્યાપ્તઋચતુષ્પદસ્થલચરસંમૂર્ચ્છિમપञ્ચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેમ્ય ઉપપદ્યન્તે ? ગૌતમ !

યદિ ચતુષ્પદસ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યચોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈ તો કયા
 સમૂર્ચ્છિમોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈ અથવા ગર્ભજો સે ઉત્પન્ન હોતે હૈ ?
 (ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (સમુચ્છિમ ચતુષ્પદસ્થલચરપંચિદિયતિરિક્ષ-
 જોણિણિહિતોડવિ ઉવવજ્જંતિ, ગર્ભવક્રકંતિય ચતુષ્પદસ્થલચરપંચિદિય
 તિરિક્ષજોણિણિહિતોડવિ ઉવવજ્જંતિ) સંમૂર્ચ્છિમ ચતુષ્પદ સ્થલચર
 પંચેન્દ્રિયતિર્યચો સે મી ઉત્પન્ન હોતે હૈં ઓર ગર્ભજ ચતુષ્પદ સ્થલચર
 પંચેન્દ્રિય તિર્યચો સે મી ઉત્પન્ન હોતે હૈં ।

(જહ સંમુચ્છિમ ચતુષ્પદસ્થલચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિણિહિતો
 ઉવવજ્જંતિ) યદિ સંમૂર્ચ્છિમ ચતુષ્પદ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યચો સે
 ઉત્પન્ન હોતે હૈ તો (કિં પજ્જત્તગસંમુચ્છિમ ચતુષ્પદસ્થલચર પંચિદિય-
 તિરિક્ષજોણિણિહિતો ઉવવજ્જંતિ) કયા પર્યાપ્ત સંમૂર્ચ્છિમ ચતુષ્પદ
 સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યચો સે ઉત્પન્ન હોતે હૈ । (અપજ્જત્તય ચતુષ્પદ-
 સ્થલચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિણિહિતો ઉવવજ્જંતિ ?) અપર્યાપ્ત ચતુષ્પદ
 સ્થલચર પંચેન્દ્રિયતિર્યચો સે ઉત્પન્ન હોતે હૈ ? (ગોયમા !) હે ગૌતમ !

હિતો ઉવવજ્જંતિ, ગર્ભવક્રકંતિણિહિતો ઉવવજ્જંતિ ?) યદિ ચતુષ્પદ સ્થલચર
 પંચેન્દ્રિય તિર્યચોથી ઉત્પન્ન થાય છે તો શુ સમૂર્ચ્છિમથી ઉત્પન્ન થાય છે
 અથવા ગર્ભજથી ઉત્પન્ન થાય છે ? (ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (સમુચ્છિમ ચતુષ્પદ
 સ્થલચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિણિહિ તો ઉવવજ્જંતિ, ગર્ભવક્રકંતિય ચતુષ્પદ સ્થલચર
 પંચિદિયતિરિક્ષજોણિણિહિતો ઉવવજ્જંતિ) સમૂર્ચ્છિમ ચતુષ્પદ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય
 તિર્યચોથી પણ ઉત્પન્ન થાય છે અને ગર્ભજ ચતુષ્પદ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય
 તિર્યચોથી પણ ઉત્પન્ન થાય છે

(જહ સમુચ્છિમચતુષ્પદસ્થલચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિણિહિતો ઉવવજ્જંતિ) યદિ
 સમૂર્ચ્છિમ ચતુષ્પદ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યચોથી ઉત્પન્ન થાય છે તો
 (કિં પજ્જત્તગ સંમુચ્છિમ ચતુષ્પદસ્થલચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિણિહિ તો ઉવવજ્જંતિ)
 શુ પર્યાપ્ત સમૂર્ચ્છિમ ચતુષ્પદ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યચોથી ઉત્પન્ન થાય
 છે ? (અપજ્જત્તય ચતુષ્પદસ્થલચરપંચિદિયતિરિક્ષજોણિણિહિ તો ઉવવજ્જંતિ ?) અપ-
 ર્યાપ્ત ચતુષ્પદ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યચોથી ઉત્પન્ન થાય છે ? (ગોયમા !) હે

पर्याप्तकसमूर्च्छिमचतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, नो अप-
 र्याप्तक समूर्च्छिमचतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, यदि
 गर्भव्युत्क्रान्तिकचतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, किं संख्येय-
 वर्षायुष्कगर्भव्युत्क्रान्तिकचतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते,
 असंख्येयवर्षायुष्क गर्भव्युत्क्रान्तिक चतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिके-
 भ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! संख्येयवर्षायुष्केभ्य उपपद्यन्ते नो असंख्येयवर्षा-
 युष्केभ्य उपपद्यन्ते; यदि संख्येयवर्षायुष्कगर्भव्युत्क्रान्तिकचतुष्पदस्थलचर-
 (पञ्जत्तगसंमुच्छिम चउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उव-
 वज्जंति) पर्याप्त समूर्च्छिमचतुष्पदस्थलचरपंचेन्द्रियतिर्यचो से उत्पन्न
 होते हैं (नो अपञ्जत्तगसंमुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्ख-
 जोणिएहिंतो उववज्जंति) अपर्याप्त कसमूर्च्छिमचतुष्पदस्थलचरपंचेन्द्रि-
 यतिर्यचो से नहीं उत्पन्न होते ।

(जइ गव्भवक्कंतिय चउप्पयथलयर पंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो
 उववज्जंति) यदि गर्भज चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रियतिर्यचो से उत्पन्न
 होते हैं (किं संखेज्जवासाउयगव्भवक्कंतिय चउप्पयथलयर पंचिदिय-
 तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) क्या संख्यात वर्ष की आयुवाले
 गर्भज चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रियतिर्यचो से उत्पन्न होते हैं (असं-
 खेज्जवासाउयगव्भवक्कंतिय चउप्पयथलयर पंचिदियतिरिक्खजोणिए-
 हिंतो उववज्जंति ?) असंख्यातवर्ष की आयु वाले गर्भज चतुष्पद
 स्थलचर पंचेन्द्रियतिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा !) हे गौतम !
 (संखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति) संख्यातवर्ष की आयुवालो से

गौतम ! (पञ्जत्तग संमुच्छिम चउपय थलयरपंचि दियतिरिक्खजोणिएहि तो उवव-
 ज्जंति) पर्याप्त समूर्च्छिम चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय
 छे (नो अपञ्जत्तग संमुच्छिम चउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति)
 अपर्याप्तक समूर्च्छिम चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी नथी उत्पन्न थता

(जइ गव्भवक्कंतिय चउप्पयथलयरपंचि दियतिरिक्खजोणिएहि तो उवव-
 ज्जंति) यदि गर्भज चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे
 (किं संखेज्जवासाउयगव्भवक्कंतियचउप्पयथलयरपंचि दियतिरिक्खजोणिएहि तो उवव-
 ज्जंति) शु स ख्यात वर्षानी आयुवाणा गर्भज चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय
 तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे (असंखेज्जवासाउयगव्भवक्कंतियचउप्पयथलयरपंचि दिय-
 तिरिक्खजोणिएहि तो उववज्जंति ?) असंख्यातवर्षानी आयुवाणा गर्भज चतुष्पद
 स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (सखे-

पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, किं पर्याप्तकसंख्येयवर्षायुष्कगर्भव्युत्क्रान्तिकचतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, अपर्याप्तकसंख्येयवर्षायुष्कगर्भव्युत्क्रान्तिरुचतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! पर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते, अपर्याप्तकसंख्येयवर्षायुष्केभ्य उपपद्यन्ते, यदि-

उत्पन्न होते हैं (नो असंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति) असंख्यात वर्ष की आयु वालो से नहीं उत्पन्न होते

(जइ संखेज्जवासाउयगवभवककंतिय चउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) यदि संख्यातवर्ष की आयु वाले गर्भज चतुष्पदस्थलचरपंचेन्द्रियतिर्यचो से उत्पन्न होते हैं। किं पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयगवभवककंतिय चउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) क्या पर्याप्त संख्यातवर्ष की आयु वाले गर्भजचतुष्पदस्थलचरपंचेन्द्रियतिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ? (अपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयगवभवककंतियचउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?) अपर्याप्त संख्यातवर्ष की आयु वाले गर्भज चतुष्पदस्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! हे गौतम ! (पज्जत्तेहिंतो उववज्जंति, नो अपज्जत्तयसंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति) पर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्त संख्यातवर्ष की आयु वालो से नहीं उत्पन्न होते हैं।

ज्जवासाउएहि तो उववज्जंति) स ज्थात वर्षनी आयुवाणाथी उत्पन्न थाय छे (नो असंखेज्जवासाउएहि तो उववज्जंति) अस ज्थात वर्षनी आयुवाणाथी नथी उत्पन्न थता।

(जइ संखेज्जवासाउयगवभवककंतिय चउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) यदि स ज्थात वर्षनी आयुवाणा गर्भज चतुष्पद स्थलयर पंचेन्द्रिय तिर्थाथी उत्पन्न थाय छे ? (कि पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयगवभवककंतियचउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहि तो उववज्जंति) शु पर्याप्त स ज्थात वर्षनी आयुवाणा गर्भज चतुष्पद स्थलयर पंचेन्द्रिय तिर्थाथी उत्पन्न थाय छे ? (अपज्जत्तग संखेज्जवासाउयगवभवककंतियचउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहि तो उववज्जंति) अपर्याप्त स ज्थात वर्षनी आयुवाणा गर्भज चतुष्पद स्थलयर पंचेन्द्रिय तिर्थाथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! हे गौतम ! (पज्जत्तेहि तो उववज्जंति नो अपज्जत्तयसंखेज्जवासाउएहि तो उववज्जंति) पर्याप्तकोथी उत्पन्न थाय छे, अपर्याप्त स ज्थात वर्षनी आयुवाणाथी उत्पन्न नथी थता।

परिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते किम्—उरः परिसर्पस्थलचर-
पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, भुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य
उपपद्यन्ते, गौतम ! द्वाभ्यामपि उपपद्यन्ते ।

टीका—अथ नैरयिकाणां कस्माद् भवादुद्धर्तनानन्तरमुत्पत्ति भवति !
इति प्ररूपयितुमाह—‘नैरइया णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति’ गौतमः पृच्छति
हे भदन्त ! नैरयिकाः खलु केभ्यो भवेभ्यः—उपपद्यन्ते ? तदेव विशदयति—‘किं
नैरइएहिंतो उववज्जंति’ किं नैरयिकेभ्यः तद्भवेभ्यः इत्यर्थः नैरयिका उपप-

(जइ परिसर्पस्थलचरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति)
यदि परिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं । (किं उरपरि
सर्प थलचरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?) क्या उर
परिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रियतिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ? (भुजपरिसर्प
थलचरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?) भुजपरिसर्प-
स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! दोहिंतोवि
उववज्जंति) हे गौतम ! दोनों से उत्पन्न होते हैं

टीकार्थ—किस भव से उद्भवर्तना करके नारकों की उत्पत्ति होती
है, अर्थात् किस-किस भव से मृत्यु को प्राप्त होकर जीव नारकपर्याय
में उत्पन्न होते हैं, यह प्ररूपणा की जाती है-

गौतमस्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! नारक जीव कहां से अर्थात्
किन-किन भवों से उत्पन्न होते हैं ? इसी प्रश्न को स्पष्ट करते हैं—
क्या नरकभव से नरकभव में उत्पन्न होते हैं ? या तिर्यचयोनि वाले

(जइ परिसर्पथलचरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहि तो उववज्जंति) यदि परिसर्प
स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे (किं उरपरिसर्पथलचरपचि दिय
तिरिक्खजोणिएहि तो उववज्जंति ?) शु उरपरि सर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्य-
चोथी उत्पन्न थाय छे ? (भुजपरिसर्पथलचरपचि दियतिरिक्खजोणिएहि तो उवव-
वज्जंति) भुज परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ?
(गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्जंति) हे गौतम ! अन्नेथी उत्पन्न थाय छे

टीकार्थ—क्या अवधी उद्भवर्तना करीने नारकेनी उत्पत्ति थाय छे.
अर्थात् क्या क्या अवधी मृत्युने प्राप्त करी एव नारक पर्यायोभा उत्पन्न थाय
छे ओ प्रश्नथा कराय छे—

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! नारक एव क्याथी अर्थात्
क्या क्या अवधी उत्पन्न थाय छे ? ओ प्रश्नने स्पष्ट करे छे शु नरक

घन्ते ? किं वा—‘तिरिक्खजोणिएहिंतो उव्वज्जंति’ तिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? किं वा ‘मणुस्सेहिंतो उव्वज्जंति’ मनुष्येभ्यः—मनुष्यभवेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? किं वा ‘देवेहिंतो उव्वज्जंति’ देवेभ्यो—देवभवेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—गोयमा ! हे गौतम ! ‘नो नेरइएहिंतो उव्वज्जंति,’ नैरयिका नो नैरयिकेभ्य उपपद्यन्ते, अपि तु—‘तिरिक्खजोणिएहिंतो उव्वज्जंति’ तिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उत्पद्यन्ते, एवं ‘मणुस्सेहिंतो उव्वज्जंति’ मनुष्येभ्योऽपि नैरयिका उपपद्यन्ते, किन्तु ‘नो देवेहिंतो उव्वज्जंति,’ नो देवेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते देवभवानां निरययोग्यायुः कर्मबन्धकत्वाभावात् । गौतमः पृच्छति—‘जइ तिरिक्खजोणिएहिंतो उव्वज्जंति’ यदि तिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते तदा—‘किं एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उव्वज्जंति’ किं नैरयिका एकेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः उपपद्यन्ते, किं वा ‘वेइंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उव्वज्जंति’ द्वीन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? किं वा ‘तेइंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उव्वज्जंति’ नैरयिका स्त्रीन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उत्पद्यन्ते ‘किं वा चउरिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उव्वज्जंति’ चतुरिन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपप-

जीव नरकभव में उत्पन्न होते हैं ? या मनुष्य मर कर नरकभव में उत्पन्न होते हैं ? अथवा देव-भव से उद्घूर्त्तना करके नरकभव में उत्पन्न होते हैं ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! नारक नारकभव से उत्पन्न नहीं होते, किन्तु तिर्यच भव से उत्पन्न होते हैं, मनुष्यों से भी उत्पन्न होते हैं, मगर देवों से नहीं उत्पन्न होते, क्यों कि देव, नरक के योग्य आयु का बन्ध नहीं करते ।

गौतम—नारक यदि तिर्यचयोनिकों से उत्पन्न होते हैं तो क्या एकेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं ? द्वीन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं ? त्रीन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं ? चतुरिन्द्रिय तिर्यचों से

भवथी नरकभवमा उत्पन्न थाय छे ? अगार तिर्यच येनिवाणा एव नरक भवमा उत्पन्न थाय छे ? अगार मनुष्य मरीने नरक भवमा उत्पन्न थाय छे ? अथवा देव भवथी उद्घूर्त्तना करीने नरक भवमा उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! नारक नरक भवथी उत्पन्न नथी थता, किन्तु तिर्यच भवथी उत्पन्न थाय छे मनुष्येथी पणु उत्पन्न थाय छे, पणु देवेथी उत्पन्न थता नथी केभके देव नरकने योग्य आयुनेो बन्ध नथी करता

श्री गौतमस्वामी—नारक ने तिर्यच येनिकाथी उत्पन्न थाय छे तो शु अकेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ? द्वीन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ? त्रीन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ? अथवा पचेन्द्रिय तिर्यचोथी

घन्ते ? किं वा 'पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिएहितो उव्वज्जंति' नैरयिका पञ्चेन्द्रिय-
तिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ! भगवान् आह—'गोयमा ? हे गौतम ! 'नो एणि-
दियतिरिक्खजोणिएहितो' नो एकेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः 'नो वेडंदिद्यतिरिक्ख-
जोणिएहितो' नो वा द्वीन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः 'नो तेडंदिद्यतिरिक्खजोणिएहितो'
नो वा त्रीन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः 'नो चडंदिद्यतिरिक्खजोणिएहितो नो वा
चतुरिन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उत्पद्यन्ते अपि तु—'पंचिन्द्रियतिरिक्ख-
जोणिएहितो—उव्वज्जंति' पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते,
गौतमः पृच्छति—'जड पचिन्द्रियतिरिक्खजोणिएहितो उव्वज्जंति' यदि
पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते तदा—'जलचरपंचिन्द्रिय-
तिरिक्खजोणिएहितो उव्वज्जंति' किं जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपप-
द्यन्ते ? किं वा 'स्थलचरपंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिएहितो उव्वज्जंति' स्थलचर-
पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? किं वा—'दुहपरपंचिन्द्रियतिरि-
जोणिएहितो उव्वज्जंति' खेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते,
उत्पन्न होते हैं ? अथवा पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—गौतम ! न एकेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं, न
द्वीन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं, न त्रीन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न
होते हैं, न चतुरिन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं । किन्तु पञ्चेन्द्रिय
तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं ।

गौतम—यदि पंचेन्द्रिय तिर्यचों से नारक उत्पन्न होते हैं तो क्या
जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं ? क्या स्थलचर पंचेन्द्रिय
तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं ? या खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से
उत्पन्न होते हैं ।

भगवान्—गौतम ! जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं,
उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान् —हे गौतम ! न एकेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे, न
द्वीन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे, न त्रीन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय
छे, न चतुरिन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे, किन्तु पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी
उत्पन्न थाय छे.

श्री गौतमस्वामी—जे पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी नारक उत्पन्न थाय छे तो
शु जलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ? शु स्थलचर पञ्चेन्द्रिय
तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ? अगर खेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान् :—हे गौतम ! जलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय

भगवानाह—हे गौतम ! जलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जति, नैरयिका जलयरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, एवमेव—‘थलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जति’ स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्योऽपि नैरयिका उपपद्यन्ते, तथा ‘खहयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जति’ खेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्योऽपि नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति, ‘जइ जलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जति—यदा जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, तदा किं ‘समुच्छिमजलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जति ? किं समूच्छिमजलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? किं वा—‘गम्भवक्कंतियजलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जति ?’ गर्भव्युत्क्रान्तिकजलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! समुच्छिमजलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जति’ समूच्छिमजलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्योऽपि नैरयिका उपपद्यन्ते, एवं ‘गम्भवक्कंतियजलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जति’ गर्भव्युत्क्रान्तिकजलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्योऽपि नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—‘जइ समुच्छि-

स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से भी उत्पन्न होते हैं और खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से भी उत्पन्न होते हैं ।

गौतम—यदि जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं तो समूच्छिम जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं अथवा गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! नारक समूच्छिम जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से भी उत्पन्न होते हैं और गर्भज जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से भी उत्पन्न होते हैं ।

गौतम—भगवन् ! यदि समूच्छिम जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से

छे, स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे अने खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी पणु उत्पन्न थाय छे

श्री गौतमस्वामीः—यदि जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे तो समूच्छिम जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे अथवा गर्भज जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! नारक समूच्छिम जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी पणु उत्पन्न थाय छे अने गर्भज जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी पणु उत्पन्न थाय छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् जे समूच्छिम जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों

मज्जलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उव्वज्जंति' यदा संमूर्च्छिमजलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, तदा किं 'पज्जत्तयसंमुच्छिम जलयर पंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उव्वज्जंति' किं पर्याप्तकसंमूर्च्छिमजलचर पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, 'किं अपज्जत्तयसंमूर्च्छिमजलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उव्वज्जंति' किं वा अपर्याप्तक संमूर्च्छिम जलचर पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—गोयमा ! हे गौतम ! 'पज्जत्तयसंमुच्छिमजलयर पंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उव्वज्जंति' पर्याप्तक संमुच्छिम जलचर पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, किन्तु—'नो अपज्जत्तयसंमुच्छिमजलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उव्वज्जंति' नो अपर्याप्तकसंमूर्च्छिमजलचर पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'जइ गव्भवकंतियजलयर पंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उव्वज्जंति' यदा गर्भव्युत्क्रान्तिकजलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उत्पद्यन्ते, तदा—'किं पज्जत्तयगव्भवकंतियजलयर पंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उव्वज्जंति ?' किं पर्याप्तक गर्भव्युत्क्रान्तिक जलचर पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? किं वा—'अपज्जत्तयगव्भवकंतिय जलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उव्वज्जंति ?

उत्पन्न होते हैं तो क्या पर्याप्त संमूर्च्छिम जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं अथवा अपर्याप्त संमूर्च्छिम जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! पर्याप्त संमूर्च्छिम जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्त संमूर्च्छिम जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से नारक भव में नहीं उत्पन्न होते ।

गौतम—भगवन् ! यदि गर्भज जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से नारक उत्पन्न होते हैं तो क्या पर्याप्त गर्भज जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं अथवा अपर्याप्त गर्भज जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों

श्रेणी उत्पन्न थाय छे तो शु पर्याप्त संमूर्च्छिम जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों -
श्रेणी उत्पन्न थाय छे अथवा अपर्याप्त संमूर्च्छिम जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों -
श्रेणी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान् —हे गौतम ! पर्याप्त संमूर्च्छिम जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों -
श्रेणी उत्पन्न थाय छे, अपर्याप्त संमूर्च्छिम जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों श्रेणी
नरक लवमा उत्पन्न नथी थता.

श्री गौतमस्वामी हे भगवन् ! जो गर्भज जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों श्रेणी
नारक उत्पन्न थाय छे तो शु पर्याप्त गर्भज जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों श्रेणी
उत्पन्न थाय छे अथवा अपर्याप्त गर्भज जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों श्रेणी

अपर्याप्त गर्भव्युत्क्रान्तिक जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, भगवान् आह—‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘पञ्जत्तयगव्भवकंत्तिय जलयर पंचिदियतिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववज्जंति’ पर्याप्त गर्भव्युत्क्रान्तिक जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिके कोभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, किन्तु—‘नो अपञ्जत्तयगव्भवकंत्तिय जलयरपंचिदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति’ नो अपर्याप्तक गर्भव्युत्क्रान्तिक जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका—उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—‘जह थलयरपंचि-दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?’ यदा स्थलचर पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते तदा—‘कि चउप्पयथलयर पंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?’ किं चतुष्पद स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? किं वा—‘परिसप्पथलयर पंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?’ परिसर्पस्थल-यर पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘चउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति’ चतुष्पद-स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, ‘एवं परिसप्पथल यरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतोऽपि उववज्जंति’ परिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रिय

से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! पर्याप्त गर्भज जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्त गर्भज जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से नहीं उत्पन्न होते ।

गौतम—भगवान् ! यदि स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं तो क्या चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं अथवा परिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से

उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! पर्याप्त गर्भज जलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्य-चोथी उत्पन्न थाय छे, अपर्याप्त गर्भज जलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न नथी थता

श्री गौतमस्वामी :-हे भगवान् ! जे स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे तो शु चतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे अथवा परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्— हे गौतम चतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रियतिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे अने परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी पण उत्पन्न थाय छे.

श्री गौतमस्वामी.—यदि चतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न

तिर्यग्योनिकेभ्योपि नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—‘जड चउप्पयथल-
यरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति’ यदा चतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रिय-
तिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, तदा—किं संमुच्छिमपेदितो उववज्जंति ?
किं संमूर्च्छिमभ्यः—संमूर्च्छिमचतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः उपप-
द्यन्ते किं वा ‘गभभवकंतियएहितो उववज्जंति’ गर्भव्युक्रान्तिकेभ्यः—गर्भ-
व्युक्रान्तिरुचतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः उपपद्यन्ते ? भगवान्
आह—‘गोयमा’ हे गौतम ! संमुच्छिम—चउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणि-
एऽवि उववज्जंति’ संमूर्च्छिमचतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्योऽपि नैर-
यिका उपपद्यन्ते, ‘गभभवकंतिय चउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहितो-
ऽवि उववज्जंति’ गर्भव्युक्रान्तिकचतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्योऽपि
नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—‘जड संमुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिदियति-
रिक्खजोणिएहितो उववज्जंति’ यदा संमूर्च्छिम चतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्य-
ग्योनिकेभ्यो नैरयिका उत्पद्यन्ते, तदा ‘किं पज्जत्तगसंमुच्छिमचउप्पयथलयर पंचि-
दियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति ?’ किं पर्याप्तक संमुच्छिमचतुष्पदस्थलचर
पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? किं वा ‘अपज्जत्तगचउप्पयथल-
उत्पन्न होते हैं और परिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से भी
उत्पन्न होते हैं ।

गौतम—यदि चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते
हैं तो क्या संमूर्च्छिमों से उत्पन्न होते हैं अथवा गर्भजों से उत्पन्न
होते हैं ?

भगवन्—गौतम ! संमूर्च्छिम चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों
से भी उत्पन्न होते हैं और गर्भज चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रियों से
भी उत्पन्न होते हैं !

गौतम—भगवान् ! यदि संमूर्च्छिम चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय
तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं, तो क्या पर्याप्त संमूर्च्छिम चतुष्पद स्थलचर

थाय छे तो शु स मूर्च्छिमोमाथी उत्पन्न थाय छे अथवा गर्भजोमाथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—डे गौतम ! स मूर्च्छिम चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्य-
चोथी पणु उत्पन्न थाय छे अने गर्भज चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्य-
चोथी पणु उत्पन्न थाय छे

श्री गौतमस्वामी—डे भगवन् यदि संमूर्च्छिम चतुष्पद स्थलचर पंचे-
न्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे तो शु पर्याप्त संमूर्च्छिम चतुष्पद स्थलचर

અપર્યાપ્તઋગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિક જલચરપૃષ્ઠેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે, મગવાન્ આહ—‘ગૌતમ ! હે ગૌતમ ! ‘પ્વજન્તયગઽભવકંતિય જલચર પંચિદિયતિરિક્સ-
જોણિર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ’ પર્યાપ્તઋગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિક જલચરપૃષ્ઠેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકે
કોભ્યો નૈરયિકા ઉપપદ્યન્તે, કિન્તુ—‘નો અપ્વજન્તયગઽભવકંતિય જલચરપંચિદિય-
તિરિક્સજોણિર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ’ નો અપર્યાપ્તઋગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિક જલચરપૃષ્ઠે-
ન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્યો નૈરયિકા—ઉપપદ્યન્તે, ગૌતમઃ પૃચ્છતિ—‘જહ થલચરપંચિ-
દિયતિરિક્સજોણિર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ ?’ યદા સ્થલચર પૃષ્ઠેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્યો
નૈરયિકા ઉપપદ્યન્તે તદા—‘ઋ ચઉપ્પયથલચર પંચિદિયતિરિક્સજોણિર્ણિતો
ઉવવજ્જંતિ ?’ કિં ચતુષ્પદ સ્થલચરપૃષ્ઠેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે ? કિ
વા—‘પરિસપ્પથલચર પંચિદિયતિરિક્સજોણિર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ ?’ પરિસર્પસ્થલ-
ચર પૃષ્ઠેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્યો નૈરયિકા ઉપપદ્યન્તે ? મગવાન્ આહ—‘ગૌતમ ! હે
ગૌતમ ! ‘ચઉપ્પયથલચરપંચિદિયતિરિક્સજોણિર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ’ ચતુષ્પદ-
સ્થલચરપૃષ્ઠેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્યો નૈરયિકા ઉપપદ્યન્તે, ‘એવં પરિસપ્પથલ
ચરપંચિદિયતિરિક્સજોણિર્ણિતોઽપિ ઉવવજ્જંતિ’ પરિસર્પસ્થલચરપૃષ્ઠેન્દ્રિય
સે ઉત્પન્ન હોતે હું ?

મગવાન્—હે ગૌતમ ! પર્યાપ્તઋગર્ભજ જલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચો
સે ઉત્પન્ન હોતે હું, અપર્યાપ્તઋગર્ભજ જલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચો સે
નહીં ઉત્પન્ન હોતે ।

ગૌતમ—મગવાન્ ! યદિ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચો સે ઉત્પન્ન
હોતે હું તો કયા ચતુષ્પદ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચો સે ઉત્પન્ન હોતે
હું અથવા પરિસર્પ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચો સે ઉત્પન્ન હોતે હું ?

મગવાન્—હે ગૌતમ ! ચતુષ્પદ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચો સે

ઉત્પન્ન થાય છે ?

શ્રી ભગવાન્—હે ગૌતમ ! પર્યાપ્તઋગર્ભજ જલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યં-
ચોથી ઉત્પન્ન થાય છે, અપર્યાપ્તઋગર્ભજ જલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોથી
ઉત્પન્ન નથી થતા

શ્રી ગૌતમસ્વામી :-હે ભગવાન્ ! જો સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોથી
ઉત્પન્ન થાય છે તો શુ ચતુષ્પદ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોથી ઉત્પન્ન
થાય છે અથવા પરિસર્પ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોથી ઉત્પન્ન થાય છે ?

શ્રી ભગવાન્— હે ગૌતમ ચતુષ્પદ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોથી ઉત્પન્ન
થાય છે અને પરિસર્પ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોથી પણ ઉત્પન્ન થાય છે.

શ્રી ગૌતમસ્વામી.—યદિ ચતુષ્પદ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોથી ઉત્પન્ન

तिर्यग्योनिकेभ्योपि नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—‘जइ चउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति’ यदा चतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रिय-तिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, तदा—किं संमुच्छिममेहितो उववज्जंति ? किं संमूर्च्छिमभ्यः—संमूर्च्छिमचतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः उपपद्यन्ते किं वा ‘गभभवकंतियएहितो उववज्जंति’ गर्भव्युत्क्रान्तिकेभ्यः—गर्भव्युत्क्रान्तिरुचतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा’ हे गौतम ! संमुच्छिम-चउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणि-एऽवि उववज्जंति’ संमूर्च्छिमचतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्योऽपि नैरयिका उपपद्यन्ते, ‘गभभवकंतिय चउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहितो-ऽवि उववज्जंति’ गर्भव्युत्क्रान्तिकचतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्योऽपि नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—‘जइ संमुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति’ यदा संमूर्च्छिम चतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उत्पद्यन्ते, तदा ‘किं पज्जत्तगसंमुच्छिमचउप्पयथलयर पंचिदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति ?’ किं पर्याप्तक संमुच्छिमचतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? किं वा ‘अपज्जत्तगचउप्पयथल-उत्पन्न होते हैं और परिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से भी उत्पन्न होते हैं।

गौतम-यदि चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं तो क्या संमूर्छिमों से उत्पन्न होते हैं अथवा गर्भजों से उत्पन्न होते हैं ?

भगवन्-गौतम ! संमूर्छिम चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से भी उत्पन्न होते हैं और गर्भज चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रियों से भी उत्पन्न होते हैं।

गौतम-भगवान् ! यदि संमूर्छिम चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं, तो क्या पर्याप्त संमूर्छिम चतुष्पद स्थलचर

थाय छे तो शु स मूर्छिमोभाथी उत्पन्न थाय छे अथवा गर्भजेथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्:—हे गौतम ! स मूर्छिम चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्य-
चोथी पणु उत्पन्न थाय छे अने गर्भज चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्य-
चोथी पणु उत्पन्न थाय छे.

श्री गौतमस्वामी:—हे भगवन् यदि स मूर्छिम चतुष्पद स्थलचर पंचे-
न्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे तो शु पर्याप्त संमूर्छिम चतुष्पद स्थलचर

यरसंमुच्छिमपंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिएहितो उव्वज्जति?' अपर्याप्तक चतुष्पदस्थ-
लचरसंमूर्च्छिम पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, भगवान् आह-
'गोयमा' हे गौतम ! 'पज्जत्तम संमुच्छिम चउप्पयथलयरपंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिए
हितो उव्वज्जति' पर्याप्तकसंमूर्च्छिम चतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो
नैरयिका उपपद्यन्ते, -अपज्जत्तमसंमुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिन्द्रियतिरिक्खजोणि-
एहितो उव्वज्जति' अपर्याप्तक संमूर्च्छिम चतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिके-
भ्यो नैरयिकाः उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'जइ गम्भवकंतियचउप्पयथलयर-
पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिएहितो उव्वज्जति' यदा गर्भव्युत्क्रान्तिकचतुष्पदस्थलचर-
पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते तदा—किं संखेज्जवासाउअ गम्भ-
वकंतिय चउप्पयथलयर पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिएहितो उव्वज्जति?' किं संख्येय
वर्षायुष्कगर्भव्युत्क्रान्तिकचतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका
उपपद्यन्ते ? 'किं वा असखेज्जवासाउअगम्भवकंतिय चउप्पयथलयरपंचिन्द्रिय-
पंचेन्द्रियतिर्यचो से उत्पन्न होते हैं अथवा अपर्याप्त चतुष्पद स्थलचर
पंचेन्द्रियतिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—गौतम ! पर्याप्त संमूर्च्छिम चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय
तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं, किन्तु अपर्याप्त संमूर्च्छिम चतुष्पद स्थलचर
पंचेन्द्रियतिर्यचो से नहीं उत्पन्न होते ।

गौतम—भगवन् ! यदि गर्भज चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रियतिर्यचो
से उत्पन्न होते हैं तो क्या संख्यातवर्ष की आयु वाले गर्भज चतु-
ष्पद स्थलचर पंचेन्द्रियतिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ? अथवा असंख्यात-
वर्ष की आयु वाले गर्भज चतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रियतिर्यचो से
उत्पन्न होते हैं ?

पञ्चेन्द्रियतिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे अथवा अपर्याप्त चतुष्पद स्थलचर
पञ्चेन्द्रियतिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री लगवान्—हे गौतम ! पर्याप्त संमूर्च्छिम चतुष्पद स्थलचर पञ्चे-
न्द्रियतिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे, किन्तु अपर्याप्त संमूर्च्छिम चतुष्पद स्थल-
चर पञ्चेन्द्रियतिर्यचोथी उत्पन्न नहीं थता

श्री गौतमस्वामि—हे लगवान् ! यदि गर्भज चतुष्पद स्थलचर पञ्चे-
न्द्रियतिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे तो शु संख्यात वर्षानी आयुवाणा गर्भज
चतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रियतिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे, अथवा असंख्यात
वर्षानी आयुवाणा गर्भज चतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रियतिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ?

तिरिक्खजोगिण्हितो उववज्जंति' ? असंख्येयवर्षायुष्कर्मव्युत्क्रान्तिक चतुष्पद-
स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, भगवान् आह—'गोयमा !'
हे गौतम ! संखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति' संख्येयवर्षायुष्केभ्यः—संख्येयवर्षा-
युष्कर्मव्युत्क्रान्तिकचतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपप-
द्यन्ते' नो असंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति' नो असंख्येयवर्षायुष्केभ्यः असं-
ख्येयवर्षायुष्कर्मव्युत्क्रान्ति चतुष्पदस्थलचर पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैर-
यिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'जइ संखेज्जवासाउय गव्भवकंतिय चउप्पय
थलयर पंचिदियतिरिक्खजोगिण्हितो उववज्जंति' यदा संख्येयवर्षायुष्कर्म-
व्युत्क्रान्तिक चतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते,
तदा 'किं पज्जत्तग संखेज्जवासाउय गव्भवकंतियचउप्पयथलयर पंचिदियतिरि-
क्खजोगिण्हितो उववज्जंति ?' किं पर्याप्तसंख्येयवर्षायुष्कर्मव्युत्क्रान्तिक
चतुष्पदस्थलचर पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिके भ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? किं वा—'अपज्ज-
त्तगसंखेज्जवासाउयगव्भवकंतिय चउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिण्हितो
उववज्जंति ? अपर्याप्त संख्येयवर्षायुष्कर्मव्युत्क्रान्तिकचतुष्पदस्थलचर पञ्चे-
न्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—'गोयमा ! हे
गौतम ! 'पज्जतेहिंतो उववज्जंति' पर्याप्तकेभ्यः—पर्याप्तसंख्येयवर्षायुष्कर्मव्यु-

भगवन्—हे गौतम ! संख्यातवर्ष की आयु वाले गर्भज चतुष्पद
स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं, असंख्यातवर्ष की
आयु वाले गर्भज चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से नहीं
उत्पन्न होते ।

गौतम—हे भगवन् ! यदि संख्यातवर्ष की आयु वाले गर्भज चतु-
ष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं तो क्या पर्याप्त
संख्यातवर्ष की आयु वाले गर्भज चतुष्पद स्थलचरपंचेन्द्रियतिर्यचों से
उत्पन्न होते हैं अथवा अपर्याप्त संख्यातवर्ष की आयु वाले गर्भज
चतुष्पदस्थलचरपंचेन्द्रियतिर्यचों से उत्पन्न होते हैं ?

श्री भगवान् —हे गौतम ! स भ्यात वर्षानी आयुवाणा गर्भज् यतुष्पद
स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे, अस भ्यात वर्षानी आयु
वाणा गर्भज् यतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी नथा उत्पन्न थता.

श्री गौतमस्वामी —हे भगवन् ! यदि स भ्यात वर्षानी आयुवाणा गर्भज्
यतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे तो शु पर्याप्त
स भ्यात वर्षानी आयुवाणा गर्भज् यतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी
उत्पन्न थाय छे अथवा अपर्याप्त अस भ्यात वर्षानी आयुवाणा गर्भज् यतु
ष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ?

त्क्रान्तिक चतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, किन्तु 'नो अपज्जत्तगसंखेज्जनासाउएहिंतो उव्वज्जंति' नो अपर्याप्तक संखयेववर्पायुष्केभ्य गर्भव्युत्क्रान्तिक चतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'जह परिसर्पस्थलचरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उव्वज्जंति'—यदा परिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, तदा 'किं उरपरिसर्पस्थलचरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उव्वज्जंति ? किम्—उरः परिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? किं वा—'भुजपरिसर्पस्थलचरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उव्वज्जंति ? भुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? भगवान् आह 'गोयमा !' हे गौतम ! 'दोहिंतो वि उव्वज्जंति । द्वाभ्यामपि—उरः परिसर्पभुजपरिसर्पस्थलचर—पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाभ्यां नैरयिका उपपद्यन्ते इत्याशयः ॥ ८ ॥

भगवन्—हे गौतम ! पर्याप्तक संख्यातवर्ष की आयुवाले गर्भज चतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्य चों से उत्पन्न होते हैं किन्तु अपर्याप्तक संख्यातवर्ष की आयु वाले गर्भज चतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्य चों से नारक भव में उत्पन्न नहीं होते !

गौतम—हे भगवन् ! यदि परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्य चों से नारक उत्पन्न होते हैं तो क्या उरपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्य चों से उत्पन्न होते हे अथवा भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्य चों से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—गौतम ! उरपरिसर्प और भुजपरिसर्प दोनों ही प्रकार के परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्य चों से नारक जीव उत्पन्न होते हैं ॥ सू० ८ ॥

श्री भगवान्—हे गौतम ! पर्याप्तक संख्यात वर्ष की आयुवाला गर्भज चतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्य चोथी उत्पन्न थाय छे, किन्तु अपर्याप्तक संख्यात वर्ष की आयुवाला गर्भज चतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्य चोथी नारक भवमा उत्पन्न नहीं था।

श्री गौतमस्वामीः—हे भगवन् ! यदि परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्य चोथी नारक उत्पन्न थाय छे तो शु उर परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्य चोथी उत्पन्न थाय छे अथवा भुज परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्य चोथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! उर परिसर्प अने भुजपरिसर्प अन्ने प्रकारना परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्य चोथी नारक जीव उत्पन्न थाय छे ॥ ८ ॥

मूलम्--जइ उरपरिसर्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं संमुच्छिमउरपरिसर्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, गढभवकंतियउरपरिसर्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! संमुच्छिमेहिंतो उववज्जंति, गढभवकंतियएहिंतोऽवि उववज्जंति, जइ संमुच्छिमउरपरिसर्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति अपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! पज्जत्तगसंमुच्छिमेहिंतो उववज्जंति, नो अपज्जत्तगसंमुच्छिमउरपरिसर्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, जइ गढभवकंतियउरपरिसर्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं पज्जत्तगेहिंतो उववज्जंति, अपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! पज्जत्तगगढभवकंतियएहिंतो उववज्जंति, नो अपज्जत्तगगढभवकंतियउरपरिसर्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, जइ भुयपरिसर्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं संमुच्छिमभुयपरिसर्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, गढभवकंतियभुयपरिसर्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहिंतोऽवि उववज्जंति, जइ संमुच्छिमभुयपरिसर्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं पज्जत्तयसंमुच्छिमभुयपरिसर्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, अपज्जत्तयसंमुच्छिमभुयपरिसर्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति, नो अपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति, जइ गढभवकंतियभुयपरिसर्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति, अपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! पज्जत्तएहिंतो

उववज्जंति, नो अपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति, जइ खहयरपंचि-
 दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं संमुच्छिमखहयरपंचि-
 दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, गब्भवक्कंतियखहयर-
 पंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा । दोहिंतो-
 ऽवि उववज्जंति, जइ संमुच्छिमखहयरपंचिदियतिरिक्खजोणि-
 एहिंतो उववज्जंति, किं पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति, अपज्जत्तए-
 हिंतो उववज्जंति, गोयमा । पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति, नो अपज्ज-
 त्तएहिंतो उववज्जंति, जइ पज्जत्तगगब्भवक्कंतियखहयरपंचिदिय-
 तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं संखेज्जवासाउएहिंतो उव-
 वज्जंति, असंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति, गोयमा । संखेज्जवा-
 साउएहिंतो उववज्जंति, नो असंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति,
 जइ संखेज्जवासाउयगब्भवक्कंतियखहयरपंचिदियतिरिक्खजो-
 णिएहिंतो उववज्जंति किं पज्जत्तगेहिंतो उववज्जंति, अपज्जत्त-
 एहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति, नो
 अपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति, जइ मणुस्सेहिंतो उववज्जंति, किं
 संमुच्छिममणुस्सेहिंतो उववज्जंति, गब्भवक्कंतियमणुस्सेहिंतो
 उववज्जंति ? गोयमा । नो संमुच्छिममणुस्सेहिंतो उववज्जंति,
 गब्भवक्कंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति, जइ गब्भवक्कंतिय-
 मणुस्सेहिंतो उववज्जंति, किं कम्मभूमिगब्भवक्कंतियमणु-
 स्सेहिंतो उववज्जंति अकम्मभूमिगब्भवक्कंतियमणुस्सेहिंतो
 उववज्जंति अंतरदीवगब्भवक्कंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति ?
 गोयमा । कम्मभूमिगब्भवक्कंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति,
 नो अकम्मभूमिगब्भवक्कंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति, नो
 अंतरदीवगब्भवक्कंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति, जइ कम्म-
 भूमिगब्भवक्कंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति, किं संखेज्ज-
 वासाउएहिंतो उववज्जंति, असंखेज्जवासाउएहिंतो उवव-

ज्जंति ? गोयमा ! संखेज्जवासाउयकम्मभूमिगवभवकंति-
यमणुस्सेहितो उववज्जंति, नो असंखेज्जवासाउयकम्मभूमि-
गवभवकंति यमणुस्सेहितो उववज्जंति, जइ संखेज्जवासाउय-
कम्मभूमिगवभवकंति यमणुस्सेहितो उववज्जंति, किं पज्जत्त-
गेहितो उववज्जंति, अपज्जत्तेहितो उववज्जंति ? गोयमा !
पज्जत्तएहितो उववज्जंति, नो अपज्जत्तएहितो उववज्जंति, एवं
जहा ओहिया उववाइया तथा रयणप्पभा पुढवि नेरइया वि
उववाएयव्वा, सक्करप्पभापुढवि नेरइयाणं पुच्छा, गोयमा !
एते वि जहा ओहिया तहेवोववाएयव्वा, नवरं संमुच्छिमेहितो
पडिसेहो कायव्वो वाल्लयप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! कओहितो
उववज्जंति ? गोयमा ! जहा सक्करप्पभापुढविनेरइया, नवरं
भुयपरिसप्पेहितो पडिसेहो कायव्वो, पंकप्पभापुढविनेरइयाणं
पुच्छा, गोयमा ! जहा वाल्लयप्पभापुढविनेरइया, नवरं खह-
यरेहितो पडिसेहो कायव्वो, धूमप्पभापुढविनेरइयाणं पुच्छा,
गोयमा ! जहा पंकप्पभापुढविनेरइया, नवरं चउप्पएहितो
वि पडिसेहो कायव्वो, तमापुढविनेरइयाणं भंते ! कओहितो
उववज्जंति, गोयमा ! जहा धूमप्पभापुढविनेरइया, नवरं थल-
यरेहितो वि पडिसेहो कायव्वो इमेणं अभिलावेणं, जइ पंचि-
दियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति, किं जलयरपंचिदियए-
हितो उववज्जंति, थलयरपंचिदिएहितो उववज्जंति, खहयर-
पंचिदिएहितो उववज्जंति ? गोयमा ? जलयरपंचिदिएहितो
उववज्जंति, नो थलयरेहितो, नो खहयरेहितो उववज्जंति,
जइ मणुस्सेहितो उववज्जंति, किं कम्मभूमिएहितो उववज्जंति,
अकम्मभूमिएहितो उववज्जंति, अंतरदीवएहितो उववज्जंति ?
गोयमा ! कम्मभूमिएहितो उववज्जंति, नो अकम्मभूमि-

एहितो उववज्जंति, नो अंतरदीवएहितो उववज्जंति, जइ कम्मभूमिएहितो उववज्जंति, किं संखेज्जवासाउएहितो उववज्जंति, असंखेज्जवासाउएहितो उववज्जंति, गोयमा। संखेज्जवासाउएहितो उववज्जंति, नो असंखेज्जवासाउएहितो उववज्जंति, जइ संखेज्जवासाउएहितो उववज्जंति किं पज्जत्तएहितो उववज्जंति, अपज्जत्तएहितो उववज्जंति ? गोयमा ! पज्जत्तएहितो उववज्जंति, नो अपज्जत्तएहितो उववज्जंति, जइ पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमिएहितो उववज्जंति, किं इत्थि-एहितो उववज्जंति, पुरिसेहितो उववज्जंति, नपुंसएहितो उववज्जंति गोयमा ! इत्थीहितो उववज्जंति, पुरिसेहितो उववज्जंति, नपुंसएहितो वि उववज्जंति, अहे सत्तमापुढविनेरइयाणं भंते ! कओहितो उववज्जंति ? गोयमा ! एवं चेव, नवरं इत्थी-हितो पडिसेहो कायव्वो असन्नो खल्लु पढमं दोचंचपि सरीसवा तइय पक्खी । सीहा जंति चउत्थि उरगा पुण पंचमिं पुढविं ॥१॥ छट्ठिं च इत्थियाओ मच्छा मणुया य सत्तमिं पुढविं । एसो परमो वाओ बोद्धव्वो नरगपुढयीणं ॥सू० ९॥

छाया—यदि उरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, 'किं संमुच्छिमोरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, गर्भव्युत्क्रान्ति-

पंचम द्वार मध्यमवक्तव्यता

शब्दार्थ—(जइ) यदि (उरपरिसर्पस्थलचरपंचिंदियतिरिक्खजोणि-एहितो उववज्जंति) उरपरिसर्पस्थलचरपंचेन्द्रियतिर्यचो से उत्पन्न होते हैं तो (किं संमुच्छिमउरपरिसर्पस्थलचरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति) क्या संमुच्छिमउरपरिसर्पस्थलचर पंचेन्द्रियतिर्यचो से

पथमद्वार मध्यम वक्तव्यता

शब्दार्थ—(जइ) यदि (उरपरिसर्प स्थलचरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति) उरपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न थाय छे तो (किं संमुच्छिमउरपरिसर्पस्थलचरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति) थु संमुच्छिम उरपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न थाय छे (गर्भवक्तव्य

कोरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! संमूर्च्छिमेभ्य
 उपपद्यन्ते, गर्भव्युत्क्रान्तिकेभ्योऽपि उपपद्यन्ते, यदि संमूर्च्छिमोरःपरिसर्पस्थल-
 लचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, किं पर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते, अपर्याप्त-
 केभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! पर्याप्तसंमूर्च्छिमेभ्य उपपद्यन्ते, नो अपर्याप्तसंमूर्-
 च्छिमोरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, यदि गर्भव्युत्क्रा-
 न्तिकोरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, किं पर्याप्तकेभ्य

उत्पन्न होते हैं ? (गर्भवक्कंतिथ उरपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्ख-
 जोणिएहिंनो उववज्जंति ?) गर्भजउरपरिसर्पस्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यच्चो
 से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (संमुच्छिमोहिंतो उवव-
 ज्जंति, गर्भवक्कंतिएहिंतो वि उववज्जंति) संमूर्च्छिमो से उत्पन्न होते
 हैं और गर्भजों से भी उत्पन्न होते हैं ।

(जइ) यदि (संमुच्छिमउरपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए-
 हिंतो उववज्जंति) संमूर्च्छिमउरपरिसर्पस्थलचरपंचेन्द्रियतिर्यच्चो से
 उत्पन्न होते हैं । (किं पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति, अपज्जत्तएहिंतो उवव-
 ज्जंति ?) क्या पर्याप्तकों से उत्पन्न होते हैं या अपर्याप्तकों से उत्पन्न
 होते हैं । (गोयमा) हे गौतम ! (पज्जत्तगसंमुच्छिमोहिंतो उववज्जंति)
 पर्याप्तक संमूर्च्छिमो से उत्पन्न होते हैं (नो अपज्जत्तगसंमुच्छिमउरपरि-
 सप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?) अपर्याप्तक
 संमूर्च्छिम उरपरिसर्पस्थलचरपंचेन्द्रियतिर्यच्चो से नहीं उत्पन्न होते ।

उरपरिसप्पथलयरपंचि दियतिरिक्खजोणिएहि तो उववज्ज ति ?) गर्भज उरपरिसर्प
 स्थलयर पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्चोत्थी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम !
 (संमुच्छिमोहि तो उववज्ज ति, गर्भवक्कंतिएहि तो वि उववज्ज ति) संमूर्च्छिमोत्थी
 उत्पन्न थाय छे अने गर्भजोत्थी पणु उत्पन्न थाय छे.

(जइ) यदि (संमुच्छिमउरपरिसप्पथलयरपंचि दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उव-
 वज्ज ति) संमूर्च्छिम उरपरिसर्प स्थलयर पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्चोत्थी उत्पन्न थाय छे
 (किं पज्जत्तएहिंतो उववज्ज ति, अपज्जत्तएहि तो उववज्ज ति) शु पर्याप्तकोत्थी उत्पन्न
 थाय छे छे अपर्याप्तकोत्थी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा) हे गौतम (पज्जत्तग
 संमुच्छिमोहि तो उववज्ज पि) पर्याप्तक संमूर्च्छिमोत्थी उत्पन्न थाय छे (नो अपज्जत्तग
 संमुच्छिम उरपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहि तो उववज्ज ति) अपर्याप्तक
 संमूर्च्छिम उरपरिसर्प स्थलयर पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्चोत्थी उत्पन्न नहीं थता

उपपद्यन्ते, ? अपर्याप्तकेभ्यः उपपद्यन्ते ? गौतम ! पर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिकेभ्य उपपद्यन्ते, नो अपर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिकोरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः उपपद्यन्ते ? यदि भुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? किं समूर्च्छिमभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? गर्भव्युत्क्रान्तिकभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, गौतम ! द्वाभ्या-

(जइ) यदि (गन्भवक्कंतिय उरपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिं तो उववज्जंति) यदि गर्भज उरपरिसर्पस्थलचरपंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ? (किं पज्जत्तगेहिं तो उववज्जंति, अ त्तगेहिं तो उववज्जंति ?) क्या पर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं ? अथवा अपर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (पज्ज गन्भवक्कंतिएहिं तो उववज्जंति) पर्याप्तक गर्भजों से उत्पन्न होते हैं ? (नो अपज्जत्तगगन्भवक्कंतिय उरपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिं तो उववज्जंति ?) अपर्याप्त गर्भज उरपरिसर्पस्थलचरपंचेन्द्रियतिर्यचो से नहीं उत्पन्न होते हैं ।

(जइ) यदि (भुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिं तो उववज्जंति) भुजपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं (किं समूर्च्छि भुजपरिसप्पथलयरपंचेन्द्रियतिरिक्खजोणिएहिं तो उववज्जंति) क्या समूर्च्छिम भुजपरिसर्प र चर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं (गन्भवक्कंतिय भुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्ख-

(जइ) यदि (गन्भवक्कंतिय उरपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिं तो उववज्जंति) यदि गर्भज उरपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न थायं छे (किं पज्जत्तगेहिं तो उववज्जंति, अपज्जत्तगेहिं तो उववज्जंति ?) शुं पर्याप्तकेभ्यो उत्पन्न थायं छे अथवा अपर्याप्तकेभ्यो उत्पन्न थायं छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (पज्जत्तगगन्भवक्कंतिएहिं तो उववज्जंति) पर्याप्तगर्भकेभ्यो उत्पन्न थायं छे (नो अपज्जत्तगगन्भवक्कंतिय उरपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिं तो उववज्जंति) अपर्याप्त गर्भज उरपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न थायं नथी ।

(जइ) यदि (भुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिं तो उववज्जंति) भुजपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न थायं छे (किं समूर्च्छिम भुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिं तो उववज्जंति) शुं समूर्च्छिम भुजपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न थायं छे (गन्भवक्कंतिय भुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिं तो उववज्जंति) गर्भज भुजपरिसर्प स्थलचर

मपि उपपद्यन्ते, यदि संमूर्च्छिमभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? किं पर्याप्तकसंमूर्च्छिमभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, अपर्याप्तकसंमूर्च्छिमभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! पर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते, नो अपर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते ? यदि गर्भव्युत्क्रान्तिकभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, किं पर्याप्तकेभ्य उपपद्य-

जोगिणिएहितो उववज्जंति ?) गर्भज भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ? ((गोयमा ! दोहितो वि उववज्जंति) हे गौतम ! दोनों से ही उत्पन्न होते हैं ।

(जइ संमुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिणिएहितो उववज्जंति) यदि संमूर्च्छिम भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं, (किं पज्जत्तगसंमुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिणिएहितो उववज्जंति) क्या पर्याप्तक संमूर्च्छिम भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं । (अपज्जत्तगसंमुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिणिएहितो उववज्जंति ?) अपर्याप्तक संमूर्च्छिम भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (पज्जत्तेहितो उववज्जंति) पर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं (नो अपज्जत्तेहितो उववज्जंति) अपर्याप्तको से नहीं उत्पन्न होते ।

(जइ) गम्भवक्कंति यमुयपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिणिएहितो उववज्जंति) यदि गर्भज भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! दोहितो वि उववज्जंति) हे गौतम ! अन्नेथी उत्पन्न थाय छे

(जइ संमुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिणिएहितो उववज्जंति) यदि संमूर्च्छिम भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे (किं पज्जत्तगसंमुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिणिएहितो उववज्जंति) शु पर्याप्त संमूर्च्छिम भुज परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे (अपज्जत्तगसंमुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिणिएहितो उववज्जंति ?) अपर्याप्त संमूर्च्छिम भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (पज्जत्तेहितो उववज्जंति) पर्याप्तकोथी उत्पन्न थाय छे (नो अपज्जत्तेहितो उववज्जंति) अपर्याप्तको नथी उत्पन्न थत्ता

(जइ) गम्भवक्कंति यमुयपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोगिणिएहितो उववज्जंति) नो गर्भज भुज परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय

न्ते, अपर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! पर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते, नो अपर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते । यदि खेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, किं समूर्च्छिमखेचर-पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, गर्भव्युत्क्रान्तिकखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! द्वाभ्यामपि उपपद्यन्ते, यदि समूर्च्छिमखेचरपञ्चेन्द्रिय-तिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, किं पर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते, अपर्याप्तकेभ्यः उपपद्यन्ते ?

से उत्पन्न होते हैं (किं पञ्जत्तएहिं तो उववज्जंति, अपज्जत्तएहिं तो उववज्जंति ?) क्या पर्याप्तकों से उत्पन्न होते हैं, अथवा अपर्याप्तकों से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (पञ्जत्तएहिं तो उववज्जंति, नो अपज्जत्तएहिं तो उववज्जंति) पर्याप्तकों से उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्तकों से नहीं उत्पन्न होते । (जइ खहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिं तो उववज्जंति) यदि खेचरचेन्द्रियतिर्यच्योनिकों से उत्पन्नहोते हैं (किं समूर्च्छिमखहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिं तो उववज्जंति) क्या समूर्च्छिम खेचरपंचेन्द्रिय तिर्यच्यो से उत्पन्न होते हैं (गवभवक्कंतिय खहयर पंचेदियतिरिक्खजोणिएहिं तो उववज्जंति ?) गर्भज खेचरपंचेन्द्रिय-तिर्यच्यो से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! दोहिं तो वि उववज्जंति) हे गौतम ! दोनोंसे उत्पन्न होते हैं ।

(जइ समूर्च्छिमखहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिं तो उववज्जंति) यदि समूर्च्छिम खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यच्यो से उत्पन्न होते हैं (किं पञ्ज-त्तएहिं तो उववज्जंति, अपज्जत्तएहिं तो उववज्जंति ?) क्या पर्याप्तकों

छे (किं पञ्जत्तएहिं तो उववज्जंति अपज्जत्तएहिं तो उववज्जंति) शु पर्याप्तकेथी उत्पन्न थाय छे अथवा अपर्याप्तकेथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (पञ्जत्तएहिं तो उववज्जंति नो अपज्जत्तएहिं तो उववज्जंति) पर्याप्तकेथी उत्पन्न थाय छे अपर्याप्तकेथी नथी उत्पन्न थाय ।

(जइ खहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिं तो उववज्जंति) यदि भेयर पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्यो थोणिकेथी उत्पन्न थाय छे (किं समूर्च्छिमखहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिं तो उववज्जंति) शु समूर्च्छिम भेयर पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्यो थोणिकेथी उत्पन्न थाय छे (गवभवक्कंतियखहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिं तो उववज्जंति) गर्भज भेयर पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्यो थोणिकेथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (दोहिं तो वि उववज्जंति) नथी उत्पन्न थाय छे

(जइ समूर्च्छिमखहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिं तो उववज्जंति) यदि समूर्च्छिम भेयर पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्यो थोणिकेथी उत्पन्न थाय छे (किं पञ्जत्तएहिं तो उववज्जंति, अपज्जत्तएहिं तो उववज्जंति ?) शु पर्याप्तकेथी उत्पन्न थाय छे

गौतम ! पर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते, नो अपर्याप्तकेभ्यः उपपद्यन्ते, यदि पर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिकखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, किं संख्येयवर्षायुष्केभ्य उपपद्यन्ते? असंख्येयवर्षायुष्केभ्य उपपद्यन्ते? गौतम ! संख्येयवर्षायुष्केभ्य उपपद्यन्ते, नो असंख्येयवर्षायुष्केभ्य उपपद्यन्ते; यदि संख्येयवर्षायुष्कगर्भव्युत्क्रान्तिकखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते किं पर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते, अपर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते?

से उत्पन्न होते हैं अथवा अपर्याप्तकों से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! पञ्जत्तएहिंतो उववज्जंति, नो अपजत्तएहिंतो उववज्जंति) हे गौतम ! पर्याप्तकों से उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्तकों से नहीं उत्पन्न होते ।

(जइ पञ्जत्तगगवभवकंतिय खहयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं संखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति, असंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति ?) यदि पर्याप्तक गर्भज खेचरपंचेन्द्रिय तिर्यंचों से उत्पन्न होते हैं तो क्या संख्यातवर्ष की आयुवालों से उत्पन्न होते हैं ! अथवा असंख्यातवर्ष की आयुवालों से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! संखिज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति, नो असंखिज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति) हे गौतम ! संख्यातवर्ष की आयु वालों से उत्पन्न होते हैं, असंख्यात वर्ष की आयु वालों से नहीं उत्पन्न होते ।

(जइ संखिज्जवासाउयगवभवकंतिय खहयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं पञ्जत्तगोहिंतो उववज्जंति, अपजत्तएहिंतो उववज्जंति ?) यदि संख्यातवर्ष की आयु वाले गर्भज खेचरपंचेन्द्रिय तिर्यंचों से उत्पन्न होते हैं, तो क्या पर्याप्तकों से उत्पन्न होते हैं

अथवा अपर्याप्तकेभी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! पञ्जत्तएहि तो उववज्जंति नो अपजत्तएहि तो उववज्जंति) पर्याप्तकेभी उत्पन्न थाय छे, अपर्याप्तकेभी उत्पन्न नहीं थता

(जइ पञ्जत्तगगवभवकंतियखहयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, किं संखेज्जवासाउएहि तो उववज्जंति, असंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति ?) यदि पर्याप्तक गर्भज खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यंचेभी उत्पन्न थाय छे, तो शुं सञ्थात वर्षनी आयुवाणाओथी उत्पन्न थाय छे अथवा असञ्थात वर्षनी आयुवाणाओथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! (संखिज्जवासाउएहि तो उववज्जंति, नो असंखिज्जवासाउएहि तो उववज्जंति) हे गौतम ! सञ्थात वर्षनी आयुधवाणाथी उत्पन्न थाय छे, असञ्थात वर्षनी आयुवाणाथी नहीं उत्पन्न थता

(जइ संखिज्जवासाउयगवभवकंतियखहयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं पञ्जत्तगोहि तो उववज्जंति, अपजत्तएहि तो उववज्जंति ?) जे सञ्थात

त्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, गौतम ! कर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, नो अकर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, नो अन्तरद्वीपकगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, यदि कर्मभूमिग गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, किं संख्येयवर्षायुष्केभ्य उपपद्यन्ते, असंख्येयवर्षायुष्केभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! संख्येयवर्षायुष्ककर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, नो

मनुष्यो से उत्पन्न होते हैं ? (अंतरद्वीपगगर्भवकंकतिय मणुस्सेहितो उववज्जति ?) अथवा अन्तरद्वीपज गर्भज मनुष्यो से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! कम्मभूमिगगगर्भवकंकतियमणुस्सेहितो उववज्जति) गौतम ! कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यो से उत्पन्न होते हैं । (नो अकम्मभूमिगगगर्भवकंकतिय मणुस्सेहितो उववज्जति, अकर्मभूमिज गर्भज मनुष्यो से नहीं उत्पन्न होते (नो अन्तर द्वीपगगर्भवकंकतियमणुस्सेहितो उववज्जति) अन्तरद्वीपज गर्भज मनुष्यो से नहीं उत्पन्न होते ।

(जइ कम्मभूमिगगगर्भवकंकतियमणुस्सेहितो उववज्जति) यदि कर्म भूमि में उत्पन्न हुए गर्भज मनुष्यो से उत्पन्न होते हैं, (किं संखेज्जवासाउएहितो उववज्जति ?) क्या संख्यातवर्ष की आयु वालों से उत्पन्न होते हैं ? (असंखेज्जवासाउएहितो उववज्जति ?) या असंख्यात वर्ष की आयु वाले से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! संखेज्जवासाउयकम्मभूमिगगगर्भवकंकतियमणुस्सेहितो उववज्जति) हे गौतम ! संख्यातवर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यो से उत्पन्न होते

वकंकतिय मणुस्सेहितो उववज्जति ?) अथवा अन्तरद्वीप गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! कम्मभूमिगगगर्भवकंकतियमणुस्सेहितो उववज्जति, नो अकम्म भूमिगगगर्भवकंकतियमणुस्सेहितो उववज्जति) हे गौतम ! कर्मभूमिज गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे, अकर्मभूमिज गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न नहीं थता (नो अंतरद्वीपगगर्भवकंकतियमणुस्सेहितो उववज्जति) अन्तर द्वीप ज गर्भज मनुष्येथी नहीं उत्पन्न थता

(जइ कम्मभूमिगगगर्भवकंकतियमणुस्सेहितो उववज्जति) यदि कर्मभूमिमां उत्पन्न थयेद गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे (किं संखेज्जवासाउएहितो उववज्जति) शु सख्यात वर्षनी आयुष्यवाणाओथी उत्पन्न थाय छे ? (असंखेज्जवासाउएहितो उववज्जति ?) अगर असख्यात वर्षनी आयुष्यवाणाओथी उत्पन्न थय छे ? (गोयमा ! संखेज्जवासाउयकम्मभूमिगगगर्भवकंकतियमणुस्सेहितो उववज्जति) हे गौतम ! सख्यात वर्षनी आयुष्यवाणा कर्मभूमिज गर्भज मनुष्येथी

असंख्येयवर्षायुष्कर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते । यदि संख्येय-
वर्षायुष्कर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, किं पर्याप्तकेभ्य उपप-
द्यन्ते, अपर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! पर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते, नो अपर्याप्तके-
भ्य उपपद्यन्ते । एवं यथा औषिका उपपादितास्तथा रत्नप्रभापृथिवीनैरयिका अपि
उत्पादयितव्याः, शर्कराप्रभापृथिवीनैरयिकाणां पृच्छा, गौतम ! एतेऽपि यथा

हैं । (नो असंखिज्जवासाउयकम्मभूमिगगर्भवक्कंतियमणुस्सेहंतो उवव-
ज्जंति) असंख्यातवर्ष की आयु वाले गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न नहीं होते

(जइ संखेज्जवासाउयकम्मभूमिगगर्भवक्कंतियमणुस्सेहंतो उववज्जंति ?) यदि संख्यातवर्ष की आयु वाले कर्म भूमि में उत्पन्न
मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं (किं पज्जत्तगोहंतो उववज्जंति, अपज्जत्ते-
हंतो उववज्जंति ?) क्या पर्याप्तकों से उत्पन्न होते हैं या अपर्याप्तकों
से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! पज्जत्तएहंतो उववज्जंति नो अपज्ज-
त्तएहंतो उववज्जंति) हे गौतम ! पर्याप्तकों से उत्पन्न होते हैं, अप-
र्याप्तकों से नहीं उत्पन्न होते ।

(एवं) इस प्रकार (जहा) जैसे (ओहिया उववाइया) सामान्य
नारकों की उत्पत्ति कही (तहा) उसी प्रकार (रयणप्पभापुढवि
नेरइया वि उववाएयव्वा) रत्नप्रभा पृथ्वी के नारकों का उत्पाद
समझना चाहिए ।

(सक्करप्पभापुढवि नेरइया णं पुच्छा !) शर्कराप्रभा पृथ्वी के
नारकों के विषय में पृच्छा ? (गोयमा ! एते वि जहा ओहिया तहे

उत्पन्न थाय छे (नो असखेज्जवासाउयकम्मभूमिगगर्भवक्कंतियमणुस्सेहंतो उवव-
ज्जंति) असंख्यात वर्षानी आयुवाणा गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न नहीं थता

(जइ संखेज्जवासाउयकम्मभूमिगगर्भवक्कंतियमणुस्सेहंतो उववज्जंति) यदि
संख्यात वर्षानी आयुष्यवाणा कर्मभूमिभा उत्पन्न थयेल गर्भव्युत्क्रान्तिक
मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे (किं पज्जत्तगोहंतो उववज्जंति ? अपज्जत्तगोहंतो उवव-
ज्जंति ?) थु पर्याप्तकेथी उत्पन्न थाय छे, अजर अपर्याप्तकेथी उत्पन्न थाय
छे ? (गोयमा ! पज्जत्तएहंतो उववज्जंति) हे गौतम ! पर्याप्तकेथी उत्पन्न थाय
छे, अपर्याप्तकेथी उत्पन्न नहीं थता

(एवं) ऐसे रीते (जहा) जैसे (ओहिया उववाइया) सामान्य नारकेनी
उत्पत्ति कही (तहा) ऐसे प्रकारे (रयणप्पभा पुढवि नेरइया वि उववाएयव्वा)
रत्नप्रभा पृथ्वीना नारकेनी उत्पाद समझवे। नोउंये

(सक्करप्पमा पुढवि नेरइयाणं पुच्छा ?) शर्कराप्रभा पृथ्वीना नारकेना
विषयभा पृच्छा ? (गोयमा ! एते वि जहा ओहिया तहेवोववाएयव्वा) हे

औधिकास्तथैवोपपादयितव्याः नवरं संमूर्च्छिमेभ्यः प्रतिषेधः कर्तव्यः, वालुका-
प्रभापृथिवीनैरयिकाः खलु भदन्त ! केभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! यथा शर्कराप्रभा
पृथिवीनैरयिकाः, नवरं भुजपरिसर्पेभ्यः प्रतिषेधः कर्तव्यः पङ्कप्रभापृथिवीनैर-
यिकाणां पृच्छा, गौतम ! यथा वालुकाप्रभापृथिवीनैरयिका नदरम्-खेचरेभ्यः
प्रतिषेधः कर्तव्यः, धूमप्रभापृथिवीनैरयिकाणां पृच्छा, गौतम ! यथा पङ्कप्रभा-
पृथिवीनैरयिकाः, नवरं चतुष्पदेभ्यः प्रतिषेधः कर्तव्यः, तमापृथिवीनैरयिकाः

वोचवाप्यव्वा) हे गौतम ! इनका उपातभी सामान्य नारकों के जैसा
समझना चाहिए (नवरं) विशेष (संमुच्छिमेहितो) संमूर्च्छिमों से
(पडिसेहो) निषेध (कायव्वो) करना चाहिए ।

(वालुयप्पभापुढवि नेरइया णं भंते ! कओहितो उववज्जंति ?)
हे भगवन् ! वालुकाप्रभा पृथ्वी के नैरयिक कहाँ से उत्पन्न होते हैं ?
(गोयमा ! जहा सक्करप्पभा पुढवि नेरइया) हे गौतम ! शर्कराप्रभा
पृथ्वीके नारकों के समान (नवरं) विशेष (भुयपरिसप्पेहितो पडिसेहो
कायव्वो) भुजपरिसर्पो से उत्पन्न होने का निषेध करना चाहिए ।

(पंकप्पभा पुढवि नेरइयाणं पुच्छा) पंकप्रभा पृथिवी के नारकों
के विषय में पृच्छा (गोयमा ! जहा वालुयप्पभा पुढवि नेरइया)
हे गौतम ! वालुकाप्रभा पृथिवी के नारकों के समान (नवरं) विशेष
खह्यरेहितो पडिसेहो कायव्वो) खेचरों से निषेध करना चाहिए ।

(धूमप्पभापुढवि नेरइयाणं पुच्छा ?) धूमप्रभा पृथिवी के नारकों
के विषय में प्रश्न ? (गोयमा ! जहा पंकप्पभा पुढवि नेरइया) पंकप्रभा

गौतम ! येभनो उत्पाद पथु सामान्य नारको जेवे सभज्जे जेधञ्जे. (नवर)
विशेष (संमुच्छिमेहितो) समूर्च्छिमेधी (पडिसेहो) निषेध (कायव्वो) करवे जेधञ्जे.

(वालुयप्पभा पुढवि नेरइयाणं भंते ! कओहितो उववज्जंति ?) हे भगवन् !
वालुकाप्रभा पृथ्वीना नैरयिक कथाधी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा : जहा सक्कर-
प्पभा पुढवि नेरइयां) हे गौतम ! शर्कराप्रभा पृथ्वीना नारकोनी समान (नवर)
विशेष (भुयपरिसप्पेहितो पडिसेहो कायव्वो) भुजपरिसर्पोधी उत्पन्न थावानो निषेध
करवे जेधञ्जे.

(पंकप्पभा पुढविनेरइयाणं भंते ! पुच्छा ?) पंकप्रभा पृथ्वीना नारकोना
विषयभा पृच्छा ? (गोयमा ! जहा वालुयप्पभा पुढवि नेरइया) हे गौतम ! वालुका
प्रभा पृथ्वीना नारकोना समान (नवरं) विशेष (खह्यरेहितो पडिसेहो कायव्वो)
भेयरेधी निषेध करवे जेधञ्जे

(धूमप्पभापुढविनेरइयाणं पुच्छा ?) धूमप्रभा पृथ्वीना नारकोना विषयभा
प्रश्न ? (गोयमा जहा पंकप्पभा पुढविनेरइया) पंकप्रभा पृथ्वीना नारकोना

असंख्येयवर्षायुष्कर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते । यदि संख्येय-
वर्षायुष्कर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, किं पर्याप्तकेभ्य उपप-
द्यन्ते, अपर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! पर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते, नो अपर्याप्तके-
भ्य उपपद्यन्ते । एवं यथा औघिका उपपादितास्तथा रत्नप्रभापृथिवीनैरयिका अपि
उत्पादयितव्याः, शर्कराप्रभापृथिवीनैरयिकाणां पृच्छा, गौतम ! एतेऽपि यथा

हैं । (नो असंखिज्जवासाउयकम्मभूमिगगवभवक्कतियमणुस्सेहिंतो उवव-
ज्जंति) असंख्यातवर्ष की आयु वाले गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न नहीं होते

(जइ संखेज्जवासाउयकम्मभूमिगगवभवक्कतियमणुस्सेहिंतो
उववज्जंति ?) यदि संख्यातवर्ष की आयु वाले कर्म भूमि में उत्पन्न
मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं (किं पज्जत्तगेहिंतो उववज्जंति, अपज्जत्ते-
हिंतो उववज्जंति ?) क्या पर्याप्तकों से उत्पन्न होते हैं या अपर्याप्तकों
से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति नो अपज्ज-
त्तएहिंतो उववज्जंति) हे गौतम ! पर्याप्तकों से उत्पन्न होते हैं, अप-
र्याप्तकों से नहीं उत्पन्न होते ।

(एवं) इस प्रकार (जहा) जैसे (ओहिया उववाइया) सामान्य
नारकों की उत्पत्ति कही (तहा) उसी प्रकार (रयणप्पभापुढवि
नेरइया वि उववाएयव्वा) रत्नप्रभा पृथ्वी के नारकों का उत्पाद
स ना चाहिए ।

(सक्करप्पभापुढवि नेरइया णं पुच्छा !) शर्कराप्रभा पृथ्वी के
नारकों के विषय में पृच्छा ? (गोयमा ! एते वि जहा ओहिया तहे

उत्पन्न थाय छे (नो असंखेज्जवासाउयकम्मभूमिगगवभवक्कतियमणुस्सेहिंतो उवव-
ज्जंति) असंख्यात वर्ष की आयुवाला गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येभ्यो उत्पन्न नहीं होता

(जइ संखेज्जवासाउयकम्मभूमिगगवभवक्कतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति) यदि
संख्यात वर्ष की आयुवाला कर्मभूमिगा उत्पन्न थयेल गर्भव्युत्क्रान्तिक
मनुष्येभ्यो उत्पन्न थाय छे (किं पज्जत्तगेहिंतो उववज्जंति ? अपज्जत्तगेहिंतो उवव-
ज्जंति ?) शु पर्याप्तकेभ्यो उत्पन्न थाय छे, अगर अपर्याप्तकेभ्यो उत्पन्न थाय
छे ? (गोयमा ! पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति) हे गौतम ! पर्याप्तकेभ्यो उत्पन्न थाय
छे, अपर्याप्तकेभ्यो उत्पन्न नहीं होता

(एवं) ऐसे रीते (जहा) जैसे (ओहिया उववाइया) सामान्य नारकों
उत्पत्ति कही (तहा) जैसे प्रकारे (रयणप्पभा पुढवि नेरइया वि उववाएयव्वा)
रत्नप्रभा पृथ्वीना नारकोंना उत्पाद सम्भवो जेथंजे

(सक्करप्पमा पुढवि नेरइयाणं पुच्छा ?) शर्कराप्रभा पृथ्वीना नारकोंना
विषयमा पृच्छा ? (गोयमा ! एते वि जहा ओहिया तहेवोववाएयव्वा) हे

औघिकास्तथैवोपपादयितव्याः नवरं संमूर्च्छिमेभ्यः प्रतिषेधः कर्तव्यः, बालुका-
प्रभापृथिवीनैरयिकाः खलु भदन्त ! केभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! यथा शर्कराप्रभा
पृथिवीनैरयिकाः, नवरं भुजपरिसर्पेभ्यः प्रतिषेधः कर्तव्यः पङ्कप्रभापृथिवीनैर-
यिकाणां पृच्छा, गौतम ! यथा बालुकाप्रभापृथिवीनैरयिका नदरम्-खेचरेभ्यः
प्रतिषेधः कर्तव्यः, धूमप्रभापृथिवीनैरयिकाणां पृच्छा, गौतम ! यथा पङ्कप्रभा-
पृथिवीनैरयिकाः, नवरं चतुष्पदेभ्यः प्रतिषेधः कर्तव्यः, तमापृथिवीनैरयिकाः

वोववाएयवा) हे गौतम ! इनका उपपातभी सामान्य नारकों के जैसा
समझना चाहिए (नवरं) विशेष (संमुच्छिमेहितो) संमूर्च्छिमों से
(पडिसेहो) निषेध (कायव्वो) करना चाहिए ।

(बालुयप्पभापुढवि नेरइया णं भंते ! कओहितो उववज्जंति ?)
हे भगवन् ! बालुकाप्रभा पृथ्वी के नैरयिक कहां से उत्पन्न होते हैं ?
(गोयमा ! जहा सक्करप्पभा पुढवि नेरइया) हे गौतम ! शर्कराप्रभा
पृथ्वीके नारकों के समान (नवरं) विशेष (भुयपरिसप्पेहितो पडिसेहो
कायव्वो) भुजपरिसर्पो से उत्पन्न होने का निषेध करना चाहिए ।

(पंकप्पभा पुढवि नेरइयाणं पुच्छा) पंकप्रभा पृथिवी के नारकों
के विषय में पृच्छा (गोयमा ! जहा बालुयप्पभा पुढवि नेरइया)
हे गौतम ! बालुकाप्रभा पृथिवी के नारकों के समान (नवरं) विशेष
खह्यरेहितो पडिसेहो कायव्वो) खेचरों से निषेध करना चाहिए ।

(धूमप्पभापुढवि नेरइयाणं पुच्छा ?) धूमप्रभा पृथिवी के नारकों
के विषय में प्रश्न ? (गोयमा ! जहा पंकप्पभा पुढवि नेरइया) पंकप्रभा

गौतम ! येभनो उत्पाद पथु सामान्य नारको जेवो समज्जे जेधञ्जे (नवर)
विशेष (संमुच्छिमेहितो) स मूर्च्छिमोथी (पडिसेहो) निषेध (कायव्वो) करवे जेधञ्जे.

(बालुयप्पभा पुढवि नेरइयाणं भंते ! कओहितो उववज्जंति ?) हे भगवन् !
बालुकाप्रभा पृथ्वीना नैरयिक कथाथी उत्पाद थय छे ? (गोयमा : जहा सक्कर-
प्पभा पुढवि नेरइयां) हे गौतम ? शर्कराप्रभा पृथ्वीना नारकोनी समान (नवर)
विशेष (भुयपरिसप्पेहितो पडिसेहो कायव्वो) भुजपरिसर्पोथी उत्पाद थवानो निषेध
करवे जेधञ्जे.

(पंकप्पभा पुढविनेरइयाणं भंते ! पुच्छा ?) पंकप्रभा पृथ्वीना नारकोना
विषयभा पृच्छा ? (गोयमा ! जहा बालुयप्पभा पुढवि नेरइया) हे गौतम ! बालुका
प्रभा पृथ्वीना नारकोना समान (नवर) विशेष (खह्यरेहितो पडिसेहो कायव्वो)
खेचरोथी निषेध करवे जेधञ्जे

(धूमप्पभापुढविनेरइयाणं पुच्छा ?) धूमप्रभा पृथ्वीना नारकोना विषयभा
प्रश्न ? (गोयमा जहा पंकप्पभा पुढविनेरइया) पंकप्रभा पृथ्वीना नारकोना

खलु भदन्त ! केभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! यथा धूमप्रभापृथिवीनैरयिकाः, नवरम् स्थलचरेभ्योपि प्रतिषेधः कर्तव्यः, अनेन अभिलापेन, यदि पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनि-केभ्यः उपपद्यन्ते किं जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, स्थलचरपञ्चेन्द्रियेभ्यः उपपद्यन्ते, खेचरपञ्चेन्द्रियेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! जलचरपञ्चेन्द्रियेभ्य उपपद्यन्ते, नो स्थलचरेभ्यो नो खेचरेभ्य उपपद्यन्ते, यदि मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते

पृथिवी के नारकों के समान (नवरं) विशेष चउष्पएहिंतो वि पडिसे हो कायव्वो) चतुष्पदों से भी निषेध कर देना चाहिए (तमापुढवि नेरइयाणं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ?) हे भगवन् ! तमःप्रभा पृथ्वी के नारक कहां से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! जहा धूमप्पभा पुढवि नेरइया) हे गौतम ! धूमप्रभा के नारकों के समान (नवरं) विशेष (थलयरेहिंतो वि पडिसेहो कायव्वो) स्थलचरों से भी निषेध करना चाहिए (इमेणं अभिलावेणं) इस अभिलाप-शब्दप्रयोग से (जइ पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) यदि पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं । (किं जलयरपंचिदिएहिंतो उववज्जंति) क्या चरपंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं ? (थलयर पंचिदिएहिंतो उववज्जंति) स्थलचर पंचेन्द्रियो से उत्पन्न होते हैं ? (खहयर पंचिदिएहिंतो उववज्जंति ?) खेचर पंचेन्द्रियो से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (जलयर पंचिदिएहिंतो उववज्जंति) जलचर पंचेन्द्रियो से उत्पन्न होते हैं, (नो थलयरेहिंतो) स्थलचरो से नहीं (नो खहयरेहिंतो) खेचरो से नहीं (उववज्जंति) उत्पन्न होते हैं ।

समान (नवरं) विशेष (चउष्पएहिंतो वि पडिसेहो कायव्वो) चतुष्पदोथी पशु निषेध करी देवे। नेधथे (तमा पुढवि नेरइयाणं भंते कओहिन्तो उववज्जंति) डे लगवान् ? तम प्रभा पृथ्वीना नारक थ्याथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! जहा धूमप्पभा पुढविनेरइया) डे गौतम ! धूमप्रभाना नारकेनी समान (नवरं) विशेष (थलयरेहिंतो पडिसेहो कायव्वो) स्थलयशेथी पशु निषेध करवे। नेधथे (इमेणं अभिलावेणं) आ अभिलाप शब्द प्रयोगथी (जइ पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) यदि पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे (किं जलयरपंचिदिएहिंतो उववज्जंति) शु जलयर पंचेन्द्रियोथी उत्पन्न थाय छे (थलयरपंचिदिएहिंतो उववज्जंति) स्थलयर पंचेन्द्रियोथी उत्पन्न थाय छे (खहयरपंचिदिएहिंतो उववज्जंति) खेचर पंचेन्द्रियोथी उत्पन्न थाय छे (गोयमा ! डे गौतम ! (जलयर पंचिदिएहिंतो उववज्जंति) जलयर पंचेन्द्रियोथी उत्पन्न थाय छे (नो खहयरेहिंतो उववज्जंति) खेचरोथी उत्पन्न थता नथी।

किं कर्मभूमिगेभ्य उपपद्यन्ते, अकर्मभूमिगेभ्य उपपद्यन्ते, अन्तरद्वीपेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! कर्मभूमिगेभ्य उपपद्यन्ते, नो अकर्मभूमिकेभ्य उपपद्यन्ते, नो अन्तरद्वीपेभ्य उपपद्यन्ते, यदि कर्मभूमिकेभ्य उपपद्यन्ते, किं संख्येयवर्षायुष्केभ्य उपपद्यन्ते, असंख्येयवर्षायुष्केभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! संख्येयवर्षायुष्केभ्य उपपद्यन्ते, नो असंख्येयवर्षायुष्केभ्य उपपद्यन्ते, यदि संख्येयवर्षायुष्केभ्य उपपद्यन्ते किं पर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते, अपर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते ?

(जइ मणुस्सेहिंतो उववज्जंति) यदि अनुष्यो से उत्पन्न होते हैं । (किं कम्मभूमिएहिंतो उववज्जंति) क्या कर्मभूमिजो से उत्पन्न होते हैं ! (अकम्मभूमिएहिंतो उववज्जंति) अकर्मभूमिजो से उत्पन्न होते हैं । (अंतरदीवएहिंतो उववज्जंति ?) अन्तर द्वीपजो से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! कम्मभूमिएहिंतो उववज्जंति) हे गौतम ! कर्मभूमिजो से उत्पन्न होते हैं, (नो अकम्मभूमिएहिंतो उववज्जंति) अकर्मभूमिजो से उत्पन्न नहीं होते (नो अंतरदीवएहिंतो उववज्जंति) अन्तर द्वीपजो से उत्पन्न नहीं होते ।

(जइ कम्मभूमिएहिंतो उववज्जंति) यदि कर्मभूमिजो से उत्पन्न होते हैं । (किं संखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति, असंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति ?) क्या संख्यात वर्ष की आयु वालो से उत्पन्न होते हैं अथवा असंख्यात वर्ष की आयु वालो से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (संखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति नो असंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति) संख्यातवर्ष की आयु वालो से उत्पन्न होते

(जइ मणुस्सेहिंतो उववज्जंति) नो अनुष्येथी उत्पन्न थाय छे (किं कम्मभूमिएहिंतो उववज्जंति) शु कर्मभूमिनेथी उत्पन्न थाय छे (अकम्मभूमिएहिंतो उववज्जंति) अकर्मभूमिनेथी उत्पन्न थाय छे (अंतरदीवएहिंतो उववज्जंति ?) अन्तर द्वीपनेथी उत्पन्न थाय छे (गोयमा ! कम्मभूमिएहिंतो उववज्जंति) हे गौतम ! कर्मभूमिनेथी उत्पन्न थाय छे (नो अकम्मभूमिएहिंतो उववज्जंति) अकर्मभूमिनेथी उत्पन्न थता नथी (नो अंतर दीवएहिंतो उववज्जंति) अन्तर द्वीपनेथी उत्पन्न थथी थता

(जइ कम्मभूमिएहिंतो उववज्जंति) यदि कर्मभूमिनेथी उत्पन्न थाय छे (किं संखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति, असंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति) शु संख्यात वर्षनी आयुवाण्णथी उत्पन्न थाय छे अथवा असंख्यात वर्षनी आयुवाण्णथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (संखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति, नो असंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति) संख्यात वर्षनी आयुवाण्णथी उत्पन्न थाय छे, असंख्यात वर्षनी आयुवाण्णथी नथी उत्पन्न थता (जइ संखेज्जवासाउएहिंतो

गौतम ! पर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते, नो अपर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते, यदि पर्याप्तक-
संख्येयवर्षायुष्कर्मभूमिगेभ्य उपपद्यन्ते किं स्त्रीभ्य उपपद्यन्ते, पुरुषेभ्य उपप-
द्यन्ते, नपुंसकेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! स्त्रीभ्य उपपद्यन्ते, पुरुषेभ्यः उपपद्यन्ते,
नपुंसकेभ्योऽपि उपपद्यन्ते, अधःसप्तमपृथिवीनैरयिका खलु भदन्त ! केभ्य
हैं, असंख्यात वर्ष की आयु वालो से नहीं उत्पन्न होते हैं। (जह संखे-
जजवासाउएहितो उववज्जति) यदि संख्यात वर्ष की आयु वालो से
उत्पन्न होते हैं (किं पज्जत्तएहितो उववज्जति, अपज्जत्तएहितो उवव-
ज्जति) क्या पर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं या अपर्याप्तको से उत्पन्न
होते हैं ? (गोयमा ! पज्जत्तएहितो उववज्जति, नो अपज्जत्तएहितो
उववज्जति) हे गौतम ! पर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्तको से
नहीं उत्पन्न होते।

(जह पज्ज संखेज्जवासाउयकम्मभूमिएहितो उववज्जति) यदि
पर्याप्तक, संख्यात वर्ष की आयु वाले भूमिजों से उत्पन्न होते हैं।
(किं इत्थिएहितो उववज्जति?) क्या स्त्रियों से उत्पन्न होते हैं ?
(पुरिसेहितो उववज्जति) पुरुषों से उत्पन्न होते हैं ? (नपुंसएहितो उवव-
ज्जति) नपुंसको से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! इत्थीहितो उववज्जति)
हे गौतम ! स्त्रियों से उत्पन्न होते हैं। (पुरिसेहितो उववज्जति ?)
पुरुषो से उत्पन्न होते हैं (नपुंसएहितो वि उववज्जति) नपुंसको
से भी उत्पन्न होते हैं।

(अहे सत्तमा पुढविनेरइया णं भंते ! कओहितो उववज्जति ?)

उववज्जति) यदि सख्यात वर्षनी आयुवाणाओथी उत्पन्न थाय छे (कि पज्जत्तए
हितो उववज्जति, अपज्जत्तएहितो उववज्जति) शु पर्याप्तकेथी उत्पन्न थाय छे
अगर अपर्याप्तकेथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! पज्जत्तएहितो उववज्जति,
नो अपज्जत्तएहितो उववज्जति) छे गौतम ! पर्याप्तकेथी उत्पन्न थाय छे, अप-
र्याप्तकेथी नथी उत्पन्न थता।

(जह पज्जत्तासंखेज्जवासाउयकम्मभूमिएहितो उववज्जति) यदि पर्याप्तक,
सख्यात वर्षनी आयुवाणा कर्मभूमिओथी उत्पन्न थाय छे ? (कि इत्थिए
हितो उववज्जति ?) शु स्त्रीओभाथी उत्पन्न थाय छे ? (पुरिसेहितो उववज्जति ?)
पुश्पोथी उत्पन्न थाय छे ? (नपुंसएहितो उववज्जति) नपुंसकेथी उत्पन्न
थाय छे ? (गोयमा ! इत्थीहितो उववज्जति) छे गौतम ! स्त्रीओथी उत्पन्न
थाय छे (पुरिसेहितो उववज्जति) पुश्पोथी उत्पन्न थाय छे (नपुंसए
हितो वि उववज्जति) नपुंसकेथी पण्य उत्पन्न थाय छे

(अहे सत्तमापुढवि नेरइयाण भंते ! कओहितो उववज्जति ?) अध सप्तमी

उपपद्यन्ते ? गौतम ! एवञ्चैव, ननाम्-क्षीभ्यः प्रतिषेधः कर्तव्यः-असंज्ञिनः खलु प्रथमां द्वितीयामपि सरिसृपारवृतीया पदिगः । सिद्धाः याति चतुर्थीम् उरगा पुनः पञ्चमी पृथिवीम् ॥१॥ पाठीश्च स्त्रियो मत्स्या मनुष्याश्च सप्तमीम् पृथिवीम् । एष परमोपपातो बोद्धव्यो नररूपपृथिवीनाम् ॥२॥ सू० ९॥

टीका-गौतमः पृच्छति-‘जः उपरिसर्पपदव्ययसंविद्यतिरिक्खजोणि-
हितो उववज्जति’ हे भदन्त नैरसिद्धाः यदा उरःपरिसर्पस्थलचरणश्चेन्द्रियतिर्यग्यो-
निकेभ्य उपपद्यन्ते तदा ‘ति संमुच्छिमोरःपरिसर्पस्थलचरणश्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य
एहितो-उववज्जति’ किं संमुच्छिमोरःपरिसर्पस्थलचरणश्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य

अधःसप्तमी पृथिवी के नारक, हे भगवान् कहां से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! एवं चेत्) हे गौतम ! इसी प्रकार तगःप्रभा के समान (नवरं इत्थीहितो पडिसेहो कायव्वो) विशेष-स्त्रियों से उत्पन्न होने का निषेध करना चाहिए । गाथाओं का अर्थ-(असन्नी) असंज्ञी (खलु) निश्चय से (पढमं) पहली नरकभूमि में (दोच्चंपि सरीसिवा) सरीसृप दूसरी में (तइय पक्खी) पक्षी तीसरी में (खीहा जंति चवत्थि) सिंह चौथी भूमि में (उरगा) उरग (पुण) पुनः (पंचमि पुढविं) पांचवी पृथ्वी में (छट्ठि च इत्थियाओ) स्त्रियां छठी में (मच्छा मणुया य सत्तमि पुढविं) मच्छ और मनुष्य सातवी पृथ्वी में उत्पन्न हो सकते हैं । (एसो) यह (परमोवाओ) उत्कृष्ट उपपात (बोद्धव्वो) जानना चाहिए (नरगपुढवीणं) नरकभूमियों में ॥ ९ ॥

टीकार्थ-गौतम-प्रश्न करते हैं-हे भगवन् ! यदि नारक जीव उर-परिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं तो क्या संमूर्छिम

पृथ्वीना नारक, हे भगवन् ! क्याथी आवीने उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! एवं चेत्) हे गौतम ! जेन् प्रकारे तम प्रमाना समान (नवरं इत्थीहितो पडिसेहो कायव्वो) विशेष स्त्रीयोथी उत्पन्न थवानो निषेध करवो जेधये गाथाओतो अर्थ-(असन्नी) असंज्ञी (खलु) निश्चयथी (पढमं) पडेदी नरक भूमिमा (दोच्चं पि सरीसिवा) सरीसृप भीमा (तइय पक्खी) पक्षी तीमा (खीहा जंति चवत्थि) सिद्धयोथी भूमिमा (उरगा) उरग (पुण) पुन (पंचमि पुढविं) पांचमी पृथ्वीमा (छट्ठि च इत्थियाओ) स्त्रीया छठीमा (मच्छा मणुयाय सत्तमि पुढविं) मच्छ अने मनुष्य सातमी पृथ्वीमा उत्पन्न थथे शके छे (एसो) या (परमोवाओ) उत्कृष्ट उपपात (बोद्धव्वो) जानवो जेधये (नरगपुढवीणं) नरक भूमिथेमा ॥१-२॥ सू० ९॥

टीकार्थ-श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे-हे भगवन् जे नारक लव उरः परिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे तो शुं संमूर्छिम
प्र० १३०

ઉપપદ્યન્તે ! કિંવા 'ગૃભવવક્રંતિય ઉરપરિસર્પસ્થલચરપંચેન્દ્રિયતિર્યગ્જોણિ-
 હિંતો ઉવવજ્જંતિ ! ગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિકોરઃપરિસર્પસ્થલચરપંચેન્દ્રિયતિર્યગ્જોણિકેભ્યો
 ઉપપદ્યન્તે ! ભગવાન્ આહ—' ગોયમા ! હે ગૌતમ ! 'સંમૂર્છિમ્હેહિંતો ઉવવજ્જંતિ'
 ગૃભવવક્રંતિએહિંતોવિ ઉવવજ્જંતિ' સંમૂર્છિમ્હેભ્યઃ ઉરઃપરિસર્પસ્થલચરપંચેન્દ્રિ-
 યતિર્યગ્જોણિકેભ્યો નૈરયિકા ઉપપદ્યન્તે । અથ ચ ગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિકેભ્યઃ ઉરઃ-
 પરિસર્પસ્થલચરપંચેન્દ્રિયતિર્યગ્જોણિકેભ્યઃ નૈરયિકા ઉપપદ્યન્તે, ગૌતમઃ પૃચ્છતિ-
 'જહ સંમૂર્છિમ્ઉરપરિસર્પસ્થલચરપંચેન્દ્રિયતિર્યગ્જોણિએહિંતો ઉવવજ્જંતિ' યદા
 સંમૂર્છિમોરઃપરિસર્પસ્થલચરપંચેન્દ્રિયતિર્યગ્જોણિકેભ્યઃ નૈરયિકા ઉપપદ્યન્તે ?
 તદા—'કિં પજ્જત્તએહિંતો ઉવવજ્જતિ' અપજ્જત્તએહિંતો ઉવવજ્જંતિ ?' કિં પર્યાપ્તકેભ્ય
 સંમૂર્છિમોરઃપરિસર્પસ્થલચરપંચેન્દ્રિયતિર્યગ્જોણિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે ! કિં વા અપર્યા-

ઉરપરિસર્પ સ્થલચરપંચેન્દ્રિય તિર્ય ચૌં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈ ? અથવા ગર્ભજ
 ઉરપરિસર્પ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્ય ચૌં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈ ?

ભગવાન્ ઉત્તર દેતે હૈ—હે ગૌતમ ! સંમૂર્છિમ ઉરપરિસર્પ સ્થલ-
 ચર પંચેન્દ્રિય તિર્ય ચૌં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈ ઓર ગર્ભજ ઉરપરિસર્પ
 સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્ય ચૌં સે મી ઉત્પન્ન હોતે હૈ ।

ગૌતમ—ભગવન્ ! યદિ સંમૂર્છિમ ઉરપરિસર્પ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય
 તિર્ય ચૌં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈ તો કયા પર્યાપ્તક સંમૂર્છિમ ઉરપરિસર્પ
 સ્થલચર પંચેન્દ્રિયોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈ અથવા અપર્યાપ્તક સંમૂર્છિમ
 ઉરપરિસર્પ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્ય ચૌં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈ ?

ભગવાન્—ગૌતમ ! પર્યાપ્તક સંમૂર્છિમોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈ, અપ-
 ર્યાપ્તક સંમૂર્છિમ ઉરપરિસર્પ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્ય ચૌં સે નહી
 ઉત્પન્ન હોતે હૈ ।

ઉર પરિસર્પ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્ય ચૌં સે ઉત્પન્ન થાય છે અથવા ગર્ભજ
 ઉર પરિસર્પ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્ય ચૌં સે ઉત્પન્ન થાય છે ?

શ્રી ભગવાન્ ઉત્તર આપે છે—હે ગૌતમ ! સંમૂર્છિમ ઉર પરિસર્પ સ્થલ-
 ચર પંચેન્દ્રિય તિર્ય ચૌં સે ઉત્પન્ન થાય છે અને ગર્ભજ ઉર પરિસર્પ સ્થલચર
 પંચેન્દ્રિય તિર્ય ચૌં સે પણ ઉત્પન્ન થાય છે

શ્રી ગૌતમસ્વામી—હે ભગવાન્—યદિ સંમૂર્છિમ ઉર પરિસર્પ સ્થલચર પંચે
 ન્દ્રિય તિર્ય ચૌં સે ઉત્પન્ન થાય છે તો શુ પર્યાપ્તક સંમૂર્છિમ ઉર પરિસર્પ
 સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્ય ચૌં સે ઉત્પન્ન થાય છે અથવા અપર્યાપ્તક સંમૂર્છિમ
 ઉર પરિસર્પ સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્ય ચૌં સે ઉત્પન્ન થાય છે ?

શ્રી ભગવાન્—હે ગૌતમ ! પર્યાપ્તક સંમૂર્છિમોં સે ઉત્પન્ન થાય છે, અપ-

प्तकेभ्यः संमूर्च्छिमोरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—गोयमा ! हे गौतम ! 'पञ्जत्तगसंगुच्छिमैर्हितो उववज्जंति' पर्याप्तक संमूर्च्छिभ्य उरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, 'नो अपञ्जत्तगसंगुच्छिमउरपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उववज्जंति' नो अपर्याप्तकसंमूर्च्छिमोरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'जइ गवभवकंतिउरपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो—नैरयिका उपपद्यन्ते, तदा 'किं पञ्जत्तगेहितो उववज्जंति, अपञ्ज-एहितो उववज्जंति' किं पर्याप्तकेभ्यो गर्भव्युत्क्रान्तिकोरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? किं वा अपर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिकोरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—'गोयमा ! हे गौतम ! 'पञ्जत्तगगवभवकंतिउरपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, 'नो अपञ्जत्तगगवभवकंतिउरपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, 'नो अपञ्जत्तगगवभवकंतिउरपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, 'नो अपर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिकोरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'जइ भुयपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतम—हे भगवन् ! यदि गर्भज उरपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय

तिर्यचो से नारक उत्पन्न होते हैं तो क्या पर्याप्तक गर्भज उरपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं अथवा अपर्याप्तक गर्भज उरपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—गौतम ! पर्याप्तक गर्भज उरपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्तक गर्भज उरपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न नहीं होते ।

गौतम—हे भगवन् ! यदि भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो से

पर्याप्तक संमूर्च्छिम उर परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होता है, तो

श्री गौतमस्वामी—भगवन् यदि गर्भज उर परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो से नारक उत्पन्न थाय छे तो शु पर्याप्तक गर्भज उर परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न थाय छे ? अथवा अपर्याप्तक गर्भज उरः परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! पर्याप्तक गर्भज उर परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न थाय छे, अपर्याप्तक गर्भज उर परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न नहीं थाय छे ।

ઉપપદ્યન્તે ! કિંના 'ગઢ્ભવકંતિય ઉરપરિસર્પ્પથલચરપંચિદિયતિરિક્સજોણિ-
 હિંતો ઉવવજ્જંતિ ! ગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિકોરઃપરિસર્પ્પસ્થલચરપંચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્યો
 ઉપપદ્યન્તે ! ભગવાન્ આહ—' ગોયમા ! હે ગૌતમ ! 'સંમૂર્ચ્છિમેહિંતો ઉવવજ્જંતિ'
 ગઢ્ભવકંતિઈહિંતોવિ ઉવવજ્જંતિ' સંમૂર્ચ્છિમેભ્યઃ ઉરઃપરિસર્પ્પસ્થલચરપંચેન્દ્રિ-
 યતિર્યગ્યોનિકેભ્યો નૈરયિકા ઉપપદ્યન્તે । અથ ચ ગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિકેભ્યઃ ઉરઃ-
 પરિસર્પ્પસ્થલચરપંચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્યઃ નૈરયિકા ઉપપદ્યન્તે, ગૌતમઃ પૃચ્છતિ-
 'જઙ્ઙ સંમુચ્ચિન્નમુરપરિસર્પ્પથલચરપંચિદિયતિરિક્સજોણિઈહિંતો ઉવવજ્જંતિ' યદા
 સંમૂર્ચ્છિમોરઃપરિસર્પ્પસ્થલચરપંચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્યઃ નૈરયિકા ઉપપદ્યન્તે ?
 તદા—'કિં પજ્જત્તઈહિંતો ઉવવજ્જંતિ' અપજ્જત્તગેહિંતો ઉવવજ્જંતિ ?' કિં પર્યાપ્તકેભ્ય
 સંમૂર્ચ્છિમોરઃપરિસર્પ્પસ્થલચરપંચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે ! કિં વા અપર્યા-

ઉરપરિસર્પ્પે સ્થલચરપંચેન્દ્રિય તિર્યંચોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈ ? અથવા ગર્ભજ
 ઉરપરિસર્પ્પે સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈ ?

ભગવાન્ ઉત્તર દેતે હૈ—હે ગૌતમ ! સંમૂર્ચ્છિમ ઉરપરિસર્પ્પે સ્થલ-
 ચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈ ઓર ગર્ભજ ઉરપરિસર્પ્પે
 સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોં સે ઓ ઉત્પન્ન હોતે હૈ ।

ગૌતમ—ભગવાન્ ! ચદિ સંમૂર્ચ્છિમ ઉરપરિસર્પ્પે સ્થલચર પંચેન્દ્રિય
 તિર્યંચોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈ તો વયા પર્યાપ્તક સંમૂર્ચ્છિમ ઉરપરિસર્પ્પે
 સ્થલચર પંચેન્દ્રિયોં સે, ઉત્પન્ન હોતે હૈ અથવા અપર્યાપ્તક સમૂર્ચ્છિમ
 ઉરપરિસર્પ્પે સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈ ?

ભગવાન્—ગૌતમ ! પર્યાપ્તક સંમૂર્ચ્છિમોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈ, અપ-
 ર્યાપ્તક સંમૂર્ચ્છિમ ઉરપરિસર્પ્પે સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોં સે નહી
 ઉત્પન્ન હોતે હૈ ।

ઉર પરિસર્પ્પે સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોં સે ઉત્પન્ન થાય છે અથવા ગર્ભજ
 ઉર પરિસર્પ્પે સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોં સે ઉત્પન્ન થાય છે ?

શ્રી ભગવાન્ ઉત્તર આપે છે—હે ગૌતમ ! સંમૂર્ચ્છિમ ઉર પરિસર્પ્પે સ્થલ-
 ચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોં સે ઉત્પન્ન થાય છે અને ગર્ભજ ઉર પરિસર્પ્પે સ્થલચર
 પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોં સે પણ ઉત્પન્ન થાય છે

શ્રી ગૌતમસ્વામી—હે ભગવાન્—ચદિ સંમૂર્ચ્છિમ ઉર પરિસર્પ્પે સ્થલચર પંચે
 ન્દ્રિય તિર્યંચોં સે ઉત્પન્ન થાય છે તો શુ પર્યાપ્તક સંમૂર્ચ્છિમ ઉર પરિસર્પ્પે
 સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોં સે ઉત્પન્ન થાય છે અથવા અપર્યાપ્તક સંમૂર્ચ્છિમ
 ઉર પરિસર્પ્પે સ્થલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોં સે ઉત્પન્ન થાય છે ?

શ્રી ભગવાન્—હે ગૌતમ ! પર્યાપ્તક સંમૂર્ચ્છિમોં સે ઉત્પન્ન થાય છે, અપ-

प्तकेभ्यः समूर्च्छिमोरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—गोयमा ! हे गौतम ! 'पञ्जत्तगसंमुच्छिमेहितो उववज्जंति' पर्याप्तक समूर्च्छिमेभ्य उरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, 'नो अपज्जत्तगसंमुच्छिमउरपरिसर्पस्थलचरपञ्चिदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति' नो अपर्याप्तकसमूर्च्छिमोरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'जइ गम्भवक्कांतियउरपरिसर्पस्थलचरपञ्चिदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति—' यदा गर्भव्युत्क्रान्तिकोरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो—नैरयिका उपपद्यन्ते, तदा 'किं पञ्जत्तगेहितो उववज्जंति, अपज्जएहितो उववज्जंति' किं पर्याप्तकेभ्यो गर्भव्युत्क्रान्तिकोरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? किं वा अपर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिकोरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—'गोयमा ! हे गौतम ! 'पञ्जत्तगम्भवक्कंतिएहितो उववज्जंति' पर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिकेभ्य उरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, 'नो अपज्जत्तगम्भवक्कंतियउरपरिसर्पस्थलचरपञ्चिदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति' नो अपर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिकोरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'जइ भुयपरिसर्पस्थलचरपञ्चिदियतिरिक्खजोणिए-

गौतम—हे भगवन् ! यदि गर्भज उरपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से नारक उत्पन्न होते हैं तो क्या पर्याप्तक गर्भज उरपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं अथवा अपर्याप्तक गर्भज उरपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—गौतम ! पर्याप्तक गर्भज उरपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्तक गर्भज उरपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न नहीं होते ।

गौतम—हे भगवन् ! यदि भुजपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से

थामिक समूर्च्छिम उर परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी नथी उत्पन्न थता.

श्री गौतमस्वामी—भगवन् यदि गर्भज उर परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी नारक उत्पन्न थाय छे तो शु पर्याप्तक गर्भज उर परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ? अथवा अपर्याप्तक गर्भज उर परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! पर्याप्तक गर्भज उर परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे, अपर्याप्तक गर्भज उर परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न नथी थता

हिंतो उववज्जंति' यदा भुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते तदा—'किं संमूर्च्छिमभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति?' किं संमूर्च्छिमभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, किं वा—'गर्भवक्कंतियमुदपरिसर्पस्थलचरपञ्चिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति? गर्भव्युत्क्रान्तिकभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते? भगवान् आह—'गोयमा ! हे गौतम ! 'दोहिंतो-ऽपि उववज्जंति' द्वाभ्यामपि संमूर्च्छिमगर्भव्युत्क्रान्तिकभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'जइ संमूर्च्छिमभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति' यदा—संमूर्च्छिमभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, तदा—'किं पज्जत्तयसंमूर्च्छिमभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति' किं पर्याप्तकसंमूर्च्छिमभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते? किं वा—'अपज्जत्तय संमूर्च्छिमभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति?' अपर्याप्तकसंमूर्च्छिमभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते? भगवान् आह—'गायमा !' हे गौतम ! 'पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति,

नारकउत्पन्न होते हैं तो क्या संमूर्च्छिम भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं अथवा गर्भज भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! दोनों से ही उत्पन्न होते हैं ।

गौतम—यदि संमूर्च्छिम भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रियतिर्यचो से उत्पन्न होते हैं तो क्या पर्याप्तक संमूर्च्छिम भुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं अथवा अपर्याप्तक संमूर्च्छिम भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ?

श्री गौतमस्वामी—हे भगवान् ! यदि भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो नारक उत्पन्न थाय छे तो शु संमूर्च्छिम भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो उत्पन्न थाय छे? अथवा गर्भज भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान् :- हे गौतम ! अन्नेथी उत्पन्न थाय छे

श्री गौतमस्वामी—यदि संमूर्च्छिम भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो उत्पन्न थाय छे तो शु पर्याप्तक संमूर्च्छिम भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो उत्पन्न थाय छे अथवा अपर्याप्तक संमूर्च्छिम भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो उत्पन्न थाय छे ?

नो अपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति' पर्याप्तकेभ्यःसंमूर्च्छिमभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, नो अपर्याप्तकेभ्यःसंमूर्च्छिमभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति-‘जइ गढभवदकंति-यभुजपरिसप्पथलयरपच्चिदियतिरिखलजोणिएहिंतो उववज्जंति' ? यदा गर्भव्युक्रान्तिकभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिकजीवा उत्पद्यन्ते तदा ' किं पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति' अपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति ? किं पर्याप्तकेभ्यो-गर्भव्युक्रान्तिकभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? किं वा-अपर्याप्तकेभ्यो गर्भव्युक्रान्तिक भुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह-‘गोयमा ! हे गौतम ! 'पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति, नो अपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति' पर्याप्तकेभ्यो गर्भव्युक्रान्तिकभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, नो अपर्याप्तकेभ्यो गर्भव्युक्रान्तिकभुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति-‘जइ खहयरपच्चिदियतिरिखलजोणिएहिंतो उववज्जंति' यदा खेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते' तदा-‘किं संमूर्च्छिमखहयरचिदि-

भगवान्-हे गौतम ! पर्याप्तकों से उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्तकों से नहीं उत्पन्न होते ।

गौतम-भगवन् ! यदि गर्भज भुजपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय-तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं, तो क्या पर्याप्तकों से उत्पन्न होते हैं अथवा अपर्याप्तकों से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्-गौतम ! पर्याप्तक गर्भज भुजपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं, किन्तु अपर्याप्तक गर्भज भुजपरि-स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से नहीं उत्पन्न होते ।

गौतम-भगवन् ! यदि खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं

श्री भगवान्.-हे गौतम ! पर्याप्तकेभ्यो उत्पन्न थाय छे, अपर्याप्तकेभ्यो नथी उत्पन्न थता.

श्री गौतमस्वामी.-हे भगवन् ! यदि गर्भज भुजपरिसर्प स्थलचर-पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे तो शु पर्याप्तकेभ्यो उत्पन्न थाय छे अथवा अपर्याप्तकेभ्यो उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्-हे गौतम ! पर्याप्तक गर्भज भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे, किन्तु अपर्याप्तक गर्भज भुजपरिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी नथी उत्पन्न थता.

श्री गौतमस्वामी.-हे भगवन् ! यदि खेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी

यतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति' किं 'संमूर्च्छिमखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते' किं वा—'गवभवककंतियसहयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति?' गर्भव्युत्क्रान्तिक खेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते' भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'दोहितोऽपि उववज्जंति' द्वाभ्यामपि संमूर्च्छिमगर्भव्युत्क्रान्तिकाभ्यां खेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाभ्यां नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'जइ संमुच्छिमसहयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति' यदा संमूर्च्छिमखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते तदा 'किं पज्जत्तएहितो उववज्जंति अपज्जत्तएहितो उववज्जंति' किं पर्याप्तकेभ्यः संमूर्च्छिमखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते? किं वा अपर्याप्तकेभ्यः संमूर्च्छिमखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते? भगवान् आह—'गोयमा ! हे गौतम ! 'पज्जत्तएहितो उववज्जंति, नो अपज्जत्तएहितो उववज्जंति' पर्याप्तकेभ्यः संमूर्च्छिमखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, नो अपर्याप्तकेभ्यः संमूर्च्छिमखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति, 'जइ पज्जत्तगगवभवककंतियजलयरपंचिदियतिरिक्खजोणि-

तो क्या संमूर्च्छिम खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं अथवा गर्भव्युत्क्रान्तिक खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान् गौतम ! दोनों से ही उत्पन्न होते हैं ।

गौतम-भगवन् ! यदि संमूर्च्छिम खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं तो क्या पर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं अथवा अपर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्-गौतम ! पर्याप्तक संमूर्च्छिम खेचरपंचेन्द्रियतिर्यचो से उत्पन्न होते हैं, किन्तु अपर्याप्तक संमूर्च्छिम खेचरपंचेन्द्रियतिर्यचो से उत्पन्न नहीं होते ।

श्रीगौतम-हे भगवन् ! यदि पर्याप्तक गर्भव्युत्क्रान्तिक खेचरपंचेन्द्रिय-

उत्पन्न थाय छे तो शु संमूर्च्छिम जेयर पञ्चेन्द्रिय तिर्यथाथी उत्पन्न थाय छे, अथवा गर्भव्युत्क्रान्तिक जेयर पञ्चेन्द्रिय तिर्यथाथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवन् ! हे गौतम ! जन्नेथी ज उत्पन्न थाय छे-

श्री गौतमस्वामी-हे भगवन् यदि जेयर पञ्चेन्द्रिय तिर्यथाथी उत्पन्न थाय छे तो शु पर्याप्तको उत्पन्न थाय छे अथवा अपर्याप्तको उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान् :-हे गौतम ! पर्याप्तक संमूर्च्छिम जेयर पञ्चेन्द्रिय तिर्यथाथी उत्पन्न थाय छे, किन्तु अपर्याप्तक संमूर्च्छिम जेयर पञ्चेन्द्रिय तिर्यथाथी उत्पन्न थता नथी.

एहितो उववज्जति' यदा पर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिकखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो-
 नैरयिका उपपद्यन्ते, तदा 'किं संखेज्जवासाउएहितो, उववज्जंति असंखेज्जवा-
 साउएहितो उववज्जंति' किं संखेयवर्षायुष्केभ्यः पर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिकखेच-
 रपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? किं वा असंखेयवर्षायुष्केभ्यः
 पर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिकखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य नैरयिका उपपद्यन्ते ?
 भगवानाह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'संखिज्जवासाउएहितो उववज्जंति नो असं-
 खिज्जवासाउएहितो उववज्जति' संखेयवर्षायुष्केभ्यः पर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिक-
 खेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, नो असंखेयवर्षायुष्केभ्यः
 पर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिकखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिकाः उपपद्यन्ते,
 गौतमः पृच्छति 'जइ सखेज्जवासाउयगव्वमव्वंति यखहयरपंदिपतिरिक्खजो-
 णिएहितो उववज्जंति' यदा संखेयवर्षायुष्कगर्भव्युत्क्रान्तिकखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्य-
 ग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते तदा 'किं पज्जत्तएहितो उववज्जंति, अपज्जत्तए-
 हितो उववज्जंति, किं पर्याप्तकेभ्यः संखेयवर्षायुष्कगर्भव्युत्क्रान्तिकखेचरपञ्चेन्द्रि-
 यतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? किं वा अपर्याप्तकेभ्यः संखेयवर्षायुष्क-
 गर्भव्युत्क्रान्तिकखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, ? भगवान्

यतिर्यचो से नारक उत्पन्न होते हैं तो क्या संख्यात वर्ष की आयु वाले
 गर्भव्युत्क्रान्तिकखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यचो से उत्पन्न होते हैं अथवा असं-
 ख्यात वर्ष की आयुवाले गर्भजखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यचो से उत्पन्न होते हैं?

भगवान्—हे गौतम ! संख्यात वर्ष की आयुवालों से उत्पन्न होते
 हैं, असंख्यात वर्ष की आयुवाले गर्भज खेचरपञ्चेन्द्रिय तिर्घचो से
 उत्पन्न नहीं होते ?

श्रीगौतम—हे भगवन् ! यदि संख्यात वर्ष की आयुवाले गर्भज
 खेचर पञ्चेन्द्रियतिर्यचो से उत्पन्न होते हैं तो पर्याप्तको से उत्पन्न
 होते हैं या अपर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं ?

श्री गौतमस्वामी —हे भगवन् ! यदि पर्याप्तक गर्भव्युत्क्रान्तिक खेचर
 पञ्चेन्द्रिय तिर्घचो नारक उत्पन्न थाय छे तो शु स भ्यात वर्षनी आयुवाणा
 गर्भव्युत्क्रान्तिक खेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्घचो उत्पन्न थाय छे अथवा असं-
 भ्यात वर्षनी आयुवाणा गर्भव्युत्क्रान्तिक खेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्घचो उत्पन्न थाय छे

श्रीभगवान्—हे गौतम ! स भ्यात वर्षनी आयुवाणाथी उत्पन्न थाय छे,
 अस भ्यात वर्षनी आयुवाणा गर्भव्युत्क्रान्तिक खेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्घचो उत्पन्न नथी थता

श्री गौतमस्वामी —हे भगवन् ! यदि स भ्यात वर्षनी आयुवाणा गर्भव्यु-
 त्क्रान्तिक खेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्घचो उत्पन्न थाय तो पर्याप्तकोथी उत्पन्न थाय छे
 अगर अपर्याप्तकोथी उत्पन्न थाय छे ?

आह—‘गोयमा’ हे गौतम ! पञ्जत्तएहिंतो उववज्जंति, नो अपञ्जत्तएहिंतो उववज्जंति’ पर्याप्तकेभ्यः संख्येयवर्षायुष्कर्गर्भव्युत्क्रान्तिरुखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, नो अपर्याप्तकेभ्यः संख्येयवर्षायुष्कर्गर्भव्युत्क्रान्तिकखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—‘जइ मणुस्सेहितो उववज्जंति, किं समुच्छिममणुस्सेहितो उववज्जंति, गवभवकंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति?’ यदा मनुष्येभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते तदा किं समुच्छिममणुष्येभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, किं वा गर्भव्युत्क्रान्तिकमणुष्येभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते! भगवान् आह—गोयमा ! “ हे गौतम ! नो समुच्छिममणुस्सेहितो उववज्जंति, गवभवकंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति’ नो समुच्छिममणुष्येभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, अपि तु गर्भव्युत्क्रान्तिकमणुष्येभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—‘जइ गवभवकंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति यदा गर्भव्युत्क्रान्तिकमणुष्येभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते तदा किं कम्मभूमिगगवभवकंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति, किं

भगवान्—हे गौतम ! पर्याप्तक संख्यात वर्ष की आयुवाले गर्भज खेचर पंचेन्द्रियतिर्यग्यो से नारकों की उत्पत्ति होती है, अपर्याप्तक संख्यात वर्ष की आयुवाले गर्भज खेचरपंचेन्द्रियतिर्यग्यो से नहीं होती।

श्रीगौतम—हे भगवन् ! यदि मनुष्यों से अर्थात् मनुष्यभव से नारक उत्पन्न होते हैं तो क्या समुच्छिम मनुष्यों से नारक उत्पन्न होते हैं अथवा गर्भज मनुष्यों से नारक उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! समुच्छिम मनुष्यों से नारकों का उपात नहीं होता किन्तु गर्भज मनुष्यों से नारकों का उपात होता है।

श्रीगौतम—अगर गर्भजमनुष्यों से नारक उत्पन्न होते हैं तो क्या कर्मभूमि के गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं ? या अकर्मभूमि के

श्री भगवान् :- हे गौतम ! पर्याप्तक संख्यात वर्ष की आयुवाला गर्भज खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यग्योधी नारकों की उत्पत्ति थाय छे, अपर्याप्तक संख्यात वर्ष की आयुवाला गर्भज खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यग्योधी नहीं थती

श्री गौतमस्वामी :- हे भगवन् ! यदि मनुष्योधी अर्थात् मनुष्यत्वधी नारक उत्पन्न थाय छे तो समुच्छिम मनुष्योधी नारक उत्पन्न थाय छे, अथवा गर्भज मनुष्योधी नारक उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान् :- हे गौतम ! समुच्छिम मनुष्योधी नारकों का उपात नहीं थती, किन्तु गर्भज मनुष्योधी नारकों का उपात थाय छे

श्री गौतमस्वामी :- हे भगवन् ! अगर गर्भज मनुष्योधी नारक उत्पन्न थाय छे तो शुद्ध कर्मभूमि की गर्भज मनुष्योधी उत्पन्न थाय छे अगर

कर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? किं वा—‘अकम्मभूमि-
गवभवक्कंदियसणुस्सेहिंतो उव्वज्जंति’ अकर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यो
नैरयिका उपपद्यन्ते ? किं वा ‘अंतरदीवगगवभवक्कंतियमणुस्सेहिंतो उव्वज्जंति ?
अन्तरद्वीपकगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—
गोयमा ! हे गौतम ! ‘कम्मभूमिगगवभवक्कंतियमणुस्सेहिंतो उव्वज्जंति ‘कर्म-
भूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, ‘नो अकम्मभूमिगगवभव-
वक्कंतियमणुस्सेहिंतो उव्वज्जंति’ नो अकर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यो
नैरयिका उपपद्यन्ते, ‘नो अंतरदीवगगवभवक्कंतियमणुस्सेहिंतो उव्वज्जंति’ नो
अन्तरद्वीपगगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतम ! पृच्छति ‘जइ
कम्मभूमिगगवभवक्कंतियमणुस्सेहिंतो उव्वज्जंति’ यदा कर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्ति-
कमनुष्येभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते तदा ‘किं संखेज्जवाआउएहिंतो उव्वज्जंति ?
किं संखेयववर्षायुष्केभ्यः कर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्यो नैरयिका उपपद्य-
न्ते ? किं वा ‘असंखेज्जवासाउएहिंतो उव्वज्जंति’ असंखेयववर्षायुष्केभ्यः कर्म-
भूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा’

गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं ? अथवा अन्तरद्वीपों के गर्भज मनु-
ष्यों से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! कर्मभूमि के गर्भज मनुष्यों से नारक उत्पन्न
होते हैं, अकर्षभूमि के गर्भज मनुष्यों से नारक उत्पन्न नहीं होते और
अन्तरद्वीपज गर्भज मनुष्यों से भी नारक उत्पन्न नहीं होते ।

श्रीगौतम—यदि कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं तो
क्या संख्यात वर्ष की आयुवाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों से उत्-
पन्न होते हैं अथवा असंख्यात वर्ष की आयुवाले कर्मभूमिज गर्भज मनु-
ष्यों से उत्पन्न होते हैं ?

अकर्मभूमिना गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे अथवा अन्तर द्वीपाना
गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान् —हे गौतम ! कर्मभूमिना गर्भज मनुष्येथी नारक उत्पन्न
थाय छे, अकर्म भूमिना गर्भज मनुष्येथी नारक उत्पन्न थता नथी अने
अन्तर द्वीपज गर्भज मनुष्येथी पणु नारक उत्पन्न थता नथी

श्री गौतमस्वामी —यदि कर्म भूमिज गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न थाय
छे तो शु सख्यात वर्षानी आयुवाणा कर्मभूमिज गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न
थाय छे अथवा असख्यात वर्षानी आयुवाणा कर्मभूमिज गर्भज मनुष्येथी
उत्पन्न थाय छे ?

हे गौतम ! 'संखेज्जवासाउयकम्मभूमिगगम्भवक्कंति यमणुस्सेहिंती उववज्जंति' संखेयवर्षायुष्ककर्मभूमिगगर्भ-युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, 'नो असंखेज्जवासाउयकम्मभूमिगगम्भवक्कंति यमणुस्सेहिंती उववज्जंति' नो असंखेयवर्षायुष्ककर्मभूमिगगर्भ-युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'जइ संखेज्जवासाउयकम्मभूमिगगम्भवक्कंति यमणुस्सेहिंती उववज्जंति' यदा संखेयवर्षायुष्ककर्मभूमिगगर्भ-युत्क्रान्तिकमनुष्यो नैरयिका उपपद्यन्ते तदा 'किं पज्जत्तएहिंती उववज्जंति ? अपज्जत्तएहिंती उववज्जंति ?' किं पर्याप्तकेभ्यः संखेयवर्षायुष्ककर्मभूमिगगर्भ-युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? किं वा अपर्याप्तकेभ्यः संखेयवर्षायुष्ककर्मभूमिगगर्भ-युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—'गोयमा ! हे गौतम ! 'पज्जत्तएहिंती उववज्जंति, नो अपज्जत्तएहिंती उववज्जंति' पर्याप्तकेभ्यः संखेयवर्षायुष्ककर्मभूमिगगर्भ-युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते, नो अपर्याप्तकेभ्यः संखेयवर्षायुष्ककर्मभूमि-

भगवान्—हे गौतम ! संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं, असंख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न नहीं होते ।

श्रीगौतम—हे भगवन् ! यदि संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं तो क्या पर्याप्तकों से उत्पन्न होते हैं अथवा अपर्याप्तक संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! पर्याप्तक संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं, किन्तु अपर्याप्तक संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों से नारक उत्पन्न नहीं होते ।

श्री भगवान्—हे गौतम ! सञ्चयात् वर्षानी आयुवाणा कर्मभूमिज गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे, असञ्चयात् वर्षानी आयुवाणा कर्मभूमिज गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न नथी थता ।

श्री गौतमस्वामी !—हे भगवन् ! यदि सञ्चयात् वर्षानी आयुवाणा कर्मभूमिज गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे तो शु पर्याप्तकेथी उत्पन्न थाय छे अथवा अपर्याप्तक सञ्चयात् वर्षानी आयुवाणा कर्मभूमिज गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! पर्याप्तक सञ्चयात् वर्षानी आयुवाणा कर्मभूमिज गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे, परन्तु अपर्याप्तक सञ्चयात् वर्षानी आयुवाणा कर्मभूमिज गर्भज मनुष्येथी नारक उत्पन्न नथी थता ।

मिगगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यो नैरयिका उपपद्यन्ते 'एवं' जहाओहिया उववाइया तहा रयणप्पभापुढविनेरइया वि उववाइएयन्वा' एवम् पूषोत्तरीत्या यथा औधिकाः उपपादितास्तथा रत्नप्रभापृथिवी नैरयिका अपि उपपादयितव्याः, गौतमः पृच्छति- 'सकरप्पभापुढविनेरइयाणं पुच्छा' शर्कराप्रभापृथिवी नैरयिकाः सल्ल केभ्य उपपद्यन्ते ? हति पृच्छा, भगवान् आह- 'गोयमा ! हे गौतम ! ' एते वि जहा ओहिया तहेवोषयाएयन्वा' एतेऽपि शर्कराप्रभापृथिवी नैरयिका यथा औधिकाः समुच्चय नैरयिका उपपादितास्तथैव उपपादयितव्याः, 'नवरं समुच्छिमेद्धितो पडिसेहो कायव्वो' किन्तु नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु समुच्छिमेभ्यो जीवेभ्यः शर्कराप्रभापृथिवी नैरयिकाणां म्रुपपातस्य प्रतिषेधः कर्तव्यः, गौतमः पृच्छति- बालुकाप्रभापुढविनेरइयाणं भंते ! कओहिंत्तो उववज्जंति ?' हे भदन्त ! बालुकाप्रभापृथिवी नैरयिकाः

इसी प्रकार जैसे सामान्य नारकों का उपपात कहा है वैसा ही रत्नप्रभापृथिवी के नारकों का उपपात समझ लेना चाहिए ।

श्रीगौतम-हे भगवन् ! शर्कराप्रभा पृथिवी के नारक किन किन से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्-शर्कराप्रभा पृथिवी के नारकों का उपपात भी सामान्य नारकों के समान समझना चाहिए, विशेष बात यह है कि समुच्छिम जीवों से शर्कराप्रभा पृथिवी के नारकों का निषेध करना चाहिए, तात्पर्य यह है कि समुच्छिमतिर्येच और मनुष्य रत्नप्रभा पृथिवी तक ही उत्पन्न हो सकता हैं, शर्कराप्रभा आदि में नहीं उत्पन्न होते ।

श्रीगौतम-हे भगवन् ! बालुकाप्रभा पृथिवी के नारक किन से उत्पन्न होते हैं ?

ये प्रकारे जेवो सामान्य नारकेनो उपपात क्हो छे तेवो रत्नप्रभा पृथिवीना नारकेनो उपपात समल्ल देवो जेधये.

श्री गौतमस्वामी -डे भगवन् । शर्कराप्रभा पृथिवीना नारके केनाथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान् :-डे गौतम । शर्कराप्रभा पृथिवीना नारकल्लेवोना उपपात पण्ण सामान्य नारकेना समान समज्जये जेधये विशेष वात जे छे के समुच्छिम ल्लेवोथी शर्कराप्रभा पृथिवीना नारकेनो निषेध करवो जेधये, तात्पर्य जे छे के समुच्छिम तिर्येच रत्नप्रभा पृथिवी सुधी ज उत्पन्न थथ शके छे, शर्करा प्रभा आदिमा उत्पन्न नथी थता

श्री गौतमस्वामी -डे भगवन् । बालुकाप्रभा पृथिवीना नारक ल्लेवो केनाथी उत्पन्न थाय छे ?

खलु केभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘जहा सक्कप्पभा-
पुढवि नेरइया’ यथा शर्कराप्रभापृथिवी नैरयिकाः उपपादितास्तथा वालुकाप्रभा-
पृथिवी नैरयिका अपि उपपादयितव्याः, किन्तु ‘नवरं शुयपरिसापेहितो पडिसेहो
कायव्वो’ नवरम्—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु अत्र वालुकाप्रभापृथिवी नैरयिकाणामुपपा-
तस्य भुजपरिसर्पेभ्यः प्रतिषेधः कर्तव्यः, गौतमः पृच्छति—‘पंकप्पभापुढविनेरइयाणं
पुय्छा’ पङ्कप्रभापृथिवी नैरयिकाः खलु कुत उपपद्यन्ते ? इति पृच्छा, भगवान्
आह—‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘जहा वालुयप्पभापुढविनेरइया’ यथा वालुकाप्रभा-
पृथिवी नैरयिका उपपादितास्तथा पङ्कप्रभापृथिवी नैरयिका अपि उपपादयितव्याः
किन्तु—‘नवरं खहयरेहितो—पडिसेहो कायव्वो’ नवरम्—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु—पङ्क-
प्रभापृथिवी नैरयिकाणामुत्पादस्य खेचरेभ्यः। प्रतिषेधः, कर्तव्यः गौतमः पृच्छति

भगवान्—हे गौतम ! जैसे शर्कराप्रभा पृथ्वी के नारकों का उपपात
कहा है, उसी प्रकार वालुकाप्रभा पृथ्वी के नारक का उपपात भी कह
लेना चाहिए, परन्तु विशेषता यह है कि भुजपरिसर्पों से उत्पन्न होने
का निषेध करना चाहिए, क्योंकि भुजपरिसर्प मर कर शर्कराप्रभा
पृथ्वी तक ही उत्पन्न हो सकते हैं, आगे नहीं ।

श्रीगौतम—हे भगवन् ! पंकप्रभा पृथ्वी के नारक किनसे उत्पन्न
होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! पंकप्रभा पृथ्वी के नारकों का उपपात वालु-
काप्रभा पृथ्वी के समान समझना चाहिए, किन्तु पंकप्रभा पृथ्वी में
खेचरों के उपपात का निषेध समझना चाहिए, क्योंकि खेचर वालुका
प्रभा पृथ्वी के आगे उत्पन्न नहीं होते ।

श्री भगवान्—हे गौतम ! जेवो शर्कराप्रभा पृथ्वीना नारकेना उपपात
कहो छे, तेज प्रकारे वालुकाप्रभा पृथ्वीना नारकेना उपपात पणु कहेवो
जेधज्जे. परन्तु विशेषता जे छे के भुजपरिसर्पोधी उत्पन्न थवानो निषेध
करवो जेधज्जे, केमके भुजपरिसर्प मरीने शर्कराप्रभा पृथ्वी सुधी उत्पन्न
थध शके छे, आगण नही.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! पंकप्रभा पृथ्वीना नारक जेवो केनाधी
उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! पंकप्रभा पृथ्वीना नारकेना उपपात वालुका
प्रभा पृथ्वीना समान समज्जेवो जेधज्जे, परन्तु पंकप्रभा पृथ्वीमा जेथरेना
उपपातने निषेध समज्जेवो जेधज्जे, केमके जेथर वालुकाप्रभा पृथ्वीनी आगण
उत्पन्न नथी थता.

‘धूम्रप्रभापुढविनेरइयाणं पुच्छा’ धूम्रप्रभापृथिवी नैरयिकाः खलु केभ्य उपपद्यन्ते ? इति पृच्छा, भगवान् आह—गोयमा ! हे गौतम ! ‘जहा पंकप्रभापुढविनेरइया’ यथा पङ्कप्रभापृथिवी नैरयिका उपपादितास्तथा धूम्रप्रभापृथिवी नैरयिका अपि उपपादयितव्याः, किन्तु ‘नवरं चउत्पर्हितो वि पडिसेहो कायव्वो’ नवरम् पूर्वा-पेक्षया विशेषस्तु—धूम्रप्रभापृथिवी नैरयिकाणामुत्पादस्य चतुष्पदेभ्योऽपि प्रतिषेधः कर्तव्यः । गौतमः पृच्छति ‘तमापुढविनेरइयाणं भंते ! कओर्हितो उववज्जंति’ हे भदन्त ! तमापृथिवी नैरयिकाः खलु केभ्यः उपपद्यन्ते’ भगवान् आह—गोयमा ! हे गौतम ! ‘जहा धूम्रप्रभापुढविनेरइया’ यथा धूम्रप्रभापृथिवी नैरयिका उपपादिता-स्तथा तमापृथिवी नैरयिका अपि उत्पादयितव्याः, ‘किन्तु’— नवरं थउयरेर्हितो वि पडिसेहो कायव्वो’ नवरं’ पूर्वापेक्षया विशेषस्तु स्थलचरेभ्योऽपि तमापृथिवी

श्रीगौतम—हे भगवन् ! धूम्रप्रभा पृथ्वी के नारक किनसे उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जैसे पंकप्रभा पृथ्वी के नारकों का उपपात कहा है, वैसा ही धूम्रप्रभा पृथ्वी के नारकों का उपपात कह लेना चाहिए, विशेष बात यह है कि धूम्रप्रभा पृथ्वी में चतुष्पदों के उपपात का निषेध करना चाहिए ।

श्रीगौतम—हे भगवन् ! तमापृथ्वी के नारक किनसे उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जैसे धूम्रप्रभा पृथ्वी के नारकों का उपपात कहा है, वैसा ही तमःप्रभा पृथ्वी के नारकों के भी उपपात कहना चाहिए, किन्तु विशेषता यह है कि तमःप्रभा पृथ्वी में स्थलचर तिर्यचों के उपपात का निषेध करना चाहिए । उसका अभिलाप अर्थात् शब्दों

श्री गौतमस्वामी.—हे भगवन् ! धूम्रप्रभा पृथ्वीना नारके केनाथी उत्पन्न थाय्ये ?

श्री भगवान्.—हे गौतम ! जेवो पङ्कप्रभा पृथ्वीना नारकेना उपपात कळो छे, तेवो धूम्रप्रभा पृथ्वीना नारकेना उपपात कळेवो जेधळ्ये, विशेष वात जे छे ते धूम्रप्रभा पृथ्वीना चतुष्पदोना उपपातने निषेध करवो जेधळ्ये.

श्री गौतमस्वामी.—हे भगवन् ! तमःप्रभा पृथ्वीना नारके केनाथी उत्पन्न थाय्ये ?

श्री भगवान्.—हे गौतम ! जेवो धूम्रप्रभा पृथ्वीना नारकेना उपपात कळो छे, तेवो तमःप्रभा पृथ्वीना नारकेना यषु उपपात कळेवो जेधळ्ये, यषु विशेषता जे छे ते तमःप्रभा पृथ्वीना स्थलचर तिर्यचोना उपपातने निषेध करवो जेधळ्ये. तेना अभिलाप अर्थात् शब्दोना प्रयोग आ रीते छे

नैरयिकाणामुत्पादस्य प्रतिषेधः कर्तव्यः, 'इमेणं अभिलावेणं' अनेन-पूर्वोक्तक्रमेण, अभिलापेत-आला पेन-जइ-पंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति' यदा पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः तमापृथिवी नैरयिका उपपद्यन्ते, तदा-कि जलयरपंचिदिएहिंतो उववज्जंति' किं जलचरपञ्चेन्द्रियेभ्य तमापृथिवी नैरयिका उपपद्यन्ते ? किं वा 'थलयरपंचिदिएहिंतो उववज्जंति' स्थलचरपञ्चेन्द्रियेभ्य उपपद्यन्ते ? किं वा, 'खहयरपंचिदिएहिंतो उववज्जंति' खेचरपञ्चेन्द्रियेभ्य तमाः पृथिवी नैरयिका उपपद्यन्ते ? इति प्रश्नाशयः, भगवान् आह-गोयमा ! हे गौतम ! 'जलयरपंचिदिएहिंतो उववज्जंति, नो थलयरेहिंतो, नो खहयरेहिंतो उववज्जंति' पूर्वोक्तास्तमापृथिवी नैरयिकाः जलचरपञ्चेन्द्रियेभ्य उपपद्यन्ते, नो स्थलचरपञ्चेन्द्रियेभ्य उपपद्यन्ते, नो वा खेचरपञ्चेन्द्रियेभ्य उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति-'जइ मणुस्सेहिंतो उववज्जंति' यदा मनुष्येभ्यस्तमापृथिवी नैरयिका उपपद्यन्ते तदा 'किं कम्मभूमिएहिंतो उववज्जंति' ? किं कर्मभूमिगेभ्यो मनुष्येभ्यस्तमापृथिवी नैरयिका उपपद्यन्ते ? किं वा 'अकम्मभूमिएहिंतो उववज्जंति' अकर्मभूमिगेभ्यो मनुष्येभ्यस्तमापृथिवी नैरयिका उपपद्यन्ते ? किं वा 'अंतरदीवएहिंतो उववज्जंति ? अन्तरद्वीपकेभ्योमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह-' गोयमा ! हे गौतम ! कम्म-

का प्रयोग इस प्रकार है-

यदि तमापृथिवी के नारक पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं तो क्या जलचर पंचेन्द्रियतिर्यचों से उत्पन्न होते हैं अथवा खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं, स्थलचर और खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो से नहीं उत्पन्न होते ।

गौतम-भगवन् ! यदि मनुष्यों से तमा पृथिवी के नारकों का उत्पात होता है तो क्या कर्म भूमिज मनुष्यों से होता है, अकर्मभूमिज मनुष्यों से होता है अथवा अन्तर द्वीपज मनुष्यों से होता है ?

यदि तमा पृथिवीना नारक पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे तो थुं जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे अथवा स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे अथवा खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान् :-हे गौतम ! जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे, स्थलचर अने खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी नथी उत्पन्न थता

श्री गौतमस्वामी :-हे भगवन् ! यदि मनुष्योथी तमा पृथिवीना नारकेना उत्पात थाय छे तो थुं कर्मभूमि ज मनुष्योथी थाय छे अकर्मभूमि ज मनुष्योथी थाय छे अथवा अंतर द्वीपज मनुष्योथी थाय छे ?

भूमिर्हितो उववज्जंति' कर्मभूमिगेभ्यो मनुष्येभ्य स्तमापृथिवीनैरयिका उपपद्यन्ते 'नो अकम्मभूमिर्हितो उववज्जंति' नो अकर्मभूमिगेभ्यो मनुष्येभ्यस्तमापृथिवी नैरयिका उपपद्यन्ते 'नो अंतरदीवर्हितो उववज्जंति' नो वा अन्तरद्वीपगेभ्यो मनुष्येभ्यस्तमापृथिवी नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'जइ कम्मभूमिर्हितो उववज्जंति' यदा कर्मभूमिगेभ्यो मनुष्येभ्यस्तमापृथिवी नैरयिका उपपद्यन्ते तदा किं 'संखेज्जवासाउएहितो उववज्जंति' ? किं संख्येयवर्षायुष्केभ्यो मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते ? किं 'वा असंखेज्जवासाउएहितो उववज्जंति?' असंख्येयवर्षायुष्केभ्यो मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—'गोयमा ! हे गौतम ! 'संखेज्जवासाउएहितो उववज्जंति' संख्येयवर्षायुष्केभ्यो मनुष्येभ्यस्तमापृथिवी नैरयिका उपपद्यन्ते, 'नो असंखेज्जवासाउएहितो उववज्जंति' नो असंख्येयवर्षायुष्केभ्यो मनुष्येभ्यस्तमापृथिवी नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—जइ संखेज्जवासाउएहितो उववज्जंति, यदा संख्येयवर्षायुष्केभ्यो मनुष्येभ्यस्तमापृथिवी नैरयिका उपपद्यन्ते तदा किं

भगवन्—हे गौतम ! कर्मभूमिज मनुष्यों से तमापृथ्वी के नारकों का उपपात होता है, अकर्मभूमिज मनुष्यों से नहीं होता और न अन्तरद्वीपज मनुष्यों से ही होता है ।

गौतम—भगवन् ! यदि कर्मभूमिजों से उपपात होता है तो क्या संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों से होता है अथवा असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों से होता है ?

भगवान्—हे गौतम ! संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों से । पृथ्वी के नारको का उपपात होता है, परन्तु असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों से तमा पृथ्वी के नारको का उपपात नहीं होता ।

गौ —हे भगवन् ! यदि संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों से

श्री भगवान् —हे गौतम ! कर्मभूमिज मनुष्येभ्यो तमा पृथ्वीना नारकोनो उपपात थाय छे, अकर्मभूमिज मनुष्येभ्यो नथी थतो अने अंतरद्वीप ज मनुष्येभ्यो पञ्च थतो नथी

श्री गौतमस्वामी —हे भगवन् ! यदि कर्मभूमिजेभ्यो उत्पन्न थाय छे तो शु सख्यात वर्षनी आयुवाणा मनुष्येभ्यो उत्पन्न थाय छे अथवा असख्यात वर्षनी आयुवाणा मनुष्येभ्यो थाय छे ?

श्री भगवान् —हे गौतम ! सख्यात वर्षनी आयुवाणा मनुष्येभ्यो तमा पृथ्वीना नारकोनो उपपात थाय छे, परन्तु असख्यात वर्षनी आयुवाणा मनुष्येभ्यो तमापृथ्वीना नारकोनो उपपात नथी थतो

‘पञ्चतर्हितो उव्वज्जंति, अपञ्चतर्हितो उव्वज्जंति?’ किं पर्याप्तकेभ्यः संख्येयवर्षायुष्केभ्यो मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, किं वा अपर्याप्तकेभ्यः संख्येयवर्षायुष्केभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘पञ्चतर्हितो उव्वज्जंति, नो अपञ्चतर्हितो उव्वज्जंति’ पर्याप्तकेभ्यः संख्येयवर्षायुष्केभ्यो मनुष्येभ्यस्तमापृथिवी नैरयिका उपपद्यन्ते नो अपर्याप्तकेभ्यः संख्येयवर्षायुष्केभ्यो मनुष्येभ्यस्तमापृथिवी नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—‘जइ पञ्चतगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमिर्हितो उव्वज्जंति’ यदा पर्याप्तकसंख्येयवर्षायुष्ककर्मभूमिगेभ्यो मनुष्येभ्यो तमापृथिवी नैरयिका उपपद्यन्ते तदा—किं इत्थिर्हितो उव्वज्जंति’ किं स्त्रीभ्य उपपद्यन्ते, किं वा ‘पुरिसेर्हितो उव्वज्जंति’ पुरुषेभ्य उपपद्यन्ते, किं वा ‘नपुंसर्हितो उव्वज्जंति’ नपुंसकेभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘इत्थीर्हितो उव्वज्जंति, पुरिसेर्हितो उव्वज्जंति, नपुंसर्हितो वि उव्वज्जंति’ स्त्रीभ्यो मानुषीभ्यस्तमापृथिवी नैरयिका उपपद्यन्ते, पुरुषेभ्य उपप-

तमा पृथ्वी के नारकों की उत्पत्ति होती है तो क्या पर्याप्तक संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों से होती है अथवा अपर्याप्तक संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों से तमा पृथ्वी के नारकों की उत्पत्ति होती है ?

भगवान्—हे गौतम ! पर्याप्तकों से उत्पत्ति होती है, अपर्याप्तकों से नहीं होती ।

गौतम—हे भगवन् ! यदि पर्याप्तक संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज मनुष्यों से तमा पृथ्वी के नारकों की उत्पत्ति होती है तो क्या स्त्रियों से उत्पत्ति होती है, पुरुषों से उत्पत्ति होती है अथवा नपुंसकों से उत्पत्ति होती है ?

श्री गौतमस्वामी हे भगवन् ! यदि सभ्यात वर्षानी आयुवाणा मनुष्येथी तमा पृथ्वीना नारकेणी उत्पत्ति थाय छे तो शु पर्याप्तक सभ्यात वर्षानी आयुवाणा मनुष्येथी थाय छे अथवा अपर्याप्त सभ्यात वर्षानी आयुवाणा मनुष्येथी तथा पृथ्वीना नारकेणी उत्पत्ति थाय छे.

श्री भगवान् हे गौतम ! पर्याप्तकेथी उत्पत्ति थाय छे, अपर्याप्तकेथी उत्पत्ति नथी थता

श्री गौतमस्वामी : हे भगवन् ! यदि पर्याप्तक सभ्यात वर्षानी आयुवाणा कर्मभूमिज मनुष्येथी तमा पृथ्वीना नारकेणी उत्पत्ति थाय छे तो शु स्त्रीयेथी उत्पत्ति थाय छे, पुरुषेथी उत्पत्ति थाय छे, अथवा नपुंसकेथी उत्पत्ति थाय छे ?

घन्ते, नपुंसकेभ्योऽपि-नपुंसकजीवो अपि तमापृथिवी नैरयिकत्वेन उपपद्यन्ते-
उत्पद्यन्ते इति भावः, गौतमः पृच्छति-‘अहेसत्तमापुढवि नेरइयाणं भंते ! कओ-
हिंतो उववज्जंति ?’ हे भदन्त ! अबः सप्तमपृथिवी नैरयिकाः खलु केभ्य उत्प-
द्यन्ते ? भगवान् आह-‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘एवंवेव’ एवञ्चैव-पूर्वोक्ततमापृथिवी
नैरयिकवदेव अधःसप्तमपृथिवी नैरयिका अपि उपपादयितव्याः किन्तु नवरं
‘इत्थीहिंतो पडिसेहो कायव्वो’ नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु अधःसप्तमपृथिवी
नैरयिकाणां उत्पादस्य स्त्रीभ्यः प्रतिषेधः कर्तव्यः, अथोपर्युक्तानाम् संग्रहगाथाद्वय-
माह-अस्सन्नी खलु पढमं दोच्चंपि सरिसिवा तइयपवसी सीहा जंति चउत्थि

भगवान्-हे गौतम ! स्त्रियों से भी उत्पत्ति होती है, पुरुषों से भी
उत्पत्ति होती है और नपुंसकों से भी होती है। अर्थात् स्त्री, पुरुष
और नपुंसक लिंग वाले मनुष्य मर कर तमा पृथ्वी के नारक के
पर्याय में उत्पन्न हो सकते हैं।

गौतम-हे भगवान् ! सातवीं पृथ्वी के नारक कहां से उत्पन्न होते हैं ?
भगवान्-गौतम ! इसी प्रकार अर्थात् तमा पृथ्वी के नारकों के
समान ही समझना चाहिए, विशेषता इतनी ही है कि स्त्रियों से
निषेध करना चाहिए, अर्थात् स्त्री सातवीं नरकभूमि में उत्पन्न
नहीं होती।

उपर कहे हुए विषय का संग्रह करने वाली दो गाथाएं कहते हैं-
असंज्ञी जीव मर कर यदि नरक में उत्पन्न हों तो पहली पृथ्वी में ही
उत्पन्न होते हैं। सरिसृप अर्थात् रेग कर चलने वाले प्राणी यदि

श्री भगवान् : हे गौतम ! स्त्रियोथी पणु उत्पत्ति थाय छे, पुइषोथी
पणु उत्पत्ति थाय छे अने नपुसकेथी पणु थाय छे अर्थात् स्त्री, पुइष अने
नपुसकलिंग वाणा मनुष्य मरीने तमा पृथ्वीना नारकना पर्यायमा उत्पन्न
थअ शके छे.

श्री गौतमस्वामी -हे भगवान् ! सातमी पृथ्वीना नारक कथाथी उत्पन्न
थाय छे ?

श्री भगवान् -हे गौतम ! ओज प्रकारे अर्थात् तमा पृथ्वीना नारकानी
नेमज समलु देवा नेधजे, विशेषता जे छे के स्त्रियोथी निषेध करवे नेधजे
अर्थात् स्त्री सातमी नारक भूमिमा उत्पन्न नथी थती

उपर कहेल विषयने सअइ करवावाणी जे गाथाओ कहे छे-

असंज्ञी लुव मरीने जे नरकमा उत्पन्न थाय तो पडेली पृथ्वीमा ज
उत्पन्न थाय छे सरिसृप अर्थात् पेटधसीने आदानारा प्राणी जे नरकमा उत्पन्न

उरगा पुण पंचमीं पुढर्विं ॥१॥ छट्टिं च इत्थियाओ-मच्छा मणुया य सत्तमिं पुढर्विं । एसो परमोवाओ वोद्धव्वो नरगपुढवीणं ॥२॥ असंजिनः खलु प्रथमां द्वितीयामपि सरीसृपाः तृतीया पक्षिणः । सिंहाः यान्ति चतुर्थीम् उरगाः पुनः पञ्चमीं पृथिवीम् ॥ १ ॥ षष्ठीश्च स्त्रियः मत्स्या मनुष्याश्च सप्तमीं पृथिवीम् अत्रेदं बोध्यम् समुच्चयनरकोपपातप्ररूपणे रत्नप्रभापृथिवी नरकोपपातप्ररूपणे च देवनैरयिक पृथिवीकायिकादिपञ्चकरूपैकेन्द्रियविकलेन्द्रियत्रयेभ्यः एवम् असंख्येयवर्षीयुष्क चतुष्पदखेचरेभ्यः शेषेभ्योऽपि अपर्याप्तकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः तथा मनुष्ये-

नरक में उत्पन्न हों तो दूसरे नरक तक ही उत्पन्न हो सकते हैं । पक्षी तीसरे नरक तक ही उत्पन्न हो सकते हैं । सिंह चौथी नरक भूमि तक ही उत्पन्न हो सकते हैं । उरग पांचवीं पृथ्वी तक, स्त्रियां छठी पृथ्वी तक और मत्स्य तथा मनुष्य सातवीं पृथ्वी तक उत्पन्न होते हैं । यह सातों पृथिवियों का उत्कृष्ट उपपात कहा गया है, अर्थात् यहां जिन-जिन जीवों का जिस-जिस भूमि तक उपपात बतलाया गया है, वह उत्कृष्ट है-वे जीव उससे आगे उत्पन्न नहीं हो सकते, परन्तु पहले की किसी भी भूमि में उत्पन्न हो सकते हैं । जैसे मनुष्य और मत्स्य की उत्पत्ति सातवीं भूमि तक कही गई है पर उससे पहले की छठी, पांचवीं यावत् पहली नरकभूमि में भी उनकी उत्पत्ति हो सकती है ।

यहां यह समझ लेना चाहिए-सामान्य नारकों के तथा रत्नप्रभा पृथिवी के नारकों के उपपात में देवों, नारकों, पांच पृथ्वी कायिक आदि

थाय तो भी नरक सुधीमा न उत्पन्न थथं शकं छे. पक्षी त्रीण नरक सुधीमान् उत्पन्न थथं शकं छे सिद्धं योथा नरक सुधीमान् उत्पन्न थथं शकं छे उरग पाचमी पृथ्वी सुधीमा स्त्रियो छट्टी पृथ्वी सुधीमा अने मत्स्य तथा मनुष्य सातमी पृथ्वी सुधीमा उत्पन्न थाय छे आ साते पृथ्वीयेतेनो उत्कृष्ट उपपात कडेलेो छे, अर्थात् अडी' ने ने लवोनेो ने ने भूमि सुधी उपपात अतावेलेो छे ते उत्कृष्ट छे-ते लव तेनाथी आगण उत्पन्न नथी थथं शकता, परन्तु पडेलानी कोथं पणु भूमिमां उत्पन्न थथं शकं छे.

नेम मनुष्य अने मत्स्यनी उत्पत्ति सातमी भूमि सुधी कडेली छे, पणु तेना पडेलानी छट्टी पाचमी यावत् पडेली नरक भूमिमा पणु तेमनी उत्पत्ति थथं शकं छे

अडि अे सभल लेवु नेधअे-सामान्य नारकेना तथा रत्नप्रभा पृथ्वीना नारकेना उपपातमा देवो, नारके, पाच पृथ्वीकायिक आदि स्थावरै, पणु

भ्यः संमूर्च्छिमेभ्यः अकर्मभूमिजेभ्यः गर्भव्युत्क्रान्तिकेभ्योपि अन्तर द्वीपजेभ्यः कर्मभूमिजेभ्योपि असंख्येयवर्षायुष्केभ्यः संख्येयवर्षायुष्केभ्योपि अपर्याप्तकेभ्य उत्पादस्य प्रतिषेधः, शेषेभ्यो विधानम्, शर्कराप्रभापृथिवी नैरयिकोपपातप्ररूपणे संमूर्च्छिमेभ्य उत्पादप्रतिषेधः, बालुकाप्रभापृथिवी नैरयिकोपपातप्ररूपणे भुजपरिसर्वेभ्योपि प्रतिषेधः पङ्कप्रभापृथिवी नैरयिकोपपातप्ररूपणे खेचरेभ्योऽपि प्रतिषेधः, धूमप्रभापृथिवी नैरयिकोत्पादप्ररूपणे चतुष्पदेभ्योऽपि प्रतिषेधः, तमः प्रभापृथिवी नैरयिकोपपातप्ररूपणे उरः परिसर्पेभ्योऽपि प्रतिषेधः, अधः सप्तमपृथिवी नैरयिकोपपातप्ररूपणे स्त्रीभ्योऽपि उत्पादस्य प्रतिषेधः कृतः। एष परमोपपातो बोद्धव्यो नरकपृथिवीनाम् ॥ २ ॥ तथा चासंज्ञिनः प्रथम रत्नप्रभापृथिवीं गच्छन्ति सरीसृपाः—गोधादयो द्वितीयां—शर्कराप्रभापृथिवीं गच्छन्ति, तृतीयां बालुकाप्रभापृथिवीं पक्षिणो यान्ति, सिंहाश्वतुर्थीम्—पङ्कभापृथिवीं गच्छ-

स्थावरों, तीन विकलेन्द्रियों, असंख्यात वर्ष की आयु वाले चतुष्पद खेचरों, शेष अपर्याप्तक पंचेन्द्रिय तिर्यचों तथा संमूर्च्छिम, मनुष्यों अकर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों, अन्तरद्वीपज मनुष्यों, असंख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमिज मनुष्यों, संख्यात वर्ष की आयु वाले अपर्याप्तक मनुष्यों से उत्पन्न होने का निषेध किया गया है, अर्थात् इतने प्रकार के जीव नरक में अथवा रत्नप्रभा पृथ्वी में उत्पन्न नहीं होते यह प्रतिपादन किया गया है, इनके अतिरिक्त जीव ही उत्पन्न हो सकते हैं। तत्पश्चात् शर्कराप्रभा पृथ्वी में उपपात बतलाते हुए संमूर्च्छिमों के उपपात का निषेध किया गया है। बालुकाप्रभा पृथ्वी के उपपात में भुजपरिसर्पों के उपपात का निषेध किया गया है। पङ्कप्रभा पृथ्वी में उपपात का कथन करते हुए कहा गया है कि इस पृथ्वी में खेचर तिर्यच उत्पन्न नहीं होते। धूमप्रभा पृथ्वी में चतुष्पदों

पंचेन्द्रिय तिर्यचो तथा संमूर्च्छिम मनुष्यो, अकर्मभूमिज गर्भज मनुष्यो, अन्तर द्वीप ज मनुष्यो, असंख्यात वर्षानी आयुवाणा कर्मभूमिज मनुष्यो, संख्यात वर्षानी आयुवाणा अपर्याप्तक मनुष्योऽथो उत्पन्न भवानो निषेध करेदो छे, अर्थात् आटला प्रकारना एव प्रथम नरकभा अथवा रत्नप्रभा पृथ्वीमां उत्पन्न नथी तथा ये प्रतिपादन करेद छे, तेभना शिवायना एवोत्पन्न थयं शके छे तत्पश्चात् शर्कराप्रभा पृथ्वीमा उपपात गतावता संमूर्च्छिमोना उपपातनो निषेध करेद छे बालुकाप्रभा पृथ्वीना उपपातमा भुजपरिसर्पोना उपपातनो निषेध करेद छे पङ्कप्रभा पृथ्वीना उपपातनु कथन करता कहेदु छे के आ पृथ्वीमा जेथर तिर्यचो उत्पन्न नथी तथा धूमप्रभा पृथ्वीमा चतु-

न्ति, उरगाः सर्पादयः पुनः पञ्चमीं—धूमप्रभापृथिवीं यान्ति, षष्ठीञ्च तमापृथिवीम् स्त्रियो यान्ति, मत्स्या मनुष्याश्च सप्तमीम् अधः सप्तमपृथिवीं गच्छन्ति, इत्येवं रीत्या सप्तानामपि नरकपृथिवीनाम् एष परमोपपातो बोद्धव्य इति भावः ॥ ९ ॥

असुरकुमाराद्युपपातवक्तव्यता—

मूलम्—असुरकुमाराणं भंते ! कओहितो उववज्जंति ? गोयमा ! नो नेरइएहितो उववज्जंति, तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति, मणुस्सेहितो उववज्जंति, नो देवेहितो उववज्जंति, एवं जेहितो नेरइयाणं उववाओ तेहितो असुरकुमाराण वि भाणियव्वो, नवरं असंखेज्जवासाउयअकम्मभूमगअंतरदीवग-मणुस्सतिरिक्खजोणिएहितो वि उववज्जंति, सेसं तं चेव, एवं जाव थणियकुमारा भाणियव्वा, पुढविकाइयाणं भंते ! कओ-हितो उववज्जंति किं नेरइएहितो जाव देवेहितो उववज्जंति ? गोयमा ! नो नेरइएहितो उववज्जंति, तिरिक्खजोणिएहितो मणुस्सेहितो देवेहितो वि उववज्जंति, जइ तिरिक्खजोणिए-हितो उववज्जंति, किं एगिंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति ? गोयमा ! एगिंदियतिरिक्खजोणिएहितो वि जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणि-एहितो वि उववज्जंति, जइ एगिंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति, किं पुढविकाइएहितो जाव वणस्सइकाइएहितो उववज्जंति ? गोयमा ? पुढविकाइएहितो वि जाव वणस्सइ-काइएहितो वि उववज्जंति, जइ पुढविकाइएहितो उववज्जंति,

के उपपात का निषेध किया गया है । तमः प्रभा पृथ्वी में उरपरिसर्पो का निषेध किया गया है और सातवीं पृथ्वी में स्त्रियों के उत्पन्न होने का निषेध किया गया है ॥ सू०९ ॥

७५दोना ७५पातने। निषेध करेवे। छे, तम प्रभा पृथ्वीमा ७५परिसर्पोना निषेध करेवे। छे अने सातवीं पृथ्वीमा स्त्रियोने उत्पन्न थयाने। निषेध करेवे। छे ॥ ९ ॥

किं सुहुमपुढविकाइएहितो उववज्जंति, वायरपुढविकाइएहितो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहितो वि उववज्जंति, जइ सुहुमपुढविकाइएहितो उववज्जंति, किं पज्जत्तपुढविकाइएहितो उववज्जंति, अपज्जत्तपुढविकाइएहितो उववज्जंति ? गोयमा दोहितो वि उववज्जंति जइ वायरपुढविकाइएहितो उववज्जंति, किं पज्जत्तएहितो उववज्जंति, अपज्जत्तएहितो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहितो वि उववज्जंति, एवं जाव वणस्सइया चउक्कएणं भेदेण उववाएयव्वा, जइ वेइंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति, किं पज्जत्तयवेइंदिएहितो उववज्जंति, अपज्जत्तयवेइंदिएहितो उववज्जंति, गोयमा ! दोहितो वि उववज्जंति, एवं तेइंदिय चउरिंदिएहितो वि उववज्जंति, जइ पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति किं जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति, एवं जेहितो नेरइयाणं उववाओ भणिओ तेहितो एतेसिपि भाणियव्वा, नवरं पज्जत्तगअपज्जत्तगेहितो वि उववज्जंति, सेसं तं चैव, जइ मणुस्सेहितो उववज्जंति, किं संमुच्छिममणुस्सेहितो उववज्जंति, गवभवकंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहितो वि उववज्जंति, जइ गवभवकंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति, किं कम्मभूमिगगवभवकंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति, अकम्मभूमिगगवभवकंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति, सेसं जहा नेरइयाणं, नवरं अपज्जत्तएहितो वि उववज्जंति, जइ देवेहितो वि उववज्जंति किं भवणवासी वाणमंतरजोइसवेमाणिएहितो उववज्जंति ? गोयमा ! भवणवासि देवेहितो वि उववज्जंति जाव वेमाणियदेवेहितो वि उववज्जंति, जइ भवणवासि देवेहितो उववज्जंति किं असुरकुमारदेवेहितो जाव थणियकुमारोहितो उववज्जंति, गोयमा !

न्ति, उरगाः सर्पादयः पुनः पञ्चमीं—धूमप्रभापृथिवीं यान्ति, पण्ठीञ्च तमापृथिवीम्
स्त्रियो यान्ति, मत्स्या मनुष्याश्च सप्तमीम् अयः सप्तमपृथिवीं गच्छन्ति, इत्येवं
रीत्या सप्तानामपि नरऋपृथिवीनाम् एष परमोपपातो बोद्धव्य इति भावः ॥ ९ ॥

असुरकुमाराद्युपपातवक्तव्यता—

मूलम्—असुरकुमाराणं भंते ! कओह्हितो उववज्जंति ?
गोयमा ! नो नेरइएह्हितो उववज्जंति, तिरिक्खजोगिएह्हितो
उववज्जंति, मणुस्सेह्हितो उववज्जंति, नो देवेह्हितो उववज्जंति,
एवं जेह्हितो नेरइयाणं उववाओ तेह्हितो असुरकुमाराण वि
भाणियव्वो, नवरं असंखेज्जवासाउयअकम्मभूमगअंतरदीवग-
मणुस्सतिरिक्खजोगिएह्हितो वि उववज्जंति, सेसं तं चेव, एवं
जाव थणियकुमारा भाणियव्वा, पुढविकाइयाणं भंते ! कओ-
ह्हितो उववज्जंति किं नेरइएह्हितो जाव देवेह्हितो उववज्जंति ?
गोयमा ! नो नेरइएह्हितो उववज्जंति, तिरिक्खजोगिएह्हितो
मणुस्सेह्हितो देवेह्हितो वि उववज्जंति, जइ तिरिक्खजोगिए-
ह्हितो उववज्जंति, किं एगिंदियतिरिक्खजोगिएह्हितो उववज्जंति
जाव पंचिंदियतिरिक्खजोगिएह्हितो उववज्जंति ? गोयमा !
एगिंदियतिरिक्खजोगिएह्हितो वि जाव पंचिंदियतिरिक्खजोगि-
एह्हितो वि उववज्जंति, जइ एगिंदियतिरिक्खजोगिएह्हितो
उववज्जंति, किं पुढविकाइएह्हितो जाव वणस्सइकाइएह्हितो
उववज्जंति ? गोयमा ? पुढविकाइएह्हितो वि जाव वणस्सइ-
काइएह्हितो वि उववज्जंति, जइ पुढविकाइएह्हितो उववज्जंति,

के उपपात का निषेध किया गया है । तमः प्रभा पृथ्वी में उरपरिसर्पो
का निषेध किया गया है और सातवीं पृथ्वी में स्त्रियों के उत्पन्न
होने का निषेध किया गया है ॥ सू० ९ ॥

प्यहोना उपपातने निषेध करेवो छे, तम प्रभा पृथ्वीमा उरपरिसर्पोने निषेध
करयेव छे अने सातवीं पृथ्वीमा स्त्रियोने उत्पन्न थवाने निषेध कर्यो छे ॥ ९ ॥

न्ति, उरगाः सर्पादयः पुनः पञ्चमीं—धूमप्रभापृथिवीं यान्ति, पृथ्वीञ्च तमापृथिवीम्
स्त्रियो यान्ति, मत्स्या मनुष्याश्च सप्तमीम् अधः सप्तमपृथिवीं गच्छन्ति, इत्येवं
रीत्या सप्तानामपि नरऋपृथिवीनाम् एव परमोपपातो बोद्धव्य इति भावः ॥ ९ ॥

असुरकुमाराद्युपपातवक्तव्यता—

मूलम्—असुरकुमाराणं भंते ! कओहितो उववज्जंति ?
गोयमा ! नो नेरइएहितो उववज्जंति, तिरिक्खजोगिएहितो
उववज्जंति, मणुस्सेहितो उववज्जंति, नो देवेहितो उववज्जंति,
एवं जेहितो नेरइयाणं उववाओ तेहितो असुरकुमाराण वि
भाणियव्वो, नवरं असंखेज्जवासाउयअकम्मभूमगअंतरदीवग-
मणुस्सतिरिक्खजोगिएहितो वि उववज्जंति, सेसं तं चेव, एवं
जाव थणियकुमारा भाणियव्वा, पुढविकाइयाणं भंते ! कओ-
हितो उववज्जंति किं नेरइएहितो जाव देवेहितो उववज्जंति ?
गोयमा ! नो नेरइएहितो उववज्जंति, तिरिक्खजोगिएहितो
मणुस्सेहितो देवेहितो वि उववज्जंति, जइ तिरिक्खजोगिए-
हितो उववज्जंति, किं एगिंदियतिरिक्खजोगिएहितो उववज्जंति
जाव पंचिंदियतिरिक्खजोगिएहितो उववज्जंति ? गोयमा !
एगिंदियतिरिक्खजोगिएहितो वि जाव पंचिंदियतिरिक्खजोगि-
एहितो वि उववज्जंति, जइ एगिंदियतिरिक्खजोगिएहितो
उववज्जंति, किं पुढविकाइएहितो जाव वणस्सइकाइएहितो
उववज्जंति ? गोयमा ? पुढविकाइएहितो वि जाव वणस्सइ-
काइएहितो वि उववज्जंति, जइ पुढविकाइएहितो उववज्जंति,

के उपपात का निषेध किया गया है । तमः प्रभा पृथ्वी में उरपरिसर्पो
का निषेध किया गया है और सातवीं पृथ्वी में स्त्रियों के उत्पन्न
होने का निषेध किया गया है ॥ सू०९ ॥

प्यडोना उपपातनो निषेध करेवो छे तम प्रभा पृथ्वीमा उरपरिसर्पोना निषेध
करयेल छे अने सातवीं पृथ्वीमा स्त्रियोने उत्पन्न भवानो निषेध कर्यो छे ॥ ९ ॥

किं सुहृमपुढविकाइएहितो उववज्जंति, वायरपुढविकाइएहितो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहितो वि उववज्जंति, जइ सुहृमपुढविकाइएहितो उववज्जंति, किं पज्जत्तपुढविकाइएहितो उववज्जंति, अपज्जत्तपुढविकाइएहितो उववज्जंति ? गोयमा दोहितो वि उववज्जंति जइ वायरपुढविकाइएहितो उववज्जंति, किं पज्जत्तएहितो उववज्जंति, अपज्जत्तएहितो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहितो वि उववज्जंति, एवं जाव वणसराउकाउया चउङ्गाणं भेदेण उववाएयव्वा, जइ वेइंदियनिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति, किं पज्जत्तयवेइंदिएहितो उववज्जंति, अपज्जत्तयवेइंदिएहितो उववज्जंति, गोयमा ! दोहितो वि उववज्जंति, एवं तेइंदिय चउरिंदिएहितो वि उववज्जंति, जइ पंदिनिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति किं जलयगंदिनिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति, एवं जेहितो नेरइयाणं उववाओ भणियो तेहितो एतेसिंपि भाणियव्वो, नवरं पज्जत्तगअपज्जत्तगेहितो वि उववज्जंति, सेसं तं चव, जइ मणुस्सेहितो उववज्जंति, किं संमुच्छिममणुस्सेहितो उववज्जंति, गव्वभक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहितो वि उववज्जंति, जइ गव्वभवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति, किं कम्मभूमिगगव्वभवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति, अकम्मभूमिगगव्वभवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति, सेसं जहा नेरइयाणं, नवरं अपज्जत्तएहितो वि उववज्जंति, जइ देवेहितो वि उववज्जंति किं भवणवासी वाणमंतरजोइसवेमाणिएहितो उववज्जंति ? गोयमा ! भवणवासि देवेहितो वि उववज्जंति जाव वेमाणियदेवेहितो वि उववज्जंति, जइ भवणवासि देवेहितो उववज्जंति किं असुरकुमारदेवेहितो जाव थणियकुमारेहितो उववज्जंति, गोयमा !

असुरकुमारदेवेहितो वि उववज्जंति जाव थणियकुमारदेवेहितो वि उववज्जंति, जइ वाणमंतरदेवेहितो उववज्जंति, किं पिसाएहितो जाव गंधव्वेहितो उववज्जंति ? गोयमा ! पिसाएहितो वि जाव गंधव्वेहितो वि उववज्जंति, जइ जोइसियदेवेहितो उववज्जंति, किं चंदविमाणेहितो उववज्जंति, जाव तारावमाणेहितो उववज्जंति ? गोयमा ! चंदविमाणजोइसियदेवेहितो वि जाव ताराविमाणजोइसियदेवेहितो वि उववज्जंति, जइ वेमाणियदेवेहितो उववज्जंति, किं कप्पोवगवेमाणियदेवेहितो उववज्जंति, कप्पातीतवेमाणियदेवेहितो उववज्जंति, ? गोयमा ! कप्पोवगवेमाणियदेवेहितो उववज्जंति, नो कप्पातीतवेमाणियदेवेहितो उववज्जंति, जइ कप्पोवगवेमाणियदेवेहितो उववज्जंति, किं सोहम्मैहितो जाव अच्चुएहितो उववज्जंति ? गोयमा ! सोहम्मैसाणेहितो उववज्जंति, नो सगंकुमार जाव अच्चुएहितो उववज्जंति, एवं आउकाइया वि, एवं तेउकाइया वि, नवरं देववज्जेहितो उववज्जंति, वणस्सइकाइया जहा पुढविकाइया, बेइंदिया, तेइंदिया, चउरिंदिया, एते जहा तेउवाउदेववज्जेहितो भाणियव्वा ॥ सू० १०॥

छाया-असुरकुमाराः खलु भदन्त ! केभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! नो नैरयिकेभ्य उपपद्यन्ते, तिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते नो देवेभ्य उपप-

असुरकुमारादि के उपपात की वक्तव्यता

शब्दार्थ-(असुरकुमारा णं मंते ! कओहितो उववज्जंति ? हे भगवान् ! असुरकुमार कहां से आकर के उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! नो नेरइएहितो उववज्जंति) हेगौतम ! नारकों से आकर उत्पन्न नहीं

असुरकुमारादीना उपपातनी वक्तव्यता

शब्दार्थ-(असुरकुमारा णं मंते ! कओहितो उववज्जंति ?) हे भगवान् ! असुरकुमार कथाथी आपीने उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! नो नेरइएहितो उववज्जंति) हे गौतम ! नारकेथी आपीने उत्पन्न नथी थता (तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति) तिर्थ-

घन्ते, एवं येभ्यो नैरगिकाणामुपगत स्नेभ्यः अमुरकुमाराणामपि गणित-
व्यः, नवरम्-अमुरयेयवर्षाभ्यां त्कार्मभूमिगान्त द्वीपगमनुर्यास्तिर्यग्यो निरुभ्योपि
उपपद्यन्ते, शेषं तत्रैव, एवं यातु स्तनितकुमाराः भणितव्याः, पृथिवी-
यिकाः गन्तु भद्रन्त ! केभ्य उपपद्यन्ते, किं नैरगिकेभ्यो यावद् देवेभ्य उरपय-
न्ते ! गौतम ! नो नैरगिकेभ्य उपपद्यन्ते, तिर्यग्यो निरुभ्यः मनुष्येभ्यो देवेभ्योऽपि

होते। (तिरिक्त्वजोणिणह्रितो उचवज्जन्ति) तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं।
(मणुस्सेहितो उचवज्जन्ति) मनुष्यों से आकर उत्पन्न होते हैं। (नो देवे-
हितो उचवज्जन्ति) देवों से नहीं उत्पन्न होते (एवं) उस प्रकार (जैहितो)
जिनसे (नेरइयाणं) नारकों का (उचवाओ) उपपात (भाणियव्वो) कला (ते
हितो) उनसे (अमुरकुमाराण चि) अमुरकुमारों का भी (भाणियव्वो)
कहना चाहिए (नवरं) विशेष यह है कि (असंखेजवासाउय अकम्म-
भूमिग-अन्तरद्वीवग-मणुस्सतिरिक्त्वजोणिणह्रितो चि उचवज्जन्ति)
असंख्यातवर्ष की आयु वाले, अरुमेभूमिज, अन्तरद्वीपज मनुष्यों और
तिर्यचो से भी उत्पन्न होते हैं (सेसं तं चैव) शेष वही समझना (एवं
जाव भणियकुमारा भाणियव्वा) इसी प्रकार यावत् स्तनितकुमारों
तक कहना चाहिए।

(पुढविकाइया णं भंते ! कओहितो उचवज्जन्ति ?) हे भगवन् ! पृथ्वी-
कायिक कलां से आकर के उत्पन्न होते हैं ? (किं नेरइणहितो जाव देवे-
हितो उचवज्जन्ति ?) क्या नारकों से यावत् देवों से उत्पन्न होते हैं ?
(गोयमा ! नो नेरइणहितो उचवज्जन्ति) हे गौतम ! नारकों से आकर

शेथी उत्पन्न थाय छे (मणुस्सेहितो उचवज्जन्ति) मनुष्येथी आवीने उत्पन्न थाय छे
(नो देवेहितो उचवज्जन्ति) देवेथी आवीने नथी उत्पन्न थता (एवं) ये रीते (जैहितो)
नेमनाथी (नेरइयाणं) नारकोनो (उचवाओ) उपपात कइयो (तेहितो) तेमनाथी (अमुर-
कुमाराणं चि) अमुरकुमारेनो उपपात पणु (भाणियव्वो) कडेवो नेधये (नवरं) विशेष
ये छे छे (असखेजवासाउय अकम्मभूमिग-अन्तरद्वीवग-मणुस्सतिरिक्त्वजोणिणह्रितो
चि उचवज्जन्ति) असंख्यात वर्षनी आयुवाणा, अरुमे भूमिज, अन्तर द्वीप
ज मनुष्ये अने तिर्यशेथी पणु उत्पन्न थाय छे (सेसं तं चैव) शेष ते
समणुपु (एवं जाव भणियकुमारा भाणियव्वा) येण प्रकारे थावत् स्तनितकुमारे
सुधी कडेवा नेधये,

(पुढविकाइयाण भंते ! कओहितो उचवज्जन्ति ?) हे भगवन् ! पृथ्वीकायिक
कथाथी आवीने उत्पन्न थाय छे ? (किं नेरइणहितो जाव देवेहितो उचवज्जन्ति ?) शुं
नारकोथी आवीने थावत् देवेथी आवीने उत्पन्न छे ? (गोयमा ! नो नेरइणहितो उच-
वज्जन्ति) हे गौतम ! नारकोथी उत्पन्न नथी थता ? (तिरिक्त्वजोणिणह्रितो) तिर्यशेथी

उपपद्यन्ते, यदा तिर्यग्योनिभ्य उपपद्यन्ते, किम् एकेन्द्रियतिर्यग्योनिभ्य उपपद्यन्ते ? यावत् पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! एकेन्द्रियतिर्यग्योनिभ्योऽपि यावत् पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिभ्योऽपि उपपद्यन्ते, यदा एकेन्द्रियतिर्यग्योनिभ्य उपपद्यन्ते, किं पृथ्वीकायिकेभ्यो यावद् वनस्पतिकायिकेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! पृथ्वीकायिकेभ्योऽपि, यावद् वनस्पतिकायिकेभ्योऽपि उपपद्यन्ते, उत्पन्न नहीं होते (तिरिक्खजोणिएहिंतो) तिर्यचों से (मणुस्सेहिंतो) मनुष्यों से (देवेहिंतो वि) देवों से भी उववज्जंति) उत्पन्न होते हैं ।

(जइ तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) यदि तिर्यचोंसे उत्पन्न होते हैं । (किं एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) क्या एकेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं ? (जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?) यावत् पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) एकेन्द्रिय तिर्यचों से भी यावत् पंचेन्द्रिय तिर्यचोंसे भी उत्पन्न होते हैं, (जइ एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) यदि एकेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं (किं पुढविकाइएहिंतो जाव वणस्सइकाइएहिंतो उववज्जंति ?) क्या पृथ्वीकायिकों से यावत् वनस्पतिकायिकों से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (पुढविकाइएहिंतो वि जाव वणस्सइ काइएहिंतो वि उववज्जंति) पृथ्वीकायिकों से भी यावत् वनस्पतिकायिकों से भी उत्पन्न होते हैं ।

(मणुस्सेहिंतो) मनुष्येऽथी (देवेहिंतो वि) देवेऽथी पणु (उववज्जंति) उत्पन्न थाय छे ।

(जइ तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) यदि तिर्यचोंसे उत्पन्न थाय छे (किं एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) शुं एकेन्द्रिय तिर्यचोंसे उत्पन्न थाय छे ? (जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) यावत् पंचेन्द्रिय तिर्यचोंसे उत्पन्न थाय छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववज्जंति) एकेन्द्रिय तिर्यचोंसे यावत् पंचेन्द्रिय तिर्यचोंसे पणु उत्पन्न थाय छे (जइ एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) एकेन्द्रिय तिर्यचोंसे उत्पन्न थाय छे (किं पुढविकाइएहिंतो जाव वणस्सइकाइएहिंतो उववज्जंति ?) शुं पृथ्वीकायिकेऽथी यावत् वनस्पतिकायिकेऽथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (पुढविकाइएहिंतो वि जाव वणस्सइकाइएहिंतो वि उववज्जंति) पृथ्वीकायिकेऽथी पणु यावत् वनस्पतिकायिकेऽथी पणु उत्पन्न थाय छे

यदा पृथ्वीकायिकेभ्य उपपन्नं, किं मक्षमपृथ्वीकायिकेभ्य उपपन्नं ? वादर-
 पृथ्वीकायिकेभ्य उपपन्नं ? गौतम ! ग्राम्यामपि उपपन्नं, यदा सूक्ष्मपृथ्वी-
 कायिकेभ्य उपपन्नं, किं पर्याप्तपृथ्वीकायिकेभ्य उपपन्नं, अपर्याप्तपृथ्वी-
 कायिकेभ्य उपपन्नं ? गौतम ! ग्राम्यामपि उपपन्नं, यदि वादरपृथ्वीकायिकेभ्य
 उपपन्नं ? किं पर्याप्तकेभ्य उपपन्नं अपर्याप्तकेभ्य उपपन्नं ? गौतम ! ग्राम्या-

(जइ पुढवि काण्हितो उववज्जंति) यदि पृथ्वीकायिको से उत्पन्न
 होते हैं। (किं सुहुम पुढविकाण्हितो उववज्जंति) क्या सूक्ष्म पृथ्वी-
 कायिको से उत्पन्न होते हैं ? (वायर पुढविकाण्हितो उववज्जंति)
 वादर पृथ्वीकायिको से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (दो-
 हितो वि उववज्जंति) दोनों से ही उत्पन्न होते हैं (जइ सुहुम पुढवि
 काण्हितो उववज्जंति) यदि सूक्ष्मपृथ्वीकायिको से उत्पन्न होते हैं।
 (किं पज्जत्तपुढविकाण्हितो उववज्जंति ?) क्या पर्याप्त पृथ्वीकायिको
 से उत्पन्न होते हैं ? (अपज्जत्तपुढवि काण्हितो उववज्जंति ?) अपर्याप्त
 पृथ्वीकायिको से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! दोहितो वि उववज्जंति)
 हे गौतम ! दोनों से ही उत्पन्न होते हैं। (जइ वायर पुढविकाण्हितो
 उववज्जंति) यदि वादर पृथ्वी कायिको से उत्पन्न होते हैं (किं पज्ज-
 त्तगण्हितो उववज्जंति) क्या पर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं। (अपज्जत्तग-
 ण्हितो उववज्जंति) अपर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! दो-
 हितो वि उववज्जंति) हे गौतम ! दोनों से उत्पन्न होते हैं ? (एवं जाव-

(जइ पुढविकाण्हितो उववज्जंति) यदि पृथ्वीकायिको से उत्पन्न थाय छे
 (किं सुहुमपुढविकाण्हितो उववज्जंति ?) शु सूक्ष्मपृथ्वीकायिको से उत्पन्न थाय
 छे ? (वायर पुढविकाण्हितो उववज्जंति) वादर पृथ्वीकायिको से उत्पन्न थाय छे ?
 (गोयमा ! दोहितो वि उववज्जंति) हे गौतम ! ग्राम्यामपि उत्पन्न थाय छे, (जइ
 सुहुम पुढविकाण्हितो उववज्जंति) यदि सूक्ष्म पृथ्वीकायिको से उत्पन्न थाय छे
 (किं पज्जत्त पुढविकाण्हितो उववज्जंति ?) शु पर्याप्तपृथ्वीकायिको से उत्पन्न थाय
 छे ? (अपज्जत्त पुढविकाण्हितो उववज्जंति ?) अपर्याप्त पृथ्वी कायिको से उत्पन्न थाय
 छे ? (गोयमा ! दोहितो वि उववज्जंति) हे गौतम ! ग्राम्यामपि उत्पन्न छे
 (जइ वायरपुढविकाण्हितो उववज्जंति) यदि वादर पृथ्वीकायिको से उत्पन्न
 थाय छे (किं पज्जत्तगण्हितो उववज्जंति ?) शु पर्याप्तको से उत्पन्न थाय छे ?
 (अपज्जत्तगण्हितो उववज्जंति ?) अपर्याप्तको से उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! दो
 हितो वि उववज्जंति) हे गौतम ! ग्राम्यामपि उत्पन्न थाय छे (एवं जाव वणस्सइ
 ३० १३३

મપિ ઉપપદ્યન્તે એવ યાવદ્ વનસ્પતિકાયિકાશ્ચતુષ્પેળ ભેદેન ઉત્પાદયિતવ્યાઃ, યદા દ્વીન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે કિમ્ પર્યાસક દ્વીન્દ્રિયેભ્ય ઉપપદ્યન્તે, અપર્યાસક દ્વીન્દ્રિયેભ્ય ઉપપદ્યન્તે ? ગૌતમ ! દ્વાભ્યામપિ ઉપપદ્યન્તે, એવં ત્રીન્દ્રિય ચતુરિન્દ્રિયેભ્યોઽપિ ઉપપદ્યન્તે, યદા પञ્ચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે, કિં જલચરપञ્ચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે, એવં એભ્યો નૈરયિકાણામુપપાતો મણિતસ્તેભ્ય વળસ્સહકાહ્યા ચવક્રકર્ણં ભેદેણ ઉવવાપ્યવ્વા) હસી પ્રકાર વનસ્પતિ કાયિકોં તક ચાર ભેદ કરકે ઉપપાત કહ લેના યાહિષ ।

(જહ વેદંદિયતિરિક્ષજોણિર્હિંતો ઉવવજ્જંતિ) યદિ દ્વીન્દ્રિય તિર્યંચોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં । (કિં પજ્જત્તયવેદંદિર્હિંતો ઉવવજ્જંતિ) કયા પર્યાસ દ્વીન્દ્રિય તિર્યંચો સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં । (અપજ્જત્તય વેદંદિર્હિંતો ઉવવજ્જંતિ ?) યા અપર્યાસક દ્વીન્દ્રિયો સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં ? (ગોયમા ! દોહિંતો વિ ઉવવજ્જંતિ) હે ગૌતમ ! દોનોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં, (એવં) હસ પ્રકાર (તેદંદિય-ચરિંદિર્હિંતો વિ ઉવવજ્જંતિ) ત્રીન્દ્રિયોં તથા ચતુરિન્દ્રિયો સે મી ઉત્પન્ન હોતે હૈ ।

(જહ પંચિંદિયતિરિક્ષજોણિર્હિંતો ઉવવજ્જંતિ) યદિ પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં ? (કિં જલચરપંચિંદિયતિરિક્ષજોણિર્હિંતો ઉવવજ્જંતિ) કયાં જલચર પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં ? (એવં) હસ પ્રકાર (જે હિંતો નેરહ્યાણં ઉવવાઓ મણિઓ) જિનસે નરકોં કા ઉપપાત કહા હૈ । (તે હિંતો) ડનસે (એતેસિં વિ મ્હાણિયવ્વો) ડનકા મી

કાહ્યા ચવક્રકર્ણં ભેદેણ ઉવવાપ્યવ્વા) એ પ્રકારે વનસ્પતિકાયિકો સુધી યાર લેદ ઠરીને ઉપપાત કહેવો લેઇએ.

(જહ વેદંદિયતિરિક્ષજોણિર્હિંતો ઉવવજ્જંતિ) લે યે ઇન્દ્રિય તિર્યંચોથી ઉત્પન્ન થાય છે (કિં પજ્જત્તય વેદંદિર્હિંતો ઉવવજ્જંતિ) શુ પર્યાસક દ્વીન્દ્રિય તિર્યંચોથી ઉત્પન્ન થાય છે ? (અપજ્જત્તય વેદંદિર્હિંતો ઉવવજ્જંતિ ?) અગર અપર્યાસ દ્વિઇન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થાય છે (ગોયમા ! દોહિંતો વિ ઉવવજ્જંતિ) હે ગૌતમ ! બન્નેથી ઉત્પન્ન થાય છે (એવં) એજ પ્રકારે (તેદંદિય-ચરિંદિર્હિંતો વિ ઉવવજ્જંતિ) ત્રીન્દ્રિયોથી તથા ચતુરિંદ્રિયોથી પશુ ઉત્પન્ન થાય છે

(જહ પંચિંદિયતિરિક્ષજોણિર્હિંતો ઉવવજ્જંતિ) યદિ પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોથી ઉત્પન્ન થાય છે (કિં જલચર પંચિંદિયતિરિક્ષજોણિર્હિંતો ઉવવજ્જંતિ) શુ જલચર પંચેન્દ્રિયો તિર્યંચોથી ઉત્પન્ન થાય છે ? (એવં) એ પ્રકારે (જેહિંતો નેર-યાણ ઉવવાઓ મણિઓ) બેમનાથી નારકોનો ઉપપાત કહ્યો છે (તેહિંતો) તેઓથી

एतेषामपि भणितव्यः, नवरम् पर्याप्तकापर्याप्तकैभ्योऽपि उपपद्यन्ते, शेषं तच्चैव, यदा मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, किम् संमूर्च्छिममनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, गौतम ! द्वाभ्यामपि उपपद्यन्ते, यदा गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते किं कर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, अकर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, शेषं यथा नैरयिकाणां, नव-

कहना चाहिए (नवरं) विशेष यह कि (पञ्जत्तग-अपञ्जत्तगेहितो वि उववज्जंति) पर्याप्तको और अपर्याप्तको से भी उत्पन्न होते हैं। (से सं तं चैव) शेष वही।

(जइ मणुस्सेहितो उववज्जंति) यदि मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं। (किं संमूर्च्छिममणुस्सेहितो उववज्जंति) क्या संमूर्च्छिममनुष्यों से उत्पन्न होते हैं ? (गवभवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति) गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं। (गोयमा ! दोहितो वि उववज्जंति) हे गौतम ! दोनों से उत्पन्न होते हैं।

(जइ गवभवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति) यदि गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं। (किं कम्मभूमिगगवभवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति) क्या कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं (अकम्मभूमि गवभवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति ?) या अकर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं ? (सेसं जहा नेरइयाणं) शेष जैसे नरकों का (नवरं) विशेष (अपञ्जत्ताएहितो वि उववज्जंति) अपर्याप्तकों से भी उत्पन्न होते हैं।

(एतेसि वि भाणियव्वो) आनो उपपात पञ्च कडेवो नेज्जे (नवर) विशेष जे डे (पञ्जत्तग-अपञ्जत्तगेहि तो वि उववज्जंति) पर्याप्तको आने अपर्याप्तकोथी पणु उत्पन्न थाय छे (सेसं तं चैव) शेष तेज्जे

(जइ मणुस्सेहितो उववज्जंति) यदि मनुष्येथी पणु उत्पन्न थाय छे (किं संमूर्च्छिममणुस्सेहि तो उववज्जंति ?) शु स मूर्च्छिम मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे ?

(गवभवक्कंतियमणुस्सेहि तो उववज्जंति ?) गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न थाय थाय छे ? (गोयमा ! दो वि उववज्जंति) हे गौतम ! अन्नेथी उत्पन्न छे (

स्सेहितो उववज्जंति) यदि गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे (कम्मभूमिगगवभवक्कंतियमणुस्सेहि तो उववज्जंति ?) शु कर्मभूमिज मनुष्ये उत्पन्न थाय छे ? (अकम्मभूमिगगवभवक्कंतियमणुस्सेहि तो उववज्जंति ?) अगर अकर्मभूमिज गर्भज मनुष्येथी थाय छे (सेसं जहा नेरइयाणं) शेष जेवा नारइयाणं () विशेष

रम्-अपर्याप्तकेभ्योऽपि उपपद्यन्ते, यदा देवेभ्य उपपद्यन्ते, किं भवनवासि वानव्यन्तरज्योतिष्कवैमानिकेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! भवनवासिदेवेभ्योपि उपपद्यन्ते, यावद् वैमानिकदेवेभ्योऽपि उपपद्यन्ते यदा भवनवासिदेवेभ्य उपपद्यन्ते किम् असुरकुमारदेवेभ्यो यावत् स्तनितकुमारेभ्य उपपद्यन्ते. गौतम ! असुरकुमारदेवेभ्योऽपि उपपद्यन्ते, यावत् स्तनितकुमारदेवेभ्योऽपि उपपद्यन्ते, यदा वानव्यन्तरदेवेभ्य उपपद्यन्ते किं पिशाचेभ्यो यावद् गन्धर्वेभ्यः उपपद्यन्ते ?

(जह देवेहितो वि उववज्जन्ति) यदि देवो से भी उत्पन्न होते हैं, (किं भवणवासि-वाणमंतर-जोइस-वेमाणिएहितो उववज्जन्ति) क्या भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क या वैमानिको से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! भवणवासिदेवेहितो वि उववज्जन्ति ? भवनवासीदेवो से भी उत्पन्न होते हैं । (जाव) यावत् (वेमाणिएहितो वि उववज्जन्ति) वैमानिकों से भी उत्पन्न होते हैं ।

(जह भवणवासि देवेहितो उववज्जन्ति) यदि भवनवासीदेवो से उत्पन्न होते हैं । (किं असुरकुमारदेवेहितो उववज्जन्ति) क्या असुरकुमार देवो से उत्पन्न होते हैं ? (जाव) यावत् (थणियकुमारदेवेहितो वि उववज्जन्ति) स्तनितकुमारदेवों से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (असुरकुमारदेवेहितो वि उववज्जन्ति) असुरकुमारदेवो से भी उत्पन्न होते हैं ? (जाव थणियकुमारदेवेहितो वि उववज्जन्ति) यावत् स्तनित कुमारदेवो से भी उत्पन्न होते हैं ?

हितो वि उववज्जन्ति) अपर्याप्तकेथी पशु उत्पन्न थाय छे

(जह देवेहितो वि उववज्जन्ति) देवेथी पशु उत्पन्न थाय छे (किं भवण वासि-वाणमंतर-जोइस-वेमाणिएहितो उववज्जन्ति ?) शु भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क अथर वैमानिकेथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (भवणवासिदेवेहितो वि उववज्जन्ति) भवनवासी देवेथी पशु उत्पन्न थाय छे (जाव) यावत् (वेमाणिएहितो वि उववज्जन्ति) वैमानिकेथी पशु उत्पन्न थाय छे (जह भवणवासिदेवेहितो उववज्जन्ति) यदि भवनवासी देवेथी उत्पन्न थाय छे, (किं असुरकुमारदेवेहितो उववज्जन्ति) शु असुरकुमार देवेथी पशु उत्पन्न थाय छे ? (जाव) यावत् (थणियकुमारेहितो उववज्जन्ति ?) स्तनितकुमारेथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (असुरकुमारदेवेहितो वि उववज्जन्ति) असुर कुमार देवेथी पशु उत्पन्न थाय छे (जाव थणियकुमारदेवेहितो वि उववज्जन्ति) यावत् स्तनितकुमार देवेथी पशु उत्पन्न थाय छे

गौतम ! पिशाचेभ्योऽपि यावद् गन्धर्वेभ्योऽपि उपपद्यन्ते, यदा ज्योतिष्कदे-
वेभ्य उपपद्यन्ते, किं चन्द्रविमानेभ्य उपपद्यन्ते, यावत् ताराविमानेभ्यः उपप-
द्यन्ते ? गौतम ! चन्द्रविमानज्योतिष्कदेवेभ्योऽपि या- ताराविमानज्योति-
ष्कदेवेभ्योऽपि उपपद्यन्ते, यदा वैमानिकदेवेभ्य उपपद्यन्ते, किं कल्पोपगवैमा-
निकदेवेभ्य उपपद्यन्ते ? कल्पातीत वैमानिकदेवेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम !

(जह वाणमंतरदेवेहितो उववज्जति) अगर वातव्यन्तरदेवो से
उत्पन्न होते हैं ? (किं पिसाएहितो जाव गंधर्वेहितो उववज्जति) क्या
पिशाचो से यावत् गन्धर्वो से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! पिसाएहितो
वि जाव गंधर्वेहितो वि उववज्जति) गौतम ! पिशाचो से भी यावत्
गंधर्वो से भी उत्पन्न होते हैं ?

(जह जोइसियदेवेहितो उववज्जति) यदि ज्योतिष्कदेवो से उत्पन्न
होते हैं ? (किं चंद्रविमाणेहितो उववज्जति ?) क्या चन्द्रविमानो से
उत्पन्न होते हैं ? (जाव ताराविमाणेहितो उववज्जति) यावत् तारा-
विमानो से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा चंद्रविमाणजोइसियदेवेहितो
वि जाव ताराविमाणजोइसियदेवेहितो वि उववज्जति) हे गौतम !
चन्द्रविमान के ज्योतिष्क देवों से यावत् ताराविमान के ज्योतिष्क-
देवो से भी उत्पन्न होते हैं ।

(जह वेमाणियदेवेहितो उववज्जति) यदि वैमानिकदेवो से उत्पन्न
होते हैं ? (किं कल्पोपगवैमाणियदेवेहितो उववज्जति ?) क्या कल्पोप-
पन्न वैमानिकदेवों से उत्पन्न होते हैं ? (कल्पाइय वेमाणियदेवेहितो

(जह वाणमंतरहूवेहितो उववज्जति) यदि वातव्यन्तर देवेथी उत्पन्न
थाय छे (किं पिसाएहितो जाव गंधर्वेहितो उववज्जति ?) शु पिशाचेथी यावत्
गन्धर्वेथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! पिसाएहितो वि जाव गंधर्वेहितो वि
उववज्जति) छे गौतम ! पिशाचेथी पणु यावत् गंधर्वेथी पणु उत्पन्न थाय छे

(जह जोइसियदेवेहितो उववज्जति) यदि ज्योतिष्क देवेथी उत्पन्न थाय छे
(किं चंद्रविमाणेहितो उववज्जति) शु चन्द्र विमानेथी उत्पन्न थाय छे ? (जाव
ताराविमाणेहितो उववज्जति) यावत् तारा विमानेथी उत्पन्न थाय छे (गोयमा !
चंद्रविमाणजोइसियदेवेहितो वि जाव ताराविमाण जोइसियदेवेहितो वि उववज्जति)
छे गौतम ! चन्द्रविमानना ज्योतिष्क देवेथी पणु यावत् तारा विमानना
ज्योतिष्क देवेथी पणु उत्पन्न थाय छे

(जह वेमाणियदेवेहितो उववज्जति) यदि वैमानिक देवेथी उत्पन्न थाय
छे (किं कल्पोपगवैमाणियदेवेहितो उववज्जति ?) शु कल्पोपपन्न वैमानिक देवेथी

कल्पोपगवैमानिकदेवेभ्य उपपद्यन्ते, नो कल्पातीतवैमानिकदेवेभ्य उपपद्यन्ते, यदा कल्पोपगवैमानिकदेवेभ्य उपपद्यन्ते, किं सौधर्मेभ्यो यावद् अच्युतेभ्य उपपद्यन्तं, गौतम ! सौधर्मेशानेभ्य उपपद्यन्ते, नो सनत्कुमार यावद् अच्युतेभ्य उपपद्यन्ते, एवम् अप्कायिका अपि, एवं तेजोवायुकायिका अपि, नवरम्-देव वर्जेभ्य उपपद्यन्ते, वनस्पतिकायिका यथा पृथिवीकायिकाः द्वीन्द्रिया स्त्रीन्द्रिया श्वतुरिन्द्रिया एते यथा तेजस्कायिकायिका देववर्जेभ्य भणितव्याः ॥३०॥१॥

उववज्जन्ति ?) या कल्पातीत वैमानिकदेवो से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! कल्पोपगवैमाणियदेवेर्हितो उववज्जन्ति) गौतम ! कल्पोपपन्न वैमानिक देवों से उत्पन्न होते हैं ? (नो कल्पाइय वेमाणियदेवेर्हितो उववज्जन्ति) कल्पातीत वैमानिकदेवों से नहीं उत्पन्न होते । (जइ कल्पोपगवैमाणिय देवेर्हितो उववज्जन्ति) यदि कल्पोपपन्न वैमानिकदेवों से उत्पन्न होते हैं (किं सोहम्मेर्हितो जाव अच्युएर्हितो उववज्जन्ति ?) क्या सौधर्म से यावत् अच्युत से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! सोहम्मीसाणेर्हितो उववज्जन्ति) गौतम ! सौधर्म एवं ईशान से उत्पन्न होते हैं । (नो सणं कुमार जाव अच्युएर्हितो) सनत्कुमार से लेकर अच्युत तक के विमानों से नहीं (उववज्जन्ति) उत्पन्न होते हैं ।

(एवं आउकाइया वि) इसी प्रकार अप्कायिक भी (एवं तेउकाइया वि) इसी प्रकार तेजस्कायिक भी (नवरं देववज्जेर्हितो उववज्जन्ति) विशेष यह कि देवों को छोड़ कर अन्यो से उत्पन्न होते हैं ? (वणस्सइ काइया जहा पुढविकाइया) वनस्पतिकायिक पृथ्वीकायिकों के समान

उत्पन्न थाय छे ? (कल्पाइय वेमाणियदेवेर्हि तो उववज्जन्ति ?) या कल्पातीत वैमानिक देवेर्था उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! कल्पोपगवैमाणियदेवेर्हितो उव वज्जन्ति) छे गौतम ! कल्पोपपन्न वैमानिक देवेर्था उत्पन्न थाय छे (नो कल्पा इयवेमाणियदेवेर्हि तो उववज्जन्ति) कल्पातीत वैमानिक देवेर्था उत्पन्न नहीं यथा (जइ कल्पोपगवैमाणियदेवेर्हि तो उववज्जन्ति) यदि कल्पोपपन्न वैमानिक देवेर्था उत्पन्न थाय छे (किं सोहम्मेर्हि तो जाव अच्युएर्हि तो उववज्जन्ति) शु सौधर्मेर्था यावत् अच्युतर्था उत्पन्न थाय छे (गोयमा ! सोहम्मीसाणेर्हि तो उववज्जन्ति) छे गौतम ! सौधर्म तेभ्य ईशानर्था उत्पन्न थाय छे (नो सणं कुमार जाव अच्युएर्हि तो) सनत्कुमारर्था आर लीने अच्युत सुधीना विमानोर्था नथी (उव वज्जन्ति) उत्पन्न यथा

(इवं आउकाइया वि) ओअ रीते अप्कायिक पथु (एवं तेउकाइया वि) ओअ प्रकारे तेजस्कायिक पथु (नवरं देववज्जे उववज्जन्ति) विशेष ओ के देवे सिवाय अन्योर्था उत्पन्न थाय छे (वणस्सइकाइया जहा पुढविकाइया) वनस्पति

टीका—अथासुरकुमारादीनामुपपात वक्तव्यतामाह—‘असुरकुमारा णं भंते ? कओहितो उववज्जंति ? गौतमः पृच्छति—हे—भदन्त ! असुरकुमाराः सल्ल केभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान्—आह—‘ गोयमा । हे गौतम ! ‘नो नेरइएहिंतो उववज्जंति’ नो नैरयिकेभ्योऽसुरकुमारा उपपद्यन्ते अपितु ‘ तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति’ तिर्यग्योनिकेभ्योऽसुरकुमारा उपपद्यन्ते, ‘मणुस्सेहिंतो उववज्जंति’ मनुष्येभ्योऽसुरकुमारा उपपद्यन्ते, ‘नो देवेहिंतो उववज्जंति’ नो देवेभ्योऽसुरकुमारा उपपद्यन्ते, ‘एवं जंहितो नेरइयाणं उववाओ तेहिंतो असुरकुमाराणवि भाणियव्वो’ एवम् पूर्वोक्तरीत्या, येभ्यो नैरयिकाणामुपपात उक्तस्तेभ्योऽसुरकुमाराणामपि उपपातो भणितव्यः, किन्तु—‘ नवरं असंखेज्जवासाउय अकम्मभूमग अंतर दीवगम-

(वेइंदिया तेइंदिया चउरिंदिया) द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय (एते जहा तेउवाउ) ये तेजस्काय, वायुकाय के समान (देववज्जेहिंतो भाणियव्वा) देवों को छोड़कर कहना चाहिए ।

टीकार्थ—अब असुरकुमार आदि के उपपात की वक्तव्यता प्रारंभ की जाती है—श्रीगौतमस्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! असुरकुमार किन से उत्पन्न होते हैं ? अर्थात् किस-किस पर्याय के जीव मर कर असुरकुमार के रूप में उत्पन्न हो सकते हैं ?

भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! असुरकुमार नारकों से उत्पन्न नहीं होते, किन्तु तिर्यग्योनिकों और मनुष्यों से असुरकुमार उत्पन्न हो सकते हैं, देवों से उत्पन्न नहीं होते । इस प्रकार जिन-जिन से नारकों का उपपात कहा है, उन-उनसे असुरकुमारों का भी उपपात कहना चाहिए । विशेषता यह है कि असंख्यातवर्ष की आयु वाले अकर्म-

कायिक पृथ्वीइयिकेना समान (वेइंदिया तेइंदिया चउरिंदिया) द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय (एते जहा तेउ वाउ) आ तेजस्काय वायुकायिकेना समान (देववज्जेहिंतो भाणियव्वा) देवोंने छोड़ीने कडेवा जेधये

टीकार्थ—हवे असुरकुमार आदिना उपपातनी वक्तव्यता प्रारंभ कराय छे श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! असुरकुमार केनाथी उत्पन्न थाय छे ? अर्थात् कया कया पर्यायना एव मरीने असुरकुमारना उपमा उत्पन्न थथ शके छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! असुरकुमार नारकेथी उत्पन्न नथी थता, परतु तिर्यग्योनिके अने मनुष्येथी उत्पन्न थथ शके छे, देवेथी उत्पन्न नथी थता अे रीते जेना जेनाथी नारकेना उपपात कह्यो छे तेना तेनाथी असुरकुमारोना पणु उपपात कडेवा जेधये, विशेषता अे छे के

पुस्ततिरिखजोणिर्णिनो वि उनाज्जंति' नवरम्-पूर्वाक्तनैरयिकापेक्षया विशेष
स्तु-असुरकुमाराः अजंभ्येयवर्पाद्युष्काकर्मभूमिमान्तद्वीपगमनुष्यतिर्यग्योनिकेभ्यो-
ऽपि उपपद्यन्ते, 'सेव तं चैव, शेषं तन्चैव-नैरथिकोक्तवदेवावसेयम् 'एवं जाव
यणियकुमारा भाणिपच्चा' एवम्-उपर्युक्तरीत्या, यावत्-नागकुमाराः सुवर्णकुमाराः
अग्निकुमाराः विद्युत्कुमाराः, उदधिकुमाराः द्वीपकुमाराः, पवनकुमाराः स्तनित
कुमारा भणितव्याः, रीतमः पृच्छति-पुढविकाइयाणं भंतं ? कओर्हितो उव
ज्जंति' हे भदन्त ! पृथिवीकायिकाः राखु कैभ्य उपपद्यन्ते ? 'किं नैरइर्हितो
जाव देवेहितो-उववज्जंति ? किं नैरथिकेभ्यो यावत्-भवनपतिभ्यः एकेन्द्रियवि-
कलेन्द्रियतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियमनुष्यदानव्यन्तरज्योतिष्कवैमानिकदेवेभ्य उपप-
द्यन्ते ! भगवाण् आह-जोयमा ! हे गौतम ! 'नो नैरइर्हितो उववज्जति' पृथिवी-
कायिका नो नैरथिकेभ्य उपपद्यन्ते । अपितु 'तिरिखजोणिर्णिनो मणुस्सेहितो
देवेहितोवि उववज्जंति तिर्यग्योनिकेभ्यो मनुष्येभ्यो देवेभ्योऽपि उपपद्यन्ते,
गौतमः पृच्छति, 'जइ तिरिखजोणिर्णिनो उववज्जंति' यदा तिर्यग्योनिकेभ्यः

भूमिज अन्तर द्वीपज मनुष्यों और तिर्यचों से भी-उत्पन्न होते हैं ।
इसके सिवाय शेष कथन नारकों के समान ही समझना चाहिए ।
इसी प्रकार स्तनितकुमारों तक कह लेना चाहिए अर्थात् नागकुमार,
सुवर्णकुमार, अग्निकुमार, विद्युत्कुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार,
दिक्कुमार, पवनकुमार और स्तनितकुमारदेवों के संबंध में भी इसी
प्रकार कह लेना चाहिए ।

श्रीगौतमस्वामी-हे भगवन् ! पृथ्वीकायिक जीवों का उत्पाद किन
से होता है ? नारकों से यावत् देवों से ।

भगवान्-हे गौतम ! पृथ्वीकायिक नारकों से उत्पन्न नहीं होते,
किन्तु तिर्यचों, मनुष्यों और देवों से उत्पन्न होते हैं ।

अस्य भ्यात् वर्षनी आयुवाणा अकर्मलूभिव्य अन्तर द्वीप न मनुष्ये अने
तिर्यथेथी उत्पन्न थाय छे अेना सिवाय शेष कथन नारकना समानव सम
नपु लेधये अे प्रकारे स्तनितकुमारे सुधी कडेपु' लेधये अर्थात् नागकुमार,
सुवर्णकुमार, अग्निकुमार, विद्युत्कुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार, दिक्कुमार,
पवनकुमार, अने स्तनितकुमार देवोना सम्बन्धमा पषु अेव प्रकारे कडेपु लेधये.

श्री गौतमस्वामी -हे भगवन् ! पृथ्वीकायिक जीवोना उत्पाद सेनाथी
थाय छे ? नारकेथी के देवेथी ?

श्री भगवान्-हे गौतम पृथ्वीकायिक नारकेथी उत्पन्न नथी यथा, पषु
तिर्यथेथी, मनुष्य अने देवेथी उत्पन्न थाय छे,

पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते, तदा 'किं एगिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति जाव पंचिदियतिरिक्खणिएहिंतो उववज्जति? किम् एकेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, यावद् द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते, भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'एगिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि जाव पंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववज्जंति' 'एकेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्योऽपि यावत्—द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्योऽपि पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'जइ एगिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो—उववज्जंति' यदा एकेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते, तदा 'किं पुढविकाइएहिंतो जाव वणरसइकाइएहिंतो उववज्जंति ?' किं पृथिवीकायिकेभ्यो यावत् किम् अष्कायिकेभ्यस्तेजः कायिकेभ्यो वायुकायिकेभ्यो वनस्पतिकायिकेभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—' गोयमा !' हे गौतम ! 'पुढविकाइएहिंतो वि जाव वणस्सइकाइएहिंतो वि उववज्जंति' पृथिवीकायिकाः पृथिवीकायिकेभ्योऽपि

श्रीगौतम—हे भगवन् ! यदि तिर्य चो से उत्पन्न होते हैं, तो क्या एकेन्द्रिय तिर्य चो से उत्पन्न होते हैं, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय अथवा पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—गौतम ! एकेन्द्रिय तिर्यचो से भी उत्पन्न होते हैं, यावत् पंचेन्द्रिय तिर्यचो से भी उत्पन्न होते हैं ।

गौतम—भगवन् ! यदि एकेन्द्रिय तिर्यचो से पृथ्वीकायिक उत्पन्न होते हैं तो क्या पृथ्वीकायिकों से उत्पन्न होते हैं, यावत्—अष्कायिकों, तेजःकायिकों, वायुकायिकों अथवा वनस्पतिकायिकों से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! पृथ्वीकायिक पृथ्वीकायिकों से भी उत्पन्न होते हैं यावत् वनस्पतिकायिकों से भी उत्पन्न होते हैं । अर्थात्

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् जो तिर्य चोथी उत्पन्न थाय छे तो शु अकेन्द्रिय तिर्य चोथी उत्पन्न थाय छे, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, अथवा पंचेन्द्रिय तिर्य चोथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! अकेन्द्रिय तिर्यचोथी पणु उत्पन्न थाय छे, पंचेन्द्रिय तिर्य चोथी पणु उत्पन्न थाय छे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! यदि अकेन्द्रिय तिर्य चोथी पृथ्वीकायिक उत्पन्न थाय छे तो शु पृथ्वीकायिकोथी उत्पन्न थाय छे, यावत् अष्कायिको, तेज कायिको, वायुकायिको अथवा वनस्पतिकायिकोथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! पृथ्वीकायिक पृथ्वीकायिकोथी पणु उत्पन्न थाय छे यावत् वनस्पतिकायिकोथी पणु उत्पन्न थाय छे अर्थात् पांचेन्द्रियोथी उत्पन्न थाय छे.

यावद्-अप्कायिकेभ्योऽपि, तेजःकायिकेभ्योऽपि वायुकायिकेभ्योऽपि वनस्पतिका-
यिकेभ्योऽपि उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति-‘जइ पुढविकाइएहिंतो उववज्जंति’ यदा
पृथिवीकायिकाः पृथिवीकायिकेभ्य उपपद्यन्ते तदा ‘ किं सुहुमपुढविकाइएहिंतो
उववज्जंति, वायरपुढविकाइएहिंतो उववज्जंति ?’ किं सूक्ष्मपृथिवीकायिकेभ्यः
पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते, किं वा वायरपृथिवीकायिकेभ्यः उपपद्यन्ते ? भगवान्
आह-‘गोयमा ! हे गौतम !’ ‘दोहिंतो वि उववज्जंति’ द्वाभ्यामपि सूक्ष्मवादरपृथि-
वीकायिकीभ्यां पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति ‘जइ सुहुमपुढविकाइ-
एहिंतो उववज्जंति’ यदा सूक्ष्मपृथिवीकायिकेभ्यः पृथिवीकायिकाः उपपद्यन्ते तदा
-‘किं पज्जत्तपुढविकाइएहिंतो उववज्जंति ? अपज्जत्तपुढविकाइएहिंतो उवव-
ज्जंति’ किं पर्याप्तकपृथिवीकायिकेभ्य उपपद्यन्ते, किं वा अपर्याप्तकपृथिवीकायिकेभ्य
उपपद्यन्ते ? भगवान् आह-‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘दोहिंतो वि उववज्जंति’ द्वाभ्या-
मपि पर्याप्तकापर्याप्तकाभ्यां पृथिवीकायिकाभ्यां पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते, गौतमः
पृच्छति-‘जइ वायरपुढविकाइएहिंतो उववज्जंति’ यदा वादरपृथिवीकायिकेभ्यः

पाँचों एकेन्द्रियों से भी उत्पन्न होते हैं ।

गौतम-भगवन् ! यदि पृथ्वीकायिक पृथ्वीकायिकों से उत्पन्न
होते हैं तो क्या सूक्ष्म पृथ्वीकायिकों से उत्पन्न होते हैं, अथवा वादर
पृथ्वीकायिकों से ।

भगवान् गौतम ! दोनों से उत्पन्न होते हैं ?

गौतम-भगवन् ! यदि पृथ्वीकायिक सूक्ष्म पृथ्वीकायिकों से उत्पन्न
होने हैं तो क्या पर्याप्तकों से उत्पन्न होते हैं । अथवा अपर्याप्तकों से
उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्-गौतम ! दोनों से अर्थात् पर्याप्तकों से भी और अप-
र्याप्तकों से भी उत्पन्न होते हैं ।

गौतम-भगवान् ! यदि वादर पृथ्वीकायिकों से उत्पन्न होते हैं

श्री गौतमस्वामी-डे लगवन् ! जे पृथ्वीकायिक पृथ्वीकायिकेथी उत्पन्न
थाय छे तो शु सूक्ष्म पृथ्वीकायिकेथी उत्पन्न थाय छे अथवा वादर पृथ्वीकायिकेथी ?

श्री लगवान्-डे गौतम ! जन्नेथी उत्पन्न थाय छे.

श्री गौतमस्वामी-डे लगवन् ! यहि पृथ्वीकायिक सूक्ष्म पृथ्वीकायिकेथी
उत्पन्न थाय छे, तो शु पर्याप्तकेथी उत्पन्न थाय छे, अथवा अपर्याप्तकेथी
उत्पन्न थाय छे ?

श्री लगवान् -डे गौतम ! जन्नेथी अर्थात् पर्याप्तकेथी यल्लु अपर्या-
प्तकेथी पल्लु उत्पन्न थाय छे.

पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते तदा 'किं पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति, अपज्जत्तएहिंतो उव-
वज्जंति?' किं पर्याप्तकेभ्यो वादरपृथिवीकायिकेभ्य उपपद्यन्ते ? किं वा अपर्याप्तकेभ्यो
वादरपृथिवीकायिकेभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह-गोयमा ! हे गौतम ! ' दोहिंतो
वि उववज्जंति' द्वाभ्यामपि पर्याप्तापर्याप्तकाभ्यां वादरपृथिवीकायिकाभ्यां पृथिवी-
कायिकाः उपपद्यन्ते, 'एवं जाव वणस्सइकाइया चउक्कएणं भेदेणं उववाएयव्वा'
एवम् उपर्युक्तरीत्या, यावत्-अप्कायिकाः, तेजःकायिकाः, वायुकायिकाः वन-
स्पतिकायिकाश्चतुष्केण भेदेन-सूक्ष्मवादरपर्याप्तकापर्याप्तकमेदेनेत्यर्थः-उपपादयि-
तव्याः गौतमः पृच्छति- 'जइ वेइंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति' यदा
द्वीन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते तदा 'किं पज्जत्तयवेइंदिएहिंतो
उववज्जंति' किं पर्याप्त द्वीन्द्रियेभ्यः पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते, किं वा 'अप-
ज्जत्तयवेइंदिएहिंतो उववज्जंति ?' अपर्याप्त द्वीन्द्रियेभ्यः पृथिवीकायिका उपप-
तो क्या पर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं ? अथवा अपर्याप्तको से उत्पन्न
होते हैं ?

भगवान्-गौतम ! दोनों से अर्थात् पर्याप्त और अपर्याप्त वादर
पृथ्वीकायिकों से पृथ्वीकायिक उत्पन्न होते हैं ।

इसी प्रकार अप्कायिको, तेजःकायिको, वायुकायिको एवं वन-
स्पतिकायिको के विषय में भी समझलेना चाहिए और प्रत्येक के
सूक्ष्म तथा वादर के पर्याप्तक और अपर्याप्तक, यो चार भेद करके
पूर्ववत् ही कह लेना चाहिए ।

श्रीगौतम-हे भगवन् ! यदि पृथ्वीकायिक द्वीन्द्रियों से उत्पन्न
होते हैं ? तो क्या पर्याप्त द्वीन्द्रियों से उत्पन्न होते हैं अथवा अपर्याप्त
द्वीन्द्रियों से उत्पन्न होते हैं ?

श्री गौतमस्वामी -हे भगवन् ! यदि आदर पृथ्वीकायिकोथी उत्पन्न थाय
छे तो शु पर्याप्तकोथी उत्पन्न थाय छे ? अथवा अपर्याप्तकोथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान् -हे गौतम ! अन्नेथी अर्थात् पर्याप्त अने अपर्याप्त
आदर पृथ्वीकायिकोथी पृथ्वीकायिक उत्पन्न थाय छे.

अेव प्रकारे अप्कायिको, तेज कायिको, वायुकायिको, तेमज वनस्पति
कायिकोना विषयमा पणु समणु देवु जेधअे अने प्रत्येकना सूक्ष्म तथा आदरना
पर्याप्तक अने अपर्याप्तक अेम चार लेह करीने पूर्ववत् कडेवु जेठअे

श्री गौतमस्वामी -हे भगवन् ! यदि पृथ्वीकायिक द्वीन्द्रियोथी उत्पन्न
थाय छे तो शु पर्याप्त द्वीन्द्रियोथी उत्पन्न थाय छे अथवा अपर्याप्त द्वीन्द्रि-
योथी उत्पन्न थाय छे ?

घन्ते ? भगवान् आह—‘ गौतमा ! हे गौतम ! ‘ दोर्हितो वि उववज्जन्ति’ द्वाभ्या-
मपि पर्याप्तकापर्याप्तकाभ्यां द्वीन्द्रियाभ्यां पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते, ‘ एवं तेर्दि-
यवउरिर्दिर्हितो वि उववज्जन्ति’—एवम्—पूर्वोक्तद्वीन्द्रियरीत्या त्रीन्द्रियचतुरिन्द्रि-
येभ्योऽपि पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—‘जइ पंचिदियतिरिक्खजो-
णिर्हितो उववज्जन्ति’ यदा पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य पृथिवीकायिका उपप-
द्यन्ते, तदा ‘कि जलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिर्हितो उववज्जन्ति ?’ किं जलचर
पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? किं वा स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य
उपपद्यन्ते ? किं वा खेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनितेभ्य उपपद्यन्ते ? इत्यादि पूर्वोक्ता-
शयेनाह—‘एवं जेर्हितो नेरइयाणं उववाओ भणिओ तेर्हितो एतेसिपि भाणियव्वो’
एवम्—पूर्वोक्तरीत्या, येभ्यो नैरयिकाणामुपपातो भणितस्तेभ्य एतेषामपि पृथिवी-
कायिकानाम् उपपातो भणितव्यः किन्तु ‘नवरं पज्जत्तगअपज्जत्तगेर्हितो वि उवव-
ज्जन्ति’ नवरम्—पूर्वापेक्षया विशेषस्तु पृथिवीकायिका पर्याप्तकापर्याप्तकेभ्योऽपि

भगवान्—हे गौतम ! दोनों से अर्थात् पर्याप्त अपर्याप्त द्वीन्द्रियों
से उत्पन्न होते हैं ।

इसी प्रकार त्रीन्द्रियो और चतुरिन्द्रियों से भी पृथ्वीकायिको
की उत्पत्ति कहलेनी चाहिए ।

गौतम—यदि पंचेन्द्रियतिर्यच्चों से पृथ्वीकायिक उत्पन्न होते हैं तो
चर पंचेन्द्रियतिर्यच्चों से उत्पन्न होते हैं या स्थलचर पंचेन्द्रियतिर्यच्चों
से उत्पन्न होते हैं ? अथवा खेचर पंचेन्द्रियतिर्यच्चों से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जिन—जिनसे नारको का उपपात कहा है
उन—उनसे इन पृथ्वी कायिको का भी उपपात कहना चाहिए ।

श्री भगवान्—हे गौतम ! जनेथी अर्थात् पर्याप्त अने अपर्याप्त द्वीन्द्रि-
योथी उत्पन्न थाय छे.

ये प्रकारे त्रीन्द्रिय अने चतुरिन्द्रियोथी पणु पृथ्वीकायिकोनी उत्पत्ति
कडेवी लोभये

श्री गौतमस्वामी—यदि पंचेन्द्रियतिर्यच्चोथी पृथ्वीकायिक उत्पन्न थाय
छे तो शु जलचर पंचेन्द्रियतिर्यच्चोथी उत्पन्न थाय छे अगर स्थलचर
पंचेन्द्रियतिर्यच्चोथी उत्पन्न थाय छे अथवा खेचर पंचेन्द्रियतिर्यच्चोथी
उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! जेना—जेनाथी नारकोना उपपात कछो छे,
ते तेथी आ पृथ्वीकायिकोना पणु उपपात कडेवी लोभये. विशेषता ये छे के
पृथ्वीकायिक पर्याप्तकेथी पणु उत्पन्न थाय छे अने अपर्याप्तकेथी पणु उत्पन्न

उपपद्यन्ते इतिबोध्यः 'ससं तंचेव' शेषं तच्चैव-नैरयिकोक्तवदेवावसेयम्, गौतमः पृच्छति 'जइ मनुस्सेहिंतो उववज्जंति' यदा पृथिवीकायिकाः मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, तदा-किं संमूर्च्छिममणुस्सेहिंतो उववज्जंति, गवभव-ियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति? किं संमूर्च्छिममणुष्येभ्य उपपद्यन्ते? किं वा गर्भव्युत्क्रान्तिकमणुष्येभ्य उपपद्यन्ते? भगवान् आह-गोयमा! हे गौतम! 'दोहिंतो वि उववज्जंति' द्वाभ्यामपि संमूर्च्छिमगर्भव्युत्क्रान्तिकाभ्यां मनुष्यजाति-या पृथिवीकायिका-उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति 'जइ गवभवकंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति' यदा गर्भव्युत्क्रान्तिक मणुष्येभ्यः पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते तदा 'किं कम्मभूमगगवभवकतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति?' किं कर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिक मणुष्येभ्यः पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते? किं वा 'अकम्मभूमगगवभवकंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति' अकर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिक मणुष्येभ्यः पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते?

विशेषता यह है कि पृथ्वीकायिक पर्याप्तको से भी उत्पन्न होते हैं। और अपर्याप्तकों से भी उत्पन्न होते हैं। शेष सब कथन वही नारको के समान है।

गौतम-भगवन्! पृथ्वीकायिक अगर मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं? तो क्या संमूर्च्छिम मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं अथवा गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं?

भगवान्-हे गौतम! दोनों से ही उत्पन्न होते हैं।

गौतम-भगवन्! यदि गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं। तो क्या कर्म भूमिज गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं? या अकर्म भूमिज गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं

भगवान् गौतम! शेष जो कथन नैरयिकों के विषय में किया गया है, वही पृथ्वीकायिकों के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। इस

थाय छे भाकीनु षधु कथन नारकोना समान छे

श्री गौतमस्वामी -हे भगवन् पृथ्वीकायिक जो मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे तो शु संमूर्च्छिम मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे अथवा गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे? श्री भगवान् -उत्पन्नेथी उत्पन्न थाय छे

श्री गौतमस्वामी -हे भगवन् यदि गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे तो शु कर्मभूमिज गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे? अगर अकर्मभूमिज गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे?

श्री भगवान् -हे गौतम! शेष जो कथन नैरयिकों के विषय में कहा है, वही पृथ्वीकायिकों के संबंध में भी समझ लेना चाहिए।

મગવાન્ આહ—‘ગોયમા ! હે ગૌતમ ! ‘સેસં જહા નેરહયાણં’ શ્રેયં યથા નૈ-
યિકાણાં પ્રતિપાદિતં તથૈવ પૃથિવીકાયિકાનામપિ પ્રતિપાદનીયમ્, તથા ચ નો
અકર્મભૂમિગર્ભવ્યુત્ક્રાતિક્કમનુષ્યેભ્યઃ પૃથિવીકાયિકા ઉપપદ્યન્તે, અપિ તુ કર્મ-
ભૂમિગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિક્કમનુષ્યેભ્યઃ પૃથિવીકાયિકા ઉપપદ્યન્તે ઇત્યાદિરીત્યા
વોધ્યમ્ કિન્તુ—‘નવરં અપજ્જત્તણ્હિતો વિ ઉત્તવજ્જંતિ’ નવરં પૂર્વાપેક્ષયા વિશેષ-
સ્તુ અપર્યાપ્તકેભ્યોઽપિ ગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિક્કમનુષ્યેભ્યઃ પૃથિવીકાયિકા ઉપપદ્યન્તે
ઇત્યવસેયઃ, ગૌતમઃ પૃચ્છતિ—‘જહ્ દેવેહિતો ઉત્તવજ્જંતિ કિં ભવણવાસિ યાણમંતર-
જોઽસિયવેમાણિણ્હિતો ઉત્તવજ્જંતિ ?’ યદા પૃથિવીકાયિકા દેવેભ્ય ઉપપદ્યન્તે
તદા કિં ભવનવાસિવાનવ્યન્તર જ્યોતિષ્ક વૈમાનિકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે ? મગવાન્ આહ—
‘ગોયમા !’ હે ગૌતમ ! ‘ભવણવાસિદેવેહિતો ઉત્તવજ્જંતિ જાવ વેમાણિયદેવેહિતો
વિ ઉત્તવજ્જંતિ’ પૃથિવીકાયિકા ભવનવાસિદેવેભ્યોપિ ઉપપદ્યન્તે, યાવત્ વાનવ્ય-
ન્તર જ્યોતિષ્ક વૈમાનિક દેવેભ્યોઽપિ ઉપપદ્યન્તે? ગૌતમઃ પૃચ્છતિ, ‘જહ્ ભવણવાસિ
દેવેહિતો ઉત્તવજ્જંતિ’ યદા પૃથિવીકાયિકાઃ ભવનવાસિદેવેભ્ય ઉપપદ્યન્તે તદા
‘કિં અસુરકુમારદેવેહિતો જાવ યણિયકુમારેહિતો ઉત્તવજ્જંતિ ?’ કિમ્ અસુરકુમાર

પ્રકાર અકર્મભૂમિજ ગર્ભજ મનુષ્યો સે પૃથ્વીકાયિક ઉત્પન્ન નહીં
હોતે કિન્તુ કર્મભૂમિજ ગર્ભજ મનુષ્યો સે પૃથ્વીકાયિક ઉત્પન્ન હોતે હૈં,
ઇત્યાદિ સમજ્જલેના ચાહિણ. વિશેષવાત યહ હૈં કિ અપર્યાપ્તકો
ગર્ભજ મનુષ્યો સે ખી ઉત્પન્ન હોતે હૈં ।

શ્રીગૌતમ—હે મગવન્ ! યદિ દેવો સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં, તો કયા ભવ-
નવાસી, વાનવ્યન્તર જ્યોતિષ્ક અથવા વૈમાનિકો સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં ?

મગવાન્—ગૌતમ ! ભવનવાસીદેવો સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં, યાવત્
વૈમાનિકદેવો સે ખી ઉત્પન્ન હોતે હૈં । અર્થાત્ સખી પૂર્વોક્તદેવો સે
પૃથ્વીકાયિક ઉત્પન્ન હોતે હૈં ।

ગૌતમ—મગવન્ ! યદિ પૃથ્વીકાયિક ભવનવાસી દેવો સે ઉત્પન્ન
હોતે હૈં તો કયા અસુરકુમારદેવો સે યાવત્ નાગકુમાર, સુવર્ણકુમાર,

એ પ્રકારે અકર્મ ભૂમિજ ગર્ભજ મનુષ્યોથી પૃથ્વીકાયિક ઉત્પન્ન થતા નથી
પર તુ કર્મભૂમિજ ગર્ભજ મનુષ્યોથી પૃથ્વીકાયિક ઉત્પન્ન થાય છે. વિશેષ સમજુ હેવુ
જેઠ્યે. વિશેષ વાત એ છે કે અપર્યાપ્ત ગર્ભજ મનુષ્યોથી પણ ઉત્પન્ન થાય છે.

શ્રી ગૌતમસ્વામી —હે મગવન્ ! યદિ દેવોથી ઉત્પન્ન થાય છે તો યું
ભવનવાસી, વાનવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક અથવા વૈમાનિકોથી ઉત્પન્ન થાય છે ?

શ્રી મગવાન્ :—હે ગૌતમ ! ભવનવાસી દેવોથી પણ ઉત્પન્ન થાય છે
(યાવત્) વૈમાનિક દેવોથી પણ ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ યદા પૂર્વોક્ત દેવોથી
પૃથ્વીકાયિક ઉત્પન્ન થાય છે

देवेभ्यो यावत्—नागकुमार, मुवर्णकुमार, अग्निकुमार, विद्युत्कुमार—उदधिकुमार, द्वीपकुमार—दिक्कुमार—पवनकुमार—स्तनितकुमारदेवेभ्य उपपद्यन्ते, भगवान् आह—‘गोयमा’ हे गौतम ? ‘असुरकुमारदेवेर्हितो वि उववज्जंति जाव थणिय-कुमारदेवेर्हितो वि उववज्जंति’ पृथिवीकायिकाः असुरकुमारदेवेभ्योऽपि उपपद्यन्ते यावत्—नागकुमारादि देवेभ्योऽपि रतनितकुमारदेवेभ्योऽपि उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—‘जइ वाणमंतरदेवेर्हितो उववज्जंति’ यदा वानव्यन्तरदेवेभ्यः पृथिवी-कायिका उपपद्यन्ते, तदा ‘कि पिसाएर्हितो जाव गंधवेर्हितो उववज्जंति ?’ किं पिशाचेभ्यो यावत्—किं वा भूतराक्षसयक्षकिन्नरकिंपुरुषमहोरगगन्धर्वेभ्यः पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—गोयमा ? हे गौतम ? ‘पिसा-एर्हितो वि जाव गंधवेर्हितो वि उववज्जंति’ पिशाचेभ्योपि यावत् भूतराक्षस-यक्षकिन्नरकिंपुरुषमहोरगगन्धर्वेभ्योऽपि पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते । गौतमः

अग्निकुमार, विद्युत्कुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार, दिक्कुमार, पवनकुमार और स्तनितकुमारदेवों से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! असुरकुमार देवों से भी उत्पन्न होते हैं, यावत् स्तनितकुमार देवों से अर्थात् नागकुमार आदि सभी से उत्पन्न होते हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! यदि वानव्यन्तर देवों से पृथिवीकायिक उत्पन्न होते हैं तो क्या पिशाचों से यावत्—क्या भूतों, राक्षसों, यक्षों, किन्नरों, किंपुरुषों, महोरगों और गधर्वों से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान् हे गौतम ! पृथ्वी कायिक, पिशाचों से भी उत्पन्न होते हैं यावत् गन्धर्वों से भी उत्पन्न होते हैं ।

श्री गौतमस्वामी —हे भगवन् यदि पृथ्वीकायिक भवनवासी देवोथी उत्पन्न थाय तो शु असुरकुमार देवोथी यावत् नागकुमार, सुवर्णकुमार, अग्निकुमार, विद्युत्कुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार, दिक्कुमार, पवनकुमार अग्नर स्तनितकुमार देवोथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान् —हे गौतम ! असुरकुमार देवोथी पणु उत्पन्न थाय छे (यावत्) स्तनितकुमार देवोथी अर्थात् नागकुमार आदि अधोथी उत्पन्न थाय छे.

श्री गौतमस्वामी:—हे भगवन् ! यदि वानव्यन्तर देवोथी पृथ्वीकायिक उत्पन्न थाय छे तो शु पिशाचोथी यावत्—शु भूतो, राक्षसो, यक्षो, किन्नरो किंपुरुषो, महोरगो अने गधर्वोथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान् —हे गौतम ! पृथ्वीकायिक पिशाचोथी पणु उत्पन्न थाय छे यावत् गधर्वोथी पणु उत्पन्न थाय छे.

पृच्छति—‘जइ जोइसियदेवेहिंतो उववज्जंति’ यदा पृथिवीकायिकाः ज्योतिष्क-
देवेभ्य उपपद्यन्ते यदा ‘किं चंद्रविमाणेहिंतो उववज्जंति जाव ताराविमाणेहिंतो
उववज्जंति ? किं चन्द्रविमानेभ्यः पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते ? किं वा यावत्-
सूर्यग्रहनक्षत्रताराविमानेभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा ! हे गौतम !
‘चंद्रविमाणजोइसियदेवेहिंतो वि जाव ताराविमाणजोइसियदेवेहिंतो वि उवव
ज्जंति’ पृथिवीकायिकाः चंद्रविमानज्योतिष्कदेवेभ्योऽपि यावत्-सूर्यग्रहनक्षत्रतारा-
विमानज्योतिष्कदेवेभ्योऽपि उपपद्यन्ते; गौतमः पृच्छति—‘जइ वेमाणियदेवे-
हिंतो उववज्जंति’ यदा पृथिवीकायिका वैमानिकदेवेभ्य उपपद्यन्ते तदा ‘किं
कल्पोपपन्नकवैमानिकदेवेभ्य उपपद्य-
न्ते? किं वा कल्पातीतवेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति?’ कल्पातीतवैमानिकदेवेभ्य
उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा ? हे गौतम ! ‘कल्पोपपन्नकवैमानिकदेवेहिंतो
उववज्जंति’ पृथिवीकायिकाः कल्पोपपन्नकवैमानिकदेवेभ्य उपपद्यन्ते ‘नो कल्पाती-

गौतम—हे भगवन् ! यदि ज्योतिष्क देवों से पृथ्वीकायिक उत्पन्न
होते हैं तो क्या चन्द्रविमानों से उत्पन्न होते हैं यावत्-सूर्य, ग्रह,
नक्षत्र तथा ताराविमानों से उत्पन्न होते हैं ? भगवान्-गौतम ! पृथ्वी
कायिक चन्द्रविमान के ज्योतिष्क देवों से भी उत्पन्न होते हैं यावत्
तारा विमानों के ज्योतिष्क देवों से भी उत्पन्न होते हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! पृथ्वीकायिक यदि वैमानिक देवों से उत्पन्न
होते हैं तो क्या कल्पोपग अर्थात् कल्पोपपन्न वैमानिक देवों से उत्पन्न
होते हैं अथवा कल्पातीत वैमानिक देवों के उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! कल्पोपपन्न वैमानिक देवों से पृथ्वीकायिक
उत्पन्न होते हैं, कल्पातीत वैमानिक देवों से नहीं उत्पन्न होते अर्थात्

श्री गौतमस्वामी —हे भगवन् यदि ज्योतिष्क देवोथी पृथ्वीकायिक
उत्पन्न थाय छे तो शु चन्द्रविमानोथी उत्पन्न थाय छे यावत् सूर्य, ग्रह,
नक्षत्र तथा तारा विमानोथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान् —हे गौतम ! पृथ्वीकायिक चन्द्र विमानना ज्योतिष्क देवोथी
पण उत्पन्न थाय छे यावत् ताराविमानोना ज्योतिष्क देवोथी पण उत्पन्न थाय छे

श्री गौतमस्वामी —हे भगवन् ! पृथ्वीकायिक यदि वैमानिक देवोथी
उत्पन्न थाय छे तो शु कल्पोपग अर्थात् कल्पोपपन्न वैमानिक देवोथी उत्पन्न
थाय छे अथवा कल्पातीत वैमानिक देवोथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! कल्पोपपन्न वैमानिक देवोथी पृथ्वीकायिक उत्पन्न
थाय छे, कल्पातीत वैमानिक देवोथी उत्पन्न नहीं यथा अर्थात् नवग्रहैक

तवेमाणियदेवेहितो उववज्जंति' नो कल्पातीतवैमानिकदेवेभ्यः पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति 'जइ कप्पोवगवेमाणियदेवेहितो उववज्जंति' यदा पृथिवीकायिकाः कल्पोपपन्नकवैमानिकदेवेभ्य उपपद्यन्ते तदा 'किं सोहम्मैहितो जाव अच्चुएहितो उववज्जंति?' किं सौधर्मेभ्यो यावत् किं वा ईशान-सनत्कुमार-माहेन्द्रब्रह्मलीकलान्तकमहाशुक्रसहस्रार आनतप्राणत-आरणाच्युतेभ्यो वैमानिकदेवेभ्यः पृथिवीकायिकाः उपपद्यन्ते? भगवान् आह-'गोयमा!' हे गौतम! 'सोहम्मैसाणेहितो उववज्जंति' सौधर्मेशानेभ्यो वैमानिकदेवेभ्यः पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते 'नो सर्णङ्कुमार जाव अच्चुएहितो उववज्जंति' नो सनत्कुमार यावत्, माहेन्द्रब्रह्मलोकलान्तकमहाशुक्रसहस्रारानतप्राणतारणाच्युतेभ्यो वैमानिकदेवेभ्यः पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते, 'एवं आउकाइया वि' एवम् पूर्वोक्तपृथिवीकायिकरीत्या, अप्कायिका अपि भणितव्याः 'एयं तेउवाउकाइया वि' एवम् तथैव पृथिवी-

नव ग्रैवेयक और पांच अनुत्तर विमानों के देव उच्यवन करके पृथ्वीकायिकों में उत्पन्न नहीं होते ।

गौतम-हे भगवन्! यदि कल्पोपपन्न वैमानिकदेवों से पृथ्वीकायिक उत्पन्न होते हैं तो क्या सौधर्म देवलोकके वैमानिकों से उत्पन्न होते हैं? अथवा ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक लान्तक महा क्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, और अच्युत देवलोक के वैमानिकों से उत्पन्न होते हैं?

भगवान्-हे गौतम! सौधर्म और ईशान वैमानिकों से ही पृथ्वी कायिक उत्पन्न होते हैं, सनत्कुमार से लेकर आगे के अच्युत पर्यन्त वैमानिकों से उत्पन्न नहीं होते ।

इसी प्रकार अप्कायिकों वायुकायिक तथा तेजःकायिकों का उत्पाद भी कह लेना चाहिए, मगर पृथ्वीकायिको से इनकी विशेष

अने पाय अनुत्तर वैमानिकेना देव उच्यवन करीने पृथ्वीकायिकेमां उत्पन्न नथी थता.

श्री गौतमस्वामी -हे भगवन्! यदि कल्पोपपन्न वैमानिक देवोथी पृथ्वीकायिक उत्पन्न थाय छे तो शु सौधर्म देवलोकना वैमानिकेथी उत्पन्न थाय छे, अथवा ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तक, महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण् अने अच्युत देवलोकना वैमानिकेथी उत्पन्न थाय छे?

श्री भगवान् :-हे गौतम! सौधर्म अने ईशान वैमानिकेथी न पृथ्वी कायिक उत्पन्न थाय छे, सनत्कुमारथी लक्ष्मि आगणना अच्युत पर्यन्तना वैमानिकेथी उत्पन्न नथी थता

अने प्रकारे अप्कायिके, वायुकायिके, तेजःकायिकेना उत्पाद पण् कडेवा लक्ष्मि, पण् पृथ्वीकायिकेथी तेमनी विशेषता अने छे के तेजःकायिक अने

पृच्छति—‘जड जोऽग्नियदेवेऽहितो उववज्जंति’ यदा पृथिवीकायिकाः ज्योतिष्क-
देवेभ्य उपपद्यन्ते यदा ‘किं चन्द्रविमानोऽतो उववज्जंति जाव ताराविमाणोऽहितो
उववज्जंति ? किं चन्द्रविमानेभ्यः पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते ? किं वा यावत्-
सूर्यग्रहनक्षत्रताराविमानेभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा ! हे गौतम !
‘चन्द्रविमाणजोऽग्नियदेवेऽहितो वि जाव ताराविमाणजोऽग्नियदेवेऽहितो वि उवव
ज्जंति’ पृथिवीकायिका इन्द्रविमानज्योतिष्कदेवेभ्योऽपि यावत्—सूर्यग्रहनक्षत्रतारा-
विमानज्योतिष्कदेवेभ्योऽपि उपपद्यन्ते; गौतमः पृच्छति—‘जड वेमाणियदेवे-
हितो उववज्जंति’ यदा पृथिवीकायिका वैमानिकदेवेभ्य उपपद्यन्ते तदा ‘किं
कल्पोपपन्नकवैमानिकदेवेभ्य उपपद्य-
न्ते ? किं ना कल्पातीतवेमाणियदेवेऽहितो उववज्जंति ?’ कल्पातीतवैमानिकदेवेभ्य
उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा ? हे गौतम ! ‘कल्पोपपन्नकवैमानिकदेवेऽहितो
उववज्जंति’ पृथिवीकायिकाः कल्पोपपन्नकवैमानिकदेवेभ्य उपपद्यन्ते ‘नो कल्पाती-

गौतम—हे भगवन् ! यदि ज्योतिष्क देवों से पृथ्वीकायिक उत्पन्न
होते हैं तो क्या चन्द्रविमानों से उत्पन्न होते हैं यावत्—सूर्य, ग्रह,
नक्षत्र तथा ताराविमानों से उत्पन्न होते हैं ? भगवान्—गौतम ! पृथ्वी
कायिक चन्द्रविमान के ज्योतिष्क देवों से भी उत्पन्न होते हैं यावत्
तारा विमानों के ज्योतिष्क देवों से भी उत्पन्न होते हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! पृथ्वीकायिक यदि वैमानिक देवों से उत्पन्न
होते हैं तो क्या कल्पोपपन्न अर्थात् कल्पोपपन्न वैमानिक देवों से उत्पन्न
होते हैं अथवा कल्पातीत वैमानिक देवों के उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! कल्पोपपन्न वैमानिक देवों से पृथ्वीकायिक
उत्पन्न होते हैं, कल्पातीत वैमानिक देवों से नहीं उत्पन्न होते अर्थात्

श्री गौतमस्वामी —हे भगवन् यदि ज्योतिष्क देवोऽथी पृथ्वीकायिक
उत्पन्न थाय छे तो शु चन्द्रविमानोऽथी उत्पन्न थाय छे यावत् सूर्य, ग्रह,
नक्षत्र तथा तारा विमानोऽथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान् —हे गौतम ! पृथ्वीकायिक चन्द्र विमानना ज्योतिष्क देवोऽथी
पण्य उत्पन्न थाय छे यावत् ताराविमानोऽथी ज्योतिष्क देवोऽथी पण्य उत्पन्न थाय छे ।

श्री गौतमस्वामी —हे भगवन् ! पृथ्वीकायिक यदि वैमानिक देवोऽथी
उत्पन्न थाय छे तो शु कल्पोपपन्न अर्थात् कल्पोपपन्न वैमानिक देवोऽथी उत्पन्न
थाय छे अथवा कल्पातीत वैमानिक देवोऽथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! कल्पोपपन्न वैमानिक देवोऽथी पृथ्वीकायिक उत्पन्न
थाय छे, कल्पातीत वैमानिक देवोऽथी उत्पन्न नहीं थता अर्थात् नवश्रैवेयक

तवेमाणियदेवेहितो उववज्जंति' नो कल्पातीतवैमानिकदेवेभ्यः पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति 'जइ कप्पोवगवेमाणियदेवेहितो उववज्जंति' यदा पृथिवीकायिकाः कल्पोपपन्नकवैमानिकदेवेभ्य उपपद्यन्ते तदा 'किं सोहम्मोहितो जाव अच्चुएहितो उववज्जंति?' किं सौधर्मेभ्यो यावत् किं वा ईशान-सनत्कुमार-माहेन्द्रब्रह्मलीकलान्तकमहाशुक्रसहस्रार आनतप्राणत-आरणाच्युतेभ्यो वैमानिकदेवेभ्यः पृथिवीकायिकाः उपपद्यन्ते? भगवान् आह-'गोयमा!' हे गौतम! 'सोहम्मोसाणेहितो उववज्जंति' सौधर्मेशानेभ्यो वैमानिकदेवेभ्यः पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते 'नो सणकुमार जाव अच्चुएहितो उववज्जंति' नो सनत्कुमार यावत्, माहेन्द्रब्रह्मलोकलान्तकमहाशुक्रसहस्रारानतप्राणतारणाच्युतेभ्यो वैमानिकदेवेभ्यः पृथिवीकायिका उपपद्यन्ते, 'एवं आउकाइया वि' एवम् पूर्वोक्तपृथिवीकायिकरीत्या, अप्कायिका अपि भणितव्याः 'एयं तेउवाउकाइया वि' एवम् तथैव पृथिवी-

नव त्रैवेयक और पांच अनुत्तर विमानों के देव ज्यवन करके पृथ्वीकायिकों में उत्पन्न नहीं होते।

गौतम-हे भगवन्! यदि कल्पोपपन्न वैमानिकदेवों से पृथ्वीकायिक उत्पन्न होते हैं तो क्या सौधर्म देवलोकके वैमानिकों से उत्पन्न होते हैं? अथवा ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक लान्तक महा क्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, और अच्युत देवलोक के वैमानिकों से उत्पन्न होते हैं?

भगवान्-हे गौतम! सौधर्म और ईशान वैमानिकों से ही पृथ्वीकायिक उत्पन्न होते हैं, सनत्कुमार से लेकर आगे के अच्युत पर्यन्त वैमानिकों से उत्पन्न नहीं होते।

इसी प्रकार अप्कायिकों वायुकायिक तथा तेजःकायिकों का उत्पाद भी कह लेना चाहिए, मगर पृथ्वीकायिकों से इनकी विशेषता

अने पांच अनुत्तर वैमानिकेना देव ज्यवन करीने पृथ्वीकायिकेमां उत्पन्न नथी थता.

श्री गौतमस्वामी -हे भगवन्! यदि कल्पोपपन्न वैमानिक देवोथी पृथ्वीकायिक उत्पन्न थाय छे तो शु सौधर्म देवलोकना वैमानिकेथी उत्पन्न थाय छे, अथवा ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तक, महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण्य अने अच्युत देवलोकना वैमानिकेथी उत्पन्न थाय छे?

श्री भगवान् :-हे गौतम! सौधर्म अने ईशान वैमानिकेथी न पृथ्वीकायिक उत्पन्न थाय छे, सनत्कुमारथी लथ छे आगणना अच्युत पर्यन्तना वैमानिकेथी उत्पन्न नथी थता.

अने प्रकारे अप्कायिके, वायुकायिके, तेजःकायिकेना उत्पाद पणु कडेवा लथअने, पणु पृथ्वीकायिकेथी तेमनी विशेषता अने छे के तेजःकायिक अने

फायिकवदेव तेजःकायिकाः, वायुकायिका अपि वक्तव्याः, किन्तु 'नवरं देव-
ज्जेहिंतो उववज्जंति' नवरम्-पूर्वोक्तपृथिवीकायिकापेक्षया विशेषस्तु-तेजः-
कायिका वायुकायिका देववर्जेभ्यः सर्वेभ्य उपपद्यन्ते, इत्यवसेयः 'वणस्सइकाइया
जहा पुढविकाइया' वनस्पतिकायिका यथा पृथिवीकायिका भणितास्तथा भणित-
व्याः 'वेइंदियातेइंदियाचउरिंदिया एते जहा तेउवाऊदेववज्जेहिंतो भाणियव्वा'
द्वीन्द्रियास्त्रीन्द्रियाश्चतुरिन्द्रिया एते यथा तेजःकायिकवायुकायिकदेववर्जेभ्य उप-
पद्यन्ते इत्येवं भणितास्तथैव भणितव्याः वक्तव्याः-तथा च विकलेन्द्रिया अपि
देववर्जेभ्य उपपद्यन्ते इत्याशयः ।

भवनपतिपु उपपातप्ररूपणे देव नैरयिक पृथिवीकायिकादि पञ्चकरूपैकेन्द्रिय-
विकलेन्द्रिय त्रयापर्याप्तकतिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय संसूच्छिमापर्याप्तकर्भज्युत्क्रान्ति-
कमनुष्येभ्यः उत्पादस्य प्रतिषेधः, शेषेभ्यो विधानम्, पृथिवीकायिकाफ्कायिक-
वनस्पतिकायिकेषु उपपातप्ररूपणे तु सरुलनारकसनत्कुमारादिदेवभ्य-उपपातस्य

यह है कि तेजःकायिक और वायुकायिक जीव देवों को छोड़ कर
अन्य सब से उत्पन्न होते हैं । वनस्पतिकायिकों का कथन पृथ्वी
कायिकों के समान है । द्वीन्द्रिय और त्रीन्द्रिय जीव, तेजःकायिकों
और वायुकायिकों के समान देवों को छोड़ कर शेष से उत्पन्न होते
हैं । आशय यह है कि विकलेन्द्रिय जीव देवों से उत्पन्न नहीं होते ।

भवनवासियों में उपपात की प्ररूपणा करते हुए देवों, नारको,
पृथ्वीकायिक आदि पांच एकेन्द्रियों, तीन विकलेन्द्रियों, अपर्याप्तक
तिर्यच पंचेन्द्रियों, संसूच्छिम एवं अपर्याप्तक गर्भज मनुष्यों से
उत्पाद का निषेध किया गया है । शेष जीवों से उत्पन्न होने का
विधान किया गया है । पृथिवीकायिक, अफ्कायिक और वनस्पति-
कायिकों में उपपात की प्ररूपणा करते हुए सकलनारक, एवं सन-
त्कुमार आदि देवों से उत्पात होने का निषेध किया गया है । तेजः-

वायुकायिक एव देवो सिवाय भीष्म अधाथी उत्पन्न थाय छे वनस्पतिकायिकेतु
कथन पृथ्वीकायिकेना समान छे द्वीन्द्रिय अने त्रीन्द्रिय एव, तेजःकायिके
अने वायुकायिकेना समान देवो सिवाय भाडीना अधा थी उत्पन्न थाय छे
आशय अे छे के विकलेन्द्रिय एव देवोथी उत्पन्न नथी थता

भवनवासियोंमें उपपातनी प्ररूपणा करता देवो नारके पृथ्वीकायिक
आदि पांच एकेन्द्रियो त्रय विकलेन्द्रियो अपर्याप्तक, तिर्यच पंचेन्द्रियो, संसू-
च्छिम, तेमज अपर्याप्तक गर्भज मनुष्येथी उत्पादने निषेध करायेदेो छे
पृथ्वीकायिक, अफ्कायिक, अने वनस्पतिकायिकेमां उपपातनी प्ररूपणा करता
सकल नारक तेमज सनत्कुमार आदि देवोमा उत्पाद होवामो निषेधकथो छे.

प्रतिषेधः, तेजःकायिका वायुकायिकद्वित्रिचतुन्द्रियेषु उपपातप्ररूपणे च सकल-
नैरयिकेभ्यः सकलदेवेभ्यश्चोत्पादस्य प्रतिषेधो बोध्यः इति भावः ॥सू० १०॥

पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाद्युपपातवक्तव्यता-

मूलम्-पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! कओहिंतो उव-
वज्जंति ? किं नेरइएहिंतो उववज्जंति ? जाव किं देवेहिंतो
उववज्जंति ? गोयमा ! नेरइएहिंतो वि, तिरिक्खजोणिएहिंतो
वि, मणुस्सेहिंतो वि, देवेहिंतो वि उववज्जंति, जइ नेरइएहिंतो
उववज्जंति, किं रयणप्पभापुढवीनेरइएहिंतो जाव अहे सत्तमा-
पुढविनेरइएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! रयणप्पभापुढविनेरइ-
एहिंतो वि उववज्जंति, जाव अहे सत्तमापुढविनेरइएहिंतो वि उव-
वज्जंति, जइ तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं एगिंदिए-
हिंतो उववज्जंति, जाव पंचिंदिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा !
एगिंदिएहिंतो वि उववज्जंति, जाव पंचिंदिएहिंतो वि उवव-
ज्जंति, जइ एगिंदिएहिंतो उववज्जंति किं पुढविकाइएहिंतो
उववज्जंति एवं जहा पुढविकाइयाणं उववाओ भणिओ तहेव
एएसिं पि भाणियठ्ठो, नवरं देवेहिंतो जाव सहस्सारकप्पो-
वगवेमाणियदेवेहिंतो वि उववज्जंति, नो आणयकप्पोवगवे-
माणियदेवेहिंतो जाव अच्चुएहिंतो वि उववज्जंति, मणुस्साणं
भंते ! कओहिंतो उववज्जंति, किं नेरइएहिंतो उववज्जंति, जाव
देवेहिंतो उववज्जंति, गोयमा ! नेरइएहिंतो वि उववज्जंति,
जाव देवेहिंतो वि उववज्जंति, जइ नेरएएहिंतो उववज्जंति

कायिक, वायुकायिक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रियों में उत्पात
की प्ररूपणा करते हुए समस्त नारकों और समस्त देवों से उत्पाद
होने का निषेध किया गया है ॥ सू० १० ॥

तेजः कायिक, वायुकायिक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय अने चतुरिन्द्रियमा उत्पादनी
प्ररूपणा करतां समस्त नारको अने समस्त देवोथी उत्पादनी धवानो निषेध
करायेदो छे ॥ १० ॥

किं रयणप्पभापुढवि नेरइएहितो उववज्जंति, किं सक्करप्पभा-
पुढवि नेरइएहितो उववज्जंति, किं वालुयप्पभापुढविनेरइहितो
पंकप्पभापुढविनेरइहितो धूमप्पभापुढविनेरइएहितो तमप्प-
भापुढवि नेरइएहितो अहे सत्तमापुढविनेरइएहितो उवव-
ज्जंति, ? गोयमा ! रयणप्पभापुढवि नेरइएहितो वि, जाव
तमापुढविनेरइएहितो वि उववज्जंति, नो अहे सत्तमापुढवि-
नेरइएहितो उववज्जंति, जइ तिरिक्खजोणिएहितो उवव-
ज्जंति किं एगिंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति, एवं
जेहितो पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं उववाओ भणिओ तेहितो
मणुस्साण वि निरवसेसो भाणियव्वो, नवरं अहे सत्तमापुढवि
नेरइएहितो तेउवाउकाइएहितो ण उववज्जंति, सट्ठवेहेहितो
य उववाओ कायव्वो जाव कप्पातीतत्रेमाणिय सव्वट्ठसिद्धदेवे-
हितो वि उववज्जावेयव्वा, वाणमंतरदेवाणं भंते ! कओहितो
उववज्जंति ? किं नेरइएहितो तिरिक्खजोणिएहितो, मणुस्से-
हितो देवेहितो उववज्जंति ? गोयमा ! जेहितो असुरकुमारा
तेहितो भाणियव्वा, जोइसियाणं भंते ! देवाणं कओहितो
उववज्जंति ? गोयमा ! एवं चेत्त, नवरं संमुच्छिम असंखिज्ज-
वासाउयखहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियवज्जेहितो अंतरदीव-
मणुस्सवज्जेहितो उववज्जावेयव्वा ॥सू० १२॥

छाया-पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः खलु भदन्त ? केभ्यो उपपद्यन्ते ? किं नैर-
यिकेभ्य उपपद्यन्ते ? यावत् किं देवेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! नैरयिकेभ्योऽपि,

पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्चो आदि का उपपात

शब्दार्थ—(पंचिंदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! कओहितो उवव-
ज्जंति !) भगवन् ! पञ्चेन्द्रिय तिर्यच कहां से किनसे उत्पन्न होते हैं ?

पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्चो आदिना उपपात

शब्दार्थ—(पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! कओहितो उववज्जंति ?) हे
भगवन् ! पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्च कथाथी अने केनाथी उत्पन्न थाय छे ? (किं

तिर्यग्योनिकेभ्योऽपि मनुष्येभ्योऽपि, देवेभ्योऽपि उपपद्यन्ते, यदा नैरयिकेभ्य उपपद्यन्ते किं रत्नप्रभापृथिवी नैरयिकेभ्यो यावत् अधःसप्तमपृथिवी नैरयिकेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! रत्नाप्रभापृथिवी नैरयिकेभ्योऽपि उपपद्यन्ते यावत्-अधः-सप्तमपृथिवी नैरयिकेभ्योऽपि उपपद्यन्ते, यदा तिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? किम् एकेन्द्रियेभ्य उपपद्यन्ते ? यावत् पञ्चेन्द्रियेभ्य उत्पद्यन्ते ? गौतम ! एकेन्द्रिये-

(किं नेरइएहिं तो उववज्जंति ?) क्या नारकों से उत्पन्न होते हैं ? (जाव) यावत् (किं देवेहिं तो उववज्जंति) क्या देवों से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा !) गौतम ! (नेरइएहिं तो वि) नारकों से भी (तिरिक्खजोणिएहिं तो वि) तिर्यग्योनिकों से भी (मणुस्सेहिं तो वि) मनुष्यों से भी (देवेहिं तो वि उववज्जंति) देवों से भी उत्पन्न होते हैं । (जइ नेरइएहिं तो उववज्जंति) यदि नारकों से उत्पन्न होते हैं, (किं रयणप्पभापुढविनेरइएहिं तो) क्या रत्नप्रभा पृथ्वी के नारकों से (जाव) यावत् (अहेसत्तमा पुढवि नेरइएहिं तो उववज्जंति) अधःसप्तमी पृथ्वी के नारकों से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (रयणप्पभापुढवि नेरइएहिं तो वि उववज्जंति) रत्नप्रभा पृथ्वी के नारकों से भी उत्पन्न होते हैं (जाव) यावत् (अहेसत्तमा पुढविनेरइएहिं तो वि उववज्जंति) अधःसप्तमी पृथ्वी के नारकों से भी उत्पन्न होते हैं

(जइ तिरिक्खजोणिएहिं तो उववज्जंति) यदि तिर्यग्यो से उत्पन्न होते हैं (किं एणिदिएहिं तो उववज्जंति) क्या एकेन्द्रियों से उत्पन्न

नेरइएहिं तो उववज्जंति ?) शु नारकेथी उत्पन्न थाय छे ? (जाव) यावत् (किं देवेहिं तो उववज्जंति) शु देवेथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (नेरइएहिं तो वि) नारकेथी पणु (तिरिक्खजोणिएहिं तो वि) तिर्यग्येथी पणु (मणुस्सेहिं तो वि) मणुष्येथी पणु (देवेहिं तो वि उववज्जंति) देवेथी पणु उत्पन्न थाय छे

(जइ नेरइएहिं तो उववज्जंति) यदि नारकेथी उत्पन्न थाय छे (किं रयणप्पभापुढवि नेरइएहिं तो) शु रत्नप्रभा पृथ्वीना नारकेथी (जाव) यावत् (अहेसत्तमा पुढवि नेरइएहिं तो उववज्जंति) अधःसातमी पृथ्वीना नारकेथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (रयणप्पभापुढविनेरइएहिं तो उववज्जंति) रत्नप्रभा पृथ्वीना नारकेथी पणु उत्पन्न थाय छे (जाव) यावत् (अहेसत्तमा पुढवि नेरइएहिं तो वि उववज्जंति) अधःसप्तमी पृथ्वीना नारकेथी पणु उत्पन्न थाय छे

(जइ तिरिक्खजोणिएहिं तो उववज्जंति) यदि तिर्यग्येथी उत्पन्न थाय छे (किं एणिदिएहिं तो उववज्जंति) शु एकेन्द्रियेथी उत्पन्न थाय छे (जाव

भ्योऽपि उपपद्यन्ते, यावत् पञ्चेन्द्रियेभ्योऽपि उपपद्यन्ते, यदा एकेन्द्रियेभ्य उपपद्यन्ते, किं पृथिवीकायिकेभ्य उपपद्यन्ते ? एवं यथा पृथिवीकायिकानामुपपातो भणितस्तथैव एतेषामपि भणितव्यः, नवरं देवेभ्यो यावत् सहस्रारकल्पोपपन्नकवैमानिकदेवेभ्योऽपि उपपद्यन्ते, नो आनतकल्पोपगवैमानिकदेवेभ्यो यावत्-अच्युतेभ्यो पि उपपद्यन्ते, मतुष्याः सल्लु भदन्त ! केभ्य उपपद्यन्ते, किं नैरयि-

होते हैं (जाव पंचिदिएहिंतो उववज्ज ति) यावत् पंचेन्द्रियो से उत्पन्न होते हैं (गोयमा) हे गौतम ! (एगिदिएहिंतो वि उववज्जंति जाव पंचिदिएहिंतो वि उववज्ज ति) एकेन्द्रियो से भी उत्पन्न होते हैं यावत् पंचेन्द्रियो से भी उत्पन्न होते हैं (जइ एगिदिएहिंतो उववज्जंति) यदि एकोन्द्रियो से उत्पन्न होते हैं (किं पुढविकाइएहिंतो उववज्जंति ?) क्या पृथ्वीकायिकों से उत्पन्न होते हैं ? (एवं) इसी प्रकार (जहा) जैसा (पुढविकाइयाणं उववाओ मणिओ) पृथ्वीकायिकों का उपपात कहा है (तहेव) वैसा ही (एएसिपि भाणियव्वो) उनका भी कहना चाहिए (नवरं) विशेष (देवेहिंतो) देवों से (जाव) यावत् (सहस्रारकल्पोपगवैमाणियदेवेहिंतो वि उववज्जंति) सहस्रार कल्पोपपन्न वैमानिक देवों से भी उत्पन्न होते हैं (नो आणयकल्पोपगवैमाणियदेवेहिंतो जाव अच्युएहिंतो उववज्जंति) आनतकल्प के वैमानिक देवों से यावत् अच्युत कल्प के देवों से नहीं उत्पन्न होते

(मणुस्सा णं भंते ? कओहिंतो उववज्जंति ?) भगवन् ! मनुष्य किनसे उत्पन्न होते है ? (किं नेरइएहिंतो उववज्जंति ?) क्या नारकों

पंचि दिएहि तो उववज्ज ति) यावत् पञ्चेन्द्रियेभ्यो उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा । हे गौतम । (एगिदिएहि तो वि उववज्ज ति जाव पंचिदिएहि तो वि उववज्ज ति) एकेन्द्रियेभ्यो पणु उत्पन्न थाय छे यावत् पञ्चेन्द्रियेभ्यो पणु उत्पन्न थाय छे (जइ एगि दिएहि तो उववज्ज ति) यदि एकेन्द्रियेभ्यो उत्पन्न थाय छे (किं पुढविकाइएहि तो उववज्ज ति ?) शु पृथ्वीकायिकेभ्यो उत्पन्न थाय छे. (एव) ओ रीते (जहा) जेवा (पुढविकाइयाण उववाओ मणिओ) पृथ्वीकायिकेभ्यो उपपात कथो छे (तहेव) तेमव (एएसिपि भाणियव्वो) तेमनो उपपात पणु कथेवा जेधं ओ (नवर) विशेष (देवेहि तो) देवेभ्यो (जाव) यावत् (सहस्रारकल्पोपगवैमाणियदेवेहि तो वि उववज्ज ति) सहस्रार कल्पोपपन्न वैमानिक देवेभ्यो पणु उत्पन्न थाय छे (नो आणयकल्पोपगवैमाणियदेवेहि तो जाव अच्युएहि तो वि उववज्ज ति) आनतकल्पना वैमानिक देवेभ्यो यावत् अच्युत कल्पना देवेभ्यो नथी उत्पन्न थत्ता
(मणुस्साणं भंते . कओहि तो उववज्जंति ?) हे भगवन् ! मनुष्य केनाथी

केभ्य उपपद्यन्ते ? यावत् देवेभ्य उपपद्यन्ते? गौतम ! नेरयिकेभ्योऽपि उपपद्यन्ते, यावत्-देवेभ्योऽपि उपपद्यन्ते, यदा नेरयिकेभ्य उपपद्यन्ते किं रत्नप्रभापृथिवी नैरयिकेभ्य उपपद्यन्ते, किं शर्कराप्रभापृथिवीनैरयिकेभ्य उपपद्यन्ते ? किं वालुकाप्रभापृथिवीनैरयिकेभ्यः पङ्कप्रभापृथिवीनैरयिकेभ्यः, धूमप्रभापृथिवीनैरयिकेभ्यः तमप्रभापृथिवीनैरयिकेभ्यः अधःसप्तमपृथिवीनैरयिकेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकेभ्योऽपि यावत्-तमःप्रभापृथिवीनैरयिकेभ्योऽपि उपपद्यन्ते

से उत्पन्न होते हैं ? (जाव) यावत् (देवेहितो उववज्जति ?) देवों से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (नेरइएहितो वि उववज्जति) नारकों से भी उत्पन्न होते हैं (जाव) यावत् (देवेहितो वि उववज्जति) देवों से भी उत्पन्न होते हैं (जइ नेरइएहितो उववज्जति) यदि नारकों से उत्पन्न होते हैं (किं रयणप्पभा पुढविनेरइएहितो उववज्जति) क्या रत्नप्रभा पृथिवीके नारकों से उत्पन्न होते हैं ? (किं सक्करप्पभा पुढवि नेरइएहितो उववज्जति ?) क्या शर्करा प्रभा पृथिवी के नारकों से उत्पन्न होते हैं ? (किं वालुयप्पभा पुढविनेरइएहितो) क्या वालुकाप्रभा पृथिवी के नारकों से (पङ्कप्पभापुढवीनेरइएहितो) पङ्कप्रभा पृथिवी के नारकों से (धूमप्पभापुढविनेरइएहितो) धूमप्रभा पृथिवी के नारकों से (प्पभापुढविनेरइएहितो) तमःप्रभा पृथिवी के नारकों से (अहेसत्तमापुढविनेरइएहितो) अधःसप्तमी पृथिवी के नारकों से (उववज्जति) उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (रयणप्पभापुढविनेरइएहितो वि जाव तमा पुढविनेरइएहितो वि उववज्जति

उत्पन्न थाय छे ? (नेरइएहितो उववज्जति) शु नारकेथी उत्पन्न थाय छे ? (जाव) यावत् (देवेहितो उववज्जति) देवेथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (नेरइएहितो उववज्जति) नारकेथी पणु उत्पन्न थाय छे ? (जाव) यावत् (देवेहितो वि उववज्जति) देवेथी पणु उत्पन्न थाय छे. (जइ नेरइएहितो उववज्जति) यदि नारकेथी उत्पन्न थाय छे, (किं रयणप्पभा पुढवि नेरइएहितो उववज्जति ?) शु रत्नप्रभापृथिवीना नारकेथी उत्पन्न थाय (किं सक्करप्पभा पुढविनेरइएहितो उववज्जति ?) शु शर्कराप्रभा पृथिवीना नारकेथी उत्पन्न थाय छे (किं वालुयप्पभापुढवि नेरइएहितो ?) शु वालुकाप्रभापृथिवीना नारकेथी (पङ्कप्पभा पुढवि नेरइएहितो) पङ्कप्रभा पृथिवीना नारकेथी (धूमप्पभा पुढवि नेरइएहितो) धूमप्रभा पृथिवीना नारकेथी (तमप्पभा पुढविनेरइएहितो) तम प्रभा पृथिवीना नारकेथी (अहे सत्तमा पुढवि नेरइएहितो) अध सातमी पृथिवीना नारकेथी (उववज्जति) उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (रयणप्पभा

नो अथःसप्तमपृथिवीनैरयिकेभ्य उपपद्यन्ते, यदा तिर्यग्योनिकेभ्यः उपपद्यन्ते ! किम् एकेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः उपपद्यन्ते, एवं येभ्यः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानाम् उपपातो भणितस्तेभ्यो मनुष्याणामपि निरवशेषो भणितव्यः, नवरम् अथःसप्तमपृथिवीनैरयिकेभ्यः तेजोवायुकायिकेभ्यो न उपपद्यन्ते, सर्वदेवेभ्यश्चोपपातः कर्तव्यो यावत् कल्पातीतगवैमानिकसर्वार्थसिद्धदेवेभ्यो पि उपपातयितव्याः, वानव्यन्तरदेवाः खलु भदन्त ? केभ्य उपपद्यन्ते ? किं नैरयिकेभ्यस्तिर्यगतोनिकेभ्यो

रत्नप्रभा पृथ्वी के नारकों से भी यावत् तमा पृथ्वी के नारकों से भी उत्पन्न होते हैं

(जइ तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) यदि तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं (किं एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?) क्या एकेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं ? (एवं) इस प्रकार (जेहिंतो) जिनसे (पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं उववाओं भणिओ) पंचेन्द्रिय तिर्यचो का उपपात कहा है (तेहिंतो) उनसे (मणुस्साणवि) मनुष्यों का भी निरवसेसो) पूरा (भाणियव्वो) कहना चाहिए (नवरं) विशेष (अहेसत्तमा पुढविनेरइएहिंतो) अथः सप्तमी पृथिवी के नारको से (तेजः कायिको और वायुकायिको से (ण उववज्जंति) नहीं उत्पन्न होते (सव्वदेवेहिंतो य उववाओ कायव्वो) सब देवो से उपपात कहना चाहिए (जाव यावत् (कप्पातीत वेमाणियसव्वट्टसिद्धदेवेहिंतो वि उववज्जावेयव्वा) कल्पातीत वैमानिको तथा सर्वार्थसिद्ध देवो से भी उपपात कहना चाहिए

पुढवि नेरइएहिंतो वि जाव तमा पुढविनेरइहिंतो वि उववज्जंति) रत्नप्रभा पृथ्वीना नारकेथी पणु यावत् तमा पृथ्वीना नारकेथी पणु उत्पन्न थाय छे,

(जइ तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) यदि तिर्यचो से उत्पन्न थाय छे (किं एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?) शु अकेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न थाय छे ? (एवं) अथ प्रकारे (जेहिंतो) जिनसे (पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं उववाओ भणिओ) पंचेन्द्रिय तिर्यचोना उपपात कहा छे (तेहिंतो) तेजोवायुकायिकेभ्यो (मणुस्साण वि) मनुष्येणो उपपात पणु (निरवसेसो) पूरु (भाणियव्वो) कहेवे। नारकेथी (नवरं) विशेष (अहे सत्तमा पुढवि नेरइएहिंतो) नीचेनी सातमी पृथ्वीना नारकेथी (तेजोवायुकायिकेहिंतो) तेज कायिके अने वायुकायिकेथी (ण उववज्जंति) उत्पन्न नहीं थाय (सव्वदेवेहतो य उववाओ कायव्वो) सर्व देवोथी उपपात कहेवे। नारकेथी (जाव) यावत् (कप्पातीत वेमाणिय सव्वट्टसिद्धदेवेहिंतो वि उववज्जावेयव्वा) कल्पातीत, वैमानिक, तथा सर्वार्थसिद्ध देवोथी पणु उपपात कहेवे। नारकेथी

मनुष्येभ्यो देवेभ्य उपपद्यन्ते ? येभ्योऽसुरकुमारास्तेभ्यो भणितव्याः, ज्योतिष्काः खलु भदन्त ! देवाः केभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! एवञ्चैव, नवरम् संमूर्च्छिमसंख्येयवर्षायुष्कखेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकवर्जेभ्योऽन्तरद्वीपमनुष्यवर्जेभ्यः उपपातयितव्याः ॥ सू० ११ ॥

टीका—अथ पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकादीनामुपपातवक्तव्यता प्ररूपयितुमाह—‘पंचि

(वाणमंतरदेवा णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ?) भगवन् ! वानव्यन्तर देव किनसे उत्पन्न होते हैं ? (किं नेरइएहिंतो) क्या नार को से ? (तिरिक्खजोगिणएहिंतो) तिर्यचो से (मणुस्सेहिंतो) मनुष्यों से ? (देवहिंतो) देवों से ? (उववज्जंति) उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जेहिंतो असुरकुमारा तेहिंतो भणियव्वा) जिनसे असुरमार उत्पन्न होते हैं उनसे वानव्यन्तरो का उपपात कहना चाहिए

(जोइसिया णं भंते ! देवा कओहिंतो उववज्जंति ?) हे भगवन् ! ज्योतिष्क देव किनसे उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (एवं चैव) (इसी प्रकार (नवरं) विशेष संमुच्छिम असंखिज्जवासाउयखहयर पंचिदियरिक्खजोगियवज्जेहिंतो) संमूर्च्छिम असंख्यात वर्ष की आयु वाले खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यचो को छोड़ कर (अंतरदीवमणुस्सवज्जेहिंतो) अन्तरद्वीपों के मनुष्यों को छोड़ कर (उववज्जावेयव्वा) उत्पन्न होना कहना चाहिए

टीकार्थ—अब पंचेन्द्रिय तिर्यचो आदि के उपपात की वक्तव्यता

(वाणमंतर देवाणं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ?) हे भगवन् ! वानव्यन्तर देव केनाथी उत्पन्न थाय छे ? (किं नेरइएहिंतो) शु नारकेथी (तिरिक्खजोगिणएहिंतो) तिर्यचोथी (मणुस्सेहिंतो) मनुष्योथी (देवेहिंतो) देवोथी (उववज्जंति) उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जेहिंतो असुरकुमारा तेहिंतो भणियव्वा) जेभनाथी असुरकुमार उत्पन्न थाय छे, तेभनाथी वानव्यन्तरोने उपात छडेवे न्नेधये

(जोइसियाणं भंते देवा कओहिंतो उववज्जंति ?) हे भगवन् ! ज्योतिष्क देव केनाथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (एवं चैव) ये प्रकारे (नवरं) विशेष (संमुच्छिम असंखिज्जवासाउयखहयरपंचिदियतिरिक्खजोगियवज्जेहिंतो) संमूर्च्छिम असंख्यात वर्षानी आयुवाणा खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यचोना सिवाय (अंतरदीव मणुस्सवज्जेहिंतो) अन्तर द्वीपाना मनुष्योने त्यज्जने (उववज्जावेयव्वा) उपपात छडेवे न्नेधये

टीकार्थ—हेवे पंचेन्द्रिय तिर्यचो विगरेनः उपपातनी वक्तव्यतानी प्रश्न

दियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ?' हे भदन्त ? पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः खलु केभ्य उपपद्यन्ते ? 'किं नेरइएहिंतो उववज्जंति' किम् नैरयिकेभ्यः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका उपपद्यन्ते ? 'जाव किं देवेहिंतो उववज्जंति ?' यावत् किम् तिर्यग्योनिकेभ्यः ? किं वा मनुष्येभ्यः ? किं वा देवेभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—गीयमा ? हे गौतम ! 'नेरइएहिंतो वि, तिरिक्खजोणिएहिंतो वि, उववज्जंति' नैरयिकेभ्योऽपि तिर्यग्योनिकेभ्योऽपि मनुष्येभ्योऽपि, देवेभ्योपि पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति 'जइ नेरइहिंतो उववज्जंति, यदा नैरयिकेभ्यः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका उपपद्यन्ते तदा ' किं रयणप्पमापुढविनेरइएहिंतो जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो उववज्जंति ? 'किं रत्नप्रभापृथिवी नैरयिकेभ्यो यावत् किं वा शर्कराप्रभापृथिवी नैरयिकेभ्यः किं वा वालुकाप्रभापृथिवी नैरयिकेभ्यः किं वा पङ्कप्रभापृथिवी नैरयिकेभ्यः ? किं वा धूमप्रभापृथिवी नैरयिकेभ्यः किं वा तमाप्रभापृथिवी नैरयिकेभ्यः ? किं वा अधःसप्तमपृथिवी नैरयि-

की प्ररूपणा की जाती है—

गौतम प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! पंचेन्द्रिय तिर्यच किनसे उत्पन्न होते हैं ? क्या नारको से पंचेन्द्रियो की उत्पत्ति होती है ? यावत् देवो से उत्पत्ति होती है ? अर्थात् पंचेन्द्रिय जीव क्या नारको से तिर्यचो से मनुष्यो से अथवा देवो से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! नारको से भी तिर्यचो से भी मनुष्यो से भी और देवो से भी पंचेन्द्रिय तिर्यचो की उत्पत्ति होती है ।

गौतम—हे भगवन् ! यदि पंचेन्द्रिय तिर्यच नारकों से उत्पन्न होते हैं तो क्या रत्नप्रभा पृथिवी के नारकों से उत्पन्न होते हैं, या शर्करा प्रभा पृथिवी के नारकों से, वालुकाप्रभा पृथिवी के नारकों से, पङ्कप्रभा पृथिवी के नारकों से, धूमप्रभा पृथिवी के नारकों से, तमाप्रभा पृथिवी के

पणु कराय छे

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! पञ्चेन्द्रिय तिर्यच कोनाथी उत्पन्न थाय छे ? शुं नारकोथी पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोनी उत्पन्न थाय छे ? यावत् देवोथी उत्पन्न थाय छे ? अर्थात् पञ्चेन्द्रिय एव शुं नारकोथी, तिर्यचोथी, मनुष्योथी अथवा देवोथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! नारकोथी पणु, तिर्यचोथी, पणु मनुष्योथी पणु अने देवोथी पणु पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोनी उत्पत्ति थाय छे

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! यदि पञ्चेन्द्रिय तिर्यच, नारकोथी उत्पन्न थाय छे तो शुं रत्नप्रभा पृथिवीना नारकोथी उत्पन्न थाय छे, या शर्कराप्रभा पृथिवीना नारकोथी, वालुकाप्रभा पृथिवीना नारकोथी, पङ्कप्रभा पृथिवीना नारकोथी,

केभ्य उपपद्यन्ते, भगवान् आह—‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘रयणप्पभापुढविनेरइए-
 हितो वि उववज्जति’ पञ्चेन्द्रियतिर्यग्ग्योनिकाः रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकेभ्योऽपि
 उपपद्यन्ते ‘जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहितो वि उववज्जति’ शर्कराप्रभावालुका
 प्रभापङ्कप्रभा—धूमप्रभा—तमःप्रभा अघःसप्तमपृथिवीनैरयिकेभ्योऽपि उपपद्यन्ते,
 गौतमः पृच्छति, ‘जइ तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति’ यदा पञ्चेन्द्रियतिर्यग्ग्यो-
 निकास्तिर्यग्ग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते तदा ‘किं एगिदिएहितो उववज्जति’ जाव पंचि-
 दिएहितो उववज्जति ?’ किम् एकेन्द्रियेभ्य उपपद्यन्ते ? यावत् किं वा द्वीन्द्रि-
 येभ्यः ? किं वा त्रीन्द्रियेभ्यः ? किं वा चतुरिन्द्रियेभ्यः ? किं वा पञ्चेन्द्रियेभ्य
 उपपद्यन्ते ! भगवान् आह—गोयमा ! हे गौतम ! ‘एगिदिएहितो वि उववज्जति’
 एकेन्द्रियेभ्योपि पञ्चेन्द्रियतिर्यग्ग्योनिका उपपद्यन्ते, ‘जाव पंचिदिएहितो वि
 उववज्जति’ यावत् द्वीन्द्रियत्रीन्द्रिय—चतुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रियेभ्योपि पञ्चेन्द्रियतिर्य-
 ग्योनिका उपपद्यन्ते। ‘जइ एगिदिएहितो उववज्जति’ यदि एकेन्द्रियेभ्य उपपद्यन्ते

नारकों से या अघःसप्तमी पृथ्वी के नारकों से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! पंचेन्द्रिय तिर्यच, रत्नप्रभापृथ्वी के नारकों
 से भी उत्पन्न होते हैं, यावत् अघःसप्तमी पृथ्वी के नारकों से भी
 उत्पन्न होते हैं।

गौतम—भगवन् ! यदि पंचेन्द्रिय तिर्यच, तिर्यचों से भी उत्पन्न
 होते हैं तो क्या एकेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं, यावत् द्वीन्द्रिय
 त्रीन्द्रिय, चौद्विन्द्रिय अथवा पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! एकेन्द्रियों से भी उत्पन्न होते हैं, यावत्
 पंचेन्द्रियों तक सभी से उत्पन्न होते हैं।

गौतम—हे भगवन् ! अगर एकेन्द्रियों से उत्पन्न होते हैं तो पृथ्वी

धूमप्रभा पृथ्वीना नारकोथी तम प्रभा पृथ्वीना नारकोथी अगर अघ सातमी
 पृथ्वीना नारकोथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! पञ्चेन्द्रिय तिर्यच, रत्नप्रभा पृथ्वीना नार-
 कोथी पणु उत्पन्न थाय छे, यावत् अघ.सातमी पृथ्वीना नारकोथी पणु
 उत्पन्न थाय छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! जे पञ्चेन्द्रिय तिर्यच, तिर्यचोथी
 उत्पन्न थाय छे तो शु अकेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे, यावत्
 द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, अथवा पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! अकेन्द्रियोथी पणु उत्पन्न थाय छे, यावत्
 पञ्चेन्द्रियो सुधी अघोथी उत्पन्न थाय छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! अगर अकेन्द्रियोथी उत्पन्न थाय छे तो

તદા 'કિં પુઢવિકાઈઈહિતો ઉવવજ્જંતિ ?' કિં પૃથિવીકાયિકેભ્ય-ઉપપદ્યન્તે ? કિં વા અપ્કાયિકેભ્યઃ તેજઃકાયિકેભ્યઃ વાયુકાયિકેભ્યઃ વનસ્પતિકાયિકેભ્યઃ ઉપપદ્યન્તે ? ઇત્યાદ્યમિપ્રાયેણાહ- 'એવં જહા પુઢવિકાઈયાણં ઉવવાથો મણિઓ તહેવ ંઈસિપિ મણિયવ્વો' એવમ્ પૂર્વોક્તરીત્યા યથા-પૃથિવીકાયિકાના-મુપપાતો મણિતસ્તથૈવ ંતેપામપિ પશ્ચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકાનામ્ ઉપપાતો મણિ-તવ્યઃ, કિન્તુ 'ખવરં દેવેહિતો જાત્ર સહસ્સારકપ્પોવગવેમાણિયદેવેહિતો વિ ઉવવજ્જંતિ' નવરમ્-પૂર્વોક્તપૃથિવીકાયિકાપેક્ષ્યા વિશેપસ્તુ દેવેભ્યો યાવત્-મવનપતિવાનવ્યન્તરજ્યોતિષ્કસૌધર્મેશાનસનત્કુમારમાહેન્દ્રબ્રહ્મલોકલાન્તકમહાશુ-ક્રસહસ્રારકલ્પોવગવૈમાનિકદેવેભ્યોપિ ઉપપદ્યન્તે 'નો આણયકપ્પોવગવેમાણિય-દેવેહિતો જાવ અચ્ચુઈઈતો વિ ઉવવજ્જંતિ' નો આનતકલ્પોવગવૈમાનિકદેવેભ્યો યાવત્ નો પ્રાણતકલ્પોવગવૈમાનિકદેવેભ્યો, નો વા આરણકલ્પોવગવૈમાનિકદેવે-ભ્યઃ પશ્ચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકા ઉપપદ્યન્તે, ગૌતમઃ પૃચ્છતિ- 'મણુસ્સાણં મંતે ?

કાયિકોં સે ઉત્પન્ન હોતે હં, યા અપ્કાયિકોં સે, તેજઃકાયિકો સે વાયુકાયિકોં સે અથવા વનસ્પતિકાયિકોં સે ઉત્પન્ન હોતે હં ?

મગવાન્-જૈસે પૃથ્વીકાયિકોં કા ઉપપાત કહા હૈ, વૈસા હી ઇન પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોં કા મી કહના ંાહિઈ, વિશેષ યહ હૈ કિ દેવોં સે જો ઉપપાત હોતા હૈ, વહ સહસ્રારકલ્પ કે દેવોં તક સે હી હોતા હૈ, અર્થાત્ મવનપતિ, વાનવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક, સૌધર્મ ઈશાન, સનત્કુમાર માહેન્દ્ર, બ્રહ્મલોક, લાન્તક, મહાશુક્ર ંરુ સહસ્રાર વૈમાનિક દેવોં સે હી પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોં કા ઉપપાત હોતા હૈ, આનત, પ્રાણત આરણ ંરુ અચ્યુત વિમાનોં કે દેવોં સે નહીં હોતા ।

ગૌતમ-હે મગવન્ ! મનુષ્ય કિન સે ઉત્પન્ન હોતે હં, ક્યા નારકોં

પૃથ્વીકાયિકોથી ઉત્પન્ન થાય છે વા અપ્કાયિકોથી, તેજઃકાયિકોથી, વાયુકાયિકોથી અથવા વનસ્પતિકાયિકોથી ઉત્પન્ન થાય છે ?

શ્રી ભગવાન્ :-જેવો પૃથ્વીકાયિકોનો ઉપપાત કહ્યો છે, તેવો જ આ પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોનો પણ ઉપપાત કહેવો જોઈએ વિશેષ એ છે કે દેવોથી જે ઉપપાત થાય છે, તે સહસ્રાર કલ્પના દેવો સુધી જ થાય છે, અર્થાત્ ભવનપતિ, વાનવ્યન્તર, જ્યોતિષ્ક, સૌધર્મ, ઇશાન, સનત્કુમાર, માહેન્દ્ર, બ્રહ્મલોક લાન્તક, મહાશુક્ર, અને સહસ્રાર વૈમાનિક દેવોથી જ પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોનો ઉપપાત થાય છે, આનત, પ્રાણત, આરણ અને અચ્યુત વિમાનોના દેવોથી ઉત્પન્ન નથી થતા.

શ્રી ગૌતમસ્વામી :-હે ભગવન્ ! માણસ કોનાથી ઉત્પન્ન થાય છે ?

कओर्हितो उववज्जंति ?' हे भदन्त ! मनुष्याः खलु केभ्य उपपद्यन्ते 'किं नेर-
इएर्हितो उववज्जंति; जाव देवेर्हितो उववज्जंति?' किं नैरयिकेभ्यो मनुष्या
उपपद्यन्ते ? यावत्—किं वा तिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? किं वा मनुष्येभ्य उप-
पद्यन्ते ? किं वा देवेभ्यो मनुष्या उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—गोयमा ! हे
गौतम ? 'नेरइएर्हितो वि उववज्जंति जाव देवेर्हितो वि उववज्जंति' नैरयिके-
भ्योऽपि मनुष्या उपपद्यन्ते, यावत्—तिर्यग्योनिकेभ्योऽपि, मनुष्येभ्योऽपि,
देवेभ्योऽपि च मनुष्या उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'उइ नेरइएर्हितो उवव-
ज्जंति' यदा नैरयिकेभ्यो मनुष्या उपपद्यन्ते तदा—'किं रयणप्पभापुढविनेरइए-
र्हितो उववज्जंति ?' किं रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकेभ्यो मनुष्या उपपद्यन्ते ? 'किं
सकरप्पभापुढविनेरइएर्हितो उववज्जंति ?' किं वा शर्कराप्रभापृथिवी नैरयिकेभ्य
उपपद्यन्ते ? 'किं वालुक्कप्पभापुढवि नेरइएर्हितो' किं वा वालुकाप्रभापृथिवी नैर-
यिकेभ्यः, किं वा 'पंकप्पभापुढविनेरइएर्हितो' पङ्कप्रभापृथिवी नैरयिकेभ्यः ? किं
वा 'धूमप्पभापुढविनेरइएर्हितो' धूमप्रभापृथिवी नैरयिकेभ्यः ? किं वा 'तमप्पभा-
पुढविनेरइएर्हितो' तमःप्रभापृथिवी नैरयिकेभ्यः ? किं वा—'अहे सत्तमापुढविनेर-

से उत्पन्न होते हैं, तिर्यच्चो से उत्पन्न होते हैं मनुष्यों से उत्पन्न होते
हैं या देवो से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! नारकों से, भी उत्पन्न होते हैं, तिर्यच्चो से
भी उत्पन्न होते हैं, मनुष्यो से भी उत्पन्न होते हैं, ओर देवों से
भी उत्पन्न होते हैं ?

गौतम—हे भगवन् ! यदि नारको से उत्पन्न होते हैं, तो क्या
रत्नप्रभा पृथिवी के नारकों से उत्पन्न होते हैं ? क्या शर्कराप्रभा पृथिवी
के नारको से उत्पन्न होते हैं ? क्या वालुकाप्रभा पृथिवी के नारको से
उत्पन्न होते हैं ? क्या पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा अथवा अघः

शु नारकोथी उत्पन्न थाय छे ? तिर्यच्चोथी उत्पन्न थाय छे ? मनुष्योथी
उत्पन्न थाय छे ? अगर् देवोथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! नारकोथी पणु उत्पन्न थाय छे, तिर्यच्चोथी
पणु उत्पन्न थाय छे, मनुष्योथी पणु उत्पन्न थाय छे, अने देवोथी पणु
उत्पन्न थाय छे.

श्री गौतमस्वामी—हे भगवन् ! ने नारकोथी उत्पन्न थाय छे तो शु'
रत्नप्रभा पृथिवीना नारकोथी उत्पन्न थाय छे ? शु' शर्कराप्रभा पृथिवीना
नारकोथी उत्पन्न थाय छे ? शु' वालुकाप्रभा पृथिवीना नारकोथी उत्पन्न थाय
छे ? शु' पङ्कप्रभा, धूमप्रभा तमःप्रभा अथवा नीचेनी सातमी पृथिवीना नार-

इएहिंतो उववज्जंति ? अधःसप्तमपृथिवीनैरथिकेभ्यो मनुष्या उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! रयणप्यभापुढविनेरइएहिंतो वि जाव तमापुढविनेरइएहिंतो वि उववज्जंति’ रत्नप्रभापृथिवीनैरथिकेभ्योपि यावत्—शर्कराप्रभावालुकाप्रभापङ्कप्रभाधूमप्रभापृथिवीनैरथिकेभ्योपि मनुष्या उपपद्यन्ते किन्तु ‘नो अहे सत्तमापुढविनेरइएहिंतो उववज्जंति’ नो अधःसप्तमपृथिवीनैरथिकेभ्यो मनुष्या उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—‘जइ तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?’ यदा तिर्यग्योनिकेभ्यो मनुष्या उपपद्यन्ते, तदा ‘किं एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?’ किम् एकेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो मनुष्या उपपद्यन्ते ? इत्यादिरीत्या—‘एवं जेहिंतो पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं उववाओ भणिओ तेहिंतो मणुस्साण वि निरवसेसो भाणियव्वो’ एवम्—पूर्वोक्त क्रमेण वेभ्यो जीवेभ्यः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानामुपपातो भणितस्तेभ्यो जीवेभ्यो मनुष्याणामपि निरवशेषः—सम्पूर्णः उपपातो भणितव्यः, किन्तु ‘नवरं अहे सत्तमा पुढविनेरइएहिंतो तेउवाउकाइएहिंतो ण उववज्जंति’ नवरम्—पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकापेक्षया विशेषस्तु अधःसप्तम-

भगवान्—हे गौतम ! रत्नप्रभा पृथ्वी के नारको से उत्पन्न होते हैं यावत् तमःप्रभा पृथ्वी के नारकों से भी उत्पन्न होते हैं, परन्तु सातवीं नरकभूमि के नारको से उद्वर्त्तन करके मनुष्य नहीं उत्पन्न होते । यदि तिर्यचो से मनुष्यों की उत्पत्ति होती है तो क्या एकेन्द्रिय तिर्यचो से होती है ? इत्यादि प्रश्न का उत्तर यह है कि जिन जिन से पंचेन्द्रियतिर्यचो का उत्पाद कहा गया है, उन उन से मनुष्यो का भी सम्पूर्ण उत्पाद कहना चाहिए । हाँ पंचेन्द्रिय तिर्यचो के उत्पाद की अपेक्षा मनुष्यो के उत्पाद में विशेषता यह है कि सातवीं नरकभूमि से तेजःकायिको से तथा वायुकायिको से मनुष्यो की उत्पत्तिसप्तमी पृथ्वी के नारको से उत्पन्न होते हैं ?

कौथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—हे गौतम ! रत्नप्रभा पृथ्वीना नारकौथी यल्लु उत्पन्न थाय छे यावत् तम प्रभापृथ्वीना नारकौथी यल्लु उत्पन्न थाय छे परन्तु सातमी नरक भूमिना नारकौथी उद्वर्त्तन करीने मनुष्य नहीं उत्पन्न थता

श्री तिर्यचौथी मनुष्यनी उत्पत्ति थाय छे तो शु अकेन्द्रिय तिर्यचौथी थाय छे ? इत्यादि प्रश्नो उत्तर था छे के जेना जेनाथी पञ्चेन्द्रिय तिर्यचौथी उत्पाद कडेल छे, ते तेथी मनुष्योना यल्लु स पूर्ण उत्पाद कडेयो लोधेअे हीक पञ्चेन्द्रिय तिर्यचौना उत्पादनी अपेक्षाअे मनुष्यना उत्पादमा विशेषता अे छे के सातमी नारक भूमिथी, तेजःकायिकौथी, तथा वायुकायिकौथी मनुष्यनी

पृथिवीनैरयिकेभ्यः, तेजःकायिकेभ्यः, वायुकायिकेभ्यश्च मनुष्या न उपपद्यन्ते इति बोध्यः, 'सर्वदेवेर्हितो य उववाओ ज्ञायव्वो' सर्वदेवेभ्यश्च-भवनपत्यादिभ्यो मनुष्याणामुपपातः कर्तव्यः-वक्तव्यः 'जाव कप्पातीतवेमाणियसव्वहुसिद्धदेवेर्हितो वि उववज्जावेयव्वा' यावत् वानव्यन्तरज्योतिष्कसौधर्मेशानादि कल्पोपगनवग्नैवेयक विजयवैजयन्तादिपञ्चकल्पातीतवैमानिद्वसर्वार्थसिद्धदेवेभ्योऽपि मनुष्या उपपातयितव्याः, गौतमः पृच्छति- 'वाणमंतरदेगणं भंते ! कओर्हितो उववज्जंति ?' हे भदन्त ! वानव्यन्तराः खलु देवाः केभ्य उपपद्यन्ते ? 'किं नेरइएर्हितो तिरिक्खजोणिएर्हितो मणुस्सेर्हितो देवेर्हितो उववज्जंति ?' किं नैरयिकेभ्यः ? किंवा तिर्यन्योनिकेभ्यः ? किंवा मनुष्येभ्यः ? किंवा देवेभ्यः उपपद्यन्ते ? भगवान् आह- 'गोयमा !' हे गौतम ! 'जेर्हितो असुरकुमारा तेर्हितो भाणियव्वा' येभ्यो जीवभवेभ्योऽसुरकुमारा भणितास्तेभ्यो वानव्यन्तरा अपि भणितव्याः, गौतमः पृच्छति- 'जोइसियाणं भंते ! देवा कओर्हितो उववज्जंति ? हे भदन्त ! ज्यो-

नहीं होती। दूसरी विशेषता यह है कि मनुष्यो का उत्पाद सभी देवो से होता है। कल्पातीत वैमानिक देवो से तथा सर्वार्थसिद्ध विमान के देवो से भी मनुष्यो की उत्पत्ति होती है।

गौतम-हे भगवन्। वानव्यन्तर देवो की उत्पत्ति किनसे होती है? क्या नारको से उत्पन्न होते हैं, तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं मनुष्यो से उत्पन्न होते हैं, अथवा देवो से उत्पन्न होते हैं?

भगवान्-हे गौतम ! जिन-जिन से असुरकुमारो की उत्पत्ति कही है, उन-उनसे वानव्यन्तरो की भी उत्पत्ति कहलेनी चाहिए गौतम-हे भगवन् ! ज्योतिष्क देव किनसे उत्पन्न होते हैं?

भगवान्-इसी प्रकार, अर्थात् ज्योतिष्क देवो के उपपात भी

उत्पत्ति थती नथी. पीछ विशेषता ये छे के मनुष्येना उत्पाद यथा देवेथी थाय छे. कल्पातीत वैमानिक देवेथी तथा सर्वार्थ सिद्ध विमानना देवेथी पण्णु मनुष्येनी उत्पत्ति थाय छे

श्री गौतमस्वामी :-हे भगवन्। वानव्यन्तर देवेनी उत्पत्ति केनाथी थाय छे? शु नारकोथी उत्पन्न थाय छे, तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे, मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे, अथवा देवेथी उत्पन्न थाय छे?

श्री भगवान् -जेना जेनाथी असुरकुमारोनी उत्पत्ति कही छे, तेमना तेमनाथी वानव्यन्तरोनी उत्पत्ति कहलेनी जेधजे

श्री गौतमस्वामी -हे भगवन्। ज्योतिष्क देवे केनाथी उत्पन्न थाय छे?

श्री भगवान् -जेने रीते अर्थात् ज्योतिष्क देवेना उपपात पण्णु असुर

तिष्काः खलु देवाः केभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम !
 ‘एव चैव’ एवञ्चैव—पूर्वोक्तासुरकुमारवदेव ज्योतिष्का अपि वक्तव्या. किन्तु
 ‘णवर संमुच्छिमअसखिज्जवासाउयखहयग्गचिदियतिरिक्खजोणियवज्जेहितो’
 नवरम् असुरकुमारापेक्षया विशेषस्तु, संमूर्च्छिमासंख्येयवर्षायुष्करखेचरपञ्चेन्द्रिय-
 तियंग्योनिकवज्जे.यः ‘अंतरदीवमणस्सवज्जेहितो उववज्जावेयव्वा’ अन्तरद्वीपज-
 मनुष्यवर्जैभ्यो ज्योतिष्का उपपातयितव्या? इत्याशयः, तथा च तियंग्योनिक-
 पञ्चेन्द्रियेषु उपपातप्ररूपणे आनतादि देवेभ्यः प्रतिषेधः, मनुष्येषु उपपातप्ररूपणे
 सप्तमपृथिवीनैरयिकेभ्यः. तेजःकायिकवायुकायिकेभ्यश्च प्रतिषेधः वानव्यन्तरेषु
 उपपातप्ररूपणे देवनैरयिकपृथिवीकायिकादिपञ्चरूपैकैन्द्रियविकलेन्द्रियत्रयापर्या-

असुरकुमारो’ के समान ही समझना चाहिए परन्तु असुरकुमारो’ की
 अपेक्षा ज्योतिष्क देवों’ के उपपात में विशेषता यह है कि ज्योतिष्क
 संमूर्च्छिम, असंख्यात वर्ष की आय वाले खेचर पंचेन्द्रिगो’ से उत्पन्न
 नहीं होते और अन्तरद्वीपज मनुष्यो’ से भी उत्पन्न नहीं होते,

इस प्रकार तियंच पचेन्द्रियो के उपपात की प्ररूपणा में आनत
 आदि देवों से उपपात होन का निषेध किया गया है, मनुष्य के उप-
 पात की प्ररूपणा करते हुए सातवीं पृथ्वी के नारको का निषेध किया
 गया है और तेजःकायिक एवं वायुकायिक जीवों से भी उपपात का
 निषेध किया है, अर्थात् सातवें नरकसे, तेजस्काय से तथा वायुकाय
 से निकला हुआ जीव मनुष्य नहीं होता। वानव्यन्तरो के उपपात की
 प्ररूपणा में बतलाया गया है कि देव, नारक, पृथ्वीकायिक आदि
 पांच एकेन्द्रिय, तीन विकलेन्द्रिय, अपर्याप्त पचेन्द्रिय तियंच तथा
 संमूर्च्छिम अपर्याप्तक गर्भज मनुष्य वानव्यन्तरो’ में उत्पन्न नहीं

कुमारिना समानेण समन्वे न्नेध्णे. परन्तु असुरकुमारिनी अपेक्षाये ज्योतिष्क
 हेवोना उपपातमां विशेषता ये छे के ज्योतिष्क देव संमूर्च्छिम, असंख्यात
 वर्षानी आधुष्यवाणा ज्येचर पचेन्द्रियोथी उत्पन्न नथी थता अने अन्तर
 द्वीपेण मनुष्येथी पण्ण उत्पन्न नथी थता

आ रीते तियंच पचेन्द्रियोना उपपातनी प्ररूपणाया आनत आदि देवोथी
 उपपात थवानो निषेध करायेवो छे, मनुष्यना उपपातनी प्ररूपणा करता सातमी
 पृथ्वीना नारकोना निषेध करेवो छे अने तेज कायिक तेमण वायुकायिक एवोथी
 पण्ण उपपातना निषेध करेव छे. अर्थात् सातमा नरकथी तेण कायथी तथा वायुका-
 यथी निकणेल एव मनुष्य नथी थता वानव्यन्तरोना उपपातनी प्ररूपणायां अता-
 वेव छे के देव, नारक, पृथ्वीकायिक आदि पांच एकेन्द्रिय त्रय विकलेन्द्रिय,
 अपर्याप्त पचेन्द्रिय तियंच तथा संमूर्च्छिम अपर्याप्तक गर्भज मनुष्य वानव्य-

सकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकसंमूर्च्छिमापर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यः प्रतिषेधः
ज्योतिष्केषु उपपातप्ररूपणे संमूर्च्छिमपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका संख्येयवर्षायुष्क-
खचरान्तरद्वीपजमनुष्येभ्यः प्रतिषेधः कृतोऽवसेयः ॥ सू० ११ ॥

वैमानिकदेवोपपातयक्तव्यता-

मूलम्--वेमाणियाणं भंते ! कओह्हिंतो उववज्जंति ? किं
नेरइएह्हिंतो, किं तिरिक्खजोणिएह्हिंतो मणुस्सेह्हिंतो देवेह्हिंतो
उववज्जंति ? गोयमा ! णो णेरइएह्हिंतो उववज्जंति, पंचिंदिय-
तिरिक्खजोणिएह्हिंतो उववज्जंति, मणुस्सेह्हिंतो उववज्जंति,
णो देवेह्हिंतो उववज्जंति, एवं सोहम्मिसाणगदेवाऽत्रि भाणि
यव्वा एवं सणंकुमारदेवा त्रि भाणियव्वा, नवरं असंखेज्जवासा-
उय अकम्मभूमगवज्जेह्हिंतो उववज्जंति, एवं जाव सहस्सार-
कप्पोवगवेमाणियदेवा भाणियव्वा, आणयदेवाणं भंते ! कओ-
ह्हिंतो उववज्जंति, किं नेरइएह्हिंतो, किं पंचिंदियतिरिक्खजोणि
एह्हिंतो, मणुस्सेह्हिंतो देवेह्हिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! णो
णेरइएह्हिंतो उववज्जंति, नो तिरिक्खजोणिएह्हिंतो उववज्जंति,
मणुस्सेह्हिंतो उववज्जंति, णो देवेह्हिंतो उववज्जंति, जइ मणु-
स्सेह्हिंतो उववज्जंति किं संमुच्छिममणुस्सेह्हिंतो गब्भवक्कंतिय-
मणुस्सेह्हिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! गब्भवक्कंतियमणुस्से
ह्हिंतो, नो संमुच्छिममणुस्सेह्हिंतो उववज्जंति, जइ गब्भवक्कं-
तियमणुस्सेह्हिंतो उववज्जंति, किं कम्मभूमिगेह्हिंतो अकम्म-

होते ! ज्योतिष्को के उपपात की प्ररूपणा में संमूर्च्छिम पंचेन्द्रिय तिर्यचो
असंख्यात वर्ष की आयु वाले खेचरो तथा अन्तरद्वीपज मनुष्यो
से उपपात का निषेध किया है ॥ सूत्र० ११ ॥

न्तराभा उत्पन्न नथी तथा ज्योतिष्केना उपपातनी अत्रपशुभा स मूर्च्छिम
पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो, असंख्यात वर्षनी आयुवाणा जेचरो तथा अन्तर द्वीपज
मनुष्येथी उपपातने निषेध करेल छे ॥ ११ ॥

भूमिगेहितो अंतरदीवगेहितो उववज्जंति ? गोयमा ! नो अक-
 म्मभूमिगेहितो, णो अंतरदीवगेहितो उववज्जंति, कम्मभूमि-
 गगभवक्कंतिय मणुस्सेहितो उववज्जंति, जइ अकम्मभूमग-
 गगभवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति किं संखेज्जवासाउए-
 हितो, असंखेज्जवासाउएहितो उववज्जंति ? गोयमा ! संखेज्ज-
 वासाउएहितो नो असंखिज्जवासाउएहितो उववज्जंति, जइ
 संखेज्जवासाउयकम्मभूमगगगभवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति
 किं पज्जत्तएहितो उववज्जंति, अपज्जत्तएहितो उववज्जंति, ?
 गोयमा ! पज्जत्तएहितो उववज्जंति नो अपज्जत्तएहितो उवव-
 ज्जंति, जइ पज्जत्तसंखेज्जवासाउय कम्मभूमगगगभवक्कंतिय-
 मणुस्सेहितो उववज्जंति किं सम्मद्दिट्ठीपज्जत्तगसंखेज्जवासाउय-
 कम्मभूमगेहितो उववज्जंति, मिच्छाद्दिट्ठीपज्जत्तगेहितो उवव-
 ज्जंति, सम्मामिच्छद्दिट्ठी पज्जत्तगेहितो उववज्जंति ? गोयमा !
 सम्मद्दिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगगभवक्कंतियमणु-
 स्सेहितो उववज्जंति, मिच्छद्दिट्ठिपज्जत्तगेहितो उववज्जंति, णो
 सम्मामिच्छद्दिट्ठिपज्जत्तएहितो उववज्जंति, जइ सम्मद्दिट्ठिपज्जत्त-
 संखेज्जवासाउयकम्मभूमगगगभवक्कंतियमणुस्सेहितो उवव-
 ज्जंति, किं संजतसम्मद्दिट्ठीहितो, असंयतसम्मद्दिट्ठीपज्जत्तए-
 हितो संजयासंजयसम्मद्दिट्ठीपज्जत्तसंखेज्जवासाउयकम्मभूमग-
 गगभवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति ? गोयमा ! तीहितो
 वि उववज्जंति, एवं जाव अच्चुगो कप्पो, एवं चेव गेविज्जग-
 देवा वि नवरं असंजतसंजतासंजता एते पडिसेहेयव्वा, एवं
 जहेव गेविज्जगदेवा तहेव अणुत्तरोदवाइया वि, णवरं इमं नाणत्तं
 संजया चेव । जइ सम्मद्दिट्ठी संजतपज्जत्तसंखेज्जवासाउयकम्म-

भूमगगबभद्वकंतिमणुस्सेहितो उववज्जंति, किं पमत्तसंजय
सम्मदिट्ठी पज्जत्तएहिंतो अपमत्तसंजयसम्मदिट्ठी पज्जत्तएहिंतो
उववज्जंति ? गोयमा ! अपमत्तसंजयसम्मदिट्ठीपज्जत्तएहिंतो उव-
वज्जंति, नो पमत्तसंजयसम्मदिट्ठी पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति, जइ
अपमत्तसंजयसम्मदिट्ठीपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति, किं इड्ढिपत्त-
संजएहिंतो अणिड्ढिपत्तसंजएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा !
दोहिंतो उववज्जंति, दारं ॥सू० १२ ॥

छाया-वैमानिकाः खलु भदन्त ! केभ्य उत्पद्यन्ते ? किं नैरयिकेभ्यः किं
तिर्यग्योनिकेभ्यः ? मनुष्येभ्यः देवेभ्यः उपपद्यन्ते ? गौतम ! नैरयिकेभ्यः उप
पद्यन्ते, पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, नो देवेभ्य
उपपद्यन्ते, एवं सौधर्भेशानकदेवा अपि भणितव्याः, एवं सनत्कुमारदेवा अपि

वैमानिक देवों का उत्पात

शब्दार्थ—(वेमाणिया णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ?) हे भगवन् !
वैमानिक देव किनसे उत्पन्न होते हैं ? (किं नेरइएहिंतो) क्या नारकों
से (तिरिक्खजोगिएहिंतो) तिर्यचों से ? (मणुस्सेहिंतो) मनुष्यों से ?
(देवेहिंतो) देवों से ? (उववज्जंति) उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम !
(णो णेरइएहिंतो उववज्जंति) नारकों से उत्पन्न नहीं होते (पंचिंदिय-
तिरिक्खजोगिएहिंतो उववज्जंति) पंचेन्द्रिय तिर्यचों से उत्पन्न होते
हैं (मणुस्सेहिंतो उववज्जंति) मनुष्यों से उत्पन्न होछे हैं (णो देवेहिंतो
उववज्जंति) देवों से नहीं उत्पन्न होते

(एवं) इसी प्रकार) सोहम्मीसाणगदेवा वि भाणियन्वा) सौधर्भ

वैमानिक देवानो उपपात

शब्दार्थ—(वेमाणिया णं भंते ! कओहि तो उववज्जति ?) भगवन् ! वैमानिक
देव क्याथी आचीने उत्पन्न थाय छे ? (किं नेरइएहिंतो) शु नारकेथी (तिरिक्खजोगि-
एहिंतो) तिर्यथेथी (मणुस्सेहि तो) मनुष्येथी (देवेहिंतो) देवेथी (उववज्जंति)
उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (णो नेरइएहिंतो उववज्जंति ?) नारकेथी
उत्पन्न नथी थता (पंचिंदियतिरिक्खजोगिएहिंतो उववज्जंति) पंचेन्द्रिय तिर्यथेथी
उत्पन्न थाय छे (मणुस्सेहि तो उववज्ज ति) मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे. (णो
देवेहिंतो उववज्ज ति ?) देवेथी नथी उत्पन्न थता.

(एवं) अे प्रकारे (सोहम्मीसाणग देवा वि भाणियन्वा) सौधर्भं अने धशानु

भणितव्याः, नवरम्-असंख्येयवर्षायुष्काकर्मभूमिगवर्जेभ्य उपपद्यन्ते, एवं यावत्
सहस्रारकल्पोपगवैमानिकदेवा भणितव्याः, आनतदेवाः-खलु भदन्त ! केभ्य
उपपद्यन्ते, किं नैरयिकेभ्यः, किं पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः, मनुष्येभ्यः देवेभ्य
उपपद्यन्ते ? गौतम ! नो नैरयिकेभ्य उपपद्यन्ते, नो तिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते,
मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, नो देवेभ्य उपपद्यन्तं, यदा मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते किं

और ईशानकल्प के देवों का उपपात कहना चाहिए (एव सणकुमार
देवा वि भाणियव्वा) इसी प्रकार सनत्कुमार देवों का भी उपपात कहना
चाहिए (नवरं) विशेष (असंखेज्जवासाउय—अकम्मभूमगवज्जेहितो
उववज्जंति) असंख्यात वर्ष की आयु चाले एवं अकर्मभूमिजों को
छोड कर उत्पन्न होते हैं (एवं) इसी प्रकार (जाव) यावत् (सहस्सार-
कप्पोवगवेमाणिया देवा भाणियव्वा) सहस्रार कल्प में उत्पन्न वैमा-
निक देवों तक कहना चाहिए

(आणयदेवा णं भन्ते ! कओहितो उववज्जंति ?) भगवन् ! आनत-
देव किनसे उत्पन्न होते हैं ? (किं नेरइएहितो) क्या नारकों से ?
(किं पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिएहितो) क्या पंचेन्द्रिय तिर्यचों से (मणु-
स्सेहितो) मनुष्यों से (देवेहितो) देवों से (उववज्जंति) उत्पन्न होते हैं ?
(गोयमा) हे गौतम ! (णो णेरइएहितो उववज्जंति) नारकों से उत्पन्न
नहीं होते (नो तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति) तिर्यचों से उत्पन्न
नहीं होते (मणुस्सेहितो उववज्जंति) मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं (णो
देवेहिं उववज्जंति) देवों से उत्पन्न नहीं होते

कल्पना देवानो पथु उपपात कडेवे न्नेधये. (एवं सणकुमारदेवा वि भाणियव्वा) अवे
प्रकारे सनत्कुमार देवानो पथु उपपात कडेवे न्नेधये (नवरं) विशेष (असंखेज्ज-
वासाउय अकम्मभूमगवज्जेहितो उववज्जंति) असंख्यात वर्षानी आयुवाणा तेमन्
अकर्मभूमिजे शिवाय उत्पन्न थाय छे (एवं) अवे प्रकारे (जाव) यावत् (सह
स्सारकप्पोवगवेमाणिया देवा भाणियव्वा) सहस्रार कल्पमा उत्पन्न थनारा वैमानिक
देवा सुधी कडेपु न्नेधये.

(आणयदेवाणं भन्ते ! कओहितो उववज्जंति ?) हे भगवन् ! आनत देवा
केनाथी उत्पन्न थाय छे ? (किं नेरइएहितो) शु नारकेथी (किं पंचिन्द्रियतिरिक्ख-
जोणिएहितो) शु पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी (मणुस्सेहितो) मनुष्योथी (देवेहितो)
देवोथी (उववज्जंति) उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (णो नेरइएहितो
उववज्जंति) नारकेथी उत्पन्न नथी थता (नो तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति)
तिर्यचोथी उत्पन्न नथी थता (मणुस्सेहितो उववज्जंति) मनुष्योथी उत्पन्न थाय

संमूर्च्छिम मनुष्येभ्यो गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यः उपपद्यन्ते ? गौतम ! गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यो नो संमूर्च्छिममनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, यदा गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, किम् कर्मभूमिगेभ्यः, अकर्मभूमिगेभ्यः, अन्तर्द्वीपगेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! नो अकर्मभूमिगेभ्यो नो अन्तर्द्वीपगेभ्य उपपद्यन्ते, कर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, यदा कर्म भूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, किं संख्येयवर्षायुष्केभ्यः, असंख्येयवर्षायुष्केभ्यः उपप-

(जइ मणुस्सेहितो उववज्ज ति) यदि मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं (किं संमुच्छिममणुस्सेहितो) क्या संमूर्च्छिम मनुष्यों से ? (गवभवक्कतियमणुस्सेहितो उववज्ज ति ?) या गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! गवभवक्कतियमणुस्सेहितो, नो संमुच्छिममणुस्सेहितो उववज्जंति) गौतम ! गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं, संमूर्च्छिम मनुष्यों से नहीं

(जइ गवभवक्कतियमणुस्सेहितो उववज्जंति) यदि गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं (किं कम्मभूमिगेहितो अकम्मभूमिगेहितो, अंतरदीवगेहितो उववज्जंति ?) क्या कर्मभूमिजों से अकर्मभूमिजों से या अन्तरद्वीपजों से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! नो अकम्मभूमिगेहितो णो अंतरदीवगेहितो उववज्जंति) गौतम ! अकर्मभूमिजों से नहीं, अंतरद्वीपजों से भी नहीं उत्पन्न होते (कम्मभूमिगवभवक्कतियमणुस्सेहितो उववज्जंति) कर्मभूमि के गर्भजमनुष्यों से उत्पन्न होते हैं

(जइ कम्मभूमिगवभवक्कतियमणुस्सेहितो उववज्जंति) यदि कर्म-

छे (णो देवेहितो उववज्जंति) देवार्थो उत्पन्न नथी यथा.

(जइ मणुस्सेहितो उववज्जंति) यदि मनुष्यार्थो उत्पन्न थाय छे, तो शुं (संमुच्छिममणुस्सेहितो) संमूर्च्छिम मनुष्यार्थो (गवभवक्कतियमणुस्सेहितो ?) या गर्भज मनुष्यार्थो ? (गोयमा ! गवभवक्कतियमणुस्सेहितो, नो संमुच्छिममणुस्सेहितो उववज्जंति) हे गौतम ! गर्भज मनुष्यार्थो उत्पन्न थाय छे, संमूर्च्छिम मनुष्यार्थो नहीं उत्पन्न यथा.

(जइ गवभवक्कतियमणुस्सेहितो उववज्जंति) यदि गर्भज मनुष्यार्थो उत्पन्न थाय छे. (किं कम्मभूमिगेहितो, अकम्मभूमिगेहितो, अंतरदीवगेहितो उववज्ज ति ?) शुं कर्मभूमिनेथी, अकर्मभूमिनेथी के अन्तरद्वीपनेथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! नो अकम्मभूमिगेहितो, णो अंतरदीवगेहितो उववज्जंति ?) गौतम ! अकर्मभूमिनेथी नहीं, अन्तरद्वीपार्थो पणु उत्पन्न नहीं यथा (कम्मभूमिगवभवक्कतिय मणुस्सेहितो उववज्जंति) कर्मभूमिना गर्भजमनुष्यार्थो उत्पन्न थाय छे.

(जइ कम्मभूमिगवभवक्कतियमणुस्सेहितो उववज्जंति) यदि कर्मभूमिना

भणितव्याः, नवरम्-असंख्येयवर्षायुष्काकर्मभूमिगवर्जेभ्य उपपद्यन्ते, एवं यावत् सहस्रारकल्पोपगवैमानिकदेवा भणितव्याः, आनतदेवाः-खलु भदन्त ! केभ्य उपपद्यन्ते, किं नैरयिकेभ्यः, किं पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः, मनुष्येभ्यः देवेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! नो नैरयिकेभ्य उपपद्यन्ते, नो तिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते, मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, नो देवेभ्य उपपद्यन्तं, यदा मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते किं

और ईशानकल्प के देवों का उपपात कहना चाहिए (एवं सर्णकुमार देवा वि भाणियव्वा) इसी प्रकार सनत्कुमार देवों का भी उपपात कहना चाहिए (नवर) विशेष (असंखेज्जवासाउय—अकम्मभूमगवज्जेहितो उववज्जंति) असंख्यात वर्ष की आयु वाले एवं अकर्मभूमिजों को छोड़ कर उत्पन्न होते हैं (एवं) इसी प्रकार (जाव) यावत् (सहस्रारकल्पोपगवैमाणिया देवा भाणियव्वा) सहस्रार कल्प में उत्पन्न वैमानिक देवों तक कहना चाहिए

(आणयदेवा णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ?) भगवन् ! आनत-देव किनसे उत्पन्न होते हैं ? (किं नेरइएहिंतो) क्या नारकों से ? (किं पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिएहिंतो) क्या पचेन्द्रिय तिर्यचों से (मणुस्सेहिंतो) मनुष्यों से (देवेहिंतो) देवों से (उववज्जंति) उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (णो णेरइएहिंतो उववज्जंति) नारकों से उत्पन्न नहीं होते (नो तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति) तिर्यचों से उत्पन्न नहीं होते (मणुस्सेहिंतो उववज्जंति) मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं (णो देवेहिं उववज्जंति) देवों से उत्पन्न नहीं होते

कल्पना देवानो पथु उपपात कडेवे ढेधये. (एव सर्णकुमारदेवा वि भाणियव्वा) अये प्रकादे सनत्कुमार देवानो पथु उपपात कडेवे ढेधये (नवरं) विशेष (असंखेज्जवासाउय अकम्मभूमगवज्जेहितो उववज्जंति) अस्स ज्थात वर्षणी आयुवाणा तेमज्ज अकर्मभूमिजे शिवाय उत्पन्न थाय छे (एवं) अये प्रकादे (जाव) यावत् (सहस्रारकल्पोपगवैमाणिया देवा भाणियव्वा) सहस्रार कल्पमा उत्पन्न थनारा वैमानिक देवा सुधी कडेवु ढेधये.

(आणयदेवाणं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ?) हे भगवन् ! आनत देवा केनाथी उत्पन्न थाय छे ? (किं नेरइएहिंतो) शु नारकेथी (किं पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिएहिंतो) शु पचेन्द्रिय तिर्यचोथी (मणुस्सेहिंतो) मनुष्योथी (देवेहिंतो) देवोथी (उववज्जंति) उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (णो नेरइएहिंतो उववज्जंति) नारकेथी उत्पन्न नथी थता (नो तिरिक्खोजोणिएहिंतो उववज्जंति) तिर्यचोथी उत्पन्न नथी थता (मणुस्सेहिंतो उववज्जंति) मनुष्योथी उत्पन्न थाय

संमूर्च्छिम मनुष्येभ्यो गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यः उपपद्यन्ते ? गौतम ! गर्भव्यु-
त्क्रान्तिकमनुष्येभ्यो नो संमूर्च्छिममनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, यदा गर्भव्युत्क्रान्तिक
मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, किम् कर्मभूमिगेभ्यः, अकर्मभूमिगेभ्यः, अन्तर्द्वीपगेभ्य
उपपद्यन्ते ? गौतम ! नो अकर्मभूमिगेभ्यो नो अन्तर्द्वीपगेभ्य उपपद्यन्ते, कर्म-
भूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, यदा कर्म भूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिक
मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, किं संख्येयवर्षायुष्केभ्यः, असंख्येयवर्षायुष्केभ्यः उपप-

(जइ मणुस्सेहितो उववज्जति) यदि मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं (कि
संमुच्छिममणुस्सेहितो) क्या संमूर्च्छिम मनुष्यों से ? (गवभवकंतिय-
मणुस्सेहितो उववज्जति ?) या गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं ?
(गोयमा ! गवभवक कतियमणुस्सेहितो, नो संमुच्छिममणुस्सेहितो
उववज्जंति) गौतम ! गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं, संमूर्च्छि
मनुष्यों से नहीं

(जइ गवभवकंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति) यदि गर्भज मनुष्यों
से उत्पन्न होते हैं (किं कम्मभूमिगेहितो अकम्मभूमिगेहितो, अंतर-
दीवगेहितो उववज्जंति ?) क्या कर्मभूमिजों से अकर्मभूमिजों से या
अन्तरद्वीपजों से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! नो अकम्मभूमिगेहितो णो
अंतरदीवगेहितो उववज्जंति) गौतम ! अकर्मभूमिजों से नहीं, अंतर
द्वीपजों से भी नहीं उत्पन्न होते (कम्मभूमिगवभवकंतियमणुस्सेहितो
उववज्जंति) कर्मभूमि के गर्भजमनुष्यों से उत्पन्न होते हैं

(जइ कम्मभूमिगवभवकंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति) यदि कर्म-

छे (णो देवेहितो उववज्जंति) देवोथा उत्पन्न नथी यथा.

(जइ मणुस्सेहितो उववज्जंति) यदि मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे, तो शुं
(संमुच्छिममणुस्सेहितो) संमूर्च्छिम मनुष्येथी (गवभवकंतियमणुस्सेहितो ?) या
गर्भज मनुष्येथी ? (गोयमा ! गवभवकतियमणुस्सेहितो, नो संमुच्छिममणुस्सेहितो
उववज्जंति) छे गौतम ! गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे, संमूर्च्छिम
मनुष्येथी नथी उत्पन्न यथा.

(जइ गवभवकंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति) यदि गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न
थाय छे. (किं कम्मभूमिगेहितो, अकम्मभूमिगेहितो, अंतरदीवगेहितो उववज्जति ?)
शुं कर्मभूमिनेथी, अकर्मभूमिनेथी छे अन्तरद्वीपनेथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !
नो अकम्मभूमिगेहितो, णो अंतरदीवगेहितो उववज्जति ?) गौतम ! अकर्म-
भूमिनेथी नछी, अन्तरद्वीपेथी पणु उत्पन्न नथी यथा (कम्मभूमिगवभव
कंतिय मणुस्सेहितो उववज्जंति) कर्मभूमिना गर्भजमनुष्येथी उत्पन्न थाय छे.

(जइ कम्मभूमिगवभवकतियमणुस्सेहितो उववज्जंति) यदि कर्मभूमिना

द्यन्ते ? गौतम ! संख्येयवर्षायुष्केभ्यो नो असंख्येयवर्षायुष्केभ्य उपपद्यन्ते, यदा संख्येयवर्षायुष्ककर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते किं पर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते, अपर्याप्तकेभ्यः उपपद्यन्ते ? गौतम ! पर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते, नो अपर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते, यदा पर्याप्तकसंख्येयवर्षायुष्ककर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते किं सम्यग्दृष्टिपर्याप्तकसंख्येयवर्षायुष्ककर्म-

भूमि के गर्भजमनुष्यों से उत्पन्न होते हैं (किं संखेज्जवासाउएहितो, असंखेज्जवासाउएहितो उववज्जंति ?) क्या संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं या असंख्यात वर्ष की आयु वालों से ? (गोयमा ! संखेज्जवासाउएहितो, नो असंखेज्जवासाउएहितो उववज्जंति) गौतम ! संख्यात वर्ष की आयु वालों से उत्पन्न होते हैं असंख्यात वर्ष की आयु वालों से नहीं

(जइ संखेज्जवासाउयकम्मभूमगगवभवककंतियमणूसेहितो उववज्जंति) यदि संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिक गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं (किं पज्जत्तेहिं उववज्जंति, अपज्जत्तेहिं उववज्जंति ?) क्या पर्याप्तों से उत्पन्न होते हैं या अपर्याप्तों से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! पज्जत्तेहितो उववज्जंति, नो अपज्जत्तेहितो उववज्जंति) गौतम ! पर्याप्तकों से उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्तकों से नहीं उत्पन्न होते (जइ पज्जत्तसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगवभवककंतियमणूसेहितो उववज्जंति) यदि पर्याप्तक संख्यातवर्षायुष्क कर्मभूमिजगर्भजमनुष्यों से उत्पन्न होते हैं (किं सम्महिट्ठीपज्जत्तगसंखेज्जवासाउय कम्मभूमि-

गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे. (किं संखेज्जवासाउएहितो, असंखेज्जवासाउएहितो उववज्जंति ?) शु स भ्यात वर्षानी आयुवाणा मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे या अस भ्यात वर्षानी आयुवाणा मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! संखेज्जवासाउएहितो, नो असंखेज्जवासाउएहितो उववज्जंति) गौतम ! स भ्यात वर्षानी आयुवाणाथी उत्पन्न थाय छे. अस भ्यात आयुवाणाथी नही.

(जइ संखेज्जवासाउयकम्मभूमगगवभवककंतियमणूसेहितो उववज्जंति) यदि स भ्यात वर्षानी आयुवाणा कर्मभूमिज गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे. (किं पज्जत्तेहिं उववज्जंति, अपज्जत्तेहिं उववज्जंति ?) शु पर्याप्तोथी उत्पन्न थाय छे या अपर्याप्तोथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! पज्जत्तेहितो उववज्जंति, नो अपज्जत्तेहितो उववज्जंति ?) गौतम ! पर्याप्तकोथी उत्पन्न थाय छे, अपर्याप्तकोथी नही उत्पन्न थता (जइ पज्जत्तसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगवभवककंतिय मणूसेहितो उववज्जंति) यदि पर्याप्तक स भ्यात वर्षायुष्क कर्मभूमिज गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे. (किं सम्महिट्ठी पज्जत्तगसंखेज्जवासाउय-

भूमिगेभ्य उपपद्यन्ते, मिथ्यादृष्टिपर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते, सम्यग्मिथ्यादृष्टि पर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! सम्यग्दृष्टिपर्याप्तकमंख्येयवर्षायुष्क कर्म-भूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, मिथ्यादृष्टिपर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते, नो राम्यग्मिथ्यादृष्टिपर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते, यदा सम्यग्दृष्टिपर्याप्तकसंख्येयवर्षायुष्ककर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, किं संयतसम्यग्दृष्टिभ्यः, असयत सम्यग्दृष्टिपर्याप्तकेभ्यः संयतासंयत सम्यग्दृष्टिपर्या-

गेहितो उववज्जति) कथा सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यातवर्षायुष्क कर्म-भूमिजों से उत्पन्न होते हैं' (मिच्छद्विद्विपज्जत्तगेहितो उववज्जति ?) या मिथ्यादृष्टि पर्याप्तकों से उत्पन्न होते हैं' ? (सम्मामिच्छद्विद्विपज्जत्तगेहितो उववज्जति ?) सम्यग्मिथ्यादृष्टि पर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं' ? (गोयमा ! सम्मद्विद्विपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगवभवक्कतियमणूसेहितो उववज्जति) गौतम ! सम्यग्दृष्टिपर्याप्तक संख्यात वर्षायुष्क कर्मभूमिजगर्मज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं' (मिच्छद्विद्विपज्जत्तगेहितो उववज्जति) मिथ्यादृष्टि पर्याप्तकों से उत्पन्न होते हैं' (नो सम्ममिच्छद्विद्विपज्जत्तगेहितो उववज्जति) सम्यग्मिथ्यादृष्टिपर्याप्तकों से नहीं उत्पन्न होते

(जइ सम्मद्विद्विपज्जत्त संखेज्जवासाउयकम्मभूमगगवभवक्कतियमणूसेहितो उववज्जति) यदि सम्यग्दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं (किं संयत सम्मद्विद्विहितो असंयतसम्मद्विद्विपज्जत्तएहितो संजयासंजय सम्मद्विद्विपज्जत्तसंखे-

कम्मभूमिगेहितो उववज्जति) शु सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यात वर्षायुष्क कर्मभूमिगेथी उत्पन्न थाय छे ? (मिच्छद्विद्विपज्जत्तगेहितो उववज्जति ?) अगार मिथ्यादृष्टि पर्याप्तकोथी उत्पन्न थाय छे ? (सम्मामिच्छद्विद्विपज्जत्तगेहितो उववज्जति ?) सम्यग्मिथ्यादृष्टि पर्याप्तकोथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! सम्मद्विद्विपज्जत्तग संखेज्जवासाउयकम्मभूमिगगवभवक्कतियमणूसेहितो उववज्जति) गौतम ! सम्यग्दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्षायुष्क कर्मभूमिगेथी उत्पन्न थाय छे ? (मिच्छद्विद्विपज्जत्तगेहितो उववज्जति) मिथ्यादृष्टि पर्याप्तकोथी उत्पन्न थाय छे (नो सम्मामिच्छद्विद्विपज्जत्तगेहितो उववज्जति ?) सम्यग्मिथ्यादृष्टि पर्याप्तकोथी नहीं उत्पन्न थता.

(जइ सम्मद्विद्विपज्जत्तसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगवभवक्कतियमणूसेहितो उववज्जति) यदि सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यात वर्षानी आयुवाणा कर्मभूमिगेथी उत्पन्न थाय छे, (किं संयतसम्मद्विद्विहितो, असंयतसम्मद्विद्वि

દ્યન્તે ? ગૌતમ ! સંખ્યેયવર્ષાયુષ્કેભ્યો નો અસંખ્યેયવર્ષાયુષ્કેભ્ય ઉપપદ્યન્તે, યદા સંખ્યેયવર્ષાયુષ્કકર્મભૂમિગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિકમનુષ્યેભ્ય ઉપપદ્યન્તે કિં પર્યાપ્તકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે, અપર્યાપ્તકેભ્યઃ ઉપપદ્યન્તે ? ગૌતમ ! પર્યાપ્તકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે, નો અપર્યાપ્તકેભ્ય ઉપપદ્યન્તે, યદા પર્યાપ્તકસંખ્યેયવર્ષાયુષ્કકર્મભૂમિગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિક મનુષ્યેભ્ય ઉપપદ્યન્તે કિં સમ્યગ્દષ્ટિપર્યાપ્તકસંખ્યેયવર્ષાયુષ્કકર્મ-

ભૂમિ કે ગર્ભજમનુષ્યોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં (કિં સંખેજ્જવાસાઉર્ણિતો, અસંખેજ્જવાસાઉર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ ?) કયા સંખ્યાત વર્ષ કી આયુ વાલે મનુષ્યોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં યા અસંખ્યાત વર્ષ કી આયુ વાલો સે ? (ગોયમા ! સંખેજ્જવાસાઉર્ણિતો, નો અસંખેજ્જવાસાઉર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ) ગૌતમ ! સંખ્યાત વર્ષ કી આયુ વાલોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં અસંખ્યાત વર્ષ કી આયુ વાલોં સે નહીં

(જહ સંખેજ્જવાસાઉચકમ્મભૂમગગઞ્ઞભવકકંતિયમણૂસેહિતો ઉવવજ્જંતિ) યદિ સંખ્યાત વર્ષ કી આયુ વાલે કર્મભૂમિક ગર્ભજ મનુષ્યોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં (કિં પજ્જત્તેહિ ઉવવજ્જંતિ, અપજ્જત્તેહિ ઉવવજ્જંતિ ? કયા પર્યાપ્તોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં યા અપર્યાપ્તોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં ? (ગોયમા ! પજ્જત્તેહિતો ઉવવજ્જંતિ, નો અપજ્જત્તેહિતો ઉવવજ્જંતિ) ગૌતમ ! પર્યાપ્તકોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં, અપર્યાપ્તકોં સે નહીં ઉત્પન્ન હોતે (જહ પજ્જત્તસંખેજ્જવાસાઉચકમ્મભૂમગગઞ્ઞભવકકંતિયમણૂસેહિતો ઉવવજ્જંતિ) યદિ પર્યાપ્તક સંખ્યાતવર્ષાયુષ્ક કર્મભૂમિગર્ભજમનુષ્યોં સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં (કિં સમ્મહિટ્ઠિપજ્જત્તગસંખેજ્જવાસાઉચ કમ્મભૂમિ-

ગર્ભજ મનુષ્યોથી ઉત્પન્ન થાય છે. (કિં સંખેજ્જવાસાઉર્ણિતો, અસંખેજ્જવાસાઉર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ ?) શુ સખ્યાત વર્ષની આયુવાળા મનુષ્યોથી ઉત્પન્ન થાય છે યા અસખ્યાત વર્ષની આયુવાળા મનુષ્યોથી ઉત્પન્ન થાય છે ? (ગોયમા ! સંખેજ્જવાસાઉર્ણિતો, નો અસંખેજ્જવાસાઉર્ણિતો ઉવવજ્જંતિ) ગૌતમ ! સખ્યાત વર્ષની આયુવાળાથી ઉત્પન્ન થાય છે. અસખ્યાત આયુવાળાથી નહીં.

(જહ સંખેજ્જવાસાઉચકમ્મભૂમગગઞ્ઞભવકકંતિયમણૂસેહિતો ઉવવજ્જંતિ) યદિ સખ્યાત વર્ષની આયુવાળા કર્મભૂમિજ ગર્ભજ મનુષ્યોથી ઉત્પન્ન થાય છે. (કિં પજ્જત્તેહિ ઉવવજ્જંતિ, અપજ્જત્તેહિ ઉવવજ્જંતિ ?) શુ પર્યાપ્તોથી ઉત્પન્ન થાય છે યા અપર્યાપ્તોથી ઉત્પન્ન થાય છે ? (ગોયમા ! પજ્જત્તેહિતો ઉવવજ્જંતિ, નો અપજ્જત્તેહિતો ઉવવજ્જંતિ ?) ગૌતમ ! પર્યાપ્તકોથી ઉત્પન્ન થાય છે, અપર્યાપ્તકોથી નથી ઉત્પન્ન થતા (જહ પજ્જત્તસંખેજ્જવાસાઉચકમ્મભૂમગગઞ્ઞભવકકંતિય મણૂસેહિતો ઉવવજ્જંતિ) યદિ પર્યાપ્તક સખ્યાત વર્ષાયુષ્ક કર્મભૂમિજ ગર્ભજ મનુષ્યોથી ઉત્પન્ન થાય છે (કિં સમ્મહિટ્ઠિ પજ્જત્તગસંખેજ્જવાસાઉચ-

संयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ? अप्रमत्तसंयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तकेभ्यः उपपद्यन्ते, नो प्रमत्तसंयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तकेभ्यः उपपद्यन्ते, अप्रमत्तसंयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते किम ऋद्धि प्राप्तसंयतेभ्यः ? अनृद्धिप्राप्तसंयतेभ्यः उपपद्यन्ते ? गौतम ! द्वाभ्याम् उपपद्यन्ते, द्वारम् ॥ सू० १२ ॥

टीका—अथ वैमानिकदेवानामुत्पादवक्तव्यतां प्ररूपयितुमाह—वैमाणिया णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ? हे भदन्त ! वैमानिकाः खलु देवाः केभ्य उपप

संजयसम्मद्विद्विपज्जत्तएहिंतो अप्पमत्तसंजय सम्मद्विद्विपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति ?) क्या प्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तको से अथवा अप्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं ?) गोयमा ! अप्पमत्तसंजयसम्मद्विद्विपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति पमत्तसंजयसम्मद्विद्विपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति) गौतम ! अप्रमत्तसंयत सम्मद्विद्विपज्जत्तएहिंतो से उत्पन्न होते हैं, प्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तको से नहीं उत्पन्न होते

(जइ अप्पमत्तसंजयसम्मद्विद्विपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति) यदि अप्रमत्तसम्यग्दृष्टि पर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं (किं इद्धिपत्तसंजएहिंतो, अणिद्धिपत्तसंजएहिंतो उववज्जंति !) क्या ऋद्धिप्राप्त संयतो से उत्पन्न होते हैं अथवा अनृद्धिप्राप्त संयतो से उत्पन्न होते हैं (गोयमा ! दोहितो उववज्जंति) गौतम ! दोनों से उत्पन्न होते हैं) द्वार समाप्त ।

टीकार्थ—अब वैमानिक देवों के उपपात की वक्तव्यता कहते हैं—गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! वैमानिक देव किनसे उत्पन्न

द्विद्विपज्जत्तएहि तो उववज्जंति ?) शु प्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि अथवा अप्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तको से उत्पन्न थाय छे ?

जयसम्मद्विद्विपज्जत्तएहि तो उववज्जंति नो पमत्तसंजयसम्मतो उववज्जंति) गौतम ! अप्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तको से

प्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तको से नहीं उत्पन्न थाय।

प्रमत्तसंजयसम्मद्विद्विपज्जत्तएहि तो उववज्जंति) यदि अप्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तको से उत्पन्न थाय छे (किं इद्धिपत्तसंजएहिंतो,

अणिद्धिपत्तसंजएहिंतो उववज्जंति ?) शु ऋद्धिप्राप्त संयतोमाथी उत्पन्न थाय छे प्राप्त अनृद्धिप्राप्त संयतोमाथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! दोहितो

गौतम ! दोनों से उत्पन्न थाय छे, द्वारपद समाप्त ॥ १२ ॥

वैमानिक देवों के उपपात की वक्तव्यता छे छे, श्री गौतम से—गौतम ! वैमानिक देवों के उपपात की वक्तव्यता छे छे ? शु

सकसंख्येयवर्षायुष्ककर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ! त्रिभ्योऽपि उपपद्यन्ते, एवं यावत् अच्युतः कल्पः, एवं चैव ग्रैवेयकदेवा अपि, नवरम्-असंयतसंयतासंयता एते प्रतिषेद्धव्याः, एव यथैव ग्रैवेयकदेवास्तथैव अनुत्तरोपपातिका अपि, नवरम्-इदम् नानात्वं संयताश्चैव, यदा-सम्यग्दृष्टि संयतपर्यासकसंख्येयवर्षायुष्ककर्म भूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते किं प्रमत्त संयमत सम्यग्दृष्टिपर्यासकेभ्यः अप्रमत्त

उजवासाउयकम्मभूमगगवभवक्कतियमणूसेहिंतो उववज्जंति ?) क्या संयत सम्मग्दृष्टियो से, असंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तो से अथवा संयतासंयतसम्यग्दृष्टि पर्याप्त संख्यातवर्षायुष्क कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (तीहिंतो वि उववज्जंति) तीनों से ही उत्पन्न होते हैं (एवं जाव अच्युगो कप्पो) इसी प्रकार अच्युत कल्प तक (एवं चेव गेविज्जगदेवा वि) इसी प्रकार ग्रैवेयक देव भी (नवरं) विशेष (असंजतसंजतासंजता एते पडिसेहेयव्वा) असंयत और संयतासंयत, इनका निषेध करना चाहिए (एवं जहेव गेविज्जगदेवा तहेव अणुत्तरोवववाइयावि) इसी प्रकार जैसे ग्रैवेयक देव वैसे ही अनुत्तरोपपातिक भी (नवरं इमं नाणत्त) विशेष भेद यह है (संजया चेव) संयत ही

(जह सम्महिद्विसंजतपज्जत्तसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगवभवक्कतियमणूसेहिंतो उववज्जंति) यदि सम्यग्दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज गर्भजमनुष्यों से उत्पन्न होते हैं (किं पमत्त-

पज्जत्तएहि तो, संजयासंजय सम्महिद्विपज्जत्तसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगवभवक्कतिय मणूसेहि तो उववज्जंति ?) शु स पत्त सक्कपग्दृष्टिओथी असंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तोथी अथवा संयता संयतसम्यग्दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्षायुष्क कर्मभूमिज गर्भज मनुष्योथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) छे गौतम ! (तीहि तोवि उववज्जंति) त्रयोथी उत्पन्न थाय छे. (एवं जाव अच्युगो कप्पो) ओथी रीते अच्युतकल्प सुधी (एवं चेव गेविज्जगदेवा वि) ओथी प्रकारे ग्रैवेयक देव पणु (नवरं) विशेष (असंयत संजतासंजता एते पडिसेहेयव्वा) असंयत अने संयतासंयत, तेभने। निषेध करवो। लेधओ (एव जहेव गेविज्जगदेवा तहेव अणुत्तरोवववाइयावि) ओ रीते लेवा ग्रैवेयक देव तेवा अनुत्तरोपपातिक पणु (नवरं इमं नाणत्त) विशेषभेद आ छे (संजया चेव) संयत

(जह सम्महिद्विसंजतपज्जत्तसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगवभवक्कतियमणूसेहिंतो उववज्जंति) यदि सम्यग्दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्षानी आयुवाणा कर्म भूमिज गर्भज मनुष्योथी उत्पन्न थाय छे. (किं पमत्तसजदसम्महिद्विपज्जत्तएहि तो,

संयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते ? गौतम ? अप्रमत्तसंयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तकेभ्यः उपपद्यन्ते, नो प्रमत्तसंयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तकेभ्यः उपपद्यन्ते, अप्रमत्तसंयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते किम् ऋद्धि प्राप्तसंयतेभ्यः ? अनृद्धिप्राप्तसंयतेभ्यः उपपद्यन्ते ? गौतम ! द्वाभ्याम् उपपद्यन्ते, द्वारम् ॥ सू० १२ ॥

टीका—अथ वैमानिकदेवानामुत्पादवक्तव्यतां प्ररूपयितुमाह—वेमाणिया णं भन्ते ! कओहिंतो उववज्जंति ? हे भदन्त ! वैमानिकाः खलु देवाः केभ्य उपप

संजयसम्मद्विट्ठिपज्जत्तएहिंतो अप्पमत्तसंजय सम्मद्विट्ठिपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति ?) क्या प्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तको से अथवा अप्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं ?) गोयमा ! अप्पमत्तसंजयसम्मद्विट्ठिपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति पमत्तसंजयसम्मद्विट्ठिपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति) गौतम ! अप्रमत्तसंयत सम्मग्दृष्टिपर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं, प्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तको से नहीं उत्पन्न होते

(जइ अप्पमत्तसंजयसम्मद्विट्ठिपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति) यदि अप्रमत्तसम्यग्दृष्टि पर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं (किं इड्ढिपत्तसंजएहिंतो, अणिड्ढिपत्तसंजएहिंतो उववज्जंति !) क्या ऋद्धिप्राप्त संयतो से उत्पन्न होते हैं अथवा अनृद्धिप्राप्त संयतो से उत्पन्न होते हैं (गोयमा ! दोहितो उववज्जंति) गौतम ! दोनों से उत्पन्न होते हैं) द्वार समाप्त ।

टीकार्थ—अब वैमानिक देवों के उपपात की वक्तव्यता कहते हैं—गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! वैमानिक देव किनसे उत्पन्न

अप्पमत्तसंजयसम्मद्विट्ठिपज्जत्तएहि तो उववज्जंति ?) शु प्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तकोथी अथवा अप्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तकोथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! अप्पमत्तसंजयसम्मद्विट्ठिपज्जत्तएहि तो उववज्जंति, नो पमत्तसंजयसम्मद्विट्ठिपज्जत्तएहि तो उववज्जंति) गौतम ! अप्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तकोथी उत्पन्न थाय छे प्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तकोथी नथी उत्पन्न थता

(जइ अप्पमत्तसंजयसम्मद्विट्ठिपज्जत्तएहि तो उववज्जंति) यदि अप्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तकोथी उत्पन्न थाय छे (किं इड्ढिपत्तसंजएहिंतो, अणिड्ढिपत्तसंजएहि तो उववज्जंति ?) शु ऋद्धिप्राप्त संयतोमाथी उत्पन्न थाय छे अथवा अनृद्धि प्राप्त संयतोमाथी उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! दोहितो उववज्जंति) गौतम ! अन्नेथी उत्पन्न थाय छे. द्वारपद समाप्त. ॥ १२ ॥

टीकार्थः—हुवे वैमानिक देवोना उपपातनी वक्तव्यता कडे छे श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे—भगवन् वैमानिक देव कोनाथी उत्पन्न थाय छे ? शु

घन्ते ? 'किं नैरइएहितो, किं तिरिक्खजोणिएहितो, मणुस्सेहितो, देवेहितो उववज्जंति ?' किं नैरयिकेभ्यो वैमानिकदेवा उपपद्यन्ते ? किं वा तिर्यग्योनिकेभ्य उपपद्यन्ते ? किं वा मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, किं वा देवेभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—गोयमा ! हे गौतम ! 'णो णेरइएहितो उववज्जंति' नो नैरयिकेभ्यो वैमानिकदेवा उपपद्यन्ते, किन्तु—'पंचिदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति' पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो वैमानिका उपपद्यन्ते, 'मणुस्सेहितो, उववज्जंति' मनुष्येभ्यो वैमानिका उपपद्यन्ते, 'णो देवेहितो उववज्जंति' नो देवेभ्यो वैमानिका उपपद्यन्ते, 'एवं सोहम्मीसाणगदेवाऽवि भाणियव्वा' एवम्—समुच्चय वैमानिक देवदेव सौधर्मज्ञानकदेवा अपि भणितव्याः—'एवं सणकुमारदेवा वि भाणियव्वा' एवम्—उपर्युक्तीत्या, सनत्कुमारदेवा अपि भणितव्याः, किन्तु 'णवरं असंखेज्जवासाउय अकम्मभूमगवज्जेहितो उववज्जंति' नवरं पूर्वापेक्षया विशेषस्तु—सनत्कुमारदेवा असंख्येयवर्षायुष्काकर्मभूमिगवर्जेभ्यः पूर्वोक्तैभ्य उपपद्यन्ते इति बोध्यः 'एवं जाव सहस्रारकप्पोवगवेमाणियदेवा भाणियव्वा' एवम्—उपर्युक्ती-
होते हैं ? क्या नारको से या तिर्यचो से ऽप्यो से अथवा देवो से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हैं गौतम ! वैमानिक देव नारको से उत्पन्न नहीं होते किन्तु पंचेन्द्रिय तिर्यचो से उत्पन्न होते हैं मनुष्यो से भी उत्पन्न होते हैं परंतु देवी से उत्पन्न नहीं होते ।

इसी प्रकार सौधर्म और ईशान देवो के विषय में भी कहना चाहिए । सनत्कुमार देवो का उपपात भी इसी प्रकार कहना चाहिए, परंतु उनके उपपात में विशेषता यह है कि सनत्कुमारदेव असंख्यातवर्षायुष्क अकर्मभूमिको को छोड़ कर पूर्वोक्त सय से उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार सहस्रारकल्प तक अर्थान् आहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तक

नारकैथी अगर तिर्यैथी अथवा मनुष्यैथी वा देवैथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री लवणन्—गौतम ! वैमानिक देव नारकैथी उत्पन्न नथी यता, पणु पञ्चेन्द्रिय तिर्यैथी उत्पन्न थाय छे मनुष्यैथी पणु उत्पन्न थाय छे, परन्तु देवैथी उत्पन्न नथी यता.

अत्र प्रकारे सौधर्म अने ईशान देवाना विषयमा पणु कडेवुं लेधये. परन्तु तेभना उपपातमा विशेषता अे छे के सनत्कुमार देव अने अम ध्यान वर्षायुष्क अकर्मभूमिकेने छोडीने पूर्वोक्त अधाथी उत्पन्न थाय छे आ प्रभाते सहस्रार कल्पयुधी अर्थात् माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तक, महा शुक्र अने महानार कल्पना देवाना उपपात कडेवा लेधये.

त्या, यावत् माहेन्द्र ब्रह्मलोक लान्तकसहस्रार कल्पोपगवैमानिकदेवा भणितव्याः, गौतमः पृच्छति—‘आणयदेवाणं भंते ! कओर्हितो उववज्जंति ?’ हे भदन्त ! आनतदेवाः खलु केभ्य उपपद्यन्ते ? ‘किं नेरइएर्हितो, किं पंचिदियतिरिक्ख-जोणिएर्हितो मणुस्सेर्हितो देवेर्हितो उववज्जंति ?’ किं नैरयिकेभ्य आनतदेवा उपपद्यन्ते ? किं वा पञ्चेन्द्रियतिर्यग्गोनिकेभ्यः ? किं वा मनुष्येभ्यः ? किं वा देवेभ्य आनतदेवा उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘णो णेरइएर्हितो उववज्जंति’ नो नैरयिकेभ्य आनतदेवा उपपद्यन्ते, ‘नो तिरिक्ख-जोणिएर्हितो उववज्जंति’ नो वा तिर्यग्गोनिकेभ्य आनतदेवा उपपद्यन्ते, किन्तु ‘मणुस्सेर्हितो उववज्जंति’ मनुष्येभ्य आनतदेवा, उपपद्यन्ते, ‘णो देवेर्हितो उववज्जंति’ नो देवेभ्य आनतदेवा उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—‘जइ मणुस्सेर्हितो उववज्जंति’ यदा मनुष्येभ्य आनतदेवा उपपद्यन्ते तदा ‘किं संमुच्छिममणुस्से-र्हितो, गम्भवकंतियमणुस्सेर्हितो उववज्जंति ? किं संमूर्च्छिममनुष्येभ्य आनत-देवा उपपद्यन्ते ? किं वा गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान्—आह—‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘गम्भवकंतियमाणुस्सेर्हितो, नो संमुच्छिम मणुस्से-

महा क्र और सवस्रार कल्प के देवो का उपपात कहना चाहिए ।

गौतम—हे भगवन् ! आनत देव किनसे उत्पन्न होते हैं ? क्या नारकों से, पंचेन्द्रिय तिर्यचो से मनुष्यों से अथवा देवों से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! आनत देव नारकों से उत्पन्न नहीं होते, तिर्यचो से भी उत्पन्न नहीं होते मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं, देवों से उपन्न नहीं होते ।

गौतम—हे भगवन् ! यदि मनुष्यों से आनत देव उत्पन्न होते हैं तो क्या संमूर्छिम मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं अथवा गर्भज मनुष्यो से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं, संमूर्छि

श्री गौतम स्वामी—भगवन् ! आनतदेव केनाथी उत्पन्न थाय छे. सुं नारकेथी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोथी, मनुष्योथी अथवा देवोथी उत्पन्न थाय छे.

श्री भगवन्—गौतम ! आनतदेव नारकेथी उत्पन्न नथी थता, तिर्यचोथी पणु उत्पन्न नथी थता, मनुष्योथी उत्पन्न थाय छे, देवोथी उत्पन्न नथी थता.

श्री गौतम स्वामीः—भगवन् यदि मनुष्योथी आनतदेव उत्पन्न थाय छे तो शु संमूर्छिम मनुष्योथी उत्पन्न थाय छे अथवा गर्भज मनुष्योथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवन्— गौतम ! गर्भज मनुष्योथी उत्पन्न थाय छे, संमूर्छिम

हितो उववज्जति' आनतदेवा गर्भव्युत्क्रान्तिरुमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, नो संमू-
 च्छिममनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'जइ गवभयवकंतिय मणुस्सेहितो
 उववज्जति' यदा-गर्भव्युत्क्रान्तिरुमनुष्येभ्य आनतदेवा उपपद्यन्ते तदा—'किं
 कम्मभूमिगेहितो अरुम्मभूमिगेहितो, अंतरदीवगेहितो उववज्जति?' किं कर्म-
 भूमिगेभ्यो गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, किं वा अकर्मभूमिगेभ्यो गर्भ-
 व्युत्क्रान्तिक मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते? किं वा अन्तरद्वीपगेभ्यो गर्भव्युत्क्रान्तिक-
 मनुष्येभ्यः आनतदेवा उपपद्यन्ते? भगवान् आह—'गोयमा!' हे गौतम! 'नो
 अरुम्मभूमिगेहितो, णो अतरदीवगेहितो उववज्जति'—नो अकर्मभूमिगेभ्य आनत
 देवा उपपद्यन्ते, नो वा अन्तरद्वीपगेभ्य उपपद्यन्ते, किन्तु 'कम्मभूमिगवभव-
 वकंतिय मणुस्सेहितो उववज्जति' कर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य आनत
 देवा उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'जइ कम्मभूमगवभवकंतिय मणुस्सेहितो
 उववज्जति' यदा—कर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येभ्य आनतदेवा उपपद्यन्ते,
 तदा 'किं संखेज्जवासाउएहितो, असखेज्जवासाउएहिता उववज्जति?' किं संख्ये-

मनुष्यो से नही उत्पन्न होते ।

गौतम—हे भगवन् ! आनत देव यदि गर्भज मनुष्यो से उत्पन्न
 होते हैं तो कर्मभूमिजो से उत्पन्न होते हैं अकर्मभूमिजो से उत्पन्न
 होते हैं अथवा अन्तरद्वीपजो से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! अकर्मभूमिजो से उत्पन्न नहीं होते, अन्तर
 द्वीपज मनुष्यो से भी उत्पन्न नहीं होते, किन्तु कर्मभूमिज गर्भज
 मनुष्यो से उत्पन्न होते हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! यदि आनत देव कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यो
 से ही उत्पन्न होते हैं तो क्या संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यो

मनुष्येथी उत्पन्न नथी थता

श्री गौतम स्वामी—लगवन् । आनतदेव यहि गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न
 थाय छे तो कर्मभूमिजेथी उत्पन्न थाय छे, अकर्मभूमिजेथी उत्पन्न थाय छे,
 अथवा अन्तरद्वीपजेथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री लगवान्—गौतम । अकर्मभूमिजेथी उत्पन्न नथी थता अन्तर-
 द्वीपज मनुष्येथी पणु उत्पन्न नथी थता, पणु कर्मभूमिज गर्भज मनुष्येथी
 उत्पन्न थाय छे ।

श्री गौतम स्वामी—लगवन् ! यहि आनतदेव कर्म भूमिज गर्भज
 मनुष्येथीज उत्पन्न थाय छे तो शुं संध्यात वर्षनी आयुवाणा मनुष्ये

यवर्षायुष्केभ्यः कर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यः उपपद्यन्ते ? किं वा असंख्येयवर्षायुष्केभ्य उपपद्यन्ते, भगवान् आह—‘गोयसा !’ हे गौतम ! ‘संख्येज्जवासा उपहितो, नो असंखिज्जवासाउपहितो उववज्जंति’ संख्येयवर्षायुष्केभ्यः कर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यः आनतदेवा उपपद्यन्ते, नो असंख्येयवर्षायुष्केभ्य उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—‘जइ संखिज्जवासाउयकम्मभूमिगर्भववक्कंति य मणुसेहितो उववज्जंति’ यदा—संख्येयवर्षायुष्क कर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येभ्य आनतदेवा उपपद्यन्ते, तदा—‘किं पज्जत्तएहितो उववज्जंति ? अपज्जत्तएहितो उववज्जति ?’ किं पर्याप्तकेभ्य आनतदेवा उपपद्यन्ते ? किं वा अपर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयसा ! हे गौतम ! ‘पज्जत्तएहितो उववज्जंति, नो अपज्जत्तएहितो उववज्जंति’ पर्याप्तकेभ्य संख्येयवर्षायुष्केभ्यः कर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य आनतदेवा उपपद्यन्ते, नो अपर्याप्तकेभ्यस्तथा विधमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, गौतमः—पृच्छति—‘जइ पज्जत्तसंख्येज्जवासाउयकम्मभूमिगर्भववक्कंति य मणुस्सेहितो उववज्जंति’ यदा पर्याप्तकसंख्येयवर्षायुष्ककर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य आनतदेवा उपपद्यन्ते तदा ‘किं सम्मदिट्ठी से उत्पन्न होते हैं’ अथवा असंख्यात वर्ष की आयु वालो से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! संख्यात वर्ष की आयु वालों से उत्पन्न होते हैं, असंख्यात वर्ष की आयु वालो से नहीं उत्पन्न होते ।

गौतम—हे भगवन् ! यदि संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिक, गर्भज मनुष्यो, से आनतदेव उत्पन्न होते हैं तो क्या पर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं अथवा अपर्याप्तको से ?

भगवान् हे गौतम ! पर्याप्तको से उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्तको से नहीं उत्पन्न होते ।

गौतम—हे भगवन् ! यदि पर्याप्त, संख्यात वर्ष की आयु वाले,

थी उत्पन्न थाय छे अथवा असंख्यात वर्षनी आयुवाणाओथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! संख्यात वर्षनी आयुवाणाओथी उत्पन्न थाय छे, असंख्यात वर्षनी आयुवाणाओथी उत्पन्न नथी थता.

श्री गौतम स्वामी—भगवन् ! यदि संख्यात वर्षनी आयुवाणा कर्मभूमिक, गर्भज मनुष्येथी आनतदेव उत्पन्न थाय छे तो शु पर्याप्तकोथी उत्पन्न थाय छे अथवा अपर्याप्तकोथी ।

श्री भगवन्—गौतम ! पर्याप्तकोथी उत्पन्न थाय छे, अपर्याप्तकोथी नथी उत्पन्न थता.

श्री गौतम स्वामी—भगवन् ! यदि पर्याप्त संख्यात वर्षनी आयुवाणा

पञ्जत्तग संखेज्जवासाउयकम्मभूमगेहितो उववज्जंति ?' किं सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संखेयवर्षायुष्क कर्मभूमिगेभ्य आनतदेवा उपपद्यन्ते ? किं वा 'मिच्छद्विष्टि पञ्जत्तगेहितो उववज्जंति ? मिथ्याद्विष्टि पर्याप्तक संखेयवर्षायुष्ककर्मभूमिगेभ्य उपपद्यन्ते ? 'किं वा 'सम्मामिच्छद्विष्टि पञ्जत्तगेहितो उववज्जंति' सम्यग्मिथ्याद्विष्टि पर्याप्तकेभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—'गोयमा ! हे गौतम ! 'सम्मद्विष्टिपञ्जत्तग संखेज्जवासाउयकम्मभूमगगवभवक्कंति यमणूसेहितो उववज्जंति' सम्यग्द्विष्टिपर्याप्तक संखेयवर्षायुष्ककर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येभ्य आनतदेवा उपपद्यन्ते एवं 'मिच्छद्विष्टि पञ्जत्तगेहितो उववज्जंति' मिथ्याद्विष्टि पर्याप्तकेभ्यः संखेयवर्षायुष्ककर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य आनतदेवा उपपद्यन्ते, किन्तु—'णो सम्मामिच्छाद्विष्टि पञ्जत्तगेहितो उववज्जंति' नो सम्यग्मिथ्याद्विष्टिपर्याप्तकेभ्यः, संखेयवर्षायुष्ककर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येभ्य आनतदेवा उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'जइ सम्मद्विष्टीपञ्जत्तसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगवभ

कर्मभूमिज, गर्भज मनुष्यो. से आनतदेव उत्पन्न होते हैं तो क्या सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं अथवा मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक मनुष्यों से उत्पन्न होता है ? अथवा सम्यग्मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों से आनतदेव उत्पन्न होते हैं और इसी प्रकार के मिथ्यादृष्टि मनुष्यों से भी उत्पन्न होते हैं किन्तु सम्यग्मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न नहीं होते ।

गौतम—हे भगवन् ! यदि आनतदेव सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों से भी उत्पन्न होते हैं

कर्मभूमिज, गर्भज मनुष्येथी आनतदेव उत्पन्न थाय छे. तो शु सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यात वर्षानी आयुवाणा मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे. अथवा मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे ? अथवा सम्यग्मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यात वर्षानी आयुवाणा कर्मभूमिज गर्भज मनुष्येथी आनतदेव उत्पन्न थाय छे अने तेज प्रकारे मिथ्यादृष्टि मनुष्येथी पणु उत्पन्न थाय छे, परन्तु सम्यग्मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक संख्यात वर्षानी आयुवाणा कर्मभूमिज गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न नहीं थता.

श्री गौतम—भगवन् ! यदि आनतदेव सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यात वर्षानी आयुवाणा कर्मभूमिज गर्भज मनुष्येथी उत्पन्न थाय छे तो शु

वक्तिय मणूसेहितो उववज्जति' यदा सम्यग्दृष्टिपर्याप्तकसंख्येयवर्षायुष्कर्म-
भूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य आनतदेवा उपपद्यन्ते तदा 'किं संजतसम्मद्विष्टि
हितो, असंजतसम्मद्विष्टी पज्जत्तएहितो, संजयासंजयासम्मद्विष्टी पज्जत्तसंखे-
ज्जवासाउय कम्मभूमगगन्भवक्तिय मणूसेहितो उववज्जति ?' किं संयत सम्य-
ग्दृष्टिभ्यः पर्याप्तेभ्यः ? किं वा असंयत सम्यग्दृष्टिपर्याप्तकेभ्यः ? किं वा
संयतासंयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तकसंख्येयवर्षायुष्कर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येभ्य
आनतदेवा उपपद्यन्ते ? भगवान् आह-गोयमा ! हे गौतम ! 'तीहितो वि उवव-
ज्जति' त्रिभ्योऽपि-संयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तकासयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तक संयतासंयत
सम्यग्दृष्टिपर्याप्तकसंख्येयवर्षायुष्कर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य आनतदेवा
उपपद्यन्ते, इत्यर्थः 'एवं जाव अच्चुगो कप्पो' एवम्-उपर्युक्तानतदेव-
रीत्या यावत्-प्राणत आरणाच्युताः कल्पा अपि अवसेयाः, 'एवं चैव गेविज्ज-
गदेवावि' एवञ्चैव-आनतदेवकल्पोक्तरीत्यैव ग्रैवेयकदेवा अपि वक्तव्याः, किन्तु-
'नवर असंजत संजता संजता एते पडिसेहेयव्वा' नवरम्-पूर्वोक्तानतदेवापेक्षया

तो क्या संयत सम्यग्दृष्टियों से उत्पन्न होते हैं, असंयत सम्यग्दृष्टियों
से उत्पन्न होते हैं अथवा संयतासंयत सम्मग्दृष्टि पर्याप्त संख्यात
वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्-हे गौतम ! तीनों से ही अर्थात् संयतसम्यग्दृष्टियों से
असंयत सम्यग्दृष्टियों तथा संयतासंयत सम्यग्दृष्टियों से उत्पन्न
होते हैं ।

अच्युतकल्प तक इसी प्रकार कहना चाहिए ग्रैवेयकदेवों का उप-
पात भी आनतदेवों के समान समझना चाहिए, किन्तु असंयत और
संयतासंयत मनुष्यों का ग्रैवेयकों में उपपात नहीं होता, अतः उनका
निषेध कर देना चाहिए, केवल संयत मनुष्य ही वहाँ उत्पन्न होते हैं

स यत सम्यग्दृष्टियोधी उत्पन्न थाय छे अथवा अस यत सम्यग्दृष्टियोधी उत्पन्न
थाय छे अथवा स यता स यत सम्यग्दृष्टि पर्याप्त स ऋयात वर्षानी आयुवाणा
इर्भूमिज गर्भज मनुष्योधी उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्-गौतम ! त्रष्टोधी अर्थात् स यत सम्यग्दृष्टियोधी, अस यत
सम्यग्दृष्टियोधी, तथा स यतास यत सम्यग्दृष्टियोधी उत्पन्न थाय छे

अच्युतकल्पसुधी आ रीते इडेवु लोभ्ये ग्रैवेयक देवानो उपपात पण्
आनतदेवानो समान समज्जे लोभ्ये किन्तु अस यत अने स यतासंयत
मनुष्योनो ग्रैवेयकोभा उपपात नथी थतो तेथी तेभनो निषेध करवो लोभ्ये.
केवल स यत मनुष्यज त्या उत्पन्न थाय छे. नवग्रैवेयकोभां लभ्य अने अलभ्य

विशेषस्तु-असंयतसंयतासंयता एते प्रतिपेक्ष्याः, तथा च प्रैवेयकदेवा नो असं-
यतेभ्यः, नो वा संयतासंयतेभ्यो मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, अपि तु संयतेभ्य एव-
मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते ? इत्यवसेयम् । 'एवं जडेय गेव्रिज्जगदेवा तदेव अणुत्तरोव-
वाड्या वि' एवम्-पूर्वोक्तरीत्या, यथैव प्रैवेयकदेवा उक्तास्तथैव पञ्च अनुत्तरौप-
पातिका अपि देवा वक्तव्याः, किन्तु- 'णपरं इयं नाणत्तं संजयावेव' नवरम्-
पूर्वापेक्षया विशेषस्तु-इदं नानात्वं-पृथक्त्वम् भेद इत्यर्थः संयताश्चैव-संयतानामेव
नो असंयतानां नो वा संयतासंयतानामिति भावः, गौतमः पृच्छति-'जड सम्म-
द्विष्टी संजतपज्जतमंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगवभक्कतियमणुसेहितो उववज्जति'

नवप्रैवेयकों में भव्य और अभव्य दोनों उत्पन्न होते हैं। जो सम्यग्दृष्टि नहीं उत्पन्न होते हैं वे तो शुद्ध संयम के पालन करते संयत उत्पन्न होते हैं किन्तु जो मिथ्यादृष्टि भव्य और अभव्य उत्पन्न होते हैं वे चारित्रक्रिया की आराधना से वहाँ उत्पन्न होते हैं किन्तु गुणस्थान तो उनका पहला २ (मिथ्यादृष्टि) ही रहता है। उस चारित्र की क्रिया के कारण ही यहाँ संयतासंयत और असंयत का निषेध किया है। अनुत्तर-विमानों में संयतासंयत और असंयत का निषेध कर संयत को ही ग्रहण किया है सौ वह भावसंयत ही लेना चाहिये। जैसी वक्तव्यता प्रैवेयक देवों के उपासक की कही, वैसी ही पांच अनुत्तरविमानों के देवों की समझनी चाहिए, मगर अनुत्तर विमानों में संयत मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं, असंयत अथवा संयतासंयत नहीं उत्पन्न होते,

गौतम-हे भगवन् ! यदि सम्यग्दृष्टि संयत पर्याप्तक संख्यात-
वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज गर्भजमनुष्यों से अनुत्तरौपपातिक देवों

उत्पन्न थाय छे जे सम्यग्दृष्टि नहीं उत्पन्न थता तेओ तो शुद्ध सयमनु पालन करीने सयत उत्पन्न थाय छे. किन्तु जे मिथ्यादृष्टि लव्य अने अलव्य उत्पन्न थाय छे तेओ चारित्रक्रियानी आराधनाथी त्या उत्पन्न थाय छे परतु शुष्स्थान तो तेमना पडेला (मिथ्यादृष्टि) न रहे छे ओ चारित्रणी क्रियाने कारणे अही सयतासयत अने असयतने निषेध करी छे अनुत्तर विमानोभा संयतासयत अने संयतने निषेध करीने संयतनु न अहणु करुं छे ते तेज लाव सयत लेवा न्नेधे

जेवी वक्तव्यता प्रैवेयक देवाना उपासकनी कही, ओवीन पाथ अनुत्तर विमानोना देवाना समजवी न्नेधेओ, पण अनुत्तर विमानोभा सयत मनुष्यन उत्पन्न थाय छे, असयत अथवा सयतासयत उत्पन्न नहीं थता.

गौतम स्वामी-भगवन् यदि सम्यग्दृष्टि संयत पर्याप्तक संख्यात वर्षानी आयुवाला कर्मभूमिज गर्भज मनुष्योथी अनुत्तरौपपातिक देवाना

यदा सम्यग्दृष्टि संयतपर्याप्तसंख्येयवर्षायुष्कर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्यः अनुत्तरौपपातिका देवा उपपद्यन्ते तदा—‘किं प्रमत्तसंजयसम्मद्विद्वा पज्जत्तएहिंतो’ किं प्रमत्तसंयतसम्यग्दृष्टि पर्याप्तकेभ्यः संख्येयवर्षायुष्कर्मभूमिक गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येभ्य उपपद्यन्ते, किं वा ‘अप्रमत्तसंजयसम्मद्विद्वा पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति ? अप्रमत्तसंयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तकेभ्यः संख्येयवर्षायुष्कर्मभूमिकगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य उपपद्यन्ते ! भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘अप्रमत्तसंजय सम्मद्विद्वा पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति’ अप्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तकेभ्यः संख्येयवर्षायुष्कर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येभ्योऽनुत्तरौपपातिकदेवा उपपद्यन्ते ‘नो प्रमत्तसंजय सम्मद्विद्वा पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति’ नो प्रमत्तसंयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तकेभ्योऽनुत्तरौपपातिकदेवा उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—‘जइ अप्रमत्तसंजयसम्मद्विद्वा पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति’ यदा अप्रमत्तसंजयसम्यग्दृष्टि पर्याप्तकेभ्यः संख्येयवर्षायुष्कर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्योऽनुत्तरौपपातिका देवा उपप-

का उपपात होता है तो क्या प्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों से उपपात होता है अथवा अप्रमत्त संयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों से उपपात होता है ?

भगवान्—हे गौतम ! अप्रमत्तसंयत मनुष्यों से ही उपपात होता है, प्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तकों से अनुत्तरौपपातिक देवों नहीं उत्पन्न होते ।

गौतम—हे भगवन् ! यदि अप्रमत्त संयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों से अनुत्तरविमानों के देव उत्पन्न होते हैं, तो क्या ऋद्धिप्राप्त संयतों से उत्पन्न होते हैं अथवा अनृद्धिप्राप्त संयतों से उत्पन्न होते हैं ?

उपपात थाय छे तो शु प्रमत्त संयत सम्यग्दृष्टि संख्यात वर्षनी आयुवाणा कर्मभूमिज गर्भज मनुष्योथी उपपात थाय छे अथवा अप्रमत्त सम्यग्दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्षनी आयुवाणा कर्मभूमिज गर्भज मनुष्योथी उपपात थाय छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! अप्रमत्त संयत मनुष्योथी ज उपपात थाय छे, प्रमत्त संयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तकेथी अनुत्तरौपपातिक देव उत्पन्न नहीं थता.

श्री गौतमस्वामीः—भगवान् यदि अप्रमत्त संयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यात वर्षनी आयुवाणा कर्मभूमिज गर्भज मनुष्योथी अनुत्तरविमानोना देव उत्पन्न थाय छे तो शु ऋद्धि प्राप्त संयतोथी उत्पन्न थाय छे अथवा अनृद्धि प्राप्त संयतोथी उत्पन्न थाय छे ?

छन्ते तदा 'किं इद्धिपत्तसंज्ञएहितो, अणिद्धिपत्तसंज्ञएहितो ?' किम् ऋद्धिप्राप्त-
संयतेभ्यः सम्यग्दृष्टि पर्याप्तकसंख्येयवर्षायुष्कर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येभ्य
उपपद्यन्ते ? किं वा अनृद्धिप्राप्तसंयतेभ्य उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—'गोयमा !' हे
गौतम ! 'दोहितो वि उववज्जंति'—द्वाभ्याम्—ऋद्धि प्राप्तसंयतानृद्धिप्राप्तसंयताभ्यां
सम्यग्दृष्टिपर्याप्तकसंख्येयवर्षायुष्कर्मभूमिगगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्याभ्यामनुत्तरौप-
पातिका देवा उपपद्यन्ते, इति भावः, तथा च सौधर्मेशानयो रूपपातप्ररूपणे सर्व
नैरयिक सर्वदेवेभ्यः प्रतिषेधः, सनत्कुमारादिसहस्रारपर्यन्तेषु अकर्मभूमिजेभ्योऽपि
प्रतिषेधः, आनतादिषु पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यः प्रतिषेधः, विजयादिषु मिथ्या-
दृष्टि मनुष्येभ्योऽपि प्रतिषेधः कृतः इति पञ्चमउपपात द्वारं समाप्तम् ॥४० १२॥

॥ षष्ठोद्वर्तनाद्वारवक्तव्यता ॥

मूलम्—नेरइयाणं भंते ! अणंतरं उवट्टित्ता कहिं गच्छंति,
कहिं उववज्जंति ? किं नेरइएसु, उववज्जंति, तिरिक्खजोणि-

भगवान्—हे गौतम ! दोनों से उत्पन्न होते हैं, अर्थात् ऋद्धिप्राप्त
और अनृद्धिप्राप्त त्त संयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यात वर्ष की
आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों से अनुत्तर विमानों के देव
उत्पन्न होते हैं ।

इस प्रकार सौधर्म और ईशानदेवों के उपपात की प्ररूपणा
में सब नारकों और देवों का निषेध किया गया है, सनत्कुमार से
लगाकर सहस्रार पर्यन्त के देवों में अकर्मभूमिजों से उपपात का
निषेध कि । गया है, आनत आदि में तिर्यच पंचेन्द्रिय के उत्पन्न
होने का निषेध किया गया है आर विजयादि विमानों में मिथ्यादृष्टि
ष्यों से उपपात होने का निषेध किया गया है ।

उपपातद्वार समाप्त हुआ

श्री भगवान्—गौतम ! अन्नेथी उत्पन्न थाय छे, अर्थात् ऋद्धिप्राप्त
अने अनृद्धिप्राप्त अग्रत्तम संयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यात वर्षानी आयु-
वाणा कर्मभूमिज गर्भज मनुष्येथी अनुत्तर विमानोना देव उत्पन्न थाय छे
अने देवोना निषेध करायेल छे, सनत्कुमारथी लधने सहस्रार पर्यन्तना देवोना
अकर्मभूमिजेथी उपपातना निषेध करायेल छे. आनत आदिमा तिर्यच
पंचेन्द्रियना उत्पन्न थवाना निषेध करायेल छे. अने विजयादि विमानोना
मिथ्यादृष्टि मनुष्येथी उपपात थवाना निषेध करेल छे. उपपात द्वार समाप्त थयु .

एषु उववज्जंति, मणुस्सेसु उववज्जंति, देवेषु उववज्जंति ? गोयमा ! नो नेरइएसु उववज्जंति, तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति, मणुस्सेसु उववज्जंति, नो देवेषु उववज्जंति, जइ तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति, किं एगिंदिएसु उववज्जंति, जाव पंचिंदिएसु तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति ? गोयमा ! णो एगिंदिए जाव नो चउरिंदिएसु उववज्जंति, एवं जेहिंतो उववाओ भणिओ तेसु उववट्टणा वि भाणियव्वा, नवरं संमुच्छिमेसु न उववज्जंति, एवं सब्वपुढविसु भाणियव्वं, नवरं अहे सत्तमाओ मणुस्सेसु ण उववज्जंति ॥ सू०१३ ॥

छाया—नैरयिकाः खलु भदन्त ! अनन्तरम् उद्वृत्य कुत्र गच्छन्ति ? कुत्र उपपद्यन्ते ? किं नैरयिकेषु उपपद्यन्ते ? तिर्यग्योनिकेषु उपपद्यन्ते ! मनुष्येषु उपपद्यन्ते ? देवेषु उपपद्यन्ते ? गौतम ! नो नैरयिकेषु उपपद्यन्ते, तिर्यग्योनि-

षष्ठ उद्वर्तनाद्वार

शब्दार्थ—(नेरइया णं भंते !) भगवन् ! नैरयिक जीव (अणंतरं) अनन्तर-क्षात् (उववट्टिता) उद्वर्तन करके—निकल कर (कहिं गच्छंति) कहां जाते हैं ? (कहिं उववज्जंति ?) कहां उत्पन्न होते हैं ? (किं नेरइएसु उववज्जंति ?) क्या नारकों में उत्पन्न होते हैं ? (तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति) तिर्यचों में उत्पन्न होते हैं ? (मणुस्सेसु उववज्जंति) मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं ? (देवेषु उववज्जंति) क्या देवों में उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा)—हे गौतम ! (नो नेरइएसु उववज्जंति) नारकों में उत्पन्न नहीं होते (तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति) तिर्यचों में उत्पन्न होते हैं

छठु उद्वर्तना द्वार

शब्दार्थ—(नेरइया णं भंते !) भगवन् नैरयिक एव (अणंतरं) अनन्तर-साक्षात् (उववट्टिता) उद्वर्तन करीने—निकलीने (कहि गच्छन्ति) क्या जाय छे ? (कहि उववज्जंति) क्या उत्पन्न थाय छे ? (किं नेरइएसु उववज्जंति ?) शुं नारकोभां उमन्न थाय छे ? (किं तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति) तिर्यचोभां उत्पन्न थाय छे ? (मणुस्सेसु उववज्जंति) मनुष्योभा उत्पन्न थाय छे ? (देवेषु उववज्जंति) शु देवोभा उमन्न थाय छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ? (नो नेरइएसु उववज्जंति) नारकोभा उमन्न नथी थता (तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति) तिर्यचोभा उत्पन्न थाय छे. (मणुस्सेसु

‘नेरइयाणं भंते ! अणंतरं उच्चट्टिता कहिं गच्छंति, कहिं उववज्जंति ?’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! नैरयिकाः खलु अनन्तरम् उद्वृच्य नरकभवाद्दुद्वर्तना नन्तरमित्यर्थः निःसरणामन्तरं कुत्र—कस्मिन् भवे गच्छन्ति, कुत्र कस्मिन् भवे, उपपद्यन्ते ? इति—प्रश्नमेव स्फुटयति—‘किं नेरइएसु उववज्जंति’ किं नैरयिकेषु नैरयिका उद्वर्तनानन्तरम् उपपद्यन्ते ? किं वा ‘तिरिक्खजोणि-एसु उववज्जंति’ तिर्यग्योनिकेषु उपपद्यन्ते ! किं वा ‘मणुस्सेसु उववज्जंति’ मनुष्येषु उपपद्यन्ते ? किं वा ‘देवेषु उववज्जंति’ देवेषु उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा ? हे गौतम ! ‘नो नेरइएसु उववज्जंति’ नो नैरयिकेषु नैरयिका उद्वर्तनानन्तरमुपपद्यन्ते किन्तु—‘तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति’ तिर्यग्योनिकेषु उपपद्यन्ते ‘मणुस्सेसु उववज्जंति’ मनुष्येषु नैरयिका उद्वर्तनानन्तरमुपपद्यन्ते, ‘नो देवेषु उववज्जंति’ नो देवेषु नैरयिका उपपद्यन्ते, गौतमः

जाती है, अर्थात् यह निरूपण किया जाता है कि नारक जीव नरक से निकल कर सीधे किस पर्याय में उत्पन्न हो सकते हैं ?

गौतम प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! नारक जीव अनन्तर उद्वर्तन करके अर्थात् नरक से निकल कर किस भव में उत्पन्न होते हैं ? अर्थात् क्या नारक जीव उद्वर्तन करके नारकों में उत्पन्न होते हैं ? अथवा तिर्यचों में उत्पन्न होते हैं ? या मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं ? या देवों से उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! नारक जीव नरक से निकलकर नारकों में उत्पन्न नहीं होते, किन्तु तिर्यचों में उत्पन्न होते हैं एवं मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, देवों में नहीं उत्पन्न होते ।

गौतम—हे भगवन् ! नारकजीव उद्वर्तना के अनन्तर यदि तिर्यचों में

ये निरूपण कराय छे के नारक एव नरकमाथी नीकणीने सीधा क्या क्या पर्यायोमा उत्पन्न थाय छे ?

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—भगवन् ! नारक एव अनन्तर उद्वर्तन-करीने अर्थात् नरकथी नीकणीने क्या भवमा जन्मे छे ? अर्थात् शु नारक एव उद्वर्तना करीने नारकोमा उत्पन्न थाय छे ? अथवा तिर्यचोमा उत्पन्न थाय छे ? शु मनुष्योमा उत्पन्न थाय छे के देवोमा उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! नारक एव नरकथी नीकणीने नारकोमां उभन्न नथी थवा, पणु तिर्यचोमा उत्पन्न थाय छे, मनुष्योमा उत्पन्न थाय छे, देवोमा नथी उत्पन्न थता.

श्री गौतम स्वामी—भगवन् नारक एव उद्वर्तनानी पछी जे तिर्यच-

पृच्छति—‘जइ तिरिक्खजोणिएसु उव्वज्जंति’ यदा तिर्यग्गोनिकेषु नैरयिका उपपद्यन्ते तदा ‘किं एगिदिएसु उव्वज्जंति’ किम् एकेन्द्रियेषु तिर्यग्गोनिकेषु उपपद्यन्ते ? ‘जाव पंचिदिएसु तिरिक्खजोणिएसु उव्वज्जंति ?’ यावत्—किं वा द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियश्चेन्द्रियेषु तिर्यग्गोनिकेषु—नैरयिका उद्वर्तनानन्तरमुपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा ! हे गौतम ? ‘णो एगिदिएसु जाव नो चउरिदिएसु उव्वज्जंति’ नो एकेन्द्रियेषु नैरयिका उद्वर्तनानन्तरमुपपद्यन्ते, यावत्—नो द्वीन्द्रियेषु नो त्रीन्द्रियेषु नो चतुरिन्द्रियेषु वा नैरयिका उपपद्यन्ते ‘एवं जेहिंतो उववाओ भणिओ तेसु उव्वट्ठणावि भाणियव्वा’ एवम्—पूर्वोक्तरीत्या, येभ्य उपपातो भणितस्तेषु उद्वर्तनाऽपि भणितव्या, किन्तु ‘नवरं संसृच्छिमेसु न उव्वज्जंति’ नवरम्—उपपातापेक्षया उद्वर्तनायां विशेषस्तु नैरयिका नैरयिकभवाद्युद्वर्तनानन्तरम् संसृच्छिमेसु न उपपद्यन्ते, ‘एवं सव्वपुढवीसु उत्पन्न होते हैं तो क्या एकेन्द्रियतिर्यचो में उत्पन्न होते हैं ? अथवा क्या द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रिय या पंचेन्द्रिय तिर्यचो में उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! एकेन्द्रियों में यावत् चौइन्द्रियों में नहीं उत्पन्न होते, अर्थात् नारक जीव उद्वर्तन करके न एकेन्द्रियों में उत्पन्न होते हैं, न द्वीन्द्रियों में, न त्रीन्द्रियों में और न चौइन्द्रियों में उत्पन्न होते हैं ।

इस प्रकार पहले जिन-जिन से नारकों में उपपात कहा है, उन-उन से उद्वर्तना कहना चाहिए, अर्थात् जिस-जिस पर्याय से नरक में उत्पत्ति कही है उसी-उसी पर्याय में नारक की उद्वर्तना समझनी चाहिए । उसमें विशेष यह है कि नरक जीव नरक से निकल कर संसृच्छिमों में उत्पन्न नहीं होते । ऐसा सभी अर्थात् रत्नप्रभा आदि

भा उत्पन्न थाय छे तो शु अकेन्द्रिय तिर्यचोमा उत्पन्न थाय छे ? अथवा शु द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय अगर पंचेन्द्रिय तिर्यचोमा उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! अकेन्द्रियोमा यावत् चतुरिन्द्रियोमा नथी उभत्त थता अर्थात् नारक एव उद्वर्तना करीने न अकेन्द्रियमा उत्पन्न थाय छे, न द्वीन्द्रियोमा न त्रीन्द्रियोमा अने न चतुरिन्द्रियमा उत्पन्न थाय छे.

आ प्रकारे पडेला जेना जेनाथी नारकोमा उपपात कडेव छे, तेमना तेमनाथी उद्वर्तना कडेवी जेधजे अर्थात् जे जे पर्यायोथी नारकमा उत्पत्ति कही छे, ते ते पर्यायमा नरकथी उद्वर्तना समज्थी जेधजे तेमा विशेषता जे छे के नारक एव नरकथी निकणीने संसृच्छियोमा उत्पन्न नथी थता (जेभ णधी अर्थात् रत्नप्रभा आदि साते पृथ्वीयोमा कडेवु जेधजे.) तेमा

भाणियन्वं' एवम्-समुच्चयनैरयिकोक्तरीत्या सर्वं पृथिवीषु रत्नप्रभादि अधः सप्तम पर्यन्तासु भणितव्यं वक्तव्यम्, 'नवरं अहेसत्तमाओ मणुस्सेसु ण उववज्जंति' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषस्तु अधः सप्तमपृथिवीनैरयिकास्तत उद्वर्तनानन्तरं मनुष्येषु नोपपद्यन्ते, तथा च नैरयिकाणां स्वभावादुदवृत्तानां गर्भव्युत्क्रान्तिक संख्येयवर्षायुष्क पञ्चेन्द्रियतिर्यग्मनुष्येषु उत्पादो भवति, अधः सप्तम पृथिवी नैरयिकाणान्तु गर्भव्युत्क्रान्तिक संख्येयवर्षायुष्क पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेष्वेवोत्पादः ।

॥ असुरकुमारादि-उद्वर्तनावक्तव्यता ॥

मूढम्-असुर माराणं भंते ! अणंतरं उववट्टित्ता कहिं गच्छन्ति, कहिं उववज्जंति ? किं नेरइएसु जाव देवेसु उववज्जंति ? गोयमा ! नो नेरइएसु उववज्जंति, तिरिक्खजोगिएसु उववज्जंति, मणुस्सेसु उववज्जंति, णो देवे उववज्जंति, जइ तिरिक्खजोगिएसु उववज्जंति किं एग्गिंदिएसु उववज्जंति, जाव पंचिंदियतिरिक्खजोगिएसु उववज्जंति ? गोयमा ! एग्गिंदियतिरिक्खजोगिएसु उववज्जंति नो बेइंदिएसु जाव नो चउरिंदिएसु उववज्जंति, पंचिंदियतिरिक्खजोगिएसु उववज्जंति, जइ एग्गिंदिएसु उववज्जंति किं पुढविकाइय एग्गिंदिएसु जाव सातो पृथिव्यो मे कहना चाहिए । इस में विशेषता यह है कि मनुष्य सातवे नरक में उत्पन्न तो होता है मगर सातवे नरक से नि हुआ जीव मनुष्यों में उत्पन्न नहीं होता ।

इस प्रकार नरकभव से उद्वर्तना करके नारक जीव गर्भज संख्यात वर्ष की आयुवाले पंचेन्द्रिय तिर्यचों में उत्पन्न होते हैं और मनुष्यों में भी उत्पन्न होते हैं मगर सातवी पृथ्वी से नि कर गर्भज संख्यात वर्ष की आयु वाले पंचेन्द्रिय तिर्यचों में ही उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥

विशेषता ये छे के मनुष्य सातमा नरकमा उत्पन्न तो थाय छे पण सातमा नरकथी नीकणेल एव मनुष्योमा उत्पन्न नथी थता.

ये प्रकारे नरकभवथी उद्वर्तना करीने नारक एव गर्भज संख्यात वर्षनी आयुवाला पंचेन्द्रिय तिर्यचोमा उत्पन्न थाय छे अने मनुष्योमा पण उत्पन्न थाय छे, परंतु सातमी पृथ्वीथी नीकणीने गर्भज संख्यात वर्षनी आयुवाला पंचेन्द्रिय तिर्यचोमा उत्पन्न थाय छे. ॥ १२ ॥

वणस्सइकाइय एग्गिदिएसु उववज्जंति, गोयमा ! पुढविकाइय एग्गिदिएसु वि, आउकाइयएग्गिदिएसु वि उववज्जंति, नो तेउकाइएसु नो वाउकाइएसु उववज्जंति, वणस्सइकाइएसु उववज्जंति ? जइ पुढविकाइएसु उववज्जंति किं सुहुमपुढवीकाइएसु बायरपुढविकाइएसु उववज्जंति ? गोयमा ! बायरपुढविकाइएसु उववज्जंति नो सुहुमपुढविकाइएसु उववज्जंति, जइ बायरपुढविकाइएसु उववज्जंति, किं पज्जत्तगबायरपुढविकाइएसु उववज्जंति, अपज्जत्तगबायरपुढविकाइएसु उववज्जंति ? गोयमा ! पज्जत्तएसु उववज्जंति, नो अपज्जत्तएसु, उववज्जंति, एवं आउवणस्सइसु वि भाणियव्वं, पंचिंदियतिरिक्खजोणियमणुस्सेसु य जहा नेरइयाणं उवट्टणा संमुच्छिमवज्जा तथा भाणियव्वा एवं जाव थणियकुमारा, पुढविकाइयाणं भंते ! अणंतरं उव्वट्टित्ता कहिं गच्छंति, कहिं उववज्जंति किं नेरइएसु जाव देवेषु ? गोयमा ! नो नेरइएसु तिरिक्खजोणियमणुसेसु उववज्जंति, नो देवेषु उववज्जंति, एवं जहा-एतेसिं चैव उववाओ तथा उव्वट्टणा वि देववज्जा भाणियव्वा, एवं आउवणस्सइ बेइंदियतेइंदियचतुरिदिया वि एवं तेउकाइयावाउकाइया, नवरं मणुस्सवज्जेसु उववज्जंति ॥ सू० १३ ॥

छाया-असुरकुमाराः खलु भदन्त ! अनन्तरम् उद्बृत्त्य कुत्र गच्छन्ति, कुत्र उपपद्यन्ते ? किं नैरयिकेषु यावत्-देवेषु उपपद्यन्ते ? गौतम ! नो नैरयिकेषु उपप-

असुरकुमार आदि की उद्वर्त्तना

शब्दार्थ-(असुरकुमारा णं भंते ! अणंतरं उव्वट्टित्ता) भगवन् ! असुरकुमार साक्षात् उद्वर्त्तन करके (कहिं गच्छति ?) कहा जाते हैं ? (कहिं उववज्जंति ?) कहाँ उत्पन्न होते हैं ? (किं नेरइएसु जाव देवेषु

असुरकुमार आदिनी उद्वर्त्तना

शब्दार्थ-(असुरकुमारणं भंते ! अणंतरं उव्वट्टित्ता) हे भगवन् ! असुरकुमार साक्षात् उद्वर्त्तना करीने (कहिं गच्छन्ति ?) क्या कथं छे (कहिं उववज्जंति)

घन्ते, तिर्यग्योनिदेषु उपपद्यन्ते, मनुष्येषु उपपद्यन्ते नो देवेषु उपपद्यन्ते । यदा तिर्यग्योनिकेषु उपपद्यन्ते—किम् एकेन्द्रियेषु उपपद्यन्ते ? यावत्—पञ्चेन्द्रियेषु तिर्यग्योनिकेषु उपपद्यन्ते ? गौतम ! एकेन्द्रियतिर्यग्योनिकेषु उपपद्यन्ते नो द्वीन्द्रियेषु यावत्—नो चतुरिन्द्रियेषु उपपद्यन्ते, पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेषु उपपद्यन्ते, यदा एकेन्द्रियेषु उपपद्यन्ते, किं पृथिवीकायिकैकेन्द्रियेषु यावत्—वनस्पतिकायिकैकेन्द्रियेषु उपपद्यन्ते ? कया नारकों में यावत् देवों में उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! नो नेरइएसु उववज्जन्ति) गौतम ! नारकों में उत्पन्न नहीं होते (तिरिक्खजोणिएसु उववज्जन्ति) तिर्यचों में उत्पन्न होते हैं (मणुस्सेसु उववज्जन्ति) मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं (णो देवेषु उववज्जन्ति) देवों में उत्पन्न कहीं होते

(जइ तिरिक्खजोणिएसु उववज्जन्ति) यदि तिर्यचों में उत्पन्न होते हैं (किं एगिंदिएसु उववज्जन्ति) कया एकेन्द्रियों में उत्पन्न होते हैं (जाव) यावत् पंचिंदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जन्ति) पंचेन्द्रिय तिर्यचों में उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (एगिंदियतिरिक्खजोणिएसु) एकेन्द्रिय तिर्यचों में (उववज्जन्ति) उत्पन्न होते हैं (नो वेइंदिएसु जाव नो चउरिंदिएसु उववज्जन्ति) द्वीन्द्रियों से यावत् चौइन्द्रियों में उत्पन्न नहीं होते (पंचेदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जन्ति) पंचेन्द्रिय तिर्यचों में उत्पन्न होते हैं ।

(जइ एगिंदिएसु उववज्जन्ति) यदि एकेन्द्रियों में उत्पन्न होते हैं (किं कया उत्पन्न थाय छे (क नेरइएसु जाव देवेषु उववज्जन्ति ?) शु नारकेभा यावत् देवेभा उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! नो नेरइएसु उववज्जन्ति) गौतम ! नारकेभा उत्पन्न नहीं थता (तिरिक्खजोणिएसु उववज्जन्ति) तिर्यचोभा उत्पन्न थाय छे. (मणुस्सेसु उववज्जन्ति) मनुष्योभा उत्पन्न थाय छे (णो देवेषु उववज्जन्ति) देवेभा उत्पन्न नहीं थता.

(जइ तिरिक्खजोणिएसु उववज्जन्ति) यदि तिर्यचोभा उत्पन्न थाय छे (किं एगिंदिएसु उववज्जन्ति) शु ओकेन्द्रियभा उत्पन्न थाय छे ? (जाव) यावत् (पंचिंदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जन्ति) पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोभा उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) छे गौतम ! (एगिंदियतिरिक्खजोणिएसु) ओकेन्द्रिय तिर्यचोभा (उववज्जन्ति) उत्पन्न थाय छे. (नो वेइंदिएसु जाव नो चउरिंदिएसु उववज्जन्ति) (द्वीन्द्रियोभा यावत् चतुरिंदियोभा उत्पन्न नहीं थता. (पंचिंदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जन्ति) पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोभा उत्पन्न थाय छे

(जइ एगिंदिएसु उववज्जन्ति) यदि ओकेन्द्रियोभा उत्पन्न थाय छे. (किं

येषु उपपद्यन्ते ? गौतम ! पृथिवीकायिकैकेन्द्रियेषु अपि अष्कायिकैकेन्द्रियेष्वपि उपपद्यन्ते, नो तेजःकायिकेषु नो वायुकायिकेषु उपपद्यन्ते, वनस्पतिकायिकेषु उपपद्यन्ते, यदा पृथिवीकायिकेषु उपपद्यन्ते किं सूक्ष्म पृथिवीकायिकेषु वादरपृथिवीकायिकेषु उपपद्यन्ते ? गौतम ! वादरपृथिवीकायिकेषु उपपद्यन्ते, नो सूक्ष्मपृथिवीकायिकेषु उपपद्यन्ते, यदा वादरपृथिवीकायिकेषु उपपद्यन्ते, किं पर्याप्तकादर-

पुढविकाइय एगिंदिएसु जाव वणस्सइकाइय एगिंदिएसु उववज्जंति) क्या पृथिवकायिक एकेन्द्रियों मे यावत् वनस्पतिकायिक एकेन्द्रियों में उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! पुढविकाइयएगिंदिएसु वि) हे गौतम ! पृथ्वीकायिक एकेन्द्रियों में भी (आउकाइयएगिंदिएसु वि उववज्जंति) अष्कायिक एकेन्द्रियों में भी उत्पन्न होते हैं (नो तेउकाइएसु, नो वाउकाइएसु उववज्जंति) तेजस्कायिकों में और वायुकायिकों में उत्पन्न नहीं होते (वणस्सइकाइएसु उववज्जंति) वनस्पतिकायिकों में उत्पन्न होते हैं

(जइपुढविकाइएसु उववज्जंति) यदि पृथ्वीकायिकों में उत्पन्न होते हैं (किं सुहुमपुढवि काइएसु) क्या सूक्ष्मपृथ्वीकायिकों में (वायरपुढविकाइएसु (वादरपृथ्वीकायिकों में (उववज्जंति) उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! हे गौतम ! (वायरपुढविकाइएसु उववज्जंति) वादरपृथ्वीकायिकों में उत्पन्न होते हैं (नो सुहुम पुढविकाइएसु उववज्जंति) सूक्ष्मपृथ्वीकायिकों में उत्पन्न नहीं होते (जइ वायरपुढविकाइएसु उववज्जंति) अगर वादर पृथ्वीकायिकों में उत्पन्न होते हैं (किं पज्जत्त वायरपुढ-

पुढविकाइयएगि दिएसु जाव वणस्सइकाइयएगि दिएसु उववज्जंति) शु पृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रियोमा यावत् वनस्पतिकायिक ऐकेन्द्रियोमा उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! पुढविकाइयएगि दिएसु वि) गौतम ! पृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रियोमा पणु (आउकाइय एगि दिएसु वि उववज्जंति) अष्कायिक ऐकेन्द्रियोमा पणु उत्पन्न थाय छे (नो तेउकाइएसु, नो वाउकाइएसु उववज्जंति) तेजस्कायिकोमा अने वायुकायिकोमा उत्पन्न नथी थता (वणस्सइकाइएसु उववज्जंति) वनस्पतिकायिकोमा उत्पन्न थाय छे.

(जइ पुढविकाइएसु उववज्जंति) यदि पृथ्वीकायिकोमा उत्पन्न थाय छे (किं सुहुम पुढविकाइएसु) शु सूक्ष्म पृथ्वीकायिकोमा (वायर पुढविकाइएसु) वादर पृथ्वीकायिकोमा (उववज्जंति) उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! वायरपुढविकाइएसु उववज्जंति) गौतम ! वादर पृथ्वीकायिकोमा उत्पन्न थाय छे. (नो सुहुम पुढविकाइएसु उववज्जंति) सूक्ष्म पृथ्वीकायिकोमा उत्पन्न नथी थता (जइ वायरपुढविकाइएसु उववज्जंति) अगर वादर पृथ्वीकायिकोमा उत्पन्न थाय छे (किं पुज्जत्तवायरपुढविकाइएसु) शु पर्याप्त वादर पृथ्वीकायिकोमा (उववज्जंति) उभन्न

पृथिवीकायिकेषु उपपद्यन्ते, अपर्याप्तकवादरपृथिवीकायिकेषु उपपद्यन्ते ? गौतम ? पर्याप्तकेषु उपपद्यन्ते, नो अपर्याप्तकेषु उपपद्यन्ते, एवं अवनस्पतिष्वपि भणितव्यम्, पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकमनुष्येषु च यथा नैरयिकाणाम्-उद्वर्तना संमूर्च्छिमवर्जा तथा भणितव्या, एवं यावत्-स्तनितकुमाराः, पृथिवीकायिकाः खलु भदन्त ! अनन्तरम् उद्वृरय कुत्र गच्छन्ति, कुत्र उपपद्यन्ते ? किं नैरयिकेषु यावत्-देवेषु-गौतम ? नो नैरयिकेषु, तिर्यग्योनिकमनुष्येषु उपपद्यन्ते, नो देवेषु

विकाइएसु) क्या पर्याप्त बादरपृथ्वीकायिकों में (उववज्जंति) उत्पन्न होते हैं (अपज्जत्तयवायरपुढविकाइएसु उववज्जंति) अपर्याप्त बादर पृथ्वीकायिकों में उत्पन्न होते हैं (गोयमा ! पज्जत्तएसु उववज्जंति) गौतम ! पर्याप्तकों में उत्पन्न होते हैं (नो अप अपज्जत्तएसु उववज्जंति) अपर्याप्तकों में उत्पन्न नहीं होते (एवं) इसी प्रकार (आउवणस्सइसु वि भाणियव्वं) अप्कायिकों और वनस्पतिकायिकों के विषय में भी कहना चाहिए (पंचिंदिय तिरिक्खजोगियमणुस्सेसु य) पंचेन्द्रिय तिर्यचों और मनुष्यों में (जहा)जिस प्रकार (नेरइयाणं) नारकों की (उव्वट्टणा)उद्वर्तना (संमुच्छिमवज्जा) संमूर्च्छिमों को छोड़ कर) तथा भाणियव्वा) उसी प्रकार कहना चाहिए (एवं जाव थणियकुमारा) इसी प्रकार स्तनित कुमारों तक

(पुढविकाइयाणं भंते ! अणंतरं उव्वट्टित्ता कहिं गच्छंति ?) पृथ्वीकायिक सीधे निकलकर कहां जाते हैं ? (कहिं उववज्जंति) कहां उत्पन्न होते हैं ? (किं नेरइएसु जाव देवेषु) क्या नारकों में यावत् देवों में ?

थाय छे ? (अपज्जत्तयवायर पुढविकाइएसु उववज्जंति) अपर्याप्त बादर पृथ्वीकायिकों में उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! पज्जत्तएसु उववज्जंति) गौतम ! पर्याप्तकों में उत्पन्न थाय छे. (नो अपज्जत्तएसु उववज्जंति) अपर्याप्तकों में उत्पन्न नहीं थता (एवं) ये प्रकारे (आउवणस्सइसु वि भाणियव्वं) अप्कायिके अने वनस्पति कायिकेना विषयमा पथु कडेपु लेधये (पंचिंदियतिरिक्खजोगियमणुस्सेसु य) यंचेन्द्रिय तिर्यचो अने मनुष्यमा (जहा) जे रीते (नेरइयाणं) नारकोंनी (उव्वट्टणा) उद्वर्तना (संमुच्छिम वज्जा) संमूर्च्छिमोने छोडीने (तहा भाणियव्वा) येण प्रकारे कडेपु लेधये. (एवं जाव थणियकुमारा ?) येण प्रकारे स्तनिककुमारो सुधी

(पुढविकाइयाणं भंते ! अणंतरं उव्वट्टित्ताकहिं गच्छन्ति ?) अगवन् ! पृथ्वीकायिक सीधा निकलीने क्या लय छे (कहिं उववज्जंति ?) क्या उत्पन्न थाय छे ? (किं नेरइएसु जाव देवेषु) थु नारकोंमा यावत् देवोना (गोयमा ! (नो

उपपद्यन्ते, एवं यथा एतेषाञ्चैव उपपातस्तथा उद्वर्तनाऽपि देववर्जा भणितव्या, एवम् अब्रुवन्स्पतिद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रिया अपि, एवं तेजः कायिकाः, वायुकायिकाः नवरं-मनुष्यवर्जेषु उपपद्यन्ते ।

टीका-अथासुरकुमारादीनामुद्वर्तनानन्तरमुपपातवक्तव्यतां प्ररूपयितुमाह-
 'असुरकुमाराणं भन्ते ! अणन्तरं उव्वट्टित्ता कहिं गच्छन्ति, कहिं उव्वज्जन्ति ?' हे भदन्त ! असुरकुमाराः खलु अनन्तरम्-उद्वृत्त्य उद्वर्तनानन्तरमित्यर्थः कुत्र गच्छन्ति ? कुत्र उपपद्यन्ते ? तदेव स्फुटयति-'किं नेरइएसु जाव देवेषु उव्व-
 (गोथमा ! नो नेरइएसु) गौतम ! नारकों में नहीं (तिरिक्खजोणियमणूसेसु उव्वज्जन्ति) तिर्यचों और मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं (नो देवेषु उव्वज्जन्ति) देवों में उत्पन्न नहीं होते (एवं जहा एतेसिं चैव उववावो तथा उव्वट्टणा वि देववज्जा भाणियव्वा) इस प्रकार जैसा इनका उपपात कहा है वैसी ही उद्वर्तना भी देवों को छोड़ कर कहनी चाहिए (एव आउ वणस्सइ वेइंदिय तेइंदिय चउरिंदिया वि) इसी प्रकार अप्कायिक द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चौइन्द्रिय भी (एव तेउकाइया वाउकाइया) इसी प्रकार तेजःकायिक और वायुकायिक (नवरं मणुस्सवज्जेसु उव्वज्जन्ति) विशेषता यह है कि मनुष्यों को छोड़ कर उत्पन्न होते हैं

टीकार्थ-अब असुरकुमार देव अपने पर्याय को त्यागकर वहाँ उत्पन्न होते हैं, यह प्ररूपणा की जाती है-

गौतम प्रश्न करते हैं-भगवन् ! असुरकुमार देव अनन्तर उद्वर्तन करके कहाँ जाते हैं ? कहाँ उत्पन्न होते हैं ? इसी प्रश्न को स्पष्ट करते

नेरइएसु) गौतम ! नारकोमा नहीं. (तिरिक्खजोणियमणूसेसु उव्वज्जन्ति) तिर्यचो
 अने मनुष्योमा उत्पन्न थाय छे. (नो देवेषु उव्वज्जन्ति) देवोमा उत्पन्न नहीं
 थता (एवं जहा एतेसिं चैव उववावो तथा उव्वट्टणा वि देववज्जा भाणियव्वा) ओ रीते
 जेयो तेमने। उपपात क्खो छे तेपीअ उद्वर्तना पणु देयो सिवाय क्खेवी
 जेअओ. (एव आउ, वणस्सइ, वेइंदियतेइंदियचतुरिंदि वि) ओअ प्रकारे
 अप्कायिक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय अने चतुरिंद्रिय पणु (एवं तेउकाइया वाउकाइया)
 ओअ रीते तेअ कायिक अने वायुकायिक (नवरं मणुस्सवज्जेसु उव्वज्जन्ति) विशेषता
 ओ छे के मनुष्यो सिवाय उत्पन्न थाय छे.

टीकार्थ-इसे असुरकुमार देव पाताना पर्यायने छोडीने क्खा उत्पन्न
 थाय छे ते प्रश्नो कराय छे:-

श्री गौतम स्वामी-भगवन् ! असुरकुमार अनन्तर उद्वर्तन करीने
 क्खा ज्ञाय छे ? क्खा उत्पन्न थाय छे. ओअ प्रश्नने स्पष्ट करे छे के थु

ज्जति ? किं नैरयिकेषु यावत् किं तिर्यग्योनिकेषु ? किं वा मनुष्येषु किं वा देवेषु असुरकुमाराः उद्वर्तनानन्तरमुपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘नो नैरइएसु उववज्जति’ असुरकुमाराः उद्वर्तनान्तरम् नो नैरयिकेषु उपपद्यन्ते ? अपि तु ‘तिरिक्खजोणिएसु उववज्जति’ तिर्यग्योनिकेषु उपपद्यन्ते, ‘मणुस्सेसु उववज्जति ?’ मनुष्येषु उपपद्यन्ते, ‘णो देवेषु उववज्जति’ नो देवेषु उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—‘उइ तिरिक्खजोणिएसु उववज्जति ?’ यदा तिर्यग्योनिकेषु असुरकुमाराः उद्वृत्त्य उपपद्यन्ते ? तदा ‘फि एगिदिएसु उववज्जति’ किम् एकेन्द्रियेषु उपपद्यन्ते ! ‘जाव पंचिदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जति’ यावत् किं वा द्वीन्द्रियत्रीन्द्रिय—चतुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रितिर्यग्योनिकेषु असुरकुमाराः उद्वृत्त्योपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा ?’ हे गौतम ! ‘एगिदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जति’ एकेन्द्रियतिर्यग्योनिकेषु असुरकुमाराः उद्वर्तनानन्तरमुपपद्यन्ते, ‘नो वेइदिएसु जाव नो चउरिदिएसु उववज्जति ?’ नो द्वीन्द्रियेषु यावत् नो त्रीन्द्रियेषु, नो चतुरिन्द्रियेषु वा तिर्यग्योनिकेषु असुरकुमाराः उद्वर्तनानन्तरमुपपद्यन्ते, अपि तु—‘पंचिदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जति’ पञ्चेन्द्रियतिर्यग्यो-
हैं कि—क्या नारकों में उत्पन्न होते हैं, यावत् क्या तिर्यचों में मनुष्यों में अथवा देवों में उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! असुरकुमार देव उद्वर्त्तन करके (मर कर) नारकों में उत्पन्न नहीं होते हैं, किन्तु तिर्यचों में और मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। वे देवों में भी उत्पन्न नहीं होते।

गौतम—हे भगवन् ! यदि तिर्यचों में उत्पन्न होते हैं, तो क्या एकेन्द्रियों में उत्पन्न होते हैं ? या द्वीन्द्रियों, त्रीन्द्रियों, चौद्विन्द्रियों अथवा पंचेन्द्रियों में उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! असुरकुमार उद्वर्त्तना के अनन्तर एके-
नारकोमा उत्पन्न थाय छे यावत्—शु तिर्यचोमा, मनुष्योमां अथवा देवोमा उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! असुरकुमार देव उद्वर्त्तन करीने (मरीने) नारकोमा उत्पन्न नहीं थता, किन्तु तिर्यचोमा अने मनुष्योमा उत्पन्न थाय छे तेओ देवोमा पणु उत्पन्न नहीं थता.

श्री गौतम स्वामी—भगवन् ! नो तिर्यचोमा उत्पन्न थाय छे तो शुं ओकेन्द्रियमा उत्पन्न थाय छे ? अथवा द्वीन्द्रियो, त्रीन्द्रियो, चतुरिन्द्रियोमा अथवा पञ्चेन्द्रियोमा उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! असुरकुमार उद्वर्त्तना पछी ओकेन्द्रिय तिर्यचोमा

निकेषु असुरकुमारा उद्वर्तनानन्तर मुपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—‘जइ एगिदिएसु उववज्जंति’ यदा एकेन्द्रियेषु असुरकुमाराः अनन्तर मुद्वृत्य उपपद्यन्ते ? तदा—‘किं पुढविकाइयएगिदिएसु जाव वणस्सइकाइयएगिदिएसु उववज्जंति ? किं पृथिवीकायिकैकेन्द्रियेषु यावत्—किं वा अप्कायिक तेजःकायिकवायुकायिक वनस्पतिकायिकैकेन्द्रियेषु उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘पुढविकाइयएगिदिएसु वि आउकाइयएगिदिएसु वि उववज्जंति ?’ पृथिवीकायिकैकेन्द्रियेष्वपि, अप्कायिकैकेन्द्रियेष्वपि असुरकुमारा उद्वर्तनानन्तरम् उपपद्यन्ते, किन्तु ‘नो तेउकाइएसु नो वाउकाइएसु उववज्जंति’ नो तेजः कायिकेषु नो

न्द्रियतिर्यचो में उत्पन्न होते हैं, किन्तु द्वीन्द्रियो में त्रीन्द्रियो में और चतुरिन्द्रियो में उत्पन्न नहीं होते । पंचेन्द्रियतिर्यचो में उत्पन्न होते हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! असुरकुमार उद्वर्तना के अनन्तर यदि एकेन्द्रियो में उत्पन्न होते हैं तो क्या पृथ्वीकायिको में अप्कायिको में, तेजःकायिको में वायुकायिको में या वनस्पतिकायिको में उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! असुरकुमार उद्वर्तना के अनन्तर पृथ्वीकायिको में तथा अप्कायिक एकेन्द्रियो में उत्पन्न होते हैं, किन्तु तेजस्कायिको और वायुकायिको में नहीं उत्पन्न होते, अलवत् वनस्पतिकायिको में उत्पन्न होते हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! यदि पृथ्वीकायिको में उत्पन्न होते हैं तो सूक्ष्म पृथ्वीकायिको में उत्पन्न होते हैं अथवा वादर पृथ्वीकायिको में उत्पन्न होते हैं ?

उत्पन्न थाय छे, किन्तु द्वीन्द्रियोमा, वीन्द्रियोमा अने चतुरिन्द्रियोमा उत्पन्न नहीं थता पंचेन्द्रिय तिर्यचोमा उत्पन्न थाय छे.

श्री गौतम स्वामी—भगवन् ! असुरकुमार उद्वर्तना पछी यदि एकेन्द्रियोमा उत्पन्न थाय छे तो शु पृथ्वीकायिकोमा, अप्कायिकोमा, तेज कायिकोमा, वायुकायिकोमा अगर वनस्पतिकायिकोमा उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! असुरकुमार उद्वर्तनानी पछी पृथ्वीकायिकोमा तथा अप्कायिक एकेन्द्रियोमा उत्पन्न थाय छे, किन्तु तेजस्कायिको अने वायुकायिकोमा उत्पन्न नहीं थता, परन्तु वनस्पतिकायिकोमा उत्पन्न थाय छे.

श्री गौतम स्वामीः—भगवन् ! पृथ्वीकायिकोमां उत्पन्न थाय छे तो सूक्ष्म पृथ्वीकायिकोमां उत्पन्न थाय छे, अथवा वादर पृथ्वीकायिकोमा उत्पन्न थाय छे ?

वायुकायिकेषु असुरकुमारा उद्वृत्यानन्तरं उपपद्यन्ते, परन्तु—‘वणस्सऽकाइएसु उववज्जंति’ वनस्पतिकायिकेषु—उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति, ‘जइ पुढविकाइएसु उववज्जंति’ यदा पृथिवीकायिकेषु असुरकुमारा उपपद्यन्ते तदा ‘किं सुहुमपुढविकाइएसु, वायरपुढविकाइएसु उववज्जंति’ किं सूक्ष्मपृथिवीकायिकेषु किं वा वादर-पृथिवीकायिकेषु उपपद्यन्ते, भगवान् आह—‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘वायरपुढविकाइएसु उववज्जंति’ वादरपृथिवीकायिकेषु असुरकुमारा उद्वर्तनानन्तरम् उपपद्यन्ते, ‘नो सुहुमपुढविकाइएसु उववज्जंति’ नो सूक्ष्मपृथिवीकायिकेषु असुरकुमारा उपपद्यन्ते ? गौतमः पृच्छति—‘जइ वायरपुढविकाइएसु उववज्जंति’ यदा वादरपृथिवीकायिकेषु असुरकुमारा उपपद्यन्ते, तदा ‘किं पज्जत्तगवायरपुढवीकायिकेषु उववज्जंति, अपज्जत्तगवायरपुढवीकाइएसु उववज्जंति’ किं पर्याप्तवादरपृथिवीकायिकेषु असुरकुमारा उपपद्यन्ते ? किं वा अपर्याप्तवादरपृथिवीकायिकेषु उपपद्यन्ते ? भगवान् आह—गोयमा ! हे गौतम ? ‘पज्जत्तएसु उववज्जंति नो अपज्जत्तएसु उवव-

भगवान्—हे गौतम ! असुरकुमार उद्वर्तना के अनन्तर वादर पृथ्वीकायिको में उत्पन्न होते हैं, सूक्ष्म पृथ्वीकायिको में उत्पन्न नहीं होते

गौतम—हे भगवन् ! यदि वादरपृथ्वीकायिको में उत्पन्न होते हैं तो क्या पर्याप्त वादर पृथ्वीकायिको में उत्पन्न होते हैं अथवा अपर्याप्त वादर पृथ्वीकायिको में उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! पर्याप्त वादर पृथ्वीकायिको में उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्त वादर पृथ्वीकायिको में नहीं उत्पन्न होते ।

इसी प्रकार अप्कायिकों और वनस्पतिकायिकों के विषय में भी कहना चाहिए । तेजस्कायिक और वायु कायिक एकेन्द्रियों में असुरकुमारों की उत्पत्ति नहीं होती, अतएव उनका यहाँ उल्लेख नहीं

श्री भगवान्—गौतम ! असुरकुमार उद्वर्तनानी पछी भादर पृथ्वीकायिकोमा उत्पन्न थाय छे सूक्ष्म पृथ्वीकायिकोमा उत्पन्न नथी थता

श्री गौतम स्वामी—भगवन् यदि भादर पृथ्वीकायिकोमा उत्पन्न थाय छे तो शु पर्याप्त भादर पृथ्वीकायिकोमा उत्पन्न थाय छे. अथवा अपर्याप्त भादर पृथ्वीकायिकोमा उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! पर्याप्त भादर पृथ्वीकायिकोमा उत्पन्न थाय छे, अपर्याप्त भादर पृथ्वीकायिकोमा उत्पन्न नथी थता.

ये प्रकारे अप्कायिके अने वनस्पतिकायिकोना विषयमा पणु छडेपु लेधये तेजस्कायिक अने वायुकायिक अकेन्द्रियोमा असुरकुमारोनी उत्पत्ति नथी थती, तेथीज तेमने उद्वेष आही करेवो नथी.

ज्जंति' पर्याप्तकेषु वादरपृथिवीकायिकेषु असुरकुमारा उपपद्यन्ते, नो अपर्याप्तकेषु वादरपृथिवीकायिकेषु असुरकुमारा उपपद्यन्ते, 'एवं आवणस्सइसु वि भाणियञ्च' एवम्-उपर्युक्तपृथिवीकायिकेष्विव अण्कायिकेषु वनस्पतिकायिकेषु अपि भणितव्यम्-असुरकुमाराणामुद्वर्तनानन्तरगुपपातवक्तव्यता वक्तव्या, तेजःकायिकेषु वायुकायिकेषु चासुरकुमाराणामुपपातप्रतिषेधात् तयोस्तन्नोक्तम्, 'पंचिदियतिरिक्ख भोणियमणूसेसु य जहा नैरइयाणं उव्वट्टणा संमुच्छिमवज्जा तहा भाणियञ्चा' पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकमनुष्येषु च यथा नैरयिकाणामुद्वर्तना संमुच्छिमवर्जा भणिता तथा असुरकुमाराणामपि भणितव्या, तथा च यथा नैरयिका उद्वर्तनानन्तरम् संमुच्छिमवर्जेषु पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकमनुष्येषु उपपद्यन्ते, तथैव असुरकुमारा अपि उद्वर्तनानन्तरं संमुच्छिमवर्जेष्वेव पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकमनुष्येषु उपपद्यन्ते ? इति भावः । 'एव जाव थणियकुमारा' एवम्-असुरकुमारोक्तरीत्या यावत्-नागकुमाराः, सुवर्णकुमाराः, अग्निकुमाराः, विद्युत्कुमाराः, उदधिकुमाराः, द्वीपकुमाराः दिक्कुमाराः, स्तनितकुमारा अपि वक्तव्याः, गौतमः पृच्छति-पुढविकाइया णं भंते ! अणंतरं उव्वट्टिता कहिं गच्छन्ति कहिं उव्वज्जंति ?' हे भदन्त ! पृथिवीकायिकाः खलु अनन्तरमुद्वृत्य उद्वर्तनानन्तरं कुत्र गच्छन्ति कुत्र-उपपद्यन्ते ?

क्रिया गया है । पंचेन्द्रिय तिर्यचों और मनुष्यों में जैसी नारकों की संसृष्टियों को छोड़कर उद्वर्तना कही है वैसी ही असुरकुमारों की भी कहलेनी चाहिए । तात्पर्य यह हुआ कि जैसे नारक उद्वर्तना के अनन्तर संसृष्टियों को छोड़ कर पंचेन्द्रिय तिर्यचों और मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार असुरकुमार भी उद्वर्तना के अनन्तर संसृष्टिम पंचेन्द्रियों को छोड़ कर पंचेन्द्रिय तिर्यचों और मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं । जैसी असुरकुमारों की उद्वर्तना कही है, वैसी ही नागकुमार सुवर्णकुमार अग्निकुमार विद्युत्कुमार उदधिकुमार, द्वीपकुमार, दिक्कुमार, पवनकुमार और स्तनितकुमार देवों की उद्वर्तना भी समझलेनी चाहिए ।

पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो अने मनुष्योभा देवी नारकोनी संसृष्टियो शिवाय उद्वर्तना छडी छे, तेवीअ असुरकुमारोनी पणु कडेवी नेधये. तात्पर्य अे थयु के नारक उद्वर्तना पछी संसृष्टियोने छोडीने पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो अने मनुष्योभा उत्पन्न थाय छे.

देवी असुरकुमारोनी उद्वर्तना छडी छे, तेवीअ नागकुमार, अग्निकुमार, विद्युत्कुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार, दिक्कुमार, पवनकुमार, अने स्तनितकुमार देवोनी उद्वर्तना पणु समण देवी नेधये.

‘किं नेरइएसु जाव देवेसु ? ‘किं नैरयिकेषु अनन्तरमुद्वृत्योपपद्यन्ते ? यावत्—किं वा तिर्यग्योनिकेषु, किं वा मनुष्येषु किं वा देवेषु पृथिवीकायिका उद्वर्तनानन्तर-मुपपद्यन्ते ! भगवान् आह—‘गौतम !’ हे गौतम ! ‘नो नेरइएसु’ नो नैरयिकेषु पृथिवीकायिका उद्वर्तनानन्तरमुपपद्यन्ते, अपि तु ‘तिरिक्खजोणियमणूसेसु उववज्जंति’ तिर्यग्योनिकमनुष्येषु पृथिवीकायिका अनन्तर मुद्वृत्योपपद्यन्ते, ‘नो देवेसु उववज्जंति’ नो देवेषु पृथिवीकायिका उद्वर्तनानन्तर मुपपद्यन्ते, ‘एवं—जहा एतेसि चैव उववाओ तहा उव्वट्टणावि देववज्जा भाणियव्वा’ एवम् पूर्वोक्त-रीत्या यथा—एतेपाञ्चैव—पृथिवीकायिकानामुपपातो भणितस्तथैव उद्वर्तनाऽपि देववर्जा भणितव्या तत्र—देववर्जा इत्युपलक्षणं नैरयिकवर्जानाम्, नैरयिकेष्वपि पृथिवीकायिकानामुद्वर्तनाया प्रतिपिद्धत्वात्, ‘एवं आवणस्सइ वेइंदिय तेइंदिय चउरिंदियावि’ एवम्—पृथिवीकायिकवदेव अफ्कायिका वनस्पतिकायिका द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रियचतुरिन्द्रिया अपि वक्तव्याः, एवम्—पृथिवीकायिकोक्तरीत्यैव तेजःकायिका वायुकायिका अपि वक्तव्याः, किन्तु ‘नवरं मणुस्सवज्जेसु उववज्जंति’ नवरम्

गौतम हे अनवन् ! पृथ्वीकायिक जीव अनन्तर उद्वर्तना करके कहां जाते हैं ? कहां उत्पन्न होते हैं ? अर्थात् क्या नारकों में उत्पन्न होते क्या तिर्यचों में उत्पन्न होते हैं ? क्या मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं ? क्या देवों में उत्पन्न होते हैं ।

भगवान्—हे गौतम । पृथ्वीकायिक उद्वर्तना के अनन्तर नारकों में उत्पन्न नहीं होते, तिर्यचों और मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं देवों में उत्पन्न नहीं होते । इस प्रकार पृथ्वीकायिकों का जैसा उपपात कहा है वैसी ही उनकी उद्वर्तना भी कहनी चाहिए, देवों में उत्पन्न होने का निषेध यहां कहना चाहिए । पृथ्वीकायिकों की उद्वर्तना देवों को छोड़ कर जो कही वह कथन उपलक्षण है, क्योंकि नारकों में भी पृथ्वीकायिकों की उद्वर्तना का निषेध किया गया है ।

श्री गौतम स्वामीः—भगवन् पृथ्वीकायिक एव अनन्तर उद्वर्तना करी ने क्या जय छे ? क्या उत्पन्न थाय छे ? अर्थात् शु नारकोमा उत्पन्न थाय छे ? शु तिर्यचोमा उत्पन्न थाय छे ? शु मनुष्योमा उत्पन्न थाय छे ? शु देवोमा उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! पृथ्वीकायिक उद्वर्तनानी पछी नारकोमा उमन्न नथी यता, तिर्यचोमा उत्पन्न थाय छे अने मनुष्योमा उत्पन्न थाय छे, देवोमा उत्पन्न नथी यता अे प्रकारे पृथ्वीकायिकोने देवो उपपात कही छे, तेवीज तेमनी उद्वर्तना पखु कडेवी जेधजे, देवोमा उत्पन्न थवानो निषेध करयो जेधजे. पृथ्वीकायिकोनी उद्वर्तना देवो शिवाय जे कही छे ते कथन उपलक्षण छे केमके नारकोमा पखु पृथ्वीकायिकोनी उद्वर्तनानो निषेध कयो छे.

पृथिवीकायिकापेक्षया विशेषस्तु मनुष्यवर्जेषु तेजःकायिकाः, वायुकायिकाश्च उद्वर्तनानन्तरमुपपद्यन्ते, तथा चासुरकुमारादि भवनपतीनां स्वभवाद्दुद्वृत्तानां वादरपर्याप्त पृथिवीकायिक अप्कायिकवनस्पतिकायिक, गर्भव्युत्क्रान्तिक संख्येयवर्षायुष्क तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियमनुष्येषु उत्पादो भवति, पृथिवीकायिकाप्कायिकवनस्पतिकायिक द्वि त्रि चतुरिन्द्रियाणां तिर्यग्योनिकेषु मनुष्येषु च स्वभावाद्दुद्वृत्तानां उत्पादो भवति, तेजःकायिकानां वायुकायिकानाञ्च स्वभवाद्दुद्वृत्तानां तिर्यग्योनिकेष्वेवोत्पादो बोध्यः ॥सू० १३॥

तिर्यग्योनिकाद्युद्वर्तनावक्तव्यता

मूलम्—पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! अणंतरं उव्वट्ठिता कहिं गच्छंति ? कहिं उववज्जंति ? गोयमा !

अप्कायिको द्वीन्द्रियो, त्रीन्द्रियो और चतुरिन्द्रियो का कथन पृथ्वीकायिको के समान ही समझना चाहिए। तेजस्कायिको और वायुकायिको की वक्तव्यता भी पृथ्वीकायिकों के समान है, मगर विशेषता यह है कि तेजस्कायिक और वायुकायिक जीव उद्वर्तना के अनन्तर मनुष्यो मे उत्पन्न नहीं होते।

इस प्रकार असुरकुमार आदि भवनपतियो का अपने भव से उद्वर्तन होने पर वादर पर्याप्त पृथ्वीकायिकों में, अप्कायिकों में, वनस्पतिकायिकों में, गर्भजनित संख्यात वर्ष की आयु वाले पंचेन्द्रिय तिर्यचो तथा मनुष्यो में उत्पाद होता है। पृथ्वीकायिक, अप्कायिक वनस्पतिकायिक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रियों का तिर्यचो और मनुष्यो में उत्पाद होता है किन्तु तेजःकायिकों और वायुकायिकों का अपने भव से उद्वर्तन होने पर तिर्यचो में ही उत्पाद होता है ॥१३॥

अप्कायिको, वनस्पतिकायिको, द्वीन्द्रियो, त्रीन्द्रियो, अने चतुरिन्द्रियोनु कथन पृथ्वीकायिकोना समानञ्च समञ्चु जेधञ्जे. तेजस्कायिको अने वायुकायिकोनी वक्तव्यता पणु पृथ्वीकायिकोना समान छे, पणु विशेषता जे छे के तेजस्कायिक अने वायुकायिक उव उद्वर्तनानी पछी मनुष्येमा उत्पन्न नथी यता.

जे रीते असुरकुमार आदि लवन पतियोना पोताना लवथी उद्वर्तना यतां वादर पर्याप्त पृथ्वीकायिकोमा अप्कायिकोमा वनस्पति कायिकोमा, गर्भजनित संख्यात वर्षानी आयुवाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो तथा मनुष्येमां उत्पाद थाय छे पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, वनस्पतिकायिक, द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय अने चतुरिन्द्रियो ना तिर्यचो अने मनुष्येमा उत्पाद थाय छे पणु तेज कायिको अने वायुकायिकोना पोताना लवथी उद्वर्तन यता तिर्यचोमाञ्च उत्पाद थाय छे. ॥ १३ ॥

नेरइएसु जाव देवेसु उववज्जंति, जइ नेरइएसु उवव-
ज्जंति, किं रयणप्पभापुढवि नेरइएसु उववज्जंति, जाव
अहे सत्तमा पुढवि नेरइएसु उववज्जंति? गोयमा ! रयणप्प-
भापुढवि नेरइएसु उववज्जंति, जाव अहे सत्तमा पुढवि नेरइ-
एसु उववज्जंति, जइ तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति, किं एगिं-
दिएसु जाव पंचिंदिएसु उववज्जंति ? गोयमा ! एगिंदिएसु
जाव पंचिंदिएसु उववज्जंति, एवं जहा एतेसिं चेत्र उववाओ
उव्वट्टणा वि तहेय भाणियव्वा, नवरं असंखेज्जवासाउएसु वि
एते उववज्जंति, जइ मणुस्सेसु उववज्जंति, किं संमुच्छिम-
मणुस्सेसु उववज्जंति ? गब्भवक्कंतिथमणुस्सेसु उववज्जंति ?
गोयमा ! दोसु वि, एवं जहा उववाओ तहेव उव्वट्टणा वि
भाणियव्वा, नवरं अकम्मभूमगगब्भवक्कंतिथ मणुस्सेसु अंतर-
दीवगगब्भवक्कंतिथ मणुस्सेसु असंखेज्जवासाउएसु वि एते
उववज्जंति त्ति भाणियव्वं जइ देवेसु उववज्जंति, किं भवणवईसु
उववज्जंति ? जाव किं वेमाणिएसु उववज्जंति ? गोयमा !
सव्वेसु चेत्र उववज्जंति जइ भवणवईसु किं असुरकुमारेसु
उववज्जंति, जाव थणि रकुमारेसु उववज्जंति ? गोयमा ! सव्वेसु
चेत्र उववज्जंति, एवं वाणमंतरजोइसियवेमाणिएसु निरंतरं उव-
वज्जंति जाव सइस्सरो कप्पोत्ति, मणुस्साणं भंते ! अणंतरं
उव्वट्टिता कहिं गव्वंति, कहिं उववज्जंति ? किं नेरइएसु उवव-
ज्जंति ? जाव देवेसु उववज्जंति ? गोयमा । नेरइएसु वि उवव-
ज्जंति, जाव देवेसु वि उववज्जंति, एवं निरंतरं सव्वेसु ठाणेसु
पुच्छा, गोयमा ! सव्वेसु ठाणेसु उववज्जंति, न किंचि वि पडि-
सेइो कायऽओ, जाव सव्वट्टुसिद्धदेवेसु वि उववज्जंति, अत्थेग-
इया सिंभंति बुंभंति, सुव्वंति, परिनिव्वायंति, सव्वदुक्खाणं

अंत करेंति, वाणमंतरजोइसियवेमाणिय सोहम्सीसाणा य जहा असुर मारा, नवरं जोइसियाण व वेमाणियाण य चयंतीति अभिलावो कायव्वो, सणंकुमारदेवाणं पुच्छा ? गोयमा ! जहा असुरकुमारा, नवरं एगिंदिएसु ण उववज्जंति, एवं जाव सहस्सारयदेवा, आणय जाव अणुत्तरोववाइया देवा एवं चेव नो तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति मणुस्सेसु पज्जत्त संखेज्जवासाउय-कम्मभूमगगवभवकंतिय मणूसेसु उववज्जंति, दारं ।.सू० १४॥

छाया—पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः खलु भदन्त ! अनन्तरम् उद्बृत्त्य—कुत्र गच्छन्ति, कुत्र उपपद्यन्ते ? गौतम ! नैरयिकेषु यावत् देवेषु उपपद्यन्ते, यदा नैरयिकेषु उपपद्यन्ते, किं रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकेषु उपपद्यन्ते ? यावत् अधःसप्तमपृथिवीनैरयिकेषु उपपद्यन्ते, गौतम ! रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकेषु उपपद्यन्ते, यावत् अधःसप्त-

तिर्यग्योनिक आदि की वक्तव्यता

शब्दार्थ—(पंचिंदिय तिरिक्खजोणिया णं मंते ? अणंतरं उव्वट्ठिता कहिं गच्छंति ?) भगवन् ! पंचेन्द्रिय तिर्य च साक्षात् उद्वर्त्तन करके कहां जाते हैं ? (कहिं उववज्ज ति ?) कहां उत्पन्न होते हैं (गोयमा ! नेरइएसु जाव देवेषु उववज्ज ति) गौतम ! नारको में यावत् देवो में उत्पन्न होते हैं ?

(जइ नेरइएसु उववज्जंति) यदि नारको में उत्पन्न होते हैं (किं रयणप्पभापुढविनेरएसु उववज्जंति ?) क्या रत्नप्रभापृथ्वी के नारको में उत्पन्न होते हैं ? (जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएसु उववज्जंति ?) यावत् अधःसप्तमी पृथ्वी के नारको में उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! हे गौतम ! (रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्ज ति) रत्नप्रभा पृथ्वी

(तिर्यग्योनिक आदिनी वक्तव्यता

शब्दार्थ—(पंचिंदियतिरिक्खजोणियाण मंते । अणंतरं उव्वट्ठिता कहि गच्छंति ?) (भगवन् ! पञ्चेन्द्रिय तिर्य च साक्षात् उद्वर्त्तन करीने कथा लय छे ?) (कहि उववज्जति ?) कथा उत्पन्न थाय छे ?

(गोयमा ! नेरइएसु जाव देवेषु उववज्जंति) गौतम ! नारकोमा यावत् देवोमा उत्पन्न थाय छे ।

(जइ नेरइएसु उववज्ज ति) जो नारकोमा उत्पन्न थाय छे (किं रयणप्पभापुढवि नेरइएसु उववज्ज ति ?) शु रत्नप्रभा पृथ्वीना नारकोमा उत्पन्न थाय छे ? (जाव अहेसत्तमा पुढवि नेरइएसु उववज्ज ति ?) यावत् अध आतमी पृथ्वीना नारकोमा उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (रयणप्पभापुढवि-

पृथिवीनैरधिकेषु उपपद्यन्ते यदा तिर्यग्योनिक्केषु उपपद्यन्ते, किम् एकेन्द्रियेषु यावत् पञ्चेन्द्रियेषु उपपद्यन्ते ? गौतम ! एकेन्द्रियेषु यावत् पञ्चेन्द्रियेषु उपपद्यन्ते, एवं यथा एतेपाञ्चैव उपपातः, उद्धर्तनाऽपि तथैव भणितव्या, नवरम्-असंख्येयवर्षा-युष्केष्वपि एते उपपद्यन्ते, यदा मनुष्येषु उपपद्यन्ते, किं समुच्छिममनुष्येषु उपपद्यन्ते, गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येषु उपपद्यन्ते ? गौतम ! द्वयेष्वपि, एवं यथा उपपातस्तथैव उद्धर्तनापि भणितव्या, नवरम्-अकर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येषु

के नारको में उत्पन्न होते हैं (जाव) यावत् (अहे सतमपुढवि नेरइएसु उववज्जंति) यावत् सातवी पृथ्वी के नारको में उत्पन्न होते हैं

(जइ तिरिक्खजोगिणसु उववज्जंति) यदि तिर्यच्चों में उत्पन्न होते हैं (किं एगिंदिएसु जाव पंचिंदिएसु उववज्जंति ?) क्या एकेन्द्रियों में यावत् पंचेन्द्रियो में उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! एगिंदिएसु जाव पंचिंदिएसु उववज्जंति) गौतम ! एकेन्द्रियो में यावत् पंचेन्द्रियो में उत्पन्न होते हैं (एवं जहा एतेसिं चैव उववाओ उव्वट्टणा वि तहेव भाणियव्वा) यो जैसा इनका उपपात कहा है, वैसी उद्धर्तना भी कहनी चाहिए (नवरं) विशेषता यह कि (असंखेज्जवासाउएसु वि एते उववज्जंति) असंख्यात वर्ष की आयु वाले में भी उत्पन्न होते हैं

(जइ मणुस्सेसु उववज्जंति) यदि मनुष्यो में उत्पन्न होते हैं (किं समुच्छिममणुस्सेसु उववज्जंति ?) क्या समुच्छिम मनुष्यो में उत्पन्न होते ? (गठ्मवक्कंतियमणुस्सेसु उववज्जंति ?) गर्भज मनुष्यो में

नेरइएसु उववज्जंति) सतप्रथा पृथ्वीना नारकोभा उत्पन्न थाय छे (जाव) यावत् (अहे सत्तामा पुढवि नेरइएसु उववज्जंति) यावत् सातमी पृथ्वीना नारकोभा उत्पन्न थाय छे.

(जइ तिरिक्खजोगिणसु उववज्जंति) यदि तिर्यच्चोथी उत्पन्न थाय छे. (किं एगिंदिएसु जाव पंचिंदिएसु उववज्जंति ?) शु अेकेन्द्रियोभा यावत् पञ्चेन्द्रियोभा उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! एगिंदिएसु जाव पंचिंदिएसु उववज्जंति) गौतम ! अेकेन्द्रियोभा यावत् पञ्चेन्द्रियोभा उत्पन्न थाय छे. (एवं जहा एतेसिं चैव उववाओ उव्वट्टणा वि तहेव भाणियव्वा) आस न्येो तेभनेो उपपात क्खो छे, तेवीण उद्धर्तना पथु क्खेवी नेठं अे (नवरं) विशेषता अे छे के (असंखेज्जवासाउएसु वि एते उववज्जंति) असंख्यात वर्षानी आयुवाणाओभा पथु तेओ उत्पन्न थाय छे

(जइ मणुस्सेसु उववज्जंति) (ने मनुष्योभा उत्पन्न थाय छे (किं समुच्छिम मणुस्सेसु उववज्जंति ?) शु समुच्छिम मनुष्योभा उत्पन्न थाय छे ? (गठ्मवक्कंतिय मणुस्सेसु उववज्जंति ?) गर्भज मनुष्योभा उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !

अंतं करंति, वाणमंतरजोइसियवेमाणिय सोहम्मीसाणा य जहा असुरकुमारा, नवरं जोइसियाण य वेमाणियाण य चयंतीति अभिलावो कायव्वो, सणंकुमारदेवाणं पुच्छा ? गोइमा ! जहा असुरकुमारा, नवरं एगिंदिएसु ण उववज्जंति, एवं जाव सहस्सारयदेवा, आणय जाव अणुत्तरोववाइया देवा एवं चेत्र नो तिरिक्खजोगिएसु उववज्जंति मणुस्सेसु पज्जत्त संखेज्जवासाउय-कम्मभूमगगवभवकंति य मणुस्सेसु उववज्जंति, दारं ।.सू० १४॥

छाया-पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिःकाः खलु भदन्त ! अनन्तरम् उद्वृत्त्य-कुत्र गच्छन्ति, कुत्र उपपद्यन्ते ? गौतम ! नैरयिकेषु यावत् देवेषु उपपद्यन्ते, यदा नैरयिकेषु उपपद्यन्ते, किं रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकेषु उपपद्यन्ते ? यावत् अधःसप्तमपृथिवीनैरयिकेषु उपपद्यन्ते, गौतम ! रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकेषु उपपद्यन्ते, यावत् अधःसप्तम-

तिर्यग्योनिक आदि की वक्तव्यता

शब्दार्थ-(पंचिन्द्रिय तिरिक्खजोगियाणं भंते ? अणंतरं उव्वट्ठित्ता कहिं गच्छंति ?) भगवन् ! पंचेन्द्रिय तिर्य च साक्षात् उद्वृत्तन करके कहाँ जाते हैं ? (कहिं उववज्जंति ?) कहाँ उत्पन्न होते हैं (गोयमा ! नेरइएसु जाव देवेषु उववज्जंति) गौतम ! नारको में यावत् देवो में उत्पन्न होते हैं ?

(जइ नेरइएसु उववज्जंति) यदि नारको में उत्पन्न होते हैं (किं रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्जंति ?) क्या रत्नप्रभापृथिवी के नारको में उत्पन्न होते हैं ? (जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएसु उववज्जंति ?) यावत् अधःसप्तमी पृथिवी के नारको में उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! हे गौतम ! (रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्जंति) रत्नप्रभा पृथिवी

तिर्यग्योनिक आदिनी वक्तव्यता

शब्दार्थ-(पंचिन्द्रियतिरिक्खजोगियाणं भंते ! अणंतरं उव्वट्ठित्ता कहिं गच्छंति ?) (भगवन् ! पञ्चेन्द्रिय तिर्य च साक्षात् उद्वृत्तन करके कहाँ जाते हैं ?) (कहिं उववज्जंति ?) क्या उत्पन्न थाय है ?

(गोयमा ! नेरइएसु जाव देवेषु उववज्जंति) गौतम ! नारकोमा यावत् देवो मा उत्पन्न थाय है ।

(जइ नेरइएसु उववज्जंति) जे नारकोमां उत्पन्न थाय है (किं रयणप्पभापुढवि नेरइएसु उववज्जंति ?) शु रत्नप्रभा पृथिवीना नारकोमां उत्पन्न थाय है ? (जाव अहेसत्तमापुढवि नेरइएसु उववज्जंति ?) यावत् अधःसप्तमी पृथिवीना नारकोमा उत्पन्न थाय है ? (गोयमा !) हे गौतम ! (रयणप्पभापुढवि-

पृथिवीनैरयिकेषु उपपद्यन्ते यदा तिर्यग्योनिषु उपपद्यन्ते, किम् एकेन्द्रियेषु यावत् पञ्चेन्द्रियेषु उपपद्यन्ते ? गौतम ! एकेन्द्रियेषु यावत् पञ्चेन्द्रियेषु उपपद्यन्ते, एवं यथा एतेपाञ्चैव उपपातः, उद्धर्तनाऽपि तथैव भणितव्या, नवरम्-असंख्येयवर्षा-युक्तेष्वपि एते उपपद्यन्ते, यदा मनुष्येषु उपपद्यन्ते, किं संमुच्छिममनुष्येषु उपपद्यन्ते, गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येषु उपपद्यन्ते ? गौतम ! द्वयेष्वपि, एवं यथा उपपातस्तथैव उद्धर्तनापि भणितव्या, नवरम्-अकर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येषु

के नारको में उत्पन्न होते हैं (जाव) यावत् (अहे सतमपुढवि नेरइएसु उववज्जंति) यावत् सातवी पृथ्वी के नारको में उत्पन्न होते हैं

(जइ तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति) यदि तिर्यचों में उत्पन्न होते हैं (किं एगिंदिएसु जाव पंचिंदिएसु उववज्जंति ?) क्या एकेन्द्रियों में यावत् पंचेन्द्रियो में उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! एगिंदिएसु जाव पंचिंदिएसु उववज्जंति) गौतम ! एकेन्द्रियो में यावत् पंचेन्द्रियो में उत्पन्न होते हैं (एवं जहा एतेसिं चैव उववाओ उव्वट्टणा वि तहेव भाणियव्वा) यो जैसा इनका उपपात कहा है, वैसी उद्धर्तना भी कहनी चाहिए (नवर) विशेषता यह कि (असंखेज्जवासाउएसु वि एते उववज्जंति) असंख्यात वर्ष की आयु वालो में भी उत्पन्न होते हैं

(जइ मणुस्सेसु उववज्जंति) यदि मनुष्यो में उत्पन्न होते हैं (किं संमुच्छिममणुस्सेसु उववज्जंति ?) क्या संमूर्छिम मनुष्यो में उत्पन्न होते ? (गव्मवक्कंतियमणुस्सेसु उववज्जंति ?) गर्भज मनुष्यो में

नेरइएसु उववज्जंति) स्तनप्रला पृथ्वीना नारकोमा उत्पन्न थाय छे. (जाव) यावत् (अहे सत्तमा पुढवि नेरइएसु उववज्जंति) यावत् सातवी पृथ्वीना नारकोमा उत्पन्न थाय छे.

(जइ तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति) यदि तिर्यचोथी उत्पन्न थाय छे. (किं एगिंदिएसु जाव पंचिंदिएसु उववज्जंति ?) शु अेकेन्द्रियोमा यावत् पञ्चेन्द्रियोमा उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा ! एगिंदिएसु जाव पंचिंदिएसु उववज्जंति) गौतम ! अेकेन्द्रियोमा यावत् पञ्चेन्द्रियोमा उत्पन्न थाय छे. (एवं जहा एतेसिं चैव उववाओ उव्वट्टणा वि तहेव भाणियव्वा) आभ जेथे तेभने उपपात क्खो छे, तेवीज्ज उद्धर्तना पणु क्खेवी जेठंअे (नवरं) विशेषता अे छे के (असंखेज्जवासाउएसु वि एते उववज्जंति) असंख्यात वर्षानी आयुवाणाओमा पणु तेओ उत्पन्न थाय छे

(जइ मणुस्सेसु उववज्जंति) (जे मनुष्योमा उत्पन्न थाय छे (किं संमुच्छिम मणुस्सेसु उववज्जंति ?) शु समूर्छिम मनुष्योमा उत्पन्न थाय छे ? (गव्मवक्कंतिय मणुस्सेसु उववज्जंति ?) गर्भज मनुष्योमा उत्पन्न थाय छे ? (गोयमा !

અન્તરદ્વીપજમનુષ્યેષુ અસંખ્યેયવર્ષાયુષ્કેવપિ એતે ઉપપદ્યન્તે ! ઇતિ મણિતવ્યમ્, યદા દેવેષુ ઉપપદ્યન્તે કિં ભવનપતિષુ ઉપપદ્યન્તે, યાવત્-કિં વૈમાનિકેષુ ઉપપદ્યન્તે? ગૌતમ ! સર્વેષુ ચૈવ ઉપપદ્યન્તે, યદા ભવનપતિષુ કિમ્ અસુરકુમારેષુ ઉપપદ્યન્તે, યાવત્ સ્તનિતકુમારેષુ ઉપપદ્યન્તે ? ગૌતમ ! સર્વેષુ ચૈવ ઉપપદ્યન્તે, એવં વાનવ્યન્તર ઉત્પન્ન હોતે હું ? (ગોયમા ! દોસુ વિ) ગૌતમ ! દોનો મેં હી (એવં જહા ઉવવાઓ તહેવ ઉવવટ્ટણાવિ ભાણિયઞ્વા) હસ પ્રકાર જૈસા ઉપપાત કહા વૈસી ઉદ્વર્ત્તના મી કહની ચાહિણ (નવરં) વિશેષ (અકમ્મભૂમગગઞ્ભવક્રકંતિયમણુસેસુ) અકર્મભૂમિજ ગર્ભજ મનુષ્યો મેં અન્તરદીવગગઞ્ભવક્રકંતિયમણુસેસુ અસંખેજ્જવાસાઉણ્ણુ વિ એતે ઉવવજ્જંતિ નિત્તિ અન્તરદ્વીપજ ગર્ભજ મનુષ્યો મેં તથા અસંખ્યાત વર્ષ કી આયુ વાલો મેં મી યે ઉત્પન્ન હોતે હું એસા (ભાણિયઞ્વં) કહના ચાહિણ

(જહ દેવેસુ ઉવવજ્જંતિ) યદિ દેવો મેં ઉત્પન્ન હોતે હું (કિં ભવણવર્ણેસુ ઉવવજ્જંતિ) કયા ભવનપતિયો મેં ઉત્પન્ન હોતે હું ? (જાવ કિં વૈમાણિણ્ણુ ઉવવજ્જંતિ ?) યાવત્ કયા વૈમાનિકો મે ઉત્પન્ન હોતે હું ? (ગોયમા ! સર્વેસુ ચૈવ ઉવવજ્જંતિ) ગૌતમ ! સર્વો મેં ઉત્પન્ન હોતે હું (જહ ભવણવર્ણેસુ કિં અસુરકુમારેસુ ઉવવજ્જંતિ જાવ ધણિયકુમારેસુ ઉવવજ્જંતિ ?) યદિ ભવનપતિયો મેં ઉત્પન્ન હોતે, હું તો કયા અસુરકુમારો મેં ઉત્પન્ન હોતે હું યાવત્ સ્તનિતકુમારો મેં ઉત્પન્ન હોતે હું (ગોયમા ! સર્વેસુ ચૈવ ઉવવજ્જંતિ) ગૌતમ ! સર્વો મેં ઉત્પન્ન હોતે હું (એવં વાણમંતરજોહસિયવૈમાણિણ્ણુ નિરંતરં ઉવવજ્જંતિ) ઇસી

દોસુ વિ) હે ગૌતમ ! અન્નેમા જ (એવ જહા ઉવવાઓ તહેવ ઉવવટ્ટણા વિ ભાણિયઞ્વા) એ રીતે એવો ઉપપાત કહ્યો છે. તેવી ઉદ્વર્ત્તના પણ કહેવી નોંધાયે. (નવર) વિશેષ (અકમ્મભૂમગગઞ્ભવક્રકંતિયમણુસેસુ) અકર્મ ભૂમિજ ગર્ભજ મનુષ્યોમા (અંતરદીવગગઞ્ભવક્રકંતિય મણુસેસુ અસંખેજ્જવાસાઉણ્ણુ વિ એતે ઉવવજ્જંતિ વિ) અન્તર દ્વીપજ ગર્ભજ મનુષ્યોમા તથા અસંખ્યાત વર્ષની આયુવાળાઓમા પણ તેઓ ઉત્પન્ન થાય છે એમ (ભાણિયઞ્વં) કહેવું નોંધાયો.

(જહ દેવેસુ ઉવવજ્જંતિ) નો દેવોમા ઉત્પન્ન થાય છે (કિં ભવણવર્ણેસુ ઉવવજ્જંતિ) શુ ભવનપતિયોમા ઉત્પન્ન થાય છે ? (જાવ કિં વૈમાણિણ્ણુ ઉવવજ્જંતિ ?) યાવત્ શુ વૈમાનિકોમા ઉત્પન્ન થાય છે ? (ગોયમા ! સર્વેસુ ચૈવ ઉવવજ્જંતિ) ગૌતમ ! બધામા ઉત્પન્ન થાય છે (જહ ભવણવર્ણેસુ કિં અસુરકુમારેસુ ઉવવજ્જંતિ જાવ ધણિયકુમારેસુ ઉવવજ્જંતિ ?) નો ભવનપતિયોમા ઉત્પન્ન થાય છે તો શુ અસુરકુમારોમા ઉત્પન્ન થાય છે. યાવત્ સ્તનિતકુમારોમા ઉત્પન્ન થાય છે ? (ગોયમા ! સર્વેસુ ચૈવ ઉવવજ્જંતિ) ગૌતમ ! બધામા ઉત્પન્ન થાય

ज्योतिष्कवैमानिकेषु निरन्तरम् उपपद्यन्ते यावत् सहस्रारः कल्प इति, मनुष्याः खलु भदन्त ! अनन्तरम् उद्दृष्टय कुत्र-गच्छन्ति कुत्र उपपद्यन्ते ? किं नैरयिकेषु उपपद्यन्ते यावत् देवेषु उपपद्यन्ते ! गौतम ! नैरयिकेष्वपि उपपद्यन्ते यावत् देवेष्वपि उपपद्यन्ते, एवं निरन्तरं सर्वेषु स्थानेषु प्रच्छा, गौतम ! सर्वेषु स्थानेषु उपपद्यन्ते न किञ्चिदपि-प्रतिषेधः कर्तव्यः, यावत् सर्वार्थसिद्ध देवेष्वपि उपप-

प्रकार वानव्यन्तर, ज्योतिष्क, वैमानिकों में सीधे उत्पन्न होते हैं (जाव महस्सरो कप्पोत्ति) यावत् सहस्रार कल्प पर्यन्त ऐसा ही समझ लेवें

(मणुस्सा णं भंते ! अणंतरं उव्वट्टित्ता कहिं गच्छंति ?) भगवन् ! मनुष्य अनन्तर उद्द्वर्तन करके कहाँ जाते हैं ? (कहिं उव्वज्जंति ?) कहाँ उत्पन्न होते हैं ? (किं नेरइएसु उव्वज्जंति) क्या नारकों में उत्पन्न होते हैं ? (जाव देवेषु उव्वज्जंति) यावत् देवों में उत्पन्न होते हैं ? (गोयमा ! नेरइएसु वि उव्वज्जंति जाव देवेषु वि उव्वज्जंति) गौतम ! नारकों में भी उत्पन्न होते हैं यावत् देवों में भी उत्पन्न होते हैं (एवं) इस प्रकार (निरन्तरं) लगातार (सव्वेषु ठाणेषु पुच्छा) सभी स्थानों में प्रश्न समझना चाहिए (गोयमा ! सव्वेषु ठाणेषु उव्वज्जंति) गौतम ! सभी स्थानों में उत्पन्न होते हैं (न किंचिवि पडिसेहो कायव्वो) कुछ भी निषेध नहीं करना चाहिए (जाव सव्वट्टिसिद्धदेवेषु वि उव्वज्जंति) यावत् सर्वार्थसिद्ध देवों में भी उत्पन्न होते हैं (अत्थे

ॐ. (एव वाणमंतरजोइसिय वेमाणिएसु निरन्तर उव्वज्जंति) अथा प्रकारे वान-
व्य तर न्येतिष्क, वैमानिकेभा सीधान् उत्पन्न थाय ॐ (जाव सहस्सरो कप्पोत्ति)
यावत् सहस्रार कल्प पर्यन्त ॐ प्रभाषे समञ्जसु.

(मणुत्साण ! अणतरं उव्वट्टित्ता कहिं गच्छंति ?) भगवन् ! मनुष्य पछी
उद्द्वर्तन करीने क्या थाय ॐ ? (कहिं उव्वज्जंति) क्या उत्पन्न थाय ॐ ?
(किं नेरइएसु उव्वज्जंति) शु नारकोभा उत्पन्न थाय ॐ ? (जाव देवेषु उव्व-
ज्जंति) यावत् देवेषु उत्पन्न थाय ॐ ? (गोयमा ! नेरइएसु वि उव्वज्जंति
जाव देवेषु वि उव्वज्जंति) गौतम ! नारकोभा पणु उत्पन्न थाय ॐ, यावत्
देवेषु पणु उत्पन्न थाय ॐ, (एवं) ॐ रीते (निरन्तर) अविस्तर (सव्वेषु ठाणेषु
पुच्छा) अथा स्थानेषु प्रश्न समञ्जसो ॐ ॐ (गोयमा ! सव्वेषु ठाणेषु उव्व-
ज्जंति) गौतम ! अथा स्थानेषु उत्पन्न थाय ॐ. (न किंचि वि पडिसेहो
कायव्वो) क्खपणु निषेध न करवो ॐ ॐ (जाव सव्वट्टिसिद्धदेवेषु वि उव्वज्जंति)
यावत् सर्वार्थ सिद्ध देवेषु पणु उत्पन्न थाय ॐ (अप्पेगइया) क्ख क्ख
(सिद्धंति) सिद्ध थाय ॐ. (वुज्जंति) केवण णेध प्राप्त करे ॐ. (मुच्चंति) मुक्त

घन्ते, अस्त्येके सिध्यन्ति घृद्यन्ते मुच्यन्ते, परिनिर्वान्ति सर्वदुःखानामन्तं कुर्वन्ति, वानव्यन्तरज्योतिष्कवैमानिकसौधर्मेशानाश्च यथा असुरकुमाराः, नवरं ज्योतिष्काणाञ्च वैमाणिकानाञ्च न्यवन्ति इति अभिलापः कर्तव्यः, सनत्कुमार-देवानां पृच्छा ? गौतम ! यथा असुरकुमाराः, नवरम्—एकेन्द्रियेषु न उपपद्यन्ते, एवं यावत् सहस्रारकदेवाः, आनत यावत् अनुत्तरोपपातिका देवा एवञ्चैव, नवरं—नो तिर्यग्योनिकेषु उपपद्यन्ते, मनुष्येषु पर्याप्तक संख्येयवर्षायुष्कर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्येषु उपपद्यन्ते, द्वारम् ।

गतिग्या) कोई-कोई (सिद्धंजति) सिद्ध होते हैं (बुद्धंजति) केवलबोध प्राप्त करते हैं मुच्यन्ति) मुक्त होते हैं (परिनिव्वायंति) परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं (सच्चदुक्खाणं अंतं करेति)सब दुखों का अन्त करते हैं

(वाणमंतर-जोईसिय—वेमाणिय सोहम्मीसाणा य जहा असुर-कुमारा) वानव्यन्तर, ज्योतिष्क, सौधर्म, ईशान के वैमानिक असुर-कुमारों के समान (नवर) विशेष (जोइसियाण य वेमाणियाण य) ज्योतिष्कों और वैमानिकों के लिए (चयंतीति अभिलापो कायव्वो) चयवन करते हैं, ऐसा बोलना चाहिए

(सणकुमारदेवाणं पुच्छा ?) सनत्कुमार देवों संबंधि प्रश्न ? (गोयमा ! जहा असुरकुमारा) गौतम ! असुरकुमारों के समान (नवर) विशेष (एगिंदिएसु न उववज्जंति) एकेन्द्रियों में उत्पन्न नहीं होते (एवं जाव सहस्रारगदेवा) इसी प्रकार यावत् सहस्रार देव (आणय थाय छे, (परिनिव्वायंति) परिनिर्वाण प्राप्त करे छे. (सच्चदुक्खाणं अंतं करंति) सर्व दुःखोंको अंत करे छे

(वाणमंतरजोइसिय—वेमाणिय सोहम्मीसाणा य जहा असुरकुमारा) वानव्यन्तर, ज्योतिष्के, सौधर्म, ईशानना वैमानिक असुरकुमारोना समान (नवरं) विशेष (जोइसियाण य वेमाणियाण य) ज्योतिष्के अने वैमानिकोना भाटे (चयन्तीति अभिलापो कायव्वो) चयवन करे छे ओभ कडेपु ओधंओ

(सणकुमारदेवाणं पुच्छा ?) सनत्कुमारोना देवा स अन्धी प्रश्न । (गोयमा ! जहा असुरकुमारा) 'गौतम ! असुरकुमारोना समान (नवर) विशेष (एगिंदिएसु न उववज्जंति) ओकेन्द्रियोमा उत्पन्न नहीं थता, (एवं जाव सहस्रार देवा) ओअ रीते यावत् सहस्रार देव (आणय जाव अनुत्तरोववाइया देवा) आनत यावत् अनुत्तरोपपातिक देव (एव चैव) ओअ प्रकारे (नवरं) विशेष (नो तिरि-क्ख त्थोणिएसु उववज्जंति) तिर्यग्योमा अन्भता नहीं. (मणुस्सेसु पज्जत्तसंखेज्जं

टीका अथ पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकादीना गुद्वर्तनानवक्तव्यतां प्ररूपयितुमाह—
 'पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! अणंतरं—उव्वट्टित्ता कहिं गच्छंति, कहिं
 उव्वज्जंति' हे भदन्त ! पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः खलु अनन्तरम् उद्वृत्य—उद्व-
 र्तनानन्तरमित्यर्थः कुत्र गच्छन्ति ? कुत्रोपपद्यन्ते ? भगवान् आह—'गोयमा !' हे
 गौतम ! 'नेरइएसु जाव देवेषु उव्वज्जंति' नैरयिकेषु यावत्—तिर्यग्योनिकेषु मनु-
 ष्येषु देवेषु पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका उद्वर्तनानन्तरम् उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—
 'जइ नेरइएसु उव्वज्जंति' यदा नैरयिकेषु पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः उपपद्यन्ते
 'कि रयणप्पभापुढविनेरइएसु—उव्वज्जंति' किं रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकेषु उपपद्यन्ते ?
 'जाव अहे सत्तमापुढविनेरइएसु उव्वज्जंति ?' यावत्—किं शर्कराप्रभा वालुकाप्रभा
 पङ्कप्रभा धूमप्रभा तमाप्रभापृथिवी—अथःसप्तमपृथिवी नैरयिकेषु उपपद्यन्ते ? भग-

जाव अणुत्तरां ववाइया देवा) आनत यावत् अनुत्तरौपपातिक देव (एवं
 चैव) इत्सी प्रकार (नवरं) विशेष (नो तिरिक्खजोणिएसु उव्वज्जंति)
 तिर्यचो में उत्पन्न नहीं होते (मणुस्सेसु पज्जत्तसंखेज्जवासाउय कम्म
 भूमगगव्भवक्कंतियमणूस्सेसु उव्वज्जंति) पर्याप्त संख्यात वर्ष की
 आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं द्वार समाप्त ॥

टीकार्थ—अब पंचेन्द्रिय तिर्यच आदिकों की उद्वर्तना का प्ररूपण
 किया जाता है ।

गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—भगवन् ! पंचेन्द्रिय तिर्यच उद् 'ना
 करके अनन्तर कहाँ जाते हैं ? कहाँ उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! नारकों में यावत् देवों में उत्पन्न होते हैं,
 अर्थात् नारकों में, तिर्यचों में मनुष्यों में और देवों में उत्पन्न होते हैं ।

गौतम—भगवान् यदि पंचेन्द्रिय तिर्यच नारकों में उत्पन्न होते हैं
 तो क्या रत्नप्रभा पृथ्वी के नारकों में उत्पन्न होते हैं ? या शर्करा-

वासाउयकम्मभूमगगव्भवक्क तियमणूस्सेसु उव्वज्ज ति) पर्याप्त संख्यात वर्षानी आयु-
 वाणा कर्मलू(मिज्ज गर्भज मनुष्योभा उत्पन्न थाय छे, तिर्यग्योनिकद्वार समाप्त थयु,

टीकार्थ—हुवे पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो आदिकेनी उद्वर्तनानी प्रश्नपथा करायछेः—

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करे छे—भगवत् । पञ्चेन्द्रिय तिर्यच उद्वर्तना
 करीने त्थार पछी कथां नथ छे ? कथा उत्पन्न थाय छे ।

श्री भगवान्—गौतम ! नारकोभा यावत् देवोभा उत्पन्न थाय छे, अर्थात्
 नारकोभा तिर्यचोभा मनुष्योभा अने देवोभा उत्पन्न थाय छे,

श्री गौतम स्वामी—भगवन् यदि पञ्चेन्द्रिय तिर्यच, नारकोभा उत्पन्न
 थाय छे तो शु रत्नप्रभा पृथ्वीना नारकोभा उत्पन्न थाय छे, अगर शर्करा

वान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'रयणप्पभा पुढवि नेरइएमु उववज्जंति' पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक्काः रत्नप्रभा पृथिवी नैरयिकेषु उपपद्यन्ते, 'जाव अहे सत्तमा-पुढवि नेरइएमु उववज्जंति' यावत् णर्कगप्रभा वालुकाप्रभापङ्कप्रभा धूमप्रभा तमा प्रभाऽथ—सप्तमपृथिवी नैरयिकेषु उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—'जइ तिरिवख-जोणिपसु उववज्जंति' यदा पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक्कास्तिर्यग्योनिक्केषु उपपद्यन्ते तदा 'रि एगिदिएमु जाव पंचिदिएमु उववज्जंति' किम् एकेन्द्रियेषु यावत्—किं द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रियेषु उपपद्यन्ते? भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'एगिदिएमु जाव पंचिदिएमु उववज्जंति' एकेन्द्रियेषु यावत्—द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रियेषु उपपद्यन्ते, 'एवं जहा एतेसिं वेव उववाओ उववज्जावि तहेव भाणियव्वा' एवम्—पूर्वोक्तरीत्या, यथा एतेपाञ्चैव—पञ्चेन्द्रिय-तिर्यग्योनिक्कानामुपपातो भणितस्तथैव उद्वर्तनाऽपि भणितव्या, किन्तु 'णवरं असंखेज्जवावाउएगु वि एते उववज्जंति' नवरम्—उपपातापेक्षया विशेषस्तु—अस-रुयेयवर्पायुष्केण्वपि, एते पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक्का उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति—

प्रभा, वालुका प्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा अथवा तमस्तमः प्रभा पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं ?

भगवान् हे गौतम ! पञ्चेन्द्रिय तिर्यच रत्नप्रभा पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक उत्पन्न होते हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! पञ्चेन्द्रिय तिर्यचों में उत्पन्न होते हैं तो क्या एकेन्द्रियों में उत्पन्न होते हैं, द्वीन्द्रियों, में त्रीन्द्रियों में चौद्विन्द्रियों में अथवा पञ्चेन्द्रियों में उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्—गौतम ! एकेन्द्रियों में यावत् पञ्चेन्द्रियों अर्थात् सब—में उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार जैसा इनका उपपात कहा है, वैसी ही उद्वर्तना भी कहलेनी चाहिए । विशेषता यह है कि ये पञ्चेन्द्रिय

प्रभा, वालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तम प्रभा, अथवा तमस्तम प्रभा पृथ्वीमां उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! पञ्चेन्द्रिय तिर्यच रत्नप्रभा पृथ्वीधी लधने सातमी पृथ्वी सुधी उत्पन्न थाय छे,

श्री गौतमस्वामी—भगवन् ! पञ्चेन्द्रिय तिर्यच यदि तिर्यचोमां उत्पन्न थाय छे तो शु ओकेन्द्रियोमा, द्वीन्द्रियोमा, त्रीन्द्रियोमा आर धन्द्रियोमा अथवा पञ्चेन्द्रियोमा उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! ओकेन्द्रियोमा यावत् पञ्चेन्द्रियो अर्थात् यथाभा उत्पन्न थाय छे ओ शीते नेयो तेमने उपायात कळो छे, तेवीण उद्वर्तना पणु कडेवी नेछओ. विशेषता ओ छे के, आ पञ्चेन्द्रिय तिर्यच असंख्यात

‘जइ मणुस्सेसु उववज्जंति’ यदा मनुष्येषु पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका उपपद्यन्ते तदा
 -,।क संमुच्छिममणुस्सेसु उववज्जंति’ किं संमुच्छिममणुष्येषु उपपद्यन्ते, किं
 वा ‘गम्भवक्कत्तियमणुस्सेसु उववज्जंति’ गर्भव्युत्क्रान्तिरुमणुष्येषु, उपपद्यन्ते ?
 भगवान् आह—‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘दोसु वि’ द्वयेष्वपि—संमुच्छिमगर्भव्यु-
 त्क्रान्तिरुमणुष्येषु पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका उपपद्यन्ते, ‘एवं जहा उववाओ तहेव
 उव्वट्ठणावि भाणियव्वा’ एवम् पूर्वोक्तरीत्या, यथा पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाना-
 मुपपातो भणितस्तथैव उद्वर्तनापि भणितव्या, किन्तु ‘नवरं अकम्मभूमगगम्भ-
 वक्कत्तियमणुस्सेसु अंतरदीवगमणुस्सेसु असंखेज्जवासाउएसुवि एते उववज्जंति
 भाणियव्वं’ नवरम्—उपपातापेक्षया विशेषस्तु—अकर्मभूमिजगर्भव्युत्क्रान्तिक मनु-
 ष्येषु अन्तरद्वीपजमणुष्येषु असंखेयवर्षायुष्केष्वपि मणुष्येषु एते पञ्चेन्द्रिय-
 तिर्यग्योनिका उपपद्यन्ते, इति भणितव्यम् गौतमः पृच्छति—‘जइ देवेषु उवव-
 ज्जंति’ यदा देवेषु उपपद्यन्ते तदा ‘किं भवणवईसु उववज्जंति’ जाव कि वेमाणि-
 तिर्यच असंख्यात वर्ष की आयु वालों में भी उत्पन्न होते हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! पंचेन्द्रिय तिर्यच यदि मणुष्यो में उत्पन्न होते
 हैं, तो क्या संमुच्छिम मणुष्यों में या गर्भज मणुष्यो में उत्पन्न होते हैं ?
 भगवान्—हे गौतम ! दोनो में ही उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार
 इनका जैसा उपपात कहा है, वैसी ही उद्वर्तना भी कह लेनी
 चाहिए । विशेष यह है कि अकर्मभूमिजगर्भज मणुष्यो में अन्तर-
 द्वीपज मणुष्यो में तथा असंख्यात वर्ष की आयु वाली में भी उत्पन्न
 होते हैं, ऐसा कहना चाहिए ।

गौतम—हे भगवन् ! अगर पंचेन्द्रिय तिर्यच देवो में उत्पन्न होते
 हैं तो क्या भवनपतियों में उत्पन्न होते हैं ? वानव्यन्तो में उत्पन्न होते

वर्षनी आयुवाणाओमा पणु उत्पन्न थाय छे.

श्री गौतम स्वामी—भगवन् पञ्चेन्द्रिय तिर्यच जे मणुष्योमा उत्पन्न
 थाय छे तो शु संमुच्छिम मणुष्योमा उत्पन्न थाय छे अगर गर्भज मणु-
 ष्योमा उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवन्—गौतम ! अन्नेमा उत्पन्न थाय छे. जे प्रकारे तेमने
 जेयो उपपात कहे छे, तेवीज उद्वर्तना पणु कडेवी जेधये विशेषता जे
 छे के अकर्मभूमिज गर्भज मणुष्योमा, अन्तरद्वीपज मणुष्योमा तथा
 असंख्यात वर्षनी आयुवाणाओमा उत्पन्न थाय छे, जेम कडेवु जेधये

श्री गौतम स्वामी—भगवन् ! अगर पञ्चेन्द्रिय तिर्यच देवोमा उत्पन्न
 थाय छे, तो शु भवनपतियोमा उत्पन्न थाय छे, वानव्यन्तोमा उत्पन्न थाय

एसु उववज्जति ?' किं भवनपतिषु उपपद्यन्ते ? यावत् किं वानव्यन्तरज्योतिष्क-
वैमानिकेषु उपपद्यन्ते, भगवान् आह-गोयमा ! हे गौतम ! 'सर्व्वेषु चैव उवव-
ज्जति' सर्व्वेषु चैव देवेषु भवनपत्यादि वैमानिकान्तेषु पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका
उपपद्यन्ते, गौतमः पृच्छति- 'जइ भवणवईसु किं असुरकुमारेसु उववज्जति जाव
थणियकुमारेसु उववज्जति' यदा भवनपतिषु पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका उपपद्यन्ते
तदा किम् असुरकुमारेषु उपपद्यन्ते, यावत् किं वा नागकुमार-सुवर्णकुमार-
अग्निकुमार विद्युत्कुमार, उदधिकुमार-दिवकुमारपवनकुमार-स्तनितकुमारेषु
उपपद्यन्ते ? भगवान् आह-गोयमा ! हे गौतम ! 'सर्व्वेषु चैव उववज्जति' सर्व्वेषु
चैव असुरकुमारादि स्तनितकुमारान्तेषु पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका उपपद्यन्ते, 'एवं
वाणमंतर जोइसियवेमाणिएसु निरन्तरं उववज्जति' एवम्-उपर्युक्तीत्या, वान-
व्यन्तरज्योतिष्कवैमानिकेषु निरन्तरम् पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिका उपपद्यन्ते, यावत्-
सौधमेशानसनत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्मलोकलान्तकमहाशुकसहस्रार कल्प इति-गौतमः
पृच्छति 'मणुस्साणं भंते ! अणंतरं उव्वट्टिता कहिं गच्छंति, कहिं उववज्जति ?

हैं, ज्योतिष्को में उत्पन्न होते हैं अथवा वैमानिको में उत्पन्न होते हैं ?
भगवान्-हे गौतम ! भवनपतियो से लेकर वैमानिको तक सभी
में उत्पन्न होते हैं ।

गौतम-हे भगवन् ! यदि भवनपतियो में उत्पन्न होते हैं तो क्या
असुरकुमरो में यावत्-नागकुमारों, सुवर्णकुमारो, अग्निकुमारो
विद्युत्कुमारो उदधिकुमारो द्वीपकुमारो, दिक्कुमारो पवनकुमारो,
या स्तनितकुमारो में उत्पन्न होते हैं ?

भगवान् हे गौतम ! इन सभी में उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार
वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिको में भी उत्पन्न होते हैं, मगर
वैमानिको में सहस्रार कल्प तक उत्पन्न होते हैं ।

छे, ज्योतिष्कोमा उत्पन्न थाय छे अथवा वैमानिकोमा उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवन्-गौतम ! भवनपतियोथी लधने वैमानिक सुधी अधामा
उत्पन्न थाय छे.

श्री गौतम स्वाभी-भगवन् ! जे भवनपतियोमा उत्पन्न थाय छे तो
शु असुरकुमारोमा यावत्-नागकुमारो, सुवर्णकुमारो अग्निकुमारो, विद्युत्कुमारो,
उदधिकुमारो, द्वीपकुमारो, पवनकुमारो, अग्न स्तनितकुमारोमा उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्-आ अधामा उत्पन्न थाय छे अथ प्रकारे वान-व्यन्तर,
ज्योतिष्क अने वैमानिकोमा पणु उत्पन्न थाय छे, पणु वैमानिकोमा सह
स्रारकल्प सुधी उत्पन्न थाय छे.

हे भदन्त ! मनुष्याः खलु अनन्तरम् उद्भृत्य कुत्र गच्छन्ति ? कुत्र उपपद्यन्ते ? 'किं नेरइएसु उववज्जंति जाव देवेसु उववज्जंति ?' किं नैरयिकेषु उपपद्यन्ते ? यावत् किं तिर्यग्योनिकेषु उपपद्यन्ते ? किं वा मनुष्येषु उपपद्यन्ते ? किं वा देवेषु उपपद्यन्ते, भगवान् आह—'गोयमा' हे गौतम ! 'नेरइएसु वि उववज्जंति जाव देवेसु वि उववज्जंति' मनुष्याः स्वभवादुद्धर्तनानन्तरं नैरयिकेष्वपि उपपद्यन्ते, यावत्—तिर्यग्योनिकेष्वपि उपपद्यन्ते, मनुष्येष्वपि उपपद्यन्ते देवेष्वपि उपपद्यन्ते, 'एवं निरन्तरं सव्वेसु ठाणेसु पुच्छा ?' एवम्—उपर्युक्तीत्या निरन्तरम् सर्वेषु स्थानेषु पृच्छा ? भगवान् आह—'गोयमा !' हे गौतम ! 'सव्वेसु ठाणेसु उववज्जंति' मनुष्या निरन्तरं सर्वेषु स्थानेषु उपपद्यन्ते, 'न किंचि वि पडिसेहो कायव्वो' न किञ्चिदपि प्रतिषेधः कर्तव्यः, 'जाव सव्वट्ठसिद्धदेवेसु वि उववज्जंति' यावत् भवनपत्यादि सर्वार्थसिद्धदेवेषु अपि मनुष्याः स्वभवादुद्धर्तनानन्तरम् उपपद्यन्ते, किन्तु 'अत्थेगइया सिज्झंति, वुज्झंति, मुच्चंति, परिनिव्वार्यंति सव्वदुक्खाणं अतं करे ति' अस्थेके—केचन मनुष्याः स्वभवादुद्धर्तनानन्तरं

गौतम—हे भगवन् ! मनुष्य अनन्तर उद्भवत्तं न करके कहाँ जाते हैं ? कहाँ उत्पन्न होते हैं ? नारको में उत्पन्न होते हैं यावत् देवो में उत्पन्न होते हैं ?

भगवन्—हे गौतम ! मनुष्य अपने भव से उद्भवत्तन करके सीधा नारको में भी उत्पन्न होते हैं तिर्यग्यो में भी उत्पन्न होते हैं मनुष्यो में और देवों में भी उत्पन्न होते हैं ।

इसी प्रकार निरन्तर सब स्थानो में पृच्छा करनी चाहिए और उसका उत्तर यह कि—हे गौतम ! मनुष्य सभी स्थानो में उत्पन्न होते हैं, कहीं भी उत्पन्न होने का निषेध नहीं करना चाहिए, यावत् वे सर्वार्थसिद्ध विमान में भी उत्पन्न होते हैं । कोई—कोई मनुष्य सिद्धि प्राप्त करते, हैं, बोधि प्राप्त करते हैं, समस्त कर्मों से या भवपर-

श्री गौतम स्वामी—भगवन् ! मनुष्य अनन्तर उद्भवत्तना करीने क्या ज्ञाय छे ? क्या उत्पन्न थाय छे नारकोमा उत्पन्न थाय छे यावत् देवोमा उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! मनुष्य पोताना भवथी उद्भवत्तना करीने सीधा नारकोमा पण्ण उभन्न थाय छे, तिर्यग्योमा पण्ण उत्पन्न थाय छे, मनुष्योमा अने देवोमा पण्ण उत्पन्न थाय छे.

येन प्रकारे निरन्तर पाधा स्थानोमा उत्पन्न थाय छे, क्यार्थ पण्ण उभन्न थावोना निषेध न करवो जेधये, यावत् तेजो सवार्थसिद्ध विमानोमा पण्ण

सिध्यन्ति बुध्यन्ते मुच्यन्ते, परिनिर्वाण्डि-निर्वाणं प्राप्नुवन्ति, सर्वदुःखानामन्तं कुर्वन्ति, 'वाणमंतरजोऽसियवेमाणियसोऽम्मीसाणाय जहा असुरकुमारा' वानव्यन्तर ज्योतिष्कवैमानिःसौधर्मेगानाश्च यथा असुरकुमाग भणितास्तथा भणितव्याः, किन्तु- 'नवरं जोऽसियाणय वेमाणियाणय चयंतीति अभिलावो कायव्वो' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषतः-ज्योतिष्काणाञ्च वैमानिकानाञ्च च्यवन्ति' इति अभिलापः आलापः कर्तव्यः, गौतमः पृच्छति- 'सणकुमारदेवाणं पृच्छा ?' सनत्कुमारदेवानां पृच्छा ? भगवान् आह- 'गोयमा ! हे गौतम ? जहा असुरकुमारा' यथा असुरकुमारा उक्तास्तथैव सनत्कुमारदेवा वक्तव्याः, किन्तु- 'नवरं एग्गिदिएसु ण उववज्जंति' नवरम्-पूर्वापेक्षया विशेषतः-सनत्कुमारदेवा एकेन्द्रियेषु स्पभवात्प्रच्युत्य न उपपद्यन्ते, एवं जाव सहस्सारगदेवा' एवम्-उक्तरीत्या, यावत्-माहेन्द्रब्रह्मलोकम्परा से मुक्ति प्राप्त करते हैं, निर्वाण प्राप्त करते हैं और समस्त दुःखों का अन्त करते हैं ।

वानव्यन्तर, ज्योतिष्क, तथा सौधर्भ और ऐशान वैमानिकों की प्ररूपणा असुरकुमारों के समान समझनी चाहिए । विशेष बात यह है कि ज्योतिष्क और वैमानिक देवों के लिए 'उद्भवत्तना' शब्द का प्रयोग न करके च्यवन शब्द का प्रयोग करना चाहिए ।

गौतम-भगवन् ! सनत्कुमार देव अनन्तर उद्भवत्तना करके कहाँ उत्पन्न होते हैं ?

भगवान्-गौतम ! सनत्कुमार देवों का कथन असुरकुमारों के समान समझना चाहिए, विशेषता यह है कि सनत्कुमार देव अपने भव से च्यवन करके एकेन्द्रियों में उत्पन्न नहीं होते हैं । इसी प्रकार

उत्पन्न थाय छे. कोळ कोळ मनुष्य सिद्धि प्राप्त करे छे, बोधि प्राप्त करे छे, समस्तकर्मोत्थीया लवपर पराथी मुक्ति प्राप्त करे छे अने समस्तदुःखोना अंत करे छे.

वानव्यन्तर, ज्योतिष्क तथा सौधर्भ अने ऐशान वैमानिकों की प्ररूपणा असुरकुमारोंना समान समझनी लेधये. विशेषवात ये छे के ज्योतिष्क अने वैमानिक देवोंना माटे 'उद्भवत्तना' शब्दना प्रयोग न करता 'च्यवन' शब्दना प्रयोग करवे लेधये.

श्री गौतम स्वामी-भगवन् ! सनत्कुमार देव अनन्तर उद्भवत्तना करीने कथा उत्पन्न थाय छे ?

श्री भगवान्-गौतम ! सनत्कुमार देवों कथन असुरकुमारोंना समान समझनु लेधये, विशेष बात ये छे के सनत्कुमार देव योताना लवथी च्यवन करीने एकेन्द्रियोंना उत्पन्न नहीं थता अर प्रकारे सहस्सार देवलोळ सुधी

शान्तक महाशुक्रसहस्रारकदेवाः वक्तव्याः, 'आणय जाव अणुत्तवोववाइया देवा एव वेव' आनत-यावत्-प्राणत-आरणाच्युतनवग्रैवेयकपञ्चानुत्तरौपपातिका देवा एवश्चैव -पूर्वोक्तवदेव बोध्याः, 'नवरं-णो तिरिक्खजोणिण्णसु उववज्जंति नवरम्'-पूर्वा-पेक्षया विशेषस्तु आनतादि पञ्चानुत्तरौपपातिकान्ता देवा नो तिर्यग्योनिकेषु स्व-भवात्प्रच्यवानन्तरं ह्युपपद्यन्ते, किन्तु-'मणुस्सेसु पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्म-भूमगग्भववकतियमणुसेसु उववज्जंति' मनुष्येषु पर्याप्तसंख्येयवर्षायुष्कर्म-भूमिगगर्मव्युत्क्रान्तिक मनुष्येषु आनतादि देवा उपपद्यन्ते, तथा च पञ्चेन्द्रिय-तिरश्चा नैरधिकतिर्यगमनुष्यदेवगतिषु नवरं वैमानिकेषु सहस्रारर्ष्यन्तेषु, मनुष्याणां सर्वेषु स्थानेषु सनत्कुमारादि देवा सहस्रारदेवपर्यन्तानां गर्भव्युत्क्रान्तिक संख्येय-

सहस्रार देवलोक तरु अर्थात् माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तक, महाशुक्र, और सहस्रार देवलोक के देवों पर्यन्त कहना चाहिए,

आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, नौ ग्रैवेयक तथा पांच अनु-त्तर विमानों के देवों का निरूपण भी इसी प्रकार समझना चाहिए, मगर इनमें विशेष यह है कि ये आनत आदि देव अपने भव का त्यागकर सीधे तिर्यचो में उत्पन्न होते हैं, किन्तु पर्याप्त, संख्यात वर्ष की आयु वाले, कर्मभूमिज, गर्भज मनुष्यो में उत्पन्न होते, हैं।

इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यचों का नारकों तिर्यचों, मनुष्यो और देवों में—किन्तु वैमानिकों में सहस्रार पर्यन्त उत्पाद होता है। मनुष्यों का सभी स्थानों में उत्पाद होता है। सनत्कुमारदेवों से लगाकर सहस्रार कल्प तक के देवों का गर्भज संख्यातवर्ष की आयु वाले पञ्चेन्द्रिय तिर्यचों और मनुष्यों में उत्पाद होता है। आनत आदि

अर्थात् माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तक महाशुक्र अने सहस्रार देवलोकता देवा सुधी कहेषु जेधये

आनत-प्राणत, आरण्य अने अच्युत, नव ग्रैवेयक तथा पाच अनुत्तर विमानाना देवानु निरूपण्य पण्य जेव प्रकारे समन्वयु जेधये. पण्य तेमा विशेषता जे छे के आ आनत आदि देव पोताना भवनेा त्याग करी सीधा तिर्यचोमा उत्पन्न नथी थता किन्तु पर्याप्त, संख्यात वर्षानी आयुवाणा कर्मभूमिज गर्भज मनुष्योमा उत्पन्न थाय छे

जे प्रकारे पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोना नारको तिर्यचो मनुष्यो अने देवोमा किन्तु वैमानिकोमा सहस्रार पर्यन्त उत्पन्न थाय छे, मनुष्योना तथा स्थानमा उत्पाद थाय छे सनत्कुमार देवाथी आरभीने सहस्रार कल्प सुधीना देवानो गर्भज संख्यातवर्षानी आयुवाणा पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो अने मनुष्योमा उत्पाद

वर्षायुष्मत् पञ्चेन्द्रियतिर्धमनुष्येषु, आनतादिदेवानां गर्भजसंख्येयवर्षायुष्मत् मनुष्येष्वेवेति, द्वारं पष्ठम् ॥ सू० १४ ॥

॥ इति पष्ठं द्वारं ॥

मूलम्—नेरुइयाणं भंते ! कति भागावसेसाउया परभविया-
उयं पकरेंति ? गोयमा ! नियमा छम्मासावसेसाउया परभ-
वियाउयं, एवं असुरकुमारा वि, एवं जाव थण्णिकुमारा,
पुढविकाइयाणं भंते ! कति भागावसेसाउया परभवियाउयं
पकरेंति ? गोयमा ! पुढविकाइया दुविहा पण्णत्ता ? तं जहा-
सोवक्कमाउया य निरुवक्कमाउया य, तत्थ णं जे ते निरुवक्कमाउया
ते नियमा तिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति, तत्थ णं
जे ते सोवक्कमाउया ते सिय तिभागावसेसाउया परभविया-
उयं पकरेंति, सिय तिभागतिभागावसेसाउया परभविया-
उयं पकरेंति, सिय तिभागतिभागतिभागावसेसाउया परभवि-
याउयं पकरेंति, आउत्तेउवाउवणफफइकाइयाणं वेइंदियत्तेइंदिय-
च्चउरिंदियाण वि एतं चेत्र, पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते !
कतिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति ? गोयमा ! पंचि-
दियतिरिक्खजोणिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—संखेज्जवासा-
उया य असंखेज्जवासाउया य, तत्थ णं जे ते असंखेज्जवासा-
उया ते नियमा छम्मासावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति,
तत्थ णं जे ते संखिज्जवासाउया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-
सोवक्कमाउया य निरुवक्कमाउया य, तत्थ णं जे ते निरुवक्क-
माउया ते नियमा तिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति,
तत्थ णं जे ते सोवक्कमाउया तेणं सिय तिभागे परभवियाउयं पक-
रेंति, सिय तिभागतिभागे परभवियाउयं पकरेंति, सिय तिभाग-

देवों का गर्भज एवं संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों में ही उत्पाद होता है ।

पष्ठ द्वार समाप्त

थाय छे, आनत आदि देवानो गर्भज एव स ख्यात वर्षानी आयुवाणा मनु-
ष्योभाण उत्पाद थाय छे.

॥ छद्दु द्वार समाप्त ॥

तिभागतिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेति, एवं मणूसा वि, वाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा नेरइया !। दारं।सू. १५।

छाया—नैरयिकाः खलु भदन्त ! कतिभागावशेषायुपः पारभविकायुष्यं प्रकुर्वन्ति ? गौतम ! नियमात् पद्मासावशेषायुष्काः पारभविकायुष्यम्, एवम् असुरकुमारा अपि, एवं यावत् स्तनितकुमाराः पृथिवीकायिकाः खलु भदन्त ! कति भागावशेषायुष्काः पारभविकायुष्यं प्रकुर्वन्ति ? गौतम ! पृथिवीकायिकाः द्विविधाः प्रज्ञाः, तद्यथा सोपक्रमायुष्काश्च, निरुपक्रमायुष्काश्च, तत्र खलु जे ते निरुप

परभव की आयु का बन्ध

शब्दार्थ—(नेरइया णं भंते !) हे भगवन् ! नारक जीव (कति-भागावसेसाउया) कितना भाग आयु शेष रहने पर (परभवियाउयं) आगामी भव की आयु को (पकरेति) करते-बांधते हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (नियमा) नियम से (छम्मासावसेसाउया परभवियाउयं) छह मास आयु शेष रहने पर परभव की आयु बांधते हैं ? (एवं असुर कुमारा वि) इसी प्रकार असुर कुमार भी (एवं जाव थणियकुमारा) इसी प्रकार यावत् स्तनित कुमार ।

(पुढविकाइया णं भंते ! कतिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेति) हे भगवन् ! पृथ्वीकायिक कितने भाग आयु शेष रहने पर परभव की आयु बांधते हैं ? (गोयमा !) हे गौतम ! (पुढविकाइया दुविहा पणत्ता) पृथ्वीकायिक दो प्रकार के कहे हैं । (तं जहा) वे इस प्रकार (सोवक्कमाउया य निरुवक्कमाउया य) उपक्रमयुक्त आयु वाले और

परलवनी आयुना बन्ध

शब्दार्थ—(नेरइयाणं भंते !) हे भगवन् नारक लव (कतिभागावसेसाउया) डेटला भाग आयु शेष रहता (परभवियाउयं) आगामी लवनी आयु (पकरेति) आधे छे-डरे छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (नियमा) नियमથી (छम्मासावसेसाउया परभवियाउयं) छ मास आयु आधी रहतां परलवनी आयु आधे छे (एवं असुरकुमारा वि) ऐसे प्रकारे असुरकुमार पणु (एवं जाव थणियकुमारा) ऐसे प्रकारे यावत् स्तनितकुमार

(पुढविकाइयाणं भंते ! कतिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेति) हे भगवन् ! पृथ्वीकायिक डेटला भाग आयु शेष रहता परलवनी आयु आधे छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (पुढविकाइया दुविहा पणत्ता) पृथ्वीकायिक दो प्रकारना कहे छे (तं जहा) तेओ आ रीते (सोवक्कमाउया य निरुवक्कमाउया य) उपक्रम युक्त आयुवाणा अने उपक्रम रहित आयुवाणा (तत्थ णं) तेओमाथी (जे ते निरुव-

યુષ્કાસ્તે નિયમાત્ ત્રિભાગાવશેપાયુષ્કાઃ પારભવિકાયાુષ્યં પ્રકુર્વન્તિ, તત્ર સ્વલુ યે તે સોપક્રમાયુષ્કાસ્તે સ્યાત્ ત્રિભાગાવશેપાયુષ્કાઃ પારભવિકાયાુષ્યં પ્રકુર્વન્તિ, સ્યાત્ ત્રિભાગત્રિભાગાવશેપાયુષ્કાઃ પારભવિકાયાુષ્યં પ્રકુર્વન્તિ, સ્યાત્ ત્રિભાગત્રિભાગ-ત્રિભાગાવશેપાયુષ્કાઃ પારભવિકાયાુષ્યં પ્રકુર્વન્તિ, અપ્તેજોવાયુવનસ્પતિકાચિકાઃ દ્વીન્દ્રિયત્રીન્દ્રિયચતુરિન્દ્રિયાનામપિ એવઞ્ચૈવ, પશ્ચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકાઃ સ્વલુ મદન્ત !

ઉપક્રમ રહિત આયુ વાલે (તત્થ ણં) ડનમેં સે (જે તે નિરુવક્કમાડયા) નિરુપક્રમ આયુવાલે હેં । (તે) વે (નિયમા) નિયમ સે (તિભાગાવસેસા-ડયા) આયુ કા તીસરા ભાગ શેપ રહને પર (પરભવિયાડયં) પરમવ કી આયુ કો (પકરેંતિ) વાંધતે હેં ? (તત્થ ણં જે તે સોવક્કમાડયા તે) ડનમેં જો સોપક્રમ આયુ વાલે હેં વે (સિય) કદાચિત્ તિભાગાવસેસા-ડયા પરભવિયાડયં પકરેતિ) આયુ કા તીસરા ભાગ શેપ રહને પર પરભવ કી આયુ વાંધતે હેં । (સિય) કદાચિત્ (તિભાગતિભાગા-વસેસાડયા પરભવિયાડં પકરેતિ) તીસરે ભાગ કા તીસરા ભાગ આયુ શેષ રહને પર પરભવ કી આયુ વાંધતે હેં । (સિય) કદાચિત્ (તિભાગ-તિભાગતિભાગાવસેસાડયા પરભવિયાડયં પકરેંતિ) તીસરે ભાગ કે તીસરે ભાગ કા તીસરા ભાગ રહને પર પરભવ કી આયુ વાંધતે હેં ।

(આડ-તેડ-વાડ-વળપ્પહકાહયાણં વેહંદિય-તેહંદિય-ચડરિંદિયાણ વિ એવં ચેવ) અપ્કાચિકોં, તેજરકાચિકોં, વાયુકાચિકોં, વનસ્પતિ-કાચિકોં, દ્વીન્દ્રિયોં ત્રીન્દ્રિયોં, ચૌહંદ્રિયોં કા કથન મી હસી પ્રકાર ।

ક્રમાડયા) નિરુપક્રમ આયુવાળા છે (તે) તેઓ (નિયમા) નિયમથી (તિભાગાવસેસા ડયા) આયુષ્યને ત્રીભે ભાગ શેષ રહેતા (પરભવિયાડય) પર લવના આયુષ્યને (પકરેતિ) ળાધે છે (તત્થણં જે તે સોવક્કમાડયા) તેઓમા જે સોપક્રમ આયુ-વાળા છે (તે) તેઓ (સિય) કદાચિત્ (તિભાગાવસેસાડયા પરભવિયાડયં પકરેંતિ) આયુષ્યને ત્રીભે ભાગ ળાકી રહેતા પર લવના આયુષ્યને ળાધે છે (સિય) કદાચિત્ (તિભાગતિભાગાવસેસાડયા પરભવિયાડયં પકરેતિ) આયુષ્યના ત્રીભ ભાગને ત્રીભે ભાગ ળાકી રહેતા પરલવના આયુષ્યને ળાધે છે (સિય) કદાચિત્ (તિભાગતિભાગતિભાગાવસેસાડયા પરભવિયાડયં પકરેતિ) ત્રીભ ભાગના ત્રીભ ભાગને ત્રીભે ભાગ આયુશેષ રહેતા પરલવનુ આયુષ્ય ળાધે છે (સિય) કદાચિત્ (તિભાગ તિભાગ)

(આડ-તેડ-વાડ-વળપ્પહકાહયાણ વેહંદિય-તેહંદિય-ચડરિંદિયાણ વિ એવં ચેવ) અપ્કાચિકો, તેજરકાચિકો, વાયુકાચિકો, વનસ્પતિકાચિકો, દ્વીન્દ્રિયો, ત્રી

कति भागावशेषायुष्काः पारमविकायुष्कं प्रकुर्वन्ति ? गौतम ! पञ्चेन्द्रियतिर्यङ्गयो-
निका द्विविधाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा—संख्येयवर्षायुष्काश्च असंख्येयवर्षायुष्काश्च, तत्र
खलु ये ते असंख्येयवर्षायुष्कास्ते नियमात् पद्मासावशेषायुष्काः पारमविका-
युष्यं प्रकुर्वन्ति, तत्र खलु ये ते संख्येयवर्षायुष्कास्ते द्विविधाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा—
सोपक्रमायुष्काश्च, निरूपक्रमायुष्काश्च, तत्र खलु ये ते निरूपक्रमायुष्कास्ते निय-
मात्, त्रिभागावशेषायुष्काः पारमविकायुष्कं प्रकुर्वन्ति, तत्र खलु ये ते सोप-

(पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! कति भागावसेसाउया पर-
भवियाउयं पकरे ति ?) भगवन् ! पञ्चेन्द्रिय तिर्यच कितने भाग आयु
शेष रहने पर परभव की आयु बांधते हैं ? (गोयमा ! पंचिन्द्रियतिरि-
क्खजोणिया दुविहा पणत्ता) गौतम ! पञ्चेन्द्रिय तिर्यच दो प्रकार के
कहे हैं । (तं जहा) वे इस प्रकार (संखेज्जवासाउया य असंखेज्ज-
वासाउया य) संख्यात वर्ष की आयु वाले और असंख्यात वर्ष की
आयु वाले (तत्थ णं जे ते असंखेज्जवासाउया) उनमें जो असंख्यात
वर्ष की आयु वाले हैं । (ते नियमा छम्मासावसेसाउया परमवियाउयं
पकरेति) वे नियम से छहमास आयु शेष रहने पर परभव की आयु
बांधते हैं । (तत्थ णं जे ते संखिज्जवासाउया) उनमें जो संख्यात वर्ष
की आयु वाले हैं । (ते दुविहा पणत्ता) वे दो प्रकार के कहे हैं । (तं
जहा) वे इस प्रकार । (सोवक्कमाउया य निरुवक्कमाउया य) पक्रम
आयु वाले और निरूपक्रम आयु वाले (तत्थ णं जे ते निरुवक्कमा-
उया) उनमें जो निरूपक्रम आयु वाले हैं । (ते नियमा) वे नियम से

न्द्रियो, अतुरिन्द्रियोनु कथन पथु आ प्रकारे ७

(पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! कतिभागावसेसाउया परमवियाउयं पकरे-
रे ति ?) हे भगवन् ! पञ्चेन्द्रिय तिर्यच कितने भाग आयुशेष रहने पर-
भवना आयुष्य बांधे छे ? (गोयमा ! पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिया दुविहा पणत्ता)
हे गौतम ! पञ्चेन्द्रिय तिर्यच दो प्रकारना कहे छे (तं जहा) तेओ, आ रीते
(संखेज्जवासाउया य असंखेज्जवासाउयाय) संख्यात वर्षनी आयुवाणा अने
असंख्यात वर्षनी आयुवाणा (ते नियमा छम्मासावसेसाउया परमवियाउयं पकरेति)
तेओ नियमथी छे भास आयुशेष रहने परभवना आयुष्यने बांधे छे

(तत्थण जे ते संखिज्जवासाउया) तेओभां ओ संख्यात वर्षनी आयुवाणा छे
(ते दुविहा पणत्ता) तेओ ओ प्रकारना कहे छे (तं जहा) तेओ आ प्रकारे (सोवक्कमा-
उयाय निरुवक्कमाउयाय) सोपक्रम आयुवाणा अने निरूपक्रम आयुवाणा (तत्थ णं जे ते
निरुवक्कमाउया) तेओभां ओ निरूपक्रम आयुवाणा छे (ते नियमा) तेओ नियमथी

क्रमायुष्कास्ते खलु स्यात् त्रिभागे पारभविकायुष्यं प्रकुर्वन्ति, स्यात् त्रिभागत्रि-
भागे पारभविकायुष्कं प्रकुर्वन्ति, स्यात् त्रिभागत्रिभागत्रिभागावशेषायुष्काः पार-
भविकायुष्यं प्रकुर्वन्ति एवं मनुष्या अपि, चानव्यन्तरज्योतिष्कवैमानिका यथा
नैरयिकाः, द्वारम् ॥ सू० १५ ॥

टीका—पूर्वं येषां जीवानां नरकादि गतिषु नानाप्रकारकउत्पादः प्ररू-
पितस्तैर्जीवैः पूर्वभवे एव वर्तमानैरायुर्वन्धः कृतस्तदनन्तरं परभवे तेषामुपपातो
भवति, अन्यथा उपपातासंभवात्, तत्र पूर्वभवायुषि कियद् भागावशिष्टे सति

(तिभागावसेसाड्या) आयु का तीसरा भाग शेष रहने पर (परभ-
वियाडयं पकरेति) पर भव की आयु बांधते हैं। (तत्थ णं जे ते सोव-
क्कमाड्या) उनमें जो सोपक्रम आयु वाले हैं। (ते णं सिद्य ति भागे
परभवियाडयं पकरेति) वे कदाचित् तीसरे भाग में आयु बांधते हैं।
(सिद्य तिभाग तिभागे परभवियाडयं पकरेति) कदाचित् तीसरे भाग
के तीसरे भाग में परभव की आयु बांधते हैं। (सिद्य तिभागतिभाग-
तिभागावसेसाड्या परभवियाडयं पकरेति) कदाचित् तीसरे भाग के
तीसरे भाग का तीसरा भाग शेष रहने पर परभव की आयु बांधते
हैं। (एवं मणुसा वि) इसी प्रकार मनुष्य भी। (वाणमंतर जोइसिद्यवे-
माणिया जहा नेरइया) वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक नारकों
के समान। द्वार समाप्त ॥ सू० १५ ॥

टीकार्थ—जिन जीवों का नरक आदि गतियों में नाना प्रकार का
उपपात बतलाया गया है, वे जीव जब पूर्वभव में विद्यमान थे तभी
अगले भव की आयु का बंध कर चुके थे। तत्पश्चात् ही आगामी भव

(तिभागावसेसाड्या) आयुने तीले लाग शेष रहेता (परभवियाडयं पकरेति)
परभवतु आयुष्य बांधे छे (तत्थ णं जे ते सोवक्कमाड्या) तेज्जोभा जे सोपक्रम
आयुवाणा छे (ते णं सिद्य तिभागे परभवियाडयं पकरेति) कदाचित् तीले लागभा
परभवतु आयु बांधे छे (सिद्य तिभागतिभागे परभवियाडयं पकरेति) कदाचित्
त्रिले लागना त्रिले लागभा परभवतु आयु बांधे छे. (सिद्य तिभागतिभाग-
तिभागावसेसाड्या ष भवियाडयं पकरेति) कदाचित् तीले लागना तीले लागने
तीले लाग शेष रहेता परभवतु आयु बांधे छे (एव मणुसा वि) जेण प्रकारे
मनुष्ये पणु (वाणमंतरजोइसिद्यवेमाणिया जहा नेरइया) वानव्यन्तर, ज्योतिष्क
अने वैमानिक नारकेना समान समज्जवा द्वार समाप्त.

टीकार्थ—जे जिवेना नरक आदि गतियेभा नाना प्रकारेना उपपात
जताथ्या छे, ते जिवे ज्येरे पूर्वभवमां विद्यमान छता त्यारे आगता जवना

पारमविकायुष्यं जीवा बध्नन्ति ? इति जिज्ञासायां प्ररूपयितुमाह—‘नैरड्याणं मंते ! कति भागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेति ?’ गौतमः पृच्छति, हे भदन्त ! नैरयिकाः खलु कतिभागावशेषायुष्काः—कियद् भागावशिष्टायुषः, पारमविकायुष्यं परमवसम्बन्धायुष्यं प्रकुर्वन्ति बध्नन्ति ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘नियमा छम्मासावसेसाउया परभवियाउयं’ नियमात्—नियमतः खलु नैरयिकाः षड्मासावशेषायुष्का पद्दमासा अवशेषमायु र्पेर्पा ते तथाविधाः पारमविकायुष्यं बध्नन्ति, ‘एवं असुरकुमारा वि एवम् नैरयिकोक्तरीत्यैव, असुरकुमारा अपि नियमात् षड्मासावशेषायुष्काः पारमविकायुष्यं बध्नन्ति इति भावः, ‘एव जाव थणियकुमारा’ एवम्—नैरयिकोक्तरीत्यैव, यावत्—नागकुमाराः, सुवर्णकुमाराः, अग्निकुमाराः विद्युत्कुमाराः, उदधिकुमाराः, द्वीपकुमाराः, दिक्कुमाराः, पवनकु-

में उन की उत्पत्ति हुई। पूर्वभव में आयु का बंध किये बिना उत्पत्ति हो नहीं सकती। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वर्तमान में भोगी जाने वाली आयु का कितना भाग वीत जाने पर अथवा कितना भाग शेष रहने पर जीव आगामी भव की आयु का बन्ध करते हैं ? इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर सूत्रकार प्ररूपणा करते हैं गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—भगवन् ! नारक जीव भुज्यमान आयु का कितना भाग शेष रहने पर आगामी भव की आयु बांधते हैं ?

भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! नियम से छह मास आयु शेष रहने पर नारक जीव अगले भव का बन्ध करते हैं। इसी प्रकार असुर कुमार भी छहमास आयु शेष रहने पर आगामी भव की आयु बांधते हैं। इसी प्रकार नागकुमार, सुवर्णकुमार, अग्निकुमार विद्युत्कुमार,

आयुष्येना षध करीयुक्त्या इता त्पार पष्ठी आगामी लवभा तेमनी उत्पत्ति थर्ध. पूर्व लवभा आयुषेना षध कथा सिवाय उत्पत्ति थर्ध न शकती नथी. तेथी आ प्रश्न थयो स्वाभाविक छे के वर्तमानभा लोणवेला आयुषेना डेटेला लाग वीती नता अथवा डेटेला लाग शेष रहेता एव आगामी लवना आयुष्येने षधे छे जेवा प्रकारनी लज्ञासा थता सूत्रकार प्ररूपणा करे छे

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे—हे भगवन् ! नारक एव भुज्यमान आयुष्येना डेटेला लाग शेष रहेता आगामी लवनु आयुष्ये षधे छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—नियमथी छ मास आयु शेष रहेता नारक एव आगामी लवना आयुष्येना षध करे छे जेवा प्रकारे असुरकुमार छ मास आयु शेष रहेता आगामी लवना आयुषे षधे छे जेवा रीते नागकुमार, सुवर्णकुमार, अग्निकुमार, विद्युत्कुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार, दिक्-

माराः स्तनितकुमारा अपि नियमेन पद्मसावशिष्टायुष्काः पारभविकायुष्यं बध्नन्ति इत्यर्थः, गौतमः पृच्छति—‘पुढविकाइयाणं भंते ! कतिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरंति ?’ हे भदन्त ! पृथिवीकायिकाः खलु कति भागावशेषायुष्काः—कियद् भागावशिष्टायुषः पारभविकायुष्यं—परभवसम्बन्ध्यायुष्यम् प्रकुर्वन्ति ? बध्नन्ति ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘पुढविकाइया दुविहा पणत्ता’ पृथिवीकायिका द्विविधाः प्रज्ञप्ताः ‘तं जहा—सोपक्रमाउया य, निरुपक्रमाउया य’ तद्यथा—सोपक्रमायुष्काश्च निरुपक्रमायुष्काश्च उपक्रमेण सहितमायु र्थेषां ते सोपक्रमायुष्काः नास्ति उपक्रमो यस्मिन् तादृशमायुर्थेषा ते निरुपक्रमायुषः ‘तत्थ णं जे ते निरुपक्रमाउया ते नियमा ति भागावसेसाउया परभवियाउयं पकरंति’ तत्र खलु सोपक्रमनिरुपक्रमायुष्क मध्ये ये निरुपक्रमायुष्काः पृथिवीकायिकाः सन्ति,

उदधि कुमार, द्वीपकुमार, दिक्कुमार, पवनकुमार और स्तनितकुमार भी वर्त्तमान आयु के छह मास शेष रहने पर अगले भव की आयु का बन्ध करते हैं ।

गौतम—हे भगवन् ! पृथिवीकायिक जीव वर्त्तमान आयु का कितना भाग शेष रहने पर परभव की आयु का बन्ध करते हैं

भगवान्—हे गौतम ! पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के कहे हैं—सोपक्रम आयु वाले और निरुपक्रम आयु वाले । आयु का विघात करने वाले विष, शस्त्र, अग्नि, जल आदि उपक्रम कहलाते हैं । इन उपक्रमों के योग से दीर्घ काल में धीरे-धीरे भोगी जाने वाली आयु शीघ्र ही भोग ली जाती है । जो आयु उपक्रमयुक्त हो वह सोपक्रम कहलाती है और जो आयु उपक्रम से प्रभावित न हो सके वह निरुपक्रम कहलाते हैं । पृथ्वीकायिक जीव दोनो प्रकार के होते हैं—सोपक्रम

कुमार, पवनकुमार અને स्तनितकुमार પણ वर्त्तमान आयुना छ मास शेष रहेता आगला लवना आयुनो बन्ध करे छे.

श्री गौतमस्वामीः—छे लगवन् । पृथ्वीकायिक एव वर्त्तमान आयुना केटला लाग शेष रहेता परलवना आयुधनो बन्ध करे छे ?

श्री लगवान्—गौतम ! पृथ्वीकायिक एव जे प्रकारना कइल छे—सोपक्रम आयुवाणा અને निरुपक्रम आयुवाणा, आयुधनो विघात करनारा विष, शस्त्र अग्नि, जल आदि उपक्रम कडेवाय छे. आ उपक्रमोना योगथी दीर्घ कालमा धीरे धीरे लागवातु आयु नदीधी लागवाथ लथ छे जे आयु उपक्रम युक्त होय ते सोपक्रम कडेवाय छे અને जे आयु उपक्रमथी प्रभावित न थथे शके ते निरुपक्रम कडेवाय छे. पृथ्वीकायिक एव अन्ते प्रकारना होय छे—सोपक्रम

ते नियमात्—नियमेन, त्रिभागावशेषायुष्काः—तृतीयभागमवशेषमायुष्येषां ते तथा-
विधाः तृतीयभागावशिष्टायुषः, सम्पूर्णायुष स्तृतीयभागावशेषे इत्यर्थः, पारभवि
कायुष्यं—परभवसम्बन्ध्यायुष्यं प्रकुर्वन्ति—बध्नन्ति, 'तत्थ णं जे ते सोवक्कमाउया
ते सिय तिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति' तत्र खलु सोपक्रमनिरूप-
क्रमायुष्कमध्ये ये सोपक्रमायुष्काः पृथिवीकायिकाः सन्ति ते स्यात्—कदाचित्
केचित्—त्रिभागावशेषायुष्काः—तृतीयभागावशिष्टायुषः पारभविकायुष्यं—परभव-
सम्बन्ध्यायुष्यं, प्रकुर्वन्ति, बध्नन्ति, 'सिय तिभागतिभागावसेसाउया परभविया-
उयं पकरेंति' स्यात्—कदाचित् केचित् सोपक्रमायुषः पृथिवीकायिकाः, त्रिभाग
त्रिभागावशेषायुष्काः—त्रिभागस्य तृतीयभागस्य त्रिभागः तृतीयभागोऽवशेषमायु
ष्येषां ते तथाविधाः तृतीयभागतृतीयभागावशिष्टायुषः, सम्पूर्णायुषो नवमभागे-
ऽवशिष्टे सति इत्यर्थः पारभविकायुष्यं—परभवसम्बन्ध्यायुष्यं प्रकुर्वन्ति बध्नन्ति,
'सिय तिभागतिभागतिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति' स्यात्—कदाचित्
—केचित् सोपक्रमायुष्काः पृथिवीकायिकाः त्रिभागत्रिभागत्रिभागावशेषायुषः,

आयु वाले और निरूपक्रम आयु वाले इनमें जो पृथ्वीकायिक निरूपक्रम
आयु वाले हैं, वे नियम से वर्तमान आयु के दो भाग व्यतीत हो जाने
पर और तीसरा भाग शेष रहने पर आगामी भव की आयु का बंध
करते हैं जो पृथ्वीकायिक जीव सोपक्रम आयु वाले हैं, वे कदाचित्
वर्तमान आयु का तीसरा भाग शेष रहने पर परभव की आयु का बन्ध
करते हैं किन्तु यह नियम नहीं है कि तीसरा भाग शेष रहने पर वे
परभव की आयु का बन्ध कर ही ले अतएव जो जीव उस समय
आयु—बन्ध नहीं करते, वे अवशिष्ट तीसरे भाग के तीन भागों में से
दो भाग व्यतीत हो जाने पर और एक भाग शेष रहने पर आयु का
बन्ध करते हैं। कदाचित् इस तीसरे भाग में भी आयु का बन्ध न

आयुवाणा अने निङ्गकम आयुवाणा. तेजोभां जे पृथ्वीकायिक निङ्गकम
आयुवाणा छे, तेजो नियमधी वर्तमान आयुना जे बाध व्यतीत थई जतां
अने त्रीले लाग शेष रहेता आगामी लवना आयुना भन्ध करे छे. जे
पृथ्वीकायिक एव सोपक्रम आयुवाणा छे, तेजो कदाचित् वर्तमान आयुना
त्रीले लाग शेष रहेता परलवना आयुना भन्ध करे छे किंतु जे नियम
नथी छे त्रीले लाग शेष रहेता ते आयुना भन्ध करी न दे, तेथी न जे
एव ते समये आयुभन्ध नथी करता तेजो अवशिष्ट त्रीले लागना थलु
लागोभाधी जे लाग व्यतीत थई जता अने जेक लाग भाडी रहेता आयुना
भन्ध करे छे. कदाचित् जे त्रीले लागना थलु आयुना भन्ध न थाय ते

त्रिभागस्य—तृतीय भागस्य, यस्त्रिभागस्तृतीयभागस्तस्य त्रिभागस्तृतीयभागो-
ऽवशेषमायुर्येषां ते तथाविधाः, तृतीयभागस्य तृतीयभागो नवमभागस्त-
स्य तृतीयभागः सप्तविंशतितमो भागस्तस्मिन् सम्पूर्णायुषः सप्तविंशतितमे भागे
अवशिष्टे सतीत्यर्थः पारभविकायुष्यम्—परभवसम्बन्ध्यायुष्यं, प्रकुर्वन्ति, बध्न
न्ति, क्वचित्तु यावत्पद्ग्रहणेन तस्यापि आयुषः सप्तविंशतितमभागस्य तृतीय-
भागे एकाशीतितमे भागे केचन सोपक्रमायुष्काः पृथिवीकायिकाः पारभवि-
कायुष्यं बध्नन्ति केचिच्च तस्यापि एकाशीतितमभागस्य तृतीयभागे त्रिचत्वारिंश-
दधिकद्विशततमे भागे पारभविकायुष्यं बध्नन्ति, केचिच्च तस्यापि भागस्य

हुआ तो शेष आयु का तिसरा भाग शेष रहने पर आयु का बन्ध
करते हैं अर्थात् सम्पूर्ण वर्तमान आयु के तीसरे भाग के शेष रहने
पर अथवा नौ वां भाग शेष रहने पर अथवा सत्ताईसवां भाग शेष
ररने पर सोपक्रम आयु वाले पृथ्वीकायिक जीव आगामी भव की आयु
का बन्ध करते हैं ।

कहीं-कहीं यावत् पद का प्रयोग देखाजाता है । उसका अर्थ यह
है कि जो जीव तीसरे भाग के तीसरे भाग के तीसरे भाग में अर्थात्
वर्तमान आयु के सत्ताईसवें भाग में भी आगामी भव की आयु का
बन्ध नहीं करते वे सत्ताईसवें भाग के तीसरे भाग में अर्थात् सम्पूर्ण
आयु के इक्यासी वे भाग में आगामी भव की आयु का बन्ध करते हैं ।
और कोई-कोई जीव उस इक्यासीवें भाग के भी तीसरे भाग में
आयु बांधते हैं, अर्थात् सम्पूर्ण आयु के दो सौ तयालीसवे भाग में
अगले भव की आयु का बन्ध करते हैं । कोई-कोई जीव तो इसके भी

शेष आयुने तीन भाग शेष रहेता आयुने बन्ध करे छे अर्थात् स पूर्ण
वर्तमान आयुने तीन भाग शेष रहेता अथवा नवमे भाग शेष रहेता
अथवा सत्तावीसमे भाग शेष रहेता सोपक्रम आयुवाणा पृथ्वीकायिक एव
आगामी लवना आयुने बन्ध करे छे.

क्याक क्याक 'यावत्' पदने प्रयोग देखाय छे, तेने अर्थ ये छे के
वे एव तीन भागना तीन भागना तीन भागना अर्थात् वर्तमान आयुना
सत्तावीसभा भागभा पञ्च आगामी लवना आयुने बन्ध नहीं करता तेजे
सत्तावीसभा भागना तीन भागभा अर्थात् संपूर्ण आयुष्यना आगामीभा
भागभा आगामी लवना आयुने बन्ध करे छे. अने केध केध एव आगामीभा
भागना तीन भागभा आयु बांधे छे, अर्थात् संपूर्ण आयुना अमे तेता-
लीसभा भागभा आगामी लवना आयुने बन्ध करे छे. केध केध एव तो

तृतीयभागे एकोनत्रिंशदधिक सप्तशततमे भागे पारभविकायुष्यं बध्नाति, इत्येवं-
रीत्या यावत् अन्तर्मुहूर्त्तार्वाशिष्टे आयुषि पारभविकायुष्यं बध्नन्ति इति केचिद्
वदन्ति, मूलेतु यावत्पदं नोपलभ्यते, एतरय युक्तायुक्तत्वे सुधीभिरुहनीये,
'आउतेउवाउवणफफइकाइयाणं वेइंदियतेइंदियउरिंदियाण वि एवं चेव' अष्का-
यिकतेजःकायिकवायुकायिकवनस्पतिकायिदना द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियाना-
मपि, एवञ्चैव-पृथिवीकायिकवदेव पारभविकायुर्वन्धो बोध्यः, गौतमः पृच्छति-
'पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! कति भागावसेसाउया परभवियाउयं पकरंति'
हे भदन्त ! पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिष्ठाः खलु कतिभागावगोषायुष्काः-कियद् भागाव-
शिष्टायुषः पारभविकायुष्यं-परभवसत्त्वन्ध्यायुष्यं प्रकुर्वन्ति बध्नन्ति ? भगवान्
आह-'गोयमा !' हे गौतम ! पंचिंदियतिरिक्खजोणिया दुविहा पण्णत्ता' पञ्चेन्द्रि-
तीसरे भाग में अर्थात् सम्पूर्ण आयु के सात सौ उन्तीसवें भाग में
आयु का बन्ध करते हैं । अगर इस समय भी आयु का बन्ध न किया
तो वर्त्तमान आयु का अन्तर्मुहूर्त्त काल शेष रहने पर तो अवश्य ही
नवीन आयु का बन्ध कर लेते हैं । ऐसा विन्हीं-किर्हां आचार्यों का
कथन है, मगर मूल पाठ में यावत् पद उपलब्ध नहीं इसका विचार
होता । ऐसी स्थिति में यह कथन युक्त है या नहीं इसका विचार
बुद्धिमानों को स्वयं कर लेना चाहिए ।

अष्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, द्वीन्द्रिय
त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवों का आयुबन्ध पृथ्वीकायिकों के समान
ही समझना चाहिए ।

गौतम-हे भगवन् ! पंचेन्द्रिय तिर्यच वर्त्तमान आयु का कितना
भाग शेष रहने पर परभव की आयु का बन्ध करते हैं ?

तेभना पणु त्रीण भागभा अर्थात् सम्पूर्ण आयुना सातसौ अष्टात्रिंशत्तमा
भागभा आयुनेो बन्ध करे छे अगर ये समये पणु आयुनेो बन्ध न कर्ये
तो वर्त्तमान आयुनेो अन्तर मुहूर्त्त काल शेष रहेता तो अवश्य न नवीन
आयुनेो बन्ध करी ले छे जेवु केध केध आचार्योनु कथन छे. पणु मूल
पाठभा 'यावत्' पद उपलब्ध नहीं थतु जेवी स्थितिभा आ कथन
युक्त छे के नडी जेनेो विचार बुद्धिमानोये स्वय करी लेवेो जेध जे

अष्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय
अने चतुरिन्द्रिय जेवोनेो आयुबन्ध पृथ्वीकायिकोना समानन समजवेो जेधजे
श्री गौतमस्वामी :-हे भगवन् ! पंचेन्द्रिय तिर्यच वर्त्तमान आयुना
केटला भाग शेष रहेता परभवना आयुनेो बन्ध करे छे ?

यतिर्यग्योनिकाः द्विविधाः प्रज्ञप्ताः, 'तं जहा-संखेज्जवासाउया य असंखेज्जवासा-उया य' तद्यथा-संख्येयवर्षायुष्काश्च असंख्येयवर्षायुष्काश्च, 'तत्थ णं जे ते असं-खेज्जवासाउया ते नियमा छम्मासावसेसाउया परभवियाउय पकरेति' तत्र खलु-संख्येयासंख्येयवर्षायुष्कमध्ये ये ते असंख्येयवर्षायुष्काः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः सन्ति ते नियमात्-नियमतः पद्दमासावशेषायुष्काः-षण्मासावशिष्टायुषः, पारभवि-कायुष्यं-परभवसम्बन्ध्यायुष्यं प्रकुर्वन्ति-वध्नन्ति 'तत्थ णं जे ते संखिज्जवासा-उया ते दुविहा पणत्ता' तत्र खलु-संख्येयासंख्येयवर्षायुष्कमध्ये ये ते संख्येय-वर्षायुष्काः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः सन्ति ते द्विविधाः प्रज्ञप्ताः 'तं जहा-सोपक-माउया य, निरुक्कमाउया य' तद्यथा-सोपक्रमायुष्काश्च निरुक्कमायुष्काश्च, 'तत्थ णं जे ते निरुक्कमाउया ते नियमा तिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेति' तत्र खलु सोपक्रमनिरुक्कमवर्षायुष्कमध्ये, ये ते निरुक्कमायुष्काः पञ्चेन्द्रिय-तिर्यग्योनिकाः सन्ति, ते नियमात्-नियमतस्त्रिभागावशेषायुष्काः तृतीयभागाव-शिष्टायुषः पारभविकायुष्यम्-परभवसम्बन्ध्यायुष्यं, प्रकुर्वन्ति वध्नन्ति, 'तत्थ णं जे ते सोपक्रमाउया तेणं सिय तिभागे परभवियाउयं पकरेति' तत्र खलु सोप-क्रमनिरुक्कमायुष्क मध्ये ये ते सोपक्रमायुष्काः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः सन्ति

भगवान्-हे गौतम ! पंचेन्द्रिय तिर्यच दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा संख्यात वर्ष की आयु वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले । इनमें जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं, वे नियम से भुज्यमान आयु के छह मास, शेष रहने पर आगामी भव की आयु का बंध करते हैं । और जो संख्यात वर्ष की आयु वाले हैं, वे भी दो प्रकार के हैं-सोप-क्रम आयु वाले और निरूपक्रम आयु वाले । इनमें से निरूपक्रम आयु वाले नियम से वर्तमान आयु का तीसरा भाग शेष रहने पर आगामी भव की आयु का बन्ध कर लेते हैं । जो जीव सोपक्रम आयु वाले हैं, वे कदाचित् तीसरा भाग शेष रहने पर आयु का बन्ध करते हैं, कदा-चित् तीसरे भाग का तीसरा भाग शेष रहने पर आयु का बन्ध करते

श्री भगवान् :-हे गौतम ! पञ्चेन्द्रिय तिर्यच दो प्रकारना कहेला छे, जेम के-संख्यात वर्षनी आयुवाणा अने असंख्यात वर्षनी आयुवाणा तेओभा जे संख्यात वर्षनी आयुवाणा छे, तेओ नियमधी लुब्धमान आयुना छे मास शेष रहैता आगामी भवना आयुना बन्ध करे छे. अने जे संख्यात वर्षनी आयुवाणा छे तेओ पञ्च दो प्रकारना छे -सोपक्रम आयुवाणा अने निरूपक्रम आयुवाणा तेओमाधी निरूपक्रम आयुवाणा नियमधी वर्तमान आयुना तीजे भाग शेष रहैता आगामी भवना आयुना बन्ध करी ले छे. जे एव सोपक्रम आयुवाणा छे, तेओ कदाचित् तीजे भाग शेष रहैता आयुना

ते खलु स्यात्—कदाचित् केचित्, त्रिभागे आयुपस्तृतीयभागे, पारभविकायुष्कं परभवसम्बन्ध्यायुष्यं, प्रकुर्वन्ति—वधन्ति 'सिय तिभागतिभागे परभवियाउयं-पकरेति' स्यात्—कदाचित् केचित् सोपक्रमायुष्काः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः त्रिभागत्रिभागे—तृतीयभागस्य तृतीयभागे सम्पूर्णायुषो नवमभागे इत्यर्थः । पार-भविकायुष्यं—परभवसम्बन्ध्यायुष्यं, प्रकुर्वन्ति—वधन्ति, 'सिय तिभागतिभागति-भागवसेसाउया परभवियाउयं पकरेति' स्यात्—कदाचित्—केचित् पञ्चेन्द्रियतिर्य-ग्योनिकाः, त्रिभागत्रिभागत्रिभागवशेषायुषः तृतीयभागस्य यस्तृतीयभागस्तस्य तृतीयभागवशेषायुष्काः सम्पूर्णायुषः सप्तविंशतितमभागे इत्यर्थः धारभविका-युष्यं—परभवसम्बन्ध्यायुष्यं प्रकुर्वन्ति—वधन्ति, 'एवं मणूसा वि' एवम् पञ्चेन्द्रि-यतिर्यग्योनिकवदेव मनुष्या अपि कदाचित् केचित् सम्पूर्णायुषो नवमभागे, कदाचित् केचित् सम्पूर्णायुषः सप्तविंशतितमभागे पारभविकायुष्यं वधन्तीत्यर्थः 'वाणमंतरजोइसिय वेमाणिया जहा नेरइया' वानव्यन्तरज्योतिष्कवैमानिका यथा

हैं, अर्थात् सम्पूर्ण आयु के नौवां भाग शेष रहने पर आयु बांधते हैं और कोई-कोई उसका भी तीसरा भाग अर्थात् सम्पूर्ण आयु का सत्ताईसवां भाग शेष रहने पर परभव संबंधी आयु का बन्ध करते हैं ।

मनुष्य भी इसी प्रकार आयु का बन्ध करते हैं, अर्थात् पंचेन्द्रिय तिर्यचों के समान कोई-कोई मनुष्य वर्तमान आयु का तीसरा भाग शेष रहने पर, कोई तीसरे भाग का तीसरा भाग शेष रहने पर और कोई तीसरे भाग के तीसरे भाग का तीसरा भाग शेष रहने पर परभव संबंधी आयु का बन्ध करते हैं । किन्तु वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देव, नारकों के समान नियम से छहमास वर्तमान

अन्ध करे छे, कदाचित् त्रीन् लागने त्रीन् लाग शेष रहेता आयुने अन्ध करे छे, अर्थात् सपुर्ण आयुने नवमे लाग शेष रहेता आयु पाधे छे. अने कोध कोध तेने पणु त्रीन् लाग अर्थात् सपुर्ण आयुने सत्तावीसमे लाग शेष रहेता परभव सम्बन्धी आयुने अन्ध करे छे.

मनुष्य पणु अेअ प्रकारे आयुने अन्ध करे छे, अर्थात् पञ्चेन्द्रिय तिर्य-चाना समान कोध कोध मनुष्य वर्तमान आयुने त्रीन् लाग शेष रहेता, कोध कोध त्रीन् लागने त्रीन् लाग शेष रहेता अने कोध त्रीन् लाग त्रीन् लागने त्रीन् लाग शेष रहेता परभव सम्बन्धी आयुने अन्ध करे पणु वान-व्यन्तर, ज्योतिष्क अने वैमानिक देव, नारकाना प्रमान नियमयो

नैरयिका नियमतः षण्मासावशिष्टायुषः पारभविकायुष्यं बध्नन्ति तथैव नियमतः
षण्मासावशिष्टायुष एव पारभविकायुष्यं बध्नन्ति इत्याशयः । इति, ॥६० १५॥

‘दारं’ सप्तमं द्वारं समाप्तम् ॥

मूलम्—कइविहे णं भंते ! आउयबंधे पण्णत्ते ? गोयमा !
छव्विहे आउयबंधे पण्णत्ते, तं जहा—१ जातिनामनिहत्ताउए
२ गतिनामनिहत्ताउए ३ ठितीणामनिहत्ताउए ४ ओगाहण-
नामनिहत्ताउए ५ पएसनामनिहत्ताउए ६ अणुभावनामनिह-
त्ताउए, नेरइयाणं भंते ! कइविहे आउयबंधे पण्णत्ते ? गोयमा !
छव्विहे आउयबंधे पण्णत्ते, तं जहा—जातिनामनिहत्ताउए,
गतिनामनिहत्ताउए, ठिईणामनिहत्ताउए, ओगाहणनामनिह-
त्ताउए, पएसणामनिहत्ताउए, अणुभावणामनिहत्ताउए, एवं
जाव वेमाणियाणं, जीवा णं भंते ! जातिनामनिहत्ताउयं कतिहि
आगरिसेहि पकरेंति ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्केण वा दोहिं
वा, तिहि वा, उक्कोसेणं अट्टहिं, नेरइयाणं भंते ! जातिनाम-
निहत्ताउयं कतिहिं आगरिसेहिं पकरेंति ? गोयमा ! जहण्णेणं
एक्केण वा दोहिं वा, तीहिं वा, उक्कोसेणं अट्टहिं, एवं जाव
वेमाणिया, एवं गतिनामनिहत्ताउए वि, ठिईणामनिहत्ताउए
वि, ओगाहणनामनिहत्ताउए वि, पएसणामनिहत्ताउए वि, अणु-
भावनामनिहत्ताउए वि, एत्तेसि णं भंते ! जीवाणं जातिनाम-
निहत्ताउयं जहण्णेणं एक्केण वा दोहिं वा, तीहिं वा उक्कोसेणं
अट्टहिं आगरिसेहिं पकरेमाणाजं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा,

आयु के जब शेष रहते हैं, तब परभव की आयु का बन्ध करते हैं ।
सातवां द्वार समाप्त ॥ सू० १५ ॥

छ मास वर्तमान आयु न्यारे पाकी रहे छे, त्त्यारे परभवना आयुना बन्ध
करे छे. सातयु द्वार समाप्त ॥ १५ ॥

बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा? गोयमा! सव्वत्थोवा जीवा जातिणामनिहत्ताउयं अट्टहिं आगरिसेहिं पकरेमाणा सत्त-
हिं आगरिसेहिं पकरेमाणा संखेज्जगुणा, छहिं आगरिसेहिं पक-
रेमाणा संखेज्जगुणा, एवं पंचहिं संखिज्जगुणा, चउहिं संखिज्जगुणा
तीहिं संखेज्जगुणा, दोहिं संखिज्जगुणा, एगेणं आगरिसेणं पगरे-
माणा संखेज्जगुणा, एवं एतेणं अभिलावेणं जाव अणुभागणाम-
निहत्ताउयं, एवं एते छप्पिय अप्पाबहुदंडगा जीवादिया भाणि-
यठ्वा, इत्ति पणवणाए वक्कंतियपयं छट्ठं समत्तं । ६ ।।सू० १६।।

छाया—कतिविधः खलु भदन्त ! आयुष्यबन्धः प्रज्ञप्तः ? गौतम ! पद्भिविधः
आयुष्यबन्धः प्रज्ञप्तः, तद्यथा—जातिनामनिधत्तायुष्यम् १, गतिनामनिधत्तायु-
ष्यम् २, स्थितिनामनिधत्तायुष्यम् ३, अवगाहनानामनिधत्तायुष्यम् ४, प्रदेशनाम-
निधत्तायुष्यम् ५, अनुभावनामनिधत्तायुष्यम् ६, नैरयिकाणा भदन्त ! कतिविधः

आयुबन्ध के प्रकार

शब्दार्थ—(कइ विहेणं भंते ! आउयबंधे पणत्ते ?) भगवन् ! आयु
का बंध कितने प्रकार का कहा है ? (गोयमा !) हे गौतम ! (छव्विहे)
छह प्रकार का (आउय बंधे) आयु का बन्ध (पणत्ते) कहा गया है ।
(तं जहा) वह इस प्रकार (जातिनामनिहत्ताउए) जाति नाम निध-
त्तायु (गतिनामनिहत्ताउए) गति नामनिधत्तायु (ठित्तिनाम निह-
त्ताउए) स्थितिनामनिधत्तायु (ओगाहणनामनिहत्ताउए) अवगाहना
नामनिधत्तायु (पएसनामनिहत्ताउए) प्रदेशनामनिधत्तायु (अणुभाव
नाम निहत्ताउए) अनुभाव नाम निधत्तायु ।

(नेरइयाणं भंते ! कइविहे आउयबंधे पणत्ते ?) भगवन् ! नारकों

आयु बन्धना प्रकार

शब्दार्थ—(कइविहेणं भंते ! आउयबंधे पणत्ते ?) हे भगवन् ! आयुना
बन्ध कितने प्रकारना कहा छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (छव्विहे) छ प्रकारना
(आउयबन्धे) आयुना बन्ध (पणत्ते) कहेला छे (तं जहा) ते आ प्रकारे (जाति
नामनिहत्ताउए) जाति नाम निधत्तायु (गतिनामनिहत्ताउए) गति नाम निध-
त्तायु (ठित्तिनामनिहत्ताउए) स्थिति नाम निधत्तायु (ओगाहणनामनिहत्ताउए)
अवगाहना नाम निधत्तायु (पएसनामनिहत्ताउए) प्रदेश नाम निधत्तायु (अणु-
भावनामनिहत्ताउए) अनुभाव नाम निधत्तायु

आयुष्यबन्धः प्रज्ञप्तः ? गौतम ! पद्भविधः आयुष्यबन्धः प्रज्ञप्तः, तद्यथा जातिनामनिधत्तायुष्यम्, गतिनामनिधत्तायुष्यम्, स्थितिनामनिधत्तायुष्यम्, अवगाहनानामनिधत्तायुष्यम्, प्रदेशनामनिधत्तायुष्यम्, अनुभावनामनिधत्तायुष्यम्, एवं यावद् वैमानिकानाम्, जीवाः खलु भदन्त ! जातिनामनिधत्तायुष्यं कतिभिराकर्षैः प्रकुर्वन्ति ? गौतम ! जघन्येन एकेन वा, द्वाभ्यां वा, त्रिभिर्वा, उत्कृष्टेन अष्टभिः नैरयिकाः खलु भदन्त ! जातिनामनिधत्तायुष्यं कतिभिराकर्षैः प्रकुर्वन्ति ? गौतम ! जघन्येन एकेन वा, द्वाभ्यां वा, त्रिभिर्वा, उत्कृष्टेन अष्ट-

का आयु बन्ध कितने प्रकार का कहा है ? (गोयमा ! छत्रिबहे आउयबन्धे पणत्ते) गौतम ! छह प्रकार का आयु बन्ध कहा है । (तं जहा) वह इस कार (जातिनामनिहत्ताउए) जाति नाम निधत्तायु (गतिनामनिहत्ताउए) गतिनामनिधत्तायु (ठिईणामनिहत्ताउए) स्थितिनामनिधत्तायु (ओगाहणणामनिहत्ताउए) अवगाहनानामनिधत्तायु (पदेसणामनिहत्ताउए) प्रदेशनामनिधत्तायु (अणुभावनामनिहत्ताउए) अनुभावनामनिधत्तायु (एवं जाव वेमाणियाणं) इसी प्रकार यावत् वैमानिकों तक । (जीवा णं भंते ! जातिनामनिहत्ताउयं कतिहिं आगरिसेहिं गरे ति ?) भगवन् ! जीव जातिनामनिहत्तायु को कितने आकर्षों से बांधते हैं । (जहण्णेणं एककेण वा, दोहिं वा, तीहिं वा) जघन्य एक, दो या तीन आकर्षों से (उक्कोसेणं अट्टहिं) उत्कृष्ट आठ आकर्षों से ।

(नेरइया णं भंते ! जातिनामनिहत्ताउयं कतिहिं आगरिसेहिं पगरे ति ?) भगवन् ! नारक जाति नाम निधत्तायु को कितने आकर्षों

(नेरइयाणं भंते ! कइविहै आउयबन्धे पणत्ते ?) हे भगवान् ! नारकाना आयु बन्ध केटला प्रकारना कइया छे ? (गोयमा ! छत्रिबहे आउयबन्धे पणत्ते) हे गौतम ! छ प्रकारना आयुबन्ध कइया छे (तं जहा) ते आ प्रकारे (जातिनाम निहत्ताउए) जाति नाम निधत्तायु (गतिनामनिहत्ताउए) गति नाम निधत्तायु (ठिईणामनिहत्ताउए) स्थितिनाम निधत्तायु (ओगाहणणाम निहत्ताउए) अवगाहननाम निधत्तायु (अनुभावनामनिहत्ताउए) अनुभाव नाम निधत्तायु (एवं जाव वेमाणियाणं) ऐअ प्रकारे यावत् वैमानिके सुधी

(जीवाणं भंते ! जातिनामनिहत्ताउयं कतिहिं आगरिसेहिं पगरे ति ?) हे भगवान् ! छव जातिनाम निधत्तायुने केटला आकर्षोथी भाधे छे ? (जहण्णेण एककेण वा, दोहिं वा तीहिं वा ?) जघन्यथी ऐक जे अगरे त्रणु आकर्षोथी (उक्कोसेण अट्टहिं) उत्कृष्ट आठ आकर्षोथी

(नेरइयाणं भंते ! जातिनामनिहत्ताउयं कतिहिं आगरिसेहिं पगरे ति ?) हे भगवान् ! नारक जातिनामनिधत्तायुने केटला आकर्षोथी भाधे छे ? (गोयमा !

भिः एवं यावद् वैमानिकाः, एवं गतिनामनिधत्तायुष्कमपि, स्थितिनामनिधत्ता-
युष्यमपि, अवगाहनानामनिधत्तायुष्यमपि प्रदेशनामनिधत्तायुष्यमपि अनुभावनाम-
निधत्तायुष्यमपि, एतेषां खलु भदन्त ! जीवानां जातिनामनिधत्तायुष्यं जघ-
न्येन एकैन वा द्वाभ्यां वा, त्रिभिर्वा, उत्कृष्टेन अष्टभिराकर्षैः प्रकुर्वता कतरे
कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? गौतम !
सर्वस्तोकाः जीवाः जातिनामनिधत्तायुष्यम् अष्टभिराकर्षैः प्रकुर्वन्तः सप्तभि

से बांधते हैं ? (गोयमा ! जहण्णेणं एककेण वा दोहिं वा तीहिं वा)
गौतम ! जघन्य एक, दो या तीन से (उक्कोसेणं अट्टहिं) उत्कृष्ट आठ
से (एवं जाव वेमाणिया) इसी प्रकार वैमानिकों तक ।

(एवं गति नामनिहत्ताउए वि) इसी प्रकार गति निधत्तायु
भी (ठिइणाम निहत्ताउए वि) स्थितिनाम निधत्तायु भी (ओगाहणा
नामनिहत्ताउए वि) अवगाहना नामनिधत्तायु भी (पदेसनामनिहत्ता-
उए वि) प्रदेशनामनिधत्तायु भी (अणुभावनामनिहत्ताउए वि) अनु-
भावनामनिधत्तायु भी ।

(एतेसिं भंते ! जीवाणं) भगवन् ! इन जीवों में (जहण्णेणं एककेण
वा दोहिं वा तीहिं वा उक्कोसेणं अट्टहिं वा आगरिसेहिं पकरेमाणणं)
जघन्य एक, दो अथवा तीन और उत्कृष्ट आठ आकर्षों द्वारा बंध
करते वालों में (कयरे कयरेहितो) कौन किससे (अप्पा वा, बहुया वा,
तुल्ला वा, विसेसाहिया वा) अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक
है ? (गोयमा ! सन्वत्थोवा जीवा) गौतम ! सब से कम जीव (जाति
नामनिहत्ताउयं) जातिनामनिधत्तायु को (अट्टहिं आगरिसेहिं पकरे-

जहण्णेणं एककेण वा दोहिं वा तीहिं वा) हे गौतम ! जघन्यथी ओक, भे अगर
त्रथुथी (उक्कोसेणं अट्टहिं) उत्कृष्ट आठ आकर्षोथी (एवं जाव वेमाणिया) ओ
प्रकारे वैमानिके सुधी

(एवं गतिनामनिहत्ताउए वि) ओ रीते गति नाम निधत्तायु पथु (ठिइ-
नामनिहत्ताउए वि) स्थितिनामनिधत्तायु पथु (ओगाहणानामनिहत्ताउए वि) अप
गाहना नाम निधत्तायु पथु (पदेसनामनिहत्ताउए वि) प्रदेश नाम निधत्तायु पथु
(अणुभावनामनिहत्ताउए वि) अनुभाव नाम निधत्तायु पथु

(एतेसिं भंते ! जीवाणं) हे भगवन् ! आ लुवेभा (जहण्णेणं एककेण वा
दोहिं वा तीहिं वा उक्कोसेणं अट्टहिं वा आगरिसेहिं पकरेमाणणं) जघन्य ओक,
भे अथवा त्रथु अने उत्कृष्ट आठ आकर्षों द्वारा भध करवावाणाओभा (कयरे
कयरे हितो) ओथु केनाथी (अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा)
अल्प, धथु, तुल्य अगर विशेषाधिक छे ?

(गोयमा ! सन्वत्थोवा जीवा) गौतम ! अधाथी ओछा लुव (जातिनाम-

राकर्षैः प्रकुर्वन्तः संख्येयगुणाः, पद्भिराकर्षः प्रकुर्वन्तः संख्येयगुणाः एवं पञ्चभिः संख्येयगुणाः, चतुर्भिः संख्येयगुणाः, त्रिभिः संख्येयगुणाः, द्वाभ्यां संख्येयगुणाः, एकेन आकर्षेण प्रकुर्वन्तः संख्येयगुणाः. एवम् एतेन अभिलाषेण यावत्-अनुभावनामनिधत्तायुष्यम्, एवम् एते यद्यपि अल्पबहुत्वदण्डका जीवादिका भणितव्याः, इति प्रज्ञापनायां व्युत्क्रान्तिकपदं षष्ठं समाप्तम् ॥

माणा) आठ आकर्षों से बांधने वाले हैं। (सत्तर्हि आगरिसेहिं पकरे-माणा संखेज्जगुणा) सात आकर्षों से बांधने वाले संख्यातगुणा हैं। (छर्हि आगरिसेहिं पकरेमाणा संखेज्जगुणा) छह आकर्षों से बांधनेवाले संख्यातगुणा हैं। (एवं पंचर्हि संखिज्जगुणा) पांच आकर्षों से बांधने वाले संख्यातगुणा (चउर्हि संखिज्जगुणा) चार से बांधने वाले संख्यातगुणा (तीर्हि संखेज्जगुणा) तीन से बांधने वाले संख्यातगुणा (दोर्हि संखिज्जगुणा) दो से बांधने वाले संख्यातगुणा (एणेण आगरिसेएणं पकरेमाणा संखेज्जगुणा) एक आकर्ष से बांधने वाले संख्यातगुणा हैं। (एवं) इस प्रकार (एतेणं अभिलाषेणं) इस अभिलाष से (जाव अणु-भाग नामनिहत्ताउयं) यावत् अनुभाग नामनिधत्तायु का बंध करते हैं। (एवं एते छप्पिय अप्पाबहुदंडगा) इस प्रकार ये छहों अल्प बहुत्व संबंधी दंडक (जीवादीया भाणियव्वा) जीव से आरंभ करके कहने चाहिए (इति पणवणाए वक्कंतियपयं छट्ठं स) इस प्रकार प्रज्ञापना में व्युत्क्रान्ति नामक छठा पद समाप्त हुआ ॥१६॥

निहत्ताउय) क्षति नाम निधत्तायुने (अट्टहि आगरिसेहिं पकरेमाणा) आठ आकर्षोंथी बांधवावाणा छे. (सत्तर्हि आगरिसेहिं पकरेमाणा संखेज्जगुणा) सात आकर्षोंथी बांधवावाणा स ख्यातगणुा छे (छर्हि आगरिसेहिं पकरेमाणा संखेज्जगुणा) छ आकर्षोंथी बांधवावाणा स ख्यातगणुा छे (एवं पंचर्हि संखिज्जगुणा) पाच आकर्षोंथी बांधवावाणा स ख्यातगणुा छे (चउर्हि संखिज्जगुणा) चारथी बांधवावाणा स ख्यात गणुा (तीर्हि संखेज्जगुणा) त्रथुथी बांधवावाणा स ख्यात गणुा (दोर्हि संखिज्जगुणा) दोथी बांधवावाणा स ख्यातगणुा छे (एणेणं आगरिसेएणं पकरेमाणा संखेज्जगुणा) ऐक आकर्षोंथी बांधवावाणा स ख्यातगणुा छे (एवं) ऐ प्रकारे (एतेण अभिलाषेणं) आ अलिदापथी (जाव अणुभागनामनिहत्ताउयं) यावत् अनुभाग नाम निधत्तायुनेो अध करे छे (एव एते छप्पिय अप्पा बहुदंडगा) आ श्रकारे आ छये अदप बहुत्व स भधी दंडके (जीवादीया भाणियव्वा) एवथी आरंभ करीने कडेवा जेधये (इति पणवणाए वक्कंतियपयं छट्ठं समत्तं) आ प्रकारे प्रज्ञापनामां व्युत्क्रान्ति नामक छट्ठं पद समाप्त थयु ॥ १६ ॥

टीका— पूर्वं यद् भागावशेषोऽनुभूयमान भवायुषि जीवाः पारभविकायुष्यं
बध्नन्ति तत्प्रकारं नैरयिकादिदण्डकक्रमेण प्ररूपयितुमाह—‘कश्चिद्देहं भंते !
आउयवंधे पण्णत्ते ?’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! कतिविधः खलु आयुष्यबन्धः
प्रज्ञप्तः ? भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘छव्विहे आउयवंधे पण्णत्ते’
षड्विधः आयुष्यबन्धः वज्जप्तः, ‘तं जहा’ जातिनामनिहत्ताउए’ तद्यथा—जाति-
नामनिधत्तायुष्यम् १, ‘गतिनामनिहत्ताउए’ गतिनामनिधत्तायुष्यम् २, ‘ठिति-
णामनिहत्ताउए’ स्थितिनामनिधत्तायुष्यम् ३, ‘ओगाहणानामनिहत्ताउए’ अवगा-
हनामनिधत्तायुष्यम् ४, ‘पएसनामनिहत्ताउए’ प्रदेशनामनिधत्तायुष्यम् ५, ‘अणु-
भावनामनिहत्ताउए’ अनुभावनामनिधत्तायुष्यम् ६, तत्र जातिः—एकेन्द्रियादिरूपा

टीकार्थ—इससे पूर्व यह प्रतिपादन, किया गया था कि वर्तमान
में भोगी जाने वाली आयु का कितना भाग शेष रहने पर जीव
आगामी भव की आयु का बन्ध करते हैं ? अब यह निरूपण किया
जाता है कि जीव कितने प्रकार की परभव संबंधी आयु वांधते हैं ?
दण्डकक्रम से यह बतलाया जाता है ।

गौतमस्वामी—प्रश्न करते हैं—भगवन् ! आयुष्य का बन्ध कितने
प्रकार का कहा गया है ?

भगवान्—गौतम ! आयुष्यबन्ध छह प्रकार का कहा गया है, वह
इस प्रकार है—(१) जातिनामनिधत्तायु (२) गतिनामनिधत्तायु (३)
स्थितिनाम निधत्तायु (४) अवगाहना नामनिधत्तायु (५) प्रदेशनाम-
निधत्तायु और (६) अनुभाव नामनिधत्तायु ।

एकेन्द्रिय आदि रूप पांच प्रकार की जाती है, वह नाम अर्थात्

टीकार्थ—आना पड़ेला आ प्रतिपादन कथुं इतु के वर्तमानमा लोगवाता-
आयुने केटला लाग शेष रहेता एव आगामी लवना आयुने भध करे छे ?
इवे ते निरूपण कराय छे के एव केटला प्रकारना परलव संधी आयुने
आधे छे ? इउउकेमे आ अतावाय छे —

श्री गौतमस्वामी प्रश्न कर छे —हे लगवन् ! आयुष्यना बन्ध केटला
प्रकारना कडेला छे ?

श्री लगवान् —हे गौतम ! आयुष्य छ प्रकारना कडेला छे, ते आ प्रकारे
छे—(१) जातिनामनिधत्तायु (२) गतिनामनिधत्तायु (३) स्थितिनाम निधत्तायु
(४) अवगाहना नाम निधत्तायु (५) प्रदेशनामनिधत्तायु (६) अने अनुभाव
नाम निधत्तायु

एकेन्द्रिय आदि रूप पांच प्रकारनी जाति छे ते नाम अर्थात् नाम
प्र० १४५

पञ्चप्रकारा सैव नाम-नामकर्मण उत्तरप्रकृतिविशेषरूपं जातिनाम तेन सह निघत्तं-निषिक्तं यदायुस्तज्जातिनामनिघत्तायुः, निषेकश्च कर्मपुद्गलानामनुभवनाथं रचना-रूपो बोध्यः, रचना तु-

‘मोक्षूणसगमवाहं पढमाइठिईए बहुतरं दव्वं ।

सिसे विसेसहीणं जां उक्कोसंति उक्कोसा ॥११॥

छाया—मुचत्वा स्वकीयामवाधाम् (अवाधाकाले नानुभवइति न तत्र दलिक-रचना) प्रथमाया (जघन्यायामन्तर्मुहूर्तरूपायां स्थितौ बहुतरं द्रव्यम् (एकाकर्ष-गृहीतेष्वपि दलिकेषु वृह्नां जघन्यस्थितिनामेव भावात्) शेषायाम् (समयाद्य-धिकान्तर्मुहूर्त्तादिकायां) विशेषहीनम्, एवं यावदुत्कृष्टां स्थितिमुत्कृष्टतः (विशे-पहीनं-सर्वहीनं दलिकं भवति) एव गति नरकगति तिर्यग्गतिमनुष्यगति देवगति भेदाच्चतुर्विधा, सैव नाम गतिनाम तेन सह निघत्तं निषिक्तम्—आयुर्गतिनामनिघ

नाम कर्म की उत्तर प्रकृति है। उसके साथ निघत्त अर्थात् निषिक्त आयु जातिनामनिघत्तायु कहलाती है। अनुभव करने के लिए कर्म-पुद्गलों की रचना विशेष जो होती है, उसे निषेक कहते हैं। वह रचना इस प्रकार होती है—अपने अवाधाकाल को छोड़कर। क्यों कि अवाधा काल में अनुभव नहीं होता, अतः उसमें कर्मदलिकों की रचना नहीं होती, प्रथम अर्थात् अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाण जघन्य स्थिति में बहुतर द्रव्य होता है। एक आकर्ष में ग्रहण किए हुए दलिकों में बहुत-से जघन्य स्थितिवाले ही होते हैं। शेष स्थिति एक समय अधिक अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाण आदि में विशेष कम द्रव्य होता है, इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थिति में उत्कृष्टतः विशेष कम-सब से कम दलिक होते हैं।

गति के चार भेद हैं—नारकगति, तिर्यग्गति, मनुष्यगति और

कर्मनी उत्तर प्रकृति छे ज्येना साथे निघत्त अर्थात् निषिक्त आयु जातिनाम निघत्तायु कडेवाथ छे अनुभव करवाने माटे कर्मपुद्गलाना रचना विशेष ज साथ छे, तेने निषेक कडे छे. ते रचना या प्रकारे थाथ छे—पोताना अवाधा-काणने छोडीने केमके अवाधाकाणमा अनुभव नथी थती तेथी तेमा कर्मदलिकोनी रचना नथी थती प्रथम (अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाण जघन्य)स्थितिमा विशेषाधिक द्रव्य होथ छे (एक आकर्षमा अल्लु करेला दलिकोमा धरुी जघन्य स्थिति ज होथ छे), शेष स्थिति (एक समय अधिक अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाण आदि)मा विशेष ओल्लु द्रव्य होथ छे, ओज रीते उत्कृष्ट स्थितिमा उत्कृष्टत विशेष ओल्लु-अधाथी ओल्लु दलिक होथ छे)

गतिना चार भेद छे—नरकगति, तिर्यग्गति, मनुष्यगति अने देवगति

त्तायुः स्थितिरायुः कर्मानुभवलक्षणा यावत्तत्र भवेन स्थातव्यं तत्प्रधानं नाम-
स्थितिनाम यद् यस्मिन् भवे उदयभागगतमवतिष्ठते तद् गतिजाति शरीरपञ्च-
कादि व्यतिरिक्तम् स्थितिनामबोधयमित्याशयः, तेन सह निधत्तं-निषिक्तम् आयुः
स्थितिनामनिधत्तायुः एवम्-अवगाहते प्रविशति यस्यां जीवः साऽवगाहना-
औदारिकादिशरीरम्, तस्य नाम-औदारिकादिशरीरनामकर्म अवगाहनानाम तेन
सह निधत्तं निषिक्तम् आयुः अवगाहनानामनिधत्तायुः, एवमेव प्रदेशाः कर्मपरमाणु
रूपाः, ते च प्रदेशा संक्रमतोऽपि अनुभूयमाना परिगृह्यन्ते, तत्प्रधानं नाम-
प्रदेशनाम, तथा च यद् यस्मिन् भवे प्रदेशतोऽनुभूयते तत्प्रदेशनामेति फलितम्,

देवगति, तद्रूप नामकर्म को गतिनाम कहते हैं उसके साथ निधत्त
अर्थात् निषिक्त आयु गतिनामनिधत्तायु कहलाती है। अमुक भव में
स्थित रहना स्थिति है, उसकी प्रधानता वाला नाम स्थितिनाम कह-
लाता है। जो जिस भव में उदय को प्राप्त रहता है, वह गति, जाति
तथा पांचों शरीरों से भिन्न स्थितिनाम समझना चाहिए। उस स्थिति-
नाम के साथ निधत्त अर्थात् निषिक्त आयु को स्थितिनाम निधत्तायु
कहते हैं इसी प्रकार जिसमें जीव अवगाहन करे उसे अवगाहना सम-
झना चाहिए

अर्थात् औदारिक आदि शरीर। उनका निर्माण करने वाला
शरीर नाम कर्म अवगाहनानामकर्म कहलाता है। उसके साथ निधत्त
आयु को अवगाहनानामनिधत्त आयु कहते हैं। प्रदेश का अर्थ है
कर्मपरमाणु वे प्रदेश संक्रम से भी भोगे जाने वाले ग्रहण किये जाते
हैं। उनकी प्रधानता वाला नाम प्रदेशनाम कहलाता है। इस का फलि-

तद्द्रूप नामकर्मने गतिनामे कहे छे. तेनी साथे निधत्त अर्थात् निषिक्त आयु
गति नाम निधत्तायु कहेवाय छे. अमुकभवमा स्थित रहेवु ते स्थिति छे,
तेनी प्रधानता नाम स्थितिनाम कहेवाय छे जे, जे लवमा उदयने प्राप्त रहे
छे, ते गति, जाति तथा पाये शरीरार्थी बिल्ल स्थिति नाम समञ्जवु जेधजे.
जे स्थिति नामना कर्मनी साथे निधत्त अर्थात् निषिक्त आयुने स्थितिनाम
निधत्तायु कहे छे जे प्रकरे जेमा एव अवगाहना करे तेने अवगाहना
समञ्जवी जेधजे अर्थात् औदारिक आदि शरीर तेमने निर्माण करनारा शरीर
नामकर्म अवगाहना नामकर्म कहेवाय छे तेनी साथे निधत्त आयुने अव-
गाहना नाम निधत्तायु कहे छे प्रदेशना अर्थ छे कर्म परमाणु. तेजो प्रदेश
स कर्मथी पणु लोकाता अहणु कराय छे. तेमनी प्रधानतावाणा नाम प्रदेश
नाम कहेवाय छे तेनी इदितार्थ आ छे के जे, जे लवमा प्रदेशार्थी लोकावाय

एतावता विपाकोदयमप्राप्तमपि नामपरिगृहीतं भवति, तेन प्रदेशनाम्ना सह निधत्तमायुः प्रदेशनामनिधत्तायुः तथा अनुभावो विपाकः स च प्रकृष्टावस्थो गृह्यते तत्प्रधानं नाम-अनुभावनाम, तथा च यद् यस्मिन् भवे तीव्रविपाकम् नामकर्मानुभूयते यथा नैरयिकायुपि-अशुभवर्णगन्धरसस्पर्शोपघातानादेयदुःस्वरा-यज्ञः कीर्योदिनामानि तदनुभावनाम, तेन सह निधत्तं निषिक्तं आयुरनुभावना-मनिधत्तायुः तत्रायुः कर्मप्राधान्यरूपापनार्थम् जात्यादिनामकर्माणि आयुर्विशेष-णानि बोध्यानि, यतो नारकाद्यायुरुदये सति जात्यादिनामकर्माण्युदयो भवति, नान्ययेति आयुषः प्राधान्यं भवति गौतमः पृच्छति-‘नैरइयाणं भंते ! कइविहे आउयवंध्रे पण्णत्ते’ ? नैरयिकाणा एल्ल भदन्त ! कतिविधः आयुष्यवन्धः प्रज्ञप्तः ?

तार्थ यह है कि जो जिसभत्र में प्रदेशों से भोगा जाता है, वह प्रदेश-नाम कहलाता है। इससे विपाकोदय को प्राप्त भी नाम का ग्रहण हो जाता है। उस प्रदेशनाम के साथ निधत्त आयु को प्रदेशनामनिध-त्तायु कहते हैं। अनुभाव का अर्थ विपाक है। यहां प्रकृष्ट अवस्था वाला विपाक ही ग्रहण किया जाता है। उसकी प्रधानता वाला नाम अनुभावनाम है। अतएव जिस भव में जो तीव्र विपाक वाला नामकर्म भोगा जाता है, वह अनुभावनाम कहलाता है, जैसे नरक में अशुभ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श उपघात, अनादेय, दुःस्वर अयज्ञःकोत्ति आदि। इस अनुभाव नाम के साथ निधत्त आयु अनुभावनामनिधत्तायु कहलाती है। आयु कर्म की प्रधानता प्रकट करने के लिए जाति नाम कर्म आदि भी आयु के विशेषण रूप में कहे गए हैं। क्योंकि नारक आदि की आयु उदय होने पर जातिनामकर्म आदि का उदय होता है अन्यथा नहीं, अतएव आयु की प्रधानता है।

छे, ते प्रदेशनाम कडेवाय छे तेनाथी विपाकोदयने प्राप्त नामनु अहणु थधं लय छे अे प्रदेश नामनी साथे निधत्त आयुने प्रदेश नाम निधत्तायु कडे छे अनुभावनाम अर्थ विपाक छे. अही प्रकृष्ट अवस्थावाणा विपाक न अहणु कराय छे तेनी प्रधानतावाणा नाम अनुभाव नाम छे तेथी न ने लवमा ने तीव्र विपाकवाणु नाम कर्म लोगवाय छे ते अनुभाव नामे कडेवाय छे, नेम नरकमा अशुभ वर्णु गंध, रस, स्पर्श, उपघात, अनादेयदुःस्वर, अयज्ञ झीतीं विगेरे आ अनुभाव नामनी साथे निधत्त आयु अनुभाव नाम निधत्तायु कडेवाय छे आयुकर्मनी प्रधानता प्रकट करवा माटे नति नाम कर्म आदि पणु आयुना विशेषण रूपमा कडेवायेला छे केमके नारक आदिनी आयुने उदय यता नति नाम कर्म आदिने उदय थाय छे, अन्यथा नहि तेथी न आयुनी प्रधानता छे श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे:-हे लगवन् ! नारक एवोना आयुअन्ध

भगवान् आह—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘छव्विहे आउयवधे पणत्ते’ नैरयिकाणां पड्विधः आयुष्यबन्धः प्रज्ञप्तः, ‘तं जहा’—जातिनामनिहत्ताउए, गतिनामनिहत्ताउए, ठितिणामनिहत्ताउए, ओगाहणणामनिहत्ताउए, पदेसणामनिहत्ताउए, अणुभावणामनिहत्ताउए’ तद्यथा—जातिनामनिधत्तायुष्यम् गतिनामनिधत्तायुष्यम्, स्थितिनामनिधत्तायुष्यम्, अवगाहनानामनिधत्तायुष्यम्, प्रदेशनामनिधत्तायुष्यम्, अनुभावनामनिधत्तायुष्यम्, एतद्रूपो बन्धो बोध्यः, ‘एवं जाव वेमाणियाणं’ एवम् उपर्युक्त नैरयिकरीत्या, यावत्—असुरकुमारादि भवनपति—पृथिवीकायिकादि पञ्चैकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चैन्द्रियतिर्यग्योनिरुमनुष्यवानव्यन्तरज्योतिष्कवैमानिकानां पूर्णोक्तजातिनामनिधत्तायुष्यादिपड्विधः आयुष्यबन्धः प्रज्ञप्त इत्यर्थः ।

अथ जातिगत्यादिनामविशिष्टमायुः कतिभिराकर्षेव-नातीति जिज्ञासया

गौतम प्रश्न करते हैं—भगवन् ! नारक जीवों का आयुबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ?

भगवान् उत्तर देते हैं—गौतम ! नारकों का आयुबन्ध छह प्रकार का कहा गया है वह इस प्रकार है—जातिनाम निधत्तायु गतिनामनिधत्तायु स्थितिनामनिधत्तायु अवगाहना नामनिधत्तायु, प्रदेशनामनिधत्तायु और अनुभावनामनिधत्तायु, इसी तरह वैमानिकों तक कह लेना चाहिए अर्थात् असुरकुमार आदि भवनपतियों का पृथ्वीकाय आदि पांच एकेन्द्रियों का तीन विकलेन्द्रियों का पचेन्द्रिय तिर्यचों का, मनुष्यों का, वानव्यन्तरों का, ज्योतिष्क देवों का और वैमानिकों का आयुबन्ध भी उक्त प्रकार से छह बारह का है ।

अब यह प्ररूपणा की जाती है कि जाति गति आदि से विशिष्ट

कैला प्रकारना कडैला छे ?

श्री भगवान् उत्तर आपे छे—हे गौतम ! आयुबन्ध छ प्रकारना कडैला छे ते आरीते छे—जाति नामनिधत्तायु, गतिनामनिधत्तायु स्थितिनामनिधत्तायु, अवगाहनानामनिधत्तायु, प्रदेशनामनिधत्तायु, अनुभावनामनिधत्तायु अरीते वैमानिके सुधी कडैला देवा जेअये अर्थात् असुरकुमार आदि भवनपतियोना पृथ्वीकाय आदि पाच अकेन्द्रियना, त्रय विकलेन्द्रियोना, पचेन्द्रिय तिर्यचोना मनुष्योना, वानव्यन्तरोना, ज्योतिष्क देवोना वैमानिकोना आयुबन्ध पणु उक्त प्रकारथी छ प्रकारना छे.

हुवे ते प्ररूपणा कराय छे के जाति गति आदिथी विशिष्ट आयुने एव

जीवादि दण्डकक्रमेण-प्ररूपयितुमाह-‘जीवाणं भंते ! जातिनामनिधत्ताउयं कतिहि आगरिसेहिं पगरे ति’ ? हे भदन्त ! जीवाः खलु जातिनामनिधत्तायुष्यं कति-भिराकर्षः प्रकुर्यन्ति, बध्नन्ति ? तत्र आकर्षोहि तथाविध प्रयत्नेन कर्मपुद्गलो पादानरूपो बोध्यः, भगवान् आह-‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘जहण्णेण एकेण वा, दोहिं वा, तीहिं वा, उक्कोसेणं अट्टहिं’ जघन्येन एकेन वा आकर्षेण, द्वाभ्यां वा आकर्षाभ्याम्, त्रिभिर्वा आकर्षैः, उत्कृष्टेन अष्टभिराकर्षैः जीवाः जातिनाम-निधत्तायुष्यं बध्नन्ति, यथा गौर्जलं पिवन्ती भयेन पुनः पुनराधोत्थति तथैव जीवोऽपि यदा तीव्रेण आयुष्यबन्धाध्यवसायेन जातिनामनिधत्तायुष्यं गतिनाम-निधत्तायुष्यादिकं वा बध्नाति तदा एकेन मन्देन द्वाभ्यां त्रिभिर्वा मन्दतरेण त्रिभिश्चतुर्भिर्वा मन्दतमेन पञ्चभिः षड्भिः सप्तभिरष्टभिर्वा आकर्षैर्बध्नाति इत्याशयः, अत्रायुषा सहबध्यमानानामेव जात्यादिनाम्नामाकर्षणियमो बोध्यः, न

आयु को जीव कितने आकर्षों से बांधता है ?

गौतम प्रश्न करते हैं-हे भगवन् ! जीव जाति नामनिधत्तायु को कितने आकर्षों से बांधते हैं ? विशेष प्रकार के प्रयत्न से कर्मपुद्गलों को ग्रहण करना आकर्ष कहलाता है ।

भगवान्-गौतम ! जघन्य एक, दो अथवा तीन आकर्षों से और उत्कृष्ट आठ आकर्षों से जीव जातिनामनिधत्तायु का बन्ध करते हैं । जैसे जल पीती हुई गाय भय के कारण पुनःपुनः आधोटन करती है-धुंटा लेनी हैं, उसी प्रकार जीव भी जब आयुबन्ध संघी तीव्र अव्यवसाय से जाति नामनिधत्तायु का बन्ध करता है, तब एक मन्द आकर्ष से, या दो तीन मन्दतर अथवा तीन-चार मन्दतम अथवा पांच, छह सात या आठ आकर्षों से बांधता है । यहाँ यह बात ध्यान

केटला आकर्षोथी भाधे छे ?

श्री गौतमस्वामी प्रश्न करे छे -हे भगवन् ! एव नति नाम निधत्तायुने केटला आकर्षोथी भाधे छे ? विशेष प्रकारना प्रयत्नथी कर्मपुद्गलने अठथु करुषु ते आकर्षं कडेवाय छे ?

श्री भगवान् :-हे गौतम ! जघन्य ओक, जे अथवा त्रणु आकर्षोथी अने उत्कृष्ट यावत् आठ आकर्षोथी एव नति नाम निधत्तायुने अन्ध करे छे. जेम पाणी पीती गाय लयना करण्णु पुनः पुनः आ धोटन करे छे धूटा ले छे ओन् प्रकारे एव पणु न्यारे आयुअन्ध स भ धी तीव्र अव्यवसायथी नतिनाम निधत्तायुने अन्ध करे छे त्यारे ओक मन्द आकर्षोथी. अगर जे-त्रणु मन्दतर अथवा त्रणु चार मन्दतम अथवा पाच छ, सात अगर आठ आकर्षोथी भाधे

शेषकालम्, कासांचित् प्रकृतीनां ध्रुवबन्धिनीत्वात्, अन्यासां परावर्तमानत्वात् प्रचुरकालमपि बन्धसंभवेनाकर्षणनियमाभावात्, गौतमः पृच्छति 'नेरइयाणं भंते ! जातिनामनिघत्तायं कतिहिं आगरिसेहिं पगरे ति ? हे भदन्त ! नैरयिकाः खलु जातिनामानिघत्तायुष्यं कतिभिराकर्षैः प्रकुर्वन्ति बध्नन्ति, भगवान् आह— 'गोयमा !' हे गौतम ! 'जहण्णेणं एक्केण वा दोहिं वा, तीहिं वा, उक्कोसेणं अट्टहिं' जघन्येन एकेन वा, द्वाभ्यां वा, त्रिभिर्वा, उत्कृष्टेन यावम्—अष्टभिराकर्षैः नैरयिकाः जातिनामनिघत्तायुष्यं बध्नन्ति, 'एवं जाव वेमाणिया' एवम्—नैरयिकवदेव यावत्—असुरकुमारादि भवनपतयः, पृथिवीकायिकाद्येकेन्द्रियाः, विकलेन्द्रियाः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक्काः, मनुष्याः, वानव्यन्तराः ज्योतिष्काः, वैमानिकाश्च जघन्येन एकेन वा द्वाभ्यां वा त्रिभिर्वा उत्कृष्टेन अष्टभिराकर्षैः

में रखनी चाहिए कि आयु के साथ बांधने वाले जातिनाम आदि में ही आकर्ष का नियम है, शेष काल में नहीं। कोई कोई प्रकृतियां ध्रुव बन्धिनी होती हैं, कोई परावर्तमान होती हैं। उनका बहुत समय तक भी बन्ध संभव होने से आकर्षों का कोई नियम नहीं है।

गौतम—हे भगवन् ! नारक जीव कितने आकर्षों से जातिनाम निघत्तायु का बन्ध करते हैं ?

भगवान्—हे गौतम ! जघन्य एक, दो अथवा तीन आकर्षों से, उत्कृष्ट यावत् आठ आकर्षों से नारक जातिनामनिघत्तायु का बन्ध करते हैं। नारकों के समान ही भवनपतियों, पृथ्वीकायिक आदि एकेन्द्रियों, विकलेन्द्रियों, पंचेन्द्रिय तिर्यचों, मनुष्यों, वानव्यन्तरों, ज्योतिष्कों और वैमानिकों के विषय में भी कह लेना चाहिए अर्थात्

छे, अह्ठी अे वात ध्यानमा राभवी जेधअे डे आयुनी साथे बाधवावाणा जति नाम आदिमा ज आकर्षेना नियम छे, शेषकालमा नथी. केध केध प्रकृतिये ध्रुव बन्धनी होय छे केध परावर्तमान होय छे तेअेने धण्णु समय सुधी पण्णु बन्धेना स लव होवाथी आकर्षेना केध नियम नथी

श्री गौतम स्वामीः—भगवन् ! नारक एव केटला आकर्षेथी जति नाम निघत्तायुने बन्ध करे छे ?

श्री भगवान्—गौतम ! जघन्य अेक अे अथवा त्रण्णु आकर्षेथी, उत्कृष्ट यावत् आठ आकर्षेथी नारक जतिनाम निघत्तायुने बन्ध करे छे नारकेनी जेमज लवनपतिये, पृथ्वीकायिक आदि अेकेन्द्रिये, विकलेन्द्रिये, पञ्चेन्द्रिये, तिर्यअे, मनुष्ये, वानव्यन्तरे, ज्योतिष्के अने वैमानिकेना विषयमा पण्णु कडेवु जेधअे, अर्थात् अे अथा एव जघन्य अेक अे अथवा त्रण्णु आकर्षेथी

जातिनामनिधत्तायुष्यं वध्नन्ति, 'एवं गतिनामनिहत्ताउए वि, ठितीणामनिहत्ताउए वि' एवम् जातिनामनिधत्तायुष्यवत्, गतिनामनिधत्तायुष्यमपि, स्थितिनामनिधत्तायुष्यमपि 'ओगाहणाणामनिहत्ताउए वि' अवगाहनानामनिधत्तायुष्यमपि, 'पदेसनामनिहत्ताउए वि' प्रदेशनामनिधत्ताउए वि' प्रदेशनामनिधत्तायुष्यमपि, अणुभावनामनिहत्ताउए वि' अनुभावनामनिधत्तायुष्यमपि नैरयिकादिवैमानिकान्ताजीवा जघन्येन एकेन वा द्वाभ्यां वा, त्रिभिर्वा, उत्कृष्टेन अष्टभिराकर्षैः वध्नन्ति इत्याशयः,

अथ पूर्वोक्तषड्विधायुष्कवन्धक जीवानामल्पबहुत्ववक्तव्यतां प्ररूपयन्नाह— 'एतेस्त्रिणं गंते ! जीवाणं जातिनामनिहत्ताउयं जहणणेणं एक्केण वा, दोहिं वा, तीहि वा, उक्कोसेणं अट्ठहि आगरिसेहि पकरेमाणणं कतरे कतरेहितो अप्पा वा बहुया वा, तुल्ला वा, विसेस्साहिया वा ?' गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एतेषां खलु पूर्वोक्तानां जीवानां जातिनामनिधत्तायुष्यं जघन्येन एकेन वा, द्वाभ्यां वा,

ये सब जीव भी जघन्य एक, दो अथवा तीन आकर्षों से एवं उत्कृष्ट आठ आकर्षों से—जातिनामनिधत्तायु का बन्ध करते हैं। इसी प्रकार गति नामनिधत्तायु, स्थितिनामनिधत्तायु अवगाहनानामनिधत्तायु, प्रदेशनामनिधत्तायु और अनुभावनामनिधत्तायु का भी जघन्य एक, दो, तीन और उत्कृष्ट आठ आकर्षों से बन्ध करते हैं।

पूर्वोक्त छह प्रकार की आयु के बन्धक जीवों का अल्प बहुत्व कहते हैं—

गौतम—हे भगवन् ! जातिनामनिधत्ता आयु को जघन्य एक, दो या तीन आकर्षों तथा उत्कृष्ट आठ आकर्षों से बधने वाले जीवों में कौन किससे अल्प बहुत तुल्य या विशेषाधिक हैं ?

तेसञ्च उत्कृष्ट आठ आकर्षोथी जातिनाम निधत्तायुना षड् करे छे अेज प्रकारे गतिनाम निधत्तायु, स्थिति नाम निधत्तायु, अवगाहनानाम निधत्तायु, प्रदेश नाम निधत्तायु अने अनुभावनाम निधत्तायुना पञ्च जघन्यअेक, जे त्रय अने उत्कृष्ट आठ आकर्षोथी बन्ध करे छे

पूर्वोक्त छ प्रकारना आयुना षड्क लोवोना अल्पबहुत्वना विषयमा अत्रकार कडे छे—

श्री गौतम स्वामी—भगवन् ! जातिनाम निधत्तायुना जघन्य अेक जे अजर त्रय आकर्षो तथा उत्कृष्ट आठ आकर्षोथी आधवावाणा लोवोमा षायु जेनाथी अल्प धण्णा, तुल्य अजर विशेषाधिक छे ?

त्रिभिर्वा उत्कृष्टेन अष्टभिराकर्षैः प्रकुर्वताम्-वध्नताम् मध्ये कतरे जीवाः कतरे
 म्यो जीवेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति, भग-
 वान् आह-‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘सञ्चत्थोवा जीवा जातिनामनिहत्ताउयं अट्टहि
 आगरिसेहि पकरेमाणा’ सर्वस्तोकाः-सर्वेभ्योऽल्पा जीवाः जातिनामनिधत्तायु-
 ष्यम् अष्टभिराकर्षैः प्रकुर्वन्तः-वध्नन्तो भवन्ति तेभ्यः-‘सत्तहि आगरिसेहि पक-
 रेमाणा सखेज्जगुणा’ सप्तभिराकर्षैः जातिनामनिधत्तायुष्यं प्रकुर्वन्तः,-वध्नन्तः
 संख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि-‘छहि आगरिसेहि पकरेमाणा संखेज्जगुणा’
 षड्भिराकर्षैः जातिनामनिधत्तायुष्यं प्रकुर्वन्तः-वध्नन्तः संख्येयगुणा भवन्ति,
 तेभ्योऽपि-‘एवं पंचहि संखेज्जगुणा’ एवम् पूर्वोक्तरीत्या पञ्चभिराकर्षैः जाति-
 नामनिधत्तायुष्यं प्रकुर्वन्तः संख्येयगुणा भवन्ति तदपेक्षयापि ‘चउहि संखिज्ज-
 गुणा’ चतुर्भिराकर्षैः तथाविधायुष्यं प्रकुर्वन्तः संख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्यो
 ऽपि-‘तिहि संखेज्जगुणा’ त्रिभिराकर्षैः पूर्वोक्तायुष्यं प्रकुर्वन्तः संख्येयगुणा
 भवन्ति, तेभ्योऽपि ‘दोहि संखेज्जगुणा’ द्वाम्यामाकर्षाम्यामुक्तायुष्यं वध्नन्तः
 संख्येयगुणा भवन्ति, तेभ्योऽपि-‘एणेण आगरिसेणं पकरेमाणा संखेज्जगुणा’

भगवान् गौतम ! सब से कम जीव जातिनामनिधत्तायु को आठ
 आकर्षों से बांधने वाले हैं । सात आकर्षों से बांधने वाले उनकी
 अपेक्षा संख्यातगुणा अधिक हैं, छह आकर्षों से बांधने वाले उनसे भी
 संख्यातगुणा अधिक हैं, पांच आकर्षों से बांधने वाले उनसे संख्या-
 तगुणा अधिक हैं, चार आकर्षों से बांधने वाले उनसे संख्यातगुणा
 अधिक हैं तीन आकर्षों से बांधने वाले उनसे संख्यातगुणा अधिक
 हैं, दो आकर्षों से बांधने वाले उनसे संख्यातगुणा अधिक हैं और
 एक आकर्ष से बांधने वाले उनसे संख्यातगुणा अधिक हैं ।

श्री भगवान् —गौतम ! अर्थात् अष्टा एव जातिनाम निधत्तायुना आठ
 आकर्षेर्थात् आधवावाणा छे, सात आकर्षेर्थात् आधवावाणा तेमनी अपेक्षाये स च्यात
 गणा अधिक छे आकर्षेर्थात् आधवावाणा तेमनाथी पणु स च्यातगणा अधिक छे
 याथ आकर्षेर्थात् आधवावाणा तेमनाथी पणु स च्यात गणा अधिक छे, याथ
 आकर्षेर्थात् आधवावाणा तेमनाथी स च्यातगणा अधिक छे, त्रणु आकर्षेर्थात्
 आधवावाणा तेमनाथी स च्यातगणा अधिक छे, जे आकर्षेर्थात् आधवावाणा
 तेमनाथी स च्यातगणा अधिक छे अने अेक आकर्षेर्थात् आधवावाणा तेमनाथी
 पणु स च्यातगणा अधिक छे

एकेन आकर्षणोक्तायुष्यं प्रकुर्वन्तः संख्येयगुणा भवन्ति 'एवं एतेषां अभिलाषेणं जाव अणुभावनिहत्ताउयं' एवम्-उत्तरीत्या, एतेन पूर्वोक्तेन अभिलाषेणं जावत् गतिनामनिधत्तायुष्यम्, स्थितिनामनिधत्तायुष्यम् अवगाहना नामनिधत्तायुष्यम्, प्रदेशनामनिधत्तायुष्यम् अनुभावनामनिधत्तायुष्यं च वन्ततां जीवानामपि अल्प-बहुत्वमवसेयम् 'एवं एते छप्पिय अप्पावहुदडगा जीवादीया भाणियच्चा' एवम्-उत्तरीत्या, एते पूर्वोक्ताः पडपि अल्पबहुत्वदण्डका जीवादिका भणितव्यः-वक्तव्याः 'इति पण्णवणाए चर्कतियपयं छट्ट समत्तं'

इतिश्री विश्वविख्यात-जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचकपञ्चदशभाषाकलित-ललित कलापालापकप्रविशुद्धगद्यपद्यानैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-श्री-शाहू छत्रपतिकोल्हापुरराजप्रदत्त-'जैनशास्त्राचार्य'-पदविभूषित-कोल्हापुरराजगुरु-वालब्रह्मचारि जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्री-घासीलाल-व्रतिविरचितायां श्री प्रज्ञापना-सूत्रस्य प्रमेयबोधिन्व्याख्यायां व्याख्यायां
॥ पठं व्युत्क्रान्तिपदं समाप्तम् ॥

इसी प्रकार का अल्पबहुत्व गतिनामनिधत्तायु, स्थितिनामनिधत्तायु, अवगाहना नाम निधत्तायु, प्रदेशनामनिधत्तायु और अनुभाव नामनिधत्तायु को बांधने वालों का जान लेना चाहिए। इस प्रकार अल्प बहुत्व संबन्धी इन छहों दंडकों को जीव से आरंभ करके कह लेना चाहिए।

श्री जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्यश्री घासीलाल व्रतिविरचित प्रज्ञापना सूत्र की प्रमेयबोधिनि व्याख्या में

॥ छट्ठा व्युत्क्रान्तिपद समाप्त ॥६॥

आ प्रकारे अल्पबहुत्व गतिनाम निधत्तायु स्थिति नाम निधत्तायु, अवगाहना नाम निधत्तायु प्रदेश नाम निधत्तायु अने अनुभाव नाम निधत्तायु ने भाषावापाणायनेने जण्णी लेवा जेधये आ रीते अल्प बहुत्व संबन्धी आ छये दंडकेने एवधी आरंभ करीने कडेवा जेधये

श्री जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्यश्री घासीलालव्रतिविरचित प्रज्ञापना

सूत्रनी प्रमेयबोधिनी दीकतु छट्ठ व्युत्क्रान्तिपद समाप्त ॥६॥